

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

तस्यां च शास्त्र्यादिविरुदालङ्कृतेन

विश्वबन्धुना

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढिविशेषाणामुपनिशानां विदुषां सहयोगतश्च

परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपनिशानां

विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादितायाम् अयं

६मो ग्रन्थः

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१५ वि०

THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

Edited

*with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty
specially Trained Scholars and under the general
guidance of an international
Advisory Board*

By

VISHVA BANDHU, *Shastri, M. A., M.O.L., O.d'A. Fr.*

VOLUME IX

HOSHIARPUR

Published by the V. V. R. Institute

1958

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a *universal vocabulary register* of about 500 Vedic works,
with complete textual reference and critical commentary bearing on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into fifteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A.-V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayānanda Brāhma Mahāvidyālaya.

In collaboration with

**BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH, PITAMBAR DATT,
AND MANY OTHER SCHOLARS.**

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART II

ॐ-ॐ

Pages I-IV and 761-1456.

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE.

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्वेदाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः
प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्मणमहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य
च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

विश्वकण्ठकुन्दा

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां ग्रहणां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

२यः खण्डः

ऋ-न

पृष्ठानि, I-IV च ७६१-१४५६ च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१५ वि०

(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Shastri,
at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur.
First edition, first issue, 1958. Quality III, 250 Copies.
Price Rs. 20/-.


(अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि. वै. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितश्च ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१५ वि. । ३५० कोटिः, २५० प्रतिष्ठितयः ।

मूल्यम् २०) रु. ।



Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D.B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia and other donors.

अथ
वैदिक-पदानुक्रम-कोषे
वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे
द्वितीयः खण्डः

ऋ

ऋ^३ शुभ्रा ८, ३; ऋत १, ४; पाग १, ४, ५७; उः पा १, १, ५१; पावा १, १, ३; ५१^२; ऋम् ऋत ३, ५, २.
 ऋ-ऋ-ऋ३ याशि २, ९४.
 ऋ-ल-वर्ण- -र्णाभ्याम् शुभ्रा ४, १७; -र्णे शुभ्रा ४, १४८; -र्णौ माशि ९, ८.
 ऋ-प्रक- -कौ शुभ्रा १, ६५.
 ऋ-कार- -रः अप ४७, ३, ३; शुभ्रा ४, ६०; तैप्रा ५, ९; शैशि ८४; कौशि ७८; भाशि २५; नाशि २, ६, ४; ७; -रम् ऋप्रा १४, ४५; माशि १०, ३; नाशि २, ६, ३; -राः नाशि २, ६, ५; -रात् ऋप्रा ७, १; शौच ३, ८५; -रे ऋप्रा २, ३२; ६४; १३, ३४; शुभ्रा ३, ९४; ४, ५०; १६६; माशि १२, ६; याशि २, १९; -रेण शैशि ११९.
 ऋकार-लकार- -रयोः पावा १, १, ९.
 ऋकार-गुण-वलीयस्त्व- -स्वात् पावा ६, ४, ६२.
 ऋकार-ग्रहण- -णम् पावा ८, ४, १; पाप्रवा ४, ११.
 ऋकार-द्वय-संयुत- -तम् शैशि ३३२.
 ऋकार-पर- -रः शुभ्रा ४, १२५; -रे तैप्रा १०, ८.
 ऋकार-प्रत्यय^b- -यः माशि १०, १.
 ऋकार-रेफ-वत्- -वति तैप्रा ६, ८.

ऋकार-रेफ-वकार- -राः ऋप्रा ५, ४०.
 ऋकार-रेफ-संयुक्त- -क्तम् माशि १२, ३.
 ऋकार-रेफा(फ-अ)र्-उदय^c- -यः शुभ्रा ३, ८२.
 ऋकार(र-ऋ)र्कार(र-ल)क्कार- -रेषु तैप्रा २, १८.
 ऋकार(र-ल)क्कार- -रौ ऋप्रा १, ४१; १२, २; तैप्रा १, ३१.
 ऋकार-व(र्ण)र्णा^d- -र्णा ऋप्रा ६, ४६.
 ऋकारा(र-अ)क्षर- -रयोः अप ४७, ३, १.
 ऋकारा(र-आ)दि- -दयः ऋप्रा १, ६५.
 ऋकारा(र-अ)न्त^d- -न्तात् शौच २, ९९; -न्तानाम् पावा ६, ३, २४; -न्ते भाशि ८८.
 ऋ-पर^d- -रम् ऋप्रा १५, १२.
 ऋ-वचन- -नात्, -ने पावा ६, ४, ४७.
 ऋ-वर्ण- -र्णः आशि १, २६; -र्णम् शौच १, ३७; नाशि २, ६, २; -र्णस्य अप ४७, १, २०; शौच १, ७१; पावा १, १, ५०^३; -र्णात् पावा ८, ४, १; -र्णे शुभ्रा ४, ११३; शौच ३, ४६; नाशि २, ६, ३.
 ऋवर्ण-प्रक-क-ख-ग-घ-ङ- -ङाः याशि २, ९४.
 ऋवर्ण-देश-संदेह- -हः अप ४७, ३, २.
 ऋवर्ण-रेफ-पकार- -रेभ्यः शौच

३, ७५.
 ऋवर्ण-रेफ-संयुक्त- -क्तम् माशि १२, ३.
 ऋवर्ण-व्यञ्जना (न-आ) दि- -ग^e- -गः याशि २, ४४.
 ऋवर्णो(र्ण-आ)देश- -शस्य पावा १, १, ५०.
 ऋवर्णो(र्ण-उ)दय^d- -यः याशि २, ५६.
 र-ऋ-वर्ण^d- -र्णे ऋप्रा ९, ६.
 ऋ-स्थ- -स्थम् ऋत ३, ५, ७.
 ✓ ऋ^३ पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रापणयोः; जु. पर. गतौ; ✓ ऋच्छ^३ उदा. पर. गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु, ऋ^३अर्थात् वौश्री ७, १० : ५; हिश्री ८, ५; २९.
 ऋ^३इयति निघ २, १४; या ९, ४६.
 ऋणोति निघ २, १४^३.
 ऋच्छति आपश्रौ १२, ७, ४^३; हिश्री १०, ७, १६^३; सु १९, ११;
 अप; ऋनिघ २, १४; ३, ५; या ४, १८; ९, २; ऋच्छन्ति वाध ३, १२; ऋप्रा ५, १८^३; ऋच्छन्तु आश्रौ ८, १४, १८; शाश्रौ ६, ३, १-७; ८, १२, ११; आपश्रौ; ऋच्छन्तु अप १९, १, ९^३; ऋच्छ आपश्रौ ६, ६, ८^३; ऋच्छत या ३, १७; ऋच्छत् आपश्रौ ५, २, ४^३; ऋच्छेत् आपश्रौ ११, १, ४; १४, १३, ७; वाधूश्रौ ३, ३३ : ३; हिश्री १०, ७, १६; १५, ८, ३३; ऋच्छेयुः शाश्रौ १३, ३, ४. -
 ऋ^३वारिम द्राश्रौ ६, ४, ११; लाश्रौ २, १३, १२; अरिण्यति वाधूश्रौ

a) =वर्ण-विशेष- । b) विप. । वस. उप. भाप. । c) विप. । द्वस. > वस. । d) विप. । वस. ।

e) विप. । मलो. कस. > पस. > उस. उप. < ✓ गम् । f) शिति ऋच्छाऽऽदेशः (तु. वैप१) । या १, ९; १८; २, ७; २५; ५, ७; ९, ८; ३२ पा ३, १, ५६; ७, २, ६६; ७४; ३, ३६; ७८; ८०; ४, ११; २९; ७७ परामृष्टः द्र. ।

३, १९ : १७; ऋकारत् भाशि
 ११५; १२०; ऋकारम् आग्निगृ
 ३, ८, ३ : २८; वौषि १, १६ :
 १५; हिपि १६ : ११; कारिप्यत्
 वाधुश्रौ ३, २२ : १२.
 ऋच्छ(व>)न्ती-न्ती या१, ९१.
 ऋक्त-पाठवृ ३, ८९; -०त्
 शांश्रौ २, ७, १४; -तः वौश्रौ
 १०, ५३ : ४; माश्रौ ६, २, ५,
 २३; अप ४८, १३७; वृदे
 १, १२४; निघ ५, ४; ङ्या
 १०, ४०; ४२; ऋप्रा ४, ५२;
 उस् ८, १९; -तम् आश्रौ २,
 ९, १०; ३, ८, १; ४,
 ५, ७; ५, २, १४; ६, २, ९;
 शांश्रौ २, ६, १०^b; ५, ८, ५४;
 काश्रौ; आपश्रौ ६, ५, ४^b;
 काश्रौत् १३६ : १३०; १४०;
 वौश्रौ ३, ५ : १^b; माश्रौ ६, १०,
 १^b; वैश्रौ २, २ : १५^b; हिश्रौ
 ३, ७, २२^b; वैताश्रौ ७, ४^b;
 आग्निगृ २^b, ४, १० : २४; ६, ७ :
 १८; कौस् ३, ४^b; अप ४५, १,
 ९^b; शंष ११६ : ६१^b; निघ १,
 १२; २, १०; ३, १०; या २,
 २५^b; ४, १९^b; १४, ११^b;
 ३१; पाग १, ४, ५७^b;
 -तस्य आश्रौ १, ३, २५^b;
 शांश्रौ; लाश्रौ ९, १०, ६^b; आपमं
 २, ११, २३; निघ १, १२;
 या ३, ४^b; ६, १६; २२^b;
 ७, २४^b; ८, ६^b; १९^b; २१;

१०, १६; ४१^b; १४, २; ११;
 १४^b; २५; -तात् शांश्रौ १४,
 १६, १०; आपश्रौ ४, १, ६; १६,
 १६; ६, ५, ३; ९, ३; ११, ४; १४,
 ६; माश्रौ ६, १, ५; हिश्रौ ६, ४,
 ३३; -तानि शांश्रौ १५, ३,
 ७; -ताय शांश्रौ २, ७, १३;
 आपश्रौ १६, ३१, १; वौश्रौ २६,
 ३१ : ८^b; वैश्रौ १८, २० : ५३;
 हिश्रौ ११, ८, ४; -ते आपश्रौ
 ५, १०, १; ८, ४, २^b; १०, ९, ४;
 १६, ३१, १; वौश्रौ ५, ४ : २६^b;
 वैश्रौ १८, २० : ५४; माश्रौ १,
 ७, २, २३; हिश्रौ ३, ३, ४१; ५,
 १, ४५^b; १०, २, ६; ११, ८, ४;
 आगृ १, ५, ४^b; कागृ; पावा ६,
 १, ८८^b; -तेन शांश्रौ २, ६,
 ११^b××; काश्रौ; आपश्रौ ६, ५,
 ४^b; वौश्रौ ३, ५ : २^b; माश्रौ ६,
 १०, १^b; वैश्रौ २, २ : १६^b;
 हिश्रौ ३, ७, २२^b; वैताश्रौ ७ :
 २०^b; आग्निगृ २, ४, १० : २३^b;
 ६, ७ : १९^b; कौस् ६, २०^b;
 अप ४५, १, १०^b; वैघ २,
 १४, १०^b; या ११, १५^b;
 -तेभ्यः आपश्रौ १६, ३१, १;
 वैश्रौ १८, २० : ५४; हिश्रौ ११,
 ८, ४.
 ऋक्त-जा^b -जाः या १४, ३१^b.
 ऋक्त-जित^b -जित् वौश्रौ
 १०, ५३ : ३^b; माश्रौ ६, २, ५,
 २३; -जितम् शंष ११६ : ५१^b.

ऋक्त-ज्ञा^b -ज्ञः, -ज्ञा वौषि
 २, ९, १२^b.
 ऋक्त-ज्ञा^b -ज्ञाः^b वौश्रौ २, ८ :
 २९; या ११, १८^b; -०ज्ञाः
 गौषि २, ५, १४; अप ४४, ४,
 १२.
 ऋक्त-जय^b -जय आग्निगृ १,
 २, २ : २१; भागृ ३, १० : ६;
 हिगृ २, १९, ६.
 ऋक्त-दे(व>)वी^b -व्यः ऋअ
 २, ४, २३.
 ऋक्त-वामन्^b -मा शांश्रौ ६,
 १२, २३; आपश्रौ ११, १४, १०;
 १७, २०, १; वौश्रौ ६, २९ : १९;
 १०, ५४ : १४; १४, १७ : ४;
 माश्रौ ६, २, ५, ३२; वैश्रौ १४,
 १३ : ६; हिश्रौ १०, ३, ४२; १२,
 ६, १५; २२, १, ३१; जैश्रौ १३ :
 १७; द्राश्रौ ४, २, ११; लाश्रौ २,
 २, २०; आग्निगृ १, १, २ : २०;
 ५, २ : ३७; ६, २ : ७; मागृ १,
 ११, १५; वैगृ १, १८ : १; हिगृ
 १, ३, १३; वृअ १, ३४.
 ऋक्त-धीति^b -तिम् वौश्रौ २५,
 ४ : १२^b.
 ऋक्त-निघन^b -तम् द्राश्रौ २, १,
 १२; लाश्रौ १, ५, ९.
 ऋक्त-पर्ण^b -०र्ण या ८, १९.
 ऋक्त-पा^b -०पाः वौश्रौ ८, १२ :
 २९^b.
 ऋक्त-पात्र -त्रम् द्राश्रौ ३, १,
 १८; लाश्रौ १, ९, २०.

- a) वैष १ द्र. । b) पाभे. वैष २, ३ खं. तैत्रा २, १, ११, १ टि. द्र. । c) = द्रव्य-? । d) = द्वादशा-
 ग्निरोष्वन्यतम- । e) पाभे. वैष १ सत्यस्य मा २३, २९ टि. द्र. । f) पाभे. वैष १, १९५ f द्र. ।
 g) पाभे. वैष १, १९७ g द्र. । h) पाभे. वैष २, ३ खं. ऋतम् मंत्रा २, ४, १० टि. द्र. । i) = एको-
 नपद्यातमस्त्वन्यतम- । j) विप. । उत्त. कः प्र. । k) पाभे. वैष १ परि. ऋतज्ञाः टि. द्र. ।
 l) व्यप. । उत्त. सजन्तम् । m) विप. । वस. । n) विप. (आञ्चदोह- [साम-विशेष-]) । वस. ।
 o) विप. (वनस्पति- [अग्नि-]) । वस. ।

ऋत-पेय^१ - -यः काश्रौ २२, ८, १०; -यस्य वौश्रौ १८, ३४ : ४; -ये द्राश्रौ १५, ४, १८; लाश्रौ ५, १२, २२; ८, ९, ७१; -येन आश्रौ ९, ७, ३५; शाश्रौ १४, १६, १; आपश्रौ २२, ९, ११; काश्रौसं २९ : १४; वौश्रौ १८, ३२ : १; हिश्रौ १७, ४, ६^२.

ऋतपेय-त्व- -त्वम् वौश्रौ १८, ३४ : ४.

ऋत-प्रजा(त>)ता^१ - -ताः वौश्रौ ७, ५ : २२; १४, ४ : ३८.

ऋत-भाग^१ - पाग ४, १, १०४; -गाः^१ वौश्रौप्र ३ : ६.

भार्तभाग- पा ४, १, १०४.

भार्तभागी->शी-पुत्र- -त्रः वौश्रौ २१, १६ : १२.

√ऋतय, ऋतयन्त ऋप्रा ९, २११.

ऋतयु- -युः वौश्रौ १८, ४० : ८; ऋप्रा ९, १५.

ऋत-युक्ति^१ - -क्तिम् ऋप्रा ९, २११.

ऋत-व(त>)ती- -ती वाश्रौ १४, १६, १०; -त्यः या २, २५.

ऋत-वाक्^१ - -केन ऋप्रा ९, १८१.

ऋत-वादिन्- -दिभ्यः आश्रौ ४, ५, ७; शाश्रौ ५, ८, ५; वौश्रौ ६, ८९ : १८; २१ : १६; द्राश्रौ १४, २, ६; लाश्रौ ५, ६, ९; वैताश्रौ १३, २४.

ऋत-शब्द- -ब्दे ऋप्रा १७, ३३.

ऋत-श्री^१ - -श्रीः आपश्रौ २, ३, ७; वौश्रौ १, ११ : ३२; माश्रौ २, ३, ९; हिश्रौ १, ६, १०.

ऋत-सत्य- -त्याभ्याम्^१ आश्रौ २, २, ११; वौश्रौ १८, ३३ : २; माश्रौ ६, १०, १; माश्रौ १, ६, १, १०; वाश्रौ १, ५, २, १५; -त्ये वौश्रौ १८, ३३ : ७^२.

ऋतसत्य-शील^१ - -लः आश्रौ २, १, ५.

ऋत-सद्, ध्- -सत् आपश्रौ १६, २९, २; वौश्रौ ७, १२ : ३७; वाश्रौ; या १४, ३१; -सधः^१ आपश्रौ २, ३, १३; वैश्रौ ५, २ : ५; हिश्रौ १, ६, १११.

ऋत-सदन^१ - -नम् काश्रौ ७, ९, २६; २७; आपश्रौ २, ३, ७; वौश्रौ; -ने द्राश्रौ ३, २, ६; ३, ५; लाश्रौ १, १०, ५; २९.

ऋतसदनी- -नी काश्रौ ७, ९, २५; आपश्रौ १०, ३१, २; वैश्रौ १२, २१ : १७.

ऋत-सदनि^१ - -निः भाश्रौ १०, २०, १६; हिश्रौ ७, ३, ५०.

ऋत-साप्^१ - -सापः वौध १, ६, ३१.

ऋत-स्-पति^१ - -ते आश्रौ ३, ८, १; वाश्रौ ३, १८, ५; ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९; शुप्रा ३, ५१.

ऋता(त-आ)दि- -दि वैश्र १, १८ : १३.

√ऋताय>ऋतायत्- -यते आपश्रौ ८, १४, २४; १६, २५,

१; वौश्रौ १०, ३३ : २; माश्रौ ६, १, ७, २२; वाश्रौ २, १, ६, ३६; वैश्रौ; -यन् ऋप्रा ९, २२.

ऋतायि(न् >)नी^१ - -नी ऋप्रा ९, १४१.

ऋतायु- -यवः आश्रौ ४, १३, ७; शाश्रौ ११, ६, ८; १४, ५६, ४; वौश्रौ ३, १४ : ९९; तैप्रा ३, २; -युमिः ऋप्रा ९, ५१; -युम्यः वौश्रौ ७, ४ : १४; -युभ्याम् आपश्रौ १२, १४, १२; वौश्रौ ७, ६ : ४५; १८, २८ : ९; माश्रौ २, ३, ५, ६; वैश्रौ १५, १६ : ३; -युम् ऋप्रा ९, २२; -योः या १०, ४५१; ऋप्रा ९, २२.

ऋ (त>) ता-वन्^१ - -वः ऋप्रा २, ४१; -वा आपश्रौ १४, १७, १; २४, १३, ३; हिश्रौ १५, ५, १; वैताश्रौ ३३, २०; गौपि २, ४, ७; ऋप्रा ९, ११; -वानम् आश्रौ ८, १०, ३; शाश्रौ ३, ३, ५; १०, १०, ८; वौश्रौ १३, ९ : ६; माश्रौ ५, १, ५ ३२; निस् ९, ५ : १४; शुभ्र; -न्ने ऋप्रा ९, २४.

ऋताव(इ>)री^१ - -री आश्रौ १, ७, ७; शाश्रौ १, १२, १; शौच ३, २४; -रीः वौश्रौ ९, २ : १८; ऋप्रा ९, ५१; -०रीः काश्रौ ४, २, ३२; आपश्रौ १, १३, १०; वौश्रौ; या २, २५१. ऋ (त>) ता-वृत्^१ - -वृत्तः^१ वैताश्रौ १३, २०^१; -वृत्तौ अप ४८, ६०^१.

a) = एकाह-विशेष- । b) ऋतु^१ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) वैप १ द्र. । d) वैप

२, ३खं. द्र. । e) बहु. <भार्तभाग- । f) पामे. वैप २, ३खं. ऋतुम् तैप्रा २, १, ११, १ टि. द्र. । g) विप. । वस. वा उस. वा । h) विप. (२अप्र- । i) नाप. । उस. उप. अधिकरणे अनिः प्र. उसं. (पाठ २, १०२) ।

j) सपा. °वृत्तः <> °वृधः इति पामे. । k) °वृधः इति. C. । l) = द्यावापृथिवी- ।

कृत् (त>) ता-वृध^३- वृधः
शांश्रौ १०, १०, ७; ११, ८, ३;
आपश्रौ ५, १९, ४; ११, १, ९^b;
वौश्रौ २, १० : १५; ६^b, १९ :
९; २१ : ८; २४, २६ : ५;
माश्रौ १२, १, ७^b; माश्रौ २, २,
१, ११^b; ५, २, ७, ५; वैश्रौ ८,
१ : ९; १२, २३ : ४^b; हिश्रौ ३,
५, ५; ४, ३, ५४; ७, ३, ७६^b;
वैताश्रौ; विध ४८, १०^b; या १२,
३३^०; -वृधा आश्रौ ३, ८, १;
शांश्रौ ८, ३, ११; आपश्रौ १३,
१३, ८; वौश्रौ; -०वृधा या ५,
२२; -वृधौ वृदे ३, ३८; ४,
१२५; -०वृधौ क्रप्रा १७, ३१.
कृ(त>)ता-पाह^३- पा ८, ३,
१०९; -कृपात् काश्रौ १८, ५,
१६; आपश्रौ १७, २०, १; वौश्रौ
१०, ५४; १३; १४, १७; ४; माश्रौ.
√कृति>कृतयत्- यन्
वौश्रौ ९, ७ : ४^०.

कृति^३->कृति-कर- पा ३, २, ४३.
कृति-मत्->√कृतीय^३,
कृतीयते आपश्रौ २१, १९, ५.
कृ(ति>)ती-पह^३- पा ८, ३,
१०९; -कृपहम् आश्रौ ५, १६,
२; ७, ४, ३; ८, ६, १६; शांश्रौ १८,
१०, ८; वैताश्रौ २२, ७; ३१,
२३; ३३, ७; ४२, ५; क्रप्रा ९,
३; शुप्रा ३, १२९.

√कृ^० पाधा. स्वा. पर. हिंसायाम्.

√कृह्, कृह्, कानृहुः^३ पा ६, १,
३६^०.

कृहत्-हत् अप ४८, ६७^०;
निध ३, २.

कृका-पाठभो २, २, ६.

कृ-चोदना- प्रम्. √कृच् द्र.

कृकृतु^३- (>कार्कतव- पा.) पाग
४, ३, १६४.

कृक्-वत्-, वन्- प्रम्. √कृच् द्र.

√कृळ^०.

कृक्ष^३- पाठ ३, ६७; पाग २, १, ५६;
४, २, ८६; -क्षः विध ४४, ४१;
-क्षम् अप ५७, २, १; अशां १,
६; २-३, ४; ५; ४, ३-५;
५, १; ३; ४; ६-८; -क्षाः वौश्रौ

१९, १० : ३२^०; कप्र ३, ६,
११; अप ४८, १२०^०; अशां ६,
६; निध ३, २९^०; या ३,
२०^०कृ^०; वेज्यो १८; -क्षाणि
कप्र १, ९, ३; अशां १, १; शंघ
११६; ४८; -क्षे वौश्रौ २, ५; ६^०;
अप १४, १, ५; -क्षेभ्यः मात् २,
१२, १७; -क्षेषु अप ५२, १५, ३.

१माक्ष^३- -क्षः आपश्रौ २२,
१२, ७.

वाक्षो(ल्लि-उ)पासह^३- कः
शांश्रौ १४, ३३, २०.

कृक्ष-तत् (:) आपश्रौ १०, २४, ६.

कृक्ष-वत्^३- पा ४, २, ८६; -वन्तम्
शंघ ११६ : १०.

कृक्ष-विभाग- नो अप ५६, १, १.

कृक्ष^३- पाग ४, १, १८; १०५; -क्षम्
शंघ ११६ : ५६^०; ६१^०;
-क्षाणाम् आश्रौ १२, ११, २;
आपश्रौ २४, ७, ६; हिश्रौ २१,
३, १०.

कृक्ष-क्षस्य कृक्ष २, ८, ७४.
वाक्ष्य- पा ४, १, १०५.

वाक्ष्यार्थण- पा ४, १, १८.

कृक्षा(ल्लि-अ)क्षमेध- धयोः कृक्ष
२, ८, ६८; वृदे ६, १२.

कृक्षपाद^३- पादम् शंघ ११६ :
५४^०.

कृक्षर^०- पाठ ३, ७५; या ९,
३२^०.

कृक्-संहिता- प्रम्. √कृच् द्र.

कृक्-स्व(र>)रा^३- रा नाशि २,
३, ८.

कृगक्षर- प्रम्. √कृच् द्र.

?कृगाजोयर्माजः^३ चाश्र १६ : ४.

कृग्-गुण- प्रम्. √कृच् द्र.

√कृच् [=√अर्च्] पाधा. तुदा. पर.
स्तुतौ, कृानृचुः पा ६, १, ३६६;
अप्रा ३, ४, १.

अर्च्य- पा ७, ३, ६६.

कृकृन्^३- कभिः आश्रौ ५, २०, ८;
९, ६, २; शांश्रौ ११, २, १३; -का
माश्रौ ४, १, २३; शैशि ३३०;
-काणः शैशि १२१.

कृमन्^३->कृमिय^३- यन्
वौश्रौ १८, ४८ : १५; कृया ७,
२६^०; -चाणि वौश्रौ ८, १८,

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ ७६५ j टि. द्र. । c) = √रि इति [पक्षे] BPG. । d) नाप. ।

व्यु. ? । कृक्षन्- इति भाष्ये, कृक्षन्- इति [पक्षे] पाका. । e) <√कृ + √क्षि इति BPG. ।
f) = भालूक-, नक्षत्र-, पर्वत- प्रम्. । g) विर. । विकाराथे भञ् प्र. । h) विप. (अध-रथ-) । वत्त. उप.
= वृत्तार- । i) विप., नाप. । j) = कृपि-विशेष- । व्यु. ? । k) पाठः ? । दक्षम् इति अपु २१९, २५ । l) पाठः ? ।
दक्षम् इति अपु २१९, २० । m) = महद्-विशेष- । व्यु. ? । n) पाठः ? । कृक्षपादम् इति अपु २१९, ३३ ।
o) अर्थः व्यु. च ? । <√कृप् इति पाठ. । p) = कृष्टक- । <√कृच् इति । q) विप. । वत्त. पूष.
अर्थः ? । r) पाठः ? कृग्माजोयर्माजः इति स्यात् ? (तु. काठ १६, ३) । s) <√अर्च् [पूजयाम्] इति ।

८; वैश्रौ १६, २२: १०.

कृच्^१- पाठश्च २, ५७; कृक्
 आपश्रौ ४, ४, ४; ९, २, ३;
 १६; ३२, ४; वौश्रौ; निघ १,
 १११; या १, ८××; कृक्षु शाश्रौ
 ६, १, ४; वाश्रौ; पा ८, ३,
 ८; कृग्भिः आपश्रौ १६, १, ४;
 वौश्रौ; या १३, ७^२; कृग्भ्यः
 जैगृ २, ८ : ७; वौष ३, ९, ५;
 वृदे १, १; कृग्भ्याम् शाश्रौ ४,
 १४, १५; १५, २३, १; काश्रौ;
 कृचः आश्रौ २, १३, ८××;
 शाश्रौ; हिश्रौ ६, ३, ९^१?^२;
 आग्निगृ २, १, ४ : २^१?^२; वैगृ ३,
 १५ : १८^१?^२; हिगृ २, ३, ९^१?^२;
 अर्ष ४: ५^१?^२; या १, ८; ७, १××;
 पा ६, ३, ५५; कृचम् आश्रौ
 १, १, १७××; शाश्रौ; या २, ८;
 ७, ८; कृचम् कृचम् आश्रौ ४, ६,
 २; कृचा आश्रौ २, १९, ३५; ८,
 २, ९; शाश्रौ; या ३, १××;
 कृचाऽकृचा वौश्रौ २२, १ :
 १२; ६ : ४; ९ : १६; कौसू
 ७६, ३१; कृचाम् शाश्रौ १३,
 १, ६; काश्रौ; या १, ८^१?^२; कृचि
 शाश्रौ १५, २२, १; आपश्रौ १३,
 १, ६, ३; २४, १३, १२;
 वौश्रौ; या २, २०××; पा ४,
 १, ९; ६, ३, १३३; ७, ४, ३९;
 पावा ६, १, ३७; कृचिऽकृचि
 शाश्रौ १५, २२, १; कृचचे काश्रौ
 १७, ५, ९; आपश्रौ १६, २७,
 २××; कृचोः कृच २, ५, २;
 कृचौ आश्रौ २, १२, ३; आपश्रौ.

मार्च- > मार्ची^१- -चीं

अश्र ५, ६××; -च्यः अश्र ९,
 ६(६).
 मार्ची-त्रिष्टुभ्-
 -ष्टुभः अश्र ८, १०(४); -ष्टुभौ
 अश्र १५, ६.
 मार्ची-पङ्क्ति-
 -ङ्क्ती अश्र ९, ६(६); १५, ४; ६;
 १४.
 मार्ची-वृहती- -त्यः
 अश्र ८, १०(३); -त्यौ अश्र
 १५, १८.
 मार्च्य(चीं-अ)नुष्टुभ्-
 -नुष्टुप् अश्र १९, १८; -नुष्टुभः
 अश्र ८, १०(४); ११, ३(२);
 १९, १८; -नुष्टुभौ अश्र ९, ६;
 ७; १२, ५(२); १४-१५, ४;
 १६, १; ३.
 मार्च्यु(चीं-उ)ण्विह-
 -ण्विहौ अश्र ५, २६.
 मार्ची(र्च-अ)भ्यान्नाय-
 -ये या २, १३.
 मार्चिक- पा ४, ३, ७२;
 -कम् लाश्रौ ७, ८, ५-७; ९, ७;
 मैश्र २१; निसू २, १० : १३;
 २४; नाशि १, १, २; -कस्य
 साश्र १, १; नाशि १, ८, १;
 -काः मैश्र २४; -कान् द्राश्रौ
 ६, ३, ३; लाश्रौ २, १०, २४;
 -कानि लाश्रौ १०, ९, ७; निसू
 ६, ७ : ५१; -केषु मैश्र २८.
 मार्चिका(कृ-अ)व्यवेत-
 -तान् लाश्रौ ६, १०, २६.
 कृक्-चोदना- -ना लाश्रौ १०,

२, १.
 कृक्-छ(<श)स(:) शाश्रौ १२,
 ११, ८; १५, ३, २.
 कृक्-तस(:) आश्रौ १, १२, ३२;
 आपश्रौ ९, १६, ४; १४, ३२, ७;
 वौश्रौ २७, ४ : ५; माश्रौ.
 कृक्-तन्त्र^१- -न्त्रम् चच्यू ३ :
 १३.
 कृक्-पद- -देषु कृप्रा १२,
 १६.
 कृक्-वत्- -वता शाश्रौ ६, १०,
 ५^१.
 कृक्-शत- -तम् विध ५०,
 ४८.
 कृक्-शस(:) आश्रौ ८२, ६;
 ११; १९; गोगृ.
 कृक्-श्लोक- -काम्याम् या
 ३, ४.
 कृक्-संहिता- -ताम् याशि १
 ३१.
 कृक्-समवाय- -ये माश्रौ ५,
 १, १, १३.
 कृक्-समान्नाय- -येन निसू २
 १२ : ३.
 कृक्-लाम^१- पा ५, ४, ७७;
 पाग २, ४, १४; -^१मयोः
 काश्रौ ७, ३, २०; आपश्रौ १०,
 ८, १६; वौश्रौ; मीसू ९, २, ३०^१;
 -मानि लाश्रौ ६, ९, १२; क्षुसू
 ३, १६ : २; आग्निगृ १, ५, २ :
 ४५; वैगृ १, १८ : ६; जैगृ २,
 ७ : ८; -^१माभ्याम् माश्रौ २,
 १, १, ६; शुप्रा ३, ८१; तैप्रा ३,

a) वैप १ द्र. । b) रू इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैप्रा ३, ७, ६, १८) । c) सपा. कौगृ
 १, १६, १६ शांण १, २४, ८ कृग्वेदम् इति पाठे. । d) चर्ची इति पाठः ? यनि. शोधः । e) तस्येदमीयस्
 तस्यसमूहीयश्च अण् प्र. । f) = कृग्वेद- । कंस. । g) = ग्रन्थ-विशेष- । h) विप. । तत्रभवयि
 यति प्र. कुत्वम् (तु. वैप १ कृक्त्-)

५; -मे भाथ्रौ ९, १३, १; वाधूथ्रौ ४, ३३: ५; जैथ्रौ ७: ९; शुभ्र १, ५०२; तैप्रा ४, ११.

ऋक्साम-देवता- > वल्य-
-त्यम् अथ्र ७, ५४.

ऋक्-सामन्- -न्नः साथ्र १, ३६९; -न्नाम् लाथ्रौ १०, १०, ५; -न्नि शुप्रा २, ५७.

ऋक्-साम-यजुस्- -जूषि वौग ३, ५, ७.

ऋक्सामयजुर्-अङ्ग- -ङ्गानि नाशि १, १, ४.

ऋक्-सूक्त- -क्ताः अथं २: ४.

ऋक्-सूक्ता (क्-अ)र्ध्व-संश्रित-
-तम् वृदे १, ५९.

ऋग्-अक्षर- -रे निस् ३, १२: २७-२९; ३२; ४५; ४, ७: २१.

ऋग्-अन्त- -न्तम् आथ्रौ १, २, १०; वैताथ्रौ २१, ४; -न्ते काथ्रौ १९, ७, ५; -न्तेषु आपथ्रौ २१, २०, ४; माथ्रौ २, ४, २, २५; हिथ्रौ २१, १, १३; गोथ्र ४, ५, २६; -न्तैः आथ्रौ ६, ४, ४; ८, १, ६.

ऋगन्त-क- -के याशि १, १४.

ऋग्-अन्तर- -रम् माशि १३, २.

ऋग्-अयन- (> आर्गयन- [पा., पावाग ८, ४, १०], ण- पावा.) पाग ४, २, ७३.

ऋग्-आगम- -मः मीस् १०, ५, २६.

ऋग्-आदि- -दिभिः द्राग ३, २,

२१; -दीनाम् कप्र २, ४, १६.

ऋग्-आवान- -नम् आथ्रौ ४, ६, १; ५, १, ५; ९, २२; १३, २; २०, ३; ८, १२, २०; वैथ्रौ १३, ८: ५.

ऋग्-उत्तर- -रेण आपथ्रौ २१, ७, १५.

ऋग्-उपसंघान- -ने वौथ्रौ १९, ४: ३५.

ऋग्-ऊढ- -ढम् लाथ्रौ ७, ९, ७^३.

ऋग्-गण- -णः चव्यू २: ९; या १४, १; ३६; -णानाम् शांथ्रौ १, १, २४; -णेषु शांथ्रौ १, १, १८; २२.

ऋग्-गुण- -त्व- -त्वात् मीस् ८, ३, २७.

ऋग्-जप- -पः गौषि २, ४, ९.

ऋग्-दृष्टि- -ष्टीनि निस् ६, ७: ५९.

ऋग्-द्वय- -यम् वैथ्रौ २१, २: १०; -येन कप्र २, १, १०.

ऋग्-भाज्- -भाजः या ७, १३; -भाजि वृदे १, १७; १८; २, ७८.

ऋग्-मत्- -मन्तम् या ७, २६.

ऋग्-यजुष- पा ५, ४, ७७; -पयोः शुभ्र ४, १९४; -पाणि चाथ्र २: ५.

ऋग्-यजुस्- -जुभिः हिथ्रौ १५, ७, १२; १६; आमिगृ २, ३, ५: २७; ३, ३, २: २१; ११, ३: २०; -जुषाम् वाध १३, ३०; गौघ १६, २१; ऋप्रा ११, ७१; उनिस् ३: १८; -जुषी

विध ३०, २६; -जूषि चव्यू २: ३०.

ऋग्-यजुः-सामन्- -मभिः शैशि १६९; १७१; माशि ३, ५; याशि १, ४०; ४६; -म्नाम् अथ ६७, ८, १.

ऋग्यजुःसाम-निर्दग्ध- -ग्धः माशि ३, ३.

ऋग्यजुःसाम-लक्षण- -णम् नाशि १, २, ३.

ऋग्यजुःसाम-वेद- -दानाम् वौध ४, ५, २९.

ऋग्यजुःसाम-संस्थित-
-तम् अथ २, ५, ३.

ऋग्यजुःसामा(म-आ)त्मक-
-काः आमिगृ २, ४, १२: ८.

ऋग्-यजुः-सामगान- -नानि माशि ३, ४^१.

ऋग्-यजुः-सामा(म-अ)थर्वन्-
-र्वभिः आमिगृ २, ५, ७: १७; वौगृ १, ११, १२; वैगृ ३, १३: १०.

ऋग्-यष्ट- -ष्टा या ३, १९.

ऋग्-या(ज्या) > ज्य- -ज्यौ हिथ्रौ २१, २, ४६.

ऋग्-वत् मीस् ९, २, ३४.

ऋग्-विद्- -वित् ऋथ्र ३, ३७; -विद्म् वैताथ्रौ ११, २.

ऋग्-वि(धा) > ध- -धम् वौध १, ४, २५^३.

ऋग्-विधान- -नम् वौध १, ४, २५^३.

ऋग्-विराम- -मः तैप्रा २२, १३.

ऋग्-वेद- -दः शांथ्रौ १, १; २८; अथ ४१, ५, ३; वैगृ,

a) मलो. कस. ।

b) विप. । यस. ।

c) पस. टप. < मा√वे (तन्नुसंताने

(वृ. Pw. Jw. J.) ।

d) *सामगादीनि इति पाठः? यनि. शोधः (वृ. याशि १, ४०) ।

e) उच.

उप. < √विद् [ज्ञाने] ।

-दम् कौट १, १६, १६१^३;
शांठ १, २४, ८१^३; आमिष्ट १,
२, १ : ५; २ : ४०; २, ६, १ :
११; ३ : ४२; हिष्ट; -दस्य वौष्ट
२, ९, ५; भाष्ट ३, १५ : ४;
चव्यू १ : ४; ४ : १०; २१;
-ऋदाय आमिष्ट १, २, २ : २५;
वौष्ट ३, १, ८; २, ९; २२; ३४; ४७;
३, ११; ९, ५; भाष्ट; -दे शांश्रौ
३, २१, २; पाष्ट २, १०, ४; आमिष्ट
२, ४, १२; ११; ऋष्ट; साष्ट १,
२३३^३; २५९; -देन आपश्रौ
२४, १, १६; वाश्रौ १, १, १, ६;
हिश्रौ १, १, ३; ४५; कौष्ट १,
१०, ११; शांठ १, १६, ३१.

ऋग्वेद-यजुर्वेद- -दाभ्याम्
आपश्रौ २४, १, ५; हिश्रौ १, १,
४.

ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-
-दैः आपश्रौ २४, १, ४.

ऋग्वेद-वादिन्- -दिनः कागृष्ट
४२ : १२.

ऋग्वेद-सामवेद- -दाभ्याम्
आपश्रौ २४, १, ८; वाश्रौ १, १,
१, ७.

ऋग्वेदा(द-अ)न्य- -न्यः
ऋष्ट ३, ३१.

ऋग्वेदा(द-आ)ज्ञाय- -ये
ऋष्ट १, १.

ऋग्वेद-व्यपदेश- -शात् मीसू २,
१, ४३.

ऋग्वेद-मन्त्र- -न्त्राणाम् वृदे ३,
३९.

ऋग्वेद-मय- -यः लाश्रौ १, ६, ३७;
शुश्र ४, २१९; -यम् वौश्रौ
१६, ६; १७; -यान् मैश्र २२.

ऋग्वेद-मिश्र- -श्रम् या ४, ६.

१ऋच्- √ऋच् द्र.

२ऋच्- (> ऋर्चायन- पा.) पाग
४, १, ९९.

१ऋचसमाः निसू ९, ६ : ५.

ऋचाम- > ऋर्चाभिन्- > ऋभि-
मौद्वल- -लाः पाग ६, २, ३७.

ऋचीक- पाठभो २, २, १९६.

ऋचीक-पुत्र- -त्रः अप ५२, १०, ३.

ऋचीप- -पम् विध ४३, १७.

ऋचीपम- -मः निघ ४, ३; या ६,
२३४; शैशि १२१; ३३०; अप
४८, ११५.

ऋचीस- > ऋस-पक्- -कम् शंघ
४२७.

ऋच्छर- पाठ ३, १३१^१.

√ऋज् पाधा. भ्वा. आत्म. गतिरथा-
नार्जनेपार्जनेपु।

ऋजोति- -तेषु आपश्रौ २०,
१६, १२; हिश्रौ १४, ३, ३६;
ऋष्ट २, ६, ७५.

ऋजु- पाठ १, २७; पाग ५, १,
१२२; -जवः आपमं १, १, २१;
शांठ ४, ४, ८१; आमिष्ट १, ५,
-१ : ११; ६, १ : ५; कागृष्ट २५,
११; वौष्ट १, १; १५१; वागृ
१०, ७१; जैष्ट १, २० : ३१;
कप्र २, ५, १९; ३, ८, १३; अप
४४, १, १०; ६८, १, ९; वौघ
४, ७, २; -ऋजवे काश्रौ २६, १,

२७; वौश्रौ ९, ४ : १२; माश्रौ
४, १, २७; शुश्र ४, ७७; -जु
अप २३, १०, १; -जुः आपश्रौ
२१, ४, १८; काठश्रौ; या ६,
२१; -जुना वाधुश्रौ ४, ६४^६;
३; कप्र १, २, १; -जुम् आपश्रौ
२, १२, ७ x x; १७, १३,
२१^३; वौश्रौ; हिश्रौ १२, ४, ४१^३;
-जू आपश्रौ २, १२, ८; -जोः
माश्रौ ७, १, ९; हिश्रौ ४, १, १८.
ऋज्वी- -ज्वीमिः माश्रौ
२, १, ४, ३; -ज्वीम् कौसू १३७,
८.

आर्जव- पा ५, १, १२२;
-वम् अप ३, १, १३; आपघ १,
२३, ६; विध २, १७; हिघ १,
६, १४; या १४, ७; -वे पावा
३, १, ६.

ऋ, रजिमन्- पा ५, १, १२२;
६, ४, १६२.

ऋ, रजिष्ठ- पा ६, ४, १६२.

ऋ, रजोयस्- पा ६, ४, १६२;
-यः अश्र ५, १४१.

ऋजु-कर्मन्- -र्मभिः वौघ ४,
७, २.

ऋजु-गमन- -ने अप ४८, ४४.

ऋजु-गा- -गाः वौश्रौ ७, ८ :
५; १४, ५ : ४३; माश्रौ २, ३,
६, ४; हिश्रौ ८, ४, ४६.

ऋजु-गामिन्- -मिनः या १०,
३; -मिनाम् या १२, ३९.

ऋजुगामिनी- -नी या ९,
२६.

a) पामे. पृ ७६७ C द्र.। b) पाठः? यनि. शोघः (तु. उत्तरीयं स्थलम्, काचित्कः सूको. च)।
c) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। d) = वैशम्पायनान्तेवासिन-। णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०४)। e) द्रस. उप.
< सुद्वल-। f) = जमदग्नि-पितृ-। व्यु. ?। g) < √ऋच् इति। h) = नरक-विशेष-। व्यु. ?।
०स- इति जोसं.। i) वैप १ द्र.। j) = ऋजीप-। k) अर्थः व्यु. च ?। l) < √ऋच् इति।
m) पामे. वैप. १, १००५ y द्र.। n) पामे. वैप १, ९८९ f द्र.।

कृञ्-ञ्वा (ला >) ल^१- लः
अप २९, १, ४.

कृञ्-त्तम- मैः या ८, १९.

कृञ्-देह- > हीय- -याः
माश्रौ २, ५, १, २०.

कृञ्-भा आपश्रौ ९, १४, १७;
वौश्रौ.

कृञ्-नीति^०- ती आश्रौ ७,
२, १०; शाश्रौ १०, ९, १६; १२,
२, १४; कृञ् २, १, ९०; साञ्
१, २, १८; निघ ४, ३; या ६, २१.

कृञ्-ले (ख >) खा^०- खाः
वैश्रौ १८, १६; ४०^१; -खाः
आपश्रौ १६, १३, ६; ३४, २;
माश्रौ ६, १, ४, ३९; ८, १०; वाश्रौ
२, १, ४, ३; वैश्रौ १८, ११ :
२३; हिश्रौ ११, ५, १८; वौश्रु
६ : ५; -खाभिः वाश्रौ २, १,
६, ४.

कृञ् (लु-उ)वर^०- -राः माश्रौ
२, ४, ४, १३.

√कृञ्य > कृञ्यत्- -यताम्
या १२, ३९; शुप्रा ३, ११२;
-यन्तम् कृप्रा ९, १६.

कृञ्या^०- -या कृप्रा ९,
४९^१.

कृञ्यत्^०- -ज्यन्तः या १०, ३४.
कृञ्, ज्ञा^०- पाठ २, २८; -ञ्त्तम् वृदे
६, ६६^१; -ञ्जा या ५, १५^१.

कृञ्जा (ञ-ञ)श्च^०- -श्चम् या
५, २१^१.

कृञ्जाश्च (श्च-श्च) चरोप-
सहदेव- भयमान- सुरोधस-
-घसः कृञ् २ १, १००.

कृञ्जिमन्- √कृञ् द्र.

कृञ्जिश्च^०- -श्चः शुभ्र ३, २१८; ४,
२६; ३५.

कृञ्जिश्चन्^०- -श्चनि वृदे २, १२९; -श्चा
कृञ् २, ६, ४९; ९, ९८; १०८;
वृदे ३, ५५; साञ् १, ६११.

कृञ्जिष्ट- √कृञ् द्र.

कृञ्जीर्क^०- पाठ^० ४, २२; ५, ५१.

कृञ्जीक-प्रम(व >)वा- -वा या ९,
२६.

कृञ्जीति-, कृञ्जीयस्- √कृञ् द्र.

कृञ्जीप^०- > १ कृञ्जीपिन्^०- -पिणः
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ १८, ७,
१०; शैशि १२१; ३२९; -०पिन्
शाश्रौ १४, ७, ४; आश्रु १, १५,
३; पाठ १, १८, ४; या ६, ७;
-पी आश्रौ ५, १६, २; शाश्रौ
७, २३, ९; १८, १९, ८; वौश्रौ
१०, २४, १०; वैताश्रौ ३३, १७;
या ५, १२.

२ कृञ्जीप^०- पाठ ४, २८^६; पाग ५, २,
३६; -पम् आपश्रौ १२, १२,
११; १३, १०, ६; २०, ८; वौश्रौ;
कृया ५, १२^४; -पत्य काश्रौ
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;
आपश्रौ १३, २०, १०; भाश्रौ
८, १०, ८; वाधृश्रौ ४, ६५^२ :
३; हिश्रौ ९, ५, ३७; मीस् १०,
६, १६; -पे आपश्रौ १३, १०,
५; वौश्रौ ८, ९ : ५; १४, ६ :
२३; २९ : १०; २३, ८ : २८;
माश्रौ २, ५, १, ११; ३, ६,
१८; २१; वैश्रौ १६, १० : ११;
२२, १४ : १; हिश्रौ ९, ३, २७;

१५, ७, १; अप्राय ३, ३;
-षेण आपश्रौ १४, २४, ७;
काठश्रौ १२४; वौश्रौ १७, ५६ :
२२; ६२ : १२; माश्रौ २, ३, ४,
१८; वैश्रौ १६, २६ : ३; लाश्रौ
८, ८, ६^१.

कृञ्जीप-कल्प- -ल्पेन आपश्रौ १९,
४, ७; वैश्रौ ११, ६ : ३.

कृञ्जीप-कुम्भ- -म्भम् काश्रौ १०,
९, १.

कृञ्जीप-धर्म- -र्मम् आपश्रौ ८,
७, १५; -मैण हिश्रौ ५, २, ६७.

कृञ्जीप-भक्ष- -क्षात् भाश्रौ ८, १०,
७.

कृञ्जीप-भक्षण- -गम् वाश्रौ १, ७,
२, ४२.

कृञ्जीप-भाव- -वात् काश्रौ ९, ५,
११.

कृञ्जीप-मिश्र- -श्चम् काश्रौ १०,
३, १३; -श्चत्य काश्रौ २५, १३,
१८^१.

कृञ्जीप-मुख^०- -खान् वैश्रौ १५,
१४ : १; १६, ११६; हिश्रौ ८,
३, ३९; -खेपु काश्रौ ९, ५, १२.

कृञ्जीप-वत् मीस् ११, ३, ३३.

कृञ्जीप-स्थान- -ने वैश्रौ ८,
१४ : ४.

कृञ्जीपित- पाग ५, २, ३६.

२ कृञ्जीपिन्^०- -पि वौश्रौ १४, ६ :
२४; तैप्रा १६ : १८.

कृञ्- प्रस्. √कृञ् द्र.

कृञ्-कृञ्ज^० (वधा.) पाधा. भवा.
आत्म. भर्जने, कृञ्जते^० आपश्रौ
५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६;

a) निप. १ वस. १ b) पाप्मे. वैप १, १०१२ f द्र. १ c) वैप १ द्र. १ d) पाठः? प्लाः इति श्लोचः (तु. आपश्रौ प्रस्.) १ e) = कृञ्-निशेष- १ लु. ? १ f) अर्थः व्यु. च ? १ g) < √कृञ् इति १ h) सहजीपे इति पाठः? सह, कृञ्जीपेण इति द्वि-पदः श्लोचः (तु. भाष्यम्, काश्रौ २२, ६, ७ व) १ i) तु. वौश्रौ. १ j) निघ ४, ३ या ६, २१ पराचष्टः द्र. १

ऋञ्जति अप ४८, ४४.
 ऋञ्जत्- -ञ्जन् या ३, ४१.
 ऋञ्जती- पावा ६, १, ८२.
 ऋञ्जसान्- पाठ २, ८७.
 √ऋण्^b पाधा. तना. उभ. गती.
 ऋण्- पाग २, ४, ३१; -णम्
 शांश्रौ १५, १७, ११; आपश्रौ
 २२, १, १०; हिश्रौ १७, १,
 १२; कौश्र ३, १२, ६; ऋण्मिगृ
 २, ४, ४ : १०; १९; वाध
 १७, १; शंघ २८५; वौध १,
 ५, ७९; ऋण्, ७, ११; १४;
 विध ६, २९; ३४; ३५; ४०;
 १५, ४५; गौघ १२, ३७; पा ८,
 २, ६०; अश्र १९, ४५; -णात्
 शंघ ४२; अश्र १९, ४५; -
 णानि वौश्रौ २४, १२ : २;
 २५, ४, २; -णे गोगृ ४, ४, २५;
 या ५, २५; पा २, १, ४३; ३,
 २४; ४, ३, ४७; पावा ६, १,
 ८८; -णैः वाध ११, ४८.
 ऋण-च्युत्- -च्युतम् आश्रौ ८,
 १, १२.
 ऋण-चय- -यः ऋश्र २, ५,
 ३०; ९, १०८; वृदे ५, १३; ३३;
 साश्र १, ५८.
 ऋण-जय^d -याय आश्रिगृ १, २,
 २ : २१; वौगृ ३, ९, ५; भागृ
 ३, १० : ६; हिगृ २, १९, ६.
 ऋण-त्रय- -यम् वैगृ २, १८ :
 १६; -त्रैः वैध १, ४, ५.
 ऋण-दश^e -शाभ्याम् पावा ६,

१, ८८.
 ऋण-भूत्- -तौ वौपि ३, १, ४.
 ऋण-या^f -याः^g आपश्रौ १६,
 १८, ७; वैश्रौ १८, १६ : २;
 हिश्रौ ११, ६, २९.
 ऋण-वत्- -वान्^h वाध ११, ४८.
 ऋण-वन्- -वा^h ऋण् २, ६,
 ३५; ९, ७.
 ऋण-वाक्य- -क्येन मीस् ६, २, ३३.
 ऋण-संयोग- -नः वौध २, ९, ४;
 -गम् वौध २, ९, ७.
 ऋणसंयोगा(ग-आ)दि- -दीनि
 वौध २, ६, ३५.
 ऋण-संस्तुत- -तम् वाध ११, ४७.
 ऋणा(ण-ऋ)णं- पावा ६, १, ८८.
 ऋणिकⁱ -कः विध ६, ४३.
 ऋणिन्- -णो विध ७, १२.
 ऋणार्ति^j निघ २, १४.
 ?ऋणाकुण्ड- -ण्डे वाधूश्रौ ४, ७५ :
 ८.
 ऋण-रिण्व^k (=√रिण्व), ऋण्वि^l
 काश्रौ २२, ६, १६; माश्रौ १,
 ५, ३, ४; वाश्रौ १, ४, ३, २६;
 जैश्रौ २२ : ५; द्राश्रौ १२,
 २, ३; लाश्रौ ४, १०, ३; ८,
 ८, ३६; गौपि १, ३, १६; जैगृ
 २, ४ : १२; निघ २, १४.
 ऋण्वत्- -ण्वन् वौगृ २, ५, ५८.
 ऋण-रिण्व^k √ऋ द्र.
 ऋण-रिण्व^k -रिण्व^k आश्रौ ८, १, ६; शांश्रौ;
 ऋण ७, २; ११, ३९; पाग १,
 १, ३७; पावा १, ३, १७.

ऋते-ग्रह¹ -हान् वौश्रौ २०, ५ :
 २५; २३, १५ : २.
 ऋते-मूल^m -लानाम् आपश्रौ १,
 ५, १२.
 ऋते-स्फ्यⁿ -स्फ्यैः आपश्रौ २,
 १३, १.
 ऋते-स्वाहाकार¹ -रान् वौश्रौ २०,
 ५ : २४; २३, १५ : १.
 ऋत-जा- प्रभु. √ऋ द्र.
 ऋतपर्ण-कयोवधि^o -धी आपश्रौ
 २१, २०, ३०; हिश्रौ १६, ६,
 ४१०.
 ऋतव्य- प्रभु. ऋतु- द्र.
 ऋत-शब्द- प्रभु., कता-चन्- प्रभु.,
 √ऋति प्रभु. √ऋ द्र.
 ऋतु^p - पाठ १, ७२; -ऋतुः आपश्रौ
 ८, १३, १४; शांश्रौ ५, १, ९;
 १४, ७५, २; १६, २५, २६;
 आपश्रौ ४, १ : ९; ८, २१,
 १; १४, १४, १२; २८, ४;
 वौश्रौ; -तवे वौश्रौ १८, २४ :
 २; अप्राय २, ९; -ऋतुः आश्रौ
 ४, १२, २; ६, १, २; ८, ४, ३;
 शांश्रौ ९, ४, ३; १२, २६, १२;
 आपश्रौ १९, १२, १४; वौश्रौ
 १९, ३ : ३८; माश्रौ; या १२,
 २५; १२, ४६; -तुना
 शांश्रौ ७, ८, ५; १४, ९, ११;
 काश्रौ ९, १३, १३; १९, ७,
 २१; आपश्रौ; -ऋतुभिः आश्रौ
 ४, ४, ४; शांश्रौ ३, १८, १४;
 काश्रौ ९, १३, १४; १७, ८, १८;

a) वैप १, १७२३ f द्र. । b) पा ६, ४, ३७ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) व्यप. । उस. उप.
 खजन्तम् । e) द्रस. उप. =दशन्- । f) सुप्सुपीयः समासः । g) पामे. वैप १, १००८ l द्र. । h) सपा.
 परस्परं पामे. । i) =अधमर्ण- । मत्वर्थीयः ठन् प्र. । j) लघुशास्त्रीयः पाठः । k) पामे. वैप १,
 ९८८ i द्र. । l) विप. । वस. । m) व्यु. पामे. च वैप १ परि. द्र. । n) ऋपि-विशेषयोः
 द्रस. । o) ऋत पर्णकयोवधिः इति ऋतपर्णक योवधिः इति च पाठौ ? यनि. शोघः (तु. CLZDMG-
 ५७, ७४३) ।

आप्रथौ ८, १५, १७; २०, ५^a;
 xx; मातृ १, १४, १६^b; या ८,
 ३४; १४, २७; -तुभ्यः आश्रौ
 २, ४, १३; आप्रथौ २०, २०, ६६;
 आप्रमं १, ३, १२^c; आगृ; पागृ
 १, ८, १९; मागृ १, ११, १८^c;
 -तुम् आश्रौ २, १, १५; शाश्रौ;
 -तुपु वाधुश्रौ ४, २८ : ११; ६५^d;
 ९; ११; वैश्रौ १७, ७ : ३;
 आम्रिगृ १, ७, ४ : ९; ३, ६, ३ :
 २; वौषि १, १७ : ३४; अप
 ७०^e, १७, ४; वृदे २, ४१; -तू
 वौश्रौ २, १६ : १७^f; भाश्रौ ८,
 २४, १०; वैश्रौ १, १९ : १३;
 १८, १७ : ४३; १९, २ : १०^f;
 २१, १५ : १७^f; हिश्रौ ५, ६,
 १३; वृदे १, १३९; -तू आप्रथौ
 ८, ९, ७; शाश्रौ; आप्रथौ ८, २२,
 १०^g; हिश्रौ ७, २, ४७^f; या७,
 १९^f; -तूनाम् आश्रौ १०, ३,
 १; शाश्रौ; -तोः शाश्रौ १४, ९,
 ९; हिश्रौ १७, १, ८; वौगृ १,
 १, ११; गौध १८, २२; पा ७,
 ३, ११; पावा १, १, ७२; -तौ
 आश्रौ २, १, १४; १६, २५;
 शाश्रौ; -तौऽवौ आश्रौ २,
 १२, ६; वौश्रौ २८, २ : ५८;
 आम्रिगृ २, २, १ : १; ९; ५, १ :
 ६; ९ : १; वौगृ ३, ७, २; १०,
 २; भागृ; या ८, १७.
 मार्तवी^h - पा ५, १, १०५; -त्रम्
 वृदे ३, ३४; -वाः वौश्रौ १७,
 १९ : ३; कौस् १०६, ७^f; -वान्
 अप्र ७०, ९, ३; -वानाम् अप्र

१६, ८^f; -वे शंघ १३; ३३३;
 वृदे ४, ९१^f; आज्यो १३, ३;
 -वेभ्यः अप्र १९, ३७^f; -वेपु
 वृदे ३, १५; -तूवैः वौश्रौ १७,
 ४१ : २६; आम्रिगृ १, ३, ५ :
 २; वैगृ २, १५ : ३; हिगृ १,
 ११, २.

मार्तवी - वीः गौध १४,
 २४.

मार्तव-स्ता(त>)ता - ता
 शंघ २४१.

मार्तव-स्वस्वयन - नानि
 कागृ ५५, १.

ऋतव्य, व्या^h - पा ४, २, ३१;
 -व्यम् ऋग्र २, १, १५; २, ३६;
 शुग्र २, १८३; २०६; २४०; -व्या
 ऋग्र २, ३, २७; साग्र १, ६१७;
 -व्याः आप्रथौ १७, १, ३xx;
 वौश्रौ; -व्यानाम् चाग्र १७ :
 ८; -व्यासु आप्रथौ १६, २४,
 १०; वाश्रौ २, २, १, ५; वैश्रौ
 १८, १७ : ४५; हिश्रौ ११, ७,
 ३८; -व्ये काश्रौ १७, ४, २४xx;
 आप्रथौ.

ऋतव्या-पात्र - त्रेण वाश्रौ ३,
 २, १, ६३.

ऋतव्या-वेल्ल - लयाम् काश्रौ
 १७, १२, १.

ऋतु-काल - लः या १२, ४६^e;
 -लम् वौगृ ४, १२, २; -ले
 शाश्रौ ३, १३, ३०; वौश्रौ २९,
 १० : २३; द्रागृ १, ४, १५;
 आज्यो १२, ५; -लेन वाध २८,
 ३; -लेपु वा १, १९^e; ३, ५.

ऋतुकाल-गामिन् - मी वाध
 १२, २१; काध २७० : २.

ऋतुकाल-भय - यात् वाध १७,
 ७०.

ऋतु-केतु - तू अप्र ५५, १, १.

ऋतु-क्षय - ये आज्यो ७, ७.

ऋतु-नात - तम् अप्र ५५, ६, ४.

ऋतु-गमन - तम् वौगृ १, ७, ४६^e;
 -ने आप्रगृ ९, १.

ऋतु-गामिन् - मिनाम् या १२,
 ३९.

ऋतु-ग्रह^h - हान् वाधुश्रौ ४, ८३ :
 १६; -हे वैश्रौ २१, १५ : ११;

-हेपु वौश्रौ २५, २१ : ५; माश्रौ
 २, ४, २, ५; हिश्रौ ९, २, २१;

-हैः काश्रौ ९, १३, १; आप्रथौ
 १२, २६, ८; १४, २८, ४^f;

माश्रौ २, ४, २, १; हिश्रौ ८,
 ८, १; १५, ७, १२; -हौ वौश्रौ

१५, ३४ : ९.
 ऋतुग्रह-वत् वैश्रौ १६, ८ : १३.

ऋतु-च्छन्दः-स्तोम-पृष्ट^h - ष्टस्य
 या ७, ११; -ष्टानाम् अप्र ४८,
 १४७.

ऋतु-जायो(या-उ)पायिन् - यी
 काश्रौ ५, २, २१.

ऋतु-तिथि-नक्षत्र-देवता - ताः
 कागृ ४७, १२.

ऋतु-त्रय - न्यम्, -ये विध २४,
 ४०.

ऋतु-या^h आश्रौ २, ११, १२^l;
 शाश्रौ ३, ६, २^l; या ८, १७^l;

१२, २७; शुपा ५, १२.
 ऋतु-दीक्षा^h - क्षाः आप्रथौ २०,

a) पाभे. वैप २, ३३. तैत्रा २, ५, ८, ३ टि. द्र. 1 b) सपा. आप्रमं १, ११, ४ रातिभिः इति पाभे. 1

c) पाभे. वैप २, ३३. रायुः तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. 1 d) ऋजून् इति C. (तु. र्दत्तः) 1 e) पाभे.

वैप १, १०११ ० द्र. 1 f) विप., नाप. 1 g) = स्तूः, ऋजून्, इष्टका-प्रम्. 1 h) वैप १ द्र. 1 i) समाहारे.

इत्. 1 j) पाभे. वैप १, १०१२ b द्र. 1 k) = आहुति-विशेष-, मन्त्र-विशेष- 1

११, ६; वीथी १५, २० : ३;
 -क्षामिः आपथी २०, ८, १२;
 हिथी १४, २, २९; -क्षाम्
 वीथी १५, १३ : ८; १०१; -क्षे
 वीथी १५, १३ : ११.
 ऋतु-देवत, ता^० -ता गोथ ३,
 १०, २; -ताः वीथी २४, ३ :
 १५; २५, २१ : ८; २६, ११ :
 २५; ऋथ २, १, १५; या ८,
 २२; -ताम् आथ २, ४, १२.
 ऋतु-देवता -ताभ्यः वैथ ४, ८ :
 ७; -ताम् माथ १, १०, ९; २,
 २, १५.
 ऋतु-दैवत^० -तम् शुथ २, १५८;
 ३, ७२.
 ऋतु-धा आपमं २, ४, ४^b; वैथ
 १, १९ : १३; भाशि ४२.
 ऋतु-नक्षत्र -त्राणाम् वीथी २४,
 १६ : १; पावा २, २, ३४;
 -त्राणि वीथी २, ६ : २.
 ऋतु-नक्षत्रा(त्र-अ)तिक्रम-
 चचन -नात् गोस् ५, ४, ६.
 ऋतु-नक्षत्र-पर्व-संनिपात -ते
 वाथी १, ४, १, ३.
 ऋतु-नक्षत्र-संभार-साम-चपन-चातु-
 ष्पाश्य-जागरणे(ए-इ)धमपूर्वा-
 धान्वारम्भण-सार्पराज्ञी -ज्ञीः
 काथी ४, १०, ३.
 ऋतु-नामन् -मभिः वीथी २१,
 १ : ३३; -मसु आपथी १४,
 २८, ५; -मानि आपथी १९,
 १२, १४; वीथी १०, ४५ : ४०;
 हिथी २३, २ : २५; -म्ना वैथी
 १, १५ : ५.
 ऋतु-पति^० -०ते शैथि ३३५.

ऋतु-पर्याय^० -यम् वीथी १५,
 ३८ : १०१.
 ऋतु-पशु^० -शवः शाथी १६, ९,
 २६; १४, २०; १५, १८; वीथी
 २६, ११ : २५१; -शुभिः
 आपथी २०, २३, १०; वीथी
 १५, ३८ : १०; माथी ५, २,
 १२, ४६; हिथी १४, ५, १७१.
 ऋतु-पात्र -त्रम् आथी ५, ८, ८;
 आपथी १२, २७, १३; माथी २,
 ४, २, २५; वैथी १६, ९ : २;
 हिथी ९, २, २५; -त्राभ्याम्
 वीथी ८, १ : २०; माथी २, ४,
 ४, ११; हिथी ९, २, १३; -त्रे
 काथी ९, २, १३; आपथी १२,
 १, १३; १८, २०; काठथी ११६;
 वीथी ७, २ : १२; १६ : १;
 १७, ३७१; १४, ८ : २३; २५,
 १३ : १५; माथी २, ३, १, १५;
 ४, २, ३४; वैथी १५, २ : ८;
 २२ : १०; हिथी ८, १, २४;
 वैताथी २०, ६^f; अप्राम ६, ६;
 -त्रेण काथी १०, १, १३; ३,
 ३; आपथी १३, २, ४; वैथी
 १६, २ : ७; ८; ९ : १.
 ऋतुपात्र-वर्जम् आपथी १२,
 २८, ९.
 ऋतु-प्रत्यय^० -यानि निस् ६, ९ : ४.
 ऋतु-प्रैप^० -वेभ्यः शाथी १०,
 ७, ८; -पैः शाथी ७, ८, २.
 ऋतुप्रैप-सूक्त -के वृदे ३, ३६.
 ऋतुप्रैपा(प-त्रा)दि-दिभिः
 आपथी ११, १९, ५; माथी २,
 ३, ६, १७; वैथी १४, १७ : ८;
 हिथी ७, ८, ३७.

ऋतु-भव^० -यानि कप्र २, ८, ११.
 ऋतु-मण्डल -लानि वीथी १९,
 १० : १४.
 ऋतु-मत् -मतः शुप्रा ३, १५०१.
 ऋतुमती -ती गोथ २, ५, ८;
 वाध १७, ६७; वीध ४, १, १५;
 -तीम् वैताथी १२, १४; वीध
 ४, १, १३; १९; -त्याः कौस्
 २२, ५; -त्याम् वाध १७, ७०;
 वीध १, ५, १२०.
 ऋतुमती-गमन-सहासन-
 शयन -नानि वैध ३, १, ६.
 ऋतु-मुख^० -खे वीध २, २, ७६;
 -खेऽ-खे आपथी १४, १४, १३;
 वीथी २४, १३ : ७; हिथी १०,
 ७, १८; -खेपु वीथी १६, २७ :
 २२; २६, १८ : १०; माथी ५,
 २, १४, १८.
 ऋतुमुखी^० -खीभिः वैथ ५,
 ५ : २३.
 ऋतुमुख-श्रुति -तेः काथी १,
 २, १३.
 ऋतुमुखीय -यः आपथी १४,
 १४, १३; -थेन आमिथ ३, ४,
 ४ : ६; वीथि ३, ४, १३^f.
 ऋतु-याज^० -जम् आपथी २१,
 ७, १४; वीथी १६, ५ : १; २;
 २६, १३ : १५^f; हिथी १६, ३,
 ३३; -जाः वीथी २५, २१ : ८;
 -जान् आथी ५, ५, २११; वीथी
 २५, २० : २०; वैताथी २०,
 ४; -जानाम् आथी ८, १, ५;
 -जेपु या ८, २; -जैः आथी ५,
 ८, १; शाथी ७, ८, १; जैथी
 १५ : १.

a) विप. । वस. । b) पधि. वैप १, १०१२ h द्र. । c) वैप १ द्र. । d) वरा. वा. मिथि. ।
 e) वैप २, ३३०. द्र. । f) ष्पात्रम् इति? ०. शोधः । g) विप. । उरां. वा वरा. या । h) = ऋतुमुख-
 शब्दयुक्ता- । ऋन्- । i) ऋतुमुखीभिः इति R. । j) = याग-विशेष- ।

ऋतुयाजे(ज-इ)ज्या- ज्या
 काश्रौ १२, ३, १४.
 ऋतु-याजिन्- जी आपश्रौ ८, ४,
 १३; वैश्रौ ८, ८ : ९; या ३,
 १९.
 ऋतु-याज्या- ज्या आपश्रौ २१,
 २, २; -ज्यानाम् वैताश्रौ ३१,
 २७; -ज्याम् हिश्रौ १६, १,
 २३.
 ऋतु-रात्रि- त्रयः वैगृ ३, ९ : ७;
 -त्रिषु वैध ३, १, ५.
 ऋतु-विशेष- यः वैश्रौ १९, २ :
 १०; ११.
 ऋतु-वेला- ल्यायाम् कौगृ १, १२,
 १; शांगृ १, १९, १; आमिगृ १,
 ६, ३ : ६८; २, ७, ६ : ३६.
 ऋतु-व्यतिक्रम- मे वौश्रौ २८, १ :
 ३०; २ : ५२.
 ऋतु-व्यावृत्ति- तौ आपश्रौ ७,
 २८, ७.
 ऋतु-शस(ः) आपश्रौ ३, १२,
 १; वौश्रौ ३, ३१ : ४; भाश्रौ
 ३, ११, १; हिश्रौ २, ६, १७;
 आमिगृ १, ५, ४ : २१.
 ऋतु-शेष- यम् वेज्यो ४१.
 ऋतु-पडह^१- हे निस् ८, ११ : १.
 ऋतु-ष्ठा^२ > ष्ठा-यज्ञायज्ञिय^३-
 -यम् द्राश्रौ २, १, १८; लाश्रौ १,
 ५, १५; -येन जैश्रौ ४ : ६.
 ऋतु-संवेदान-> ण-विच्छेद-प्राय-
 श्चित्त-त्तम् वौगृ ४, १२, १; ७.
 ऋतुसंवेदाना(न-आ)दि-दि
 वौगृ ३, १३, १.
 ऋतु-संगमन-> ण-नर्भाधान-
 पुंस्यन-सोमन्त-यिष्णुयलि-जा-
 त्कर्मो(मि-उ)त्यान-नामकरणा-

(ण-अ) ब्रप्राशन-प्रवासागमन-
 पिण्डवर्द्धन-चौडको(क-उ)पनयन-
 पारायण-व्रतवन्धविसर्गो(र्ग-उ)-
 पाकर्म-समावर्तन-पाणिग्रहण-
 -णानि वैगृ १, १ : १-४.
 ऋतुसंगमन-वर्जम् वैगृ २, १ : १.
 ऋतु-संधि- धिषु पागृ २, ११, २.
 ऋतु-समावेशन- ने आपगृ ८,
 १३.
 ऋतु-संप्रैष- -पम् वौश्रौ २६, १४ : २.
 ऋतु-सव^४- -वः वौश्रौ १८, ४ : १३.
 ऋतु-स्तोम^५- -माः आश्रौ ९, ८,
 २६; शाश्रौ १४, ७५, १.
 ऋतु-स्था^६- -स्थाः तैप्रा ६, ७१ ङ.
 ऋतुस्था-यज्ञायज्ञिय^७- -येन
 आपश्रौ १७, १२, १०; वौश्रौ
 १०, ४९ : १४; वैश्रौ १९, ६ :
 ६; हिश्रौ १२, ३, १३.
 ऋतु-स्ना(त>)ता- -ता वैगृ ३,
 ९ : ६; -ताम् वाध २०, ३५;
 वौध ४, १, २०; २३; -तायाम्
 आमिगृ २, ५, ६ : १२; वैगृ ६,
 २ : १.
 ऋतु-स्नान- -नात् आमिगृ २, ७,
 ६ : १.
 ऋतु-स्वभाव- -वाः अष६४, १०, १.
 ऋतु-होम- -सान् वैताश्रौ २०, ५;
 -मैः वाधूश्रौ ३, १४ : ३; ५.
 ऋतूनां(पडह-)आपश्रौ २२, २२, ४.
 ऋतूनाम् (एकतमालपञ्चाश-) हिश्रौ
 १८, ३, ३.
 ऋतूनाम्-एकादशरात्र- -त्रेण
 आपश्रौ २३, १, ५; हिश्रौ १८,
 १, ६.
 √ऋतूय>ऋतूया^८- -या कौस्
 ९९, २ ङ.

ऋत्व(तु-अ)न्त- -न्ते हिपि २० :
 ९ ङ.
 ऋत्व(तु-अ)न्तर-ग्रह-सूतक- -के
 विध ३०, ५.
 ऋत्व(तु-अ)न्तर-भारमण- -णे
 गौध २४, ४.
 ऋत्व(तु-अन्त्य)>न्त्या- -न्त्यासु
 कौगृ ३, ७, १३; शांगृ ४, ५, १७.
 ऋत्व(तु-अ)भीज्या- -ज्या निस् २,
 ५ : १६; -ज्यायाम् निस् ७,
 ३ : २०.
 ऋत्वि(तु-इ)ञ^९- पा ३, २, ५९; पाग
 ५, १, १२४; -त्विक् शाश्रौ ४,
 २१, १; द्राश्रौ; या ३, १९४;
 -त्विक्षु वौश्रौ २४, १२ : १५;
 २८, ११ : ७; द्राश्रौ १२, ४,
 २०; लाश्रौ ४, १२, १५; शंघ
 ३०३; पावा ३, २, १३५;
 -त्विमिः आपश्रौ ६, १, ६ ङ; १४,
 २६, ११ ङ; वौश्रौ ३, ४ : ६ ङ; २४,
 ३० : ८; भाश्रौ ६, ७, ५ ङ; माश्रौ
 १, ६, १, २ ङ; वाश्रौ; -त्विम्यः
 आश्रौ १०, १०, १०; शाश्रौ १३,
 २, १; काश्रौ; -त्विङ् शंघ ३०२;
 -त्विजः आश्रौ १, ११, ७ ङ x x;
 शाश्रौ; या ७, ३०; ८, २; १३, १३;
 -त्विजम् वाधूश्रौ ४, १८ : २२;
 ३२; निस्; या ७, १५ ङ ङ;
 -त्विजा आश्रौ ७, २, ४; शाश्रौ
 १२, १, ५ ङ; अत्राय ६, ६ ङ;
 -त्विजाम् आश्रौ १, १३, ७; २,
 ४, ३; काश्रौ; निध ३, १८;
 -त्विजि शंघ ३०३; -त्विजे आगृ
 १, ६, २; कौगृ ३, १०, ३२; शांगृ;
 -त्विजोः वैगृ ६, १ : ८; -त्विजो
 वैगृ १, ९ : १७; ११ : ११;

a) = अर्शनयाग-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) वैप १, १०-१३ b द्र.। d) = याग-विशेष-।
 e) वैप १, १११ a द्र.। f) णम्यः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काठ ३५, १०)।

कौसू ७२, ४४.

आत्विज^a- -जम् वृदे ७, ८३;
-जाः वृदे ७, १३८; -जे मीसू
३, ४, ३४.

आत्विजीन- पा, पावा ५,
१, ७१.

आत्विज्य^b- पा ५, १, १२४;
-ज्यम् शांश्री १, ४, ५^२†;
†आपश्री २, १५, १^२; ३, १८,
४; १०, १, ३; २२, १, २०; २४,
१, २१; ११, २^२; वौश्री; -ज्यस्य
शांश्री १३, १४, २; वौश्री १४,
११ : ३१; -ज्यात् आपश्री
१४, १५, १†; ३१, ८; हिश्री
१०, ७, १७; -ज्याय वृदे ५,
३३; ५५; ८, ६; -ज्येन आपश्री
२२, १, १९.

आत्विज्या(ज्य-ञ)भाव-
-चात् मीसू ६, ६, १८.

ऋत्विक्-कर्मन्- -र्मणाम् या
१, ८.

ऋत्विक्-कल्प- -ल्पः कौसू ९२,
३२.

ऋत्विक्-त्व- -त्वम् मीसू ३, ७,
३२.

ऋत्विक्-पत्नी-प्रैपकृत्- -कृतः
वैताश्री ३८, ९.

ऋत्विक्-पथ- -थेन द्राश्री ४,
४, ८; लाश्री २, ४, ४.

ऋत्विक्-पुत्र- पा ६, २, १३३.

ऋत्विक्-फल- -लम् मीसू ३,
८, २५.

ऋत्विक्-श्रुति- -तेः काश्री १,

६, १३.

ऋत्विक्-श्वशुर-पितृव्य-मातुल-
-लान् वाध १३, ४१; आपध १,
१४, ११; हिध १, ४, ४३;
-लानाम् वौध १, २, ४६; गौध
६, ९.

ऋत्विक्-श्वशुर-सखि-संवन्धि-
मातुल-भागिनेय- -यानाम् पागृ
३, १०, ४६.

ऋत्विक्-स्तुति- -तिः ऋञ
२, १०, १०१; वृदे ८, १०.

†ऋत्विग्-अपोहन->°नीय^c-
-याः काश्री २२, ६, २१.

२ऋत्विग्-अपोहन^d- -नः छुसू
२, ९ : १.

ऋत्विग्-आचार्य- -र्ययोः काश्री
२४, ६, ३०; -र्यौ वाध १३, ५०;

गौध १५, १४; २१, १२.

ऋत्विग्-आचार्य-श्वशुर-पितृव्य-
मातुल- -लानाम् गौध ५, २८.

ऋत्विग्-आदि- -दिना कप्र ३,
१, १.

ऋत्विग्-दान- -नम् मीसू १०,
२, २२.

ऋत्विग्-दीक्षित-ग्रहचारि-
वर्जम् वौध १, ५, ९०.

ऋत्विग्-यजमान- -नौ अप ११,
१, ३; १३, १, ३.

ऋत्विग्-वरण- -णम् वैश्री १८,
१ : ८; २१, १० : ३.

ऋत्विङ्-नामन्- -मानि निघ
३, १८; या ३, १९.

†ऋत्विज्य^b- पा ५, १, १०६§; -यः

आश्री ३, १०, ५×४; शांश्री;
-यम् आश्री १०, ९, ५; शांश्री
१६, ७, १; वौश्री २९, १२ : १०§;
वाधूश्री ४, ६८ : ४; -याः आश्री
३, ७, ९; -ये भाश्री ८, ३, २८;
आपमं १, ११, २; मागृ १, १४,
१६; वागृ १६, १; अञ १४, २;
-यौ आपश्री १४, ३०, २; वौश्री
२९, ५ : २; वैश्री २१, १६ :
५; हिश्री १५, ७, १८.

†ऋत्विज्य-व(तु>)ती- -०ती
आपश्री ५, ८, ८; वौश्री २, १५ :
११; माश्री १, ५, २, ४; वाश्री
१, ४, १, १९; वैश्री १, ८ : ४;
हिश्री ६, ५, १०.

ऋत्वि(य>)या-व(तु>)ती-
-ती ऋप्रा ९, १७†.

ऋत्वि(तु-इ)ष्टका^e- -काः वौश्री १९,
३ : ३६.

ऋत्वि^f- पा ६, ४, १७५; -त्विः
अप्रा ३, २, १२?.

ऋतुपर्ण^h- -र्णः वौश्री १८, १३ : ३.

ऋतुर्जनित्री- >°त्री^g- -यम्
शांश्री ११, १४, २२; -यस्य
शांश्री ११, १४, १०.

ऋतु-वर्णⁱ- -र्णः अञ २, १७.

ऋतेऽवस्थूणा^k मागृ २, ११, १४.

ऋते-ग्रह- प्रमृ. २ऋत-द्र.
!ऋत्वे^l आपश्री ३, १७, ८; ८, ४, ६;
आपध २, ५, १७; हिध २, १, ९९-

!ऋत्वोत्त्रागेव मैश् ३२.
†ऋतु-दर^b- -रः निघ ४, ३; -रेण
वौश्री १३, २५ : २; या ६, ४.

a) निप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = एकाह-विशेष- । d) वस. उप. भाप. ।
e) = इष्टका-विशेष- । f) = ऋत्विज्य- । g) पाठः ? °त्विज्यम् इति शोधः । h) = वृत्त-विशेष- । व्यु. ? । i) =
सूक्त-विशेष- । j) व्यप. । व्यु. ? । k) पाठः ? ऋतेन स्थूणाम् इति शोधः (तु. सप्र. शौ ३, १२, ६ आगृ २, ९, २;
कागृ ११, ३) । वैप १, ९९७ k नेष्टम् । l) पाठः ? ऋत्वे (तु. C.; वैतु. आपध. हिध. भाष्ये य-लोप इति ?), इति
यद्वा ऋत्विजे (तु. सपा. भाश्री ८, ३, २८; C. च; वैतु. आपश्री. भाष्ये ऋतौ इति) इति शोधः ।

ऋद्धि-पुनराधेय- -यम् वीथ्री
३, ३ : १३.

ऋद्धि-पूर्त्त- -त्तैषु वीथ्री १, १, २२.

ऋद्धि-संस्तवाव^२- -वम् निस् ८,
१ : ३२.

ऋद्धि-सप्तसमिद्-व्याहृति- -तीः
वैगृ ३, ४ : ६.

ऋद्धि-सामन्- -म निस् ७,
३ : २६.

ऋद्ध्वा^b आपथ्री ५, ८, ४; वीथ्री
२, १५ : १९; हिथ्री ६, ५, ९.

ऋध्नु^c > ऋध्नु-क^d- -कम् आग्र
४, ७, २५१.

ऋध्नुवत्- -वन् या ४, २५^२.

ऋध्नुवत्- -न्धन् या ८, ६१.

ऋध्नुवत्^e शांथ्री १०, ६, ६; ऋध्नु २,
८, १०१; वृदे ६, १२४; शुध्नु
३, २४७; निघ ४, १; या ४,
२५^३क^f; शैशि २७२; पाग १,
१, ३७६.

ऋध्नुवत्-मन्त्र^g- -न्त्रः कौस् १५,
१; २२, १; ३५, १२; अप ३२,
१, ५; अग्र ५, १; अप २ : ४०.

√ऋध्, ऋध्वा^h पाधा. तुदा. पर. हिंसायाम्.
ऋवीस L, पⁱ- -सम् निघ ४, ३;
या ६, ३६क^f; -पात्^j अप्राय
६, ९१; -से वृदे ५, ८४;
या ६, ३६क^f.

ऋवीस-पक- -कम् शंघ ४२७;
४२८^k; -कस्य आपथ्री ५, २५,
६; माथ्री ५, १६, १९^l; माथ्री
१, ५, ६, १४; वैथ्री १, १८ : ३;
हिथ्री ६, ५, २४.

ऋवीसपका(क-अ)शन- -नम्
वाथ्री १, ४, ३, ४२.

ऋधु^m- पाठभो २, १, २८ⁿ; -भवः
शांथ्री ८, २०, १^o; वीथ्री २, २,
६१; मागृ २, १५, ६१; अप
४८, १३९१; वृदे १, ८२; ४,
१२२; ८, १२८; निघ ५,
५१; या ११, १५क^f; १६^३क^f;
-०भवः ऋपा २, ६८क^f; -ऋधुः
आथ्री ६, ३, १; ८, ८, ६;
शांथ्री १०, ६, १८; काथ्री
१३, १, ११; २३, ३, १;
आपथ्री २२, १९, १; वैताथ्री
१७, १०; अप ४८, ८५; ऋध्नु
२, ४, ३४; वृदे ३, ८३६; ६,
१३५; अग्र ४, १२; निघ
३, १५; या ११, १६;
-मुभिः आथ्री ५, ५, १९१;
७, ७, ७; ९, ५, ५; ऋध्नु
३, १८, १५^k; ८, २, ५;
१४, ३, १२; वृदे १, १२७;
-मुभ्यः आथ्री ८, ८, ४; शांथ्री
१०, ५, २३क^f; आमिगृ १, २,
२ : ११; वीथ्री ३, ९, ३; वीपि
३, ५, २; मागृ ३, ९ : ११; हिगृ
२, १९, १; ऋध्नु २, ४, ३३;
३, २४; -ऋधुवः^१ आपथ्री
३, ११, २; माथ्री ३, १०, २;
हिथ्री २, ६, ९; -ऋधुवाम् काथ्री
४, ९, ३; आपथ्री ५, ११, ७;
वीथ्री २, १६ : ४८; ७, ४२ :
१५; माथ्री ५, ६, ७; वाथ्री
१, ४, ३, १; वैथ्री १, ११ :

९; हिथ्री ३, ४, १०; साध्नु
१, २५७; २५८; या ९, ३; -भृन्
आमिगृ २, ५, ३ : ३११; वीथ्री
३, ७, २१; -भोः या ११, १६.
धार्भव^२- -वः शांथ्री १४,
२४, २; ३३, ५; ६१, ६;
वीथ्री ८, ११ : ८४४; वाधुथ्री;
निस् ९, १० : ३६^m; -वम् आथ्री
८, ८, ८; १२, २४; शांथ्री ८,
३, १४; १०, ८, १८; ११, २, ९;
५, ४; ६, ७; ७, ९; १८, २२,
६; माथ्री २, ५, १, २०; हिथ्री
९, ३, ३५; ऋध्नु २, १, २०;
११०; १६१; ३, ६०; ४, ३३;
७, ४८; वृदे ४, २७क^f; ५, १;
१७५; ६, १०८; -वस्य शांथ्री
१४, ५६, ८; माथ्री २, ५, १, २३;
३, ७, ५; अप्राय ६, ४; -वात्
आपथ्री १३, ११, १; १७, २३,
२; हिथ्री १०, ५, ६; -वान्^३
जुस् ३, ११ : १२; -वाय वैथ्री
१६, १२ : १७; -वे आथ्री ५,
१७, ४; शांथ्री ६, ८, १२; आपथ्री
२२, ७, २४; वीथ्री १४, ५ :
१४; ६ : ६; माथ्री ३, ७, ६;
वैथ्री २१, १३ : ७; हिथ्री १५, ६,
४४; १७, ३, २३; जैथ्री; निस्
४, ७ : ४; ६, २, २२; ७, ५ : ३१;
-वेण शांथ्री ८, १, ९; द्राथ्री ६,
२, ४; १०, ३, ३; लाथ्री २, १०,
४; -वेषु क्षुस् २, १२ : ५;
१२; १९; २७.

धार्भवी- -वी ऋध्नु २,

a) विप. । मलो. वस. । b) पाभे. वैप २, ३ खं. द्र. । c) विप. । व्तुः प्र. उसं. (पा ३, २, १४०) ।

d) स्वार्थे कः प्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, १०-१६ j द्र. । g) √रिष्, ऋष् इति [पक्षे] BPG. ।

h) पाभे. वैप १ परिः द्र. । i) ऋजीपप^४ इति पाठः ? यनि. शोधः । j) < √रिष् । k) पाभे. वैप २,

३ खं. ऋधुभिः तैत्रा २, ५, ८, ३ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १ परि. ऋभवः ऋ १, ११०, १ टि. द्र. । m) विप.

नाप. (= साम-विशेष- L निस्. J) । n) पाठः ? इति शोधः (तु. मूको.) ।

वैपध-न्-३

हिश्रौ १०, २, ४११; २२, १, १३;
 जैश्रौ २५: ५; द्राश्रौ २, २, ४६;
 १३, १, १६; लाश्रौ १, ६, ४३;
 ५, १, १४; ७, १, ७; ९, ४, २०;
 वैताश्रौ ३९, १८; निसू ६, ३:
 २२; माशि १, ९; नाशि १, २,
 ११; -भेण आश्रौ ९, ७, ३०^०;
 आपश्रौ १०, २५, १४; २२, १२,
 ११; भाश्रौ १०, १७, ७; माश्रौ
 ६, १, ८, १०; हिश्रौ ७, २, ६८^१;
 १७, ५, १९; ३०; लाश्रौ ९, ४, १;
 आमिश्र १, ५, ५: १४^१; ६, ३:
 ६६; २, ७, ६: ३३; हिय १,
 २५, २^१; कौसू २४, २२;
 अत्राय ५, ६; ऋश्र २, १०,
 १०२, -भेषु काश्रौ ४, ४, ११.
 भार्पभ^० - भम् वौश्रौ १६, २०:
 ३; १८, ३: २; ७; जैश्रौ २५: ५;
 द्राश्रौ २, २, ४६; लाश्रौ १, ६,
 ४३^०; ६, ११, ४; वाध १७, ८;
 अश्र ९, ४; -भेण वौश्रौ १६,
 २०: १०; लाश्रौ ३, ११, २;
 अष १, २७, २.
 भार्पभ-स्तोत्रीय- -यम्
 निसू ६, ४: १२.
 भार्पभ्य- पा ५, १, १४.
 ऋषभ-गोसव- -वौ काश्रौ २२,
 ११, ३.
 ऋषभ-चर्मन्- -र्म आपश्रौ २०, २०,
 १; २२, २५, ५; वाश्रौ ३, ४, ५, ५;
 हिश्रौ १४, ४, ४२; २३, ४, ३;
 माश्र २, १४, २६.
 ऋषभ-तर- पा ५, ३, ९१.
 ऋषभ-दण्डन्^० - -ण्डनः कौसू

२४, ९.
 ऋषभ-धैवत- -तौ शैशि १७४;
 पाशि १२; याशि १, ७; नाशि
 १, ८, ८.
 ऋषभ-पूजा- -जा गोश्र ३, ६, ११.
 ऋषभ-प्रतिरूप- -पा: लुसू २, २:
 २.
 ऋषभ-प्रभृति- -ति: हिश्रौ १२,
 १, ७; २०; २९; -तीनि हिश्रौ
 ११, ८, २२.
 ऋषभ-रूप- -पम् शाश्रौ १४,
 २३, २.
 ऋषभ-वत् नाशि १, ५, ८.
 ऋषभ-व(त् >)ती- -ती शाश्रौ
 १४, २३, ४.
 ऋषभ-वेहत्- -हतौ वाध २१, २२.
 ऋषभ-पोड(श >)शा- -शा: गौध
 २८, १५.
 ऋषभ-सहस्र- -सम् काश्रौ २२,
 ११, ५.
 ऋषभा(भ-अ)दि- -दि: आपश्रौ
 १७, १, १०; २, ७; १३.
 ऋषभा(भ-अ)धिक^० - -कम् काश्रौ
 २४, ५, २८.
 ऋषभै(भ-ए)कश(त् >)ता^० - -ता:
 वौश्रौ १६, २९: ६; गौध २२,
 १६; -तानाम् आश्रौ १२, ६,
 ३२.
 ऋषभै(भ-ए)कसह(त् >)त्ता^० -
 -त्ता: गौध २२, १४.
 ऋषभै(भ-ए)कादश, शा^० - -श सुध
 ३६^१; -शम् वौध ४, ४, १०^०;
 -शा: वौश्रौ १६, २९: ६;
 गौध २२, १८; वाध २४, ७^०.

ऋषभै(भ-ए)काधिक^० - -कम् वौध
 १, १०, २१.
 ऋषभो(भ-उ)क्त- -क्तम् निसू ७,
 १०: ८.
 ऋषभो(भ-उ)स्थित-पड्ज- -हत-
 -त: नाशि १, ४, ५.
 ऋषभव्युपा निसू ६, १०: १०.
 ऋषि^१ - पाड ४, १२०; पाग ४, ४,
 ६२^१; -पय: आश्रौ ५, ६, १, ७;
 ११; शाश्रौ; या १, २०; २, ११;
 ४, ३^१; २७; ७, ४; ११, १७^१;
 १९; २३; १२, ३६; ३७^१;
 ३८^१; १४, १५; १९^१;
 -पये वृदे ५, ५८; ६, ६०;
 ६६; -वि: आश्रौ ४, ७, ४^२;
 १२, ९, १८; शाश्रौ; आपश्रौ
 ४, १०, ४^१; भाश्रौ ४, १५, ३^१;
 विध ४८, ६^१; अश्र ८, २^१; ऋया
 २, ११^१; २४; ३, ११; ४,
 १५; १६; १९; ५, २; ६, २५; ७,
 १; १३; ९, २३; १०, ५; ३२; ४२;
 १३, १२; १४, १३^१; -विणा
 आश्रौ २, ३, २५^१; ऋषभै
 १६, २८, १^१; २४, ५, ४; ऋश्रौ
 १८, २०: १४; २१; ऋश्रौ
 ११, ७; ६५^१; २१, ३, ४; कौश्र
 २, ४, १६; ऋश्र १, २, २७; वृदे
 ३, ६८; १०९; साश्र २, ६५७;
 -विभि: ऋषभै १६, २६,
 ६ x ४; वैश्रौ; या ७, १६^१; पि
 ३, ९^१; -विभ्य: आश्रौ ८, १४,
 १८; वौश्रौ; पावा ४, १, ११४;
 -पिम् शाश्रौ १५, १९, १; वौश्रौ;
 या ४, १४; १३, १२; -पिषु वृदे

a) = एकाह-विशेष- । b) तस्त्रेदमित्याद्यर्थेषु प्र. । c) = साम-विशेष- । d) सप्त-उप- = वलीयस्- ।
 e) विप. । वस. । f) पाठः १ श्वाः इति श्लोकः (तु. गौध.) । g) सप्तः शम् <> श्वाः इति पाठे. । h) विप. ।
 नृस-उप- वंस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. पाका. । कृषि- इति भाण्डा. । k) पाठे. वैप १, १०२० d द्र. । l) श्लोकः
 वैप १, ८९८ b द्र. । m) पाठे. वैप १, १०२० f द्र. । n) व्यं० इति पाठः १ यन्ति. श्लोकः । o) = सप्तम्- ।

ऋषि-क्रम- -मेण वैगृ ३, २३: ११.
 ऋषि-गण- -णाः ऋय २, ९, ८६;
 साय १, ५६०; २, १०३^२;
 २४८; ३०८; ३८२; ३८३; ३८७.
 ऋषि-ग(त>)ता- -ताम् वृदे ७,
 ११२^b.
 ऋषि-गोत्र-प्रवर- -रान् वैषथ, १, १.
 ऋषि-च्छन्दस्- -न्दः निसू १, ६ :
 १८; ऋप्रा १६, ७; -न्दांसि
 ऋप्रा १६, ८; १५.
 ऋषि-च्छन्दस्^१- -सानि वाध्रौ ४,
 १००^२ : १३.
 ऋषि-च्छन्दो-देवता(त-या)दि-
 ज्ञान- -नम् वृदे ८, १३५.
 ऋषि-ण^d- -णः या १४, १३^२.
 ऋषि-तसः(ः) अप १, ३९, ५;
 ४१, ६; अशां ९, ५; ११, ६९.
 ऋषि-त्व- -त्वम् जैगृ २, ८ : २६;
 वौध ३, ९, १९; या २, १११^१;
 ऋषि-दर्शन- -नम् निसू ५, ५ :
 २७; -नात् वौश्रौप्र ५४ : ११.
 ऋषि-देवता- -तयोः पा ३, २,
 १८६.
 ऋषि-दैवत-च्छन्दस्- -न्दांसि कौगृ
 २, ४, १७; शांगृ २, ७, १९; ऋय
 १, १२, ३; शुय १, १; अयभू
 १; ८, १.
 ऋषि-नामधेय- -यम् वौश्रौ २४,
 ३८ : ७.
 ऋषि-नामन्- -मसु जैश्रौका ८७.
 ऋषि-निकेतन- -नानि वौध ३, १०,
 १३.
 ऋषि-निर्वचन- -नाय या १४, ३१.
 ऋषि-निवास- > ष-गोष्ठ-परिष्क-

न्दा, न्व-]- -न्दा^१: गौध १९,
 १५; -न्दा^२: वाध २२, १२.
 ऋषि-पत्नी- -त्नीः वैगृ १, ४ : १७;
 वौध २, ५, २७^१; -त्नीम् शंघ
 ११६ : ३२; -न्त्यः वैगृ १,
 ७ : १.
 ऋषि-पुत्र- -त्रम् वृदे ५, ६३;
 -त्राणाम् चाय ४ : ९; ४१ :
 ३; -त्रान् आयिगृ २, ६, ३ :
 ३८; शंघ ११६ : ३२; वौध
 २, ५, २७^१; -त्रौ वृदे ४, ११.
 ऋषि-पुत्रिका- -कायाम् अप २४,
 १, १.
 ऋषि-पुत्री- -त्रीः आयिगृ २, ६,
 ३ : ३८; -त्र्याः या ५, २.
 ऋषि-पौत्र- -त्रान् वौध २, ५,
 २७^१.
 ऋषि-प्रतिषेध- -धः पात्रा ६, २,
 १६५.
 ऋषि-प्रशि(ष्ट>)ष्टा^१- -ष्टा कौसू
 ६०, ३४; ६१, ३३.
 ऋषि-प्रोक्त-मन्त्रादि-शब्द-स्वर-
 ज्ञाना(न-अ)र्थ^१- -र्थः अप्रा
 १, १, ३.
 ऋषि-वन्धु^१- -न्धवे आयिगृ २, ३,
 ५ : २०^१.
 ऋषि-मुख^१- -खानि पागृ २, १०,
 १९.
 ऋषि-वाक्य- -क्यम् वृदे १, १३.
 ऋषि-विद्वन्-नृप- -पाः वौध २,
 ३, ५७.
 ऋषि-विद्वन्-नृप-वर-मातुल-श्चक्षुर-
 (र-ऋ)त्विज- -त्विजः वौध २,
 ३, ५६.

ऋषि-श्रेष्ठ- -ष्टम् वृदे ७, ५५.
 ऋषि-स्तु(<स्तु)व^१- -तः आश्रौ
 १, ३, ६; शाश्रौ १, ४, १९.
 ऋषि-संयुक्त- -क्तम् भागृ १, १२ :
 ७.
 ऋषि-संसद्- -सदि वृदे ४, १३३.
 ऋषि-संस्तुत- -तः वाध २३, ४७.
 ऋषि-सत्तम- -मः वृदे ४, ७८; ५,
 १५१.
 ऋषि-सतरात्र^१- -त्रम् आश्रौ १०,
 ३, ६.
 ऋषि-सु(त>)ता- -ता शुय २,
 २७९.
 ऋषि-सूक्त- -क्तम् वृदे १, १४.
 ऋषि-सृष्टि-प्रतिपा(दक>)दिका-
 -काम् शुय ४, ३३.
 ऋषि-स्तोम^१- -माः आश्रौ ९, ८,
 २५; शाश्रौ १४, ६३, १.
 ऋषि-स्वाध्याय- -धे शांगृ २, ७,
 २७^१; -धेन कौगृ २, ४, २३^१.
 ऋ(षि>)षी-वत्^१- -वः ऋप्रा
 ९, २४^१.
 ऋषी(षि-इ)ष्टका^१- -काः आपश्रौ
 १६, ३१, १; वैश्रौ १८, २० :
 ५८.
 ऋष्य(षि-अ)णूक- -कम् वौगृ २,
 १, २८.
 ऋषि-पेण- ऋषिपेण- टि. द्र.
 ऋषि^१- -ष्टयः माश्रौ ५, १, ७, ९;
 -ष्टिः या ६, १५; -ष्टिभिः
 वैताश्रौ ३१, २७.
 ऋषि-मत्^१- -मद्भिः या ११, १४^१;
 ऋषि-पेण^१-[पाग.]>आर्षिपेण^१-
 पा ४, १, १०४^३; ११२; -०ण

a) षिर्ण^० इति पाठः ? यनि. शोधः । b) पूर्वेषु संघिरार्षः । c) पस. समासान्तपृ ट्च् प्र. (पावा ५, ४, १०३) । d) विप. । मत्वर्थायः नः प्र. उंसं. (पा ५, २, १००) । e) परस्परं पाभे. । f) वैप १ द्र. । g) विप. (पद-विभाग-) । त्स. > कस. > दस. > पस. > वस. । h) वस. उप. = प्रारम्भ- । पूष. = ऋषि-मण्डल- । i) = अर्हान-विशेष- । j) = एकाह-विशेष- । k) परस्परं पाभे. । l) = इष्टका-विशेष- । m) षि^० इति पासि. ।

एकारोकारा(र-अ)न्त^०-

न्तात् शौच ३, ५३.

ए-कृत-निघन^०- नम्, -नस्य लुप् ३, १० : २०.

ए-त्व- -त्वम् पावा १, १, ५७; ७, ३, १०३.

ए-त्व-वचन- -नम् पावा ६, १, १; ४, १२०.

ए-त्व-विज्ञान- -नस्य पावा ६, ४, १२०.

ए-त्वा(त्व-अ)भाव- -वः पावा ६, ४, १२०.

ए(आ√इ), आयति आमिष्ट ३, ५, ६ : ३^१; ऋणसि आपथौ ३, १४; २; माथौ ३, १२, १; हिथौ २, ६, ३४; भाग्य २, २८ : १७; ऋण (अयत्)^० आपमं २, १५, ४^२; आग्य २, ८, १६^३; आमिष्ट २, ४, १ : १५^३; १६; काग्य ११, २^३; भाग्य २, ३ : ८^३; ९; हिग्य १, २७, ४^३; ऋणः अयन्^० आपमं २, १५, ४; आग्य २, ८, १६; आमिष्ट २, ४, १ : १६; काग्य ११, २^३; भाग्य २, ३ : ९; हिग्य १, १७, ४; वा (अयन्) आपमं २, १५, ४^३.
पुति वीथौ १, २ : २२; ५ : २५ × ×;
वैथौ; ऋणः एति भाग्य २, ७, ५;
आयन्ति शांथौ ८, ८, ९; १४, १४,

१; काथौ; या ४, १५; ऋणसि पाग्य १, ४, १५; आमिष्ट ३, ५, ६ : ७; वीथि १, ४ : २३; ऋणसि आपथौ^० ६, २७, ३; १६, १६, ४; वैथौ १८, १४ : १२^३; हिथौ ११, ६, १४^३; कौग्य ३, ४, ५^३; शांथ ३, ७, २^३; भाग्य २, ५ : १०; अय १३, ४, ३^३; शुभा ३, १५०^०; ऋणसि आपथौ ६, २७, ३; हिथौ ६, ७, ८; शांथ ३, ७, २; भाग्य १, २७ : २; ९; हिग्य १, २९, १; ऋणसि आपथौ ५, ५, ८ × ×; शांथौ ८, १०, १^३; काथौ २५, ५, २८^३; वीथौ ९, ३ : ३^३; १९, १० : ५२^३; वैताथौ १८, ४^३; आपमं १, ४, ७^३; आग्य १, १३, ६^३; २, ९, ५^३; ३, ६, ८^३; पाग्य १, ५, ११^३; आमिष्ट २^३, ७, ५ : ६; १५; काग्य २८, ४^३; वीग्य १, ४, २०^३; भाग्य १, १४ : १^३; भाग्य १, ३, १^३; २^३; वैग्य ३, ३ : ४^३; हिग्य १, २७, ४^३; १९, ७^३; गोग्य ३, ३, ३२^३; जैग्य १, २० : ६^३; कौसू^३ ९, २; ४५, १७; ५४, २; ५७, ८; ६६, २; अयाय^३ १, ४; ६, ५; ९; अय^३ ३२, १, २६; ३७, ४, २; ८, २; १३, १; २०, १; अय ७, ६७^३; इया^३ ३, ३; ८, १३;

आः एतु आथौ ३, ८, १; शांथौ १६, ११, २४, आपथौ; वीथौ ९, ३ : ३^३; आग्य १, १३, ६^३; ऋण (एतु) शांथौ ४, २०, २; ६, १०, ७; ११, १०; ८, ६, ३; माथौ ५, १, ७, २; आग्य ४, ८, २३; कौग्य; एतात् वीथौ १८, ४७ : १२^३; १४^३; ऋणयन्तु आपथौ १, ७, १३^०; १०, १२, ४; वीथौ ३, १५ : ९; माथौ; वीग्य २, ६, १३^०; कौसू ५६, १७^०; ऋणः यन्तु आथौ ५, १८, ५; काग्य ६३, ४; वीग्य १, ३, ३५; २, ६, १०; कौसू १९, १४; अय २, २६; ऋणः (यन्तु) शांथौ ८, ३, १६; ऋण २, १, ८९; वृद्धे ३, १२२^३; युग्य ३, ५०; ऋणसि आपथौ २, ८, ७ × ×; शांथौ; आपथौ ९, २, ३^३; १९, १४, १४^३; माथौ ९, ३, १^३; हिथौ १५, १, ४१^३; २३, ३, १२^३; आपमं २, १, १^३; आग्य १, ७, ६^३; १७, ६^३; कौग्य १, ८, २०^३; शांथ १, १३, १२^३; पाग्य १, ५, ११^३; ६, ३^३; २, १, ६^३; ३, १, ३^३; काग्य २५, २७^३; २८^३; ४०, ९^३; ४१, ८^३; वीग्य १, ७, ४२^३; २, ४, ८^३; भाग्य १, २० : २^३; भाग्य १, २२,

a) विप. । वस. । b) नाप. (सामन्-) । वस. पुप. = ए-कार- । c) सपा. शौ ३, १२, ७^३ आ- (अगात्) इति पाभे. । d) पाभे. वैप १, ६२७ ८ द्र. । e) अयम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाग्य. हिग्य.) । f) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. । g) पाभे. वैप १, १०२४ i द्र. । h) सपा. एतु <> त्रैतु इति पाभे. । i) पाभे. वैप १ परि. एतु खि २, ११, १ टि. द्र. । j) एतु इति जीसं. । k) पाभे. वैप १, ६२४ a द्र. । l) एतु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. B.N.) । m) सपा. वीथौ ९, २ : ८ प्र एतु इति पाभे. । n) आः एतु इति आन. ? । o) पाभे. पृ. ४८६ f द्र. । p) पाभे. वैप २, ३३. आयन्तु तैत्र्या ७, ४, ३ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १, ७९९ k द्र. । r) पाभे. वैप २, ३३. एहि तैत्र्या ३, ११, ९, ८ टि. द्र. । s) पाभे. वैप १, १०२५ l द्र. । t) पाभे. वैप १, १०२५ j द्र. । u) पाभे. वैप १ वि-भाहि काठ २, १५ टि. द्र. ।

आश्रौ २२, १०, ८; आपश्रौ २४,
५, १५, १६; वौश्रौप्र ५: ४;
हिश्रौ २२, ३, ७; वैष ४, २, ३;
-गः वृदे ७, १५५; ऋञ्च २,
१०, ९८; या २, १०; ११११; ११;
-गत्व या २, ११; -णाः वौश्रौप्र
१: ३; ५: १; ३; ५; -णान्
आश्रौ २२, १०, ८; आपश्रौ
२४, ५, १५; हिश्रौ २२, ३, ७;
वैष ४, २, ३.
ऋषिपिण-वत् आश्रौ २४, ५,
१५; १६; हिश्रौ २२, ३, ७;
वौश्रौप्र ५: ४; वैष ४, २, ३.
ऋषिपिण-सुत- -तः वृदे ७,
१५६.

ऋष्य^१- पाठ ४, ११२; -प्यः सात्र
१, ६२५^१; -प्याच् शश्रौ ८,
२५, ११०.

साव्याचिगि-, ऋष्यक-^१

ऋष्य-ऋञ्च- -ऋः ऋञ्च २, १०,
१३६.

ऋष्य^१- पाठना १, १४२; -०प्य
आमिष्ट २, ७, ३: ४; २, १०, ३:
१२; -प्यः अप ४८, ६८; निष
३, ३; ऋप्रा ६६, ६३; -प्या^१
वाश्रौ १, १, ६, ६; या ७, ६.

✓ऋह्, ऋह्व- ✓ऋह् द्र.

ऋ

ऋ^१, ऋ^२ शुभ्रा ८, ३.

ऋ-कार-> र-गुण-प्रतिषेधा

(घ-ञ्)र्ष- -र्षम् पावा ३, २,
१७१.

ऋकार(र-ञ्)न्त-गुण-प्रतिषेधा

(घ-ञ्)र्ष- -र्षम् पावा ३,

२, १०७.
ऋ-वाचन- -नम् पावा ६, १, ९९.
✓ऋ^१ पावा. ऋया. पर. गतौ ।

ऋ

ऋ^१ शुभ्रा ८, ३; याशि २, ९४; पाग
१, ४, ५७.

ऋ-कार- -रः ऋप्रा २३, ३५; शुभ्रा
४, ६१; ८, ३५; पाशि ५; भाशि
२५; -रत् ऋप्रा २४, ४५; -रत्त्व
याशि २, २३; -रे याशि २, १९.

ऋकार-वर्जम् शुभ्रा १, ८७.
ऋ-नु-ल-स- -साः पाशि १७; आशि
१, १५.

ऋ-ल-सि-त- -ताः शुभ्रा १, ६९.
ऋ-वर्ण- -र्णः ऋप ४७, १, २०;
-र्णम् शौच १, ३९; -र्णस्व आशि
६, ४; -र्णे शुभ्रा ४, ११४.
ऋवर्ण-त-य-य-ध-न-ल-कार-
सकार- -राः याशि २, ९४.

ऋ

ऋ^१, ऋ^२ शुभ्रा ८, ३; याशि २, ९४.

ए

ए^१ शुभ्रा ८, ५; याशि ४४; पाशि १९;
आशि ३, ८; पाग १, ४, ५७.

ए-इ-कार(र-ञ्)न्त- -न्ताः
भाशि ११४.

ए-कार- -रः अप ४७, ३, ४; उस् ७,
६; तैप्रा २, ११; ऋप्रा २, १, २;
शौच १, ७६; ९७; ३, ४४; याशि
२, ९४; याशि १४; -रम् ऋप्रा
२, १६; १८; उस् ७, २; शुभ्रा ४,
५४; तैप्रा १०, ४; वृदे ८, ८५;

-रात् ऋप्रा ५, १; ऋप्रा ३, १,
१६; -रे तैप्रा २, १५; २३;
-रेण ऋप्रा ५, ८; शुभ्रा ४, २.
एकार-लोकार-पूर्व- -र्वः तैप्रा
११, १.

एकार-चकारवर्ण- -नौ ऋप्रा
१, ४२.

एकार-रेफ-पृतनो(ना-उ)प(घ-
>)घ- -घः ऋप्रा ५, २२.

एकार(र-ञ्)दि- -दौ ऋप्रा १,
१, ९.

एकार(र-ञ्)न्त^१- -न्तम् ऋप्रा
२, ६१; शुभ्रा ७, ७; -न्तात् ऋप्रा
२, ३, ७; ३, १, २१; -न्तामि
श्रप्रा २, ३, १७.

एकारान्त-त्व- -त्वम् पावा
४, ३, २३.

एकारान्त-निपातन- -नम्
पावा २, १, १८.

एकारान्त-प्रस्ताव- -वम्
लाश्रौ ७, २, १.

एकार(र-ई)कार- -रौ तैप्रा ४,
८.

एकार(र-ई)कारो(र-ऊ)कार-
-राः शुभ्रा १, ९३.

एकार(र-ऐ)कार- -र्योः शौच
३, ५०; -रौ हिश्रौ २१, २, ६२.

एकार(र-पर)कार- -रः तैप्रा
१०, ६.

एकारौ(र-ओ)कार- -र्योः शौच
१, ३४; पाशि २०; याशि २,
२०; -रौ वाश्रौ १, २, ७; शौच
३, ५५.

एकारौकार-पर^१- -रः ऋप्रा
२, ६२.

a) यप्रा. । व्यु. १। b) = ऋषि-विशेष- । c) = ऋग-विशेष- । d) वृ ७७८ b, j टि. द्र. ।
e) वैष १ द्र. । f) = रिन्व- (तु. पाठ १, १५३) । g) पाभे. वैष १, ८६९ ० द्र. । h) = वर्ण-विशेष- ।
i) यत्. > पत्. > पत्. । j) पा ७, ३, ८० पराच्छः द्र. । k) विप. । वत्त. ।

एकारौकारा(र-अ)न्त^३-

न्तान् शौच ३, ५३.

ए-कृत-निधन^३- नम्, -नस्य लुस्
३, १० : २०.

ए-त्व- -त्वम् पावा १, १, ५७; ७, ३,
१०३.

ए-त्व-वचन- -नम् पावा ६, १,
१; ४, १२०.

ए-त्व-विज्ञान- -नस्य पावा ६,
४, १२०.

ए-त्वा(त्व-अ)भाव- -वः पावा ६,
४, १२०.

ए(आ√इ), आयति आमिष्ट ३, ५, ६ :
३१; ऋणायसि आपथौ ३, १४;
३; भाथौ ३, १३, १; हिथौ २,
६, ३४; भाग्य २, २८ : १७;
ऋणायसि^३ आपमं २, १५,
४^३; आग्य २, ८, १६^३; आमिष्ट २,
४, १ : १५^३; १६; काग्य ११, २^३;
भाग्य २, ३ : ८^३; ९; हिग्य १,
२७, ४^३; ऋणायसि^३ आपमं
२, १५, ४; आग्य २, ८, १६;
आमिष्ट २, ४, १ : १६; काग्य
११, २^३; भाग्य २, ३ : ९; हिग्य
१, १७, ४; वा (अयन्) आपमं
२, १५, ४^३.
एति वौथौ १, २:२२; ५:२५××;
वैथौ; ऋणायसि^३ एति माग्य २, ७, ५;
आयन्ति शांथौ ८, ८, ९; १४, १४,

१; काथौ; या ४, १५; ऋणायसि
पाग्य १, ४, १५; आमिष्ट ३, ५, ६;
७; वौथि १, ४ : २३; ऋणायसि
आपथौ^३ ६, २७, ३; १६, १६, ४;
वैथौ १८, १४ : १२^३; हिथौ
११, ६, १४^३; कौग्य ३, ४, ५^३;
शांथ ३, ७, २^३; भाग्य २, ५ : १०;
अप १३, ४, ३^३; शुप्रा ३, १५^३;
ऋणायसि आपथौ ६, २७, ३; हिथौ
६, ७, ८; शांथ ३, ७, २; भाग्य १,
२७ : २; ९; हिग्य १, २९, १;
ऋणायसि आथौ ५, ५, ८××; शांथौ
८, १०, १^३; काथौ २५, ५, २८^३;
वौथौ ९, ३ : ३^३; २९, १० :
५२^३; वैताथौ १८, ४^३; आपमं
१, ४, ७^३; आग्य १, १३, ६^३;
२, ९, ५^३; ३, ६, ८^३; पाग्य १, ५,
११^३; आमिष्ट २^३, ७, ५ : ६;
१५; काग्य २८, ४^३; वौग्य
१, ४, २०^३; भाग्य १, १४ : १^३;
माग्य १, ३, १^३; २^३; वैग्य ३,
३ : ४^३; हिग्य १, २७, ४^३; १९,
७^३; गोग्य ३, ३, ३२^३; जैग्य १,
२० : ६^३; कौसू^३ ९, २; ४५,
१७; ५४, २; ५७, ८; ६६, २;
अप्राय^३ १, ४; ६, ५; ९; अप^३
३२, १, २६; ३७, ४, २; ८,
२; १३, १; २०, १; अग्र ७,
६७^३; ?या^३ ३, ३; ८, १३;

वा... एतु आथौ ३, ८, १;
शांथौ १६, ११, २४; आपथौ;
वौथौ ९, ३ : ३^३; आग्य १, १३,
६^३; ऋणायसि (एतु) शांथौ ४,
२०, २; ६, १०, ७; ११, १०;
८, ६, ३; माथौ ५, १, ७, २;
आग्य ४, ८, २३; कौग्य; एतात्
वौथौ १८, ४७ : १२^३; १४^३;
ऋणायन्तु आपथौ १, ७, १३^३;
१०, १२, ४; वौथौ ३, १५ :
९; भाथौ; वौग्य २, ६, १३^३;
कौसू ५६, १७^३; ऋणायन्तु
आथौ ५, १८, ५; काग्य ६३, ४;
वौग्य १, ३, ३५; २, ६, १०; कौसू
१९, १४; अग्र २, २६; ऋणाय-
(यन्तु) शांथौ ८, ३, १६; ऋग्र
२, १, ८९; वृद्धे ३, १२२^३; शुग्र
३, ५०; ऋणायसि आथौ २, ८,
७××; शांथौ; आपथौ ९, २,
३^३; १९, १४, १४^३; भाथौ ९,
३, १^३; हिथौ १५, १, ४१^३;
२३, ३, १२^३; आपमं २, १,
१^३; आग्य १, ७, ६^३; १७, ६^३;
कौग्य १, ८, २०^३; शांथ १, १३,
१२^३; पाग्य १, ५, ११^३; ६, ३^३;
२, १, ६^३; ३, १, ३^३; काग्य २५,
२७^३; २८^३; ४०, ९^३; ४१, ८^३;
वौग्य १, ७, ४२^३; २, ४, ८^३;
भाग्य १, २० : २^३; माग्य १, २२,

a) विप. । वस. । b) नाप. (सामन्-) । वस. पूव. = ए-कार- । c) सपा. शौ ३, १२, ७^३ आ-
(अगात्) इति पाभे. । d) पाभे. वैप १, ६२७ C द्र. । e) अयम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाग्य.
हिग्य.) । f) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. । g) पाभे. वैप १, १०२४ i द्र. । h) सपा. एतु <>
प्रेतु इति पाभे. । i) पाभे. वैप १ परि. एतु खि २, ११, १ टि. द्र. । j) एतु इति जीसं. । k) पाभे.
वैप १, ६२४ a द्र. । l) एतु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. B.N.) । m) सपा. वौथौ ९, २ : ८ प्र... एतु
इति पाभे. । n) वा... एतु इति आन. ? । o) पाभे. पृ ४८६ f द्र. । p) पाभे. वैप २, ३३. आयन्तु
तैत्र्या ७, ४, ३ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १, ७९९ k द्र. । r) पाभे. वैप २, ३३. एहि तैत्र्या ३, ११, ९, ८
टि. द्र. । s) पाभे. वैप १, १०२५ l द्र. । t) पाभे. वैप १, १०२५ j द्र. । u) पाभे. वैप १ वि-भाहि
काठ २, १५ टि. द्र. ।

१२^a; हि० १,२०,२^b; जै० १,
११:९^c; २१:१५^d; कौ० ५४,
८^e; ७४,१९^f; अ० ४, ६^g;
अ० २, १३^h; या १०, १८ⁱ;
१२, २८; पा ८,१,४६; ऋ०
इहि आ० ५, १४, ५; शां०
७,१९,१०; भा(इहि) शां० १,
१३, ४^क; ऋ० ७,९,
१०; आप० १०,२८,१; वौ०
२,१५: ८; ६,१५: २७; मा०
मा० १, १०, १६^ल; ऋ०
> ता,तो(त-उ) आ० ७, ८,
२; ९, ८, १३; शां०; का० ९,
३,३^म; आप० ३, ४, २^न; वौ०
७, ३: ८^व; भा० ३, ४, २^व;
मा० १, १, २, १२^ब; २, ३, २,
९^व; वै० ७, ३: ७^व; हि० २,
३, ४१^व; ६, ३, ७; का० ६२, ४^व;
मा० २, १, १३^व; वै० १, ९:
१; गो० ४, ३, ४^व; गौ० २,
३, १०^व; ४, ९; कौ० ३, ३;
वि० ७२, १२^व; ऋ० २, १, ३, ३;
ऋ० ८, ३, २; ऋ० १०००००००
त>ता^व आ० ६, ४, १०;
शां० ९, १६, १; वैता० ३९,
७; ऋ० ८, ३, २; ऋ० (ए
[आ-इ] त>ता)^व ऋ० २, १,
५; सा० १, १६४; का० वि
वौ० १८, ४५: २; ए०
वौ० १४, २३: २२; २०,
२१: ९; वै० २०, ११: १;

हि० १५, २, १०; द्रा० ७,
४, १; ला० ३, ४, १; ८, ८,
३४; १०, १९, १२; द्रा० ४, १,
१७; या ५, २८^क; ए०
१०, ९, ५.

ए० शां० १५, १८, १; १९,
१^क; २०, १; २१, १; ए०
अ० १०, १^क.

का(आ-अ)य^म>०य-स्थान- -ने
जै० १, २३: ८; -ने०: पा
४, ३, ७५; पा० ४, २, १०४.

बा-यत्- -यते मा० ३, १, २५;
अ० ४, १; -यन् शां० २,
१४, ११; वौ०; -यन्तम्
शां० १८, २१, ६; वै० १८,
१: ५५^क; कौ० ४८, ७; या
५, १९^क; १४, २; -यन्ति नि०
४, १२: १५; ५, २: २३.

बा० -ती: आ० ५, १,
१०^क; आप० १, ११, १०;
वौ० १, ३: १५; भा० २,
१२, ३; मा० १, १, ३, ७; ६,
२, १७^क; वै० २, ६: १२;
हि० १, ३, १९; वैता० २१,
२४; आ० २, १०, ६; हि० १,
१८, २; गो २, १८; कौ० २१,
८; -ऋ० १५, २: ४;
१८, ८: ९; १६: ५; ४०: १८;
आ० २, २०, २७; पा० ३,
२, २; आ० ३, २, २: ७;
मा० २, २: ७; मा० २, ८,

४; हि० ३, १७, २; कौ०
६०, २६६; -तीषु शां० ६, ७,
७; -त्याम् शां० ५, १०, २.
बा०-गव- पा० २, १,
१७; -वे वौ० २, १४: २.
बा०-सम- पा० २, १,
१७.

२भा(आ-अ)यन्- -नात्^० आ० २,
५, २, १२.

१ए(आ-इ)त- -त: वौ० १८, ४७:
१५^क; -तम् वौ० १८, ४७:
१२^क; १५.

एत-तर- -र: या ३, १६.
ए(आ-इ)ति- -तय: ऋ० २,
७३^क.

ए(आ-इ)त्य आ० ३, ६, २७;
शां० ४, १२, ११; १४, ७, १;
१५, २०, १; का०.

ए(आ-ई)यि०- -यु० जै० का
१८: ७२.

ए०-पीणाम् या ४, १६^क.
एहि>०हि-कथ- , ०हि-द्वितीया-
०हि-पच- , ०हि-प्रकसा^०- , ०हि-
प्रवसा^०- , ०हि-यव- , ०हि-र्या-
हिरा- , ०हि-वाणिजा- , ०हि-
विघसा- , ०हि-स्वागता- पा०
२, १, ७२; ए० (हि-इ)ड^०-
पा० २, १, ७२.

ए०(हि-अन्त>)न्ता- -न्ता: गो
१, १७.

ऋ(आ-ए)तोस (:) आ० २, ५,

- a) पा०. वैप १, १०२५ j द्र.। b) पा०. वैप १, ७९९ k द्र.। c) पा०. वैप १, १०२५ l द्र.।
d) पा०. वैप २ स्योन्: तै ५, ७, २, ५ टि. द्र.। e) पा०. वैप १, ९३३ i द्र.। f) पा०. वैप २, ३खं. एत माश
३, ९, ३, १६ टि. द्र.। g) स्या. मा० १, ३, ३, १४ परीत इति पा०.। h) पा०. वृ ४८६ f द्र.। i) एतद्
इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. पा०. वैप १, १०२६ e, परि. च)। j) पा०. वैप १, ६८३ e द्र.। k) वैप १,
१०२६ f द्र.। l) पा०. वैप १, ६८४ c द्र.। m) वैप १ द्र.। n) पा०. वैप १, ६२५ h द्र.। o) पा०.
वैप १, १०२७ g द्र.। p) तु. पा०.। q) पाठ: ? इहेड- (सामन्-! वैप २, ३खं. द्र.) इति संभाव्येत, एतद्दु
वैप १ इहीड- इति यदुक्तम्, तद् चावि. स्यात् ?।

३; वौश्रौ ३, १३ : ४; माश्रौ १,
६, ३, ९; वाश्रौ १, ५, ४, २९.

ए(आ√ई), आ...इयाते या ५,
२८; ऋ...ईमहे आपश्रौ
१०, ८, १; भाश्रौ १०, ५, ६;
वौश्रौ ६, २ : २४; वैश्रौ १२, ७:
१६; हिश्रौ १०, २, १; माश्रौ
२, १, २, १८; शुश्र १, २४२;
आ(ईमहे) काश्रौ ७, ३, ४.

३ एक, का^१- पाज ३, ४३; पाग १, १,
२७; २, १, ५९^१; -क पा ६, ३,
६२^०; -कः आश्रौ २, ४, ३; ७,
५, २०××; शांश्रौ; गौपि २, ६,
५^१; या ३, ९०^१; -कम् आश्रौ
३, १०, ९^३; ६, ६, १××,
शांश्रौ; कौग ३, १४, १२^०;
१३^१; पा ८, १, ९; पावा १,
२, ६४; मीसू ५, ४, १८^१;
-कम्-कम्^१ आपश्रौ ५, २१, ७;
-कया आश्रौ २, १९, ३५; ५,
१८, ५; ७, १२, ४; शांश्रौ; या ५,
११^१; -कया-कया^१ आपश्रौ
१०, २४, ९; वौश्रौ; -कस्मात्
काश्रौसं ३४ : ३; ३; वाधूश्रौ;
-कस्मिन् आश्रौ ६, ६, ६; शांश्रौ;
-कस्मै आपश्रौ १४, २, २;
२०, १०, ७; १२, १०^१××;
वौश्रौ; -कस्य आश्रौ ९, ५, १६;
शांश्रौ; -कस्याः आश्रौ १२, ८,
३०; काश्रौ; -कस्याम् शांश्रौ ३,
१०, २××; काश्रौ; हिश्रौ १७,
५, ३१^१; -का आश्रौ २, १४,
६; ३, ७, ६; ४, २, १७××;
शांश्रौ; -का-का^१ आपश्रौ १७,

२६, ६; द्राश्रौ; -काः हिश्रौ
२२, २, ३; -कात् आमिष्ट २,
७, ७ : ९; शुप्रा; पा ५, ३,
५२; ९४; -कान् निस् ८, ७:
३०; -कानि वाधूश्रौ ४, २६^१;
१; -कासिः वाधूश्रौ ३, ९१ : ६;
-काम् आश्रौ ४, ७, ४××; शांश्रौ;
-काम्-काम^१ वैश्रौ १८, १२ :
१९; २० : १३; हिध २, २, ४;
-के आश्रौ १, ३, १३^३; २, २,
१××; शांश्रौ; -केन आश्रौ ८,
१, १०; १५; ३, १२××; शांश्रौ;
-केभ्यः आश्रौ ६, १०, १९; वृदे
८, ५९^१; अश्र १८, २^१;
-केपाम् काश्रौ ३, ७, २०;
४, १३, ७; आपश्रौ; -केपाम्
-केपाम^१ आमिष्ट २, ६, ३ : ६०;
-केपु शांश्रौ ३, १९, ८; कौसू
१५, ४; या २, २^३.

१ ऐक्य- -क्यम् याशि १, ९०.

एक^० पा ६, ३, ५९; ४, १२०.

एक-क- पा ५, ३, ५२.

एक-कनीयस्^१- -यःसु लाश्रौ ६, ७,
५.

एक-कपाल^१- -लः काश्रौ १, ९,
१२××; आपश्रौ; या ७, २४;
-लम् काश्रौ १९, ४, २; आपश्रौ;
-लस्य काश्रौ १९, ७, १४;
आपश्रौ ८, २०, १३; वौश्रौ ५,
८ : ३०; ३६; २०, २२ : १२;
भाश्रौ ८, ७, ११; ९, ८; १०, ९;
१४, ६; २३, ७; -लाः काश्रौ ४,
५, ३^३; वौश्रौ २३, १२ : १३;
द्राश्रौ १३, २, १०; लाश्रौ ५, ३, १;

-लान् काश्रौ ५, १०, १; आपश्रौ
८, १७, १; वौश्रौ ५, १६ : २^१;
२६, २१ : ३; भाश्रौ ८, २१, १;
९; माश्रौ १, ७, ७, १; ४; ५, २,
१, १; ३; वाश्रौ १, ७, ४, १३;
वैश्रौ ९, १० : ९; हिश्रौ ५, ५, १;
काग ५२, ७; गोग ३, १०, ११;
-लानाम् आपश्रौ २४, ३, ३८;
वौश्रौ २१, १ : २५; २७; ३२; २:
१; भाश्रौ ८, २१, ७; माश्रौ १,
६, ४, ६; हिश्रौ ३, ८, ८०; मीसू
७, १, २३; -लानि हिश्रौ १, १,
६०; -ले आपश्रौ ८, ७, १;
वौश्रौ २०, ८ : १९; २१, ५ :
२०; हिश्रौ ५, २, ५६; -लेन
काश्रौ १०, ८, २७; आपश्रौ ८,
२, १७; काश्रौसं २९ : ४; वौश्रौ
५, ३ : १२; ८ : २८; २१, १६ :
१२; भाश्रौ ६, १७, ९; माश्रौ
१, ६, ४, १९; ७, ४, २४; २, ५, ४,
२८; हिश्रौ ३, ८, ८०.

एककपाल-देवता- -ताभ्यः शांश्रौ
१४, ५, ७.

एककपाल-प्रभृति- -तीनाम्
काश्रौ २३, २, १८.

एककपाल-वत् वौश्रौ २८, ४:१४.

एककपाला(ल-आ)शय^१- -यस्य
माश्रौ १, ६, ४, २२.

एककपालै (ल ऐ) न्द्राश्र- -श्रौ
मीसू ७, १, २२.

एक-कर^१- -रः विध ५, ७८.

एक-करपाद^१- -दः विध ५, ४८;
७७.

एक-कर्ण^१- -र्णानाम् काश्रु ४, १०.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ ७५२ e द्र. । c) लुप्तविभक्तिको निर्देशः । d) सपा. एकः पिण्डः

<> एकपिण्डम् इति पाभे. । e) सपा. एकं पत्रित्रम् <> एकपत्रित्रम् इति पाभे. । f) सपा. एकमर्घ्यम् <>

एकामर्घ्यम् इति पाभे. । g) एवम् इति जीसं. श्रेयः । h) वैप १, १०२८ f द्र. । i) सप्र. ? एकस्याम् <>

एकार्द्धि इति पाभे. । j) विप. । वस. ।

एक-कर्मन्^a - र्मणि काश्रौ १, ५,
११; १०, ११; काय २५, २५;
२६; मीस् ८, १, २६; १२, ३, ९.
एककर्म्य^b - र्म्यम् मीस् २,
४, ११६; ६, १, १७; ३, १२; ११,
१, १; ६; ४, ५०; - र्म्यात् मीस्
३, १, ११; ५, २, ११; ८, २, २५;
१०, ४, ३५; ५, ८२; ६, ६३; ११,
२, ११; - र्म्ये मीस् २, ४, ३२.
एककर्म-त्व- - त्वम् मीस् ११,
४, ४३; - त्वात् मीस् ५, ४, १२^d;
१०, ६, ६५.
एककर्म-वत् मीस् ९, ३, ३३.
एक-कल्प^e - ल्पानाम् काश्रौ १, ६,
१४.
एक-काम- - मः आपश्रौ ३, १४, ९;
१०, २, १; वौश्रौ १९, १० : ६२.
एक-कार्य- > ० र्य-त्व- - त्वात्
मीस् ५, २, ५.
एककार्या(र्य-अ)र्य-साध्य-
त्व- - त्वात् कप्र १, ९, ८.
एक-काल- - लम् शंघ ३, ८७; विध
५५, २; - ले हिश्रौ ८, ७, ५०;
वैध ३, ६, ९.
एककाल्य- - ल्यम् मीस् ५,
४, २४.
एककाल-त्व- - त्वात् मीस् ११,
२, १८; २३.
एककाला(ल-आ)हार^e - रः शंघ
३७९ : ३.
एककालिक^f - - कम् विध २८,
५०; - काः वैध १, ८, १.
एक-ऋतु- - तौ द्राश्रौ ५, ४, २७;
लाश्रौ २, ८, २७.

एक-कलीतक^g - - केन आगृ ३, ८, ८.
एक-खुर^e - - राः आपध २, १६, १६;
हिध २, ५, १६; - राणाम् लाश्रौ
९, ४, ८.
एकखुरो(र-उ)न्-गवय-ग्राम-
सूकर-शरभ-गो- - गवाम्
आपध १, १७, २९; हिध १, ५,
६१.
एक-ग(ण>)ग^e - - गाः वौश्रौ १८,
२१ : ३; २६, ३२ : १५.
एक-गत्य(ति-अ)र्थ- - र्थम् पावा ६,
२, ४९.
एक-गु^e - - गुना वैताश्रौ २४, २०.
एक-गुग^e - - गः आज्यो ७, २१;
- गम् शंघ ११४.
एक-गृह- - हे वाध ३, ९.
१ एक-गोत्र- > ञ्रो(त्र-उ)त्पन्न-
- न्नाः वैध ४, ८, ५.
२ एक-गोत्र^e - - न्नाः शंघ २९१.
एक-गो-पूर्व- - र्वात् पा ५, २,
११८.
एक-ग्रन्थि^e - - न्थिम् माश्रौ १, ३,
१, ३.
एक-ग्रह- - हाय आपश्रौ १२, ७,
१०; ८, ५; ९, ८; वैश्रौ १५, ९ :
१; ११ : ७; हिश्रौ ८, २, ६; ३०;
३, ४.
एक-ग्राम- - पाग ४, २, १३८.
एकग्रामीण^h - - णः वाध ८, ८;
- णम् कौश्र ३, १०, ३५; शांघ
२, १६, ३; विध ६७, ३५.
एकग्रामीय- - पा ४, २, १३८.
१ एक-चक्र- > ञ्का(क-अ)पहरण-
- णे शंघ ३२४.

२ एक-चक्र^e - - क्रम् अप १४, १,
२६; ४८, ११६; या ४, २७;
अत्र १०, ११; - क्णेण आपश्रौ
१६, १८, ६; वैश्रौ १८, १५-१८,
हिश्रौ ११, ६, ३०.
एक-चत्वारिंशत् - - शतम् वौश्रौ २६;
११ : १०.
एकचत्वारिंशद्-रात्र-प्रभृति-
- तीनि आश्रौ ११, ४, ८.
एक-चरⁱ - - रम् वौश्रौ ४, ८; ५; १४,
३ : २५; - राय गौध २६, १२.
एक-चरु- - रुः जैगृ १, २४; ३; - रौ
वौश्रौ २०, ८ : १.
एक-चारिन्- - रिणम् या ४, २७.
एक-चित्ति- - तिः मीस् ४, ४, १७.
एक-चित्तिक- - कम् वाश्रौ २, १,
४, १७^j.
एक-चित्तीकⁱ - - कः हिश्रौ ११ :
५, ४०; - कम् आपश्रौ १६, १५,
३; १७, २४, ६; ८; वौश्रौ २२,
४ : १०; वैश्रौ १८, १२ : २३;
हिश्रौ ११, ५, ३९; १२, ७, १८;
२१; - काः वौश्रु ७; १४; - काम्
आपश्रौ १६, १५, ४; वैश्रौ १८,
१२, २३.
एक-चित्त^e - - त्तः नाशि २, ८, १३.
एक-चैल^e - - लः कौस् ८२, ४३.
१ एक-चोदन- - नात् काश्रौ ४, ३,
११; ५, ६, ९.
२ एक-चोद(त>)ना^e - - नासु काश्रौ
१६, ७, १७.
१ एक-च्छन्दस्- > ञ्दस्व- - स्यम्
गोश्रु ४, ९, ४^k.
२ एक-च्छन्दस्^e - - न्दसः मीस् ३,

a) कस वा वस. वा । b) भावे प्यञ् प्र. । c) र्म्यात् इति चौसं. । d) ऐककर्म्यात् इति जीसं. ।
e) विप. । वस. । f) विप., नाप. । मत्वर्थोयः ठन् प्र. । g) अर्थः व्यु. च ? । = एकश्रीजयुत-करछ- (= तद्विष्ट-)
इति भाष्यकृतः । मलो. कस. । h) शैषिकः ख > ईनः प्र. (पा ४, २, ९४) । i) विप., नाप. । गौध. । j)
उस. उप. वर्तारि कृत. । k) वैप १ द्र. । l) सपा. मंत्रा २, ६, १३ एकं पदम् इति पाठे. ।

२, ४२.
 एक-ज, जा- -जम् काश्रौ ६, १, १५;
 या १४, १९; -जा वृदे ३, ३०;
 -जानाम् शाश्रौ ८, १७, ११.
 एक-जनपद्- -दे लाश्रौ ९, १०, १६.
 एक-जात- -ताः शंघ २०८;
 -तानाम् बाध १७, १०; विध
 १५, ४२.
 एकजात-त्व- -त्वात् वृदे १,
 ९८.
 एकजाता(त-अ)धिकार- -रः
 मीस् १०, ३, ४३.
 एक-जाति^६- -तिः गौघ १०,
 ५०.
 एकजातीय- -यम् मीस् ५, २,
 २; -यानि निसू ३, ३ : ४१.
 एक-ज्यायस्^७- -यःसु लाश्रौ ६, ७, ५.
 एक-ज्योतिस्^८- -तिपम् शंघ ११६;
 ५०.
 एकत^९- -तः वौश्रौ २४, २६; १३; १;
 शुभ्र १, ७६; या ४, ६; -ताय
 आपश्रौ १, २५, १५; वौश्रौ १,
 १० : १४; २४, २६ : १२; भाश्रौ
 १, २६, १०; माश्रौ १, २, ४, ३;
 वाश्रौ १, ३, १, २९; वैश्रौ ४,
 १० : १५; हिश्रौ १, ६, ५; चाश्र
 १ : ७.
 एक-तक्ष^{१०}- -क्षः काशु ७, ९.
 एक-तन्त्र- -न्त्रम् मीस् १२, १,
 १०; -न्त्रे आश्रौ ३, १, १०; काश्रौ
 १५, ९, १०; वौपि २, ७, १६;
 अप्राय ३, ९.
 एकतन्त्र्य- -न्त्र्यम् मीस् ११, ४,
 ९; १२; २३.
 एक-तन्त्र^{११}- -न्त्रम्^१ आमिष्ट ३,

९, ३ : १९; -न्त्राः अप्राय ३,
 ९; -न्त्राणि हिश्रौ १३, ३, ११;
 -न्त्रे काश्रौ १५, २, १८; -न्त्रौ
 काश्रौ १५, ८, १०.
 एक-तम- पा ५, ३, ९४; -मः काशु
 ४३, ९; -मस्मिन् आमिष्ट १, ३,
 १ : २०; २, २, ३ : २.
 एक-तय- -यानि वौश्रौ १५, १४ :
 ५; १५ : ९; ३८ : ७.
 एक-तर- पा ५, ३, ९४; पाग ४, २,
 १३८^६; -रस्मिन् हिश्रु १, २६,
 २०; -रात् पावा ७, १, २६;
 -रे अप ६३, २, ५; -रेण शंघ
 १८३.
 एकतरीय- पा ४, २, १३८.
 एक-तस्(ः) माश्रौ ५, २, १४, २१;
 पाग.
 एकतः-पा(श >)शा^{१२}- -शा
 वौश्रौ ६, १ : ३; वैश्रौ १२, ८ :
 १३.
 एकतो-सु(ख >)खा^{१३}- -खाम्
 आपश्रौ ३, १, ७; वौश्रौ १, १८ :
 ४; भाश्रौ ३, १, १; हिश्रौ २, ३, ८.
 एक-ता(रा >)र^{१४}- -राः अप ५२,
 ६, ३; ५; -रेषु जैष्ट २, ५ : १९.
 एक-तृच- -चम् लुसू ३, १६ :
 ५; -चे लाश्रौ ६, ३, १४; -चैन
 लुसू ३, १६ : ७.
 एक-तृण- -णेन काश्रौ ८, ८, २५.
 एक-त्र निसू १०, ५ : १२^२; आमिष्ट.
 एक-त्रिंशत्- -शत् वाधूश्रौ ४, ७० :
 १२; आपशु; निघ ५, ६;
 -शतः हिश्रौ १०, ८, ४६;
 -शतम् आपश्रौ १७, २५, ९;
 वौश्रौ १०, ४५ : ९; हिश्रौ १२,

१, ३२; वाश्रौ २, २, १, २६;
 -शता शाश्रौ १५, २२, १.
 एकत्रिंश- -शः वौश्रौ १०,
 ४२ : ७; १८, ३२ : ९; -शम्
 दाश्रौ ८, ४, २६; लाश्रौ ४, ८,
 २१; -शे लाश्रौ ९, ५, ४.
 एकत्रिंशत्-क^{१५}- -कम् अश्र ९,
 ३; अप ४ : १३.
 एकत्रिंशद्-रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११, ३, ११; आपश्रौ २३, ५, १;
 -त्रेण हिश्रौ १८, २, ८.
 एकत्रिंशद्-वर्ग-सूक्त^{१६}- -क्तम्
 सु १, ४.
 एक-त्रिक^१- -कः आपश्रौ २२, ४,
 २८; वौश्रौ १८, ३४ : २०; २२;
 हिश्रौ १७, २, १४; निसू ६, १० :
 ३२; -कम् शाश्रौ १३, २०, ४;
 -कस्य लाश्रौ ६, ३, ४; -के
 शाश्रौ ११, ३, १; काश्रौ २२, ३,
 २५; लाश्रौ ८, ५, १८; मीस्
 १०, ५, ७; -केण आश्रौ ९, ५,
 १३.
 एकत्रिक-त्रिकैक- -काभ्याम्
 शाश्रौ १४, ४२, ७.
 एकत्रिक-स्तोत्र- -त्राणि आपश्रौ
 २१, २५, ५.
 एकत्रिक-स्तोम- -मम् दाश्रौ ८,
 ४, ११; लाश्रौ ४, ८, ११.
 एकत्रिका(क-अ)न्त^{१७}- -न्ताः
 लाश्रौ ८, ३, ३.
 एक-त्रि-पञ्च-ससन्^१- -स वौघ ४,
 ५, २२.
 एक-त्व- -त्वम् मीस् २, ३, ३; ४, १,
 ११; १०, ३, ५७; -त्वात् काश्रौ
 ६, ७, २४; निसू २, ७ : १;

a) विप. । वस. । b) = मरुद्-विशेष- । व्यु. ? । c) वैप १ द्र. । d) विप. । वस. उप. भाप. ।
 e) एकतन्त्र्यम् इति जीसं. । f) कविद् वा. क्विवि. । g) तु. पागम. । h) पृ ४४३ f द्र. । i) = एकह-
 विशेष- । वस. । j) समाहारे द्रस. ।

पाप्रवा १, ५; मीस् ६, ६, ८; ९, ३, ३४; १०, ७, २१; ११, १, ३३; -त्वे पावा २, १, १०; मीस् २, ४, १३; २०; ९, ३, ४२.
 एकत्व-निर्देश- -शाव पावा १, १, ५०.
 एकत्व-युक्त- -क्तम् मीस् ३, १, १२.
 एक-इक्षि(रा) > ण- -णम् आश्रौ ६, ८, १४; लाश्रौ १०, १, १२; अत्राय ६, ४.
 एक-दण्ड-> ण्डन्- -ण्डी वौष २, १०, ४०.
 एक-दन्त- -न्तम् वौष २, ५, २१.
 एक-दा निस् ५, १२ : १६; वैगु ७, ६ : १३; गोयु १, ५, ९; वृदे ७, ५१; पा ५, ३, १५.
 एक-दिवस- -सम् विष ७६, १९.
 एक-दिश- -दिक् पा ७, ३, ११२.
 एक-दी (क्षा) > क्ष- -क्षः लाश्रौ ८, ५, १९; -क्षे शाश्रौ ५, ४, ३.
 एक-दीक्षा-> ण्क्षिन्- -क्षी काश्रौ ७, ५, ११.
 एक-दुग्ध- -धम् आपश्रौ १०, १६, ६; हिश्रौ १०, २, ४८; -धे माश्रौ २, १, २, ३९; ३, २, ४; हिश्रौ १०, २, ४९.
 एक-देव(ता) > त- -तः भाश्रौ ६, १५, ९१; -ताः आपश्रौ २७, ३, ४१; हिश्रौ ३, ८, ३०; -तान् आश्रौ ३, ६, १९; -तानाम् आपश्रौ २७, १२, ५; -तानि वा ५, ११; -ते मीस् १०, ८, ४२; -तेषु काश्रौ २२, ७, ४; हिश्रौ ९, ८, ५०; मीस् ११, २, २३.

एकदेवत-द्विदेवत- -तयोः शाश्रौ ६, १, १२.
 एक-देवता-> त्व- -त्वन् वृदे २, १४२; -त्ये निस् ६, ८ : १४.
 एक-देश- -शः काश्रौ १४, २, १४; वाश्रौ ३, ४, २, ३; भागृ ३, १९ : १; गौष ८, २३; मीस् ३, ३, २२; १०, ३, ३३; ८, ४; -शम् वौश्रौ २७, ५ : ११; भाश्रौ; -शत्व मीस् ३, ८, ३२; ६, ४, १८; -शे काश्रौ २५, ८, १८; हिश्रौ ८, ३, ४; १५, १, ७९; निस् ५, ४ : ४; आपगृ १३, ८; कागृ २८, ५; वृदे ५, २५; पावा ८, ४, १; मीस् ३, ५, २७; ६, ३, २; ३७; ४१; ४, १०; १९; -शेन आपश्रौ १२, ९, १०; भाश्रौ ८, २, ३; हिश्रौ ७, ५, २; मीस् ६, ३, ४२; ६, ११; १०, ८, ३६.
 एकदेश-ग्रहण- -णेषु मीस् १०, ५, १.
 एकदेश-त्व- -त्वम् मीस् १०, ६, १३; ११, २, ७; -त्वात् मीस् १, ३, २९; ३, २, २०; ६, २२; ७, १, ३४; ४, २५; ९, ३, १७; ११, २, १३.
 एकदेश-द्रव्य- -व्यः मीस् ७, १, २८.
 एकदेश-प्रतिषेध- -घात् मीस् १०, ७, ४९.
 एकदेश-विकृत- -तस्य पावा १, १, ५६; २, ४, ८५; ८, ३, ८५; पाप्रवा २, ४.
 एकदेश-विभावित- -तः विष

६, २२.
 एकदेश(श-अ)नुवृत्ति- -त्तिः पावा ६, १, ९२.
 एकदेशिन्- -शिना पा २, २, १-
 एकदेशि-ग्रहण- -णात् पावा २, ४, २६.
 एकदेशि-प्रधान- -नः पावा ५, ३, ७२; -ने पावा २, १, १८-
 एक-देश(श) > शा- -शासु काश्रौ १६, ७, १७.
 एक-देश-काल-कर्तृ- -त्व- -त्वम् मीस् ११, २, १.
 एक-द्यू- -द्यूः ऋत्र २, ८, ८०.
 एक-द्रव्य- -व्यस्य पावा ५, ३, ५७; -व्ये काश्रौ १, ७, ८; १०, ६; मीस् ११, ४, ४३.
 एकद्रव्य-चिकीर्षा- -र्षया मीस् ११, ३, ४१.
 एकद्रव्य-वत् मीस् ११, ४, ४५.
 एकद्रव्या(व्य-अ)भिधान- -नात् पावा ८, १, ५१.
 एकद्रव्यो(व्य-उ)पनिवेशि(न) > नी- -नी पावा १, ४, १.
 एकद्रव्य- -व्येषु आगृ ७, ७, १०.
 एक-द्वार- -राः हिश्रौ ७, १, २८.
 एक-द्वि- -द्वयोः पावा २, ४, ६४.
 एकद्वय (द्व-ऊ)ना(न-अ)धि- (क) > का- -का क्रमा १७, २-
 एक-द्वि-त्रि-क्रम- -त्रेण कौशि ६९.
 एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-पद- -शानि उनिस् २ : १४.
 एक-द्वि-त्रि-चतुर्- -तुर्गाम् अप ५, १, ४; काथ २७० : ३.

a) विप. । वस. उप. = दान- । b) विप. । वस. । c) ताः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सत्य. द्विदेवतः) । d) देशद इति बौसं. web. । e) पेषवा इति कासं. । f) पस. वा वस. वा (तु. कैयटः) । g) वस. > दस. । h) वैप इ. द्र. । i) वस. > दस. । j) दस. > पस. । k) विप. । दस. > वस. ।

एक-द्वि-त्रि-चतुष्-पाद्^०- -पात्
पि ३, ७.
एक-द्वि-त्र्य(त्रि-अ)धिक- -कम्
ऋप्रा १६, ११.
एक-द्वि-बहु- -हुषु पावा ३, १,
६७.
एक-द्वि-शब्दपरिमाण-द्रव्य-देवता-
गुण-सामान्य^०- -न्येभ्यः काश्रौ
४, ३, ८.
एक-द्वि-शीर्ष^०- -र्षे अप ७२, ६, २.
१ एक-धन- -नम् वौश्रौ २०, ३१ :
३५^२; माश्रौ १०, २, ८; माश्रौ
५, १, ५, १; वौश्र १, २, ६१;
अप १, ४९, ३; अशां १३, २;
-नेन हिपि ५ : ८; आपध २,
१३, १२; हिध २, ३, १२.
२ एक-धन, ना^१- -नाः आपश्रौ १२,
५, ११; ७, २; वौश्रौ २९,
६ : १७; वैश्रौ १५, ७ : १; ८ :
९; २२, १८ : ३; हिश्रौ ८, १,
३९; ६, ११; -नान् काश्रौ ९,
२, २२; ३, ७; आपश्रौ १२, २,
१३; वौश्रौ ६, ३४ : ५; ७,
३ : १८; ४ : १०; २० : ९;
८, ८ : २७; २८; १७, १ : ३;
२१, १६ : २५; २५, १७ : ६;
वैश्रौ १५, ३ : ७; ६ : २;
-नानाम् काश्रौ ९, ३, १९;
आपश्रौ १२, १६, ११; १३, २,
६; १०, १४; वौश्रौ ७, ४ : ९;
२० : ८; १८, ३० : ४; २५,
१७ : ८; वैश्रौ १६, २ : ९;
हिश्रौ ९, १, १६; -नासु आश्रौ
५, १, ९; हिश्रौ ८, १, ६; -नैः

काश्रौ २५, १२, २५.
एकधन-परिशि(ए>)ष्टा- -ष्टाः
वैश्रौ १६, २२ : १^०.
एकधन-परिशेष- -षान् हिश्रौ
९, ४, ५५^०; -षेषु आपश्रौ १३,
१७, ९^०.
एकधन-प्रवेशन-काल^१- -ले
काश्रौ १४, १, २६.
१ एकधन-विद्^१- -विदे आश्रौ
४, ५, ६; शांश्रौ ५, ८, ३; वौश्रौ
६, १९ : ११; २१ : १०; द्राश्रौ
१४, २, ५; लाश्रौ ५, ६, ८;
वैताश्रौ १३, २३.
एकधन-शेष- -षम् काश्रौ १०,
३, २३.
एकधन-स्थान- -ने काश्रौ ९,
४, १.
एकधना(न-अ)र्ध- -र्धम् काश्रौ
९, १४, १८.
एकधना-स्थाली- -लीः हिश्रौ
८, १, ६०.
१ एकधनिन्- -नितः काश्रौ ९,
३, ३; आपश्रौ १२, ५, २; वौश्रौ
७, ३ : ७; माश्रौ २, ३, २, ९;
११; वैश्रौ १५, ५ : ६; ६ : १;
हिश्रौ ८, १, ५८.
एकधनै(ना-ए)कदेश- -शम्
वैश्रौ २१, १४ : ३; -शान् वैश्रौ
१५, १८ : ७; हिश्रौ ८, ४, ३९.
एकधर्म-> एकधर्म्य- -र्म्यम् मीसू
७, १, २.
एकधा^१ आश्रौ ३, ३, ११; ३;
शांश्रौ; एकधाऽएकधा शांश्रौ ६,
१, १०; माश्रौ ५, २, ९, ५.

ऐक्य^० पा ५, ३, ४४; -ध्यम्
काश्रौ १४, २, २४; आपश्रौ
२, १७, ३; हिश्रौ ५, १, ९; मीसू
९, ३, ३४.
एक-धान्य- -न्यम् गोश्र ३, २,
५१.
एक-धामन्^१- -मा जैश्र २, १ :
२२^१.
१ एक-धुर- > २ एकधुर-, एक-
धुरीण- पा ४, ४, ७९.
एक-नक्षत्र- -त्रे काश्रौ २१, ३, ३;
आश्र ४, ५, १.
एक-नवति- -तिः शंघ २६३.
एक-नाराशंस^१- -सम् आपश्रौ १२,
२५, २६; वौश्रौ २५, २२ : २.
एक-नाल- -ले अप ७०^३, ४, ३.
एक-निधन^१- -नम् निस् ६, ५, ३;
-नानि निस् ६, ५ : ४.
एक-निष्पत्ति- -त्तेः मीसू ४, १, २२.
एक-नीच- -चे नाशि २, १, ११.
एक-पङ्क्त्यु(द्वि-उ)पविष्ट-
-ष्टानाम् शंघ ३८३.
एक-पञ्चाशत्- -शत् ऋश्र ४, १;
चाश्र १४ : ७; -शतः अप ५२,
३, १; -शतम् वौश्रौ ११, १ :
११; २५, ३३ : २; -शता
आपश्रौ १८, १४, ६; वाश्रौ ३, ३;
२, ३२; हिश्रौ १३, ५, २३.
१ एक-प(ति>)त्नी^१- पा ४, १,
३५; -त्नीनाम् वाश्र १७, ११.
२ एक-पत्नी^१- -त्नीभ्यः आशिष्ट १,
२, २ : ३०; वौश्र ३, ९, ६; भाश्र
३, ११ : ५; हिश्र २, २०, १.
एक-पद्^१- -पदे शांश्र १, २६, २४;

a) विप. । द्वस > वस. । b) द्वस. > षस. । c) विप. । मलो. कस. (= एकाऽवयवीभूते द्वे) > वस. ।

d) विप. । वस. । e) सप्र. षशिष्टाः <> शेषान् <> शेषेषु इति पाभे. । f) पस. > पस. । g) वैप १
द्र. । h) स्वार्थिकः प्यञ् प्र. । पाप्र. ध्यमुञ् प्र. इति । i) विप. (श्री-). । वस. । j) विप. (पुसप-). । वस. उप.
ह्रस्वाभावः उसं. (पा १, २, ४८) ।

पाग २, १५, २; वैगृ ३, २० :
१०; ५, २ : ३०.

एकपदा-दा ऋअ २, ४, १७××;
शुअ; -दाः आश्रौ ६, ५, १२;
८, २, २०; २५; १२, २०^२;
१२, ९, १४; निस् २, १२ : ३२;
ऋअ १, १२, ९; ४, ८; वृदे ८,
१०९; शुअ १, १७४; अअ २,
१७; ११, ३, (२^३); १२, ५ (२);
ऋप्रा १७, ४३; उस् ३, २;
उनिस् ८ : १०; २८; -दाभिः
कौस् ७७, ४१; -दाभ्यः आश्रौ
८, २, २४; -दायाः शुअ ४,
१४६; -दायाम् लाश्रौ ७, ४,
९; -दे अअ ९, ७.

एकपदा-द्विपदा-दानाम्
निस् १, ७ : २.

एकपदा(दा-अ)न्त^३-न्तम्
ऋअ २, ६, ६३.

एकपदा-प्रभृति-तयः
निस् १, ४ : २५.

एकपदी-पाग ५, ४, १३९;
-कंदी आपश्रौ ९, १९, १०;
वौश्रौ १४, १४ : ३१; वैश्रौ २०,
३८ : १; हिश्रौ १५, ८, २२;
आगृ १, ७, १९; कौगृ १, ८, २८;
शांगृ १, १४, ६; अअ १३, १;
या १२, ४०.

१ एक-पद-दानि या २, २; ३;
ऋप्रा ११, ३५; अप्रा २, ३, १९;
-दे शुप्रा १, १११; तैप्रा १५,
४; ऋत ५, ६, ७; याशि १, ७८;
२, ५५; ९५.

एकपदिक-कम् या ४, १;
-काः या १, १४.

एकपद-निरुक्त-कम् या ९,

२६.

एकपद-वत् शुप्रा २, १८.

एकपद-स्वर-रस्य पावा १,
१, ६३.

एकपदा(द-अ)वाध-धे अप्रा
२, ३, १८.

२ एक-पद, दा^३-दः शौच ४, १२६;
-दा नाशि २, ६, ६.

एकपद-द्विपद-त्रिपद-चतुष्पदा-
(द-अ)नैकपद-दाः शुप्रा १,
१५७.

एकपद-द्विपदा^३-दाः आश्रौ ४,
१५, ६.

एकपदि-पाग ५, ४, १२८.

एक-पर्ण-णैन् भागृ ३, १४ : १९.

एक-पर्व^८-र्वै भाश्रौ ६, १५, १६.

१ एक-पर्वन्^८-र्वणि शाश्रौ १४,
१०, १९.

२ एक-पर्वन्^३-र्वसु या २, २.

एक-पल-लम् आमिगृ २, ७, ७ :
१२.

एक-पलाश-, शिका^१-(> शीय-,
पंशिकीय-पा.) पाग ४, २,
१३८.

१ एक-पवित्र-त्रम् माश्रौ १, १,
२, ३; वाश्रौ १, २, ३, ४; ३, ५;
शांगृ ४, २, २^६; गौपि २,
६, ५; ^६-त्रे भाश्रौ १, ७, ३; -त्रेण
आपश्रौ १, ७, ७; आमिगृ ३, ५,
५ : १४; ११, ३ : २; वौपि १,
४ : १४; हिपि ३ : १४.

एकपवित्रा(त्र-अ)न्तर्हित, ता-
-तान् कौस् ८७, ७; -तानि
हिगृ २, १४, ३; -ताम् हिश्रौ
२, ७, १०; -तायाम् आमिगृ ३,
१, १ : ५; हिगृ २, १०, ४;

-ते आमिगृ ३, ११, २ : ५.

२ एक-पवित्र^३-त्रः आमिगृ ३, २,
१ : ३.

एक-पशु-शुः कागृ १९, ४; -शोः
अप १, ३२, २; ६८, २, १४;
-शौ शाश्रौ १४, १०, १९.

एक-पशु(क>)का^३-काः आश्रौ
३, ६, १८.

एक-पाण्या(शि-आ)वर्जित-तेन
आपध १, ४, २१; हिध १, १,
१४०.

एक-पात-> १ एकपाति(न्>)नी-
नी आश्रौ ६, ५, ६; -नीः आश्रौ
५, १८, ११; -नीनाम् शाश्रौ
१४, ५३, ६; ५६, १३; -न्यः
आश्रौ ७, ११, २३; ८, १, १२;
९, २; १०, १; ११, २; शाश्रौ ८,
३, १५; ६, १६; १२, २, १४; १८,
१, ८; ११, २ -न्याः शाश्रौ ८,
७, ८.

२ एक-पातिन्-तिनः ऋप्रा ११,
५२; १७, ४३; कंतोनि आश्रौ
१२, ६, २३.

१ एक-पात्र-त्राणि आश्रौ ५, ९,
२८; -त्रे मीस् ३, ५, ३७;
-त्रेभ्यः आश्रौ ५, ६, २९.

२ एक-पात्र^३-त्रम् आपश्रौ १२,
२४, १७; -त्राः वाधुश्रौ ४, ७८ :
१; २; ४^२; -त्राणाम् मीस् ३, ५,
४४.

एक-पात्री-न्याम् काश्रौ ९, ९, ४.
१ एक-पाद्^१-पात् कप्र २, १,
१२^१; अअ १३, २; ३; अप्रा १,
२, २.

२ एक-पाद् (अज-)^१-पात्(-जः)
शाश्रौ ६, १२, २५^१; आपश्रौ ५,

a) विप. । वस. । b) मलो. कस. । c) कस. समासान्तस्य प्र. विकल्पः (पावा ५, ४, १०३) ।

d) तु. पागम. । e) पामे. वृ ७८५ e द्र. । f) वैप १ द्र. ।

१९, ४[†]×; वौश्रौ; या १२,
२९[†]; ३०[†]; ३२; -[†]पादम्
(-जम्) वाधूश्रौ ४, ६१ : ७.
एक-पाद- -दे ऋप्रा १, ९९.
एकपाद-स्थित- -ता: वैध १, ८, १.
१ एक-पिण्ड- -ण्डम्^१ कौश्र ३, १४,
१४; शांश्र ४, २, ४; -ण्डस्य
कौश्र ५, ७, २.
२ एक-पिण्ड^२- -ण्डा: शंघ २०८.
एक-पिण्ड-स्व(धा >)घ^३-
-धानाम् सुधप ८८ : १.
एक-पुत्र^४- -त्र: शंघ २६८; -त्रा:
विध १८, २८.
एक-पुरोडाश^५- -शेषु काश्रौ १२,
२, १२.
एक-पुष्करिणी-पर्ण^६- -र्णे अष ६८,
२, ३.
एक-पु(प्य >)प्या- पावा ४, १,
६४.
एक-प्रकरण- -णे आपश्रौ २४, २,
२६.
एक-प्रतिषेधा (घ-अ) र्थ- -र्थम्
पावा १, १, ७.
एक-प्रतिहार^७- -रम् लाश्रौ ६, १२,
४; ७, ४, ४; -रे लाश्रौ ७, ४, १७.
एक-प्रत्यवाय^८- -यम् काश्रौ १, ९, ९.
एक-प्रदक्षिण- -णम् हिश्रौ १७,
१, ३६.
एक-प्रदान, ना^९- -न: काश्रौ १२,
६, १२; -ना: आश्रौ १, ३, १८;
२, ११, २; ११.
एक-प्रधा(न >)ना^{१०}- -ना: वृदे ४, ८
एक-प्रभृति- -तीनाम् वाश्रौ ३, २,

१, ३.
एक-प्रस्ताव^{११}- -वानि निसू १०, ६ :
२७.
एक-प्रस्थ- पा ६, २, ८८.
एक-प्राण-भाव^{१२}- -वे तैप्रा ५, १.
एक-प्राण-योग^{१३}- -ग: शुप्रा १,
१५८.
एक-वर्हिर्-इध्मा(धम-आ)ज्य-स्विष्ट-
कृत्^{१४}- -कृत: आश्र १, ३, ९^१.
१ एक-वर्हिस^{१५}- -र्हिष: आश्र १, ३,
१०; माश्र २, १८, ४^{१६}; कौसू ६,
३४-
एक-वृहतीका- -का: निसू ५, ७, ५.
१ एक-भक्त- -क्तम् कौसू ३८, २२.
एकभक्तिक^{१७}- -क: गौध २४, ७.
२ एक-भक्त, क्ता^{१८}- -क्ता वैश्र ३, ९ :
२; -क्ता: वैश्र ५, ७ : ४.
१ एक-भाग- > भाग्य- -ग्यम्
निसू ३, ६ : ३.
२ एक-भाग^{१९}- -ग: मीसू १०, ७, २१.
एक-भा(र्या >)र्य^{२०}- -र्यस्य आपश्रौ
१६, ४, ५; हिश्रौ ११, १, ४९.
एक-भाव- (> एकभाव्य- पा.)
पाग ५, १, १२४.
एक-भुक्त- -क्तम् हिपि ८ : १०.
एक-भूयस्^{२१}- -र्यासि गोगृ ४, ५,
२०; ऋअ २, १, ९९.
एकभूयस्-स्व- -स्वम् वृदे ३,
१३०.
एक-भूयसी- -सी: आश्रौ ५, १४,
२०; ७, ५, १३; ८, ४, १३.
एक-भेद^{२२}- -दम् सु १६, २.
१ एक-मनस्^{२३}- -ना: कौश्र २, २,

१४; शांश्र २, ४, १; पाश्र १, ८,
८; २, २, १६; आश्रिगृ १, १, ३ :
२४; ५, ४ : ३९; वौश्र १, ४,
१; भाश्र १, १७ : ९; माश्र १,
१०, १३; हिश्र १, ५, ११.
१ एक-मन्त्र- -न्त्र: हिश्रौ १, १,
२९; मीसू ३, २, २६.
एकमन्त्र्य- -न्त्र्यम् मीसू ३, २,
४३^{२४}.
२ एक-मन्त्र^{२५}- -न्त्राणि आपश्रौ २४,
१, ३८; भाश्रौ १, १, २०; हिश्रौ
१, १, ३४.
१ एक-मा(त्रा)त्र^{२६}- -त्र: तैप्रा २२,
१३; शौच १, ५९; माशि १३,
१; याशि १, १६; -त्रम् उसू
१, ९; -त्रे माश्रौ १, २, ३, ६.
२ एक-मात्रा- -त्रा याशि १, १३.
एकमात्रिक^{२७}- -क: कौशि ७३.
एक-माष^{२८}- -षेण जैगृ २, ५ : ११.
एक-सु(ख >)खी^{२९}- -खीम् अष
६, १, १४; १५.
एक-मुष्टि- -ष्टिम् आश्रिगृ १, ६, १
४६.
एक-मूल^{३०}- -ल: भाश्र १, १० : ४;
-लम् आश्र १, २२, २१.
एक-यज्ञ- -ज्ञे काश्रौ २५, १३,
२९.
एक-यम^{३१}- -मम् तैप्रा १५, ९^{३२}.
एक-यान-भोजना(न-आ)सन-शय-
न^{३३}- -नै: विध ३५, ४.
एक-यावन्^{३४}- -न्त: वाधूश्रौ ३, ९४: ५.
एक-युक्त- -क्तम् आश्रौ ९, ४, १८;
-क्तेन आपश्रौ २२, २, २०.

a) पाभे. ७८५ d द्र. । b) विप. । वस. । c) विप. । वस. > द्वस. । d) कस. > पस. । e) कस.
> पस. यद्वा कस. > उस. (तु. भाष्यम्) । f) 'वर्हिरोद्याज्य' इति वृत्तिकारः । g) 'र्हिषि इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. आश्र.) । h) मत्वर्थायः ठ्ठ् प्र. । i) विप. । वृस. । j) पाभे. वैप २, ३ खं. एकमनाः मंत्रा १, २, २१
टि. द्र. । k) एकमन्त्रत्वम् इति कासं. । l) कस. उप. = अन्न-विशेष- (तु. C.; वैतु. भाष्यम् = प्रमाण-विशेष-
[तद्विधितार्थे द्विस.] । m) विप. । वस. उप. = उदात्तादि-] स्वर- । n) कस. > द्वस. । o) वैप २, ४ खं. द्र. ।

एक-यूप- -पः हिथ्रौ १६, २, १;
 -पम् आपथ्रौ १७, २२, ६; १९,
 १, ११; वैथ्रौ १९, ६ : १४३;
 हिथ्रौ १२, ६, २७; १३, ८, ९;
 नीसू ११, ३, ४; -पे काथ्रौ ८,
 ८, २६; आपथ्रौ १७, २२, ८;
 १९, १, २०; १६, २१; २२,
 १, १५; वौथ्रौ २२, ११ :
 २७; माथ्रौ ५, २, १२, ४६; ६,
 २, ६, १३; वाथ्रौ २, ५, २;
 वैथ्रौ १९, ६ : १४४; हिथ्रौ १२,
 ७, १; १७, १, १६; -पेन हिथ्रौ
 २, ८, ५.
 २एक-यूप- -पेषु शोध्रौ ६, ९, ४.
 एक-योग- -ने पावा १, ४, ५९; २,
 ४, ८३; ६, १, ९२; १००; ७, ३,
 ११९.
 एकयोग-लक्षण-त्व- -त्वात्
 पावा १, १, ६२.
 एक-योगि- -नयः आथ्रौ २, २, १.
 एक-रज्जु- -ज्जा आपथ्रौ ५, २; ६,
 ७; १०-१२; ७, १; हिथ्रौ २, ९;
 ३५; ३९; ४०; ४५; ४७.
 एक-रथ- -थेन वृद्धे ६, २०.
 एक-राज- -राट् आपथ्रौ १८, ६,
 ४; वाथ्रौ ३, १, २, २४; हिथ्रौ
 १३, २, १८.
 एक-राज्य- -ज्यम् आथ्रौ ५, १९,
 ४^५.
 एक-राज- -जः जुसू १, २ : २७;
 -जम् काथ्रौ २२, ११, २९;
 -जात् पावा ७, १, १६६; -जेन
 कौसू १७, ११.

१एक-रात्र- -त्रेण शोध्रौ १६, १९,
 २.
 एकरात्र-चतुरात्रो(त्र-उ)पजन-
 -नानि आथ्रौ ११, ४, ९.
 एकरात्रो(त्र-उ)पजन- -नः
 आथ्रौ ११, ४, ७; -नम् आथ्रौ
 ११, २, १८; ३, ११^२.
 एक-रात्रि- -त्रिम आपथ्रौ २, ७,
 १६^१.
 एकरात्रिक- -कः गौध ५,
 ४१.
 २एकरात्र- -त्रम् आथ्रौ ८,
 १४, ८; शोध्रौ ७, १५, ६; माथ्रौ
 १, ५, १, २५; वाथ्रौ १, ४, १, ११;
 हिथ्रौ १०, ३, २०; कौट ५, ४,
 ९; पाठ २, ११, ९; ३, १०,
 ४xx; -त्राय हिपि १४ : ५^१;
 -त्रेण आपथ्रौ १, २७, ११; वौध
 २, १, ४२; विध २२, ४०; ४४;
 ५३, ९; हिध १, ७, ३६
 एकरात्र-वृत्तो(त-उ)पि (त-
 >)ता- -ताः वैथ्रौ १९, ६ :
 ७८.
 एकरात्रीण- -णः लाथ्रौ ८,
 ४, ३; -णस्य वौथ्रौ १८, १, ७.
 एकरात्रो(त्र-उ)पवास- -सः
 काट्ट ७, ३; वाध २७, १३;
 वौध ७, ५, ११; सुध १८;
 ६४.
 एकरात्रो(त्र-उ)पित- -तम्
 वा १४, ६.
 एक-रुद्र-द्रैवता->त्य- -त्यः
 शुभ्र २, २४६.

एक-रुद्र-स्तुति- -तिः शुभ्र २,
 २५३.
 एक-रूप, पा- -पम् काट्ट ५९, ५;
 अथ १८^१, १, ११; -पाः माथ्रौ
 १, ८, ३, ३; हिथ्रौ १३, १, २२^६;
 -पान् आपथ्रौ १८, २, १३;
 वौथ्रौ ११, ३ : ३०; वाथ्रौ ३,
 १, १, २०; वैथ्रौ १७, १० : ६;
 -पाम् कौसू ६९, २.
 एक(क-क)र्च-र्चा^{१०}- -र्चः लाथ्रौ ६,
 ४, ७; निसू ६, २ : २६; ऋअ
 ३, ४०; च्यू १ : ११; -र्चम्
 जैथ्रौ ९ : २४; लाथ्रौ; -र्चया
 वैठ ५, ५ : २९; ७, २ : ५; १३;
 -र्चयोः द्राथ्रौ ९, ३, ६; लाथ्रौ ३,
 ६, २५; -र्चाः द्राथ्रौ ८, २, ५;
 लाथ्रौ; -र्चान् निसू २, २ : ४;
 ५; ७; ११; १४; -र्चानाम् लाथ्रौ
 ८, ५, ९; अथ ७ : १६; -र्चानि
 जैथ्रौ २२ : १३; २६ : ७; अथ
 १९, ६१; -र्चं लाथ्रौ ६, ४,
 ८; -र्चैभ्यः अथ ४६, १०, २०;
 अथ १९, २३; -र्चेषु लाथ्रौ ६,
 १, १०; अथ २ : ४; १४; ७२;
 -र्चैः निसू २, २ : ६; -र्चौ निसू
 ६, ३ : १८; २२; १३ : २४.
 एक-र्च-दष्टि- -ष्टीनि निसू २,
 २ : १; २.
 एक-र्च-वत् लाथ्रौ ६, १, ४.
 एक-र्च-स्य- -स्यानि मीसू १०
 ६, १^३.
 एक-र्च-स्थान- -नेषु लाथ्रौ ६,
 ४, ५.

a) विप. । वस. । b) कस. उप. = सज्ञ- । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप २, ३ खं. वाजिम् तांत्रा
 १, ५, १९ टि. द्र. । e) वैप १, १०३२ t द्र. । f) दस. > वस. । g) विप. (अतिथि-) । टन् प्र. (पा ५,
 १, ८०) । h) समाप्तान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८७) । i) विप. (समिध्-) । j) विप. । निर्वृतार्थे ख>ईनः प्र.
 (पा ५, १, ८७) । k) परस्परं पाभे. । l) विव., नाप. कस. वा वस. वा । अर्थचांदिः द्र. [लु. वाच.] ।
 m) एक-र्च-स्थानानि इति कासं. ।

एक(क-क)द्धि^a-द्धि^b आपथौ २२,
१३, १०.
एक(क-क)धिं-र्धये कौस् ६७,
२७.
एकधिं-त्व-त्वात् आपथौ २४,
११, १४.
एक-लिङ्ग^c-ङ्गम् या १२, ४०^d.
एक-वचन-नम् अप्राय १, १;
अप्रा २, १, ११; २, २; ३; ६; पा
१, २, ६१; २, ३, ४९; ४, १; पावा
१, २, ६९; २, ४, १२; ४, १, ९३;
६, १, ८३; -नस्य पा ७, १, ३२;
८, १, २२; -नानि या ४, १५;
अप्रा २, १, १५; २, १; १६;
२०; ३, २, ३; ३, १९; -ने
ऋत २, २, ९; पा ४, ३, ३; ७,
२, ९७.
एकवचन-ग्रहण-णम् पावा
२, ४, ७९.
एकवचन-द्विगु^e-गोः पावा २,
२, ५.
एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-
-नानि माथौ ५, २, ९, १; अप्रा
२, २, १४; पा १, ४, १०२.
एकवचन-द्विवचना(न-अ)न्त^f-
-न्तस्य पावा २, ४, ६३; ४, १,
८९.
एकवचन-विधान-नम् पावा
२, ४, १.
एकवचना(न-अ)देश-क्षे पावा
१, २, ५८.
एकवचना(न-अ)भाव-वः
पावा २, ४, १.

एकवचना(न-अ)र्थ^g-र्थः या
६, १६.
एक-वत् शांथौ ९, २३, १४;
आपथौ ८, ५, ८; ११, ११, ७;
वौथौ १७, ५५ : १०; ६१ :
८x४; जैथ २, ५ : २१^h; पा
१, २, ६९; ४, १०६.
एकवद्-भूत-त्वात् वौथौ
१६, १ : ८.
एकवद्-वचन-नम् पावा ६,
३, १; -नात् पावा २, ४, १;
-ने पावा ६, ३, १.
एक-वयः-प्रभृतिⁱ-ति वैथौ १७,
११ : १०.
एक-वर^j-रः माथ २, १३, ९.
एक-वर्ग-र्गः ऋथ ३, ४०; चव्यू
१ : ११.
एक-वर्जम् काथौ ३, १, ११; १४,
५, २१; १७, ३, ६; अप २ : ३;
पा ६, १, १५८; पावा ६, १,
१५४^k.
१एक-वर्ण^l-र्णः शुप्रा १, १५१;
तैप्रा १, ५४.
एकवर्ण-वत् ऋप्रा १, ६७; शुप्रा
४, १४४; शौच १, ४०; पापवा
४, ८.
एकवर्ण-विकार-रः निस् ३,
११ : १२.
२एक-वर्ण,र्णा^m-र्णम् कौथ ३, ६,
३; शांथ ३, ११, ७; पाथ ३, ९,
६; गोथ ४, ७, ८; ऋप्रा २, ६;
१०, ३; -र्णाम् आथ ४, २, ६;
-र्णानाम् पापवा ५, ९; -र्णे अप

६३, १, ८; -र्णेण पावा ६, १, १;
-र्णेण शुप्रा ४, १४८.
१एक-वस्त्र-स्त्रम् गोथ ३, २, ५१.
एकवस्त्र-ता-ता वौध २, १,
७०; ३, १०, १४.
२एक-वस्त्रⁿ-स्त्रः शांथ ४, १२, २२^k;
आपथ २, ६, ३ : ५९; आपथ
१, ६, १९; वौध २, ५, ३१;
हिथ १, २, ४२; -स्त्राः पाथ ३,
१०, १७.
एक-वाक्य-क्यम् मीस् ३, १,
१९.
एकवाक्य-त्व-त्वात् मीस् १, २,
७; ३, ४, ९; ७, १४; १०, १, ८; ४,
४; ११, २, ३९; ४७.
एकवाक्य-भाव-वात् पावा ६,
१, ८३.
एक-वास^o-सः वाध २४, ५.
एक-वासस्^p-ससः आपथ ३, ४,
४ : १८; हिथि २ : १३; ८ :
५; गोथ ३, १, २९; गौथि १, ४,
७; द्राथ २, ५, १९; आपथ २,
१५, ७; हिथ २, ३, ३७; -साः
कौथ ३, ११, २२^k; जैथ १, १६ :
३; अप ४०, १, १४; शोध १९७;
३७९^m; ४३३; ४४३; ४५३ⁿ;
विध ६८, १३; वैध २, १४,
१३.
एक-विंशति-तये शांथौ १६, ३,
१५; -तिः आथौ ८, ८, ५;
शांथौ; निध १, १; या २, ७;
-तिम् आथौ ६, ९, १; ७, ५,
११; काथौ; आपथौ २१, १,

a) कस. वा. किवि. । विप. इति कृत्वा ंद्वयै इति ०. शोधः ? । ंद्वयै इति संभाव्येत ? । b) पामे.
पु ७८५ i द्र., तत्र च ?एकद्याम् (तु. मूको.) > ?एकध्याम् इति ०. पिपठिपुः । c) विप. । वस. । d) मलो. कस. ।
e) द्रस. > वस. । f) तदहोयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७) । g) विप. । वस. > वस. । h) कस. उप. = श्रेष्ठ- ।
i) कस. उप. = अक्षर- । j) विप. । वस. उप. = रङ्ग- वा अक्षर- वा । k) सपा. ंवस्त्रः < > ंवासाः इति पामे. ।
l) विप. । वस. उप. = वस्त्र- । m) उत्तरेण संधिरार्थः (तु. ४४३) । n) ंसो इति पाठः ? ंसाः इति शोधः ।

१४?; हिश्रौ १३, १, ६०; १६, १,
११?; -त्या काश्रौ १७, १, ७;
१८, ६, १०; आपश्रौ; -त्याः
वौश्रौ २६, १० : ५; वौश्रु ७ :
२०; -त्याम् वौश्रौ ११, १ :
१५०; १८, ४५ : ३९; कौस्
३७, ३; -त्यै वौश्रौ १८, ४५ :
३८.
एकविंश^० -शः आश्रौ ११,
७, ७; शाश्रौ; -शम् शाश्रौ
१४, ३३, ६४; आपश्रौ;
-शत्त्व शाश्रौ १६, २४, ७;
लाश्रौ ६, ८, १४; छुस् १, २ :
२२; -शाः आश्रौ १२, ५, १६;
आपश्रौ; -शान् निस् ४, १३ :
९; ७, ७ : ५; १०, ४ : ११;
-शानाम् कप्र ३, ८, २०; -शानि
आश्रौ ११, ५, २; शाश्रौ ९,
२१, ६; १४, १२, ९; आपश्रौ;
-शाम्याम् शाश्रौ ९, २७, ११;
-शे आश्रौ ७, ५, ११; १२,
७, ११; शाश्रौ; -शेन आश्रौ
१२, ३, ३; ४, २३; आपश्रौ;
-शेषु निस् १०, २ : ३१;
-शौ आश्रौ ४, १२, १; आपश्रौ
१६, ३३, ५१; वौश्रौ १६, ३५ :
७; १८, ४८ : २७; वैश्रौ १८,
२१ : २२१; हिश्रौ ११, ८, ३१.
एकविंश^० -शौ शाश्रौ
१८, १४, ४; आपश्रौ १, ५, ११;
भाश्रौ १, ५, १०; वाश्रुश्रौ ४,
११५ : २; हिश्रौ १, २, ६४;
ऋश्र २, १, २३; -शौम् आपश्रौ

१८, १, ६०; वैश्रौ १७, ७ : ५०;
कौस् १३८, १२; -श्याम् वाश्रुश्रौ
४, ११५ : १६.

एकविंश^० -त्रयोविंश^० -

-श्रौ ऋश्र २, ७, १०४.

एकविंश^० -श्यात् निस् ६,

५ : १४?; १०, ६ : २२.

एकविंश^० -त्रयस्त्रिंश^० -

-शाम्याम् निस् ४, ११ : ५.

एकविंश^० -त्रिणव^० -त्रयस्त्रिंश^० -

-शाः आश्रौ ११, ३, ८.

एकविंश^० -प्रचृति^० - तयः

शाश्रौ १६, २१, ६.

१ एकविंश^० -स्तोम^० - नः निस्

३, ४ : २१; १०, ७ : १७; या

७, ११; -नम् शाश्रौ १०, ५, १;

११, १३, १; १४, १३, १२; १६,

३, ९; निस् ८, १३ : ३२.

२ एकविंश^० -स्तोम^० - नाः

निस् ८, ३ : १५; -मानि निस्

८, १३ : १२.

एकविंश^० (श-आ) चतन^० -

-नः निस् २, १३ : ५.

एकविंश^० क^० - कम् जैश्रौका

१९५; अश्र ८, १; अश्र ४ : २०.

एकविंश^० का - का ऋश्र १६,

२१.

१ एकविंश^० ति - क^० - कम् वैश्र ३,

१ : १५.

२ एकविंश^० ति - क^० - कम् ऋश्र ३,

४४.

एकविंश^० ति - कपाल^० - त्स्

आश्रौ १८, १२, ११; वौश्रौ

१२, १० : २; २६, ३० : १५;

माश्रौ ५, १, ७, २४; वाश्रौ ३, ३,

२, ४; हिश्रौ १३, ५, ७; २५;

-लत्त्व वौश्रौ २२, १८ : १९;

-लात् वौश्रौ २४, १० : १२;

-लेन हिश्रौ १३, ६, ३९.

एकविंश^० ति - कुश - पिञ्जल^० -

-लानि वाश्रु १, १७, ४.

एकविंश^० ति - गर्भ^० - गर्भः वौश्रौ

२६, १६ : १०.

एकविंश^० ति - छदि^० - दि^० हिश्रौ

९, ७, ३६; १६, १, ५०?.

एकविंश^० ति - छदिस्^० - दि^० क^०

आपश्रौ २१, ४, १६; वौश्रौ १५,

१७ : ५; वैश्रौ १७, ३ : १०.

एकविंश^० ति - इक्षि (जा >) ग^० -

-गत्य आपश्रौ १०, २६, ४;

भाश्रौ १०, १७, ११; वैश्रौ १२,

१९ : २; हिश्रौ ७, २, ५५;

-गेन वौश्रौ २५, ४ : ९.

एकविंश^० ति - दुर्भ कूर्च^० - वैः

वैश्रौ १२, ७ : ९.

एकविंश^० ति - दाह^० - त्स् आपश्रौ

१, ५, ६; वौश्रौ १, २ : २६;

भाश्रौ १, ५, २; वैश्रौ ३, ५ : २;

हिश्रौ १, २, ५८; आश्रु १, १,

१ : १८; भाश्रु १, २ : ८; हिश्रु

१, १, १८.

१ एकविंश^० ति - धा आपश्रौ १,

६, १; वौश्रौ.

एकविंश^० ति - निर्वा^० - धः

आपश्रौ १६, १०, ९; हिश्रौ ११,

३, २६; -धन् वौश्रौ १०, १२ :

a) पाठः? षतिः इति C. शोधः (तु. पृ ४३९ W) । b) सप्त. षविंशतिम् <> षविंशत्वान् <> षविंशाम् इति पाठे. । c) स्वार्थे ष्ट प्र. उभं. (पा ५, २, ४६) शिष्टं वैप १ द्र. । d) श्या इति पाठः? यनि. शोधः (तु. नान्तरीया पंक्तिः) । e) विप. । दस. । f) विप. । परिमाणार्थे ड्बुन् प्र. (पा ५, १, २४) । g) पूरणार्थे कन् प्र. उभं. (पा ५, २, ५६) । h) स्वार्थे कः प्र. । i) वैप १ द्र. । j) क्त. > पत्. । l) परस्परं पाठे. । l) षतिदृष्ट इति पाठः? यनि. शोधः ।

९; माश्रौ ६, १, ४, १; वाश्रौ २, १, २, ३४; वैश्रौ १८, ६ : ८; ७ : २८.

एकविंशति-पिण्ड^३- -ण्डम् काश्रौ १६, ५, १.

एकविंशति-प्रदान^३- -नान् काश्रौ २०, ७, २२.

एकविंशति-प्रभृति- -ति शाश्रौ ७, १७, १८.

एकविंशति-माप- -पान् वैश्रौ १८, ४ : ४.

एकविंशति-यव- -वान् हिश्रौ १५, ५, २४.

एकविंशति-रात्र^३- -त्रः शाश्रौ १३, १६, ३; वौश्रौ १६, ३३ : १३; -त्रम् वौश्रौ २८, २ : ५३;

निसू १०, १ : ११; वौध ३, ६, २०; विध ४८, १६; -त्रयोः काश्रौ २४, २, ३; -त्रात् वौध ३, ५, ७; -त्रे निसू १०, १ : ९;

-त्रौ आश्रौ ११, ३, १; आपश्रौ २३, ३, १; हिश्रौ १८, १, २५.

एकविंशति-वर्ग- -गान् काश्रौ २२, १०, ८; लाश्रौ ९, ४, १.

एकविंशति-वि(धा>)घ^३- -घः काश्रौ २०, ४, १५; वौश्रौ १५, १७ : ४; २६, १० : ७; ८; काशु ५, ३; -घाय वौश्रौ १५, १४ : ११; वाधूश्रौ ३, ७६ : २०.

एकविंशति-सं(स्था>)स्थ^३- -स्थः कौसू १३८, १३.

एकविंशति-स्तोम^३- -मेन वौश्रौ १८, ४७ : ९; २६.

एकविंशती(ति-इ)ध्म- -ध्मान् वैश्रु ४, १ : २.

एकविंशत्य(ति-अ)क्ष(र>)रा^३- -रा निसू ६, ५ : १३.

एकविंशत्य(ति-अ)हुल- -लम् वैश्रौ ११, ७ : ८.

एकविंशत्य(ति-अ)नुवाक- -कान् माश्रु १, २३, १५; -कैः वाश्रौ ३, ४, ३, २२.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

एकविंशत्य(ति-अ)रलि^३- -लयः शाश्रौ १६, ३, १; वाधूश्रौ ३, ७६ : ९; -लिः वाश्रौ ३, ४, १, ५४; -लिम् आपश्रौ २०, ९, ६; हिश्रौ १४, २, ३८; -लीन् वौश्रौ १५, १४ : २; -लेः वौश्रौ २४, ३५ : ६.

५ : १०; २१ : १०; -तीनाम् आपशु ८, ९; ११, १४; १६; हिशु ३, ११; ४, १७; २०.

एकविध-प्रसङ्ग- -ङ्गः वौशु ५ : १७.

एकविधो(घ-उ)क्त- -क्तम् आपशु १२, ४; हिशु ४, २६.

एक-विभक्ति- -क्तौ पा, पावा १, २, ६४.

एकविभक्त्य(क्ति-अ)न्त^३- -न्तानाम् पावा १, २, ६४.

एक-विभक्ति^३- -क्ति पा १, २, ४४; -क्तौ पावा १, २, ४४.

एकविभक्त्य- -त्वात् पावा २, २, २४.

एक-विमुक्त- -क्ते काश्रौ ८, १, २.

एक-विट- -रः जैश्रु १, १९ : ३७.

एक-वीर- -रः माश्रौ १, ६, २, १७; वैताश्रौ १४, १.

एक-वीर^३- -रान् कौसू ४७, १४.

एक-वृक्ष- -पाग ४, २, १३८; -क्षे माश्रु १, ३, ११; वाश्रु १५, ५; अप २२, ३, ४; ७०^३, ४, ५; ७२, ३, ८.

एक-वृक्ष-सद्- -सदे माश्रु १, १३, ११; वाश्रु १५, ५.

एक-वृक्षीय- -पा ४, २, १३८; -यान् काश्रौ २, ८, १.

एक-वृत्^३- -वृत् काश्रौ ८, २, २७; ७, १३; आपश्रौ ६, २३, ११;

माश्रौ २, २, ४, ३१; माश्रु १, १०, २१^१; २, २, ५; माश्रु २, २० : १५^१.

एक-वृद्धि- -द्ध्या वौध ४, ५, १७.

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) पाठः ? एकविंशतिः, भवरा, वा, परार्धात् इति चतुष्पदः

शोधः (तु. शाश्रौ ७, १७, १७; संस्कर्ता च) । d) = कतु-विशेष- । e) ष्हः का० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.

लाश्रौ.) । f) विप. । परिमाणार्थे ढिनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । g) ष्हा इति पाठः ? यनि. शोधः । h) विप. ।

वस. उप. ? । i) ष्वत् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माश्रौ.) ।

एक-वृष^२ - ऋषः अथ ५, १६; अर्षः
 २ : ९; ४८; ३ : ९; ४ : ११;
 -यम् छुस् १, २ : २६^०; अथ
 ५, १६^०; -पत्स्य लाश्रौ ७, ६, ५^०.
 एक-वृष-देवता- > ष्य- त्यम्
 अथ ५, १६; ६, ८६.
 एक-वेद- -दे वायु ६, २९; गौध
 २, ५२.
 एक-वेदस्^० - -दाः वौश्रौ १८, ३३ :
 १२.
 एक-वेद्य(दि-अ)न्त- -न्ते आम्रिणु
 १, २, २ : १७.
 ?एकवेद्यान्तेभ्यः^० हिणु २, १९, ६.
 एक-व्यपदेश- -शात् नीस् १०,
 ६, ४८.
 एक-व्यवेत- -तः तैप्रा ४, ५१.
 एक-व्यूह^१ - -हम् विध १, ६१.
 एक-व्यत, ता^१ - -तः^१ आणु १, २१,
 ७; काणु ४१, ९; माणु १, २२,
 १०; जैणु १, १२ : ३३; -ताः
 आपश्रौ १७, १३, २; हिश्रौ
 १२, ४, ४.
 एक-व्याख्य^१ - -०त्य आपसं २,
 १६, ३; ६; भाणु २, ७ : ११; १७;
 हिणु २, ७, २.
 ?एकशक^१ - -फम् शंघं ११६ : ५०.
 एक-शत- -तम् शंघौ ११, १४,
 २९; १५, २६, १; काश्रौ २०,
 ५, १६; आपश्रौ १६, १६, ११^१;
 वौश्रौ १२, ९ : २; १५, १४ :
 १; ऋश्रौ १८, १४ : ५^१; ६;
 भाणु १, २५ : १९^१; हिणु १,
 २३, १^१; कौस् ९७, ८^१; अप

७, १, ८^१; वृदे ४, ९५; निष
 १, १२; या २, २४; -तात् वाश्रौ
 ३, ४, २, ६; हिणु १, २३, १^१;
 -तेन काश्रौ ७, ३, ३; आपश्रौ
 १८, १४, ५^२; वौश्रौ १२, ९ :
 १६; वैश्रौ १२, ७ : १२; हिश्रौ
 १३, ५, २२.
 एकशत^१ - -तः वौश्रौ १५,
 २ : १६; ३६ : २८.
 एकशत-तस- -मः वौश्रौ २२,
 २० : २१; लाश्रौ ८, ४, ९.
 एकशत-वि(धा >)र्ष^१ - -घः
 आपश्रौ २०, २५, ५; हिश्रौ १४,
 ६, १६; -घात् काश्रौ १६,
 ८, २०; आपश्रौ १६, १७,
 १५; वैश्रौ १८, १४ : ३०; काणु
 ५, १; ६, ५; आणु ८, ७; हिणु
 ३, ८; -घान् वौश्रु ५ : ३; -वे
 काणु ६, २.
 एकशतविधा(घ-अ)न्त^१ -
 -न्तम् वौश्रु ५ : ३.
 एक-शक^१ - -फम् शंघौ ७, १८,
 ४; आपश्रौ १६, २१, १५^१;
 वौश्रौ १०, ३४ : ५^१; माश्रौ ५,
 २, १४, ७; वैश्रौ १८, १९ :
 २२^१; हिश्रौ ११, ७, ५९^१;
 -फाः वौश्रौ २, १८ : १९^१;
 वाश्रुश्रौ ३, ७५ : १३; वाघ २,
 २८; -फान् काश्रौ २२, १०,
 २०; शंघ ४२०.
 एकशक^१ - -फम् गौध १७,
 २२.
 एकशक-द्विपद् - -दानाम् गौध

२८, १३.
 एकशक-विक्रियन् - -वी विध
 ४५, २३.
 एकशको(फ-उ)भयदन्ता(न्त-
 अ)शन^१ - -ने विध ५१, ३०.
 एकशको(फ-उ)ष्ट-स्त्री^१ -
 -स्त्रीणास् वैध २, १५, ५^१.
 एक-शब्द- -वृदे मीस् १, ४, ८^०.
 एकशब्द- -वृदात् मीस् २,
 १, २८^०, ७, १, १८; ९, १, ४७;
 ३, ३७; १०, ३, ६; ११, १, १४;
 २५; २, ४.
 एकशब्द-स्व- -स्वम् पावा १,
 २, ६४.
 एकशब्दा(वृ-अ)भिसंयोग-
 -गात् मीस् ११, १, १.
 एकशब्दो(वृ-उ)पदेश- -शाः
 मीस् ११, ४, २; -शात् मीस्
 ११, १, ५५; २, १.
 एक-शब्द^१ - -वृदानि या ४, १.
 एक-शला(का >)र्क^१ - -केन कौस्
 ८०, २५.
 एक-शलाका- -कया काश्रौ ५,
 ८, १८.
 एक-शस्(ः)काश्रौ ४, १, ३; वृदे ६,
 २१; पा १, ४, १०२.
 एक-शा(खा >)र्ष^१ - पाण ४, २,
 १३८; -त्वम् कौस् ९०, ३.
 एकशास्त्रीय- पा ४, २, १३८.
 एक-शाटी-परिहित^१ - -तः वाघ
 १०, ९.
 एक-शाला- > णिक-, एकशा-
 लिक- पा ५, ३, १०९.

a) वौ १ द्र. । b) = साम-विशेष- । c) = सूक्त-देवता- । d) विप. । वस. उप. = वेद- ।

e) पाठः ? 'वेचन्तेभ्यः' इति शोधः (तु. Böht LZDMG ४३, ६००); वैतु. भाष्यम्) । f) विप. । वस. ।

g) पाठे. 'वैप २, ३ स्तं. एकमनाः मंत्रा १, २, २१ टि. द्र. । h) = धप्रह-विशेष- । i) = मरुद्-विशेष- । समासः ? ।

j) प्रकाशं दृष्ट प्र. (पा ५, २, ४८) । k) विर., नाव. । वस. । l) विप. । तस्येदमीयः क्षण प्र. । m) द्रस. >

वस. । n) 'कौ' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. C.) । o) एकशब्दे इति जीसं. । p) एकशब्दात् इति जीसं. ।

एक-शि(खा>)ख^१- -खः वीगृ २,
४, १७.

एक-शितिपाद्^१- पाग ६, २, ८१;
-पात् माथ्रौ ५, २, १०, २८^१.

एकशितिपात्-स्वर-वचन- -नम्
पावा २, १, १.

एक-शीर्षन्^१- -र्षा सु १६, ४.

एक-शुचि^१- -चयः हिध १, ७, ८.

एक-श्रु(ल>)ला^१- -लया आपथ्रौ
७, १७, ६०; १९, १^१; भाथ्रौ ७,
१३, ७०; १४, १४^१; वैथ्रौ १०,
१४ : २०; १५ : ३^१; हिथ्रौ ४,
४, ३०; १६^१; भागृ २, १६ : २;
हिगृ २, १५, २; -लाम् आपथ्रौ
७, ८, ३; २१, ३; भाथ्रौ ७, ६,
६; १६, १०; वैथ्रौ १०, ७ : २१^१;
हिथ्रौ ४, २, २७; ४, १८; ४१;
गोगृ ४, १, २.

एक-श्रृङ्गा^१- -ङ्ग विध ९८, ७८^१;
-ङ्गया माथ्रौ १, ८, ३, ३८; ४,
१२^१; वाथ्रौ १, ६, ५, ८०; २५^१७^१;
-ङ्गा माथ्रौ १, ८, ३, २६; -ङ्गाम्
माथ्रौ १; ८, ४, ३८; वाथ्रौ १,
६, ६, ११; कौसू ४५, १३.

एक-शेष- -वः पा, पावा^१ १, २,
६४; -षे पावा १, २, ६४^१.

एकशेष-निर्देश- -शात् पावा १,
३, ३; ४, १०१; २, १, १; ६, ३,
६७; ८, ४, ६८.

एकशेष-प्रतिषेध- -धः पावा २,
४, १.

एकशेषप्रतिषेधा(ध-अर्थ)-
-र्थम् पावा २, २, २८.

एकशेष-वचन- -नम्, -नात्
पावा १, २, ६४.

१एक-श्रुति^१- -तौ मीसू १०, ७, ५१;
-त्या पावा ६, ४, १७४^१.

एकश्रुति-क्रम- -मात् जैथ्रौका
२३.

एकश्रुति-त्व- -त्वात् मीसू ४, १,
१२; ११, १, १६.

एकश्रुति-विधान- -नान् द्राथ्रौ
१, १, ४; लाथ्रौ १, १, ४.

२एक-श्रुति^१- -ति आथ्रौ १, २, ८;
काथ्रौ १, ८, १९; पा १, २, ३३.

एकश्रुत्य- -त्यम् आथ्रौ १,
२, ९; पावा १, २, ३९.

एकश्रुत्य-वचन- -नम् पावा
१, २, ३९.

एकश्रुत्य-प्रतिषेध- -धः पावा
८, १, ५५.

एक-पटि- -टिः वाअ ४१ : ३;
अअ १८, १; अप ४ : ४०;
-टया वेज्यो ४०.

एकपटि^१- -ष्टे काथ्रौ १६, ८,
१७.

एकपटि-रात्र- -त्रः वीथ्रौ १६,
३६ : १३; -त्रम् आथ्रौ ११,
६, १३; आपथ्रौ २३, ८, ८; निसू

१०, ४ : १७; -त्रात् निसू १०,
४ : १६; -त्रे शांथ्रौ १३, १८,
१; काथ्रौ २४, ३, १७; वीथ्रौ

२३, १३ : १५; लाथ्रौ १०, ५,
८; -त्रेण हिथ्रौ १८, ३, ४.

एकसंयुक्त- -क्तः मीसू ९, ३, ३७.

एकसंयोग- -गात् मीसू ३, ३, १९;

३९; ६, ५, ५३; ९, ३, ३२; १०,
२, ४१.

एक-सं(स्थ>)स्था^१- -स्थाः अय
६४, ५, ४.

एक-संख्या-> एकसंख्य- -ख्यम्
मीसू ८, ३, १६.

एक-संज्ञा(ज्ञा-अ)धिकार- -रे पावा
१, ४, १^३.

एक-सप्तति- -तिः विध २०, ११.

एक-समास- -सः काशु ३, ३; -सेन
काशु ३-४, ३; ५, ५.

एक-संप्रैप- -षे आथ्रौ २, १६, १५.

एक-संभार्य^१- -र्थम् आथ्रौ ११, ७,
१२; -र्थे वाथ्रौ ३, २, ४, १.

एक-संभार्य-ता- -ता वाथ्रौ ३,
२, ३, ३२.

एक-सर, रा^१- -रम् कागृ ४१, २१;
-राभिः आपथ्रौ १५, ५, ७;

वीथ्रौ ६, १० : ९; १०, १२ : ६;
भाथ्रौ ११, ५, ९; वैथ्रौ १८, ६ :
६; हिथ्रौ २४, २, ४; -रे कौसू

३३, १२.

एक-साध्य- -ध्येषु कप्र ३, ८, २.

१एक-सामन्- -स्तः निसू १, १३ :
४.

२एक-सामन्^१- -ना मीसू १०, ६,
१५.

एक-सूक्त^१- -क्ते शांथ्रौ ११, १०,
१०.

एक-सूक्त^१- -कः आपथ्रौ ९, १२,
४; १५, १९, २; वीथ्रौ ९, १८ :
७; भाथ्रौ ११, १९, १०; वैथ्रौ

२०, २५ : ४; -कम् हिगृ १,

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) सप्र. °श्रुलया <> °श्रृङ्गया इति पाभे. । d) सप्र. °श्रुलया

<> °श्रृङ्गया इति पाभे. । e) °ला इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथ्रौ ७, ८, ३) । f) = विष्णु- । g) °ङ्गायो°

इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथ्रौ ७, १९, १) । h) पस. वा कस. वा । i) एकश्रुति-निर्देशात् इति गुसं. ।

j) ङः प्र. उसं. (पा ५, २, ४६) । k) विप. (दरुडं-; रज्जु- प्रसू.) । उस. वा वस. वा । l) = एकचर-सकाल-

[शृगाल-] । मलो. कस. ।

१६, १९; -के आपध १, ११, ३३; हिष १, ३, ८४.

एक-स्तन^१ - नम् आपधौ ११, १५, ६; १६, ३५, १०; १७, २६, ७; २१, ४, १४; २३, ११, ६; भाधौ १२, ५, १९; वैधौ १२, २४ : ७; १९, १ : १८; हिधौ १०, ३, ३९; -नानि हिधौ ११, ८, २६; १२, ८, २०; १६, १, ४८; -ने माधौ २, २, १, ४९.

एकस्तन-प्रभृति- -ति वौधौ २९, ११ : २१.

एकस्तन-व्रत- -तम् वौधौ ६, २४ : १.

एक-स्तोत्र- -त्रम् आपधौ १४, १८, १३; १९, ९; हिधौ १५, ५, १४; २०; निस् ४, ८ : २१; ६, १३ : १८; -त्रस्य लाधौ १०, ३, ५.

एकस्तोत्रिय- -यः आधौ ६, ६, ८; -चेषु आधौ ७, २, ७.

एक-स्तोम^२ - मः वौधौ १८, ३६ : ११; निस् ८, ८ : १५; मांस ५, ३, ४३; -मम् लुस् ३, १६ : ९; -माः निस् ८, ३ : ४; १०, ७ : १६; -मानाम् निस् ९, ४ : ३९; -मानि निस् ८, ३ : ६; -मेन धुस् ३, १६ : ११; -मेषु लाधौ ९, ७, ८; निस् १०, ७ : ८.

एकस्तोम-ता- -ताम् निस् ८, ४ : २६; १० : १२.

एक-स्य^३ - स्यः वौध २, ६, २२.

एक-स्थान- -ने हिधौ १६, १, ३६; ६, ३.

एकस्थान-वासिन्- -सी शंध १६०.

एक-स्फ्य > स्फ्या^४ - स्फ्यया ङ्गाधौ ५, ४, ७; १८, ३, १७; आपधौ ८, ५, २०; वौधौ ४, २ : ३८; १०, ५१ : १९; द्राधौ १३, १, ४१; लाधौ ५, १, ४१; -स्फ्याम् आपधौ १, ७, १३; ७, ४, ५; ५, ४; भाधौ १, ७, ८; ७, २, ९; वैधौ ८, ९ : ९; १०, ४ : ११; हिधौ २, ७, १८; २०; ४, १, ६०; ५, २, १३; -स्फ्यायाम् आपधौ १, ८, १; १०; ९, १४; भाधौ १, ८, ६; वाधौ १, २, ३, ८; ३, ९.

एकस्फ्या-देश- -शे हिधौ २, ७, १७.

एकस्मान्-न-पञ्चाशत्^५ - शत् वाधुधौ ३, ८६ : ५.

एकस्मान्नपञ्चाशत्^६ - शः हिधौ १८, ३, १.

एकस्मान्नपञ्चाशद्-रात्र- -त्रः वौधौ १६, ३६ : ४; ८; -त्राः आपधौ २३, ७, १.

एक-स्तुव- -वम् वाधौ १, ५, २, ४९.

एक-स्वर > ऐकस्वर्य^७ - र्यम् शाधौ १, १, ३१.

२एक-स्वर^८ - रान् याशि १, ६०.

एक-स्वरित^९ - तम् अप्रा १, १, ५; कौशि ३५.

१एक-स्विष्टकृत्^{१०} - कृतः आग्र १, ३, १०; माग्र २, १८, ४१^{११}; कौस् ६, ३४.

एक-हविर्धान^{१२} - नः वौधौ १८, ३६ : ११.

१एक-हविस्- -विः वौधौ २०, ८; ३२; ३५; कौस् ७४, १५^{१३}.

एकहविष्-ट्व (< त्)- -ट्वम् मांस १०, ७, १.

२एक-हविस्^{१४} - विपः आधौ २, ११, ६; शाधौ २, ३, १४.

एक-हस्त^{१५} - स्तम् अप ३०^{१६}, १, ३.

एक-हानि- -न्या वौध ४, ५, १७.

एक-हायन^{१७} - नः आपधौ ९, ८, २; १३, १४; भाधौ ९, १६, ७; भाधौ ५, १, १, २६; वैधौ २०, २८ : १५; हिधौ १५, ४, ७; -नम् भाधौ ५, १, ५, ३५; अप्राय ४, १; विध ५०, २७; -नान् वौधौ १८, ११ : २.

एकहायनी- -नी आपधौ १०, २२, २; २२, १५, ३; वौधौ ६, १० : ३; भाधौ १०, १४, १९; १७, १२; हिधौ ७, २, १६; १७, ६, २३; -नीम् काठधौ ८३;

वैधौ १२, १६ : ९; -न्या वौधौ १६, २४ : १४; १७, १ : ३.

एकहायन-प्रभृति- -ति आपधौ १८, ३, ९.

एक-हाविर्- -वी शाधौ २, १२, ८.

एक-हिङ्गार^{१८} - रः निस् २, ७ : ७; -रम् निस् २, ७ : १.

१एक-होतृ^{१९} - ता आपधौ ८, ४, ३; वौधौ २७, १० : १७; २९, २ : ३; वैधौ ८, ८ : ५; २१, १२ : ६; आप्रिष्ट ३, ४, ४ : ६; ७, ३ : २२; वौध ४, १०, १; ३; वौपि २, २, २; ३, ४, १३; वैध ५, ५ : २६; ७, ९ : ८; हिपि १९ : ९;

a) विप. । वस. ।

b) विप. (परिव्राजक-) ।

c) वैप १ द. ।

d) एकं स्विष्टकृतम्

(तु. BO.) इति पाठः? यनि. शोधः ।

e) विप. । तद्विनार्थे द्विस. ।

f) विप. । उच. उप. < √ इ

[दानाः] g) वैप १, १३०२। द. ।

-तारम् आमिष्ट २,७,४ : १५.
 एक-होम- -मे शांश्रौ २, ९, १५;
 वीष्ट २, १३, १; २; वैष्ट ६, ६ :
 ४; ७.
 एकाकिन्^०- पा ५, ३, ५२; -किनम्
 वाघ १७, ८६; वीध १, ५,
 १०२; -कंकी आश्रौ १०, ९,
 २३; शांश्रौ १६. ५, १२; काश्रौ
 २०, ५, २०; ७, १०; वीश्रौ १५,
 २९ : ५; ७; वाश्रौ ३, ४, ३,
 ५१^३; अय २, १, ५९; विध ४५,
 २७९; चाश्र ४२ : ६.
 एकाकि-ता- -तायै वाधूश्रौ ३,
 ९ : ५.
 १एका(क-अ)क्षर- -रम् वाघ १०,
 ५; २५, ११; विध ५५, १७;
 -रात् ऋप्रा १६, ५; नाशि २,
 १, १०.
 एकाक्षर-गिधन^०- -नः निस् ६,
 ३ : ५; -नम् लाश्रौ १०, १, १४;
 निस् ८, ५ : २८.
 एकाक्षर-नियत^०- -तस्य उस् ८,
 १६.
 एकाक्षर-भाविन्^०- -विनः निस्
 १, ७ : २९.
 एकाक्षर-वृद्धि- -द्वौ शुप्रा ५,
 २९.
 एकाक्षर-समावेश- -शे ऋप्रा
 ३, ३.
 एकाक्षर-ही(न >)ना- -ना
 उनिस् २ : ३.
 एकाक्षर(र-आ)दि- -द्वौ ऋप्रा
 ९, १५.
 एकाक्षरी√कृ > एकाक्षरी-कृत-
 -त्वात् ऋप्रा ३, २३.
 एकाक्षरी√भू > एकाक्षरी-

भाव- -वान् ऋप्रा १७, २२.
 एकाक्षरो(र-उ)प(धा >)ध-
 -धम् ऋप्रा ८, १६.
 एकाक्ष(र्य >)र्षा^०- -र्यया द्राग्य
 ४, ३, १; -र्यायाम् गोग्य ४, ८,
 ११.
 २एका(क-अ)क्षर, रा^०- -रः शुप्रा ६,
 ५; -रम् वाधूश्रौ ४, १०० : ३;
 वैग्य ६४ : ४; वैग्य १, ४ : २८; २,
 १० : १३; ऋप्रा ११, ३; अप्रा
 ३, ४, ३; ४; -रयोः ऋप्रा ८, ५;
 -रस्य ऋप्रा ५, ३३; -रा वीश्रौ
 २४, २ : ७^१; निस् ३, ४ : ५;
 उनिस् ३ : ३; -कंराः आपश्रौ
 ४, ४, ४; भाश्रौ ४, ५, ५;
 वाश्रौ १, १, २, १६; हिश्रौ ६,
 १, ५१; ऋप्रा १२, २२९; -राणि
 अप्रा १, ३, १०; -रात् पावा ५,
 २, ११५; -कंराम् वाश्रौ ३, १,
 १, ४१; निस् ३, ४ : २; मश्र
 १७; चाश्र १४ : ६; -राय
 वाश्रौ ३, १, २, २१^१; -रे ऋप्रा
 ७, १०; शुप्रा ३, ७६; ऋत् ५,
 २, ६; माशि ५, ९; -कंरेण काश्रौ
 १४, ५, २८; आपश्रौ १८, ४, १९;
 वीश्रौ ११, ७ : ३१; वाधूश्रौ ४,
 १०० : १९; वैश्रौ १७, १३ : ९;
 हिश्रौ १३, १, ५४; श्रौच ४,
 ५५; ५६; -रेपु द्राश्रौ ३, ४, ११.
 एकाक्षर-चर्पणि-धन्व-वर्जम्
 ऋप्रा ९, २७.
 एकाक्षर-तत्र-पूर्व- -र्वम् ऋप्रा
 २, ५८.
 एकाक्षर-पदा(द-आ)दि- -द्दीनि
 उनिस् १ : ४.
 एकाक्षर-पूर्व-पद- -दानाम् पावा

५, ३, ८४.
 एकाक्षर-प्रभृति- -तीनि निस्
 १, ६ : ११.
 एका(क-अ)क्षि^०- -क्षिः अप ६९, २,
 ३.
 एका(क-आ)गम- -मात् शांश्रौ ९,
 १, ९.
 एका(क-अ)गार- -रात् पावा ५, १,
 ११३.
 एकागारिक- पा ५, १, ११३.
 एका(क-आ)गु(र >)रा^०- -रे आश्रौ
 ५, ५, ४.
 १एका(क-अ)गिन- -गिनः भाग्य ३,
 १ : १; -गिनम् कौस् ६९, १; -श्रेः
 काग्य ४५, १; -ग्नौ द्राश्रौ १२, १,
 ३; लाश्रौ ४, ९, ३; जैग्य १, १ : ५;
 द्राग्य १, १, २०; अप्राय १, १^३;
 ६, ९.
 एकाक्षि-क^०- > का(क-आ)
 दि- -द्वौ शंध १३८.
 एकाक्षि-त्व- -त्वात् मीस् ११,
 २, ४७.
 एकागिन-परायण- -णः आमिष्ट
 २, ७, १० : १३.
 एकाक्षि-वत् मीस् १२, १, ६.
 एकाक्षि-विधान^०- -नम् आमिष्ट
 २, ५, १ : ८; भाग्य ३, ३ : १४.
 २एका(क-अ)क्षि^०- -मयः काश्रौ ६,
 १०, २०; -गिनः आपध २, २१,
 २१; हिध २, ५, १३०.
 एका(क-अ)ङ्ग- -ङ्गम् आमिष्ट ३,
 ११, ४ : ४५; आपध १, २६, ६;
 हिध १, ७, १७; -ङ्गस्य विध
 १२, ६.
 एकाङ्ग-दर्शन- -ने वीषि ३, ७, ३.
 एकाङ्ग-वचन- -ने आश्रौ १, १,

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) विप. । उस. । d) = ऋगु-विशेष- । मत्वर्थोऽयत् प्र. ।

e) विप. । वस. समासान्तस्य षचः अभावः उंसं. (पा ५, ४, ११३) । f) = गृह्याग्नि- । स्वार्थे कः प्र. ।

१२.

एका(क-अ)हुल, ला^० - लम् वैश्रौ
११, ७ : १०; ८ : ६; -ला वैश्रौ
११, ८ : १२; -लाम् जैत्र २,
३ : ११.

एका(क-अ)हुलि - ल्या वैश्रौ २१,
९ : ६; -ल्याः लाश्रौ ८, ९, १०^१।

एकाहुलि-परिगाह^० - हाः वैत्र
१, ८ : ५.

एका(क-अ)हु(ष्ट)छा^० - छा कप्र
१, ७, ९.

एका(क-अ)ज्य^० - ज्यान् आगृ
१, ३, १०; मागृ २, १८, ४^१;
कौसु ६, ३४.

एका(क-अ)जलि - लिम् आगृ ४,
४, १०; जैत्र २, ५ : ६.

एका(क-अ)तिरिक् - क्तान् आपश्रौ
८, १७, १; वैश्रौ ५, १६ : २;
२३, ३३ : २; २३, ४ : २; ४;
६; वैश्रौ ३, ८, २; -क्तानि
आपश्रौ ८, ५, ४१; वैश्रौ ५,
५ : ६; वैश्रौ ८, १० : ९.

एका(क-अ)न्यन् - > ऐकान्य-
-न्यम् वृद्धे २, १८.

ए(क>)कादशन्^० - श आश्रौ ३,
२, १; ६, १२; शाश्रौ; आज्यो
१२, ११; -शऽ-श आश्रौ ९,
५, ७; ८; शाश्रौ १५, ४, ११;
काश्रौ २१, १, ९; २२, ५, २१;
हिश्रौ १४, ६, ७; -शानिः आश्रौ
१०, ८, ५; शाश्रौ १६, ३, २०;
१२, १७; काश्रौ; -शभ्यः शाश्रौ
४, १०, २; पा ५, ३, ४९; -शसु
काश्रौ ४, ८, १७; १८, ६, ११;
आपश्रौ; -दानान् वैश्रौ २६,

२३ : ५; वैश्रौ ४ : १७; कप्र
३, १०, ५.

एकादश- -शः शाश्रौ १६, ३०,
७; वैश्रौ १८, ३२ : ८;
वाश्रौ; -शम् शाश्रौ १६, ३०,
१०; लाश्रौ ७, ५, १७;
आपसं १, ४, ६^१; कागृ; -शस्य
वैश्रौ १०, ४८ : ११; १७,
२५-२६ : ११; -शाः वैश्रौ १८,
१ : १०^१; हिश्रौ ६, १, २६^१;
ऋञ्ज ३, २२; -शात् आपश्रौ
२०, ७, ७; हिश्रौ १४, २, २०;
-शात् आपश्रौ ७, १४, ८; वैश्रौ
१०, ४७ : १४; माश्रौ ७, ११,
१२; माश्रौ १, ८, ३, १८; वैश्रौ
१०, ११ : ६; हिश्रौ ४, ३, ३४;
-शासः आश्रौ ९, ११, १५;
शाश्रौ ८, २१, १^१; तैत्रा ११,
१६; -शो शाश्रौ ६, ९, ७; वैश्रौ
१०, ४७ : १७; ५० : १; १२,
२ : ३; ४ : २४; ५ : २८; १७,
२४ : ८; २६, ३ : ३; माश्रौ;
वाश्रौ; -शेषु वाय ११, ५०.

एकादशी- -शी वैश्रौ
२५, ४ : ८; वाश्रौ; -शीः निस्
७, ७ : ३१; -शीम् शाश्रौ ६,
७, २; वैश्रौ ३, ८, ९; आज्यो ६,
९; -श्या वैश्रौ १०, २९ : १२;
कौसु २९, १४; वृद्धे ३, ४०; अञ्ज
५, २४; -श्याम् काश्रौ १७, ७,
११; वैश्रौ.

एकादशी-प्रभृति-

-तयः शाश्रौ ७, १५, १०; निस्
१, ९ : १७; -ति आमिष्ट २,
७, ९ : ३५; ३६; भागृ ३, २० :

४; ६; १०; ११.

एकादश-दिन- -नात् वैश्रौ
३, ९, १; -ने वैत्र ५, १३ : ४.

एकादश-द्वादश- -शयोः
वौष १, १३; -शो अत्र १,
१२, १; १३, १; १५, १;
१६, १.

एकादशा(श-अ)नुवाक-
-के वैश्रौ १९, ६ : ४१.

एकादश-ऋ^० - ऋः ऋञ्ज ३,
२८; २९^२; -ऋम् ऋञ्ज २,
१०, ५३; अञ्ज ५, ३; १५; १९,
१९; अत्र ५ : २५; -काः ऋञ्ज
१, ६, ८; वृञ्ज ५, ३९; अञ्ज १५,
१०; अत्र ५ : १९; -कानि
ऋञ्ज २, १, १३; अत्र २ : ४७;
-के अत्र २ : ४८; -कौ ऋञ्ज
३, २३.

एकादश-कपाल- -लः काश्रौ ४,
५, २१ x x; आपश्रौ; -लस्य
शाश्रौ १४, १३, ६; काश्रौ; -लस्य
माश्रौ १, २, ३, ५; वैश्रौ
४, ९ : ५; हिश्रौ १, ६, १५;
२०; -लाः वैश्रौ १३, ३५ :
९; २४, १० : २-५; ७; -लान्
आपश्रौ १२, ४, २; वैश्रौ ७,
२ : ६; २६, १५ : ९; १७; २५;
२७, १४ : २१; माश्रौ; -लेन
वाचूश्रौ ४, २२ : ६; १३; २६ :
२१; वाश्रौ ३, २, ४, ६^१.

एकादश-काण्डा(ड-अ)न्त-
-न्तम् अञ्जम् ८.

एकादश-कृत्वस् (ः) काश्रौ ९,
४, १५; आपश्रौ.

एकादश-गुण^० - गः वैज्यो १५;

a) विप. । तदितार्थे द्विस. ।

इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. आगृ.) ।

१०-३६ b द. । h) वृ ४४३ f द. ।

b) ल्या इति पाठः ? यनि. शोधः ।

c) वैप १ द. ।

f) शः इति पाठः ? यनि. शोधः ।

c) विप. । वच. ।

d) ज्याम्

g) पामे. वैप १,

-णम् विध ५, ७९; ८२.

एकादश-उदिः-प्रभृति- -त्तिनि
वैश्रौ १४, ११ : ९.

एकादश-त्रय- -यम् भाशि २६.

एकादश-धा आप्रौ ७, २६,
११; वौश्रौ.

एकादश-परम^२- -मान् वौश्रौ ६,
३४ : ६.

एकादश-प्रक्रम- -मे वैश्रौ १,
२ : ८.

एकादश-प्रयाज^३- -जम् वौश्रौ
२१, २५ : २१; २४, ११ : १०;
२६, २९ : ३; -जस्य वौश्रौ २४,
१० : १७; -जे वौश्रौ २५,
३१ : ९; -जेन वौश्रौ २४, ११ :
१२.

एकादश-रात्र^४- -त्रः आप्रौ २२,
२४, ८; २३, १, ५; वौश्रौ; -त्रम्
निसू ९, ६ : २६; वौध ३, ६,
१९; गौध १४, २; -त्रस्य
आप्रौ २२, १४, १२; -त्रात्
आप्रौ २२, १४, १; वौश्रौ;
-त्राय वौश्रौ १६, ३२ : १;
-त्रे लाप्रौ ९, ५, १०; -त्रेण
शांश्रौ १६, ३०, १.

एकादशरात्र-प्रभृति- -तयः
निसू ९, ८ : ३५.

एकादश(श-ऋ)वै^५- -र्वम् शुभ्र
२, ४४५; ३, ३१; चाश्र ४० :
१२; अश्र ३, ३१; ५, ११-
१३××; अर्ष २ : ८९; -र्वेन
वौश्रौ १०, १६ : १८; वैश्रौ
१८, ९ : ८; -र्वेभ्यः अर्ष ४६,
१०, ८; अश्र १९, २३.

एकादश-वर्ष^६- -र्वम् पाण्ड २, २,

२; हिण्ड १, १, ३.

एकादशवि(धा >)ध- -धम्
शांश्रौ १६, ३०, १; २; -धात्
वौश्रु ५ : २.

एकादश-सूक्त^७- -क्ताः अर्ष २ :
१३.

एकादश-स्तोम^८- -मः शांश्रौ
१४, ११, ४.

एकादश-हीन- -नः अर्ष ४ : ९.

एकादश(श-अ)क्षर, रा^९- -रः
निसू १, १ : ३; १०; ऋप्रा १६,
२८; ६७; -रम् वाधूश्रौ ४,
१०० : ९; २५; निसू ३, ४ :
२६; -रा शांश्रौ १४, ११, ५;
१६, ३०, २; वाधूश्रौ ४, ८९ :
१७; निसू ३, ४ : १८; -राः
शांश्रौ ७, २७, २२; ऋप्रा १६,
४२; ६९; -राणि लुसू १, ६ :
१८; -राभ्याम् लनिसू २ : ३१;
-रौ निसू १, ४ : १६; ऋप्रा १६,
३४.

एकादशाक्षर-त्रयोदशाक्षर-
-रौ निसू १, ४ : २३.

एकादशाक्षर-पा(द >)दा^{१०}-
-दा निसू १, ४ : १; -दाः निसू
१, ४ : २६.

एकादशाक्षरा(र-अ)ष्टाक्षर-
-रौ निसू १, ४ : २४.

एकादश(श-अ)न्त- -न्ते काश्रौ
१६, १, १३.

एकादश(श-अ)भ्य(स्त >)
स्ता- -स्ताम् वेज्यो २०.

एकादश(श-अ)ह^{११}- हात्
गौषि १, ४, ११.

एकादशाहा(ह-आ)दि- -दि

कप्र २, ७, ५.

एकादशै(श-ए)कादशशत-
-तानि लाश्रौ ८, ७, ९.

एकादशिन^{१२}- -शिनः शांश्रौ ४,
१०, ३१; ऋश्र १, ९, ६; शुभ्र
५, ६५; ऋप्रा ९, ४२; -शिना
वाश्रौ ३, ४, १, ५५; -शिनीः
ऋश्र १, ५, ५; शुभ्र ५, २८.

एकादशिनी- -नी आप्रौ
६, १४, १०; आप्रौ २२, १०,
१६; वौश्रौ १६, १९ : ६; माश्रौ
५, २, १२, ४६; हिश्रौ १७, ४,
३४; -नीः आप्रौ २०, ९, ९;
हिश्रौ १४, ६, ९; -नीम् आप्रौ
१२, ७, ९; १४; वौश्रौ १६, ११ :
१०; १३; १७, ११; माश्रौ ५,
२, १२, १३; हिश्रौ १६, ८, ४;
-न्यः आप्रौ १२, ७, १०; आप्रौ
२१, २२, २; वौश्रौ १६, १२ :
३; २६, १७ : १; हिश्रौ १६, ८, ५;
-न्या शांश्रौ १४, १०, १५;
वौश्रौ १७, १५ : २; -न्याः
माश्रौ ७, १०, ९; -न्याम्
आप्रौ २२, २, ११; वौश्रौ २६,
२३ : १; वाश्रौ ३, २, ६, १;
वौश्रु ४ : १६; २२; -न्यै वौश्रौ
२३, १४ : १; १०; २६, १७ :
२; -न्योः शुभ्र ३, १३१; -न्यौ
काश्रौ २०, ४, २३.

एकादशिन^{१३}- -नाः
आश्रौ ३, ७, १५; शांश्रौ ६, ९, ३;
काश्रौ १२, ६, १६; २२, ७, १२;
आप्रौ १४, ५, १; २२, ८, १४;
१३, १८; २४, ३, ३६; काश्रौस
२८ : २२; वौश्रौ १६, ११ : ७;

a) विप. । वस. ।
अहादेश-निबन्धः (पा ५, ४, ८९) ।
चुद्धिर् वा द्र. ।

वैपञ्च-६

b) वैप १, १०३२ t द्र. । c) पृ ४४१ i द्र. । d) समाहारे द्विस. उप.
e) परिमाणार्थे द्विनिः प्रः (पावा ५, १, ५८) । f) विप. । तद्धिते षणि प्र-

१९ : २; २३, १९ : २८; हिश्रौ ९,
८, १; १७, ३, ३३; ५, ३९;
-नान् काश्रौ २०, ५, ८; २१, १,
७; आपश्रौ ७, १३, ९; १७, २२,
८; २३, ४; १८, २२, १७; २०,
९, १३; १५, ४; २२, ४; २४, ७;
२१, १४, ८; २२, १४; २३, ७; १३;
वौश्रौ १०, ५७ : ७; १५, १८ :
१०; २२, ११ : २७, २८; १४ :
१२; १४; माश्रौ ६, २, ६, १३;
वैश्रौ १९, ६ : १४४; ७ : ३;
हिश्रौ १४, २, ४२; ५, २; ६, ५;
१६, २, १७; ८, ३; ९; -नानाम्
शाश्रौ ६, १०, १२; १७, ७, ७;
आपश्रौ २४, ३, ३५; वौश्रौ २२,
११ : २६; -नेपु शाश्रौ ६, ९,
४; मीसू ८, १, १४; १०, ५, ८६;
६, ६; -नैः आपश्रौ २०, २४,
११.

एकादशिन-

देव(त>)वा^३- ता आपश्रौ
१९, १६, १०.

एकादशिन-

पशु^३- श्रुति वौश्रौ २३, ११ :
२६.

एकादशिन^३- नान्

आश्रौ १२, ७, ६; ८; माश्रौ ७,
१०, ९; -नानाम् वौश्रौ २५,
३२ : १; २६, ११ : २४.

एकादशिन-धर्म^८-

-माः काश्रौ १९, ४, ६.

एकादशिन-लिङ्ग-

-ज्ञात् काश्रौ १५, १०, ६.

एकादशिनी-नशाना-

-नाः आपश्रौ १४, ५, १२; वौश्रौ

१७, ११ : १५; हिश्रौ ९, ८, ७.

एकादशिनी-वत्

काश्रौ २०, ४, १६; मीसू १०,
५, ८३.

एकादशि-द्वादशिन- शिनोः

ऋप्रा ८, ३६; -शिनौ ऋप्रा
१७, ३८.

एकादशो(श-उ)प(र>)रा^१-

-राम् आपश्रौ १४, ५, १०; हिश्रौ
९, ८, ६.

एका(क-अ)दि- दिः पा ६, ३,
७६; -दीनाम् पावा २, २, २९.

एका(क-अ)दिष्ट^९- ष्टः कौशि १५;

-ष्टस्य पावा ३, २, १०९; -ष्टात्
पावा ७, १, १४.

एका(क-अ)देश- -शः अप्रा ३,

१, ३; शौच ३, ६६; पा ८, २, ५;

पावा १, १, ५७; ४, ३; ३, १, ३;

-शस्य पावा १, १, ५१; ५७;

६, १, ८५; -शात् पावा १, ४,

२^३; ६, १, ८४; ९०; १२३^३;

-शे अप्रा १, १, ६; २, २, ६; ३,

२२; २३; शौच १, ६९; पावा

६, १, ४५; ८४^३; ८, २, ६; १९;

पापवा ४, ५.

एकादेश-शत-स्वर^१->^०रै-

(र-ए)काननुदात्त-सर्वानुदात्ता-

(त-अ)र्थ- र्थम् पावा ८,

२, ६.

एकादेश-स्वर- -रः पावा ८,

२, ६.

एकादेश-स्वर-संधि-दीर्घ-

विनाम- -साः शौच ४, ११४.

एका(क-अ)धर^३- -राणि वाधुश्रौ

४, १०० : ३५.

एका(क-अ)धिक, का^३- -क-अपं ४ :

४; -कम् अप ५२, ३, ३; ६,

१; -का ऋअ ३, ३३; अअ १,

२२; १८, ३; उतिसू २ : ४;

३; -काः ऋप्रा १७, ४४; -कान्

काश्रौ ५, १०, १; वाश्रौ १, ७, ४,

१३; हिश्रौ ५, ५, २; -कानि

काश्रौ ५, ३, ३; हिश्रौ ५, २, ३४;

काशु ६, ७; -केषु वौध १, २,

१०; -कौ ऋप्रा १६, ४१.

एका(क-अ)धिकरण- -णे पा २,

२, १.

एका(क-अ)धि-शत- -तानाम्

चाअ ३ : १.

एका(क-अ)धिशय^३- -यः निसू १,

८ : ११; -याः लाश्रौ ६, ५,

१८; निसू १, ८ : १०; २४; ९ :

३; १२; १६; २०; २१; २५;

-यानाम् लाश्रौ ६, ५, २७;

निसू १, ८ : ४१; ४३; -येषु

लाश्रौ ६, ५, १३; २३.

एकाधिशय-प्रभृति- -तिपु निसू

१, ८ : २३.

एका(क-अ)ध्यायिन्- -यी आपध

१, ६, २४; हिध १, २, ४७.

एका(क-अ)ध्या(स>)सा^३- -सेः

निसू ३, १३ : २२.

एका(क-अ)ध्वर्यु- -र्युः वैगृ २,

१८ : ६.

एका(क-अ)ध्वर्यव-प्रायश्चित्त-

-त्तानि वौश्रौ २७, ६ : ३; १९;

वैश्रौ २०, ३० : १४.

एका(क-अ)ननुदात्त^३- >^०त्त-त्व-

-त्वात् पावा ६, १, १५४.

एकाननुदात्तदि-गुस्वर-गति-

a) विप. । वस. । b) पृ ८०१ गू द्र. । c) पस. पूष. ह्रस्वत्वम् (पा ६, ३, ६३) । d) विप. ।

तद्विधायै द्विस. उप. = तत्परिमाण-विशेषः । e) = एकादेश- । f) द्वस. > पस. । g) सप्र. धराणि <>
वाचि इति पाठे. । h) विप. । उस. उप. कर्त्तरि कृत् ।

निघात- -तेषु पावा १, १, ५७.
 एका(क-अ)नुगान^a- -नम् द्राश्रौ २,
 १, १२; लाश्रौ १, ५, ९.
 ?एका(क-अ)वृच^b- -चेभ्यः अप
 ४६, १०, २२[†]; -चेषु अपं
 २ : ५.
 एका(क-अ)नेक-प्राशन^c- -ने सुध
 ६२.
 एका(क-अ)न्त^d- -न्तः पावा १,
 ३, ९; -न्तम् माश्रौ १, १, १,
 ३१; -न्ते पावा १, ३, ९.
 एकान्त-तसः () शंघ २५०;
 आपशु १६, १३.
 एकान्त-दर्शन- -नात् पावा ४,
 ३, १६१.
 एकान्त-समाहित- -तम् आपध
 १, २०, ८; २, २९, १४; हिध १,
 ६, २२.
 एकान्ता(न्त-आ)दि- -त्व- -त्वे
 पावा १, १, ७३.
 एका(क-अ)न्तर, रा^e- -रः तैप्रा २,
 २५; नाशि १, १, ३; -रम् पा
 ८, १, ५५; -र्या शाश्रौ १६,
 १३, १८; -रा माशि १, २;
 -रात् शुप्रा ६, १३; -रायाः
 वृदे २, १४०; -रे पावा ८, १,
 ५५; वेज्यो ११; -रेण लाश्रौ
 १, ११, २९.
 एकान्तर-द्वयन्तर-त्रयन्तरा (र-
 आ)शिनू- -शी विध ९५, ६;
 एकान्तर-विधि- -धौ पावा
 ८, १, ७२.
 एकान्तर-वृत्त्यु(त्ति-उ) पात्त-
 -त्तम् विध ५८, ८.
 एकान्तरा-द्वयन्तर(र >) रा^f-
 -रासु वौध १, ८, ७.

एकान्तरा-द्वयन्तरा-त्रयन्तरा-
 -रासु वाध १८, ८.
 एका(क-अ)ज्ञ- -ज्ञम् वैगृ ६५ :
 ११; वौध २, १०, ५४^३.
 एकान्-त-चत्वारिंशत्- -शत् ऋअ
 २, ८, ५.
 एकान्चत्वारिंशद्-रात्र- -त्रम्
 आश्रौ ११, ४, ८; -त्रेण आपश्रौ
 २३, ६, ९.
 एकान्-न-त्रिंशत्- -शत् वृदे ५.
 १०५; -शतम् आपश्रौ १४,
 १०, ४; हिश्रौ १०, ८, ४७;
 लाश्रौ १०, ११, ३; -शता वौश्रौ
 १४, २० : १०.
 एकान्त्रिंश- -शः अप्राय ६, ८;
 -शे वौश्रौ १७, २४ : १०; २५-
 २६ : १३.
 एकान्त्रिंशै(श-ए)कत्रिंश-
 -शयोः लाश्रौ ६, ७, ६.
 एकान्त्रिंशत्-स्तोमभाग- -गैः
 वैताश्रौ २९, ७.
 एकान्त्रिंशद्-रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११, ३, ११; हिश्रौ १८, २, ६;
 -त्रेण आपश्रौ २३, ४, ११.
 एकान्-न-पञ्चाशत्- -शतः वौश्रौ
 २, ८ : २५.
 एकान्पञ्चाशद्-रात्र- -त्रः
 शाश्रौ १३, १७, ३; -त्राणि
 आश्रौ ११, ५, १; काश्रौ २४,
 २, ३७; लाश्रौ १०, १, १०;
 -त्रे काश्रौ २४, ३, ३२.
 एकान्-न-विंशति- -तितः लाश्रौ
 १०, १, ७.
 एकान्त्रिंश- -शाम् वौश्रौ १९,
 ७ : ५६; -शे लाश्रौ ६६, ७,
 १४.

एकान्त्रिंशति-रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११, २, १८; -त्रेण आपश्रौ २३,
 २, १७; हिश्रौ १८, १, २३.
 एका(क-अ)न्य- -न्याभ्याम् पा ८,
 १, ६५.
 एका(क-अ)पचय- -येन काश्रौ ८,
 ३, २; वौध ३, ८, २३; गौध २७,
 १३.
 एका(क-अ)पवर्ग^g- -गणि हिश्रौ
 १, ६, ४०.
 एका(क-अ)पस्त्राव^e- -वम् वौश्रौ
 १५, २ : १४.
 एका(क-अ)भिधान- -ने पावा ८,
 १, ४.
 एका(क-अ)भिसमवाय- -यात् मीस्
 ९, ३, ४५.
 एका(क-आ)मन्त्रित- -त्ते शौच २,
 ४७.
 एका(क-अ)रत्नि-प्रभृति- -ति
 आपश्रौ ७, २, १२; -तीन् काश्रौ
 ६, १, २५; -तीनि भाश्रौ ७,
 २, ६; हिश्रौ ४, १, २७.
 एका(क-अ)र्क-सूत्र^f- -त्रम् कौस्
 ४०, १६.
 एका(क-अ)र्ध्व- -र्ध्वम् शाश्रु ४,
 २, ३; गौपि २, ६, ५.
 एका(क-अ)र्णव-गत- -न्तः विध
 १, १०.
 एका(क-अ)र्णव-जल- -अ(ष्ट >)
 षो- -ष्टाम् विध १, १०.
 एका(क-अ)र्थ- -र्थे पावा ४, १,
 १२.
 एका(क-अ)र्थ- -र्थम् पावा १,
 १२, ५८; ६४; मीस् २, १, २८;
 १६, ८, ३७; -र्थ्यात् पावा २, १,
 ११; पापवा ५, १३; मीस् ११,

a) विप. > वस. । b) वैप. > द्र. । c) द्रस. > कस. । d) रद्वय. इति पाठः ? यनि. शोचः ।
 e) पु ४४४ d द्र. । f) विप. (आर्क- [अर्कमणि-]) । वस. > पस. । g) पापे. पु ७८५ अर्ध्व. ।

१, ६; १२, ३, १६; -थ्ये मीस्
 ७, २, १९^a.
 एकार्थ-संयोग- -गात् मीस् ३,
 २, २६.
 एकार्थ(र्थ-आ)पत्ति- -त्ते: मीस्
 ९, २, ४९.
 एकार्थी ✓ भू > एकार्थी भाव-
 -व: पात्रा २, १, १.
 २ एका(क-अ)र्थ^b- -र्थम् या ४, १;
 -र्या: मीस् १२, ३, १०; -र्या-
 नाम् काथौ १, ८, १; पात्रा १, २,
 ६४; मीस् १२, ३, २९; -थे
 निस् ९, १० : ६; १०, ३ : ३५.
 २ एकार्थ्य- -र्थ्यान् मीस् ८,
 १, २८; ९, २, २४; ४६; १०,
 ४, १२; ७, ६५; ११, १, ५६;
 ४, ५; १२, ३, ३६.
 एकार्थ-ग्रहण- -णम् पात्रा ४,
 ३, ३.
 एकार्थ-त्व- -त्वात् पात्रा १, २,
 ६४; २, २, २९; ३, ३, १६१; ८,
 १, ४; मीस् १०, २, २१;
 ६, ७०.
 एकार्थ-विकार- -रे मीस् १०,
 ७, ६१.
 एका(क-अ)ङ्-वात्स^d- -सा:
 शंघ ३९०.
 एका(क-अ)र्व- -र्वे निस् २, २: २४.
 एका(क-अ)र्ष- > ष-द्वयार्ष-भ्यार्ष-
 पञ्चार्ष-सप्तार्ष- -र्षान् वैगृ ३,
 २३ : ११.
 एका(क-अ)र्षेय, या^b- -य: आपथौ
 २४, ६, ४; ६; १०, ९; वौश्रौष ९:
 ३; ४५ : ८; हिश्रौ २१, ३, ७^३;
 १५: वैष ४, २, ७; ८; ६, २;

-यम् आपथौ २४, १०, १८;
 हिश्रौ २१, ३, १८; -या: आपथौ
 २४, १०, ४; १६; वौश्रौष १:
 ५; हिश्रौ २१, ३, १४; १६;
 -यान् वौश्रौष ४५ : १.
 एका(क-अ)र्ष्य^c- -र्ष्या: वैष १,
 १०, १; ३; ११, १.
 एका(क-अ)लाभ- -भे मागृ १, ७,
 ७; वागृ १०, ६.
 एका(क-अ)ल्पीय (स् >) सी-
 -सी: आथ्रौ ७, ५, १२.
 एका(क-अ)वदान-त्व- -त्वात् मीस्
 १०, २, ७; १०.
 एका(क-अ)वम^d- -मानि ऋप्रा १६,
 ६.
 एका(क-अ)वर^b- -रम् वैगृ १, ३:
 १७.
 एका(क-अ)वसान, ना^b- -नम् अथ
 ५, १६^१; -ना अथ ५, ६; ६,
 ८३; १२३; १३६; ७, २२; ११६;
 ८, १; ९, १; ५: १०, १; १०; ११,
 ५; १२, २^३; १८, ३; १९, २१;
 ३८; -ना: अथ ५, २६; २७;
 ९, ३; १८, ४; १९, २२; २३; २७;
 ४५; ६९; २०, २; अर्ष ३: २४;
 -नानि अथ २, १९; -ने अथ
 १, २६; २, १७; १२, १; १८, ४;
 १९, ५१.
 एका(क-अ)वान्त्व^b- -वाञ्चि निस्
 १, ६ : १३६.
 एका(क-अ)शीत्य(ति-अ)धिक^b-
 -कम् ऋअ ४, ३.
 एका(क-अ)भ्रम- > एकाभ्रम्य-
 -म्यम् वौष २, ६, २९; गौष ३,
 ३६.

एका(क-अ)ष्टका¹- -का लाथौ १०,
 १, ७; आपमं २, २०, ३५^१;
 ष्आमिगृ ३, २, ६ : ३; ६; आपगृ
 २१, १०; वौगृ २, ११, ६०; भागृ
 २, १५: २; १७: ४^१; ११; हिगृ
 २, १४, २; ५^१; १५, ९^१; गोगृ
 ४, ४, ३२^१; द्रागृ ३, ५, ३८^१;
 अथ ३, १०^१; -षकाम् वौश्रौ
 १६, १३ : ८९; आपमं २, २०,
 ३३; आमिगृ ३, २, ६ : १;
 भागृ २, १७ : २; हिगृ २, १५,
 ९; -काया: आपथौ ६, ३०, ७;
 २०^१; भाथौ ६, १७, १९; १८,
 ८; -कायान् काथौ १३, १, २;
 आपथौ १६, १, १; २१, १५, ४^१;
 वौश्रौ १४, १३ : २२; २४; १६,
 १३ : ४; ६; साथ्रौ ५, २, १०,
 ३८; ३९; ६, १, १, १; वैश्रौ १८,
 १ : ७; वैताथ्रौ ३१, ४; वौगृ
 १, १, १२; गो १, १०; २, ८;
 -काये जैगृ २, ३: ४^१; -षंके
 आपमं २, २०, ३४; आमिगृ ३,
 २, २: ५; भागृ २, १५: ७;
 भागृ २, ८, ४; हिगृ २, १४, ४.
 एकाष्टका-दीक्षिन्- -क्षिण:
 द्राथ्रौ ८, ४, २५; लाथ्रौ ४, ८,
 २१.
 एकाष्टका-श्रुति- -ते: मीस् ६,
 ५, ३२.
 १ एका(क-अ)सन- -ने आथ्रौ ७,
 २, १५; द्राथ्रौ १२, ४, ५; लाथ्रौ
 ४, १२, ५.
 एकासन-स्य- -स्य: शांगृ ४, ८, ६.
 एकासनो(न-उ)पवेशिन्- -शी
 विष ५, २०.

a) एकार्थे इति कांसं. । b) विप. । वस. । c) वस. इति शावरभाष्यम् । d) विप. । वस. > कस. ।
 e) = वानप्रस्थ-विशेष. । वस. । f) 'नैक' इति पाठः ? 'नमे (म, ए)° इत्याकारकः शोधः । g) पाभे. पृ
 ८०२ g द. । h) विप. । वस. > वस. । i) वैष १ द. ।

२एका(क-आ)सन^a - नः विध २८,
२७.

एका(क-अ)ह^b - हः आश्रौ ५, १५,
१५; ९, १, ३; ११, १, २; शांश्रौ
१३, २४, १६; १५, १, ३९; २,
३१; १६, ८, ६; १७; काश्रौ ८, २,
३७; वौश्रौ २६, २२ : १; माश्रौ;
-हस् आश्रौ १०, ५, ९; काश्रौ
१३, ४, ९; आपश्रौ ५, ३, २३; ७,
१४; वौश्रौ १८, ३२ : २; २३,
१२ : २४; वैश्रौ १, ६ : १०;
हिश्रौ ३, २, ५८; निस्; -हस्य
शांश्रौ ११, १५, ९; वौश्रौ २६,
२२ : ३; -हाः आश्रौ ९, ८,
१५; १०, १, १०; काश्रौ २२, १,
१; २३, ५, ९; २४, ४, १७, वौश्रौ
२६, १ : २; ३० : १; वैताश्रौ
४२, १२; निस् २, १ : ३५; ३,
७ : १४; ६, २ : १; ८, ८ : १६;
-हात् शांश्रौ ११, ४, १२; ५, ३;
६, ४; ७; ७, ६; १०, ११; वैध ३,
६, ७; मीस् ८, ३, १२; -हान्
आश्रौ १०, १, १३; -हौ^c इति^d
वौश्रौ १६, २७ : २४; -हानाम्
आश्रौ ४, २, १६; ८, १३;
९, १, ३; शांश्रौ ९, १, १;
आपश्रौ २४, ४, ३; वौश्रौ २३,
१८ : २३; २९, १० : २४; निस्
६, ९ : १९; ८, ८ : १७; -हानि
अप्राय ३, ९; -हाय हिश्रौ
१६, २, ५; -हे आश्रौ ८, ४,
१७; शांश्रौ १३, १९, ३; १५,
१२, ३; आपश्रौ; -हेन आश्रौ
९, ११, ३; १०, ५, २०;
वौश्रौ १, १ : २; कप्र ३, ५, ९;
-हेभ्यः लाश्रौ ८, १, ४; -हेषु

आश्रौ ६, १०, २८; ७, ५, १३;
शांश्रौ ४, १४, २; १४, १, १;
आपश्रौ २२, १, ११; वौश्रौ २९,
४ : १५; वैताश्रौ ३५, ६; ३९,
२; कौश्र ५, १, २; निस् ६,
२ : ५; -हैः निस् ३, ७ :
१४; १०, ८ : २२; -हौ क्षुस्
२, ९ : २४; निस् ७, ८ : २४;
११ : २४; १२ : १७; -हौऽहौ
क्षुस् २, ९ : २७.

एकाहिक, का - कः आश्रौ
७, २, ८, १०, १०, ४; ६; वौश्रौ
२२, ३ : ७; २३, ११ : १८;
-कम् आश्रौ ७, १, २२; ८, २,
१६; ३, ३४; १०, ५, २२; १०, २;
४; शांश्रौ ११, १०; ६; १३, १७;
१२, ५, २४; १४, १, ३; ३, १४;
८, ७; १५, १, ३८; २, ३०; १६
७, १३; १५; १४, २; ४; १७, ८,
१३; १८, २०, ८; वौश्रौ २२, ३ :
६; २६, १० : १७; लाश्रौ ६, ९,
१६; निस् ८, ९ : ११; १० :
२३; ९, ३ : २५; ९ : ४१; मीस्
७, ४, १३; -कयोः शांश्रौ १६,
८, ५; -कस्य शांश्रौ १२, ४, ५,
१; जैश्रौ २१ : २१; लाश्रौ ८,
२, २०; -काः आश्रौ ७, ५, १४;
९, २, ५; १०, १०, ३; क्षुस् २,
१६ : ३; ७; ९; निस् ३, ६ : ३४;
-कात् आश्रौ ६, ९, ६; शांश्रौ
११, १०, ७; १५, ७-८, १; निस्
६, ७ : ४३; -कान् शांश्रौ १२,
६, १९; ८, ३; १५, ७, ९;
-कानाम् आश्रौ ९, १०, १४;
वैताश्रौ २५, १०; -कानि आश्रौ
८, ४, ३; १६; १०, १०; ६;

शांश्रौ १२, ११, १७; २७, ५;
वैताश्रौ ३३, १९; निस् ५, २ :
१८; ७ : १५; ७, ३ : १०;
८, ५ : १२; -काम्याम् शांश्रौ
१५, ८, २; -के आश्रौ ८, ५,
५; ९, ८, २१; १०, १०; शांश्रौ
१६, ७, १४; १६; १४, ३; ५;
वौश्रौ २४, ३९ : ९; द्राश्रौ ८,
३, ३५; लाश्रौ ४, ७, १३; ६,
९, ११; निस् ९, ४ : १२^d;
-केन लाश्रौ ९, ४, १८; -केषु
शांश्रौ १६, ८, १६; -कौ आश्रौ
८, ६, २०; ७, ९; ११; शांश्रौ १२,
११, १३.

एकाहिकी - की निस्
९, ३ : २२; -कीभिः शांश्रौ
१०, ७, १४; १२, ६, १८; -क्यः
लाश्रौ ८, ७, १२.

एकाहिक-शस्त्र^a - स्त्राः
शांश्रौ १४, ८४, ४.

एकाहिक-शस्य^a - स्याः
आश्रौ १०, १, ९.

एकाह^b - ह्यात् निस् ३,
६ : ३३; ३५.

एकाह-क्लृप्त - सः निस् ८,
१० : ४७; ९, १ : ३; ६ : १४.

एकाह-गम - मः पा ५, २, १९.

एकाह-तन्त्र - त्त्रात् निस् ८,
९ : ८; १३; ९, ४ : १९.

एकाह-व्यह - हम् निस् ८,
१२ : ३.

एकाह-द्वादशाह - हयोः काश्रौ
१२, १, १.

-एकाह-न्याय - येन निस् ७,
८ : २८.

एकाह-प्रभृति - ति आश्रौ ४,

a) विप; 1 वस. (b) = याग-विशेष-, एकदिन- । तद्धितार्थे द्विस. वा कस. वा । c) -हः इति >
-ह इति > यनि. प्लुतो अनुनासिक अर्पः । d) ए इति पाठः ? यनि. शोधः । e) विप. 1

२, १४.

एकाह-भूत- -तस्य शांश्रौ १२,

२, २६; ६, १९.

एकाह-मध्य- -ध्ये काश्रौसं २७:

२.

एकाह-याजिन्- -जिनः वीश्रौ

१४, ४: ३२; २६: २१.

एकाह-वत् काश्रौ १२, २, ११;

मीसु ७, ४, १३; १०, ६, ४.

एकाह वश- -शेन निस् ५, १:

११.

एकाह-संनिपात- -ते वैगृ ७,

४: ९.

एकाह-समास- -सम् निस् ९,

३: २५.

एकाह-स्तोम- -मः निस् १०,

७: ३.

एकाहा(ह-अ)तान^०- -नः शांश्रौ

१७, ९, ४; १८, २२, ३.

एकाहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ ११,

१, ९; शांश्रौ १३, १५, १; काश्रौ

२४, १, ५.

१एकाहा(ह-अ)होन^०- -नः निस्

९, ९: ३९; ४०.

२एकाहा(ह-अ)हीन- -नयोः

जैश्रौका १४०.

एकाहा(ह-अ)हीन-सत्र- -त्रेषु

वाश्रौ १, १, १, ६६.

एकाही^०/मू > एकाही-भवत्-

-वतः शांश्रौ १३, २४, १७; -वत्सु

आश्रौ ८, ४, १४; १५; ९, २, ५.

?एका(क-अ)हन्- -ह्नि निस् १०,

६: १५^०.एका(क-अ)हवनी(य >)या^०-

-याः काश्रौसं ५: २.

एकाहवनीय-पक्ष- -क्षे काश्रौसं
५: ४.

एका(क-अ)हुति- -तिम् हिश्रौ

११, ७, ५३; १२, ५, ८; ७, ७;

१५, ७, ११; -त्यै वाधूश्रौ ३,

२२: १२.

एकिन्- -किनि लाश्रौ ६, ६, १२;

१३; -किपु लाश्रौ ६, १, १८;

-कीनि लाश्रौ ८, ५, २३; २४.

एकिनी-> स्त्री-पर्याय-

-याः लाश्रौ ६, ५, ९.

एकि-प्रभृति- -तयः लाश्रौ ६,

५, १६; १८; निस् १, ८: ५; २४;

९: ७; १२; २५; -तीन् लाश्रौ

८, १२, ६.

एकी/कृ > एकी-कर्तुम् काशु ६, ७.

एकी-कृत्य वृदे २, ११३, शैशि

३३३.

एकी/भू, एकीभवति ऋप्रा २,

३४; ११, ३९.

एकी-भाव- -वः शुप्रा ४, १३२;

माशि ६, २; -वम् या १, ३;

-वे ऋप्रा ३, ११; नाशि १, ३, १.

एकी-भाविन्- -विनाम् ऋप्रा ३,

१५.

एकी-भूत- -तम् उस् ८, ९.

एकै(क-ए)क, का^०- -कः आश्रौ ३,

६, २५, काश्रौ; -कम् आश्रौ १,

५, ३××; शांश्रौ; काश्रौ १५, ८,

१८^१; -कया शांश्रौ ४, २१, ५;

१४; १६, १३, ५; काश्रौसं;

-करमात् वैश्रौ ६, ५: २; हिश्रौ

२, १; २६; द्राय ३; ४, २१;

-कस्मिन् आपश्रौ १, ९, ७××;

भाश्रौ; -कस्मै लाश्रौ ९, १, ९;

६, ४; ११, ३; कौस् ७२, १२;

अप ९, ४, ६; -कस्य आश्रौ

७, ५, २१; काश्रौ; पा,

पावा ८, २, ८६; -कस्यऽ-

कस्य लाश्रौ ८, ८, ४८; -कस्याः

शांश्रौ ८, ७, ८; आपश्रौ २०,

१५, ८; या ७, ५; -कस्याम्

वीश्रौ २०, १४: १२; १८:

२२; २९; जैश्रौ ५; लाश्रौ ६,

१, १; -कस्यै वाश्रौ १, १७, ७;

वीश्रौ १३, २८: ९; २९: ६;

माश्रौ ५, २, ३, ४; वाधूश्रौ ४,

६: २; हिपि २०: १२; १४;

-का आश्रौ २, १९, २८; शांश्रौ;

-काम् आश्रौ ४, ८, ५; शांश्रौ;

-केन आश्रौ १२, ५, १७-१९;

शांश्रौ.

एकैक-तसः (:) दिशु ३, ३१.

एकैक-वर्ण-वर्ति-त्व- -त्वात्

पावा १, ४, १०९.

एकैक-वासस^०- -ससः वीपि ३,

४, १६६.

एकैक-शस् (:) आश्रौ २, ६,

४××; आपश्रौ.

एको(क-उ)च^०- -चम् ऋत ३, १,

२.

एको(क-उ)चय- -येन काश्रौ २३,

१, ५; २, १८; २४, १, २; गीघ

२७, १४.

एको(क-उ)डा- -दानाम् विघ

१५, ४१.

एको(क-उ)ति^०- -तेः वाधूश्रौ ३,

१८: १; १४.

एको(क-उ)त्कर्ष- -र्वेण ऋप्रा १७,

४४.

a) पस. उप. = विस्तार- (तु. वैप २; ३खं.) ।

b) एकाहविशिटः अर्हानः इति कृत्वा मलो. कस. ।

c) पाठः ? एकाह-> हे इति शोधः स्यात् (तु. मूको.) ।

d) विप. । वस. ।

e) वैप. १ द्र. ।

f) एकम् इति

पाठः ? यनि. शोधः (तु. चौसं.) ।

g) एक्या इति R. ।

h) अर्थः ? इति C. ।

वैप २, ३खं. द्र. ।

एको(क-उ)त्तर^a - नम् शांश्री ४,
१०, २; अप ५५, १, ४; -रा:
शांश्री १६, १९, १; ३०, १२;
-राणि शांश्री १३, १४, ९;
वाधुश्री ४, १०० : २; निस् १,
६ : ११; ऋषा १६, ५; -फिरान्
आपश्री १६, १७, १६; वैश्री
१८, १४ : ३०; आपशु ८, ८;
हियु ३, १०.
एकोत्तर-वृद्धि- -द्धिः आमिष्ट
३, १०, ५ : ३; वौष्ट ३, १२, ९;
हिपि ८ : ७; गौपि १, ४, १०.
एको(क-उ)त्सर्ग- -र्गम् काश्री ७,
७, १२.
एको(क-उ)दक^a - कम् सु ९, ४.
एको(क-उ)दात्^a - -त्तम् शुप्रा २,
१; अपा १, १, ५.
एको(क-उ)द्वि^b - -ष्टम् कौष्ट ३,
१४, ११; शांशु ४, २, १; आमिष्ट
३, ३, १ : १२; १०, ३ : ५; ११,
२ : १; १२, १ : ७; वौपि ३, ४,
२५; ५, २; ९, ६; वैष्ट ५, ७ :
१३; १३ : १; २७; ७, ७ : ३;
८; गौपि २, ६, १; अप ४४, १,
३; ७; १२; शंघ १२०; २४०;
-ष्टात् वैष्ट ५, १४ : २; -ष्टे आमिष्ट
४, ७, १; आमिष्ट ३, ३, २ : १३;
वौष्ट ३, १२, १३; वौपि २, १०,
१; ७; अप ४४, ४, ६; विध २१,
२; -ष्टेन कप्र ३, ५, १३; -ष्टेपु
वौष्ट ३, १२, ६; वौपि २, ९, १.
एकोद्विष्ट-निमित्त-श्राद्ध- -द्धे
वैष्ट ७, ७ : ३.
एकोद्विष्ट-वत् आमिष्ट ३, ३, २ :
२९; वौपि २, ११, २; वैष्ट ४,
४ : १.

एकोद्विष्ट-श्राद्ध- -द्धम् आमिष्ट
३, ११, १ : १४; वैष्ट ५, १३ : ५;
-द्धे आमिष्ट ३, ३, २ : १३.
एकोद्विष्ट-सूतक-मृतक- -केपु
शंघ ४७.
एको(क-ऊ)न, ना- -नम् अप ७०,
२, २; वेज्यो ३०; -ना वाश्री २,
२, २, ९; ऋष्य; -नाः मैत्र २१;
-नानि काशु ६, ७; -नौ लाश्री
१०, १०, ७.
एकोन-चत्वारिंशद्-रात्र- -त्रेण
हिश्री १८, २, १६.
एकोन-त्रिंशत्- -शत् लाश्री
१०, ६, ६; निस् ५, ३ : १५;
विध २६, ८४; शुभ्र २, २१२.
एकोनत्रिंशद्-धा वौशु २ :
२२१०.
एकोन-नवति- -तिः अश्र १८,
४; अप ४ : ४१.
एकोन-पञ्चाशत्- -शत् शुभ्र ३,
६; अश्र ४, २९; नाशि १, २, ४;
-शतम् शंघ ११६ : ५५.
एकोन-विंशत्^d - -शत् वैश्री
१७, ६ : १०.
एकोन-विंशति- -तिः अप ४६,
१०, १६; ४७, ३, ६; अश्र २०,
४७; वेज्यो १२; -तिम् आज्यो
९, ५; -त्या काशु ७, ३८.
एकोनविंश- -शम् अप १२,
५, ९; ४१, ५, ७.
एकोनविंशति-लिङ्गोक्त-देव-
(ता >)त्^e - -तानि शुभ्र २,
१८८.
एकोन-शत- -तात् वाश्री ३,
४, २, ६.
एकोनशत-रात्र- -त्रात् आश्री

११, ४, ८.
एको(क-उ)न्नत- -तम् वाधुश्री ४,
९० : १०; -ते वाधुश्री ४, ९० : ९.
एको(क-उ)पक्रम-त्व- -त्वात्
आपश्री ८, २२, १७.
एको(क-उ)पचय- -यम् काश्री ७,
७, १४; -येन वौध ३, ८, २७.
एको(क-उ)पदिष्ट- -ष्टम् पावा १,
२, ६४.
एको(क-उ)पवास- -सम् वैष्ट ६,
१५ : ७; १२.
एको(क-उ)पसर्ग^a - -र्गात् या ७, ९.
एको(क-ऊ)ध्वंद्वा^a - -रम् अप
२१, ४, ५.
एको(क-उ)लुम्बक- -कम् आश्री २,
६, २; आपश्री १, ८, ७; १०, १४;
८, १७, ८; १२; १८, ८-९, १६;
वौश्री ५, १६ : ५१; ९; १२, १ :
१२; १६; ४ : ११; १३; १४,
१३ : २७; २८; माश्री १, ८, ५;
८, २१, ५-७; माश्री १, ७, ६,
१४; ७, ३; वाश्री १, २, ३, १; ७,
८, ६; ६१; ६३; ३, १, ७; १८;
वैश्री २, ६ : ५; १० : १५; ११;
२; १०, १५ : ९; हिश्री २, ७,
१७; ५६; ५, ४, ३७; ५, ७; ११;
१३, ३, १८ : ३३; -कस्य वौश्री
२१, ५ : २२; २२, १६ : ८;
-केन आमिष्ट ३, ५, ६ : १०;
वौपि १, ४ : २५.
एकोलुम्बका(क-आ)हरण- -णम्
वाश्री १, १, १, २२.
एकौ(क-ओ)दन- -नम् वौश्री १८,
८ : ११.
२एक^f - (>)एकायन- , ऐक्य- पा.)
पाग ४, १, ९९; १०५.

a) विप. । वस. । b) = श्राद्ध-विशेष- । वस. । c) °शधा इति पाठः ? यनि. शोधः (द्व.)
द्वारकानाथ-यज्जा) । d) कस. उप. = विंशति- । e) विप. । वस. > कस. । f) व्यप. । व्यु. ? ।

एक-कुणिक- कौ आपध १, १९,
७; हिघ १, ५, १०९.
एकलू^१- (> ऐकलव्य-> ऐकलव-
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.
एकविन्दु^२- > ऐकविन्दुवि- (>
धीय-) उपविन्दु- टि. द्र.
?एकव्यम् वाश्रौ ३, २, ६, ४६.
?एकशफाष्टसन्धीनाम्^३ लुघ ३४.
?एकप्वंदिष्टं तृत्यं मासपूजादधा-
ज्युदुलिकापिष्टेकाः^४ वाश्रौ ३,
२, ५, २६.
?एकानरगीर्णिन्^५- -र्णितः चाअ
४० : १३.
एकानसि^६- पाठभो २, १, २३९.
?एकापरम्^७ वाधुश्रौ ४, २९ : १७.
?एकारिणाम् अप १, ६, ५.
एग^८- (> ऐग्द^९- पा.) पाग ४, २,
८०.
✓एज् पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ, पर.
कम्पने, ऋजति शाश्रौ १६, ४,
२^३; आपमं २, ११, १६; आमिष्ट
२, १, ३ : ३; कागृ ३३, २;
वागृ २, ८, २९; भागृ १, २२ :
१२; ३, १३ : १०; हिगृ २,
३, १; कौस् ११५, २; अअ १०,
११; शुप्रा ४, ५७; निघ २, १४;
या ३, १५; ऋजतः शाश्रौ १२,
२४, २; लाश्रौ ९, १०, ५;
एजन्ति अप ७०^३, ८, ४^१;
एजाति माशि ८, १^१; ऋजतु
आश्रौ १०, ८, १२^३; १३; काश्रौ
२५, १०, ५; लाश्रौ ९, १०, ३^३;

४; आपमं २, ११, १६; पागृ १,
१६, १; आमिष्ट २, १, ३ : ३;
कागृ ३३, २; भागृ १, २२ :
१३; हिगृ २, ३, १; शुअ १,
५१६.
ए(ज>)जाय^१ आपमं २, १६,
१; भागृ २, १७ : ७.
ऋजत्- जत् वौगृ २, १, ७; भागृ
२, ७, १, कौस् १३३, ३; १३५, ९.
ऋजत्- (क >) का^२- काः
आपश्रौ १९, १२, १२; वौश्रौ
१९, ३ ३२; हिश्रौ २३, २, २३.
एज्य- पा ३, २, २८.
ऋज्यत्- यत् आपश्रौ १४, २९,
३^१.
एजि^३- (> ऐज्य- पा.) पाग ४,
१, १५१.
एज्या- आ ✓यज् द्र.
✓एट् पाधा. भ्वा. आत्म. विवाधायाम्.
एडक^४- पाठभो २, २, ११०; पाग
४, १, ४; -कः हिश्रौ १५, ३,
२५.
एडका- पा ४, १, ४; पावाग ७, ३,
४५.
एडक- -कम् आपध १, १७, २२.
हिघ १, ५, ५४.
एडकी- -क्या आपश्रौ १५,
१७, ५; १७, ११, ३; भाश्रौ ११,
१७, ७; वैश्रौ १९, ६ : २९.
हिश्रौ १२, ३, ३.
एण- पाठभो २, २, १२२.
एणी^५- णी वाधुश्रौ ४, ३० : १०;

तैप्रा १३, १२^१; -ऋणीः
आमिष्ट ३, ८, २ : ३८; वौषि
१, १५ : ४५; हिपि १५ :
१५.

ऐण्य- पा ४, ३, १५९; -यम्
पागृ २, ५, १७; कागृ ४१, १३;
भागृ १, १ : ७; वागृ ६, २८;
जैगृ १, १२ : ५०; ५१; आपध
१, ३, ३; हिघ १, १, ७५; -येन
आगृ १, १९, १०; कौगृ २, १, १;
शागृ २, १, २.

ऐण्य-रौरवा(व-आ)ज-
-जानि गौगृ २, १०, ८.

ऐण्य-हारिण- णानि

कौस् ५७, १०.

एणी-पद्- पा ५, ४, १२०.

एत्- (> ऐत-पा) पाग ५, ४, ३८^१.

१एत- ए (आ ✓इ) द्र.

२एत^२- पाठ ३, ८६; -ताः शुप्रा
२, ३५.

एनी- -नी आपश्रौ २२, १५,
८.

एत-यव^३- -यवः निघ १, १४.

एत-प्रतिषेध- -धे पावा २, १, ६९.

?एता(त-अ)न्वय^४- -य अप ३,
३, ५.

३एत^५- (> एती^६- पा.) पाग ४,
१, ४१.

४एत, ता- एतद्- द्र. १.

एतद्^७- पाठ १, १३३.

२अ-> अ-तस् (:) आश्रौ १,
३, ३०; ४, ८x५; शाश्रौ; माश्रौ

a) व्यप. । व्यु. ? । b) पाठः ? ऋषिः सन्धिनीनाम् इति शोधः (तु. गौध १७, २२; २३) । c) पाठः ?
सप्र. आपश्रौ २२, १७, १६ वौश्रौ १६, २१ : ५ हिश्रौ १६, ६, २१ प्रसृ. विशिष्टः पाभे. । d) = उज्ज्विनी- । व्यु. ? ।
e) पाठः ? एकवार-> -रम् इति संस्कृता । f) अर्थः व्यु. च ? । g) = देश-विशेष- ? । h) पाभे. वैप १,
१०५४ ० द्र. । i) पाभे. वैप १, १०३८ d द्र. । j) छान्दसो दीर्घः । k) = सिक्ता- । व्यु. वैप १ द्र. ।
l) पाभे. वैप १, १०३८ i द्र. । m) < ✓एज् इति M.W. । n) = नैप- । व्यु. ? । o) < ✓ईद् इति ।
p) वैप १ द्र. । q) द्र. पाका. । एनस्- इति भाण्डा. । r) प्य. अर्थः ? । उय. = वंश- । s) एनी- इति BFG. ? ।

१, ५, २, १२^०; पा २, ४, ३३;
पावा ७, ३, ८५.

अतः प्रभृति- -ति वैश्रौ
१३, ४, ११.

अतोदेवा(व-आ)दि^०- -दि
वैष्ट १, ५ : १; २, २ : ६.

अत्र, त्रा आश्रौ २, ६, १५; ७,
१××; शांश्रौ; या १२२, ३८^०;
पा २, ४, ३३; ५, ३, १०.

अत्र-ग्रहण- -णम् पावा ६,
४, २२.

अत्र-भक्षित- -तः वाधूश्रौ
४, ४९ : ५.

अत्र-संस्थित- -तेन वाधूश्रौ
४, ६९ : ३; ७६ : ५.

अपुत, ता- -तम् आश्रौ १, ३, २३;
४, ६, ३××; शांश्रौ; आपश्रौ ७,
१७, ५^०; ९, १०, १७^०; १०, १०,
३^१; १३, ७, १६^१; -तया आश्रौ
५, ३, २५; आपश्रौ; -तयोः
आश्रौ १, १३, ९; वाधूश्रौ;
-तस्मात् काठश्रौ १२८; वाधूश्रौ;
-तस्मिन् आश्रौ २, १६, ३; ५,
७, १××; आपश्रौ; -तस्मै
वाधूश्रौ ३, ९९ : ७; -तस्य
आश्रौ १, १, १; २, १९, ८××;
आपश्रौ; -तस्याः आश्रौ ४,
१३, १; शांश्रौ ९, ६, १२; १०,
१३, ६; लाश्रौ ७, १३, २; या ६,
२; -तस्याम् आश्रौ २, १८, ८;
वौश्रौ; -तस्यै शांश्रौ ६, ३, ६^१;
आपश्रौ ६, १८, ३^१; वौश्रौ;

-ता आश्रौ ५, ७, ५; शांश्रौ ७,
६, ६; -ताः आश्रौ २, ७, ७^१; ४,
८, ७; १४, २; शांश्रौ; आपश्रौ २,
१०, ४^०; १८, १३, २१^१; वाश्रौ
३, २, ५, ४३^१; वैताश्रौ ३४,
९^१; -तान् शांश्रौ ४, १६, ३;
वौश्रौ ६, ३४ : ८; वाधूश्रौ;
-तानि आश्रौ १, ६, १; २,
१४, १२××; आपश्रौ; -ताभिः
आपश्रौ ३, १४, २××; माश्रौ;
-ताभ्याम् आपश्रौ ३, ८, ५;
माश्रौ; -ताभ्यः वाधूश्रौ ३,
४५ : १२; आश्रौ १, २, ४;
-ताम् आश्रौ १, ६, १; ३, ८,
१^२; १०, १६^०××; आपश्रौ;
माश्रौ ३, ४, १०^१××; -तासाम्
आपश्रौ १९, १८, ८; वाधूश्रौ;
-तासु आश्रौ ५, ४, ७; वाधूश्रौ;
-ते आश्रौ १, ३, ३२; ५, २××;
आपश्रौ; वैताश्रौ २०, ४^१;
हिष्ट १, १७, ४^०; -तेन आश्रौ
१, २, २३; १०, ४××;
आपश्रौ; -तेभ्यः वाधूश्रौ ३,
९२ : ६; वौश्रौ १, २, ६६; ३,
१, ११; या ७, ९^१; २५; पा ५,
४, ८८; पावा ३, १, २२; -तेषाम्
आश्रौ २, १, ११; ३, ८, ६××;
शांश्रौ; -तेषु वाधूश्रौ ३, १०२ :
४; द्राश्रौ; -तैः आपश्रौ १, ९,
१; २५, १५××; वाधूश्रौ; -तौ
आश्रौ १, ५, ३२; वाधूश्रौ.
ए(तक>)तिका- -कासु पावा

७, ३, ४४.

एतद्- -तत् आश्रौ १, १, ७; २४××;
शांश्रौ; -तत्-तत् हिश्रौ २, ४,
२८; -तद्ः पा २, ४, ३३; ५,
३, ५; पावा ५, ३, ५^१.

एतच्-चूर्ण- -र्णात् अप ३५,
१, १७.

एतज्-ज्ञान- -नम् ऋश्र १, १, १.
एतत्-तद्- -तदोः पा ६, १,
१३०.

एतत्-तीर्थ- -र्थानि वौश्रौ १३,
१ : ५.

एतत्-त्रय-विसंयुक्त- -क्तः
विध ५५, १४.

एतत्-पक्ष- -क्षौ वौश्रौ १८,
३८ : ६; १४.

एतत्-परोक्ष- -श्राणि निसू ४,
१३ : ११.

एतत्-पवित्र^०- -त्रः वाधूश्रौ ३,
२५ : ८.

एतत्-पुरस्तात् आश्रिष्ट ३, ८, १:
१८.

एतत्-पुरोडाश^०- -शाः वैश्रौ
१७, १२ : ५.

एतत्-पृष्ठ^०- -ष्टेषु आश्रौ ५, १५,
१०.

एतत्-प्रकम्प- -म्पानाम् अप
६२, १, ९.

एतत्-प्रथम- पा ६, २, १६२.

एतत्-प्रभृति -तयः माश्रौ ५
२, १६, १५; लाश्रौ ९, १२, ५,
-ति हिश्रौ ९, ४, ४४; -तिना

a) पामे. वैप १ परि. अद्ः काठ ७, १२ टि. द्र. । b) विप. । वस. पूष. <अतो देवाः (ऋ १, २२, १६)
इति । c) पामे. वैप १, १४१४ a द्र. । d) पामे. वैप १, १०४१ b द्र. । e) पामे. वैप २, ३३ एतम् तैत्रा
१, ४, ४, १० टि. द्र. । f) पामे. वैप १, १०४१ c द्र. । g) पाठः? सा इति शोधः (तु. वैप १ परि. ?गुप्ता मै १,
१०, ३ टि.) । h) पामे. वैप १, १०४३ f द्र. । i) पामे. वैप १, १०३० c द्र. । j) पामे. पु ५९४ e द्र. ।
k) ऋताम् इति पा २, एताम् इति च्छेदः । l) पाठः? तान् इति शोधः (तु. आश्रौ [५, ५, २१], C. च) ।
m) पामे. वैप १ पुनः शौ ७, ६९, १^३ टि. द्र. । n) विप. । वस. ।

गोच ३, ४, १९; -तिसिः द्राश्रौ
 ५, ३, २३; ६, ३, २०; लाश्रौ २,
 ७, २०; ११, १४; गोच २, १,
 २३; ३, ६; ३, ८, ३; १०; -तीनि
 आश्रौ ४, १३, ७; हिश्रौ ९,
 ७, ६२; अश्र ७, १.
 एतव-प्रमा(ण>)णा^१ - णाम्
 कप्र २, २, १२.
 एतव-फल^१ - लः जैश्रौ २: १८.
 एतव-समृद्धि^१ - द्यः वौश्रौ
 २४, ३८: ६.
 एतव-अविन^१ - न्दीति वौश्रौ
 २३, ७: १९.
 एतव-अधि(क>)का^१ - कया
 द्राश्रौ ७, १, २२; लाश्रौ ३, १,
 २२.
 एतव-अनुस्य^१ - ह्यानि वौश्रौ
 २४, १०: १६.
 एतव-अन्त^१ - न्तम् वाश्रौ १,
 ३, २, २; निच् ५, ८: ७^१; ६, ७:
 ३३; ७, ४: ४३; ऋश्र २, १,
 १६४; शुअ ३, ४४; -न्ताः शुअ
 ४, ८१.
 एतव-अर्थ- र्थम् आपश्रौ १२,
 १४, ११.
 एतव-अहः-कर्मन्- र्म आश्रिच
 ३, २, ४: १०^१; ६: १५; ७:
 १४.
 एतव-अहर-वत-परिमाण^१-
 णम् हिश्रौ १०, ३, ३६.
 एतव-अहः-स्तात- तानान्
 भाच २, १८: ८.
 एतव-आदि- द्यः आपथ १,
 १३, ८; हिष १, ४, २२; -दि

आपश्रौ x x १३, १६, १२^१; वैश्रौ
 १४, ३: १०; हिश्रौ २३, २, ४;
 आश्रिच; -ङीनि आपथ १, १३,
 ९; हिष १, ४, २३; ऋश्र २, १,
 ९९; अश्र ५, ६.
 एतव-उत्थ- र्थे अप ५२, १६,
 ६.
 एतव-देवता-> वत्य, ल्या-
 -त्याः निच् ७, ४: ७; -त्येषु
 निच् ७, ४: ८.
 एतव-ध्यान-युक्त- -क्तः काण्ड
 ४२: १.
 एतव-भक्ति^१ - क्तिः निच् ७,
 ४: ३०; ६: ३; १०: २१;
 -क्तिनः निच् ७, ४: २.
 एतव-रूप^१ - पत्य वौश्रौ १८,
 २४: ११; -पेभ्यः निच् ४,
 २: ३६.
 एतव-वचन^१ - नः आपश्रौ ८,
 २२, १५.
 एतव-वर्जम् आपश्रौ १२, ७,
 १३.
 एतव-विद्^१ - विद्म् आश्रौ
 ८; १४, १; -विदे आपच ९,
 ११.
 एतव-विद्वत्- -द्वंसः आश्रिच
 ३, २, ६: १५; ७: १५.
 एतव-विपरीत- -तम् आपश्रौ
 १७, २३, ३; -ताः नाशि १, ३,
 ११.
 एतव-वृक्ष-> क्षी(य>)-
 या^१ - न्याम् भाच १, १: २.
 एतव-वत^१ - तः हिच १, ८, ८.
 एतव-नामधेय^१ - याः वौश्रौ

२४, २७: २.
 एतव-महा-वृक्षा(क्ष-अ)प्र-
 -आणि वाच १, ३, २.
 एतव-मास- -मासि वौश्रौ २४,
 ५: १२.
 एतव-मुख^१ - खम् वौश्रौ २२,
 २०: २५.
 एतव-मूल^१ - लम् वैष २, ५, ९;
 -लाः वैच २, ७: १४.
 एतहि^१ वौश्रौ १४, १: १८;
 वाधुश्रौ.
 एतव-लक्षणो(ण-उ)पेत- -तम्
 अप ६२, २, ३, ३, ३.
 ए(त>)ता-दक्ष^१ - क्षम् शंष
 १२६: ५२^१; -दक्षसः वौश्रौ
 १०, ५३: ६^१; माश्रौ ६, २, ५,
 २३.
 ए(त>)ता-दक्ष^१ - दक्ष् वाधुश्रौ
 २, ४६: ४; -दक्ष् नाश्रौ ६, २,
 ५, २३; -दक्षम् शैशि ५६.
 ए(त>)ता-वत्- पा ५, २,
 ३९; -वत् आश्रौ ३, ५, ३; ८,
 १३, ३०; शाश्रौ; -वतः आपश्रौ
 १९, १३, १२; वौश्रौ २, ७: २४;
 १९, ५: २८; २१, ६: २१;
 हिश्रौ २३, २, ४५; -वता वौश्रौ
 ३, २८: २१; द्राश्रौ ३, १, ३; २,
 ६; लाश्रौ; -वतान् वा १,
 २०; -वति वौश्रौ ११, ११: १८;
 १८, ४३: ८ x x; -वदिः वाधुश्रौ
 ४, १०३^१: १४; ११९: ६; निच्-
 ५, १२: ३; -वन्तः वौश्रौ १०,
 ४८: ११; वाधुश्रौ; वा १, २०;
 -वन्तम् वैश्रौ ९, ७: २; -वन्ति:

- a) विप.। वस.। b) 'न्त' इति पाठः? यनि. च त' इति च शोधः (तु. अमीयं स्थलम्)।
 c) 'व' मरुद् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. अमीयं स्थलम्)। d) कप्र.>सत्.>पस.। e) पाशे. पु ५९२.
 j द. f) विप.। उस. उप. <✓विद् [ज्ञाने]। g) विप.। विकारार्थे छ> ईयः प्र. उसं.। h) वैष १,
 १०४९ ङ द.। i) वैष १ द.। j) = मरुद्-विशेष-। सप्र. अणु २१९, ३२ एतवद् इति पाशे.।

आपथ्रौ १४, १९, ४; वीथ्रौ २,
७: २४; २१, ६: २१; वाध्रौ;
-वान् आपथ्रौ ८, १४, २२; ११,
३, ८; काथ्रौसं.

एतावती- नती: आपथ्रौ
१९, १३, १२; हिथ्रौ २३, २,
४५.

एतावत्-त्व- -त्वम् आथ्रौ
८, १३, ३४; अप्रा १, १, ४;
-त्वे शाथ्रौ १३, १, ३.

एतावद्-अह- -हे द्राथ्रौ १,
३, ४; लाथ्रौ १, ३, १.

एप, पा- -प: आथ्रौ १, २, ४××;
शाथ्रौ; आपथ्रौ १८, १७, ११;
हिथ्रौ १३, ६, १०?; -फा
आथ्रौ ३, ७, ६××; शाथ्रौ; या
१, १४.

एपका-, एपिका- पा ७, ३,
४७.

फणो(पाड) आथ्रौ ४, १५, २;
शाथ्रौ ६, ६, २.

एतहि एतद्- द्र.

एतच्च, एतच्च- √इ द्र.

एतश^b- पाड ३, १४९; -फणः ऋअ
२, १०, १३६; निघ १, १४;
-शे ऋप्रा १, ८८; -शेन
वीथ्रौ ३, १९: १०; -शेभि:
वीथ्रौ ६, १२: १५?;

एतशसु- पाडना ३, १४९.

एतादृश्- प्रभृ. एतद्- द्र.

एतावादिना माथ्रौ ३, ५, ३.

एति- ए (आ√इ) द्र.

एतिक- पाडभौ २, २, १८.

एतिका- एतद्- द्र.

एते^c दंवि २, ११.

एतोसु(ः) √इ द्र.

एत्य ए (आ√इ) द्र.

ए-त्व- प्रभृ. ए- द्र.

*एदिधिपुस्^d- > पुः-पति^d-

-तिम् शुप्रा ३, ३८^०.

एद्यंतानात् वाथ्रौ ३, २, ६, ३०.

√एध् पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ,

एधते अप ६८, २, ११; ७०,

८, ४; विघ ५१, ६८; फणधति^f

शाथ्रौ १२, १७, १; वैताथ्रौ ३४,

९; फणधन्ते आपमं १, ६, ८;

काय ३१, ४; वीथ्र १, ५, १०;

फणधतु वैताथ्रौ ३६, ३१९;

आपमं १, ९, ७^b; वीथ्र १, ५,

१३¹; फणधन्ताम् पाय १, ६, २;

आमिथ्र १, ५, ४: ३; काय २५,

३२; भाय १, १६: १३; माय.

एधिन्धते कौथ्र ३, १२, १७;

फणधिपीमहि^f आथ्रौ ३, ६,

२६; आपथ्रौ ७, २७, १६; ८,

८, १८; १८, १०; १३, २२, ६;

वीथ्रौ ४, ११: ५××; माथ्रौ.

एधतु^d- पाड १, ७७; -तु: शाथ्रौ

४, ५, ११.

फणधमान, ना- -न: आपमं २, ११,

३२; -ना आपमं २, १३, १;

आमिथ्र २, १, ४: १६; भाय १,

२५: ९; हिथ्र २, ४, २; -ना:

कौस् ८९, १३; -नाम् या ६,

२२९.

एधमान-द्विप्^d- -द्विद् या ६,

२२^१.

ए(आ√इ)ध्, न्ध्, फण...इन्धते

आथ्रौ ६, ४, १०; ७, ८, १; शाथ्रौ

१२, ११, २०; १८, ७, ६; आपथ्रौ;

फण(इन्धते) शाथ्रौ ३, १२, ७;

ऋअ २, ८, ४५; शुअ १,

४७४; साअ १, १३३.

फण...इधीमहि आथ्रौ ७, ८,

१; शाथ्रौ १२, १०, ११;

माथ्रौ; वाथ्रौ १, २, ३, ३५?;

फण(इधीमहि) काय ४०:

१; निस् ६, ७: ५७; लाथ्रौ

१०, ९, ९; साअ १, ४१९.

एध-एधस्- प्रभृ. √इध्, न्ध् द्र.

फणघासम् वीथ्र १, १५: ८२^६.

एधिकीयताम् अप्राय ६, ८.

एधोदक- प्रभृ. √इध्, न्ध् द्र.

*एनद्^d-> एन, ना- -न: शुप्रा २, १३;

शौच ३, ८०; पा २, ४, ३४; -नम्

आथ्रौ १, १२, ३६; ३, ३, १¹;

शाथ्रौ; आपथ्रौ ३, १४, २^{१०};

माथ्रौ ३, १३, १^{१०}; माथ्रौ

२, ५, ५, २१^{१०}; शांथ्र ३, २, ९^{१०};

हिथ्र २, ९, ८^{१०}; शंघ: ३३२^{१०};

अअ १५, ७^{१०}; १०^{१०}; ११^{१०};

निघ ४, २^{१०}; या १, १०^{१०}; १५;

१६; २०^{१०}; २, १०; १३; १४, ५,

a) एणु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. आपथ्रौ १८, १७, ११)। b) वैप १ निर्दिष्टानामत्रसंनिवेशः

द्र.। c) पाठः? एताः (=श्रुतीः) इति शोधः (तु. मूको.)। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. वैप १, १०५४ 1 द्र.।

f) सपा. शौ २०, १२७, १० एधते इति पाभे.। g) पाभे. वैप १, १०५४ ० द्र.। h) सपा. हिथ्र १, २२, १४

आजतु इति पाभे.। i) पाभे. वैप १, १०५५ b द्र.। j) इवा^० इति पाठः? यनि. शोधः। k) पाभे. वैप

१, १०५५ a द्र.। l) पाभे. वैप १, १०५७ d द्र.। m) =तैत्रा ३, ३, ११, ३। संहितायां एत्वं द्र.।

n) पाभे. वैप १ परि. एतम्. मा १८, ६० टि. द्र.। o) पाभे. वैप १, ७९३ b द्र.। p) एचम् इति Böht [ZDMG

५२, ८७] शोधुकः। q) एनाम् इति पाठः? यनि. शोधः। r) पाठः? ऐ(आ-ए)नम् इति शोधः (तु. सपा. शौ.)।

२८:१०,८:११,२:२३; ऋषा ५,
६०^५; -नया या ६,१२; -नयो:
आश्रौ ५,६, ५; वाधुश्री; -ना
शाश्रौ ६, ४, ७^५; काश्रौ; आपमं
१,९,४^५; काय २५,९^५; निघ
३,२९; या ३, २१^५; -ना: शाश्रौ
४,१६,१०; वौश्रौ; ऋषा ५,
६०; -नान् आश्रौ २,५,२^५;
१२××; शाश्रौ १०, १५, ८^५;
वौश्रौ; लाश्रौ १०, १७, १३^५;
तवा २, ११; ८, ८; ९, ७; ८;
१२, ४३; -नानि वौश्रौ १, ३;
८; ८:१७; लाश्रौ; -नान्
आश्रौ १,११,७; २,४,१३××;
आपश्रौ; वौश्रौ ६,२७:७^५;
निघ ४,२; या १, १३; १४××;
-ने शाश्रौ ११, १४, १; वौश्रौ
१,४:१८; गोय; -नेन वाधुश्रौ
३,३१:३; या २,५; ३,२१××;
-कनो: वौश्रौ १६, २६:९; -नौ
वाधुश्रौ ३,६९:२४; लाश्रौ ९,
४, ११; ४,३९; पाय.

एनद्- नत्, द् आश्रौ ५, ४, ८;
७, ९; आपश्रौ २, ६, ७××;
वौश्रौ; या १,९; ८,१; ११,४७;
पावा २,४,३४.

एनस^१- पाठ ४, १९८; पाग ५, ४,
३८^५; -न: आश्रौ १२, २, ३; ६;
५, १४, २४; ९, ३, १३; शाश्रौ;
-कनत: आश्रौ २, ७, ११××;
शाश्रौ; -नस: 5-नस: आपश्रौ १३,

१७, ९^५; -नसा आपश्रौ १३,
७, १७^५; वौश्रौ ८, ६:१४^५;
वैश्रौ १६, ८:९^५; हिश्रौ ९,
२, १८^५; तु ११, ४; कप्र २,
२, ११; -नसि विघ २८,
४९; -कनसे^५ आमिग १,५,४:
२२; ६, ३:५; २, ७, ४:७;
वौग ४,११,२; वैग ४, १:१४;
६, ९:४; -नत्तु वाध २२,
१५; वौघ ३, १०, १७; गौघ
१२, १९; -नासि वौश्रौ २३,
२४:१२; जैश्रौ २०:४.

एनस- पा ५, ४, ३८; -सम्
वाध २६, २; ३.

एनस-विन्- -विन: वाध १, १८;
-विभि: विघ ५४, ३१; -वी
गौघ १२, ४२; वृदे ५, १५.

एनो-निर्गोदन- -नम् शुभ्र ४, १९६.

रएनी- रएत- द्र.

र^१एनी^१- न्य: अप ४८, ७६; निघ
१, १३.

एमन्- √इ द्र.

एमुय^१- -पम् या ५, ४^५.

एयिवत्स्- शुयो- ए(आ√इ) द्र.

ए(आ√इ)र, एरिरे निघ ४, १; या
४, २३^५.

एयन्ताम् कौत् १३३, २^५;
क^१एयत्स्^१ शाश्रौ १०, १६, ६^१;
आपमं १, ११, ६^५; आमिग^५ १,
५, ३: ११; ३, ९, ३: ८; काय
२५, २२^५; वौग १, ७, ४^५; वौपि

२, ७, ६^५; भाय १, १५: १३^५;
हिग १, २०, २^५; जैग १, २१:
१२^५; क^१एय आश्रौ १, ८, ७:
शाश्रौ १, १३, ४; १८, ११, २:
आपश्रौ ४, ११, १; वौश्रौ १,
१९: २७; भाश्रौ ३, ६, १; ४,
१६, २; हिश्रौ ६, ३, ३; पाय १,
४, १६^५; वा...एयत् शाश्रौ
८, २५, १^५; वा...एयन् नाय
२, ११, १२^५.

एयत्- -यत् अप १, ३८, ५.

एर- पाठमो २, ३, २९.

र^१एर(क>)का^१- पाठमो २, २,
१११; (>एयत्- पा.) पाग
४, १, १५१.

र^१एर(क>)का^१- -का: वौग १, २, २:
-काम् वौश्रौ १७, ३९: १; २६:
आमिग १, ३, १: १: २: ११; २,
४, ६: २७; वौग १, ३, २०:
वौपि ३, ३, १२; भाय २, १८:
२; १४; जैग १, १९: २; ४; २०:
१२; १६; -कायान् वौश्रौ १७,
४०: ३; आपग १२, ३; जैग
१, ७: ४; २०: १७.

एरको(का-उ)पवहन- -णे वौश्रौ २,
८: ४; २३; ९: १३; ३, १०:
३; ५.

एरण्ड- पाठमो २, २, ११७.

एरा- पाठना २, २७.

एयत्समानः^१ अप्रा ३, ४, १^५.

एवाह- पाठमो २, १, १०१.

a) एत्तं द्र. । b) पामे. वैप १, १०५५ j द्र. । c) एतान् इति C. । d) एत्त इति पाठः? यनि.
शोधः । c) एना इति पाठः? यनि. शोधः । f) वैप १ द्र. । g) पामे. पृ ८०८ Q द्र. । h) पामे. पृ ५९७
g द्र. । i) =नदी-। व्यु. ? । <√इ [नदी] इति दे. । j) पामे. वैप १, १०६२ m द्र. । k) एयत्स् इति
पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. तद्वा ३, ४, १; C. च) । l) पामे. वैप २, ३४. एयत् माय ११, ७, २, ६ टि. द्र. ।
m) पामे. वैप १, १०६२ n द्र. । n) ए^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पामे. वैप १, १०६२ m) । o) पामे.
वैप १, ६२७ C द्र., यत्र नाय. यनि. शोधः । p) व्यप. । व्यु. ? । क- इति पाठा. । q) =तृण-विशेष- ।
r) =।ऊर्णानिभित्त-। आस्तन-विशेष- । व्यु. ? ।

१एला^a - > एला-सिद्धार्थक- कैः
अप १, ४५, ८.

२एला- (> √एलाय पा.) पाग ३,
१, २७.

एलाक^b - (> ऐलाक्य- पा.) पाग
४, १, १०५.

एलूक- पाठ्य ४, ४१.

ए(आ√ई)ळ्, ऋभा (ईळीत) शांश्रौ
११, ११, ७; ऋअ २, ५,
१७.

३एव, > वा^c आश्रौ १, २, १; ५;
२६××; शांश्रौ; कौग १, ८,
१८^d; माग १, १०, १५^e;
हिग १, १५, ८^f; या १, १; १०,
१०^f; १३, १^g; १४; १८^f;
एवो^h ऋप्रा २, ६६; ७, ३;
एवो(व-उ) आपश्रौ ६, २२, १^f.
१एव- वे पावा ६, १, ९३.

एव-कार-करण- पावा ३, ४, ६७;
११०.

२एव- √इ द्र.

एवम् आश्रौ १, ६, ४; २, ७, १८××;
शांश्रौ; वैश्रौ १७, ३: १०^h;
हिश्रौ १६, २, १७ⁱ; या १, ३, ५;
११; १४; ४, १६; ७, ३; ७;
१४, २९; ३०; ३३; पाग १,
४, ५७.

एवं-युक्त, क्ता- -क्तः माश्रौ ४, ७,
८; -क्ताः वौग ३, ३, २२;
-क्तानि निस् ४, ९: १४.

एवं-रूप, पा^l- -पस् आपश्रौ १२,
२, ३; -पाः गोग ३, ३, १७^f;
-पाणि आपश्रौ २१, २, ३; भाश्रौ

१०, १४, ६; वाधूश्रौ ३, ७६;
११; हिश्रौ १६, १, २३; हिग
१, १७, ५.

एवं-लि(इ>)ज्ञा^l- ज्ञासु आश्रौ
८, ६, २४.

एवं-वर्णगुण^l- णानाम् अप ६४,
८, ४.

एवं-वाद^l- -दः निस् ७, १३: १२.

एवं-विद्^l- -वित् वाधूश्रौ ३, ९:
२२; १३: १८××; आग; -विदः

वाधूश्रौ ४, २८: १०; १०७:
३; -विदम् वाधूश्रौ ३, १९:
१४; २७: १०××; -विदा
वाधूश्रौ ४, २८^x: ५; १०१:
९; आग ४, ४, ७^f; -विदे
वौश्रौ २, १०: ४१.

एवं-विद्वस्- -द्वान् वाधूश्रौ ४,
८६^z: १२.

एवं-विध, धा^l- -धः निस् ७, ७:
५; ९: ११; ८, ७: २; १०, ४: ७;

अप ६९, ८, ६; आपध १, ३,
२६^z; हिध १, १, १०१^z; -धम्
काठश्रौ १२७; निस् २, १३: ७;
अप ७१, ७, १; -धस्य काश्रौसं
२५: ३; -^zधा शांश्रौ १४, २,
१५; ३, १९; ६, ३; ७, ५; ८,
६; ९, ३; १३, २; -धाः शांश्रौ
१४, ५, ७; द्राश्रौ ५, २, १५;
लाश्रौ २, ६, ८; -धान् काश्रौसं
३०: ३; विध २१, १; -धानाम्
वौध १, ११, १९; -धाभिः कप्र
१, ८, १९; -धाय शांश्रौ १, २,
७; -धे शांश्रौ १, २, ८; -धेन

विध २०, १५.

एवं-विहित, ता- -तः आपश्रौ १,
१०, १७; -तम् भाश्रौ ४, २२,
१२; ६, ४, ५; १४, १८; हिश्रौ ३,
२, ५९; ६०; -ता आपश्रौ २१,
१४, ४; २२, ९; -तान् आपश्रौ
२१, १४, ८^z; ११; १५, १२;
२४; १६, ९; २२, १४; हिश्रौ
१६, ८, ३; -ताभिः आपग १४,
१५.

एवं-वृत्त, ता^l- -त्तः आपध २, ११,
४; गौध ३, ९; -त्ताम् कप्र ३,
१, ६; -त्तौ आपध २, ४, १५;
हिध २, १, ६८.

एवं-व्रत^l- -तः आपध १, ३, २६^z;
वौध २, १०, ७१; हिध १, १,
१०१^z; -ताः वौग १, २, ६३.

एवं-शब्द- -ब्देन काश्रौसं ३६: १.

एवं-स्तोम^l- -मः शांश्रौ १४, २८,
११.

एवं-स्थित^l- -तान् आश्रौ ७, ३, ४.

१एवं-कर्मन्- > र्मा(र्म-आ)

वृत्ति- -त्तौ आश्रौ १, ३, २९.

२एवं-कर्मन्^l- -र्मा या ५, २.

एवं-कारम् पा ३, ४, २७.

एवं-कृत-स्वस्वयन^l- -नः अप ४,
१, १९.

एवं-ग(त>)ता- -^zताः ऋप्रा
१७, ३.

एवं-जाति->^zतीय^l- -यम् हिश्रौ
२१, १, १६; गोग २, १, १९;
जैग १, २०: १२; -याः निस्
१, ११: ३४; -यानि निस् ३,

a) = सुगन्धिद्रव्य-विशेष-। व्यु. ?। b) व्यप. व्यु. ?। c) वैप १ द्र.। d) पाठः? (तु. सपा.

शांश्रौ १, १३, ४ एह (= आ [इहि], इह) इति पाठे.। e) पाठे. वैप १, ७९९ k द्र.। f) Böht LZDMG

५२, ८४ एनम् इति शोधकः। g) संहितायां सानुनासिकता द्र.। h) अय^o इति पाठः? यनि. शोधः।

i) सपा. एवं हि विहि^o <> एवंविहि^o इति पाठे.। j) विप.। वस.। k) 'ह' इति मूको. C. च।

l) स्वार्थे छ>इयः प्र. (पा ५, ४, ९)।

१० : २१; -येन द्राश्रौ ५, २,
५; लाश्रौ २, ६, २; निसू १,
११ : ११.
एवं-देव (ता >) त^३ - ताः शाश्रौ
६, १०, १३.
एवं-नामन्- मानम् काश्रौ १५,
७, १०.
१ एवं-न्याय- -येन आपश्रौ २४,
१०, ३; १५; हिश्रौ २२, २, १६.
२ एवं-न्याय^३ - याः आश्रौ ११, १,
१३.
एवम्-अनुपूर्व^३ - र्वाः हिश्रौ ८, ७,
४६.
एवम्-अन्त^३ - न्तम् अप ४४, ४,
११; -न्तानि आश्रु ३, ४, १;
कौश्रु २, ५, १; शाश्रु ४, ९, ३.
एवम्-अर्थ^३ - र्थः निसू ७, ११ :
१६; -र्थान् भाश्रु २, १ : १९.
एवमर्थ-त्व- -त्वात् मीसू १२,
२, ८.
एवमर्थीय- -ये या ३, १.
एवम्-आचार^३ - रः गौध ९, ७१.
एवम्-आदि^३ - दयः शैशि २३७;
-दि काश्रौसं २९ : २१; ऋअप
४४, ४, ११; ६८, ३, १३; -दीन्
वौश्रौ २९, ४ : ४; -दीनि अप्रा
२, ३, १४-१६; ४३, २, ४०.
एवमादि-क्- -क्म् अप ६९,
५, ४.
एवमादि-धर्म- -र्मम् आश्रि
२, ७, ११ : १७.
एवमादि-निमित्त- -त्तेषु कप्र
३, ५, ४.
एवमादि-प्रत्यायनान्त- -न्तान्

वैश्रौ १६, १५ : २.
एवं-प्रकार^३ - र्म् वृदे १, ५९;
-राणि लुधप ८३ : ३.
एवं-प्रकृति^३ - तयः वृदे १, ४०.
एवं-प्रभृति^३ - तयः वाश्रु १४,
२७.
एवं-प्रा(य >)या^३ - याः आश्रौ
९, १, ६.
एवं-प्रोक्त-विधान- -नेन अप ३१,
१०, १.
एवं-बल^३ - लस्य सु २९, ६.
एवं-भूत- -तः आश्रौ १, १, २५;
११, १२; ८, १४, १०; -तस्य
माश्रौ १, ५, ४, १८; -तानाम्
वौध १, ५, ४३.
एवं-माना(न-आ)दि- -दि वैश्रौ
१६, १ : ७.
एवं-मुख^३ - खस्य आपध २, १९,
२; हिध २, ५, ७४.
एवया-मरुत्-, -द्-आख्यात-, एव-
यावन्- √इ द्र.
?एवाजननेवाजनकम् अप ४०, १,
१४.
?एवावद^३ - दस्य ऋप्रा ९, २४.
√एप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
एप-, एपका- एतद्- द्र.
१?एपण- -णे लुध ४२.
२?एपण- पाग ४, १, ४१^०; -णेन या
४, ७^१; -णेषु या ६, २२.
एपणी^० - पा ४, १, ४१.
एपणा-, एपणिन्- √इप् (वधा) द्र.
एपिक- (> ऐपिक्य- पा.) पाग ५,
१, १२८.
एपिवत्-, एतद्- द्र.

ए(आ-इ)ए- आ √यज् द्र.
एप्यै, एप्यय- √इच्छ (इच्छायाम्)
द्र.
एप्यि- -द्ययः याशि २, ८.
एप्यी- √इच्छ (इच्छायाम्) द्र.
एप्यत्- √इ द्र.
ए(आ √ई)ह् (> ए(आ-ईह >) हा^३-
-हाः अप्रा २, ३, ९१.
एहस्य^३ - हः निष २, १३.
एहि^० - (> एही- पा.) पाग ४, १,
७३.
एहिकटा- प्रभृ. ए(आ √इ) द्र.

ऐ

ऐ^१ पाग १, ४, ५७; अप ४७, १, १८;
शुप्रा ८, ५; ऐ३ शुप्रा ८, ५.
ऐ-कार- -रः अप ४७, ३, ४; उस्
७, ७; तैप्रा ९, १४; १६, २३;
अप्रा ३, १, १६; २, २०; शौच
३, ५०; भाशि २७; -रम् ऋप्रा
१४, ४१; ४२; तैप्रा १०, ६.
ऐकार(र-अ)न्त- -न्तः भाशि
९५; -न्तम् या १, १७; शुप्रा
७, ७; -न्तानि अप्रा २, १, १४.
ऐकारौ(र-अौ)कार- -रयोः शुप्रा
१, ७३; तैप्रा २, २६; शौच १,
४१; पाशि २०; -रौ शुप्रा ४,
५८; १४५.
ऐ-त्व- -त्वम् भाशि ८१; -त्वे
ऋप्रा १४, ४४.
ऐ-त्व-ना^१ - -गाः भाशि २८.
ऐक- (> ऐकीय-) उपविन्दु- > औप-
विन्दवि- टि. द्र.
ऐककर्म्य-, ऐककाल्य- प्रभृ. ऐक- द्र.

a) विप.। वस.। b) वैप १ द्र.। c) द्र्यः व्यु. च ?। d) विप.। व्यु. ? < √इप्(गतौ) इति स्क., SEX [४२], < √इप् (इच्छायाम्) इति दु.। e) = नाराची-, वैयशलाका- इति पागम.। f) वैप १, १०७१ g द्र.। g) = कोय-। व्यु. ? < √हन् इति दे.। h) < ए(आ √ई)ह् इति न्यासः। i) = नर्ण-विशेष-। j) उस. उप. < √गम्।

एकलव-, °लव्य- एकल-द्र.
 एकविंश- १एक-द्र.
 एकविन्दवि-, °वी- उपविन्दु->
 औपविन्दवि- टि. द्र.
 एकश्रुत्य- प्रभृ. १एक-द्र.
 एकायन- २एक-द्र.
 १,२एकाथर्य-, °काश्रम्य- प्रभृ.
 १एक्य- १एक-द्र.
 २एक्य- २एक-द्र.
 ऐक्षव-, १,२ऐक्षुक-, ऐक्षुभारिक-
 इक्षु-द्र.
 ऐश्वाक-, °कु- इक्ष्वाकु-द्र.
 ऐग्य- एग-द्र.
 ऐङ्गद- इङ्गदी-द्र.
 ऐच्छिक- √इच्छ् (इच्छायाम्) द्र.
 ऐज्य- एजि-द्र.
 ऐटत- इटत-द्र.
 १ऐड- √इड् द्र.
 २ऐड- २इडा-द्र.
 ऐडक-°की- एडक-द्र.
 ऐडन्व- इड्-द्र.
 ऐड-वाक्य- २इडा-द्र.
 ऐड-वाङ्-निघन-, ऐडादध- √इड्
 द्र.
 ऐणेय- एणी-द्र.
 ऐतर-, ऐतरेय-, ऐतरेय-क-, ऐत-
 रेयिन्- २इतर-द्र.
 ऐतश^a-शः वृदे ८, १०१; -शस्य
 वृदे १, ५५.
 ऐतश-प्रलाप- -पः शांश्रौ १२, १७,
 ३?b; -पम् वैताश्रौ ३२,
 २०.
 ऐतशप्रलाप-वत् वैताश्रौ ३२,
 २८.
 ऐतिकायन- इतिक-द्र.

ऐतिशायन- इतिश-द्र.
 ऐतिह- इदम् > इतिह-द्र.
 ऐतिहासिक- इतिहास-द्र.
 ऐतिह्य- इदम्->इतिह-द्र.
 ऐतोस्(:) ए(आ/इ) द्र.
 ऐत्वरायण- इत्वरा-द्र.
 ऐदंयुगीन- इदम्-द्र.
 ऐद्ध-, ऐध्मवाह- √इध् द्र.
 ऐनपिण्ड्य- इनपिण्डी-द्र.
 ऐनस- एनस्-द्र.
 ऐन्दव-, °वी- इन्दु-द्र.
 ऐन्द्र-, ऐन्द्रजाल्य- प्रभृ., ऐन्द्रा°,
 १ऐन्द्रायुध- इन्द्र-द्र.
 २ऐन्द्रायुध- २इन्द्रायुध-द्र.
 ऐन्द्रार्भव- प्रभृ., ऐन्द्रि- प्रभृ.,
 ऐन्द्रोत- इन्द्र-द्र.
 ?ऐन्द्रोपानस्यक° माश्रौ १, ३, ५,
 १४क°.
 ऐन्द्रय-, ऐन्द्रयादि- इन्द्र-द्र.
 ऐन्धायन- २इन्ध-द्र.
 ऐन्य- इन-द्र.
 ऐमकान्तक- इम-द्र.
 १ऐर- √इर द्र.
 २ऐर- २इरा-द्र.
 ऐरक्य- १एरका-द्रं.
 ?ऐरमः^d आपमं १, २, ६.
 ऐरमद-, १, २ऐरावत- √इर द्र.
 ऐल- √इल् द्र.
 †ऐलव^e- -वः अप ४८, ११६; दंवि
 २, ६.
 †ऐलव-कार- -रेभ्यः अत्र ११,
 २.
 ऐल-वृद- √इल् द्र.
 ऐलाक्य- एलाक-द्र.
 ऐलूप- इलूप-द्र.

ऐशानी-, ऐशी-, °श्वरि-, °श्वरी-,
 °श्वर्य- √ईश् द्र.
 ऐमस(>:) पा ४, २, १०५; ५, ३,
 २२; पावा ५, ३, २२.
 ऐमस-तन-, °त्य- पा ४, २, १०५.
 ?ऐममितिकम् अप १९, ३, ८.
 ऐपिकि^f- -क्यः वौश्रौप्र ४३ : २;
 -किः वौश्रौप्र ४४ : ४.
 ऐपिक्य- एपिक-द्र.
 ऐपिर- इपिर-द्र.
 ऐपीक- √ईप् द्र.
 ऐपीकपावि^g- -वधः निसू ६, ११ :
 २२; -वोनाम् निसू ६, ११ :
 २४?h.
 ऐपीरथि- इपीरथ-द्र.
 ऐपुकारि- इपु-द्र.
 ऐपृक- इपृका-द्र.
 ऐष्टिक-, °की-, °ष्टीक- इष्टि-द्र.
 ऐष्टेपिⁱ- -पयः वौश्रौप्र ३ : ५.
 ऐहलौकिक-, ऐहिक- इदम्->
 इह द्र.

ओ

ओ¹ ऋप्रा २, ३३; श्रुप्रा ८, ५^२;
 शैशि ४४; ५१; ५७; माशि ७,
 ३; पाशि १९; पाग १, ४,
 ५७.
 ओ-कार- -रः आश्रौ ७, ११, ११;
 शांश्रौ १, १, १९; जैश्रौका ११६;
 अप ४७, २, २; ३, ४; या २, ५;
 ऋप्रा १, ६८; श्रुप्रा १, ९४; ४,
 ९३; तैप्रा; -रम् आश्रौ १, ४,
 १३; ७, ११, २; ऋप्रा २, १७; ४,
 २५; श्रुप्रा ३, ४६; ४, ४३; ५५;
 तैप्रा ९, ७; १०, ५; १८, १;

a) = मुनि-विशेष-। व्यु. ? (वैप २, ३खं द्र.) । b) एत्° इति पाठः ? यन्ति. शोधः । c) ?इन्द्रो-
 पानस्य टि. द्र. । d) अर्थः व्यु. च ? । सपां. पाग १, ४, १५ वैकर्णः इति पामे. । e) वैप १, १०७२ d द्र. ।
 f) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ? । g) = व्रात्य-विशेष-। व्यु. ? । h) -वि° इति पाठः ? यन्ति. शोधः । i) = वर्ण-विशेष-।

-रात् लाश्रौ ७, २, ११; शुप्रा ३, ६१; पावा ७, २, १; ८, ३, २०; -रे तैप्रा २, १३; अप्रा ३, १, ३.
 ओकार-प्रतिषेध- -घः पावा ७, २, १.
 ओकार-सकार-भकारा(र-आ) दि- -द्वौ पावा ५, २, ७२.
 ओकारा(र-अ)न्त^० -न्तः शौच १, ८०; -न्तात् अप्रा ३, १, २२.
 ओकारी√भू, ओकारीभवति माश्रौ ५, १, १, १२.
 ओकारौ(र-ओ)कार- -रयोः शौच ३, ५१; -रौ हिश्रौ २१, २, ३३.
 ओकारौकार-पर- -रे तैप्रा १०, ७.
 ओत्- > ओत्-न्व- > ^०त्वा(त्त्व-अ)भाव- -वः पावा ७, २, १.
 ओद्-भाव- -वे पावा ७, १, १.
 ओत्व-वचन^० - -नम् पावा ५, २, १०.
 ओ-भाव- -वः शैशि १९६; पाशि १४; माशि १०, ४; ५; याशि २, ४६; -वम् याशि २, ४८.
 ओभाव-प्रसंधान^० - -नम् पाशि १५; शैशि १९८; याशि २, ४७; नाशि २, ५, ८.
 ओ-भूत- -ते ऋत ३, १, १०.
 ओ-वर्ण- -र्णे शैशि ५०.
 ओक^० - पाउट ३, ४१; पा ७, २, ६४.
 ओकस्^० - पाउभो २, १, ३४५;
 -फकः आश्रौ ९, ११, २०;

शाश्रौ १५, ८, २१; आम्रिण ३, ६, ३; २५; ७, ४; १६; वौषि १, १२; १; चाअभू २९;
 अअ ५, २२; या ३, ३४; ९, ५९;
 ऋप्रा १४, ५१; -फकसः आपश्रौ ३, १४, २; वौश्रौ २, ९; ४;
 माश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; -फकांसि आपश्रौ ५, १९, ३; हिश्रौ ३, ५, ४; जैश्रौ ८ : १७९; द्राश्रौ २, ४, ११; लाश्रौ १, ८, ९.
 ओको-निघन^० - -नम् लाश्रौ ७, १, १.
 ओ(आ√उ)क्ष्, फभा(उक्षतम्) आश्रौ २, १४, ११; ३, ८, १; ५, १०; २८; ७, २, २; ५, ९; शाश्रौ.
 √ओख् पाधा. भ्वा. पर. शोपणा-लमर्थयोः.
 ओघ^० - -घः या २, २.
 ओघ-व(त>)ती^० - -तीम् वौश्रौ १९, १० : ४९.
 ओङ्कार- ओम्- द्र.
 फओचिपे^० ऋप्रा २, ७१.
 ओज^० - -जः आज्यो ६, १३; -जयोः ऋप्रा २, १८; -जाः ऋप्रा १, १७.
 १ओजस्- √उज् द्र.
 २ओजस्^० - (>ओजसायन-) पा. पाग ४, १, ११०.
 √ओजाय √उज् द्र.
 १ओजाः^१ कौय २, ३, १०फ.
 ओजिष्ट- ^०जीयस्-, ओजोदा-
 √उज् द्र.
 ओढ- आ√वह् द्र.

ओढ^१- पाउभो २, ३, ३०.
 √ओण् पाधा. भ्वा. पर. अपनयने.
 फओणी^० - -ण्योः^१ आश्रौ ४, ६, ३; ८, १, १८; १२, २३; १०, १०, ६;
 शाश्रौ ५, ९, ७; अप्रा ३, ४, १;
 शौच ३, ६१; -फण्यौ अप ४८, ६०; निघ ३, ३०.
 ओत,ता- आ√वे द्र.
 ओतु^१- पाउ १, ६९.
 ओत्वो(तु ओ)ष्ट- -ष्टयोः पावा ६, १, ९३.
 फओद्(त>)ती^० - -ती निघ १, ८;
 -तीनाम् शाश्रौ १८, १, १३;
 लाश्रौ ७, ३, ८; निस् १, २ : १०;
 उनिस् ७ : २२.
 ओदन^० - पाउ २, ७६; पाग २, ४, ३१; ५, १, ४; पागवा ५, १, १०१; -फोन वाश्रौ १, १, ५, ४; कौस् ६५, १२; ६८, २६३;
 -नः आश्रौ २, ३, २; आपश्रौ;
 अप ४८, १००फ^०; निघ १, १०फ^०; -नम् आश्रौ ३, १०, २७; १४, १; शाश्रौ; या ६, ३४फ^०; ७, १३; पावा १, १, ६७; -नयोः आपश्रौ ८, ११, २;
 वैश्रौ ९, २ : ९; काग ७०, ६;
 -नस्य वौश्रौ २, १४:५; वाधुश्रौ;
 -नाः ३ शौच १, १०५फ^०; -नात् आपश्रौ २२, २५, २२; हिश्रौ २३, ४, १६; -नान् आपश्रौ ८, १०, ७; १९, १३, १२; वौश्रौ;
 -नानाम् माश्रौ ८, १२, १०; १३;
 वाश्रौ १, ७, ३, १२; भाग २, ९ : ६; -नानि आपग २०, ५;

a) विप. । वस. । b) पस. । पाम [पक्षे] उ^० इति । c) वैप १ द्र. । d) =साम-विशेष- । वस. ।
 e) व्यु. ? । <√वह् इति स्क्र. दु. प्रभृ. । वैप३ अपि द्र. । f) = इष्टका-विशेष- । g) = विपम- (तिथि-, वर्ण-) ।
 व्यु. ? । h) व्यप. । व्यु. ? । i) पाठः ? सप्र. शांग २, ६, १ ऊर्जाः इति पाभे. । j) ओद्- इति पाउनाट २, २८ ।
 k) पाभे. वैप १, ९८३ b द्र. । l) = निडाल- । व्यु. ? <√ष्व् [रक्षणे] इति प्रायोवाद्ः । m) = मेघ- ।

-ने माश्रौ १, ५, १, २४; कौस्
६६, ६; १०९, ७; -नेन आपश्रौ
४, ११, ३१×४; भाश्रौ; -नेभ्यः
वैश्रौ ९, २ : १२; हिश्रौ ५, ३,
२६; आपगृ २०, ४; हिगृ २, ८,
९; -नौ काश्रौ १९, १, २१.
ओदनिक- पावा ५, १, १०१;
-कम् वौपि २, ४, १४.
ओदन-चरु- -रुम् गोगृ ४, १, ६;
२, १४.
ओदन-दर्व- -वैण कौगृ ४, २, ३^०.
ओदन-पिण्ड- -ण्डम् आपगृ १९-
२०, ७; भागृ २, १० : ३;
हिगृ २, ९, ५.
ओदन-वत् मीस् ६, ४, २७.
ओदन-वत्- -वताम् वौश्रौ १८,
१८ : १७^१.
ओदन-शेष- -पम् आपश्रौ २२,
२६, ६; हिश्रौ २३, ४, २३; भागृ
२, १० : १०; -पान् आपश्रौ
८, ११, ८.
ओदन-सक्तवा (कु-आ)दि- -दि कप्र
३, ५, ३.
ओदन-सव^०- -वः आपश्रौ २२, २७,
१; वौश्रौ १८, १० : २३; हिश्रौ
२३, ४, ३४; -वानाम् कौस्
६७, ५; -वेन आपश्रौ २२, २५,
१९; वौश्रौ १८, ८ : १; हिश्रौ
२३, ४, १३.
ओदना(न-अ)वशिष्ट- -ष्टम् कौस्
८९, २.
ओदनिक- पा ४, ४, ६७.
✓ओदनीय, ओदनीयन्ति काश्रौ
१२, २, १२.

ओदनीय-, न्य पा ५, १, ४.
ओ(आ-उ)द्-क्वच्^०- -चम् माश्रौ
२, १, २, १६.
ओव- पाउना १, १३०.
ओवन्- ✓उद् द्र.
ओ(आ-उ)प✓नम् > ओ(आ-उ)प-
नत- -तम् आपश्रौ ७, १, १७^०.
ओपश^०- -शः अप्रा ३, ४, ५^१.
ओपशन्- -शिनम् अप्रा ३, ४, १^१.
ओप्य, प्यमान- आ ✓वप् द्र.
✓ओम् ✓अव् द्र.
†ओम्^१ आश्रौ १, २, ३; ११, १५;
१२, १२; १३, ७; ८, १३, ८^६; ९,
३, ११^६; १२^६; शाश्रौ ४, ६, १७;
७, १७; २१, २३; २४; काश्रौ २,
२, ८; ९, १३, ३०; आपश्रौ ३,
१९, १; २०, ८; ४, ४, ४; ६, ७, १;
वौश्रौ; पा ८, २, ८७; पाउ १,
१४२; पाग १, १, ३७; ४, ५७;
†ओश्म् शाश्रौ ४, ६, ९; काश्रौ
४, १४, ९; १५, ६, ३; वैताश्रौ
१, ३.
ओं-कार- -रः काश्रौ १९, ७, ५;
लाश्रौ ९, ७, ५; निस्; या
१३, ९; शुप्रा १, १६; याशि
२, २१; -रम् आश्रौ १, २, १०;
हिश्रौ २१, १, १४; दाश्रौ १५,
३, ६; लाश्रौ ५, ११, ६; ६, १०,
१६; ७, १०, २०; शाश्रौ; -ररथ
लाश्रौ ९, ७, ४; शेष १०७; -रे
वाश्रौ १, १, ५४; -रेण काश्रौ
२, २, ९; हिश्रौ २, ८, १२; लाश्रौ
६, १०, १३; ७, ७, ३४; ८, ३;
निस् ४, १ : ३५; ४१.

ओंकार-चतु(र्थ>)र्था- -र्थभिः
आगृ ८, १०; १५, ४.
ओंकार-पूर्व- -र्वम् वौगृ १, १,
२४.
ओंकार-पूर्व(र्वक>)र्विका- -काः
विध ५५, १५.
ओंकार-वपट्कार- -रौ अप ४३,
२, १५.
ओंकारा(र-अ)थकार- -रौ शुप्रा
१, १७.
ओंकारा(र-आ)दि- -दि वैध
२, १०, ३; -दिः लाश्रौ ६,
११, ८.
ओंकारा(र-अन्त>)न्ता- -न्ता
वौश्रौ २५, ९ : ६; -न्ताः गोगृ
२, १०, ३६.
ओंकारी ✓कृ, ओंकारीकुर्यात्
लाश्रौ ६, १०, १६.
ओं✓कृ, ओंकुर्यात् कप्र २, ८, १६.
ओम्-अर्था(र्थ-अ)वासि- -सिः
वैगृ २, १८ : ५.
ओम्-आङ्- -आङोः पा ६, १, ९५.
ओम्-पूर्व(र्व>)र्वा- -र्वाः आगृ ३,
२, ३; ५, १२; कौगृ २, ४, ६^१;
४, ७^१; आश्रिगृ २, ६, ४ : ७;
जैगृ २, ८ : ९; वाध २३, २३;
गौध १, ५७.
ओम्-, १-२ओमन्-, न्या-
✓अव् द्र.
ओयि^१ हिपि १४ : १२^३.
✓ओलण्^१ पाधा. चुरा. पर.
उत्क्षेपणे.
ओवा^१- -वया लाश्रौ ७, २, १२;
-वायाः लाश्रौ ७, २, ९.

a) सप्र. शांष्ट ४, १५, १९ अक्षतसक्तुतां दर्वेण इति पाभे. | b) = यज्ञ-विशेष-। वैप १ द्र. |
c) अस. समासान्तप् टच् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०७)। सपा. तै १, २, २, ३ प्रसृ. आ उद्-क्वच् इति द्वि-पदः पाभे. |
d) पाभे. पृ ५७५ ङ् द्र. | e) वैप १ द्र. | f) वैप १, ४४६ f द्र. | g) = प्रतिगर-। h) = विलापध्व-
न्यनुकरण-। व्यु. ? | i) = ✓लण् । j) = स्तोम-विशेष-। व्यु. ? |

ओवीली^a - ली कप्र १, ७, २; ५; अप
२२, ७, १; -लीम् कप्र १, ८, ३.
ऋओप^b - यम् आश्रौ ४, ७, ४^c; वौश्रौ
९, ९ : २२; भाश्रौ ११, ९, १५;
अप ४८, १०६; निघ २, १२;
ओपत्- ✓उपू द.
ओपधि, धी^d - पाळभोर, १, २०५; पाग
६, २, ४२; -ऋधयः आश्रौ १,
२, १; ११, ७××; शांश्रौ; निघ ५,
३९; ऽया ४, २५; ६, ३; ३६; ९,
८; २७^f; २८; १४, ८; -ऋधयः
काश्रौ १६, ३, १३; आपश्रौ;
वाश्रौ १, ३, २, १८^g; हिश्रौ ६, ३,
१७^h; -धिः वौश्रौ २१, १२:४;
वृदे ७, १२२; साअर, ११७४ⁱ;
या ११, २; ५; -ऋधम्यः मागृ
२, १२, ५^j; कौस् ७३, ५;
-धिमू भाश्रौ ७, १, १२; हिश्रौ;
हिय २, ६, ७^k; अय २, २७^l;
या ११, ४^m; -ऋधीⁿ पागृ १, ३,
१; वैगृ दरे : ५; वैगृ २, १५; ३;
-ऋधीः आश्रौ ३, ६, २४××;
शांश्रौ; माश्रौ १, २, ४, १८^o;
आमिगृ २, २, ५ : १०^p; ऋअ
२, १०, ९७^q; शुअ २, १२७^r;
या २, २२ऽ; ६, ८; ९, २८^s;
शुप्रा २, ३८^t; -०धीः वौश्रौ
६, २:२६; -धीन् पागृ ३, ४,
८^u; शंघ ११६ : १४; -ऋधी-

नाम् आश्रौ १, ३, २३; ४, १२,
२; शांश्रौ ४, १०, १^v; पागृ १,
५, १०^w; विघ ५०, ५०ऽ^m;
हिघ १, ५, ५७ऽⁿ; या ८, २२;
-धीभिः आपश्रौ १, १४, २××;
वौश्रौ; ऋमाश्रौ १, २, ३, १३^o;
२, १, २, ७^p; मागृ १, ११, ६^q;
-ऋधीभ्यः शांश्रौ ९, २८, ५;
आपश्रौ; लाश्रौ ७, १२, ५^r; या
६, १; -धीम्याम् वौषि ३, ११,
१; -धीम् आपश्रौ १५, १९, ९;
भाश्रौ; आपमं १, १५, १^s;
-धीषु आपश्रौ ८, १, ४××;
वौश्रौ; ऋमाश्रौ १, ८, ३, ३^t;
-ऋधे काश्रौ ५, २, १५; ६, १,
१२; ६, ७; आपश्रौ; आपमं २, ७,
२५^u; आमिगृ १, ३, ४:१^v; भागृ
२, २१ : ३^w; हिय १, १०, ६^x;
११, ३^y; या १, १५; -धेः शौच
३, ५; पा ५, ४, ३७; ६, ३, १३२;
-धी पावा ४, १, ४२; -धयः
विघ ५१, ६३; -ध्या माश्रौ १,
१, ३, १२^z; २, ४, ७; वाश्रौ १,
२, २, ९; वागृ १, १२; कौस्
३०, ११; -ऋध्याः वौश्रौ १,
११ : ७; १२; १७; भाश्रौ २,
१, ६; वौगृ ४, १, ३; शुप्रा २, १९.
ओपध- पा ५, ४, ३७; पागृ २,
४, ३१; -धः हिश्रौ ११, ८, ९^{aa};

-धम् काश्रौ ४, १४, ४; वौश्रौ
२४, १ : १८; २९, ३ : २; शंघ
३९४; वौध २, १०, ६०; या ५,
२८; मीसू ८, १, ३७; -धस्य
वौश्रौ २०, ६ : ७; १२; १३ :
२१; २४; २८; २४, ९ : ६;
वौगृ २, ३, ५; -धाः वाधूश्रौ ३,
१०० : ५; -धात् वौश्रौ २४,
३ : २; वैश्रौ १७, १६ : १;
-धानि विघ २०, ४५; मीसू ८,
४, २५; -धेन वौश्रौ २०, ४ :
२; ४; -धैः अप ७, १, १.
ओपध-कल्प- ल्पः हिश्रौ
२२, ४, २.
ओपध-कारित- न्तानि
भाश्रौ ७, १७, १.
ओपध-धर्म- माः काश्रौ
२३, २, १६; २६, ४, ९.
ओपध-पात्र- त्राणि वाश्रौ
१, ७, २, १४; हिश्रौ ४, ४,
४५.
ओपध-प्रदान- नेन विघ
९२, १७.
ओपध-मन्त्र-संयोग- नेन
वौध २, ९, १२.
ओपध-वत् वौध २, १०,
५०.
ओपध-संयुक्त- क्तैः अप
७०^{bb}, ९, ३.

- a) = अमिमन्थन-साधन-। व्यु. ? । b) वैप १, १०७४ h द्र. । c) तु. आन. । d) वैप १ द्र. ।
e) पामे. वैप २, ३ खं. ओपधे तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र. । f) सपा. धिमू <> धीः इति पामे. । g) औ^o
इति पाठः ? यनि. शोधः । h) सपा. धी <> ? धे (तु. आपमं [भू. XXIV]) इति पामे. । i) पामे. वैप १,
१०७५ c द्र. । j) पामे. वैप १, १०७५ d द्र. । k) धीः इति लाधा. । l) पामे. वैप १, १०७७ & द्र. ।
m) औ^o इति Jolly ? । n) औ^o इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध. भाष्यम्) । लोपधीनां... कीलालम्.
इत्यस्य स्थाने सप्र. आपध १, १७, २५ कीलालोपधीनाम् इति पामे. । o) पामे. वैप १, १०७७ h द्र. ।
p) पामे. वैप १, १०७७ f द्र. । q) गीतिविहारतया निर्देशः । r) सपा. ऋ १०, १४५, १; शौ ३,
१८, १ धिमू इति पामे. । s) पामे. वैप १, १०७८ a द्र. । t) पामे. वैप १ पवित्रे मा १,
१२ टि. द्र. ।

ओपधा(ध-आ)वसथा(थ-अ)
 शना(न-आ)च्छादन- नैः शंध
 २४७.
 ओपधा(ध-आ)हुति- त्या
 या १०, २१.
 ?ओपधि-कृच्छ्रजीवन^a- ने अप
 ४८, २८.
 ओपधि-खनन- नम् कौसू ३३,
 १६.
 ओपधि-देवता->°(त्य)>त्या-
 त्ये शुभ्र २, ५१.
 ओपधि-पर्यन्त^b- न्तानि या ७, ४.
 ओपधि-पाणि^b- णयः माश्रौ ४,
 ३, ३९; ४, ३७; ५, १२; ८, ३;
 -णिः माश्रौ ४, १, ३१; ६, ६;
 ७, ९.
 ओपधि-पात्र- त्राणि हिश्रौ ८, १,
 ४८.
 ?ओपधि-भक्त्य(क्ति-अ) भीज्या-
 ज्या निस् २, ५ : १७०.
 ओपधि-भार- रम् शंध ४०८.
 ओपधि-भोजिन्^d- जी वैध १, ७,
 ३.
 ओपधि-मूल- लानि अशां १२, ३.
 ओपधि-वत् कौसू ३६, १२; ३२.
 ओपधि-वत्- वत् हिश्रौ १०, १,
 २२.
 ओपधि-वनस्पति- तयः वौग १,
 ५, ५; द्राग १, ५, ३३; वौध ४,
 ३, ५; या ८, ५; -तिभ्यः आग
 १, २, ४; कौग ३, १०, ११; वौग
 २, ८, १७; भाग ३, १३ : ६; ८;
 वाग १७, ८; गोग १, ४, ९५;

कप्र २, ४, १-५; कौसू ७४, ६;
 या ८, ५५; -तिभ्याम् आमिगृ १,
 ७, २; १०^f; २, ४, ३:७, -तिभ्यः
 पा ८, ४, ६; -तिपु मागृ २, १०,
 ८; या ६, ३६; -तीन् आपश्रौ
 २०, २५, १४; वैताश्रौ ७, १४;
 वौपि ३, ४, ८; गौपि १, ३, १०;
 आपध १, ३०, १९; हिध १, २,
 ६३^g; ८, २२; -तीनाम् शाश्रौ
 १६, १५, ११; काश्रौ २१, १, ६;
 हिश्रौ १४, ६, २५; गोश्र १, ९,
 १५; कौसू ३२, २६; आपध १,
 ७, ४^g; २, २, ४; हिध २, १, २६;
 गौध ३, २०.
 ओपधिवनस्पति-मूल-फल^f-
 लैः आपध १, ११, ५; हिध १,
 ३, ६२.
 ओपधिवनस्पति-वत्- वत् आग
 २, ७, ३.
 ओपधि-वनस्पति-गन्धर्वा(व-अ)
 पसर- रसः वैग १, २० : ४.
 ओपधि-विभाग- गः आमिगृ २,
 ६, ५ : २३; वौगृ २, ९, २२.
 ओपधि-संयोग- गात् मौसू ६, ५,
 २२.
 ओपधि-सूक्त- क्तेन आश्रौ ६, ९,
 १; आपश्रौ १४, २१, १^g; हिश्रौ
 १५, ५, २५^g.
 ओपधि-स्तम्ब- स्त्वम् हिपि १२ :
 १; -म्बान् हिपि १६ : ४.
 ओपधि-स्तुति- तिः ऋअ २, १०,
 ९७; -तिम् शुअ २, १२७.
 ओपधि-होम- मम् वाधूश्रौ ३,

७८ : २; -मान् आपश्रौ २०,
 ११, १४.
 ओपधीः-पर- रः तैप्रा ५, १७.
 ओपधी-म(त>)ती- तीः अश्र
 १९, १८^f.
 ओपधी-वनस्पति- तयः अप ४१,
 ६, ४.
 ओपधी-वीरुध्- रुधः अप ७०^g;
 ६, १.
 ओपधी(धि-ई)श- शाय वैगृ ४,
 ८ : ८^f.
 ओपधी-सूक्त- क्तेन वैश्रौ २१, ७ :
 १^g.
 ओपधी-स्तव- वः वृदे ७, १५४.
 ओपध्य(धि-अ)नुवाक- कान् वौगृ
 ३, १, २८^h.
 ओपन्ती- ✓उषू द्र.
 ?ओपु- पुम् शाश्रौ ५, १०, १०^f.
 ओष्ठⁱ- पाठ २, ४; पाग ५, २, २४,
 -ष्ठः आश्रौ १२, ९, ९; -ष्ठम्
 वौश्रौ १७, २९:८; आपध ११,
 १३; -ष्ठयोः आश्रौ १, ७, १;
 -ष्ठभ्याम् ऋप्रा १४, ४; तैप्रा
 २, ३९; १०, १४^f; -ष्ठे वौश्र
 १८ : ७; शुप्रा १, ७०; -ष्ठौ
 वाध ३, ३९; आपध १, १६, ३;
 १०; विध ९६, ९२; हिध १, ५,
 ३; ९; तैप्रा २, १४; २१; शैशि
 ५३; ५८; १२०; पाशि १३;
 माशि ६, ७.
 औष्ठ^k- ष्टम् काश्रौ ९, २, ७.
 औष्ठी^l- ष्ठीभ्याम् काश्रौ १६
 ३६ : १७.

a) पाठः?। ओखति (>ओखदि [तु. मूको.] <✓ओख् [तु. पंजा. औखा]) इति कृ इति च द्वि-पदः शोधः ।
 b) विप. । वस. । c) = आग्रयण- [ओषधीनां पक्तेः पाकस्याभीज्या-] । पाठः? °धि-पक्त्य° इति शोधः (तु. मूको.) ।
 d) विप. (श्रीदुम्बर- [सपत्नीकवानप्रस्थाऽन्यतम-]) । उस. । e) सप्र. ?°तीन् <>°तीनाम् इति पाभे. । f) वस.
 >द्वस. । g) सपा. °धिसू° <>°धीसू° इति पाभे. । h) पाभे. पृ ७५५ । द्र. । i) पाठः? सपा. शौ ७, ७७, १
 औपुम् इति पाभे. । j) वैप. १ द्र. । k) इवार्ये अण् प्र. उत्सं. (पा ५, ३, १०७) । l) = [ओष्ठाकृति-] पात्री- ।

ओष्ठ-चलु^१- लुः माशि १२, ५.
 ओष्ठ-ज- -जः शैशि ४२; -जौ पाशि १७.
 ओष्ठ-जाह- पा ५, २, २४.
 ओष्ठ-द्वय-विहीन- -नः विष ५, २१.
 ओष्ठ-वत् वैश्री ११, ७ : ५.
 ओष्ठ-हनु- - नु तैप्रा २, १२.
 ओष्ठा(ष्ट-अ)न्त- -न्ताभ्याम् तैप्रा २, ४३.
 ऋओष्ठा(ष्ट-अ)पिघा(न>)ना^१-
 -ना गोय ३, ४, २८; द्राय ३, १, २६.
 ओष्ठो(ष्ट-उ)परि-द्वन्त^०- -न्ताः
 काथ २७९ : ३
 ओष्ठो(ष्ट-उ)पसंहार- -रः तैप्रा २, २४.
 ओष्ठ्य^१- -ष्ठ्यः अप ४७, २, २; ऋप्रा १, ४७; -ष्ठ्यम् दंवि १, २; ४?; २, ८?; -ष्ठ्यस्य याशि २, २०; -ष्ठ्याः शुप्रा ८, ४१; याशि २, १; ९४; आशि १, १८; दंवि १, १२; -ष्ठ्यान् दंवि १, ३?; -ष्ठ्यानाम् शौच १, २५; -ष्ठ्ये ऋत २, १, ९; -ष्ठ्यौ शैशि ४३.
 ओष्ठ्य-निभ- -भौ ऋप्रा १४, ३८.
 ओष्ठ्य-पूर्व- -र्वस्य पा ७, १, १०२; -र्वाः ऋप्रा २, ३३.
 ओष्ठ्य-योनि- -न्योः ऋप्रा २, ३१.
 ओष्ठ्य-स्थान- -ने शौश्री १, २, ५.
 ओष्ठ्य-स्वरा(र-अ)न्त- -न्ते वैशि ७२.

ऋओह- -हम् या ५, ११^१; -हेन उम् ३, ५^१; -हैः माशि ४५^६.
 ऋओह-ब्रह्मन्^१- -ह्याणः या १३, १३^६.
 ओ(आ-ऊ)हिवस्- आ√वह् द्र.
 ओहिपे^१ ऋप्रा २, ७१^१.
 ओ(आ-उ)ह्य, -ह्यमान- आ√वह् द्र.

औ

औ^१ अप ४७, १, १८; शुप्रा ८, ५^२; ऋत ३, २, ३; शैशि ४४; ५१; ५७; पाशि १९; पाग १, ४, ५७.
 औ-कार- -रः शौश्री १, २, १३; अप ४७, ३, ४; तैप्रा ९, १५; उम् ७, ५; शौच ३, ५१; -रन् ऋप्रा २, १९; शुप्रा ७, ५; तैप्रा १०, ७; -रात् काश्री ७, २, ४.
 औकारा(र-अ)न्त- -न्तम् शुप्रा ७, ८.
 औकथ- , -थ्य- उकथ- द्र.
 औक्त्रायणि^१- -णिः शौश्री ४१ : १४.
 औकथ- १उकथ- द्र.
 औकथिक, का- , -कथिक्य- √वच् द्र.
 औकथ्य- , -थ्यायन- १उकथ- द्र.
 १औक्ष- √उच् द्र.
 २औक्ष- २उक्त्- द्र.
 औक्षगोरन्त्र- उक्षगोरन्त्र- द्र.
 औख- , -खी- उखा- द्र.
 औखीय- , -ख्य- २उख- द्र.
 औख्येयक- उखा- द्र.
 औप्रचिति^१- -तयः शौश्री ६ : ४.
 औत्रेय- २उत्र- द्र.
 औचथ- , १औचथ्य- १उचथ- द्र.

२औचथ्य- उचथ्य द्र.
 औचित्य- √उच् द्र.
 औचैःश्रवत्- उच- द्र.
 औजसायन- २ओजस्- द्र.
 औजसिक- √उच् द्र.
 औजयनक- उजयनी- द्र.
 औजिहानि- उजिहान- द्र.
 औड->औडी- पृ ५४७ h टि. द्र.
 औडपिक- उडप- द्र.
 औडलि^१- -लयः शौश्री ४७ : ८.
 औडवि- , -वीय- उडव- द्र.
 औडायन- (>०न-भक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.
 औडुप- , -पिक- उडुप- द्र.
 औडुलोमि- उडुलोनम्- द्र.
 औतकि^१- 'की- (>औतकीय- पा.) पाग ५, ३, ११६.
 औतथ्य- उतथ्य- द्र.
 औत्क्षिप- उत्क्षिपा- द्र.
 औत्क्षेप- उत्क्षेप- द्र.
 औत्तम- , -मिक- उत्तम- द्र.
 औत्तरकीय- , -रतनिक- , -रपक्षिक- , -रपथिक- , -रपदीय- , -रवे- दिक्- , -राघर्व- , -राह- १उत्तर- द्र.
 औत्पत्तिक- उत√पत् द्र.
 औत्पत्तिक- उत्पात- द्र.
 औत्पत्तिक- २उत्पत्त- द्र.
 औत्पात- , -तिक- उत्पात- द्र.
 औत्पाद्- उत्पाद्- द्र.
 औत्पुट- , -टिक- उत्पुट- द्र.
 औत्पुत्तिक- उत्पुत्त- द्र.
 औत्पृत्तिक- २उत्पृत्त- द्र.
 १औत्स- १उत्स- द्र.
 २औत्स- √उद्, न् द्र.

a) विप. (पाठक-). अर्थः व्यु. च ?। b) वैप १ द्र.। c) विप.। पत्त. > वत्त.। d) विप.। भवाथै यत् प्र. (पा ४, ३, ५५)। e) औ^० इति पाठः ? यनि. शोधः। f) वैप १, १०७९ j द्र.। g) वैप १, १०७९ k द्र.। h) = वर्ण-विच्छेप-। i) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। j) अर्थः पृ ४८० m द्र.। तु. पाका., औदकि- इति भाष्या. पात्ति.।

औत्सङ्गिक- उत्/सञ्ज् द्र.
 औत्सायन- १उत्स- द्र.
 औदक- प्रभृ. √उद्, न्द् द्र.
 औदकि- (> औदकीय- पा.)
 श्रौतकि- टि. द्र.
 औदकी- √उद्, न्द् द्र.
 औदङ्कि- °ङ्गीय- १उदङ्क- द्र.
 औदज्ञायन- °नि- उदज्ञ- द्र.
 औदञ्चनक- २उदञ्चन- द्र.
 औदञ्चवि- उदञ्चु- द्र.
 औदञ्चि- ?उदञ्च- द्र.
 औदनिक- श्रौदन- द्र.
 औदन्य- ३उदन्य- द्र.
 औदन्यायनि- २उदन्य- द्र.
 औदन्यि- ३उदन्य- द्र.
 औदपान- √उद् द्र.
 औदभृज्जि- °दमज्जि- उदभृL, म]ज्ज-
 द्र.
 औदमेघ- °दमेघि-, °दमेघीय-,
 उदमेघ- द्र.
 औदमेयि- °थीय- उदमेय- द्र.
 औदर- उदर- द्र.
 औदरि^a- रि: वौश्रौप्र ३१ : २.
 औदरिक- उदर- द्र.
 औदल- प्रभृ. २उदल- द्र.
 औदचापि-, °वापीय- उदचाप- द्र.
 औदवाह-, °वाहि-, °वाहीय-
 २उदवाह- द्र.
 औदव्रजि- उदव्रज- द्र.
 औदशुद्धि- उदशुद्ध- द्र.
 औदश्वित-, °श्वित्क- √उद् द्र.
 औदासीन्य उदा(द्/आ)स् द्र.
 औदुम्बर- प्रभृ. १उदुम्बर- द्र.
 औदुम्बरक-, °रायण-, °रि-
 २उदुम्बर- द्र.
 औद्गात्र- उद्/गै द्र.
 औद्गाहमानि-, °नी-, °नीय-

२उद्गाहमान- द्र.
 औद्गमण-, °हण- उद्/गम्, गृह्
 द्र.
 औद्गण्डक- २उद्गण्ड- द्र.
 औद्गालकि- उद्गालक- द्र.
 औद्देशिक- उद्/दिश् द्र.
 औद्भव- उद्/धू द्र.
 औद्भारि- उद्भार- द्र.
 औद्भिद- प्रभृ. उद्/भिद् द्र.
 औद्घाव- उद्/घु द्र.
 औद्दप- उद्दप- द्र.
 औद्दाहिक- उद्/वह् द्र.
 औद्द्रेप- उद्/वेप् द्र.
 औद्नेत्र- उन्/नी द्र.
 औपकर्णिक- उपकर्ण- द्र.
 औपकार्य- उप/कृ द्र.
 औपकूल्य- उपकूल- द्र.
 औपगात्र- उप/गै द्र.
 औपचाकवि- उपचाकु- द्र.
 औपचारिक- उप/चर् द्र.
 औपच्छद्- उपच्छद्- द्र.
 औपजङ्घनि^b- नि: वौध २, २, ३३.
 औपजानुक- उपजानु- द्र.
 औपजिह्वि^a- ह्वय: वौश्रौप्र ३ : ९.
 औपदहनि^a- नय: वौश्रौप्र ३१ :
 ६; ४९ : २.
 औपदेशिक- उप/दिश् द्र.
 औपधेय- उप/धा द्र.
 औपनायनिक- उप/नी द्र.
 औपनिन्दवि- उपनिन्दु- द्र.
 औपनिपद्-, °पदक-, °पदिक- उप-
 नि/पद् द्र.
 औपनीचिक- उपनीचि- द्र.
 औपवाहवि- उपवाहु- द्र.
 औपविन्दवि-, °वीय- उपविन्दु- द्र.
 औपविन्दु^a- न्दव: वौश्रौप्र ११ : २.
 औपभृत- उप/भृ द्र.

औपमत्कटायन^a- ना: वौश्रौप्र
 १९ : ३.
 औपमन्यव-, °वी- उपमन्यु- द्र.
 औपमर्कटायन- उपमर्कट- द्र.
 औपमिक-, °भ्य- १उपम, मा- द्र.
 औपयज- उप/यज् द्र.
 औपयातिक- उप/या द्र.
 औपयिक- उपे (प/इ) द्र.
 औपरव- उप/रु द्र.
 औपराजिक, का, °की- उपराज- द्र.
 औपराधय्य- उप/राध् द्र.
 औपरिमेखलि-, औपरिटाण्ड्यौतिप-
 उपरि द्र.
 औपल- उपल- द्र.
 औपवत्स-, औपवसथ-, °सथिक-,
 °सथ्य-, °स्त- उप/वस्
 द्र.
 औपवस्ति^a- स्ति: वौश्रौप्र ४६ : १.
 औपवस्तिक- उपवस्ति- द्र.
 औपवस्त्र- उप/वस् द्र.
 औपवाजन- उप/वा द्र.
 औपवास-, °सिक- उप/वस्
 द्र.
 औपवेशिL, पि, सि]क- उप/विश् द्र.
 औपव्य^a- न्या: वौश्रौप्र ४१ : ६.
 औपशद्- उपशद्- द्र.
 औपशय- उप/शी द्र.
 औपशवि^b- वि: शुप्रा ३, १३१
 भास् २, २०; २२.
 औपशल- उपशल- द्र.
 औपशि^a- शय: वौश्रौप्र १७ : ४.
 औपशिव्य^a- व्यौ श्रप १, ३, १.
 औपसंक्रमण- उप-सं/कम् द्र.
 औपसद्- उप/सद् द्र.
 औपसार्गिक- उप/सृ द्र.
 औपसीर्य- उपसीर- द्र.
 औपस्तिक- उपस्ति- द्र.

औपस्थान-, णिक- उप/स्था द्र.
 औपस्थान्य- २उपस्थान- द्र.
 औपस्थिक- १उपस्थ- द्र.
 औपस्थूय- उपस्थूण- द्र.
 औपस्थूल- उपस्थूल- द्र.
 औपहस्तिक- उपहस्त- द्र.
 १-२ औपाकरण- उपा/कृ द्र.
 औपानह्य- उप/नह् द्र.
 औपानुवाक्य- प्रमृ. उपानुवाक्य-
 द्र.
 १औपासन- उपा(प/अ)स्
 (क्षिपणे) द्र.
 २औपासन-, णिक-, णीय-
 उपा(प/अ)स् द्र.
 औपास्तिक- उपास्ति- द्र.
 औपोदिति- उपोदित- द्र.
 ?औष्जाङ्गिरस- -रसाम् चात्र २ :
 ४.
 १औभय- उभ- द्र.
 २औभय-, भय- २उभय- द्र.
 औभयसाम्य- १उभय- द्र.
 औम-, मक-, मिक-, मीन-
 उमा- द्र.
 औम्भेयक- उम्भि- द्र.
 औम्भि- (> २औम्भेयक-)
 उम्भि- टि. द्र.
 १औम्भेयक- उम्भि- द्र.
 औरध-, धक- प्रमृ. उरध- द्र.
 १औरव- १उर- द्र.
 २औरव- २उर- द्र.
 औरश- (> २औरशायनि-) २औरस-
 टि. द्र.
 १औरशायनि- उरश्- द्र.
 औरशि^a- शयः वौश्रीप्र ३ : ९.

औरशी- उरश- द्र.
 १औरस- प्रमृ. १उरस्- द्र.
 २औरस- उरसा- द्र.
 ३औरस^b- (> २औरसायनि- पा.)
 पाग ४, १, १५४^c.
 १औरसायनि- २उरस्- द्र.
 औरसिक-, १औरसी-, १उरस्-
 द्र.
 २औरसी- २उरस्- द्र.
 औरस्य- १उरस्- द्र.
 औरसुत- २उ(र>)रा- द्र.
 औरक्षय- १उर- द्र.
 औरक्ष्यायण^d- णाः वौश्रीप्र ७ :
 ३.
 और्ण- प्रमृ., णिक- /ऊर्ण द्र.
 १और्णनाभ- ऊर्णनाभ- द्र.
 २और्णनाभ- (> २और्णनाभक-)
 ऊर्णनाभ- टि. द्र.
 १और्णनाभक-, और्णनाभि- ऊर्ण-
 नाभ- द्र.
 और्णनाभ- ऊर्णनाभि- द्र.
 और्णायव- १ऊर्णागु- द्र.
 और्णावित-, ण्य- १ऊर्णावित- द्र.
 और्ध्व-, ष्वकालिक-, ष्वदेहिक-,
 ष्वदमिक-, ष्वलक्षण- ऊर्ध्व-
 द्र.
 और्म्या- ऊर्मि- द्र.
 १और्व- २ऊर्व- द्र.
 २और्व- २ऊर्व- द्र.
 १और्वभृगुवत् १ऊर्व- द्र.
 २और्वभृगुवत् २ऊर्व- द्र.
 और्विश- उर्वशी- द्र.
 और्वन्दक- उलन्द- द्र.
 और्वि- ३उलप- द्र.

औलपिन्- २उलप- द्र.
 औलपीय- ३उलप- द्र.
 औलव <> व^e- वः आपमं २, १६,
 २; भाग २, ७ : ८; हिगु २, ७, २.
 औलालायत^f- (> औलालायत-
 भक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.
 १औलूक- १उलूक- द्र.
 २औलूक-, क्य- २उलूक- द्र.
 औलूखल- उलूखल- द्र.
 औशन-, नकाव-, नश्यावाश्च-
 उशन- द्र.
 १-२औशनस- उशनस्- द्र.
 ३औशनस- उशनस- द्र.
 १-२औशिज- उशिज्- द्र.
 ३औशिज- उशिज- द्र.
 औशीनर-, नरी- उशीनर- द्र.
 औशीरेय- उशीर- द्र.
 ?औपजलराजसु वाश्री ३, ४, ३, २२.
 औपद् आपश्री २४, १४, १०^g; पाग
 १, ४, ६१.
 औपद् /कृ पा १, ४, ६१.
 औपघ- औपधि, धी द्र.
 औ(आ-ओ)पध्य(धि-अ)नुवाक^h-
 -कम्^h आमिगु १, २, १ : २३;
 २४.
 औपस- उपस्- द्र.
 औप्ट-, ष्टक-, ष्टाक्षि- १उप्ट- द्र.
 औप्टायण-, षणक- २उप्ट- द्र.
 औप्टिक- १उप्ट- द्र.
 औप्ट-, ष्टी- श्रोष्ट- द्र.
 औपिणह- प्रमृ. उष्णिह- द्र.
 औपण्य- /उप (वधा.) द्र.
 औसजⁱ- ने विघ ८५, ५२^j.
 औह- /ऊह (प्रापणे) द्र.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? ।

b) व्यप.। व्यु. ? । < २उरस्- (क्षत्रिय-विशेष-) इति पागम. ।

c) ण- इति [पक्षे] भाण्डा. ।

d) = बालप्रह-विशेष-। व्यु. ? । ष- इति हिगु. ।

e) व्यप.। व्यु. ? ।

f) [पक्षे] औपद् इति पदस्वी ? ।

g) अत. > पस. ।

h) पाभे. पृ ७५५ । द्र. । i) = तीर्थ-विशेष-। व्यु. ? ।

j) ञसे इति जीसं. ? औशिजे इति ? Jolly । . .

क

१क^१-कः भाशि ३४; कात् पा ७, ३,
४४; के शौच ४, २५.

क-कार-रः अप ४७, १, १५;
ऋप्रा ४, ४७; ६, २१; तैप्रा ५,
३२; शैशि ३१२; ३१३; -रम्
ऋप्रा ४, १६; -रे ऋप्रा ४, ४१.

ककार-द्वय-यम् याशि २, ६२.

ककार-पकार-रयोः शुप्रा ३,
२१.

ककार-वर्ग-र्ग-शुप्रा ४, १६५.

ककार-पकारा(र-आ)दि-दिः
निसू ८, ६ : ११; २०.

ककारा(र-आ)दि-द्वयः उस्
१, ३; याशि २, १.

ककारादि-प्रथम-मान् भाशि
३१.

ककारा(र-अ)न्त^b-न्ते माशि
१४, २; याशि १, ६२; २, ३६;
-न्तौ भाशि ३२.

क-ख-खयोः शुप्रा ३, ११; शैशि
३२३.

कख-प(र>)रा^b-राः नाशि
१, ८, ९.

कख-प-फ-फेषु ऋप्रा ४, ३८;
शुप्रा ४, ८.

कग्रहण-णम् पावा ७, ३, ४४.

क-च-ट-त-प-पाः याशि २, ९४.

क-ट-त-तैः शौच २, ९.

क-ट-त-प-पम् माशि १४, ६.

क-टा(ट-अ)न्त-न्तयोः माशि
४, ११.

क-न-नौ अप्रा ३, २, १६; २२२.

क-प-पयोः अप्रा ३, ३, ५; शैशि
१२३.

कप-पर-रः उस् ५, ६.

कपा(प-आ)श्रितो(त-ऊ)म्—
जात-तौ शैशि ३०.

कप-वर्ग-पर-रः तैप्रा ९, ४.

क-रेफ-फाभ्याम् शुप्रा ३, ५८.

क-व(त् >)ती-त्यः निसू ८,
६ : ५.

क-वर्ग-र्ग-शुप्रा ८, ८; -र्गस्य
अप ४७, १, २०; -र्गै तैप्रा २, ३५.

कवर्ग-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ-र्थम्
पावा ८, ३, ७९.

कवर्ग-प्रथम-माः हिश्री २१,
२, ३३.

कवर्गा(र्ग-अ)नुस्वार-जिह्वामूली-
य-याः आशि १, १०.

कवर्गा(र्ग-अ)वर्णा(र्ण-अ)नुस्वार-
जिह्वामूलीय-याः आशि १,
१०.

क-शब्द-व्दे अप्रा ३, ४, १.

क-स-वर्ण-र्णम् याशि २, ४१.

का(क-आ)दि-द्वयः अप ४७, १,
८; -दि शुप्रा १, ४७; शैशि १८;
-दीनाम् शैशि २१.

कादि-लोप-पः पावा ६, ४,
१४९.

को(क-उ)पध,घा-धात् पा ४, २,
६५; ७९; १३२; ३, १३७;

पावा ४, २, १०४; -धायाः पा
६, ३, ३७.

कोपध-ग्रहण-णम् पावा ४, २,
१४१.

कोपध-प्रतिपेध-धः पावा ४,
२, १०४; -धे पावा ६, ३, ३६.

२क^१-कः काश्री ९, ७, १३; १९, ४,
१९; आपश्री ४, ४, ४; ९; १९,
१०, १; १२, १५; वौश्री १४,

८ : २७^३; १५, ३० : २२^३;

भाश्री ४, ५, ५; वाश्री १, १, २,
१६; वैश्री १५, २२ : १३^३;

हिश्री ६, १, ५१; ४, ३१; १४, ४,
२०^३; २३, २, २६; द्राश्री ५, ३,
१९; कौसू ४५, १७; अप ४८,

१३७; वृदे १, १२२; २, १२५;
३, ७०; निघ ५, ४; या १०,

२२९^३; वेज्यो १०९; ऋकम्
आपश्री ८, ७, १; १७, २; वौश्री

५, ८ : २८; १६ : ६; ६, २ :
२२; १३, २० : ९; २५, ३ :

१७; भाश्री ८, २१, ६; १०, ५,
५; वाश्री ४, १९^३; १४; १०३^३;

११; १२; हिश्री १, २, ४७; ५,
२, ५६; वृदे २, ४७^३; अप ४८,

७५; निघ ३, ६; या २, १४^३;
४, १८^३; १०, ४; १४, ११;

पा ५, २, १३८^३; कस्य वौश्री
२७, १४ : १४^३; हिश्री २३, ४,

३९^३; वृदे ५, ९८; पा ४, २,
२५; ५, ३, ७२; ऋकाय शाश्री

९, २७, १; काश्री २०, ४, २;
आपश्री ८, ७, १; वौश्री ५, ८ :

२८; १४, ८ : २७; २५, ३ :
१६; १७; वाश्री ३, ४, १,

४८; वैश्री ८, १३ : ७; हिश्री
५, २, ५६; आश्री १, २०, ८; शाश्री

३, २, २; काश्री ३४, ४; ४१, १६;
भाश्री १, ७ : ११; माश्री १, २२,

५; शुश्री ३, १४.

१काय, या^१- पा. ४, २, २५;
-यः शाश्री ३, १४, ४; १६;

काश्री ५, ४, २१; वौश्री १७,
५६ : १८; ५९ : १६; वाश्री १,

७, २, १७; -यम् आश्री ४, १२,

a) = वर्ण-विशेष-। b) विप. वस. । c) वस. उप. स = २समान-। d) = प्रजापति-
सुख-, उदक- प्रसू. । वैप १ द्र. । e) विप. (पुरोडाश-, वशा- प्रसू.) । f) स्त्री. टाप् प्र. (तु. दंष्ट्र->°न्दा. प्रसू.) ।

२; आप्रथौ ८, ६, ७; वौश्रौ ५,
५: १६१; ६: १८; ८: १६;
२५, ३: १७; माश्रौ ८, ५, ११;
६, ९; माश्रौ १, ७, ३, १; वैश्रौ
८, १०: ६; हिश्रौ ५, २, २३;
३१; वैताश्रौ ८, २२; ऋश्र २,
१०, १२१; शुश्र २, १४२;
-यस्य हिश्रौ ५, २, २७; -या
वौश्रौ १७, ५६: २४; ६२: १४;
-या: आप्रथौ २०, १४, ९; हिश्रौ
१४, ३, १७.

काश्री^१ - यी शाश्रौ १४, ७,
५; शुश्र ३, १८; वृदे ३, ९८;
जाश्र १, ३४१; -यीम् शुश्र २,
१२९; -य्यौ शुश्र ३, ४९.

काश्या (यी-आ) ज्येथी-
-य्यौ ऋश्र २, १, २४.

कं-य- कं-यु- पा ५, २, १३८.

कं-वल्- वति काश्रौ २१, ३, २२.

कंत-, कंति-, १कंतु-, कंय-, कंस-
पा ५, २, १३८.

के(कई)श^१ - शस्य अशां ६, २.

३क, का- किम्- द्र.

✓कंस^१ पावा. अदा. आत्म. गतिशा-
सनयोः.

१कंस^१ - पाठ ३, ६२; पाठ २, ४, ३१;

-स: आश्र ४, ६, १९; कौश्र ५,

८, ७; काश्र ४६, १०; ५७, ८;

गोश्र ३, २, ३८; द्राश्र २, ५, ३३;

अश्र १, ३५, १; -सम् आप्रथौ

१, १६, ३; वौश्रौ १, ४: २०;

१८: १××; हिश्रौ; -सा: अश्र

१०, १३१; -सात् द्राश्र ३, ४,

२४; पा ५, १, २५; -से वौश्रौ

४, ९: १२; ५, २: १८; ६: १०;

१३; ६, ७: ८; ९; ८, ३: ३××;

माश्रौ; -सेन आप्रथौ १, १६, ३;

वौश्रौ १, ३: ३५; माश्रौ १, १७,

१२; वैश्रौ ४, २: १०; हिश्रौ १,

४, ४५; कौश्र ५, ८, ४; काश्र ४५,

५; गोश्र १, ३, ९; ७, २; द्राश्र १,

५, ११; -सौ वौश्रौ ५, ९: १०.

१कंस^१ - सन् जैश्र १, १७: ९;

१३; १५; -सत्य शंघ १६४^२;

१६५; -सेन माशि १०, १०.

कांस्य^१ - स्य: शाश्रौ ४, १६,

९; वौश्रौ १८, ३५: ८; -स्यम्

वौश्रौ १८, ८: ४; ९: १५; माश्रौ

१, २, १, ९; १०; ४, ७, ५; वौश्र:

-स्यस्य शाश्रौ ४, २१, ८; शंघ

१६४; -स्यानि वौश्र १, २, ५;

-स्ये माश्रौ २, १, ३, ४; २, १, १;

४, १, ६; ५, २, २, ३; १७; ६, १६;

पाश्र १, ३, ५; ३, ४, ९; काश्र;

-स्येन शाश्रौ ४, १६, ३; माश्रौ

१, २, १, ८; वाश्रौ १, २, ४, ५; पाश्र

१, ३, ५; आप्रथु: -स्यै: अश्र २७,

१, १.

कांस्य-कवच^१ - च: शाश्रौ

१४, ३४, २; काश्रौ २२, १०,

३१; वौश्रौ १२, २: १३; -चौ

लाश्रौ ९, ४, १४.

कांस्य-कार- र: वैश्र ३,

१४, १०.

कांस्य-ताम्रा(स्र-आ)दि-

-दीनाम् काश्र २७८: २.

कांस्य-तुर्ष^१ - र्याणि आमिश्र

२, ६, ६: १.

कांस्य-दोहन-पूर (ए>)

णी^१ - गीम् अशां १३, ४.

कांस्य-पात्र -त्रम् अश्र ९,
२, २.

कांस्य-पात्री- -त्रीम् अश्र
६८, ५, ५.

कांस्य-भाजन- -ने विध ७१,
३९.

कांस्य-भोजि- -वत् मीश्र १२,
२, ३४.

कांस्य-मय- -यम् आमिश्र २,
६, ७: १४.

कांस्य-लोह- -यो: विध
२३, २६^१.

कांस्य-दानस्पत्य-मातिक-
-कै: काश्रौ २, ३, ५.

कांस्य-स्थ- -स्यम् वप्र ३,
१०, १९.

कांस्या(स्य-आ)दि- -दि वैश्र
५, १३: २०.

कांस्यादि-लोह-न(य>)

यी- -यी वैश्रौ ११, ९: ७.

कांस्या(स्य-आ)पहारिद्- -नी
विध ४४, १५.

कांस्या(स्य-अ)पिधान^१ - नम्
कप्र ३, १०, १९.

कांस्यो(स्य-उ) पदो(ह>)

हा^१ - हाम् विध ९२, ८.

कंस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णी- -णीपु
पा ८, ३, ४६.

१कंस-पात्र- -त्रम् काश्रौ सं ४: १३.

२कंस-पात्र^१ -> कांसपात्रि- -त्रय:
वौश्रौ प्र ४४: २.

कंस-पात्री- -य्याम् पावा १, ४, १.

a) विप. (कन्, वशा)-। b) विप.। वस.। c) ✓कश् वा ✓कश् वा इत्यथेके। d) = घातु-

विशेष-, तन्निमित्त-पात्र-, परिमाण- च। वं १ द्र.। e) विप.। विकारार्थे वण् प्र.। f) विप., नाप. (कंस-)

विकारार्थे यञ् प्र. (पा ४, ३, १६८)। पाप्र. तु कंसीय-> यनि. इति। g) विप.। कस.> उत. उप. कर्त्तरि

व्युद् प्र.। h) लो इति जीसं.। i) विप.। वस. उप. अधिक्तरथे घञ् प्र.। j) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?।

कंस-मन्थ-शूर्प-पाय्य-काण्ड- पण्डम्
पा ६, २, १२२.

कंस-वसन- नम् कौस् ५४, २१;
१३६, ११; अय ७२, २, ९.

कंस-स्थाल- ले लाश्रौ ८, ११, २५.

कंसा(स-आ)दि- -दिना क्रम १, ९,
११.

कंसिक- पा ५, १, २५.

कंसीय-> ०य-परशव्य- -व्ययोः
पा ४, ३, १६८; पावा १, १,
६१^२.

२कंस^१- (> २कांस- पा.) पाग ४,
३, ९३.

३कंस^२-> कांसायन- नाः वौश्रौप्र
४१ : १४.

कांसि- सयः वौश्रौप्र ३ : २.

✓कक् पाधा. भ्वा. आत्म. लौल्ये.

ककन्द- पाडभो २, २, १६७.

ककर^०- रान् आपश्रौ २०, १४, ५.

ककल^१- (> काकलेय- पा.) पाग ४,
१, १२३.

ककाटिका^०- काम् अप्रा ३, ४, ११^१.

ककुच^{१०}- चैः कौस् ४८, ३२.

ककुद्^०- पाग ८, २, ९; -कुत् वौश्रौ

१३, ४२ : २; निस् १०, १ : १;

तैप्रा ८, ४; -कुद्^१ आपश्रौ १८,

७, ९; वौश्रौ १८, ४० : ११^१;

हिश्रौ १३, २, ३८; -कुदम्

आपश्रौ १८, ७, ९; हिश्रौ १३,

२, ३८; -कुदि वौश्रौ ४, ६ : ६;

वैश्रौ १०, १० : १६; -कुद्भिः

आपश्रौ १४, ३३, ७; माश्रौ

६, २, २, २१; हिश्रौ १५, ८,

४०.

ककुत्-स्थ^१- पाग ४, १, ११२.

काकुत्स्थ- पा ४, १, ११२.

काकुत्स्थ-कन्या- -न्याः वृद्
६, ५४.

ककुद्-मत्- पा ८, २, ९; -कमान्
वौश्रौ ११, ६ : २४; ऋप्रा ४,
२२; तैप्रा ८, ४; शैशि २५३.

ककुद्-रूप- -पम् निस् ७, १० : २.

ककुद्^०- पाग २, ४, ३१; -दस्य पा ५,
४, १४६; -दे कौस् ४४, ७.

ककुदा(द-अ)क्ष- (> काकुदाक्षिक-
पा.) पाग ४, १, १४६.

ककुदिन्- -दी वौध १, ५, ८६.

ककुन्दर^१- -रे विध ९६, ९२.

१ककुवद्धः निस् १, २ : ३.

१ककुश्^{०१}- पाग ४, १, ८६; -कुप्
शाश्रौ ७, २५, ३; २७, ४, लाश्रौ

६, ४, ७; निस् १, २ : ७; २, ११ :

२७; २८; ऋथ १, ५, ३××;

या ७, १२^३र्क; ऋप्रा १६,

३०; १८, २३; पि ३, १९;

उनिस् ४ : १४; ५ : ३५; ३७;

७ : १७; -कुप्सु लाश्रौ ७, ३,

५; निस् १०, ५ : ९; -कुद्भिः

वाश्रौ २, २, १, ३१; -कुम्भः

आश्रौ ६, १, २; ७, २, १७; शाश्रौ

७, २५, १४; १६; २७, २०; काश्रौ

१७, १२, १०; आपश्रौ १२, ३,

२^१; हिश्रौ ८, १, ४१^१; लुस्

१, ५; ९; ६ : १०; ७ : १७; जैश्रौ

९ : ८^१; निस् १, ३ : १३××;

निघ १, ६^१; -कुम्भ निस् ६, ८ :

२८; ८, ६ : १८; ९ : १८; ९, ३ :

१२; -कृमि शाश्रौ ७, २५,

५९; आपश्रौ २, ५, १^१क^१; वौश्रौ

१, १२ : १७^१क^१; ३, ३१ : ६;

१४, १४ : ३; वाश्रौ १, ३, २,

१८^१; भाश्रौ २, ५, २; माश्रौ

१, २, ५, ८^१क^१; हिश्रौ १, ७,

१४^१क^१; ङनिस् ४, १० : ८; ६,

६ : १४; ७, १२ : ६; -कुम्भौ

शाश्रौ ७, २५, ७; लाश्रौ ६, १,

२०-२२; ७, ९, १; ८, ५, १३;

लुस्.

१काकुम्- -मः पा ४, १, ८६;

शाश्रौ ७, २५, ५; निस् ३, १२ : ४;

ऋथ १, ११, ३; २, ६, ४८^१; शुथ

२, २२४; ऋप्रा १८, १; -भम्

ऋथ २, ८, १९; -माः शाश्रौ

१८, १३, ९; ऋथ २, ९, १०८;

-मान् ऋप्रा १८, २; -मानाम्

वैताश्रौ २५, ५; ऋथ ४, १०;

-मे ऋप्रा १८, ६; -मेषु आश्रौ

५, १५, ८.

काकुम्-वार्हत^१- -तः ऋप्रा

१८, १९.

ककुप्-कारम् शाश्रौ ९, २०, ६; १८,

४, ३; ४; ५, ३; ४; कौष्ट ३, ३, १;

शांष्ट ३, ४, ५; ६, ३, १२.

ककुप्-पक्ति- -क्ती ऋथ २, ८, १९.

ककुप्-पूर्व^१- -र्वः ऋप्रा १८, १९.

ककुप्-प्रभृति- -ति लाश्रौ ६, ३,

२६.

ककुप्-सतोवृहती- -त्यौ ऋथ २,

५, ५३.

a) = देश-विशेष-। व्यु. ?। b) ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। c) वैप १ द्र.। d) अर्थः व्यु. च ?।

e) = तिमिर-फल- इति दारिलः, आपधि-विशेष- इति संस्कर्ता (तु. भू. XLVIII)। f) पामे. वैप १, १०८१ k द्र.।

g) ककुम्भः इति मूलो.। h) व्यप.। उस.। i) = शरीरावयव-विशेष-, अथा. तु कुकुन्दर- इति। व्यु. ?।

j) = छन्दस्-, दिशः-, [उपचारात्.] इष्टका-विशेष- प्रभृ.। k) णिः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैप्रा ३, ३,

२, १)। l) - पामे. पृ-६४५ ० द्र.। m) मलो. कस.। n) विप.। वस.।

ककुब्-उत्तर,रा^a-राणि निस् २,
१० : ४; -रासु लुस् ३,३:११;
४ : १; निस् ७, २ : २२; ४ :
२९; ३९; ५२.
?ककुबुत्तरा-स्थान- नम् निस्
७, २ : २२; ४:४०; ५३.
ककुब्-उणिह- -णिक्षु उनिस् ७:
१७; -णिहौ द्राश्रौ ८,३, ८;
२०; लाश्रौ ४,७,१; ३.
ककुब्-देश^b- -शे माश्रौ १,८,३, १२.
ककुब्-भन्द^c- -न्द: सु २३,४.
ककुब्-रूप- -पम् निस् १०,४:७.
ककुम्-आदि- -दय: अप्रा ३,३, २१.
?ककुभिन्, >) ती^d- -ती या ७, १२.
ककुम्-न्यङ्कुशिरा^e- -रा ऋअ
१, ५, ४; २, ८, ४६; शुअ ५,
२७; ऋप्रा १६, ३३.
ककुम्-म(त >) ती^f- -ती अअ १,
१०; ११; १४××; पि ३,
५६; -त्यौ अअ ८, ५; १३, १.
ककुम्मी-ग(र्भ >) र्भा- -र्भा
अअ ३, १९; २७; २९; ४, ३;
-र्भा: अअ १०, ५.
ककुम्मत्य(ती-अ) नुष्टुम्-
-ष्टुम: अअ ५, २८.
ककुम्-मध्येज्योतिस्- -तिपी ऋअ
२, ८, २३.
२ककुम्^g- (> २ककुम्- पा.)
पाग ४, १, ११२.
ककुम्- -म: अप्राय ३, ३^h; -भम्
जैश्रौ २३ : १०ⁱ; जैश्रौका ५६ⁱ;
अप २६, ५, ३ⁱ; -भा: अप्रा
३, ४, ११ⁱ.

ककुह^k- -ह: निघ ३, ३; -हम्^l
आपश्रौ १२, ८, ३; वौश्रौ १४,
१२ : १३; वैश्रौ १५, १० : ७;
हिश्रौ ८, २, ४२.
कक्कोल- पाउमो २, ३, ११५.
कक्खट- ✓कख् द्र.
कक्ष, क्षा^m- पाउ ३, ६३; पाग ५, २,
१३१; -क्ष: वौश्रौ १४, १३ :
२८; या २, २४; -क्षम् आपश्रौ
९, ११, २२; वौश्रौ १४, १३ :
२३; ३०; २३, ६ : ८; ९;
वाश्रौ १, ५, ३, १७; वैश्रौ २०,
२२ : ११; वैताश्रौ ३१, ४;
आगृ २, ४, ९; कौगृ ३, १५, ७;
शांगृ ३, १४, ६; वौगृ २, ११,
६०; वैगृ ४, ४ : २६; हिपि
२३ : १९; योगृ १, २, २; ३;
४, १, २१; वाघ २, १२; वौघ
१, २, ५०; या २, २; -क्षान्
कौस् ४६, ४०; -क्षाम् हिगृ
१, ४, ६^m; -क्षाय वैगृ १, १५:
१३; -क्षे काश्रौ २१, ३, १५;
वैघ ३, १४, ७; या २, २८ⁿ;
-क्षौ माश्रौ १, ४, १, ३; २, १,
१, २८.
कक्ष-दैवत-सोम- -माय वैगृ १,
१५ : १३.
कक्ष-वन-शहिन्- -ही शैघ ३७७ :
१५.
कक्ष-सेन->काक्षसेनि- -नि: निस्
४, ११ : २२.
✓कक्षाय पावा ३, १, १४.
कक्षिन्- पा ५, २, १३१.

क(क्ष्य >) क्ष्या^o- -क्ष्या या २, २४^o;
६, २८^o; -क्ष्या: अप ४८,
८२^o; निघ २, ५^o; या ३,
९^o; -क्ष्याम्^o आमिष्ट १, १,
२ : ४२; वैगृ २, ६ : १३; १२:
१८; -क्ष्याया: पावा ६, १, ३७.
कक्ष्या-जीविन्- -वी वैघ ३,
१२, १०.
कक्ष्या-वत्- -वान् या ६, १०.
कक्षतु^p- (> काक्षतव- पा.) पाग ४,
३, १६४.
कक्षी-वत्^q- पा ८, २, १२; पावा ६,
१, ३७; -वताम् आश्रौ १२,
११, ३; -वति वृदे २, १३०-
-वन्तम् वौश्रौ ३, ९ : ६; हिश्रौ
६, ६, १६; अप्राय ४, १; शुप्रा
५, ३७; या ६, १०; -वान्
शाश्रौ १६, ११, ५; ऋअ २, १,
११६; १२६; ९, ७४; वृदे ३,
५६; १४२; १५०; या ६,
१०^o; तैप्रा ९, २१^o; अप्रा ३,
४, ११^o.
१काक्षीवत- -०त् आश्रौ १२,
११, ३; आपश्रौ २४, ६, १५;
वौश्रौप्रा १२ : ३; १३ : १;
हिश्रौ २१, ३, ९; वैघ ४, ४, ३;
४; -त्त: ऋअ २, १०, १३१;
१६९; शुअ १, ६४०; -त्स्य
चाअ ४२ : ५.
काक्षीवती- -ती ऋअ २,
१०, ३९; वृदे ७, ४२; -वत्यै
वृदे ७, ४८.
२काक्षीवत^r- -न्तम् शाश्रौ ९,

a) विप. । वस. । b) कस. पू. = ककुब्. । c) = सोमरक्षक-विशेष- । व्यु. ? । d) ककुदिनी-
इति रक. । e) मलो. कस. । स्त्री. डावन्तम् । f) = हन्दो-विशेष- । g) व्यप. । व्यु. ? । h) सपा. काठ
३४, १६ षः इति पाभे. । i) = अर्जुन-वृक्ष- । j) = पिशाच-विशेष- । वैप १, १०८१ । यनि. शौघः । k) वैप १ द्र. ।
l) पाभे. वैप १, १०८१ m द्र. । n) सपा. कक्षाम् <> कक्ष्याम् इति पाभे. । n) वैप १, १०८२ j द्र. ।
o) स्तार्थे प्र. । p) = वनराति-विशेष- । व्यु. ? । ऋकनु-, कर्कन्तु-, कर्कन्धु- इति पाका. । q) = सूक्त-विशेष- ।

२०, १२; १६, ११, ४; लाश्रौ
६, १२, १४^३; निस् ७, ५ : ३३^३;
वृदे ३, १४१; १५२; -तानि
शाश्रौ २, २०, ११.
कक्षीवत्-प्रमुख^१ - खान् वृदे ४, २५.
कक्षीवद्-वत् आपश्रौ २४, ६, १५;
वौश्रौप्र १२ : ४; १३:२; हिश्रौ
२१, ३, ९; वैघ ४, ४, ३; ४.
कक्ष्या- कक्ष- द्र.
✓कख् पाधा. भ्वा. पर. हसने.
कखलट- पाठवृ ४, ८१.
✓कग् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर.
✓कङ्क् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
१कङ्क^० - क्कम् अप ४८, ८८^१; -क्काः
अप १^२, १, ७; ५२, ४, ५; साअ
२, १२, १४^१; उनिस् ७ : १०^१;
-क्केः अप ६१, १, ७.
कङ्क-चित्त^१ - चित्त काश्रौ १६, ५,
९; आपशु २१, १; काशु ४, १;
हिशु ६, ५९; -चित्तः वीशु १२ :
१; -चित्तम् वौश्रौ १७, २८ :
८; हिश्रौ १२, ८, ४; आपशु
२१, ५; हिशु ६, ६४.
कङ्का(ङ्क-आ) कृति^१ - तितः हिश्रौ
१२, ८, ४.
२कङ्क^० -> काङ्कायन^१ - नः कौस् २२,
१३; अप ३०^२, १, १; अअ ६,
७०; ११, ९.
कङ्कट^१ -> कङ्कटिक^१ - कङ्कटिन्^१ -
कङ्कटिल^१ - पा.) पाठ ४, ८१;

पाग ४, २, ८०^१.
कङ्कण^१ - पाठमो २, २, १२४.
कङ्कणीका- पाठ ४, १८.
१कङ्कत^१ - ण्तः वौश्रौ १८, १९ : ६;
काशु ३१, २; -ण्तम् काशु ३१,
२; वाशु १६, ८^२; -तेन कौस्
७६, ५; -तैः पाशु २, १४,
१५.
२^१कङ्कत^१ - तः ऋअ २, १, १९१;
वृदे ४, ६३^१.
३^१कङ्कत^१ - तान् आमिशु २, ४, ८ :
९; -तेभ्यः आमिशु २, ४,
८ : ४.
कङ्कति^१ - > ँति-ब्राह्मण- णम्
आपश्रौ १४, २०, ४.
कङ्काल- पाठमो २, २, १०५.
कङ्कगु- पाठमो २, १, ४८.
✓कक् पाधा. भ्वा. आत्म. वन्धने.
कच^१ -> कचिक^१ - पा.) पाग ४, २,
८०.
कचप- पाठ ३, १४२.
१कचुलुक^१ -> काचुलुक्य- पा.) पाग
४, १, १०५^१.
कचचूर- पाठना ४, ९६.
१कचुलु^१ - पाठवृ ४, १०५; -च्छः या
४, १८^१; -च्छम् या ४, १८;
-च्छन या ४, १८^२.
कच्छ-प^१ - पः या ४, १८^१; -पम्
माश्रौ ३, ६, १६; वाश्रौ २, १, ६,
३६.

कच्छा(च्छ-अ)मि-वक्त्र-गर्तो(र्त-उ)-
चरपद- -दात् पा ४, २,
१२६.
२कच्छ^१ -> काच्छ- , काच्छक- पा.)
पाठमो २, २, ८५; पाग ४, २,
१३३; १३४.
कच्छा(च्छ-आ)दि- दिभ्यः पावा
४, २, १००; -दिषु पावा ४, २,
१३३.
कच्छू^१ - पाठ १, ८४^१.
कच्छु-र^१ - पावा ५, २, १०७.
कच्छूल^१ -> ँलिल- पा.) पाग ४,
२, ८०^१.
✓कञ् ✓खञ् द्र.
कञ्जल^१ पाग ५, २, ३६.
कञ्जला(ल-अ)र्म- पा ६, २, ९१.
कञ्जलित- पा ५, २, ३६.
✓कञ्च् पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्ति-
वन्धनयोः.
१कञ्जखन्ता अप ४०, ६, ६.
१कञ्जत^१ - नम् वाशु ६, ९^१.
कञ्चुक^१ - पाठमो २, २, २३^१; पाग
५, २, ३६; -कानि माश्रौ १, १,
२, १८.
कञ्चुक^१ -> ँकिन्- की
आपध १, ८, २; हिघ १, २, ९.
कञ्चुकित- पा ५, २, ३६.
कञ्चूल- पाठवृ ४, ९०.
कञ्ज- पाग २, २, ३८.
कञ्जर- पाठ ३, १३७.

a) = साम-विशेष- । b) विप. । वस. । c) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । d) विप. । उस. उप. कियन्तम् ।
e) व्यप. । व्यु. ? । f) आशुर्वेदाचार्य-विशेष- , ऋषि-विशेष- । g) अर्थः व्यु. च ? । h) कण्टक- [काशादी] इति
कर्कटा- [प्रेक्षादी] इति च पाका. । i) = देश-विशेष- ? । j) वैप ३ द्र. । k) = केशप्रलेखनोपकरण- [कक्षी-
इति नभा.] । व्यु. ? । l) उत्तरेण संधिरार्यः । m) = वायस-विशेष- । व्यु. ? । n) तु. पाका. । चुलुक- इति
भारुडा. प्रभृ. । o) = नदी-तट-, कूर्माङ्ग-विशेष- प्रभृ. । व्यु. ? । p) उप. < ✓पा [पाने] ✓पा [रक्षणे] चेति या. ।
q) = रोग-विशेष- । व्यु. ? । r) < ✓कप् इति । s) वैतु. M.P. < कच्छु इति । t) वच्छूल- इति पागम. ।
u) नाप. । व्यु. ? । v) पाठः ? किञ्चन इति शोधः (तु. माशु १, १, १०) । w) < ✓कञ् इति पामाधा. ।
x) < ✓कश् इति । y) स्वार्थे अण् प्र. ।

कट् वीथौ २३, ७; २६.

✓कट् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. वर्षा-
वराणयोः गतौ च.

कट्ट^०— पाग ४, २, ८००; ५, १, ४; ६, २,
८५; —टः वाधुथौ ३, ७६; ३५;
—ट्म् आपथौ २०, २१, ७; वीथौ
१५, १४; ९; वाथौ ३, ४, १, ७;
५, १०; पाग १, ५, २; आपग ४,
९; गोय २, १, १९; वीध १, ५,
११०; —टात् पागवा ४, १,
४१; —टान् आपथौ ११, ८,
२१; २२, १२, ९; हिथौ ७, ५,
२७; ७, २१; १६, ५, ३; —टे काथौ
१३, २, १६; आपथौ २०, २१, १;
वीथौ १५, ३२; १२; ३३; ६;
१८, २१; १३; २६, ३२; १७;
वाथौ ३, ४, ५, ९; हिथौ १४, ४,
२४; ४८१; आपग १२, ३; काग
४५, ६; माग २, १, ७; वाग १४,
५; —टेन आपथौ २०, २१, ६;
वीथौ १५, ३३; १०; हिथौ
१४, ४, ५१; आगिग ३, ५, ३;
९; वीथि १, ३; ७.

कटी— पा ४, १, ४१.

कट्ट-क^०— कम् अप १८, २, २.

कट-कार-रः वैध ३, १३, ६.

कट-कारिन्-री वैध ३, १३, ६.

कट-परिवार^०— रम् वीथौ १६,

२०; ६; —रे वीथौ १६, २१;

७; —री वीथौ ६, १; १४.

कट्ट-प्रवृत्त-ते आ ३६, ९, ३.

कट्ट-पू- पाड २, ५७; पावा ३, २,
१७८.

कट-शलाका-क्या आपथौ २२,
१८, ९.

कट-संघात^१-ते आपथौ २२, १८,
५; हिथौ १६, ६, ३३.

कटा(ट-अ)ग्नि-ग्निना वीध २, २,
५३.

कटा(ट-आ)दि-देः पा ४, २, १३९.

कटा(ट-अ)न्त-न्तम् गोग २,
१, २१; —न्ते गोग २, १, २२.

कटिन्^६— पा ४, २, ८०.

कटीय-कव्य-पा ५, १, ४.

रकटक^०— पाड ५, ३५; पाग २, ४,
३१; ५, १, ४०.

कटक-केयूर-धारिन्-रिणे अप
४०, १, १३.

कटकीय-कटक्य-पा ५, १, ४.

कट-त-प-१क-द्र.

कटनि-पाडभो २, १, २१२.

कटभ^१-भम् अप २६, ५, ३.

कटम्ब-पाड ४, ८२.

?कटचिकटकारटेमाटे अप ३६, ९, ३.

कटा^१— (> कटाल-पा.) पागवा
५, २, ९७.

कटाकु-पाडना ३, ८०.

कटान्त-१क-द्र.

कटार-पाडना ३, १३६.

कटाह-पाडभो २, ३, १८७.

कटि^१— पाड ४, ११८; —टिः कप्र
१, ७, ९; —टिम् कप्र १, १, २;

—टौ शेष १९७; —ट्याम् विध
५, २०.

कटिन्-पाडभो २, ३, ८८.

कटिप^१— (> काटिप्य-पा.) पाग
४, २, ८०.

?कटिरेमाटर^१— राय अप ६६, ३, २.

कटीर-पाड ४, ३०.

कट्ट^१— पाडवृ १, ८; पाग ६, २, २४^म;
—ट्ट अप ३६, ३०, १.

कट्टक, का^०— पाग ५, १, १३०;
६, २, ८७०; —कम् विध ६१, १५;

आपमं १, १७, ९१; —काः द्राग.
४, २, ८; —कै अप ३५, १, १;
—कैः अप २६, ५, २.

काटुक-पा ५, १, १३०.

कटुक-प(त्र>)त्रा^०— -०त्रे अप
३५, १, १.

कटुक-प्रत्य-पा ६, २, ८७.

कटुक-वद्री^०— पा, पाग ४, २, ८२^०

कटुकिमन्-त्रा या ५, ४.

कटु-तैल-लेन अप ३५, १, १०.

कटुतैल(ल-अक>)का-काः
अप २६, ४, २.

कटु-मन्थ-(> काटुमन्थ-)

कटुक-टि. द्र.

कटुक^१— (> काटुकि-पा.) पाग
२, ४, ६३^१.

कटुक-वाधू, (वाचं [पाका.]) लेय-
पाग ६, २, ३७.

कटेट-(> ट्टी-) पाग ४, १, ४१^०.
कटेर-पाडनावृ १, ६०.

a) = घन्वनुकरण-। b) वप्रा.। वैप १ द्र.। c) अर्थः ?। d) स्वार्थेऽन्त्याथे वा प्र.। e) नाप.।
पस. उप. < परि✓कट् [आच्छादने]। f) पस.। g) = देश-विशेष-?। h) = आभरण-विशेष-।
व्यु. ?। i) < ✓कट् इति। j) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। k) अर्थः व्यु. च ?। = जुदगजगण्ड- इति
पागम.। l) = श्लोणि-। व्यु. ?। m) तु. पाका.। पटु- इति भाण्डा.। n) विप., नाप.
(श्लोपाधि-विशेष-).। वैप १ द्र.। o) तु. पाका.। कटुक- इति भाण्डा.। p) विप.। वस.। q) = तददूरभव-।
श्राम-विशेष-। r) कटुक^० इति [पक्षे] भाण्डा.। s) व्यप.। व्यु. ?। t) क्मन्थक- इति पाका.,
कटुमन्थ- इति पागम.। u) तु. पागम.।

कटोल, क- (>कटोल-पाद-, लक-
पाद- पा.) पाउ १, ६६; पाग
५, ४, १३८^१.

कट्वर- पाउ ३, १.

✓कट् पाधा. भ्वा. पर. कृच्छ्रजीवने.

कठिन- पाउभो २, २, १९४; -नः

या १४, ६; -नम् वैगृ २, ८ :

१; -ने वीथौ १७, ३१ : १६.

कठिनिक- पा ४, ४, ७२.

कठिनो(प-उ)पचिता(त-अ)ङ्ग^१-

-ङ्गाः अप ६८, १, ४०.

कठेर- पाउ १, ५८.

कठोर- पाउ १, ६४.

कठ^८- पा ४, ३, १०७; -ठाः चव्यू

२ : ३; -ठानाम् चव्यू २:३३;

-ठैः काश्रौसं ३१ : १६; ३२ : १.

काठक^१- -कम् या १०, ५;

-काः आपथौ २१, २३, ६;

हिश्रौ १६, ८, ९; -के पा ७, ४,

३८; वीगृ ३, १, २५; वाध १२,

२४; ३०, ५; साअ १, २६७;

भाशि ६.

काठक-चातुर्मात्य- -स्येषु

आपथौ १९, १५, ७; हिश्रौ २३,

३, २७.

काठक-प्रसि(द्व>)द्वा-

-द्वा कागुड ४३ : १५.

काठका(क-अ) मि^८-

-भ्रीनाम् आमिगृ ३, ८, ३ : २५;

वौषि १, १६ : ११.

काठकाग्नि-चिति- -तौ

आमिगृ ३, ८, ३ : २३; वौषि
१, १६ : ९.

कठ-कालाप- पाग ६, २, ३७.

कठकालाप-वृत्त- -त्तेषु नाशि

१, १, ९.

कठ-कौथुम- पाग ६, २, ३७; -माः

द्रागृ ३, २, ३१.

कठ-मैत्रा(त्र-आ)दि-सूत्र-

-त्रेषु काश्रौसं २७ : २.

कठ-शाठ- (>काठशाठिन्- पा.)

पाग ४, ३, १०६.

कठ-श्रुति- -तैः काठश्रौ ६.

कठ-सूत्र- -त्रात् काठश्रौ ५.

कठाकु- पाउ ३, ७७.

कठिण^१- (>कठिणिन्- पा.)

पाग ५, २, १३१.

कठेरणि^२-(>काठेरण- पा.) पा, पाग

२, ४, ६९.

✓कड् पाधा. भ्वा. तुदा. पर. मदे.

कडङ्कर^१->रीय-, ङ्कर्य- पा ५, १,

६९.

कडङ्कर- पाउना ३, १३३.

कडत्र- पाउ ३; १०६.

कडम^१- पा, पाग २, ४, ६३^१.

कडम्ब- पाउ ४, ८२.

कडार^१- पाउ ३, १३५^१; पाग २, ४,

३१; -राः पा २, २, ३८; -रात्

पा १, ४, १; २, १, ३.

कडोल- पाउना १, ६३.

✓कड्ड् पाधा. भ्वा. पर. कार्कश्ये.

✓कण्^१ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे गतौ च;

चुरा. उभ. निमीलने, कणति
निघ २, १४^१.

१कण^३- पाग ४, १, ४१; ५, ४, ३^१;

-गः या ६, ३०^१; -णाः

अअ ११, ३^१; -गान् काश्रौ

२, ४, २३; ३, ८, ७; गोयृ

४, ६, १३; द्रागृ ४, २, २:

विध ५१, १; ५२, १०; -णैः

आमिगृ २, १, ३ : ११; ४ : २४;

हिगृ १, १५, ५; २, ३, ७; अप

३६, ११, १.

कणी- पा ४, १, ४१.

कण-क^१- पा ५, ४, ३.

कण-पिण्याक-तक्र- -क्राणि

वौध ४, ५, २२.

कण-पिण्याक-याचक-दधि-पयो-

व्रतत्व- -त्वम् वौध २, १०,

५६.

कण-वत् काश्रौ ४, ३, ६.

कण-सर्षप- -पैः वैगृ ३, १५ : ३.

कण-सर्षप-यव- -वानाम् वागृ

२, ११.

कणिक^१- -कः माश्रौ ५, १, ९,

२६.

क(ण-क>) गिका^१- -का

याशि १, ११.

कणिश^१- पाउभो २, ३, १४६^१;

-शम् वौध ३, २, ११.

२कण->कणे-वात^१- -तः या ५,

११.

कणे-मनस- -नसी पा १, ४, ६६.

a) तु. पागम. । b) विप. । द्रस. > वस. । c) = वैशंपायनशिष्य-, नाप. (चरण-) । व्यु. ? ।

d) = शाखा-, तदभ्यासिन्- प्रभृ. । तुब् प्र. (पा ४, ३, १२६) । तदर्धति इति पक्षे प्र. लुक् । e) पस. उप. = स्थण्डिल- ।

f) तु. पासि. । करुण- इति भाण्डा., करुणा- इति पाका. । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) = भूसा(नभा.) ।

v्यु. ? । i) व्यप. । व्यु. ? । j) नाप. । व्यु. ? । k) < √गड् इति । l) शब्दार्णभवे इति या. । या ६, ३०.

पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । m) वैप १ द्र. । n) = लोहोपकरण- । o) विप. । मत्वर्थे ठन् प्र. ।

p) = सूक्ष्म-रजस्- । स्वार्थे कः प्र. । q) = धान्यस्तम्ब- । मत्वर्थायः इशाच् प्र. उर्स. (पा ५, २, ११७) ।

r) < √कण् इति । s) = अभिलाषातिशय- ।

कणे-हृत- -तः या ५, ११.
 कणीक- पाठना ४, २६.
 कणीचि- पाठ ४, ७०.
 कणूक^३- पाठभो २, २, २७.
 ✓कण्ट^४, कण्टति निघ २, १४^१.
 कण्ट^५- ण्टेषु विध ४३, ४३^६.
 कण्टक^६- पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०^७;
 ५, २, ३६; -कः या ९, ३२^८;
 -कम् अप ३६, ११, १; -कैः
 आप्रथौ २२, ४, २५; काश्रौ २२,
 ३, २२; हिश्रौ १७, २, २९; अप
 २६, ५, २; विध ४३, ३५.
 काण्ट(क>) की^९- कीम्
 आप्रथौ १५, १, १; २, ५, ११; ७,
 १; ११, ९; भाश्रौ ११, १, १; २;
 ५, १४; ११, १०; १२, ७; हिश्रौ
 २४, १, १; २; ३, ५; ११; ५, २;
 वैश्रौ १३, १ : ४.
 कण्टक-मर्दन- (>काण्टकमर्दनिक-
 पा.) पाग ४, ४, १९.
 कण्टक-श(व्य>)ल्या^{१०}- स्यया
 कौसू ३५, २८.
 कण्टक-शायिन्^१- यिनः वैध १,
 ८, १.
 कण्टक-शाल्मलि^१- लिलः विध ४३,
 १९.
 कण्टकिक^{११}- पा ४, २, ८०.
 कण्टकित- पा ५, २, ३६.
 कण्टकिन्- किनः द्रागृ ४, २, ८;
 हिपि १ : ६; याशि १, ३७;
 नाशि २, ८, ४; -किनम् आमिगृ
 २, ३, ५ : ३.
 कण्टकिनी- नीम् गौपि १,

४, ४; सुध ५६.
 कण्टकि-शीरिन्- -रिणः आगृ
 २, ७, ५; ४, १, १४^१.
 कण्टकि-ज- -जम् विध ६६, ७;
 ८; -जानि विध ७९, ५; ६.
 कण्टकिल- पा ४, २, ८०.
 ?कण्टको(क-ऊ)पर-वत्- -वति
 काध २७७ : १^१.
 कण्टकार^{१२}- (>काण्टकार- पा.)
 पाग ४, ३, १५४.
 कण्टकारिका^{१३}- पा, पाग ४, ३,
 १६७.
 ✓कण्ट^{१४} पाधा. भ्वा. आत्म. लु. उभ.
 शोके, कण्टति निघ २, १४^१.
 कण्ट^{१५}- पाठ १, १०३; -ण्टः आप्रथौ
 १२, ९, ४; अप; -ण्टम् काश्रौ
 २५, १०, ७; माश्रौ; -ण्टस्य
 ऋप्रा १३, १; पाशि २०; -ण्टात्
 कागृ ४६ : १४; भासू ३, १९;
 माशि १, ११; १२; नाशि १, ५,
 ५; ६; -ण्टे शाश्रौ ४, १४, २१;
 काश्रौ; -ण्टेन माशि ४, ४; -ण्टेषु
 काश्रौ १६, १, १८.
 कण्ट-नाडु- पाग २, २, ३७.
 कण्ट-गत- -तेन माशि ४, ५.
 कण्ट-(न>)गा- -गाभिः वाध ३,
 ३२; शंघ ९३; ९४; वैध २,
 १०, १.
 कण्ट-ज- -जाः शैशि ४२.
 कण्ट-जालु-> लव्य- -ज्यौ शैशि
 ४४; पाशि १९; आशि १, २२.
 कण्ट-देश- -शो अप ४७, २, ६.
 कण्ट-नासिका-> स्तिक्व- -क्वम्

आशि १, २०.
 कण्ट-पृष्ठ-शीवा-जङ्घ- -ङ्घम् पा ६,
 २, ११४.
 कण्ट-प्रावृत्-> ता(त-अ)वसविय-
 का(का-अ) पाश्रयण-पादप्रसा-
 रण- -गानि गौध २, २०.
 कण्ट-वन्ध^{१६}- -न्धम् माश्रौ ५, १, ५,
 ३५.
 कण्ट-विल- -लम् आशि ८, ९;
 -लस्य आशि ८, २०; २१; -लै
 आशि ८, १०.
 कण्ट-मात्र- -त्रम् सुधप ८७ : ९.
 कण्ट-युक्त- -क्तम् नाशि १, ३, ३.
 कण्ट-शीर्ष-समाहृत- -तः नाशि १,
 ५, ८; ९.
 कण्ट-सक्त- -क्ते वैश्र १, ५ : १२.
 कण्ट-स्थान- -नम् नाशि १, ७, २.
 कण्ट-स्थान^{१७}- -नौ तैप्रा २, ४६.
 कण्ट-हस्त- -स्तेन अप १, २७, ४.
 कण्टे-विट्ट^{१८}-> काण्टेविद्धि- -द्धिः
 वौश्रौप्र ४५ : ४.
 काण्टेविद्धी-, काण्टेविद्ध्या-
 पा ४, १, ८१^{१९}.
 कण्टो(ण्ट-उ)क्ति^{१९}- -क्ति भाशि
 १२९.
 कण्टो(ण्ट-उ)रम्- -रसोः तैप्रा २,
 २.
 कण्टो(ण्ट-ओ)ष्ट-> ष्ट-ज- -जौ
 शैशि ४४; पाशि १९.
 कण्टोष्य- -ष्यौ आशि १, २३.
 कण्ट्य, ण्ट्या- -ण्ट्यः ऋप्रा १,
 ३८; श्रुपा ४, ४९; -ण्ट्यम् अप
 ४७, २, ७; पाशि १६; याशि २,

a) = धान्य-स्तोक । वैप १ द्र. । b) या ९, ३२ परानृष्टः द्र. । c) = कण्टक- । व्यु. ? । d) ण्टेषु
 श्रुति जीसं. । e) < ✓कृत् वा ✓कण्ट वा कम् (< किम्-) + तप- (< ✓तप्) वेति या. । वैप १ द्र. ।
 f) स्रुत् तु. पाका. । g) विप. । मन्त्रार्थायः लण् प्र. (पा ५, २, १०३) । h) विप. । वस. । i) = वानप्रस्थ-
 विशेष- । j) = नरक-विशेष- । k) = देश-विशेष- ? । l) पाठः ? 'वत्-स्थल' इति शोधः संभाव्येत ।
 m) = श्रोतविशेष- । व्यु. ? । n) धा. गतौ श्रुतिः । o) वैप १ द्र. । p) = ऋषि-विशेष- । q) ष्टे इति पासि. ।

५७; -ण्वयोः ऋप्रा १४, १२;
 -ण्वस्य ऋप्रा १३, १२; याशि
 २, २०; -ण्व्या शुप्रा १, ७३;
 -ण्व्याः शुप्रा १, ८४; ८, ३२;
 शैशि ३२४; याशि २, १; ९४;
 आशि १, ७; -ण्व्यात् ऋप्रा १४,
 ३१; शुप्रा ४, ५३; -ण्व्यानाम्
 शौच १, १९; -ण्व्याभिः वौध
 १, ५, १८; -ण्व्ये ऋप्रा १४, ६२;
 ऋत ५, ३, ५; -ण्व्यौ ऋप्रा २,
 ३२; ६२; पाशि १७.
 कण्व-जिह्वामूलीय-तालव्य-मू-
 र्धन्य-दन्त्यो(न्त्य-ओ)ण्व-यमा-
 (म-अ)नुस्वार-विसर्जनीयो(य-उ)
 पध्मानीय-नासिक्या(क्य-अ)नु-
 नासिक्य-रङ्ग- -ज्ञाः याशि २, १.
 कण्व-दन्त्य-पर- -रे ऋत ४,
 १, ७.
 कण्व-पूर्व- -र्वः शुप्रा ४, ३८.
 कण्व-स्वर- -रः भास् ३, ११;
 -रम् शुप्रा ७, २.
 √कण्व पाधा. भ्वा. आत्म. पर. मदे;
 तु. पर. भेदने.
 कण्डन^a->नी-नी शंघ १३१;
 विध ५९, १९.
 कण्डन-प्रक्षालन- -ने विध २३,
 ३५.
 क(एडक->)ण्डिका- -के शुभ्र ३,
 १३६.
 कण्डु, ण्डु^b- पाठभो २, १, ५१०;
 पाग ३, १, २७; ५, २, ९७^d; ४,
 ३४; पावा ५, २, १०७^e.
 काण्डविक- पा ५, ४, ३४.
 कण्डु, ण्डु-ल- पा ५, २, ९७.

कण्डु√कृ>कण्डु-कृ(त>)
 ता^f- -ता वौश्रौ १६, २४; १३;
 २६, १८ : ७.
 √कण्डूय पा ३, १, २७; कण्डूयते
 आपश्रौ १०, १०, २; वौश्रौ ६, ५;
 २१; भाश्रौ १०, ६, १६; ८, ३; माश्रौ
 २, १, २, १३; वैश्रौ १२, ९ : ७;
 हिश्रौ १०, २, १०; ६७; कण्डूयति
 भाश्रौ १०, ६, १६; कण्डूयासै
 वौश्रौ ६, ६ : ३^g; कण्डूयस्व
 वौश्रौ ६, ५ : २२; कण्डूयेत
 माश्रौ २, १, २, १४; २, ४, ४४;
 कण्डूयेत् कौश्रु ३, ११, १९; शांश्रु
 ४, १२, १८; विध ७१, ५३;
 कण्डूयथाः वौश्रौ ६, ६ : २.
 कण्डूति- -त्याम् वैश्रौ १२,
 ९ : ७.
 कण्डूय^h वौश्रौ २८, ९ : २३;
 वैश्रौ २१, २ : ९.
 कण्डूयनⁱ- -नम् विध २३,
 ६०; काश्रौ ७, ३, २६; भाश्रौ
 १०, ९, ८; -ने काश्रौ ७, ४, ८;
 मीसू ११, ४, ४९.
 कण्डूयनी- -न्या
 काश्रौ १५, ६, ८.
 कण्डूयन-मन्त्र- -न्त्रः
 हिश्रौ १, १, ४१.
 कण्डूयन-स्वप्न-नदीतरा-
 (र-अ)ववर्षणा(ण-अ)मेध्य-प्रति-
 मन्त्रण- -णेषु आपश्रौ २४, १,
 ४०.
 कण्डूयमान- -नम् वैश्रौ
 १२, ९ : ९.
 कण्डुवा(ण्डु-आ)दि- -दिभ्यः

पा, पावा ३, १, २७; -दिषु
 पावा ३, १, ९१; -दीनाम् पावा
 ६, १, ३.
 कण्डर^e-(>√कण्डराय पा.) पाग
 ३, १, १२^f.
 कण्डिनी^h-(>कण्डिन्य- पा.)
 पाग ४, १, १०५, २, १११.
 कण्डु(>कण्डव-) १खण्डु- ति. द्र.
 कण्डुल- पाठभो २, ३, ११२.
 कण्डोल, क- (> कण्डोल-पाद-,
 कण्डोल-क-पाद- पा.) पाठवृ
 १, ६६; पाग ५, ४, १३८.
 कण्डुवाⁱ- >√कण्डुवाय पावा ३,
 १, १७.
 कण्व^j- पाठ १, १५१; पाग ४, १,
 १०५; २, १११; -ण्वः अप ४८,
 ८५^k; निघ ३, १५^l; आपध १,
 १९, ३; हिघ १, ५, १०५; ऋथ
 २, १, ३६; ९, ९४; वृदे ६, ३५;
 ३७; शुभ्र २, ४४; ३१०; ३,
 २४९; ४, ३९; साश्र १, ५४;
 १३६; २२१; -ण्वस्य ऋश्र २,
 ८, १; वृदे ६, ३६; या ३, १७;
 -ण्वाः^k आपश्रौ १३, २१, ३^f;
 २४, ८, २; वौश्रौ २१ : १;
 ३; हिश्रौ ९, ५, ४२^f; निस् ४,
 ८ : ५; वृदे ४, ९८; तैप्रा १३,
 ९^f; -ण्णवाः काश्रु २२, १;
 या ७, २^f; -ण्वानाम्^k आश्रौ
 १२, १३, १; वैध ४, ३, ५;
 -ण्वाय भाश्रु ३, ११ : ३; या
 ६, ६^f; -ण्वासः ऋप्रा ४,
 ६१^f.
 कण्व^j- -ण्व आश्रौ १२;

a) भाप., नाप. (अज्ञशोधन-साधन-). b) गात्रविधर्षणे धा. वृत्तिः। c) <√कण्व इति। d) ण्डु-
 इति पाका., ण्डु इति पागम., गण्डु- इति भाण्डा.। e) तु. पागम.। f) = उपध्वस्ता-। g) = कण्डूयित्वा।
 h) तु. पाशि.। कुण्डिन- इति पाका., कुण्डिनी- इति भाण्डा.। i) = कृपा- (तु. पागम.)। j) वैप १ द्र.।
 k) वैप १, १०८३ व द्र.। l) वैप १, १०८४ व द्र.।

१३, १?^a; आपथ्रौ २४, ८, ३;
वौथ्रौप्र २१ : ३; वैध ४, ३, ५;
-ण्वः शांथ्रौ १६, ११, २०;
ऋथ्र २, १, १२; ४४; ८, १;
७६; ८१; वृदे ६, ३९; शुथ्र;
-ण्वम् लाथ्रौ ६, ११, ४; क्षुसू^b
१, ४ : ५; १५; २, १० : २०;
११ : १८; वौध २, ५, २७;
-ण्वस्य वृदे ६, ५८; शुप्रा १,
१२३; १४९; -ण्वाः चव्यू २ :
३६; -ण्वाय वौगृ ३, ९, ६.

काण्वी^c -ण्वीम् आथ्रौ
४, ७, ४^d; -ण्व्यौ वृदे ४, १००.

काण्व-कुत्स- स्तौ आपथ
१, १९, ७^d.

काण्व-गोपायन- नौ आपथ
३, ५, ८.

काण्व-पुष्करसादि- -त्री
आपथ १, २८, १; हिध १, ७,
३७.

काण्व-रोहितकूलीय^e -ये
लाथ्रौ ६, ११, ४.

काण्वायन^f - नस्य चाथ्र २ :
१६; ४ : १; १४ : ६; -नाः
वौथ्रौप्र २४ : १; -नाः शुप्रा
८, २०^g; -नौ ऋथ्र २, ८, १४;
साथ्र १, १२३; १२४; २१२;
३८४; २, ९९५.

काण्वि^h -ण्वयः वौथ्रौप्र ५ : १.

काण्व- पा ४, १, १०५.

२काण्व- पा ४, २, १११;

पावा ४, २, १०४.

कण्व-कश्यपⁱ -नेभ्यः आपथ्रौ
१३, ७, ५; वैथ्रौ १६, ८ : २;

हिथ्रौ १०, ४, ६६.

कण्व-कश्यप-याचमान-वर्जम् काथ्रौ
१०, २, ३२.

कण्व-कश्यप-संकृति- -तीनाम्
माथ्रौ ५, १, १, १७.

कण्व-कौत्स- -स्तौ हिध १, ५,
१०९^d.

कण्व-चिकीर्षा- -र्षायाम् पावा ३,
१, १४.

कण्व-पत्नी- -न्त्याः वृदे ६, ३६.

कण्व-प्रभव^h -वः या ३, १७.

कण्व-वृहत्ⁱ -हत् क्षुस् २, १० :
१२; ११ : ५; ३, ४ : १; ३.

कण्व-वृहत्-कारिन्- -री जुसू ३,
९ : ३; १३.

कण्व-रथन्तर^j -रम् आथ्रौ ९, ८,
११; शांथ्रौ १३, १६, ५; आपथ्रौ
२२, १२, १८; वौथ्रौ १८, ७ :
१३; हिथ्रौ १८, २, १; जुसू २,
१० : १०; ११ : ३; १५ : २८; २९;
३, ३ : ९; १४; निस् १, १३ :
१४; ७, ४ : २१; ९, ५ : १९;
६ : ३०; १० : ३५; -रस्य शांथ्रौ
१०, ९, १४.

कण्व-रथन्तर-मध्यन्दिन- -नम्
जुसू २, १५ : २१.

कण्व-रथन्तर-बौधाजय- -ये
जुसू २, १५ : ३०.

कण्व-रथन्तर-सामन्- -न्ना
आपथ्रौ २२, १०, ४; हिथ्रौ १७,
४, २०.

कण्व-वत् आपथ्रौ २४, ८, ३;
वौथ्रौप्र २० : ४; वैध ४,
३, ५.

कण्व-संकृति- -तीनाम् शांथ्रौ १,
७, ३.

कण्वा(ख-अ)ङ्गिरो(रस्-अ)गस्य-
शुनक- -काः ऋथ्र ३, १०.

कण्वा(ख-अ)दि-वत् पावा ४, १,
१५१.

✓कण्वाय पा ३, १, १७.

कण्वा(ख-अ)श्रम- -मे विध ८५,
३०.

कत^k - पाग ४, १, १०५^l; २, ८०^l; ३,
९२^k; -तः ऋथ्र २, ३, १७;
-ताः^l आथ्रौ १२, १३, २;
आपथ्रौ २४, ७, ३; वौथ्रौप्र ३५ :
१; ३; हिथ्रौ २१, ३, १०; १८;
-तानाम् आथ्रौ १२, १४, ६;
आपथ्रौ २४, ९, ११; वैध ४, १,
९^m.

कात्य- पा ४, १, १०५; ३, ९२;
-०त्य आथ्रौ १२, १३, ६; १४,
६; २४, ७, ४; ५; ९, ११;
वौथ्रौप्र ३५ : ४; हिथ्रौ २१, ३,
१०ⁿ; १२; वैध ४, १, ९ⁿ; -त्यः
वौथ्रौ २, १५ : ६; ७, ४ : २४;
११, २ : ३०; २०, ४ : २६;
५ : ३३; १६ : ४०; ५१; वौध
१, २, ४७; ऋथ्र २, ३, १५; शुथ्र
२, ५३; साथ्र १, ६०; -त्यस्य
शुथ्र २, ३५९.

कात्यायन^o - नः वौथ्रौ २३,
७ : २; कप्र २, ७, ७; ९, ४; ३,
७, ११; शंथ्र २०७; काशु ७,
१४; शुप्रा ८, ५३; -नम् शांथ्र
६, १, १; शंथ्र १६६ : ४१;
-नेन काथ्रौसं ३६ : १; कप्र ३,

a) °क इति पाठः? यनि. शोधः । b) = साम-विशेष- । c) = ऋग-विशेष- । d) सपा. काण्वकु° <>
कण्व-कौ° इति पाठे. । e) साम्नोः द्वस. । f) वैप १ द्र. । g) ऋषि-विशेष- । h) विप. । उस. । i) कपि-
कत- इति भाण्डा. । कपिकत- इति पाका. । j) अर्थः व्यु. च? । k) तु. पागम. । l) बहु. <कात्य- ।
m) काता इति पाठः? यनि. शोधः । n) कात इति पाठः? यनि. शोधः ।

७, ६; -नौ अप १, ३, १.
 कात्यायनी- पा ४,
 १, १८.
 कात्यायन-महात्मन्-
 -मनः काशु ७, ३९.
 कात्यायन-वचस्- -चः
 कप्र २, ९, २४.
 कत-वन् आप्रथौ २४, ७, ४; ५;
 ९, ११; वौश्रौप्र ३५ : ४; हिश्रौ
 २१, ३, १०^३; १२; वैध ४, १,
 ९^२.
 कतिक पा ४, २, ८०^b.
 कतक- (> कातक- पा.) पाग ५,
 १, १३०^c.
 कतम-, कतर-, कति- किम्- द्र.
 कत्त्रि^d- (> कात्त्रेयक- पा.) पाग
 ४, २, ९५.
 √कत्थ^e पाधा. भ्वा. आत्म. श्लाघायाम्.
 कत्यना- -ना वृद्धे १, ३५; ५१.
 कात्थक->कात्थक्य^e- -क्यः या ८,
 ५; ६; १०; १७; ९, ४१; ४२;
 साअ २, ६९७^२.
 कात्थपय^f- -यम् निघ ४, ३; या ६,
 ३३^३.
 √कत्थ^g पाधा. चुरा. उभ. शैथिल्ये.
 कत्त्रि- पाठभो २, १, २२६.
 √कत्थ^h पाधा. चुरा. उभ. वाक्यप्रवन्धे,
 कथयति अप २४, ५, ४;
 कथयन्ति वृद्धे ३, ७३; ४, ३४;
 कथयामि अप ६९, १, ३;
 कथयस्व अप २९, १, २;
 कथयेत् अप २९, २, ३; आपध
 १, ८, ६; हिध १, २, ९४;

कथयेयुः द्राश्रौ ९, ४, १५.
 कथ्यते जैश्रौका ८६; शंघ;
 कथ्यन्ते वृद्धे १, ९३.
 कथन- -नम् कौशि ६५; -नात्
 माशि १६, १४.
 कथा- पा ३, ३, १०५; पाग ४, ४,
 १०२; -था विध २०, २५;
 -थाः आगृ ४, ६, ६; विध
 ३२, १०; -थाभिः गौपि १, ४, २.
 काथिक- पा ४, ४, १०२.
 कथित, ता- -तः अप २५, २, ४;
 विध ५, १९३; वृद्धे ६, १०१;
 -तस् अप २२, १०, १; २३, ९,
 ५; वाध १२, १५; या ११, ७;
 -ता शंघ १८२; विध २३,
 ४६; वृद्धे ३, १२३; -ताः विध
 ८२, ३; -तानि वृद्धे ३, १५४;
 -ताभ्यः वृद्धे ४, ६; -त्रे वृद्धे
 ३, ६९; पावा १, ४, ५१.
 कथित-देवता->०त्य- -त्यम्
 वृद्धे ५, ५.
 कथिता(त-अ)नुकथन-मात्र-
 -त्रम् पावा २, ४, ३२.
 कथेर- पाठना १, ५७.
 कथ्यमान- -नम् अप ७०, १, ३;
 वृद्धे १, १०५.
 कथकⁱ- (> काथक्य->काथक्याय-
 (न>)नी- पा. यक.) पाग ४,
 १, १०५; १८.
 कथम्, कथा किम्- द्र.
 कद्- किम्- द्र.
 कदम्ब^j- पाग ५, ४, ३^१; पाठ ४, ८२;
 -म्बः याशि १, ३६; नाशि २,

८, ४; -म्बस्य माशि ४, १; अप
 २६, ५, २.
 कदम्ब-क- पा ५, ४, ३.
 रकदर, ल^k- (> री, ली- पाठवृ १,
 १०८] पा.) पाठभो २, ३, ३८^१;
 पाग ४, १, ४१.
 कदली-स्तम्भ- -म्भे कप्र ३, ३, ५.
 रकदल^m- (> कादलैयⁿ- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 कदा किम्- द्र.
 कदामत्त^o- पा, पाग २, ४, ६९.
 कदूरक^p (> कादूरक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 √कद्रा^q, कद्राति, चकद्राति या २,
 ३३^३.
 चकद्र^r- -द्रः या २, ३.
 रकट्ट^s- पाग ५, २, १००; -हु
 काश्रौ २२, ४, १४; -हुः वौश्रौ
 २४, ३८ : ९.
 कट्ट-ण- पा ५, २, १००.
 रकट्ट, ट्ट^t- पा २, ४, ६३; ४, १, ७१;
 ७२; पाग २, ४, ६३; ४, १,
 १२३; -ण्टु सु ६, २; ५; -हुवै
 वौगृ २, ८, १२; -हुः वाधश्रौ
 ४, ५० : १०^३; ६४ : १; २; ५;
 सु ५, ३^३; ९, २; वृद्धे ५, १४५;
 भाशि १७^३; -द्रुम् वाधश्रौ ४,
 ६४ : २; सु ७, ५; -द्वा सु २,
 २; ५, १; १०, १.
 काद्रवेय- पा ४, १, १२३; -यः
 आश्रौ १०, ७, ५; शाश्रौ १६, २,
 १३; सु २३, ३; ऋअ २, १०,
 ९४; साअ १, ६३१-३४; -याः

a) कात^o इति पाठः? यनि. शोघः । b) = देश-विशेष-? । c) तु. पाका. कुतुक- इति भाण्डा. । d) = गर्दभी-
 (तु. पागम ३१५) । व्यु. ? । e) = आचार्य-विशेष- । f) वैप १ द्र. । g) √कर्त्, कर्त् इति [पक्षे] BPG. ।
 h) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । i) = वृत्त-विशेष- । व्यु. ? । j) तु. पागम. । k) नाप. । व्यु. ? । कन्दल- इति पाका. ।
 l) = श्वेत-खदिर- । m) अर्थः व्यु. च ? । n) व्यप. व्यु. ? । o) तु. पासि. । खदूरक- इति पाका., खदूरक- इति
 भाण्डा. । p) यनि. नैप्र. < कद् √ द्रा । q) तु. टि. विश्वकद्- । r) विप., नाप. (वर्ण-विशेष-) । s) नाप., व्यप. ।
 वैप४-तृ-१०

सु २९, २.
 कटु-नामन्^० - मा सु २, १.
 कटु-पुत्र- आन् आमिष्ट २, ४, ८ :
 ९; -त्रेभ्यः आमिष्ट २, ४, ८, ५.
 कटुयञ्च्- किम्-द्र.
 कटुचिन्दुकोष्ट^० - छैः कौस्तुभ, ३०.
 कटु^० > कटु-श्री^० - ०प्रियः शाश्रौ
 १०, १०, ८१.
 कटु^० पाषा. भ्वा. पर. दीप्तिकान्ति-
 गतिपु, कनकति अप ४८, ३; निघ
 २, ६.
 कटुकाकन्व आश्रौ ८, ११, ४०;
 अप ४८, ३; निघ २, ६; ३,
 ११; कटुकाकन् शाश्रौ १८, १, ६;
 वैताश्रौ ३२, १०; निघ ४, ३; या
 ६, २८०.
 कटुकानिपत् अप ४८, ३; निघ
 २, ६; कानिपः आश्रौ ५, ४, ६१.
 कनक^१ - पाउट्ट २, ३२; -कम् अप
 ४८, ११; ६८, ३, ४; अशां १२,
 ३; वाध २८, १७; विध ९, ४;
 ७८, २१; निघ १, २१; या १४,
 ३०; -काः अप १४, १, ८; ५२,
 २, ५६; ६, २; -कानाम् अप १७,
 १, ८; -के अप ६७, ८, २.
 कनक-किञ्जल्क-तडित्-कल्प-
 -ल्पाः अप ५८, १, ७.
 कनक-पिङ्गल^० - लाः अप
 ६८, १, १३.
 कनक-मणि-रजत-राहु-शुक्ल^० (क्ति-अ)
 द्वा^० (इजो) पल- -लानाम् सुघ
 २७.
 कनक-रजत- -तम् विघ ७८, ४७.

कनका(क-आमा>)भ^० - भः
 माशि १, १३; नाशि १, ४, १.
 कन^० > कनिष्ठ, छा- पा ५, ३, ६४;
 पा, पाग ४, १, ४; -ष्टम् वैगृ ६६:
 २; -ष्टया वैश्रौ १२, १७ : १७;
 १८; काय २४, १३; -ष्टायाम्
 माशि २, २; नाशि १, ७, ४.
 कनिष्ठ-कुल-> कनिष्ठकुलीन^१-
 -नस्य शाश्रौ १४, ३, १, १.
 कनिष्ठा(ष्ट-अ)कुलि-नाह^१ - हाः
 वैश्रौ १३, ११ : २.
 कनिष्ठा(ष्ट-अ)कुलि-मूल- -लम्
 वैगृ १, ५ : ७.
 कनिष्ठा(ष्टा-अ)हुष्ट- -ष्टयोः कप्र
 १, १, ७.
 कनिष्ठाहुष्ट-योग- -गेन शंघ
 ४५७-४५८ : ४.
 कनिष्ठा(ष्टा-आ)दि- -दि वैगृ ३,
 २२ : १०.
 कनिष्ठाद्य(दि-अ) कुल्य (लि-
 अ)प्र- -आणि वैगृ २, ६ : ८-९.
 कनिष्ठाद्ये(दि-ए)कैका(क-अ)
 कुलि- -ल्या वैश्रौ १२, १७ : १६.
 कनिष्ठ(क>)ष्टिका^० - पाग
 ५, ३, १०७^६; -क्या काश्रौ ७,
 ७, १३; आपश्रौ १०, २४, ८;
 आमिष्ट २, ३, १ : ९; वैगृ ६६ :
 २; -कस्य वैगृ १, २ : ८^१;
 -का कौशि ३८; -कायाम्
 आमिष्ट २, ६, १ : १०; शैशि
 १७९; -के वैश्रौ १२, १० :
 २; १२ : २१.
 कानिष्ठिक- पा ५, ३,

१०७.
 कनिष्ठिका-तल- -लयोः शंघ
 ५४.
 कनिष्ठिका-तत्सः (ः) आपश्रौ
 १०, ५, १२; भाश्रौ १०, ३, १९;
 माश्रौ १, ४, १, ३; २, १, ४, ३;
 हिश्रौ ७, १, ३८.
 कनिष्ठिका-प्रभृति- -तिभिः
 माश्रौ २, १, ४, ३.
 कनीयस्- पा ५, ३, ६४; -यः
 शाश्रौ १५, २२, १; आपश्रौ ४,
 ८, ५१; ६, ११, २; २६, २७, २११;
 वौश्रौ १, १२ : ५४××; भाश्रौ;
 -यःऽ-यः आपश्रौ १०, ६, ९;
 भाश्रौ १०, ४, ६; वैश्रौ १२, ७ :
 २; हिश्रौ १०, १, ४२; -यसः
 वौश्र २ : १; -यसम् जैगृ १,
 ३ : ५; -यसा या ३, १३;
 -यसाम् वौश्रौ १८, २६ : २;
 २६, ३३ : १; विघ- ३२, ४;
 -यसि द्राश्रौ ९, ३, २१; लाश्रौ
 ३, ७, ७; -यांसः शाश्रौ १५,
 २६, १३; तैप्रा १६, १३१;
 -यांसम् वौश्रौ २, ९ : २२;
 आपश्रु १०, १४१; वौश्र ५ :
 १२१; हिश्रु ३, ५४१; या ३,
 १३; -यांसि वाधूश्रौ ४, १०० :
 १; -यांसौ निस् ६, १२ : ९;
 -यान् वाधूश्रौ ३, ८३ : १०;
 निस् २, १२ : २८; लाश्रौ ६,
 ७, ५; वौध २, ६, ३२१; १०,
 ८; वृदे ४, १२; ६, ३६; ७, १३;
 १५६; या २, १०.

a) विप. १ वस. १ b) अर्थः व्यु. च?। c) वैप १ द्र. १ d) या ४, १५ परानुष्टः द्र. १ e) पाभे.
 वैप १, ११७१ a द्र. १ f) = सुपर्यन्त, तद्वर्णवन्तः। g) = [शनिश्चरसुत] ग्रह-विशेष-। h) अपत्यार्थे स्वः > ईनः
 प्र. (पा ४, १, १३९)। i) कस. > वस. १ j) = कनिष्ठा-। k) कपिष्ठिका- इति [पक्षे] पासि. कपिष्ठिक-
 पिष्ठिका- इति पाका. कनिष्ठिक- , पिष्ठिका- इति [पक्षे] भारवा. l) पाठः? कनिष्ठस्य (वु. नूको.) यद्वा
 कनिष्ठस्य इति शोधः।

कनीयसी-सी अप ५९, १, ६; -सीम् वैश्रौ २, ४ : ९; जैगृ १, २० : ३; -स्याः शंघ ५७; ४५६.

कनीयसाम्-उक्य-क्यः
वौश्रौ १८, २६ : २; २६, ३३ : १.

कनीयो(यस्-अ)क्ष (र>)रा^३-
-राभिः लुस् १, ७ : २६.

कनीयो-वादिन्-दी भास्
३, ६.

कनक-प्रसू. √कन् द्र.

कनखल^b-ले विध ८५, १४.

कनल^c-(>कानलक^d) पा ४, २, ८०.

१*कनि^e-> १*कनीन, ना^e- नः
आश्रौ ९, ५, १६; -नाः शाश्रौ
८, २०, १; -ने^f आपश्रौ ७, ५, १;
भाश्रौ ७, ४, १; वैश्रौ १०, ४ :
१३; हिश्रौ ४, १, ६२.

२*कनि->कनी^e-कनीनाम् आपमं
५, १२; आगृ १, ४, ८; वागृ १६,
७; या १०, २, १७.

३*कन्य^e->कन्य-(ल>)ला-

-ला आपमं १, ४, ४; वौगृ १, ४,
१७; गौगृ २, २, ८; जैगृ १,
२१ : २०^३; द्रागृ १, ३, २४;
-लाः अश्र १४, २; अप्रा २,
१, १.

२क(न्य>)न्या^e- पाठ ४, ११२;
पागृ ६, २, १९४; फि ७६;
-न्ययोः या ४, १५; -न्या आश्रौ
२, ८, ३१^३; ३, ७, ६१^३; ५, २०, ६;
कशाश्रौ ६, १०, २; १२, २१, ३;

४; हिश्रौ २२, ३, ४१^३; पागृ
१, ६, २१^३; आमिगृ ३, १०, १ :
६; कागृ १७, २; वौगृ ४, १, ९-
११; वौपि ३, ५, २; मागृ १, ८,
२; वागृ १३, ४; कशाश्रौ १८^३;
२१^३; वैगृ ३, १ : ३; जैगृ १,
२१ : २३^३; कप्र १, ६, १३;
१४; अप १, ४३, ८, ४४, ३; १४,
१, ८; ६८, २, १९; ४४; ६९, ४, ५;
सुधप ८८ : ६; वौध ४, १, १७^३;
विध २४, ४०; ४१^३; वाध १७,
६९; ७३^३; शंघ २७६; २२८;
ऋश्र २, ८, ९१^३; वृदे ५, ५८;
६, ७६; ९९; १०१^३; १०७; या
२, २७; ४, १५^३; आज्यो ३,
६^३; १४, १; ५; -कन्याः
आपश्रौ १७, १८, १; आपमं
१, ५, ७; आगृ १, ७, १३^३;
कौगृ १, ११, ४^३; शागृ १,
१८, ३^३; कशाश्रौ १७, २; २५,
३०; ३५; वौपि २, ३, १२^३;
मागृ १, ११, १२; २, १४,
१५; वागृ १३, ४^३; हिपि
१२ : ११; काध २८० : १;
वृदे ३, १४६; -न्यानाम्
शागृ १, २८, २२; वौगृ ३,
१३, ८; वौपि २, ३, ११,
३, ६, १; शंघ ३४९; या १०,
२१; आज्यो ३, ५; -न्याम्
आश्रौ ५, १३, १७; भाश्रौ ७,
१६, १४; माश्रौ ४, ७, २;
आगृ १, ५, २; ६, १; कौगृ १,
२, २; ७, १^३; ८, १३; ९,
१३; शागृ १, ६, ४; ११, १;

२, ४; १२, ११; १५, ९; आमिगृ
१, ६, १ : २; कागृ १७, १; २२,
१; मागृ १, ७, ८; १०; ८, ९;
११; १०, ७; ११, ६; वागृ १०,
८; १३, १; ६; १४, १३; वैगृ
३, १ : ४; ६-८; २ : २;
५, ९ : ८; १०; ६, १२-१३ :
१; अप १, १०, २; ३६, ६, १;
६८, ४, २; वाध १, ३१; १७,
१७; ७०; ७१; वौध ४, १, १२;
१३; विध ५, ४५; १६०; २४,
३३; ७८, ३७; गौध ९, ३२;
काध २८१ : ८; वृदे ५, ५६;
६६; ७६; आज्यो ३, ६; १३,
६; -न्यायाः कौगृ १, २, ३;
शागृ १, ६, ६; कागृ १४, ६;
२५, २०; वागृ ३, ३; ४, २५;
१३, २; वैगृ ३, १९ : १०; ५,
११ : ७; ६, ४ : २; १३ : ३;
अप ३६, ६, ३; वृदे ५, ६०;
-न्यायाम् शंघ ३३२; ३६६;
-न्यायै कागृ १८, १; -न्यासु
वौध १, ५, ९४; काध २८१ : २;
-न्ये मागृ १, १०, १७^३.
कन्यका- पावाग ७, ३, ४५;
-का कप्र १, १०, १२^३; -काम्
कप्र १, ६, १५; -के^f या ४, १५.
कन्या-काम-मः अप ३६,
६, १.
कन्या-कुमार-सौ वैगृ ७, २ :
७.
कन्या-गमन-प्रायश्चित्त-त्तम्
वैगृ ६, १२ : १४.
कन्या-गृह-हम् वैगृ ३, २ :

a) वैप २, ३खं. द्र. । b) = तीर्थ-विशेष- । व्यु. १ । c) अर्थः व्यु. च १ । विप. इति MW. १

d) = देश-विशेष- ? । e) वैप १ द्र. । f) विप. (वेदि-) । g) पाठः ? न्याः इति शोधः (उ-

कागृ २५, ३० प्रसू. Old. च) । h) कन्यानाम् इति मैसू. । i) नारी इति BI १. । j) वैप १.

१०८६ ४ द्र. ।

४; १०.
 कन्या(न्या-अ) न्यु (त्रि-उ)-
 पयम-भेषु गौध १८, १९.
 कन्या(न्या-अ)दातृ-याजक-
 -कानाम् सुधप ८६: ४.
 कन्या-दान- -नम् विध २४,
 १९; ३७, १७; वौध १, ११, २;
 -ने वृदे ३, १४४; -नेन वाध
 २९, १८.
 कन्या-दूषक- -कः शंघ ३७७: १२
 कन्या-दूषण- -णम् वौध २, १,
 ४४.
 कन्या-दूषिन्- -पी शंघ ३७८;
 ४१४.
 कन्या-दोषिन्^३- -पी शंघ ४१५.
 कन्या(न्या-अ)नृत- -ने वाध
 १६, ३४.
 कन्यानृत-गवानृत- -नम् अप
 ९, ३, ४.
 कन्या-प्रजा(जा-अ)र्थ- -र्थम्
 आज्यो ८, ५.
 कन्या-प्रद- -दः वैगृ २, १५:
 १४; ३, २: ५; -दा: विध २४, ३८.
 कन्या-प्रदान- -नम् आज्यो ८, ७
 कन्या-भाग- -गा: शंघ २९८.
 कन्या-वत्- -ते वौध १, ११,
 ४; गौध ४, ८.
 कन्या-विवाह- -हः वैध ४, ८, ६.
 कन्या-सहस्र- -स्तेग अप २०,
 २, ७.
 कन्या-हरण- -णम् वैगृ ३, १:
 १०.
 कनिक्नत्- -क्नतम् अप्रा ३, २,
 १६^३.
 १कनिष्ट, घ्रा- *कन-द्र.

२कनिष्ट, घ्रा^८- पाग ४, १, १२६;
 फि २२; -घ: वौधौ २, ९:
 २०; कौस् ८१, ३३; ८५, २४;
 -घम् शाश्रौ १५, २०, १; सु
 ३०, ३; विध २६, २; -घस्य
 आपश्रौ २, १९, ४; ६, ४, १;
 वौधौ ३, ४: १८; भाश्रौ ६, ९,
 १; २; वाश्रौ १, १, १, ४१; ५, २,
 १२; हिश्रौ २, २, १९; ३, ७, १९;
 वाध १७, ४४; -घा: काश्रौ २२,
 ४, ५; निस् ६, ११: ३१; ३२;
 -घानाम् शाश्रौ १४, ७२, १;
 आपश्रौ २२, ५, १४; हिश्रौ १७,
 २, ४२.
 कनिष्टिन्य- पा ४, १, १२६;
 -यस्य आपश्रौ २, १९, ४; ६,
 ४, १; वौधौ ३, ४: १९; भाश्रौ
 ६, ९, १; २; वाश्रौ १, १, १,
 ४१; ५, २, १२; हिश्रौ २,
 २, १९; ३, ७, १९.
 कनिष्ट-ज्वल्य^९- -न्या: आगृ ४,
 २, ९.
 कनिष्ट-त्तस् (:) आपश्रौ ६, ७, ८.
 कनिष्ट-पूर्व- -र्वम् वैगृ ५, ६:
 १३; -र्वा: शाश्रौ ४, १५, ४;
 पागृ ३, १०, २३; गौपि १, २,
 ३७; ४, १४.
 कनिष्ट-प्रथम, मा^{१०}- -मा: आगृ ४, ४,
 १२; कौगृ ५, २, ९; आमिगृ ३,
 ४, ४: २२; ५, ३: ५; ४: ६;
 १४; २२; वौपि १, ३: ४; १६;
 २३; ३०; ३, ४, १६; १९; वैगृ
 ५, ५: ४; हिपि ४: ७; -मात्
 मागृ २, ७, ५.
 कनिष्ट-भार्या- -र्याम् शंघ ३९७.

कनिष्ट-यज्ञ- -ज्ञ: निस् ६, ११ =
 २०.

कनिष्टिका- प्रम्. कन-द्र.
 कनी- २कनि-द्र.
 कनीत->कनीत^{११}- -त: वृदे ६, ७९:
 -तस्य ऋअ २, ८, ४६^१; -ते
 शाश्रौ १६, ११, २३^१.

१कनीन- १^१कनि-द्र.

२कनीन^{१२}->कनीन- पा ४, १,
 ११६; -न: वाध १७, २१:
 शंघ २९२; वौध २, २, २४^१:
 विध १५, १०; -नम् वौध २,
 २, ३२.

कनीन-सहोद-पौनर्भव-पुत्रि-
 कापुत्र-स्वयंदत्त-क्रीत- -ता:
 गौध २८, ३४.

कनीन-(क>)का^{१३}- -नंका वृदे
 ४, १४४; या ४, १५; -के या
 ४, १५.

कनी(नक >)निका^{१४}- -नंका
 आपश्रौ १०, ७, १; वौधौ ६, २:
 १७; २२, ८: ११; भाश्रौ १०, ४,
 १२; माश्रौ २, १, १, ३८; वैश्रौ
 १२, ७: ६; हिश्रौ १०, १, ४४;
 मागृ १, ११, ८; -काम् वौधौ ६,
 १२: १५^१; अप २७, २, १;
 २८, २, १; -के विध ९६, ९२:
 तैप्रा ४, ११^१.

कनीनिका-मूल- -ले विध ६२, १.

कनीनी^{१५}->कनीन्य(नी-अ)प्र-
 सम-स्थौल्य^१- -ल्पम् विध.
 ६१, १६.

कनीयस्- कन-द्र.

कन्त- २क-द्र.

कन्तप^१- -प: या ९, ३२^६.

a) उस. उप.?, यद्वा ऊकाराऽभावः वैकल्पिकः उसं. (पा ६, ४, ९०) । b) पाभे. वैप १, १०८५ । द्र. । c) वैप १
 द्र. । d) विप. । वस. । e) पाप्र. तु <२कन्या- । f) वैप १, १०८६ । S द्र. । g) = अक्षि-तारक-, कनिष्ठा-
 श्युक्ति- । h) = कनिष्ठिका- । व्यु. ? । i) विप. । पस. > वृस. > वस. । j) = कण्टक- । व्यु. ? । k) पृ ८३०-८ टि. ।

कान्ति-, १कन्तु- २क- द्र.

२कन्तु- $\sqrt{\text{कम् द्र.}}$

$\sqrt{\text{कन्थ}}^a$ (आवरणे) $>$ क(न्य $>$)

न्या^h- पाठना २, ४^b; -न्या

पा २, ४, २०; ६, २, १२४.

कान्थिक- पा ४, २, १०२.

कन्या-मलद-नगर-ग्राम-हृदो

(द-उ)त्तरपद-न्दात् पा ४, २, १४२.

कन्यक^c- ($>$ कान्यक्य-, कन्याय

(न $>$)नी- पा. यक्र.) पाग ४,

१, १८; १०५.

कन्थु^d- ($>$ कान्यव्य- पा.) पाग ४,

१, १०५.

$\sqrt{\text{कन्द}}$ (दधा.) पाधा. भ्वा. पर.

आह्वाने रोदने च, आत्म. वैकल्ये^d
वैकल्ये च.

१कन्द^a- ($>$ कन्दी- पा.) पाठवृ

४, ९८; पाग ४, १, ४१^e.

-कन्द-मूल-फल-लम् वौष्ट ३,

३, १८.

कन्द-मूल-फल-शाक-भक्ष-

-क्षणागम् वौध ३, ३, ८.

कन्द-मूल-फल-शाका(क-आ)

दि- -दीनि वैध ३, ५, ७.

कन्द-मूल-फल-शाकौ (क-थो)

पथी- -थी: वौध ३, २, ३.

कन्द-मूल-भक्ष- -क्षा: वौध

३, ३, ३.

२कन्द^f- ($>$ १कन्दर^g- पा.) पाग

४, २, ८०.

२कन्दर^h- ($>$ कन्दरी- पा.) पाठवृ

३, १३१; पाग ४, १, ४१; पावाग

८, २, १८ⁱ.

कन्दर्प^j- ($>$ कान्दर्प पा.) पाग ४, १,

१०४.

कन्दल^k- ($>$ कन्दली-, कन्दलित-

पा. यक्र.) पाठभो २, ३, ९३^l;

पाग ४, १, ४१; ५, २, ३६;

पावाग ८, २, १८ⁱ.

कन्दु^m- पाठ ३, १४.

कन्दुर्कⁿ- ($>$ कान्दुक-, कन्दुक-प्रस्थ-

पा. यक्र.) पाठभो २, २, २२^m;

पाग ५, १, १३०; ६, २, ८७ⁿ.

कन्दुक-वदरी- कटुकवदरी- टि. द्र.

कन्ध(र $>$)रा^o- -रा क्रप्र १, ७, ८.

१कन्थ- २क(न्य $>$)न्या २कनि- द्र.

$\sqrt{\text{कप्}}$ $\sqrt{\text{कप् द्र.}}$

क-प- प्रस्. १क- द्र.

कपट- पाठवृ ४, ८१; पाग २, ४,

३१.

कपटु^p- पाग ४, १, ७३.

कापटव^q- -व: निसू ४, ८ : ३५.

कापटवी- पा ४, १, ७३.

कपरि, लिङ्का^r- पावाग ८, २, १८ⁱ.

कपर्द^s- -र्दा: वाष्ट ४, १८.

कापर्दि^t- -र्दय: निसू ९,

१३ : ४.

कापर्दिक- -कान् पाष्ट ३, ५, २.

कपर्दिन्- -र्दिनम् वृदे ५, ११९;

-र्दिने शांष्ट ५, ६, २; अष ६६,

३, २^r; गौध २६, १२; सुप्रा ५,

३७.

कपर्दिनी^s- -नी नाशि १, २,

१०.

कपाल^t- -लम् शांथौ १८, ७, ८;

२०.

कपाट^u- पाठभो २, २, १००; पाग २,

४, ३१.

कपाट-ध्व- पा ३, २, ५४.

कपा(टक $>$)टिका^v- ($>$ कापा-

टिक- पा.) पाग ५, ३, १०७.

कपाल^w- पाठ १, ११८; फि ६७;

-ल: आमिष्ट ३, ४, ४ : ७; -लम्

आथौ ३, १४, १०; काथौ;

-लथो: माथौ ४, ३, ४४; वैथौ

१५, ५ : १; -लस्य भाथौ ६,

१५, ७; -ला: हिथौ १६, ८,

२३; -लान् तैप्रा ६, १४^x;

-लानाम् आपथौ ८, ९, १४^x × २;

वौथौ; -लानि शांथौ ४, १४,

२५; काथौ; वौथौ २०, १२ :

११^y; या ७, २४; -ले आथौ ३,

१३, ९; आपथौ १, २२, ३; २३, ३;

३, १०, ११^z; १२, ४, १; ९; काथौ;

पावा ६, ३, ४५; -लेन काथौ

२, ४, २६; हिथौ १, १, ४३;

आष्ट ४, ५, १०; -लेभ्य:

आपथौ १, २४, ६; भाथौ १,

२५, १०; माथौ १, २, ३, १९;

a) वैप ३ द्र. ।

b) $<$ $\sqrt{\text{कन्}}$ इति ।

c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

d) $\sqrt{\text{कद्}}$

इति [पक्षे] BPG. । e) अर्थ: ? । f) अर्थ: व्यु. च ? । g) = देश-विशेष- ? । h) = दरी- । व्यु. ? ।

i) तु. पागम. । j) व्यप. । व्यु. ? । तु. पाका.; किंद्भ- इति भाण्डा., किंद्भ- इति [पक्षे] पाका. । k) पृ

८३३ j द्र. । l) $<$ $\sqrt{\text{कन्द}}$ । m) $<$ $\sqrt{\text{कम्}}$ । n) १कन्दुक- इति पाका. । o) = जीवा- ।

वैप ३ द्र. । p) = आचार्य-विशेष- (तु. पाका ४, १, ७८; ३, ८०) । q) = चूडा-, वराटक- प्रस्. । व्यु. ? ।

r) = आचार्य-विशेष- । कापटव: इति मूको. । s) = मूर्च्छना-विशेष- । t) = भाग- । व्यु. ? । u) नाप. ।

व्यु. ? । $<$ क $\sqrt{\text{पद्}}$ [गतौ] इति अभा. । v) ह्रस्वार्थे कन् प्र. । w) वै १ द्र. । x) काप. इति मुपा. ?

यनि. शोध: (तु. भव-स्वामी) ।

-लेपु आपथ्रौ १, २३-२४, ६; ८, ६, ५; ९, १३, १०; १९, २१, २२; २२, ८; वौश्रौ; -लैः वौश्रौ १०, १३: १२; वैश्रौ १८, ७: ४; हिश्रौ १५, ८, ४३; अत्राय ६, २. कापालिक^a -कः काघ २७८: १०.
कपाल-करण-गे वौश्रौ २७, ३: १.
कपाल-चिह्न-ध्वजा-> ०जिन्-नी शंघ ३७९.
कपाल-धर्म-र्मः हिश्रौ ३, ८, ४४.
कपाल-नाश-शे वौश्रौ २८, ११: ५.
कपाल-प^b-पान् आमिगु २, १, ३: २२; आपमं २, १४, १; भागु १, २३: १४; हिगु २, ३, ७.
कपाल-मन्त्र-न्त्रेण आपथ्रौ ८, १०, २; १३, १८; १२, ४, ९; २४, ३, २४; भाश्रौ ५, १४, ९; वाश्रौ १, ४, ४, ३२; हिश्रौ ३, ८, ५८; ५, ४, २२; ८, १, ५२; -न्त्रैः वौश्रौ २०, ८: २०.
कपाल-मात्र-त्रम् वौश्रौ २८, ४: १३.
कपाल-योग-गम् आपथ्रौ १, २३, २; भाश्रौ १, २४, ६; -गात् हिश्रौ १, ६, ३७; -गे भाश्रौ १, २५, १०; हिश्रौ १, ६, ४२.
कपाल-वत् आपथ्रौ २, १०, ४; वैश्रौ ५, ८: ५; मौसु ६, ६, ६; १०, १, २२; २६.
कपाल-विकार-रः मौसु १०, १, ३८.
कपाल-विमोचन-नम् आपथ्रौ ४,

१४, ५९; १२, २५, १३; हिश्रौ ४, ४, ७१; -नात् माश्रौ २, ३, ७, ११.
कपाल-वृद्धि-द्विः वौश्रौ २७, ३: २.
कपाल-वृद्धि-हास-सौ वैश्रौ २०, २८: १२.
कपाल-शे(प>)पा-पा^d आमिगु ३, ४, ३: ९; वौपि ३, ४, ८.
कपाल-शे(प-उ)पोदक-कम् वैगु ७, २: १२.
कपाल-संयोजन-ने वौश्रौ २०, ८: १२.
कपाल-संतपन^e->ना(न-अ)ग्नि-ग्निना वौपि ३, १, ११^f; वैगु ५, ५: २९; ७, २: १३.
कपालसंतपनीय-येन गौपि १, १, २०.
कपाल-सामान्य-न्यम् वौश्रौ २७, १४: २६.
कपाल-स्थान-ने वैश्रौ ९, १: ११.
कपाल-हास-सः वौश्रौ २७, ३: २; कपाला(ल-अ)वशे(प>)पा-पा: वैगु ५, ५: १५^d.
कपा(ल-क>)लिका-(२कापालिक-पा.) पाग ५, ३, १०७.
कपालिन्-लिने वैगु ५, २: ३०; -ली अप ४३, ५, १७; वाघ १६, २३; शंघ ३७७: ७; वौघ २, १, ३.
कपालो(ल-उ)पधान^e-नम् काश्रौ ५, ८, १५; -नात् वौश्रौ ३, २४: ७; २०, ६: २८; भाश्रौ

५, १४, ८; ८, १६, ४; -नानाम् वौश्रौ २०, ८: १७^e; -ने वौश्रौ २२, १८: १९.
कपाश्रितोष्मजात-१क-द्र. कपि^h-पाउ ४, १४४; पाग ४, १, १८; ४५^f; १०५^f; ५, १, १२४; २^f, १८; ९७; १००; ३, १०८^f; ६, ३, ११९^f; -पयः^k वौश्रौप्र २६: १: ३; -पिः आपथ्रौ १४, २९, ३१^f; हिश्रौ १५, ७, १६^f; आमिगु ३, ७, १: १४^f; वौपि १, १७: १३^f; या ३, १८^f; वृदे २, ११६^f; शुअर १, १२८^m; -पीनाम्^m आश्रौ १२, १३, २; आपथ्रौ २४, ७, ८; हिश्रौ २१, ३, १०; -पेः हिश्रौ २१, ३, १०^m.
कपि-पा ४, १, ४५.
कापिक-पा ५, ३, १०८.
कापेय^m-पा ५, १, १२७; -याः आपथ्रौ १४, ७, २०; हिश्रौ १, ४, ६; ९, ८, ४५.
कापेयी-यी आपथ्रौ १४, ७, १९; हिश्रौ ९, ८, ४४.
काप्य-पा ४, १, १०५; १०७; ५, १, १२४.
काप्या(प्य-आ)ध्वर्यव^o-वम् आपथ्रौ २३, ११, ११; हिश्रौ १८, ४, १५.
काप्याय(न>)नी-पा ४, १, १८.
कपि-केश-फि ७३; -शाः वौश्रौप्र ४७: ६^m.

a) = भिक्षु-विशेष-। तेनचरतीयः ढक् प्र. (पा ४, ४, ८)। b) = बालप्रह-विशेष-। उस. उप. < ✓ पा (पाने)। c) = मन्त्र- [लु. तै १, १, ७, २]। d) सपा. शेषाः <> लावशेषाः इति पाभे.। e) उप. भावकरणयोः ल्युट् प्र.। f) सान्तपनं इति B.। g) = मन्त्र-। h) वप्रा.। वैप १ द्र.। i) = वानर-। j) व्यप.। कत- टि. अपि द्र.। k) बहु. <कापेय-, काप्य-। l) वृषाकपिः इत्यस्योत्तरांशः। m) = ऋषि-विशेष-। n) भावाऽपत्यायर्थे ढक् > प्यः प्र.। o) विप.। वस.।

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १कपिल- पा ५,२,९७. | कपित्थ-क ^३ - -कः भागृ २,२१:१०. | कपिवन ^१ - -नः निस् ८,४ : २९. |
| कपि-श- पा ५,२,१००. | कपित्थि (>न)नी- पा ५,२,१३५. | कपिवन ^२ - -नम् आश्री १०,२,३; |
| कपि-शी(र्वन् >):गी ^३ - -ण्य्याम् | कपित्थिल ^१ - पा ४,२,८०. | -नेन आपश्री २२,१४,२०; हिश्री |
| द्राश्री ११,२,३; लाश्री ४,२,२. | १कपिल- कपि- द्र. | १७,६,१५. |
| कपि-श्याषण्य- पाग ६,२,३७. | २कपिल ^३ - पाठ १,५५; -०ल विध | कपिष्टिक- > कापिष्टिक- कनि- |
| क(वि >)पो-व(त् >)ती- पा ६, | २८, ८५; -लः वैयु ३, २१ : | ष्टिका- टि. द्र. |
| ३,१२०. | १०†; अप २९, २, ४; ४३, | कपिष्ठल ^३ - पाग २,४, ६९ ^१ ; -लः |
| कप्या(पि-आ)दि- -दयः अप ६९, | ३, ४†; वृदे २, ६७; ७, १४१; | पा, पावा ८,३,९१. |
| ३,४. | वोध २, ६, ३०; -लम् ऋप्रा | कापिष्ठलि- (>कापिष्ठल्या- |
| कप्यु(पि-उ)ट्टे(ष्ट-इ)भ-गवा(गो- | १७,५८; -लाः याशि २,१; ३; | पा, पावा.) पाग ४, १, ८०; |
| आ)दि- -दीनाम् अप ६९,३,३. | -लात् आमिगृ २, ७, ७ : ९; | पावाग ४,१,७९. |
| १कपिञ्जल ^३ - पाठभो २, ३, ९९०; | -लान् आमिगृ २,४,८:६. | कपिष्ठल-कठ- -टाः चव्यू २ : ३. |
| -०ल कौसु ४६, ५४ ^४ ; या ९, | कापि(ल >)ला- -ले अप १, | कपिष्टि(क >)का- > कापिष्टिक- |
| ५ ^६ ; -लः अप १, ३६, ६; वृदे | ३,१. | कनिष्टिका- टि. द्र. |
| ४,९३; ६,१५१; या ३, १८†; | कपिल-रोमन् ^३ - -माणः अप ६८, | कपी- कपि- द्र. |
| ९,४; -लम् शोध २२३; -लान् | १,९. | कपुच्छल ^३ - -लम् गोगृ २, ९,१८; |
| आपश्री २०, १४, ५; वाश्री ३, | कपिला(ल-अ)के(क-इ)ट्टु- | कप्र ३,६,७. |
| ४,३,२२†. | मण्डल ^० - -लम् अप ६४,९,३. | कपुजा ^३ - -जा कागृ ४०,२. |
| १कापिञ्जल- -लानि कौसु ४६, | कपिललाट ^३ - -टः कौसु ४५, ४†; | कपुणिणका ^३ - -का कप्र ३, ६,७; |
| ५३; ५४; अप २, ३६, ६. | -टस्य माश्री १,८,५,१९; वाश्री | -काम् गोगृ २, ९, १२; १८; |
| कपिञ्जल-मांस- -सेन पागृ १,९,८. | १,६,७,१; ४; -टात् माश्री १, | -कायाम् गोगृ २,९,१४. |
| कपिञ्जला(ल-आ)दि- -दयः शुभ्र | २,५,१८. | कपुस- > °-विपर्वा-रोदाका-वृका- |
| ३,४३; -दीन् काश्री २०, ६, ६. | कपिला ^३ - -लानाम् आमिगृ २,४,८: | वती-नाडा-निर्दहन्ती ^३ - -न्ती- |
| कपिञ्जलादि-वत् काश्री २१,१, | २१; अप ७२, ४, ७; -लाम् | नाम् वैताश्री ५, १०. |
| १२. | आमिगृ २,५,१ : ४४; अप ८, | कपूय ^३ - -यम् या ५, २४; -याः या |
| २कपिञ्जल ^३ - पाग ४,१,११२ ^२ ; -लः | २,३; विध ९२, ९; -लायाः | ५,२४; ६,१९. |
| अथ २,२७; ७,९६. | आमिगृ २,७,७:८; अप ३८,१, | †क-पृथ ^३ - -पृत् आश्री ८, ३, ३०; |
| २कपिञ्जल- पा ४,१,११२; -लाः | ६; -लासु अप ७२,४,७. | शाश्री १२,२४,२; ४; अथ २०, |
| वोश्रीप्र ४७ : १. | कपिला-प्रदान- -नम् शोध २५०. | १३७. |
| कपित्थ ^३ - पाग २,४,३१; ४,२,८० ^१ ; | कपिलि(क >)का ^३ - (>कापिलिक- | कापोत ^३ - पाठ १,६२; पाग ४,२, |
| ५,२,१३५; ६,३,११९ ^१ . | पा.) पाग ४,१,११२. | ९१; ५, ४, १३८; ६,४,१५३; |

a) = वीणा-विशेष-। वस.। b) वैप १,१०८७ II द्र.। c) <√कम्प। d) सक्तु पाभे. वैप १. शुक्रन्तक (खि २,२;५) टि. द्र.। e) °लः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. खि २,२,१)। f) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। g) कु° इति [पक्षे] भारुडा.। h) वैप ३ द्र.। i) अर्थः ?। j) तु. पागम.। k) = मणि-विशेष-। l) = देश-विशेष-?। m) विप., व्यप. (मुनि-, अपुर-विशेष- [वोध.])। वैप १,१०८७ O द्र.। n) विप. (वातप्रकृतिक्लन्तर-).। वस.। o) कस. > दस. > पस.। p) = अङ्ग-विशेष-। व्यु. ?। q) = गो-। व्यु. ?। r) व्यप.। व्यु. ?। s) वैप १ द्र.। t) = अहीन-विशेष-। u) नाप.। व्यु. ?। पाप्र. तु कपि- + स्थल- इति। v) = चूडा-। व्यु. ?। w) ओषधीनां दस. इति सोमादित्यः। x) नाप., व्यप. (ऋपि-विशेष- [ऋअ. वृदे.])।

-तः आगृ ३, ७, ७^२; द्वांगृ ५, ५, २^१; आग्निरृ २, ५, २ : १; ३, ६, ३ : २१; २३; कागृ ५६, १^१; वीगृ ३, ६, १; दौषि १, ११ : १८; १९; भागृ २, ३२ : १; भागृ २, १७, १^१; हिगृ १, १७, ५^१; जैगृ २, ७ : २; कौसृ ४६, ७^१; अष १२, १, १०^१; ६३, ४, ७; ६७, ३, १; ७०^३, ६, ९; २९, १^१; शंघ ३७८; काघ २७६ : ५; ऋअ २, १०, १६५; वृदे ८, ६७; ६८; अअ ६, २७^१; -^१त्त्म् भागृ २, १७, १; कौसृ ४६, ७; वृदे ८, ६८९; अअ ६, २८; -ताय शांश्रौ १२, १६, १^१; -ते कागृ ५६, १; भागृ २, १७, १; -तौ वृदे ७, ८७.
कापो (त >) वा^२ - ता वौघ ३, १, ५.
कापोत-वृत्ति-नि(श्रा >) छ-
-ट्स्व वौघ ४, ५, २८.
कापो (त >) ती^२ - तीम् अष ७०^३, ८, १.
कपोतकीय- पा ४, २, ९१.
कापोतक- पा ६, ४, १५३.
कपोत-पद्-दर्शन- ने आपगृ २३, ९.
कपोत-पाक- पाग ७, ३, ५३.
कपोत-पाद- पा ५, ४, १३८.
कपोत-वत् वौघ ३, २, १२.
कपोत-वृत्ति- -त्तिः विघ ९४, ११.

कपोत-वृत्तिक^० - काः वैघ १, ८, १.
कपोतो(त-उ)पहति- -तौ ऋअ २, १०, १६५.
कपोतो(त-उ)ल्ल- -काभ्यान् चांगृ ५, ५, १.
कपोतोल्ल-जन्या(न्य-अ)रिष्ट-
क्षय^० - काम- -मः अअ ६, २९.
रंकपोल^० - पाठ १, ६६.
रकपोल^१ - लाः^२ वच्यू २ : ३६.
कफ^२ - पाठमो २, २, २१८; -फम् वैश्रौ २१, २ : ५.
कफ-प्रकृति^१ - तयः अष ६८, १, ४; २९; ३७.
कफस्^१ -> कफ(त्व >) स्या^२ -
-स्याः^१ वीश्रौ २८, ९ : १७; वैश्रौ २१, २ : ४.
कफेल् - पाठ १, ९३.
√कच् पाथा. भ्वा. आत्म. वणे.
कवन्ध^० - पाठमो २, २, १७४; पाग २, ४, ३१; -न्धः वाघृश्रौ ४, ३७ : २१; २५; अष ५२, ८, १; अअ ६, ७५; -न्धम् अष ४८, ७५^१; ६७, ६, १; निघ १, १२^१; या १०, ४^१; ऋप्रा ४, ६१^१; अप्रा ३, ४, १^१; -न्धाः अष ५२, ५, १; -न्धानि आपश्रौ १६, ८, १; हिश्रौ ११, २, १३; -न्धे अष ७२, १, ५; ६, २.
कवन्ध-यान- -नाति अष ७०^३, ११, २४.
कवन्धा(न्य-आमा >) म^१ - माः अष ५२, ५, १.

कवर^२ - पाठ ४, १५५^०.
कवरी^२ - पा ४, १, ४२.
कवर-पुच्छी- पावा ४, १, ५५.
कवोध^० - (> कावोध- पा.) पाग ४, १, ११२.
किकु- -^१श्रु^० अअ ११, ३; दंवि २, ४.
√कम्^१ पाथा. भ्वा. आत्म. कान्तौ, कामयते काश्रौ ३, ८, १६; आपश्रौ xx; २१, १२, ४^६; वीश्रौ; कामयति अष १, १३-१६, ३; कामयते हिश्रौ ५, २, ६८; कामयन्ते आपश्रौ २३, १, ८xx; वीश्रौ; कामयते अग ३६, २५, ३; कामये आपनं १, १३, ४^१; कामयावहे वाघृश्रौ ४, २ : ६; कामयानहे या २, ७; किकामयाते आपश्रौ ४, ८, ५; भाश्रौ; कामयेताम् वीश्रौ १८, ३५ : ४; या २, ४२; ४३; कामयन्ताम् या १२, ४६; किकामयत शांश्रौ १०, १४-१५, २xx; वीश्रौ; किकामयेताम् वीश्रौ १८, ३५ : १; किकामयन्त शांश्रौ १०, १८, २; वीश्रौ; कामयति वीश्रौ २, १ : १; वैश्रौ २०, ३४ : ९; आगृ १, ७, ३; २, ४, ६; कामयेत आपश्रौ ९, ७, ३५; शांश्रौ; कामयेत् आपश्रौ ८, १९, ६; हिश्रौ १७, ०, ६५; वाघ १७, ३५^१; कामयेयाताम् आपश्रौ ८, ८, १७; भाश्रौ ८, १०, १५; कामयीरन् आपश्रौ १२, ८, ३३;

a) =वृत्ति-विशेष-। तादितः लण् प्र. स्त्री. च टाप् प्र. । b) विप.। लण् प्र. । c) =वानप्रत्य-विशेष-। वस. । d) पंत.>कल.>पस. । e) वैष १ द्र. । f) =यजुःशाखा-विशेष-। व्यु. ? । g) =शाखा-ध्यायिन्-। h) =श्लेष्मन्-। वैष ३ द्र. । i) विष.। वस. । j) नाप.। व्यु. ? । k) विप. (२अप्-). । l) सपा. आपश्रौ १०, १४, १ रक्षपा- > -पाः इति पाभे. । m) =ऋषि-विशेष-। वाघृश्रौ. अअ.। अनु-र-विशेष-। [अप.] । n) =केस-। चिद-। व्यु. ? । o) <√कृ। p) =देश-विशेष-। q) व्यप.। व्यु. ? । r) हिश्रौ ६, १, ३ पा ३, १, ३०; ८, ३, ४६; ४, ३४ पावा १, १, ५ परामृष्टः द्र. । .s) सपा. च् च कामयते <> चत्कामाः भवन्ति इति पाभे. ।

१, ५; २२, ४; वीथ्रौ; -मेपु
माथ्रौ ६, १, ३, २६; अशां १७,
३; -मैः निसू २, ४ : ९; आपमं
२, २०, २८^१; आमिगृ १, ५, २;
९; ३, १, १^२ : २; ७^३; x x २, ७;
५^१; वौगृ; ऋमागृ^२ २, १५; १४;
१६ : १४; १७ : ९; ऋहिगृ^३ २,
११, १^४; १५, ७; या १२, २१;
-मौ आपथ्रौ १७, २४, १०; २३,
२, ७; छसू ३, १० : ५.
काम-काति^४ -तयः आपमं २,
११, ७^५.
काम-काम- -माय वाच २३,
३^५.
काम-कामिन्- -मी विध ७२, ७.
काम-कार- -रेण विध ५, १०४.
कामकार-तस् (:) विध २८,
५३.
काम-काल-देश-दक्षिणा-
-गणाम् आथ्रौ ८, १३, ३४.
काम-कृत- -ते आपथ २, २८,
१२; हिघ २, ६, १२.
काम-कृतसि- -तीः वैताथ्रौ ४२,
१३.
काम-क्रोध-द्रोह-लोभ-मोह-
-दान् वौघ २, ३, २१.
काम-क्रोध-भय-लोभा (भ-आ)
दि- -दिभिः विध ३, ७४.
काम-क्रोध-लोभ-मोह-सद-
मास्वर्थ-स्थान- -नम् विध
९६, ५०.
काम-क्रोध-लोभा (भ-आख्या >)
ख्य- -ख्यम् विध ३३, १.
काम-चार^५ -रः वीथ्रौ १५, ८ :
८; काथ २७३ : ३.

काम-चार-वाद-भक्ष- -क्षः
गौव २, १.
काम-चारिन्- -री जैगृ २, ८ :
२२; कप्र २, ४, १७.
कामचारिणी- -णीम् शंघ
३३४.
काम-जात- -तम् अथ २०, ७,
११.
काम-ज(व >)वा^६ -वाम् अथ
१, ४९, १; १४, १, १६^२.
काम-तस् (:) शांथ १, १, ७; कप्र
१, ६, ६; शंघ १६१; ४४९; विघ
२८, ४८; ५३, १८; वृदे ६,
५५.
काम-दर्शन- -नात्त मीसू १२, ४,
१७.
काम-दायि (न् >) नी- -०नि
अशां ५, ७.
काम-दुष्^७ -दुघः^१ आपथ्रौ ६,
१, ५; वीथ्रौ २, ७ : २८.
काम-दुघ, वा^८ - ऋवः कौगृ ५,
७, २; आमिगृ ३, ११, २ : ८;
३ : १६; -घम् अथ १, ४६, ३;
४७, १; -घा भागृ २, २ : ११^१;
-घाः आथ्रौ ६, १२, ४; ऋआपथ्रौ
१, १४, १२; ५, २६, ५; वीथ्रौ
२, ७ : २८; १८, ४७ : ११;
१६; २४, ११ : १५^१; ऋभाथ्रौ
१, ११, १; ५, १८, १; वैथ्रौ १,
१९ : ७^१; ऋहिथ्रौ १, ४, १०;
३, ६, ५; वीपि १, १५ : ७२^१;
-घाभिः वीथ्रौ १८, ४६ : १८;
-ऋवाम् आपथ्रौ ६, ९, ४^२; हिथ्रौ
३, ७, ६१^२; -०व आपथ्रौ १६,
१९, ५^१; वीथ्रौ १०, २५ : ५^१;

माथ्रौ ६, १, ६, ६; वाथ्रौ २, १,
५, १६^१; वैथ्रौ १८, १६; १३^१;
हिथ्रौ ११, ६, ३५.
काम-दुह- -धुक् कौगृ ३, १२,
२६.
काम-देव^९ -०व विघ ९८,
१०.
काम-देवता- > ण्य, त्या-
-त्यम् अथ ९, २; -त्या अथ
३, २९.
काम-देव(त >)ता^{१०} -ता या
७, ४.
काम-द्वेप- -पः या १४, ३.
काम-धरण^{११} -णम् शांथ्रौ २,
१२, ४; वीथ्रौ १०, २० : ६^२;
१९, २ : २३^२; माथ्रौ ५, ५, २;
वाधुथ्रौ ४, ११४ : २; ३; हिथ्रौ
३, ३, २४; ११, ५, २६.
काम-नियुक्त- -क्तानि वीथ्रौ
२४, १६ : ५.
काम-पति- -तिः शांथ्रौ ४,
१८, २^१.
काम-पत्नी^{१२} -त्नी मागृ २, १३,
६^१.
काम-पाल^{१३} -०ल विघ ९८,
११.
काम-प्र^{१४} -प्रेण जैगृ १, २; १७;
-प्रौ वैताथ्रौ १२, १.
काम-प्र^{१५} -प्रम् कौसू ६६,
५; -प्राय शांथ्रौ १७, १६, ४^१;
-प्रेण वीथ्रौ २६, १० : २५.
काम-प्र(द >)दा- -दाम् मागृ
२, १३, ६.
काम-प्रवेदन- -नम् पावा ३,
३, १५७; -ने पा ३, ३, १५३.

a) पामे. वैप १, १०९० ङ द्र. । b) वैप १ द्र. । c) वैप २, ३खं. द्र. । d) विप. । वस. ।
e) विप. । उस. उप. । ✓दुष् + क्विप् प्र. । भप्त्वाऽभावश्च द्र. । f) सपा. भै १, ८, ६ कामदुघाः इति पामे. ।
g) विष्णुनाम-विशेष । h) विप. (द्विवी-विशेष-] पृष्ठी- ।

काम-प्रस्थ- पाग ४, २, १३८;
पा ६, २, ८८.

कामप्रस्थीय- पा ४, २,
१३८.

काम-बल- -ले पा ५, २, ९८.

काम-भोग-परीत- -तस्य चाश्र
३० : २६.

काम-मो(ग>)गा- -गा
आग्निगृ २, ७, ६ : १२.

काम-मन्यु- -न्युभ्याम् आपव
१, २६, १३; हिव १, ७, २४;
-न्यु आपव १, २३, ५; हिव
१, ६, १२.

काम-मा(त्र>)त्रा- -त्राः
वाश्रौ ३, ४, ४, २६.

काम-योग- -गः वैगृ ३, १ : ९.

काम-रूप- > षिन्- -पिणे
गौध २६, १२; -पी चव्यू ४ :
१९.

काम-लिङ्ग- -ङ्गेन आपव २,
४, १; हिव २, १, ५४.

काम-लुब्ध- -ब्धः याशि २,
६२.

काम-वत्- -वान् या १०, ४२.

कामवती- -त्यः काश्रौ १६;
१, २७.

काम-वर्धिन्- -र्धी निस् ४, ३ :
७; गोगृ ३, २, २४; कैगृ १,
१७ : ७.

काम-वादिन्- -दी वौध १, ५,
८६.

काम-विवेक- -कात् वौशु ७ :
२१.

काम-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् १०,
५, ६६.

काम-शोचिन्- -चिभिः अप १,
३८, २१; अशां ८, २.

काम-श्रुति- -तिः मीस् २, २,
२९.

काम-संयोग- -गः लाश्रौ ७,
११, २२; मीस् २, २, २८; -गात्
मीस् १०, ५, ८१; -गे काश्रौ
४, १५, २६; मीस् ३, ६, ४३;
६, २, ७; १०, ५, ६५; -गेन
मीस् ११, ४, १०.

काम-सूक्त- -क्तम् अप १०, १,
७; ४६, ७, ४; ५; अर्षं ४ :
२४१; -क्तेन अत्राय २, ५; अप
२०, ५, ५; ३९, १, ९.

कामसूक्ता(क्त-आ)दि- -दयः
अप २०, ४, १.

काम-हृत्- -तः आपश्रौ २२,
६, ८; हिश्रौ १७, २, ५३.

कामा(म-आ)गान- -नम् निस्
२, ४ : १९.

कामा(म-अ)ज्ञान- -नात् मीस्
१०, २, ४९.

कामा(म-आ)तु(र>)रा-
-रा याशि २, ६७.

कामा(म-आ)मन्-चेतस्-
-तसा अश्र ६, ९.

कामात्म-दैव(त>)ता-
-त्ते अश्र ६, ९.

कामा(म-आ)नन्त्य- -न्त्यात्
वैताश्रौ ४३, ४३.

कामा(म-अ)मिधान- -ने पावा
५, २, ६५.

कामा(म-अ)र्थ- पा, पाग २, २,
३१.

कामा(म-अ)वधारण- -णानि

निस् ३, ३ : ४०.

कामि(क>)का^d- -काम् अप
७०^३, ८, २.

कामे(म-ई)प्सु^e- -प्सोः चाश्र
१९ : २६.

कामे(म-इ)पु-देवताक^f- -कम्
अश्र ३, २५.

कामे(म-इ)ष्टि- -ष्टौ मीस् १०,
२, ४२.

कामो(म-उ)दक- -कानि पागृ
३, १०, ४६.

काम्य- पावा ५, १, १११.

कामन^h- -नम् आपश्रौ ४, १, २;
वैश्रौ ३, १ : ५.

कामयत्- -यन्तः या ६, २६.

कामयमान, ना- -नः वौश्रौ १४,
२५ : ११; २०; माश्रौ ३, ८,
११^h; वाध; -नस्य शाश्रौ १४,
३१, १; शौच ४, १०२; -ना

वौश्रौ १८, ४४ : २; १०; या
१, १९; ३, ५; -नाः कौस्
९२, ३०; ३१; १९, ५२; या

५, १८xx; -नान् या ६, १३;
-नानि या १४, १५; -ने या ९,
३९; -नेषु वौश्रौ १४, २६ : १.

कामयाम्√अस(भुवि), कामयामास
वृदे ६, ७६.

कामयित्वा वैताश्रौ ३४, २.

कामि- पाउभो २, १, १६६.

कामि(त्>)नी->नी-मनो(नस्-
अ)भिसुखीकरण-काम- -मः
अश्र २, ३०.

कामुक, का- पा ३, २; १५४; पाग ४,
१, ९९^l; -काः वाधश्रौ ४,
४७ : ९.

a) =देश-विशेष-। b) विप.। वस.। c) =मन्त्र-विशेष-। d) विप. (दक्षिणा-)। मत्वर्थे ङ्
प्र.। e) विप.। पस.। f) विप.। पस.>वस.। g) =कामना-। भाप.। h) पाप्मे. वैप १, ११७३। द्र.।
i) व्यप.। वा. अर्थः ?।

कामुकी- पा ४, १, ४२.
 कामुकायन- पा ४, १, ९९; -नः
 मीस् ११, १, ५७; ६२.
 रकाम्य, म्या^१- म्यः आपथ्रौ १२,
 ७, ८; माथ्रौ ५, १, १, ३५; हिथ्रौ
 १७, ६, ४५; वैताथ्रौ; -म्यम्
 आथ्रौ ८, १०, १; शांथ्रौ २, ५, १;
 १२, २०, २१; आपथ्रौ; -म्यस्य
 वौथ्रौ २२, ३: ८; निस् २, ८ : ६;
 -म्या आपथ्रौ २०, १६, २; वौथ्रौ
 १५, २४ : ४; वाथ्रौ; -म्याः
 आथ्रौ २, १०, १; शांथ्रौ ६, १,
 २०; आपथ्रौ ४, १३, २××;
 वौथ्रौ; -^१म्याः काथ्रौ ४, १२,
 ९; शांथ्रौ २, १२, ४; -म्यान्
 वौथ्रौ २४, ३८ : १; हिथ्रौ;
 -म्यानाम् माथ्रौ ५, २, ७, १;
 द्राथ्रौ; -म्यानि शांथ्रौ ३, ११, ५;
 आपथ्रौ १०, २०, ५; ११,
 १०, १२; १२, १४, ४; माथ्रौ;
 या ११, ३६^१; -म्याभिः
 आपथ्रौ १९, १८, १; हिथ्रौ २२,
 २, १; -म्यासु शांथ्रौ १, १६,
 २१; -म्ये हिथ्रौ ८, २, ५; ४,
 ५××; आथ्रु; -^१म्ये द्राथ्रौ
 ९, २, ३; लाथ्रौ ३, ६, ३; -म्येषु
 गोथ्र ४, ५, १; ७; ९; द्राथ्रु
 १, २, २३; ४, १, १; अपः
 -म्यैः आपथ्रौ १९, १६, १;
 हिथ्रौ २२, १, १; लाथ्रौ ७, १३,
 ८; कप्र १, ६, १२; -म्यौ आपथ्रौ
 १२, ७, ८; वैताथ्रौ ४३, ३४.
 काम्य-स्व- स्वात् मीस् ५, ३,
 ३४; ६, १, ३१.

काम्य-देवता- -ता काथ्रौ ४,
 ५, १.
 काम्य-नित्य-समुच्चय- -यः
 मीस् १२, ४, १७.
 काम्य-नैमित्तिका(क-आ)दि-
 -दिषु शुभ्र ४, १२७.
 काम्य-युक्त- -क्तम् मीस् ३, २,
 १९.
 काम्य-वत् भाथ्रौ ३, १३, १०.
 काम्य-सामान्य- -न्ये कप्र २,
 ४, ६.
 काम्य-होम- -माः कौस् ५, ४.
 काम्य(म्य-आ)त्रिडित- -तयोः
 शौच ४, ३०.
 ?काम्यमा(न>)ना- -नाः वाधूथ्रौ
 ३, ९२ : ४^b.
 क्वकमान- -नः अप ४८, ३; निघ
 २, ६^c; -नाथ वीथ्रु २, १, १४;
 अथ्र १९, ५२.
 क्वक^a आथ्रौ ५, २०, ६××; शांथ्रौ;
 या १, ९९; १०; ७, २५.
 कम्क^d- पाग २, ४, ६९.
 कामकायन->प्यनिन्^e- -निनः
 वौथ्रौप्र ३३ : १.
 कमठ^f- पाठ १, १००.
 कमण्डलु, ल्लु^g- पाठभोर, १, १०६;
 पा ४, १, ७१; ७२^h; पाग २, ४,
 ३१; ५, १, १३०^h; -लुः वाधूथ्रौ
 ३, ७६ : ३५; वाथ्रु; -लुना
 आपथ्रौ २०, २२, १; काठथ्रौ;
 -लुभिः वौथ्रौ २०, २७ : २०;
 २३, १४ : २१; -लुम् वौथ्रौ
 १५, १५ : ७××; कौथ्रु; -लुत्
 वौथ्रौ १५, १५ : १३; वाधूथ्रौ

३, ७६ : २४; -लौ वाधूथ्रौ ३,
 ९६ : ४; वौष १, ४, ६.
 कामण्डलव- पा ५, १, १३०.
 कामण्डलेयⁱ- (>ल्यी-पा.)
 पाग ४, १, ७३.
 कमण्डलु-कपाल- -ले अप ४०, ६, ५.
 कमण्डलु-ग(त >)ता- -ताभिः
 वौथ्रौ २०, ४ : ७.
 कमण्डलु-चर्या- -र्याम् वौष १,
 ४, १.
 कमण्डलु^j-पद्- -दे आपथ्रौ ५, १५,
 १; भाथ्रौ ५, ८, १६; वैथ्रौ १,
 १३ : ३.
 कमण्डलु-मृद्ग्रह(ण>)णी- -ण्यौ
 वैथ्र २, ३, ३; ८, १.
 कमण्डलु(लु-उ)दक- -केन वौष
 १, ४, १४^१.
 कमण्डलु(लु-अ)धारण- -णे वीथ्रु
 ४, ११, १.
 कमथ^k अप ४८, ११६^१.
 कमन-, कमनीय- ✓कम् द्र.
 कमन्तL, न्दिक^l- (<> कामन्त-
 L, न्दिकि- पा.) पाग २, ४, ६९.
 कमर- ✓कम् द्र.
 रकमल^m- पाठभोर २, ३, ९३; पाग
 २, १, ५६; ४, १, ४५; ५, २,
 १३५; -लैः अप १, ४३, ८.
 कमला-, कमली- पा ४, १, ४५.
 कमल-गर्भा(र्भ-आभा>)भ- -भाः
 अप ५२, ३, १.
 कमलि(न्>)नी- पा ५, २, १३५.
 रकमलⁿ- पाग ४, ३, १०६^१.
 कामलि- (>ल्ययन- पा.) पाग
 २, ४, ६१.

a) वैष १ द्र. । b) पाठः? कामयमानाः इति शोधः । c) <✓कम् इति दे. । d) व्यप. ।
 व्यु. ? । न्तक- इति भाष्य. । e) प्रोक्ताथे इतिः प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १०६) । f) वैष ३ द्र. । g) = पात्र-विशेष- ।
 h) व्यप. । i) अपत्ये दन् प्र. उकारतोपक्ष (पा ४, १, १३५, ६, ४, १४७) । j) = पशु-विशेष- ।
 k) अर्थः व्यु. च ? । l) वैष १, १०९३ । द्र. । m) तु. पागम. ।

कामलिन्- पा ४,३,१०६.
 कमलकीकर- (>काम०) कमल-
 कीट- द्र.
 कमलकीट, रज^अ- (>काम० पा.)
 पाग ४,२,११०.
 कमल-भिदा^अ- (>कामलभिद-
 पा.) पाग ४,२,११०.
 कमित्- ✓कम् द्र.
 कमुजा^०- जा कागृउ ४४ : १९.
 ✓कम्प^० पाधा. भ्वा. आत्म. चलने,
 कम्पते अप ५०,९,२; ७०^३,११,
 २३; निघ २,१२१; कम्पन्ते अप
 ५७, १-४, २; कम्पन्ति अप
 ६४,७,६.
 कम्प्येते शैशि १२०.
 कम्पयन्ति अप ६४, १, ५;
 कम्पयेत् अप ६४, १, १०; ६८,
 २,६; शंघ.
 कम्प-म्पः अप ६४,२,२;३,९;उस्;
 -म्पम् उस् ८, २२××; शैशि;
 -म्पाः शैशि २००; कौशि २१;
 -म्पात् अप ६४,१,८; -म्पानाम्
 अप ६२,२,७; ६४, १,६; -म्पे
 अप ६४, १,७;२,४; -म्पेषु अप
 ६२, ४, ६; कौशि १८; -म्पैः
 आज्यो ११, १; -म्पो अप ६४,
 २,५^२.
 कम्प-प्रहास- -साः अप ६४,
 ६,४.
 कम्प-विधि- -घिः शैशि १४५;
 १५२.
 कम्प-संधि-स्वरा (र-आ) दि-
 -द्वयः कौशि ५६.

कम्प-स्थान- -ने शैशि २४१.
 कम्पा(म्प-अ)र्थ- -र्थः शैशि
 १४३.
 कम्पो(म्प-उ)स्वरिता(त-अ)
 भिगीत- -तम् नाशि २,३,७.
 कम्पन^०- पाग ४, ४, ५९^१; -नम्
 काश्रौ ९,१३,३५; अप ६४, ४,
 १०; भास् १, २०; -नाः या
 ६, ४; -ने अप ७१, २, २.
 काम्पनिक-, काम्पनीक- पा
 ४, ४, ५९.
 कम्पयत्- -यत् सु १४, २; वृदे २,
 ६७.
 कम्पित- -तः नाशि १,४,८; -तम्
 माशि ५,२; -ताः अप ४७, ३,
 ५; -तात् माशि ५,२.
 कम्प्र- पा ३,२,१६७; -म्प्राभ्याम्
 काश्रौ २२,४,१७.
 कम्प्र-मिश्र- -श्राभ्याम् लाश्रौ
 ८,६,१०.
 कम्पिल^०- पाग ४,२,८०.
 काम्पिल्य^०- पा ४, २, ८०; -ल्यः
 फि ६२.
 कम्ब- रक- द्र.
 कम्बल^१- पाउ १, १०७; -लः
 जैश्रौका १२५; आपध १,३,
 ८; हिघ १, १, ८०; कप्र ३, ८,
 ११^१!; या २,२४; -लम् अप
 १, ५०, १; अशां १२, ३; दंवि
 २,२१; -लाः वौश्रौ २६,३२ :
 २८; -लानि हिगृ १,२२,१४^१;
 -ले अप्रा ३, ४, १^१; -लेन अप
 ३३,६,५.

कम्बल-भा[हार]^क- पाग २,४,६३.
 कम्बल-भोज- -जाः या २, २.
 कम्बला(ल-क)र्ण- पावा ६, १,
 ८८.
 कम्बल्य- पा ५,१,३.
 कम्बलिका, का^१- (>काम्बलिका-
 यन^०- पा.) पाग ४,२,८०.
 कम्बु^१- पाउभो २,१,८५^म.
 कम्बु-क(ण्ठ>)ण्ठी- -ण्ठीम् विध
 १,२३.
 कम्बु-शूर्प- -र्षे भाश्रौ ९, १६,
 १७.
 कम्बु- पाउ १, ९३.
 कम्बुक^१- -काः अशां १५, ५; -कात्
 गोय ४,९,१४; द्रागृ ४, ३, ६;
 कौस् ६३,७^१; अप्रा ३, ४, १^१;
 दंवि २,४^१.
 कम्बुक-पिण्डक- -कः अप १,
 ३४,३.
 कम्बुका(क-आ)हुति- -तिम् अशां
 १५,५.
 कम्बोज^०- पाग ४,१,१७५;२,१३३;
 १३४;३,९३; -जाः, -जेषु या
 २, २४^१.
 काम्बोज- पा ४, २, १३३; ३,
 ९३; -जाः अप १,७,१०.
 काम्बोज-मुण्ड- पाग २, १,
 ७२.
 काम्बोज-वाहिक- -काः अप
 ५७, २, ५.
 काम्बोजक- पा ४,२,१३४.
 कम्भ- रक- द्र.
 कम्भ- ✓कम् द्र.

a) = ग्राम-विशेष-। व्यु. ?। b) कललकीट-, कललकीकटा- इति [पक्षे] पाका.। °कीकर-
 इति भागडा. पाशि.। c) = चूडा-। d) पा ३,२,१६७ पावा ६,४,२४ परामृष्टः द्र.। e) भाप., नाप. (कृमि-
 विशेष- [या.])। f) तु. पागम.। अर्थः ?। g) अर्थः व्यु. च ?। h) = देश-विशेष- ?। i) वैप १ द्र.।
 j) = मृग-विशेष-। त° इति पाठः ? यनि. शोधः। k) व्यप.। l) = शङ्ख-। व्यु. ?। m) < ✓कम् इति।
 n) = जनपद-विशेष-, तद्राज- प्रमु.। व्यु. ?।

क्यायु^३ -> क्यायधव^३ - वः माशि
५२१.

क्यायुभीय- प्रवृ. किम्- द्र.

रकर^३ - रैः अय ७०^३, ११, १३.

करिन् -> करि-प^० - पाग ६, २,
१३४.

करि-पय- पा, पाग ५, ३, १००.

रकर- √हृ द्र.

रकर- √कृ (विज्ञेपे) द्र.

करक, का^३ - पाठ ५, ३५, पावाग ७,
३, ४५; -कम् वैगृ १, ६ : २^६.

करङ्क - पाठमो २, २, ३.

करा, लज्ज^३ - पाठमो २, २, ९०; -जन्
वैध २, ५, ५; -जस्य माशि ४, १

करा, लज्ज-भलाण्ड-पराकि- काः
आपध १, १७, २६; हिध १, ५,
५८.

करजा(ज्ञ-ञा)त्रा(त्र-ञ)सवर्ण-
-गोः कौगृ २, ६, ९.

करट^३ - (> णिक- पा.) पाठ ४,
८१; पाग ४, ४, १६^३.

रकरण - (> कारणिक- पा.) पाग
४, २, ११६^३.

रकरण-करणि- , गी- प्रवृ. √हृ द्र.

करण्ड - पाठ १, १२९.

करत् - , स्त्री- √हृ द्र.

रकरभ - पाठ ३, १२२; पाग ५, ४,
३^३; -भे पा, पावा ५, २, ७९.

करभ-क- पा ५, ४, ३.

करभ-रासभ - पाग २, २, ३१^३.

रकरभ^३ - भाः वौश्रौ ३५ : १.

करभूर - पाठमो २, ३, ५९.

करभ्य - पाठ ४, ८२.

करम्म^३ - पाठमो २, २, २३२; -म्मः

आश्रौ १२, ८, ३३; आपश्रौ

१२, ४, १३^३; काठश्रौ १२३;

वैश्रौ १५, ५ : ३; हिश्रौ ८, १,

५६; १२, ६, ६^३; वैताश्रौ १६,

१७; कौम् १३८, २; -म्मन्

काश्रौ २, १, १५; ण्आपश्रौ ८,

१५, १७; १२, ४, ६; वौश्रौ ५,

१२ : १८; २०; १३ : १३;

१४ : २८; १५ : ३^३; ७, १२ :

४ : २५, ३ : १४; २० : ४;

२८, ४ : ३; वैश्रौ ९, ६ : ७; ९;

१५, ४ : ५; हिश्रौ ८, १, ५०;

अप्रा ३, ४, १^३; -म्मस्य वौश्रौ

५, १४ : २; ७; १२; १३; ७,

१२ : ९; वैश्रौ १५, २५ : २;

-म्मात् नाश्रौ २, ४, ६, २६^३;

-म्मान् आपश्रौ २०, १०, ५;

वौश्रौ २८, ४ : ४; हिश्रौ

१४, ३, ३; वौगृ ३, १०, ४;

-म्माय नाश्रौ २, ३, २, २; ७,

८; -म्मेण वौश्रौ ५, ७ : १३^३.

करम्म-चर्मन् - नाशि वौश्रौ १५,

१६ : ४.

करम्म-पात्र - त्राणि काश्रौ ५, ५,

१०; आपश्रौ; -त्रेभ्यः भाश्रौ

८, ५, ९; -त्रेषु आपश्रौ ८, ६,

१४; भाश्रौ ८, ७, १०; वैश्रौ ८,

११ : ४; हिश्रौ ५, २, ४३; -त्रैः

आपश्रौ २२, ८, १२.

करम्मपात्र-करण - -गम् काश्रौ

५, ३, २.

करम्मपात्रा(त्र-ञ)र्थ- -यांद्

आपश्रौ ८, ५, ३७.

णिकरन्मिन् - म्निगन् आश्रौ ५,

४, २; गोगृ ३, ३, ६.

करवाल - पाठमो २, ३, १०५.

करवीर^३ - पाठमो २, ३, ५०; पाग ४,

२, ८०; -रस्य नाशि ४, २.

करवीर्ये - पा ४, २, ८०^३.

करवीर-करङ्क - -जयोः नाशि २,

८, ४.

करवीर-करङ्कक - -कौ याशि १,

३६.

करवीर-शङ्खपुष्पो(ष्य-उ)पल-कन्धा-

वर्त-चम्पक-महिका(का-ञ)सित-

गिरिकिणिका-कल्हा-तापिचु-

पुष्प - -पैः वैगृ ४, १३ : १२.

करशिवण्ड^३ - -ण्डानाम् वौश्रौ ३

२६ : २.

करत् - √हृ द्र.

करस्कर^३ - पाग ६, १, १५३^३; -रान्

वौश्रौ १८, १३ : १^०; -राम्याम्

वौगृ २, ८, ३०^३.

करक्करा(र-ञ)क्कादा - -शे वौगृ

२, ८, ३०.

करत्त^३ - -स्तान् शाश्रौ १८, २४, ३;

-स्तौ निघ २, ४^३; वा ६,

१७^३.

णिकरस्त्यु^३ - -स्त्युः द्राश्रौ ११, १, ५;

लाश्रौ ४, १, ५.

कराल^३ - पाठमो २, ३, १००; -लः

शैशि १६०; पाशि २७; नाशि

१५, २; याशि १, २६; नाशि

२, ८, १२; -लाय ण्अय ३६,

९, ४; ६६, ३, २.

a) वैप २, ३६. द्र. । b) =शुण्डा-दण्ड- । c) =हस्तिप- । d) वज्रा. । व्यु. ? । e) =कम्पण्डु-
[जल-पात्र-] । f) =वृक्ष-विशेष-; रङ्ग-लघुन- । व्यु. ? । 'ल' इति वैध. हिध. । g) धर्मः व्यु. च? । h) तु. पागम. ।
i) =श्रुति-विशेष- । व्यु. ? । j) वैप १ द्र. । k) =वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । कर-वी^० इति M. । l) =देश-विशेष- ।
m) व्यु. ? । n) तु. पागम. । करस्कर- इति भाण्डा. । =वृक्ष- वा गिरि- वा । o) =जनपद-विशेष- ।
p) =अर्गाण्डदेश- , तदधिष्ठित- देवता-विशेष- । q) विप. (वाय- [वीणा-]) । व्यु. ? । r) वैप ३ द्र. ।

कराली- (>ली/कृ पा.) पाग
१,४,६१.
कराष्टीलाः वाध १९,२१.
करिक्रत्- ✓कृ द्र.
करिक्रत^a- -तः ऋअ २,१०,१२६.
करिणी^b- -णी माशि ९,११; याशि
२,१३-१५; -णीम् माशि ९,
१२.
करित- ✓कृ द्र,
करिन्- १कर-द्र.
करिष्यत्-, करिष्यमाण- ✓कृ द्र.
करीर^c- पाठ ४,३०; पाग ४, २,
८६^d; ३,१४१; ५, २, २४;
६, २, ८७; -राणाम् माश्रौ ५,
२, ६, २३; -राणि काश्रौ ५,
५,१.
करीर- पा ४,३,१४१.
करीरी^e- -री आश्रौ २,
१३, १; वौश्रौ १३, ४० : ५;
माश्रौ ५,२,६,२३; -र्या आपश्रौ
१९,२५, १६; वौश्रौ १३,३७ :
१; माश्रौ ५, २, ६, १; हिश्रौ
२२,६,१.
करीरी-व्रत- -तम्
आमिष्ट १, २, १ : २०^f; वौग
३,१,२६.
करीर-कुण- पा ५,२,२४.
करीर-प्रस्थ- पा ६,२,८७.
करीर-मूल- -लम् कौसू २९,२०.
करीर-वत्- पा ४,२,८६.
करीर-सक्तु- -क्तवः आमिष्ट २,५,
१०:३; -क्तून् आपश्रौ १९, २६,

१; वौश्रौ १३,३७ : २; ६;३८,
७; माश्रौ १, ७, ४, ७; ५, २,
६, ३; ५; हिश्रौ २२, ६, ६;
आमिष्ट २,५,१० : १८.
करीरसक्तु-मि (श्र>)श्रा-
-श्राः अप ३०^g,१,१७.
करीरी^h- पा, पाग ४,१,४१.
शकरीषⁱ- पाठ ४,२६; पाग ४, २,
३८; ५,२,१३५; -पाणि वाश्रौ
१, ४, २,८; -पे माष्ट १,२३,
९; १७; वाष्ट ७,८; विध २३,
६१.
करीष- पा ४,२,३८.
करीष-कप- पा ३,२,४२.
करीषा(प-श्रा)दि- -दिषु वैश्रौ १,
११ : २.
करीषिन्- पा ५,२,१३५; -षिणः
कौसू ८९,१२^h.
करीषिणी- -णीम् आमिष्ट २,
६,१ : २९; माष्ट २,१३,६.
शकरीष^j- >करीषायण- -णाः
वौश्रौ १७ : १८.
करीषि- -पयः वौश्रौ २२ : ३;
३६ : १.
शकरुण^k- -कणम् वौश्रौ ३, ३० : ३^l;
७^l; निघ २, १.
शकरुण,णा^m- पाठ ३, ५३; पाग ३,
१,१८; ५, २, १३१^m; ६, २,
१७०; -णम् अप ६८, २, २४;
-णा नाशि १,७, १०.
करुणाय पा ३,१,१८.
करुणिन्- पा ५,२, १३१.

करुण्यⁿ- > ण्य-तर- -रः माशि
९२ⁿ.
करुव- पाठना ४, १८१.
करुम^o- -माः अप्रा ३,४,१ⁿ.
करुकर^o- -रम् अप्रा ३,४,१ⁿ.
ककरुळतिन्^p- -ती अप ४८, ११५;
वृदे ४, १३९; निघ ४, ३; या
६, ३०^o; ३१.
करुश[^q]- पाठभो २,३, १६६;
(> कारुशी- पा.) पाग ४,
१,१७६.
करेडु- पाठवृ १,३७.
करेणु^r- पाठ २, १^o; -णुम् अप ६८,
२, २८; शंघ २५४.
करेणु-पाल^s- -लानाम् वैध ४, ४,
५.
करेणुपाल- -ल वौश्रौ १
२५ : ३; वैध ४, ४, ५.
करेणुपालि- (>करेणु-
पालायन- पा.) पाग २,४,६१
-लयः वौश्रौ १५ : १; २.
करेणुपाल-वत् वौश्रौ १५ : ४;
वैध ४,४, ५.
करोट- पाठभो २,२, १११.
कर्क^t- पाठ ३,४०; पाग ४, २,७७^t;
५, २, १००^t; -र्कः काश्रौ ३
३६ : १३^t; -र्कम् माश्रौ ३, ६,
१६.
कर्क- पा ४,२,७७.
कर्कीक- पा ५,३,११०.
१कर्क-श- पा ५,२,१००.
कर्कट^u- पाठभो २,२, ९७.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) = स्वरभक्ति-विशेष-। व्यु. ?। c) वैप १ द्र.। d) किरीर- इति
पाका.। e) = इष्टि-विशेष-। f) कारीरि^o इति पाठः ? यंनि. शोधः (तु. वौग.)। g) = करिदन्तमूल- (तु.
पागम.)। व्यु. ?। h) पाभे. वैप १,१०९४। द्र.। i) णाम् इति पाठः ? यंनि. शोधः (तु. सप्र. तै १,६,४,४)।
j) = दया। वैप ३, २३२० द्र.। k) णा- इति पाका.। l) तंत्रसाधनीयः यत् प्र. (पा ४, ४, ९८)।
m) तु. पाका. पाठभो. च। n) = हस्तिन्-। व्यु. ?। o) < ✓कृ। p) = ऋषि-विशेष-। उस.। q) वप्रा.।
व्यु. ?। r) अर्थः ?। s) = आचार्य-विशेष-।

कर्कटक- (> कार्कटक्य-, > कार्क-
टक- पा.) पाग ४, १, १०५; २,
१११.

कर्कटा- (> कर्कटिन्-) कङ्कट- टि.
द्र.

कर्कन्तु- (> कार्कन्तव-) कञ्जु- टि.
द्र.

कर्कन्धु, न्यू^१- पाठ १, ९३; पाग ४,
२, ८६; ३, १३४; ५, २, २४; ६, २,
८७; पावाग ६, १, ९३.

कार्कन्धव- पा ४, ३, १३४;
१६४^b.

कर्कन्धु-कुण- पा ५, २, २४.

कर्कन्धु-पर्ण- -र्णाणि कौट ४, ४,
१९; शांश ४, १९२.

कर्कन्धु-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.

कर्कन्धु-मत्- पा ४, २, ८६.

कर्कन्धु L, न्यू^० मती- (> कार्क-
न्धु L, न्यू^० मत्- पा.) पाग ४,
२, ७७.

कर्कन्धु-सक्तु- -क्तुभिः आपथौ
१९, २, १०; वौश्रौ १७, ३४: १५;
माथ्रौ ५, २, ४, २१; ११, १६;
वाथ्रौ ३, २, ७, १८; हिथ्रौ १३,
८, २३; -क्तून् वैथ्रौ ११,
४: २.

कर्कर^०- (> कर्करि- पा.) पाठमो २,
३, ३५; पाग ४, १, ४१^०.

कर्करि^१- -रिः कौस् ४६, ५४^१.

कर्करि-क- -कः शांशौ १२, १८,
१^१.

कर्करीक, कार्^१- पाठना ४, २०; -काः
वौश्रौ १६, २० : ६; २६, १७ :
१३; -काभिः वौश्रौ १६, २१ :

५; १४; २६, १७ : ११.

कर्करेडु- पाठवृ १, ३७.

रकर्क-श- कर्क- द्र.

रकर्करा^१- पाग ४, २, ७७^b; -शः
वौश्रौ २, ५ : १४^१; -शानाम्

माशि १६, १२; याशि २, १०६.

कार्करा- पा ४, २, ७७.

कर्करि- पाठमो २, १, १००.

रकर्की^१- पा ५, २, ११६; ६, २, ८७.

कर्की-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.

कर्कीय- पा ५, ३, ११६.

रकर्(किं>)की^१- -कीम् कौस् ६६,
१३^१.

कर्की-प्रवा(द>)दा^१- -दानाम् कौस्
२१, ११.

कर्कोट- पाठमो २, २, ११२.

✓कर्ज पाथा. भ्वा. पर. व्यथने.

✓कर्ण पाथा. चु. पर. भेदने.

रकर्ण^१- पाठ ३, १०; पाग ५, २,
२४; ९७; -र्णः माण १, ३, ४;

कौस् ५८, १^१; या १, ९; शुप्रा २,
३१^१; पा ६, २, ११२; -र्णम्

आपथौ १९, १७, १; २०, १८,
१३; २२, १६, ७; वौश्रौ १४,
१३ : ३५; १५, ७ : १२; १६,

२६ : १३; हिथ्रौ १४, ३, २९^१;
२२, १, १३; कौट १, २०, ६;

भाण १, ८ : ८; १७ : ११;
२४ : २; कौस् १०, ८; ५८,

१; या ९, १८^१; -र्णयोः काथ्रौ
२५, ७, २७; आपथौ; -र्णस्य

ऋत ५, १, १; -र्णा या १०, ४१^१;
-र्णाभ्याम् आथ्रौ ५, ६, १२;

आपमं १, १७, १^१; आण ३, ६,

८^१; पाण २, ६, १९; ३, १५, २३;

वौण २, ५, ४१^१; माण १, ९,
२५^१; वाण १२, २^१; या ७,

३^१; -र्णे आथ्रौ ३, १४, १९;
शांश्रौ ४, १४, २३; काथ्रौ १३,

४, १८; आपथ्रौ; पा ६, ३, ११५;
-र्णेभिः आथ्रौ ५, १९, ५; ८, १४,

१८; आपथ्रौ १४, १६, १; वौश्रौ
१९, १० : ६; हिथ्रौ १५; ५, १;

कौण २, ५, ३; शांश ३, ८, ६;
५, ५, ११; काण ७२, ३; माण १,

१, १९; वैण १, ६ : १२; अप्राय
६, १^२; शुभ्र ३, ५२; -र्णौ काथ्रौ

६, ६, ३; आपथ्रौ ६, २०, २^१;
माथ्रौ २, २, ३, २०; वैथ्रौ १३,

१७ : ३; शांश ५, ५, ११; आपण
११, १३; वाण २, ४; ३, १०; वैण

१, ३ : ११; गोण १, २, ८; कौस्
४४, २३; अप ९, १, ४; वाध २,

१०^१; शंघ ५७; ४५६; आपध
२, १९, १; विध ३०, ४७^१; ९६,

९२; हिध २, ५, ७३; वृदे ८,
११८; अथ १६, २^१; या २,

४^१; १०, ४१^२.

रकर्ण, र्णा^१- -र्णः आपथ्रौ ९, १४,
१४; माथ्रौ ९, १६, १७; हिथ्रौ

१५, ४, २१^१; -र्णा अथ ५,
१३^१; -र्णाः आपथ्रौ १८, ११,

१५; २५, ४, २४; वौश्रौ १२,
६ : ८; हिथ्रौ १३, ४, २३; १७,

२, २८; -र्णान् आपथ्रौ १८,
११, १३; वौश्रौ १२, ६ : ३; ७;
हिथ्रौ १३, ४, २२.

१कर्ण-क^१- -कौ शांश्रौ १२, २२,

a) वैप १ द्र. । b) वृ ८२६ I द्र. । c) तु. पाका. । d) अर्थः व्यु. च ? e) फर्कर- इति [पक्षे] भाण्डा. ।
f) = वाय-विशेष-। व्यु. ? । g) वैप ३, २२३ b द्र. । h) अर्थः ? । i) भाप. = कर्कशता- । j) = आयुधजीवि-संघ- । व्यु. ? ।
k) विप. (अञ्-). वस. । l) = भ्रोत्रेन्द्रिय-, तद्वत्, कोण-, पार्श्व- । m) पाभे. वैप १, १०९६ b द्र. । n) २, ३ कर्ण-
[वैप १ द्र.] श्येतयोरत्र समावेशः द्र. । o) अक^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । p) पाभे. वैप १, १०९६ h द्र. ।

३१.
 २कर्ण-क^a- पाग ५, २, ३६.
 कर्णका(क-अ)भाव^b- -वे काश्रौ
 १८, ४, ७.
 ङकर्णका-व (त >)ती^a- -ती
 तैपा ३, ५; -तीम् वाधुश्रौ ४,
 ३० : १२.
 कर्णकित^c- पा ५, २, ३६.
 -कर्ण-कोष्ट- (> कार्णकोष्ट- पा.)
 श्लोष्टु-कर्ण- टि. द्र.
 -कर्ण-गृहीत, ता^a- -तम् माश्रौ २,
 १, ४, ३३; -ताम् हिश्रौ ७, २,
 २३; -तेन आपश्रौ १०, २९,
 ४; वौश्रौ २१, १२ : २८; माश्रौ
 १०, २०, ४; वैश्रौ १२, २० :
 १३; हिश्रौ ७, ३, २१.
 -कर्ण-ग्राह^d- (> कार्णग्राहिक- पा.)
 पाग ४, १, १४६.
 -कर्ण-घोष-वत्- -वति काध २७६ :
 १२.
 -कर्ण-च्छिद्र- -द्रे वाश्रौ २, १, ७, ५.
 कर्णच्छिद्र-प्रतीकाश- -शाः अप
 ५२, ७, ५.
 -कर्ण-छेद- -दम् अप ६८, २, १०.
 -कर्ण-जाह- पा ५, २, २४.
 -कर्ण-द्वय- -द्वम् आपश्रौ ५, १४,
 ८; माश्रौ १, ५, ४, १३; वाश्रौ
 १, ४, ३, १४; हिश्रौ ३, ४, १८;
 -द्रे वाश्रौ १, ४, ३, १३.
 -कर्ण-धार^e- -रः या १४, ३३.
 -कर्ण-ध्वनन- -ने आश्रु ३, ६, ७.

कर्ण-नासा-विकर्तन- -ने विध ५,
 ६८.
 कर्ण-पत्रक- -कौ विध २६, ९२.
 कर्ण-पवित्र- -त्रे गौपि २, ६, १२.
 कर्ण-प्रावृत्- -ताः वैश्रौ १६, १८ :
 १०.
 कर्ण-मूल- > श्लिय- -यः शैशि
 १३०.
 कर्ण-युग्म- -ग्मे शंघ ४५७ : १३.
 कर्ण-ल- पा ५, २, ९७.
 कर्ण-ललाट-नासिका- -काः माशि
 १२, ५.
 कर्ण-लोमन्- -मानि आश्रिण ३,
 ५, ८ : ५; वौपि १, ७ : ७.
 कर्ण-वत्- -वन्तः या १, ९१.
 कर्ण-विप्^f- -विट् विध २२, ८१.
 कर्ण-वेधन^g- -नम् कौश्रु १, २०, १.
 कर्ण-वेष्टक^h- पाग ५, १, ४; -कौ
 पाश्रु २, ६, २६.
 कर्णवेष्टकीय- , क्य- पा ५,
 १, ४.
 कर्ण-श्रवस्- > कार्णश्रवसⁱ- -सम्
 लाश्रौ ७, ३, ३.
 कार्णश्रवसा (स-आ) जिग-स-
 रूप- -पाणाम् लाश्रौ ६, १०, ४.
 कर्ण-श्राचिन्- -विणि गौध १६, ६.
 कर्ण-श्रुत्^d- -श्रुत् ऋश्रु २, ९, ९७;
 साश्रु १, ५३८.
 कर्ण-संश्रित- -तः वृदे ८, ११३.
 कर्ण-संमित- -तः वौश्रौ १९, १ :
 ६; ७.

कर्ण-सहि(त >)ता^a- -ताः काश्रौ
 १७, ६, ३.
 कर्ण-स्थ-ब्रह्मसूत्र^k- -त्रः आश्रिण
 २, ६, ८ : ४.
 कर्णा(र्ण-आ)तर्द^l- -र्दम् आपश्रौ
 ११, ७, ३; ४; हिश्रौ ७, ५, १६३.
 १कर्णिका- पा ४, ३, ६५^m; -का
 अप १८, १, १६ⁿ.
 कर्णिका-मध्य- -ल्ये आश्रिण २,
 ४, १० : ६.
 कर्णिन्- -र्णिभिः वौध १, १०, १०.
 कर्णिनी- -नी वौश्रौ १८, ४६ :
 १४; -न्यः लाश्रौ ८, ६, २३;
 -न्यौ काश्रौ २२, ४, २३.
 कर्णे-सुख, र^oसुरा- पाग २, १, ४८.
 कर्णे-जप- पा ३, २, १३.
 कर्णे-टिरिटिरा^p- पाग २, १, ४८.
 ३कर्ण- पाग ४, १, ११२^q; २, ८०^q;
 -र्णः अप ५२, ९, ४^r.
 कार्ण- पा ४, १, ११२.
 कार्णायनि^s- पा ४, २, ८०.
 ३कर्ण-क^t- पाग २, ४, ६९.
 ?कर्णाजायेन वाधुश्रौ ४, १०८ : २.
 कर्णाटल, डक^u- पाग २, ४, ६३.
 ?२कर्णिका^v- -कानाम् हिश्रौ २१,
 २, ५८.
 कार्णिकार^w- > र-वन- -नानि अप
 ६८, १, १६.
 ?कर्णिन^x कौशि ४५.
 कर्णु^y- (> कार्णव- पा.) पाग ४, २,
 १३३.

a) वैपश् द्र. । b) पूष. = दास्तफोटरोग- । c) = अहकुरित- इति MW. । d) व्यप. । व्यु. ? ।
 e) = नाविक- । उस. पूष. = अश्रिण- । f) = कर्ण-मल- । g) = संस्कार-विशेष- । h) = कुण्डल- । पस. ।
 i) = साम-विशेष- । j) विप. (इष्टका-) । k) विप. । उस. > वस. । l) = ईषासंधानकील- ।
 m) = अलंकार-विशेष- । n) = श्रोत्र-विशेष- ? । o) तु. पाका. । p) ष्ण-टिटिम- इति पाका., ष्ण-टिरिटिरि-
 इति पागमं. । q) अर्थः व्यु. च ? । r) = सूर्य-ग्रह- । s) = देश-विशेष- ? । t) स्वार्थिकः कः प्र. । u) व्यप. ।
 व्यु. ? । ष्ट^o इति पाका. । v) = वनस्पति-विशेष- । व्यु. ? । w) व्यप. । पाठः ? कुण्डन-> -नः इति शोष-
 (तु. तै. काण्डानुक्रमणिका २७) । x) तु. पागम. ।

शुक्रण्याः वाश्रौ ३, २, १, २.
 ✓कर्त् पाधा. उ. उम. शैथिल्ये.
 श्कर्त्- ✓हृत् (छेदने) द्र.
 र्कर्त्- ✓हृत् (वेष्टने) द्र.
 कर्त्तरि, री- ✓हृत् (छेदने) द्र.
 कर्त्तव्ये, कर्त्तव्य- ✓हृ द्र.
 कर्त्तु- पाठभो २, १, ६४.
 कर्त्तुम् ✓हृ द्र.
 श्कर्त्तु^a- (>कार्त्तु- पा.) पाग ४,
 १, १५१.
 र्कर्त्तु- कर्त्तोस (ः) ✓हृ द्र.
 ✓कर्त्तु ✓कृत् टि. द्र.
 कर्त्तु- ✓हृ द्र.
 ✓कर्त्तु पाधा. भ्वा. पर. कुत्सिते
 शब्दे.
 श्कर्त्तु, ह्यम्^b- पाठ ४, ८४; पाग ४,
 २, ८०^c; ५, २, ३६; १२७;
 १३५; फि ५९; -सम् काश्रौ
 २५, ८, २; अप ७१, १३, ५;
 -मेन गौपि १, ६, २.
 कार्त्तु- कार्त्तु- पावा ४,
 २, २.
 र्कर्त्तु- पा ५, २, १२७.
 कर्त्तु- पा ४, २, ८०^d.
 कर्त्तु- पेपु अप ६८, ५, २.
 कर्त्तु- भित्त्यन्तकोण-वेध- -धैः
 कप्र ३, १०, १६.
 कर्त्तु- पा ५, २, ३६.
 कर्त्तु (रु.)-नी- पा ५, २, १३५.
 कर्त्तु- पा ४, २, ८०^e.
 कर्त्तु- पाठ ४, ८१; पाग २, ४,
 ३१.
 कर्त्तु- पाठभो २, ३, ३९.

कर्पास^e- पाठ ५, ४५; पाग २, ४,
 ३१.
 कर्पासो- पाग ४, ३, १३६.
 श्कर्पास- पा ४, ३,
 १३६; -सम् आश्रौ ९, ४, १७;
 लाश्रौ ९, २, १४; निसू १, ११ :
 ८; गोय २, १०, ११; शंघ २३५;
 विध ७१, १५; गौध १, २०.
 कार्पास-कीटजो (ज-
 ऊ) णा (णां-अ) पहरण-
 -णे विध ५२, ११^f.
 कार्पास-शणा(ण-आ)
 विक- -कानि विध २७, १९.
 र्कार्पास^g- -सः आन्निगृ २, ४,
 ९ : ३.
 कार्पासा(स-अ)त्थि- -त्थि
 विध ६३, २५.
 कार्पासो (स-उ)त्थ- -त्थम्
 विध ७९, ३.
 कार्पासिक- -कानि द्रौध १, ६,
 १०.
 कर्पास-तन्तु-> कार्पासतान्तव^h-
 -वम् विध ४४, २८.
 कर्पास- पाठ ४, ९०; पाग ४, १, १२३;
 २, ८०ⁱ.
 कार्पास- पा ४, १, १२३.
 कर्पासि^j- (> कार्पासि- पा.)
 पाग ४, २, ७७.
 कर्पासि- पा ४, २, ८०^k.
 ✓कर्पास पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 कर्पासि^l- पाग २, ४, ३१^m.
 कर्पासि- पाठभो २, ३, ४५.
 कर्पासि- पाठ १, ४१; -रम् अप ४८,

७५ⁿ.
 कर्म- ✓हृ द्र.
 {कर्मग्रामोऽवलन्धेत^o} वाश्रौ ३, २, ५-
 ४३.
 कर्मन्- ✓हृ द्र.
 कर्मन्-> णिन्- पा ४, ३, १११.
 कर्मार- ✓हृ द्र.
 ✓कर्म् पाधा. भ्वा. पर. दधे.
 कर्म्- कर्म्- ✓हृ द्र.
 कर्म्- णी नाशि ९, ११;
 -णीम् नाशि ९, १२;
 कर्म्- फल्य कौसू ४३, १; ब्रह्म
 ३, ९.
 कर्म्- ✓हृ द्र.
 कर्म्- कर्म्- ✓हृ द्र.
 कर्म्- पाठभो २, २, ९७.
 कर्म्- कर्म्- कर्म्- कर्म्-
 ✓हृ द्र.
 कर्पा^p- पाठ ६८, २, ४६.
 कर्पापण^q- पाग ५, ४, ३८^r.
 श्कर्पापण- पा ५, १, २९, ४, ३८^s
 पाग २, ४, ३१; -णः शंघ
 ३२२; विध ४, १३; -णम् विध
 ५, ५४; -णाः शंघ ३१२^t;
 ३२४; विध ५, ३८; वाध १९,
 २१; -णात् पावा ५, १, २५;
 -णान् विध ५, ५२; ५३; ६०;
 १३९.
 कार्पापण-द्वय- -यम् विध ५,
 २७.
 कार्पापण-पञ्चविंशति- -तिम्
 विध ५, ९१.
 कार्पापण-शत- -तम् विध ५,

a) अर्थः व्यु. च? । b) वैप १, ३३ द्र. । हृ इति कप्र. । c) अर्थः? । d) =देश-विशेष-? ।
 e) नाप. । व्यु. ? < ✓हृ [अर्थः?] इति प्रायोवादः । कार्पास- इति पाठना. । f) 'णांघप' इति जीसं. ।
 g) =कर्पास- । स्वार्थे ङ् प्र. । h) विप. । तत्त्वेदमीयः ङ् प्र. उभयपदद्विध. । i) तु. पागम. ।
 j) पाठः? सप्र. आपश्रौ २१, २०, ३-क्षेमे च्यूदे ग्रामेण इति पाभे. । k) =स्वरभक्ति-विशेष- । व्यु. ? । सप्र. याशि
 २, १३ कुर्विणो इति पाभे. । l) वैप १ द्र. । m) =पोडरापल-प्रमाण- । व्यु. ? । n) का? इति पाका. ।

२८; ३३; ४४; ५०; ५७.
 कार्पापण-शतद्वय- -यम् विध
 ५, २६.
 कार्पापण-सहस्र- -स्त्राभ्याम् पा
 ५, १, २९.
 कार्पापणिक- पावा ५, १,
 २५.
 कार्पिन- , कर्पू- प्रमृ. ✓कृप् द्र.
 ✓कल् (वधा.), पाधा. भ्रा. आत्म.
 शब्दसंख्यानयोः, चुरा. पर.
 क्षेपे, उभ. गतौ संख्याने च,
 कालयति निघ २, १४१.
 कल्-> कल-हंस-प(द्>)दी-
 पाग ५, ४, १३९.
 कलित- पाग २, १, ५९.
 कलकीट^१- (> कालकीट- पा.)
 पाग ४, २, ११०.
 कलकूट^२- > कालकूटि- पा ४, १,
 १७३.
 कलङ्क^३- पाउभो २, २, ३०; पाग ५,
 २, ३६.
 कलङ्कित- पा ५, २, ३६.
 कलञ्ज-करञ्ज- द्र.
 कलत्र^४- पाउ ३, १०६.
 कलन^५- (> कालनक^६- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 कलन्दन- भलन्दन- टि. द्र.
 कल्प- पाउनाट्ट ३, १४२.
 कलभ- पाउ ३, १२२; पावाग
 ८, २, १८^१.
 कलम- पाउ ४, ८४.

कलम्ब- पाउना ४, ८८.
 कलल^१- पाउभो २, ३, ९६; -लम् या
 १४, ६.
 कललकीकटा-, कललकीट-
 कमलकीट- टि. द्र.
 कल-व(त् >)ती^२- -ती कप्र ३, ९,
 १०.
 कलविङ्क^३- पाउभो २, २, ३२; -ङ्कः
 वृदे ६, १५१; -ङ्कान् आपथ्रौ
 २०, १४, ५१.
 कलविङ्क-प्लव-चक्रवाक-हंस-रज्जु-
 दाल-सारस-दात्युह-शुक-सारिका-
 बलाका-वक-कोकिल-खञ्जरीटा-
 (ट-अ)शन- -ने विध ५१,
 २९.
 कलविङ्क-ह्र(ःङ्म)व-चक्रवाक-हंस-
 चाप-भास-कौञ्च-क्रूरकाक-कङ्क-
 गृध्र-श्येन-वल्लोक-मल्लु-टिट्ठिभ-
 खञ्जरीटो(ट-उ)ल्लक-रक्तपादा
 (द-त्रा)दि-मांस-भक्षण-
 -गे सुध ३५.
 कलश^४- पाउभो २, ३, १४२; -शः
 आथ्रौ ५, ५, १९१; काथ्रौ; या
 ११, १२४; -शम् काथ्रौ ८, ९,
 १८; आपथ्रौ; माथ्र २, ११,
 १२१; गोथ्र २, १, १२०;
 -शाः शाथ्रौ ७, १५, ८१; माथ्रौ
 २, ३, ७, ६१; -शात् आपथ्रौ
 १४, २७, ३; वौथ्रौ; -शान् शाथ्रौ
 १७, ४, ८; १७, ९; माथ्रौ; या
 ११, १२१; -शानाम् अथ्र २१,

२, १; -शे शाथ्रौ १३, १२, १;
 जैथ्रौका; -शेषु आथ्रौ २, १२,
 ४१; ५, १२, १५१; शाथ्रौ;
 -शैः वैथ्रौ २१, ४ : ६; आथ्र
 २, ८, १६१; कौथ्र ३, २, ६१;
 शाथ्र ३, २, ९१; पाथ्र ३, ४, ४१;
 काथ्र ११, २१; वैथ्र ४, १० :
 १८; ह्यथ्र १, २७, ४१; अथ्र
 ५, १, २; वौथ्र १, ५, १२६;
 -शौ आपथ्रौ १२, २९, ९४;
 वैथ्रौ.
 कलशी^५- -ःशीः आपमं २,
 १५, ४; आमिथ्र २, ४, १ : १६;
 भाथ्र २, ३ : ९.
 कलशी-कण्ठ^६- पाग २,
 ४, ६९^१.
 कलशी-प(द्>)दी-
 पाग ५, ४, १३९.
 कालशिक^७- -काः वैथ्र १,
 ८, १.
 कलश-भेदन- -ने काथ्रौ २५, १२,
 २३.
 कलश-व(त् >)ती- -त्तीः शाथ्रौ ७,
 १५, ८.
 कलशि^८- (> कालशेय-) पा ४, ३,
 ५६.
 कलह^९- पाउभो २, ३, १८५^१; पा ६,
 २, १५३; पाग २, ४, ३१; -हः
 माथ्र २, १४, २९१; -हम् हिथ्रौ
 ६, ७, ८; ह्यथ्र १, २९, २; अथ्र
 ६८, १, १८; -हान् जैथ्र १, १९ :

- a) या २, २५ परामृष्टः द्र. । b) विप. । धा. कान्तौ वृत्तिः । c) कस. > वस. । d) अर्थः
 व्यु. च ? । e) = योद्ध-वंश- । व्यु. ? । f) = चिह्न- , अपवाद- प्रमृ. । व्यु. ? । g) नाप. । वैप ३ द्र. ।
 h) = देश-विशेष- ? । i) तु. पागम. । = करभ- । j) नाप. । व्यु. ? । k) = वदरी-शाखा- ।
 व्यु. ? । l) वैप १ द्र. । m) पाठः ? यनि. शोधः (तु. विध.) । n) पाभे. वैप
 १, १०९७ । द्र. । o) 'सम् वावि. यनि. शोधः । p) व्यप. । वस. । q) = वानप्रस्थ-
 विशेष- । r) कलश- । s) = युद्ध- । व्यु. ? कल- + ह- (< ✓ हन्) इति अभा. ।
 t) < ✓ कल् ।

२९; -हे अप ७०^२, १६,३; सु
५,४.
कलह-कर्मन्- -र्मणि अप २६,४,६.
कलह-कार- पा ३,२,२३.
कलह-प्रिय^२- -या: अप ६८,१,९.
✓कलहाय पा ३,१,१७.
कलहिन्- -हि कौसू ९७,१; -हिनः
आगृ २, ७, ११; -हिनि कौसू
९३,५.
कला^१- पाग ४, २, ८०^०; फि ५७;
-लया आपश्रौ १०, २५, ४;
काश्रौ; -ला शांश्रौ १६, २२,
१८; वौश्रौ; -ला: शांश्रौ १६,
२२, १६; वाधूश्रौ; या ६, ६; ११,
१२; -लानाम् वेज्यो ३८^१;
-लाम् अप ८, १, ४×४; वाध;
-ले निस् ५, १२ : ५.
कालायन^२- पा ४, २, ८०.
कला-त्रिंशत्- -त्वात् आज्यो १,४.
कला-भर^१- -र: गौध ६, १६.
क(ल्य>)ल्या^२- -ल्या आगृ २,
६, ५ : २४.
कलाप^१- -पा: वौश्रौ ३१: ८^१; -पान्
आपश्रौ ८, १, १५; हिश्रौ ५, १,
१^१; -पेन अप ५८^३, २, ८^१.
कलाप-मा(त्र>)त्रा- -त्राम् अप
३६, १७, १.
कलापिन्- पा ४, ३, ४८; १०४;
पाग ४, १, ११२^३; पावा ६, ४,
१४४; -पि आश्रौ २२, ३,
८^३; काश्रौसं २८: २; -पिनः

काश्रौ २२, ३, १८; पा ४,
३, १०८; -पिनम् शंघ ११६:
६०^३; -पी आश्रौ ९, ७, १८;
काश्रौ २२, ३, ४८; लाश्रौ ८, ३,
६.
कालाप- पा ४, ३, १०८;
पावा ६, ४, १४४.
कलापक- पा ४, ३, ४८.
कलापि-लाढायन-ग्रहण- -गम्
पावा ४, ३, १०४.
कलापि-वैशंपायना(न-अ)न्तेवा-
सिन्- -सिभ्यः पा ४, ३, १०४.
कलाय- पाठमो २, ३, ८.
१कलि^० पाठ ४, ११८^१; -लि: शांश्रौ
१५, १९, १; वाधूश्रौ ४, ५९^३ :
६; अप ६७, १, ४; या ११,
१२^१; -लिम् काश्रौ १५, ७,
१९; आपमं २, १३, ७^०; अप
७०^३, ३२, ४; ५; -ले: वाधूश्रौ
४, ५९^३ : ४; कप्र २, १०,
१०; -लौ जैश्रौका १.
✓कलि पा ३, १, २१.
कलि-युग- -गम् विध २०, ६.
कलि-व्यपे(त>)ता- -तासु विध
९९, २२.
कलि-स्तोम- -मा: निस् १, ९ : ७;
१२-१४.
कलि-स्थान- -नम् निस् १, ६ : ६.
२कलि^१- -लय: वौश्रौ ४४ : २१;
-लि: ऋश्र २, ८, ६६; साश्र १,
२३९; २७२; २, ९५९; अश्र २०,

९७; -ले: पा ४, २, ८; पावा ४,
२, ७.
१कालेय^१- पा ४, २, ८; पावा ४,
२, ७; -यम् शांश्रौ ७, २४, १;
१५, ७, ५; वौश्रौ १८, १५ : ९;
जैश्रौका १८१; लाश्रौ ९, ५, १८;
१०, ७, ९; लुस् १, २ : १०×४;
-यस्य लाश्रौ ७, ८, २; ९, ५,
१६; निस् ५, ४ : १४; -यात्
लुस् १, ४ : १०; २९; ६ : १९;
८ : १०; निस् ४, १० : ११;
-येन जैश्रौ १७ : २५.
कालेय-रैवत- -ते आश्रौ ९,
११, ९.
कालेय(य-ऋ)र्च- -यर्च: द्राश्रौ
९, २, १७; लाश्रौ ३, ६, १८.
कालेय-स्थान- -ने द्राश्रौ ८,
३, १६; लाश्रौ ४, ७, ३.
२कालेय^१- -या: वौश्रौ ४४ : १.
कालिका- पाठमो २, २, १५.
कलिङ्ग^१- पाठमो २, २, ६३; -ङ्गान्
वौश्रौ १८, १३ : २; वौध १, १,
३०; ३१; -ङ्गानाम् अप १, ६,
२; -ङ्गेषु वौश्रौ २, ५ : २०^१;
जैश्र २, ९ : १८; अप ५१, १, ३.
कलिङ्ग- पा ४, १, १७०.
कलिङ्ग-पुर-पृथिवी-मण्डल-
मध्य- -ध्ये अप ५६, १, २.
कलित- ✓कल् द्र.
कलित-हरण- पाग २, २, ३७^१.
कलिन्द^१- पाठमो २, २, १६८.

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) अर्थः ? । d) कु? इति पाठः ? यनि. शोधः । e)
=देश-विशेष-? । f) =कलाकार- । उस. । g) विप. । तत्रसाधनीयः यत् प्र. । h) वप्रा. ।
व्यु. ? । <कला- +√लाप् इति श्रमा. MW. । i) =ऋपि-विशेष- । j) =निधन- इति भाष्यम् ।
k) =बर्ह- । l) तु. पागम. । m) =धान्यतृण-मुष्टि- । n) सप्र. अप २१९, २३ कापालिम्
इति पाभे. । o) =युग-विशेष-, कलह-, यूत-साधन-; छन्दस्-, स्तोम- । वैप १ द्र. । p) <✓कल्
[माप्रेण] इति । q) =ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । r) =साम-विशेष- । s) =जनपद-विशेष-, तद्वासिन्- ।
व्यु. ? । t) =पर्वत-विशेष- । व्यु. ? ।

कल्याण-देव- -वः या १४, २७.
 कल्याण-नामधेय- -यम् अप १,
 ३१, ७.
 १कल्याण-नामन्- -स या ९, २.
 २कल्याण-नामन्^३- -मानम् कौत्
 ७८, ८.
 कल्याण-नासि(का>)क^३- -कम्
 बाध २, ३५.
 कल्याण-पाणि^३- -णिः या २, २६.
 कल्याण-प्रजा- -जाः जैगृ १, २, २: ३.
 कल्याण-प्र(ज्ञा>)ज्ञ^३- -ज्ञः या
 १४, २७; -ज्ञाः या ११, १४.
 कल्याण-भ(द्र>)द्रा^३- -द्राम् या
 ११, ३४.
 कल्याण-मङ्गल^३- -लः या ९, ४.
 कल्याण-वर्ण- -र्णस्य या २, ३.
 कल्याणवर्ण-रूप^३- -पः या २, ३.
 कल्याण-वासस^३- -साः या १, १९.
 कल्याण-त्रि(द्या>)द्य^३- -द्यः या
 ६, १४.
 कल्याण-वीर^३- -रः या ९, १२;
 -राः या १, ७.
 कल्याण-शी(ल>)ला^३- -लाः जैगृ
 १, २, २: ३.
 कल्याण-सारथि^३- -थिः या ९, १६.
 कल्याण-हस्त^३- -स्तः या ११, ४३.
 कल्याणा(रा-अ)भिव्याहार^३- -रः
 शांश्रौ १७, १, १८.
 कल्याणो(रा-ऊ)मि^३- -मिः या ५,
 २७.
 ✓कल्त् पाथा. भ्वा. आत्म. अव्यक्ते-
 शब्दे.
 कल्लोल^३- पाठभो २, ३, ११५; पाग
 ५, २, ३६; १३५.
 कल्लोलित- पा ५, २, ३६.

कल्लोलि(त्>)नी- पा ५, २, १३५.
 कल्हार- पाठभो २, ३, ४५.
 कव- किम् द्र.
 कवक- पाठभो २, २, ७.
 ?कवकेशवकाशि(त्>)नी^३- नी
 कागृ ३५, १.
 कवच^३- पाठभो २, २, ७५; पाग २,
 ४, ३१; -चः आपश्रौ २२, १२,
 ७; -चम् काश्रौ १३, ३, १३;
 आपश्रौ १८, १०, ३०; २०, १६,
 ४; हिश्रौ १४, ३, २७; आगृ ३,
 १२, ३; आम्रिगृ २, ५, १: ५०;
 अप ३६, १, ४; या ५, २५^३कृ;
 -चस्य वृदे ५, १३४.
 कवच-वरुथ- -थम् वाधुश्रौ ३,
 ७६: १६.
 कवच-स्तुति- -तिः वृदे ५, १३२.
 कवचिन्- -चिनः शांश्रौ १६, १,
 १६; आपश्रौ २०, ५, १०; २१,
 १८, ६; १९, १३; वाश्रौ ३, २, ५,
 ४६; ४, १, ३१; हिश्रौ १४, १, ४६;
 १६, ६, ३४; कागृ ५७, ५; या
 १०, ३०; -ची अत्र ११, १०^३.
 कावचिक- पा ४, २, ४१.
 कवचि-निषङ्गि-कलापि-दण्डिन्-
 -ण्डिनः काश्रौ २०, २, ११.
 कवत्- १क- द्र.
 कवन्^३- -न्म् या १०, ४४^३.
 कवन्तक^३- पाग २, ४, ६९.
 कव-पथ- प्रचृ. किम्- द्र.
 क-वर्ग- १क- द्र.
 १कवल^३- पाठभो २, ३, ९८.
 २कवल^३- पाग ४, २, ८०; ६, २, ८७.
 कवल-प्रस्य- पा ६, २, ८७.
 कवल्पा- पा ४, २, ८०.

कवल्पा^३- -वषा आश्रौ ३, २, १;
 शांश्रौ ५, १७, ५; ६, १, ६; माश्रौ
 ५, २, ९, ४.
 १कवल्पा^३->कवषी- -प्यः ऋषा २,
 ४१.
 २कवल्पा^३- -घः ऋषा २, १०, ३०;
 लाश्र १, ४३९; ४४०; ४५४;
 -पस्य चात्र १९: १३.
 कवत्स- पाठ ४, २.
 कवाट^३- पाग २, ४, ३१.
 कवाटक- -के अप ६८, २, २९.
 क्व(व>)वा-तिर्यञ्च्^३- -र्यङ्
 आपश्रौ ६, १६, ३; वौश्रौ ३, ९:
 १६; भाश्रौ ६, १, ७; वैश्रौ २,
 ७: १; हिश्रौ ६, ६, ७; वौष २,
 १, ३४; ४, २, ११.
 कवाह्वायोवसा वाश्रौ ३, २, ८, १४.
 कवा-सख^३- -खः या ६, १९^३कृ;
 ऋषा ९, ८.
 कवि^३- पाठ ४, १३९; पाग ४, १,
 १८; १०५^६; १५१; -वयः आश्रौ
 ५, ९, १^३; आपश्रौ: या ६, २७^३कृ;
 -वयः या ३, २२^३कृ; -कवये
 आश्रौ ४, १३, ७; आपश्रौ;
 -कविः आश्रौ १, ८, ७××;
 शांश्रौ; निष ३, १५; या ५, २;
 ८, ५; १२, १३^३कृ; १४, २०;
 -विना पात्रा १, ४, ५१;
 -कविभिः आपश्रौ ४, ७, २;
 भाश्रौ; -कविम् आश्रौ ४, ६, ३;
 शांश्रौ; -कवी आश्रौ ६, १२,
 १२; शांश्रौ; -कवी आपश्रौ
 ६, २१, १; वाधुश्रौ ३, ५४: १;
 -कवीनाम् आश्रौ ३, ७, १४××,
 काश्रौ; या १४, १३^३कृ; -कवी

a) विप. । वस. । b) भाप. । वैप ३ द्र. । c) नाप. । अर्थः व्यु. च ? । d) वैप १ द्र. ।
 e) =उदक- । व्यु. ? । f) व्यप. । व्यु. ? । g) =प्राप्त- । h) अर्थः व्यु. च ? । i) =देश-विशेष- ? ।
 j) तु. पागम. । =कपाट- । व्यु. ? । k) व्यप. ।

आपथ्रौ २, ९, १०; वौथ्रौ; -वे:
जैथ्रौका ३; शैशि २८३१.

काव^१- -वम् जैथ्रौ २३: १६;
जैथ्रौका ६२; लाथ्रौ ७, ३, ११;
छुम् १, ८: १५; ३, ३: १६;
११: २९; निम् ७, ८: ३१;
३५; १०, १२: २८; -वस्य
छुम् १, ७: २७; ३, ३: १६;
निम् १०, २: ३४.

कावा(व-अ)न्त- -न्तम्
जैथ्रौका १८६.

कैकाव्य^२- पा ४, १, १०५;
१५१; पाग ४, १, ९९०; -व्य:
शांथ्रौ १४, २७, १; वौथ्रौ; अप्राय
६, ३१^१; -व्यम् वौथ्रौ १४, ७:
४१; १८, ४६: १७; वाधूथ्रौ;
या १४, १८^१; -कैव्ययो: शांथ्रौ
७, १०, ११; अथ्रौ २, ३५; -व्यस्य
भाय २, ६: १६; चाय ३८:
१६; -कैव्या आथ्रौ २, १९, २४;
वौथ्रौ; -कैव्याय शांथ्रौ १४, २७,
१३; कौस् १३२, ६; -कैव्येन वौथ्रौ
१८, ३१: ६; ऋप्रा ८, १३;
-कैव्येभि: आथ्रौ ७, ५, ९;
शांथ्रौ १२, २, ५; १५; -व्येभ्य:
द्राथ्रौ ७, २, १२; लाथ्रौ ३, २,
१२; -व्यै: शांथ्रौ ७, ५, २४;
जैथ्रौ.

कावी- पा ४, १, ७३.

काव्यायन- पा ४, १, ९९;

-नौ ऋअ २, ८, १४.

काव्यायनी पा ४, १, १८.

कैकवि-कतु^३- -तुम् आथ्रौ ४, ६,

३; शांथ्रौ ५, ९, ७; वौथ्रौ ६,
१४: १४.

कैकवि-तम- -मम् आथ्रौ ३, ७, १४;
-मस्य या ६, १३.

कवि-प्रशस्त^४- -स्त: वौथ्रौ २८,
२: ४६^१.

कवि-मत्- -मत: निम् ७, ५: १०;
-मन्तम् निम् ८, ७: ३४; ९,
४: ३५.

कवि-वृध^५- -ध: शांथ्रौ १८, १८,
११^१.

कवि-शब्द- -व्दे ऋप्रा ४, ५२.

कवि-शस्त- पाग ६, २, १४७;
-कैस्त: आथ्रौ १, ३, ६; शांथ्रौ १,
४, १९^१; -कैस्ता: आपथ्रौ ५,
१९, ४; हिथ्रौ ३, ५, ५; या १२,
३३.

कवि-सत्तम- -मम् अप ७०^२,
१, १.

कवीय > कवीयमान- -न: ऋप्रा
९, १४^१; -नानाम् या १४,
१३.

कव्य पा ७, ४, ३९.

कविय- पाठभो २, ३, ११.

कविर- पाठभो २, ३, ४७.

कविल^६- (> काविल्य^७- पा.) पाग
४, २, ८०.

कवूर- पाठभो २, ३, ५६.

कवेर- पाठभो २, ३, ६१.

?कवेरजेव चोडानाम् जैथ्रौका ३.

कव्य^८- पा ५, ४, २५; -कैव्य: शांथ्रौ
६, १२, ९; आपथ्रौ ११, १५, १;
वैथ्रौ १४, १३: ९; हिथ्रौ १०,

३, ४२; जैथ्रौ १३: २३; द्राथ्रौ
४, २, १६; लाथ्रौ २, २, २५;
-व्यम् वौग २, ११, ३२^१; वाग
१७, १४; वैग ४, ३: १६; ५,
१३: ८; १४: ७; -व्य्यास:
आपथ्रौ १४, ३२, ३^१; -व्येन
वैग ५, २: २५; -व्येभ्य: आपथ्रौ
१४, ३२, २^१; -कैव्यै: आथ्रौ
५, २०, ६; शांथ्रौ ८, ६, १३;
वैथ्रौ ९, ९: १.

कव्य-वाल^९- -वालम् अप ४३,
५, ३२.

कव्यवाल-अनल- -लम् कप्र
२, २, ३-८.

कव्य-वाहन^{१०}- पा ३, २, ६५; -कै^{११}
आपथ्रौ १९, ३, ११; वौथ्रौ;
-न: आथ्रौ २, १९, २५××; शांथ्रौ;
आपथ्रौ ११, १५, १^१; वैथ्रौ
१४, १३: १०^१; हिथ्रौ १०,
३, ४२^१; जैथ्रौ १३: २३^१; -नम्
आथ्रौ २, १९, ८; आपथ्रौ;
-नस्य शांथ्रौ ३, १६, १०; -ना:
अप्राय २, ९; -नाय आथ्रौ २,
६, १२^१; शांथ्रौ.

कव्यवाहनी^{१२}- -नीभि:

आपथ्रौ १९, ३, ११; वैथ्रौ ११,
५: १२^१; हिथ्रौ १३, ८, ३५^१.
कव्यवाहन-प्रवाद- -व: माथ्रौ
५, १, ४, १४.

कव्यवाहन-संस्तुति- -ति: वृदे
६, १६१.

कव्य-स्थाली- -लीम् वैग ५, १३:
१६.

a) =साम-विशेष-। तेनदृष्टीयः अण् प्र. । b) १कृाव्य-, २कृाव्य-, ३कृाव्य- (तु. वैप १) अत्र समाविष्टाः । c) काल्य- इति [पक्षे] भाण्डा. । d) पामे. शोधश्च वैप १, ११०२ b द्र. । e) वैप १ द्र. । f) अर्थः व्यु. च ? । कलिव- इति पाका. । g) =देश-विशेष- ? । h) निप. । उप्त. उप. =वाह् > ल्, इ- । i) पामे. वैप १, ११०३ n द्र. । j) पामे. वैप १, ११०३ o द्र. । k) = [कव्यवाहन-शब्दवती-] ऋच्- । l) का इति पाठः ? यनि. शोधः । m) ष्हि इति पाठः ? यनि. शोधः ।

कव्या(व्य-अ)पहारिन्-री शंघ
३७८.
✓कश् पाधा. अदा. आत्म. गति-
शासनयोः.
कशस्^१-शः निघ १, १२१.
क(श>)शा^२- पाग ५, १, ६६;
-शा आपश्चौ १२, १८, १०१;
काठश्चौ १२८; वौश्चौ ७, ८:
२०१; माश्चौ २, ३, ६, १४१;
वैश्चौ १५, २१ : ८१; हिश्चौ ८,
५, १०१; अपश्च ८, १०२१; निघ
१, १११; या ९, १९१; -शाम्
वाश्चौ ३, १, २, २१०; ४, ३, ३८१;
वृदे ५, १३२; श्रुश्च ३, १२६;
-शायाः अश्च ९, ११.
कश्य- पा ५, १, ६६.
कश^३-शे वौश्चौ २, ५ : ८१.
कश^४- (> कश्य- पा.) पाग ४,
३, ५४.
कशक^५-काय आमिष्ट १, १, ३ :
४२५.
कशा, स^६कृत्स्न- (> काशा, स-
कृत्स्न- पा.) पा, पाग २, ४,
६९.
क-शब्द- १क द्र.
कशम्बूक^७-कः सु २३, ५.
कशाम्ब- पाठभो २, ३, २२२.
कशाय^८- (> काशायन- पा.) पाग
४, ३, १०६६.
कशिक^९- (> कशिक-पाद- पा.)
पाग ५, ४, १३८.
कशिपा^{१०}-पा श्रुश्च ४, १९.
कशिपु^{११}-पाठभो २, १, ८४; -पु

वौश्चौ १२, १६ : ६; १५, १५ :
१७; २ : २३; २६; ३८ : ८;
वाधुश्चौ ३, ७६ : २२; हिश्चौ
२, ७, २२; १४, २, ९; कौस् २४,
२८; अप २३, ५, ४; -पुनि
वाश्चौ ३, ४, १, ३६; -पुनोः
काश्चौ १५, ६, ४; -पुम् वाश्चौ
१, २, ३, ११; -पुपु काश्चौ २०,
२, २१; -पौ वौश्चौ १२, १५ :
२५; वृदे ५, २०.
कशिपू(पु-उ)पवर्हण- -णम् आपश्चौ
१, ८, २; ८, १४, १६; भाश्चौ
१, ७, ९; ८, १७, ७; वैश्चौ
९, ६ : ९; हिश्चौ ५, ४, ३९;
वैताश्चौ ३६, २३; अश्च ९, ६१;
-णे वौश्चौ ५, ११ : ४; ५; १२ :
२०; १५ : २०.
कशिपू(पु-उ)पवर्हण-वासस्- -सः
वैष्ट ४, ६ : ७.
कशिपवा(पु-आ)दि- -दि वैताश्चौ
११, १४.
कशी^{१२}- पागम ५८.
कशी(क>)का^{१३}-का अप १,
३४, ४.
कशु^{१४}-शोः ऋश्च २, ८, ५; वृदे ६,
४५.
कशेरु, रू- पाठ १, ८८.
कश्मर- कश्मीर- टि. द्र.
कश्मल- पाठ १, १०९.
कश्मीर^{१५}- पाठ ४, ३२; पाग ४, १,
१७६; २, ८०१; १३३; १३४; ३,
९३.
काश्मीर- पा ४, २, १३३; ३, ९३;

-रम् अप ५६, १, ९; -रान् अप
५०, २, २.
काश्मीरी- पा ४, १, १७६.
काश्मीरक- पा ४, २, १३४.
काश्मीर्य- पा ४, २, ८०१.
कश्य- पाठ ४, ११२.
कश्यप^{१६}- पाग ४, १, १०४; -०प
वौश्चौ १८, १६ : १०१; वैष्ट
४, ७, ६; -पः शाश्चौ १६,
१६, ४; वौश्चौ ५४ : ७; १३;
आपमं १, २, २१; काष्ट ३, ५१;
हिष्ट २, १९, २; अप १, ३,
१; ४८, ११५१; ५२, १०, २;
वौष्ट १, ११, २०; विष्ट १,
२१; ३०; ऋश्च २, ८, २९xx;
-१पम् वैष्ट १, ४ : १६; विष्ट
१, २०; २१; ३३; -१पस्य
वौश्चौ १७, ४० : ४xx; आपमं;
-१पा आश्चौ ३, ३, १; शाश्चौ
५, १७, ५; ६, १, ६; माश्चौ ५,
२, ९, ४; -पाः वौश्चौ ४१ :
१; १९; ४४ : ६; -पान्
वौश्चौ ४१ : १; -पानाम्
आश्चौ १२, १४, ७; आपश्चौ २४,
९, १४; हिश्चौ २१, ३, १३;
-१पाय शाश्चौ १६, १६, ३; पाष्ट
२, ९, २; माष्ट ३, १० : २; हिष्ट
२, १९, ३; वृदे ५, १४५.
कश्यप- पा ४, १, १०४;
पाग ४, १, ९९; -०प आश्चौ
१२, १४, ७xx; आपश्चौ;
-पः आमिष्ट १, २, २ : १३;
काष्ट; या १२, ४०; -पम् शंघ

a) = जल- । b) वैप १ द्र. । c) का^० इति पाठः? यनि. शोषः । d) = शकुनि-विशेष-? । व्यु. ? ।
e) = देश-विशेष- (तु. पागम.) । f) = देवता-विशेष- । व्यु. ? । g) सप्र. कश^० <> कप^० इति पाठे. ।
h) तु. पागम. । काश^० इति पाका. प्रमृ. । i) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । j) व्यप. । व्यु. ? । k) तु. पाका. ।
रकपाय- इति भाण्डा. । l) अर्थः व्यु. च ? । m) पुं, न. = कट- । व्यु. ? । n) खनित्र- [पंजा. कस्ती] ।
o) = जनपद-विशेष- । व्यु. ? । p) अर्थः ? । कश्मर- इति पाका. ? । q) = देश-विशेष- ? । r) बहु. <कश्यप- ।

११६ : ३५; वौध २, ५, २६[†];
-पस्य काध २७२ : ८; चाश्र;
पा १, २, २५^०; -पा: वैश्रौ १२,
१ : १९; वैध; -पानाम् वैध
४, ७, १; -पाय आमिष्ट १, २,
२ : १६; वौष्ट ३, ९, ३; -पे
साश्र १, ३६१; ५७०; पा ४,
१, १२४; -पौ ऋश्र २, ९, ९९;
१०४^b; साश्र.
काश्यपी^० -पी अष १,
३, १; -पीनाम् चाश्र १६ : ३१;
४० : १.
काश्यप-कौशिक-ग्रहण-
-णम् पावा ४, २, ६६.
काश्यप-शाकटायन- नौ
शुप्रा ४, ५.
काश्यप-सगोत्र^d -त्रम्
चव्यू ४ : २२.
काश्यपायन- पा ४, १, ९९.
काश्यपिन्- पा ४, ३, १०३.
काश्यपीय^० -यम् काध २८२ :
६; -यान् काध २७० : १.
काश्यपेय[†] -यम् अश्र ८, ९.
कश्यप-प्रो (क्ल>) क्ता- -क्ता:
काध २८० : ५.
कश्यप-वत् आपश्रौ २४, ९, १४;
१५; १०, २; वौश्रौप्र.
कश्यप-वत्^६ -तम् निस् २, २: २९.
कश्यपा(प-आ)र्ध- -र्धम् ऋ २, १,
९९; वृदे ३, १३०.
✓कप्^h पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्,

कपेत वैताश्रौ ११, २५.
१कप- -प: पावा ३, ३, ११९.
कपि- पाठ ४, १४०.
कष्ट, घा- पा ७, २, २२; पाग ५, १,
१२३[†]; -घात् या १४, २०;
-घायाम् विध २२, ५५.
काण्ट्य- पा ५, १, १२३.
✓कष्टाय पा, पावा ३, १, १४.
२कप[†] - (> काण्य-, > काण्याय-
[ण>]णी- पा. यक.) ४, १,
१०५; १८.
१कपक- -काय हिष्ट १, ६, ५१^क.
२कपक[†] - पाग २, ४, ६३[†].
१कपाय^m - पाठभो २, ३, ८; पाग
२, ४, ३१.
कापाय^p - -यम् आश्र १, १९,
११; कौष्ट २, १, ८; आमिष्ट १,
१, ४ : ४७; हिष्ट १, ८, १२;
आपध; -आणि कौस् ५७, १४;
-येण अप ३३, १, ८.
कापाय-तोय^० -यै: वैष्ट ७,
३ : ४; १३.
कापाय-धारण- -णम् वैध
३, ६, ५.
१कापाय-वासस्- -स: अप
६८, ५, ७; -ससी आमिष्ट २,
७, ११ : २.
२कापाय-वासस्^d -सस:
माष्ट २, १४, १०; अप ५३,
२, ३; -सा: वौध २, ६, २३;
८, १६.

कापाया(य-अ)जिन-
-नयो: वैष्ट २, ८ : ११.
काषाया (य-अ)पवित्रा(त्र-
आ)दि- -दीन् वैध ३, ६, ९.
कापाया(य-आ)विक-
-कयो: अप १, ३२, ५.
कपाय-कटुक-प्रिय^p - -या: अप
६८, १, ३८.
कपाय-कटुका (क-आ) श्र(य>)-
या^p - -याम् वौध ३, ३,
२१.
कपाय-प^p - -प: आपध १, २७, १०;
हिष्ट १, ७, ३५.
२कपाय- (> कापायिन्-)
कशाय- टि. द्र.
कपीका- पाठ ४, १६.
कक्कप[†] - -पास: अप्रा ३, ४, ११[†].
✓कस्^६ पाधा. भ्वा. पर. गतौ, अदा.
आत्म. गतिशासनयोः, कसत्वि
निघ २, १४[†].
कस- पा ३, १, १४०.
कस्वर- पा ३, २, १७५.
कास- पा ३, १, १४०.
कसन्नील[†] - -ल: अप्रा ३, ४, ११[†].
क-स-वर्ण- १क- द्र.
१[†]कसाम्बु[†] - -म्बु कौस् ८६, १; अप्रा
३, ४, १.
२कसाम्बु^v - > कासाम्बव^w - -वेन
आपश्रौ २०, १५, १२; १३;
वाश्रौ ३, ४, ३, ४४; हिश्रौ १४,
३, २३^६.

a) = आचार्य-विशेष- । b) काश्यप्यौ इति [पक्षे] पङ्गुहशिष्यः । c) विप., नाप. । d) विप. ।
वस. । e) विप. । प्रोक्तार्थे छण् > ईयः प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १०२) । f) विप. । दृष्टार्थे ढक् > एयः प्र. ।
g) = साम-विशेष- । व्यु. ? । h) या २, २ परामृष्टः द्र. । i) तु. पासि. । पामे. पृ ४८२ । द्र. । j) व्यप. । व्यु. ? ।
k) पामे. पृ ८५६ h द्र. । l) तु. प्रागम. । m) = रस-, वर्ण-, राग- । व्यु. ? । < ✓कप् इति अभा. प्रमृ. ।
n) विप. । अण् प्र. (पा ४, २, १) । o) पू. स्वार्थे प्र. । p) विप. । द्रस. > वस. । q) उप. < ✓पा [पाने] ।
r) वैप १ द्र. । s) या ४, १०; पा ७, ४, ८४ परामृष्टः द्र. । t) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । u) पामे. वैप १,
११०५ e द्र. । v) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । w) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । x) कौसुम्बेन इति संस्कर्ता ।

कस्त(म्भ>)म्भी^a- म्याम् आपश्रौ
३,८,४; भाश्रौ ७,२२, ७; ८,
१०,२; हिश्रौ २,५,३.

कस्तम्भ-देश- -शे माश्रौ १,३, ४,
२८; वाश्रौ १,३,६,२२.

कस्तूर- पाउवृ ४,९०.

कस्तेडा: निसू ८,२ : ४२.

कस्थली^b- -ली वौगृ २,१,१९.

कस्थे^c कौसू ८४,१००†.

कहय^d- (> काहय- पा.) पाग ४,१,
११२.

कहल- पाउभो २,३,९९.

कह्यल, पा^d- (> काह्यल, पा- पा.)
पाग ४,१,११२^e.

कहोडा, ल, ल^d†- पाउभो २, २,
११९; पाग ४,१,११२; -ळः
कौगृ २,५,६; -ळम् आगृ ३,४,
४; कौगृ २,५,३; शांगृ ४,१०,३;
६,१,१; अप ४३,४,२८; -ळाय
कौगृ २,५,६.

कह्य^e- -०ह्य माश्रौ ६, १, ८, १३;
वाश्रौ २,१,८,१२.

कह-मिश्र^h- -अम् लाश्रौ ८,६,१२.

कांस- १कंस- द्र.

रकांस- २कंस- द्र.

कांसपात्रि- १कंस- द्र.

कांसायन-, कांसि- ३कंस- द्र.

कांस्य- प्रमृ. १कंस- द्र.

कांस्यस्थल- -लम् माश्रौ ४,६,३.

काक^l- पाउ ३, ४३; -कः जैश्रौका
१७९; अप ३७, २, १; विध
४४,१८; या ३, १८³कृ; -कम्

शंघ ४२६; -काः अप ९, ४, १;
५३, २, १; ७०³, ६, ४; -कात्
आमिगृ ३, ११, १ : ७; -कैः
वाघ १४, २५.

काकी- पावाग ६, ३, ४१.

काक-कङ्क-गृध्र-श्येन- -नाः गौघ
१७, २७.

काक-कङ्क-वका(क-आ)दि- -दिभिः
विध ४३, ३४; -दीनाम् विध
४३, ३७.

काक-कपोत-कङ्क-गृध्र-यक्ष-राक्षस-
पिशाच-श्वापद- -देपु अप ७२,
२, २.

काक-गृह- पावा, पावाग ३, २, ५.

काक-ताल^l- (> लीय-) पागम
१९५.

काक-तुण्ड-नि(भ>)भा- -भाभिः
अप ५२, ४, ४.

काक-वन्ध्या^k- -न्ध्यायाः कप्र ३,
१, ४.

काक-बलाक-हंस-सारस-कारण्डव-
चक्रवाक-गृध्र-श्येन-खञ्जरीट-
टिट्ठिभो(भ-उ)लक-शुक-सारिका-
मयूर-का [व¹]क-कोकिल-कल-
विङ्क-कपोत-कापिञ्जला(ल-आ)
दि- -दीनाम् काघ २७२ : ४.

काक-माजरी-नकुल-सर्प-सूपक-
पक्षिन्- -क्षिभिः शंघ १८३.

काक-मयूर^m- पाग २, २, ३१.

काक-सूपिक-माजरी- -रान् अप
७०³, ७, ३.

काक-शब्द-क्रान्त- -न्ते शांगृ ५,

५, ४.

काक(< की पावाग.)-शाव- पावा
६, ३, ४१.

काक-श्वा(ध-अ)वलीड- -डे आमिगृ
२, ७, ७ : ४.

काक-संपात- -तात् कौसू ३१, २८;
३४, २२.

काक-स्वरⁿ- -रम् याशि १, २९;
नाशि १, ३, ११.

काका(क-अ)ण्ड^o-वर्ण- -णैपु अप
६५, १, २.

काको(क-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् शंघ
४३१.

काकोच्छिष्टो(ष्ट-उ)पहत- -तम्
वौध ३, ६, ७^p.

काको(क-उ)लक- -काः अप ७०³,
६, १०.

काको(क-उ)लक-कपोत- -तानाम्
अप ७०, ५, ४.

काको(क-उ)लक-कृकलास-श्येन-
निपतित- -न्ते अप ७२, २, ६.

रकाक^d-, (काक्य-, काककायनि- पा.
यक.) पाग ४, १, १५१; १५८.

काकण- (> काकणी- पा.) पाग
४, १, ४१.

काकदन्तकि^q- (> क्तीय- पा.)
पाग ५, ३, ११६^f.

काकदन्ति- (> न्तीय-)काक-
दन्तकि- टि. द्र.

काकन्दि^g- (> न्दीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.

काकपिञ्जक^h- -कः वौश्रौ ९, १८ : १४-

a) =भेथी-(तु. सा [माश १,१,२,९]). b) स्वल्पम्?। एकस्तनी- इति मूको.। c) वैप१ द.।
d) व्यप.। व्यु. ?। c) प- इति पाका.। f) ष- इति पाउभो. पाग., ल- इति अप.। g) पाभे. व्यु. च
वैप १ द.। h) विप.। पू. अर्थः व्यु. च ?। i) =वायस-। वैप ३ द.। j) तु. पाका. प्रमृ. (पा ५, ३,
१०६)। k) =[एकसंतति-] रत्री-। व्यु. ?। l) पाठः? यनि. शोधः?। m) तु. पागम.। n) =गीतिदोप-
विशेष-। यत.। o) पत. पू. पुंवद्भावः (पावा ६, ३, ४१)। p) पाभे. पृ ६२९ a द.। q) =आयुधजीविसंध-
विशेषः?। व्यु. ?।। r) दन्ति- इति पाका.। s) =पक्षि-विशेष-?। व्यु. ?।

काकरन्ति^a - (> ंतीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.
काकलि^b - लि: नाशि १, ४, ९; ११.
काकलेय- ककल- द्र.
काकादन^c - पाग ४, १, ४१.
काकाद, त^dनी- पा ४, १, ४१; न्याः
कौट १, १५, १; शां १, २३, १.
काकि- पाउभो २, १, १७३.
काकिणी^e - ण्या आपथ्रौ १९, २१, २;
हिथ्रौ २२, ४, २.
काकिणीक- पावा ५, १, ३३.
काकिनी^f - नीम् माशि ९, १३.
काकु- पाउवृ १, १.
काकुत्स्थ- ककुद्- द्र.
काकुद्^g - कुत् निघ १, ११;
-कुद्म् निघ ४, २; या ५, २७.
काकुद्^h - पाउभो २, २, १७१; -द्म्
या ५ २६; -द्स्य पा ५, ४,
१४८.
काकुदात्तिक- ककुद्- द्र.
काकुद्ⁱ - द्र: आथ्रौ १२, ९, ४.
काकुभ- प्रमृ. १ककुम्- द्र.
रकाकुभ- २ककुम्- द्र.
काकोल^j - लम् विध ४३, १३.
काक्य- रकाक- द्र.
काक्ष^k - पा, पाग ४, ३, १६४.
रका(का-अ)क्ष- किम्- द्र.
काक्षतच- कक्षतु- द्र.
काक्षसेनि- कक्ष- द्र.
१-२काक्षीवत- प्रमृ. कक्षीवत्- द्र.
काङ्गायन- २कङ्ग- द्र.
✓काङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. कांक्षा-

याम्, काङ्क्षते आथ्रौ ५, ७, ४;
काङ्क्षति शांथ्रौ १, १, २५;
माथ्रौ २, ३, २, १२; वृदे ४, २०;
काङ्क्षन्ते गोय ३, ३, ९; १३;
जैग १, १४ : १३; काङ्क्षत
गोय २, ७, १६; काङ्क्षेत्
आथ्रौ २, ३, २७; वौष ४, १,
१५; काङ्क्षेत् आथ्रौ ५, १,
७×४; शांथ्रौ; काङ्क्षेयुः वौथ्रौ
१४, २७ : ८; २६, ९ : १९.
काङ्क्षण- णाय वौथ्रौ २४, १६ :
१३.
काच^l - चा: वाधृथ्रौ ३, ७६ : ३२;
हिथ्रौ १४, ३, २२; -चान् वौथ्रौ
१५, १५ : १६; २५ : ५; ६;
८; हिथ्रौ १४, ३, २२; -चौ
माथ्रौ ६, १, ७, १५.
काच-नीलाक्षना (न-अ) रिघा
(ए-अ)शनि-सर्प-निभ- भेषु
अप ६१, १, ५.
काचाक्षि^m - चय: वौथ्रौप्र १० : १.
काचान्तिⁿ - न्तय: वौथ्रौप्र ४७ : ५.
काचाचित्-कर^o - रम् या १२, ९४.
काचुलुक्चय- कचुलुक- द्र.
काचल्ल-, काचल्लक- २कल्ल- द्र.
काजव^p - चानि वौथ्रौ २, ११ : २३३.
✓काञ्च् पाधा. भ्वा. आत्म. दीसि-
वन्धनयोः.
काञ्चन^q - पाउभो २, २, १९२;
पा, पाग ४, ३, ५०ⁿ -नम्
आमिगृ २, ५, १ : ४५; जैगृ २,
९ : ३३; अप ३०, ४, १; ३१,

६, ४; ४६, ८, २; ४८, ९१३; ६८,
२, २७; वाघ ३, ६१; १५, २०;
२८, १६; वृदे ५, ३४; -ना: अप
६५, १, ८; -ने विध १, ६४;
-नेन अप ५८^r, २, ४.
काञ्चन-तुल्य-गौर- -र: अप २४,
६, ४.
काञ्चन-मन:शिलो(ला-उ)प(मा>)
म- -मेषु अप ६५, १, ६.
काञ्चन-रत्न-चर-प्रतिरूप- -प: अप
२०, ६, ७.
काञ्चन-सप्र(भा>)भ- -भ: अप
२९, २, ४.
काञ्चना(न-आभा>)म- -म: अप
२९, १, ६.
काञ्चनार^s - पाउभो २, ३, ४५.
काञ्चित^t - तम् या ५, २५.
काञ्ची^u - > ंञ्ची-चुरा (र-आ)
दि- -दि काथ्रौसं ४ : १४.
रकाञ्ची^v - (> ंञ्ची-प्रस्थ- पा.)
पाग ६, २, ८८.
काञ्चुकिन्- कञ्चुक- द्र.
काट^w - ट: आपमं १, १०, ७;
अप ४८, ७७; निघ ३, २३;
-टाय आपथ्रौ १७, २, ६.
रकाट^x - (> काट^y - पा.) पाग ४, २,
८०^u.
काटिप्य- कटिप- द्र.
काटुक- १कटु- द्र.
काटुकि- २कटुक- द्र.
काटुमन्थि- १कटु- द्र.
काठक- प्रमृ. कठ- द्र.

a) आगुधजीवि-संघ-विशेष- व्यु. ? । b) =स्वर-विशेष- । व्यु. ? । c) =ओपधि-विशेष- ? । व्यु. ? ।

d) इति शां. । e) =गुञ्जा- । व्यु. ? । f) =स्वरभङ्गि-विशेष- । व्यु. ? । g) वैप १ द्र. ।

h) =तालु- । व्यु. ? । i) =काकुद्- । j) =नरक-विशेष- । व्यु. ? । k) =वृक्ष-विशेष-, तत्फल- । व्यु. ? ।

l) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) द्विप., नाप. । वैप ३ द्र. । n) तु. पागम. । o) =वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? ।

p) व्यु. ? <क-(<किम्-)+ अञ्चित- इति दु. । q) =आमरण-विशेष- । व्यु. ? । r) =नगरी-विशेष- ।

व्यु. ? । s) अर्थ: व्यु. च ? । t) =देश-विशेष- ? । u) तु. पाका. । कोट- इति भाण्डा. ।

काठेरण- कठेरणि- द्र.
 काठेरणि^१- (> णीय- पा.) पाग
 ४, २, १३८.
 काठोरकृत्^२- कृत् वौश्रौप्र ३: १०.
 काठोरि^३- रि: वौश्रौप्र १०: ४.
 र्काण, पा^४- पाग २, २, ३८; -ण:
 वौश्रौ १५, ८: १४^५; हिश्रौ
 १७, ७, २९; शंघ ३७७: ४;
 विध ४५, २१; या ६, ३०^६;
 तैत्रा १३, ९^६; -णम् अप ३,
 २, ४; -णा सु ५, ४; -णा:
 आपश्रौ २२, ४, २४; -णे अप
 ३, २, ५; ९, ४, ५; या ६, ३०^६;
 -०ण सु ६, २.
 काण-खञ्जा (ख-आ)दि- ङीनाम्
 विध ५, २७.
 काण-खोर-कृट-वा, वा(ण्ड>)ण्डा-
 ण्डानाम् लाश्रौ ८, ५, १६.
 काणखोरकृटवण्डा-हुतमि(श्र>)
 श्रा- श्रा: काश्रौ २२, ३, १९.
 काण-खोर-कृट-वण्ट- ण्टा: गौघ
 २८, ६.
 काण-ट्रोग- पाग २, २, ३८^७.
 काणय- (> काणय-विध- पा.)
 पाग ४, २, ५४.
 र्काण^८- पाग ४, १, ११०.
 काणायन- पा ४, १, ११०; -ना:
 वौश्रौप्र १९: ३.
 ऋकाणुक^९- का अप ४८, ११५; निघ
 ४, २; या १, १५; ५, ११६.
 काणूक- पाउ ४, ३९.
 काण्टकमर्दनिक- कण्टक- द्र.
 काण्टकार- कण्टकार- द्र.
 काण्ट(क>)की- कण्टक- द्र.
 काण्टविद्धि-, ङी-, ङीवा- कण्ट- द्र.

र्काण्ड^{१०}- पाउ १, ११५; पाग ४, २,
 ८०^८; ३, १३६; -ण्डम् आम्रिण्ट
 ३, ८, ३: ७; वौगृ ३, १, २५; वौपि
 १, १५: ७८^९; वैगृ २, १० :
 १४; कौसू ३०, २; आपध १,
 ११, ६; हिघ १, ३, ६३; अत्र ४,
 १; १३-१५, १; १८, १; -ण्डस्य
 वौगृ ३, १, १९; २०; -ण्डात्
 ण्डात् काश्रौ १७, ४, १८;
 आपश्रौ १६, २४, १; वौश्रौ:
 -ण्डानाम् कौसू ८६, १४;
 -ण्डानि आम्रिण्ट १, २, १: ८;
 कौसू ६२, १०; -ण्डाम्याम्
 वाश्रौ ३, २, १, ७; हिश्रौ १३, ३,
 १९; -ण्डे कौसू २७, १५; ३४,
 १०; कौशि २३; अं ४: ३६;
 -ण्डे-ण्डे वौगृ ३, २, ३; -ण्डेन
 आपश्रौ २२, ९, १५; लाश्रौ ८,
 ९, ९^{१०}; कौसू २९, २०; -ण्डेषु
 अं २: २.
 र्काण्ड- पा ४, ३, १३६.
 काण्ड-ऋपि- ऋपये आम्रिण्ट १, २,
 १: ३^{११}; ४; ५; वौगृ ३, १, ५^{१२};
 २, ६; १९; ३, ८; -पि: वौगृ
 ३, १, १८; -पिम्य: आम्रिण्ट १,
 २, १: ४; वौगृ ३, १, ५; २,
 ३१; ४४; -पिम्व वौगृ ३, २, ६;
 १९; ३१; ४४; ३, ८; -पीन्
 आम्रिण्ट १, २, १: २; २: ३९;
 वौगृ ३, १, ५.
 काण्ड-धार^{१३}- काण्ड-वरक^{१४}- काण्ड-
 वारण^{१५}- पा, पाग ४, ३, ९३.
 काण्ड-नानन्- मानि आम्रिण्ट १,
 २, १: ५; २: ४०; भागृ ३, ८:
 ३; हिगृ २, १८, ३; २०, ९.

काण्ड-परिसमाप्ति- -क्षे: अत्र २, १-
 काण्ड-पु(ष्य>)प्पा- पावाउ, १, ४.
 काण्ड-प्रतीक-त्व- -त्वेन. अत्र
 १९, ९.
 काण्ड-प्रश्ना (इन-अ)नुवाक-
 -कानाम् कौशि ७५.
 काण्ड-मणि- -णिम् कौसू २६,
 २७.
 काण्ड-म(य>)यी- -यीन् द्राश्रौ
 ११, २, ७; लाश्रौ ४, २, ६.
 काण्ड-र- पा ४, २, ८०.
 काण्ड(रड-ऋ)पि- ऋपय: हिगृ २,
 १८, ३; -र्षये ऋभागृ ३, ८: ४-
 ६; ऋवैगृ २, ७: १; ९: ८; १०:
 १; ३; ६; ८; हिगृ २, १८, ३;
 -ण्डपिम्य: भागृ ३, ८: ७; हिगृ
 २, १८, ३; -र्षीन् आम्रिण्ट २, ६,
 ३: ३७; हिगृ २, १८, ३; २०, ९;
 भागृ ३, ८: ३; वौघ २, ५, २७.
 काण्डपि-द्वितीय- न्यम् आम्रिण्ट
 १, १, ४: ५०.
 काण्ड-विसर्ग- -र्गे आम्रिण्ट १, १,
 ४: ४८; वौगृ ३, १, २१; हिगृ
 १, ८, १६.
 काण्ड-वीणा- -णा: शाश्रौ १७, ३,
 १२; काश्रौ १३, ३, २१; वाश्रौ
 ३, २, ५, २६; हिश्रौ १६, ६, २१;
 -णाम् शाश्रौ १७, ३, १४; द्राश्रौ
 ११, २, ६; लाश्रौ ४, २, ५.
 काण्ड-व्रत-विशेष- -पा: वागृ ७,
 ११.
 काण्ड-समवाय- -य: अं २: ७.
 काण्ड-समापन- -ने आपध १, ११,
 २; हिघ १, ३, ५९.
 काण्ड-सूक्त^{१६}- -क्ता: अं २: ५.

a) अर्थः व्यु. च ? । कामेरणि-, कावेरणि- इति पाका. । b) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । c) वैपृ द्र. ।
 d) सपा. आपश्रौ २०, ७, १८ बन्धः इति पाभे. । c) तु. पागम. । f) = देश-विशेष- । धार- इत्यस्य
 चरकं, वारणं इति पाभे. द्र. । g) तु. पाका. । h) मलो. कस. (तु. शौ १६, २७) । तात्पर्यात् = मन्त्र- ।

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काण्डा(एउ-आ)दि- -दि आम्निग १, २, २ : ४७; -दिभिः अप ४६, २, ४; -दीन् आम्निग १, २, २ : ४१; वीगृ ३, १, ९; ९, १०; भागृ ३, ८ : १०; ११ : ११; हिगृ २, १८, ५; २०, ९; -दीनि पा ६, २, १३५. काण्डादि-दूर्वारोपणो (एउ-उ)- दधिधावन-वर्जम् वीगृ ३, ९, १६. काण्डा(ण्ड-अ)नुवचन- -नेषु वागृ ५, २५. काण्डा(ण्ड-अ)न्त- -न्तात् पा ४, १, २३. काण्डीर- पा ५, २, १११. काण्डो(ण्ड-उ)त्तम- -मैः अप ४६, २, ४. काण्डो(ण्ड-उ)पाकरण- -णे आम्निग १, १, ४ : ४८; हिगृ १, ८, १६; आपथ १, ११, १; हिध १, ३, ५८. काण्डोपाकरण-काण्डसमापन- -नाभ्याम् वीगृ ३, १, १७; २, ५८. काण्डमायन ^१ - -नस्य तैप्रा ९, १. काण्डरथि ^२ - -थयः वीश्रौप्र ४ : २. काण्डव- रकण्ड- द्र. काण्डचिक- ✓कण्ड् द्र. काण्डिन्य- कण्डिनी- द्र. काण्डूशय ^३ - -याः वीश्रौप्र ४८ : १. काण्व-, °ण्वायन- °ण्वि-, °ण्वी-, °ण्व्य- कण्व- द्र. कातक- कतक- द्र. १कातर ^४ - पाउभो २, ३, ६६ ^५ . | कातर-नयन ^६ - -नः चव्यू ४ : १८. २कातर, ल ^७ - (> °रा, लायण- पा.) पाग ४, १, ९९. कातु ^८ - -तुः निघ ३, २, ३१. कात्कल ^९ - -लाः वीश्रौप्र १७ : ११. कात्त्रेयक- कत्त्रि- द्र. कात्थक्य- कत्थक- द्र. कात्य-, कात्यायन- कत- द्र. काथक्य-, °क्यायनी- कथक- द्र. काथंचित्क- किम्- द्र. काथल ^{१०} - (> काथलायन- पा.) पाग ४, १, ९९ ^६ . काथिक- ✓कथ् द्र. कादम्ब- पाउ ४, ८३. कादलेय- कदल- द्र. कादि- १क- द्र. कादूरक- कदूर- द्र. काद्रवेय- रकद्रु- द्र. कानन- पाउभो २, २, १९२. कानलक- कनल- द्र. कानान्ध ^{११} - -न्धम् वीश्रौ १८, ४१ : ६; -न्धस्य वीश्रौ १८, ४१ : १५ ^१ . कानान्ध-यज्ञ- -ज्ञः वीश्रौ २४, ११ : २; -ज्ञे वीश्रौ २६, ३३ : १०. कानिष्टिक- *कन- द्र. कानिष्टिनेय- २ कनिष्ट- द्र. कानीत- कनीत- द्र. कानीन- रकनीन- द्र. कान्त- ✓कम् द्र. कान्तार ^{१२} - पाउभो २, ३, ४५. कान्तार-पथ-> °थिक- पात्रा ५, १, ७७. कान्तार-भय- -यम् विध ९०, | १६. कान्ति- प्रगृ. ✓कम् द्र. कान्थक्य-, °क्यायनी- कन्थक- द्र. कान्थव्य- कन्थु- द्र. कान्थिक- ✓कन्थ् द्र. कान्द ^{१३} - (> °न्द-र्- पा.) पाग ४, २, ८०. कान्दम ^{१४} - -मस्य वाधूश्रौ ३, ९४ : ५. कान्दर्प- कन्दर्प- द्र. कांदिशीक- किम्- द्र. कान्दुक- कन्दुक- द्र. कापटव-, °वी- कपटु- द्र. कापटु ^{१५} - -टवः वीश्रौप्र ४६ : २. कापथ- किम्- द्र. कापर्दि- कपर्द- द्र. कापाटिक- कपाट- द्र. १, २कापालिक- कपाल- द्र. कापिक- कपि- द्र. १कापिञ्जल- १कपिञ्जल- द्र. २कापिञ्जल- २कपिञ्जल- द्र. कापिञ्जलादि ^{१६} - (> °य- पा.) पाग ४, १, १५१ ^{१६} . कापिला- रकपिल- द्र. कापिलिक- कपिलिका- द्र. कापिवन- कपिवन- द्र. कापिशी ^{१७} - > कापिशायन- पा ४, २, ९९. कापिशुभ्र ^{१८} - -आः वीश्रौप्र ४८ : ९. कापिष्टिक- कपिष्टिक- द्र. कापिष्ट ^{१९} - -ष्टाः वीश्रौप्र ४५ : २. कापिष्टलि-, °ल्या- कपिष्टल- द्र. कापिष्टिक- कपिष्टिका- द्र. कापुटि ^{२०} - -टिः वीश्रौप्र ४४ : २. कापुरुष-, °रुष्य- किम्- द्र. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? < ? काण्डम- इति P.W. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) विप. । व्यु. ? का- (< किम्-) + ✓तु इति अभा. । d) < ✓का इति ? । e) विप. (सामवेद-) । वस. । f) = कूप-नामन्- । व्यु. ? (तु. दे.) । g) तु. पागम. । h) नाप. । व्यु. ? । i) अर्थः व्यु. च ? । j) = देश-विशेष- ? । k) < कपिञ्जलाद- इति P.W. । l) = नगरी-विशेष- ।

कापेय-, °थी- कपि- द्र.
 कापोतक-, °ता-, °ती- कपोत- द्र.
 काप्य- प्रभृ. कपि- द्र.
 ?काप्यतिशययो^०- चात्र ४२ : ८.
 काप्यायनी- कपि- द्र.
 कावच^०- वम् दंवि १, ९१.
 ?कावेर-क^०- कः दंवि २, ६१.
 कावोध- कवोध- द्र.
 ?काम- ✓कम् द्र.
 २काम^०- (> कामायन- पा.) पाग ४,
 १, ९९.
 कामायनी- नी ऋत्र २, १०,
 १५१; -न्मै^० वौश्रौ १७, ४२ :
 ३; आपमं २, ८, १०; भागृ २,
 २२ : ५; हिगृ १, ११, ४.
 कामकायन-, °निन्- कमक- द्र.
 कामण्डलव-, °लेय- कमण्डलु-
 द्र.
 कामन- ✓कम् द्र.
 कामन्तक^०- काः वौश्रौप्र ३१ : ३.
 कामयत्- प्रभृ. ✓कम् द्र.
 कामलकीकर- कमलकीकर- द्र.
 कामलकीट, र- कमलकीट, र- द्र.
 कामलभिद- कमलभिदा- द्र.
 कामलायन-, कामलि-, कामलिन्-
 २कमल- द्र.
 कामशि^०- शयः वौश्रौप्र ४३ : ३.
 ?कामाहुर्धुनिनाः अप ६५, २, ४.
 कामि-, कामिन्-, कामुक-, कामुका-
 यन-, कामुकी- ✓कम् द्र.
 कामेरणि- कावेरणि- टि. द्र.

काम्पनिक-, °नीक- ✓कम् द्र.
 काम्पिल्य- कम्पिल- द्र.
 ?काम्पील^०- > ?काम्पीली^०- ल्याः
 शंघ ७.
 ?काम्पील-वासि (न >)नी^०-
 -०नि^० आपश्रौ २०, १८, ३; वौश्रौ
 १५, २९:३४; हिश्रौ १४, ४, ९.
 २काम्पील^०- -लम् कौसू ४८, ४१;
 -लैः कौसू १६, २८.
 २काम्पी(ल>)ली^०- लीभ्याम
 कौसू ४३, २०; ८२, ८५.
 काम्पील-पलाश- -शेन कौसू ७६,
 ३१.
 काम्पील-पुट- -टान् कौसू २८, ८.
 काम्पील-शकल- -लैः कौसू २७,
 ७.
 काम्पील-शाखा- -लया कौसू ८३,
 १७; ८७, ४२.
 ?काम्पीचकंसम्^० अप ४८, ११६.
 कास्वरोद्दि^०- -रयः वौश्रौप्र ४१ :
 १०.
 कास्वलिकायन- कस्वलिक- द्र.
 कास्वल्य^०- ल्याः वौश्रौप्र १७ : १८.
 कास्वोज-, °जक- प्रभृ. कस्वोज- द्र.
 १, २कास्व- ✓कम् द्र.
 ?काय- २क- द्र.
 २काय^०- पा ३, ३, ४१; -यः कप्र ३,
 ३, ७; या ९, २०; -यम् कौगृ
 ३, २, १; वैगृ ५, ८ : ८; आपघ
 १, २२, ६; वौघ २, १, १७; या
 १२, ३०; -याः आपघ १, २३,

२; हिघ १, ६, १०?; -यान्
 माश्रौ ६, १, ३, ११; -ये कागृ
 ४६ : ९; अप ५०, ३, १; या ४,
 १६; ५, २५; ६, १७; -यैः आमिगृ
 ३, १०, ४ : १.
 काय-क्लेश- -शात् वैध १, ११, १३.
 काय-प्रासन- -नम् काश्रौ १६, १,
 १९.
 काय-मात्रा(त्र-आ)याम- -मम्
 वैगृ ५, ३ : ७.
 काय-शोधन- -नम् आमिगृ २, ७,
 ७ : १.
 काय-स्थ- -स्थम् अप २३, ५, ४.
 काया(य-अ)मि- -मिम् पाशि २६.
 काया(य-आ)यस^०- पाग २, १,
 ४०.
 कायिक^०- -कैः विध २२, ७७.
 कायमान- ✓कै द्र.
 कायाधव- कयाधु- द्र.
 ?कार^०- पावाम ८, २, १८.
 २, ३कार- ✓कृ द्र.
 ४कार- ✓कृ द्र.
 कारक- ✓कृ द्र.
 कारडि^०- -डिम् जैगृ १, १४ : ९.
 कारण- प्रभृ. ✓कृ द्र.
 कारणिक- १करणा- द्र.
 कारण्डव^०- पाउभो २, ३, १३५; पाग
 ६, ३, ११९; -वः शंघ ३७८.
 कारण्डव-व(त >)ती- पा ६, ३,
 ११९.
 कारपचव^०- -वम् शाश्रौ १३, २९,

a) पाठः ? *कप्य(पि-अ)तिशय-> -यस्य इति शोधः । b) वैप १ द्र. । c) = कपि-विशेष- । व्यु. ?
 d) आन्यै इति, आन्यै(हिगृ) इति च पाठौ ? यन्ति. शोधः (तु. आपमं. [मू. XXIV]) । e) वैप १, ११०० f
 द्र. । f) = नगरी-विशेष- । g) पामे. वैप १, ११०७ h द्र. । h) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । i) विप. ।
 विकारार्थे षण् प्र. । j) प्राति. अर्थः व्यु. च ? । k) = शरीर- । व्यु. ? पाप्र < ✓चि [चयने] । l) आत्
 इति पाठः ? यन्ति. शोधः (तु. आपघ.) । m) = औदरिक- । n) तात्रमविकः उक् > इकः प्र. ।
 o) = रक्षा-निवेश- इति पागम. । p) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । q) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । हंस-, कारण्डव-
 इति भाण्डा. । हंसकार^० इति पाका. । r) = देश-विशेष- । व्यु. ? ।

२१; काश्रौ २४, ६, १०; आपश्रौ
२३, १३, ६; हिश्रौ १८, ४, ४०;
-वे आश्रौ १२, ६, २८.
कारवु^१- -वः वौश्रौप्र ३ : १२.
कारयत्- प्रभृ. √कृ द्र.
कारवीरेय- करवीर- द्र.
१कारस्-कर^१- पाग ६, १, १५७.
२कारस्-कर^२- -रात् वौघ १, १,
३०.
कारा^१- पा ३, ३, १०४; पाग ६, १,
१९९.
कारा-भू- पावा ६, ४, ८४.
कारा-व्रत- -तम् आमिगृ १, २, १ :
२४^०; वौगृ ३, १, २७.
काराद्धोत्रिया- किम्- द्र.
कारालिक^१- -कानि वागृ १३, ५.
कारि-, कारिका-, कारित-, कारिन्-
√कृ द्र.
कारिरौति^१- -तिः वौश्रौप्र १९ : ५.
कारिर-, शी-, शी-व्रत- करीर- द्र.
१कारिरिणीं आमिगृ १, २, १ : २२.
कारीप- १करीप- द्र.
कारीपायण-, शीपि- २करीप- द्र.
कारु- √कृ द्र.
कारुणि^१- -णिः वौश्रौप्र १० : ४.
कारुपथि^१- -थयः वौश्रौप्र १७ :
१७.
कारुशी- करुश- द्र.
कारुष- पाठभो २, ३, १६७.
कारेणुपाल-, ल्हायन-, ल्हि- करेणु-
द्र.
कारेय^१- -याः वौश्रौप्र ४३ : २.
कारोतर^१- -रः वौश्रौ २६, २२ : १९;
अप ४८, ७७^१; तैप्रा १, १५^१;

-रम् काश्रौ १९, २, ७; आपश्रौ
१९, ६, १; वौश्रौ १७, ३१ : ५;
३२ : ३; ४; हिश्रौ २३, १, १०;
-रात् काश्रौ १९, २, ७; निघ ३,
२३^१.
कार्क- कर्क- द्र.
कार्कटक-, कार्कटक्य- कर्कटक- द्र.
कार्कट्य^१- (> कार्कट्यकायनि- पा.)
पाग ४, १, १५८.
कार्कण- कृकण- द्र.
कार्कण्डेय- कृकरड- द्र.
कार्कन्तव- कर्कन्तु- द्र.
कार्कन्धव-, ल्थु, ल्धु | मत- कर्कन्धु-
द्र.
कार्कलासेय- २कृकलास- द्र.
कार्कलि- कृकला- द्र.
कार्कश- २कर्कश- द्र.
कार्कप- (> षकायनि-) कार्कट्य-
टि. द्र.
कार्कसेय- कृकसा- द्र.
कार्कार^१- > श्रिन्- -रिणः पागृ ३,
१५, १९.
कार्काक- कर्क- द्र.
कार्डव- कृड- द्र.
कार्ण- ३कर्ण- द्र.
कार्णकोष्ट-, णं-ग्राहिक-, कार्णश्रवस-
१कर्ण- द्र.
कार्णव- कर्णु- द्र.
कार्णायनि- ३कर्ण द्र.
कार्त-, कार्त-कौजप- √कृ >
३कृत- द्र.
कार्तयश-, कार्तवीर्य-, कार्तान्तक
√कृ > १कृत- द्र.
कार्ति- √कृ द्र.

कार्तिक-, °की-, कार्तिकिक-, कार्ति
केय- कृत्तिका- द्र.
कार्थ्य- १कर्त्त- द्र.
कात्स्न्य- कृत्स्न- द्र.
कार्दम-, °मिक- १कर्दम- द्र.
१, २कार्पास- प्रभृ. कर्पास- द्र.
कार्परिण-, कार्पर्ये- कर्पर- द्र.
कार्म-, कार्मण-, कार्मनामिक-
√कृ > कर्मन्- द्र.
कार्मार-, °रक-, °रकि- कार्मा-
र्यायणि- √कृ > कर्मार- द्र.
१कार्मुक^१- -काः अग ५२, ७, ३.
२कार्मुक √कृ द्र.
३कार्मुक- कृमुक- द्र.
कार्य- √कृ द्र.
कार्य- √कृश् द्र.
कार्प-, कार्पक- √कृ^१ द्र.
१कार्पापण- प्रभृ. कर्पापण- द्र.
२कार्पापण^१- पा, पाग ५, २,
११७.
कार्पि-, कार्पिक-, कार्पिक्य- √कृ^१
द्र.
कार्पित^१- -ताः वौश्रौप्र ४५ : ५.
कार्पिवण- कार्प्यै- √कृ^१ द्र.
कार्ष्ण- २कृष्ण- द्र.
कार्ष्णकर्ण- १कृष्ण- द्र.
कार्ष्णाजिन- २कृष्ण- द्र.
कार्ष्णाजिनि- २कृष्णाजिन- द्र.
कार्ष्णायन- ३कृष्ण- द्र.
कार्ष्णायस- १कृष्ण- द्र.
कार्ष्णि- ३कृष्ण- द्र.
कार्ष्णी- २कृष्ण- द्र.
कार्ष्ण्य- ३कृष्ण- द्र.
कार्पम्- √कृ^१ द्र.

a) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । b) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । c) = देश-विशेष- । व्यु. ? । d) = वन्ध-
नालय- । वैप ३ द्र. । e) कारीराव्रतम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वौगृ.) । f) = वादित्र-विशेष- । व्यु. ? ।
g) वैप १ द्र. । h) तु. पाका. । कार्कप- इति भाण्डा. । i) = काकशब्दानुकृति- । व्यु. ? । j) = प्रह-विशेष- ।
व्यु. ? । k) = आयुधजीवि-संघ-विशेष- । व्यु. ? ।

कार्पर्य- -र्यस्य माश्रौ १,८,३,२६.
कार्पर्य-मय- -याः काश्रौ ८, १,
१०; आपश्रौ ७,७,७; १०,३०,
३; भाश्रौ १,५,६; माश्रौ १,८,
१, १८; वाधूश्रौ ३, १०० : ९;
वैश्रौ १०, ६ : ९; हिश्रौ ४, ५,
६५; -याणि आपश्रौ १५, ५,
११; भाश्रौ ११,५,१५; -चात्
वौश्रौ ४, १ : ४; ४ : ४××;
भाश्रौ; -ये काश्रौ २, २, १३;
आपश्रौ ११, १३, १; वैश्रौ;
-येन वौश्रौ १४, २१ : २९;
-येः वौश्रौ ६, १८ : २.
कार्पर्यमयी- -यीभ्याम् काश्रौ
६, ५, ७; -यीम् काश्रौ १७, ४,
१२; आपश्रौ १६, १, ७; २२, ५;
६; वौश्रौ १०, ३० : ८-१०;
माश्रौ; -र्यौ आपश्रौ ७, ८, ३;
काठश्रौ; वैश्रौ १०, ७ : २^{१७};
हिश्रौ ४, २, २७.
कार्पर्य- > °र्व-वण- पा ८, ४, ५.
✓काल् पाधा. चुरा. डम. कालोपदेशे.
१काल- पाग ४, ३, ५४; पागवा ५,
२, ९७; १००; ४, ३; -ल^० काश्रौ
१, ७, ७; -ल^० आपमं २,
२१, ३१; भाग २, २९ : १०;
-लः शाश्रौ २, ५, ७; ६, ६, २०;
काश्रौ १२, ६, ३६; २५, १, ३;
आपश्रौ २, २१, २; ५, ३, १९;
वौश्रौ ६, २२ : २१××; वैश्रौ;
या १, ६; २, १८; २५^{१७}; १२,
१३; १४, ४; पा ४, २, ३; पावा २,
२, ५; -लम् आश्रौ २, १, ४; ४, ३;
८, १४, ७; १०^३; ११; १२, ८,

३०; शाश्रौ १३, ६, १; आपश्रौ;
हिश्रौ १, १२, ४^{१७}; गोश्रु;
-ल्योः वौश्रौ २८, ८ : ६;
आपश्रु २, १, २; हिश्रु १, ९, २;
-लस्य काश्रौ १८, ६, ३०;
आपश्रौ २४, ४, २०; हिश्रौ ३,
१, २८; निस्र २, १३ : २५;
अप; पावा २, २, २५; -लाः
वौश्रौ १९, १० : १९^१; वाधूश्रौ
३, १०२ : ३; आपश्रु २१, १;
वाध; पा २, १, २८; २, ५;
-लात् वौश्रौ ६, २२ : २४; ××;
माश्रौ; पा ४, ३, ११; ४३; ५, १,
७८; पावा ४, २, १०४; ५, १,
५८; -ल^० आपश्रौ ६, २०,
२; वौश्रौ १०, १८ : ११; वाश्रौ
१, ५, ४, २०; हिश्रौ ६, ६, २४;
आमिश्रु; -ले आश्रौ ३, १४,
१४××; शाश्रौ; अप १, २१,
४^{१७}; या ५, ११; पा २, ३, ६४;
५, ३, १५; पावा २, ३, २८; ४,
२, ३; -ले-ले वौश्रौ २२, ८ :
४; २३, २ : १४; जैश्रौका; या
८, १७; १२, २७; -लेन वौश्रौ
२८, १२; २; जैश्रु २, ८; १३; अप
६८, ५, ५; ६; शंघ; -लेभ्यः
वौश्रु २, ८, ३३^१; पा ४, २, ३४;
मीस्र ६, २, २७; -लेषु आपश्रौ
६, ४, ११^१; भाश्रौ ६, ९, ९;
माश्रौ ५, १, ६, ३२; आमिश्रु;
पा ३, ४, ५७; -लेः या ८, ३;
-लेन हिश्रौ ६, १, २३; आमिश्रु
१, १, ४ : ३०; ३१; हिश्रु १,
८, २^३.

°काल- पा ६, ३, १७.
काल-कर्मन्- -र्मणाम् पावा १, ४,
५२.
कालकर्मक- -काणाम् पावा १, ४,
५२.
काल-कर्म(र्म-ए)कत्व- -त्वात् काश्रौ
५, ७, ३.
काल-काम- -मौ शंघ २२०.
?काल-कृति- -तौ निस्र ५, ४ : ४.
काल-कर्मो(म-उ)दित^१- -ताः कप्र
३, ७, १४.
काल-गुण-भेद- -दात् काश्रौ ६,
७, २८.
काल-चक्र-वर्णन- -नम् ऋअ २,
१, १६४.
काल-ज्ञान- -नम् वेज्यो ५.
काल-तत्स (ः) आपश्रु २, १५, १२;
हिश्रु २, ३, ४६; पाशि १०; ११.
काल-त्रया(य-आ)त्मक- -काः
आमिश्रु २, ४, १२ : ८.
काल-दूत- > °दूतिन्- -तिनः
जैश्रु २, ९ : १६.
काल-द्रव्यै(व्य-ए)कार्थत्व- -त्वात्
काश्रौ १, ७, १२.
काल-द्वय- -यम् विध २८, ४.
काल-धारणा- -णा ऋप्रा ११,
३२.
काल-नष्ट-प(थ>)या^१- -याम् अप
७०^३, २, १०^६.
काल-नामन्- -नाम्नः पा ६, ३,
१७.
काल-नियम- -मः गौध १५, ५;
-मम् कौश्रु २, ७, १७; सांश्रु २,
११, १३.

a) वैप १ द्र. 1 b) °र्मयम् इति पाठः ? यनि. शोधः । c) = वृक्ष-विशेष- । ध्यु. ? । d) वैप १,
११०८ b द्र. 1 c) = काले । f) सपा. काल <> ? कालम् इति पांभे. । g) कामम् इति Böhrt LZDMG
५२, ८३। शोधः । h) कका इति पाठः ? यनि. शोधः । i) पस. > वृस. उप. < ✓वृद । j) विप. ।
वृस. > वस. । k) °थम् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

काल-निवृत्त्य (ति-अ)र्थ- -थम्
पावा ४,३,५३.
१काल-परिमाण- -णम् पावा २,
२,५.
२काल-परिमाण^२- -णानाम् पावा
७,२,१५.
काल-पाश- -शौ शंघ ११६ :
१९.
काल-पुत्र^३- -त्राः अप ५२,५,१.
काल-पूरण- -णेन आश्रौ १२,३,८.
काल-प्रकर्ष- -र्पात् पावा ३, ३,
१५.
काल-प्रयोजन- -नात् पा ५,२,८१.
काल-प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ १३,
४,१३; मीस् ६,५,४१.
काल-प्रवृत्ति- -त्तिम् माश्रौ ३,
१,३४.
काल-भाव (व-अ) ध्वगन्तव्य-
-व्याः पावा १,४,५१.
काल-भेद- -दात् काश्रौ ८,८, ३६;
१४,१,९; १५, १, २; १९, ६,
१; २०, ७, २५; काश्रौसं ५ :
२; पावा १, १, ७०; ४,१०९;
मीस् ३, ६, २८; ८, १, २४;
१०, ६, ३१; ७१; ११, १, ६८;
२, १२; २४; ४, ३७; ५५; १२,
१, १७.
काल-मन्त्र-हीन- -ने अप ३८,
३, ४.
काल-मात्र- -त्रम् मीस् ४, ४, ६;
६, ५, ५०; १०, ६, ३; ११, ३,
४७; -त्रे पावा ३, १, १३३.
काल-योग- -गात् पावा ४, २, ३.
काल-ल- पावा ५, २, ९७.
काल-लिङ्ग- -ङ्गानाम् मीस् ६, २,
२८.

काल-वचन- -नम् मीस् ११, २,
२१.
काल-वाक्य-भेद- -दात् मीस्
१२, २, १५.
काल-वाद- -दः शाश्रौ १०, २१,
१९^२.
काल-विधान- -नम् मीस् ६, २,
२८; -नात् मीस् ५, ४, ८^१.
कालविधान-शास्त्र- -स्त्रम्
वेज्यो ३.
काल-विधि- -धिः मीस् ३, २, ६;
११; ६, २१; ६, ४, ४५.
काल-विप्रकर्ष- -र्षः शौच २, २९;
-र्षाः निस् ६, ९ : १९.
काल-विभाग- -गो पा ३, ३, १३७.
कालविभाग-शस्त्र (:) वौध २,
३, ५६.
काल-विशेष- -पे पावा २, १, १७.
काल-शब्द-व्यवाय- -यात् पाप्रवा
: १, ११.
काल-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् २, ४, ७;
३, ६, २९; १०, ८, ४०.
काल-शेष- -पम् पाय ३, १०, ४४.
काल-श्रुति- -तौ मीस् ३, ४, २८.
काल-संयोग- -गात् मीस् ११, ४,
२३.
काल-संशय-त्व- -त्वात् आश्रौ १२,
४, २०.
काल-संकर्ष- -र्पात् निस् ६; ९ :
१४; १९.
काल-संनिकर्ष- -र्षे आपश्रौ ९, ३,
३; -र्षेण हिश्रौ १५, १, ५१.
काल-समय-वेला- -लासु पा ३, ३,
१६७.
काल-समापादन- > -नीय- -यम्
आपश्रौ ९, ७, ३; ४; भाश्रौ

९, ९, ११; १५; हिश्रौ १५, २,
२२.
काल-समुच्चारण- -णात् पावा ३,
३, १३३.
काल-संपत्ति- -त्तेः काश्रौ २६, २,
३७.
काल-सामान्य- -न्यात् हिश्रौ ४,
५, ६२; मीस् ८, २, १६; ११,
२, ६०.
काल-सूक्त- -क्तम् अप १०, १, ७.
काल-सूत्र^४- -त्रम् विध ४३, ६;
-त्राणि शंघ ३७४.
काल-स्नान- -नम् आश्रिण् १, २,
३ : १९.
काला(ल-अ)सि-रुद्र^५- -द्रम् शंघ
११६ : २.
काला(ल-अ)तिक्रम- -मे काश्रौ ७,
१, २२; आश्रिण् २, ७, ४ : १;
पाय २, ५, ४१; वौध ४, ६, २;
११, १; -मेषु वौश्रौ २८, ८ :
१७; १२ : १०.
काला(ल-अ)तिनय- -ये हिश्रौ १५,
१, ८३; २२, २, ९.
काला(ल-अ)तिपत्ति- -त्तिः आश्रिण्
२, ७, ९ : ३२; भाय ३, २० :
२; -त्तौ माश्रौ ३, १, ३३; ५,
१, ७, २७.
काला(ल-अ)तिपन्न- -न्नस्य आपश्रौ
९, ७, ११.
काला(ल-अ)तिपात- -ते अप्राय
५, ३.
काला (ल-अ)तिरि (क्ल>)क्ता-
-क्ता वाध १७ ६९.
काला(ल-अ)ती (त>)ता- -ताः
अप ७०^२, १०, ३; -तासु अप
३७, १२, १.

a) विप. । वस. । b) = प्रह-शिव- । c) कर्मभेद इति जीसं. । d) *लनिर्देशात् इति जीसं. ? ।

e) = नरक-विशेष- । पस. । f) कस.>कस. ।

काला (ल-अ) त्यन्त-संयोग- -ने
पावा ३, १, २६.
काला (ल-अ) त्यय- -येन आश्रौ ३,
१२, १९.
काला (ल-अ) दि- -दियु पावा ३,
१, ९४.
काला (ल-अ) ध्वन्- -ध्वनोः पा २,
३, ५.
काला (ल-अ) नन्तर्य-धर्मानुग्रह-
-हेभ्यः काश्रौ ४, ३, १६.
काला (ल-अ) नुपूर्वी- -र्यां विज्यो ३.
काला (ल-अ) नुवाद्- -दम् या १२,
१३.
काला (ल-अ) न्तर- -रम् काठश्रौ
१०३; लाश्रौ ८, ८, ४४; -रे
काश्रौ १, ८, ६; आपध २, १, ५;
हिघ २, १, ५; मीस् १२, ३, १५.
कालान्तर-भोजिन्- -जिनः
वैध १, ८, १.
काला (ल-अ) न्यत्व- -त्वम् पावा
३, ४, १.
काला (ल-अ) पनय- -यः आपश्रौ
१९, १८, १५.
काला (ल-अ) पराध- -धात् मीस् ६,
५, १.
काला (ल-अ) भाव- -वात् काश्रौ
१२, ६, ३४.
काला (ल-अ) भिनियम- -मात्
आपध २, १६, ७; हिघ २, ५, ७.
काला (ल-अ) भ्यास- -से मीस् ८,
३, ६.
काला (ल-अ) र्थ-त्व- -त्वात् मीस्
६, ४, ४३.

काला (ल-अ) विभाग- -गात् पावा
३, २, १२३.
काला (ल-अ) व्यवाय- -येन ऋप्रा
२, २.
काला (ल-अ) व्यवेत- -तेषु आपश्रौ
२४, १, ४०.
कालिल- पा ५, २, १००.
काले-ज- पा ६, ३, १५.
कालै (ल-ए) कत्व- -त्वात् मीस् ११,
४, ५४.
कालो (ल-उ) कर्ष- -र्षः मीस् ५,
१, २१.
कालो (ल-उ) पसर्जन- -ने पा १, २,
५७.
१काल्य, ल्या- पा ४, ३, ५४; ५,
१, १०७; पागद, २, १३१; -ल्यम्
आमिगृ ३, ७, ३ : ८; वौपि २,
१, ३; -ल्या पा ३, १, १०४;
-ल्याम् वौश्रौ २०, १ : ४७;
४९; ५२; आमिगृ ३, ७, ३ : ८;
वौपि २, १, ३.
२काल^a- पावा ८, २, १८^b; पागवा ५,
४, ३; -लेन आपश्रौ १९, ५, ७;
हिश्रौ २३, १, ६.
काली- पा ४, १, ४२; -लीम्
कागृ १९, ७^c.
कालिका- -का अप ६८, २,
४४.
काल-क, कलिका^d- पा ५, ४, ३६; ३३;
-कः अप ६८, २, ३१.
कालक-वन^e- -नात् वाध १, ८;
वौध १, १, २५६.
कालका-भु^f- -भुम् आपश्रौ

२०, २३, १; हिश्रौ १४, ५, ११-
कालकेय^g- -यान् वृदे ७, ५३.
काल-क(री>)णीं- -णीं शंघ १०१;
विध ६४, ४१, -णींम् विध ४८,
१९^h.
काल-कर्णो (री-उ)पेत- -तः या
६, ३०.
काल-ने(त्र >)त्राⁱ- -त्रे कौस्.
१०६, ७^j.
काल-बुन्द^k- -न्दैः कौस् ३२, ८.
काल-रात्री^l- -त्रीम् वौध ३, ६, ६^l.
काल-वाल^m- -फि ७२.
काल-विहीनⁿ- -नम् वैगृ ४, ११:१-
काल-शकुनि- -निः अप १, ३२, ३-
काल-शाक- -कम् विध ८०, १४.
कालशाक- -च्छाग-लोह-खड्ग-
मांस^o- -सैः गौध १५, १५.
काला (ल-अ) नुशातन^p- -नेन
आपश्रौ १९, ५, ७, हिश्रौ २३,
१, ६.
काला (ल-अ) म्बुद-परिस्राव- -वाः
अप ६४, १०, ५; -वैः अप ६३,
५, ४.
काला (ल-अ) यस- -सस्य वौश्रौ
१५, १५ : ७; -सान् वौश्रौ १५,
१५ : २; -सेन आपश्रौ १९,
५, ७; हिश्रौ २३, १, ६; -सैः
वौश्रौ १५, २८ : १३; ३० : २६;
३३ : २.
कालायस-कृत- -कृतः वौश्रौ
१५, १५ : १.
कालायस-त्सरु^q- -रुन् वौश्रौ
१५, १५ : ३.

a) = कृष्ण-वर्ण, तद्वत्-। व्यु. ?। b) तु. पागम.। c) देवी-विशेष-। d) विप., नाप.।

e) क्वा- = सुरा-। f) = पर्वत-विशेष-। वस.। g) कालकात्, वनात् इति क्वाचित्कः पाभे.। h) विप.।
वस.। i) व्यप.। अपत्यार्थे ढक् > एयः प्र.। j) सपा. कर्णीम् <> रात्रीम् इति पाभे.। k) = कृत्या- (तु.
गोविन्दस्वामी)। समासः ?। l) विप.। वृत्.। m) तु. Böbler। दस. उप. दस. > पस.। लोह- = रक्त-छाग-।
n) कस. उप. = उपधान- (तु. हिश्रौ.)।

कालो(ल-उ)दक^३- के विध ८५, ३५.
 ?कालकमेविवभुः^३ वाश्रौ ३, ४, ५, २३.
 काल-काञ्ज^३- -जाः अप्रा ३,४,११^३.
 कालकीट- कलकीट- द्र.
 कालकीतक^३- -कस्य कौट १,१५,१^३.
 कालकूटि- कलकूट- द्र.
 कालक्रीतक^३- -कस्य शाण १, २३, १^३.
 कालनक- कलन- द्र.
 कालपवि^३- -वयः वौश्रौप्र २७ : ८.
 कालवव^३-> ँवविन्- -विनः निस् ६, ३ : १७; ७ : ८; ९, १३ : २६.
 कालववि-ब्राह्मण- -णम् आपश्रौ २०,९,९.
 कालमृष^३- -पाः अप १,७,१०.
 कालशय^३- -यः वौश्रौप्र ४१ : १३.
 कालशिक- कलश- द्र.
 कालशेय- कलशि- द्र.
 २काला^३- पाग ४,३, १६७; -लाम् आमिष्ट ३, ५, ५ : ६; वौषि १, ४ : ६.
 २काला^३- -ला वृदे ५,१४४.
 कालाप- कलाप- द्र.
 १कालायन- कला- द्र.
 २कालायन^३- -नाः वौश्रौप्र ४९ : १.
 कालाल^३- -लम् माश्रौ १,८,२, ३०; २,१,४,३३.

कालिङ्ग- कलिङ्ग- द्र.
 कालिन्द-, °न्दी- कलिन्द- द्र.
 कालिल- १काल- द्र.
 कालिव्य- कलिव- द्र.
 कालूतर- कलूतर- द्र.
 कालेता^३- -ता चव्यू २ : १६.
 १,२कालेय- २कलि- द्र.
 कालोप^३- -पाः चव्यू ३ : ४५.
 कालिक^३- -ल्कयः वौश्रौप्र ४८ : ५.
 काल्य- √कलप् द्र.
 १काल्य- १काल- द्र.
 २काल्य^३- (> °ल्यायन- पा.) पाग ४,१,९९.
 ?काल्यताम^३ भाग ३,१४ : २३^३.
 काल्याणक-, °णिलेय- कल्याण- द्र.
 काव- कवि- द्र.
 कावचिक- क्वच- द्र.
 काविराज्- किम् द्र.
 काविल्य- कविल- द्र.
 कावी- कवि- द्र.
 कावेरणि- काठेरणि- टि. द्र.
 काव्य-, °काव्यायन-, °नी- कवि- द्र.
 √काश^३ पाधा. भ्वा., दिवा. आत्म.
 दीप्तौ, काशति अप ४८,५८.
 चाकशीमि पावा ७,२,८७.
 १काश- -शे पा ६,३,१२३.
 काशन- -नात् या १२,२५.
 †१काशि^३- -शिः निघ ४, ३; या ६,१; ७,६; -शीन् कौसू २१, ७; २४,२; ४७,३४.

†चाकशत्^३- -शत् आपमं २,१६, २; ५; भाग २, ७ : १०; १६; हिष्ट २, ७,२.
 चाकश्यमान- -नेपु काश्रौ ४, १५, १९.
 २काश^३- पाग ४,२, ९०^३; ३,५४^३; -शाः अप १,६,३; शंघ ११२; वृदे ७, ७९; -शान् वौश्रौ ११, १० : ८; विध ७९,२; -शानाम् आमिष्ट ३, ८, ३ : ४^३; काय ४५, ६; वौषि १, १५ : ७६^३; -शैः शंघ ११२.
 काश-कुश- पाग २, २, ३१^३.
 काश-ज- पा ६,२,८२.
 काश-द्विधुवक-वेतस- -सान् कौसू ४०, २.
 काश-मय- -ये द्राश्रौ १४,२,६; लाश्रौ ५,६,९.
 काश-स्तम्ब- -म्बम् आमिष्ट ३, ८, १ : ९; ३ : ६; वौषि १,१४ : ९; १५ : ७७,
 काश-हस्त^३- -स्तः शंघ ५९.
 काशीय- पा ४,२,९०,
 १काश्य- पा ४, ३, ५४.
 ३काश^३- पाग ४,१,११०.
 काश-कृत्स्न^३- पाग ४, २, ८०^३; -त्स्नः वौष्ट १,४,४४; -त्स्नस्य हिश्रौ २१, २, ३४; -त्स्नाः वौश्रौप्र ३ : ६.
 काशकृत्स्नक- पा ४, २, ८०.

a) = तीर्थ-विशेष-। वस.। b) पाठः? कालकाशु- [द्र.]> -शुः इति शोषः। c) वैप १ द्र.। d) पामे. वैप १,११०८ I द्र.। e) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। f) सपां. °लकी° <> °लकी° इति पामे.। g) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। h) व्यप.। व्यु. ?। i) = देश-विशेष-। व्यु. ?। j) = वनस्पति-विशेष-। व्यु. ?। k) = दक्ष-कन्या-। व्यु. ?। l) विप.। व्यु. ?। m) = वेदशाखा-विशेष-। व्यु. ?। n) = सामशाखि-विशेष-। व्यु. ?। कापोल- इति कासं.। o) पाठः? कल्य-ता-> -ताम् इति शोषः (तु. संस्कृतां)। p) ऋत ५,२,११ परामृष्टः द्र.। q) तु. संस्कृतां [भू. XXV] इव चाकशत् इति पाठस्य स्थाने भवचाकशत् इति ?BC.। r) = तुण-। व्यु. ? < √ काश इति अभा.। s) शकाशुद्र- इति [पक्षे] पाशा.। t) तु. पागम.। u) अर्थः?। v) विप.। वस.। -w) ऋषि-विशेष-, आचार्य-विशेष-।

काशकृस्ति^० - त्तिः काशौ ४,
३, १७,
काशायन- पा ४, १, ११०.
४काश^० - (> काशिल^० - पा.) पाग ४,
२, ८०.
काशपरी^० - (> काशपरेय- पा.) पाग
४, २, ९७.
काशफरी^० - (> काशफरेय- पा.)
पाग ४, २, ९७^०.
काशायिन्- कशाय- द्र.
१काशि- ✓काश् द्र.
२काशि^१ - (> काश्या- पा.) पाग ४,
१, ८०.
३काशि, शी^० - पाठभो २, १, १६६^०;
पाग ४, २, ११६; कि ५७^१.
काशिका, की- पा ४, २, ११६.
काशि-पारियात्र-कुरु-पाञ्चाल- -ला:
अप ५६, १, २.
काशि-राज- -जः ऋअ २, १०, १७९.
काशि-विदेह- -हाः वौश्रौ १८, ४४:
२२.
काशी(शि-ई)श्वर^० - राय आमिष्ट
१, २, २ : २३; हिष्ट २, १९, ६.
२काश्य^१ - पाग ४, १, ९९; -श्यस्य
वृदे ६, ४२.
काश्य-वैदेह- -हयोः शांश्रौ १६,
२९, ६.
काश्यायन- पा ४, १, ९९.
काशीत^० - तम् लाश्रौ ७, २, १; निस्
३, १० : १०; ७, १२ : ७; -ते
लाश्रौ ७, १०, ६.
काशीय- रकाश- द्र.

काशीवाज^० - जाः वौश्रौप्र १० : ४.
काशू- पाठ १, ८५.
काश्मर्य^० - कि ७६.
काश्मर्यो(र्थ-उ)दुस्वर- -रः अप
२३, ६, ५.
काश्मीर- , रक- , शी- , र्य-
कश्मीर- द्र.
१काश्य- रकाश- द्र.
१काश्यप- कश्यप- द्र.
२काश्यप^० - पम् अप ७०^२, २०, १;
७०^३, १०, ६.
काश्यपायन- , पित्- , पीय- , प्येय-
कश्यप- द्र.
काश्यातप^० - पाः वौश्रौप्र ४१ : ४.
कापाय- १कपाय- द्र.
कापायिन्- २कपाय- द्र.
काष्टरेपि^० - पयः वौश्रौप्र १२ : १.
काष्ठ्य- ✓कष् द्र.
काष्ठ^० - पाठ २, २; पाग ४, २, ९१;
६, ४, १५३; पावाग ८, १, ६७;
-ष्टम् काश्रौ १५, ४, ३१; २५,
३, २; आपश्रौ; -ष्टयोः गोष्ट ३,
१०, २९; -ष्टत् कौष्ट ३, १०,
३५; शांष्ट; -ष्टानाम् वौश्रौ २२,
१७ : १७; वौध १, ६, २४; शंघ
१६४; -ष्टानि आपश्रौ २, १२,
५; १२, ३, ५; वौश्रौ; -ष्टे आमिष्ट
३, १०, ३ : २२; कौस् ८७,
१९१; वाध १२, १५; -ष्टेन
वैश्रौ १२, ६ : ८; पाष्ट; -ष्टेवु
आश्रौ ३, १४, १६; -ष्टैः आपश्रौ
१६, ११, १; वैश्रौ.

काष्ठ-कलाप- -पम् आमिष्ट १, १,
४ : ३१^१; हिष्ट १, ८, २.
काष्ठकीय- पा ४, २, ९१.
काष्ठक- पा ६, ४, १५३.
काष्ठ-जल-लोष्ट-पापाण-शस्त्र-विप-
रज्जु- -ज्जुभिः वाध २३, १५.
काष्ठ-मय- -यः वाध ३, ११; -यम्.
हिपि १५ : ६.
काष्ठ-मौनिन्- -नी शंघ ३९०.
काष्ठ-रज्जु-त्वक्-चर्म-वीर-वेणु-विद-
ल-पत्र-पर्ण- -र्णानाम् काध
२७७ : १२.
काष्ठ-वत् वाध ६, ३२.
काष्ठ-शक्-स्थात्- -ता पावा ८, २, २२
काष्ठ-संघात- -तैः अप २३, ५, २.
काष्ठ-स्थ- -स्थः नाशि १, ६, १७.
काष्ठा(ष्ट-आ)दि-प्रहण- -णम्
पावा ८, १, ६७.
काष्ठा^० - कि ५७; -ष्टा वौश्रौ ११,
७ : ३७; आपध १, २२, ७; हिध
१, ६, ७; या २, १५^२; वेज्यो ३९;
-ष्टाः आपश्रौ १७, १८, ११;
†अप ४८, ७५; ९९; निव १,
६१; या २, १५^३; ७, २३^१;
-ष्टानाम् या २, १६^१; वेज्यो
३०; -ष्टाम् आपश्रौ १८, ३,
१५; वौश्रौ; -ष्टायाः या २, २४^१;
-†ष्टासु आपश्रौ १७, ८, ७^२;
माश्रौ ५, २, ३, ९; १२^५; वैश्रौ
१९, ५ : ५१^३; -ष्टे वौश्रौ २६,
२९ : ५, ७; -ष्टोम्^१ आपश्रौ १९,
२३, १; हिष्टौ २२, ४, १७.

- a) = आचार्य-विशेष- । b) अर्थः व्यु. च ? । c) = देश-विशेष- ? । d) = नगरी- (तु. पागम.) ।
e) फारी- इति [पक्षे] भाण्डा., अस्थली- इति नामनः, शफरी- इत्यन्ये (तु. पागम.) । f) तु. पागम. । व्यप. ।
व्यु. ? । g) = वाराणसी- । व्यु. ? । h) अर्थः ? । i) < ✓कश् इति । j) काशीना- इति पाप्ति. [सुबोधिनी] ।
k) = महादेव- । l) = नृप-विशेष- । m) = साम-विशेष- । व्यु. ? । n) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
o) = कार्मर्य- । p) = गृह-विशेष- । व्यु. ? । q) वैप १ द्र. । r) प्लाम् इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु. हिष्ट.) । s) लुसकाऽऽदिष्टा^० इति पाठः ? यनि. शोधः । t) तु. पा ८, २, ९० ।

काष्ठा-गमन- ने वौश्रौ २२, १४ :
२४.
काष्मर्य^३- -र्यः कौश्र २, ६, ९.
काष्प्य-, ष्यायणी- रकप- द्र.
✓कास्^३ पाधा. भ्वा. आत्म. शब्द-
कुत्सायाम्, चकासति सु ४,
२९.
कास,सा^३-सम् आपध २,३,३;
हिध २,१,३३.
कासा-देवता- > वत्य- त्यम्
अथ ६,१०५.
कासिका^३-का वौश्रौ २, ५ :
१९१.

✓कि पाधा. जु. पर. ज्ञाने, चिक्वत्
निघ ३,१११^३.
किंशक्ते अप ४८,५१.
किंशार^३- पाठ १, ४; -रु वौश्रौ १,
५ : ४; १४; वैश्रौ ४, ४ : ८;
-रुणि वौश्रौ ६, २३ : ७१;
१५,१ : ४.
किंशिल^३- ०ल वौश्रौ १०, ४४ :
११; -लः तैप्रा १६, २५;
-लाय शुप्रा ५, ३७.
किंशुक^३- पागम १०७; -कः अप
५२, ५, २; -कम् या १२, ८;
-कानि आपगृ १८, ६; हिगृ २,
१६, ३; ५.
किंशुक-होम- -मः हिगृ २, १६,
११.
किंशु(क>)का-गिरि- पा ६, ३,
११६.
किंशुका(क-आभा >)भ- -भः
अप २९, १, ४.
किंशुका(क-अ)शोक-पद्मा(अ-
आभा >)भ- -भः अप २१,
७, ३.

३१, १६.
किकि^३, की^३दी^३, दि^३वि^३- पाठ ४,
५६; -विः आपश्रौ २०, २२,
१३; वौश्रौ २६, ११ : २१; २२;
हिश्रौ १४, ५, ९; -विम् वौश्रौ
१५ ३७ : ८; -व्या पावा ७,
३, १०९.
किकिटा^३> ष्या/कृ > ष्या-कारम्
वौश्रौ १४, १५ : ६.
किंकिटा(कैत्य) वौश्रौ १४,
१५ : ६; ७; ८^३; ९; चाञ्च
१३ : ४.
किखि- पाठभो २, १, १७६.
किङ्कण- पाठभो २, २, १२८.
किङ्कणीका- पाठना ३, १८.
किङ्कर, ल^३- (> कैङ्करायण-,
लायन- पा.) पाग ४, १,
९९.
रकिङ्कर- किम्- द्र.
किङ्किणि^३- णिम् आपगृ १८,
१.
किङ्किणिका- पाठदु २, ६६.
किङ्किणीका- पाठभो २, २, २०.
किञ्जलक- पाठभो २, २, ६; पागम
१०७.
किञ्जलका(क-अ)रविन्द-संनिभ-
-भेषु अप ६५, १, ६.
✓किट् पाधा. भ्वा. पर. त्रसे
गतौ च.
किट्किडा^३> ष्या/कृ > ष्या-कार-
-रः ऋत २, १, १०.
किराव^३- पाठना १, १४०; पाग ५,

शकास- ✓कस् द्र.
कासक्तिक^३- -कः गोगृ १, २, २५.
कासर- पाठभो २, ३, ३८.
कासाम्भव- कसाम्बु- द्र.
कासार- पाठ ३, १३९.
कासू- पाठभो २, १, ११६.
कासू-त(र>)री- पा ५, ३, ९०.
का-सृति- किम्- द्र.
कासौवलदादौप्यध- -धाः अप १,
७, ८.
कास्तीर^३- पा ६, १, १५५.
काहय- कहय- द्र.
काहल- पाठभो २, ३, ९९.
काहावाह^३- -हम् अप्रा ३, ४, १;
दंवि २, ३.
काह्य- कह्य- द्र.
काहायन^३- -नाः वौश्रौ ३ : ११;
४८ : ७.
काहोद^३- -ङ्गाः वौश्रौ १७ : ६.

किंशुलुक^३- (> [क>]का-गिरि-
पा.) पाग ६, ३, ११६.
किंस- पाग ८, ३, ११०.
किंस्त्य^३- > किंस्त्य-नाभि-पिप्पली-
-ल्यौ कौस् १०, १६.
किंस्त्य-भ्रजाम्बोलोदकरक्षिकाम-
शकादि^३- -दिभ्याम् कौस् ३०,
१६.
किंस्त्या(स्त्य-आ)दि- दीनि कौस्

३१, १६.
किकि^३, की^३दी^३, दि^३वि^३- पाठ ४,
५६; -विः आपश्रौ २०, २२,
१३; वौश्रौ २६, ११ : २१; २२;
हिश्रौ १४, ५, ९; -विम् वौश्रौ
१५ ३७ : ८; -व्या पावा ७,
३, १०९.
किकिटा^३> ष्या/कृ > ष्या-कारम्
वौश्रौ १४, १५ : ६.
किंकिटा(कैत्य) वौश्रौ १४,
१५ : ६; ७; ८^३; ९; चाञ्च
१३ : ४.
किखि- पाठभो २, १, १७६.
किङ्कण- पाठभो २, २, १२८.
किङ्कणीका- पाठना ३, १८.
किङ्कर, ल^३- (> कैङ्करायण-,
लायन- पा.) पाग ४, १,
९९.
रकिङ्कर- किम्- द्र.
किङ्किणि^३- णिम् आपगृ १८,
१.
किङ्किणिका- पाठदु २, ६६.
किङ्किणीका- पाठभो २, २, २०.
किञ्जलक- पाठभो २, २, ६; पागम
१०७.
किञ्जलका(क-अ)रविन्द-संनिभ-
-भेषु अप ६५, १, ६.
✓किट् पाधा. भ्वा. पर. त्रसे
गतौ च.
किट्किडा^३> ष्या/कृ > ष्या-कार-
-रः ऋत २, १, १०.
किराव^३- पाठना १, १४०; पाग ५,

a) पृ ८६४ a टि. द्र. । b) पा ३, १, ३५ परामृष्टः द्र. । c) दीप्तौ वृत्तिः । पाभे. वैप १ प्रकाशते
खि २, १, ४ टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) अर्थः व्यु. च ? । = सोष्णीप- इति भाष्यम्, ? Old. च । f) = नगर-
विशेष- । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) दर्शने वृत्तिः । i) = धान्य-शूक- । व्यु. ? < किम्- + √सृ इति अभा. ।
j) नाप. । वैप ३ द्र. । k) अर्थः व्यु. च ? । l) = शङ्ख-विशेष- । व्यु. ? । m) पद-विभागः । n) पाठ-
पाठः । तत्रैव वृत्तौ भूयांसः पाभे. । o) व्यं. । व्यु. ? । p) नाप. । व्यु. ? । q) डाजन्तम् अव्य. ।
r) = सुरा-किट् । व्यु. ? ।

१,४.

किण्व-कार्पास-सुत्र-चर्मा(र्नि-आ) सु-
धे (घ-इ) ष्टका (का-अ) ङार-
-राणाम् विध ६, १६.

किण्व-हस्त^a - स्तेन अप १, ३०, ४.

किण्वीय-, ष्वय- पा ५, १, ४.

√कित्^b पावा. भ्वा. पर. निवासे
रोगापनयने च, लु. पर. ज्ञाने^c,
चिकेत ऋप्रा ८, ४५^d; चिकिद्धि
कौसु ४६, ५४^f.

चिकिक्त शांश्रौ १०, ५, ४; ऋअ
२, ५, ६५; चिकित्ते या ६, १७^f.

चिकिक्त्सत्^e आपश्रौ १३, १०,

१०; वौश्रौ ८, १० : १७;

वैश्रौ १६, १२ : १३; हिश्रौ

९, ३, ३३; वौश्र १, ९, ६;

चिकिक्त्सत् आपश्रौ ४, ८, ३;

भाश्रौ ४, १२, १; हिश्रौ ६, २,

१९; चिकिक्त्सेत् वौष २, १, २६;

चिकिक्त्सेत् काश्रौ २५, १३, १९.

चिकेत-त्तः आश्रौ ८, १३, ९;

शांश्रौ १०, १४, ४; वौश्रौ ३,

३ : १८; हिश्रौ ३, ६, २७; वैश्र

५, ४ : ५; गौपि २, ६, २२; निघ

३, ९^f; -त्सु वौश्रौ ११, २ : ३;

जैश्र १, ३ : ८; ऋप्रा ७, ३८.

चिकेत-पू-पूः वौश्रौ ११, २ : ३;

जैश्र १, ३ : ८.

केता¹-न्ता पाश्र ३, ४, १४^२.

केतु^१-पाठ २, १, ५९^३; -चैतवः

आपश्रौ १६, १२, १; वौश्रौ

८, ५ : ७; १९, १० : ५०;

वाश्रौ ३, २, १, ६२; वैश्रौ

१८, १० : ९; हिश्रौ ८, ४, २७;

११, ४, १३; वैताश्रौ ९, १६;

जैश्र १, ४ : ९; कौसु १८, २५;

५८, २२; अप ३२, १, २२; ५२,

१२, ३; १३, ४; १५, २; अत्र १३,

२; या १२, १५^४; -चैतवे वौश्रौ

६, १६ : १३; आपसं २, २१,

७; आमिगृ २, ५, १ : ३२^५;

-चैतुः आपश्रौ ९, १८, १५; १९,

१२, २; वौश्रौ १९, ३ : ५; ५ :

२४; २८, ७ : १२; भाश्रौ २,

४, १, ३६; हिश्रौ २३, २, १३;

वैताश्रौ ३९, १६; आपसं १,

१६, २; २, ११, २६; आश्र ३,

६, ८; माश्र १, ३, २; वैश्र ४,

१३ : ३६; हिश्र १, १७, ४; जैश्र

२, ९ : २१^६; अप ४८, ८४;

९५^७, १, ४; २, १; ५४, १,

४६; ६३, ३, ६६; ऋअ २, १०,

१५६^८; सात्र २, ८७७^९; अत्र

१३, २; निघ ३, ९; या ११, ६;

उसु ४, १७; दंवि १, ७; -चैतुना

आश्रौ ३, १२, १८; काश्रौ २६,

४, १६; आपश्रौ ९, ७, १०; १५,

१०, १०; वौश्रौ ९, ८ : २३;

११ : २२; १२ : ११; १४,

२४ : २१; २९, ३ : १५; भाश्रौ

९, १०, ९; ११, १०, ६; भाश्रौ

३, २, १५; ४, ३, २७; वैश्रौ १३,

१२ : १२; २०, १३ : २; हिश्रौ

१२, ६, ६; १५, २, २७; ८, ४;

आमिगृ ३, ६, १ : २०; वौपि १,

८ : १७; हिपि ७ : १०; ऋअ

२, १०, ८; वृदे ६, १४७; शुअ

४, ८६; सात्र १, ७१; या ११,

२७^{१०}; साशि १२१; -चैतुनिः

आश्रौ २, १, १७; आपश्रौ ५,

१, २; वौश्रौ २, ६ : ३५; १२ :

१०; भाश्रौ १, ५, १, ९; हिश्रौ

३, २, १; वैताश्रौ ७, ५; अप

३ : ६८; अप ७०, ८, ३६;

-चैतुभ्यः आमिगृ २, ५, १ : २१^{११};

-चैतुम् आपश्रौ १, ४, १५; १४,

२९, ३; १९, ३, ५; २०, १६, ३;

२४, १३, ३; वौश्रौ १५, २४ :

५; १७, ३८ : २; भाश्रौ १, ४,

१५; भाश्रौ १, १, १, ४६; वाश्रौ

१, २, १, २७; ३, ४, ३, २७;

हिश्रौ १, २, ५१; १३, ८, ३०;

१४, ३, २६; १५, ७, १६; आपसं

२, २०, ३१^{१२}; पाश्र ३, ३, ५;

आमिगृ २, ५, १ : ३१; वैश्र १,

४ : ११; ४, १४ : ४; जैश्र २,

९ : ६; ११; ३१; अप्राय ५, ६;

शंघ ११६ : ४६^{१३}; वौष २, ५,

२३; शुअ ३, ११३; या १२,

७^{१४}; -चैतुनाम् ऋप ३२, ४, ४;

५४, २, ३; ५५, १, ४; चात्र २ :

१५; १५ : ३; -तोः आमिगृ

२, ५, १ : १७; ३६; ४६; वैश्र ४,

१४ : १३; जैश्र २, ९ : १३;

१६; २४; २७; ३२; ३४.

केतु-पीठन-नेन अप ५१,

५, २.

चैतु-भव-भव आपश्रौ २०,

१६, १४; -नद्धिः आपसं २,

१८, १०; आमिगृ २, ५, ८ : ११;

वौश्र २, ७, १६; भाश्र २, ८ :

५; हिश्र २, ८, २; चात्र १७ :

a) विप. 1 वस. 1 b) पा ३, १, ५ परामृष्टः द्र. 1 c) तु. BPG d) पामे. वैप १, ६, १४ X द्र. 1

e) पामे. वैप १, १११० i द्र. 1 f) स्त्री. भवि जः प्र. 1 g) = प्रकाश-, अर्धिन-, धजा-, मह-विशेष-

ऋपि-विशेष-। वैप १ द्र. 1 h) <√कि<√चि इति। i) पाठः ? केतवे इति संभाव्येत (तु. अत्रैव शुक्राय प्रत्य.)।

j) पामे. वैप १, ११११ e द्र. 1

१०; -मन्तम् शंघ ११६ : ६९;
 -मान् कौट ३, १२, २९.
 केतु-संचार- -रम् अप ५४, १, १.
 केतू (तु-उ) दय- -ये काध
 २७६ : १.
 चिकित्^a- > ष्कित्-व- -वम्
 आश्रौ ४, १२, २^b.
 ष्चिकितान- -०न आश्रौ ७, ११,
 २२; ऋअ २, ५, ६६; -नः
 आपश्रौ १४, २९, ३; वौश्रौ ९,
 ७ : १५; हिश्रौ १५, ७, १६;
 अप्राय ५, ६.
 चिकिति^a- -तिः नाशि २, ३, १७^१.
 ष्चिकित्वस्- -तुषे शाश्रौ ९, २८,
 ३०; वौश्रौ; -०त्वः या ६, ८^१;
 ऋप्रा ७, ५४; -त्वान् आश्रौ २,
 १७, १०; काश्रौ; हिश्रौ २, १,
 ५०^१; या २, ११; ८, ५.
 चिकित्सक- -कः वाध ३, ३;
 -कस्य आपध १, १९, १४;
 वाध १४, १९; शंघ ४३४; हिघ
 १, ५, ११६; -कान् विध
 ८२, ९.
 चिकित्सक-मृगयु-पुंश्र्वली-इण्डि-
 क-स्तेना(न-अ)भिशस्त-पण्ड-
 पतित- -तानाम् वाध १४, २.
 चिकित्सा- -त्सा शंघ ४; शुप्रा ३,
 १२९; -त्सायाम् आज्यो ४, ८.
 चिकित्सित- पाग ४, १, १०५^१; २,
 १११^१; -तम् हिश्रौ १४, १, २५^१.
 चैकित्सित्य- पा ४, १, १०५.
 चैकित्सित- पा ४, २, १११.
 चिकित्स्य- -त्स्यः पा, पावा ५, २,
 ९२.

चेकित्- -तत् लाश्रौ ८, ५, २२^१.
 ष्चिकितान- -नः हिश्रौ २१, २,
 ३५; -नम् वौश्रौ १०, ३६ : ९;
 माश्रौ ६, १, ८, १०; वैश्रौ १८,
 २१ : २७; हिश्रौ ११, ८, १४;
 आपमं १, ११, १; कागृ ३०, ३;
 ६०, ५; मागृ १, १४, १६; वागृ
 १६, १; चाअ ४० : २^१.
 कित^b- (>कैतायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 कितक- (>कैतकायनि-) रकितव-
 टि. द्र.
 रकितव^a- पाउभो २, ३, १३४; पाग
 २, १, ४०; ५६; ४, २, ९०; ५,
 १, १३०; -वः शंघ २०१; या
 ५, २२; -वम् वृदे ७, ३७;
 -वस्य शंघ ४३४; अप ४८,
 १२९^१; शाश्रौ; -वाः आगृ २, ७,
 ११; -वात् या ३, १६; -वान्
 माश्रौ १, ५, ५, ८; १३; अप्रा ३,
 ४, १^१; -वासः आम्रिग २, ५,
 १० : २१^१.
 कितवी- -वी आगृ १, ५, ५.
 कैतव- पा ५, १, १३०.
 कितव-वध-काम- -मः अअ ७,
 ५०.
 कितव-व्यवहार- -रे पावा २, १, १०.
 कितवीय- पा ४, २, ९०.
 रकितव^b- पाग ४, १, ११०; १५४^१.
 कैतवायन- पा ४, १, ११०; -नाः
 वौश्रौ ७ : ३.
 कैतवायनि- पा ४, १, १५४; -नयः
 वौश्रौ ३२ : २.
 कितवाशय^b- -यस्य निस् ७, १० :

१२.
 किदर्भ^१- (>कैदर्भ- पा.) कन्दर्प-
 टि. द्र.
 ?कितना- अप ६५, २, २.
 किन्दर्भ- (>कैन्दर्भ- पा.) कन्दर्प-
 टि. द्र.
 किंदास^b- (>कैंदास-, >कैंदासा-
 यन^c- पा. यक.) पाग ४, १,
 १०४; १००.
 किन्नर^१- (>कैन्नर- पा.) पाग ४, ३,
 ९३.
 किम्^a- >इक, का- कः आश्रौ १,
 २, १^१; ४, १२, ३^१; शाश्रौ; या
 ११, ४^१; १४, २५; २६; पा
 ७, २, १०३; कः (>)सऽकः
 पाग ८, ३, ४८; कम् आश्रौ
 १, ३, १३; ५, ६, ६; शाश्रौ;
 आपश्रौ ३, १४, ३^१; ष्कया ६,
 ३५^१; ष्कया आश्रौ २, १७,
 १५; शाश्रौ; कस्मात् काश्रौ २५,
 ५, २५; निस् ८, १३ : २७; सु २०,
 ३; या १, ४; कौशि २४; कस्मिन्
 आश्रौ २, १, ११; १४; भाश्रौ;
 ष्कस्मै आश्रौ ५, १३, १५;
 शाश्रौ; कस्य ष्कशाश्रौ १४, १६, ९;
 १५, २२, १; वाधश्रौ; ष्कस्याः
 आश्रौ ४, १३, १; वौश्रौ १, १३ :
 २५; माश्रौ २, ३, १, २; वैश्रौ
 १५, ३ : १०; कस्यै शाश्रौ १४,
 ९, १; ष्कया आश्रौ ४, ६, ३;
 काश्रौ; -काः आश्रौ २, १३, ३;
 वौश्रौ; या ७, १३; कान् भागृ
 २, १ : १६; कौस् १३५, ९^१; वाध
 १२, ४७; कां(न>)सऽकान्

a) वैप १ द्र. । b) पामे वैप १, १११० b द्र. । c) पामे. वैप १, १११२ d द्र. । d) क्रिप. इति दु. ।
 e) °त्वत् इति पाठः? यनि. शोघः । f) व्यप. । घा. अर्थः? । g) त्तानानः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. तै ५,
 ७, २, १) । h) व्यप. । व्यु. ? । i) कितक- इति [पक्षे] भारुडा. । j) अर्थः व्यु. च? । k) कै° इति पाका. ।
 l) = देश-विशेष- । व्यु. ? । m) पामे. वैप १, १११३ f द्र. । n) पामे. वैप १, १११३ g द्र. । o) = अन्न- ।

ऋत ४, २, ५; पा ८, ३, १२;
कानि शांश्रौ १६, ६, ११;
आपश्रौ; काम्याम् लाश्रौ ८,
६, ११; काम् शांश्रौ १६, २,
२१; काश्रौ; कासु ऋप्रा १४,
६०; कंके आश्रौ २, ९, १४;
शांश्रौ; केन ऋप्राश्रौ २१,
११, १३; ३; वाधूश्रौ; केभ्यः
निसू १०, १० : ५; केपाम्
लाश्रौ ९, ४, २७; कंकेषु शांश्रौ
१६, ६, १३; वैताश्रौ ३७, १३; वृदे
२, ७५९; कैः चव्यू ३ : १३;
कौ या १२, १.

कतम,मा- पा ५,३,९३; पाग १,१,
२७; -कंमः शांश्रौ १७, ८, ७;
आपश्रौ; -मत् आपश्रौ १, ५,
५१; वौश्रौ; या २,४१; १३, १०;
-मस्य शांश्रौ १५, २२, ११;
-नस्ते कागृ २४, ४१; -मा वौश्रौ
२५, २४ : ३०; वाधूश्रौ ४, ५० :
३; -माः वौश्रौ २५, ३० : ९;
वाधूश्रौ ४, ५३ : ३; ९७ : १२;
-मानि वौश्रौ २५, ७ : १; २४ :
२७; २६, १७ : ४; निसू २, ११ :
१८; या १३, ९; -माभ्यः भाश्रौ
९, ६, ३; -मे वौश्रौ २५, १० :
३; २६, ९ : ६; २७ : १०; निसू
१, १० : १; ८; ३, १२ : १९;
-मौ वाधूश्रौ ४, ४५ : १.

कतर,रा- पा ५,३,९२; पाग १,१,
२७; -रः आश्रौ ३, ६, ३; वौश्रौ;
या ७, २०१; -रव शांश्रौ १२,
१७, ११; वौश्रौ २४, १९ : ७;
२५, १० : १; वाधूश्रौ ४, ६४ :
७; -रस्याः सु २०, ३; -रा आश्रौ
७, ७, ८; शांश्रौ १०, ८, १४१;

वौश्रौ २०, १९ : ३५; ऋअ २,
१, १८५१; वृदे ४, ६११; या ३,
२२१; -राः वाधूश्रौ ४, ६७ :
९; -रे वौश्रौ १८, ४६ : ५;
-रेण वाधूश्रौ ३, ९२१.
कतर-कतम- -मौ पा २, १,
६३; ६, २, ५७.

कति- पा ५, २, ४१; -कंति
काश्रौ २०, ७, १३; आपश्रौ ८, ६,
२०; काठश्रौ; -तिभिः वाश्रौ १,
७, २, २७; -तिभ्यः वृदे १, २३.
कति-थ- पा ५, २, ५१.
कति-धा गौध २५, १.

कति-प(द>)दा^१ -दाः अप
४१, ५, २.

कति-पय- -याः लाश्रौ ९, ४,
२१; -याम् शांश्रौ १७, ६, ६;
-ये वैश्रौ २०, ३ : १.

कतिपय-कृत्वस(>) हिश्रौ
१, ५, ७२.

कतिपय-थ- पा ५, २, ५१.

कतिपया(य-अ)ह- -हेन
शांश्रौ १७, १, २.

कत्य(ति-अ)क्ष(र>)रा^१ -रा
अप ४१, ५, २.

कथम् आश्रौ ८, ३, १७; १२, १०,
१; शांश्रौ; पा ५, ३, २५; पाग
१, ४, ५७.

कथं-कारम् पा ३, ४, २७.

कथं-चित्- (> कार्यचित्क-
पा.) पाग ५, ४, ३४.

कथम्- -यमि पा ३, ३, १४३.
कथा आश्रौ ७, ५, २०; शांश्रौ ११,
४, १०; काश्रौ १०, ३, १३;
आपश्रौ ९, १०, १२; वौश्रौ; पा
५, ३, २३; २६.

कयो(या-उ) आश्रौ ९, ५, १६.
कंक्^१, क् आश्रौ ७, ४, ६; ७, ७;
शांश्रौ ३, ५, ६××; १२, १८, १६;
निघ ३, ६; या ६, २७४; पा ६,
३, १०१९.

कचित्^१ पा ८, १, ३०; पाग १,
४, ५७.

कत्-वृ(ण>)णा-पादि, ३, १०३
कत्-त्रि- पावा ६, ३, १०१.

कद्-अध्वर्यु- -सुः वौश्रौ १७,
४५ : ४२.

कद्-अर्य- -र्यस्य शंघ ४३४;
-र्याय वौध १, ५, ८१.

कदर्य-दीक्षित-वद्वा(द-आ)
तुर-सोमविक्रिय-तक्ष-रजक-

शौण्डिक-सुचक-वार्षुषिक-वर्मा-
वकृन्त- -न्तानाम् वाध १४, ३.

कद्-उष्ण- पा ६, ३, १०७.

कद्-रथ- पा ६, ३, १०३;
-थः शांश्रौ २, ५, २७.

कद्-वत्- -वत् शांश्रौ १५, २,
९; वाधूश्रौ ३, ६९ : ३८; -वतः
आश्रौ ७, १, १५; ८, ७, १०;

शांश्रौ ११, १०; १२, ३;
-वताम् आश्रौ ८, ४, १६;

-वदभ्यः आश्रौ ७, ४, ७; -वन्तः
आश्रौ ७, ४, ६; ८, ४, १५;

शांश्रौ १३, २४, १८; -वन्तम्
शांश्रौ १२, ६, १०; -वन्तौ
शांश्रौ १२, ६, १; -वान् शांश्रौ

१२, ४-५, १; १६, २१, २५; २८;
३०; वैताश्रौ ३५, १२.

कद्वती- -त्यः काश्रौ १६,
१, ४०.

कद्-वद्- पा ६, ३, १०२.

कंक्दा आश्रौ ४, १३, ७; शांश्रौ २,

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । पाग. [६, ३, १०१] < कु-इति । c) पामे वैप १, १४४१ d
द्र. । d) निपातसमाहारः द्र. ।

१२,७; काश्रौ १०,३,४; आपश्रौ;
 \$पा ३,३,५; ५,३,१५; \$पावा
 २,१,६९; ५,३,७२.
 कयालुभीय^१—यम् शाश्रौ १६, २,
 ४; ११,९; १३,५, १५; १५,२,
 ९; ७, १; आपश्रौ; नात्र ४१ :
 ६^२; —यस्य आश्रौ ७, ७, ६;
 माश्रौ ५, १, ६, ४४; —यात् शाश्रौ
 १०, ११, १२; —ये लुस् १, ८ :
 १९.
 कयालुभीय-तदिदालीय—ये
 आश्रौ ९, ८, २२; १०, ५, २२;
 शाश्रौ १४, ३९, ९; ८४, ५; १६,
 २१, ३१; २३, १८.
 कर्हि कौट १, ६, ७; शांश्रौ १, ६, ८;
 वाव; पा ३, ३, ५; ५, ३, २१.
 क्व—>क्व-पय—पा ६, ३, १०८.
 क्वो(व-उ)ण्य—पा ६, ३, १०७;
 —ण्यौ शाश्रौ ४, १४, १५.
 का—>२का(का-अ)क्ष—पा ६, ३,
 १०४.
 कांदिशीक^०—पाग २, १, ७२.
 का-पय—पा ६, ३, १०४; १०८.
 का-पुह्य—पा ६, ३, १०६;
 (> °ह्य—पा) पाग ५, १,
 १२४.
 काराधद्वोत्रि(य>)चा^०—याः
 शाश्रौ ९, २०, १२.
 का-विराज^०—राट् ऋथ १, ६,
 ५; शुथ ५, ३६; ऋप्रा १६, ४०.
 काविराण-नष्टल्पी—च्यौ
 ऋथ २, १, १२०.
 का-सृति^०—स्या गोगृ ३, ५, ३५.
 को(का-उ)ण्य—पा ६, ३, १०७;

—ण्यौ कौट ५, ३, ३६.
 किम्—किम् आश्रौ ३, १४, १३;
 शाश्रौ; पाठ ४, १५८^१; पा २, १,
 ६४; ८, १, ४४; पाग १, १, २७.
 किं-वदन्त^१—न्तः पाट १, १६,
 २३; आमिष्ट २, १, ३ : १४;
 काट ३५, १; हिष्ट २, ३, ७; जैष्ट
 १, ८ : १६.
 किं-वद(न्ति>)न्ती—पाठवृ ३,
 ५०; पागम १०७.
 किं-वर्ण-देवत-लिङ्ग—ङ्गाः
 याशि २, १.
 किं-वृत्त—त्तम् पा ८, १, ४८;
 —त्तस्य पावा ३, ३, १४५; —ते
 पा ३, ३, ६; १४४.
 किं-त्वोम^१—मानि निस् ८,
 १३ : ११.
 किं-स्थान^१—नम् नाशि १, ८,
 ६.
 किं-स्विक्^० पाग १, ४, ५७.
 रकिं-कर—पा ३, २, २१; —रः
 अय ३५, २, ३; —रैः विध ४३,
 ३७.
 किंकरा(र-अ)वतान^१—नाः
 वौश्रौ १८, २४ : १५.
 किं-कर्मन्^१—र्मा वौश्रौ २६,
 १४ : ६.
 किं-किरात—पागम १०७.
 किं-किल—पा ३, ३, १४६; पाग
 १, ४, ५७^१.
 किं-कृत—ताः या ६, ३२.
 किं-गत—ते वौश्रौ २४, १२ : ६.
 किं-गोत्र^१—त्रः कौस् ५५, १०;
 वैव ४, ८, ७.

किं-चन पाग १, ४; ५७^१.
 किं-चित् वैश्रौ १८, ११ : १४.
 किं-चित्-त्व—त्वात् कौशिप्
 किं-चित्-पुष्प-फ(ल>)
 ला—ला या १, २०.
 किं-तम—>°माम् पा ५, ४, ११.
 किं-तर—>°तराम् पाग १, ४,
 ५७.
 किं-दक्षिण^१—णम् वौश्रौ २४,
 २९ : १; वायुश्रौ ३, ३४-३५ :
 १; —गाः वौश्रौ २६, २० : १.
 किं-दर्श-पूर्णमास^१—सः वौश्रौ
 २५, १६ : ४.
 किं-देव(ता>)त्^१—ताः या
 ८, २१.
 किं-देवता—>°व्य, ल्या—त्यः
 वौश्रौ २४, ३७ : ८; —त्यन्
 वौश्रौ २४, ३६ : ३; —त्या वौश्रौ
 २४, ३७ : ७; २५, ८ : १३;
 २६, ११ : २०; १४ : १५; ३० :
 १९; —त्याः वौश्रौ २४, ३ : १२;
 २५, १० : १५; २१ : ८; २६,
 ९ : १४; ११ : २५; —स्थानि
 वौश्रौ २५, १ : १९; २६, ७ : ८;
 ३१ : १८; —त्ये वौश्रौ २४, २५ :
 ७; —त्येन वायुश्रौ ३, ४३ : १.
 किम्-अग्निहोत्र^१—त्रः वौश्रौ
 २५, १६ : १.
 किम्-अनु(ख्या>)ख्य^१—
 —स्थानि वौश्रौ २४, १० : १३.
 किम्-अभिधारित—त्तम् वौश्रौ
 २४, २७ : ४.
 किम्-अर्थ—र्थः वौश्रौ २६,
 २७ : १३; निस् २, ४ : ३४×४;

a) वैप १ द्र.। b) ष्यः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. मै २, १, ८)। c) कां दिशम्>यनि. इति। d) <का राधत्वोत्रा (ऋ १, १२०, १)। e) = छन्दो-विशेष-। f) = का-पय-। g) क्वो^० इति नूको.। h) <√कै। i) = बालप्रह-विशेष-। उस. उग. √वद् + झक् प्र. उसं (पाठ ३, १२६)। j) विप.। वस.। k) तु. पागम.। l) पस.। रायतन—इति नूको. (तु. शब्दसूची)।

पावा ३, १, ११२; -थम् वौश्रौ
 १८, ४६: ८; १३; निस् ४, ३:
 ८; ७, ६: २०; या ८, २२; पावा
 १, १, १; ७x४; -र्या: निस् ३,
 १३: १४; -थौ वौश्रौ २६, १०: ९.
 किम्-आधार^a -र: या १, १३;
 १४.
 किम्-उत्त पाग १, ४, ५७.
 किम्-उप(शा>)रु^a -रु:
 वौश्रौ २४, २: ४; छुस् ३, १३: ५.
 किम्-औपसद^b -द: वौश्रौ २५,
 १६: १.
 किं-पवित्र^c -त्र: वाधूश्रौ ३,
 २५: ७.
 किं-गु, पू^dरूप- पागम १०७;
 -प: शांश्रौ १६, ३, १४; १२,
 १३; वाधूश्रौ ४, १९: १३;
 -षम् शुप्रा ५, २१; -घान् शंघ
 ११६: ४९; -पे वौश्रौ २, ५:
 १६फं.
 किं-पूत-ते वौश्रौ २४, २५: ७फं.
 किं-प्रमृदि-तय: निस् ९,
 ८: १.
 किं-प्रसुत^e -त: वौश्रौ २५,
 १६: १.
 किं-प्रोक्षि(त>)ता-ता: वौश्रौ
 २४, २५: ११फं.
 किं-चल^f -ल: सु २८, २.
 किं-भाग^g -ग: निस् ३, ५: ९.
 कियत्^h -यत् आपश्रौ २०, ५,
 १५; वौश्रौ २४, १८: १x४; पा
 ५, २, ४०; पाग ५, ४, १०७;
 -यत: या ६, ३; -यति वौश्रौ
 २३, ५: १; -यन्त: वौश्रौ २६,
 १६: १४; अप ५२, १, १;

-यन्तम् अप्राय ३, ६; आज्यो
 ७, ८; -यन्ति वौश्रौ २४, ५:
 ११फं.
 कियती-त्य: वौश्रौ २४,
 ४: १३; २.
 कियद्-घा-घा: या ६, २०.
 कियद्-रात्रⁱ -त्रेण हिश्रौ ९, ६,
 ३३,
 फंकिस^j(:) निघ ४, ३; या ६, ३५.
 की-दक्ष-पावा ३, २, ६०; ६, ३, ९०.
 की-दक्ष^k-पा ३, २, ६०; ६, ३, ९०;
 -दक् आपश्रौ ९, ५, ८; ६, १, २;
 ५, ६; वौश्रौ; -दशम् अप ४१,
 ५, २; चव्यू ४: १२.
 की-दश-पा ३, २, ६०; ६, ३, ९०;
 -शा: अप ५२, १, १.
 कीदशी-शीम् आमिगृ ३, ७,
 ३: ६.
 की-वत्^l-वत: या ६, ३फं.
 कु^m-पा ६, ३, १३३; पाग १, १,
 ३७; कुⁿ सात्र १, ३०५फं; को:
 पा ६, ३, १०१.
 कु-गति-प्रादि-दय: पा २, २,
 १८.
 कु-चेल, ला^o-लाम् शंघ ३३४.
 कुचेल-दर्शन-नम् अप १,
 ३२, ११.
 कु-तस्(:) आपश्रौ १, ३, ५;
 वौश्रौ; पा ७, २, १०४.
 कुतस् ऽकुतस् > कौतस्कु-
 तस्(:) पाग ८, ३, ४८.
 कौतस्कुता(त-आ)दि-
 -दीनाम् ऋत ३, ७, ८.
 कु-तीर्थ^p-थ्यात् पाशि २५;
 माशि १५, ६; नाशि २, ८, १०.

कुत्र, >त्रा माश्रौ ५, २, १, १७;
 कप्र १, २, १०; ऋप्रा ७, ३३फं;
 शैशि १४९; तैप्रा ३, १०; पा
 ७, २, १०४; पाग १, ४, ५७.
 कु-दामन्^q-(>कौदामिक>।
 का-, °की-पा.) पाग ४, ३,
 ११६.
 कु-नस्^r->°खिन्-खिना
 अप्रा ३, ४, १फं; -खी वौश्रौ
 १५, ३७: २; अप ४८, ११६फं;
 वाध १, १८; २०, ६; ४४; शंघ
 ३७६; विध ४५, ५; काध २७८:
 ७; चव्यू ४: २^h.
 कु-नामन्-(>कौनामिक>।
 का-, °की-) कुदामन्-टि. द.
 कौनामि-पा ४, १, ९६;
 -मि: वौश्रौ ४४: ३.
 कु-पय-पा ६, ३, १०८.
 कु-पान-नम् या ३, १९.
 कु-पुत्र-(>कौपुत्रक-पा.)
 पाग ५, १, १३३.
 कु-पुरुष-पा ६, ३, १०६.
 कु-ब्रह्म-, °ह्वन्-पा ५, ४,
 १०५.
 कु-यव^s-वम् शुप्रा ५, ३७फं.
 कु-ष्टल-पा ८, ३, ९६.
 कु-सृति-त्या आपघ १, ३१,
 २१; हिघ १, ८, ४०.
 कु-स्त्री-(>कौस्त्री-पा.) पाग
 ५, १, १३०.
 कु-स्त्रम्-मम् अप ६९, ५, ५.
 फंकुह^t आश्रौ ७, ११, २८;
 शांश्रौ १०, ५, २०; ऋत्र २, १०,
 २२; वृदे ७, २२; या ३, १५;
 पा ५, ३, १३; ७, २, १०४.

- a) विप. । वस. । b) शुप्रा. पाठः । c) वैप १ द्र. । d) ईयदर्शे कुत्सार्थे प्रत्ये व वृतिः ।
 e) वैप १, १११९ h द्र. । f) प्राघ. उप. =शुर्- । g) कु-नामन्-इति [पक्षे] पागम., कुल-नामन्-इति
 वामनः इति पागम. । h) =अथर्ववेदीयशाखा-विशेष- । i) पामे. वैप १, १११९ m द्र. ।

कुहश्रुतीय^१ - यस्य आश्रौ
 ७, ११, २९; -यानाम् आश्रौ ७,
 ११, ३२.
 ऋ^१ आश्रौ २, १६, १५; शांश्रौ
 १०, १०, ५; १२, १३, ५; वौश्रौ;
 पा ७, २, १०५; पावा ४, १, ८३;
 ६, १, २; ७, १, २.
 का(कु-आ) ह्-स्व(सु-अ)ति-
 दुर-गति-वचन- नात् पावा २,
 २, १८.
 किमीदिन्^१ - दिने निघ ४, ३; या
 ६, ११४; -दी अप ४८, ११६;
 अप्रा ३, ४, १.
 कि-पुरुष- प्रसृ. किम्-द्र.
 किम्बक^१ - कः जैश्रौका १७९.
 कि-भाग- किम्-द्र.
 किम्मीर- पाठभो २, ३, ५०.
 कियत्- प्रसृ. किम्-द्र.
 कियात्या^१ ऋप्रा ९, ५११.
 कियाम्बु^१ - म्बु कौष ५, ५, ५१.
 किंये-धा^१ - धाः अप ४८, ११६;
 निघ ४, ३; या ६, २०४.
 किरण^१ - पाठ २, ८१; -र्णाः अप
 ४८, ११३; निघ १, ५; -णौ
 आश्रौ ८, ३; १८; शांश्रौ १२,
 २२, १; २; वैताश्रौ ३२, २१.
 किरण^१ - (> कैरणक^१ - पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 किराट- पाठभो २, २, ९९.
 किरात- पाठभो २, २, १३७.
 किराता(त-आ)कुलि- स्त्री वृदे

७, ८६.
 किरि- पाठ ४, १४३.
 किरिक^१ - केभ्यः श्रुपा २, २६५^१.
 किरिट^१ - पाठ ४, १८५; पाग २, ४,
 ३१.
 किरीटिन्- टिनम् विघ ९७, १०.
 किरीर- (> ऋ-वत्-)कीर- टि. द्र.
 किरेचेत्^१ वाधूश्रौ ४, ७४ : २८.
 किर्मीर- पाठवृ ४, ३०.
 किल्^१ पाधा. तुदा. पर. श्वैत्यकी-
 डनयोः.
 किल आश्रौ ५, २०, ६१; शांश्रौ; या
 १, ५^२; १८^१; पाग १, ४, ५७.
 किलाट- पाठभो २, २, ९९.
 किलात^१ - (> कैलात- पा.) पाग
 ४, १, १०४.
 किलालप^१ - (> कैलालप-, > कैला-
 लपायन- पा. यक्र.) पाग ४, १,
 १०४; १००.
 किलास^१ - पाठभो २, ३, १७७;
 -सः वौश्रौ २, ५ : १७^१; -सम्
 कौसू १३, १२.
 किलासा(स-आ)वाघ^१ - घम् काश्रौ
 १५, ३, २५.
 किलासिन्- सी आमिष्ट ३, १०,
 १ : ५; वौषि ३, ५, २.
 किल्वि [ल्वि] ष^१ - पाठ १, ५०;
 -घम् वौश्रौ २, ५ : २३^१; ऋप
 ३७, ९, ३; १९, २; वाघ ३, १५;
 १४, ३१; १९, ४४; शंघ ३१७;
 वौघ २, १, १६; या ११, २४^१;

-पात् आमिष्ट २, ६, २ : २६;
 ३, १२, २ : १२; १३; वाघ
 ३०, ६; वौघ २, १, १६; ५, १४;
 पाशि २५; माशि १५, ६; नाशि
 २, ८, १०.
 किल्विषिन्- षी कप्र २, ३, १०;
 शंघ ३२५; सुधप ८५ : ७.
 किल्मिद- दम् या ११, २४.
 किशार, रा^१ - पाग ४, २, ८६^१; ४,
 ५३^१.
 किशार-वत्- पा ४, २, ८६.
 किशरिक- पा ४, ४, ५३.
 किशर- किशर- द्र.
 किशल्य^१ - > किशल्यो(य-उ)प-
 (मा>)म- सौ विघ १, २५.
 किशोर^१ - पाठ १, ६५; -रम् अप
 ७१, ७, ३; -रेण मीसू ७, ४, ७.
 किशो(र-क>)रिका^१ - (> कैशो-
 रिकेय- पा.) पाग ४, १, १२३.
 किशोर^१ - > कैशोरि- (> कैशोर्य-
 पा.) पाग ४, १, १५१.
 किष्क्^१ पाधा. चुरा. आत्म. हिंसा-
 याम्.
 किष्किन्ध^१ - पाग ६, १, १५३.
 किष्किन्धा^१ - पाग ४, ३, ९३; ६, १,
 १५३^१.
 कैष्किन्ध- पा ४, ३, ९३.
 किष्कु^१, ँकु^१ - पाग ६, १, १५३.
 किस्(ः) किम्-द्र.
 किसर^१ - पाठभो २, ३, ७२; पाग ४,
 ४, ५३^१.

a) <कुह श्रुतः [ऋ १०, २२, १] इति। b) वैप १ द्र.। c) अर्थः व्यु. च ?। d) = देश-विशेष- ?।
 e) पामे. वैप १, १२१ d द्र.। f) = मुकुट-। व्यु. ?। g) पाठः ? किलेच्छेत् इति संस्कृता। h) = √पिल्
 द्र.। i) व्यय.। व्यु. ?। j) पस. पूव. किलासा- [स्त्री.] इति विद्याधरप्रभृतयः ?। k) = सुगन्धि-द्रव्य-।
 व्यु. ?। l) किशर- इत्यन्य इति पागम.। m) तु. पाका.। किसर- इति भाण्डा; प्रसृ.। n) = पल्लव-।
 व्यु. ?। o) = शावक-। व्यु. ?। p) व्यप। q) √विष्क् इति भाण्डा., √हिष्क्, √हिष्क् इति [पक्षे]
 BPG.। r) तु. पागम.। = पर्वत-। s) = नगर-विशेष-। t) = गुहा-इत्यपि। u) = प्रमास्य-
 विशेष-। व्यु. ?। v) = आयुध-। w) = किसर।

किसलय^१- पाठभो २, ३, ७; पाग २, १, ५७; ५, २, ३६.

किसलय-क्याकु-लुशुन-निर्यास-
-साः गौघ १७, ३०.

किसलयित- पा ५, २, ३६.

किहाः वाश्रौ ३, ४, ३, १७.

कीकट^१- पाठभो २, २, ९८; -टाः
अप १, ८, १०; या ६, ३२^३कृ;
-कैटु निघ ४, ३; या ६, ३२.

कीकस, सा^१- पाठभ ३, ११७;
-साः आश्रौ १२, ९, ११; १२;
कौसू ३२, १११; -साभ्यः
आपमं १, १७, २१; -सासु
आमिगृ ३, ४, १ : ३४; वौपि ३,
३, १०; वैगृ ५, ४ : ११.

कीकस^१->कैकस^१- (> स्त्री-
पा.) पाग ४, १, ७३.

कीचक- पाठ ५, ३६.

कीट^१ पाधा. चुरा. पर. वणे.

कीट^१- पाठभो २, २, ९५^०; -टः
आपश्रौ ९, २, ५; वौश्रौ २६,
७ : २३; २७, ९ : ३; भाश्रौ;
-टाः अप ५७, ४, ४; -टेन कौसू
३१, १९; -टैः नाशि २, ८, २१.

कीटा (ट-अ)वपन्न-अम् काश्रौसं
३१ : ६; ३२ : १२; भाश्रौ ३,
२, ७^३; वैश्रौ २०, ५ : ४; हिश्रौ
१५, १, ४३; अप्राय २, ६; ४, १;
३; -अस्य वौश्रौ १४, ९ : १६;
२६, ७ : २२.

कीटा(ट-अ)शन- -ने विघ ५१,
३२.

कीटो(ट-उ)पवातिन्- -ती विघ ५,
५४.

कीदर्भ^१- पाग ४, १, १०४.

की-दृक्ष- , श- , °श- किम्- द्र.

कीनाश^१- पाठ ५, ५६; -शस्य
आपघ २, २८, २; हिघ २, ६, २;
-कशाः आपश्रौ ६, ३०, २०;
१६, १९, ३; वौश्रौ ३, १२ : २८;
भाश्रौ ६, १८, ७; माश्रौ १, ६,
४, २४; वाश्रौ १, ५, ५, ८; वैश्रौ
१८, १६ : १२; हिश्रौ ६, ८, १;
११, ६, ३३; पागृ ३, १, ६; जैगृ
१, २४ : ८; कौसू २०, ४; वृदे
५, ९.

कीम् पाग १, ४, ५७.

कीर- पाठभो २, ३, ५०.

कीरि^१- -कुरये आपश्रौ २२, ७, ११;
-कुरिः अप ४८, ९७; निघ ३,
१६; -रिभिः वृदे ३, ९६.

कीरिन्^१- -कुरिणा आश्रौ २, १०, ९;
वौश्रौ १३, ७ : ३; हिश्रौ २२,
२, १७; आपमं २, ११, ५; वौगृ
१, ६, १०; ४, १२, ३; भागृ १,
२२ : ५.

कीर्ण- √कृ (विक्षेपे) द्र.

कीर्तन- , °वैयत्- प्रमृ. √कृ [स्तुतौ]
द्र.

कील्^१ पाधा. भ्वा. पर. वन्धने.

कील->°ल-क- -कम् अप ३६,
१, ६; -काः अप ५२, ७, ५;
-कानाम् अप २१, ३, ४; -के
काश्रौसं ३५ : १३.

कीलक-स्तान- -नात् अप

३६, १६, २.

कीलका (क-अ)स्त्रा(त्र-आ)
दि- -दि अप ३६, ३०, ३.

कील-वत्- -वति अप ७२,
१, ४.

कीलाल^१- पाठभो २, ३, १०५^०;
-कलः आपश्रौ ६, २७, ३^१; हिश्रौ
६, ७, ८^१; कौगृ ३, २, ६^१; ४, ५;
शागृ ३, ३, १^१; ७, २; कागृ २७,
३^१; भागृ १, २७ : ८^१; हिगृ
१, २९, १^१; -कलम् शाश्रौ ४, ५,
३; आपश्रौ १, १०, ४; हिश्रौ
२, ७, ३७, ४९; आमिगृ २, ६, ३;
५७, ३, ११, २ : १२; वौगृ; निघ
२, ७.

कीलाल-पा^१- -पे आपश्रौ १९, ३,
२^१.

किलाल-पेशस^१- -शसः आपश्रौ
१६, १८, ६; वैश्रौ १८, १५ :
१७; हिश्रौ ११, १६, २८.

कीलाल-मिश्र- -अम् कौसू १२,
१६.

कीलालौ (ल-ओ)पधि^१- -धीनाम्
आपघ १, १७, २५.

कीलालि^१- -लयः वौश्रौ १० : ४.

कीलिन्^१- -नम् कप्र ३, १०, १५.

की-वत्- किम्- द्र.

किलिस्त^१- -स्तासः अप ४८, ८५;
निघ ३, १५.

कु^१ पाधा. भ्वा. तुदा. आत्म., अदा.
पर. शब्दे, कप्रते^१ निघ २, १४.

कोक्यमा(न>)ना- -ना याप, २६.

कु- किम्- द्र.

a) = प्रवाल- । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) कैकसेय- इति पाका. । e) <√कि ।
f) तु. पागम. । g) वैप १, ११२२ m द्र. । h) <√कल् । i) पामे. वैप १, ११२३ d द्र. । j) पामे.
शृ८१८ n द्र. । k) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । l) = किलिन- (तु. अ-किलिन- इत्यत्र उप.) । नाप. = किलि-
स्यानं- । व्यु. ? । m) = √कृ [तुदा.], √कृ इति BPG. । या ५, २६; १२, १३ पा ७, ४, ६३ परामृष्टः द्र. ।
n) गतौ वृत्तिः ।

२कु^a- कुः पाशि १७.
 कु-त्व-विज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ७,२,५६.
 का(कु-आ)दि- -देः पा ७,२,५९.
 ३कु^b- पाठभो २,१,१९.
 : कु-ज^c- पाग २,४,३१^d.
 कौज^e- -जे विध ७८, २.
 कु-अ- पावाग ३,२,५.
 १कु-ए- पा ८,२,९७.
 कुं^f शुभा ८,२४; याशि २,९४.
 ✓कुंश पावा. चुरा. उभ. भापायाम्.
 ✓कुक् पावा. भ्वा. आत्म. आदाने.
 कुक^g- -काः वौश्रौप्र १७ : १६.
 कुकुन्दुर- पाठभो २,२,५२.
 कुकुन्ध^h- -न्धाःⁱ अत्र ८,६; अत्रा
 ३,४,१.
 कुकुभ^j- > व्-देश- -शम् वाश्रौ
 १,६,४,१९.
 कुकुभ- पाठभो २,२,१३६.
 कुकुर- पाठ १,४१.
 कुकुस^k- -सम् अप ३६,४,२,
 कुकुरभ^l- -भाः अत्रा ३,४,११.
 कुकूल- पाठभो २,२,११२.
 कुक्कुट^m- पाठभो २, २, १०६;
 पाग २, ४, ३१; ६, २, १२५;
 ३, ११६; -टः काश्रौ २, ४,
 १५ⁿ; हिश्रौ १, ५, ५४^o;
 आपध १, १७, ३२; वौध १, ८,
 १२; ९, १४; हिध १, ५, ६३;
 शुभ १, ५७^p; याशि २,
 ६२^q; -टाः अप २०, ६, ३.

कुक्कुटी->कौक्कुटिक-
 पा ४, ४, ४६.
 कुक्कुटा, ट्य(ट,टी[रावाग]-
 अ)ण्ड- पावा ६, ३, ४१.
 कुक्कुट-कन्थ- पा ६, २, १२५.
 कुक्कुट-सूकर- -रम् वौध १, ५,
 १२९; -राणाम् आपध १, २१,
 १५; हिध १, ६, ४५.
 कुक्कुटा(ट-अक्षि>)क्ष->(कौक्कु-
 टाक्षिक- पा.) पाग ४, १, १४६.
 कुक्कुटा(ट-अ)ण्ड- पावा ६, ३,
 ४१.
 कुक्कुटाण्ड-प्रमाण- -गम्
 आम्रिण ३, ११, १ : ४.
 कुक्कु(ट>)टा-गिरि- पा ६, ३,
 ११७.
 कुक्कुर^r- पाठ १, ४१.
 कुक्क^s- >कौकायन- -नाः वौश्रौप्र
 १७ : १७.
 कुक्का(क-आ)मिवेश्यौ (श्य-श्रौ)-
 जायन- -नानाम् आपश्रौ २४,
 ७, १^t.
 कुक्ष- पाठ ३, ६८.
 कुक्षि^u- पाठ ३, १५५; पाग ४,
 २, १२७^v; -क्षिः वैताश्रौ
 १७, ९; कौस् २४, १९^w;
 अप्राय २, ५^x; अप १८^y, १, ७;
 कुअत्र ७, १११; ९, ७; -क्षिम्
 आम्रिण ३, ५, १ : १९; वौपि १,
 २ : ५; वाण १६, ६; -क्षी
 आश्रौ ६, ३, १; अप ४१, ६, ५;

-श्रौ वैश्रौ २, ६ : ११; आम्रिण
 ३, ५, ७ : ९; वैण ३, १४ : ३;
 ६, ३ : २; ७, ४ : ६; -क्ष्योः
 वौपि १, ६ : ४.
 कौक्षक- पा ४, २, १२७.
 कौक्षेय- पा ४, ३, ५६.
 कौक्षेया(य-अ)गिन- -क्षिम्
 नाशि २, ८, १.
 कौक्षेयक- पा ४, २, ९६.
 कुक्षि-भरि- पावा ३, २, २६.
 कुक्षिल^z- -लाः अत्रा ३, ४, ११^{aa}.
 कुगतिप्रादि- किम्- द्र.
 कुङ्कण- पाठभो २, २, १२६.
 कुङ्कुम^{ab}- पाठभो २, २, २५४; पाग
 २, ४, ३१; -मम् विध ६६, ९.
 कौङ्कुम^{ac}- -गाः अप ५२, ३, २.
 कुङ्ग- पाठभो २, २, ६६.
 ✓कुच् पावा. भ्वा. पर. शब्दे तारे,
 संपर्चन-कौटिल्य-प्रतिष्टम्भ-त्रिलेख-
 नेषु, तुदा. पर. संकोचने.
 कुचित- पाठ ४, १८६.
 कुचुर^{ad}- -रः आश्रौ २, १०, १४;
 आपश्रौ ११, ९, १; हिश्रौ ७, ५,
 ३५; अप १, ३६, ४; यां १,
 २०^{ae}; शुभा ५, ३७; अत्रा ३,
 ४, १.
 कुचवार- (> कौचवार-, १कौच-
 वार्थ- पा.) पाग ४, १, १०४^{af};
 ३, ७६^{ag}.
 कुचुक^{ah}- (> कौचुक- पा.) पाग ५,
 १, १३०.

a) = कर्वा- । b) = पृथिवी- । c) = भौम- । उस. । d) तु. पासि., कुञ्ज- इति भाण्डा. । e) स्वार्थे ङण्-
 प्र. । f) = [वर्ण-विशेष-] यम- । g) = ऋपि-विशेष । व्यु. ? । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १, १०८१ i द्र. ।
 j) = शरीराङ्ग-विशेष- । व्यु. ? । k) अर्थः व्यु. च ? । l) कुक् (शब्द-) + (✓अट् >) अट- इति पागम. ।
 m) पामे. वैप १, ११२३ p द्र. । n) तु. पागम. । o) = श्वन्- । व्यु. ? । p) ऋयो° इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. सवा. हिश्रौ २१, २, १० तुभ्यामिवेश्यौ° इति पामे.) । q) = देश-विशेष- । r) नाप. ।
 व्यु. ? । s) विर. । इवार्थे ङण् प्र. [पा ५, ३, १०७] । t) कुचवार- इति अन्य इति पागम., कूच° इति
 भाण्डा. प्रमृ. । u) = जनपद- ।

कुचेल- प्रमृ. किम्- द्र.
 ✓कुञ् पाषा. भ्वा. पर. त्तैयकरणे.
 कुञ्ज- इङ्- द्र.
 ✓कुञ्च पाषा. भ्वा. पर. कौटिल्यात्पी-
 भावयोः.
 कुञ्चित- > कुञ्चित-केरा-श्मश्रु-
 -धुः चव्यू ४ : १३.
 ✓कुञ्ज ✓कुञ् द्र.
 रकुञ्ज^१ पाठभो २, २, ८८; पाग २,
 ४, ३१.
 कुञ्जन्- पाग ६, ३, १०८^१; पावा
 ५, २, १०७; -रः नाशि १, १०;
 नाशि १, ५, ४; -रम् आमिण् २,
 ५, १: ४६; जैगृ २, ९: ३४; अप
 ३०^२, २, ७; ६८, ५, ३०; -रत्स्य
 विष ७८, ५, ३; -राः अप ७१, ३, ५
 रकुञ्ज^२ (> कौञ्जायन्- >) न्य- पा
 ५, ३, ११३ (पा.) पाग ४, १, ९८.
 ✓कुट्^१ पाषा. तुदा. पर. कौटिल्ये,
 चुरा. आत्म. छन्दे.
 कुटित- पाठ ४, १८६.
 रकुटिल- पाठ १, ५४; -लानि या
 २, २८; -ले काश्रौ २१, ४, १९.
 रकुटिल्य- ल्ये पा ३, १,
 २३.
 कौटिल्य-बहुल- लाः
 अप ७०^२, १६, ३.
 कुटिल-गामि(न् >) नी- नी
 या ९, २६.
 कुटिलि(क >) का- > कौटि-
 लिक्- पा ४, ४, १८.
 रकुट^२ - दत्स्य अप ४८, ११५; १३१;

निष ४, २; या ५, २४४.
 रकुट^१ - पाग २, ४, ३१.
 रकुट^२ (> कौट्य- > कौटायन-
 पा. यक्र.) पाग ४, १, १५१;
 ११०.
 रकुट^३ - > कुट-भार- > कौटभा-
 रिक्- पाग ५, १, ५०.
 कुटज^१ - जस्य माशि ४, २^१.
 कुटज-भार- > कौटजभारिक्-
 रकुट- टि. द्र.
 कुटप- पाठ ३, १४२.
 कुटस्^१ - पाठ ४, ८०; -रुक्^२ आपश्रौ
 १, २०, २; माश्रौ १, २१, ९;
 माश्रौ १, २, २, १७; वाश्रौ १, २,
 ४, ५०; हिश्रौ १, ५, ५४; -रुक्
 वाश्रौ १, २, ४, ४; ४, ५०; हिश्रौ
 १, ४, ३३; ४, ४, ४५.
 कुटर्व(रु-अ)न्त^० -न्तानि माश्रौ
 १, २, १, ४.
 कुटाकु पाठभो २, १, ४१.
 कुटि-टी^१ - पाठ ४, १४३; पाग ४,
 ३, १४२; -टिम् आपष १, २४,
 ११; २१; हिष १, ६, ६०; ६९;
 -टी आपष १२, १४; भागृ २,
 ८ : ४; हिगृ २, ८, २; -ट्यान्
 वाष १०, २३; -टीम् चौष २,
 १, ३; ३, १, १३.
 कौट- > कौट-तक्ष- पा ५, ४,
 ९५.
 कुटी-कुट- पाग, पावाग २, ४, ११.
 कुटीन्^१ (> कौटीगव्य- >
 कौटीगव- पा.) पाग ४, १,

१०५; २, १११.
 कुटी-चक्र^१ -काः वैष १, ९, १: २.
 कुटी-मय- पा ४, ३, १४२.
 रकुटी-र- पा ५, ३, ८८.
 रकुटिल^१ - पाग ४, १, १०५.
 रकौटिल्य- पा ४, १, १०५; -ल्याः
 वौश्रौप्र ६ : ३.
 रकुटीर^१ (> कौटीर- पा.) पाग ४,
 ३, १३४.
 कुटुम्ब- न्वम् अप ६७, १, ५; वाष
 १७, १९; शंष २५८; २७०;
 -न्वे आपष २, ७, २; विष ६७,
 ३७; हिष २, २, २३.
 कौटुम्ब- न्वम् आपृ २, ६, १०.
 कुटुम्ब-क- कः अप ६९, ८, ३.
 कुटुम्ब-व्यवहार- नान् शंष २७०.
 कुटुम्बा(न्-अ)र्ध- र्थे विष ६, ३९.
 कुटुम्बिन्- न्विनः आपष २, ७, १;
 हिष २, २, २२; -न्विन् आपष
 २, ६, ५; हिष २, २, ५; -न्विना
 विष ६, ३८; -न्विनौ आपष
 २, २९, ३; हिष २, ६, १६;
 -न्विन्यः विष ५२, २९.
 कुटुम्बिनी- पावा, पावाग ४, २,
 ५१.
 ✓कुट्^२ पाषा. चुरा. पर. छेदनमर्त्स-
 नयोः; आत्म. प्रतापने.
 कुट- > कुटिम्^१ - पाग २, ४, ३१.
 कुटय- चन्तः अप ६४, ७, ९.
 कुटाक- पा ३, २, १५५.
 कुटमल- पाठ १, १०९.
 रकुडार- पाठभो २, ३, ४३.

a) या ७, १२ परानुष्टः द्र. । b) = लतादिपरिवेष्टित-स्थान-, हस्ति-दन्त- ! व्यु. ? । c) वैतु. पागम.
 < रकु- + √ कु इति । d) तु. पागम. । e) व्यप. । व्यु. । f) या ६, ३० पा १, २, १ परानुष्टः द्र. ।
 g) वैप १, ११२४ ८ द्र. । h) अर्थः व्यु. च ? । i) = घट- वा हलाङ्ग-विशेष- वेति पागम. । j) तु. पागम. ।
 कुटज- इति भाण्डा. प्रमृ. । k) व्यु. ? । l) = वृक्ष-विशेष- । m) वैप १ द्र. । n) पाषे. वैप १, ११२३ p द्र. ।
 o) विप. । वस. । p) = शाला- । व्यु. । q) = संन्यासि-विशेष- । उक्त. व्य. कर्तारि < √ चक् [वृत्तौ] ।
 r) उडुदि(न् >) नी- इति भाण्डा. । s) देननिर्दोषः नप् प्र. (पावा ४, ४, २०) ।

२कुठार^२- (>कौठार- पा.) पाग
४, १, ११२.

कुठारि(क>)का^३-(>कौठारिकिय-
पा.) पाग ४, १, १२३.

कुठि- पाठ ४, १४४.

कुठेर- पाठ १, ५८.

√कुड् पाथा. तुदा. पर. बाल्ये.

कुडप^०- पाग २, ४, ३१.

कुडव^८- ऋः वैज्यो २४.

कु(डि>)डी-> कुडी-कुड^८- पाग
२, ४, ११.

कुड्म्व^८->ण्य-भार- रम् आमिण
२, ७, १० : ३.

कुडुव^८- ऋम् वैश्रौ १, ७ : ५.

कुड्मल^८- पाग ५, २, ३६; -रम्
विघ ४३, १४.

कुड्मलित- पा ५, २, ३६.

कुड्य, ड्या^{१३}- पाठवृ ४, ११२^०;
पाग ४, २, ९५.

कौड्येयक- पा ४, २, ९५.

कुड्य-मूल^१- लात् वैगु ३, १६:११.

कुड्य-ल(म>)मा^१- भाम् क्रप्र १,
१, १५.

√कुण् पाथा. तुदा. पर. शब्दोपकर-
णयोः, चुरा. पर. संकोचने
आमन्त्रये च.

कुणप^१- पाठ ३, १४३; पाग २, ४,
३३^६; ४, १, ८६^०; -पम् तैप्रा
१३, १२^१.

कौणप- पा ४, १, ८६^८.

कुणप-गन्ध->°न्धिन्- न्धिनः
अप ६४, ७, १०.

कुणप-रैतो-मूत्र-पुरीषो (प-उ) पह-
त- भानाम् शंघ १७९.

कुणपतन्त्र^१->कौणपतन्त्रि- न्त्रिः
वौश्रौ २०, १३ : २६.

कुणपदी- कुणपदी- टि. द्र.

कुणव^३- पाउना ३, १४४.

कुणारु^१- -रुः अप ४८, १००; -रम्
निघ ४, ३; या २, ३; ६, १७^८.

कुणाल- पाठ ३, ७६.

कुणि^३-> कुणि-प(द>)दी^०-
पाग ५, ४, १३९.

२कुणि^१- णिः वौपि ३, ५, २.

कौणेय^१- ऋः तैप्रा १३, १२^१;
-यस्य^० चाश्र ४२ : ९.

कुणिन्द- पाठ ४, ८५.

कुण्ट^०- पाग २, २, ३८^०.

√कुण्ट् पाथा. भ्वा. पर. प्रतिघाते.

कुण्ड- पाठमो २, २, ११३; पाग २,
२, ३८^०; ५, २, १२७^८.

√कुण्ड् भ्वा. आत्म. दाहे, पर. वैकल्ये,
चुरा. पर. रक्षण.

कुण्ड^३- पाठ १, ११५; पाग ५,
२, ९७; -ण्डम् वौश्रौ १७, २१ :
२, ३^२; शांश्र २, ७, २८; वैगु १,
८:१४; अप २३, १०, ३; २५, १,
१; २; ९; १०; ३०^२, १, ३; ५; ७;
८; १२-१४; वैध १, ६, ५; पा
६, २, १३६^६; -ण्डस्य अप २२,

५, ४; -ण्डानि वौश्रौ १७, २१^१;
१; अप २५, १, ४; -ण्डे

आपश्रौ १०, ५, १६; भाश्रौ १०,
४, १; हिश्रौ १०, १, ३५;
आमिण १, ६, ३ : ३८; वैगु १,
८ : ५.

कुण्डी- पा ४, १, ४२.

कुण्ड-कर्ण^३- -र्णः सु २३, ४.

कुण्ड-पायिन्->कौण्डपायिन्^१-
-नस्य लाश्रौ १०, ११, १; -ने
लाश्रौ १०, १०, ६; १६, १२.

कौण्डपायिनी^१-

-न्यः वौश्रौ २४, ४ : ७.

कौण्डपायिन-तापश्चित-

-तयोः द्राश्रौ १, ४, २८; लाश्रौ
१, ४, २३.

कौण्डपायिन-सारस्वत-

-तयोः द्राश्रौ १, ४, ३०; लाश्रौ
१, ४, २६.

कौण्डपायिनी(य>)

वा^२- चासु वौश्रौ २३, १४:२२.

कौण्डपायिन्य^१-न्ये

वौश्रौ २१, १ : ११.

कुण्डपायिनां-सत्र- -त्रम्^०

आपश्रौ २३, १, ४.

कुण्डपायिनाम्-अयन- -नम्

आश्रौ १२, ४, १; काश्रौ २४, ४,
२१; वौश्रौ २६, २५ : १; हिश्रौ

१८, १, ४; -नस्य आश्रौ १२,
६, ११; शांश्रौ १३, २४, १^३;

a) व्यप.। व्यु. ?। b) अर्थः व्यु. च ?। c) = परिमाण-विशेष-। व्यु. ? < √कुण्ड इति भ्रमा.।

d) तु. पागम.। e) = कुड्म्व-। f) = कुडव-। g) = कुड्मल-। h) कुड्या- इति पाका.।

i) पूष. = मिति-। j) वैप १ द्र.। k) कुसप- इति [पक्षे] पासि.। l) = आचार्य-विशेष-। व्यु. ?।

m) = कुणप-। n) विप.। व्यु. ? नाप. > = विकलभुज-पुरुष-। o) णप^० इति पाका.। p) णेयणस्य इति

पाठः ? यनि. शोघः (तु. तै २, ३, ८, १)। q) कुण्ड- इति भाण्डा. प्रमु.। r) = √गुण्ड्। s) = गर्त-,

तदाकारपात्र-विशेष-। वैप १ द्र.। t) = वन-। u) = सर्प-विशेष-। v) विप.। तस्येदमीयः अण् प्र.।

w) = कुण्ड-पायिनाम्-अयन-। x) विप.। तस्येदमीयः छ>ईयः प्र.। y) तस्येदमीयः व्यः प्र.।

z) कौण्ड इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. C.)।

मील ८, २, २९; -ने आपश्री
२३, १०, ६; हिश्री १८, ४, २;
वौष १, ६, ३०; -नेन वौश्री
१७, २० : १.
कुण्ड-पाठ्य^१- पा ३, १, १३०;
-ये पावा ३, १, १३०.
कुण्ड-प्रतिरूप- -पा: काश्री २४,
४, ४०; -पै: लाश्री १०, १२,
१३.
१कुण्ड-ल- पा ५, २, ९७.
कुण्ड-त्वक्ति- -क्तिपु अप ३०^२,
१, १४.
कुण्डा(रड-आ)कृति- -ति अप २१,
५, ४.
कुण्डा(रड-आ)युदात्तत्व- -त्वे
पावा ६, २, १३६.
२कुण्ड^३- -ण्ड: वैध ३, ११, ४.
कुण्डा(रड-आ)शिन्- -शी शंघ
३७७ : ३; विध ४५, २४.
कुण्डाशि-सोमविक्रय (थि-अ)
गारदाहि-गारदा (द-अ)वकीणि-
गणप्रेष्या (प्य-अ) गस्यागामि-
हिंत्न-परिवित्ति-परिवेत्तृ-पर्या-
हित-पर्याधातृ-त्यक्तात्म-दुर्वाल-
कुनखि-श्यावदृच्छिव (त्-धि)त्रि-
पौनर्भव-कितवा (व-अ)जप-राज-
प्रेष्य-प्रातिरूपिक-शुद्धापति-निरा-
कृति-किलासि-कुसीदि-वणिक्-
शिलपोपजीवि-ज्यावादिद्विताल-
नृत्तगीतशील- -लान् गौघ १५,
१७.
३कुण्ड^४- (> कौण्डायन^५- पा.)
पाग ४, २, ८०.

कुण्डप^६- पाग २, ४, ३१.
२कुण्डल^७- पाठ्य १, १०४; पाग २,
४, ३१; ४, २, ८०^८; पावाग ५,
२, १०३^९; -लम् वैश्री ११,
५ : ७; आम्रिय ३, ३, २ : १९;
नाशि १६, ११; -लाभ्याम् वैगृ
२, १५ : ३; विध १, ४२; -ले
द्राश्री १२, ४, १३; लाश्री ४,
१२, ८; आगृ ३, ८, १; १०;
आम्रिय २, ६, ६ : १९; २०;
हिगृ १, १०, ६; ११, १; २; विध
७२, १६.
कौण्डल- पावा ५, २, १०३.
कौण्डलिक^{१०}- पा ४, २, ८०.
कुण्डल-युग- -गानि वौगृ १, २,
७; ६१.
कुण्डल-युग- -मम् आम्रिय २,
६, ६ : २.
कुण्डल-र- पा ४, २, ८०.
कुण्ड(ल>)ला-क (र्ण >)णीं^{११}-
-णीं ऋत ५, १, ३.
कुण्डला(ल-आ)कृति- -ति: याधि
१, ६२.
कुण्डलिन्- -लिनम् भाश्री १०,
२, ७; विध ९७, १०; -ली अप
२४, ४, ४.
कुण्डलिनी- पावा, पावाग ४,
२, ५१.
३कुण्डिन^{१२}- पाठ्य २, ४९; पाग ४,
१, १०५^{१३}; २, ९५; १११^{१४};
-ना: वौश्री ४६ : १; ४; पा
२, ४, ७०; -नांनाम् आश्री
१२, १५, ३; आपश्री २४, १०,

७; हिश्री २२, ३, १४.
१कौण्डिन- पा ४, २, १११.
कौण्डिनयक- पा ४, २, ९५.
१कौण्डिन्य- पा ४, १, १०५;
-०न्य आश्री १२, १५, २;
आपश्री २४, १०, ७; वौश्री ४
४६ : ५; हिश्री २२, ३, १४;
वैध ४, ६, ३; -न्य: तैप्रा १७,
४; -न्यस्य शुश्र २, ४२८;
तैप्रा १८, ३; १९, २; -न्यानाम्
वैध ४, ६, ३; -न्याय आम्रिय
१, २, २ : २९; वौगृ ३, ९, ६;
मागृ ३, ११ : २; हिगृ २,
२०, १.
कौण्डिन्यायन- -न: अप
१, ३, १.
कुण्डिन-वत् आपश्री २४, १०, ७;
वौश्री ४६ : ६; हिश्री २२,
३, १४; वैध ४, ६, ३.
२कुण्डिन- (> कौण्डिन-)
२कुण्डल- टि. द्र.
कुण्डिनी- (> २कौण्डिन्य-)
करिडनी- टि. द्र.
कुण्डोदरायण^{१५}- -णा: वौश्री ४
४७ : ४.
कुण्ड्या^{१६}- (कौण्डयक- पा.) पाग
४, २, ९५.
कुण्ड- पाठ्य २, २, १२०.
कुतप^{१७}- पाठ्य २, २, २१२; पाग
२, ४, ३१; पावाग ५, २, १०३;
-प: वौगृ २, ११, ६३; वांघ
११, ३५; ३६६; -पम् कागृ
४, ८; ५, ९; -पस्य वैगृ २, २ :

a) वैप १ द्र. । b) = [जीवति पर्यौ जारज-] पुत्र- । व्यु. ? । c) अर्थ: व्यु. च ? । d) = देश-
विशेष- ? । e) तु. पागम. । f) = कनु-विशेष- । g) = आभरण-विशेष- । व्यु. ? । h) २कुण्डिन- इति
पाका. । i) विप. । वस. । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) कण्डिनी- टि. द्र. । l) बहु. < कौण्डिन्य- ।
m) < कुण्डोदर- इति । n) व्यप. (= [आन्ध्रदेशीया-] नदी-) । o) = काल-विशेष- ([द्विवाष्टमभाग-] तु. पागम.),
पर्वतीयछागरोमनिर्मितवत्त्र- । व्यु. ? < √कु इति पाठ्यो., < कु + √त्प इति पागम. ।

३; -पानाम् वीध १, ५, ३३;
 विध २३, २०.
 कौतप- पावा ५, २, १०३.
 कुतप-सौश्रुत^२- पावा, पावाग २,
 १, ६९.
 कुतस्त^३ -> कौतस्त- -स्तौ वीश्री
 १७, १८: ६!०; वीगृ ३, १०, ६!०.
 कुतुक^४- पाग ५, १, १३००.
 कौतुक- पा. ५, १, १३०; -कम्
 आमिगृ २, २, ५: १; -कानि
 आज्यो ६, ५; -के मागृ १, ९, ३०.
 कौतुक-तन्तु- -न्तुम् आमिगृ २,
 ३, ५: ३.
 कौतुक-बन्ध- -न्धम् आमिगृ
 २, ३, ५: २.
 कुतू^५-> कुतुप- पा ५, ३, ८९.
 कुतूहल- (> कौतूहल्य-, कौतूहल-,
 कुतूहलित- पा. यक्र.) पाग
 ५, १, १२४; १३०; २, ३६.
 कुतूहलि (न>) नी^६- नी वीगृ
 २, १, १९.
 कुत्र किम्- द्र.
 कुत्वविज्ञानार्थ- रकु- द्र.
 कुत्स पाथा. चुरा. आत्म. श्रवक्षेपणे.
 कुत्सन- -नम् वाध १२, ४१; -नात्
 पावा ८, १, १७; -ने पा ४,
 १, १४७; ८, १, ६९; -नैः पा
 २, १, ५३.
 कुत्सन-प्रावीण्य- -ण्ययोः पा
 ४, २, १२८.
 कुत्सना (न-आ) भीक्ष्ण्य-
 -क्ष्ण्ययोः पा ८, १, २७.
 कुत्सनाभीक्ष्ण्य-ग्रहण- -गम्

पावा ८, १, २७.
 कुत्सयित्वा आपध १, १७, ४; हिद्य
 १, ५, ३६.
 कुत्सा- -त्सायाम् या ३, १८;
 पा ४, १, १६७.
 कुत्सित, ता- -नम् या १, २०; ५,
 २४; पावा ४, १, १६२; -ता
 सुधप ८८: ६; -तानि पा २,
 १, ५३; -ते पा ५, ३, ७४; पावा
 ३, २, ९३; -तैः पा २, १, ५४.
 कुत्सित-ग्रहण- -गम् पावा ५,
 ३, ४७.
 कुत्सित-नामन्^७- -मा वृदे १,
 ३३.
 कुत्सिता (त-आ) दि- -दीनाम्
 पावा ५, ३, ७४.
 कुत्सितादि-वचन- -नम्
 पावा ५, ३, ७४.
 कुत्सितादि-समानाधिकरण-
 -णात् पावा ५, ३, ७४.
 कुत्सिता (त-अ) र्थ- > र्थीय-
 -यम् या ५, ७.
 कुत्सि(न>)नी- -नी वीपि ३, ५, २.
 कुत्स^८- पाग ४, १, ११०; २, ८०^६;
 -त्सः माश्रौ २, १, ३, ५१^१; अप
 ४८, १०४^३; ऋअ; निघ २, २०^३;
 या ३, ११^३ कु^३; ७, १०^०; -त्सम्
 ऋग्रा ७, ३४^३; -त्सस्य शुअ २,
 २५५; ३५६; -त्साः^१ लाश्रौ ७,
 ८, १९; पा २, ४, ६५; -त्सात्
 ऋअ ३, २१; वृदे ३, १२५;
 -त्सानाम्^१ आपश्रौ २४, ८, १;
 -त्साय या ४, २५^१; -त्से वृदे

३, १२८; ४, १८; -त्सेन वृदे ५,
 २८.
 १कौत्स- -०त्स आपश्रौ २४,
 ८, १; -त्सः आश्रौ १, २, ५;
 ४, ६; ७, १, १९; काश्रौ ७, ६, २^१;
 वीश्रौ ६, १४: २२; वैश्रौ १२,
 १५: ३^१; द्राश्रौ १३, ४, १५;
 लाश्रौ १०, २, ९; निस् २, ९:
 ५; ३, ११: ४; ५, ९: ९; ८,
 १०: ७; गोगृ ३, १०, ४; कप्र
 २, ८, २४; आपध १, १९, ४;
 हिद्य १, ५, १०६; ऋअ; या १,
 १५; -त्सम् हिश्रौ ७, १, ७२;
 अप १, ३, १; -त्सस्य वीश्रौ ६,
 १५: ७; -त्साः वीश्रौप्र २२:
 १; -त्सात् आपश्रौ १०, २०,
 १२^१; वीश्रौ ६, १५: ८; भाश्रौ
 १०, १३, ७; -त्साय वीश्रौ ६,
 १५: ११.
 कौत्स-हारीत- -तौ आपध
 १, २८, १; हिद्य १, ७, ३७.
 २कौत्स^१- -त्सम् लुस् १, ५:
 १९; २, ३: १५; ३, ९: ९^३;
 लाश्रौ ७, १, १; ९, १३; निस् ८,
 १: ३१; अप ४२, २, १०;
 वाध २६, ५; शुअ ४, १६९;
 -त्सस्य क्षुस् १, ७: ६; निस्
 ४, १०: ११; १०, २: १८;
 -त्से लाश्रौ ७, १, ९.
 कौत्स-कौञ्च- -ञ्चाम्याम् लुस्
 १, ५: २६.
 कौत्स-वरुणसामन्- -म्भ्याम्
 लुस् २, ३: २१.

a) व्यप. । मलो. कस. । b) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । c) ०तुस्ती ०स्तुकः इति यक्र. पाठौ ? यनि. शोचः
 (तु. सप्र. तां २५, १५, ३) । d) नाप. । व्यु. ? । e) कतक- टि. द्र. । f) = चर्मनिर्मित-तैलभाजन- । व्यु. ? ।
 g) = मातृ-विशेष- । व्यु. ? । h) विप. । वस. । i) वैप १ द्र. । j) = ऋपि-विशेष- । k) अर्थः ? ।
 l) सप्र. कुत्सः < > कौत्सः इति पाभे. । m) = वज्र- । n) सक्व = वज्र- । o) = देवगणाऽन्यतम- ।
 p) बहु. < कौत्स- । q) = साम-विशेष-, सूक्त-विशेष- ।

कौत्स-वैमद- -दम् ऋषा ८,
२२.
कौत्सायन- पा ४, १, ११०; २,
८०^a.
कौत्स्य^b-> कौत्स्यौ (त्स्य-श्रौ)
शानस- -सौ ऋष २, ५, ३१.
कुत्स-नव् आपश्रौ २४, ८, १.
कुत्स-सूक्त- -क्तेन अप १९^३, ४, १.
कुत्सस्या(त्स्य-अ)धिरथीच^c- -यम्
क्षुम् ३, १० : ३१.
✓कुप्य पाधा. दिवा. पर. पूर्ताभावे,
क्या. पर. संश्लेषो.
कुथ- पाडना २, १२.
कुथहारि^d- -रिम् वौध ३, १, ८.
कुथम- पाडभो २, २, २५२.
कुथुमिन्^e- > कौथुम- पावा ६, ४,
१४४; -मा: चव्यू ३ : ५-७.
कौथुम-लौकाक्ष- पाग ६, २,
३७.
कु-दामन्- किम्- द्र.
कुहाल^f- पाग ५, ४, १३८; -लेन
वौध ३, २, ३^३.
कौहा(ल>)ली^g- -ली वौध
३, १, ५; २, ३^३.
कुहाल-पाद- पा ५, ४, १३८.
कुद्रि^h- पाडभो २, १, २२९; पा, पाग
२, ४, ६३; ४, १, १३६^१.
कौद्रेय- पा ४, १, १३६; -या:
वौध्रौ २७ : ८.
कुद्रीचीⁱ-> ची-शफ- -फान् कौस्

५०, २२.
कु-ध- ३ कु- द्र.
कुनखिन्- किम्- द्र.
? कुनखिन्^१ आग्निष्ट ३, ११, १ : ९.
कु-नामन्- किम्- द्र.
कुन्त^m-> कु(न्य>)न्याⁿ-
-न्या: वृदे ८, १०१.
रकुन्त- पाडभो २, २, १४७.
कुन्तल- पाडभो २, ३, ९९.
कुन्ताप^o- -यम् आश्रौ ८, ३, ७; शांश्रौ
१२, ६, १३; १३, ७; वैताश्रौ
३२, १९; -पे वृदे ८, १०१.
कुन्ति^p- पाडभो २, १, १९०; -न्तयः^q
अप १, ८, ६.
कौन्त-> कुन्ती^r- पा ४, १,
१७६.
कुन्ति-सुरावृ- पाग ६, २, ३७.
रकुन्ती^d- (>कौन्तायनि^s-) पा ४,
२, ८०.
✓कुन्थ् भ्वा. पर. हिंसासंज्ञेयानयोः,
क्या. पर. संश्लेषो.
कुन्द्^s- पाडवृ ४, ९८.
कुन्द्-गोक्षीर-गौ(र>)रा- -राभिः
अप ६८, १, ३३.
कुन्द्-पुष्पा(ष्प-आभा>)भ- -भा:
अप ५२, १३, ४.
कुन्द्-सप्रभ- -भः माशि १, १३;
नाशि १, ४, १.
कुन्द्L, न्दु^tम- पाग ६, २, १३४.
कुन्दुमि(न्>)नी^u- पाग ४, २,

५१.
✓कुन्द्र पाधा. चुरा. पर. अतृताभापो.
✓कुप् पाधा. दिवा. पर. क्रोधे, चुरा.
उभ. भाषायाम्, कुपः तु २८, ५.
कोप- -पः पा १, ४, ३७; -यम् अप
५३, ४, ३; विध ७९, १९; -पाव्
शंघ १२.
कोप-भर्त्सन- -नयोः पावा ८,
१, ८.
कोपन- -ना: अप ६८, १, ४३.
कोपित- -ता: जैष्ट २, ८ : १८;
वौध ३, ९, १०.
कुप^v- -पे काश्रौ ५, १०, १८.
कु-पथ- किम्- द्र.
कुपव- पाडभो २, ३, १३४.
कु-पान- किम्- द्र.
कुपिञ्जल- (>कौपिञ्जल-) रक्षि-
ञ्जल- द्र.
?कुपित^w- -नैः माश्रौ ६, १, २, १७.
कुपिन्द- पाड ४, ८६.
कु-पुत्र-, कु-पुत्र- किम् द्र.
कुप्त्^x- -प्त्वाम् आपगृ २३, ९; भागृ
२, ३२ : १; हिगृ १, १७, ५^१.
कुप्य^y- -प्यम् पावा ३, १, ११४.
कुप्य-द्रव्य- -च्यम् विध ७८, ३१.
कुप्र- पाडना २, २८.
कुवेर^z- पाड १; ५९; पावाग
८, ४, ३९; -रः आश्रौ
१०, ७, ६; शांश्रौ १६;
२, १६; अप ३६, १, ९.

- a) =देश-विशेष- ? । b) साऽऽस्यदेवतीयः प्र. । c) =साम-विशेष- । d) अर्थः व्यु. च ? ।
e) =दात्र- इति Bühler, भाष्यं च । f) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) =खनन-साधन- । व्यु. ? । h) =वृत्ति-
विशेष- । i) व्यप. । व्यु. ? । j) विशि- इति [पक्षे] भाण्डा. । k) =गुह्य- ? (तु. संस्कृती) । व्यु. ? ।
l) पाठः ? कुनखिनः इति शोधः संभाव्यते । m) =कुन्ताप- । व्यु. ? । n) विप. (ऋच्-) । o) =सूक्त-
विशेष- । व्यु. ? । p) =जनपद-विशेष- । व्यु. ? । q) बहु. < कौन्त- । r) व्यप. । s) =लता-
तल्प- । व्यु. ? । t) तु. भाण्डा. । u) तु. पागम. । v) या ३, १९ परानुष्टः द्र. । w) = [वेणुनि-
मितभाजनद्वययुक्त-]दण्ड-विशेष-, तुला-दण्ड- । व्यु. ? । x) =चुली- । व्यु. ? । y) कुप्त्वा इति पाठः ? यनि. शोधः ।
z) नाप. । व्यु. ? पाप्र. < ✓गुप् इति । a^१) वैप १ द. ।

अथ ८, १०(४)†; २२; अप्रा
३, ४, १†; दंवि २, ४†, -रस्
वैगृ १, ४ : ७†; -राणाम्^a अप
५५, ५, ४; -†राय भाग १, ८ :
१; २, ५ : १४; वैगृ ५, ३ :
१९; -रे अप ५५, ५, ३; ७१,
१७, २.

१कौवेर- -राः अप ५५, १, ४;
-रान् अप ५५, ५, १.

२कौवेर^b- -रौ वैगृ ३, १७ : ७.

कौवेरी^c- -री अशां १६, १;

-रीस् अप ६८, ३, ९; अशां

१७, ३; -र्यास् अशां १८-१९, ४.

†कौवेरक^d- -काः आपमं २,

१३, ११; आमिगृ २, १, ३ :

१७†^e; भाग १, २३ : ९; हिगृ

२, ३, ७.

कुवेर-केशव- पाग २, २, ३१†.

कुवेर-वन- पावा ८, ४, ३९.

कुवेरि (क>) का^f - (> कौवेरि-

केय- पा.) पाग ४, १, १२३.

कुञ्ज^h- पाडमो २, २, ८८; पाग ५,

४, ३†; -ञ्जः वौश्रौ १५, ३७ : २;

आमिगृ ३, १०, १ : ५; वौषि

३, ५, २; या ७, १२.

कुञ्ज-क- पा ५, ४, ३.

कुञ्ज-किं, कैⁱरात- पा, पाग २,

४, ११.

कुञ्ज-खज्जे (ख-गृ) कलोचन- -नाः

विध ४५, ३२.

कुञ्ज-वामन- पा, पाग २, ४, ११.

कुञ्ज-पण्ड-पङ्गु-दरिद्र- -द्राः

शंथ ३७६.

कुञ्जा(ञ्ज-आ)ञ्ज^l- -ञ्जे विध ८५,
१५.

कुञ्ज- पाड २, २८.

कु-ब्रह्म-, ब्रह्मन्- किम्- द्र.

√कुम् (क्षेय), कोभति अप ४८,
४२†.

कुम् पाग १, ४, ५७.

कुमण्ड^k- > कौमण्ड- -ण्ड वौश्रौप्र

१२ : ४; वैध ४, ४, ३; -ण्डाः

वौश्रौप्र १ : ३; १२ : १; २.

कौमण्ड-गौतमण्ड-गौतम-

-मानाम् वैध ४, ४, ३.

कुमण्ड-वत् वौश्रौप्र १२ : ४; वैध

४, ४, ३.

√कुमार¹ पाधा. सुरा. पर. कीढायाम्.

१कुमार^h- पाड ३, १३८; पाग ५, ४,

३^m; -०र वाधूथौ ३, ९४ : १२;

१६; १८; -रः कौगृ १, १७,

२××; पागृ; ऋथⁿ २, ५, २; ७,

१०२; १०, १३५; वृदे ३,

१४५^k; या ५, १९; -पा ६, २,

२६; -रस् आश्रौ २, ७, १३†;

शांश्रौ; †आपमं २, १३, १^m;

-रस्य कौगृ ३, १, ३; पागृ; -राः

आपश्रौ १, ११, २; वौश्रौ;

-राणाम् आमिगृ २, ५, ३ : ४३;

वौगृ ३, ७, २७; अग ७१, १७,

६; सीस् ११, १, ५१^o; -रान्

वाधूथौ ४, ७५ : २१; ३३;

शांथ २, १४, २१; आपगृ १९,

१; गोगृ ३, २, ६; हिध २, १,

६५^p; -रे वैगृ ३, १४ : १०; ६,

४ : ५; जैगृ १, ८ : १; -रेषु

अप ५०, ३, ४; ७०^q, १०, ७;

-रैः भागृ १, २१ : १३; -रौ

वृदे ७, ६.

कुमारी- पाग ५, २, ११६,

-०रि शांश्रौ १२, २२, १^q†;

-री माश्रौ ६, २, ३, ४; द्राश्रौ;

-रीणाम् कौगृ १, २१, २०;

कागृ; -रीस् ऋश्रौ २०, ८, २५;

आगृ; -रीषु अप ७०^r, १०, ७;

७१, १७, ६; -र्यैः काश्रौ ५,

१०, १५; आपश्रौ; -र्यां आपगृ

१४, ११; भागृ १, २२ : ३;

-र्याः पागृ १, ४, ५; ६, १; आपगृ;

-र्याम् वौश्रौ २, ५; ११†; आपध

२, २६, २१; हिध २, ५, २१६;

पा ६, २, ९५; -र्यैं आगृ १, १५,

१०; १६, ६; १७, १९; कौगृ १,

१, ८; ८, १; १६, ११; शांथ १,

५, ५; १२, १; कौस् ३७, ५.

१कुमार- पा, पावा

४, २, १३; -रस् वाध १७, १९.

कौमार-दार-

व्यागिन्- -नी शंथ ३७७ : ४^p;

४१४.

कौमारिक^r- -काः

वागृ १०, १३; -कान् वागृ १०,

१३.

a) बहु. < कौवेर- । b) विप. । सास्यदेवतीभ्यस् तस्येदमीयथ¹ अण् प्र. । c) = शान्ति-विशेष- ।

d) = बालग्रह-विशेष- । e) उरिकाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपमं. प्रमृ.) । f) तु. पागम. ।

g) व्यप. । व्यु. ? । h) वैप १ द्र. । i) तु. पाका., [पक्षे] पागम. च । j) = [उत्कलदेशस्थ-] तीर्थ-विशेष- ।

k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) √कुमाल् इति [पक्षे] BPG. । m) कुमार-, इन्द्र- इति पाका. । कुमारी-

श्वशुर- इति भारुडा. । n) सपा. हिगृ २, ४, २ पुत्रम् इति पाभे. । o) तु. आन. । p) सपा. आपध २, ४, १२

वालान् इति पाभे. । q) उपरल्या² इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मदनपारिजातः, मिताक्षरा च) । r) विप. । मत्वै

ठञ् प्र. उत्सं. (पा ५, २, ११६) ।

१कुमारिक-, १कुमारिन्-
पा ५, २, ११६.

कुमारी-कुचयुग्म-वत्
याशि १, ६९.

कुमारी-कुल-लात् कौसू
७५, १०.

कुमारी-क्रीडन- (> क्त-
क- पा.) पाग ५, ४, २९.

कुमारी-ज- जम् अप
७०^३, १०, ७.

१कुमारी-दा^३ - दा:
आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ १८,
२१ : १७; हिश्रौ ११, ८, १०.

कुमारी-पत्नी- -त्नीभिः
काश्रौ २०, ६, १८.

कुमारी-पाल- लम् कौसू
७५, १२; -लाय कौसू ७६, १.

कुमारी-पुत्र- (> क्त-
क- पा.) पाग ५, ४, ३.

कुमारी-वाल-वृद्ध-तरुण-
प्रजा(त>)ता^३ - ताः वाध
११, ७.

कुमारी-वत्- पा ५, २,
११६.

कुमारो-वदन- ने अप
६८, ५, ३.

कुमारी-धनु- (> क्त-
क-) १कुमार- टि. द्र.

कुमार्या(री-आ)दि-
-दिभिः शुभ्र ३, ३२.

२कौमार^६- रम् विध २०,
४९; -रे अप ९, २, ७; वाध ५,
३; वौध २, २, ४६.

कुमार-क- पा ५, ४, ३; -कम्
शांठ ५, ७, ३; -कान् अप ६७,
३, ३.

कुमार-कर्मन्- -मंसु वाय ३, ५;
-मार्णि वाय ३, १३.

कुमार-कुल(ट>)टा-, १र-कुशल-,
१र-मार्भि(न>)णी- पा २, १,
७०.

कुमार-धातिन्- पा ३, २, ५१.

कुमार-चपल- पा २, १, ७०.

कुमार-ज- जम् अप ७०^३, १०, ७;
७१, १७, ६.

कुमार-ताप(>स)धी-, १र-दा-
(स>)सी- पा २, १, ७०.

कुमार-नन्दिन्^३- पाग ८, ४, ३९.

कुमार-निपुण-, १र-पण्डित-, १र-
पटु- पा २, १, ७०.

कुमार-प्रत्येनस- पा ६, २, २७.

कुमार-प्रव्रजि(त>)ता- पा २, १,
७०.

कुमार-प्रसव- ने शंघ १७.

कुमार-बन्ध(क>)की-, १र-मृदु-
पा २, १, ७०.

√कुमारय > १रयां √कृ >
?कुमारयांचके वौश्रौ १८, ४६ :
१०.

कुमारयु- पाउवृ १, ३७^६.

कुमार-यज्ञ- ज्ञेषु जैय १, ९ : ५.

कुमार-रूप- -वेण वृदे ५, २१.

कुमार-श्रम(ण>)गा-, १रा(र-अ)
ध्यापक-, १रा(र-अ)भिरूपक-
पा २, १, ७०.

२कुमारिन्- ररिणा आपमं १, ११,

१०^३.

२कुमार^१- पाग ४, १, ९९.

३कौमार-> कौमारी^६- नीः
अशां १६, १; -रीम् अशां १७,
५; -र्याम् अशां १८, ७^३; १९, ७.

कौमारायण- पा ४, १, ९९.

कुमार-धारा^१- रायाम् विध ८५,
२५.

कुमार-वृष- -पौ शुभ्र २, २३८.

कुमार-हारित^१- -तः शुभ्र २, १२४-

१कुमारिक- १कुमार- द्र.

२कुमारि(क>)का- (>कौमारि-
केय- पा.) पाग ४, १, १२३.

√कुमाल् √कुमार टि. द्र.

कुमालन^१- -नाय आपध १, ३२, २४;
हिध १, ८, ६५.

कुमुद^३- पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०^३;
५, २, १३५; पावाग ३, २, ५;

-दः अप ५२, ५, ३^६; -द्वैः अप
१, ४४, ३.

कौमुदिका^१- पा ४, २, ८०.

कुमुद-गन्ध^३- > कौमुदगन्धि-
-न्विः वौश्रौप्र १७ : १५.

कुमुद-पत्र- -त्रैः वैय ३, २१ : १४;

कुमुद-मयूरगल-कालक- -केषु अप
६५, १, ६.

कुमुदिका^१- पा ४, २, ८०.

कुमुदि(न>)नी- पा ५, २, १३५.

कुमुदो(द-उ)पल-पद्म- -ज्ञानि अप
७०^३, ४, ३.

कुमुद-वत्- पा ४, २, ८७^३.

कुमुदवती- -ती कौसू १०६, ७^३.

कुमुर^३- (>कुमुरित- पा.) पाग ५,

a) वैप १ द्र. । b) द्रस. । प्रजाताः ? इत्यस्य स्थाने प्रदा(त>)ताः इति ?Bühler । c) भावे

अण् प्र. उत्सं. (पा ५, १, १३०) । d) तु. पागम. । e) < कुमार- + यु- (<√वा) । f) व्यप. ।

व्यु. ? । g) =शान्ति-विशेष- । h) कौवैर्याम् इति संस्कर्ता । i) =तीर्थ-विशेष- । j) व्यप. । कस. ।

k) =ग्रह-विशेष- । l) =देश-विशेष- ? । m) =ऋषि-विशेष- । n) अर्थः व्यु. च ? । सुकुर- इति [पक्षे]

भाष्य. ।

२,३६.
 ✓कुम्भ^१ पाषा. भ्वा. चुरा. पर.
 आच्छादने.
 कुम्भा- पा ३,३,१०५.
 १कुम्भ^२- स्वम् वीश्रौ ६, १ : ६; ४ :
 १०; २५, ४ : ४; ५; देवि १, ७१.
 कुम्भ-कुरीर- रस् आपश्रौ १०, ९,
 ५; ७; वीश्रौ ६, ५ : १५; माश्रौ
 १०, ६, ५; -राणि वीश्रौ १५,
 १५ : १२.
 २कुम्भ, स्या^३- स्वम् वैश्रौ ११, ८ : २;
 -स्वाम् वीश्रौ १८, २४ : १९.
 कुम्भ-तस् (:) वीश्रौ ४, ९ : १७;
 २०, ३० : ४; २५, ३२ : १२;
 २२; २८.
 कुम्भ-शेष- पम् वैश्रौ ११, ८ : ३.
 ✓कुम्भ ✓कुम्भ टि. द्र.
 कुम्भ^४- पाठो २, २, २३८; पाग ४,
 २, ७५^१; ८०^२; ५, ४, ३०; -म्मः
 वीश्रौ ६, ३२ : ४; २५, १३ : ९;
 आगृ २, ८, १६^३; पागृ ३, ४, ४^४;
 आगृ २, ४, १ : १६^५; कागृ
 ११, २^६; भागृ २, ३; ९^७; मागृ
 २, ११, १२^८; हिगृ १, २७,
 ४^९; कप्र; कौस् १३६, १^{१०};
 अत्रा ३, ४, १^{११}; -म्मम् काश्रौ
 १५, १०, १६^{१२}; आपश्रौ;
 -म्मस्य आगृ २, ३, ५ : ५;
 -म्भाः वाश्रौ २, १, ५, २२;
 आपमं २, १५, ४^{१३}; अय २१,
 ५, ३; -म्भात् काश्रौसं २८ :
 ५; माश्रौ २, २, ५, १६; कौगृ ३,
 २, ६^{१४}; मागृ १, ११, २६; गोगृ

१, १, २६; वृदे ५, १५३; -म्भान्
 काश्रौ २१, ३, ६; वीश्रौ १०, ५० :
 ७; वाधूश्रौ ३, ७६ : १८; हिश्रौ
 ११, ८, ११; आगृ; -म्मे शाश्रौ
 ४, १५, ८; काश्रौ १०, ३, १८;
 १८, २, ४; ६; २५, ८, ६; आपश्रौ
 १४, २, १, १२; वीश्रौ; कौस् २३,
 ४३^{१५}; -म्मेन काश्रौ २१, ३, ७;
 आपश्रौ ११, २०, ५; काठश्रौ;
 -म्मेस्यः विध ५, १२; -म्मेपु
 वाश्रौ ३, ४, ३, २२; -म्मौ काठश्रौ
 १२२.
 १कुम्भी^{१६}- पाग ४, २, ८०;
 पा ४, १, ४२^{१७}; -म्भी माश्रौ १,
 २, १३; आगृ २, ५, १०-११ :
 ३; अत्र ११, ३^{१८}; -म्मिः वीश्रौ
 १५, १४ : १२; वाधूश्रौ ३, ७६ :
 १८; १९; हिश्रौ २, ६, ५५; ११,
 ८, ११^{१९}; -म्मिभिः आपश्रौ ३,
 १६, १७; हिश्रौ २, ६, ५५;
 -म्मिभ्यः आपश्रौ ३, १७, १ :
 वाश्रौ ३, २, ५, ४१; -म्मिम्
 काश्रौ १२, ३, २३; आपश्रौ;
 -म्मिपु वीश्रौ १५, १६ : ९;
 -म्म्यः आपश्रौ ३, १७, १; १४,
 ७, ४; हिश्रौ २, ६, ५५; ९, ८,
 ३६; १३, १, २४; -म्म्या कौस्
 ६१, १२; -म्म्याः शाश्रौ १४,
 ४१, ९; शागृ ३, २, ९^{२०};
 -म्म्याम् आपश्रौ १, १३, ६; १०;
 ७, २२, ९; २३, ७; वीश्रौ; वाश्रौ
 ३, २, ७, ५^{२१}; -म्म्यौ माश्रौ १,
 १, ३, १०; वाश्रौ १, ३, ३, ३०.

कौम्भायनि^{१६}- पा ४,
 २, ८०.
 कुम्भी-दोहन- -नम् भाश्रौ
 १, ११, ११.
 कुम्भी-धान्य- -न्यः वैध
 ३, १, १२; -न्याः वीध १, १, ५.
 कुम्भी-पक्^{१७}- पाग २, १,
 ४०.
 कुम्भी-पाक^१- -कम्
 कौस् ८८, १; -कात् कौस् ६, ३२.
 कुम्भीपाक-रौरव-
 महारौरव-कूटशास्त्रमलि-शिलासं-
 घात-वज्रकण्टकशयन- -नानि
 शंघ ३१४.
 कुम्भीपाक-रौरवा-
 (व-आ)दि- -दिपु शंघ ३७५.
 कुम्भी-पाक्य^{१८}- -क्यौ
 आपश्रौ ८, ६, ६; माश्रौ ८, ६, ८;
 हिश्रौ ५, २, ३२.
 १कुम्भी-पात्र^{१९}- -त्रः
 भागृ १, २३ : ७०.
 कुम्भी-पूरण-सादन-
 प्रत्यसना(न-अ) भिमन्त्रण-
 -गानि वैश्रौ १८, २१ : १३.
 कुम्भी-वत् मीसू ११, ४,
 ४०.
 कुम्भी-शूल-वपाश्रपणी-
 -णीताम् मीसू ११, ४, ३१.
 कुम्भीशूलवपाश्रपणी-
 प्रभुत्व- -स्वात् आपश्रौ २४, ४,
 १६.
 कौम्भ- पा ४, २, ७५.
 कौम्भायन-, कौम्भ्य- पा ४,

a) = √कुम्भ इति [पक्षे] BFG. । b) वैप १ द्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । = मांस- वा मांसल-प्रदेश-
 वा स्थूल-प्रदेश वा इति वीश्रौ. सूची । d) अर्थः ? । e) तु. पागम. । f) पासे. वैप १, ११२७ a द्र. ।
 g) उत्तरेण संधिरार्यः । h) = छुद्रकुम्भ- उखा- । i) = तैलादि-स्थान- स्तम्भाधार- । j) ककुम्भ्याम् इति
 पाठः ? यनि. शोधः । k) = देश-विशेष- ? । l) = ओदन- नरक-विशेष- । m) विप. । उख. । n) = बाल-
 ग्रह-विशेष- । o) सप्र. कुम्भीपात्रः <> कुम्भिशात्रुः <> कुम्भी, शात्रुः <> कुम्भिः, शक्तिः इति पासे. ।

११; -त्रे काश्रौ २४, ६, ३२;
 वौश्रौ १८, ४५ : २४; ४७ : ७;
 वाधूश्रौ ४, ७५ : ४०; लाश्रौ
 १०, १९, १; शंघ १९४; वृदे ६,
 ५८.
 कौरुक्षेत्र^a - त्रम् वैग्य १, ४ : १.
 कुरु-गमन- नात् या ६, २२.
 कुरु-गार्हपत- पा, पावा ६, २, ४२.
 कुरु-पञ्चाल^b - पाग ७, ३, २०;
 -लाः आपश्रौ १८, १२, ७१; वौश्रौ
 १८, ४४ : २२; -लान् हिश्रौ
 १३, ५, ४.
 कौरुपाञ्चाल- पा ७, ३, २०.
 कुरु-पाञ्चाल- लान् आपश्रौ १८,
 १२, ७; -लानाम् वाधूश्रौ ४,
 १०८ : १५; १८.
 कुरु-ब्रह्मन्- ह्यणाम् वौश्रौ १८,
 २६ : ६.
 कुरु-राज- -जः वाधूश्रौ ४, ७५ :
 १७१; -जाय वाधूश्रौ ४, १०८ :
 १४.
 कुरु-श्रवण^b - ऋणम् वृदे ७, ३५;
 उसू २, २६; -णस्य ऋञ्च २,
 १०, ३३.
 कुरु-श्रेष्ठ^d - पाग २, २, ३१.
 रकुरु^e - ऋवः अप ४८, ९६; निघ
 ३, १८.
 रेकुरु^f - रुः वैश्रौ १७, ११ : ११.
 कुरु-वाजपेय- -यः शाश्रौ १५, ३,
 १७; आपश्रौ १८, ३, ७; लाश्रौ
 ८, ११, १८.
 कुरुङ्ग^b - ङः या ६, २२१; -ङ्गस्य या
 ६, २२१; ऋञ्च २, ८, ४; वृदे

६, ४४.
 कुरुण्टक- पाठभो २, २, ८.
 कुरुत^g - (<°त-पाद- पा.) पाग ५,
 ४, १३८.
 कुरु-पथ^h > कौरुपथि- -थिः कौसू
 ६३, २७; अञ्च ७, ५८; ११, ८.
 कुरुविन्दⁱ - न्दान् वौश्रौ २४, ५ :
 १८.
 कुरुसुति^h - तिः ऋञ्च २, ८, ७६;
 साञ्च २, ३४१.
 कुरुस्तुति^h - तिः शुञ्च १, ५२७;
 अञ्च २०, ४२.
 कुरुकु^b - रुः आपमं २, १६, १३;
 भाग्य २, ७:६; ७; हिग्य २, ७, २३.
 कुर्द् पाधा. भ्वा. आत्म. कीडायाम्.
 कुर्द- (> कुर्दी- पा.) ऊर्द- टि. द्र.
 कुर्पासक^d - पाग २, ४, ३१.
 कुर्वत् - प्रयु. √कृ द्र.
 कुर्विणीⁱ - णी याशि २, १३-१५.
 √कुल् पाधा. भ्वा. पर. संस्त्याने
 वन्धुषु च.
 शकुल^k - पाग २, ४, ३१^d; ५, २, १३६;
 -लम् वौश्रौ २७, ४ : ११;
 वाधूश्रौ; या ६, २२१; -लस्य
 वाधूश्रौ ४, ९० : १०; १२; १४;
 वैग्य; -लात् शाश्रौ १४, ४०, १०;
 हिश्रौ १४, १, ४७; आपध २,
 १७, ९; हिध २, ५, ३८^l;
 -लानाम् आपश्रौ २४, ७, २;
 हिश्रौ २१, ३, १०; निस् ४, ८ :
 १०; -लानि वाधूश्रौ ३, ९७ :
 ३; निस् ४, ८ : ३; आमिग्य २,
 ७, १ : ३; कौसू ५७, १९; वौध

१, ५, ८२; ८४^l; विध २६, ६;
 -लाय कौसू १८, २०; आपध
 २, २७, ३; हिध २, ५, २२२;
 -ले आपश्रौ २२, १८, १३^l;
 वौश्रौ; हिश्रौ २, ५, ३८^l; -लेषु
 या १, ४.
 शकौल^m - लेन वौश्रौ २४,
 १२ : ५.
 शकौलेयक- पा ४, १, १४०.
 कुल-कल्प- -ल्पः वाग्य ४, १; जैग्य
 १, ११ : २२.
 कुल-क्रमा(म-आ)ग(त>)वा- -ता
 जैश्रीका २.
 कुल-गमन- -नात् या ६, २२.
 कुलं-कुल- -लः शांघ ४, १२, ११ⁿ;
 वाध १२, ८; गौध ९, ५३.
 कुलं-अय- -ये अशां १७, ४.
 कुल-चारित्र-शील-विद्या-लक्षण-
 गुणा (रा-अ)धिक- -केषु शंघ
 २५२.
 कुल-ज- -जः आपश्रौ २०, १८, १;
 हिश्रौ १४, ४, ८; -जाः विध
 ८, ८.
 कुल-ज्यैष्ठ्य- -ष्ठ्यम् कप्र २, ४, ११.
 कुल(ट>)टा^o - पावाग ६, १,
 ९३; फि ५९; -टायाः वाध
 १४, १९; शंघ ४३४; आपध १,
 १९, १४; हिध १, ५, ११६.
 कौलटिनेय-, -ट्येय- पा ४,
 १, १२७.
 कौलटेर- पा ४, १, १३१.
 कुलटा-पण्ड-पतित- -तेभ्यः
 विध ५७, १४.

a) विप. । तत्रभवीयः अण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) कुरुजः इति पाठः ? यनि. शोधः । d) तु.
 पागम. । e) = ऋत्विग्-विशेष- । व्यु. ? । f) = अल्प- । व्यु. ? । g) अर्थः व्यु. च ? । h) व्यप. । व्यु. ? ।
 i) = ओषधि-विशेष- ? । व्यु. ? । j) = स्वरभक्ति-विशेष- । व्यु. ? । k) वैप १, ११२८ m द्र. । l) 'लाकु'
 इति पाठः ? यनि. शोधः । m) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । n) पाभे. पृ १२२ d द्र. । o) उस. उप. √अद् +
 कर्तरि अच् प्र., पररूपव ।

कुलदो(दा-उ)न्मत्त-चौर- -रान्
कप्र १,६,६.
कुल-दक्षि(या>)ण^३- -णः काश्रौ
२२,११,१२; लाश्रौ १, ४, २८.
कुल-दूषण- -णम् आज्यो १४, १.
कुल-देवता-संबद्ध- -द्धम् शंघ २२.
कुल-धर्म- -र्मः आपगृ १६, ७;
२०, १९; वीगृ २, ४, १७; भागृ
२, १० : १८; हिगृ २, ९, १२;
-र्मम् कौगृ १, २०, २.
कुलधर्म-परिग्रह- > °ह-रिक्व-
पिण्डो (णड-उ) दक- -कानि शंघ
२८८.
कुल-नामन्- (>कौलनामिक>।
का-, °की-) कुदामन्- टि. द्र.
कुल-पति- पाग ४, १, ८४; -त्योः
गोगृ ३, ३, २९.
कौलपत- पा ४, १, ८४.
कुल-पर्वत- -तान् शंघ ११६ : १०.
कुल-पा- -पाः अथ १, १४†.
कुल-पुत्र- (> कौलपुत्रक- पा.)
पाग ५, १, १३३.
कुल-प्रगाश- -शे वाध १, ३८.
कुल-मित्र- -त्रम् विध ५७, १६.
कुल-योपित्- -पिताम् विध ८१,
२२.
कुल(ल-ऋ)त्विज्- -त्विजाम् कप्र
२, ५, ४.
कुल-वत्- पा ५, २, १३६.
कुल-वधू- -धूः शंघ ७८.
कुल-वर्द्ध(न>)नी- -नीम् आज्यो
३, ६.
कुल-वृद्ध- -द्धः शंघ २१; -द्वाः

कौगृ ३, १०, ३५; शांगृ २, १६,
४; आमिगृ २, ४, ७ : २.
कुल-वेद- -द्म् शंघ ११६ : ३९.
कुल-शील-वयो(यस्-अ)न्वित-
-ताः अप ७०, १, ५.
कुल-संख्या- -ख्याम् वीध १, ५,
८४.
कुल-सत्त्व- -त्त्वम् काश्रौ १, ६,
२३.
कुल-स्त्री- -स्त्रियाः वाध १६, ३५;
-स्त्रीणाम् शंघ ३४१.
कुला(ल-अ)घ(म >)मा- -माः
काध २८० : १.
कुला(ल-अ)पकर्ष- -र्षः वाध १,
२७.
कुला(ल-अ)पदेश- -शेन वाध १,
३८.
कुलीन, ना- पा ४, १, १३९; -नः
माश्रौ ५, १, १०, ४१; -नम्
अप ३, १, १३; विध ३, ७०;
-नाम् वाध १, ३८; -ने वाध
१७, ८०.
कुलो(ल-उ)च्छेद- -द्म् अप ३५,
१, १०.
कुलो(ल-उ)त्साद- -द्ः अप ३६,
८, ५.
कुलो(ल-उ)पाध्याय- -यः शंघ
३०३.
१कुल्य- पा ४, १, १४०.
२कुल^b->२कौल^c- -ल्म् विध २२,
८३.
३कुल^d- -लः भागृ २, ७ : २०†.
२कौलेयक- पा ४; २, ९६.

४कुल^e- (>कुल-र^f-, २कुल्य^g-) पाग
४, २, ८०^२.
५कुल^h- पाग ४, १, ११०.
कौलायन- पा ४, १, ११०; -नाः
वौश्रौप्र ३१ : ४५.
कौलि- -लयः वौश्रौप्र २२ : ३.
६कुलⁱ- (>३कौल-) पाग ४, २,
१३३.
कुलङ्ग^j- >°ङ्ग-वर्ज^k- -र्जाः वीध १,
५, १३२.
कुलङ्गापमारिन्^l- -री मागृ २, १४,
२९.
कुलत्थ^m- -त्यान् वीश्रौ २४, ५ : १६.
कौलत्थ- पा ४, ४, ४.
कुलत्थ-सप्त(म >)माⁿ- -माः
आपश्रौ १६, १९, १४.
कुलप- पाउभो २, २, २१०.
कुलल^o- -ले वीश्रौ २, ५ : ९.
कुलाय^p- पाउभो २, ३, ८; -नीयम्
शाश्रौ १२, १७, १०; १८, १३;
आपश्रौ ७, १७, ११; वीश्रौ ४, ६;
३६^p; ११, ४ : २०^p; माश्रौ ७,
१३, ४^p; हिश्रौ ४, ३, ५४^p; अप
४८, ८९.
कौलायिन्- -यिनम् आश्रौ १, ११,
१; शाश्रौ १, १५, १३; वीश्रौ
३, ३० : ४; ८; माश्रौ ३, ९, १२;
वाश्रौ १, १, ४, ३१; वैश्रौ ७,
११ : ५; हिश्रौ २, ५, ३२; ४१;
६, ४, ६; २१, २, ७२; -यी
आपश्रौ १६, २७, ७.
कौलायिनी- -नीः वैश्रौ १८,
१७ : ४७; हिश्रौ ११, ७, ४०;

a) विप. । वस. पूप. = गोकुल-, उप. = दान- । b) वैप १, ११२८ t द्र. । c) = मय-विशेष- ।
d) = थ-ग्रह-विशेष- । व्यु. ? । e) अर्थः व्यु. च ? । f) = देश-विशेष- ? । g) व्यप. । व्यु. ? । h) = देश-
विशेष- । व्यु. ? । कुल्व- इत्यन्य इति पागम. । i) वैप १ द्र. । j) उस. । लु इति चौसं. । k) = देव-विशेष- ।
व्यु. ? । l) = धान्य-विशेष- । व्यु. ? <कुल- + √स्था इति अभा. प्रमृ. । m) विप. । वस. । । n) = कुरर- ।
व्यु. ? । o) पाभे. वैप १, ११२९ a द्र. । p) पाभे. वैप १, ११२८ z द्र. ।

अप्राय ६,२; -नीम् आपश्रौ १५,
३,१३; १७, ५; १६, २४, १४;
वौश्रौ ९, १७ : ३६; ३७; माश्रौ
१२,३,८; १७, ६; माश्रौ ६, १,
७, १४; वाश्रौ २, १, ६, २३;
वैश्रौ १२, ४ : ७; १८, १७ :
४७; हिश्रौ ११, ७, ४०; २४,
१, १८; लाश्रौ ६, २, ११; १९.
कुलाल^२- पाठ १, ११८; पाग ४, ३,
११८; -लाः वौश्रौ १५, १३ :
१४; -लान् वौश्रौ १५, १४ :
११; -लेस्यः शुप्रा ५, ३७.
कौलाल- -लम् पावा ५, ४,
३६; आगृ ४, ३, १९.
कौलालक- पा ४, ३, ११८.
कुलाल-चक्र-निष्पन्न- -न्नम् कप्र २,
८, १०.
कुलाल-वृत्ति^०- -त्तिः वैध ३, १२,
११.
कुलाश्व^०-> कौलाश्व- -श्वः वौश्रौ
१६, २७ : २२.
कुलिङ्ग^०- -ङ्गे वौश्रौ २, ५ : १५.
कुलिज^०- पाठमो २, २, ८९.
कुलि(ज>)जी-; कुलि-जि(क>)
की-, कुलि-जी(न>)ना- पा
५, १, ५५.
कुलिज-कृष्ट^०- -ष्टे कौस् ४३, ४.
रकुलिशा^०- पाठमो २, ३, १४६; पाग
५, ३, १०८; -शाः ऋअप ४८,
१०४; १३१; ऋनिघ २, २०;
४, ३; या ६, १७७, -शन> ना

सु २८, १; या ६, १७७.
कौलिशिक- पा ५, ३, १०८.
रकुलिशा^०- (>कौलिशायनि^०- पा.)
पाग ४, २, ८०.
कुलीन- १कुल- द्र.
कुलीर^१- पाठमो २, ३, ४९.
कुलीर-ककट- -टौ अय ३९, १,
१०.
कुलीर-सुपिर- -रात् वौश्रौ २४,
१४ : ४.
कुलीरो(र-उ)द्घ(त>)ता- -ताम्
वैध २, ४, २^१.
कुलून^क- (>कौलून- पा.) पाग ४,
३, ९३.
कुलूत- (लपाठमो २, २, १४८) >कौ-
लूत-) उलूप- टि. द्र.
कुलून^१- (>कौलून- पा.) पाग ४,
२, १३३^१; ३, ९३^क.
कौलूनक- पा ४, २, १३४.
कुलप^३- -ल्पानि आपमं १, ५, २१^३.
कुल्फ^३- पाठ ५, २६.
कुल्फ-द्वय- -द्वयम् माश्रौ १, ५, ४,
१२; -द्वे वाश्रौ १, ४, ३, १३.
कुल्मल^३- पाठ ४, १८८; -लम्
अप्रा ३, २, २८^१.
कुल्मल, ल्मु^०जल-वर्हिष^०- -पः ऋअ
२, १०, १२६; सांअ १, ४२६.
कौल्मलवर्हिष^०- -पम् द्राश्रौ ८,
१, ३३; लाश्रौ ४, ५, २६; -पस्य
लाश्रौ ७, २, १५; -ये लाश्रौ ७,
२, १.

कुल्माप^१- पाठमो २, ३, १५३; पाग
४, ४, १०३; -पम् विघ ९०,
२७; -पाः या १, ४४^१; -वान्
या १, ४.
कौल्माप- पा ५, २, ८३.
कौल्माषिक- पा ४, ४, १०३.
कुल्मि^०->कुल्मि-मान- -न्नः आपश्रौ
१, ३, १७; माश्रौ १, ३, १५.
कुल्मुद^१->कौल्मुद^१- -दम् जैश्रौ
२२ : ६; जैश्रौका २०.
१कुलय- १कुल- द्र.
२कुलय- ४कुल- द्र.
३कु(ल्य>)ल्या^३- पाठना ४, १२१;
पाग ४, २, ९५^३; -ऋल्याः आपमं
२, २०, २८; आगृ २, ४, १३;
३, ३, ३^५; कौश्र ३, १५, ४; शांश्र
३, १३, ३; मागृ २, १६ : १३;
१७ : ८; मागृ २, ९, ४; कौस्
४५, १४; ६६, ८६; ८४, १; अष
४८, ७६; निघ १, १३; -ल्याम्
वौश्रौ ४, ६ : ४३^१; वैश्रौ ११,
७ : ५.
३कौलेयक- पा ४, २, ९५.
कुल्व- (कौल्व-) ६कुल- टि. द्र.
कुवल^३- पाठमो २, ३, ९६; पाग ४,
१, ४१; ५, २, २४^१.
कुवली- पाठमो २, ३, ९६; पा
४; १, ४१; पाग ५, २, २४^१.
कुवली-कुण- पा ५, २, २४.
कुवल-ककट-शु-बदर-चूर्ण- -र्णानि
काश्रौ १५, १०, १०.

- a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? ।
e) = परिमाण-विशेष- । व्यु. ? । f) अर्थः ? । पू. = घट- (तु. उद-कुलिज- [कौस् १२, ६]) । g) अर्थः
व्यु. च ? । h) = देश-विशेष- ? । i) = जलचर-विशेष- । व्यु. ? । j) कृली^०-इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. C.) ।
k) कुलून- इति पाका. । l) वृ. ८५३ e द्र. । m) = लाज- । व्यु. ? । n) पाभे. वैप १ पूल्यानि
शौ १४, २, ६३ टि. द्र. । o) ऋअ. पाठः ? । p) = ऋपि-विशेष- । वस. । q) = साम-विशेष- । r) = धान्य-
विशेष- । व्यु. ? । s) = गोवाल- [गोपुच्छ-] । व्यु. ? । t) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । u) कुब्जा- टि. द्र. ।
v) वल- इति [पक्षे] भारडा. । w) = शाकटायनाभिमतमिति पागम. ।

कुवल-कुण- पा ५, २, २४.
 कुवल-प्रस्थ- पाग ६, २, ८७^b.
 कुवल-सक्तु- कुभिः माश्रौ ५,
 २, ४, २१; ११, १६; वाश्रौ ३, २,
 ७, १५.
 कुवल्य^b- (> ०यित- पा.) पाग ५,
 २, ३६.
 कुविद्यास^{ca}- (कौविद्यासीय^c-)
 पाग ४, २, ८०.
 ?कुवितः अप ४८, ११६^f.
 कुविद्^d आश्रौ ३, ८, १; १३, १२; ८,
 १०, १; शाश्रौ; निघ ३, १^f; या
 : ४, १५; पा ८, १, ३०.
 कुविद्यास- (> कौविद्यासीय-)
 : कुविद्यास- टि. द्र.
 कुविन्द^e- पाठ ४, ८६.
 कुवेणिका^{ch}- (> कौवेणिकेय-
 पा.) पाग ४, १, १२३.
 √कुश् √कुस् द्र.
 १कुश¹- पाठभो २, ३, १४१; पाग ५,
 २, १७; -शस् आश्रिण् २, ५, १ :
 १७; -शस्य अप २३, १, ५;
 -शाः वौश्रौ १८, ३९ : १××;
 कौश्रु; -शान् शाश्रौ ४, ४,
 २१××; काश्रौ; -शानाम् शाश्रौ
 १७, ४, ५; वौश्रौ २२, १७ :
 १६; कौश्रु ५, १, ६; -शो शाश्रौ
 ३, १९, ९; वैश २, ९, ३; -शेन
 कौश्रु १, ४, १; शाण् १, ८, १४;
 कप्र १, ६, १०; -शेषु आश्रौ १,
 १२, ८××; शाश्रौ; -शैः आश्रौ
 २, ४, १३; शाश्रौ; -शौ काश्रौ
 २, ३, ३०; ४, २, १५; ९, ६, ९;

आश्रु १, ३, ३; वैश २, २, १.
 कौश¹- -शस् शाश्रौ १६, १२,
 २०; काश्रौ १, ३, १२; १४, ५, ३;
 द्राश्रु १, १, ६; कप्र १, २, १०; अप
 ३०, २, २; वैश १, ५, ५.
 कौशी- -शी काश्रौ ६, ३,
 १३; शीम् काश्रु ४३ : २; कप्र
 १, २, १२; -श्या काश्रौ ६, ३,
 २४.
 कुश-कण्टक- -कम्^k शाण् १, २०,
 ३; पाश्रु १, १४, ४.
 कुश-करक(क-अ)शिहोत्रद्रव्या(व्य-
 अ)पहार- -रे शंघ ३२५.
 कुश-काश- पाग २, ३, ३१¹.
 कुश-ग्रन्थि-कृ (त>) ता- -ताम्
 शंघ १०७.
 कुश-चीर-चर्म-बलकल-वासस्-
 -साः आश्रिण् २, ७, १० : ४;
 शंघ ३६९, ३९०.
 कुश-तरुण- -णम् काश्रौ ६, १, १२;
 ७, २, ८; कौश्रु १, २१, १०-१२;
 शाण् १, २८, १२; १३; १५;
 शुभ्र १, २३४; ३६४; -णान् कौश्रु
 २, ४, ३; २४; शाण् २, ७, ५; २८;
 -णानि काश्रौ ५, २, १५; पाश्रु
 २, १, १०; -णाभ्याम् कौश्रु १,
 ५, ४; -णाभ्याम् शाण् १, ८,
 १७; -णे शाश्रौ २, ७, १२;
 काश्रौ ५, १, २३; कौश्रु १, ४, १;
 ५; शाण् १, ८, १४; -णेन काश्रौ
 १०, ९, ३१; २५, १२, १; कौश्रु
 ४, २, ३; शाण् ४, १५, ११.
 कुश-तरुणक- -कानि आश्रिण् ३, ७,

१ : ३; २ : ७; वौषि १, १७ :
 ३; २७; -कैः वौश्रौ ९, १ : १५;
 १०, १ : १३; आश्रिण् ३, ६, २ :
 १७; १९; ७, २ : ५; ३ : १२;
 १४; ९, २ : १२; वौषि १, १० :
 ६; ९; १२; १४; १७ : २५; २,
 १, ६; ७¹; ६, १०; ११.
 कुश-तिल-मिश्र- -श्रेण विध ७३.
 १२.
 कुश-तिल-वस्त्र-पुष्पा (व्य-अ) लंकार-
 धूप-दीप- -पैः विध ७३, १२.
 कुश-तीक्ष्ण- -क्ष्णम् वैश्रौ ११, ७ :
 १३.
 कुश-तोय- -यैः वैश्रु ७, ३ : २; ५;
 १४.
 कुश-दण्डक- -कम् कौश्रु १, १२,
 ८^k.
 कुश-दर्भ- -र्भान् वैश २, ४, २.
 कुश-देश- -शे आश्रौ २, ४, १४.
 कुश-द्वीप^m- -पम् शंघ ११६ : ४.
 कुश-पलाशो(श-उ)डुम्बर-पद्म-शङ्ख-
 पुष्पी-वट-ब्रह्म-सुवर्चला-पत्र-
 -त्रैः विध ४६, २३.
 कुश-पवित्र- -त्रैः काश्रौ ७, ३, १.
 कुशपवित्र-पाणि- -णिः शंघ
 १०७.
 कुश-पिञ्जल- -लान् आश्रौ ६, ९,
 १; -लानि आश्रु १, १७, ८; ४,
 ६, ४; -लैः आश्रु १, १४, ४.
 कुश-पुष्प-दर्भा (र्भ-अ) न्यतम-
 -मेन वैश्रु ४, १२ : ३.
 कुश-शृ(ष्ठ>)ष्टाⁿ- -ष्टाः द्राश्रौ ५,
 २, ३; ताश्रौ २, ६, १^o; निस्

a) तु. पासि. । कुवल- इति पाका. । b) = उत्पल- । व्यु. ? । c) अर्थः व्यु. च ? । d) कुविद्यास-
 इति [पक्षे] पासि., विकुद्यास- इति पाका., विकुव्यास- इति भारुडा. । e) = देश-विशेष- ? । f) वैप १ द्र. ।
 g) = तन्तु-वाय- । व्यु. ? । h) तु. पाका. । वेरि^o इति भाण्डा. ? । i) = दर्भ- । व्यु. ? । j) विप.,
 स्वार्थे वा विकारे वा ण् प्र. । k) सप्र. कुशकण्टकम् <> कुशदण्डकम् इति पाभे. । l) तु. पागम. ।
 m) = सदर्भापाडन्यतम- । n) विप. । वस. । o) कुशाः ष्ट इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) ।

१, ११ : ६.

कुश-प्रसू- -स्त्रः काश्रौ ५, १, २०.

कुश-प्रस्तर- -रे वाध २१, ८.

कुश-वद्ध- -द्धे काश्रौ २५, ३, १७.

कुश-वन्ध- -न्धम् आमिष्ट २, ७,

११ : ३.

कुश-वल्वा, ल्व^१ज- -जैः काश्रु ७,

१४.

कुश-वल्वज-मौ(ञ>)जा- -जाम्

अप २८, १, ३.

कुश-वृत्सी- -स्याम् शंघ १०७.

कुश-भार- -रान् शाश्रौ १७, ६, ६.

कुश-भित्त^१- -त्तम् शाश्रु १, २८, ७०.कुश-भित्ति^१- -त्तिम् कौष्ट १, २१,

६०.

कुश-मय- -यम् वौश्रौ ९, १५ :

१४; ३३; १४, १६ : १८; २१,

२ : २२; आमिष्ट ३, ७, १ : ३;

५; वौपि १, १७ : २; ५; -वौ

वौश्रौ ९, ५ : ८.

कुशमयी- -यीम् वौश्रौ १५,

२ : ३; -उयौ वौश्रौ १०, १ : २.

कुश-मुष्टि- -ष्टिभिः कौष्ट ४, १, ९;

-ष्टिम् काश्रौ १, ३, २३; ६, २,

१२; ९, ७, १; १८, ३, ४; गोष्ट

१, ८, २६.

कुश-मूल- -ल्लेषु आश्रौ २, ३, २०.

कुश-रज्जु- -ज्जुम् गोष्ट १, २, १;

-ज्जू आश्रु ४, ८, १५.

१कुश-ल- -पा ५, २, ९७.

कुश-लव- -वम् आमिष्ट ३, ३, २ : ४.

कुश-वारि- -रिणः वौध ४, ५, १३.

कुशवारि-जल- -लम् आमिष्ट ३,

१२, १ : २.

कुश-वीरिण- -णम् आश्रु २, ७, ४.

कुश-वृत्ति^१- -त्तेः शंघ १३३.

कुश-सम- -मांः शंघ ११२.

कुश-सूना- -नासु आश्रु ४, ८, २२;

२७.

कुश-स्तम्ब- -म्बम् काश्रौ १७, ३,

१; आश्रु १, २२, २१; आमिष्ट ३,

८, १ : ९; वौपि १, १४ : ९; -म्बे

काश्रौ १७, ३, १४; २५, ४, ६;

शंघ २०७; वौध १, ४, २.

कुश-स्थान- -ने विध ७२, २.

१कुश-हस्त^१- -स्तम् वौश्रौ ६, २५ :

२१; २१ : २४.

२कुश-हस्त^१- -स्तः वौश्रौ २१, १४ :

१६; अप ४२, १, ५; -स्तेन अप

२३, १०, ७.

कुशा(श-अ)ङ्कुर- -रम् वैष्ट ३, १२ :

३.

कुशा(श-अ)ग्र- -ग्रम् जैष्ट २, ९ :

२४; -ग्राणि काश्रौ १७, ३, २०;

-ग्रेण विध २०, ४४; -ग्रैः वैश्रौ

८, ११ : २.

कुशाश्रीय- -पा ५, ३, १०५.

कुशा(श-अ)भाव- -वे काउष्ट ४० :

१५; विध ७२, २.

कुशा(श-अ)लाभ- -भे जैष्ट १, १ :

११; शंघ ११२.

कु(श>)शा-व(त्>)ती^१- -पाग

६, ३, ११९.

कुशा(श-आ)वर्त^१- -र्ते विध ८५,

११.

कुशा(श-अ)श्मन्तक-वल्वज-

-जानाम् पाष्ट २, ५, २४.

कुशा(श-आ)सन- -नम् अप २३,

१३, ३; -ने अप ३८, १, ३.

कुशे(श-इ)ण्ड्व- -ण्ड्वानि पाष्ट ३,

७, ३.

कुशे(श-इ)ध्मा(ध्म-आ)दि- -दीन्

वैध ३, ५, १.

कुशो(श-उ)त्तर, रा^१- -रायाम् शंघ

१०७; -रेषु विध ७३, २.

कुशो(श-उ)ङ्क- -कम् आमिष्ट २,

७, ७ : १२; १५; काष्ट ६, ४; ७, ३;

अप ३८, १, ४; २, ३; वाध २७,

१३; वौध १, ५, १२३; ४, ५,

१०-१२; १४; २५; वैध २, १, ४.

कुशो(श-ऊ)र्ण, र्णा- -र्णाः काश्रौ

५, ३, ८; आपश्रौ ८, ६, १२;

भाश्रौ ८, ६, ७; -र्णानाम्

वाधूश्रौ ३, ६९ : ३४; -र्णानि

हिश्रौ ५, २, ३९.

२कुशा, शा^१- -शाः द्राश्रौ ५, २, १; ९;

६, ३, ५; लाश्रौ २, ६, १; ४; ११,

२; निस् १, ११ : ४; २८;

-शानाम् आश्रौ ८, ५, ७.

कुशी- -पा ४, १, ४२; -शीभ्याम्

वाधूश्रौ ४, ३४ : ४१.

कुशा-विधान- -नेन द्राश्रौ ५, २, ४.

१कुशाश्रय^१- -श्रयः अप ४८, ७७; निध

३, २३.

२कुशल^१- -पाउमो २, ३, ९९; पाग

२, १, ४०; ५९; ४, ३, १; ५, १,

१२४; १३०; १३३; ६, २, २४;

-लः वौश्रौ २, १४ : १; ५, १ :

२९; वौध १, ५, ४७; पा ५, २,

६३; -लम् शाश्रौ १५, २६, १३;

वौश्रौ; -लान् अप ७०, १०, ५;

-लेन निस् २, ५ : २०××; गोष्ट.

a) अप. पाठः । b) = कुश-कट- । c) परस्परं पाठे । d) विप. । वस. । e) = कुश-मुष्टि- ।

f) तु. पागम. । g) = तीर्थ-विशेष- । h) = अयस्-पा.], [आवृत्ति-संख्यानाथार्थ-] कटा- । व्यु. ? ।

i) = कृप-नामन्- । व्यु. ? । j) भाप. । विप. > नाप. । व्यु. ? < √कुश वा कु- + √शल वा कुश- + √ला वेत्ति

अभा. प्रभृ., पाप्र. १कुश- + मत्सर्थायः लः प्र. (पा ५, २, ९७) ।

कौशल- पा ५, १, १३०; -ले पा ८, ३, ८९.
 कौशलक- पा ५, १, १३३.
 कौशल्य- पा ५, १, १२४.
 कुशल-श्रुत- तम् गोरु १, ७, ७.
 कुशला(ल-अ)नामया(य-आ)रोग्य-
 न्यागाम् गौध ५, ४२.
 कुशला(ल-अ)र्थ- श्यैः पावा २, ३, १६.
 कुशलिन्- ली द्रागु २, ३, ३०.
 कुशली✓कृ, कुशलीकृत् आगु १, १७, १७.
 कुशलीकारयन्ति गोरु २, ९, २३; १०, ६.
 कुशली-कर्तृ- तर्हि जैगु १, ११ : २६.
 कुशली-कृत- तम् द्रागु २, ४, ७.
 कुशलीकृत-शिरस्- नसम् आगु १, १९, १०.
 कुशलो(ल-उ)दिष्ट- एम् निचु ९, ९ : ४६.
 रकुशा(ल>)ला^३- (> कौशलि-
 पा.) पाग ४, १, ९६.
 कुशाहारीत^३- तः आमिगु ३, ११, २ : २२-२३.
 कुशाम्ब^३- पाटना ४, १०३; पाग ४, १, १२३.
 कौशा(म्ब>)म्बी^३- (> १कौशा-
 म्बेय- पा.) पाग ४, २, ९७.
 रकौशाम्बेय- पा ४, १, १२३;
 -याः वौश्रौप्र ६ : ३.
 कुशिक^३- पाठमो २, २, १८; पाग ४,

१, १०४; -कः ऋत्र २, ३, १; ३१; १०, १२७; लुत्र ३, २२२;
 या २, २५४; -कत्य या २, २५४; -का^३ आपश्रौ २४, ९, १२;
 वौश्रौप्र ३१ : १; ९; ३८ : १; हिश्रौ २१, ३, १२; वृदे ४, ९८;
 -ङ्का^३ शाश्रौ १५, २७, १४; या ७, २; -कान्^३ वृदे ४, ११५;
 -कानाम्^३ वृदे ४, ११४.
 कौशिक- पा ४, १, १०४; -०क
 आश्रौ १२, १४, ६; आपश्रौ २४, ९, १३;
 वौश्रौप्र ३८-३९ : २; हिश्रौ २१, ३, १२;
 जैश्रौ ३ : १६^३; ७ : २; ३; द्राश्रौ १, ३, ३;
 लाश्रौ १, ३, १; हिगु १, १७, ३४;
 वैष ४, १, १०; ११; -कः वैताश्रौ १, ३; २२, १; ३६,
 २१; ४३, ३; कौस् ९, ११; ४६, १६; ६८, ३७;
 अप २३, १०, ४; ४४, ४, ८; शंघ ३७७ : ७;
 ३७८; वैष ४, १, १०; अत्र ६, ३५;
 ११७; -कत्य जैश्रौ २२ : ७;
 जैश्रौका २१; -काः अप १, ६, ९;
 अत्र १०, ६; -कात् अप ४४, ४, १५^३; -कान् अप ५०, १, ५;
 -केन अप २९, २, २.
 कौशिकी- ङी अप १, ३, १९;
 -क्याम् विघ ८५, ३१^३.
 कौशिकिन्- पा ४, ३, १०३.
 कौशिको(क-उ)क-क्तानाम् अप २३, ९, ४.
 कुशिक-न्व आपश्रौ २४, ९, १३;

वौश्रौप्र ३८-३९ : २; हिश्रौ २१, ३, १२;
 वैष ४, १, १०; ११.
 कुशीरक^३- (> कौशीरकेय^३- पा.) पाग ४, २, ८०.
 कुशीलव^३- नः वाघ ३, ३.
 कौशीलव- > ष्व-गन्वा (न्व-अ)जन-
 नानि गोरु ३, १, १७.
 कुशीलव-ता- ता विघ ३७, ३२.
 कुशल^३- लानाम् अप ६४, ४, १०.
 कुशोरिका^३- (> कौशोरिकेय- पा.) पाग ४, १, १२३.
 कुश्मल- पाटना ४, १९५.
 कुश्रि^३- पाठमो २, १, २२८^३; -श्रिः-
 लुत्र २, १७.
 कौश्रि- अयः वौश्रौप्र ४३ : ३.
 ✓कुप्^३ पाघा. कया. पर. निष्कपे.
 कुपिवा पा १, २, ७.
 कोष- पाग २, ४, ३१^३.
 कुपप- पाठमो २, २, २१०.
 कुपाकु- पाठमो २, १, ४१.
 कुपीतक^३- पाठमो २, २, ४१; पा; पाग २, ४, ६९.
 १कौपीतक- कः वौश्रौ २, ३ : ५; आगु ३, ४, ४; कौगु २, ५, ३.
 कौपितकायन- पा २, ४, ६९.
 कौपीतकि- कये कौगु २, ५, ६; -किः शाश्रौ ४, १५, ७; ७, २१, ६; ९, २०, ३३;
 वाद्युश्रौ ३, ३९ : २; कौगु २, ५, ६; ३, ७, ८; ५, ४, १०;
 शांगु ४, ५, ६; आमिगु ३, ६, ४ : १८; वौपि १, १३ : १७, हिपि १० : १४;
 वृदे ५, ४४;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) =नगरी-विशेष- । c) =ऋषि-विशेष-, वृष-विशेष- (या २, २५) । वैष १ द्र. । d) बहु. < कौशिक- । e) विप. (ज्येष्ठ-नक्षत्र-) । f) =नदी-विशेष- । g) अर्थः व्यु. च ? । h) =देश-विशेष- ? । i) =गायक- । व्यु. ? < कु- + शील- + ✓ वा इति अभा. । j) कुसूल- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । k) < ✓कुश । l) या ५, २६; ६, २२ पा ३, १, ९०; ७, २, ४६ परानुष्टः द्र. । m) तु- पागम. । कौश- इति भाण्डा. प्रन्तु ।

-किम् शांत् ४, १०, ३; ६, १, १;
अप ४३, ४, २९; -कौन् निस्
६, १२ : १३; -केः शांथौ ११,
११, ३; ६.
रकौपीतक^३- -कम् शांथौ ४,
२, १३; ११, १४, २०.
कौपीतकिन्- -किनः आपथौ
१०, १, १०; माथौ १०, १, ७;
आण्ट १, २३, ५; आमिण्ट ३, ६,
४ : १९; वौपि १, १३ : १७.
कौपीतकेय- पा ४, १, १२४; -याः
वौथौप्र ४१ : ८.
कुपुम- (> √कुपुम्य पा.) पाग ३,
१, २७.
कुपुम्म^३- -म्मम् अप्रा ३, ४, ११.
कुपुम्म-क^३- -कः^३ आण्ट ३, ५, ७;
कौण्ट ३, ७, १०; शांत् ४, ५, ८.
!कुण्टचित्^३- (> कौण्टचित्क- पा.)
पाग ४, ४, १०२.
!कुण्टविद्- (> कौण्टवित्क-) कुण्ट-
चित्- टि. द्र.
१कुण्ट- ३कु- द्र.
२कुण्ट^३- पाठ २, २; -०ण्ट अत्र ५,
४१; -ण्टः अप्रा ३, ४, ११; -ण्टम्
कौस् ३५, २५; अप ३५, २, ३; ९;
अत्र ५, ४; -ण्टेन अप १८, ३, १.
कुण्ट-मांसी- -सी अप ३५, १, १४.
कुण्ट-लि(ङ्ग)>ङ्गा- -ङ्गाभिः कौस्
२८, १३.
!कुण्टविद्- (> कौण्टवित्क- पा.)
कुण्ट-चित्- टि. द्र.
कुण्टिन्- -ण्टी आमिण्ट ३, १०, १ :
५; वौपि ३, ५, २^३; शंभ ३७५;

३७७ : १; विध ४५, २; हिघ
२, ५, ४९.
कुण्टि-पैतिक-ब्राह्मण- -णानाम्
विध ९, २७.
कुण्ट्य(ण्टि-अ)समर्थ-लोहकार-
-राणाम् विध ९, २५.
कुण्टि-व्यङ्ग- -ङ्गे अप ९, ४, ५.
३कुण्ट^३-> कु (ण्ट-क>)ण्टिका- -काः
अप्रा ३, ४, ११; -काम् आपथौ
१९, ९, ५; हिथौ २३, १, ४७.
कुण्टिका-शफ- -फाः आपथौ १९, ९,
४; हिथौ २३, १, ४६^१; -फान्
आपथौ १९, ९, ७; हिथौ २३,
१, ४७; -फाम्याम् आपथौ
१९, ९, ५; हिथौ २३, १, ४७.
४कु(ण्ट>)ण्टा^३- -ण्ट्या^३ आपथौ
१०, २५, ६; वैथौ १२, १८ : ८;
हिथौ ७, २, ६२; -ण्टाः माथौ
२, २, ३, २९; -ण्टासु माथौ १,
२, ३, ७; २, २, ३, ३.
कु-ण्टल- किम्- द्र.
!कुण्टीन् आमिण्ट ३, ११, १ : ९.
कुण्टमन्- पाठना ४, १५९.
कुण्टमल- पाठना ४, १९४.
√कुस् पाधा. दिवा. पर. संस्लेपणे.
कुसप- कुणप- टि. द्र.
!कुसय-सर्पिस्^३- -र्पिपा आपथौ
१७, ११, ३; वैथौ १९, ६ :
३५.
कुसित^३- पाठ ४, १०६.
कुसिताथौ- पा ४, १, ३७.
कौसित^३- -तम् माण्ट १, ६, २;
-तान् माण्ट १, ६, ४.

कुसिद्^३-> कुसिदाथौ- पा ४, १,
३७.
कुसिन्ध^३- -न्धम् अप्रा ३, ४, ११.
कुसिन्ध-भग-सुगाल-सुराध्वज-
-जान् वौध १, १०, १८.
!कुसी अप ४८, २७१.
कुसीद^३- पाठ ४, १०६; -दम्
आपथौ १३, २४, १५१^१; वौथौ
४, ११ : ८^१; माथौ २, ५, ५,
१८^१; वैथौ १६, २८ : ५^१;
हिथौ ९, ६, २५^१; गोण्ट ४, ४,
२५^१; वाध २, १९; वौध १,
५, ७७; गौध १०, ६; १२, ३३;
-देन वौथौ १७, २८ : १६.
कुसीद-जीवन- -नम् विध ४०, १.
कुसीद-वृदि- -दिः गौध १२,
२६.
कुसीदिक- पा ४, ४, ३१.
कुसीदिन्- -दिनः आथौ १०, ७,
७; शांथौ १६, २, २०; यादि,
२६; -दी ऋत्र २, ८, ८१^३;
वृदे ३, ५८^३; शुत्र ३, २०७^३;
सात्र १, १३९^३; यादि, ३२.
कुसुण्ड- पाठना ४, ११४.
कुसुम- पाठमो २, २, २३९.
कुसुम^३- पाठ ४, १०६; पाग २, ४,
३१; ५, २, ३६; -मानि अप
३५, २, १; ६७, ४, २; -मे याशि
२, ७५.
!कुसुम-सर्पिस्^३- -र्पिः वाथौ ३, ४,
२, ४.
कुसुमा(म-आ)शिन्^३- -शिनः वैध
१, ८, १.

a) प्रोक्तार्थे अण्प्र. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १, १०९६ h द्र. । d) अर्थः व्युच ? ।
e) तु. पाठा. । !कुण्टविद्- इति पाठि. । !कुण्टविद्- इति भारडा. । f) वैप १, ११३१ t द्र. । g) ंथीः इति
पाठः ? यनि. शोधः । h) वैप १, ११३१ y द्र. । i) कश^३ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथौ.) । j) वैप २,
११३१ r द्र. । k) पामे. वैप १, ११३१ s द्र. । l) पामे. वैप १, ११३२ j द्र. । m) = ऋपि-विशेष- ।
n) = पुष्य- । व्यु. ? । o) अर्थः ? । मलो. कज. ? । p) = वानप्रस्थ- विशेष- । उस. उप. <√अश्र (भोजने) ।

कुसुमित- पा ५, २, ३६.
 कुसुमो(म-उ)ऋव- -वः अप ६४,
 ८, ३.
 कुसुम्भ^a- पाउ ४, १०६; पाग ४, १,
 ४१^b.
 कुसुम्भी- पा ४, १, ४१.
 कुसुम्भ-कुङ्कुम- मानाम् शंघ
 १८२.
 कुसुम्भा(म्भ-अ)तली-नारिकेल-
 वृक्ष- -क्षानाम् वैश्रौ ११, ११ :
 ११.
 कुसुरुविन्द^c- -न्दः निस् ९, ४ : १;
 भाशि ६८.
 कौसुरुविन्द^d- -न्दः काश्रौ २३, ५,
 २२; २४, ३, १; हिश्रौ १७, ८,
 ३५; निस् १०, २ : १; -न्दे
 निस् १०, १२ : १०; -न्देन
 आपश्रौ २२, २२, ११; २४, ६;
 हिश्रौ १७, ८, १६.
 ? कौसुरुविन्द-द्वितीय^e- -यम्
 काश्रौ २४, ४, ४८.
 कौसुरुविन्द-वत् आपश्रौ २२,
 २३, २.
 कुसुरुविन्दु^f- -न्दुः शुअ १, ५३१;
 नाथ २, ११८७; -न्दुम् आश्रौ
 १०, ३, २३.
 कुसुरुविन्दु-त्रिरात्र^g- -त्रः शांश्रौ
 १६, २२, १४.
 कुसूल^h- पाउभो २, ३, ११२; पाग
 ५, ४, १३८; -लाः अप्रा ३, ४,
 ११ⁱ.
 कुसूल-धान्य- -न्यः वैध ३, १,
 १२.

कुसूल-पाद- पा ५, ४, १३८.
 कुसूल-विल- पा ६, २, १०२.
 कुस्तुम्बुरु- ऋत ४, ६, ५; -रुणि
 पा ६, १, १४३.
 कु-स्त्री- किम्- द्र.
 ✓कुस्म् पाधा. चुरा. आत्म. कुत्सित-
 समयने.
 कु-स्वप्न- किम्- द्र.
 ✓कुह^j पाधा. चुरा. आत्म. विस्मापने.
 कुहक^k- पाउ २, ३७; -कः वाघ
 ६, ४०.
 कुहक-शठ-नास्तिक-वाल-वाद-
 -देसु आपघ १, २०, ५, हिध १,
 ६, १९.
 कुह किम्- द्र.
 कुहर- पाउभो २, ३, ३९.
 कुहुड- पाउभो २, २, ११९.
 कुह^l- पाउभो २, १, १२५; -हूः आश्रौ
 १, १०, ८१; ६, १४, १५; शांश्रौ
 ९, २८, ३१; वौश्रौ २४, २० : ११;
 १२; हिश्रौ २१, २, ६७१; काण्ड
 ४४ : १३; वैग १, १६ : ५१; कौस्
 १, ३०; अप ४८, १३९१; वृदे
 १, १२८; २, ७७; ८, १२५; निघ
 ५, ५१; या ११, ३११; ३२६;
 अप्रा ३, ४, ११; -हूम् आपश्रौ
 १, १०, ६-८; शांश्रौ ९, २८, ३१;
 आपश्रौ ३, ९, ४; वौश्रौ २४, २९ :
 १४; भाश्रौ ३, ७, १६; ८, २१;
 ४, १९, ४; माश्रौ १, ३, ५, ४;
 वैश्रौ ७, ९ : ३; हिश्रौ २, ५, ९;
 ६, ४, १; २१, २, ६७१; वंताश्रौ १,
 १६; आमिष्ट २, १, ५ : २११; वैग

१, १६ : ५१; अप ३२, १, १९१;
 वृदे ४, ८७; अथ ७, ४७१; अप
 २ : ६८१; या ११, ३३१; -ह्लाः
 आपश्रौ ४, १३, २; ३; भाश्रौ
 ४, १९, ४१; माश्रौ १, ४, ३, ११;
 वाश्रौ १, १, ४, ९१; हिश्रौ ६, ४,
 ११; वृदे ४, ८७; -ह्लाम् आश्रौ
 ४, १, १५; -ह्लै शांश्रौ ९, २८, २;
 वौश्रौ ८, २२ : १११; १२, ४ :
 २२; भाश्रौ ३, ८, ११; माश्रौ २,
 ५, ५, ११; वैश्रौ १६, २७ : १६१;
 आमिष्ट २, १, ५ : २३१; वाग
 १३, १; वैग ३, ७ : ४; -ह्लोः
 हिश्रौ २१, २, ६७.
 कूच- पाउभो २, २, ७१.
 १कूचवार¹- > २कूचवार्य- पा ४,
 ३, ९४.
 २कूचवार- (> कौचवार-) कुचवार-
 टि. द्र.
 ✓कूज^m पाधा. भ्वा. पर. अय्यक्ते शब्दे.
 कृजित- > प्त-सन्निभ- -भेन
 माशि ४, ५.
 ✓कूटⁿ पाधा. चुरा. आत्म. आप्रदाने;
 उभ. परितापे.
 कूट, टा^o- पाग २, ४, ३१^b; ४, २,
 ८०^{3p}; ६, २, ८५^q; -टः आपश्रौ
 २२, २१, ५; हिश्रौ १७, ७, २९;
 -टम् आपश्रौ ९, १४, १४१;
 भाश्रौ ९, १६, १७; हिश्रौ १५,
 ४, २१; -टाः आपश्रौ २२, ४,
 २४; हिश्रौ १७, २, २८; -टानि
 कौस् १६, १६; -टाम् वौश्रौ १२,
 ५ : २३; आमिष्ट ३, ५, ३ : १;

a) = महारजन-। व्यु. ? < ✓कुस् इति अभा. । b) तु. पागम. । c) वैप १ द्र. । d) = क्तु-विशेष-।
 तेनदृष्टीयः अण् प्र. । e) ण्वि इति पाठः ? यनि. शोधः । f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । g) = क्तु-विशेष-।
 h) = अ्यु. । नाप. । व्यु. ? । i) वैप १, ११३२ m द्र. । j) विस्मायने, विस्मारणे इत्यपीति BPG. । k) = वधक-।
 l) = नगर-विशेष-। व्यु. ? । m) ✓कूज् इति BPG. । n) अवसादने इत्येके । परिदाहे इत्यन्ये । o) चप्रा. ।
 वैप १ निर्दिष्टयोरे संनिवेशः द्र. । p) अर्थः ? । q) वृट्- इति [पक्षे] आण्डा. ।

वैपि १,३: १; -टे सु १३, १;
 -टेन हिय १, १५, ६१.
 कौटिक-, टीय-, टय- पा ४,
 २, ८०.
 कूट-कर्ण-काण-खण्ड-खञ्ज-घृष्ट-वण्ड-
 श्लोण-ससशफ-वर्जम् वैश्रौ १०,
 ९: १३.
 कूट-कर्ण-काण-खण्ड-वण्ड-श्लोण-
 ससशफ-वर्जम् आपश्रौ ७,
 १२, १.
 कूट-कारक- -कः शंघ २०१.
 कूट-तक्ष- -तत् पावा ६, १, ६७.
 कूट-तुलामान-प्रतिमान-व्यव-
 हार- -रे शंघ ३१६.
 कूट-दन्त^b- -न्तान् आपमं २, १३,
 १२; आमिगृ २, १, ३: २१;
 भागृ १, २३: १३; हियृ २, ३, ७.
 कूट-लेख्य-कार- -रान् विध ५, १०.
 कूट-वादिन्- -दिनः विध ५, १२३.
 कूट-व्यवहारिन्- -री शंघ ४०३;
 ४०४; ४१४; विध ५४, १५.
 कूट-शासन-कर्तृ- -वृन् विध ५, ९.
 कूट-शासन-प्रयोग- -ने शंघ ३१६;
 कूट-साक्षिन्^c- -क्षिणम् विध ८,
 १८; -क्षिणाम् विध ५, १०९;
 ८, २५; ३७; १०, ९; -क्षी शंघ
 ३७७; ९; विध ८, ४०; ५४, ९.
 कौटसाक्ष्य- -क्ष्यम् विध ३६,
 ३; गौध २१, १०.
 कूट-स्थ- -स्थेषु अप ५२, ११, ४.
 कूट-स्थान^c- -नानि अप ५२, ११, १.
 कूटा (?ट^d)-कर्ण-काण-खण्ड-वण्डा-
 (एड-अ)पन्नदत्- -न्तः वाश्रौ १,
 ६, ३, २६.
 कूटा(ट-अ)क्ष-देविन्- -विनाम् विध

५, १३४.
 कूटा(ट-अ)गार-प्रमाण- -णैः विध
 ४३, ४४.
 ✓कूट् तुदा. पर. घसने^e.
 ✓कूण् पाधा. तुरा. उम. संकोचने.
 कूती^f- > कूती-पलाश-मा (त्रा >)
 त्र- -त्रम् माश्रौ १, ६, ४, १४.
 कूदी^g- -दीम् कौस् ७१, २१; ८०,
 ३३; ८६, २४; -द्या कौस् ८६,
 २२; -द्याः कौस् ७१, १९१.
 कूदी-प्रान्त- -न्तानि कौस् २१, २;
 ३५, २४.
 कूदी-म(य>)थी- -थी कौस् २१,
 १३.
 कूद्यु (दी-उ) पस्ती (र्ण>) णि-
 -र्णायाम् कौस् ४७, ३०.
 ✓कूप् ✓कृप् द.
 कूप^h- पाठ ३, २७; पाग ४, २, ८०^h;
 ५, १, २; -पः अप ७१, १४, ३;
 निघ ३, २३१; या ३, १९६;
 -पम् वौश्रौ ९, १९: ४१; आगृ;
 या ४, १८; -पिपस्य अप ४८, ७७;
 निघ ३, २३; -पात् वौध २, ३,
 ७; विध २३, ४४; ५४, २;
 -पान् वौध २, ३, ६; -पानाम्
 अप ७०^h, २, २; -पे विध २३,
 ४५; वैध २, १४, २; वृदे ३,
 १३२; या ४, ६; अप्रा ३, ४, ११;
 -पेभ्यः हिपि १८: १७^h, १८;
 -पेषु पा ४, २, ७३.
 कूप-कच्छप- पाग २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 कूप-कर्तृ- -र्तुः विध ९१, १.
 कूप-कर्मन्- -र्मणा या ५, २६.
 कूपका- (> कूपकि-) कूप-

टि. द्र.
 कूप-चूर्णक- पाग २, १, ४८; ६, २,
 ८१.
 कूप-नामन्- -मानि निघ ३, २३;
 या ३, १९.
 कूप-पतन- -ने काध २७६: १.
 कूप-पर्वत- -ताः अप ७१, ४, ४.
 कूप-पशुⁱ- -शैवः या ४, ६.
 कूप-प्रसवण- -णेषु अप ६८, १,
 १७.
 कूप-विल- पा ६, २, १०२.
 कूप-मण्डक- पाग २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 कूप-यज्ञ- -ज्ञस्य कागृ ७१, १३.
 कूप-वत् विध २३, ४६.
 कूप-वापी- -पीषु वौध १, ५, ५५.
 कूप-वापी-तडाग- -गानाम् अप ३९,
 १, ८; -गेषु अप ३९, १, २.
 कूप-सेतु-तडाग-विप्र-देवतायतन-
 भेदन- -ने काध २७०: ८.
 कूप-स्थ- -स्थानि कप्र १, १०, १४.
 कूपा(प-आ)दि- -दीनाम् अप ३९,
 १, ५; -देः अप ३९, १, १२.
 कूपा(प-आ)राम-तडाग- -गेषु विध
 ९१, १९.
 कूपिक^j- पा ४, २, ८०.
 कूपे (प-इ)ष्ट(क>)का- -काभिः
 वृदे ३, १३५.
 कूप्य- पा ५, १, २.
 रकूप्य, प्या- -प्याः काश्रौ १५,
 ४, ३५; वौश्रौ १२, ८: ११;
 माश्रौ ६, १, ५, २२; कौष् ५, ५,
 ६१; वागृ ४, ३१; -प्यान् वैध २,
 १३, ५; -प्यानाम् आपश्रौ १८,
 १३, ६; वाश्रौ ३, ३, २, १६-

a) = देश-विशेष- ? । b) विप. । वस. पूष. = उन्नत- । c) विप. । वस. । d) पाठः ? यनि.
 शोषः । e) तु. BPG. । f) अर्थः व्यु. च ? । g) वैप १ द्र. । h) अर्थः ? । सक्तं कूपका- इति पाका. ।
 i) पस. उप. = इष्टका- ।

हिथ्रौ १३, ५, १४; -ऽप्याभ्यः
 आप्रौ २०, ११, १७; आमिगृ
 २, ४, ३ : १३; वैगृ १, ४ : २.
कूपत्- पाग १, ४, ५७.
कूवर^a- पाडभो २, ३, ७४; -रम् वौथ्रौ
 १२, १२ : ९; १३ : २४; १८,
 २४ : १४.
 कूवरी- रीम् पागृ ३, १४, ५.
 कूवर-बाहु^b- हू गोयृ ३, ४, ३०.
कूकु^c- रः पागृ १, १६, २४.
कूर्च^d- पाडभो २, २, ७३; पाग २, ४,
 ३१; -चं: शांथ्रौ ४, २१, २५;
 वैताथ्रौ ३६, २३; आमिगृ १, ५,
 १ : ३; २, ६, ६ : ७; वौगृ १, २,
 १५; हिगृ १, १२, १६; -चंम्
 शांथ्रौ ४, २१, २; १७, ४, ५;
 काथ्रौ ४, १३, १४; वौथ्रौ;
 -चंयो: काथ्रौ २०, २, १९; वौथ्रौ
 १६, २१ : ८; हिथ्रौ १६, ६, ४५;
 -चंस्य कागृ ६, ३; -चान् द्राथ्रौ
 १०, ४, ७; १४; लाथ्रौ ३, १२,
 १४; वैताथ्रौ ३४, ७, ८; वौगृ १,
 २, ५; -चमिग्याम् आपगृ १३, ७;
 १०; आमिगृ २, ६, ६ : ९; वौगृ
 १, २, १९; २६; ३०; ३३; ४०;
 -चं आप्रौ १०, ६, ११; काथ्रौ
 ४, १४, १६; २०; आपथ्रौ;
 -चंन भागृ २, २३ : ३; वैगृ १,
 ९; १६x४; -चंपु आपथ्रौ २१,
 १७, १५; हिथ्रौ १६, ६, १३; पागृ
 ३, ८, ११; -चं: वैथ्रौ १२, ७ :
 १२; आमिगृ २, ४, ६ : ६; -चौं
 आपथ्रौ २१, १७, १४; २१, ७;
 वौथ्रौ १६, २० : ४; २१ : ३;

लाथ्रौ ३, १२, ६; वौगृ १, २, ६.
 कूर्च-त्रय- -यम् आमिगृ २, ६, ६ : २.
 कूर्च-फलक- -के हिथ्रौ १६, ६, १२.
 कूर्च-स्यान- -ने काथ्रौ ४, १४, २८.
 कूर्चा(र्व-अ)क्षत-सुवर्ण-रत्न- -ज्ञानि
 वैगृ ४, ११ : २.
 कूर्चा(र्व-अ)दि- -दीनि गौघ १०,
 ५८.
कूर्प^e- पाडभो २, २, २०८; पाग ५,
 १, २०.
कूर्पर^f- पाडभो २, ३, ३९; -रम् याशि
 १, २०.
कूर्पास- पाडभो २, ३, १७८.
कूर्म^g- पाडभो २, २, २४७; -मं:
 आपथ्रौ १६, १३, १०; वैथ्रौ;
 -मंम् काथ्रौ १७, ४, २७;
 आपथ्रौ १६, २५, १; वौथ्रौ;
 -मंस्य आपथ्रौ १, २५, ४; माथ्रौ
 १, २६, २; वाथ्रौ; -मां: अप
 ६२, ३, २; वृदे ७, ७९; वौगृ
 २० : २; -मं वौथ्रौ २, ५ : ३.
कूर्मी^h- मीं टानिस् ४ : ३५.
कौर्म्यⁱ- म्यंन् शुअ २, १६३.
कूर्म-चित्^j- -चित् वौथ्रौ १७, ३० :
 ६; ९; -चितम् वौथ्रौ २० : १.
कूर्म-पित्त^k- -त्तम् पागृ १, १४, ५.
कूर्म-वृषत्^l- -वन्तम् आपथ्रौ १७,
 १३, ६; वौथ्रौ १०, ५० : २३; १;
 २४; वैथ्रौ १९, ६ : ७२; हिथ्रौ
 १२, ४, ९.
कूर्म-प्रकार^m- -रम् वौथ्रौ १, ९ : १४.
कूर्म-प्रवेदा- -शो काव २७६ : ७.
कूर्म-मकर- -रौ थग ३९, १, १०.
कूर्म-लक्षणⁿ- -णम् चव्यू २ : ३२.

कूर्म-वत् काथ्रौ १७, ९, ६.
कूर्मा(र्म-अ)कृति^o- -तिम् नाथ्रौ
 १, २, ३, २२; ३, ६, १६.
कूर्मा(र्म-अ)ज्ञ- -ज्ञानि नाथि १, ६,
 १२.
२कूर्म^p- -मं: अथ्र २, २, २७; शुअ ३,
 २११; ४, ३६.
√कूल् पावा. भ्वा. पर. आवरणे,
 कूलयेत् आपथ्रौ ६, ६, १.
१कूल^q- पाग ५, २, १३६; -लम् वौगृ
 ४, ३, ७; विघ ६३, ४८; या ६,
 १४; -लस्य आपथ्रौ ११, २०,
 ८; हिथ्रौ ७, ८, ५१; -लव वैथ्रौ
 १२, १४ : १३; वाघ ६, १६;
 -लानि या ६, ४; -लेन आपथ्रौ
 २३, १२, २३; १३, १३.
कूलं-कष- पा ३, २, ४२.
कूल-तीर-तूल-मूल-शाला(ला-अ)क्ष-
 सम- -यम् पा ६, २, १२१.
कूलम्-उद्धृज- -उद्धृज-पा ३, २,
 ३१; पावा १, ३, १०.
कूल-मृत्तिका- -का: अप १, ४३,
 ७.
कूल-वत्- पा ५, २, १३६.
कूल-शातन- -न: या ६, १७.
कूल-सुद-स्थल-कर्म- -र्मां: पा ६,
 २, १२९.
कूला(ल-अ)दि- -दीनाम् पावा ६,
 २, १२१.
कूलिन्- पा ५, २, १३६.
कू(त्य>)ल्या^r- -ल्या: आमिगृ २,
 ६, ४ : १०; ११^३; १२; १३; ३, १,
 २ : ६; २, ५, १२; ७ : ५; हिगृ
 २, ११, १; १५, ७.

a) वैप १ द्र. । b) = रथेपा- । c) = बालप्रद-विशेष- । व्यु. ? । d) अर्थः व्यु. च ? । e) तु. पागम. । = देहा- । f) = शरीराङ्ग- [कनोपि-] । व्यु. ? । g) = छन्दो-विशेष- । h) विप. । साऽस्यदेवतायः अग्न प्र. उसं. (पा ४, २, ३०) । i) = तयगिडल-विशेष- । j) = उदकयुक्त-शरावं- । व्यु. ? । k) विप. । वस. । l) = परिशिष्टाऽन्यतम- । समासः ? । m) व्यप. । व्यु. ? । n) कूपम् इति जीसं. । o) = अत्या-कृदिना-स्रित- ।

२कूल- (>कौलक^३- पा.) पाग ४, २, १२७.

कूलास^b- (>कौलास- पा.) पाग ४, २, ७५.

†कूल्वजम्^० अप्रा ३, ४, १; दंवि २, ५.

कूवाचर- (>कौ^०) कुचवार-टि. द्र.

कूश्माण्ड^०- पाउभो २, २, १७७;

-ण्डम् शंघ ११६:२८; -ण्डानि वौश्रौ २, ११ : २३; वौगृ २, ९, ५; भागृ ३, १५:३; वाध २८, ९; ११; गौघ १९, १३; -ण्डैः वौघ २, १, ५८; ३, ७, १; गौघ २०, १२; २२, ३८; २४, ११.

कूश्माण्डी- -ण्ड्यः आमिगृ २, ६, ५ : ९; वौगृ २, ९, ५; ११; भागृ ३, १५ : ६; १८†; वौघ ३, १०, ११; ७, ५.

कूश्माण्ड-होम- -मम् वैगृ ३, २१ : २; -मान् वैश्रौ १, ४ : ५.

कूष्माण्ड^०- -ण्डैः वाश्रौ १, ४, १, ६; आमिगृ २, ४, ४ : १; वाध २३, २१; शंघ ४४३; सुधप ८६ : ६.

कूष्माण्डी- -ण्डीः विध ८६, १२; शुअ २, ४१४; -ण्डीभिः शंघ ३७९; विध ८, १६; -ण्ड्यः आमिगृ २, ४, ५ : ८†; अप ४६, ७, ४; शंघ १०५; वौघ ४, ३, ७;

विध ५६, ७. कौष्माण्डिक^३- -कम् अप ४२, २, १०.

कूष्माण्ड-राजपुत्र- -त्रः वैगृ ६७:६; भागृ २, १४, २; २९; -†त्राय भागृ २, १४, २७.

कूष्माण्ड-वत् अप ५२, १२, ४.

!कूष्ट^१ ऋअ २, ५, ७४†.

✓कृ^० पाधा. स्वा. तना. उभ. करणे, करते ऋप्रा ७, २२†; करति आश्रौ ५, २०, ६; आपश्रौ १६, ७, ४†; हिश्रौ ११, २, २†; अथ १९, १६; ऋप्रा ४, ४५†; पा ८, ३, ५०; †करतः आपश्रौ १४, २९, १; या ३, १५; करन्ति या ३, १०†; †करसि वैश्रौ १८, ५ : १†; आमिगृ ३, ६, १ : ४; वौपि १, ८ : ४; करथः ऋप्रा ४, ६०†; करामहे वौश्रौ ११, ६ : १८†; †करत् आश्रौ ३, ४, १५; आपश्रौ ४, २, १†; वौश्रौ; भाश्रौ ४, २, ३†; हिश्रौ १, २, ५†; आपमं १, ४, ५; ५, ७; वौगृ १, ४, १८†; पा ८, ३, ५०; करन् माश्रौ ५, २, ९, ६; ऋप्रा ९, ४९†; करः ऋप्रा ४, ६३†; करथः कौसू ९६, ३†; करथ कौसू २, ३६†; करवे काश्रौ २५, ११, २१†; †करत् आमिगृ ३,

७, १ : ९; वौपि १, १७ : ९; करताम् माश्रौ ५, २, ९, ६; कर >रा^० ऋप्रा ४, ६२†.

कृपे या ५, २५†; कृथः ऋप्रा ८, ८†; कृष्व>ष्वा ऋप्रा ७, ३३†; †कृधि आश्रौ ३, ८, १; ११, ११; शाश्रौ ३, २०, २१; ८, ४, ३; काश्रौ २५, ११, २१†; आपश्रौ ३, १२, ११; ४, १५, १; १९, २४, ८†; २२, २६, ७†; वौश्रौ; माश्रौ ३, ११, ११; माश्रौ ३, २, ११; वाश्रौ १, ३, ७, १२†; हिश्रौ २, ६, १२†; आपमं १, ४, ६†; १५, २†; २, ४, २†; कौगृ १, १९, १०†; शांगृ १, २७, ७†; आमिगृ १, १, २-५३†; हिगृ १, ४, ११†; अप्राय २, ४†; पा ८, ३, ५०; कर्त्त (न>)ना ऋप्रा ८, ३३†.

†कृणुते^१ पागृ ३, २, २†; भागृ; जैगृ २, ३ : ५; या ३, १५; ५, १९; †कृणोति^१ भागृ २, १७, १; अप्राय; या ९, १४; १७†; कृणुतः आपमं १, ११, ११†; †कृण्वतः हिश्रौ ११, ३, २४†; कृण्वते आपश्रौ १६, १८, ७†; वैश्रौ; †कृण्वन्ति आपश्रौ १९, २६, १७; वौश्रौ; कृणोषि

a) =देश-विशेष-। व्यु. ?। b) अर्थः व्यु. च ?। c) वैप २, ११३३ S द्र.। d) = विनायक-विशेष-। व्यु. ?। e) = मन्त्र-विशेष-। व्यु. ?। f) = सूक्त-विशेष-। g) मलो. कस.। h) वैप १ द्र.। i) ऋत ४, १, १; ५, ५ शौच ४, ५८ या २, ८ पा १, ३, ३२; ६३; ७१; ७९; ४, ५३; ७२; ९८; २, ३, ५३; ४, ८०; ३, १, ५९; ७९; ४, १४३; ५, ४, ५०; ६, ४, १०२; ७, २, १३; ८, ३, ४६ पावा १, ३, ६२; ७९; ४, ५३; ३, १, २५; ६, १, १२; ४, ११०; ७, २, १०; १३; ४, १० पराश्रुष्टः द्र.। j) पामे. वैप १, ११३४ h द्र.। k) पामे. वैप १, ११३६ f द्र.। l) पामे. वैप १, ११३५ a द्र.। m) पामे. वैप १, ११३८ j द्र. (तु. टि. ?ल्यवे)। n) पामे. वैप १, ११३४ i द्र.। o) वैप १, ११३५ f द्र.। p) वैप १, ११३५ g द्र.। q) पामे. वैप १, ११३५ j द्र.। r) पामे. वैप १, पुरा (कृष्वे) शौ ७, १०५, १ टि. द्र.। s) पामे. वैप १, ११३६ d द्र.। t) पामे. वैप १, ११३५ k द्र.। u) पामे. वैप १, ११३६ h द्र.। v) पाठः ? णुत्त [मपु३] इति शोधः (तु. जैगृ २, ३ : ५ प्रम्.)। w) पाप्र. (३, १, ८०) <✓कृष्व इत्यपि। x) पामे. वैप १, ११३७ p द्र.। y) सपा. मे २, ७, ७; ३, १, ९ कृणुतः इति पामे.।

आपमं १, ५, १२[†]; वाच; ऋणुय,
 >घा अत्र ६, २२; ऋप्रा ७, १०;
 ८, ३०; ऋणोमि आश्रौ ३, १३,
 १४; आपश्रौ ७, १७, ७^६; वौश्रौ
 ४, ६: ४०^६; ११, ४: २४^६; १५,
 २९: २०^६; माश्रौ ७, १३, ८^६;
 नाश्रौ; वैश्रौ १०, १४: ३^६; हिश्रौ
 ४, ४, ४^६; आपमं १, ५, १७[†];
 कृण्मसि कौच २२, ३१[†]; ऋणव
 काश्रौ १०, ९, ८; वौश्रौ ८, १८:
 २; नाश्रौ २, ५, ४, ४०; आपमं
 २, ११, २८; कृणवाच शाश्रौ १२,
 १८, १[†]; ऋणवन् आपश्रौ
 १६, १२, १; या ४, २०; २५;
 कृणवय आश्रौ ३, ४[†]; ऋणोतु
 आश्रौ १, ६, ५^६, २, ११, १२^६;
 शाश्रौ १, ९, २; ३, ६, २^६; २, २८,
 ३^६; आपश्रौ ६, २०, १०^६; वौश्रौ
 ३, १२: १०^६; भाश्रौ ६, १७,
 १७^६; माश्रौ १, २, ४, ४^६; ६, ४,
 २६^६; वाश्रौ १, १, २, १९; हिश्रौ
 ६, ८, १^६; वैताश्रौ १७, ७;
 आपमं १, ८, १०^६; २, ४, ४^६;
 कौच ५, ८, ५; पाच ३, १, ४^६;
 ३, ६^६; आपच ११, ६^६; माच २,
 ८, ६^६; हिच १, ७, ११^६; कौच
 ४२, १७^६; ऋणुताम् आश्रौ २,

१०, १६; आपश्रौ; ऋणवन्तु
 आपश्रौ १६, ४, ५; वौश्रौ;
 ऋणुष्व आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ;
 आपमं १, ६, ४^६; माच १, १३,
 ६^६; या १२, ८^६; कृणु वौश्रौ
 १, २०: २५; जैश्रौ; ऋणुहि
 आश्रौ ४, ४, २; शाश्रौ ३, १९,
 ३^६; नाश्रौ ६, २, ३, ८^६; वैताश्रौ
 २५, १४^६; वौच २, ५, १२^६; वाच
 ५, ९^६; या ५, १५; ६, १०; ८,
 ६; ऋप्रा ८, ४२; कृणुतम् आश्रौ
 ४, १३, ५[†]; वौश्रौ; ऋणुष्वम्
 आपश्रौ १४, १७, १××; वाश्रौ;
 या ५, २६; १२, ४२; ऋणुत
 शाश्रौ २, ८, ८^६; काश्रौ ७, ४, १५^६;
 आपश्रौ २, २, ६; ६, ६, १०^६; १०,
 १२, ४^६; वौश्रौ; वौचि ३, २,
 १०^६; ऋणुताव आश्रौ ३, ३,
 १^६, शाश्रौ ५, १७, ५; नाश्रौ २,
 ५, ५, २१^६; ऋणोत वौश्रौ १७,
 ४२: १२^६; वैताश्रौ १०, १७;
 आपमं २, ९, ६^६; आमिच १, ३,
 ५: १४^६; माच २, २२: १५^६;
 ऋप्रा ५, ५९^६; ७, ४२; कृणवाच
 वा ४, १६[†]; ऋणवाम शाश्रौ
 १२, ४, १३; आपश्रौ; ऋणु
 णोत् वौश्रौ १, १५: २१; वाच

१४, १^६; या ५, ३; ६, २;
 तैत्रा ११, १७; ऋणुताम् वाच
 २, ६, १२[†]; ऋणुष्वत अच १,
 ५१, १; या २, २५; ५, २५;
 ऋणुष्वन् आपश्रौ १२, ७, १०;
 हिश्रौ ८, २, ९; कौच ५, ६; ५९,
 १९; या ७, २८; ऋप २: ७८;
 ऋप्रा २, ७२; ऋणो: शाश्रौ १२,
 १६, १[†]; ऋणुतम् वाच ३, ४,
 १७[†]; ऋणुमहि भाश्रौ १०,
 १८, १०[†].
 कुरुते शाश्रौ ७, ७, ४; काश्रौ;
 करोति आश्रौ १, ११, ४; शाश्रौ;
 वौश्रौ २७, २: २०[†]; पा
 ४, ४, ३४; पान्ना ३, १, २६;
 कुरुतः काश्रौ १५, ७, १३;
 आपश्रौ; कुर्वते आश्रौ ३, ६, २५;
 शाश्रौ; कुर्वन्ति आश्रौ ६, १०,
 १; शाश्रौ; हिश्रौ २४, ५, ५^६;
 करोपि आपश्रौ ९, १८, ९[†];
 कुरुयः या ३, १५; ऋणोमि
 आपश्रौ २, ८, ६; १०, ६^६; ७,
 १७, ६^६; वौश्रौ १, १४: ४^६××;
 भाश्रौ; नाश्रौ १, २, ६, १९^६;
 आपमं १, ५, १६^६; १३, १^६; कौच
 १, १०, २;^६ वाच १, २८, ९^६;
 आपमं २, १२, ६^६; १४^६, ५-९;

- a) पामे. वैप १, ११३८ ० द्र. । b) पामे. वैप १, ११३८ १ द्र. । c) पामे. वैप १, ११३९ १ द्र. ।
 d) पामे. वैप १, ११३९ p द्र. । e) पामे. वैप १, ११४० g द्र. । f) पामे. वैप १, ११०९ f द्र. । g) पामे.
 वैप १, ११४५ k द्र. । h) पामे. वैप १, ११४० l द्र. । i) पामे. वैप १, ११४० m द्र. । j) पामे.
 पृ ४४७ j द्र. । k) सपा. कृणोतु <> दघातु इति पामे. । l) पामे. पृ २६२ g द्र. । m) पामे. वैप १,
 ११४१ e द्र. । n) पामे. वैप १, १७१० h, परि. धेहि मै १, ४, ३ टि. द्र. । o) पामे. वैप १ पिष्टहि तै ३,
 ५, १, १ टि. द्र. । p) पामे. वैप १, ११४५ q द्र. । q) सपा. शौ २, १३, २ कृणुत इति पामे. । r) सपा.
 कृणुत <> ऋरिण्यय <> नकार्थे इति पामे. । s) पामे. वैप १, ११४२ j द्र. । t) कुरुव इति मै. ।
 u) पामे. वैप १, ११३९ n द्र. । v) पामे. वैप १, ११३५ e द्र. । w) पामे. वैप १, ११४३ g द्र. । x) वैप.
 १, २९८ ० द्र. । y) क० इति पाठः ? यनि. शोषः । z) पामे. वैप २, ३३३. क्तोमि तैत्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र. ।
 a¹) पामे. वैप १, ११३८ l द्र. । b¹) पामे. वैप १ परि. कस्तु ना ३, ६२ टि. द्र. । c¹) पामे. वैप १, ११३८ s
 द्र. । d¹) पामे. वैप १, ११४५ b द्र. ।

पाण्डु १, १६, ६^३; वाण्डु ११, ७^३; हिण्डु
 १, २५, १०^३; २, ३, १०^३; तैत्रा ८,
 ३०; कुर्महे शांश्रौ १५, २६,
 ११; कुर्मः वौश्रौ १०, ५१: १७^३;
 जैश्रौप; ऋकरवत् काश्रौ १२, २, ८;
 हिश्रौ १६, १, २९; कौस् १७, ७;
 ऋकरवः^० आमिण्डु ३, ६, १ : २;
 वौपि १, ८ : २; ऋकरोत् आश्रौ
 २, ७, ११; शांश्रौ ४, १३, १^३;
 आपश्रौ २, ११, १०^३; ६, ११, ५^३;
 १५^३, २, २; ६; ऋकुरुत् काश्रौ
 ६, ८, १; आपश्रौ; ऋकुर्वताम्
 अप १, ११, ४; ३९, ४; अशां ९,
 ४; ऋकुर्वन्तु आमिण्डु २, ५, ११:
 २४; वाण्डु; कुरुव् आपश्रौ १२,
 २६, ४^३; वौश्रौ; ऋकुरु आश्रौ
 २, १६, १९; ६, ३, २२^३; शांश्रौ;
 माश्रौ १, २, ५, १०; ६, ३, ७^३; २,
 १, ३, ४^३; आपमं १, ४, ६^३; २, ६,
 १२^३; ८, ४^३; हिण्डु १, १०, ६^३;
 २०, २^३; कुरुऽकुरु अप ३६, १,
 १४^३; ऋकुरुत् आपश्रौ ६, २१,
 ३; वाधूश्रौ ३, ५४: २; कुरुध्वम्
 वौश्रौ ७, १३ : ६×४; वैश्रौ;
 या ५, २६; १२, ४३; कुरुत् शांश्रौ
 ४, २१, २३; आपश्रौ १०, १६,
 १६^३; वौश्रौ; ऋकरोत् वौध^३ २,
 १, ३४; ४, २, ११; कुरुत्तन निघ
 ४, ११; या ४, ७; कुरुत्त हिश्रौ

१४, १, २५^३; ऋकरवै वौश्रौ
 २८, ९ : २०; आण्डु; करवाणि
 आश्रौ ६, ५, ३; वौश्रौ; विध
 ७३, १२^०; करवावहै वौश्रौ
 १८, ४४ : २०; अकुरुत् वौश्रौ
 ८, १९ : १२^३; अकरोत् वाश्रौ
 ३, ४, १, ३७^३; हिश्रौ; या ५, ३;
 ६, २; ८, १४; अकुर्वत् वौश्रौ १४,
 ८ : १^३; २; ४^३; ५; ६; आमिण्डु
 ३, २, ४ : १२; माण्डु २, ८, ४^३;
 या ५, २५; तैत्रा ५, ७^३; अकुर्वन्
 या ७, २८; ऋकुरुत्तम् शांश्रौ
 ८, ११, १३; अकुर्वम्^३ आपध
 १, १३, २०^३; हिध १, ४,
 ३३; कुर्वीत् आश्रौ ६, ९, १;
 शांश्रौ; कुर्यात् आश्रौ १, ३,
 २२; शांश्रौ; कुर्याताम् जैश्रौका
 १९१; द्राश्रौ; कुर्वीरन् शांश्रौ
 १३, २०, ४; काश्रौ; कुर्युः आश्रौ
 ६, ११, ६; शांश्रौ; कुर्याम्
 आपश्रौ १२, १५, २×४; हिश्रौ.
 चक्रे वौश्रौ १२, ९: ९^३; वाधूश्रौ;
 ऋचकार आश्रौ २, २, ३; शांश्रौ;
 ऋचक्रतुः शांश्रौ ९, ६, २१;
 आपश्रौ; चक्रिरे ऋआपश्रौ ५, ६,
 ३; १९, ३; वौश्रौ; चक्रुः सु ७,
 ४; हिपि; चक्रुषे कौस् ८२, २१^३;
 चकथे वौश्रौ १८, २६ : १६;
 सु; ऋया ३, २१; ६, ३; ऋचक्रथुः

या ६, २६; ९, ४१; ऋचक्र > ऋ
 आपश्रौ १४, १६, १; हिश्रौ;
 ऋचक्रम्, > मा आश्रौ ६, १२, ३;
 शांश्रौ; ऋकर्तास्मिः द्राश्रौ ७, ३, ६;
 लाश्रौ ३, ३, १०; करिण्यति
 शांश्रौ १, ४, ५^३; आपश्रौ; या १,
 ४^३; ५^३; करिण्यन्ते शांश्रौ ३, ८,
 २२; करिण्यन्ति या ४, २०;
 करिण्यसि सु ६, ४; १४, ५;
 करिण्यथ आश्रौ २, २, १५^३;
 करिण्ये आपश्रौ ४, १^३; भाश्रौ;
 आण्डु ४, ७, १८^०; करिण्यामि
 शांश्रौ १, ४, ५^३; काश्रौ; कौण्डु ३,
 ५, ९^०; शाण्डु २, ३, ३८^०; वौध
 २, ८, ७^०; हिध २, ५, ४६^३;
 करिण्यामहे पाण्डु ३, १०, १३;
 करिण्यामः वौश्रौ २, ४ : १७;
 २०; जैश्रौ; क्रियात् आमिण्डु ३,
 १०, ४ : ९; ऋक्रियासम् आश्रौ
 १, ११, १; शांश्रौ; ऋकुरुत् आश्रौ
 १, ९, १; शांश्रौ; या ४, १६; ऋक-
 कर्त् आपश्रौ १४, ३१, ३; हिश्रौ;
 आपमं १, १, ९^३; अकार्षीत्
 आपध १, २६, १३^३; हिध;
 ऋककः आश्रौ ३, १३, १२;
 शांश्रौ; आपश्रौ ९, ४, १^३; भाश्रौ
 ९, ४, २२^३; वैश्रौ २०, ९ : ४^३;
 हिश्रौ १५, १, ७५^३; पा ३, १,
 ४२; ऋकः आपश्रौ १२, १५,

a) पांमे. वैप १, ११४५ b द्र. । b) पांमे. पु ११२० द्र. । c) पांमे. वैप १, ११३८ l द्र. ।

d) पांमे. वैप १, ११३८ s द्र. । e) = सपा. तैत्रा ६, १, ४ । ऋ १०, १६, १ शौ १८, २, ५ तु कृण्वः इति पांमे. ।

f) पांमे. वैप १, ११४० i द्र. । g) पांमे. वैप १, ११४० l द्र. । h) पांमे. वैप १, ११३४ m द्र. ।

i) पांमे. वैप १, ११४५ q द्र. । j) सपा. कुरु <> कुरुत् इति पांमे. । k) पांमे. वैप १, ११४१ h द्र. ।

l) पांमे. वैप १, ११४१ o द्र. । m) पांमे. वैप १, ११४१ p द्र. । n) पांमे. वैप १, ११४० m द्र. ।

o) सपा. करवाणि <> करिण्ये <> करिण्यामि इति पांमे. । p) पांमे. वैप १, ११४९ f द्र. । q) = अकरवम् ।

r) अकुर्वीत् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिध १, ४, ३३) । s) पांमे. पु ८९८ r द्र. । t) सपा.

करिण्यामि <> क्रियाताम् इति पांमे. । u) पांमे. वैप १, ११४३ g द्र. । v) पांमे. वैप २, ३४. अकः तैत्रा ३,

७, ३, ६ टि. द्र. ।

६; वौश्रौ ९, ९: ११^a; हिश्रौ;
वौश्र २, १, १०^a; पा ८, ३, ५०;
अक्रताम् आश्रौ १, ९, ३; शांश्रौ;
ऋकृत्यत वौश्रौ ११, ४: २१××;
अकृत आश्रौ १, ९, ३; शांश्रौ;
आपमं २, २०, ३४^h; आम्रिष्ट
३, २, २: ४^h; भाग्य २,
१५: ६^h; हिष्ट २, १४, ४^h;
ऋया ४, ९; १२, ७; ऋकन्
काश्रौ ५, ५, १२; आपश्रौ;
ऋकृत्या: वौश्रौ २८, ६: ५^२;
वैश्रौ; कृथा: आश्रौ ५, ५, २१;
काग्य; ऋकार्या: वैश्रौ २, १०:
१६; हिश्रौ ६, ७, ८; कार्या: या
१, ५; अकर: अप १^२, १, ३^१;
अकार्य आश्रौ २, ३, ९^१;
ऋकार्य कौस् ९२, २५; २८;
ऋकर्त शांश्रौ १५, २७, १; अकर्त
शांश्रौ १५, २७, १^१; हिश्रौ; अकि
आपमं १, १६, ४^१; अकृपि वौश्रौ
२४, १२: १५; ऋकारिपम्^e
आश्रौ २, १२, ५; ६, १२, १२;
शांश्रौ; ऋकार्पम् आश्रौ ८, ३,
३२^e; आपश्रौ; ऋकरम् आश्रौ
६, ४, १०; आपश्रौ; ऋकरम् काग्य
२५, ५; ऋप्रा ४, ४३; ऋकर्म
आश्रौ ३, १०, ३१^f; काश्रौ
२५, ९, १५^f; आपश्रौ ३, १२,
१^२; ९, १८; १२^f; वौश्रौ ८,
२०: १७^f; भाश्रौ; माश्रौ ३, ५,
१४^f; हिश्रौ १५, ८, १२^f; या
१२, ४२^e; ऋकार्म द्राश्रौ
१२, ३, २; लाश्रौ ४, ११, ५;

अकरिष्यत् निस् २, ९: २८××.
क्रियते शांश्रौ १५, १३, १४;
काश्रौ; आपश्रौ ३, १२, १^h;
क्रियेते हिश्रौ ४, ४, ७१; ८, ६,
४; क्रियन्ते शांश्रौ १२, ७, ४;
आपश्रौ; ऋक्रियातै वौश्रौ १,
१२: २२; २, ७: ४; क्रियताम्
आपश्रौ १४, ३३, ८^१; हिश्रौ;
आपघ २, १७, १८^१; क्रियेत
शांश्रौ ४, ५, १३; आपश्रौ;
क्रियेरन् आश्रौ ६, ८, २; वौश्रौ;
अकारि शांश्रौ १८, १९, ९; हिश्रौ.
कारयते आपश्रौ १०, ५, ११;
भाश्रौ; कारयति आपश्रौ १०,
४, १४; वौश्रौ; कारयन्ते हिपि
११: ६; कारयन्ति शांश्रौ १७,
२, १; माग्य; कारय द्राश्रौ १३, १,
१४; लाश्रौ; कारयध्वम् अप
३१, २, २; कारयते माश्रौ १, ४,
१, ४; २, १, १, २९; कारयेत हिष
१, २, ९१^f; कारयेत् शांश्रौ १३,
२, १; आपश्रौ; आपघ १, ८, ३^f;
कारयेताम् निस् ७, १०: ३;
कारयेयु: वैश्रौ २१, ११: ३ द्राश्रौ
१०, २, १४^k; निस् ८, ७: १५;
कारये: लाश्रौ ३, १०, १८^k.
कारयिष्यामि वौश्रौ १८, २०,
१०.
चिकीर्षन्ति आपश्रौ ६, ६, ८^१;
निस्; चिकीर्षन्ते भाग्य १, १२:
१३; चिकीर्षन्ति विष ५४, २७;
चिकीर्षतु अप १, १०, ६; अचि-
कीर्षत् निस् ३, ११: १६;

चिकीर्षेत् भाश्रौ ११, १५, १५
वैश्रौ; चिकीर्षेरन् आश्रौ ८, १३,
२२.

अचिकीर्षात् निस् ३, १२:
४७××.

चिकीर्ष्यते मीस् २, १, ८; ४, ७;
४, १, ३.

चिकीर्षयन्ति या १३, ४४.

चर्कधि शांश्रौ १२, १५, १^१;

चर्किराम ऋप्रा ८, २^१.

२कर^१- पाग ५, २, ३६; -र: कप्र

१, १, ८; -रम् आम्रिष्ट २, ६, १:

३; कप्र २, ५, १७; अप २७, २,

१; विष ९७, १; वैध २, ९, ६;

माशि २, १०; ११; याशि १, ५३;

५३; -रयो: विष ११, ३; १०;

-रस्य कप्र २, ५, १७; -रात् कप्र

२, ८, १८; अप ४१, ४, ३;

-राम्याम् अप ६८, ३, १०;

-रे वैश्र ४, ३: ११; ७, ८: ३;

अप ६७, १, २; वाघ ६, १८;

विष ६०, २५; ९७, १; वृदे ७,

५६; -रेण कप्र २, १, ९; -रौ

वैश्र १, २: १३; ९: १०; ५, ४:

२७^१; विष १, २५; ११, १०;

वैध २, ९, ६.

२कार^३- कर-भू- द्र.

कर-कृप- -पम् हिपि १७: १४;

१८: १२; १८.

कर-ग^३- -गम् सुधप ८७: ९.

कर-च्छेद- -द: विष ५, १३४;

१३६.

कर-तल- -लम् कप्र ३, ९, १८,

a) पामे. वैप १ परि. अक: मा ३८, ५ टि. द्र.। b) पामे. वैप १, ११४९ f द्र.। c) पामे.
पृ ८९८ q द्र.। d) पामे. वैप १, ११४९ m द्र.। e) पामे. वैप १, ११५० b द्र.। f) पामे. वैप २, ३ खं.
अक: तत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। g) पामे. वैप १, ११३८ p द्र.। h) पामे. वैप २, ३ खं. क्रियते तत्रा ३, ७,
११, ५ टि. द्र.। i) पामे. पृ ८९९ t द्र.। j) सपा. कारयेत् <> कारयेत् इति पामे.। k) परस्पटं
पामे.। l) = हस्त-। m) त्वाथे अण् प्र.। n) विप.। उस. उप. <✓गम्।

-लैः विध १, ४३.

कर-द्वय-सहित- -तानि विध
११, ४.

कर-पाद-दन्त-भङ्ग- -ङ्गे विध
५, ६८.

कर-पृष्ठ- -ष्टम् याशि १, ५४.

कर L, २कारJ-भू- पावा ६, ४,
८४.

कर-मण्डल- -लम् माशि २, ७.

कर-संपूर्ण(र्ण)र्णा- -र्णाः वैगृ
१, १४ : २.

कर-स्थान- -नान् आमिष्ट २, ३,
३ : २३.

करा(र-अ)प्रा (अ-अ)प्रपवि-
त्रक^०- -कम् कप्र १, २, ९.

करा(र-अ)प्रा(अ-अ)ङ्गुलि- -पी-
दि(त>)ता^०- -ताम् अप ३६,
८, १.

करा(र-अ)ङ्गुष्ठा(ष्ठ-अ)प्र- -प्रेण
वैगृ २, १८ : १२.

करा(र-अ)वधवर्षण- -णम् विध
७३, २२०.

करित- पा ५, २, ३६.

रकरण^०- -ःणः^० द्राश्रौ ११, १, ५;
लाश्रौ ४, १, ५; -णम् आश्रौ १,
११, ११^१; शाश्रौ १, १५, १२^१;
वौश्रौ १, ११:२५^१; ४, २:२६^१; ५,
२:२६^१××; माश्रौ; वाश्रौ १, ३, ७,
१६^१; आपशु ७, ४^१××; ऋप्रा
१३, ८^१; पाशि २२^१; याशि
२, ९४^१; पा १, ४, ४२; ३, १,
१०२; ६, १, २०२; पावा १, ४, १;
-णस्य शौच १, १८; आज्यो ७,

१५; १७; -णात् निसू ५, १३:
७^१; अप ३०^१, २, १०; पावा ५,
१, ३७; -णानि वैश्रौ १८, १६:
७२; अप ४८, ६१^१; निघ २, १^१;
आपशु ९, ११; १२, ४; हिशु ३,
३०; ४, २६; आज्यो ४, ३; -णे
वौश्रौ २०, २: ३५××; वैगृ ६७:
१२^१; कप्र; गौध १८, ३६^१; शुप्रा
१, ११^१; याशि १, ३७^१; पा २, ३,
३३; ५१; ६३; ३, १, १७; २, ५६;
८५; १८२; ३, ८२; ४, ३७;
पावा ३, ३, २०; ९५; ४, ३७;
६, ३, ६९; -णेन पावा ३, १,
८७; आज्यो ७, १३; १४;
-णेभ्यः आपश्रौ १४, २३,
११^१××; -णेपु^१शाश्रौ १, २, २६;
मीसू ३, ८, २५; -णैः आज्यो
४, ४^१.

करणी^०- -णी काशु २, ७;
३, १; १४; ६, २; -णीनाम्
काशु ७, ५; आपशु ११, १४;
२०, ९; -णीम् काशु २, १३;
वौशु २ : ९; १२; हिशु ४, १७;
-ण्या काशु २, २२; आपशु २,
७; ८; वौशु २ : १; ३; ८; हिशु
१, २८, ३०; -ण्याः आपशु
१२, ३××; वौशु; -ण्योः आपशु
१२, ८; हिशु ४, २९; -ण्यौ
हिशु ६, १६.

करणी-वृत्तीय- -यम्
काशु २, १७.

करणी-मध्य- -ध्ये काशु
४, ५; -ध्येषु काशु २, ६; ४, ६.

करण-जल्प-कर्ष- -र्षेषु पा ४,
४, ९७.

करण-पूर्व- -र्वात् पा ४, १, ५०.

करण-भाव- -वयोः पा ३, २,
४५.

करण-मध्य- -ध्यम् तैप्रा २,
४५.

करण-वत्- -वत् तैप्रा २३, ६.

करण-वर्ण^१- -र्णाः निसू ८, ७ :
१०.

करण-विज्ञान- -नम् अप ६८,
१, ५०.

करण-विन्यय^०- -यात् तैप्रा
२३, २.

करण-स्थान-भेद- -दे ऋप्रा ६,
२७.

करणा(ण-आ)दि- -दिषु ऋप्रा
७, २१.

करणा(ण-अ)धिकरण- -णयोः
पा ३, ३, ११७; पावा १, ३, १०;
४, २३.

करणा(ण-अ)शिमर्शन-इलक्षण-
धूपन-प्रदहनो(न-ल)द्वरणा(ण-अ)
वसेचन- -नानि काश्रौ २६,
१, २९.

करणा^०(ण-अ)र्थ-त्व- -त्वात्
मीसू १२, ३, २५.

करणा(ण-अ)वस्था- -स्थया
ऋप्रा १४, ६५.

करणीय,या- -यः आमिष्ट ३,
३, १ : १०; ११; -यम् वैगृ ४,
४ : २०; -यया हिश्रौ १५, ४,
८; -या वाधुश्रौ ४, १०४ : ८;

a) विप. । पस. > वस. उप. = पवित्रस्याऽप्र. । b) विप. । पस. > कस. > वृस. । c) करव^० इति
जीसं. । d) वैप १ द्र. । e) = वाण- । f) पामे. वैप १, १०९४ ० द्र. । g) = मन्त्र-विशेष- । h) = इष्टका-
निर्माण-पात्र- । i) = प्रयत्न-विशेष- । j) = कर्म-नामन्- । k) अर्थः ? । l) अकरणे इति जीसं. ।
m) = यज्ञ-साधन- । n) = तदाख्या-विशेष- । o) = रज्जु-विशेष- । p) उप. = विन्यास- वा
विविधस्पर्श- वा । q) स्वार्थिकः स्तुष्ट प्र. ।

-याम् वौश्रौ ९, १ : ३; १०, १ : ३.
 करणि- पाठभो २, १, २१२.
 कंकरत्- -रत् आपश्रौ ६, ८, ३;
 वाधूश्रौ ४, ९८ : ५; हिश्रौ ३,
 ७, ४७; वैताश्रौ १, ६; कागृ ३०,
 ५; मागृ १, १४, १७; कौस् ९१,
 ११; -रता अप्रा ३, ४, १.
 कंकर(त् >)न्ती- न्ती अप ४८,
 ६१; निघ २, १.
 कंकरस्- -रांसि अप ४८, ६१;
 निघ २, १.
 कंकरिक्त्- पा ७, ४, ६५; -क्त्
 अप ४८, ६१; निघ २, १.
 करिप्यत्- -प्यतः वाधूश्रौ ४, १०३ :
 १११; द्रागृ २, ३, ७; -प्यत्सु
 द्राश्रौ १४, ४, १०; लाश्रौ ५, ८,
 १०; -प्यन् शंश्रौ १७, १७, ११;
 काश्रौ; -प्यन्तः आश्रौ ४, ५, ३;
 द्राश्रौ.
 कंकरिप्यन्ती- न्तीम् शंश्रौ
 १७, १७, १; द्राश्रौ ११, २, ११;
 लाश्रौ ४, २, १०.
 करिप्यद्-वचन- -नात् मीस्
 ११, ४, ५७.
 करिप्यमाण- -णः श्रामिगृ ३, २,
 १ : १; अप १, ९, १.
 करोति- >करोति-कर्मन्- -र्मणः
 या ८, १३; -र्मा या ४, १९.
 करोति-शब्द- -व्दात् मीस्
 १, १, ८.
 कर्तव्ये कागृ २५, २७; वागृ १४,
 १३; अप ४८, ६१.
 कर्तव्ये मागृ १, १०, १५०; निघ
 २, १.
 कर्तव्य,व्या- -व्यः काश्रौसं ३३ :

३; ३५ : ७; निस्; -व्यम् वौश्रौ
 ३, १ : २; ३; वौश्रौप्र; -व्या
 निस् ८, ११ : ८; जैगृ; -व्याः
 वौश्रौ २७, ४ : १९; निस्;
 -व्यान् निस् ७, १३ : १९; ८,
 ७ : २१; -व्यानि आपश्रौ ९,
 १, ५; भाश्रौ; -व्ये अशां ६, ५;
 -व्यौ वैगृ ६, १२ : १३.
 कर्तव्य-काल- -लाः अप १८^३,
 २०, १.
 कर्तुम् वाधूश्रौ ३, १९ : १८××;
 निस्.
 रकर्त्- पाग ५, १, १२९^d; -र्त्ति
 आपश्रौ २४, ३, १; भाश्रौ १, १,
 १८; वौध; -र्त्ता आपश्रौ १८,
 २१, ४; वौश्रौ; या ३, ६१^f;
 ११; ५, २१; ६, ५; ३५; १०, २५;
 पा १, ३, ६७××; -र्त्तरिः शंश्रौ
 ७, ४, १३; आपश्रौ २४, २,
 १३; वाश्रौ; -र्त्तारम् आपश्रौ २४,
 १, २४; वौश्रौ; -र्त्तौ या ८, १२;
 -र्त्तुः आपश्रौ १६, २१, १०; माश्रौ;
 वौषि ३, ११, २^०; पा १, ४,
 ४९××; -र्त्तुभिः निस् १०,
 १० : १०; वृदे ३, ४९; -र्त्तुषु
 पावा ३, २, १५; -र्त्तुणाम् वाश्रौ
 १, १, १, १४; -र्त्तुन् वौश्रौ २५,
 २० : ६; भाश्रौ १०, २०, ९;
 -र्त्त्रा कौस् ७०, १५; -र्त्त्रे आपश्रौ
 १६, ४, ३; वौश्रौ; -र्त्त्रोः पा ३,
 ४, ४३.
 कर्त्-कर- पा ३, २, २१.
 कर्त्-करण- -णयोः पा २, ३,
 १८; -णे पा, पावा २, १, ३२.
 कर्त्-कर्मन्- -र्मणोः पा २, ३,
 ६५; ३, ३, १२७; पावा १, ३,

१०××.

कर्त्कर्म-ग्रहण- -णम् पावा
 ३, ३, १२७.
 कर्त्-गुण- -णे मीस् ३, १, १८.
 कर्त्-ग्रहण- -णम् पावा १, ३,
 १४; ७८; २, ३, ७१.
 कर्त्-तस (:) मीस् ३, ३, २६.
 कर्त्-त्व- -त्वम् वृदे ४, ४५;
 पावा ३, १, ८७; -त्वात् पावा १,
 ३, ६७; ३, १, ४८; ७, ३, ६१.
 कर्त्-दात्- -तारौ कौस् ६७, १३;
 अप ३९, १, ११.
 कर्त्-देश-काल- -लानाम् मीस्
 ४, २, २३.
 कर्त्-धर्म- -र्मण मीस् १, ३, २३.
 कर्त्-नियम- -मः मीस् ६, ६,
 ३६.
 कर्त्-निर्देश- -शः पावा २, ३, ९.
 कर्त्-परिमाण- -णम् मीस् ३, ७,
 २७.
 कर्त्-प्रत्यय- -यम् माश्रौ ५, २,
 ८, ३.
 कर्त्-भाव- -वः पावा १, ४, २३.
 कर्त्-भूमन्- -म्ना मीस् १, १,
 ११.
 कर्त्-भेद- -दः मीस् ११, २,
 ४२; -दात् मीस् ११, २, ४८.
 कर्त्-भेद-वत् मीस् ११, ३,
 २३.
 कर्त्-वचन- -नेन पावा २, २,
 २४.
 कर्त्-वत् मीस् ३, २, ३७; ३,
 २८.
 कर्त्-विधि- -धेः मीस् ११, १, ९.
 कर्त्-वेदना- -नायाम् पा ३, १,
 १८.

a) वैप २, ३ चं. द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, ११५२ b द्र. । d) तु. पाका. । हर्त्-
 इति भाण्ड. । e) संस्कारकर्त्तुः इति R. । f) विप. । वस. ।

कर्तृ-शब्दा(व्-अ)नुपपत्ति-
-त्तिः पावा १,४,२३.
कर्तृ-संयोग- -गात् मीस् ३, ३,
३३; ४,२,१७; १०,३,६६.
कर्तृ-संस्कार- -रः मीस् १०, ६,
५३.
कर्तृ-सं(ज्ञा>)ज्ञ^०- -ज्ञम् पावा
१,४,१.
कर्तृ-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
४,५४.
कर्तृ-संबन्ध- -न्धात् मीस् ११,
४,२.
कर्तृ-सामान्य- -न्यात् पावा ८,
१,५१; मीस् १,३,२.
कर्तृ-स्थ- -स्थे पा १,३,३७.
कर्त्रे(र्तृ-अ)भिप्राय- -ये पा १,
३,७२.
कर्त्तव्यः(ः) निघ २,११; या ४,१११;
पा ३,४,१६.
कर्त्रे^०- -त्रैम् अत्रा ३,२, ९, आपमं
२,८,१०.
कर्म^०- -र्मः द्राश्रौ ११, १,५; लाश्रौ
४,१,५.
कर्मन्- पाठ ४,१४५; पाग २, ४,
३१; ४,४, ६२; ५, २, ११६;
पावाग ८, २, १८; -र्म आश्रौ
१, १, ११××; शाश्रौ; आपश्रौ
१३, १६, १२^०; वौश्रौ २५, २९ :
७^०; अत्राय ३, ८^२; -र्मऽ-र्म
कौस् ६३, १३; या १२, १८; पा
१, ३, ६७××; -र्मणः शाश्रौ १,
२, २६; आपश्रौ २, २१, १××;

३, १२, १; वौश्रौ; कौ ११९,
२^६; निघ २, १; या ५, २४××;
-र्मणःऽ-र्मणः काश्रौ ११, १, ८;
आपश्रौ १८, २, १०; वौश्रौ
२, ३ : १७; ११, २ : १२××;
पा ३, १; ७××; पावा; -र्मणा
आश्रौ ६, १, २××; शाश्रौ; वौध २,
६, ३२^०; या २, ४^१; २२××;
पा; -र्मणाम् आश्रौ १२, ४, १८;
शाश्रौ; -र्मणि आश्रौ १, १२, ३१;
शाश्रौ; -र्मणिऽ-र्मणि आपश्रौ
३, १८, ६; हिश्रौ २, ८, ७;
वौगृ; -र्मणी आमिगृ ३, ७,
३ : २; वौपि २, १, १; गोगृ ४,
८, ११; -र्मणे काश्रौ २, २,
२१^०××; आपश्रौ; वौपि १, १ :
११^१; -र्मणोः विघ ३०, ३;
मीस् १०, ८, ४०; -र्मन् आपश्रौ
१६, १, ३^१; आमिगृ १, ५, २ : ३५;
या ३, १; -र्मभिः आश्रौ ९, ३,
२०; वौश्रौ; मीस् १०, ३, ५७^१;
-र्मभ्यः द्राश्रौ १, १, १३; १३,
१, १०; लाश्रौ १, १, १३; ५, १,
८; गोगृ; -र्मसु शाश्रौ १, १, २५;
काश्रौ; -र्मणि आश्रौ २, १९,
४; शाश्रौ.
कर्म- पा ४, ४, ६२^६; ६,
४, १७२.
कर्मण- पा ५, ४, ३६.
रकार्मुक^१- पा ५, १, १०३;
-कम् शुअ ३, ११६; -काणि
शाश्रौ १४, २२, १०.

कर्म-क^०- -कम् कप्र १, ६, ७.
कर्म-कर- पा ३, २, २२; -रः
गौघ २०, ४; मीस् ६, ३, २४;
-रेषु शंघ २५१.
कर्म-करण^०- -णम् वौध २, २,
७५; -णाः आश्रौ १, १, २१.
कर्म-कर्तृ- -त्तिरि पा ३, १, ६२;
पावा ३, १, ४८××; -र्तुः पावा
३, १, ४८; ८७.
कर्मकर्तृ-त्व- -त्वात् पावा
१, ३, ६७.
कर्मकर्त्रे(र्तृ-अ)र्थ- -र्थम् पावा
२, ३, ६५.
कर्म-कर्मा (म-अ)नुपूर्व- -वैण
कौस् ६३, १३.
कर्म-कल्प- -ल्पाः तुस् १, ११ :
३२.
कर्म-कार^०- -रः वैध ३, १५, ४.
कर्मकार-निपाद-रङ्गावतारि-
वेण-शस्त्रविक्रयिन्- -यिणाम्
विघ ५१, १४.
कर्म-कारिन्- -रिणाम् कप्र १,
३, १; -रिभिः कप्र १, ५, १; -री
वैध ३, १५, ४.
कर्म-कार्य- -र्यात् मीस् ३, ७,
३२; ४, २, ३१.
कर्मकार्य-समवाय- -यात्
मीस् १२, ४, १६.
कर्म-कृत्- पा ३, २, ८९; -कृत्
कागृ १०, २; मागृ १, ७, १; वागृ
८, १२; -कृतः आपश्रौ ८, ६,
२५^१; वौश्रौ ५, ८ : ६^१××; आश्रौ;

- a) विप.। वस। b) वैप १ द्र.। c) विप. ([वीणा-विशेष-] वाण-)। d) पाशुर्कं
कर्म इत्यस्य स्थाने सपा. वैश्रौ १६, २० : ९ पाशुकेन इति पाभे.। e) कर्म इति पाठः ? यनि. शोधः। f) सकृत्
कर्म इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलं मूको. च)। g) पाभे. वैप २, ३ खं. तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.।
h) सकृत् पाभे. वैप १, ११५२ k द्र.। i) सपा. कर्मणे <> कर्मण्यः इति पाभे.। j) षड्कर्म^० इति कासं.।
k) कामर्ण- इति B.P.G.। l) = धनुस्-। m) = कर्म-कर-। घट इत्यस्मिन्नर्थे कः प्र. उसं. (पा ५, २, ३५)।
नर्मकः इति जीसं. ? षड्कर्म इति B.I. ?। n) उप. भावाद्यर्थे ल्युट् प्र.। o) = [वर्षासङ्कर-] जाति-विशेष-। उसं.।

कर्म-कृत- -तम् वीध ३,६,६;
विध ४८,१९.

कर्म-नाण- -णः कप्र १,५,५.

कर्म-गर्हा (र्हा-अ) नुपालम्भ-

-न्मः मीस् १,२,४५.

कर्म-गुण- -गैः वृदे ६,७०.

कर्म-गुण-त्व- -त्वात् काश्रौ ८,
१,७.

कर्म-ग्रहण- -णात् पावा ३, १,
७.

कर्मग्रहणा(रा-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा १,४,२७.

कर्म-ग्रान^१- -मः वाश्रौ ३, २,
५,४३^१.

कर्म-चोदक- -कः काश्रौ १,
१०,१.

कर्म-चोदना- -नाः आपश्रौ २४,
१,३२^१; मीस् २,३,६; ४,२४;
-नायाम् आश्रौ १,१,१४; पावा
६,१,८३.

कर्म-ज- -जम् वाध २७, २;
वृदे २,२३; -जै मीस् ७,३,२७;
-जैः वृदे ३,६; ४१; ४३.

कर्मज-त्व- -त्वात् मीस् १०,
४, ३३.

कर्म-जन्मन्^२- -न्मानः या ७,४.

कर्म-जीविन्- -विनः विध ३,
३२.

कर्म-ज्ञ- -ज्ञः वैश्रौ १२,१ : ६.

कर्म-ठ- पा ५, २, ३५.

कर्मण्य^३- पा ५,१,१००; -ण्यः

वीश्रौ ६,२४ : ३१; आप्रिगृ ३,
५, १ : १२^४; कौस् ९४, ९;

गौध २६,२०; -^५ण्यम् वैताश्रौ

४, १, ६; भाशि ४४; -ण्याः
काश्रौ ४,२, १२^१; -ण्यौ कौस्
६७, १७; १४०, ४; अप्र १९,
१,३.

कर्म-तति- -तिषु या ११,२४.

कर्म-तत्स (ः) आपश्रौ ३, ११,
२^१; वीश्रौ.

कर्म-तादर्थ्य- -र्थ्यम् मीस् ६,
१,१३.

कर्म-त्व- -त्वात् मीस् १०, ३,
७१; ४, ४८; -त्वे पावा ३,३,
६७; ३, १,७.

कर्मत्व-निदेश- -शात् मीस्
५,३,२८.

कर्म-दर्शन- -नात् पावा ३, १,
८७.

कर्म-देश- -शस्य जैश्रौका ३८.

कर्म-द्रष्ट- -ष्टा या १४, १.

कर्म-धर्म- -र्मः मीस् १, ३,
२२; २,४,१; ३; ३,४,४.

कर्म-धारय- -यः वृदे २,१०५;
पा, पावा १, २, ४२; -यात्
पावा ६,१,२; -ये पा, पावा २,
२,३८x४.

कर्मधारय^६- पा ६, ३, ४१.

कर्मधारय-त्व- -त्वे पावा
१,४,१.

कर्मधारय-वत् पा ८, १,
११.

कर्मधारयवत्-त्व- -त्वे
पावा ८,१,११.

कर्म-नज्ञत्र- -त्रम् अप्र ७२, १,
२; आज्यो ९,५.

कर्म-नामन्^७- -म या २,१३;५,

१२; -सभिः भाश्रौ ८, ३,१८;
-मानि विध २,१; या ३,१.

कर्मनामिक^८- -कः या
१, १३.

कर्मनाम-तन्मानि-प्रेप्सु-
-प्सुषु शौच ४,२९.

कर्म-नामधेय- -यम् आपघ १,
२९, १; हिध १,७,५७; -यात्
काश्रौ ८, ९, ४; -येन आपश्रौ
८,३,१३; १२, २४, १५; १५,
११, ११; हिश्रौ १, १, २३;
२४,५,३.

कर्म-निबन्धन^९- -नम् विध २०,
५०.

कर्म-निवृत्ति- -त्तिः आपगृ १६,
१०.

१कर्म-नि (ष्टा >) ष्ट- -ष्टे
आप्रिगृ ३,१०,४ : ३३.

२कर्म-निष्ठा^{१०}- -ष्ठाम् ऋप्रा ५,
४८^१.

कर्म-निष्पत्ति- -त्तेः मीस् १,२,
१७; १२,४,१०.

कर्म-न्यास- -से आपघ २,२८,
२; हिध २,६,२.

कर्म-पाश-वश- -शः विध २०,
२९.

कर्म-पृथक्त्व- -त्वम् शाश्रौ १,
२,२४; -त्वात् ऋश्र १,२,१३;
या ७,५; मीस् ६,५, ५६; ११,
२,१४; २०; ४,१६.

कर्म-प्रयोग- -गः कौस् ७,
२९.

कर्म-प्रवचनीय^{११}- -यः अप्रा १,
१,१०;१२; -याः पा १,४,८३.

a) समूहे ग्रामञ् प्र. (पावा ४,२,३७)।

b) सप्र. कर्मग्रानोऽवरुद्धेत <> क्षमे वृद्धे ग्रामेण

<> क्षेमाध्यवस्यतो ग्रामे न इति विशिष्टः पामे.। c) विप.। वस.। d) वैप १ द.। e) पामे.
पृ ९०३ क द.। f) =समाप्त-विशेष-। g) मलो. कस.। h) विप.। तद्रभवीयप् ठञ् प्र. टसं. (पावा ४,३,६०)।
i) = [कर्मप्रोक्तवताम्] संज्ञा-विशेष- (तु. पाम.)। टस. टप. कर्त्तरि <प्र.√वच्।

कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध- -धः
पावा २,२,१८.
कर्मप्रवचनीय-युक्त- -क्ते
पा २,३,८; पावा २,३, ८; ४,
८३.
कर्मप्रवचनीय-योग- -गात्
पावा २,४,८३.
कर्मप्रवचनीय-संज्ञा- -ज्ञा
पावा १,४,१.
कर्म-प्रसव- -वाय शाश्रौ ४,६,
१७.
कर्म-प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ
१०,२,२३.
कर्म-फल- -लम् गौध ११,३१;
आज्यो २,११; -लैः आपध २,
२४,१०; हिध २,५,१७५.
कर्मफल-विशेष- -पेण शंघ
३७६.
कर्मफल-शेष- -पेण आपध
१, ५, ५; २, २, ३^३; हिध १,
१२,५.
कर्मफला(ल-अ)सम्भव-
-वात् काश्रौ २५,१४,२.
कर्म-भेद- -दः मीस् २, २,
१; २१; ४, ४; ८×४; -दम्
मीस् ६, ३, ४; -दात् मीस्
३, ४, ३०×४; १०, ६, ६२^१.
कर्म-मङ्गल(ल>)ला^०- -लाः वीगृ
३,१३,८.
कर्म-मध्य- -ध्यात् अप ३७,
४, १.
कर्म-मात्र- -त्रम् मीस् ४,३,९.
कर्म-युक्त- -क्तः आपध १, ६,
११; वीध १, ५, ७५; हिध १,
२,३४; -क्तम् मीस् २,२, २७;

-क्ते मीस् ४,२,१८.
कर्म-योग- -गः द्राश्रौ १२,२,
१९; लाश्रौ ४,१०,२०; -गात्
काश्रौ १,६,१२; द्राश्रौ १२, २,
११; लाश्रौ ४, १०, ११; -ने
आपध १,१२,९; हिध १,४,९.
कर्मयोगिन्- > ँगि-त्व-
-त्वात् मीस् २, २, २५; ६,३,
२१.
कर्म-लिङ्ग^१- -ङ्गाः कौस् १,४.
कर्म-लिङ्ग-विधान-विद्-
-वित् अप १,४२,५.
कर्म-वचन- -नेन पावा २, २,
२४.
कर्म-वत् पा ३,१,८७; पावा.
कर्म-वत्- -वतः या १४, २५;
-०वन् या ५,११; -वन्तः या
१०,२२; -वन्ति या १४, २५.
कर्म-वश-कारित- -तम् वीश्रौ
२५,२९ : १३.
कर्म-वसु^१- -सुः या ११,२६.
कर्म-वाद^०- -दः निस् ५,९ : ८;
वीध २,६,११; ३१.
कर्म-विधान^१- -नम् हिश्रौ १,
१,८.
कर्म-विपर्यास- -स्ते शाश्रौ ५,
१०,१३; १३,९; काश्रौसे ३१ :
३; वीगृ ४,११,१; आसिगृ २,
७,४ : ४; अप्राय ३,४.
कर्म-वियोग- > ँग-विख्यापन-
विवासना (न-अ) ङ्करण-
-णानि गौध १२,४४.
कर्म-विशेष- -पम् ऋप्रा १३,
४७; -पेण विध ४५,३२.
कर्म-विशेषक-त्व- -त्वात् पावा

३,१,७.
कर्म-वृद्धि- -द्ध्या मीस् ६, ६,
११६.
कर्म-वैषम्य- -न्यात् मीस् १०,
३,५४.
कर्म-व्यतिहार- -रे पा १, ३,
१४; ३, ३, ४३; ५,४, १२७; ७,
३,६; पावा.
कर्मव्यतिहारा(र-आ)दि-
-दिषु पावा १,३,१४.
कर्म-शंसा- -सा वृदे ५,६.
कर्म-शब्द- -ब्दः काश्रौ ४,३,१;
मीस् ४,२,६^३; ७,२,१३; -ब्दाः
मीस् २, १, १; -ब्दात् काश्रौ
२२,१,१९; -ब्दे मीस् २,२,२४.
कर्म-शेष- -पः मीस् २,३, २०;
-पम् अप्राय २,५; अप ३७,४,
१; -पेण गौध ३, ६; हिध २,
१,२५^०.
कर्म-श्रुति- -तेः मीस् ११,२,६.
कर्म-संयुक्त- -क्तानि हिश्रौ ३,
८,४१.
कर्म-संयोग- -गात् द्राश्रौ १,३,
१; लाश्रौ १,२,२४; मीस् ६,१,
४५×४; -ने पावा २,३, ३६^१;
मीस् ६,१,१; ४,४०; -नेन शाश्रौ
१,१,२४.
कर्म-संस्कार- -रम् मीस् १०,
४, १.
कर्म-संस्तर- -रे वीश्रौ २७, ४ :
२२; २९,८ : २२.
कर्म-संस्था- -स्थायु वृदे ३,८२;
५,९३.
कर्म-संकर- -रम् अप ७०,११,
३; ७२,४,२.

a) सपा. कर्मफलशेषेण <> कर्मशेषेण इति पाभे. । b) ँदः इति जीसं. । c) = मङ्गल-कर्मन्-
[क्रिया-] । d) विप. । वसं. । e) नोप. । उस. । f) = वाक्य- । g) कर्मवत् इति कासं. । h) करोति-
शब्दः इति जीसं. । i) कर्म-योग- इति पासि. ।

१कर्म-सं(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः पावा
१,४,५१.

२कर्म-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, ४,
५१; -ज्ञायाम् पावा १,४,४९.

कर्मसंज्ञा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
१,४,२३;२९;४९.

कर्म-संतान- -नः मीसू १२,३,
२७.

कर्म-संनिपात- -तः मागृ १,११,
१; -ते काश्रौ २२,१,४२.

कर्म-समवाय- -यात् लाश्रौ १०,
९,३.

कर्म-समाप्त^२- -प्तम् आपघ १,
२४,२४; हिषं १,६,७२.

कर्म-ससु(त्य >)त्या- -त्याः
वृदे १,२९.

कर्म-संपत्ति^३- -त्तिः या १,२.

कर्म-संबन्ध- -न्धात् मीसू २,
३,१४.

कर्म-समानकर्तृक-ग्रहणा (ए—
आ)नर्यक्य- -क्यम् पावा ३,
१, ७.

कर्म-साकल्य- -ल्यम् मीसू ६,
८,२६.

कर्म-साधन- -ने वौध ४, ८,
१८^३.

कर्म-सामान्य- -न्यात् मीसू ३,
७,३८;८,२४.

कर्म-सिद्धि- -द्वये ऋष १,३७,
२;३; ५; ३९, २; ४०, २; ४१,
५; ऋषां ७,२;३;५; २;१०,
२; ११,५; याशि १,४२; -द्विः
अप १, ४६, ३; -द्विम् कप्र २,
४,११; अप २१,३,४; ३६, ३,
२; ७०,१२,१; ७०^३,४,४; विघ
७८,११.

कर्म-सिद्धि-संनिपात- -तः मीसू
१२, ३, २५.

कर्म(र्म-आ)धिक्य- -क्यम्
माश्रौ ५,२,१०,५.

कर्म(र्म-अ)धिपति- -त्तये जैगृ
१,२ : २३^३.

कर्म(र्म-आ)नन्तर्यमात्र-

नी- -नी अप २६,२,५.

कर्मसिद्धय(द्वि-अ)र्थे- -र्थम्
अप ३१,५,५.

कर्म-स्थ- -स्थः कप्र ३, ७, १६;
ऋत ५,३,२.

कर्मस्थ-कि(य >)या^२-
-याणाम् पावा ३,१,८७.

कर्मस्थ-भावक^३- -कानाम्
पावा ३,१,८७.

कर्मा(र्म-आ)कुल- -ले अप
७२,५,३.

कर्मा(र्म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् काश्रौ २,
१,१३; आग्निगृ २,३,३:२.

कर्मा(र्म-अ)ङ्ग-भूत- -त्तम् शुअ
३,७९.

कर्मा(र्म-आ)चार^३- -रः आश्रौ
४,२,१६.

कर्मा(र्म-अ)तिरेक- -के हिश्रौ
२२,२,६.

कर्मा(र्म-आ)त्मन्^३- -त्मानः या
७,७.

कर्मा(र्म-आ)दि- -दिः काश्रौ
१, ३, ५; -दिम् माश्रौ १, १,
१, ४; -दिषु द्राश्रौ १२, १,
१४; लाश्रौ ४, ९, ८; आग्निगृ
२, ४, ४ : २२; कप्र १, १, १३;
वौध ३, ७, १६^३; पावा २, ३,
५२^३; -दीन् आपश्रौ २४, २, १;
भाश्रौ १, २, २; -दौ शाश्रौ ४,
६, ७; भाश्रौ १, २, ३.

कर्मादि-संनिपात- -तः मीसू
१२, ३, २५.

कर्मा(र्म-आ)धिक्य- -क्यम्
माश्रौ ५, २, १०, ५.

कर्मा(र्म-अ)धिपति- -त्तये जैगृ
१, २ : २३^३.

कर्मा(र्म-आ)नन्तर्यमात्र-

-त्रम् लाश्रौ १०, १६, ४.

कर्मा(र्म-अ)नुकीर्तन- -नम्
वृदे ४, ३८.

कर्मा(र्म-अ)नुवाद- -न्दः वौश्रौ
२४, १ : ४.

कर्मा(र्म-अ)न्त^३- -न्तः वौश्रौ
२४, १५ : १२××; वागृ; -न्तम्
वौश्रौ २, ७ : २१; वौगृ ४, २,
१६; ४, १३; -न्ते गौपि १, ७,
१०; कप्र २, ५, १; -न्तेन वौश्रौ
२०, २ : ८; २४, १५ : १३;
१४.

कर्मा(र्म-अ)न्तर- -रम् काश्रौ
४, ४, २; मीसू २, ३, १; -रे
आग्निगृ २, ७, ८ : ३.

कर्मान्तर-त्व- -त्वात् काश्रौ
१, ४, १४; १४, १, १३.

कर्मा(र्म-अ)न्वित- -ताः द्राश्रौ
१२, ३, ६.

कर्मा(र्म-अ)पवर्ग- -र्गे काश्रौ
२, २, २१; १५, १०, २३; शांठ-
१, २, १; -र्गात् काश्रौ २५, १३,
३६.

कर्मापवर्गिन्- > पवर्गि-त्व-
-त्वात् मीसू ४, २, ३०.

कर्मा(र्म-अ)भाव- -वात् मीसू
९, १, ४२.

कर्मा(र्म-अ)भिधान- -ने पावा
२, ३, ५२.

कर्मा(र्म-अ)भिसंबन्ध- -न्धात्
मीसू १०, ७, १९.

कर्मा(र्म-अ)भ्यावर्तिन्- -तिं
वौश्रौ २४, ६ : १; २.

कर्मा(र्म-अ)भ्यावृत्ति- -त्तौ
वाश्रौ १, १, १, ८०.

कर्मा(र्म-अ)भ्यास- -सः आपघ
१, २६, ७; २९, १८; वौध २,

१,४८; हिघ १,७,१८; ७५.
 कर्मा(र्म-आ)रम्म- र्मे शुच्य
 ४,१५३.
 १कर्मा(र्म-अ)र्थ- र्थे कौसू
 ११९,४^१.
 २कर्मा(र्म-अ)र्थ^b- र्थम् काश्रौ
 २५,८,२१; मीसू ३,८,२८.
 कर्मार्थ-त्व- त्वात् मीसू ३,
 १,५; ११,१,८; १२,३,१९.
 कर्मा(र्म-अ)वयव- वैन आपघ
 २,२४,१४; हिघ २,५,१७८.
 कर्मा(र्म-अ)विभाग- गात्
 मीसू १०,६,२०.
 कर्मा(र्म-आ)वृत्ति- तौ काश्रौ
 १,७,८.
 कर्मा(र्म-अ)समवायित्व- त्वात्
 मीसू ३,१,१८.
 कर्म(र्म-इ)न्द्रिय- याणि विध
 १६,९५.
 कर्म(र्म-ए)कत्व- त्वात् काश्रौ
 १४,१,१२.
 कर्म(र्म-उ)वृत्ति- त्वा कौसू
 ६३,१५.
 कर्म(र्म-उ)त्सर्ग- र्गिः हिट् १,
 १३,११; मीसू ११,२,४९;
 -गात् मीसू ९,४,५४.
 कर्म(र्म-उ)पक्रम- मम्
 आग्निगृ २,३,५: ७.
 कर्म(र्म-उ)पदेश- शाः मीसू
 ५,१,३; ११,१,१७०.
 कर्म(र्म-उ)पपद- दः पावा ३,
 २,१.
 कर्म(र्म-उ)पपात- ते काश्रौ
 २५,१,१.
 कर्म(र्म-उ)पमा- मा या ३,

१५.
 कर्म(र्म-उ)परमण- गम् वैगृ
 ६५: ११.
 कर्म(र्म-उ)पसंयोग- द्योतक-
 -काः या १,३.
 कर्म(र्म-उ)पसंग्रह- हः या १,
 ४.
 कर्म(र्म-उ)पसंग्रहा(ह-अ)र्थ- र्थे
 या १,४.
 कर्मिक- पा ५, २, ११६; पाग
 ५,१,१२८.
 कर्मिक्य- पा ५,१,१२८.
 कर्मिन्- पा ५,२,११६; -र्मिणः
 आश्रौ ४,७,४; ६,१४,२१.
 कर्मरि^d- पाउभो २, ३, ४२;
 पाग ४,१,११२^e; ३,११८; ८,
 ४, ३९^f; पावा ४,१, ९७^g; ५,
 ४, ३६^h; -रस्यं शंघ ४३४;
 -राः वौश्रौ १५, १३: १५;
 अग्रा ३, ४, १ⁱ; -राणाम्
 वाधूश्रौ ३, ७६: २१; -रान्
 वाधूश्रौ ३, ७६: ३; -रेभ्यः
 शुभ्रा ५, ३, ७^j.
 कार्मार- पा ४,१,११२;
 पावा ५,४,३६.
 कार्मारक- पा ४, ३,
 ११८.
 कार्मारकि- पावा ४, १,
 ९७.
 कार्मार्यायणि^k- पा, पावा
 ४, १, १५५; -णयः वौश्रौप्र
 २७: ३.
 कार्मार-वन- पा ८,४,३९.
 कर्व- पाउ १,१५५.
 कर्वर^d- पाउ २,१२१; -र्म् अय

४८, ६१; निघ. २, १; -र्णामि
 अश्रौ २, १९, ३२; शाश्रौ ३,
 १७, १; काश्रौ २५, ६, ७;
 आपश्रौ ८, १६, ५; १८, २, ३;
 वौश्रौ ११, ३: १६; माश्रौ ८,
 १६, २१; १९, १०; वैश्रौ १७,
 ९: ७; हिश्रौ ५, ४, ८६; १३,
 १, १८; शांगृ ५, ८, २.
 ३कार^j- रः लाश्रौ ७, ८; ५; अय
 ४७, १, १५; -रान् वौश्रौ २३,
 १२: १७; -रे पा, पावा ६, ३,
 ६९; -रेण शुभ्रा १, ३७.
 कारक- कम् कौशि ४; पा ८, १,
 ५१; पावा १, ४, २९; ५१^३; ३,
 १, २६; -काणाम् पावा २, १,
 ३५; -कात्-पा ५, ४, ४२; ६,
 २, १४८; पावा ६, २, १४८;
 -के पा १, ४, २३; ३, ३, १९;
 पावा १, ४, २३; २, ३, १; ६, २,
 ४९; ३, ९९.
 कारक-काल-विशेष- पात् पावा
 १, १, २६.
 कारक-ग्रहण- गम् पावा ३, ३,
 १९.
 कारक-त्व- त्वे पावा १, ४,
 ४९; २, ३, ३६.
 कारक-मध्य- म्ये पा २, ३, ७.
 कारक-विभक्ति- क्तिः पावा २,
 ३, १९; -क्तीनाम् पावा १, ४,
 ३१^k.
 कारकविभक्ति-बलीयस्त्व-
 -त्वात् पावा २, ३, १९.
 कारका(क-अ)न्यत्व- त्वात्
 पावा ८, १, ५१.
 कारका(क-अ)र्ह- हाणाम् पाव

a) पामे. वैप २, ३खं. यज्ञः तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.। b) विप.। वस.। c) ष्वेशत्वात् इति जीसं.।
 d) वैप १ द्र.। e) तु. भाण्डा.। व्यप.। f) = वृक्ष-विशेष-। g) तु. पागम.। h) तु. पाका.। i) अपत्यार्थे
 प्र. युदागमश्च। j) कर्त्तरि वौ कर्मणि त्वा भावे वा कृत्। k) तु. पासि.।

२,३,३६.
कारको(क-उ)पादान- नम्
पावा ३,१,२६.
कारण-णम् शांश्रौ २, १४, ८;
लाश्रौ: -णस्य काश्रौ ९, ११,
१५; मीस् ४, ४, ३४; -णात्
काश्रौ ९, १३, २४; वैश्रौ;
पावा १, २, ७१; २, २, २९;
-णानि ऋप्रा ११, ५९; मीस् १,
४, २२; -णे मीस् ४; ३, १९;
-णेन शांश्रौ ३, १९, १७; -णै:
आपश्रौ २४, ४, २; कौगृ ३, १२,
१; अप ५२, १५, १.
कारण-कारित- न्तम् निस् ९,
१३: ३३.
कारण-द्रव्य- न्याणि शंघ
२६२.
कारण-प्राप्ति- न्ति: मीस् ६,
४, २०.
कारण-भाव- वात् मीस् ३, ५,
३५.
कारण-श्रुति- न्ति: मीस् ४, ४,
३६; ४०.
कारणा(ण-आ)गम- न्मात् मीस्
३, ५, ४६.
कारणा(ण-अ)ग्रह- हे मीस्
१२, ३, २२.
कारणा(ण-अ)ग्रहण- णे मीस्
१, ३, ७; ४, १, ५.
कारणा(ण-आ)नुपूर्व्य- न्यात्
मीस् ३, ५, ४०.
कारणा(ण-अ)न्तर- रात् कप्र
२, ११, १३.
कारणा(ण-अ)न्वय- यात्
ऋप्रा ११, ४५.
कारणा(ण-अ)विशेष- पात्
मीस् ३, ४, ४४.

कारणै(ण-ए)कत्व- न्वात् मीस्
११, १, ३०.
कारयत्- न्यत् अप १, १०, ३;
शंघ ४०५.
कारयमाण- ण: कौस् ४६, ८;
-णम् कौस् ५३, ९.
कारयाम् √मस्, कारयामास अप
४, १, २१.
कारयित्- ता वौगृ ३, ३, ६१; -
तु: अप ७०, १२, २.
कारयित्वा भाश्रौ ११, २२, ९; द्राश्रौ.
कारयिष्यत्- न्यन्त् आगृ १, २४,
३१; कौगृ.
कारयिष्यमाण- ण: आगृ १, १७,
३; भागृ २, ३: १; -णस्य आगृ
१, १७, ६.
कारि- पाउ ४, १२९.
कारिका- > ँका-शब्द- च्दस्य
पावा १, ४, ६०.
कारित, ता- न्तम् वौश्रौ २, १२:
२१××; वैश्रौ; या १, १३; -ता
वौश्रौ ६, १: ९; १०, १२: १०;
१२, १७: २; -ता: वौश्रौ १०,
१५: १०; १२, २०: ४.
कारिता-कायिका-शिक्षा(त्वा-अ)
धिभोग- गा: गौघ १२,
३२.
कारिता(त-अ)न्त- न्तस्य शौच
४, ९१.
कारित्- रिण: कप्र १, ६, ६;
-रिणि पा ५, २, ७२; पावा ५,
२, १४; -रिभ्य: पावा ४, १,
१५८; -री वाधूश्रौ ३, ७०:
८१.
कारि-मागध- धानाम् दाधूश्रौ
३, ९०: ८.
कारु- पाउ १, १; -रव: आश्रौ

४, ७, ४३; शांश्रौ ५, १०, ८३
आपश्रौ १७, ८, ७; १९, २३, १५
माश्रौ ५, २, ३, ९; ११; वैश्रौ
१९, ५: ५०; हिश्रौ २२, ४,
१७; वैगृ २, १०: ५; अप १,
८, ८९; ङशंघ २४८: २६२; ङवृदे
२, २३; २८; -रव: आश्रौ ३,
७, ५; वैश्रौ १८, ५: १२; ऋअ
२, ३, ६; -रु: अप ४८, ९७;
निघ ३, १६; या ६, ६५; -रुम्
शांश्रौ १२, १५, ११; -रु या
८, १२; -रुम् विघ २२,
५१; -रु या २, २७; -रु:
शांश्रौ १४, ५०, २१.
कारु-कर्मन्- र्मणि विघ २२,
५१.
कारु-कुशीलव- वान् वौघ १,
५, ८०.
कारु-प्रवादन- न्तम् नाशि १,
४, १२.
कारु-विश- शा: वौश्रौ १५,
३: ३; १८, १८: ८.
कारु-हस्त- स्त: शंघ १७६;
वौघ १, ५, ४८; विघ २३, ४८,
वैघ ३, ४, ६.
कार्य, र्या- र्य: शांश्रौ ११, १२,
१; काश्रौ; -र्यम् शांश्रौ १७,
६, २; आपश्रौ; पा १, ४, २; ५,
१, ९६; पावा १, २, ३२; -र्या
वौश्रौ ६, १-२××; वैश्रौ; जैश्रौका
२१०; -र्या: वौश्रौ २४, २५:
६××; वैश्रौ; -र्या: आपश्रौ १६,
८, ६; वैश्रौ १८, ५: १७; -र्याणाम्
अप ५१, ५, १; -र्याणि आपगृ
१, २; अप्राय; -र्यान् ऋप्रा १३,
१४; -र्ये आपश्रौ १०, २१,
१६; वौश्रौ; पावा १, १, ४४

-येषु अय ३०^०, २, ११; विध
५७, १४; कौशि ६८; -यौं निम्
५, ८ : २४; कागुड ४२ : १.
कार्य-र्थम् पात्रवा ५, १५.
कार्य-कृतत्व-त्वात् पावा ६,
१, १०६; ४, १०४.
कार्य-ग्रहण-णम् पावा ५, १,
९६.
कार्य-ज्ञ-ज्ञः शंय २७०.
कार्य-त्व-त्वात् काश्रौ १, ६,
१९; मीस् १०, २, ६७; ४, ४६;
११, १, २१.
कार्य-निरोध-धात् गौध १४,
४३.
कार्य-निष्पत्ति-त्तिः आज्यो
७, ११.
कार्य-वत्-वान् कप्र २, १८, १.
कार्य-वद्-धात् विध ८, ११.
कार्य-विनाश (न>) नी-नी
आज्यो ५, १३.
कार्य-विपरिणाम-मात् पावा
१, १, ५६.
कार्य-विपर्यास-सः वौश्रौ
२८, १० : १०; -से वौश्रौ २८,
१० : ८.
कार्य-शब्द-(> ष्दिक्-पा.)
पात्राग ४, ४, १.
कार्य-संप्रत्यय-यात् पावा १,
२, ६९; ३, १, १.
कार्य-सव्य^०-पा, पाग २, १,
४०.
कार्य-सिद्धि-द्धिम् अय ६८,
५, ३१२.
कार्या(र्थ-अ)कार्य-ये कौगु ३,
१२, ८.
कार्या(र्थ-अ) तिदेश-धाः

पावा ७, १, ९०; -शात् पावा
१, २, १.
कार्या(र्थ-अ)भाव-वस्य पावा
२, ४, ४९; ७, १, १.
कार्या(र्थ-अ)र्थ-र्थः पावा १,
३, ९.
कार्या(र्थ-अ)र्थिन्-र्थिभिः
विध ३, ७४.
कार्यै(ये-ए)कत्व-त्वात् मीस्
१०, ३, ५७.
कार्यिन्-र्षी पावा ६, ३, २५.
कुर्वत्-र्वतः काश्रौ २१, ३, १४;
आपश्रौ; पावा ३, १, २६; -र्वति
आपश्रौ ९, १८, ९^३; काश्रौसं
२२, ५; -र्वते वाध १, ३१; -र्वत्सु
जैश्रौका ४६; -र्वन् काश्रौ ६, ६,
२१; आपश्रौ; -र्वन्तः शाश्रौ २,
२, १६; वौश्रौ १४, ६; २१; हिश्रौ
९, ४, ५२; द्राश्रौ; -र्वन्तम् जैगु
१, २ : २०; अश्र ९, ५; अयं
१ : २१; ३ : ७०.
कुर्वती-ती कौस् ७७, २३;
या ११, ४०; -तीम् विध १,
२९.
कुर्वाण, णा-णः आपश्रौ ५, १,
७^१××; वैश्रौ; -णा वौगु २, ६,
९^१; -णाः शाश्रौ १३, १९, ५;
हिश्रौ ९, ४, २८; या ४, १९;
-णाम् विध १, २७; २८; -णे
माश्रौ ५, २, १५, ९; या २, २०;
-णेषु शाश्रौ १३, ५, १९; २०;
-णौ वाधुश्रौ ४, ३० : १२.
कृणु-पाडमो २, १, ७४.
कृण्वत्-ण्वन् आश्रौ ३, १०,
६; शाश्रौ; आपश्रौ ७, ६, ७^१०;
-ण्वन्तः आपश्रौ १, ६, ७; माश्रौ;

-ण्वन्तम् आपश्रौ ७, १६, ६;
माश्रौ.
कृण्वती-ती आश्रौ ३, ११,
२; शाश्रौ.
कृण्वान, ना-नः^d काश्रौ १०, ५,
३; आपश्रौ ××११, १२, ३; हिश्रौ
७, ६, १८××; कौस्; -ण्वाने
माश्रौ ५, २, ८, २०; आपमं २,
२०, ३१^०.
कृत्-कृत् पा १, १, ३९××; ६, १,
१८२; कृतः या १, १४; २, २;
पावा; कृतम् कौगु १, १६, १२;
शांश्र १, २४, ४; पागु १, १७, २;
वैगु; कृता पा २, १, ३२××; पावा;
कृति पा २, ३, ६५××; पावा.
कृत्-तद्वित्त-समास-साः पा
१, २, ४६.
कृत्-त्व-त्वात् पावा २, ४,
८१; ३, २, १२४.
कृत्-प्रयोग-नो पावा २, ३, २२.
कृत्-संज्ञा-ज्ञा पावा ३, १,
९१.
कृत्-स्थ-स्थस्य पावा ८, ४,
२९; ३२.
कृत्-स्वर-रः, -रात् पावा ६, २,
५२.
कृत्स्वर-निवृत्त्य (त्ति-अ)र्थ-
र्थम् पावा ६, ३, ९४.
कृत्स्वरा(र-आ)वाधक-त्व-
त्वस्य पावा ६, २, ५२.
कृद्-अन्त-न्तस्य पावा ५,
१, १३; -न्तात् अप्रा ३, २, ४;
पावा ४, १, ४८; -न्ते अप्रा १,
१, १०; २, ३, ८.
कृदन्त-प्रकृतिस्वर-त्व-
त्वम् पावा ६, १, ८४; -त्वात्

a) ष्यवि इति जीसं. । b) तु. पागम. । c) पामे. वैप २, ३खं. कृण्वन् तैत्रा २, ५, ८, १२ टि. द्र. ।
d) पामे. वैप १, ११५५ d द्र. । e) पामे. वैप १, ११११ e द्र. । f) =प्रत्यय-संज्ञा, तदन्त- ।

पावा २,४,८१.
 कृदन्त-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थे-
 र्थम् पावा ६,१,३२.
 कृदन्त-प्रातिपदिकत्व- -त्वे
 पावा ६,१,८४.
 कृदन्त-शब्दा(व्द-अ)भि-
 हित- -तः वृद्धे १,४५.
 कृद्-अर्था(र्थ-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
 पावा ३,२,६०.
 कृद्-आख्यात- -तयोः शुभ्रा
 ६,४.
 कृद्-इकार- -रात् पावा ४, १,
 ४५.
 कृद्-उपदेश- -शे पावा ६, २,
 ५०.
 कृद्-ग्रहण- -णम् पावा ६, २,
 १३९; -णे पावा १,४,१३.
 कृद्ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा २, ३,६५; ६, २,
 ५०; १३९.
 कृद्-यो(ग>)गा- -गा पा २,
 २, ८.
 कृन्-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थे- -र्थम्
 पावा १,२,४८; ७,४,१३.
 कृल्-लोप- -वे शुभ्रा ५, ३०;
 पावा १,४,१.
 १कृत,ता- पाग १,४, ५७^०; २,१,
 ५९; -तः आश्रौ १, ११,
 १३^०; आश्रौ ३, १९, ३^०;
 वौश्रौ; ऋश्रौ ५, १३^०; ९७,
 ४^०; या ६,१८^०; ८, १८; १२,
 १८^०; -तम् ऋश्रौ २, २, ३;
 ३, ९, ४^०××; आश्रौ; आपश्रौ १४,
 ३०, ३^०; १२, ७, ३^०; हिश्रौ
 १५, ७, २०^०; २३, १, २६^०;

या १,५; ५, २२^०; -तम्ऽ-तम्
 वौश्रौ २, ९, २५; -तयोः निस् ४,
 ६; १६; ५, १२×५; -तस्य शाश्रौ
 ३, २०, १७; गोगु; -ता
 आश्रौ ६, १४, १०; आपश्रौ;
 -ताः लाश्रौ ९, ५, १२××; सु;
 -तात् माश्रौ २, ५, ५, २०; विष
 १८, १२; -तान् वौश्रौ ३, ३० :
 १२^०; वैश्रौ; -तानाम् निस् ३,
 १:१५; वौध १, १, ३२; -तानि
 आश्रौ ६, ४, १०^०; ऋश्रौ;
 -ताम् माश्रौ ४, ७, २; वैश्रौ;
 पावा ३, २, १; -ऋताय काश्रौ
 २, २, २१; माश्रौ ३, १८, १०;
 वाश्रौ १, १, ४, २१; अय ४३, ५,
 ५०; -तायाम् आपश्रौ १०,
 २१; ६; आश्रित ३, १०, २ : १;
 माय २, १, ७; -तासु आपश्रौ
 १६, १३, २; वैश्रौ १८, ११ :
 १९; हिश्रौ ११, ५, १३; -ते
 आपश्रौ १३, १, १६××; वाश्रौ;
 पा, पावा ४, ३, ८७; ११६;
 -तेऽ-ते जैश्रौका ७०; ११७; -तेन
 आपश्रौ ८, ३, ११; वौश्रौ; -तेषु
 वैश्र ७, ८ : १२; पा ८, ३, ५०;
 -तैः कप्र ३, ३, १०; -तौ निस्
 ६, १३ : ३५; अप १, ४१, ७^०.
 १कृत-क,का- पाग ५, १, १३०^०;
 -कम् मीस् २, ४, १२; -काम्
 वैध ३, १४, ३; -केषु शंघ
 ३६७.
 कार्तक- पा ५, १, १३०.
 कृत-काल^१- -लानाम् मीस् ५,
 १, २५.
 कृतकाल-त्व- -त्वात् मीस्

१०, ६, २८; ३०.
 कृत-काष्ट-> ष्टा(ष्ट-अ)स्म-
 कौलाल-चर्म-वेत्रदल-भाण्ड-
 -ण्डेषु शंघ ३२४.
 कृत-कौतुकमङ्गल->ला^१-
 -ला काघ २८० : २.
 कृत-गोदान^१- -नः भाग १,
 १० : १३.
 कृत-घ्न- -घ्नः शंघ ४०३; ४०४;
 ४३४; विष ५४, १५; -घ्नम्
 विष ५४, ३२.
 कृत-चक्र-धारिन्- -री काण्ड
 ४६ : १६.
 कृत-चू(डा>)ड^१- -डे विष
 २२, ३०^०.
 कृतचूड-क- -के शंघ ३६०^०.
 कृत-चौड^१- -डः वैश्र ५, ९ : १;
 -डम् वैश्र ७, २ : ४; -डस्य
 वैश्र ५, ९ : ११; -डौ वैश्र ७,
 २ : ६.
 कृत-ज(दा>)ड^१- -डस्य गौघ
 १४, ३२.
 कृत-जप्य^१- -प्यः शंघ ११६:१.
 कृत-जातिभ्रंश-कर^१- -राणाम्
 विष ४४, ६.
 कृत-जातिभ्रंश-करण- -णाः
 विष ४३, २८.
 कृत-ज्ञ- -ज्ञः आज्यो १३, ९;
 -ज्ञाः अप ६८, १, २३.
 ऋकृत-ज्य^१- -ज्याय-वौश्र ३, ९,
 ५; आश्रित १, २, २ : २१; भाय
 ३, १० : ६; हिग २, १९, ६.
 कृत-न्त्र^१- -न्त्रम् निस् ९,
 २ : ४.
 कृत-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ७,

a) तु. पागम. । b) पाभे. वैप १, ११५६ i द्र. । c) पाभे. वैप १, ११५६ ० द्र. । d) पाभे. वैप.
 १, ११५६ i द्र. । e) अर्थः ? । f) विप. । वस. । g) परस्परं पाभे. । h) विप. । वस. > पस. उप. भाप.
 = करण। i) व्यप. । उत. खजन्तम् ।

८xx; पावा १, १, ३६; ४, ७४;
२, १, ५१; ३, १, १३१; ४, ३, ३९;
५, १, १२; ९६; ६, ३, ७८; ४,
१३२; १७४; ७, ३, १५.

कृत-द्व- -रम् या ३, २०.

कृत-दा(रा>)र- -रः कष ३,
१, ५.

कृत-दू(प>) पा- -पा मीस्
१२, १, ९.

कृत-देश- -शाव् मीस् ५, २,
२१.

कृतदेश-त्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, ७०; ६, १३.

कृत-धूर्ति- -र्तिः चाञ्च १६:६.

कृत-नापित-कृत्य- -त्यम् जैगृ
१, १२: ४.

कृत-नामन्- -मा आमिगृ २,
७, ११: १२.

कृत-नियम-यन्त्र- -न्त्रः

आमिगृ २, ७, ५: ३.

कृत-निर्णेजन- -नान् विध ५४,
३१.

कृत-निर्देश- -शौ पावा ४, ३,
६६.

कृत-प(त्>)च्-ञौच- -चान्
आगृ ४, ७, २.

कृत-परिमाण- -त्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, ३०.

कृत-पातक->°किन्- -किनः
विध ४३, ३२.

कृत-पाप- -पानाम् काध
२८०: ९.

कृत-पुण्य- -ण्यस्य अप २४,
४, २.

कृत-पुण्याह->°हि(न्>)नी-
नीम् आमिगृ १, ६, १: ११.

कृत-पुष्पोपहार- -राणि अप
६८, १, ३५.

कृत-प्रमाण- -णाः निस् १०,
७: ११.

कृत-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १, ३, ९.

कृत-प्रस्थान-लिङ्ग- -ङ्गः
आमिगृ २, ७, १०: ४; शंघ १५८.

कृत-प्राणायाम- -मः वैध २,
१३, ४.

कृत-प्रातराश- -शस्य कौगृ २,
७, १८; शांगृ २, १२, १.

कृत-प्रायश्चित्त- -त्तः आपध १,
२७, ९.

कृत-भूमि- -मौ आपध १, १७,
८; हिघ १, ५, ४०.

कृत-मङ्गल, ला- -लः आमिगृ
२, ४, ५: १३; -लम् कौगृ १,
८, १; शांगृ १, १२, १; -लाः
कांगृ १७, २१.

कृत-मङ्गल-विरचितोष्णी-
पिन्- -पी अप ८, १, ३.

कृत-मङ्गलस्वस्थयन- -नः
आमिगृ १, ६, १: ८.

कृत-मलापकर्ष- -र्षः विध ६४,
१८.

कृत-मलिनी-करण- -णाः विध
४३, ३०.

कृत-मलिनी-करण-कर्मन्-
र्मणाम् विध ४४, ९.

कृत-यजुस्- -जुः वौश्रौ ३,
१: १.

कृत-यशस्- -शाः ऋअ २,
९, १०८; साञ्च १, ५८२.

कार्तयश- -शम् लुस् ३,
९: ५; लाश्रौ ७, ३, ११; -शे
लाश्रौ ७, १०, १३.

कृत-याग- -गः अप १९,
५, ९.
कृत-यान- -नः या ५, १५.
कृत-याम- -मम् कौस् ७६,
६१.
कृत-र(क्षा>)क्ष- -क्षः अप
१९, ५, ९.
कृत-रौद्रश(व्दा>)व्दा- -व्दाः
अप ७०, ११, २०.
कृत-लक्षण- -णाः लाश्रौ ९,
११, १४; -णान् कागृ १४, ६;
गोगृ २, १, ५.
कृतलक्षण-ग्रहण- -णान्
मीस् ८, ३, ९.
कृत-लब्ध-क्रीत-कुशल- -लाः
पा ४, ३, ३८.
?कृत-वत् निस् ९, १३: २२.
कृत-व(त्>)वी- -व्यः निस्
२, ११: १४.
?कृतवन्मन्त्र- -न्त्रान् भागृ
१, ४: ३.
कृत-चापन- -नः शंघ ३९०
विध ४६, २४; ५०, १६.
कृत-विघटन-हेमपञ्च-किञ्जल्क-
चूर्ण-निकरा(र-अ)रुणता(ता-
अ)मलां (ल-अं)शु- -शुः
अप २४, ५, ४.
कृत-वीर- (>कार्तवीर्य- पा.)
पाग ४, १, १०५.
कृत-वीरासन- -नः अप ४१,
३, ८.
कृत-वैश्वदेव- -वः वैध २, ३,
१८.
?कृत-व्यध(न>)नी- -नि
कौस् ३९, ११.
कृत-शपथ- -थान् विध ८, १९.

कृत-याग- -गः अप १९,
५, ९.

कृत-यान- -नः या ५, १५.

कृत-याम- -मम् कौस् ७६,
६१.

कृत-र(क्षा>)क्ष- -क्षः अप
१९, ५, ९.

कृत-रौद्रश(व्दा>)व्दा- -व्दाः
अप ७०, ११, २०.

कृत-लक्षण- -णाः लाश्रौ ९,
११, १४; -णान् कागृ १४, ६;
गोगृ २, १, ५.

कृतलक्षण-ग्रहण- -णान्
मीस् ८, ३, ९.

कृत-लब्ध-क्रीत-कुशल- -लाः
पा ४, ३, ३८.

?कृत-वत् निस् ९, १३: २२.

कृत-व(त्>)वी- -व्यः निस्
२, ११: १४.

?कृतवन्मन्त्र- -न्त्रान् भागृ
१, ४: ३.

कृत-चापन- -नः शंघ ३९०
विध ४६, २४; ५०, १६.

कृत-विघटन-हेमपञ्च-किञ्जल्क-
चूर्ण-निकरा(र-अ)रुणता(ता-
अ)मलां (ल-अं)शु- -शुः
अप २४, ५, ४.

कृत-वीर- (>कार्तवीर्य- पा.)
पाग ४, १, १०५.

कृत-वीरासन- -नः अप ४१,
३, ८.

कृत-वैश्वदेव- -वः वैध २, ३,
१८.

?कृत-व्यध(न>)नी- -नि
कौस् ३९, ११.

कृत-शपथ- -थान् विध ८, १९.

a) विप. । वस. ।

b) व्यप. । व्यु. ? ।

c) विप. । वस. > पस. ।

d) = ऋपि-विशेष- ।

e) = साम-विशेष- । f) पाठः ? । कृतवच्, मन्त्रान् इति संस्कृतः पदसूची । g) तु. पागम. । h) वैप १ द्र. ।

कृत-शान्ति^१- न्तयः शांत् ६,
२, १०.

२कृत-शौच, चा^१- -चः आग्निगृ
२, ४, ५ : ३; -चा शंघ ३३५;
-चानाम् विध २३, ३४.

कृतशौचा(च-अ)वशि(ष्ट>)

ष्टा- -ष्टा वाध ६, १७.

कृत-श्मश्रुकर्मन्^१- -र्माणः विध
१९, १८.

कृत-संयुक्त- -क्तान् शंघ
२०९.

कृत-संहि(ता >)त- -तानाम्
ऋषा ६, १७.

कृत-संकरी-करण- -णाः विध
४३, २७.

कृत-संकरी-करण-कर्मन्-
-र्मणाम् विध ४४, ७.

कृत-सं(ख्या>)ख्य^१- -ख्येषु
वाश्रौ १, १, १, ८०.

कृत-सं(ज्ञा>)ज्ञ^१- -ज्ञाः वैताश्रौ
३३, २५.

कृत-संध्योपासन^१- -नः विध
२८, १४.

कृत-सुकृत-हानि^१- -निः विध
८, २६.

कृत-स्नान^१- -नः वैध २, १,
४.

कृत-स्वर^१- -रम् लाश्रौ ७, ११,
१९.

कृत-स्वस्ययन^१- -नः अप ४, २,
१३; १९^२, ५, १; -नम् आग्निगृ
२, २, ३ : २; -नस्य अप ४,
१, १.

कृता(त-अ)कृत, ता- -तः
आपश्रौ १, ९, ३; १३, १, १५;

माश्रौ २, ५, १, ४८; हिश्रौ २,
७, २९; ८, ६, १५; ९, ४, २१; निस्
२, १२-१४; १३:१७; ३, १३:५;
४, ७ : ३; ९, ५ : ३७; आग्निगृ
३, १, ३ : ८; हिगृ २, १२, ३;
-तम् आश्रौ ३, ६, २३; हिश्रौ
६, ६, २०; आगृ १, ३, ४; २२,
२५; कप्र ३, ५, २; ३; आपघ
२, १८, १८; हिघ २, ५, ७१;
-तस्य वृदे २, ९७; -ता आश्रौ
२, १७, १७; -ताः आपश्रौ ५,
२७, ७; हिश्रौ ३, ६, ९; ९, ६,
७; -तात् माश्रौ २, ५, ५, २०;
-तौ आश्रौ ३, १, १२; माश्रौ
१, ८, ४, ३०; हिश्रौ ४, ४,
३६.

कृताकृत-कर्मन्- -र्मणाम्
माश्रौ १०, १, ८.

कृता(त-अ)कृति- -तिः निस्
४, ६ : १६.

कृता(त-आ)गन- -मः निस् ७,
३ : ३५.

कृता(त-आ)गस^१- -गसः वौश्रौ
१७, ४६ : १.

कृता(त-अ)धिकार्य^१- -र्यः
आग्निगृ ३, ४, १० : २.

कृता(त-अ)ङ्क^१- -ङ्कः विध ५,
२०; -ङ्कम् विध ५, ३.

कृता(त-आ)चमन^१- -नः
आग्निगृ २, ४, ५ : ३.

कृता(त-अ)ञ्जलि^१- -लिः वैगृ
५, ५ : २; -२८; कप्र २, १, १२;
वृदे ५, ७६.

कृता(त-अ)ञ्जलिपुट- -टः कप्र
२, ४, ९; -टम् आग्निगृ ३, १२,

१ : २६.

कृता(त-अ)नुकर- -रः काश्रौ
५, ४, ३२.

कृता(त-अ)कार- -रः वौश्रौ
२५, २ : १२; १३.

कृता(त-आ)धा(न>)ना^१-
-ना कागृ ३९ : १.

कृता(त-अ)नुज्ञात^१- -तस्य
आगृ ३, ९, ४.

कृता(त-आ)नुपूर्व्य-त्व-
-त्वात् मौस् ५, २, २; ३, ३.

कृता(त-अ)नुबन्ध-त्व- -त्वात्
मौस् २, २, १^१.

१कृता(त-अ)न्त^१- -न्तात्
आपश्रौ १४, २५, २; १५, २,
१३; वौश्रौ २०, २ : १०; २५,
१६ : ११; भाश्रौ ११, २, २१;

वैश्रौ २१, १० : ५; हिश्रौ १५,
६, २; २२; २४, १, १४; अप्राय
६, ४१^१; वौश्रु ५ : ६; -न्तान्
काश्रौसं ३३ : १६१; -न्तेन वौगृ
४, १, ४.

२कृता(त-अ)न्त^१- -न्तम् वैगृ
१, १९ : ६; -न्तान्य अप २६,
९, ५; ४३, ५, ५१; -न्ते नाशि
१, १, २; -न्तेन अप ५८,
१, २.

३कृतान्त^१- (> कारान्तिक-
पा.) पाग ४, २, ६०.

कृता(त-अ)ञ्ज^१- -ञ्जम् आपश्रौ
२०, ५, १७; २२, ७, २३; १७,
२१; हिश्रौ १७, ३, २२; ६,
४०; लाश्रौ ८, ८, ४२; अप २६,
५, ८; वाध २, २६; आपघ १,
१७, १७; वौध २, ३, २०; विध

a) विप. । वस. । b) चन्धि इति कासं. । c) = कर्मान्त- । d) कृतान्त्वात् इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. आपश्रौ १४, २५, २) । e) = यम-, दैव-, सिद्धान्त- प्रभृ. । f) तु. पागम. । = मुहूर्त-शान्त- ।

g) = पञ्जान- ।

१८, ४४; ४४, ३३; हिध १,
५, ४९; गौध ५, २३; -न्नस्य
आपध १, १८, ४; हिध १, ५,
७४.

कृतान्न-दक्षिण^१ -णः काश्रौ
२२, ६, १.

कृता(त-अ)पकृता(त-आ)दि-
-दीनाम् पावा २, १, ६०.

कृता(त-अ)पसव्य^२ -व्यः शंघ
११६ : ७०.

कृता(त-अ)पात्री-करण- -णाः
विध ४३, २९.

कृता(त-अ)पात्रीकरण-कर्मन्-
-मैणाम् विध ४४, ८.

कृता(त-अ)भाव- -वः पावा
२, ४, ८१.

कृता(त-अ)भिषेक^३ -कः अय-
१९, ५, ९.

कृता(त-अ)व्य^४ -व्याः कौगृ
३, १०, ३३; शांगृ २, १५, १०;
पागृ १, ३, ३१.

कृता(त-अ)र्थ- -र्यान् गोगृ ३,
९, ५.

कृतार्थ-स्व- -स्वात् आश्रौ
५, ६, २४; मीसू ४, २, १६; २०;
२७; ११, १, ११; २२; १९; ४,
४४.

कृता(त-आ)लय^५ -यानि विध
९८, २.

कृता(त-आ)वसथ^६ -थः आपध
२, ८, १; हिध २, १, १०२.

कृता(त-अ)शेर-कतु-वर-
-न्म् जैश्रौका ४.

कृता(त-आ)हिक^७ -कः अय-
१९, ५, ९.

√कृति पा ३, १, २१.

कृतिन्- -ती आपमं १, १६,
४^b.

कृतो(त-उ)स्थान^१ -नः अय
४१, ३, ८.

कृतो(त-उ)दृक^२ -कम् जैगृ २,
५ : ९; -काः पागृ ३, १०, ४४;
कप्र ३, ३, ३.

कृतो(त-उ)पकार^३ -रात् विध
५८, १०.

कृतो(त-उ)पचार^४ -रः अय
६९, २, ४.

कृतो(त-उ)पवास^५ -सः
आमिगृ २, ७, ५:३.

कृतो(त-उ)पवीत- > कृतिन्-
-ती जैगृ ३, ७ : १५.

रकृत^६ -तम् शांश्रौ १५, १९, १;
आपश्रौ ५, २०, १; वौश्रौ १२,
१५ : २०; भाश्रौ ५, १२, ७;

वाधूश्रौ ४, ५९ : ३; वाश्रौ १,
४, ४, १४; ३, ३, ३, २७; वैश्रौ
१, १५ : २; हिश्रौ ३, ५, ७; ६,
५, १७.

कृत-च्छन्दस्- -न्दांसि निसू
१, ५ : ७; ८.

कृत-युग- -गम् विध २०, ९.

कृत-स्तोम- -माः निसू १, ९ :
१०; २१-२३.

कृत-संपन्न- -न्नान् कौसू १७,
१७.

कृता(त-आ)दि- -द्वयः वाधूश्रौ
४, ५९^३ : ४; -दि काश्रौ १५,
७, १८.

रकृत^७ > कार्त- > कार्त-कौजप-
पा, पाग ६, २, ३७.

कार्ति- पावा ८, २, ४२.

कृतवत्- -वान् अय ३१, २, ३;
वृदे ४, ५९; ६, ४१; ७, ५८;
८, १८; या ५, २२.

कृति- पा ३, ३, १००; -तिः वृदे
२, ६; ३, ३०.

रकृति^८ -तयः अय २०, ६७;
-तिः निसू १, ५ : ९; ऋय १,
६, ३; २, १, १२०; शुय २, ८१;
४, १८४; ५, ३४; अय ४, ३४;
१२-१३, ३^३; १७, १; ऋप्रा १६,
३८; ८९; ९२; उनिसू २ : १८;
पि ४, ३; -तिम् शुअ ३, १०;
-ती अय १०, ५.

कृति-धृति-पथ्या-पङ्क्त्या(हित-
आ)दि- -दि अय ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) मिकृत्यु
(ति-उ)कृति- -तयः शुय
५, २.

रकृति^९ -तिः अय १, ४.

कृतु- > कृत्विय^{१०} -यः^{११} वौश्रौ
२८, १ : २१; २:२६; वैश्रौ २०,
३३ : ११.

कृतु^{१२} - पाउना ३, ३०; -कृतुः
आश्रौ २, १८, १५; वौश्रौ १८,
३१ : ५; ऋय २, ८; ७९^३४;
वृदे ६, ९७.

कृत्य- पा ३, १, १२०; -त्यम्
वाधूश्रौ २, ११ : २; लाश्रौ १०,
११, १२; गोगृ १, १, २; ३, ७,
२; ४, २, ५; ३, १; द्रागृ १, १,
१७; -त्याः^१ पा ३, १, ९५××;
-त्यानाम्^१ पा २, ३, ७१××;

कृति-धृति-पथ्या-पङ्क्त्या(हित-
आ)दि- -दि अय ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) मिकृत्यु
(ति-उ)कृति- -तयः शुय
५, २.

रकृति^९ -तिः अय १, ४.

कृतु- > कृत्विय^{१०} -यः^{११} वौश्रौ
२८, १ : २१; २:२६; वैश्रौ २०,
३३ : ११.

कृतु^{१२} - पाउना ३, ३०; -कृतुः
आश्रौ २, १८, १५; वौश्रौ १८,
३१ : ५; ऋय २, ८; ७९^३४;
वृदे ६, ९७.

कृत्य- पा ३, १, १२०; -त्यम्
वाधूश्रौ २, ११ : २; लाश्रौ १०,
११, १२; गोगृ १, १, २; ३, ७,
२; ४, २, ५; ३, १; द्रागृ १, १,
१७; -त्याः^१ पा ३, १, ९५××;
-त्यानाम्^१ पा २, ३, ७१××;

कृति-धृति-पथ्या-पङ्क्त्या(हित-
आ)दि- -दि अय ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) मिकृत्यु
(ति-उ)कृति- -तयः शुय
५, २.

a) विप. । वस. । b) सपा. ऋ १०, १५९, ४ कृत्वी इति पाप्मे. । c) =यूत-पाश- युग-, छन्दस्-,

स्तोम- प्रमृ. । d) व्यप. । वृ. ? । e) =छन्दो-विशेष- । f) =ऋषि-विशेष- । वृ. ? । g) वैप १ ३६ ।

h) पाप्मे. वैप १, ११५८ g द. । i) विप., व्यप. (ऋषि-विशेष-). । j) =प्रत्यय-संज्ञा- ।

बौधो; -याणाम् बौध ३, १३,
१; मीस् ६, ३, ११; ११, १, २७;
-याभिः या ६, ३२; -याभ्यः
बौध १, २, ५७; -याम् आश्रौ
५, १३, १०; जैश्रौका ११५;
निस् ४, ११ : २४; काण्ड ४३:
९; ४५ : ९; बौध ४, ८, १; २;
-यायाः वैगृ १, १६; १; पा, पावा
३, २, १२६; पावा ८, १, ६९;
मीस् ७, २, २; ३; -यायाम् आश्रौ
७, ५, ५; ऋत् ३, ५, ४; पा ३, ३,
१०; पावा ३, ३, १३; मीस् ४,
१, ३; -यासु कप्र १, ८, २०;
अप ३७, १२, १; शंघ २६१;
वृदे १, ४४.
क्रिया-काल-विरुद्ध- -द्वेषु वैगृ
४, १४ : १५.
क्रिया-कुत्सन^a - -ने पावा ८, १,
६९.
क्रिया-गणन- -ने पा ६, २,
१६२.
क्रिया-गुण-त्व- -त्वात् आश्रौ
२, ६, १७; काश्रौ २५, ११, ७.
क्रिया(या-अ)ङ्ग^b - -ङ्गम् शंघ
१००^c.
क्रिया(या-अ)तिपत्ति- -त्तौ पा
३, ३, १३९.
क्रिया-निमित्त-त्व- -त्वात् मीस्
६, २, १४.
क्रिया(या-अ)न्त- -न्ते वैगृ १,
२१ : १२.
१ क्रिया(या-अ)न्तर^c - -रम् मीस्
१०, ३, १८.
२ क्रिया(या-अ)न्तर^d - -रे पा ३,
४, ५७.
क्रिया-पूर्व- -वान् आश्रिगृ ३,

११, १ : ११.
क्रिया-पृथक्त्व- -त्वे पावा १,
४, १०८.
क्रिया-प्रतिषेध- -धः पावा २,
२, १९.
क्रिया-प्रधानत्व- -त्वात् पावा ३,
४, २१; ५, २, ६६; ६७.
क्रिया-प्रबन्ध-सामीप्य- -प्ययोः
पा ३, ३, १३५.
क्रिया-प्रबन्धा(न्व-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, ३, १३६.
क्रिया-प्रथ- -श्ले पा ८, १, ४४.
क्रिया-प्राधान्य- -न्यम् शंघ ६८.
क्रिया-फल- -ले पा १, २, ७२.
क्रिया(या-अ)भिधान- -नम्
मीस् ७, ३, १; ४; -नात् पावा
२, २, २७.
क्रिया(या-अ)भिनिर्वृत्ति-वश-
-शेन वृदे १, ४४.
क्रियाभिनिर्वृत्तिवशो(श-उ)
पजात- -तः वृदे १, ४५.
क्रिया(या-अ)भिलुप्त- -सः वैगृ
३, १३, १.
क्रिया-भेद- -दात् पावा १, ४,
२३.
क्रिया(या-अ)भ्यावृत्ति-गणन-
-ने पा ५, ४, १७.
क्रिया-मय- -यम् वैगृ ३, १३; ९.
क्रिया-युक्त- -क्तम् वैगृ ३,
२१ : ८.
१ क्रिया-योग- -ने पा १, ४,
५९; पावा १, १, १४; ४, ६०;
-णेन वृदे २, ९४.
२ क्रिया-योग^e - -गान् वृदे २,
९५.
क्रिया(या-आ)रम्भ- -म्भः विध

३७, २७; -म्मे बौध २, ३, ५७.
क्रिया(या-अ)र्थ, र्था- -र्थानाम्
मीस् ४, ३, ७; -र्थायाम् पा ३,
३, १०; -र्थेन मीस् १, १, २५.
क्रियार्थ-त्व- -त्वात् मीस् १,
२, १; ३, ३३; ९, ४, २८; ११, १,
३३; ३५.
क्रियार्थो(र्थ-उ)पपद- -द्वय
पा २, ३, १४; पावा ३, ३, १०.
क्रिया-लोप- -पे वैगृ ६, १ : ५.
क्रिया-वचन- -ने पावा १, ३, १.
क्रिया-वत्- -वन्तम् शांश्र १, २,
६.
क्रिया-वान्य- -न्यम् शंघ ५.
क्रिया-वाचक- -वम् ऋप्रा १२,
२५.
क्रिया-विधि- -धिः कप्र ३, १०,
११.
क्रिया-विशेष- -पे पावा ३, १,
२२.
क्रिया-विशेषक- -कः पावा १,
३, १.
क्रिया-न्युपरम- -मः अप ६४,
५, ५.
क्रिया-शब्द- -ब्दः भाशि ३९.
क्रिया-समभिहार- -रे पा ३,
१, २२; ४, २; पावा ३, १, २२^३;
४, २; ८, १, १२.
क्रिया-स्माप्ति- -सिः पावा ३, २,
१२०.
क्रियासमाप्ति-विवक्षितत्व-
-त्वात् पावा ३, ३, १४२.
क्रिया-सातत्य- -त्ये पा ६, १,
१४४; पागवा २, १, ७२.
क्रिया-साधारणत्व- -त्वात् शंघ
२५१.

a) तु. पाका. पासि. । b) = स्नान-विशेषः । c) तस. (पा २, १, ७२) । d) उच. उप. <√अन्तरि
<√अन्तर-। e) विप. । वस. ।

क्रिया-स्नान- नम् शंघ १००^३;
१०३.
क्रिया-हीन- न्ताः अप ४१, ३,
३; -ने वैयु द, ३; १; १२ : ४;
७, ४ : १७.
क्रियो(या-ई)प्सित-त्व- त्वात्
पावा १, ४, ४९.
क्रियो(या-उ)प्सित- -त्तिम् मीस्
२, १, २२.
चक्रवत्- वांसः शाश्रौ ३, १८, ५;
-कृपः भाशि १६.
चक्रत्^१- -कृत् निघ २, ११.
चक्रि- पावा ३, २, १७१.
चकु- पाउभो २, १, २०.
चर्करीत^२- > ष्त-वत् अप्रा ३, २,
१७.
चर्करीत-वृत्त- -त्तम् या २, २८;
६, २२.
चिकीर्षत्- पाग ५, ४, ३८; -र्षत्तः
काश्रौ २५, ८, ६; -र्षतोः वृदे
४, ६८; -र्षन् अप्राश्रौ १०, १३,
९; वैश्रौ.
चैकीर्षत्- पा ५, ४, ३८.
चिकीर्षा- -र्षया मीस् ३, ७, ७;
-र्षा निस् ६, ५ : २३.
चिकीर्षित- पाग ५, ४, ३८^०; -त्तः
वौश्रौ २५, १६ : ११; या ७,
२३; २४; -त्तम् निस् २, ११ :
१६; ६, ४ : ४; ६ : २३; ७ :
४१; ८ : १८; ८, ४ : १८; वृदे
४, ५८; -ताः निस् ६, ९ : ३;
८, ४ : ७; -तानि निस् ८, ३ :
२९; ४ : १२.
चैकीर्षित- पा ५, ४, ३८.

चिकीर्षित-ज- जः या ६, १.
कृक- पाउभो २, २, ५.
कृकण- पाउभो २, २, १२६^०; पाग ४,
३, ७६,
कार्कण- पा ४, ३, ७६.
कृकणीय- पा ४, २, १४५^०.
कृकण्ड^१- (> कार्कण्डेय- पा.) पाग
४, १, १२३.
?कृकद- -दम् वाश्रौ ३, २, ५, ४०.
कृकदावर^२- -रे वाश्रौ ३, २, ५, ३८.
कृकला- (> कार्कलि- पा.) पाग
४, १, ९६^०.
कृकलाश- कृकलास- टि. द.
कृकलास^१- पाग ४, १, १२३^०; ६, ३,
१०८^०; -सः अप ६८, २, ५३;
५, ८; शंघ ३७८; वृदे ६, १०६;
-सम् कौस् ४७, ३९; -साः अप
६७, ७, २.
कार्कलासेय- पा ४, १, १२३.
कृकलास-शिरस्- -रः कौस् ८, १८.
कृकलास-सर्प-नकुल-विडाल-गो (गो-
अ)जा-वध- -धे काध २७२ :
११,
कृकवाकु^१- पाउ १, ६; -कुः अप १,
३४, ३; या १२, १३^०; -कुम्
शाश्रौ १२, २४, ५^०; -कोः या
१२, १३; -कौ अप्रा ३, ४, १^०.
कृक(प>)गा^२- -पायाः पाग १, १९,
१०.
कृकसा^३- (> कार्कसेय- पा.)
पाग ४, १, १२३.
कृकाट^१- -टम् अप्रा ३, ४, १^०.
कृकिलास- कृकलास- टि. द.
?कृकण्डम्पात् अप ४८, ९^०.

कृच्छ्र, कृच्छ्रा^१- पाउभो २, ३, २८;
पाग ३, १, १८; ५, २, १३१; ६,
२, १७०; -च्छ्रः श्रुवाध २१,
१६; २०; २४, २; ३; शंघ
४३२; ४४८; वौष १, ५,
१३८; २, १, ६०; ६४; ६५;
२, ४९; ४, ५, ६; ७; १३;
१५; गौष २३, २; -च्छ्रम्
आश्रिय २, ४, ४ : ७; ३, १२,
१ : ११; १२; काग ७, ३; वैयु
२, ८ : ८; ३, ६ : ४; ६, १३ :
१; अप ४८, ६५^०; ६९, ८, ३;
७०, २, ३; वाध १९, ४२; २०,
६; ७; ९; १२; २१, १३; १८;
२४; २५; २७; २९; ३२; २३,
११; १९; २७, २०; ३०, ८;
शंघ ४११; ४१५; ४३०; ४३९;
आपध १, १३, १०; वौष २, १,
७^२; वौष ४, ५, ११; १६; विध
३८, ७; ५२, ५; ५४, ३०; वैध
२, १, २; हिध १, ४, २४; ६, ७७;
७, ५; काध २७१ : ६; २७२ :
९; सुध ५३; ६२; वृदे ६,
१४०; या २, ८; शैशि ६९^०;
-च्छ्रा आपध २, २९, १३;
-च्छ्राणाम् वाध २४, ४; -च्छ्राणि
शंघ ४१४; विध ४६, १; २४;
-च्छ्रात् कप्र २, १, १३; -च्छ्रान्
कप्र २, १०, ११; वाध २३,
१०; वौष २, १, २२; विध
५४, २६; गौष २६, १; २३;
काध २७५ : ६; -च्छ्राम् वौष
३, ३, २१; -च्छ्रे वौष २, १,
६८; गौष २७, २; -च्छ्रेग

a) = कर्म-नामन्- । b) = यद्गुणन्त- इति कैयटः (तु. पाग ६, १, ६) । c) तु. पागम. ।
d) = मुनि- । e) भारद्वाजदेश-वाचिनश् छः प्र. । f) सकण्ड- इति [पक्षे] पाका., सकण्डु- इति भारद्वा.
प्रमृ. । ध्वप. । व्यु. ? । g) विप. (चर्मन्-). । व्यु. ? । h) ध्वप. । व्यु. ? । i) वैप १ द. । j) पक्षे प्लाश-
पकिलास- इत्यपि । k) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । l) नाप. । वैप १ द. ।

आज्यो ५, ११; -च्छ्रैः शब्ध
१५२ : १३; ४४३; विध ५४,
२५.
कृच्छ्र-नाहन- -नयोः पा ७, २, २२.
कृच्छ्र-त्रय- -यम् सुध ४६; सुधप
८४ : १२.
कृच्छ्र-द्वय- -यम् सुध ५८.
कृच्छ्र-द्वादशरात्र- -त्रम् आपध १,
२७, ६; बौध ३, ७, १०; हिध
१, ७, ३१; -त्रस्य आपध १,
२७, ७; हिध १, ७, ३२; -त्रेण
बौध २, १, २९.
कृच्छ्र-द्वादशरात्रा(त्र-अ)भ्यास-
-सः आपध १, २८, २०; हिध
१, ७, ५६.
कृच्छ्र-पाद- -दः शंघ ३६२; सुध
४५; -दे शंघ ४४६.
कृच्छ्र-भूयस्त्र- -स्त्वम् कप्र २,
१, १३.
कृच्छ्र-विधि- -धिः वाध २३,
४२; -धिम् कागृ ५, १.
कृच्छ्र-संवत्सर- -रः आपध १, २७,
८; हिध १, ७, ३३; -रम्
आपध १, २५, ९.
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्थे-
-थेषु पा ३, २, १२६.
१कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्रः
वाध २४, ३; बौध २, १, ६७;
४, ५, ९; विध ४६, १३; गौध
२६, १९^१; -च्छ्रम् आधिगृ ३,
१२, १ : ९; विध ३९, २; ४१,
५; ५४, ३०.

२कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्रौ
वाध २०, ८; १०; १९; २२,
१६; बौध २, २, ६५; ३, १०,
१८; गौध १९, २०.
कृच्छ्रातिकृच्छ्रा(च्छ्र-अ)दि-
-दीन् बौध २, २, ५१.
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)दि- -दि कप्र ३,
५, ५.
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)पत्ति- -त्तिः या
२, ७.
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)द्व- -द्वः गौध २३,
३३.
कृच्छ्राद्व-पाद- -दम् वाध २०,
१६; बौध २, १, १८; ३८.
√कृच्छ्राय पा ३, १, १८; कृच्छ्रा-
येत आपधौ १०, २६, १६;
हिधौ ७, २, ८०.
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्ध- -र्धे शंघ ४४६.
√कृद् पाधा. तुदा. पर. घनत्वे.
कृडु^१- (> कार्दव- , कृडिमन्- , कृडुत्व-
पा.) पाग ५, १, १२२.
कृणु- √कृ द्र.
√कृण्व^० पाधा. भ्वा. पर. हिंसा-
करणयोः, कृण्वति निघ २,
१९^१^१.
कृण्वत्- , कृण्वान- √कृ द्र.
√कृत्^० पाधा. तुदा. पर. छेदने, कृन्तति
सु ५, ४; अप ४८, १९^१^१; निघ
२, १९^१^१; कृन्तन्ति वाधुश्रौ
४, ५९^१^१; √कृन्तामि बौधौ
१७, ४४ : ५; बौध १, २, ३६;
कृन्तत गोश्र २, ७, २०^१.

कृन्तते या ४, ३; √कृन्त्यताम्
आपधौ ३, १, २; बौधौ १, १७ :
२८; भाश्रौ ३, २, ७; हिधौ २,
३, १.
१कर्त्त^१- -र्तः निघ ३, २३; -र्तम्
बौधौ १८, ४४:४; ९; वाधुश्रौ
२, २० : ४; ४, ९० : ६; अत्र
४, १२^१; -र्तानि आपधौ २१,
१२, ३; हिधौ १६, ४, ३५^१;
-र्ते वाधुश्रौ ४, १८ : ३०; लाश्रौ
८, ८, ३; -र्तेन आपधं २, १७,
३१^१.
कर्त्त-पत्य^१- -त्यम् आपध १, ५, ३;
बौध १, १०, ३८; हिध १, २,
३१^१.
कर्त्तरि, री^१- पाडभो २, १, २३०;
-रिः माशि ९, ६१^१; नाशि १,
६, १११^१; -री वाशि २, ८.
२कृत्क- पाड २, ३७.
कृत्- -त्तम् वृदे ३, २३.
कृत्-दतिन्^१- -ती या ६, ३०.
कृत्-दन्त^०- -न्तम् या ६, ३०.
कृत्-नख^०- -खम् कौश्र ५४, ४.
कृत्ति- √त्तिः अप ४८, ८९^१; निघ ३,
४; ४, २; या ५, २२^१; -त्तिम्
बौधौ १५, २८ : २३; २५; या
५, २२^१.
√कृत्ति-वासस्^०- -ससे गौध
२६, १२; -साः काश्रौ ५, १०,
१९; आपधौ ८, १८, ९; बौधौ
५, १७ : ७; भाश्रौ ८, २२, ५;
हिधौ ५, ५, २; द्राश्रौ १३, ३,

a) तु. जीसं. । b) तु. पागम. । = मन्तु- । व्यु. ? । c) १/२ पा ३, १, ८० परामृष्टः द्र. । d) वधे वृत्तिः ।
e) या १, ९; ३, ११; ५-६, २२; २, ३२ पा ७, १, ५९; २, ५७ परामृष्टः द्र. । f) हिंसायां वृत्तिः । g) वैप १ द्र. ।
h) कर्तामिश्च इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपधौ.) । i) पांमे. पृ २७० f द्र. । j) उप. < √पत् [गर्तौ] ।
k) कर्त्तुप^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध.) । l) नाप. । बरिः प्र. उरसं. (तु. अंशतः पाडभो.; वैतु. अभा.
वैप ३ व.) । m) ०रि इति पाठः ? यनि. शोधः । n) वैप १, १०९५ C द्र. । o) विप. । वस. । p) = रह-
नामन्- । q) = यशस्- , अन्न- प्रभृ. । वैप १ द्र. ।

९; लाश्रौ ५,३,१२; आमिगृ २, ५,३ : १५; वौगृ ३, ७,१४; या ३,२१; ५,२२.
 कृत्य(ति-अ)धि^१, धीवास-स्म
 आपश्रौ ३२, ८,११; १८, १८, ६; २०, १७,८; वाधूश्रौ ३,७६: ३६; हिश्रौ १०,४,१४; १३, ६, १७; -से हिश्रौ १४,३,५६.
 रकृत्या- पाउभो २,३,२.
 कृन्त^२ > कृन्त-विचक्ष(ण) > णा-
 पा, पाग २, १,७२.
 कृन्तत्र^३ - पाठ ३,१०९; -त्रम् या २, २२४; -त्रात् वृदे २, ५९; या २, २२१; -त्रेण निस् ७, ११ : १२.
 √कृत्^४ पावा. रुवा. पर. वेष्टने, कृणात्ति
 वौगृ १, ७, ३२; ऋकृन्तन्
 आपश्रौ १४,१२,४; माश्रौ ५,२, १४,२०; हिश्रौ १०,६,९; दाश्रौ ५, ४,२३; लाश्रौ २, ८, २३१; आपमं २,२,५१; पागृ १,४,१३; आमिगृ; नागृ ५,९^५; या ३,२१.
 ?चक्रनुः^६ कागृ ४१,५१^६.
 ?अकृत्^७ आपमं २,२,३१^७.
 रकर्त्^८ - > कर्त्-संसर्ग- नो मागृ २,१५,६.
 कृन्त(त >)न्ती- न्त्योः कौस् १०७,११.
 कृन्दि > कृन्दि^९ - विचक्ष(ण) > णा^१ - पा, पाग २, १,७२.
 कृत्- १-३कृत- प्रम्., १कृतक-
 √कृद्र.

रकृतक- √कृत्(छेदने) द्र.
 ३कृतक- कानि वा ५,११.
 कृतद्वसु^१ - सू आपमं १, ११, १११.
 ?कृताद्^२ - तात् माश्रौ २, ५, ५, २०१.
 १-३कृति-, कृत्- √कृद्र.
 कृत्- , कृत्ति- √कृत्(छेदने) द्र.
 कृत्तिका^३ - पाठ ३, १४७; पाग ६, २, १९३; फि २०; -का काशु ७, ३५; -काः आपश्रौ १७, ५, ४; ६, ५१; वौश्रौ; अप १,३३, १११^४; -कानाम् आपमं १, ९, ७१; ऋकामिगृ; -कामिः वाधूश्रौ २,१८:२; अय; -ऋकाम्यः वौश्रौ २८, ३ : ११; २०; शांगृ १, २६, १; वैगृ ३, २० : ३; अशां १२,१; -काम् अशां १, १; २; -कासु आश्रौ २, १, १०; आपश्रौ.
 कार्ति(क >)की^५ - की विध ९०,१६; गौघ १६ ३७; -क्याः कौस् ७५,२; -क्याम् शाश्रौ ३, १५,१; काश्रौ ५, ६,१; काश्रौसं २८ : २१; वाधूश्रौ ३, ६९ : १०; वैश्रौ ९, १ : १; हिश्रौ ५, ३, १; ४४; वैताश्रौ ९, १; कौगृ ३, ६,२; शांगृ ३, ११, २; पागृ ३, ९,३; आमिगृ १, ७, ४ : २; कागृ ५९, २; नागृ २, ७, ९; हिपि १७ : ५-७; गोगृ ३, ३, २२; अप १८^६, ९, १; १८^७, १,

२; ५०,९,५; विध ८६,२; वैघ १,७,६.
 कार्तिक^८ - पा ४, २, २३; -कः विध ८९, १; -कम् विध ७८, ५३; ८९, ३; ४; -के वाधूश्रौ ४, ४० : १; लाश्रौ ९, १२; १३; अप ५५, २, १.
 कार्तिकिक- पा ४,२,२३.
 कार्तिकेय^९ - यः अप २०, २, ९.
 कृत्तिका(का-आ)ख्या- ख्या फि २०.
 कृत्तिका(का-अ)ञ्जि^{१०} - ञ्जिम् काश्रौ २०,१,३२.
 कृत्ति(का-आ)कादि- ङीनि अप ३०^३, १,१४; अशां १,१.
 कृत्तिका-पुत्र- -त्रम् अप २०,६, ४; -त्राय अप २०,६,५१.
 कृत्तिका-प्रभृति- -तीनि शाश्रौ २, १, ९.
 कृत्तिका-यु(त >)ता- ता विध ९०,१६.
 कृत्तिका(का-अ)रोका(क-अ)रोधा (ध-अ)वाप्य^{११} - -प्येषु कौस् ४७,११.
 कृत्तिका-रोहिणी-सध्य- -द्ये अप १२,१,७.
 कृत्तिका-रोहिणी-मृगशिरः-फल्य- नी- नीषु काश्रौ ४,७,२.
 कृत्तिका-रोहिणी-ध्याख्या(त >) ता- -ताः अप १८^२, १९, ४.
 कृत्तिका-रोहिणी-सौम्य^{१२} - -म्यम्

a) धि^१ इति वाधूश्रौ. b) लोटि मणु १ अतुकरणम्. c) वैप १ द्र. d) पा ७,२,५७ परामृष्टः द्र. e) अकृत्तन् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पागृ. प्रम्.) f) पाठः ? चकृत्तुः इति शोधः (तु. संस्कर्ता) g) परतरं पाभे. h) पाठः ? लुटि प्र३ इति संस्कर्ता [भू. XXIII]. i) भाप. (वेष्टन-) वा नाप. (चर्त्वा [नभा.]) वा. j) तु. भारद्वा. प्रम्. k) द्विन्द्रिवि इति पाका., *विक्षिणा- इति शाकटायनः (तु. पागम.) l) पाठः ? = घृताद्- > -तात् इति. m) उत्तरेण संधिरार्यः. n) = पौर्यानासी- o) वैप २,३३०. द्र. p) धामिचारिककर्मस्यपुत्रानां कालानां द्वस. q) समाहारे द्वस. सौम्य- = मृग-शिरस्-

अप ५६, १, १.
 कृत्तिका-रोहिण्या(णी-आ)दि-
 -दीनि अप १८^३, १९, १.
 कृत्तिका-स्वाति-पूर्व-त्रैः काय
 १४, २; माय १, ७, ४; वायु १०,
 ३.
 कृत्तु-; १कृत्या- प्रभृ. ✓कृ द्र.
 २कृत्या- ✓कृत् (छेदने) द्र.
 कृत्रिम- ✓कृ द्र.
 ?कृत्रिरासदिवादरभूतदिवा
 आज्यो ५, १८.
 कृत्वस्, क्त्वा, क्त्वाय, क्त्वी ✓कृ द्र.
 कृत्स्- पाठ ३, ६६.
 कृत्स्न, त्स्ना^३- पाठ ३, १७; -त्स्नः
 भाश्रौ ८, १०, ७; निस्; -त्स्नम्
 शाश्रौ १३, १२, १०; आपश्रौ;
 -त्स्नस्य हिश्रौ २१, २, ९; मीस्
 ११, ३, ३१; -त्स्ना हिश्रौ ७, २,
 १२; ९, ६, ११; लाश्रौ ७, ८, १९;
 कप्र ३, १०, ३; -त्स्नाः मैश्र २१;
 -त्स्नान् निस् ८, ७; २२;
 -त्स्नानाम् भाश्रौ ९, ८, २;
 -त्स्नाम् आपश्रौ ७, २०, ९;
 वैश्रौ; -त्स्नायाम् आपगृ ११,
 १२; वौगृ २, ५, ४०; -त्स्ने निस्
 २, ५ : ९; -त्स्नेन वाधुश्रौ ४,
 ११ : ५; ७; ९; निस् २, १० :
 १२; -त्स्नेः शाश्रौ १३, १०, ७;
 -त्स्नौ निस् २, ५ : १६; ९, १३:
 २३.
 कात्स्न्य- त्स्न्यम् या १, १५;
 मीस् ९, ४, २५; -त्स्न्ये पा ५,
 ४, ५२; -त्स्न्येन अप ५२, १६,

४; ५८^३, १, २; ७०, ११, ५; मीस्
 ६, १, ५.
 कृत्स्न-क-कै शाश्रौ १६, २९, ८.
 कृत्स्न-प्रास-सम् वाध १२, १९.
 कृत्स्न-त(म>)मा- माः निस् ८,
 १३ : ७.
 कृत्स्न-तर-रः निस् ८, ११ : २३.
 कृत्स्न-ता-तायै निस् ८, ११ : ६.
 कृत्स्न-त्व-त्वात् मीस् १०, ८, ३७.
 कृत्स्न-वचन-नात् मीस् ९, ४, ८.
 कृत्स्न-वत्^b लाश्रौ १०, १६, २; या
 २, ५.
 कृत्स्न-विकार-राय निस् ७, ५ :
 २०.
 कृत्स्न-विधान-नम् मीस् ५, ४,
 १८; -नात् मीस् ८, १, ५; १०,
 ५, ३४.
 कृत्स्न-विधि-धिः मीस् १०, ६,
 ७५.
 कृत्स्न-शब्द-ब्दः मीस् ३, २, १८.
 कृत्स्न-शस्(ः) वृदे २, ५, ८, १३०.
 कृत्स्न-संयोग-गात् मीस् ६, ६,
 १०; ७, ३७.
 कृत्स्न-संस्था-स्था वैश्रौ १०,
 १८ : ३; -स्थाम् आपश्रौ १३,
 २४, ११.
 कृत्स्ना(त्स्न-अ)न्वित-तानि निस्
 ६, ५ : २०.
 कृत्स्ना(त्स्न-अ)भाव-वे हिश्रौ ३,
 १, २५.
 कृत्स्नी✓कृ > कृत्स्नी-चिकीर्षत्-
 -र्षत् निस् ६, १२ : ३; ७, ९ :
 १८.

कृत्स्नी✓भू > कृत्स्नीभवति निस्
 ६, ६ : १५.
 कृत्स्नो(त्स्न-उ)पदेश-शात् काश्रौ
 १, ७, ५; २, ७, १३; मीस् ३, २,
 १५.
 कृदर^a-पाठ ५, ४१; -रः निघ ३,
 ४; -रम् आपश्रौ २०, १७, ३;
 वौश्रौ १५, २८ : ८; वाधुश्रौ ३, ८९ :
 १; हिश्रौ १४, ३, ५४; अप ४८,
 ८०; निघ ३, २९; या ३, २०^६.
 कृधु^c-धु शाश्रौ १२, २४, २^६;
 निघ^e ३, २^६; या ६, ३^६.
 कृधुक-कः अप ४८, ६७^६.
 कृन्त-, कृन्तत्र- ✓कृत् (छेदने) द्र.
 कृन्त(त >)न्ती- ✓कृत् (वेष्टने) द्र.
 कृन्दि ✓कृत् (छेदने) द्र.
 ✓कृप्^f पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये;
 तुरा. उभ. अथक्कने, दौर्बल्ये.
 कृप्- कृपा आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ
 ५, ९, ७; वौश्रौ ६, १४ : १६;
 निघ ४, ३; या ६, ८^६; अप्रा २,
 २, १५.
 कृपण^a- पाठभो २, २, १२४; पाग
 २, १, ५९, ३, १, १८; ४, १, ४५^b;
 ५, २, १३१; ६, २, १७०; -णम्
 शाश्रौ १५, १७, १^६.
 कृपणा-, कृपणी- पा ४, १,
 ४५.
 कृपण-काशिन^d-शो वैगृ १,
 १८ : ११.
 कृपणा(ण-आ) तुरा (र-अ) नाथ-
 व्यङ्ग-विधवा-बाल-वृद्ध-द्वान्
 शंभ २४७.

a) वैप १ द्र. । b) तदर्हायः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७) । c) व्यु. पाभे. च वैप १, ११६२
 p, r द्र. । d) = शिश्र- । व्यु. ? < ✓^aकृष् [स्रष्टौ] इति मतम् । एतदनु वैप १, ११६२ q प्रदर्शितोऽर्थो नेष्टः
 (तु. टि. मंडु-भेदि, दी- > -द्याम्) । e) विप. (हस्त-) । f) सपा. कृधु <> कृधुकः इति पाभे. ।
 g) = ✓कृप् । = ✓कृप् इति. BPG. । शौच १, ६४; ४, ८६ या ६, ८ पा ८, २, १८ परामृष्टः द्र. । h) कृपण-
 इति पाका. ।

√कृपणाय पा ३, १, १८.

कृपणिन्- पा ५, २, १३१.

√कृपण्य^१, √कृपण्यति अप
४८, ९; निघ ३, १४.

कृपण्यु- ण्यवः वृद्धे २, २७;
३३; -ण्युः अप ४८, ९७;
निघ ३, १६.

कृपयत्- -यन् या २, १२^१कृ.

१कृपा- पाग ३, १, १३^१; ३, १०४^०;
-पया बौध ४, ५, ३२.

कृपा(पा-आ)दि- -दीनाम् शौच
१, ६५.

√कृपाय, कृपायति निघ ३,
१४^१.

कृपायमाण- -णः या २, १२.

२कृ(प>)पा^०- -पाः आपथौ १०,
१४, १^१.

कृपाण^०- पाठभो २, २, १२७; -णः
आपथौ १८, १०, २१.

कृपीट^०- पाठ ४, १८५; -ण्टम् अप
४८, ७५; निघ १, १२; ऋप्रा ७,
४५.

कृमि^०- पाठ ४, १२२; पाग ५, २,
१००; ८, २, ९; -मयः अप ४६,
५१^१; ६७, २, ३; -मिः वाध
४, ३२; १८, १६; शंघ ३७७ :
१६; विघ ४४, ११; या १४,
११; -मिभिः विघ ४३, ४०;
-मीणाम् अन ४६, ५, ५^१.

कृमि-कीट- -टानाम् विघ ४३, २.

कृमि-केश-कीट-युत- -तम् वैध २,
१५, ३.

कृमि-जम्भन- -नम् अत्र २, ३१.

कृमि-ण- पा ५, २, १००.

कृमिण-त्व- -त्वम् अप ६८, २,
३९.

कृमि-इ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप २६,
४, ५.

कृमिदष्ट-चिकित्सा- -त्सायाम्
कप्र १, ५, ९.

कृमि-भूत- -तः वाध २, ३०.

कृमि-मत्- पा ८, २, ९.

कृमि-योनि- -नयः विघ ४४, ३.

कृमुक^०- > कार्मु(क>)की- -कीम्
काश्रौ १६, ४, ३५.

कृमुक-शकल- -लम् कौस् २८, २.

कृवि- √कृ द्र.

√कृञ् पाधा. दिवा. पर. तनूकरणे,
कशैत् भाश्रौ १०, ८, १६.

कशयति वैश्रौ १२, १२ : ९;

कशयेत् आपध २, २७, १०;
२८, ५.

कशित्वा पा १, २, २५.

कृश, शा^०- पाठना ४, ११६; पा ८,
२, ५५; पाग २, ४, ६३^१; ५, १,
१२३; -शः काश्रौ ६, ७, १२;

√आपथौ १०, १४, ८-१०; २१,
१, ९; हिश्रौ १६, १, ७; काग्यः
ऋप्र २, ८, ५५^१; -शम् अप १,
३७, ४^१; ३, २, ३; अशां ७, ४;

-शा तु १०, ४; अप २६, २, ५;
३, १; ५८^१, २, ४; -शाः भाग्य
१, ७ : १३^१; -शासः बौध १,
५, ८६.

कार्य- पा ५, १, १२३;
पावा ५, ३, ९१.

कृश-कृत्स्न- (> काशकृत्स्न-
पा.) पाग २, ४, ६९.

कृश-मध्य^१- -ध्यः चव्यू ४:
१५.

कृश-वृत्ति^१- -त्तयः वैग्य ५,
१३ : २.

कृश-हारीत^१- -तः गौपि १, ४,
२२.

कृशाश्व^१- (> कृशाश्वक- कृशा-
श्विन्- पा. यक्र.) पाग ५, २,
६२; ४, ३, १११.

कृशो(श-ज)दर^१- -रम् याशि
२, ८६.

कृशित्वा पा १, २, २५.

कृशान^०- -०न गोग्य २, १०, २६^१;
-नम् कौस् ५८, ९; √अप ४८,
७९^१; ९१; अत्र ४, १०; √निघ
१, २; ३, ७^१.

कृशाम^१- -मः अप ४८, ६७^१.

कृशार^०- -रम् कौस् ६६, १६; ८४, ३;
अप १, २८, १; शंघ १३६.

कृशाकु- (> कृशाकृक्- पा.)
कृशानु- टि. द्र.

कृशानु^०- पाठ ४, २; पाग ५, २, ६२^१;
-णुः^० आपथौ ११, १४ : १०;
बौश्रौ ६, २९ : १६; वैश्रौ १४;
१३ : ३; हिश्रौ १०, ३, ४२,
वैश्रौ १३ : ५; -नुम् माश्रौ ४,
२, ३४; शंघ १३६ : ३७;
-णुनो शाश्रौ ६, १२, ३^०; बौश्रौ
६, १५ : १५; द्राश्रौ ५, ४,
१२; लाश्रौ २, ८, १२; -नोः
या ११, ८^१.

a) अर्चास्तुत्योर् वृत्तिः । b) तु. पागन. । c) < √कृप् इति पावा. ।) अर्चायां वृत्तिः ।
e) = जल-विशेष- । कर्त्तरि कः प्र. । f) पाप्मे. पृ ८४० । द्र. । g) वैप १६. । h) व्यप. । व्यु. ? ।
i) = ऋषि-विशेष- । j) विप. । दस. । k) = रूप-नामद- । l) = हत्व-नामद- । व्यु. ? । m) कृसर-
इत्यनेन स-न्यायता द्र. । n) तु. भारटा. प्र. । कृशाकु- इति [पक्षे] पाप्मे., कृशानु- इति पाक्का. । o) पाप्मे.
वैप १, ११६४ । द्र. ।

कृशानवक- पा ५, २, ६२.

✓कृ^a पाधा. भ्वा. पर., तुदा. उभ.
विलेखने, कर्षते आपश्रौ ११, २,
१; १८, ५; भाश्रौ १२, २, ४;
कर्षति वौषि १, १५: १८; कौस्
३९, २९; कर्षन्ति वौध १, ५,
८४; कर्षेत् आपश्रौ ११, ९, १०;
वौश्रौ २०, ७: १७; २७: २२;
शंघ ८९; अत्र १५, १३१;
कर्षेयुः वाधूश्रौ ३, ४४: १३;
लाश्रौ १०, १५, १५.

कृपति काश्रौ १७, २, ११; २१,
४, १; आपश्रौ; कृपन्ति काश्रौ
१७, २, १८; वाधूश्रौ ४, ७४: ६;
हिश्रौ ११, ६, ३५; कृपतु आमिग
३, ८, २: ६१; कृपेत् वौश्रौ २२,
५: २४; २५; पाग २, १३, ४.

कृष्यन्ति वाधूश्रौ ३, ४४: १६;
अकृषत कौस् २०, १६१; अकृ-
क्षाम कौस् २०, १७१.

कर्षयति वौश्रौ १८, २०: ५;
कर्षयेत् हिघ २, ५, २२९; ६,
५.

अचकृपुः वाश्रौ १, ५, ५, ८१^b;
अचकृषुः आपश्रौ ६, ३०, २०^b;
वौश्रौ ३, १२: २८^b; भाश्रौ ६,
१८, ७^b; माश्रौ १, ६, ४,
२४^b; पाग ३, १, ६^b; जैग १,
२४: ७^b.

कर्ष- पा ६, १, १५९; पाग २, ४,
३१; ५, १, ६४; -र्षे आपध २,
१६, १४; हिघ २, ५, १४.

कार्षिक- पा ५, १, ६४.

कर्षक^c- -का: अप ६३, ३, ३; वाध
११, ४२; -काणाम् अप ५८^c,
४, ४; शंघ २६२; -काय आमिग
२, ५, १२: ५; -कै: गौध १०,
२३.

कर्षक-वणिक-पशुपाल-कुसीदि-
-कार- -रव: गौध ११, २३.

कर्षण^d- -ण: शौच २, ३९; -णम्
अप १, ४४, ५; शंघ १६६; वौध
१, ६, १७; नाशि १, ६, १९;
-णात् कौशि २०; -णे वौश्रौ
२२, ५: २५.

कर्षण-करणा(ण-अ)र्थ- र्थम्
वाध १९, १२.

कर्षण-चपन- -नाभ्याम् वौश्रौ
२६, २८: ८; -ने वौश्रौ २६,
२८: ८.

कर्षण-शुश्रूषा(पा-अ)धिकृत-
त्व- -त्वात् वौध १, ११, १५.

कर्षणा(ण-आ)दि- -दीनि
आज्यो ५, ९.

कर्षत्- -र्षन् आश्रौ २, ३, ८;
आपश्रौ.

कर्षमाण- -णम् वैताश्रौ २८, ३१^e.

कर्षयित्वा वैग २, १३: ८; कौस्
८३, १८.

कर्षिन्- -र्षी वौध २, २, ७३; वाध
२, ३२.

कर्षु^b- पाठ १, ८०; -र्षु काश्रौ
२१, ४, १९; -र्षु: वौश्रौ १०,
१९: ११; १८; १९, १: १८;
आमिग ३, ४, १: १९××; काग
६५, ३; ५; ६६, ४; वौषि १, ८:

१८××; -र्षुणाम् गोग ४, २,
२३; ३, ३; कप्र २, ८, ४; -र्षुभ्यः
आमिग ३, ७, ३: ३१; वौषि २,
३, ५; -र्षुम् काश्रौ २५, ८, ३;
माश्रौ; -र्षुषु आग २, ५, ६;
पाग; -र्ष्वा: गोग ४, २, १८;
-र्ष्वाम् माश्रौ १, १, २, १०;
कागुड; द्राग ३, २, ३१^f.

कर्षु-त्रय- -यम् विध २१, १०^g;
७४, ७.

कर्षुत्रय-मूल- -ले विध
७४, ४^h.

कर्षुत्रय-संनिकर्ष- -र्षे विध
२१, १८.

कर्षु-वीरणⁱ-वत्- -वति काश्रौ
२१, ३, २५.

कर्षु-समन्वित- -तम् कप्र ३, ५,
१४.

कर्षु-समीप- -पे विध २१, ५.

कर्षुर्वा(र्षु-आ)दि- -दि हिपि ९:
१३; १६: १४.

कार्षिक- पाठ २, ३८.

कार्षिक- पाठ ४, १२७; -र्षि: १
काश्रौ ९, ३, ५; आपश्रौ १२, ५,
१०; वौश्रौ ७, ३: १६; माश्रौ
२, ३, २, १७; वैश्रौ १५, ६: ६^m;
हिश्रौ ८, १, ६७; शुश्र १,
४२२ⁿ.

कार्षिन्^k- -र्षि शैशि ७७^o.

१कृप- -यम् वाश्रौ २, १, ५, २२.

२कृपⁿ- (>कृपी- पा.) पाग ४, १,
४१^o;

कृपक- पाठ २, ३८.

a) या २, २०; ९, १९ [अणुभावे वृत्तिः], पा ७, ४, ६४ पावा ३, १, ४४ परामृष्टः द्र. । b) पामे.
वैप १, ११६४ S द्र. । c) 'क' इति पाठः ? यनि. शोधः । d) चकृपुः इति पाठः ? यनि. शोधः ।
e) = इषीवल- । f) करणे भावे च ह्युट् प्र. । g) कृप्य^o इति O. शोधः । h) = लेखा-, नाली-, गर्त- ।
i) का^o इति पाठः ? यनि. शोधः । j) 'वौषि^o' इति चौसं. । k) वैप १ द्र. । l) पामे. वैप १, ११६५ b द्र. ।
m) 'र्षीः' इति पाठः यनि. शोधः । n) अर्थः व्यु. च ? । o) तु. पागम. ।
वैप-३-२१

कृपन्-यन् वौश्रौ २५, ३० : १.
 कृपि- पाठ ४, १२०; पाग ४, ४,
 ६२०; ५, २, ११२०; -पि:
 ऋष्यश्रौ १०, ११, १; १६, २८,
 १; वैश्रौ; -षिम् ऋष्यश्रौ २, १,
 २, ११; १३; वौष; -ऋषीः
 अप ३७, १, २; शुभ्रा ३, ३३;
 -शौ पा ५, ४, ५८; -प्या वाध
 २, ३१; वौष १, ५, ८४; अत्र
 ११, ३(२)ऋ; -प्याम् कप्र ३,
 ७, १०; -ऋष्यै आपश्रौ १०,
 १०, १५५; वौश्रौ.

कार्य- पा ४, ४, ६२.

कृपि-कर- नराणाम् मानृ २, १४,
 २१.

कृपि-कर्मन्- र्माणि कौश्र ३,
 १३, १; शांठ ४, १३, १.

कृपि-नो-पाल->०पाल-क्षे-
 त्रिक-परिचरक-नापित-निवेदि-
 तात्मन्- र्मानः लुघप ८४ : ३.

कृपि-नोरक्ष-वाणिज्य-कुसीद-यो-
 निपोषण- ग्गानि विध २, १३.

कृपि-नोरक्ष्य-वाणिज्या(ज्या-अ)
 धिक- कम् आपध २, १०,
 ७; हिघ २, ४, ७.

कृपि-नोरक्ष्य-वाणिज्यो (ज्य-उ)
 पजीविन्- नी वैध १, ५, २.

कृपि-जीव- नान् वृदे ५, ९.

कृपि-पशुपाल्य-रत- ताः अप
 ५१, ४, ५.

कृपि-प्रशंसा- सा या ७, ३.

कृपि-वणिक्-पाशुपाल्य-कुसीद-
 दम् गौध १०, ४८.

कृपि-वत् मौसु ११, १, २०.

कृपि-वाणिज्य- ज्ये गौध १०,
 ५.

कृपि-विनाश- शाय वौध १,
 ५, ८५.

कृपि-सक्त- क्तान् कप्र १, ६, ५.

कृ(पि>)पी-वन्->कार्षी-
 वण- ग्णाः अप्रा ३, ४, ११.

कृ(पि>)पी-वल्- पा ५, २,
 ११२; -लः, -लम् अप ६९,
 ५, ३.

कृष्या(पि-आ)रम्भ- र्म्भे कप्र
 ३, ७, २.

कृषिक- (कार्षिक्य- पा.) पाठ
 २, ४०; पाग ५, १, १२८.

कृष्ट,ष्टा- पाग ५, १, १२३०; -ष्टः
 लाश्रौ ७, ८, ५; -ष्टस्य हिपि
 १५ : ८; -ष्टाम् वाश्रौ २, १, ५,
 १६; वैध ३, ५, ३; -ष्टे आपश्रौ
 १६, १९, १०; १४; वाश्रौ;
 आश्रिष्ट २, ६, ८ : ६!

कार्ष्य- पा ५, १, १२३.

कृष्ट(ज>)जा- जानाम् विध
 ५०, ५०.

कृष्ट-पच्य- च्यस्य पा, पात्रा
 ३, १, ११४.

कृष्ट-मात्र- त्रे काश्रौ १७, ३, ५.

कृष्ट-राधिक- कम् भागृ १,
 ११-१२.

कृष्ट-शब्द- च्छः भाशि ३७.

कृष्टा(ष्ट-अ)कृष्ट- ष्टयोः काश्रौ
 १७, ३, ४.

कृष्टिमन्- पा ५, १, १२३.

कृष्टि- पाठभो २, १, १८९; -ऋष्यः
 आश्रौ ९, ११, २१; अप ४८,

७८; निघ २, ३; या १०, २२६;
 -ष्टिः वौश्रौ १८, ४७ : २२;

-ऋषीः आश्रौ २, १२, ५;
 ६, १४, १६; आपश्रौ ९, २, ६;

भाश्रौ ९, ३, ८; माश्रौ ३, २, ८;
 हिश्रौ १५, १, ४५; आप्रय ४,

३; कृष्या १०, २२; २९; ३१;
 -ऋषीनाम् आप्रमं २, २, ७;

पागृ १, ४, १२३; आश्रिष्ट १,
 १, २ : ३१; ५, १ : २३; वौश्रौ

२, ५, १२; भागृ १, ५, १७!;
 १३ : ७; हिष्ट १, ४, २; -ष्टेः

वौश्रौ १८, ४७ : २२.

कृष्ट्वा वाधूश्रौ ४, १९ : ४४, ४५.

कृष्यमाण- ग्णाः विध ४३, ३३;
 ४३; -णे आपश्रौ १४, ८, ५;

हिश्रौ १०, ८, १.

१कृष्ण, ण्णा- पाठ ३, ४; पाग ४,
 २, ७७!; ५, २, ९७; पागवा ५,

४, ३; फि ११; -ण्यः आपश्रौ
 ९, २०, १०; १४, ३४, २; १६,

३४, ५; १९, २५, २०, २७, १२;
 २०, २, ९; वौश्रौ १५, १ :

१५५५; या १२, १३; -ण्यम्
 ऋष्यश्रौ २, १३, ७!; ८, ८, ९;

शाश्रौ; आपश्रौ १०, ९, ६!;
 माश्रौ ५, २, ६, २०!;

वैताश्रौ ९, ५!; अत्र ६,
 २२!; १३, ३!; अं

३ : ६!; या २, २०!;
 २१!; ७, २४!; -ण्यया

वौश्रौ २५, ८ : १५; गोश्र ४,
 ७, २५; -ण्यस्य वौश्रौ २२, ८ :

३६; कौश्र १, १६, १६; शांठ

a) वैप १ द्र. । b) पृ ७७९ j द्र. । c) तु. पागम. । d) उत्त. उप. कर्त्तरि बच् प्र. । e) बाकृष्ट-
 टि. द्र. । f) ण्ये इति पाठः ? यनि. शोधः । g) पाभे. वैप १, १२४५ e द्र. । h) बाकृष्टीनाम् इति
 जयरामगदाधरी ? । i) ष्टीनाम् इति पाठः ? यनि. शोधः । j) तु. पाका. । कृष्णकर्ग- इति भारटा. ।
 k) पाभे. वैप १, ११६६ h द्र. । l) कृष्णानाम् इति C. शोधः (तु. भाश्रौ १०, ६, ७) ।

१, २४, ६; अप ६८, २, ५४;
 -ष्णा शांश्री ३, ५, १०†;
 काश्री; या २, २०††;
 -ष्णा: काश्री १७, १, २३;
 आपश्री; -ष्णान् आपश्री १९,
 २०, ८; वीश्री १३, २१ : १०;
 हिश्री २२, ३, २६; वाध २८,
 १८; -ष्णानाम् आपश्री १९,
 २०, १९; २६, १३; वीश्री;
 भाश्री १०, ६, ७; -ष्णानि
 वाधश्री ३, १०१ : ३; अप
 ६४, ८, ३; -ष्णाम् आपश्री
 १०, २६, १३××; वीश्री;
 -ष्णाय आपश्री २०, ६, ४;
 ११, १३; वीश्री १५, ७ : ११;
 हिश्री १४, २, ३; गौध २६, १२;
 -ष्णाया: काश्री १८, ४, २;
 माश्री २, १, ४, १४; ४, ६, ३;
 ६, २, ५, ११; शांश्री ५, ५, ८;
 अप ३८, १, ५; ४६, ६, ५†;
 -ष्णायै आपश्री १७, १५, २××;
 वीश्री; -ष्णास: ऋषा ४, ९८†;
 -ष्णे काश्री १२, ६, १××;
 वीश्री; ××२१, ९ : ५^३; जैश्री;
 -ष्णेन आपश्री १९, २६, १;
 वीश्री १३, ३७ : ५; वाश्री ३,
 २, ७, २; हिश्री २२, ६, ६; विध
 ५८, ५; शुभ ३, २०२†; -ष्णेषु
 आपश्री १७, ५, ३; वैश्री १९, ५ :
 १२; हिश्री १२, २, १७; -ष्णै:
 वीध २, १, ५७.
 कृष्णी^b -ष्णी वाश्री २, १, ५,
 २२.
 कृष्णक^c - पा ५, ४, ३.
 कृष्णक-तण्डुल- -लानाम् कौसू
 ८०, २६.

कृष्ण-कर्ण- (>कार्णाकर्ण- पा.)
 १कृष्ण- टि. द्र.
 कृष्ण-केश^d -श: वीध १, २, ६.
 कृष्ण-खर- -रम् वाध २१, १.
 कृष्ण-खु(र>)रा- -राम् हिपि
 ४ : ५.
 कृष्ण-नव^d -वम् हिपि २ : १०.
 कृष्ण-श्रीव,वा^d -व: वाश्री ३, ४,
 ३, १३; हिश्री १४, ३, १४; शुभ
 ३, १३१; -वम् आपश्री १४,
 ६, १३; २०, १३, १२; वीश्री १०,
 ५७ : ८; अप ६१, १, १४;
 -वा: ऋषा आपश्री २०, १४, ७;
 ८; ११; १५, २; माश्री ५, २,
 १०, ४६; हिश्री १४, ३, १६;
 -वौ आपश्री २०, १३, १२;
 वीश्री १५, २३ : ६, २६ : ७.
 कृष्ण-चतुर्दशी- -शी आज्यो ४, ७.
 कृष्ण-चतुष्पद- -द्वै: अप ६८, २,
 ४३.
 कृष्ण-चैल-परिहित- -त: कौसू
 १८, १.
 कृष्ण-जन्मन्^d -न्मभि: -न्मानम्
 जैश्री १ : १४.
 कृष्ण-जाति->ती(य>)या-
 -या या १२, १३.
 १कृष्ण-तिल- -ला: अंशां १२, ५;
 -लै: गौषि १, ३, १०.
 २कृष्ण-ति(ल>)ला^d -लाम् अप
 १, ५०, ८.
 कृष्ण-तूप^d -षम् आपश्री १८, ८,
 १८; १९, २५, १७; वीश्री १२,
 १ : १२; १८; १३, ३७ : २; ५;
 १०; १८, २४ : ५; २६, १ : ५;
 हिश्री २२, ६, २; आमिगृ २, ५,
 १० : २; ७.

कृष्ण-त्रयोदशी- -शी विध ७६, १.
 कृष्ण-त्सर^d -रु: वाधश्री ३, ७६ :
 ३१; -रम् वीश्री १५, १५ : २.
 कृष्ण-दन्त^d -न्ता: काध २७९ :
 ३; -न्ताय पागृ १, १२, ४.
 कृष्ण-द(शा>)श^d -शम् काश्री
 २२, ४, १५; वीश्री २६, १ : ६;
 हिश्री १३, ३, २१; लाश्री ८,
 ६, १३.
 कृष्ण-द्वादशी- -श्याम् विध ९०,
 २०.
 कृष्ण-धान्य- -न्यम् शंघ २७७;
 आपध २, १८, २; हिध २, ५,
 ५४.
 कृष्ण-नीहार-विमिर- -रे अप ६३,
 २, १.
 कृष्ण-पक्ष- -क्षस्य आगृ ४, ५, १;
 अप ३१, ८, ६; विध ७३, २;
 हिध २, ५, ७^e; -क्षान् काश्री
 १५, १, १६; -क्षे वैगृ ६७ : १;
 कागृ ४२ : २२; अप ४३, ६,
 १; आज्यो ७, २०.
 कृष्णपक्ष-द्वादशी- -श्याम् विध
 ९०, १९.
 कृष्णपक्षा(क्ष-आ)दि- -दौ वाध
 २३, ४५.
 कृष्ण-पञ्चदशी- -शी आज्यो ४, ९;
 ११.
 कृष्ण-प(द्>)दी- पाग ५, ४,
 १३९^f.
 कृष्ण-पर्यन्त^d -न्ता: अप ५२,
 ३, ४.
 कृष्ण-पांसु^d -सु गोगृ ४, ७, ७.
 कृष्ण-पिङ्ग-द्रोप- -वे अप ७०,
 १०, २.
 १कृष्ण-पिङ्गल- -लम् आमिगृ २,

a) प्रकरणतः कृष्णाजिन-> -ने इति प्रतिभाति । b) = इधका-? । c) = तिल- । a) विप. ।
 वस. । e) पामे. पृ २५३ k द्र. । f) तु. पाका. । कृष्णाप इति भाण्डा. ।

६, ८ : ३६; अप ७०, १०, १.
 २कृष्ण-पिङ्गल^३- पाग २, ४, ६९.
 कृष्ण-पिपीलिका- कानाम् कौस्
 ११६, ३.
 कृष्ण-पिशङ्ग- ङ्गम् वाश्रौ ३, ४, १,
 १४.
 कृष्ण-पुष्प- -प्यैः अशां १५, ३.
 कृष्ण-पृष्ठ-शिरस्^४- -रः अप २३,
 ४, ३.
 कृष्ण-व[ल]लक्ष- -क्षे काश्रौ २२,
 ४, १९; आपश्रौ २२, ५, ५;
 हिश्रौ १७, २, ३३; लाश्रौ ८, ६,
 १५.
 कृष्णवलक्षी- -क्ष्यौ वौश्रौ ६,
 १० : २; १४ : १; १८,
 २४ : ५.
 कृष्ण-भक्ष^५- -क्षः निस् ४, ३ : २;
 गोय ३, २, १०; द्राय २, ५, २४;
 कौस् ३१, २८.
 कृष्ण-भूम- पावा ५, ४, ७५.
 कृष्ण-भौम^६- -मम् शंघ ११६:४.
 कृष्ण-मण्डल^७- -लम् लाश्रौ ९,
 ९, ४.
 कृष्ण-मधु- -धु वौश्रौ १३, ३७ :
 २; ६; २६, ६ : १७; आमिगृ
 २, ५, १०-११ : २.
 कृष्ण-मधुस- -धुपा आपश्रौ १९,
 २६, १; हिश्रौ २२, ६, ६; आमिगृ
 २, ५, १० : १८.
 कृष्ण-ल^८- पा ५, २, ९७; -लम्
 आपश्रौ १९, २१, १०; वौश्रौ
 १३, ९ : ११; १३, २४ : ५;
 ६; माश्रौ ५, १, ९, ३; हिश्रौ
 २२, ४, ३; अप ४, २, ५; विध

४, ६; काशु ७, २८; लम्-
 लम् आपश्रौ १८, ५, ४; वैश्रौ
 १७, १४ : ४; हिश्रौ १३, १,
 ६२; -लान् विध ५, ८५;
 -लानाम् वौश्रौ १३, २३ : ५;
 -लानि वौश्रौ ११, १ : ३; ९ :
 २×४; माश्रौ ५, १, ९, ६; वाश्रौ
 ३, १, २, ९; -ले विध ४, ११;
 -लेन काशु ७, २७; -लेयु हिश्रौ
 ३, ८, ४२; मौस् १०, २, १.
 ऋष्णली- -लीम् अशां
 २१, १.
 कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
 ९, ४५.
 कृष्ण-ललाम^९- -मम् वौश्रौ १५,
 २३ : ५; २६ : ६.
 कृष्ण-लोहित-रश्मि- -श्मयः अप
 ५२, ५, ५.
 कृष्ण-वर्ण, णी^{१०}- -र्णः अप २१,
 ७, ५; २४, ३, ३; चव्यू ४ : १५;
 -र्णम् आमिगृ २, ५, ६ : ४;
 हिध १, ७, ३६; -र्णा वाध १८,
 १८; या २, २०.
 ऋष्ण-वर्तनि^{११}- -०ने आपश्रौ १६,
 ११, ११; वैश्रौ १८, ८ : १३;
 हिश्रौ ११, ४, ११?.
 ऋष्ण-वर्त्मन्^{१२}- ऋष्मने^{१३} आपमं
 २, १४, २; आमिगृ २, १, ३ :
 २५; भागृ १, २३ : १८; हिगृ
 २, ३, ७; -र्त्मा अप १, ३७, ११;
 ७०^३, ५, १; अशां ७, ११.
 कृष्ण-वसन, ना^{१४}- -नः कौस् ३३,
 २८; -नम् कौस् ४७, ४०; -नाः
 आपश्रौ १९, २६, १५; -नायै

कौस् ३४, ३.
 कृष्ण-वस्त्र, स्त्रा^{१५}- -स्त्रः निस् ४,
 ३ : २; गोय ३, २, १०; द्राय
 २, ५, २३; -स्त्राम् अशां १५, २.
 कृष्ण-वा(ल>)ला^{१६}- -लाम् हिपि
 ४ : ५.
 कृष्ण-वासस्^{१७}- -साः अप ३३, ४,
 ४; अशां १५, १.
 कृष्ण-वासस्^{१८}- -सैः अप ७०^३, ७,
 १७; ७१, ११, ४.
 कृष्ण-त्रीहि- -हयः आमिगृ २, ५,
 १ : २; -हीणाम् काश्रौ १५,
 ३, १४; आमिगृ २, ५, १० :
 ३९; ११ : १३.
 कृष्ण-श^{१९}- -शम् काश्रौ २२, ४,
 १४; आपश्रौ २२, ५, ५; लाश्रौ
 ८, ६, १२.
 कृष्ण-शकुन^{२०}- -नः वौश्रौ १४,
 ९ : २.
 कृष्ण-शकुनि^{२१}- -निः आपश्रौ ९,
 ११, २४; १४, ३१, १; वैश्रौ
 २०, १९ : ३; हिश्रौ १५, ३,
 २५; ८, ३१; अप १९, १, १०;
 काध २७६ : ५; -निना कौस्
 ४६, ४७; -नेः कौस् १८, १६;
 -नौ वौश्रौ २, ५ : ७.
 कृष्णशकुनि-मुखा(ख-अ)वस्त्र-
 -ष्टम् शंघ १८०.
 कृष्णशकुन्य (नि-अ) वस्त्र-
 -ष्टम् आपश्रौ ९, १७, ४.
 कृष्ण-शव(ल>)ली^{२२}- -ल्याः
 माश्रौ ५, २, १, ३४.
 कृष्ण-शिरस्^{२३}- -रसम् नाश्रौ ५,
 २, १२, १७.

a) व्यप. । व्यु. ? । b) विप. । वस. । c) 'व' इति काश्रौ. हिश्रौ. लाश्रौ. । d) = पाताल-
 विशेष- । e) वैप १ द्र. । f) 'वर्त्मनः' इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. शौ १, २८, २ आपश्रौ. वैश्रौ.). । g) पाठः
 'वर्तने (सिं) इति शोषः (तु. संस्कृता [मू. XXV]), यद्वा 'वर्त्मन् (सिं) इति स्यात् । h) कस. समासान्तप् टच् ५.
 (पा ५, ४, १०३) । i) स्तार्थे शः प्र. उत्सं. [पा ५, २, १०० (तु. आग्नितामी [लाश्रौ ८, ६, १४])] ।

कृष्ण-शीर्ष^३- -र्षम् वाश्रौ ३, २, ६,
३२.

कृष्ण-शीर्षन्^४- -र्षा वाश्रौ ३, २,
२, ४४.

कृष्ण-शुक्ल, क्त्वा- -क्तयोः माश्रौ २,
१, ४, १३; -क्तानाम् माश्रौ ५, १,
६, १५; -क्ते माश्रौ २, १, २, ४.

कृष्णशुक्ल-संहत- -ते वाश्रौ ३,
२, ५, ३८^b.

कृष्ण-श्वेत- -तः हिश्रौ ७, ३, २१.

कृष्ण-सारङ्ग- -ङ्गः आपश्रौ १०,
२९, ५; वैश्रौ १२, २० : १४;
-ङ्गम् काश्रौ ७, ९, १८; २०, १,
३४.

कृष्ण-सीर- -रेण कौस् ३९, २९.

कृष्ण-सुन्दर^८- (<> कार्ण्य-
सुन्दरि- पा,) पाग २, ४, ६९.

कृष्ण-सूत्र- -त्रम् हिपि १७ : २०;
-त्रेण कौस् ३६, १७.

कृष्ण-स्थाना(न-आ)सन-पन्थ-भक्ष-
-क्षेपु गोश्रु ३, २, २५.

कृष्णा(ष्ण-अक्ष >)क्षी^६-
-क्षीम् हिपि ४ : ५.

कृष्णा-गोमय- -यम् आम्रिगृ २,
७, ७ : ६.

कृष्णा(ष्ण-अ)ञ्जना(न-अ)अ^७-
-अम् अप ६४, ८, ९.

कृष्णा(ष्ण-अ)न्त^९- -न्तानि काश्रौ
२२, ४, २२.

कृष्णा-प(ढ >)दी- कृष्णापदी-
टि. द्र.

कृष्णा(ष्ण-आभा >)भ- -भाः
अप ५२, ३, ४.

कृष्णा(ष्ण-अ)भाव- -वे द्राश्रौ ७,
१, ६; लाश्रौ ३, १, ६.

कृष्णा(ष्ण-अ)म्बर-धर- -रः अप
३१, ९, ३.

१ कृष्णा(ष्ण-अ)यस^८- -सम् जैगृ २,
९ : ३४; शंघ २७७; आपघ
२, १६, १८; हिघ २, ५, १८.

कार्णायस^९- -सम् वाध
१७, ४५; -सेन वौघ १, ३, १८.

कार्णायसी- -सीम् विध
५०, ३४.

कृष्णायस-स्सरु^९- -रवः वाधूश्रौ
३, ७६ : २९.

२ कृष्णा(ष्ण-अ)यस^९- -साः वाधूश्रौ
३, ७६ : ३०.

कृष्णा(ष्ण-अ)श्व- -श्वः आम्रिगृ २,
५, १० : १.

कृष्णा(ष्ण-अ)ष्ट(क >)का- -कासु
विध ७३, ८.

कृष्णा(ष्ण-अ)ष्टमी- -न्याम्
आम्रिगृ २, ५, ४ : २; अप ३६,
२१, १.

कृष्णो(ष्ण-उ)रभ्र- -भ्रः आम्रिगृ
२, ५, १० : २.

कृष्णोरश्री- -श्रीः आम्रिगृ २,
५, १० : ३१.

कृष्णो(ष्ण-ऊ)र्णा- -र्णया कौस्
७२, १७; ८६, २०; -र्णाभिः
कौस् ३५, १०.

कृष्णोर्णा-ज्य^९- -ज्येन कौस्
३२, ८.

कृष्णो(ष्ण-उ)ष्णीप^९- -पाः आपश्रौ
१९, २६, १५.

२ कृष्ण^९- पागवा ५, ४, ३८; -कृष्णः
काश्रौ १, ७, १६; आपश्रौ १, ६,
१; २; २, ८, १; वौश्रौ १, २; २६;
१३ : ५; माश्रौ १, ५, १३; १४;

२, ७, १३; माश्रौ १, २, ५, २३;
वाश्रौ १, २, १, ३; ३३; ३, ३, ३;
वैश्रौ ३, ५ : १; २; ५, ५ : ३;

जैश्रौ १३ : ९; हिश्रौ १, २, ६६;
६७; ७, ५२; वैगृ १, १० : २;

वाध १, १५; ऋअ २, ८, ८५;
शुअ १, ९५; शुप्रा २, २५; वौध
१, १, २८.

काष्ण^९- पा ५, ४, ३८.

का(ष्ण >)ष्णी^{११}- -ष्णीं आपश्रौ
१७, १३, २; वैश्रौ १९, २; २; ३:

१; ६ : ६६; तैप्रा ४, १२;
-ष्णींभ्याम् लाश्रौ ९, १, २४.

कृष्ण-मार्ग^९-ज- -जम् वाध २८,
२०.

कृष्ण-सृग- -गः वौश्रौ २४, २३ :
२; कप्र ३, ८, ११; वाध १, १३;

शंघ ७; ८; -गस्य वैगृ २, ४ : २.
कृष्णमृगा(ग-अ)जिन- -नम्
विध ८७, १.

कृष्ण-रुह-वस्त- -स्तानि शंघ ३५.

कृष्णरुहवस्ता(स्त-अ)जिन-
-नानि वौध १, २, १५; गौध
१, १८.

कृष्ण-त्रिपाण, णा- -णम् माश्रौ १०,
८, २; लाश्रौ ९, १; २३; -णया
काश्रौ ७, ४, ३१; आपश्रौ १०,
२३, ३; १८, १६, ९; वौश्रौ;
-णा वौश्रौ ६, ५ : १५;

२२, ११ : २४; शुअ १, २५२;
-णाः आपश्रौ २१, ५, १३;

हिश्रौ १६, २, २१; -णाम् काश्रौ
७, ३, २५; आपश्रौ २०, ९,
१७; १३, ३; १३, ७, १६××;

वौश्रौ; -णयाः आपश्रौ १३,

a) विप. । वस. । b) सुप्र. आपश्रौ २१, १९, ९ विशिष्टः पाभे. । c) व्यु. ? । d) विप. ।
कस. > वस. । e) कस. समासान्तप् टच् प्र. (पा ५, ४, ९४) । f) स्वार्थे तद्धितः प्र. । g) विप. । वस. उप.
= ज्या. । h) वैप १, ११६८ ण द्र. । i) विप. (उपानह्-) । j) विकारे अच् प्र. । k) कस. उप. = मृग- ।

१८, ७; वौश्रौ २१, ७ : २०; ९ :
१४; २१ : २२; २४ : १६.
कृष्णविपाणा-ग्रन्थि- -न्यिम्
वैश्रौ १६, ८ : ८.
कृष्णविपाणा-मेखला- -ले काश्रौ
१०, ८, १५.
१कृष्णा(ष्ण-अ)जिन- -नम् शाश्रौ
३, ११, १४; ४, १४, ३०; काश्रौ;
-नयोः वौश्रौ १८, २४ : ६;
२१, ९ : १; -नस्य शाश्रौ
१५, १३, १५; आपश्रौ; -नात्
आपश्रौ १०, १५, ११; वौश्रौ;
-नानाम् वौश्रौ २१, ७ :
१८; वौष १, ५, ३२; ६, १३;
-नानि आश्रौ ५, १३, १२;
शाश्रौ; -ने आश्रौ २, ६, ७;
काश्रौ; -नेन आपश्रौ १०, ८,
११×; वौश्रौ.
काष्णाजिन^अ - -नानि
आपश्रौ १५, ५, १२; वौश्रौ ९,
५; ४; वैश्रौ १३, ७ : १८; हिश्रौ
२४, २, ६.
काष्णाजिनी- -नी वौश्रौ
१०, ३७ : २; वैश्रौ १९, ४^० : १;
८; ६ : ५८^०; -नीः वौश्रौ १०,
२३; १४; ३७ : ९; ३९ : ३; ४१ :
३; ४४ : ३; ४९ : २; वैश्रौ १८,
१४ : ३१; -नीनाम् वौश्रौ २२,
५ : ६.
काष्णाजिनी-प्रभृति-
-तीन् वौश्रौ २६, २८ : ७.
कृष्णाजिन-कृष्ण- -त्पः वैश्रौ
४, ८ : २; हिश्रौ १, ५, ७७.
कृष्णाजिन-कृष्ण^० - -ण्ठाः निस्

५, १३ : ६.
कृष्णाजिन-दीक्षा- -क्षा काश्रौ
२०, ४, ३.
कृष्णाजिन-दति- -तौ वौषि २,
७, ७^१.
कृष्णाजिन-निष्पूत- -तम् काश्रौ
१६, ५, १.
कृष्णाजिन-पाद- -दम् माश्रौ
२, १, २, ३; लाश्रौ ९, १, २३.
कृष्णाजिन-पुट- -टानि माश्रौ
४, २, २; -टेन आपश्रौ १७, २०,
१३^१; वौश्रौ २२, १० : २१;
२४, ८ : १२; माश्रौ ६, २, ५,
३४; हिश्रौ १२, ६, २१.
कृष्णाजिन-पुष्करपर्ण- -र्णे वैश्रौ
१८, १ : ३७; शुश्र २, ३३.
कृष्णाजिन-प्रभृति- -ति वौश्रौ
२५, २९ : १२.
कृष्णाजिन-प्रासन- -नात् वौश्रौ
२१, १० : १.
कृष्णाजिन-मात्र- -त्रम् वौश्रौ
१८, ७ : ४.
कृष्णाजिन-लोम^० - -मैः^० वौश्रौ
९, ३ : ८; १०, ५ : ४.
कृष्णाजिन-लोमन्- -मभिः^०
आपश्रौ १६, ४, १; वाश्रौ २, १,
१, ३४; हिश्रौ ११, १, ४४;
-मानि आपश्रौ १५, २, १; वौश्रौ
९, १ : ५; १७; १०, १ : ५; १६;
भाश्रौ ११, २, ७; वैश्रौ १३, २ :
३; हिश्रौ २४, १, १०.
कृष्णाजिन-वाचन- -नात् वौश्रौ
२९, ६ : १०; वैश्रौ २१, १७ : ६.
कृष्णाजिन-शेष- -षेण आमिगृ

३, ४, २ : १४.
कृष्णाजिना(न-आ)दान- -नम्
काश्रौ २, ४, १.
कृष्णाजिना(न-आ)दि- -दि
काश्रौ ७, ४, १०; २०, ४, ११;
-दीनाम् वौष ३, १, १४; -दीनि
काश्रौ २४, ७, ३.
कृष्णाजिनादि-क- -कः कष
३, ४, १.
१कृष्णाजिना(न-अ)न्त- -न्तम्
काश्रौ १०, ९, ४; -न्ते माश्रौ
४, १, १०; -न्तैः वौश्रौ २३,
११ : ६.
२कृष्णाजिना(न-अ)न्त^० - -न्तम्
काश्रौ २०, ४, ५.
कृष्णाजिना(न-अ)वकृत्त- -त्तैः
काश्रौ २६, ४, २.
कृष्णाजिना(न-अ)वधवन- -नम्
वौश्रौ २५, ३१ : ५; -नात्
वौश्रौ २०, ६ : २६; -नेन वौश्रौ
२५, ९ : १४.
कृष्णाजिना(न-आ)स्तरण- -णम्
आपश्रौ १०, ३१, ३; ११, १७,
१०; भाश्रौ ६, १६, २०; वैश्रौ
१४, १६ : ५.
कृष्णाजिनो(न-उ)त्तरीय^० - -यः
आमिगृ २, ७, १० : ४; शंघ
३६९.
?कृष्णोस्या^१ - (> स्यक- पा.),
कृष्णोस्याखरेष्ट^१ - (> ष्टक-
पा.) पाग ५, २, ६२.
३कृष्ण^क - पाग ४, १, ९६; १०५;
पागवा ४, १, ९९; -०ष्ण विघ
९८, ९६; -ष्णः ऋश्र २ १०,

- a) विप. (धन्वित्र- [व्यजन-]) । b) विकारे ङ् प्र. । c) कृष्णा इति पाठः यनि शेषः ।
d) उत्तरेण संधिरार्यः । e) विप. । वस. । f) तु. मैस. [१९२०] । १दुतौ इति मैस [१९०४] ? । १जिने षटे इति
R. । g) पत्त. समासान्तप् ट् प्र. (पा ५, ४, १०३) । h) परस्परं पाभे. । i) तु. पागम. । j) <कृष्णः,
असि, आखरेष्टः (सा २, १) । k) = ऋषि-विशेष- । वैप १ द. ।

४२; साञ्च १, ३७८; अञ्च २०, १७; ८९; ९४; -ष्णाः^३ वौश्रौप्र ४८ : २; १३.
 कार्णायन- पा ४, १, ९९.
 कार्णिग- पा ४, १, ९६; -र्णिगः ऋञ्च २, ८, ८६.
 काव्य्य- पा ४, १, १०५.
 कृष्ण-द्वैपायन- नस् शंघ ११६ : ४१; -फनाय आमिगृ १, २, २ : १८; वौगृ ३, ९, ५; भागृ ३, १० : ३; हिगृ २, १९, ६.
 कृष्ण(ष्ण-आ)त्रैय- -याः वौश्रौप्र २७ : ५.
 कृष्णक- प्रसृ. १कृष्ण- द्र.
 ३कृष्णाङ्गहमिश्रम्^४ लाश्रौ ८, ६, १२.
 कृष्ण-मार्ग-^५, ष्टग- प्रसृ. २कृष्ण- द्र.
 कृष्णाल- प्रसृ. १कृष्ण- द्र.
 कृष्ण-त्रिपाणा- २कृष्ण- द्र.
 कृष्ण-त्रीहि- प्रसृ. १कृष्ण- द्र.
 ३कृष्णाजिन- २कृष्ण- द्र.
 २कृष्णा(ष्ण-अ)जिन^६- पाग २, ४, ६९; -नाः^७ वौश्रौप्र ४८ : ९.
 कार्णाजिन- -निः काश्रौ १, ६, २३; मीसू ४, ३, १५; ६, ७, ३६.
 कृष्णाजनाभ-^८, प्रसृ. १कृष्ण- द्र.
 कृष्णोरञ्च- प्रसृ. १कृष्ण- द्र.
 कृष्णोस्या, ष्वरेष्ठ २कृष्ण- द्र.
 कृष्णमाण- √कृष् द्र.
 ३कृष्वा^९- -ष्वा कौगृ ५, ५, ६१.
 कृसर, रा^{१०}- पाठ ३, ७३^{११}; -रः गोगृ

२, ७, ९; ९, ५; ७; द्रागृ २, २, २६; ३, १८; -रम् आगृ २, ४, ४; ५, २; अप १, ४८, ३; अशां १३, १; १५, ४; -राम् अप ६८, ५, १.
 कृसर-पायसा(स-अ)पूप- -पैः शंघ २१८.
 कृसरा(र-अ)ञ्च- -ञ्चम् विध ५०, ३१.
 कृसरा-पायस- -से अप ७०, ६, २.
 कृसरा-पायसा(स-अ)पूप- -पैः अप ४४, ३, १०.
 √कृ(स्तुतौ) > कीर्ति- पाठ ४, ११९^{१२}; पा ३, ३, ९७; -र्तिः पागृ २, ५, ३१; आमिगृ २, १, ४; १८; वौगृ; -र्तिम् आश्रौ ८, ७, २३^{१३}; शाश्रौ १०, १०, ६^{१४}; द्राश्रौ १०, ३, ४^{१५}; लाश्रौ ३, ११, ३^{१६}; पागृ; -र्त्या आश्रौ ९, ७, २२; कौगृ ३, १०, ३५; शागृ २, १७, ४; आमिगृ; -र्त्यै आश्रौ १, ३, २३^{१७}; ५, १३, १२; शाश्रौ १३, १४, ६; आपश्रौ २१, ५, १०; वाश्रौ ३, २, १, ३६^{१८}; हिश्रौ १६, २, १९^{१९}.
 √कीर्ति, कीर्तयति वैश्रौ १२, १२ : १३; वृदे ४, ३५; कीर्तयन्ति वृदे ५, १७१; अकीर्तयत् वृदे ४, ६८; कीर्तयेत् आपश्रौ १०, १५, १५; १६, १०, ६; वौश्रौ. कीर्तयिष्यामि अपं ४ : १६; कीर्तयिष्यामः अप २१, १, १.
 कीर्त्यते अप २२, ४, ४; वृदे;

कीर्त्यन्ते वृदे ५, १७२.
 कीर्तन, ना- नस् वृदे ४, ३१; ३२; -ना वृदे ५, ११४; -नात् सु ३१, ८; वृदे ४, ११९; ८, १२३.
 कीर्तयत्- -यत् कौसू १९, ३१; वृदे ७, ५८; १०३; -यन्तः आपश्रौ १४, २२, १; वैश्रौ.
 कीर्तयाम् √अस् (भुवि), कीर्तयामास वृदे ६, २४.
 कीर्तित, ता- -तः आमिगृ २, ४, १२; २; अप २२, ७, ४××; शंघ ४५७ : १०; वृदे ३, ६१; -तम् आमिगृ २, ५, ६ : २१; अप्राय २, १; अप ६२, ५, २; वृदे; -ता कप्र ३, ७, ४; अप २२, ५, ३; शंघ ६५; -ताः अप ६८, ५, १७; शंघ २२४; वौध; -तानि अप ४७, २, ४; -तेन वृदे ४, १२०.
 कीर्त्यमान- नान् अप ५८, १, १; ६४, १, ४.
 कीर्ति-मत्- -मात् अप १, १८, १; २; ४; २१, १; द्विच ९१, १४.
 कीर्ति-युक्त- -क्त. विध ३, ९८.
 कीर्ति-राज^१- -जानाम् चाञ्च ४० : १६.
 √कृ^१ पाधा. तुदा. पर. विक्षेप.
 ३कर^२- पाग ५, ४, ३८.
 ४कार- पा ५, ४, ३८.
 कार-नामन्- -न्नि पा ६, ३, १०.
 करा(र-अ)दान- नस् विध ३, २६.

- a) बहु. <कार्णायन- वा कार्णिग- वा । b) = कृष्णशम् । पाठः ? । c) = ऋषि-विशेष- । वस. ? ।
 d) बहु. <कार्णाजिन- । e) पाठः ? । सपा. शौ १८, ३, ६०. सुष्वा इति, तैश्वा ६, ४, १ पृष्ठा इति च पाभे. ।
 f) नाप. (L तिलोदन- खिचडी [जेमा.]) । व्यु. ? । g) <√कृ इति । h) वैप १. द्र. । <√कीर्ति इति ।
 i) = देव-विशेष- । . . . j) या २, ८; ११, १२ ऋत ४, ६, २ पा ७, २; ७५ पावा ३, १, ८७ परामृष्टः द्र. ।
 k) = राजब्राह्म-भाग- । अप् प्र. (पा ३, ३, ५७) ।

किर- पा ३, १, १३५.

कीर्ण- णे अप ६३, २, १.

कीर्ण-गमस्ति- -स्तियु अप
६८, १, ३३.

√कृ पाधा. क्रया. पर. उम. हिंसायाम्.

√कृत् पाधा. चुरा. पर. संशब्दने.

√कल्त्^प पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये,

कल्पते शांश्रौ १०, १८, ८;
वौश्रौ; माश्रौ ६, २, ५, २६^३†^०;
वाश्रौ २, २, ४, ५†^०; निघ ३, १४;
कल्पन्ते वौश्रौ १३, १९; १३†^०;
वाधूश्रौ; †कल्पताम् आपश्रौ १,
९, १२; १०, १२; १३, १०; ४,
१०, ९^१; १८, ५, १३†^०; वौश्रौ १,
३ : २७××; ११, ११ : १५†^०;
भाश्रौ; वैश्रौ १७, १५ : १†^०;
हिश्रौ १३, २, ४†^०; चाश्र १४ :
३†^०; †कल्पेताम् आपश्रौ ४, १०,
९, ५, २०, ४; वौश्रौ; †कल्पन्ताम्
शांश्रौ ४, ९, २^३××; आपश्रौ;
आश्र ३, ६, ८†^०; हिश्र १, १७, ४;
†कल्पस्व आपश्रौ ७, ४, ५; १९,
२; वैश्रौ; कल्पत > ता अप्राय ६,
६; सकल्पत शांश्रौ १०, १८, ८;
कल्पेत माश्रौ ५, १, ७, १६; चव्यू
२ : ३४; मीसू १, २, २४;
कल्परन् आपश्रौ १२, १४, ४××;
वौश्रौ.
कल्प्यते विघ ७७, ७; कल्प्यन्ते
लाश्रौ १०, ९, १०; वृदे ३, ७४.
कल्पयते वौश्रौ १, १५ : १९; २,
११ : २१†^०; कल्पयति काश्रौ
२, ७, २५; आपश्रौ २, ९,
७××; ९, २, ६†^०; वौश्रौ;

हिश्रौ १५, १, ४५†^०; कल्पयतः
आपश्रौ १४, ३३, ५; कल्पयन्ते
निस् ४, १३ : ७; आश्र १, २३,
६†^०; भाश्र ३, ९ : ६; कल्पयन्ति
काश्रौ २०, ७, १; आपश्रौ;
कल्पयामि आपश्रौ २, १०, ६†^०;
†वौश्रौ; कल्पयामः द्राश्रौ ८, १,
५; लाश्रौ ४, ५, ६; निस् ४,
१२ : १०; †कल्पयाति कौसू
५, १२; १०१, २; †कल्पयताम्
कौसू २०, ५; १२४, २; ३;
†कल्पयतु आपमं १, १२, १;
कौश्र १, १४, १०; शांश्र १, २२,
१३; आमिश्रुः कल्पयन्ताम् माश्रु
१, ३, १; कल्पयस्व वाश्रौ १, ६,
१, २७†^०; †कल्पय आपश्रौ ३,
१२, १^{२०}××; भाश्रौ ३, ११,
१^{२०}××; वाश्रौ; हिश्रौ २, ६,
४†^०; १६†^०; †कल्पयतम् आपश्रौ
१२, २३, १^२; वौश्रौ ७, १४ : १^२;
हिश्रौ ८, ७, १९^२; कल्पयध्वम्
आपश्रौ ६, २०, २†^०; †कल्पयत
वौश्रौ ६, २३ : ६; १०, २३ : १३;
आपमं; कल्पयावहै या १२,
२८†^०; सकल्पयत् सु १, ४; शांश्रु
१, १९, ९†^०; भाश्रु ३, ९ : ५†^०;
†सकल्पयन्त आपश्रौ २१, ११,
७; ८; हिश्रौ १६, ४, ३१^२;
†सकल्पयन् शांश्रौ ४, १०, १;
१२, २०, २; आपश्रौ; कल्पयेत
निस् २, ८ : २५; ५, २; ५; कल्प-
येत् आपश्रौ ६, ३०, २; वौश्रौ;
कल्पयेयुः ह्यसू २, १४ : २३;
आमिश्रु ३, ५, १; २; वौषि १, १; २.

चिकल्पयिषेत् वौश्रौ २४, १ : ७.
कल्प- पाग ६, १, १९९; -ल्यः
आश्रौ १२, ६, १३; आपश्रौ ३,
१४, ७; १६, १६; ५, २६,
२; ६, १७, ११××; वौश्रौ; या
१३, ९; -ल्यम् आपश्रौ १५,
१६, ६; वौश्रौ २४, १ : १; १८ :
१७; २९ : ११××; वाश्रौ; शिघ
११६ : ३९; वौध ३, ५, १; विघ
४३, २३; -ल्यस्य ह्यसू ३, ३ :
३; -ल्पाः आपश्रौ १२, २१, १७;
वौश्रौ २३, ११ : १५; २६; हिश्रौ
७, १, २८; निस् २, १ : ३४;
५, ५ : ९; ६, १३ : २५; १०,
९ : ३; -ल्पान् हिश्रौ २, ६, ४६;
आश्रु ३, ३, १-३; आमिश्रु २,
६, ४ : ९; १२; -ल्पानाम् वौश्रु
३, ९, १५; अप ४६, १, ३; ८, ३;
हिघ १, ३, ८९; -ल्पानि चव्यू
४ : ६; -ल्ये आपश्रौ ६, ४, ३;
७, ९; वैश्रौका १२१; द्राश्रौ १२,
१, ३७; लाश्रौ ४, ९, २३; ६, १,
१०; निस् ८, २; ५७; १०, १२ :
११; १२; कौश्रु ३, ९, ४८; शांश्रु
४, ७, ५३; आमिश्रु ३, ६, २ : ३;
अप २२, १, २; विघ २०, २४^३;
वृदे १, ४१; पावा ४, २, ६६; ३,
६६; -ल्येऽ-ल्ये चव्यू ४ : ७;
-ल्पेन आपश्रौ ५, ९, ५××; वौश्रौ;
-ल्पेयु शांश्रौ १२, २१, २^६; ऋप्रा
७, ५०†^०; -ल्यैः आपश्रौ १८,
५, १३; वौश्रौ ११, ११ : १४;
२२, १५ : ५; वैश्रौ १७, १५ :
१; हिश्रौ १३, २, ४; -ल्यौ

a) ऋप्रा १३, ३५ या ६, ८ पा १, ३, ९३; ७, २, ६० परानुष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १, ११६९ h द्र. ।

c) ंताम् इति पाठः ? यानि. शोधः (तु. सप्र. हिश्रु १, १७, ४) । d) पाभे. वैप १ यातयति ऋ ३, ५९, १ टि. द्र. ।

e) पाभे. वैप २, ३. खं. कल्पय तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १, ११७० e द्र. । g) भाप., नाप.

(विदाह-, पक्ष-, कालमान- प्रमृ.) । वैप १ द्र. ।

भाश्रौ १, ६, ६; छसू ३, १६ :
१५; वैताश्रौ ४३, ४६.

कल्प्य^a - ल्यः कौसू १४१,
३४.

कल्प-कारो (र-उ) क्त- क्तः
शुभ्र १, १७.

कल्प-दृष्ट- -ष्टम् आग्निष्ट २, ७,
४ : ६.

कल्प-प्रदेश- -शः लाश्रौ १०,
१०, ५.

कल्प-प्राय^b - याणि निसू १०,
१२ : २०.

कल्प-ब्राह्मण- -णे मैश्र ९; १४.

कल्प-मात्र- -त्रे पाय २, ६, ७.

कल्प-विचारित- -तानि निसू
९, ११ : २८.

कल्प-विप्रतिषेध- -धे शाश्रौ
१३, १४, ५.

कल्प-विरोध- -धात् मीसू ६,
६, २२.

कल्प-वृत्त^c - -त्तेन लाश्रौ १०,
२, १३.

कल्प-व्रत- -ते अप ४६, २, ७.

कल्प-स-प्राय^d - -यम् निसू ६,
२ : ३१; -याणि लाश्रौ ६, ९,
१२; निसू ६, २ : २९.

कल्प-सूत्र^e - (> काल्पसूत्र^f -
पा.) पाग ४, २, ६०.

कल्प-स्थापिन्- -यिनः शंघ
११६ : ६.

कल्पा (ल्प-अ) ख्यात- -ते
निसू ५, ९ : ३.

कल्पा (ल्प-अ) दि- -दिभ्यः
पावा ३, ३, ५६; -दिषु विध १,
२.

कल्पा (ल्प-अ) ध्यायिन्- -यी
वीय १, ७, ५.

कल्पा (ल्प-अ) लु (ग >) गा-
-गाः वृद्धे ८, १०४.

कल्पा (ल्प-अ) न्त- -न्ते अप
७०^g, ३, ३.

कल्पा (ल्प-अ) न्तर- -रम् मीसू
६, ७, २२.

कल्पै (ल्प-ए) कत्व- -स्वात् शांय
१, १, १४.

कल्पत्- -ल्पत्^h अश्र ११, ५१.

कल्पन- -नम् पाप्रवा २, २.

कल्पना- > ^hनै (ना-ए) कदेशत्व-
-स्वात् मीसू १, ४, ३०.

कल्पमान, ना- -नः अप्राय २, ९१;
-नम् आग्निष्ट १, ५, ३ : ४;

हिष्ट १, १९, ७१; -नाः वौश्रौ
१४, १७ : २६.

कल्पयत्- -यन् आपश्रौ २, २१,
११; ३, ११, २; वौश्रौ; -यन्तः

वैध १, १०, ९; -यन्तम् कौसू
९९, २१.

कल्पयन्ती- -न्ती वौश्रौ ६,
२५ : २; १५, ३० : १४९; भाग्य

२, २ : ११; कौसू १०१, २;
तैप्रा ४, १५.

कल्पयितव्य- -व्यः आपश्रौ ६,
३०, ४.

कल्पयितुम् वौश्रौ २४, १ : ६.

कल्पयित्वा काश्रौ २१, ४, ८;
आपश्रौ.

कल्पयिष्यत्- -प्यन् छसू २,
९ : ९.

कल्पित- -त्तम् वौश्रौ २७, ३ : २.

कल्पिता (त-अ) क्त- -क्तम् काय

६३, १०.

कल्पुप- पाउभो २, ३, १६४.

कल्प्य- -ल्यः वाध १९, ९; -ल्य्यान्
तैप्रा १४, २१.

कल्प, सा- -सः वौश्रौ १९, ७ : २५;
छसू; या १४, ५; -सम् शाश्रौ

१७, ८, १४; १८, २१, १३;
हिश्रौ १८, २, १; वैताश्रौ;

-साः शाश्रौ १०, १८, ३; ८;
जुसू; आग्निष्ट ३, ७, १ : १११^h;

वौषि १, १७ : १०^h; -सान्
आपय २१, ७; -सासु शाश्रौ

४, ९, २१; -से हिश्रौ २१,
१, २; -सेषु शाश्रौ १०, १८,

२; ८; लाश्रौ ८, ८, ३५; -सौ
छसू १, ४ : १.

कल्प-केश-श्मश्रु- -श्रु अप
११, १, ३.

कल्प-केश-श्मश्रु-रोम-नख-
-खौ अप १३, १, ३.

कल्प-प्रमाण- -णानाम् ऋप्रा
१७, १.

कल्प-शब्द- -ब्दे भाशि २६.

कल्पि- -स्यः शाश्रौ १२, २०, १;
-सिः आश्रौ १०, ९, ७; शाश्रौ

४, ९, २; आपश्रौ ४, १०, ९^g;
भाश्रौ; -कसिम् आपश्रौ १०, १,

४; वौश्रौ २, ४ : २३; आग्य १,
२३, १५; -सीः माश्रौ ६, २, २,

६; -प्या वृद्धे २, १४; -प्याम्
निसू १०, १० : १२; -प्यै

वाश्रौ १, ३, ७, ७^h.

कल्पि-सामनसी- -सीभ्याम्
आपश्रौ ५, २०, ४; वाश्रौ १, ४,

४, २२; हिश्रौ ३, ५, ९.

a) विप. । प्राग्दीव्यतीयः ण्यः प्र. । b) विप. (सर्प-सामन्) । वस. उप. = वाहृल्य- वा तुल्य- वा ।

c) अर्थः ? । पस. वा समाहारे द्वस. वेति अग्निस्वामी । d) विप. । वस. । e) तु. पागम. । f) षण् प्र-
(तु. पाका. प्रसू.) । g) वैप १, ११७१ f द्र. । h) पाभे. वैप १ साकम् शौ १२, २, २५ टि. द्र. ।

केकय^a- पाठभो २,३,७; पाग ४, १, १७६.

केकय^b- अयः अप ५६, १, १०.

केकय- पा ४, १, १७८; ७, ३, २; पावा १, १, ५७.

केकर- पाठभो २,३,६४^c; पाग ४, १, ९९^d; -रः अप ३, ३, २^e.

केकरायण- पा ४, १, ९९.

केका^e- (>केकिन्- पा.) पाठभो २, २, ६; पाग ५, २, ११६.

✓केत् पाधा. सुरा. आत्म. आवणे निमन्त्रणे च.

केत- कित् द्र.

केतक- (>केतकी- पा.) पाठभो २, २, ४३; पाग ४, १, ४१^f.

केता-, केतु- प्रसृ. ✓कित् द्र.

केदार^g- पाठभो २, ३, ४५; पाग २, ४, ३१; -रे विव ८५, १७.

केदारक-, कैदार्य- पा ४, २, ४०.

✓केप् पाधा. भ्वा. आत्म. कम्पने गतौ च

केपि^h- अयः अप ४८, ११५^f; निघ ४, २^f; या ५, २४^g; २५^f.

केरलⁱ- पाठभो २, ३, ९९; पावा, पावाग ४, १, १७३.

केरा^j- >केरा(रा-अ)कं- कौं कौस् ३८, ६.

केर^k- >केर-गुल्युलु^l- लु वाश्रौ १, ६, १, ३६.

✓केल् पाधा. भ्वा. पर. चलने.

१केलि- पाठ ४, ११८.

केला(>✓केलाय^m- पा.) पाग ३, १, २७.

रकेलिⁿ- लिम् याशि २, ४८.

कैवट^o- अः अप ४८, ७७; निघ ३, २३.

रकेवल, ला^p- पाठभो २, ३, ९७;

-लः वौश्रौ २५, १७:८; वैताश्रौ;

-लम् आश्रौ ६, ३, १६; काश्रौ;

-लस्य पा ७, ३, ५; पावा १, २, ४५;

-ला वृदे ३, १०८; -लाः वृदे २, ८१;

-लात् अप्रा २, ३, ७; पा ५, ४, १२४;

-लान् या ८, २२^q;

-लानि शंघ ४२८;

विव ५१, ४२; आज्यो ७, २३;

-लाम्याम् पा ७, १, ६८;

-लायाः पावा ५, १, ३३^r;

-ले या ८, २२^q;

मीस् २, ३, २०;

-लेन पावा १, २, ४५;

-लेषु वौध ४, १, ६;

-लैः वृदे १, ८६.

केवली- पा ४, १, ३०;

-लीः वौश्रौ ८, १५: १२; १३.

केवल-ग्रहण- णम् पावा ७, १, ६८;

-णात् पावा ७, ३, १.

केवल-दृष्टत्व- त्वात् पावा ३, १, २.

केवल-यु- पाठना १, ३७.

केवल-वेदि^o- दिः काश्रौसं २९:९.

केवला(ल-अ)घ^p- अः कप्र ३, १, १५;

-यम् वाध्रौ ४, ५: ११; १४; १६.

कैवला(ल-अ)व^q- अः कौट ३,

१०, ३०; वौध २, ७, १६; या ७, ३.

कैवला(ल-अ)दिन्^r- दी कौट ३, १०, ३०;

वौध २, ७, १६; या ७, ३.

केवला(ल-अ)धान- ने जैश्रौ ३ १६.

केवला(ल-अ)शन- नम् मीस् ९, ४, ३६.

रकेवल^o- > कैवल्य- ल्याः वौश्रौ १९: ५.

केवाल^k- (>केवाली- पा.) पाग ४, १, ४१.

केवाली, °सी (> °ली, °सी ✓कृ पा.) पाग १, ४, ६९.

रके(क-ई)श- रक- द्र.

रकेश^r- पाठ ५, ३३; पाग ५, २, २४;

-शः आपघ १, १६, २३; हिष १, ५, २२;

-शाः आपश्रौ ६, २०, २^q;

वौश्रौ; या १२, २५^g;

-शान् आश्रौ २, १६, २३;

आपश्रौ; कौश्रौ २, १, १^q;

उ^q; कौश्रौ १, १७, ७^q;

१६^q; कौश्रौ २, १, १९^q;

काय ४०, १२^q;

वौट २, ४, ८^q;

कौश्रौ १, २१, ३^q;

कौश्रौ ४, ८^q;

१७^q; जैट १, ११: ९^q;

-शानाम् शाश्रौ १८, २४, २३;

शंघ ३९१; आपघ १, १६, १४;

हिष १, ५, १३;

-शन कौस् ५१, १९;

-शेषु वैश्रौ १२, ६: ४;

a) = क्षत्रिय-विशेष-, तद्-देश-। व्यु. ?। b) स्वार्थे षण् प्र.। c) = वक्रदृष्टि-। व्यु. ?। < ✓कि इति। d) तु. पागम.। व्यप.। e) = मयूर-वाणी-। व्यु. ?। f) तु. पागम.। g) = क्षेत्र-, तीर्थ-। व्यु. ?। < ✓कद् इति पाठभो.। h) वैप १ द्र.। i) = जनपद-, तद्-राजन्-। j) = वनस्पति-विशेष-। पंटेरक-। व्यु. ?। k) अर्थः व्यु. च ?। l) समाहारे द्रस.। m) विलासे वृत्तिः (तु. पासि.)। n) = ऊष्म-विशेष-। व्यु. ?। o) विप.। वस.। p) = अथ्याय-, सूक्त-। q) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। r) = बाल-। वैप १ द्र.। s) = रश्मि-। t) पामे. वैप १ इमश्रु शौ ६, ६८, २ टि. द्र.। u) पामे. वैप १ परि. केशइमश्रु शौ ८, २, १७ टि. द्र.। v) पामे. वैप १ विद्वान् शौ ६, ६८, ३ टि. द्र.।

हिश्री ६, ८, ८; १०, १, ३२;
माग २, १४, २६; कौसू ३३,
१३; पावा ६, १, ६१; -शैः द्राग्य
२, ३, २४; अप ६९, २, १.
१कैशिक-, कैश्य- पा ४, २,
४८.
केश-कल्मल-शैवाल- -लाः शंघ
३७४.
केश-कीट- -टान् वाध १४, २३;
-टैः शंघ ४३१; विध २३, ३८.
केशकीट-युत- > °त-घ्रात-
वाससाहत^१- -तम् सुध ६०!^१.
केशकीटा(ट-अ)वपन्न, न्ना- -न्नम्
गौध १७, ९; -न्ना अप ३७,
७, १.
केश-कीट-क्षुत-वचो(चस्-अ)मि-
हत- -तम् सुध ८८ : ३.
केश-जाह- पा ५, २, २४.
केश-तुष-कपाला(ल-अ)स्थि-भस्मा-
(स्म-अ)ङ्गार- -रान् विध ६३,
२४.
केश-नख- -खान् शंघ ४४३.
केश-नख-कीट-पतङ्ग- -ङ्गैः आश्री
३, १०, २०.
केश-निधान- -नात् आपगृ १२, ३;
१६, ८.
केश-पक्ष- -क्षम् कौगृ १, २१, ८;
शांगृ १, २८, ९; -क्षयोः आगृ
१, ७, १६; -क्षस्य कौसू ५३,
२०; २३; -क्षान् आश्री १०, ८,
८; आपश्री १४, २२, १; २०,
१७, १३; वैश्री २१, ८ : ५;
हिश्री १४, ४, २; १५, ४, ३५;
हिपि २ : १३; १४ : १०; -क्षे

आगृ १, १७, ८; -क्षौ कागृ
३१, ४.
केश-प्रतिग्रहण^८- -णम् कौगृ १, २१,
६; -णाय शांगृ १, २८, ७.^१
केश-प्रतिग्राह^९- -हाय गोगृ ३, १,
७; द्रागृ २, ५, ५.
केश-प्रसाधन- -नम् वागृ १६, ९.
केश-प्रावरण- -णेषु अप ७०^२,
२१, ४.
केश-मण्डल- -लानि कौसू ३६,
१७.
केश-यत्न^१- -लान् वागृ ४, १८.
केश-रोम-तुपा(ष-अ)ङ्गार-कपाला
(ल-अ) स्थि-विण्-मूत्र-पूय-
शोणित-रेतः-श्लेष्मो (ष-उ)
च्छिष्ट- -टान् वैध ३, ३, २.
केश-ललाट-वक्त्रा (वत्र-अ) न्त^१-
-न्ताः शंघ ३६.
१केश-व- पा ५, २, १०९; -वात्
काश्री १४, १, १४.
केशवा(व-आ)र्य- -स्ये काश्री
१५, ५, २२.
केश-वत्- पा ५, २, १०९.
केश-वपन- -नम् आगृ १, २२, २५;
आमिगृ ३, ७, ४ : ७; -नात्
आपश्री १०, ६, १०.
केशवपन-वर्जम् वौध २, १, ७१.^२
केशवपना(न-अ)र्थे- -र्थे काश्री
१५, ८, २४.
केशवपनीय^३- -यः आश्री ९, ३,
२४; शांश्री १५, १६, १; काश्री
१५, ९, १५; २१; वौश्री १२,
२० : १७; २६, २ : १०; ३ :
९; १६; हिश्री १३, ७, ३०; -यस्य

लाश्री ८, ११, १०; -याय वौश्री
१२, २० : ६; २६, २ : १४;
वाश्री ३, ३, ४, ४०; लाश्री ९, ३,
१; -ये आपश्री १८, ८, ४; निसू
७, ७ : १६; लाश्री ९, ३, १४;
-येन आपश्री १८, २२, ९; हिश्री
१३, ७, २९; लाश्री ९, ३, ३.
केशवपनीया(य-अ)न्त^१-
-न्तः वौश्री २६, २ : २५.
केश-वर्जम् आपश्री ५, ४, ९; १०, ६,
३; वौश्री २, १२, २६; कौसू
६७, १६.
केश-वर्धन-काम- -मः अय्य ६,
१३६.
१केश-वाप^१- -पाय आपश्री १८,
१५, ६; वाश्री ३, ३, २, ४५;
हिश्री १३, ५, २७; कागृ ४०,
१२; १८; मागृ १, २१, ७; १२;
वागृ ४, १७; २३.
२केश-वाप-> °प-विधायक- -कः
भाशि ८.
केश-वेश- -शान् आगृ १, १७, १८.
केश-शब्द- -ब्दे आगृ १, १८, ३.
केश-शेष-करण- -णम् पागृ २, १,
२१.
केश-श्मश्रु- पागृ २, २, ३१; -श्रु^२
काश्री २, १, ९; ७, २, १३;
आपश्री; आमिगृ १, ३, २ :
१७; हिगृ १, ९, १६; हिश्री
-श्रू भागृ ३, ६ : २; -श्रूणि
शांश्री १८, २४, १९; आपश्री;
-श्रून् वागृ ९, ३, ३!^१.
केशश्मश्रु-वापन- -ने कौगृ ३,
९, ३७.

a) समाहारे द्वस. ।

b) °तः इति पाठः? यनि. शोधः ।

c) = केशग्रहण-साधन- ।

उस. उप. करणे वा भावे वा ल्युट् प्र. ।

d) परस्परं पामे. ।

e) = नापित- । उस. षण्णन्तम् ।

f) पस. उप. = रचना-? ।

g) विप. । द्वस. > वस. ।

h) वैप १ द्र. । िं) विप. । वस. ।

j) पामे. पृ. ९३० प द्र. ।

केश-श्मश्रु-नख- -खानाम् अप
 ६८, २, ३८.
 केश-श्मश्रु-नख-लोम-निकृन्तन-
 -नानि काश्रौ २५, ७, १८.
 केश-श्मश्रु-रोमन्^३- -म कौस् ५४,
 ११; -माणि वैश्रौ १, ४ : ६.
 केश-श्मश्रु-रोम-नख- -खानि गोग्र
 ३, ४, २३; कौस् ६७, १५; ८०,
 १३.
 केश-श्मश्रु-लोम-नख- -खानि
 आश्रौ ६, १०, २; आपश्रौ १५,
 २१, ७; वौश्रौ २८, ८ : १२;
 आग्र १, १८, ६; ४, १, १६; ६, ४;
 कौग्र ३, १, २; आमिग्र; वौघ २,
 १०, ११; ३, १, ८; ७, ६; ८, २.
 केश-श्मश्रु-लोम-नख-कर्मन्-
 -र्मन्म्यः गौपि १, ७, २.
 केश-श्मश्रु-लोम-नख-वापन- -नम्
 आपघ २, ३, ६; वौघ १, ३, ७;
 २, १, ७०; ३, १, २१; हिघ २, १,
 ३७; -नेन वौग्र २, ६, ९.
 केश-संमित- -न्तः आग्र १, १९,
 १३^b; शांग्र २, १, २३; पाग्र २,
 ५, २८; वाघ ११, ५५.
 केश-स्तुक्- -काव कौस् ३३, ४;
 ४२, १९.
 के (श>) शा-केशि^c-> ०शि-संग्र-
 हण- -णाव शंघ ३२८.
 केशा(श-अ)ग्र- -आणि कौग्र १, २१,
 १२; शांग्र १, २८, १५.
 केशा(श-आ)दि- -दि काश्रौ २५,
 ७, १९; -दीनि वैग्र २, १३ :
 १२.
 १केशा(श-अ)न्त- > ०न्तिक- -कः
 कौग्र २, १, २३; ऋग्र ३, ८, १२.

२केशा(श-अ)न्त^d- -न्तः पाग्र २,
 १, ३; वैग्र २, ४ : १; -न्तम्
 वौश्रौ २, ८ : ६; २२, ९ : १६;
 वाग्र ४, ८; १५; जैग्र १, ७ : ६;
 ११ : १०; -न्ताः कौग्र १, १,
 ९; शांग्र १, ५, ८; -न्तान् कौग्र
 १, १०, ६; शांग्र १, १६, ६; गोग्र
 ३, १, ३; -न्ते माश्रौ २, १, १,
 २१; कौग्र १, १, ५; शांग्र १, ५,
 २; पाग्र १, ४, २; २, १, ७; १७;
 १९; २३; २४; काग्र ४०, ११;
 माग्र १, २१, ४; वाग्र ४, ९.
 केशान्त-करण- -गम् गोग्र ३,
 १, २; जैग्र १, १८ : ३; -गेन जैग्र
 १, १९ : ६.
 केशान्त-ललाट-नासा-देश^e-
 तुल्य- -ल्याः विघ २७, २२.
 केशान्ता(न्त-आ)यत- -न्तम्
 वैघ २, ३, २.
 केशा(श-अ)ल्पत्व- -त्वम् शंघ
 ३७८.
 केशा(श-अ)वधि-> ०धि-ललाट-
 नास-तुल्य- -ल्याः शंघ ३६.
 केशिन्- -शिनः आपश्रौ १८, २२,
 १०; २२, २८, २१; वौश्रौ १८,
 १९ : ४१; २६ : १०; वाश्रौ ३,
 ३, ४, ४२१; हिश्रौ २३, ४, ४२१;
 कौस् ७२, ३०१; वौग्र २, ४,
 ३१; वाग्र ४, ५१; वाघ २, २८;
 ऋग्र २, १, १६४^२; वृदे १, ९४;
 ९५१; णंग्र २, १०; १४, २;
 निघ ५, ६१; या १२, २७१;
 भाशि २७१; -शिनम् वृदे २,
 ६५; -शिना आश्रौ ६, ११, ९;
 -शिनाम् वृदे १, ९५; -शिनी

या १२, २६; -शी वौश्रौ १४, ७;
 २३१; १७, ५४ : ५; १८, ३८ :
 १६१; वाधूश्रौ ३, ४६ : २१;
 ९४ : ४१; ४, ३७ : ३६; १०२ :
 १३३; ऋग्र ४८, १४२१; ऋग्र
 २, १०, १३६१; वृदे १, ९४;
 ८, ४९; निघ ५, ६१; या १२,
 २५१; २६१; -०शीश्न्
 वाधूश्रौ ४, ३७ : ७.
 केशिनी^f- पाग ४, १,
 १५१; -नी वाधूश्रौ ४, ३७ :
 ३०; ३१; आपमं २, १३, १०१;
 आमिग्र २, १, ३ : १६१; काग्र
 ३५, ११; भाग्र १, २३ : ५१;
 हिग्र २, ३, ७१; -नीः वाधूश्रौ
 ३, ४६ : १६; वैग्र ३, १५ : ५;
 -नीम् आपश्रौ १०, १०, ६;
 हिश्रौ १०, २, १४.
 केशिन्य- पा ४, १,
 १५१.
 केशिन- पा ६, ४, १६५;
 -नम् ऋग्र २, १०, १३६; वृदे
 ८, ४९.
 केशिन्गृहपतिक^g- -कानाम्
 वाधूश्रौ ३, ४६ : १.
 केशिन्यन्- -ज्ञः वौश्रौ १७,
 ५४ : ४.
 केशि-साध्य- -ध्याः वृदे २,
 १२.
 केशी-ब्राह्मण^h- -गम् अप ४६,
 २, ८.
 केशरⁱ- पाग २, ४, ३१.
 केशरिन्- -रिणः विघ १, २, ६.
 १केशवाल- -ले दंवि २, ९.
 २केश-व- २केश-व- द्र.

a) समाहारे दत्त. । b) तु. श्रान. । c) पा ५, ४, १२७ । d) विप., नाप. (शितो-भाग, चूडा-
 [संस्कार-विशेष-]) । वस. । e) विप. । दत्त. > क्त. । f) व्यप. । g) = गृप-विशेष- । h) = दीक्षा, प्रजा,
 राक्षसी-प्रभृ. । i) विप. (सूक्-), । j) विप. । वस. । k) कौपि^० इति लृटो. । l) तु. पागम. । = केशर- ।

२केशव^a- वम् आम्रिण २, ४, १० :
 ३९; ५, ७ : ९१; वीण १, ११,
 ७१; वैण ३, १३ : ३; वीध २,
 ५, २४१; विध १, ३३; ४९, ८;
 -१वाय आम्रिण २, ४, १० : ८;
 ३, ११, ४ : १३; १४.
 केशवा(व-आ)दि- दीनि आम्रिण
 २, ७, ६ : १७.
 केशवादि-द्वादशनामन्- मभिः
 आम्रिण २, ४, १० : ३५.
 केशवादि-नामन्- मभिः
 आम्रिण २, ४, १० : १६.
 केशवा(व-आ)घ- -घैः वैघ ३,
 १०, १.
 केशवा(व-आ)लय- -यम् विध १,
 ३९.
 केसर^a- पाउभो २, ३, ६८.
 केसर-पा(श>)शा^b- -शा आपश्रौ
 १८, १०, २१; हिश्रौ १३, ४, १०.
 केसर-पुच्छ- -च्छेपु काश्रौ २०, ५,
 १६.
 १केसर-प्राव(न्ध>)न्धा^a- -न्धायाः
 अत्रा ३, १, ७; शौच ४, ९६.
 १के(वधा.) पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 १कायमान^c- -नः^d जैश्रौका ५३;
 अत्राय ६, २; अत्र ४८, ११५;
 सात्र १, ५३; निघ ४, १०; या
 ४, १४४.
 १चकान- -नः आश्रौ ६, ३, १;
 शाश्रौ ९, ५, २.
 कैकय- केकय- द्र.
 कैकरायण- केकर- द्र.

कैकस-, °सी- २कीकस- द्र.
 कैकेय- केकय- द्र.
 कैङ्करायण-, °लायन- १किङ्करL, ल-
 द्र.
 कैतकायनि- कितक- द्र.
 कैतव- १कितव- द्र.
 कैतवायन-, °थनि- २कितव- द्र.
 कैतायन- कित- द्र.
 कैदर्भ- किदर्भ- द्र.
 कैदारक-, कैदार्य- केदार- द्र.
 कैन्दर्भ- किन्दर्भ- द्र.
 कैन्दास-, °सायन- किन्दास- द्र.
 कैन्नर- किन्नर- द्र.
 कैरणक- २किरण- द्र.
 कैरव- (>°विल्र>]णी- पा.)
 पाउभो २, ३, १३५; पाग ५, २,
 १३५.
 कैरात^a- -०त अत्र ५, १३१.
 कैभेदुर^a- पा, पाग ४, ३, ९३.
 कैलात- किलात- द्र.
 कैलालप-, °पायन- किलालप- द्र.
 कैलास^a->°समैनाक-मुख- खान्
 शंघ ११६ : ११.
 कैवर्त^b->°ती(ति-आ)दि- -दि अत्र
 ३६, १४, १.
 १कैशिक- रकेश- द्र.
 २कैशिक^b- कम् नाशि १, ४, ९;
 ११.
 कैशिक-मध्यम^b- -मः नाशि १, ४,
 १०.
 कैशिन-, कैशिन्य- रकेश- द्र.
 कैशिवायन^c- -नाः वौश्रौप्र १७:१५.

कैशोरि- रकेशोर- द्र.
 कैशोरिकेय- १केशोर- द्र.
 कैशोर्य- रकेशोर- द्र.
 कैश्य- रकेश- द्र.
 कैष्किन्ध- किष्किन्धा- द्र.
 कोक- पाउभो २, २, ४.
 कोकण^d- (>°कणी- पा.) पाग ४,
 १, ४१.
 १कोकिल, ला^b- पाउ १, ५४; पा, पाग
 ४, १, ४; -लः माशि १, १०;
 याशि १, ९; नाशि १, ५, ४;
 -लम् शंघ ४२६; -लस्य अत्र
 ७०^३, ३, ४; -लाः अत्र ७१,
 ३, २; -लान् आम्रिण २, ४,
 ८ : ६.
 १कौकिल- पावा ४, १, १२०.
 २कोकिल- -लस्य चात्र ३८:१२.
 कोकुवा^c- -वा या ५, २६^m.
 कोकूयमाना- ✓कु द्र.
 कोट- (>१कोटर- पा.) पृ ८५९
 द्र.
 २कोटर^a- पाउभो २, ३, ३८ पाग २,
 ४, ३१०; ६, ३, ११६.
 कोट(र>)रा-व(न>)ण- पा ६,
 ३, ११६; ८, ४, ४.
 कोटव- पाउभोवृ २, ३, १३५.
 कोटा->✓कोटाय पावा ३, १, १७.
 १कोटि^b- पाउ ४, ११८; -टिम् अत्र
 २, ३, १; ३१, ६, २; -ट्यः शंघ
 ८०; या १४, ७; -ट्याम् अत्र
 २५, २, ५^३; ३०^३, २, १.
 कोटि-भाग- -गम् अत्र २, ३, २.

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) घा. कान्तौ वृत्तिः । d) पामे. वैप १, ११७३ । द्र. ।
 e) < ✓चाय वा ✓कम् वेति या. दे. । f) = देश-विशेष- । व्यु. ? । कौमदुरे- इति पाका. ।
 g) = धीवर- । व्यु. ? । के-वर्त- (<क- [जल-] + ✓वृत्) + मत्वर्थीयः प्र. (तु. अभा.) । h) = राग-विशेष- । व्यु. ? ।
 i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) अर्थः व्यु. च ? । काकण- इति [पक्षे] भारडा., कण- इति पाका. । k) = पक्षि-
 विशेष- । व्यु. ? । < ✓कुक् इति अभा. प्रभृ. । l) = जिह्वा- । व्यु. ? । m) < ✓कु । n) व्यु. ? ।
 o) तु. पागम. । p) = संख्या-वचन- । व्यु. ? । < ✓कुद् इति अभा. ।

कोटि-मध्य- -ध्यात् अप ३, १,
१५.

कोटि-संमित- -तः अप ३१, ४, २.

कोटि-होम- -मः अप ३०^३, १, १;
२; -मम् अप ३०^३, २, ९; ३१,
२, २; ३, ३; ४, ५; ५, ३; ७, २;
८, ३; १०, ३; -मस्य अप ३१,
४, १; ५, ४; १०, १; -मे अप
३१, ७, ५; ३४, १, ६; -मेषु अप
७०, ४, ५.

कोटिहोम-फल- -लम् अप ३१,
१०, ४.

कोटिहोम-समन्वित- -तैः अप
७०, ४, ३.

रकोटि^a- -य्याः वौश्रौ १९, ६ : ८;
आपशु १६, १०; हिशु ५, ३१;
-य्याम् वाध २, ४२; वौध १,
५, ७९; आपशु ३, २; १५; हिशु
१, ४१; ५५; -य्योः आपशु १५-
१६, ९; हिशु ५, १६; ३०.

कोटीर- पाठभो २, ३, ४८.

कोण^b- ङेषु अप ६, १, १४.

कोद्रव^c- पाठभो २, ३, १३५.

कोद्रव-चणक-माप-मसूर-कुल्यो-
(त्थ-उ) दालक-वर्जम् शंघ
१३२.

कोद्रव-वीन-राजमाप-मसूर-कुल्य-
वरक-वर्जम् आमिष्ट २, ६, ४ :
१७.

कोद्रवो (व-उ) दार-वरक-वर्जम्
वौश्रौ २८, १३ : २.

कोप- √कृप् द्र.

को(क-उ)पध- प्रभृ. १क- द्र.

कोपन-, कोपित- √कृप् द्र.

?कोभागिनसत्र^d- त्रेषु वैश्रौ २१,
६ : ५.

कोम्^e माश्रौ ५, २, ३, ११.

कोमल- पाठ १, १०९.

कोयष्टिक- पाठभो २, १, १८७.

कोरक^f- पाठ ५, ३५; पाग ५, २,
३६.

कोरकित- पा ५, २, ३६.

कोरण्ड^g- पाठना १, १२०.

कोरदूप^h- पाठभो २, ३, १६७.

कोलाहल- पाग २, ४, ३१ⁱ.

?कोलोप्टाः वौश्रौ २६, १७ : १२.

कोविदार^j- पाठभो २, ३, ४५^k; पाग
४, २, ८०^k; -रम् वैध ३,
५, ८.

कोविदार्य- पा ४, २, ८०.

कोविदार-वट-पिप्पल-शाण-शाक-
-रुम् विध ६८, ३१.

कोविदार-शमी-पीलु-पिप्पल (ल-इ)

हुद-गुगुल-ज- -जम् विध
६१, ४.

कोश^l- पाठभो २, ३, १४०; पाग २,
४, ३१; -शः वाश्रौ १, ६, ५,
१०; वौग २, ५, ४१^m; अप ४८,
१००^m; विध ९, १०; ३१;
१४, १; अत्र ११, २ⁿ; निघ १,
१०^m; या ५, २६^o; -शम्
वौश्रौ १४, १४ : १४; १९, ७ :
३३ⁿ; ऋकौ १, ५, ४; ३, १०, ३;
आमिष्ट २, ५, १० : २८ⁿ; जैग
१, ३ : ५; कौस् ३६, १५; अप
४६, ५, २ⁿ; ६३, ३, ९; विध ९,

१५; सुवप ८८ : १०; -शात्
कौस् १३९, २५; २६ⁿ; अप ४१,
३, २ⁿ; ६७, ६, ५; गौध १०, ४७;
अत्र १९, ७२ⁿ; -शात् आपश्रौ
९, १९, २; वैश्रौ २०, ३८ : ५;
हिश्रौ १५, ८, २४; आज्यो ७,
५; -शे आपश्रौ ९, १९, १;
वौश्रौ २, ५ : १०ⁿ; १४, १४ : १६ⁿ;
वैश्रौ २०, ३८ : ४; कौस् ४७,
४५; ४९; अप ७१, १९, ७;
विध ३, ५७; पावा ६, ४,
१४४; -शेत जैग २, ५ : १३;
कौस् २८, ९; -शेभ्यः अप ७०ⁿ,
२१, २.

कोशी-> ष्ठी-धान्य-

-न्यम् वौपि ३, १२, १ⁿ.

कोशीधान्य^o- -न्यम्

वौश्रौ २, २० : ४; २४, २१ : ९;
२८, ८ : ४.

कोशेय- पा ४, ३, ४२; पा, पाग
५, ३, ११७; -यम् वाध ११,
६६; विध ४४, २६.

कोशेया (य-आ) विक-

-कयोः विध २३, १९; -कानि
वैध ३, ४, २.

कोश-का(र>)री- रीम् आमिष्ट
२, १, १ : १२; हिग २, २, ६.

कोश-क्षय- -यम् अप ३, ३, २.

कोश-पतिपालन- -नम् शंघ २५१.

कोश-विल- -ले आश्रौ ८, ३, १९;
वैताश्रौ ३२, २५.

कोश-मिश्र- -अम् वौश्रौ १४, १४ :
३५.

a) = अग्रभाग-, कोण-विशेष-। व्यु. ? < कुद् इति अभा. । b) वैप ३ द्र. । c) = अन्न-विशेष-। व्यु. ? । d) पाठः? एकाहाहीनसत्र-> त्रेषु इति शोधुक्तः ? संस्कर्ता । e) क्राष्टासु (मा २७, ३७) इत्यस्यास्यरेण सह कोम् इत्यस्य योगः द्र. । f) = कृत्कान्-। व्यु. ? < √कृप् इति पाठ. । g) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ? । h) नाप. । व्यु. ? । i) तु. पागम. । j) √कन् इति पाठभो., < कु- [भूमि-] + वि-√दृ इति अभा. । k) अर्थः ? । l) वैप १ द्र. । m) = मेघ-नामन्-। n) कौ इति B. । o) त्वाथे प्र. ।

कोशची^३- ची: ऋप्रा १४, ४३^१.
 कोशन्व(त>)ती- स्य: निसू २,
 ११: १५.
 कोश-वर्जम् विघ ९, १४.
 कोश-वाहन-संक्षय- -य: अप ३,
 ३, ५
 कोश-स्थान- -ने विघ ९, १७.
 कोशस्थानीय- -यानि या ५,
 २६.
 कोशा(श-अ)पिधान- -ने हिथ्रौ ५,
 ५, ६; -नेन आपथ्रौ ८, १७, ७^१;
 माथ्रौ ८, २१, ४.
 कोशल- कोसल-द्र.
 कोशात(क>)की^३- पाउभो २, २,
 ४३; पा, पाग ४, १, ४१; पाग
 ४, ३, १६७; -त्रया: कौगृ १, १५,
 १; शांठ १, २३, १.
 ? कोशोप्यौ: वेताथ्रौ ३४, ९.
 कोप- √कृप् द्र.
 कोष्ट^०- पाउ २, ४; -ष्टम् आशि
 ८, ७; -ष्टान् आज्यो ७, ५;
 -ष्टाम्याम् कौसू १८, १५; -ष्टे
 वौथ्रौ २०, ६: ४; अप ७०^२,
 २, ५; आशि ८, ७.
 कोष्ठा(ष्ट-आ)गार-पति- -तिम् अप
 ५, ५, ३.
 कोष्य- -भ्यम् ऋप्रा १३, १.
 कोष्ण- किम्-द्र.
 कोसल, शाल^३- पाउठ १, १०६^६;
 पाउभो २, ३, १८.
 कौसल^१- -ला: अप १, ८, १०^०.
 कौसल्य- पा ४, १, १७१; -ल्य:
 शांथ्रौ १६, ९, १३; -ल्यस्य
 शांथ्रौ १६, २९, ६.

कौसल्यायनि- पा, पावा ४, १,
 १५५.
 कोसल-कौशाम्बी-तीर- -रम् अप
 ५६, १, २.
 कोसल-तोसल-वेणातट-सज्जपुर- -रा:
 अप ५६, १, ४.
 कोहड^३- (> कौहड- पा.) पाग ४,
 १, ११२; -डा: वौथ्रौप्र ४३: १.
 कोहल^३- पाउभो २, ३, १९.
 कौहलि-> कौहली-> °ली-पुत्र-
 -त्र: तैप्रा १७, २.
 कौहलीय- -या: गोगृ ३, ४, ३३.
 कौहलीय-मता (त-अ) लु
 (ग>) गा- -गाम् कौशि १.
 कोहित^३- (> कौहित- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 कौकक्षि^३- -क्षय: वौथ्रौप्र १७: १६.
 १ कौकिल- १ कौकिल-द्र.
 २ कौकिल(ल>)ली^३- -ली आपथ्रौ
 १९, १०, १३; हिथ्रौ २३, १,
 ६०; द्राथ्रौ १३, ४, १४; लाथ्रौ
 ५, ४, २०; -लीम् आपथ्रौ १९,
 ५, १; हिथ्रौ २३, १, १; -ल्या:
 माथ्रौ ५, २, ११, १; -ल्याम्
 वाथ्रौ ३, २, ८, १; द्राथ्रौ १३, ४,
 १५; लाथ्रौ ५, ४, २१.
 कौकिली-याज्या- -ज्या: मैअ ८.
 कौकिली-सूक्त- -क्तानि वौगृ ३, १,
 २४.
 कौकुण्डेय^३- -या: वौथ्रौप्र ४३: २.
 कौकुशालि^३- -लय: वौथ्रौप्र ४८: ७.
 कौकुत्य^३- -स्या: वौथ्रौप्र ३५: २.
 कौककुटाक्षिक-, °टिक- कुककुट-द्र.
 कौकवायन- कुक्व-द्र.

कौक्षक-, कौक्षेय- प्रम्., कौक्षेयक-
 कुक्षि-द्र.
 कौङ्कुम- कुङ्कुम-द्र.
 १ कौचवार- कुचवार-द्र.
 २ कौचवार- २ कूचवार-द्र.
 १ कौचवार्य- कुचवार-द्र.
 २ कौचवार्य- १ कूचवार-द्र.
 कौचुक- कुचुक-द्र.
 कौज- कु-ज-द्र.
 कौजायन-, °न्य- २ कुज-द्र.
 कौजभारिक- कुज-द्र.
 कौट-तक्ष- कुटि, टी-द्र.
 कौटभारिक- ४ कुट-द्र.
 कौटसाक्ष्य- कूट-द्र.
 कौटायन- ३ कुट-द्र.
 कौटि^३- (> कौट्या- पा.) पाग ४,
 १, ८०.
 कौटिक- कूट-द्र.
 कौटिलिक-, १ कौटिल्य- √कुट् द्र.
 २ कौटिल्य- २ कुटिल-द्र.
 कौटीगय-, °व्य- कुटि, टी-द्र.
 कौटीय- कूट-द्र.
 कौटीर- २ कुटीर-द्र.
 कौटुख्य- कुटुख्य-द्र.
 १ कौट्य- ३ कुट-द्र.
 २ कौट्य- कूट-द्र.
 कौठप^३- -पा: वौथ्रौप्र २२: २.
 कौठार- २ कुठार-द्र.
 कौठारिका- कुठारिका-द्र.
 कौड्येयक- कुड्य, ल्या-द्र.
 कौणप- कुणप-द्र.
 कौणपतन्त्रि- कुणपतन्त्र-द्र.
 कौणय- २ कुणि-द्र.
 कौण्डपायिन- प्रम्. १ कुण्ड-द्र.

a) वैप १ द्र. । b) = वनस्पति-विशेष- । व्यु. ? < कोश- + √ अत् इति अभा. । c) नाप. ।
 व्यु. ? < √ कृप् इति पाठ. । d) = जनपद-विशेष-, तद्राज- । e) °शो इति पाठ: स च वावि. द्र. ।
 f) स्वार्थे प्र. । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) = याग-विशेष- [सौत्रामणी-] । व्यु. ? । i) संस्कृतुः
 टि. भूयान् पाभे. ।

कौण्डल-, °लिक- २कुराडल- द्र.
 कौण्डायन- ३कुराड- द्र.
 १कौण्डिन- १कुण्डिन- द्र.
 २कौण्डिन- २कुराडिन- द्र.
 कौण्डिनेयक-, १कौण्डिन्य-
 १कुराडिन- द्र.
 २कौण्डिन्य- कुराडिनी- द्र.
 कौण्डेयक- कुण्डया- द्र.
 कौण्डोपरथ^{अ^३ब}- (> °थीय- पा.)
 पाग ५,३,११६.
 कौतप- कुतप- द्र.
 कौतस्कुत-, °लादि- किम्- >
 कु-तस् द्र.
 कौतस्त- कुतस्त- द्र.
 कौताल^१- (> °लक- पा.) पाग ४,
 २,५३.
 कौतुक- प्रमृ. कुतुक- द्र.
 कौतूहल-, °ल्य- कुतूहल- द्र.
 कौतोमत^०- तेन गोगृ ४, ५, १८;
 द्राय ४,१,११.
 १-२कौत्स-, °त्सायन-, °त्स्य- कुत्स-
 द्र.
 कौथुम- प्रमृ. कुथुमिन्- द्र.
 कौदामिक- किम्- > कुदामन्- द्र.
 कौदाली- कुदाल- द्र.
 कौद्रा[न्द्रा]यण^१- (> °णक^०-)
 पाग ४,२,८०.
 कौद्रैय- कुद्रि- द्र.
 कौनामि-, कौनामिका-, °की-
 किम्- > कु-नामन्- द्र.
 कौन्त- कुन्ति- द्र.
 कौन्तायनि- २कुन्ती- द्र.
 ?कौपन^१- नम् आमिप्र ३, १०, ४ :
 १७.

कौपिञ्जल- कुपिञ्जल- द्र.
 कौपीन^१- पा ५,२,२०.
 कौपीना(न-आ)च्छादन^१- न्ता: वीध
 २,६,२१.
 कौपीना(न-आ)च्छादन-मात्र- न्त्रम्
 विध ९६,१३.
 कौपीना(न-आ)च्छादना(न-अ)र्थ-
 -र्थम् गौध ३,१८.
 कौपुत्रक- किम्- > कु-पुत्र- द्र.
 कौवाह्य^१- ह्या: वौश्रौप्र १० : ३.
 १,२कौवेर-, °वेरक- कुवेर- द्र.
 कौवेरिकेय- कुवेरिका- द्र.
 कौवेरी- कुवेर- द्र.
 कौभोजि^१- न्जि: वौश्रौप्र ४५ : ४.
 कौमण्ड- प्रमृ. कुमण्ड- द्र.
 १,२कौमार- १कुमार- द्र.
 ३कौमार- २कुमार- द्र.
 कौमारवत्य^१- स्या: वौश्रौप्र १० : २.
 कौमारायण- २कुमार- द्र.
 कौमारिक- १कुमार- द्र.
 कौमारिकेय- २कुमारिका- द्र.
 कौमारी- २कुमार- द्र.
 कौमुदगन्धि- कुमुद- द्र.
 कौमुदादि^१- दय: वौश्रौप्र ४८ : ३.
 कौमुदिक- कुमुद- द्र.
 कौमेदुर- कैमेदुर- टि. द्र.
 कौम्भ-, कौम्भकारक-, कौम्भायन-,
 कौम्भायनि- कुम्भ- द्र.
 कौम्भेयक- २कुम्भी- द्र.
 कौम्भ्य- कुम्भ- द्र.
 †कौरयाण^१- ग: अय ४८, ११५;
 निघ ४,२, या ५, १५; -णस्य
 ऋत्र २,८,३६.
 कौरव-, °वक-, °वायणि- प्रमृ.

१कुर- द्र.
 कौरुपथि- कुरुपथ- द्र.
 कौरुपाञ्चाल- १कुर- द्र.
 कौर्म्य- १कूर्म- द्र.
 १कौल- १कुल- द्र.
 २कौल- २कुल- द्र.
 ३कौल- ३कुल- द्र.
 कौलक- २कूल- द्र.
 कौलटिनेय-, °ट्येय-, °ट्ये- १कुल- द्र.
 कौलत्थ- कुलत्थ- द्र.
 कौलनामिका-, °की-, कौलपत-,
 कौलपुत्रक- १कुल- द्र.
 कौलव^१- नम् आज्यो ४, ५; -वस्य
 आज्यो ५,१६; -वे आज्यो ५,५.
 कौलायन- ५कुल- द्र.
 कौलाल-, °लक- कुलाल- द्र.
 कौलाश्व- कुलाश्व- द्र.
 कौलास- कुलास- द्र.
 कौलि- ५कुल- द्र.
 कौलिशायनि- २कुलिश- द्र.
 कौलिशिक- १कुलिश- द्र.
 कौलुन- कुलुन- द्र.
 कौलूत- कुलूत- द्र.
 कौलून-, °नक- कुलून- द्र.
 १कौलेयक- १कुल- द्र.
 २कौलेयक- ३कुल- द्र.
 ३कौलेयक- ३कुल्या- द्र.
 कौल्मलवाहिप- कुल्मल- द्र.
 कौल्माप-, °पिक- कुल्माप- द्र.
 कौल्मुद- कुल्मुद- द्र.
 कौल्य- कुल्य- द्र.
 कौवाचर- कूवाचर- द्र.
 कौविद्यासीय- कुविद्यास- द्र.
 कौविदार्य- कौविदार- द्र.

a) तु. पागम. । b) °ण्डो इति शाकटायनः । c) = [कुतोऽमत इतिशब्दवत्-] मन्त्र-विशेष- ।
 d) अर्थः व्यु. च ? । e) = देश-विशेष- ? । f) पाठः ? कौपी^० इति संभाव्येत । g) = पुरुष-लिङ्ग-, तदाच्छादन- ।
 व्यु. ? । h) विप. । वस. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) वैप १ द्र. । k) < कुरयाण- इति पङ्गुरशिष्यः ? ।
 l) = [ज्योतिःशास्त्र-प्रसिद्ध-] करण-विशेष- । व्यु. ? ।

कौविद्यासीय- कुविद्यास- द्र.
 कौविशाल^१- -लम् अप २६, ५, ३.
 कौवेणिकेय- कुवेणिका- द्र.
 कौश- १कुश- द्र.
 कौशल-, लक- २कुशल- द्र.
 कौशल्लि- ३कुशल- द्र.
 कौशल्य- २कुशल- द्र.
 कौशाम्बी-, १, २कौशाम्ब्य-
 कुशाम्ब- द्र.
 कौशिक-, किन्-, की- कुशिक-
 द्र.
 कौशी- १कुश- द्र.
 कौशीधान्य- कोश- द्र.
 कौशीरकेय- कुशीरक- द्र.
 कौशीलव- कुशीलव- द्र.
 कौशेय- कोश- द्र.
 कौशेरिकेय- कुशेरिका- द्र.
 कौश्रि- कुश्रि- द्र.
 १, २कौपीतक-, कायन- किन्-,
 किन्-, केय- कुपीतक- द्र.
 कौष्टचित्क- कुष्टचित्- द्र.
 कौष्टवित्क- कुष्टविद्- द्र.
 कौष्ट^१ चात्र ३८ : १५५.
 कौष्टवित्क- २कुष्ठ- द्र.
 कौष्टय^१ आपश्रौ १६, ६, ४; माश्रौ
 ६, १, २, २६; वाधुश्रौ ३, ४९ :
 १५; वाश्रौ २, १, १, ५०; वैश्रौ
 १८, ३ : १०; २१, ८ : ३; हिश्रौ
 ११, १, ६९; हिपि १८ : ११.
 कौष्माण्डिक- कृष्माण्ड- द्र.
 कौसल-, कौसल्य-, ल्यायिनि-

कोसल- द्र.
 कौसित- कुसित- द्र.
 कौसुरुविन्द- कुसुरुविन्द- द्र.
 कौस्तुभ^१- भम्^१ आज्यो ४, ६; ५,
 १; -भस्य आज्यो ५, १५.
 कौस्त्र- किम्-> कुस्त्री- द्र.
 कौहक^१- कम् अप २६, ५, ३.
 कौहड- कोहड- द्र.
 कौहलि-, ली-, लीय- कोहल- द्र.
 कौहित- कोहित- द्र.
 क्वन्स^१ पाधा. जुरा. पर. भापायाम्.
 क्वनस् पाधा. दिवा. पर. ह्वरणदीप्त्योः.
 क्वन् पाधा. क्रया. उभ. शब्दे.
 क्वनूय^१ पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे
 उन्दने च, झोपयति या ७, १४.
 क्वमर् पाधा. भ्वा. पर. ह्वर्छने.
 क्व्याकु^१- कु आपध १, १७, २८;
 हिघ १, ५, ६०.
 क्व्याम्बु^१- भ्वा. हिश्रौ १५, ४, २१.
 क्व्यु क्व्यु टि. द्र.
 क्वंश्^१
 क्वक्च^१- पाउमो २, २, ७६; पाग २,
 ४, ३१^म; -चैः विघ ४३, ३५.
 क्वकर- पाउमो २, ३, २९.
 क्वतु^१- पाउ १, ७६; पाग ६, २, ११८;
 -तवः आश्रौ ५, १८, ५; वौश्रौ;
 -तवे आपश्रौ १४, २४, २०;
 वौश्रौ ९, ६ : २७^फ; हिश्रौ १५,
 ६, २०; -तुः आश्रौ ४, १३,
 ८××; ५, १३, ६^फ; शाश्रौ ७,
 १६, ८^फ; वौश्रौ; फनिघ २, १;

३, ९; -तुना आश्रौ ९, ११, १४;
 आपश्रौ; या १०, १०^फ;
 -तुभिः आश्रौ ५, १४, १७;
 शाश्रौ; -तुम् आश्रौ ६, ५,
 १८××; शाश्रौ; काश्रौ २५,
 १२, ४^फ; शंघ ११६; ५५^फ; या
 २, २८^फ; -तुपु आश्रौ ४,
 १, २१; आपश्रौ; -तु हिश्रौ १५,
 ७, १२^फ; वेज्यो ११; -तुन् शाश्रौ
 १५, १५, ६^फ; आपश्रौ १०, २५,
 ११^फ; वौश्रौ; -तुनाम् वाश्रौ १,
 १, १, १८; हिपि १९ : ६; अप
 ४१, २, १३; मीस् ५, ३, ३२;
 -०^फतो शुभ्र ४, १२८; -तोः
 आश्रौ २, ८, १४^फ; आपश्रौ;
 -तौ आश्रौ ८, १३, २××;
 आपश्रौ; पा ३, १, १३०; ६, २,
 ९७; पावा ४, २, ४३; -तुत्वा
 आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ; -तुत्वे
 आश्रौ ४, १२, २; शाश्रौ; -त्वोः
 शाश्रौ १४, ५१, ८.
 ऋतु^१ पा ४, २, ६०.
 ऋतु-करण^१- गः हिश्रौ ९, ७, ३६;
 १३, १, १६; -णम् आपश्रौ १२,
 ६, ५^फ; १४, १, ५; वौश्रौ २४, ४ :
 १०; २६, २२ : ४; ८; वैश्रौ १५,
 ८ : ३^फ; १७, २ : ३; ९ : ४; हिश्रौ
 ८, १, ८२^फ; ९, ७, ५; १७; ३६;
 -णानि वौश्रौ २१, १७ : ४;
 २२, ११ : २४; -णे वौश्रौ २१,
 १७ : ३; २२, ११ : २४; १३ :

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ? । b) वैप १ द्र. । c) शोधः वैप १, ११७५ h द्र. । d) पृ ९३६
 1 द्र. । e) किस्तुन्नम् इति शोधं प्रस्तावुकः शिवदत्तः ? । f) क्वंश् इति पामे. । g) पा ७, ३, ३६
 परामृष्टः द्र. । h) = वृत्राक-। व्यु. ? । i) विप. (शर्ष-) । व्यु. ? । j) सप्र. क्व्याम्बु शूर्पे <> कम्बुशूर्पे इति
 पामे. । k) प्रकाशने वृत्तिः । या २, ३५; १२, ८ परामृष्टः द्र. । l) = करपत्र-। व्यु. ? < क- + क्वच् इति
 अभा. । m) तु. पारगम. । n) पामे. वैप १, ११७६ a द्र. । o) शोधार्थं वैप १, ११५६ f द्र. । p) ऋतु
 चतुम् इत्यस्य स्थाने अप २१२, २४ ऋतुश्रवसम् इति पाठः । q) शोधार्थं वैप १, १०११ ० द्र. । r) = मन्त्र-
 विशेष-, तत्कृतहोम-विशेष-। कास. । s) सप्र. णम् <> शंणम् इति पामे. ।

२१; -णेन वैश्रौ १७, १ : ३.
 ऋतुकरण-यजुस्- -जुः वैश्रौ
 १७, ३ : १०.
 ऋतु-करणि^a -णिम् माश्रौ २, ३,
 २, २६^b.
 ऋतु-काम- -मः निस् २, ४ : ८;
 २३; -मम् आपश्रौ २४, ४, १०;
 वौश्रौ २, १ : १[†]; निस् २, ४ :
 ५; -मे निस् २, ४ : २५.
 ऋतु-न्तस् (:) मीस् ३, ३, २७.
 ऋतु-दक्षिणा- -णाः शाश्रौ १३, ६,
 ५; आपश्रौ १९, १५, १३; हिश्रौ
 २३, ३, ३३^२; निस् १०, १० :
 १२.
 ऋतु-दन्त^c -न्तः विघ १, ३^d.
 ऋतु-दोष- -यः निस् २, ४ : १५.
 ऋतु-धर्म-त्व- -त्वात् मीस् ४,
 ३, ७^e.
 ऋतु-नामधेय- -येन कागृ ४१,
 १९.
 ऋतु-निर्देश- -शम् माश्रौ २, १,
 १, ११.
 ऋतु-पशु- -शवः आश्रौ ५, ३, ४; १२,
 ७, २; आपश्रौ १४, १, ५; ५, १;
 वौश्रौ २३, १९ : २७; हिश्रौ ९,
 ८, १; -शून् आपश्रौ १८, २,
 १२; २१, २३, १३; माश्रौ ६, २,
 ६, १३; हिश्रौ १३, १, २०;
 -शूनाम् शाश्रौ १५, १, २१;
 वौश्रौ २३, १९ : २७.
 ऋतु-पा^f - -पाभ्याम् वौश्रौ ७, १२ :
 २०; ३७; ५०.
 ऋतु-प्रधान^g - -न्म् मीस् २, ३, ३;
 १७, ३ ३.
 ऋतु-मीस्

१०, ३, ७३.
 ऋतु-प्रवा(द>)दा^h - -दाः निस् २,
 ११ : ९.
 ऋतु-यज्- -जैभ्यः पा ४, ३, ६८;
 पावा १, ३, १०.
 ऋतु-युक्त- -क्तस्य मीस् १०, ५,
 ६१.
 ऋतु-योग- -नाम् वौश्रौ २६, ३३ :
 २४; -गात् काश्रौ २२, २,
 १५.
 ऋतु-राज्- -राट् विघ ५५, ७; वृदे
 ८, ९२.
 ऋतु-वत् मीस् ११, १, ५; २९.
 ऋतु-विद्ⁱ - -वित् आपश्रौ ३, १२,
 १; वौश्रौ ३, ३१ : ४; भाश्रौ ३,
 ११, १; हिश्रौ २, ६, १७;
 आम्रिगृ १, ५, ४ : २०; -विदम्
 आश्रौ ५, १०, २८; शाश्रौ ७,
 १२, ४; अश्र २०, ६.
 ऋतु-शब्द- -व्दः मीस् २, ३,
 २१.
 ऋतु-संयुक्त, क्ता- -क्तम् मीस् ३, ४,
 १२; -क्ताः हिश्रौ १०, ७, १५;
 २६; -क्ताभ्यः हिश्रौ १०, २,
 ३८.
 ऋतु-संयोग- -गात् मीस् २, ३, १;
 २३^f; ५, ३, ४३; १०, ३, ५७;
 ६, १५.
 ऋतु-सामान्य- -न्यात् मीस् ११,
 २, ५०.
 ऋतु-स्थ(ल>)ला^j - -ला शुपा ३,
 ८१[†].
 ऋतु-स्थश्^k - -स्थक् आश्रौ ५,
 १९, ५[†].
 ऋतु, त्, दक्ष^l - -क्षाभ्याम् शुपा २,

४७[†]; -क्षौ शंघ २१०.
 √कृत्य, कृत्यन्ति ऋपा ९, १६[†].
 कत्व(तु-अ)मि-शेष- -षः मीस् ५,
 ३, १६.
 कत्व(तु-अ)न्त- -न्तम् जैश्रौका
 ३६; -न्ते आम्रिगृ ३, ९, ३ :
 २७; वौषि २, ७, २१; मीस् ५,
 ३, २७.
 कत्व(तु-अ)न्तर- -रे मीस् १०,
 ७, ६९; -रेयु मीस् ६, ३, ५; ११,
 १, ११; १८.
 कत्वन्तर-वत् मीस् ५, १, ११.
 कत्व(तु-अ)न्तराल- -लेषु हिश्रौ
 १७, ३, ३५.
 कत्व(तु-अ)भाव- -वात् मीस् ६,
 ८, ५.
 कत्व(तु-अ)भिधान- -नात् मीस्
 ७, ४, १५.
 कत्व(तु-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् ४,
 ३, १८; -र्थम् काश्रौ ७, २, ५;
 मीस् १०, २, ४८; -र्थायाम्
 मीस् ११, ४, ११; -र्थे मीस् १०,
 ३, ६९.
 कत्वर्थ-त्व- -त्वात् मीस् ८, १,
 २५; १०, ३, ७१.
 कत्वर्थ-पुरुषार्थ- -र्थयोः मीस्
 ४, १, १.
 ऋत्वा(तु-आ)दि^m - -द्वौ आपश्रौ
 २४, ४, १०; वौश्रौ २, १ : १.
 ऋत्वा(तु-आ)दिⁿ - -द्वयः पा ६,
 २, ११८.
 कत्वा(तु-आ)हुति- -तियु ऋपा १,
 ८, २४[†]; ९, ९[†].
 कत्वि(तु-इ)एका- -काः वौश्रौ १९,
 ३ : ३६.

a) तु. पागम. ।

d) अर्थः व्यु. च ? । e) = दे. कास. उप. √कृ + धनिः प्र. उंसं. (पाठ २, १०२) । b) पाभे. पृ ९३७ ४ द. ।
 व्यु. ? । h) विप. । वस. । i) इति जीसं. ? । e) र्मः इति जीसं. । f) वैप १ द. । g) तत्संयो^o इति जीसं. ।
 l) = [ज्योतिःशास्त्र-प्रसिद्ध-] करण^p. । i) कृत्वा^o इति BL. ।

क्रत्वे (तु-ए) कत्व- -त्वे मीस् ५, १, ४; ६.
 क्रत्वास्थिर^० -रः बाधुश्रौ ३, ८८ : ४.
 √क्रम्^b पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्, क्राथयेत् भाशि ५६१.
 क्रथ- पा ६, १, २१६.
 √क्रद्, न्द् पाधा. भ्वा. पर. आह्वाने रोदने च, आत्म. वैह्वये, क्रन्दति वृदे २, ५६; या २, २७; ऋअक्रन्दत् आश्रौ ३, १३, १२; काश्रौ; ऋअक्रन्दः आश्रौ १०, ८, ५; शाश्रौ; क्रन्देत् आपश्रौ १९, २५, २२; हिश्रौ २२, ६, ४.
 ऋअक्रान्^० निस् ३, १० : २०; गोपि २, ४, ८; जैगृ २, १ : ३५; ८ : १५; साथ १, ५२९; २, ६०३; या १४, १६६.
 अक्रन्दयत् अथ ८, ९१.
 ऋअचिक्रदत् काश्रौ २६, ७, १२; वैश्रौ; अथ ३, ३१.
 कनिक्रद्- (<ऋअक्रदत्-)> क्रद्- वादि- -दिना वैगृ ३, २:४; १०; २२ : ५.
 ऋअनिक्रदत्^० -दत् आपश्रौ ८, १, ४; १६, ३, १२; वौश्रौ; या ९, ४६; पा ७, ४, ६५.
 ऋअक्रन्द^० -न्दः अप ४८, १०५; -न्दाय अथ ११, २.
 क्रन्द-व (त >) ती^१ - तीम् माश्रौ ६, १, ४, ११; -त्या माश्रौ

६, १, ४, ३०.
 क्रन्दत्- -न्दति शांगृ ४, ७, ३७६;
 -न्दन् वृदे २, ५७; -न्दन्तम् वृदे ६, १२.
 क्रन्दती- -त्याम् कौगृ ३, ९, ३२६.
 क्रन्दस्^० -न्दसी तैप्रा ४, २०१.
 क्रधिष्टा^b - -ष्टानाम् चाथ १६ : ७.
 २। क्रन्द^१ - -न्दाः अप १, ७, १०.
 √कृप्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. कृपायां गतौ.
 √क्रम्^k पाधा. भ्वा. पर. पादविक्षेपे, क्रमते शाश्रौ ४, ११, ६; काश्रौ; क्रामति आपश्रौ ४, १४, ६××; या २, २७; क्रामतः ऋप्रा ६, १५; क्रामन्ति वाश्रौ ३, २, १, २४; क्रमताम् वौश्रौ २०, ५ : ३११^१; क्रमस्व वौश्रौ २६, १२ : १४^२; ऋअक्रमध्वम् काश्रौ १८, ४, १; वौश्रौ; क्रामेत् वौश्रौ २०, ५ : ३०; क्रमेरन् वौश्रौ २६, १२ : १३^३.
 ऋअक्रन्त^१ आपश्रौ १, १७, ८; माश्रौ १, १९, ७; वैश्रौ ४, ४ : ४; हिश्रौ १, ५, १०; अक्रमीत् वैश्रौ २१, ८ : २; अक्रमिष्यत् निस् ८, ११ : २५.
 क्रामयति हिश्रौ १६, १, ८; ३८; हिगृ १, २०, ९^m; क्रमयन्ति ऋप्रा १४, ५०; क्रामयेत् उस् ४, १५; ७, १६; ८, ७; ३२.

चङ्क्रम्यते बाधुश्रौ २, १३ : ३; वैश्रौ; चङ्क्रम्येत माश्रौ ३, २, १३; बाधुश्रौ.
 क्रम^m - पाग ४, २, ६०^०; ६१; -मः काश्रौ १, ५, १७; ऋअपश्रौ; -मम् जैश्रौका १७१; आमिगृ; -मस्य ऋप्रा ११, ६३; कौशि ५५; -माः माश्रौ ६, १, ४, २३; -माणाम् वाश्रौ २, १, ३, १०; -मात् काश्रौ १, ५, ६; वैश्रौ; -मान् वौश्रौ १४, २० : २७; माश्रौ; -मे निस् २, १३ : ७××; ऋप्रा; -मेण आपश्रौ १३, १८, ९१; ऋअश्रौ; -मेपु ऋप्रा ११, २४; ५८; -मैः ऋअपश्रौ २०, १६, १५××; वौश्रौ.
 क्रामिक- पा ४, २, ६०.
 क्रमक- पा ४, २, ६१.
 क्रम-काल- -ले उस् ८, २७; ३०; शैशि १५१.
 क्रम-काल-संयु(क्त >) क्ता- -क्ता मीस् ५, १, २०.
 क्रम-कोप- -पः मीस् ५, ४, १^p; ११, १, ५४.
 क्रम-ज- -जः नाशि २, २, १५; -जम् शुप्रा १, १०४.
 क्रम-ज(टा >) ट^१ - -टः, क्रम-दण्ड^१ - -ण्डः चव्यू १:५.
 क्रम-पद^१ - -दः चव्यू १ : ५; -दम् शौच ४, ११०.
 क्रम पार^१ - -रः चव्यू १ : ५;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) पा २, ३, ५६ परामृष्टः द्र. । c) पाभे. वैप १, ११७८ d) द्र. । d) पाभे. वैप १, ११७८ f) द्र. । e) वैप १ द्र. । f) विप. (कृच्-) । g) परस्परं पाभे. । h) पाठः ? कृधु-> क्रधिष्टा- इति संभाव्येत । i) = देश-विशेष- ? । व्यु. ? । j) √कृप् इति च √कृप् इति च [पक्षे] BPG. । k) या ४, २७; ६, १२ पा १, ३, ३८; ४३; ३, १, ७०; २, ६७; १५०; ४, ६५; ६, ४, १८; ७, २, ३६; ३, ७६ पावा १, १, ६३; ७, २, ३६ परामृष्टः द्र. । l) पाभे. वैप १, ११७९ g) द्र. । m) सप्र. क्रामयति <> प्रक्रमयति इति पाभे. । n) भाप., नाप. (क्रम-पाठ- [पाग. ऋप्रा. याशि. प्रमृ.]) । वैप १ द्र. । o) पद-, क्रम- इति पाका., पदक्रम- इति भारटा. । p) क्रमको यः इति जीसं. । q) = संहितापाठ-प्रकार-विशेष- । बस. ।

२ : ११.

क्रम-प्रवचन- -क्ता ऋप्रा ११, ६५.

क्रम-योग- -गात् काश्रौ १६, ६, २५.

क्रम-वत् शौच ४, १२३.

क्रम-वात्सप्र- -प्रम् माश्रौ ६, १, ४, ४०; -प्रे वाश्रौ २, १, ४, ४,

क्रम-विक्रम-सत्कृत- -तः विध १, ५.

क्रम-विक्रम-संप(न्न>)ञा- -ञाम् तैप्रा २३, २४; कौशि ६७.

क्रम-वियु (क्त>)का- -क्ता नाशि २, ६, ६.

क्रम-शस् (-) वैश्रौ १२, १ : १८; शंघ २८; १५८; वौघ ४, ५, ६; उनिस् ३ : ६.

क्रम-शास्त्र- -स्त्रम् ऋप्रा ११, ६४.

क्रम-संयोग- -गात् मीस् २, ४, ३१; -णे अप्रा ३, २, ८.

क्रम-संधि-समाकीर्ण- -र्णः याशि १, ३१.

क्रमा(म-आ)गत- -तम् विध ५८, ९.

क्रमा(म-अ)ध्ययन- -नम् शौच ४, १०८.

क्रमा(म-अ)र्थ- -र्थम् काण्ड ४१ : २३.

क्रमा(म-अ)वसान- -नम् शुप्रा ४, १९७.

क्रमा(म-आ)हित^b- -तः दंवि १, ३.

क्रमे(म-इ)तर- (> क्रामेतरिक- पा.) पाग ४, २, ६०.

क्रमो(म-उक्त>)क्ता- -क्ताशुप्रा ४, २१.

क्रमो(म-उ)दित^c- -तौ भाशि ६४.

क्रमण^d- -णः या १०, २२; -णम् वाश्रौ २, १, ३, २०; ऋप्रा १४, ५८; शैशि ९५; -णे पा ३, १, १४.

क्रमणीय- -यम् काशु ७, ११.

क्रममाण- -णाय आपश्रौ ५, २४, ४१.

क्रममाण-धा^e- -धाः या ६, २०.

क्रमयत्- -यन्तः ऋप्रा १४, ४१.

क्रमित्वा वौश्रौ १, ५ : ११; २२, ४ : १४; १८; २६, २८ : ४.

क्रान्त- -न्तम् वौश्रौ १०, ५६ : १०; ११, ७ : २५; १२, १२ : ६; वाश्रौ; -न्तान् अप ४७, १, ६; -न्तानि या १०, २६; १४, १९.

क्रान्त-क- -कानि या ५, ११.

क्रान्त-दर्शन^b- -नः या १२, १३.

क्रान्ता(न्त-आ) च (दि-अ) र्थ- -र्थे पावा २, २, १८.

क्रान्तु- पाठ ५, ४३.

क्रान्त्वा या २, १५१.

क्रामत्- -मत्सु वाधूश्रौ ४, १०८ : ५. चङ्क्रमा- -मया कौस् ३१, १८१.

चङ्क्रम्यमाण- -णः जैगृ २, ८ : १५.

क्रमंतरिक्षक्रम^e- -मस्य चाश्र ४२ : ११.

क्रमुक^h- पाठभो २, २, २५; -कः हिश्रौ १५, ६, १०; -कम् हिश्रौ ११, ३, ५.

क्रमुक-ताम्बूल-शाक-काष्ठा(ठ-आ) दि- -क्रयविक्रयिन्- -यी वैध ३, १३, ५.

क्रमेलक- पाठभो २, २, ३३.

क्रय- , क्रयण- प्रम्. √की द्र.

कीक्रयीⁱ आपश्रौ १८, १३, २२; वौश्रौ १२, ११ : १४; हिश्रौ १३, ५, ३७; तैप्रा ३, १३.

क्रय्य- √की द्र.

क्रविशः^j कौस् ११७, २.

क्रविस्^k- -विपा कौस् ११२, ११.

१ क्रव्य^k- -व्यम् या ६, १११; -व्येया ६, १२; -व्येण शाश्रौ ३, ४, ६- २९^l.

क्रव्या(व्य-अ)ग्नि->^mग्नि-व्याल- रु(प>)पाम^m- -पाः अप ५८ⁿ, ४, ११.

क्रव्या(व्य-अ)द्^k- पा ३, २, ६९; -न्व्यात् वौश्रौ २, १० : ८; आग्निगृ; -न्व्यादः शाश्रौ ४; १९, ८; आग्निगृ १, ५, ३ : ५; काण्ड ४५, ७^o; हिगृ १, १९, ७; कौस् ७१, ६; आपध १, १७, ३४^o; ३८; हिध १, ५, ७०; -न्व्यादम् काश्रौ २१, ४, २७.

a) = सक्त-विशेष- । पूष. = विष्णु-क्रम- । b) विप. । वस. । c) उप. <√वद् । d) भावे करणाधिकरणे च ल्युट् प्र. । e) = क्रिये-धा- । उस. । f) पाठः ? °मृत्तिकया इति सा. (शौ L भू ६, ८३ ।) । g) व्यप. । प्राति. व्यु. च ? । h) = पूग-, काष्ठ-शकल- । व्यु. ? < √क्रम इति श्रमा. प्रभृ. । i) वैप १, ११८० c, d द्र. । j) स्वरूपं प्राति. च ? । k) वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १, ११०३ n द्र. । m) विप. । दस.> वस. । n) सप्र. शौ १२, २, २० माण्ड २, १, १० विशिष्टः पाभे. । o) सपा. क्रव्यादः <> क्रव्यादाः इति पाभे. ।

आपश्रौ; -व्यादि कौस् ७२, ३;
-कृव्यादे गौपि १, ५, २०; या
६, ११; -व्याद्धिः अप ६१, १,
११; विध २३, ५०.

कृव्याद^३ -दाः कौस् ८२, २१; -दाः
अप ६४, ७, ९; वौध १, ५, १२८;
विध ४४, १०; हिध १, ५, ६५^३;
-दात् अशां १५, २; -दान् शंघ
११६ : २४; -दानाम् अप ७२,
१५, ९; -दैः अप ६४, ७, १;
६८, २, ३९; ७०^३, १४, २; विध
४३, ३४.

कृव्याद-मृग-पक्षि-मांसा (स—
अ)शन-ने विध ५१, २८.

कृव्याद-मृग-वध- -धे विध
५०, ४०

कृव्या(व्य-अ)दस्^३ -दसाम् आपध
१, २१, १५; हिध १, ६, ४५.

कृव्ये-ग्रहण- -णम् पावा ३, २, ६९.

२कृव्य^३ -व्याः वौश्रौ १०, ५० :
२२; आपमं २, १७, २५.

क्राण- √कृ द्र.

क्रान्त- प्रभृ. √कृ म् द्र.

क्रिमि^३ - पाठ ४, १२२; -मयः
आपश्रौ ९, २०, २; वौश्रौ ९,
१८ : २०; अत्र २, ३१^३; या
६, ४; -कृमिः गोष्ट ४, ९, १८^०;
वौध १, ५, १२३; २, १, ५२; या
६, १२^३; -मीणाम् वैष्ट ३, ७ :
२२; अत्र ५, २३^३; -मीन्
आपश्रौ १५, १९, ५; भाश्रौ
११, २०, १; -कृमे^३ आपश्रौ

१५, १९, ५; वौश्रौ ९, १८ :
२०; भाश्रौ ११, २०, १.

क्रिमि-जम्भन- -नाय अत्र ५, २३.

क्रिमि-ण, णा^३ - -णः आपश्रौ ९,
२०, २१^३; वैश्रौ २०, ३९ : ४;
-णा आपश्रौ १५, १९, ५; भाश्रौ
११, २०, ११^३.

क्रिमि-दष्ट- -ष्टः वौध १, ५, १२३.

क्रिमि-मत्- -मन्तम् गोष्ट ४, ९,
१८; द्राष्ट ४, ४, ३.

क्रिमि-लेप-वर्ज^३ - -जान् वैश्रौ १,
७ : ११.

क्रिय- पाठभो २, ३, १२.

क्रियमाण- , क्रिया- प्रभृ. √कृ द्र.

कृक्रिवि^३ -विः अप ४८, ७७; निघ ३,
२३; -विम् शांश्रौ १८, १३, ५;
कृप्रा ८, ३२.

कृक्रिविस्^३ - > कृविर-इ(त् >)ती-
-ती निघ ४, ३; या ६, ३०.

√क्री^३ पाधा. क्रया. उभ. द्रव्यविनि-
मये, क्रीणाति काश्रौ १५, ९, २३;
आपश्रौ; क्रीणन्ति आश्रौ ४, ४,
१; १२, ४, ३; शांश्रौ; क्रीणामि
काश्रौ ७, ८, ११; कृआपश्रौ १०,
२५, ४^३; ११; कृवौश्रौ^३ ६,
१५ : १; २, ५; कृभाश्रौ^३ १०,
१६, १६; १७, १; कृवैश्रौ^३ १२,
१८ : ८; १४; कृहिश्रौ^३ ७, २, ६०;
६५××; कृक्रीणीहि काश्रौ ७,
८, ५; भाश्रौ २, १, ४, ८; क्रीणानि
काश्रौ ७, ८, ४; ६^३; आपश्रौ;
भाश्रौ २, १, ४, ८^३; अक्रीणन्

लाश्रौ ८, ४, ८; क्रीणीयात्
आपश्रौ १०, २०, १२^३××;
वौश्रौ; क्रीणीयुः आपश्रौ ११, ४,
१०; लाश्रौ ८, २, १६; १०, ११,
७.

चिक्राय वाध १७, ३२^३;
कृक्रेव्यामः आपश्रौ १०, २५, १;
भाश्रौ.

कृय- -यः काश्रौ ७, १, २५; वौश्रौ;
-यम् आपश्रौ १८, २०, १७;
वाश्रौ; -यस्य वौश्रौ ६, १० :
१; १०, १९ : १; मीस् ६, १-
१६; -यात् काश्रौ ७, २, २;
११, १, ३; आपश्रौ; -ये माश्रौ
२, ३, ३, ४; हिश्रौ; -येण विध
२४, २४.

कृय-क्री(त >)ता- -ता काध
२८२ : १.

कृय-धर्म- -र्मः आपध २, १३,
१०; हिध २, ३, १०.

कृय-परिक्रय-संस्कार- -रेपु
आपश्रौ २४, २, ८.

कृय-प्रतिकर्ष- -र्षात् मीस् ११,
२, ५५.

कृय-प्रभृति- -ति लाश्रौ ८, ४,
४, १२.

कृय-वत् आपश्रौ १२, ९, ३; वैश्रौ
१५, ११ : ६.

कृय-विक्रय- -यम् आज्यो ५,
८; -याभ्याम् मीस् ६, १, ११;
-यौ आज्यो ८, ७.

कृयविक्रयिक- पा ४, ४, १३.

a) विप्र., नाप. । उस. उप. अजन्तम् (तु. अज्ञाद्- [वैप ३]) वा अणन्तं वा ? । कैयट-नागेशौ अदन्तं प्राप्ति. नाद्रियेते । यत्तु पक्षमांस-वाचिनः कृव्य-शब्दाद् उपपदाद् धा. अण् प्र. इति केषांचिदभिमतं तदवोधाच्चिन्त्यम् (तु. नागेशः) । b) पाभे. पृ ९४० n टि. द्र. । c) विप्र. । वस. उप. माप. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, ११८१ a द्र. । f) मत्वर्थे नः प्र. उंसं. (पा. ५, २, १००) । g) क्रिष्णः इति पाठः ? यनि. शोधः । h) मीणा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । i) विप्र. । वस. >उस. । j) पा. ३, १, ८१ पावा १, १, ३९ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप १, ११८१ k: द्र. ।

क्रयविक्रयिन्- -यी विध
५१ ७४.

क्रय-विक्रय-दुष्टमोजन-प्रतिग्रह-
-हेषु शंघ ४५०.

क्रय-शब्द- -द्दः आपघ २,
१३, ११; हिय २, ३, ११.

क्रय-श्रुति- -तेः काश्रौ १३,
१, ८.

क्रया(य-अ)क्रय^a- > क्र
(यक>)यिका- पावा, पावाग
२, १, ६०.

क्रयै(य-ए)क्रव- -त्वात् काश्रौ
१५, ८, १०.

क्रयण- -णात् हिश्रौ ११, ४, ८;
लाश्रौ ८, ४, ५; -णेषु मीस् १२,
४, ५^b.

क्रयण प्रभृति- -ति काश्रौ १०,
९, २९.

क्रयण-वत् मीस् ३, ३, २४.

क्रयण-वेद्यारम्भण-प्रवरयोत्सादना
(न-अ)दिप्रणयन-हविर्धाना-
(न-अ)श्रीपोम- -माणाम् काश्रौ
१४, १, १३.

क्रयण-अपण-पुरोह्य-उपयाम-
ग्रहणा(य-आ)सादन-वासोपन-
हन^c- -नम् मीस् ८, २, ४.

क्रयणीय-> प्या(य-आ)दि-
-दौ काश्रौ १६, ६, २३.

क्रयिक- पा ४, ४, १३.

२क्रयिक- पाठ २, ४४.

क्रय^d- पा ६, १, ८२; -क्यः
काश्रौ ७, ८, २, ३; आपश्रौ १०,
२५, २, ३; वौश्रौ; -क्य्याः काश्रौ
१९, १, १८; माश्रौ १०, १६,
१५.

क्रीत,ता- -तः काश्रौ ७, ८, १३;

वौश्रौ; अप्राय ३, १^e; -तम्
आपश्रौ १०, २४, ३; १४, २४,
१०; वौश्रौ १४, २९, १६; हिश्रौ;

पा, पावा ५, १, ३७; -ता वाघ १,
३७; वौघ १, ११, २०^f; -तात् पा
४, १, ५०; ५, १, १; -ताय काश्रौ

७, ९, १३; आपश्रौ १०, २८, ४^g;
वौश्रौ; -ते आश्रौ ६, ८, १; शाश्रौ.

क्रीत-त्व- -त्वात् मीस् ६, १,
१९; ३, २४.

क्रीत-लब्धा(व्य-अ)शन- -नाः
विघ १९, १४.

क्रीत-वत् पा, पावा ४, ३, १५६.

क्रीता-पति- -तिम् या ६, ९.

क्रीतो(त-उ)पन्न- -ज्ञेन आश्रु
४, ४, १५; वाघ ४, १५.

क्रीतव्य- -व्यः अप्राय ६, ४.

क्रीत्वा शाश्रौ ५, ६, १××; काश्रौ.

क्रीयमाण- -णः भाशि १२^h;
-णस्य हिश्रौ १०, ३, २२;

-णात् काश्रौ १४, १, १४.

क्रेतृ- -ता विघ ५, १६६; आज्यो
५, १०; -तुः विघ ५, १२७;
१२९.

क्रेय- -यः हिश्रौ १५, ६, १२.

क्रेयत्- -प्यन्तः द्राश्रौ १४, १, ११;
लाश्रौ ५, ५, ८.

✓क्रीड्, ल्, ल् पाषा. भ्वा. पर.
विहारे. क्रीडितः आश्रौ १०,
८, १०; ११; शाश्रौ १६, ४,
१; क्रीडित् विघ ७१, ७८.

क्रीडⁱ- -डम् आश्रौ २, १८, १६;
८, १०, ३; शाश्रौ ३, १५, १५;
काश्रु २२, १; ऋश्रु २, १, ३७;
वृदे ३, १०७.

क्रीडत्- -डम् अय ४६, ३, ६^j;

क्र्या १६, ७३^k; वाघ १५, १८;
-डन्तौ या १, १६.

क्रीडन्ती- -न्तीः कौश्रु ३, ६,
९; शाश्रु २, ११, १४; पाश्रु ३, ९,
६; काश्रु ५९, ५; विघ ८६, १६.

क्रीडमान- -नैः कप्र ३, ८, १८.

क्रीडा- -डाम् वैघ ३, ३, १;
-डायाम् पा ४, २, ५७; ६, २,
७४.

क्रीडा-जीविका- -क्योः पा २,
२, १७.

क्रीडा(डा-अ)र्ध- -र्थम् वौघ १,
१, १४; वृदे ३, १४३.

क्रीडित->क्रीडिता(त-आ)यास-
दर्शन- -नम् अय ६८, २, ४९.

क्रीडित्- -दिनाम् वैताश्रौ ९, ५;
-दिभ्यः आश्रौ २, १८, १४;

शाश्रौ ३, १५, १४; काश्रौ ५,
७, १; आपश्रौ ८, ११, २२; २०,
१४, १०^l; वौश्रौ ५, १० :

२६^m; १८, ११ : १०; माश्रौ
८, १३, १०; माश्रौ १, ७, ५, ३१;

वाश्रौ १, ७, ३, २३; वैश्रौ ९, ३ :
१०; हिश्रौ ५, ३, ३९;

१४, ३, १७; -क्रीडी आपश्रौ
१७, १६, १८; वैश्रौ १९, ६ :

१०९; हिश्रौ १२, ५, ३०.

क्रीडिन्- -नः शाश्रौ १४,
१०, १६; आपश्रौ २२, ८, १८;

वौश्रौ १५, १० : १९; १७, ५७ :
१३; १४; ६० : ६; ६१ : ९;

-नन् आश्रौ ९, २, १५; वौश्रौ
१५, १० : १८; १९; -नस्य वौश्रौ

१७, ५७ : १४; २१, ३ : १३;
माश्रौ ८, १३, १; -नात् माश्रौ

८, २२, १२; -नाय वाश्रौ १, ७,

a) तु. पाका. । b) 'येषु इति जीर्ण. । c) 'अयम् इति जीर्ण. । d) विघ., नाप. [पा.] ।
e) पाभे. वैघ १, ११८२g, परि. च द्र. । f) वैघ १ द्र. । g) नाप.(मस्त) । h) सात्यदेवतीयः कण् प्र. ।

३, २१^b; -ने वीथौ २१, ६ : १८.

क्रीडिन-प्रभृति- -ति

वाथौ १, ७, ४, ७८^b.

क्रीडिन^c - नस्य माथौ ५, १, ४, ७

√कुञ्च् पावा. भ्वा. पर. कौटिल्यात्पी-
भावयोः.

कुञ्च्^d - पा ३, २, ५९; ६, १, १८२;

पाग ४, १, ४; ५, ४, ३८; कुञ्च्

माशि १६.

कुञ्चा^e - पा ४, १, ४; पाग

४, १, ११२^f; २, ९१; ६, ४,

१५३; ८, २, ९; पावा ८, २, २२.

कुञ्चकीय- पा ४, २,

९१.

क्रीञ्चक- पा ६,

४, १५३.

१क्रीञ्च^f - पा ४, १,

११२.

क्रीञ्चा(ञ-आ)-

द्विरस- -सस्य चाथ ३८: १११^h.

कुञ्चा-मत- पा ८, २, ९.

२क्रीञ्च^g - पा ५, ४, ३८; -ञः

विध ४४, २८; नाशि १,

५, ३; -ञम् आपथौ २४,

१४, ५ⁱ; हिथौ २१, १, १०; २,

४४^j; विध ५०, ३९; -ञाः

याशि १, ८.

क्रीञ्च-नकुल-प्रियवृक्ष-धैर्य-

-त्यानाम् अप १, ३२, ४.

क्रीञ्च-नाद- -दः माशि १, ९.

कुञ्च^l -> ३क्रीञ्च^k - -ञम् दाथौ ८,

३, ११; लाथौ ४, ७, १; लुसू १, ५:

२०; ३, २: १७; १०: २२; -ञस्य

लाथौ ६, ११, ३; धुम् २, ६ :

१८; २४; ३, १० : २४; -ञे

लाथौ ७, ८, ८; लुसू ३, ८ : ७.

कुञ्च-क्रीञ्च-गार्भाणस-लक्ष्मण-

वर्जम् आपथ १, १७, ३६; हिध

१, ५, ६७.

√कुञ्च्^h पावा. तुदा. पर. निमज्जे.

√कुध्^m पावा. दिवा. पर. क्रोधे,

कुध्यन्ति अप ६८, १, २४; अकु-

ध्यन् या ४, २, ५; कुध्येत् वैथौ

१२, ११: २; वीध १, ७, ३०.

कुधः वाधुथौ ४, ३७ : १०; वृदे

५, ७८.

क्रोधयन्ति अथ ४, ३६ⁿ;

क्रोधयेत् आपथ २, १८, ३;

हिध २, ५, ५५.

†सुकुधम् या ६, २४; नाशि २,

३, ११.

कुद- -दः आथौ २, १०, १६^o;

आपथौ ५, २७, १२^p; माथौ;

-दम् आपथ २३, २; हिध १,

१५, ३; -दस्य विध ७२, २२;

-द्वाः वैताथौ ५, १३^q; सु २,

४; कौस् ७०, ६^r; अप ६८, १,

२४; ऋथ २, १०, ५६; अथ

१२, २^s.

कुद-दृष्ट-भीता(त-आ) तै-लुब्ध-

वाल-स्थविर-मृद-मत्तो(त-उ)

न्मत्त-वाक्य- -क्यानि गौध ५,

२५.

कुद्वा(द-अ)शानि-मुख- -खम्

अप ४०, २, २.

कुद्वा काथौ ७, ५, १.

कुध्यति- > °ति-कर्मन्- -र्माणः

निध २, १२; या ३, ९.

क्रोध- -धः आपथ १, २३, ५; विध

३३, ६; हिध १, ६, १३; अथ ९,

७^t; -धम् आथौ १२, ८, ८;

दाथौ ७, ३, ८; आपमं २, २२,

२^u; पाथ ३, १३, ५; हिध १,

१५, ३^v; शंघ २५८; आपथ २,

१८, ३; हिध २, ५, ५५; -†धस्य

पाथ ३, १३, ५^w; अप ४८, १८;

निध २, १३; -धात् सु १०, १;

अप १९^x, ५, ६; ५२, १२, ५;

वृदे ५, १६; -धाय आमिठ १,

२, २ : २४; हिध २, १९, ६;

-धे वैताथौ १२, १३^y; अप

४८, १८^z; -धेन सु २३, ६.

क्रोध-कर्मन्- -र्मणः या १०, २, ९.

क्रोध-तस् (ः) वीध ४, ५, ४.

क्रोध-नामन्- -मानि निध २,

१३; या ३, ९.

क्रोध-लोभ-मान-भय-दोपो-

(प-उ)पहव- -ताः शंघ २५१.

क्रोध-वश- -शे वीध २, ८, १५.

क्रोध-विनयन- -नम् हिध १,

१५, २.

क्रोध-विवर्जित- -ते विध ९९

२०.

क्रोध-संभव- -वे कप्र १, २, १४.

क्रोधा(ध-आ)दि- -दीन् आपथ

१, ३१, २३; हिध १, ८, ४२.

क्रोधा(ध-अ)वृत्- -ते दाथौ ७,

३, २४; लाथौ ३, ३, २, ५; गोथ

३, १, १४.

a) °नीयाय इति पाठः? यनि. शोधः । b) °डिनि इति पाठः? यनि. शोधः । c) साऽस्यदेवतीयः अच् प्र. उसं. । d) वैप १ द्र. । e) <कुञ्च- इति [पक्षे] पाग ४, १, १ । f) तु. पागम. । g) व्यप. । h) °ञां अ इति पाठः? यनि. शोधः । i) < कुञ्च- इति भाण्डा. । j) नाप. (कुञ्च्) व्यप. च । k) = साम-विशेष- । l) √कुञ्च् इति BPG. । m) पा १, ४, ३७; ३८ परावृष्टः द्र. । n) पाभे. वै २, ३खं. शूरः तैत्रा २, ५, ३, १ टि. द्र. । o) रुपा. आपमं २, २२, १ मृधस्य इति, हिध १, १५, ३ मृधस्य इति च पाभे. ।

क्रोधन- पा ३, २, १५१.
 क्रुमुक^१- क्रः आपश्रौ १४, २४, ५;
 -कम् आपश्रौ १६, ९, ६; वौश्रौ
 १०, १२ : ७; १३ : २१; १४,
 २८ : १२; माश्रौ ६, १, ३, २८;
 वाश्रौ २, १, २, २२; वैश्रौ १८,
 ६ : ८^b; भाशि १७.
 क्रुमुक-शकल- लम् वौश्रौ १४,
 २८ : १३.

✓क्रुग् (वधा)^c पाधा. भ्वा. पर.
 आह्वाने रोदने च, क्रोशन्ति
 अप ७२, ४, ४; क्रोशतु कौस्
 ५८, ११; क्रोशेत् लाश्रौ ९, ८,
 १५; माय् १, ३, ४.

क्षक्रुक्षत् भाशि १७.

क्रुश्चन्- पाठ ४, ११४.

क्रुष्ट^d- ष्टः वृदे ८, ११२; ११६;
 नाशि १, १, १२; ७, ३; १३;
 -ष्टम् वृदे ८, ११४; भाशि २,
 १; -ष्टस्य नाशि १, ७, १; -ष्टे
 नाशि १, ७, १०; -ष्टेन आपश्रौ
 २४, १, १४; नाशि १, ७, ६.

क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-
 मन्त्रा(न्द्र-अ)तिस्वार्य- -र्याः
 तैप्रा २३, १४.

१क्रोश^e- शम् लाश्रौ ७, १, १;
 निस् ८, १० : ३३.

क्रोशा(श-अ)नुक्रोश- -शे
 आपश्रौ १४, २०, १; हिश्रौ १५,
 ५, २१.

क्रोशत्- शन्तम् कौस् ५८, १.

क्रोशन्^f- नासः वृदे ७, २६१.

क्रोष्ट^g- पाठ १, ६९; पाग ४, १,

४१; ९९; -ष्टः पा ७, १, ९५.

क्रौष्टवायन- पा ४, १, ९९^h.

क्रोष्टु-कर्णⁱ- (> क्रौष्टुकर्ण-
 पा.) पाग ४, ३, ९३.

क्रोष्टु-पाद- पाग २, ४, ६३^j.

क्रोष्टु-मा(या >)य- पाग २, ४,
 ६३^k.

क्रोष्टु^l- -ष्टे अत्र ११, २.

क्रोष्टी- पा ४, १, ४१.

क्रूर^m- पाठ २, २१; -ः वैश्रौ १८,
 १४ : २; वौश्रौ; -रम् काश्रौ ६,
 ६, ५१; आपश्रौ; आपमं १, १७,
 ९१ⁿ; या ६, २२^o; -ः रस्य
 काश्रौ २, ६, २४; वौश्रौ; -राः
 अप ३३, ७, ५; ६८, १, ४; ४०;
 वृदे ३, १३२; -राणि वौश्रौ ९,
 १८ : ७; निस्; -ः रे आपश्रौ
 १६, १५, ९; वौश्रौ १०, २२ :
 १५; हिश्रौ ११, ६, ७; -ः रेण
 आपश्रौ १४, १४, १; वौश्रौ १४,
 १८ : १४.

क्रूर-कर्मन्- मां शंघ ३७७ : ६.

क्रूर-कृत्- -कृताम् वौश्रौ १४, २७ :
 २; वैश्रौ २१, ७ : १०.

क्रूर-चर्मन्- -र्मणा वौश्रौ १६, २० :
 १०.

क्रूर-र(क्ष् >)श्रो-भूत-गण-
 -णाः आनिग् २, ५, ११ : २३.

क्रूर-णि, नि, धन- -नम् निस् ७,
 ११ : ६; १२ : १०.

क्रूरा(र-अ)पहनन- -नाय वौश्रौ
 २०, २ : १८^p.

क्रोणि- पाठ ४, ४८.

क्रैत्-, क्रैय-, क्रैप्यत्- ✓क्री द्र.

क्रैडिन- ✓क्रीड् द्र.

१क्रोड^q- पाठमो २, २, ११९; पाग
 ४, १, ४५; ५६; -डः अत्र ९,
 ७१; -डम् काश्रौ ६, ७, ६; ८,
 १२; वौश्रौ १५, ३० : २१; कप्र
 ३, १०, ४; -डस्य वाश्रौ १, ६,
 ७, १; वाघुश्रौ ३, ९७ : १; -डात्
 आपश्रौ २०; १८, ७^r; वौश्रौ
 १५, ५ : १४; २४ : १९; २१;
 ३० : १३; १६; २३; माश्रौ १,
 ८, ५, १८; -डेभ्यः वौश्रौ १५,
 २४ : ११; -डौ अत्र १०,
 १२^s.

क्रोडी- पा ४, १, ४५.

क्रोड-ल्लोमन्- मानि कौस् २६, २१.

२क्रोड^t-> क्रौडावण- -णाः वौश्रौ प्र
 १७ : ११.

क्रौडि- (> क्रौड्या- पा.) पाग ४,
 १, ८०.

क्रोथुनि^u- -निः वौश्रौ १६, २७ :
 २२.

क्रोध-, प्रम्. ✓कुध् द्र.

क्रोधा^v- -घा वृदे ५, १४४.

१क्रोश- ✓कुश् द्र.

२क्रोश^w- -शः आपध २, २६, ७; हिघ
 २, ५, २०२; -शम् वौश्रौ १८,
 २० : २०; -शात् अप १, २७-३०,
 ४^x; वैध ३, ७, ५; -शानि हिश्रौ
 १७, १, २६; -शे आपश्रौ २२,
 २, २०; हिश्रौ १७, २, १७.

क्रोश-प्रत्यवाय- -येनऽयेन काश्रौ
 २२, ३, ३२.

a) = क्रमुक- । b) क्रौसु^o इति ? संस्कृता । c) या २, २५; ९, १९ परानुष्टः द्र. । d) = स्वर-विशेष- ।
 e) = साम-विशेष- । वैप १ द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = शृगाल- । h) व्यप. । ष्टु- (> क्रौष्टु^o) इति पागम. ।
 i) = देश-विशेष- । ष्टुकर्णक- इति भोजमते, ष्टुकशब्द- इति वामनमते इति पागम. । j) क्रोष्टुमान- इति केचित्
 इति पागम. । k) तु. पागम. । l) पाप्र. < क्रोष्टु- । m) पाप्मे. वैप. १, १४९७ । द्र. । n) = ऋषि-विशेष- ।
 व्यु. ? । o) = दत्त-सुता- । व्यु. ? । p) = अश्वपरिमाण-विशेष- । व्यु. ? ।

क्रोश-शत-> क्रौशशतिक- पावा
५,१,७४.
क्रौशत्-, °शन √कृश् द.
क्रौष्ट- -ष्टा: वौश्रौप्र ४१: ६.
क्रौष्ट- √कृश् द.
क्रौष्टुकि^१- -कि: अत्र ५०, ४, ५;
-कै: अत्र ६८, १, २; २, ८;
३९.
क्रौष्ट- , क्रौष्टी- √कृश् द.
१-क्रौञ्च- √कृश् द.
४-क्रौञ्च- > क्रौञ्च-द्वीप- -पम् शंघ
११६: ४.
क्रौञ्चायन- -ना: वौश्रौप्र ४: ३.
क्रौञ्चोक्त्य^२- -क्या: वौश्रौप्र ४६: २.
क्रौडायण-, क्रौडि-, °व्या- २क्रौड-
द.
क्रौडिल्य^३- -त्या: वौश्रौप्र १७: १२.
क्रौष्टवायन-, क्रौष्टककर्ण- √कृश् द.
६-क्रौष्टुकि^४- -क्य: वौश्रौप्र १९: २;
-कि: वृदे ४, १३७; या ८, २;
-कै: पि ३, २९.
२क्रौष्टुकि^५- (> °कीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.
क्रौष्ट्रायण^६- (> °णक- पा.) पाग
४, २, ८०.
√कृश् पावा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.
√कृद् पावा. भ्वा. आत्म. वैकल्ये.
कृदयु^७- -यु: वौश्री २, ५: १११.
√कृन्द् पावा. भ्वा. पर. आहाने
रोदने च, आत्म. वैकल्ये.
कृ(न्द् >)न्दा^८- -न्दा: अत्र २, २१
√कृप् पावा. उरा. पर. व्यक्त्यां वाचि.

√कृम्^१ पावा. दिवा. पर. ग्लानौ,
हामयन्ति अत्र ६८, १, १९.
कृमिन् पा ३, २, १४१.
कृान्त- -न्तम् वाच ६, ३०.
√कृिद् पावा. दिवा. पर. आर्द्राभावे,
कृदयन्ति विध २०, ५१.
कृिन्न, श्रा- -न्तम् आपश्री ५, २५, ७;
माश्री ५, १६, २०; माश्री १, ५,
६, १६; वैश्री १, १८: ४; हिथौ
६, ५, २७; वौष १, ७, २०;
-न्नस्य पावा ५, २, ३३; -न्ना
अत्र २२, ३, २; ३; २३, ३, ५;
-न्नाया: वौष १, ६, १८; -न्नेन
वौष ३, ५, २.
कृिन्न-काष्ठा(ष्ट-य)भ्याधान-
-न्तम् वाश्री १, ४, ३, ४२.
कृिन्न-वासस- -सा: वौष ४,
२, ८१.
कृेद- -द: वौश्री २, ५: १३१.
कृेद-वत्- -वताम् अत्र ६५,
२, ४.
कृेदयित्वा आपश्री १०, २६, १४;
हिथौ ७, २, ७८; भाग्य १, २५:
१७.
√कृिन्द् पावा. भ्वा. परिदेवने.
√कृिश् पावा. दिवा. आत्म. उपतापे,
क्या. पर. विवाधने, कृिश्यत सु
८, २.
कृिशित-, °त-वत्-, °त्वा पा ७,
२, ५०.
कृिश्नत्- -श्नत् वायुश्री ३, ९४:
१६; १९.

कृेश- -शम् अत्र २९, २, ५.
कृेश-भाजन- -न: आच्यो १३,
५६.
कृेशा(श-अ)पह- पा ३, २, ५०;
-हम् आमिग्य ३, २, १: ४.
कृेशा(श-अ)वह- -हम् हिग्य २,
१४, ३.
कृेशक- पा ३, २, १४६.
कृीतक, का^१- -काभि: आपश्री १५,
३, १६; भाश्री ११, ३, ९;
-कै: गोय २, १, ९.
√कृीव^२ पावा. भ्वा. आत्म. अघाष्ट्ये.
कृीव^३- -व अत्र ६, १३८;
-व: वौश्री १२, १०: ९×४;
वैश्री: -वम् वौश्री १२, १०:
१६; १७, ३१: २; अत्र;
-वस्य वौश्री २२, १९: १; शंघ
४३४; -वा: शंघ १३; नाशि
२, ८, २६; -वात् काश्री १५, ९,
२३; १९, १, १९; आपश्री: -वाय
हिथौ १३, ५, २८; -वे अत्र ३,
२, ५; -वेन हिथौ १३, ५, २८.
कृैच्य- -च्यत् वौश्री १३,
२६: १२.
कृीव-कर्तु-काम- -म: अत्र ६,
१३६.
कृीव-ता- पावा २, ४, १७.
कृीव-पद्- -दे कौम् ३६, ३६.
कृीव-न्याधित- -तयो: वौष २,
२, १७.
√कृीवाय पावा ३, १, ११.
कृीवो(व-उ)न्मत्त- -त्तान् वाच

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) व्यप.। व्यु. ?। c) = द्वीप-विशेष-। व्यु. ?। d) = ऋषि-
विशेष-, आचार्य-विशेष-। व्यु. ? < क्रौष्टुक- इति MW.। e) तु. पाति. पागम.। f) अर्थ: व्यु. च ?।
g) = देश-विशेष- ?। h) वैष १ द.। i) पा ३, १, ७०; ७, ३, ७४ परामृष्ट: द.। j) उत्तरेण
संविर्गमः। k) °जिन: इति पाठ: ? बनि. शोच:। l) = वृष्टि-मयुक्त- (तु. रुद्रदत्त:)। m) विप.
[[उदकक्रित्तक- [= चूर्णित-द्रवीभूत-] यव-माप- [तु. मट्टनारायण: BW.MW. च]], नाप. (तन्मिथित-जल- [तु. Old.]।
n) < कृीव- इति पावा ३, १, ११।

१९,३५; -त्तानाम् वाघ १७, ५४.
 क्रीवो(व-उ)न्मत्त-पतित- -ताः
 वाघ १७,५३.
 √कृ पाषा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 क्रेद्- √क्लिद् द्र.
 क्रेद्न्- पाठ १,१५९^२.
 क्लेदयित्वा √क्लिद् द्र.
 क्लेद्- पाठ १,१०.
 √क्लेव् √ग्लेव् टि. द्र.
 √क्लेन् पाषा. भ्वा. आत्म.
 अण्यङ्गायां वाचि.
 क्लेश- प्रभृ, क्लेशक- √क्लिश् द्र.
 क्लैव्य- √क्लीव् द्र.
 क्लोक^१- के वौश्रौ २,५ : ८.
 क्लोमन्^२- पाठभौ २,१, २८५; -म
 अप १, ७, ३; -मा आश्रौ
 १२, ९, १२; विघ ९६, ९१;
 -ऋमानम् आपश्रौ ७, २२, ६;
 २४, १२; माश्रौ ७, १७, ६; १९,
 ११; वाश्रौ १, ६, ७, १०; वैश्रौ १०,
 १७ : ८; १९ : ६; हिश्रौ ४, ४,
 ५९; आपनं २, १४, २; आश्रि
 २, १, ३ : २५; भाश्र १, २३ :
 १८; हिश्र २, २, ७; -म्नः गोग्र
 ४, १, ४; द्राश्र ३, ४, १६.
 क्लोम-झीहा(ह-अ)ध्युन्नी-पुरीतत्-
 -तत्तम् काश्रौ ६, ७, ११.
 क किम्- द्र.
 √कण् पाषा. भ्वा. पर. शब्दे,
 क्कणन्ति या ५, १८.
 कण- पा ३, ३, ६५.
 कणव्- गम् अप ४८, १००^१.

काण- पा ३, ३, ६५.
 √कथ् पाषा. भ्वा. पर. निष्वाके,
 काथयति कौस् २६, २५.
 काथ्यन्ते विघ ४३, ३८.
 कथ- पा ३, १, १४०.
 कथव्- थन् भाशि ५६^१.
 कथन- > कथने(न-इ)ष्टका- -काः
 वौश्रौ २९, ६ : १८; वैश्रौ २१,
 १८ : ३.
 कथित- -तस्य विघ ४६, २३.
 काथ- पा ३, १, १४०.
 काथयित्वा वाघ २७, १२.
 कल^२- -लाः आपश्रौ १, १४, १; -लैः
 वैश्रौ ३, ८ : ८; हिश्रौ १, ३, ५३.
 कल-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ १९,
 २, १०; वौश्रौ १७, ३४ : ६;
 हिश्रौ १३, ८, २३; -क्तून् वैश्रौ
 ११, ४ : १.
 काङ्स्वितदुर्गातिवचन- किम्- द्र.
 कादि- रक्तु- द्र.
 ?कित्^१ पाग १, ४, ५७.
 ?कोसनः^२ अप ४८, ९७^१.
 √कशा, कशत्^१ माश्रौ ३, ३, ६;
 ६, १, १, १४.
 क्ष^१- क्षम् ऋत ५, ३, ७.
 √क्षञ् पाषा. भ्वा. आत्म. गति-
 दानयोः
 √क्षण्^२ पाषा. तुदा. उभ. हिंसायाम्,
 क्षणोति या ४, १८; ६, १.
 क्षण- पाग ५, २, ३६; -णः आश्रि
 ३, ३, २ : ९^१; ११; १२^३; १३;
 १४^२; १५^३; १६; वौश्र २, ११,
 १८^१; गौपि २, २, २२; या २,

२५^१; -णम् आश्रि ३, ३, १ =
 ७; १६; २ : ९; वौश्र २, ११, १७;
 -णात् वाघ २६, १; ६; २८, १९;
 वौश्र ४, ६, ५; -णेन सु १५, ५.
 क्षणित- पा ५, २, ३६.
 क्षणि^१- -णिः या ६, १^३.
 क्षण > ष्ण-पाक- पा, पाग ७, ३,
 ५३.
 क्षत- पा ६, ४, ३७; पाग २, ४,
 ३१; -तम् सु ३, २.
 क्षत-ज-प्र(भ>)भा- -भा अप
 ५८^२, ४, १४; १५.
 क्षत-वद्- -द्वाति अप ६२,
 २, ७.
 ?क्ष्णवा कर्णवा वाघश्रौ ३, ३९ : ७.
 क्ष(त>)त्ता-, क्षच्- √क्षद् द्र.
 ?क्षत्र^२- पाठ ४, १६७; पाग २, ४,
 ३१; -त्रम् आश्रौ ४, १२, २^१;
 शाश्रौ ३, ७, ४^१; काश्रौ ५, १२,
 १२^१; १७, ११, ११^१; अप
 ४८, ९०^१; ऋनिघ १, १२^२;
 २, १०; -ऋत्रस्य काश्रौ १५,
 ५, १४××; आपश्रौ; -त्रा वृद्दे
 ७, ९६^१; -ऋत्राणाम् काश्रौ
 १५, ५, ३२; आपश्रौ; -ऋत्राणि
 आपश्रौ १५, ११, २^२; वौश्रौ ९,
 ११; १२^२; माश्रौ ११, ११, २^२;
 कौस् २, ४१; १३७, ३०^२; अप
 ४६, २, १; या ३, २०; -त्राव्
 आपश्रौ १४, ६, ९; १७, १७, ४^१;
 वाश्रौ ३, २, ६, ३०; हिश्रौ ९,
 ८, २६; -ऋत्राय काश्रौ १७,
 ११, ११; आपश्रौ; -ऋत्रे शाश्रौ

a) <√क्लिद् । b) नाप. । अर्थः व्यु. च ? । c) वैप १ द्र. । d) तु. पागम. । तदनु च
 भर्त्सनपादपूरणयोः । e) स्वरुपं ? । = त्तोत्-विशेष- । ष्तः इति संस्कर्ता ? । f) पाषे. वैप १, ११८५ f द्र. ।
 g) = अक्षर- । h) या २, २५; ६, १ पा ७, २, ५ परामृष्टः द्र. । i) कर्त्तरि क्तु । j) पाषे. वैप २, ३२^१.
 क्षत्रम् माश्र ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । k) पाषे. वैप १, ११८५ l द्र. । l) = धन- । m) = उदक- ।
 n) पाषे. वैप १, ११८५ k द्र. । o) पाषे. वैप १, ११८६ b द्र. ।

छ, १०, ३; काश्री; -क्षत्रेण
 आपथ्री १७, १७, ७; वीथ्री ८,
 ३: १८; हिथ्री १२, ५, ३४;
 गौष ११, २९; अथ २, ६;
 -क्षत्रेभ्यः आपथ्री १६, ३०, १;
 वैथ्री १८, २० : ३४; हिथ्री ११,
 ८, ४.
 १क्षत्र-त्रः वाघ १, २९;
 ३४.
 क्षत्र-कर्मन्-र्म वैष ३,
 १२, १२.
 क्षत्र-हानि-निः अय ७०^३,
 ११, २८.
 क्षत्र-वर्म-र्मः वौष २, २, ७०;
 -र्मम् वौष २, १, १६; -र्मण
 वौष २, २, ६९.
 क्षत्रधर्मा(र्म-अ)नुगत-तौ
 वौष १; ११, १२.
 क्षत्र-वृत्ति-तिः काश्री १५, ९,
 १९; वैताथ्री ३६, १२.
 क्षत्र-पति-तिः काश्री ६, १३, १;
 १५, ५, ३२; आपथ्री १८, १६,
 ६; वीथ्री १२, ११ : ६; हिथ्री
 १३, ५, ३४.
 क्षत्र-प्राय-ये निस् २, १० : ३९.
 क्षत्र-वन्धु-न्धून् वृदे ५, १२६;
 -न्धोः विघ २७, २६.
 क्षत्र-भृत्^१-भृत् आथ्री ४, १,
 २२९; १२, २; आमिग २, ३,
 ५ : २१; -भृत्ः आपथ्री १६,
 ३३, १; वैथ्री १८, १६ : ६१;
 हिथ्री ११, ८, ११; अप्राय ६,
 २; -भृत्तः वीथ्री १३, ३८ :
 ९; -भृत्त शंथ्री ९, २२, २;
 वीथ्री २३, ९ : ११; वाघृथ्री
 ४, १०८ : ८.

क्षत्रभृत्-त्तम-मः आपथ्री
 २२, १२, २०; वीथ्री १८, ७ :
 ७; हिथ्री १७, ५, २३.
 क्षत्र-मार्ग-र्मण निस् ७, ५ : ३४.
 क्षत्र-वत्-वत्ते शंथ्री ९, २२, २;
 वीथ्री २३, ९ : १०; वाघृथ्री ४,
 १०८ : ८; -वान् आथ्री ४,
 १, २२.
 क्षत्र-वध-वधः अय ५०, ७, २.
 क्षत्र-वनि^१-निस् आपथ्री ७,
 १०, १२; वीथ्री ४, ४ : ३३; ६,
 २७ : ८; माथ्री ७, ८, १४;
 माथ्री १, ८, २, २०; २, २, ३,
 १७; जैथ्री ६ : ११.
 क्षत्र-विद्-वृद्-वृद्देषु विघ २२,
 २२.
 क्षत्र-विद्-वृद्-नो-वध-वधः विघ
 ३७, १३.
 क्षत्र-विद्या-(क्षत्रविद्य-पा.)
 पाग ४, ३, ७३.
 क्षत्र-वृत्ति-तिः गौष ७, ६९;
 -त्तिम् वैथ्री १७, १८ : ८; १०;
 लाथ्री ८, १२, १०.
 क्षत्र-वृद्धि-द्धिम् आपथ १, ३, ९;
 हिघ १, १, ८१.
 क्षत्र-संयमा(म-अ)र्थ-र्थः निस्
 ७, ६ : २१^२.
 क्षत्र-सामन्-म निस् ५, १ :
 १९; ८, ७ : ३८.
 क्षत्रस्य-वृत्ति^१-तिः आथ्री ९, ३,
 २७; वीथ्री २६, ३ : ११; १७;
 निस् ७, ६ : २०; -त्तिना शंथ्री
 १५, १६, ८; ११; वीथ्री २६,
 २ : २३; लाथ्री ९, ३, ११;
 -त्तिम् वाथ्री ३, ३, ४, ५०; -तौ
 आपथ्री १८, ८, ४.

क्षत्राणां-वृत्ति^१-तिः आपथ्री १८,
 २२, १८; हिथ्री १३, ७, ३४.
 क्षत्रा(त्र-आ)यत्तन->नी(य->)
 या^१-या लाथ्री ६, ६, ८; १८;
 निस् १, १० : २५; -याम् लाथ्री
 ६, ८, ३.
 क्षत्रिन्^१->त्रिणी-णी आज्यो
 १२, १.
 क्षत्रिय, या^१-पाग २, १, ५९; -यः
 शंथ्री १४, २९, २××; काश्री; -यम्
 शंथ्री १६, १०, ९; काश्री; कौस्
 १७, २८^३; क्ष^३; अय १८^३, १, ४^३;
 -यस्य आथ्री ४, १, २३; शंथ्री;
 -या शंघ ६५^२; गौष ४, १९;
 -याः शंथ्री १४, ३३, १२; वाथ्री
 ३, २, ५, ४६; अय ३५, १, ८;
 -याणाम् आपथ्री २४, १०, ११;
 वीथ्रीप्र; -यात् शंथ्री १५, २०,
 १; वौष; पा ४, १, १६८; पावा
 ४, १, १६६; -यान् शंथ्री ९,
 २४, ३; वीथ्री १३, २१ : १२;
 माथ्री ५, १, ८, १६; हिथ्री २२,
 ३, २७; ३अय ५४, १, ३; ५८^३,
 ४, १५; -याम् वैग ६, १२ : २;
 -याय शंथ्री १५, १६, ७;
 क्ष^१वौथ्री; -यायाम् वौष १, ९,
 ६; ७; शंघ; -ये शंथ्री १६, १७,
 २; गौष १२, ८; पागवा ४, १,
 ८०; १५१; १७२; -येण माथ्री
 १०, ७, १६; शंघ ७५; -येषु
 शंथ्री १४, ३३, १२; -यौ नाथि
 १, ४, ३.
 क्षत्रिया, याणी-पावा ४, १,
 ४९.
 क्षत्रिय-कन्या-न्यया विघ २४,
 ६; -न्यायाम् वैष ३, १२, ४.

a) विघ. । वस. । b) वैष १ द्र. । c) क्षत्रियवृत् इति क्वचित्कः पासे. । d) = एकह-विशेष- ।
 e) = विष्णुति-विशेष- । f) = क्षत्रिय- । g) पासे. वैष १, ११८७ f द्र. ।

क्षत्रिय-ग्रहणा (ए-आ) नर्थक्य-
-क्यम् पावा ४, १, १६६.

क्षत्रिय-नाशन- नम् अप ७१,
१६, २.

क्षत्रिय-प्रभृति- तीनाम् आपव
१, १८, ९; हिघ १, ५, ७८.

क्षत्रिय-वत् आपव २, १०, ७;
हिघ २, ४, ७; पाग १, १, ३७.

क्षत्रिय-वध- -धे वौध १, १०,
२१; विघ ५०, १२; -धेन वौध
१, १०, २७.

क्षत्रिय-वर्जम् विघ १८, ९.

क्षत्रिय-वैश्य- -श्ययोः काश्रौ
३, २, ११; ६, १०; वैध १, १, ६;
गौध १, १३; -श्यानाम् वौश्रौप्र
५४ : ३; -श्यौ वैश्रौ १२, १० :
११; वैश्र ६, १२ : ११; विघ
१८, १९; गौध १२, ११.

क्षत्रियवैश्य-वध- -धे सुधप
८५ : १.

क्षत्रियवैश्य-नो-न्न-ता-
-ता सुधप ८६ : १.

क्षत्रियवैश्या(स्य-अ)तुलोमा-
(म-अ) नन्तरो(र-उ)त्पन्न-
त्^० -जः शंघ ७६०.

क्षत्रियवैश्यो(स्य-उ)पक्रुष्ट- -ष्टाः
आश्रौ २, १, १३.

क्षत्रिय-शूद्र- -द्रौ विघ १८, २२.

क्षत्रिय-श्रीकाम- -मयोः काश्रौ
४, ७, ६.

क्षत्रिय-समान-शब्द- -ब्दात्
पावा ४, १, १६६.

क्षत्रिया(य-आ)दि- -दीनाम्
वौध १, १०, १९.

क्षत्रिया-पुत्र- -त्रः विघ १८, ३;
-त्रौ विघ १६, ५.

क्षत्रिया(य-आ)र्ष^० पा२, ४, ५८.

क्षत्रिया-वैश्या-शूद्रा-पुत्र- -त्रेषु
विघ १८, ११.

क्षत्रिया(य-आ)शौच- -चे विघ
२२, ११; १४.

क्षत्रियो(य-उ)च्छादक^० - पाग
२, २, ९; ६, २, १५१.

क्षत्रियो (य-उ)च्छिष्टा (ए-अ)
शन- -ने शंघ ३९६.

रक्षत्र^० (> क्षात्रायण- पा.) पाग
४, १, ११०^१.

✓क्षत्र^० > क्ष(त्^०)त्ता- -त्तायाम्
वौध १, ९, ११.

क्षत्त-संग्रहीतृ- -त्तारः वौश्रौ
१५, ३ : ३; ५ : २६; १८, १८ :
७; २५, ३४ : १०; -त्तारौ
वौश्रौ १२, १५ : १८; २२; १८ :
६; -तृणाम् वौश्रौ १५, १ : १९;
५ : १२; २५ : ३; ९; २९ : २८;
३० : १९; -तृणाम् वाधूश्रौ ३,
७९ : ६; ९० : ८; -तृन् वाधूश्रौ
३, ९२ : ५.

क्षत्तृ- पाठ २, ९४; पा ६, ४, ११;
पावा ३, २, १३५; -०त्तः
वाधूश्रौ ३, ७० : १; ९९ : ७;

-त्ता शंश्रौ १६, ९, १६१^१;
आपश्रौ ५, २३, ९१; वौश्रौ १२,
१५ : ७; २३; वौध १, ९, ६;

-त्तारम् आपश्रौ १८, १९, ६;
वौश्रौ १२, १५ : ६; हिश्रौ १३,
६, ३१; अश्र ९, ६(५)^१; -त्तुः

काश्रौ १५, ३, ९; वौश्रौ १२, ५ :
२७; -त्तृभ्यः वौश्रौ १०, ४८ :
६; वैश्रौ १९, ६ : ३७.

रक्षत्र^१ -> क्षात्र-संग्रहीतृ-
-तृणाम् काश्रौ २०, १, १६.

क्षत्तृ-वैदेहक- -कयोः वौध १,
९, १०.

क्षत्तृ-संग्रहीतृ- -तृभिः आपश्रौ
२०, ४, ४; हिश्रौ १४, १, ३८;

-तृणाम् शंश्रौ १६, १, १६^१;
वाश्रौ ३, ४, १; १७.

†क्षत्रन्^० -न्न अप ४८, ७५; निघ.
१, १२; २, ७.

चक्षदान^० - नम् या ५, २१^१.

✓क्षप्^१ पाधा. तुरा. पर. क्षान्त्याम्,
उम. प्रेरणे, क्षपेरन् कौश्र १४१, ५

†क्षप्^० -क्षपः अप ४८, ७५^१;
निघ १, १२^१; ऋप्रा १८, ५३

क्षपा साश्र २, ९८१.

क्षप- पा ३, १, १३४^१.

क्षपग^० -गत् कौश्र ३, ७, १३;
शांश्र ४, ५, १७; पाश्र २, १२, ४;

गौध १८, १५.

क्षपणी^० -ण्यः वौश्रौ १९, १० :
५१.

क्षपण-क^० -कः शंघ ३७७ :
७.

†क्षपा^० - पाग ३, ३, १०४^१; -पा
अप ४८, ७४; निघ १, ७; -पाः

- a) द्वस. > उम. । b) विप. । पस. > पस. > सस. > उम. । c) °मान्तरो इति पाठः? यनि. शोधः
(तु. भाष्यं [याज्ञ १, ९५]) । d) तु. पागम. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) तु. पाका., ३क्षान्त- इति भाण्डा. ।
g) वैप १ द्र. । h) = क्षत्तृ- (तु. काश्रौ २०, १, १६) । i) पासे. वैप २, ३३. क्षत्ता माश ६३, ५, ४,
६ टि. द्र. । j) समूहायै त्वायै वा ऋण् प्र. (तु. क्षत्तृ-संग्रहीतृ-) । k) क्षत्रसं इति पाठः? यनि. शोधः ।
l) ✓क्षम् इति पाका ३, १, १३४ । m) = उदक- । n) क्षम- इति पाका. । o) घा. उपरमे वृत्तिः ।
p) = इष्टका-विशेष- । q) = भिन्नु- ।

वौध ४, २, ७; -पाणाम् वौधौ
१९, ३ : ९; २०.
क्षपा-शय- -यः काय ५, ७.
क्षपा-हास- -सः वेज्यो ८.
क्षपे(पा-इ)ष्टका^१ - काः वौधौ
१९, ३ : ७; १८.

✓क्षम्^१ पाधा. भ्वा. आत्म., दिवा. पर.
सहने, क्षमिति पा ७, २, ३४;
क्षमन्ताम् जैश्रौका २१५;
क्षमस्व वृडे ५, ७८; क्षम वैताश्रौ
३७, २; क्षमेत विध ३, ९३.
क्षाम्येत भाग्य ३, ८ : १०.

क्षन्तुम् अप ४०, ६, १२.
क्षम्^२ - क्षमि वौधौ १८, ४१ : ३१.
क्षम- पावा ३, २, १.
क्षम- पा ३, १, १३४; -मम् अप
७०, २, २.

क्षमा^१ - पाग १, १, ३७; -मा
विध २, १६; -मायाम् पावा १,
३, २१; ३, १, ५.
क्षमा(मा-अ)न्वित- -न्तः विध
३, ९६; -न्ते विध ९९, २०.
क्षमा-पर- -रम् सु १६, ३.
क्षमा-वत्- -वन्ति अप ५८^२, १,
३; -वान् शंघ २४४.

क्षमा^२ - मा अप ४८, ७२; निघ
१, १.

क्षमा-शय- -यः वाघ ९, ६.
क्षम्य^१ - आमिगृ १, २, १ : ७; २ :
४२; हिगृ २, १८, ७; २०, ९.

क्षमान्त,न्ता- पाग ४, २, ९०^१; ६,
३, ३४; -न्तः अप ३८, १, ३;
वैध ३, ५, ७; -न्तम् वाघ ६, ३०.

क्षान्तीय- पा ४, २, ९०.
क्षान्ति- -न्तिः गौध ८, २१; -न्तिम्
शंघ ११६ : ३०; -न्त्या विध
२२, ९०.

क्षान्त्या (न्ति-आ) हुति- -तिः
वाघ ३०, ८.

क्षान्तु- पाठ ५, ४३.
क्षामन्^१ - मन् भाशि २१; -मा
आपमं २, ११, २४; ऋपा ७, ३३;
शुपा ३, १२९^२; तैपा ३, १०.

क्षय- ✓क्षि द्र.

क्षय- ✓क्षि (निवासगत्योः) द्र.

क्षय- ✓क्षि (ऐश्वर्ये) द्र.

क्षयण- क्षि (निवासगत्योः) द्र.

क्षयत्- प्रमृ. ✓क्षि (ऐश्वर्ये) द्र.

क्षयि- पाठभो २, १, २२३.

क्षयिन्- ✓क्षि द्र.

क्षयिन्- ✓क्षि (निवासग^१) द्र.

क्षय्य- ✓क्षि (क्षये) द्र.

✓क्षम्^१ पाधा. भ्वा. पर. संचलने, क्षरति
वौधौ १७, ३६ : १०; वृडे २, ५८;
या ५, ३; ११, ४१^१; १३, १२;
क्षरिति पा ७, २, ३४; ऋक्षरन्ति
वौधौ १८, ९ : ३६; आमिगृ
३, ३, २ : १; कौसू ९१, १; ९८,
२; विध ५५, १८९; ऋक्षरन्तु^१
आपमं २, २०, २८; आमिगृ ३,
१, २ : ६; २, ५ : १२; ७ : ५;
भाग्य २, १५ : १३; १६ : १४;
१७ : ९; हिगृ २, ११, १; १५, ७;
क्षर > रा ऋपा ७, ३३^१;
अक्षरन् आपधौ १२, १९, ५.
अक्षाः लाश्रौ ७, ९, ८; १०; निस्

१, १ : १६; निघ ४, २१; या ५, ३^१;
ऋषा १, ७९; ४, ४०; ऋक्षाः
गोय १, ३, १९; द्रागृ १, ५, २०.
क्षारयति वैताश्रौ १२, ६.

क्षर, रा^१ - पा ३, १, १४०; -रम्
पाप्रवा ८, १; विध ९७, १२;
-राः अप ४८, ७५.

क्षर-क्षाम-महीरुह- -हाः अप
७१, १९, ३.

क्षर, रोज- , पा ६, ३, १६.

क्षर(त >)न्ती- -न्तीः माश्रौ ५,
२, ४, ३१.

क्षरति- > ण्ति-निगम- -मः या
५, ३.

क्षर, रा^१ - पा ३, १, १४०; पाग ४, २,
९०^१; -रम् हिगृ १, ८, १०;
-राभिः वौध १, ५, १४; -रेण
शंघ १६४.

क्षर-नदी- -द्यः शंघ ३७४.

क्षर-मात्र- -त्रम् वौधौ २६,
३३ : १५.

क्षर-लवण- -णम् हिध २, ५,
१४५; -णे माय १, १, १२; २,
२१; द्रागृ १, ४, ९.

क्षारलवण-वर्जन- -नम्
आपध ८, ८; ११, २१; भाग्य
३, १२ : ५; आपध २, २, १३^१.
क्षारलवण-वर्जम् वौध २,
५, ५५.

क्षारलवण-वर्जित-भोजन-
-नम् आमिगृ ३, ६, २ : ५.

क्षारलवण-वर्जित- -र्जी
काय १, ८.

a) = इयका-विशेष- । मलो. कस. । b) ✓क्षप् टि. द्र. । पा ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. ।
d) = क्षान्ति- । e) पा ७, १, ३८ । विश्रम्य इति. Böht [ZDMG ५२, ८७] शोधुकः ? । f) क्षान्त- इति पाका. ।
g) या २, ५ परामृष्टः द्र. । h) पाभे. वैप १ सचवन्तु मा ३५, २० टि. द्र. । i) विप., नाप. (उदक-)
j) विप., नाप. (रस-विद्येय-)
k) क्षोथ- इत्यन्ये इति पागम. । l) सपा. णवर्जनम् <> णमधुमांसव^०
इति पाभे. ।

क्षारलवण-होम- -मः आपध
२, १५, १४; हिध २, ३, ४८.
क्षार-लवण-दुग्ध- -धम् द्रागृ
२, ४, ३३.
क्षार-लवण-मधु-मांस- -स्नानि
वौपि ३, १२, १; आपध १, २, २३;
४, ६; हिध १, १, ५६; १२५.
क्षारलवणमधुमांस-वर्जन-
-नम् हिपि ८ : ११; हिध २,
१, ४४^४.
क्षार-लवणा(ण-अ)वरान्त-
संसृष्ट- -ष्टस्य आपगृ ८, ३;
वौगृ २, ८, ४.
क्षारां(र-अं)श- -शः कप्र ३,
८, ६.
क्षारीय- पा ४, २, ९०.
रक्षर^b-(> क्षर्य- पा.) पाग ५, १, २.
√क्षल्^c पाधा. चुरा. पर. शौचकर्मणि,
क्षालयतः वैश्रौ १६, २६ : ६;
क्षालयेत् वैध ३, ४, १.
क्षालन- -नम् कागृ ४६ : १४;
कप्र ३, १०, १; हिध २, ५, ९९;
-नात् वैध ३, ३, ११.
क्षालित- > ंत-पाद- -दान्
आमिगृ २, ३, ३ : ५.
क्षव- √क्षु द्र.
क्षवक- पाउमो २, २, ७.
क्षवथु- √क्षु द्र.
क्ष्मा^d- क्षा अर ४८, ७२; निघ १, १;
या २, ६४; क्षाः आश्रौ ३, ८,
१; आपश्रौ २४, १३, ३; क्षाम्
शाश्रौ ८, ११, १३; या २, ६६.

रक्षत्र- १क्षत्र- द्र.
रक्षत्र- √क्षद् द्र.
क्षत्राण^e- -णाय कौस्तु ५६, १३.
क्षत्रायण- २क्षत्र- द्र.
रक्षान्त- √क्षम् द्र.
रक्षान्त^f- -न्तम् या २, १०.
रक्षान्त- (> क्षान्तायन- पा.)
२क्षत्र- टि. द्र.
क्षान्ति-क्षान्तु- √क्षम् द्र.
क्ष-पवित्र^g- -त्रः आमिगृ २, ४, ५;
८?^h; -त्रम् वौध ४, ७, ५.
क्षाम- √क्षै द्र.
क्षामन्- √क्षम् द्र.
क्षामा^b- (> क्षामा-प्रस्थ- पा.) पाग
६, २, ८८.
क्षाम्यायणⁱ- -णाः वौश्रौप्र १७ : १.
र-रक्षार- प्रयु. √क्षद् द्र.
क्षारक- पाउमो २, २, ७.
क्षारहरतिरात्रम् वैश्रौ २१, ३ : १०.
क्षारीय- √क्षद् द्र.
√क्षि^j पाधा. भ्वा. पर. क्षये; स्वा. पर.
हिंसायाम्, क्षयति अप ४८,
११६^k; क्षयन्ते अप ६८, १,
१९.
क्षिणोति निघ २, १४^l.
क्षिणाति या ६, ६^m.
क्षिष्ट जैगृ २, १ : २८; २ :
२२ⁿ; क्षिष्टाः आश्रौ १, ११,
६; १३, ४; शाश्रौ ४, ९, ४; ११,
३; काश्रौ ३, ४, २७; वौश्रौ २,
१० : २१; २५; २८; ३, २० :
१२; माश्रौ १, ४, २, १२; वाश्रौ

१, १, ३, १६; वैताश्रौ ३, २०^o;
आपमं.
क्षीयते वौश्रौ १४, ४ : १०;
वाधूश्रौ; या १३, १२; क्षीयन्ते
वाधूश्रौ ४, ५२ : ७; ९; आमिगृ
२, ६, ५ : २४; वौगृ २, ९, २३^p;
आपध २, ४, १४; हिध २, १,
६७.
क्ष्मायि आपश्रौ ४, १०, ९^q;
वौश्रौ ३, १० : ३०^r; माश्रौ ४,
१६, १^s; हिश्रौ ६, ३, ३^t; आपमं
२, १०, १५; वौगृ १, २, ५७;
भागृ २, २५ : १६; ३, १२ :
११; हिगृ १, १३, १५; आपध
२, ३, ११.
क्षय^u- -यः अप ६४, ८, ५४^x;
शंघ; -यम् निस् ७, १२ : ७;
कप्र; या १३, १२; -यस्य अप
७२, ३, ५; -ये अप ४८, ४२^y;
७२, ३, ५; आज्यो ७, ७.
क्षय-कर- -रः अप २७, २, ३.
क्षय-नाशा(श-अ)मिन्दाह-
-हेपु कप्र ३, १, ३.
क्षया(य-अ)न्त^z- -न्ताः कप्र ३,
३, ८^{aa}?
क्षया(य-आ)मय- > ंथिन्-
-यी शंघ ३७६.
क्षया(य-अ)र्थ- -र्यात् या ७,
२३.
क्षयिन्- पा ३, २, १५७; -यी शंघ
३७७ : ७; १८; काघ २७८ : ७^{bb}.
क्षय्य- पा ६, १, ८१.

a) पाभे. पृ १४९ n द्र. । b) अर्थः व्यु. च ? । c) √क्षर परि. टि. द्र. ।
d) वैप १ द्र. । e) = रक्षो-विशेष- इति B. 1. व्यु. ? । f) वैप १, २३७ b द्र. । g) = मन्त्रगण-
विशेष- । कस. पू. < क्षाम [तैत्रा २, ८, २, ४] । h) क्षमाप इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वौध.) ।
i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) पा ६, ४, ५९; ६०; ८, २, ४६ परानुष्टः द्र. । k) लघुकोशीयः पाठः ।
l) पाभे. वैप १, ११९० ० द्र. । m) भाप., नाप. । n) विप. । वस. । o) क्षम- इति पाठः ? यनि.
शोधः । p) अर्थः ? इति संस्कृतां ।

क्षित- पा ६, ४, ६१; -तः वैश्रौ
२१, १४ : ८.

क्षैति- पावा ८, २, ४२.

क्षिया- पाग ३, ३, १०४; -यायाम्
पा ८, १, ६०.

क्षिया(या-आ)शीः-त्रैप- -पेषु
पा ८, २, १०४.

क्षीण- पा ६, ४, ६१; -णः सु १०,
४; गौघ १०, ६०; कप्र २, ६, ५;
-णम् अप ७०^३, ११, ४, ५; -णे
अप ७०, १, ८; विघ २०, ४३;
कप्र २, ६, १; ३; ८; आज्यो
१३, ४.

क्षीण-कोप^१- -वः वाघ २२, ७.

क्षीण-मु(ण्य >)ण्या^२- -ण्या
वाघ २१, ११; आपघ २, १७, ८;
हिघ २, ५, ३७.

क्षीण-मनुष्य-कोश^३- -शः अप
७०^३, ११, १५.

क्षीण-मेधा-जननी- -नी याशि
१, ३८.

क्षीण-स्वरे(र-ई)ड^४- -डम् निस्
७, १२ : ७.

क्षीणा(ण-आ)युस्^५- -युः वाघ
११, ३८; -युपः वौश्रौ १८,
४४ : १९.

क्षीयमाण,णा- -णा कप्र २, ६, २;
-णेषु आम्रिष्ट २, ७, ११ : १८.

√क्षि^६ पाधा. तुदा. पर. निवासगत्योः,
क्षयन्ति वौश्रौ २, ८ : २६^१;
आम्रिष्ट २, ७, ४ : ११; वौपि
२, ९, ११.

क्षेति वृदे ५, ७५^१; ऋक्षेपत्
शांश्रौ १४, ५३, ७; वृदे ५,
१०५.

क्षियति वृदे २, ५८; निघ २,

१४^१; या ५, ३; १०, २७;
ऋक्षियन्ति आपश्रौ ११, ९, १;
वौश्रौ २०, १६ : ११.

रक्षय,या^२- पाग २, ४, ३१^१; -यः
या ८, १८; पा ६, १, २०१;
-ऋयम् आश्रौ ४, ४, ४; ७, ४;
८, १, २; आपश्रौ १४, १०, १;
१७, ३, ५; वौश्रौ १०, ४५ : ८;
१४, २० : ७; माश्रौ ५, २,
१६, १४; ६, २, २, ३; वाश्रौ;
-या अप ४८, ८९^१; -०ऋयाः
आपश्रौ १२, ३, २; वैश्रौ १५,
३ : ८; हिश्रौ ८, १, ४१; -ऋयाय
आश्रौ ५, १९, ३; शांश्रौ ८, ४,
३; आपश्रौ १४, १०, १; १७,
३, ५; वौश्रौ ४, १ : ११ x x;
-ऋये आश्रौ २, ११, १४; १७,
१५; ५, ५, १८; शांश्रौ २, ११,
६; आपश्रौ ९, १९, १३; १३,
१८, ९; वौश्रौ ३, ८ : २२ x x;
वैश्रौ.

क्षयण^३- -णस्य या ६, ६.

रक्षयिन्- पा ३, २, १५७.

क्षिति^४- -ऋतयः अप ४८, ७८; निघ
२, ३; या ४, २४; -तिः हिश्रौ
१०, २, १४^१; वाघ २८, १७;
अप ४८, ७२^१; निघ १, १^१;
-तिभ्यः वृदे २, ४१; -तिम्
अप ६८, २, १; ४; विघ १, ३५;
वृदे २, ५०; ६३; -तेः अप ६४,
६, ४; ९, ५; -तौ सु ९, १; अप
५८^२, १, ५; ४, १६; ६४, २, २;
वृदे २, ४१; -त्या वैताश्रौ १२,
१; -त्यै वाधुश्रौ ४, ३७ : ३.

ऋक्षेत्^५- > क्षेत्-वत्^६- -वत्
आश्रौ ४, १३, ७; १०, २, ५;

शांश्रौ ६, ४, ३; १०, ३, ३; ११,
१३, १८; १५, ३.

क्षिति-गो-धन-धान्य-रत्ना (त्न-
आ) दिक- -कम् अप ३, १, १७.

क्षिति-त्राण- -णम् विघ २, १२.

क्षिति-पति- -तयः अप ५१,
४, १; -तेः अप ७०^३, ५, १.

क्षिति-पाल-लक्ष्मी- -क्ष्मीः अप
२४, ६, ४.

ऋक्षिति-सृज्- -सृजे अप १, ३९,
२; अशां ९, २.

क्षिति-(स्थ >)स्था- -स्थाः
वाघ ३, ४७.

क्षित्य(ति-अ)न्तरिक्ष-द्यु-स्था
(न >)ना- -नाः ऋश्र १, २, ८.

ऋक्षियत्- -यतः या ९, १०^१;
-यन्तः शांश्रौ १८, १५, ५; गौपि
२, ४, ७; -यन्तम् आश्रौ ३, ८,
१; या १०, १२.

क्षियति- > ऋति-निगम- -मः, -माः
या ५, ३.

क्षेत्र^७- पाउभो २, ३, ८५; पाग ४,
२, ३८; -०त्र विघ १, ५२; -त्रम्
आपश्रौ १८, १९, ७; वौश्रौ; अप
४८, ९०^१; या १०, १४^१; १४,
३; -त्रस्य आश्रौ ९, ११, १४^१;
शांश्रौ; निघ ५, ४^१; या १०,
१४; १५^१; -ऋत्रस्य आश्रौ ९,
११, १५; वाश्रौ ३, २, ५, २१;
आपमं २, १८, ४८; या १०, १६;
-ऋत्राणि काश्रौ १०, ५, ३;
आपश्रौ १६, २, १०; हिश्रौ ११,
१, २२; १५, ७, ८; -त्रात् लाश्रौ
९, ११, १; आश्र १, ५, ५; आपय
३, १५; कौस् ६३, ५^१; -त्रे
आपश्रौ १६, १, २^१; वौश्रौ; वैश्रौ

a) विप. । वस. । b) विप. । वस. > वस. । c) विप. । कस. > वस. । d) या २, ६; १०, १४ परामृष्टः द्र. । e) वैप १
द्र. । f) तु. पागम. । g) = गृह- । h) वैप १, ११९१ h द्र. । i) = धन- । j) शोधार्थं पृ २२५ ० द्र. ।

२०, २९ : ८^१?^१; पा ४, १, २३;
५, २, १; पावा ५, २, २९; -त्रेण
आपध १, ९, ७; हिघ १, ३, ७;
-त्रेषु वौध ३, २, ९; ११; १२.

†क्षेत्री^b - त्रियै^c आपसं

२, १२, ६; आमिगृ २, १, ४ : ५;
वौगृ २, १, ३; ५, ३०; वैगृ ३,
१५ : १२; हिगृ २, ३, १०.

क्षेत्र- पा ४, २, ३८.

क्षेत्र-कर- पा ३, २, २१.

क्षेत्र-करण- णम् वौश्रौ १९,
५ : ३१; ६-९ : १.

क्षेत्र-कर्मविशेष- -वे आपध २,
२, ४; हिघ २, १, २६.

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विज्ञान- नम् विध
९६, ९८.

क्षेत्र-ज^d - जः वाध १७, १४;
शंघ २९१; वौध २, २, १७; विध
१५, ३; -जम् वौध २, २, ३१.

क्षेत्रज्ञ-पुत्रिका-पुत्र- -त्रयोः
शंघ २६९; २९१.

क्षेत्र-ज्ञ- पाग ५, १, १२४;
१३०; -ञ्ज विध १, ५२; -ज्ञः
वैध १, १०, ५; वृदे ४, ४०^f;

या १४, १०; -ज्ञम् विध ९६,
९७; ९८; वैध १, ११, १३; या
१४, ३; १०; -ज्ञस्य चाश्च १६:
२५.

क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १३०.

क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १२४.

क्षेत्रज्ञ-द्वार- -रेण वैध १,
११, ३.

क्षेत्रज्ञ-परमात्मन्- -त्मनोः
वैध १, ९, १५; ११, ३; ४.

क्षेत्रज्ञ-वृथक्त्व- -क्त्वाय

या १४, ३.

क्षेत्रज्ञ-योगा(ग-ञ्च)न्त-
-न्तम् वैध १, ११, ४.

क्षेत्र-ज्ञान- -नम् काशु २,
११; वृदे ४, ३६.

क्षेत्र-द्वार-हर- -रः वाध ३,
१६.

क्षेत्र-द्रव्या(व्य-ञ्च)पहरण-
-णम् शंघ २५५.

क्षेत्र-पति- पाग ४, १, ८४;
-तये कौसू ५१, २१; -तिः वृदे
१, १२३.

क्षेत्रपत- पा ४, १, ८४.

क्षेत्रपती^e - -त्या आपधौ
११, १०, १८.

क्षेत्रपत्य,त्या^f - -त्यम् वौश्रौ
१२, १९ : २०; १३, २ : ११;
हिश्रौ २२, २, ८; आपगृ १९, १३;
२०, १८; भागृ २, १० : १७;
हिगृ २, ९, ८; अप ७०^३, ६, ४;
-त्यस्य हिश्रौ २२, २, ८; भागृ
२, १० : १३; हिगृ २, ९, १२;
-त्याः ऋञ्च २, ४, ५७; वृदे
५, ७.

क्षेत्र-बीज-भक्त-गो-शकट-कर्षण-
-द्रव्य- -न्याणि शंघ २६२.

क्षेत्र-मध्य- -ध्ये आमिगृ २, ६,
८ : ६.

क्षेत्र-मर्यादा- -दायाम् आपधौ
९, १२, ६; वैश्रौ २०, २५ : ८;
कौगृ ३, १३, २; शांगृ ४, १३, २.

क्षेत्रमर्यादा-भेद- -दे शंघ
३११.

क्षेत्र-वितृ(ण्ण>)णी^१- -णीम्
आमिगृ ३, ८, १ : ७; ११; ३ :

३१; वौपि १, १४ : ७; १५ :
२६; १६ : १७; -ण्याम्
आमिगृ ३, ८, २ : २८.

क्षेत्र-साधस्^h - -धाः या २, २^१.
क्षेत्र-सारथि- -थिभिः कौसू
१०६, ७^१.

क्षेत्रा(त्र-आ)पण-गृहा(ह-आ)
सक्त- -क्तम् विध २०, ४२.

क्षेत्र(त्र>)त्रा-सा^h - -साम् ऋप्रा
९, २४.

क्षेत्रिक¹ - -कस्य शंघ २८७^२.

क्षेत्रिन्- -त्रिणः वाध १७, ६;
-त्रिणाम् शंघ २८८.

क्षेत्रिय,या^h - पा, पावा ५, २,
९२; -यः पावा ५, २, ९२; -यम्
आपधौ १३, ७, १६; १८, ८,
१३^१; †वाश्रौ ३, ३, १, ११;
१२; हिश्रौ १०, ५, १; १३, ३,
२४^३; -†यात्^c आपसं २, १२,
१०; आमिगृ २, १, ४ : १०;
हिगृ २, ३, १०; कौसू २७, ७;
अप ३२, १, ७; अश्च २, १०;
अप २ : २०.

†क्षेत्रिय-नाश(न>)नी^h-
-नी अप १ : १९.

क्षेत्रो(त्र-उ)दका(क-आ)हरण-
-णे शंघ ३११.

†क्षेत्रौ(त्र-ओ)पधि-वनस्पति-
-तयः अप ४३, २, ३०.

क्षेत्रौ(त्र-ओ)पधि-वनस्पति-
गन्धर्वा(र्व-ञ्च)प्सरस्- -रसः
आगृ ३, ४, १; कौगृ २, ५, १;
शांगृ ४, ९, २.

क्षेत्र^h - पाठ १, १४०; पाग २, ४,
३१; -मः आपधौ ११, ४,

a) पाठः ? क्षेत्रे इति शोधः (तु. सप्र. तंत्रा ३, ७, १०, ३) । b) वैप २, ३६. द. । c) पाप्म. वैप.
१, ११९३ k द. । d) = पुत्र-भेद- । e) = [क्षेत्रपतिशब्दवती-] ऋन्- । f) वैप १, ११९२ n द. ।
g) = कृष्टक्षेत्र-मृद्- । h) वैप १ द. । i) मत्तर्थावय् स्नु प्र. ।

१४^१; भाश्रौ; -^१मम् शाश्रौ
१२, १७, १^१; अप्र; -मस्य
पाठ ३, ४, ४; -^१माय काश्रौ
४, १२, २२; आपश्रौ; -^१मे
आपश्रौ २१, २०, ३; वौश्रौ.
क्षेम-कार- पा ३, २, ४४.

क्षेम-कृत्- -कृत् आपध २, २५,
१५; हिघ २, ५, १९५.

क्षेम-धृत्विन्^a- पाग ४, १,
१६^b.

क्षेमधृत्वि- पा ४, १, ९६;
(>क्षेमधृत्वीय- पा.) पाग ४,
२, १३८^b.

क्षेम-प्रापण^c- -णम् आपध २,
२१, १४; १६; वौध २, २, ७६;
हिघ २, ५, १२३; १२५.

क्षेम-म्-कर- पा ३, २, ४४.

क्षेम-वृत्तिन्^d->क्षेमवृत्ति^{de}-
(>क्षेमवृत्तीय- पा.) पाग ४,
३, १३१.

क्षेम-वृद्धिन्^e- पाग ४, १, ९६;
२, १३८^f.

क्षेमवृद्धीय- पा ४, २,
१३८.

क्षेमवृद्धि- पा ४, १, ९६;
(>क्षेमवृद्धीय- पा.) पाग ४,
२, १३८^g; ३, १३१^h.

क्षेमा(म-आ)चार- -रे आश्रौ
४, १०, ५.

?क्षेमा(म-अ)ध्यवस्यत्- -स्यतः
वौश्रौ १६, २३ : ८.

क्षेम्यⁱ- पावा ५, ४, ३६;

-^१म्यः आश्रौ ३, १२, ७;
आपश्रौ ९, ७, ६; भाश्रौ ९, ९,
१७; माश्रौ ३, ३, ६; वैश्रौ
२०, १३ : ५; हिश्रौ १५, २,
२३; ऽपाठ ३, ६-७, ४; अप्राय
४, ४; -स्यम् आज्यो ९, ७;
-स्ये आज्यो १०, ६; ११, ३.

√क्षि (ऐश्वर्ये), ^१क्षयति अप ४८,
२१; निघ २, २१; ^१क्षयसि
आपश्रौ ५, २३, ९; ^१क्षयथ>था
आश्रौ ४, १३, ७; ७, ११, ७;
वैश्रौ १५, ४ : ३; पाठ ३, ५, ३.
क्षेति वौश्रौ १८, ४१ : २^१.

क्षय^१- -यस्य आपश्रौ ६, २३, ११.

^१क्षयत्- -यन्तम् या ५, ९^१;
-यन्ता आश्रौ ८, ११, १; शाश्रौ
१०, ११, ५.

^१क्षयद्-वीर^१- -रस्य आपश्रौ
१७, २२, १; हिश्रौ १२, ६, २६.

√क्षिण् पाधा. तना. उम. हिंसायाम् .

क्षित- √क्षि(क्षये) द्र.

क्षिति- √क्षि (निवासगत्योः) द्र.

?क्षितिकाम्^१ कौसू ३२, १२.

क्षित्वन्- पाठ ४, ११४.

√क्षिप्^१ पाधा. दिवा. पर., तुदा.

उम. प्रेरणे, ?क्षिप्यन्ति^१ विघ
४३, ४२.

क्षिपति वौश्रौ ११, ७ : ३३;

वैश्रौ; क्षिपन्ति अप १, ८, ५;

क्षिपेत् वौश्रौ ९, १८ : ९××

वैश्रौ; क्षिपेयुः विघ १९, ९.

^१चिच्छिपः आम्रिय ३, ६, १२;

वौपि १, ८ : २.

^१क्षिप्^१- क्षिपः आश्रौ ५, १२,
१५^१; शाश्रौ ७, १५, ७^२; आपश्रौ
१४, ३०, ५; हिश्रौ १५, ७, २१;
१६, ८, १९; निघ २, ५.

क्षिपक, का- पाठभो २, २, १०;
पाग ४, २, ८०^m; पावा, पावाग
७, ३, ४५.

क्षिपकिन्ⁿ- पा ४, २, ८०.

क्षिपणि^१- पाठ २, १०७; -णिम्
या २, २८^१क^१.

क्षिपणु^१- पाठ ३, ५२; -णोः
आपश्रौ १७, १८, १^१,

क्षिपण्यु- पाठ ३, ५१.

क्षिपा- पा, पाग ३, ३, १०४.

^१क्षिपित- -त्तः आपश्रौ ४, ११, ५;
भाश्रौ ४, १७, २; हिश्रौ ६, ३, ८.

क्षिप्त, सा- -सः याशि १, ३४;
-सम् शैशि ९९; १०५; -सा
या ६, ४^१; -ते याशि १, ४९;
-सैः वृदे २, ४३.

क्षिप्त-योनि^१- -नेः आश्र १
२३, २०.

?क्षिप्त-सर्वसाधन-संयुत^p-
-तम् आम्रिय ३, १०, ४ : १८.

क्षिप्त्वा वैर २, २ : १४; कप्र ३,
२, ५; शंघ ४३९.

क्षिप्नु^१- पा ३, २, १४०.

क्षिप्^१- पाठ २, १३; पाग ५, १,
१२२; -प्रम् शाश्रौ १२, २३,
४^१××; आपश्रौ; आपमं १, १,
८^१; या ३, ९^१; ५, २; ३;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) तु. पागम. । c) विप. । उस. । d) अर्थः व्यु. च १ । e) क्षेमवृद्धि-

इति भाण्डा. पासि. BPG. च । f) तु. पाका. । क्षेमवृद्धि- इति भाण्डा. प्रसृ. । g) वैप १, ११९३ । द्र. ।

h) पाभे. वैप १, ११९४ C, अत्रत्यं स्थलमपि तत्र योज्यम् । i) वैप १ द्र. । j) = अक्षतमैषज्य- (तु. दारिद्रः) ।

व्यु. ? । k) पा १, ३, ८० परामृष्टः द्र. । l) पाठः ? ंते [कर्मणि] इति शोधः । m) अर्थः ? । n) = देश-

विशेष- ? । o) विप. । वस. । p) विप. । कस. > तुस. । q) णत्वाऽभावः (पा ८, ४, ३९) । r) पाभे. वैप १

पृषन् शौ १४, १, ३९ टि. द्र. ।

वैप-तु-२५

८, १३; ११, ५०; १२, ४४;
-प्रमूड-प्रमू अप ६८, १, ३८;
-ऋप्रस्य अप ४८, १०६; निघ२,
१५; -प्राः भाशि ६०; -प्राणि
आज्यो ५, २; -ऋप्रे आपश्चौ

२२, १६, ९; वौश्रौ १६, २७ :
२०; वाधूश्चौ २, ९ : ५; ३,
४४ : १५; द्विश्रौ १७, ६, ३३ऋ;
-प्रेण सु २३, २.

क्षैप्र^० - पा ५, १, १२२;
-प्रः ऋप्रा ३, ३४; शुप्रा; -प्रस्य
माशि ७, ६; याशि १, ८०;
नाशि२, १, २; -प्राः ऋप्रा२, २३.
क्षैप्र-नित्य- -स्ययोः तैप्रा
२०, ९.

क्षैप्र-वर्ण- -र्णान् ऋप्रा
१७, २३.

क्षैप्र-संयोगे (न-ए) का-
क्षरीभाव- -वान् ऋश्च १, ३,
६; शुभ्र ५, ६.

क्षैप्रा(प्र-अ) भिनिहित-
-तेषु ऋप्रा ३, १३; -तौ ऋप्रा
३, १८.

क्षैप्री√मू > क्षैप्रीभाव-
> च्य- -च्ये ऋप्रा ७, १०.

क्षिप्रं-सुवन्^० - नम् आपश्च १४,
१३; भाग्यः १, २२ : ८.

क्षिप्र-कर्म-प्रसाधक- -०क अशां
४, ५.

क्षिप्र-काम- -सः गौध २६, ६.

क्षिप्र-कारिन्- -रिणः या ९, ९;
आज्यो ७, ३.

क्षिप्र-जन्मन्^० - न्मा अप १७,
१, ५ऋ.

क्षिप्र-ता- पा ५, १, १२२.

क्षिप्र-त्व- या ११, १६; -त्वेन
पा ५, १, १२२.

क्षिप्र-द्रावि(न् >) णी- णी या
९, २६.

क्षिप्र-धन्वन्^० - न्वा सु २३,
१; २.

क्षिप्र-नामन्- -अ या ५, ३; १७;
६, १२; १२, २२; -मनी या
६, १; -मानि निघ २, १५; या
३, ९.

क्षिप्र-प्रसवन्^० - नम् हिय २,
२, ८.

क्षिप्र-प्रहारिन्- -री या ५, १२.

क्षिप्र-यत्^० - त्वे शैशि २०१.

क्षिप्र-वचन- -ने पा, पावा ३,
३, १३३.

क्षिप्र-वाहिन्- -ही अप १,
४३, ७.

क्षिप्र-विपाक- > णिन्-
-कीनि अप ७२, १, २.

क्षिप्र-श्येन^० - नः अप १, ३२, ३.

क्षिप्र-संस्कार^० - रम् वौश्रौ २७,
९ : ९.

क्षिप्रसंस्कार-तम- -मम्
वौश्रौ २४, ९ : ३.

क्षिप्र-संज्ञक^० - कम् अशां २, १.

क्षिप्र-संधि- -धिः शांश्रौ १२,
१३, ५; नित् १, ७ : ३२.

क्षिप्र-हन्त्- -न्तारौ या १३, ५.

क्षिप्र-होम^० - माः कप्र ३, ८, २; ३;
-मेषु कप्र १, ९, ५.

क्षिप्रहोम-वत् कप्र ३, १०,
१७.

क्षिप्रा(प्र-अ)क्षि- -क्षिम् माश्रौ
१, ५, ३, १; ६, १, ३, २३.

क्षिप्रे(प्र-इ)षु^० - पत्रे या १०, ६.

१क्षेप^० - पः वृदे १, ३९; ४९; याशि
१, ६८; -पम् याशि १, ७२; -पे
विघ ५, ३१; ३३; पा २, १.

२६; ४२; ४७; ६४; ५, ४, ७०; ६,
२, ६९; १०८; पावा ५, २, १३१;
६, ३, ७४.

क्षेप-संज्ञक^० - काः माशि १३, ५.

२क्षेप^० - > क्षेपिमन्^० - क्षेपिष्ठ^० -
क्षेपीयस्^० - पा ६, ४, १५६.

क्षेपण- -णम् या २, २८.

क्षिपस्ति^० - स्तो निघ २, ४.

क्षियत्, क्षियति- √क्षि(निवास-
गत्योः) द्र.

क्षिया- प्रमृ. √क्षि(क्षये) द्र.

√क्षिप्^m पाधा. भ्वा. पर. निरस्तने.

√क्षिप्^m पाधा. क्वा. पर. हिंसायाम् -
√क्षीञ् पाधा. भ्वा. पर. अव्यक्ते शब्दे -
क्षीण- प्रमृ. √क्षि(क्षये) द्र.

√क्षीव् पाधा. भ्वा. आत्म. मदे.
क्षीव^० - पा ८, २, ५५.

क्षीयमाण- √क्षि(क्षये) द्र.

क्षीर^० - पाठ ४, ३४; पाग २, ४, ३१;
-रम् माश्रौ ५, १, ९, १६;
वाधूश्चौ; अप ४८, ७५ऋ^०; निघ
१, १२ऋ^०; या २, ५४; -रस्य.

a) = [रेफ्यकारसहितैकाक्षरवतां] संज्ञा-विशेष- । b) भाप., नाप. (स्वरितस्वर-भेद-, संधि-विशेष-) ।
c) = कर्म-विशेष- । उस. । d) विप. । वस. । e) व्यप. । वस. । f) = पक्षि-विशेष- । g) = होम-
विशेष- । उस. । h) वैप १ द्र. । i) = निन्दा-, विमोह- प्रमृ. । j) = कालेपे इति जीर्ण. ।
k) पाप्र. < क्षिप्र- इति. । l) = वाहु नानन्- । व्यु. ? । m) = √क्षीव् इति भाण्डाः प्रमृ.,
[पक्षे] BPG. च । n) √क्षीप् इति भाण्डाः प्रमृ., [पक्षे] BPG. च । o) वैप ३, २६१ j द्र ।
p) = अन्न- ।

अप ३६, १६, ३; ३८, २, १; शंघ
४०५; वौघ ४, ५, १३; -राणि
शंघ ४१८; ४२४; -रे आपश्चौ
३, ३, १३ x; वौश्री; -रेण वैश्री
१, ४ : ४; हिश्री; पावा २, १, १;
-रेषु शंघ १५५; ४१८.
क्षैरेय- पा ४, २, २०.
क्षीर-क्षार-लवण-विक्रय- -ये सुघ
५८.
क्षीर-द्वि-मधु-घृत-पूर्ण- -र्णानि
विघ ८७, ६.
क्षीर-धारा- -राः वाध ११, २२.
क्षीर-धेनु- -नुम् अप २, ३, २.
क्षीर-प^a- -पः वौश्री १८, ४५ : ६.
क्षीर-पान^a- -नम् वौश्री २, ९ : १६.
क्षीर-प्राशन- -ने शंघ ४२५; सुघ
३४.
क्षीर-भक्ष- -क्षः कौसू २२, ८.
क्षीर-भक्षिन्- -क्षिणः अप ३५,
२, ६.
क्षीर-भाण्ड-भेदन- -ने काथ
२७६ : ११.
क्षीर-मध्वा(धु-आ)ज्य- -ज्यैः अप
३५, १, ११.
क्षीर-यव-पिष्ट-विकार- -रान् वाध
१४, ३८.
क्षीर-लेह- -हम् कौसू ३०, ५.
क्षीर-वत्- -वान् आमिष्ट ३, ८,
२ : ६३; वौपि १, १५ : ६७;
अथ १८, ४.
क्षीर-विक्रय- -यात् वाध २, २७.
क्षीर-विचर्जि(त>)ता- -ताः सु
४, ३.
क्षीर-वृक्ष^b- -क्षाः वौश्री २८, १३ :
१०; -क्षाणाम् अप ७०^३, २२, १.

क्षीरवृक्ष-निषेवण- -णम् अप
६४, ७, ५.
क्षीरवृक्षा(र-अ)ङ्कुर- -राः अशां
१२, ५.
क्षीर-श्री^c- -श्रीः अप्राय ३, ३१.
क्षीर-समायुत- -तम् अप ६५, ३, ८.
क्षीर-सर्पिस्- -र्पिः वाधूश्री ४,
९६ : ८; ९.
क्षीरस्य पा, पावा ७, १, ५१.
क्षीर-त्नव- -न्वे अप ७०^३, ८, ३.
क्षीर-हारिन्- -री शंघ ३७७ : २०.
क्षीर-होत्- -पाग ६, ३, ८१; -न्ता
काश्री ४, १४, ३१; आपश्चौ ६,
१५, १६; भाश्री ६, ७, ३.
क्षीर-होम- -मात् अप ३६, १०, २.
क्षीरहोमिन्- -मी काश्री ४, १०,
१६.
क्षीरा(र-अक्त>)क्ता- -क्ता अप
२६, ३, ३.
क्षीरा(र-अ)णव^d- -न्वे आमिष्ट २, ४,
१० : ३८.
क्षीरा(र-आ)सेचन- -नम् काश्री
२५, १२, १३.
क्षीरिन्- -रिणः आमिष्ट ३, ५, ५ :
२; वौपि १, ४ : २; आश्र २,
३० : ४; हिपि १ : ६; अप २६,
५, ५; याशि १, ३७; नाशि २,
८, ४; -रिणाम् आपश्च ६, ५;
अप ५३, १, ५; ६८, २, १५.
क्षीरिणी- -णीः काश्री २५, ७,
१६; आपश्चौ १४, २४, १२;
हिपि १३ : ६; -ण्यः आमिष्ट
३, ५, ५ : ८; वौपि १, ४ : ८.
क्षीरो(र-उ)त्सिक्त- -क्ते माश्री ५,
१, ६, १७; कौसू ४८, ४१; -क्तेन

हिपि १ : १; कौसू ८२, २७.
क्षीरो(र-उ)द^e- -दम् विघ १, ३३;
-दे विघ १, ३२.
क्षीरोद-नभस्- -भसि अप
५२, १३, ४.
क्षीरोद-शुक्तिपुटगर्भ-विकीर्णं
मुक्तासंघात-पाण्डुररज^e- -जः
अप २४, ५, ५.
क्षीरो(र-उ)दक^b- -क्तेन आश्र ४,
५, ४; गौपि १, ५, २२; २, १, ३;
-कैः कौपि ५, ५, ५.
क्षीरो(र-उ)दक^f- -काश्याम्
काश्री २१, ४, १९; -के काश्री
१८, ५, ८; पाश्र ३, १०, २८;
जैष्ट २, ५ : १२.
क्षीरो(र-उ)दक^g- -कम् शंघ
११६ : ७.
क्षीरो(र-ओ)दन^h- -नम् द्राश्री
१३, १, १५^h; कौपि १, १९, ८;
अप २०, ३, ४; वाध २१, ६;
-नस्य द्राश्री १३, १, १३ⁱ; -नेन
वौष्ट २, ११, ५४.
क्षीरोदन-हविस्- -विःषु अप
७०, ६, ४.
क्षीरो(र-ओ)दन^e- -नः अप ४६,
७, ४.
क्षीरो(र-उ)दधित्- -धित् कौसू
३१, २४.
क्षीरो(र-ओ)दन^b- -नम् शाश्री
१४, १६, ४; लाश्री ५, १, १३^h;
आमिष्ट २, ५, १ : ३५; जैष्ट;
-नस्य हिश्री ६, ८, १; लाश्री ५,
१, ११ⁱ; कौसू ४३, १३.
क्षीरोदन-पुरोडाश-रस- -सात्
कौसू ७, ६.

a) उप. <√पा(पाने)। b) मलो. कस.। c) वैप १ द्र.। d) = क्षीर-सागर-।
e) विप.। दस. > वस.। f) दस.। g) संहितायां वृद्धिविकल्पः। h) सपा. श्रोदनम् <> श्रोदनम् इति
पाभे.। i) सपा. क्षीरोदनस्य <> क्षीरोदनस्य इति पाभे.।

क्षीरोदना (न-आ) दि- -दीनि
कौसू ४२, २२.
क्षीरोदनो (न-उ) लुच-स्तम्ब-
पादा-विज्ञान^१- -नानि कौसू
३७, १.
रक्षीरौ(र-ओ)दन^२- -नः कौसू
१२७, २; १३८, २.
क्षीरकटा, ल^३म्भ^४- -म्भाः वौश्रौप्र
११ : १.
क्षैरकलम्भि- -म्भिः लाश्रौ १०,
१०, २०; १३, १८.
क्षीरहृद्^५- (>क्षैरहृद्-पा.) पाग
४, १, ११२.
√क्षीव् √क्षिव् टि. द्र.
√क्षीप् √क्षिप् टि. द्र.
√क्षु पाषा. श्रदा. पर. शब्दे.
क्षव^६- -वम् अप १, २६, ५१.
क्षवथु- -थुः वौश्रौ २, ५ : १६१;
-थुम् आपव २, ३, २; हिघ २,
१, ३३; -थौ आपव १, १६,
१४; हिघ १, ५, १३.
क्षुत्वा आर ३, ६, ७; गोरु.
क्षु^७- -क्षु अप ४८, ८८; निघ २, ७.
क्षु-मत्- -मति अत्र १८, ३;
-मन्तम् आश्रौ ५, १२, ९; ६,
४, १०; शाश्रौ ७, १५, ३; ९,
१२, १; ऋअ ३, २८.
क्षुमती- -तीः आपश्रौ २४,
१३, ३१.
क्षुच्छस्त्रमरण- प्रसृ. √क्षु द्र.
√क्षुद् पाषा. श्वा. उभ. संपिपणे,
क्षोदति^८ निघ २, १४.
क्षुद्र, द्रा^९- पाठ २, १३; पाग ४,
२, १०^{१०}; ५, १, १२२; -द्रः अत्र
१०, १०; -द्रम् या १०, ४२१;

-द्रस्य या १३, ९; -द्राः वौश्रौ
१८, १५ : १३१; -द्राणि वौश्रौ
१७, ३१ : १७; -द्रान् आपव
१, ३२, १८; हिघ १, ८, ६०;
-द्राम्यः पा ४, १, १३१;
-द्रैभ्यः अप ४६, ९, ६; १०,
२१; अत्र १९, २२; २३; -द्रेषु
अप २ : ४; पावा ६, १, ६२.
क्षुद्र-कर्मन्^{११}- -र्मा चव्यू ४ :
१९.
क्षुद्र-काण्ड-> ण्डा(गड-अ)र्ध-
सूक्त-मन्त्र- -न्त्राणाम् अत्रभू
८.
क्षुद्र-कीट-> ंट-मक्षिका-
पिपीलिका-वर्जम् वौश्रौ २७,
९ : २.
क्षुद्र-जन्तु- -न्तवः पा २, ४, ८;
-न्तुनाम् शंघ ४०९.
क्षुद्रजन्तु(न्तु-उ)पताप-
-पयोः पागवा ५, २, ९७.
क्षुद्र-ता- पा ५, १, १२२.
क्षुद्र-तृण- -णानि वौश्रौ १४,
२९ : १७.
क्षुद्र-त्व- पा ५, १, १२२.
क्षुद्र-धमनि- -नीनाम् विघ ९६,
८४.
क्षुद्र-धान्य- -न्यम् अप ६३,
३, ३.
क्षुद्र-पद^{१२}- -दम् वौश्रु १ : ३;
-दानि वौश्रौ ६, २२ : १४; १६;
१७.
क्षुद्र-प(द>)द्रा^{१३}- -द्रा उनिस्
७ : २२.
क्षुद्र-पशु- -शवः शंघ ३०७.
क्षुद्रपशु-काम- -मः गोरु ४,

९, १३; द्रागृ ४, ३, १६.
क्षुद्रपशु-मत्- -मान् आपव
२, १६, ११; हिघ २, ५, १०.
क्षुद्रपशु-स्वस्त्ययन-काम-
-मः गोरु ४, ५, ३०; द्रागृ ४,
१, १५.
क्षुद्रपशु(शु-अ)नृत- -ते गौघ
१३, १५.
क्षुद्र-मिश्र- -श्रैः आमिगृ ३, ६,
३ : २२; वौपि १, ११ : १८.
क्षुद्र-संज्ञा-> णिन्- -ज्ञिनाम्
अप ६४, ५, ४.
क्षुद्र-समिध्- -सिधाम् वौघ १,
६, २३.
क्षुद्र-सूक्त- -केषु कौगृ २, ४,
१८; शांगृ २, ७, २१.
क्षुद्र-सूक्त- -क्ताः आर ३, ४,
२; कौगृ २, ५, १.
क्षुद्रसूक्त-महासूक्त- -क्ताः
शांगृ ४, १०, ३; वृदे ३, ११६;
ऋअ १, २, २; -क्तौ अप ४३,
४, १२१.
क्षुद्रा(द्र-आ)चरित- -तान् आपव
१, ३२, १८; हिघ १, ८, ६०.
क्षुद्रा(द्र-अ)न्त्र- -न्त्रम् विघ
९६, ९१.
क्षुद्री√कृ> -द्री-चिकी(र्ष>)-
र्षा- -र्षया निस् ६, ११ : १२.
क्षुद्रीय- पा ४, २, ९०.
क्षुद्रो(द्र-उ)पद्रव- -वः अप ३५,
२, ११.
क्षुद्रोपद्रव-नाशन- -नम् अप
७, १, ३.
क्षु(द्र>)द्रा^{१४}-> क्षौद्र- पा
४, ३, ११९; -द्रम् अप ६४, ८,

a) द्रत्त. > पत्त. । षाठ^{१५} इति संस्कर्तुः टि. । b) विप. । वस. । c) ल^{१६} इति लाश्रौ. ।
d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । e) व्यप. । व्यु. ? । f) वैप १ द्र. । g) संप्रेषणे इति दे. ? । h) पृ ८६७ S
टि. द्र. । i) = प्रमाण-विशेष- । j) = उष्णिग्-भेद- । वस. । k) = मधु-मक्षिका- ।

१; ७०^३, ७, ६; ७१, ९, २; १४, १; -त्रे अप ७०^३, ७, ११; ७१, १०, ४; विध ९९, १४; -त्रेण वाध २८, १८.

क्षौद्र-क्षीर-पलाश-धूम-दूर्वा-रजत-कनक-विद्रुम-प्र(भा >) म-भेषु अप ६५, १, ५.

क्षौद्र-युक्त- -क्तैः विध ९०, १०.

क्षौत्- पाञ्च २, १४.

क्षोद->क्षोदिमन्- पा ५, १, १२२; ६, ४, १५६.

क्षोदिष्ट^१- पा ६, ४, १५६; -ष्टाः वाश्रौ ३, ३, १, ५१; अप्राय ५, ३; -ष्टान् आपश्रौ १८, ११, १४; हिश्रौ १३, ४, २२.

क्षोदीयस्- पा ६, ४, १५६.

क्षोदस्^२- -दः अप ४८, ७५; निघ १, १२; -दसा आश्रौ ३, ७, ६; ८, ९, २; शाश्रौ ६, १०, २; १०, ९, ४; ११, ५; ऋअ २, ७, ९५.

क्षुद्रक^३- -कान् अप ५०, २, ५.

क्षुद्रक-मालव->क्षौद्रकमालवी-पावा.) पागवा ४, २, ४५.

√क्षुष्^४ पाघा. दिवा. पर.

बुभुक्षायाम्, क्षुधेत् आमिष्ट २, ७, ८ : ३.

क्षुष्^५- पाग ४, १, ४^६; ५, २, ३६^६; पावाग ३, ३, १०८; षक्षुत् काश्रौ १८, २, २; आपश्रौ १७, १२, ५; वौश्रौ २, ५ : १××; वाधूश्रौ; षक्षुधः आपश्रौ ५, १, ७; १०, १३, ११^५; वौश्रौ २८, ९ :

२२^५; वाधूश्रौ ३, ९ : १४; हिष्ट १, १७, ४^५; षक्षुधम् आपश्रौ १९, १३, २०; वौश्रौ १९, ५ : १६; वाधूश्रौ; क्षुधा आपश्रौ ९, २०, ७^५; हिध २, ५, १९०; षक्षुधे गोग् ४, ९, १४; द्राग् ४, ३, १५.

क्षुच्-छस्त्र-मरण- -गैः अप ७०^३, ९, ३.

क्षुच्-छस्त्र-न्याधि-वर्षा (र्षा-अ) षि-मृत्यु-सस्यानिलानयोः अप ६३, ४, ६.

क्षुच्-छ्वासा(स-अ)सि-भय-यम् अप ६३, ३, ५.

क्षुत्-तृष्णा(ष्णा-अ)पनोदन-ने विध ६३, १८.

क्षुत्-पाप्मन्- -प्मना माश्रौ ५, २, १०, १६.

क्षुत्-पिपासा- -साभ्याम् गोग् ४, ९, १४.

क्षुत्पिपासा-सह- -हाः अप ६८, १, २९.

क्षुत्पिपासित- -तः वाध १६, ३३.

क्षुत्-पिपासा-भय- -यम् अप २२, १०, ५.

क्षुत्-सहन- -ने अप ४८, ५३.

क्षुद्-भय- -यम् अप १९, १, ८; ५१, ३, ५××; वृदे ६, ९०.

क्षुद्-यु(क्त >)क्ता- -क्तासु वौश्रौ १६, ३१ : १०.

क्षुद्-रोग- -गः अप ७०^३, ७, ६; ७१, ९, २.

क्षुधा- पा ४, १, ४; -धया

विध ४३, ३६; -घा अप २३, १४, ६; वाध १२, ४; आपध २, २५, ११.

क्षुधा-काल- -ले अप २३, ७, ४.

क्षुधा-परीत- -तः वाध १२, ३.

क्षुधा-रोग-मृत्यु-शस्त्रा- (स्त्र-अ)सि-कोपन- -नाः अप ५८, १, १०.

क्षुधा(घा-आ)र्त- -र्तैः विध ३, ७९.

क्षुधित- पा ५, २, ३६; -तः कप्र २, २, ९^१; वैध २, १५, ९; -तस्य वैध २, १५, ८.

क्षुधुन- पाञ्च ३, ५५.

क्षुधु(त->)न्ती- -न्तीम् वाश्रौ २, १, ५, १४.

क्षोधुक्, का- -कः आपश्रौ १६, २६, १०^५; वैश्रौ १८, १८ : १५^५; हिश्रौ ११, ७, ५०^५; गोग् १, ६, २; -का माश्रौ ६, १, ६, ५; वौषि १, २ : ७^५; हिषि ४ : ३^५; -काः आमिष्ट ३, ५, १ : २१^५.

क्षुप- पाञ्चमो २, २, २०९.

√क्षुम्^६ पाघा. भ्वा. आत्म., दिवा. क्वा. पर. संचलने, क्षुभ्यते या ५, १६.

क्षुब्ध- पा ७, २, १८; -ब्धम् वृदे ४, ५३.

क्षुब्ध-दुन्दुभि-निनाद- -देषु अप ६५, १, ६.

क्षोभ- -भम्, -भे अप ६८, २, ३८ षक्षोभण^७- -णः त्रैपा ९, ३.

a) पाप्र. < क्षुद्- । b) वैप १ द्र. । c) = क्षत्रिय- जनपद-विशेष- । व्यु. ? । d) सेनायाम्, अन्यत्र ष्वक- इति । e) पा ७, २, ५२ परामृष्टः द्र. । f) तु. पागम. । g) क्षुधा- इति पाका. । h) पाभे. वैप १, अधिगम्यते शौ ७, १०६, १ टि. द्र. । i) क्षुधितम् इति पाठः ? यनि. शोधः । j) पाभे. वैप २, ३ खं. क्षोधुका टि. द्र. । k) पा ८, ४, ३९ परामृष्टः द्र. ।

४, ९, ४; आमिष्ट २, ७; ९ : ६;
१३; भाग्य ३, १८ : ९; १८; मीम्
६, ४, १८.
क्षाम-काष^० - पम् वौश्रौ २, १४:
११; ५, १० : १६; २०; २१,
२५ : ८.
क्षाम-नष्ट-हृत-दग्ध-व (त >)
ती-ती: आश्रौ २, १४, २३.
१क्षाम-वत् - ण्वते वांश्रौ ३, ४,
१३; आश्रौ; -०वन् आमिष्ट
२, ७, ९ : २० ण; -वान् वौश्रौ २९,
१ : १२; भाग्य ३, १९ : ५; कप्र
२, ९, १५.
क्षामवती- -तीम् आश्रौ
९, ३, २३; भाश्रौ ९, ५, २१;
वैश्रौ २०, ९; १; हिश्रौ १५, १,
७३; अश्रौ ५, ५; -वत्यः हिश्रौ
२२, २, १३.
क्षामा(म-अ)भाव- -वे आश्रौ
३, १२, २२.
२क्षामवत्- पा ८, ३, ५३.
क्षैतयत्^० - (>क्षैतयतायनि- पा.)
पागं ४, १, १५४.
क्षैतवत्- √क्षि (निवासग^०) द्र.
क्षैति- √क्षि(क्षये) द्र.
क्षेत्र- -त्र- प्रभु. √क्षि(निवासग^०) द्र.
क्षैप्र- प्रभु. √क्षिप द्र.
क्षैमवृत्ति- प्रभु. √क्षि (निवासग^०) द्र.
क्षैमिति^० - ति: वौश्रौ ४८ : ८.
क्षैरकर, लक्ष्मि- क्षैरकर, लक्ष्मि- द्र.
क्षैरहद- क्षैरहद- द्र.
क्षैरेय- क्षैर- द्र.
√क्षोट^० पाधा. चुरा. उभ. क्षेपे.

क्षौण^० - णस्य निघ ४, ३; या ६, ६.
क्षोणि, णी^० - पाठ ४, ४८; -णि: निघ
१, ११; -णी अष ४८, ६०^६;
७२^१; निघ ३, ३०^६.
क्षोत्तृ-, क्षोदत्-, क्षोदिमन्, क्षोदिष्ट-,
क्षोदीयस्- √क्षुद् द्र.
क्षोधुक- √क्षुद् द्र.
क्षोभ-, क्षोभण- √क्षुम् द्र.
क्षोम- पाठ १, १४०.
क्षोणी^० - णी विध ५, १८३; -णीम्
विध १, ६२.
क्षौद्र- प्रभु. √क्षुद् द्र.
क्षौद्रकमालव- क्षुद्रक- द्र.
क्षौम-, क्षौमिकी-, क्षौमी- क्षुमा- द्र.
१, २क्षौर- क्षुर- द्र.
√क्षणु^० पाधा. अदा. पर. तेजने.
क्षमा^० - पाठ ५, ६५; ण्वमया आश्रौ
२, १५, ३; वांश्रौ १०, १०, ८; या
१०, ७६; ण्वमया अष ४८, ७२
निघ १, १; या १०, ७६.
√क्षमाय^० पाधा. भ्वा. आत्मि. विधूतने.
√क्षमील् पाधा. भ्वा. पर. निमेषणे.
√क्षिवड्^० पाधा. भ्वा. पर. अव्यक्ते
शब्दे.
क्ष्वेड- > क्ष्वेड-वण्टा-वाद्य-कर-
> कर-नट-वृथाप्रव्रजित-रङ्ग-
वैताल-लेखनजीवक-देवलक-नक्ष-
त्रजीवक-ग्रामयाजक-पयिहित-
पर्याधारक(?)-परिपङ्कक-पौनर्भ-
व-दिधिपुंषति-राजसेवक-तखुरो-
हित- -ता: काथ २७२ : २.
क्ष्वेडन^० - नम् ऋप्रा १४, २०.
क्ष्वेडि(त >)वा- पाग २, ४, ३१.

क्ष्वेडिता(ता-आ)स्फोटितो(ता-उ)
क्षु(ष्ट >)टा- -टा: अष ५८^३,
४, १२.
√क्ष्विद् पाधा. भ्वा^३. आत्म.
दिवा. पर. स्नेहनमोचनयोः.
क्ष्वेदित-; क्ष्वेदितवत्- पा १, ३,
१९.
√क्ष्वेल् पाधा. भ्वा. पर. चलने.

ख

ख > ख-कार- -रे ऋप्रा ६, २१.
खकार-यकार- -रौ ऋप्रा ६,
५५.
ख-फा(फ-आ)दि- -दयः पाशि
२४.
ख-य- -यौ शुप्रा ४, १६७.
ख-सवर्ण- -णम् याशि २, ३६.
१ख- ख^३ वेज्यो १८; खे^० ऋत ३,
८, ५.
२ख^० - पाठभो २, २ ५१^३; खम्
आश्रौ २, १० ४^१; ४, ४, ४;
भाश्रौ ४, ५, ५; माश्रौ १, ३, ६,
१८^१; वाश्रौ १, १, २, १६; ३, ३,
२८^१; हिश्रौ १, ८, २१^१; ६, १,
५१; द्राश्रौ ५, ४, ८; शंघ ११६:
६०^१; विध ८, ३३; वृदे ७, ९३:
शुअ १, १२^१; ४, १३२; या
३, १३^१; पाग १; ४, ५७:
खस्य तैप्रा २२, ९; १०; खात्
शुप्रा १, ६; खानि वाग्य ६, ३६:
अष १, ३९, ३^१; अशां ९, ३;
वाद्य ३, २८; वीध १, ५, २१:
विध- २३, ५१; ६२, ८; ७१.

a) = [भाण्डसंलग्न-] दग्धांश- । कस. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? ।
d) = √खोट्, इ इति [पक्षे] BPG. । e) वैप १ द्र. । f) पृथिवी-नामन्- । g) वावापृथिवी-नामन्- ।
h) = पृथिवी- । व्यु. ? । i) पा- १; ३, ६५ परामृष्टः द्र. । j) पा ७, ३, ३६ परामृष्टः द्र. । k) = √क्ष्विद् इति [पक्षे]
BPG. । l) = च्चनिदोष-विशेष- । m) = √ख्विद् इति [पक्षे] BPG. भाण्डा. पासि. । n) निर्विभक्तिकः पाठः ।
= विशालानक्षत्र- । o) दुःख- इत्यस्याऽन्तिमाक्षरस्य सप्त । p) < √खश् (व्याप्तौ) । q) = एकादशशब्देऽन्वयतम- ।

७९; गौघ १, ४१; अत्र १०, २१; या १०, ९१; ण्खे आपमं १, १, ९३; सु ८, १; कौट १, ९, ७; शांठ १, १५, ६; काठ २५, ९३; २६, २३; माठ १, ८, ११३; वाठ १४, १३; कौसू ३५, ७; अत्र ५८, २, ८; या १, ९; ऋप्रा २, ४५; १३. १; शैशि २२९; याशि २, ६८; खेन कौसू १५, ४; ७२, १६; खेभ्यः या ३, १३.
ख-कोटि- -टिपु अत्र ६५, १, ७.
ख-ना- नौः वाघ ३, ४५.
ख-नाम^३ -> खगमा(म-अ)गम्य-
-न्यम् विघ १, ३७.
ख-चर- -राः अत्र ५२, १२, ३.
ख-च्छ^३ -च्छः, ख-च्छ^३ - -दः
या ४, १८.
ख-घोत- -तः शंघ ३७७: १६;
-तानि अत्र ६५, २, ४.
ख-मूर्ति-मत्- -मान् विघ ५५, १६
१ख-र- पावा ५, २, १०७.
ख-श(य>)या- -न्या या १, १९;
-याः या १, ४.
ख-शरीर^३ -> शीरिन्- -रिणः
ऊप्र १, १०, ९^d.
खे-चर-नाः अत्र ५७, ३, ५;
-राणि अत्र ७०^३, ११, १३.
खगल्य^३ - -ल्यन् आपध्रौ १६, १८,
४; वैश्रौ १८, १५: १२; हिश्रौ
११, ६, २६.
खच्^३ पाधा. क्रया. पर. भूतप्रादुभावे.

खञ् पाधा. भ्वा. पर. मन्थे.
खज^३ - -जे अत्र ४८, १०५; निघ
२, १७.
खजंकर^३ - -रम् वैश्रौ १८,
१७: १३१.
खजप- पाठ ३, १४२.
खजाक- पाठ ४, १३.
खजापो, बी^३जा^३ - -जा आपमं२,
१३, १०; आमिठ २, १, ३: १६;
भाठ १, २३: ५.
खजूर- (> खाजूरायण-) रखजूर-
टि. द्र.
खञ्ज^३ पाधा. भ्वा. पर. गतिवैकल्ये.
१खज- पाग २, २, ३८; -जः
वौषि ३, ५, २.
खख^३ - (> खजा-गिरि- पा.) पाग
६, ३, ११७.
खखन^३ - (> खाजन- पा.) पाग
४, १, ११२.
खखर- पाग २, २, ३८.
खखरीट^३ - पाठभौ २, २, १०४.
खखरीटक- -कम् शंघ ४२६.
खजाक- पाठभौ २, २, १२.
खजाजे^३र^३ - पाग ४, १, ११०^m;
११२.
खाजा, जेर- पा ४, १, ११२.
खाजारायण- पा ४, १, ११०.
खखाल^३, ख^३, ख^३ - (> खा^३ पा.)
पाग ४, १, ११२.
खञ्जूल- (> खाञ्जुलायन- पा.)
पाग ४, १, ११०^m.

खट् पाधा. भ्वा. पर. कङ्कायाम्.
खट्^३ वैश्रौ १, १८: ७.
खट्ट^३ पाधा. जुरा. उभ. चंवरणे.
खट्टवर^३ - (> खाट्टवेर- पा.)
पाग ४, १, १२३.
खट्टा^३ - पाठ १, १५१; पाग ५, १,
५०; -ट्टा पा २, १, २६;
-ट्टामिः पावा ६, १, ८४;
-ट्टायाम् आपध १, ६, ४; १५,
२१; हिघ १, २, २९; ४, ८०.
खट्टा(ट्टा-अ)ङ् -ङ्गम् अत्र ४०,
३, २; आपध १, २९, १; हिघ
१, ७, ५७.
खट्टाङ्गकपाल-पाणि- -णिः
गौघ २२, ३.
खट्टाङ्गिन्- -ङ्गी शंघ ३७९;
३८९; वौध २, १, ३.
खट्टा-भार- > खाट्टाभारिक-
पा ५, १, ५०.
खट्टा(ट्टा-आ)रूड- पाग ६, २,
१४७.
खट्टा-शयन- > खट्टाशयन-
प्रक्षालना(न-अ)भ्यज्जने(न-उ)
पानञ्-द्व-वर्जिन्- -र्वी वाघ
७, १५.
खट्ट पाधा. जुरा. उभ. भेदने.
खट्टा, डा^३ - (> खडा, डा^३ -वट्-
पा.) पाग ४, २, ८६.
खट्ट^३ - पाग ४, १, ११०.
खाट्टायन- पा ४, १, ११०; पाग ४,
२, ५४^६; ८०; १३८^६; ३, १०६.

- a) = ख-ना- । उप. कञ् प्र. उच्चं. (पा ३, २, ४७) । b) विप. । उक्त. उप. < खट्ट (आच्छादने) ।
c) = [व्योमस्थित-] वायुमय-शरीर- । d) कशरीरिणः इति BI. । e) व्यु. पामे. च वैष १, १२०३ I, S द्र. ।
f) = ख्व इति [पक्षे] पासि. प्रच्यु. । g) वैष १ द्र. । h) भाठ. पाठः । i) तु. टि. ? बजाबोजा- ।
j) तु. पागम. । अर्थः व्यु. च ? । k) व्यप. । व्यु. ? । l) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । m) भोजनते (तु.
पागम.) । n) तु. भाण्डा. । o) तु. पासि. । p) तु. पाका. । रखट्ट- इति भाण्डा., खट्ट- इति पागम. ।
q) = पर्यङ्क- । व्यु. ? । r) तु. पाका. पागम. च । = वृञ्जाति-विशेष- । व्यु. ? । s) खाट्टायन- इत्यन्यः इति
पागम. । t) खाट्टायनि-, खाट्टायनी- इति पाका. ।

खाडायनक- पा ४, २, ८०^६.
 खाडायन-भक्त- पा ४, २, ५४.
 खाडायनिन्- पा ४, ३, १०६.
 खाडायनि- पाग ४, २, १३८.
 खाडायनीय- पा ४, २, १३८^२.
 खडण्ड^b- (>खाडण्डक- पा.) पाग
 ४, २, १२७.
 खडिक^c- (>खाडिकि^a- पा.)
 पाग ४, २, ८०^d.
 खडिव^e- (>खाडिव्य- पा.) पाग
 ४, २, ८०^e.
 खडू- पाउ १, ८२.
 †खडूर^f- पाउओ २, ३, ५७; -रे
 अत्र ११, ९; अर्प ३: ४९.
 †खडूर- (>खाडूरय-) खटूर-
 टि. द्र.
 †खडूरक- (>खाडूरक-) कटूरक- टि. द्र.
 †खडोन्म(त)>त्ता^g- (>खाडोन्म-
 त्तय- पा.) पाग ४, १, १२३.
 खडूग^h- पाउ १, १२४; -ङ्गः वीगृ
 २, ११: ६५; -ङ्गम् अप ४,
 १, १२^२; १३^१; १४; २३, २, १;
 ६, १; २; १३, २; -ङ्गस्य अप
 १, ४४, ४; ४५, ६; -ङ्गाः अप
 १, ८, ६; ६७, ६, ५; ७०^३, ७, ८;
 ७१, ९, ५; विध ८०, १४;
 -ङ्गानि अप ७०^३, ११, १३;
 -ङ्गे वीश्रौ २, ५: ६^१; वाध
 १४, ४७; विध ९९, १२; -ङ्गेन
 शंघ ११६: ८१^१; २८१.

खाङ्ग- -ङ्गेन विध ७९, २४^{११}.
 खाङ्ग-कवच- -चः शांश्री
 १४, ३३, २०.
 खङ्ग-कुतप-कृष्णाजिन-तिल-सिद्धा-
 र्थका(क-अ)क्षत- -तानि विध
 ७२, १६.
 खङ्ग-पात्र- -त्राणि विध ७९, २२;
 -त्रेण शंघ ११६: ७१; ११७.
 खङ्ग-प्रभृति- -तीनि अप १८^१,
 १९, १.
 खङ्ग-मांस- -सेन आपध २, १७,
 १; हिध २, ५, २८.
 खङ्ग-मृग-महिष-मेघ-वराह-पृषत-
 शश-नोहित-शाङ्ग-तित्तिरि-
 कपोत-कपिञ्जल-वार्ध्वाणस-
 -जानाम् वीगृ २, ११, ५३.
 खङ्ग-वर्ज- -र्जाः वीध १, ५, १३१.
 खङ्गो(ङ्ग-उ)पस्तरण- -णे आपध
 २, १७, १; हिध २, ५, २८.
 खडूङ्ग- पाउ १, ८२.
 खण^{gk}- (>खण- पा.) पाग ४,
 १, ११२.
 ✓खण्ड^h पावा. भ्वा. आत्म. मन्थे.
 चुरा. उभ. भेदने.
 खण्ड, ण्डा^m- पाग २, ४, ३१; ४,
 २, ८०^{३d}; ९०; १२७^b; १३३^o;
 १३४; ५, १, १२२; २, ३६; -ण्डः
 शांश्री १६, १८, १८; गौपि २,
 ४, १०; -ण्डम् आपध २, १६;
 वीश्रु २: १०; हिशु १, ३७; या

३, १०^क; -ण्डाः आपश्री १७,
 २२, ५; २२, ४, २४; वैश्री १९,
 ६: १४३; हिश्री १२, ६, २६;
 -ण्डाम् आपश्री १६, १३, ९;
 वीश्रु ७: १; -ण्डेन आपध १,
 २४, १४; हिध १, ६, ६३.
 खण्डी- पा २, ४, ३१^d.
 खण्ड- पा ४, २, १३३.
 †खण्डक- पा ४, २, १३४.
 †खण्डक- पा ४, २, ८०^o;
 १२७.
 खाण्डाय(न>)नी->नीय-
 पा.) खाडायन- टि. द्र.
 खण्ड-क- पा ४, २, ८०^h.
 खण्ड-कृष्ण-लक्ष्म-वर्जम् माश्री
 ६, १, ४, ३९.
 खण्ड-ता-, खण्ड-त्व- पा ५, १,
 १२२.
 खण्ड-परशु^p- -शो विध ९८,
 ७३.
 खण्ड-र- पा ४, २, ८०^o.
 खण्ड-शस् (:) मैत्र ८.
 खण्डा(खड-अ)जिन->नीय-
 पा.) खलाजिन- टि. द्र.
 †खण्डित- पा ५, २, ३६.
 खण्डिमन्- पा ५, १, १२२.
 खण्डीय- पा ४, २, ९०.
 खण्डन-> न-कारक- -कः शंघ
 ३७७: ८.
 खण्डल^r- पाग २, ४, ३१.

a) = देश-विशेष-? । b) = देश-विशेष- । व्यु. ? । खण्ड- इति [पक्षे] पाका., पडण्ड- इति भारुडा.
 पासि. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) खण्डिक- इति पागम., गडिक- इति पाका. । e) तु. पाका.,
 †खण्डित- इति भाण्डा. । f) वैप १ द्र. । g) व्यप. । व्यु. ? । खरोन्म^o इति अभयनन्दी
 (तु. पागम.) । h) = असि- । शिष्टं वैप १ द्र. । i) सप्र. खङ्गेन <> खाङ्गेन इति पाभे. ।
 j) खङ्गेन इति जीसं. । k) तु. पाका. । खण- इति भाण्डा. । l) या ३, १० परामृष्टः द्र. ।
 m) वप्रा. । = शकल- । n) अर्थः ? । सहत् खण्ड-, वीरण- इति पाका., खाण्डवीरण- इति
 भारुडा. । o) पृ २०० f द्र. । p) तु. पागम. । q) विर. । वस. । r) = खण्ड- इति
 पागम. । व्यु. ? ।

खण्डिक^२- पाग ४,२,३८^०; ४५^०;
८०^०; ५,१,१२८; -कः वाधुश्रौ
३,४६ : ३^०; -कस्य वाधुश्रौ ३,
४६ : १५^०.

१खाण्डिक- पा ४,२,३८; ४५.

२खाण्डिक^३- -कम् वौश्रौ १७,
५४ : ५; -कस्यः गोयु ३,३,८.

खाण्डिकीय- पा ४,३,१०२.

खाण्डिकेय- -याः चव्यू २:१४; १५
खाण्डिकेयौ (य-श्रौ) खिय-
-यानाम् भासु ३,२६.

खाण्डिक्य- पा ५,१,१२८.

१खण्डित- ✓खण्ड् द्र.

२खण्डित- (> खाण्डित्य- पा.)
खडिव- टि. द्र.

खण्डिन- (खाण्डिति- पा.) पाग
४,२,८०.

खण्डिमन्- ✓खण्ड् द्र.

खण्डिल^४- -लस्य मागु १,६,३^०.

खण्डीय- ✓खण्ड् द्र.

१खण्डु^५- पाउमो २,१,१११; पाग ४,
२,७७^१; ८०.

१खाण्डव^६- पा ४, २, ७७; -त्रे
वौश्रौ १७,१८ : ८.

खाण्डवक^६- पा ४,२,८०.

२खण्डु^६-> २खाण्डव- -चम् विध
५१,३५.

१खण्वखा^७- -०खाइ^१ अश्र ४,
१५; शौच १,९६; १०५.

✓खद् पाधा. भ्वा. पर. रथैर्ये हिंसायां
भक्षणे.

खद्^८- (> खद्य-पा.) पाग ५,१,२.

खदा^९- -दायाम् कौसु २४,२५; ३८,

७; ४५,१.

खदा-शय- -यस्य कौसु ४६,३३.

खदिर^१- पाउ १, ५३; पाग ४, १,
११०^०; २,८०^{३०}; ९०; ३, १३९;
५, २, २४; ६, ३, ११८; -रः
वाधुश्रौ ४,६४^१ : २; वैश्रौ; -रम्
अशां २१, ४; -रस्य द्राश्रौ ५,
२,२; लाश्रौ २, ६, १; कौयु १,
९, ३^१; शांगु १,१५,१०^१; अप
३६,२,४; माशि ४,१.

खदिर- पा ४, ३, १३९; -रः
काश्रौ १, ३, ३३; आपश्रौ; -रम्
आपश्रौ १, ५, ६××; काठश्रौ;
-राः शांश्रौ १६, ३, २××;
आपश्रौ; -राणि आपश्रौ १,१५,
१३××; भाश्रौ; -रान् वौश्रौ
१५, १४ : ३××; गोयु; -रे
आपश्रौ १९, २३, १३××; वौश्रौ;
-रेण काश्रौ ८, ३, १२××;
वाधुश्रौ; -रैः आपश्रौ २०, १०,
५; वाश्रौ ३,४,२,४; हिश्रौ १४,
३, २; -रौ अप २२,६,५.

खदिरि^२- पाग ४, २,
९७; -री वौयु १,३,१३; -रीः
निसू १,११ : ७; अशां २१, ३^१;
-रीम् काश्रौ १५,७,१; आपश्रौ;
-र्या माश्रौ ४,१,१०.
खदिरैय- पा ४, २,
९७.

खदिर- -य (त्रि-अ) क्त-
समिध्- -मिधाम् अप ३६,
२४,२.

खदिर- पालाशा (श-अ)

लाभ- -भे गोयु १,५,१६.

खदिरा(र-अ)मि- -मौ अप
३१, ९, ४.

खदिरौ(र-श्रौ)दुम्बर- -रान्
काश्रौ २, ८, १.

खदिरक- पा ४, २, ८०^{२६}.

खदिरायण- पा ४, १, ११०.

खदिर-क- पा ४, २, ८०^६.

खदिर-कुण- पा ५, २, २४.

खदिर-विल्व-रौहितक- -कान् काश्रौ
६, १, ९.

खदिर-व(त् >) ती- पा ६, ३,
११८.

खदिर-शङ्कु-शत- -तम् गोयु ४,
८, १२.

खदिरा(र-अ)दि- -दीनाम् अप
३६, ७, १.

खदिरा(र-अ)भाव- -त्रे काश्रौ ६,
१, १०.

खदिरिय- पा ४, २, ९०.

खदूर- (> खादूरेय-) खट्वर- टि. द्र.

खदूरक- (> खा^०-पा.) कदूरक- टि. द्र.
ख-चोत- रख- द्र.

✓खन्^५ पाधा. भ्वा. पर. अत्रदारणे,
खनति काश्रौ २, ६, १××;
आपश्रौ; खनन्ति शांश्रौ १३, २९,
६; १७, ५, ८; काश्रौ २४, ५,
२९; आपश्रौ; ऋखनामि आपश्रौ
११, ११, ६; वौश्रौ ६, २८ : ११,
वैश्रौ १४, ७ : ९; हिश्रौ; ऋखना-
मसि कौसु ३३, ९^३; ४०, १४;
खनतु वौश्रौ १०, ६ : ९^१; खन
वौश्रौ ४, २ : ३३; ६, २६ : ६^१;

- a) वप्रा. । नाप. । व्यु. ? । b) तु. पागम. । = कलाय. । c) °का- इति पाका. । d) पृ ९६१ d
द्र. । e) व्यप. । f) व्यप., नाप. । g) अर्थः व्यु. च ? । h) खण्डित- इति भाष्यम् ? ।
i) तु. भारडा. । रकण्डु- इति [पक्षे] पाका. । j) = वन-विशेष. । k) = देश-विशेष. ? । l) वैप १ द्र. ।
m) = हिंसक- (तु. पागम.) । n) = गर्त- । व्यु. ? < ✓खद् इति MW. । o) अर्थः ? । p) विप., व्यप.
(नगरी- [पाग.]) । q) या ३, १३ पा ३, २, ६७; ६, ४, ४३; ४३; ९८ परामृष्टः द्र. ।

१३र्ः; २२; वैश्रौ; ऋखनतात्
आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ७;
आपश्रौ ७, १६, १; वौश्रौ;
खखनत् कौस् ३३, ९; ४०,
१४र्ः; अर्प २ : ३२र्ः; खनेत्
आपश्रौ २, ३, ६; वौश्रौ २२, १ :
१२; २४, २४ : १४; २६, २४ :
२; भाश्रौ; खनेयुः लाश्रौ १०,
१५, १७.
खन्यात् द्रागृ ३, ५, ६.
खान्येते वाधुश्रौ ४, २६ : २६.
खानयति वौश्रौ ४, २ : ३४; ६,
२५ : १३-१६xx; वैश्रौ १८,
१ : ८०; खानयन्ति वौश्रौ
१०, १९ : ११; १८; १९, १ :
१८; आमिगृ ३, ८, १ : ३२;
वौषि १, १५ : ११; खानयेत्
शाश्रौ १७, १०, २; ४; आगृ ४,
१, ६; गोगृ ४, २, १६; जैगृ.
खनक- पावा ३, १, १४५; -कः वैध
३, १५, ८; -कात् वैध ३, १५, ९.
खनत्- नन् वैध ३, ४, ३; माशि
१६, ७; याशि.
खनति-> णि-कर्मन्- -र्मा या २,
२६.
खनन्- -न्तः वाश्रौ १, ६, १, २५;
-नम् वैश्रौ १४, ४ : १३; वैगृ
५, १३ : १३; -नात् आपश्रौ २,
३, ६; वौश्रौ २०, ६ : ३०; वैश्रौ;
-ने वौश्रौ २२, १ : १२; अप
४८, ४६.
खनन-जीविन्- -वी वैध ३, १५,
८.
खनन-पुरी(प>)पा^०- -षाम्

भाश्रौ २, ३, १.
खनन-मन्त्र- -न्त्रम् भाश्रौ २,
३, ३.
खनना(न-अ)न्यस्यत्पूरण-नोवास-
का(क-२आ)घ- -घैः वैध ३,
४, ३.
खनना(न-अ)र्थ- -र्थम् वैश्रौ
११, ७ : १३.
खनातक^०- -केन आपश्रौ १७, २६,
१७.
खनि^०- पाठ ४, १४०; -निः वौश्रौ
२२, १ : १०र्ः; -निम् आपश्रौ
२, २, ३र्ः.
खनिन्- -त्ता कौस् ३३, ९; -तारः
कौस् ४०, १४.
खनित्र^०- पा ३, २, १८४; -त्रेण
आपश्रौ १७, २६, १५; हिश्रौ १७,
१, १३; लाश्रौ ८, २, ४र्ः; माशि
१६, ७; याशि २, १११; नाशि
२, ८, २७.
खनित्रि(म>)मा^०- -माः
अप्रा ३, ४, ५.
खनिःवा वैश्रौ १३, १ : १०; वैगृ.
खनिप्यत्- -प्यन्तः आपश्रौ १५,
१, ७xx; हिश्रौ ११, १, १४.
खन्य- पा ३, १, १२३.
खर^०- -रः वाश्रौ ३, २, ७, १३;
काश्रु ७, २१; २३; ३८; शुश्रु ४,
९७; -रम् आश्रौ ४, ६, १; ७, ४;
५, ३, १७; काश्रौ ८, ५, २५; १४,
१, १८; १९, २, ७; आपश्रौ ११,
१३, ८xx; -रयोः काश्रौ १९,
२, १६; -रस्य वौश्रौ ७, २ :
८xx; -राः कागृ ६५, ४;

-रात् माश्रौ ५, २, ४, १०; -रान्
आपश्रौ १५, ६, २०; भाश्रौ ११,
६, १५; वैश्रौ; -राय आपश्रौ
११, ७, ८; -रे काश्रौ १०, ६, ४;
२५; १४, १, २६; २५, १२,
१०xx; वाश्रौ ३, १, १,
४?; -रेभ्यः आपश्रौ १५,
५, २०; वौश्रौ ९, ५ : ९;
१३ : ३; भाश्रौ; -रौ शाश्रौ ५,
९, ४; काश्रौ १९, २, ३; २६, २,
३०; ७, ३०; आपश्रौ १५, १३,
७; १४, ५; वौश्रौ ९, १३ :
७; १४ : १४; भाश्रौ.
खर-काल- -ले आपश्रौ १८,
१, ११; वैश्रौ १७, ७ : ९.
खर-देश- -शे माश्रौ ४, १, २१;
६, १, २, १४.
खर-पांसु- -सून् वैताश्रौ १६,
२३; हिश्रौ ९, ५, १२.
खर-मध्य- -ध्ये काश्रौ १४, २, ९
खर-श्रोणी- -ण्याम् वौश्रौ ७,
२ : १३; १४.
खर-स्थूणा-मयूख-कृष्णाजिना-
(न-अ)भ्युपशया(य-आ)सन्दी-
-न्दीनाम् काश्रौ २६, ६, २७.
खर-होम- -मात् हिश्रौ ३, ३, १७.
खरं(र-अ)स- -से वैश्रौ १५,
२ : ११.
खरा(र-अ)न्त- -न्ते वैश्रौ १५,
२ : १४.
खरा(र-अर्थ>)र्था- -र्याः
काश्रौ २६, २, २३.
खरो(र-उ)त्तर-पूर्वा(र्व-अ)-
धं- -धे काश्रौ ९, २, २.

a) कर्तरि भोवे च प्र. । b) विप. । वस. । c) = खनित्र- (हु. तां १६, ६, ५) । अतकः प्र. उरसं.
(पाठ ३, ८२) ? । d) वैगृ १६. । e) = स्थण्डिल- । डरः प्र. (पावा ३, ३, १२५) । f) वरे इति पाठः ? यनि-
शोधः (हु. सप्र. काश्रौ १४, १, १८ ? संस्कृतुः टि. च) । g) पस. > दस. > पस. पूषः = स्थण्डिल-, उप-
= ईशान-कोण- ।

खरो(र-उ) चरा (र-अ)र्ध- धै
काश्रौ ८, ७, १३.
खरो(र-उ)परवो(व-उ)त्तरवेदि-
-दिम् माश्रौ २, २, ४, १२.
खात, ता^२- -तः निघ ३, २३^१;
-तम् लाश्रौ ३, ११, १^१; कप्र
१, ८, १३; -ता आप्रश्रौ ८,
१३, ४; -ते शाश्रौ ४, १५, ८;
काश्रौ १६, ८, १९; माश्रौ; -तेन
अप २३, २, २.
खात-क- -कम् अप ३१, ५, ४.
खात-स्त-स्त-स्त-स्त-स्त-स्त-
पिष्ट-दुग्ध-दग्ध- -ग्धेषु काश्रौ
१, १०, १२.
खात्र^१- पाठ ४, १६२.
खात्वा काश्रौ १९, २, ७; २२, ४, १९;
आप्रश्रौ २५, ८, ३×४; काठश्रौ.
खानयित्वा वौश्रौ ११, २ : ९; १६,
२० : १०; कौश्रु.
खान्य- पा ३, १, १२३; -न्यम्
लाश्रौ ८, २, ४.
खान्या(न्य-अ)भाव- -वे लाश्रौ
८, २, ५.
खेय, या^२- पा ३, १, १११; -या
वौश्रौ २४, २४ : १०; ११^२;
-याम् वाश्रौ १, ३, १, ४५.
चाखायितुम् पावा ६, ४, २२.
चाखायित्- -ता पावा ६, ४, २२.
खन^१- > खन-खन^१- -नैनाय अप
३६, ९, १७; २४, १.
खनन- प्रमृ. ✓खन् द्र.
खपुर^१-> ख-व(त् >)ती- पाग ६,
३, ११८.

खमूर्तिमत्-, १ खर- २ ख- द्र.
खर- ✓खन् द्र.
खर^१-> खर-ता- -ता वैगृ ३, १० :
२.
खर, रा^१- पाग ५, १, २; पावा ५, २,
१०७; -रात् काश्रौ १६, ३, १०;
-रेण विघ ५४, २३; -रैः अप
६१, १, ७; ६४, ७, ५.
खरी- > ख(री >) रिं-धम-,
ख(री >) रिं-धय- पावा ३, २,
२९.
खर-कण्ठ^१- -ण्ठः सु २३, ४.
खर-करभ-महिप- -पाः अप ६७,
७, १.
खर-करभ-मु(ख >)खा- -खा
अप ७०^३, ११, २६.
खर-कुटी^१- पा, पाग ५, ३, ९८.
खर-णस-, -स- पावा ५, ४, ११८.
खर-नादिन्^१- पाग ४, १, ९६.
खारना[णा]दि- पा ४, १, ९६;
-दयः वौश्रौ प्र १७ : ६१.
खर-यान- -नम् शंघ ३२५^२; सुध
५१.
खर-वध- -धे विघ ५०, २७.
खर-नृपो(प-उ)ट्टा(ष्ट-अ)श्च-
-घान् अप ७१, ७, ५.
खर-शाल- पा ४, ३, ३५.
खरा(र-अ)जिन- -नम् आपध १,
२८, १९; २१; हिघ १, ७, ५४;
५७.
खरा(रा-अ)भिगामिन्- -मी शंघ
३७८ : ७.
खरा(र-अ)रोहण- -णम् शंघ ३१३.

खरो(र-उ)ट्ट- -ट्टम् : शंघ ३०५;
-ट्टाः अप ७१, ३, ५.
खरो(र-उ)ट्ट-काक-मांसा(स-अ):
शन- -ने विघ ५१, २६.
खरो(र-उ)ट्ट-हय-मातङ्ग- -ङ्गाः
अप ७०^३, ११, ४.
खर्य- पा ५, १, २.
खर^३- -रे अप ४८, १०६.
खरप^३- पाठश्री २, २, २१२; पाग २,
४, ६३; ४, १, ९९.
खारपायण- पा ४, १, ९९.
खरीखन्^३-, खरीजङ्घ^३- पाग २,
४, ६९.
खरु- पाठ १, ३६.
खरु-संयोगोपध-प्रतिषेध- -धः
पावा ४, १, ४४.
खरभ^३- -भाः वौश्रौ प्र ४१ : १५.
खर्ग(ल >)ला^३- -ला अप ४८,
११६; -लाः कौसू १०७, २.
✓खर्जू पाधा. भ्वा. पर. पूजने,
खर्जू^३ माश्रौ ६, १, ४, ३०.
खर्जू^३- -र्जति काश्रौ ८, ४, ४; १६,
६, २०.
खर्जू- पाठ १, ८०.
खर्जूर^३- पाठ ४, ९०.
खार्जूर^३-> ख-पानस- -से विघ
२२, ८३.
खर्जूर-कर्ण^३- (> खार्जूरकर्ण- पा.)
पाग ४, १, ११२.
खर्जूर-सक्त- -क्तवः आग्रिण २, ५,
१० : ३; ११ : ३; १६; -क्तम्
आप्रश्रौ १९, २६, १; वाश्रौ १,
७, २, २३; हिश्रौ २२, ६, ६.

a) वैप १ द. । b) कूप-नामद- । c) पाभे. पृ ४८४ क. द. । d) = खनित्र- । e) = शब्दानुकरण- ।
व्यु. ? । f) = पूग-वृक्ष- । व्यु. ? । <ख- + ✓पृ इति अभा. । g) = कठोर- । व्यु. ? । h) वैप १, १२०१ f द. ।
i) = सर्व-विशेष- । वस. । j) = नापित-शाला- (तु. पागम.) । k) वौश्रौ. पाठः । l) व्यप. । उस. ।
m) = क्षिप्र- । व्यु. ? । n) व्यप. । व्यु. ? । o) तु. पागम. । p) व्यप. । खा^३ इति पाका. । q) = ऋषि-विशेष- ।
व्यु. ? । r) कूजने वृत्तिः । s) विप. । विकारार्थे प्र. । t) व्यप. । वस. ।

आमिगृ २,५,१० : १७.
 रखजूर^a - (> खार्जूरायण- पा.)
 पाग ४,१,११०.
 ✓खर्दू पाधा. भ्वा. पर. दन्द्रशूके.
 ✓खर्व पाधा. भ्वा. पर. गती.
 ✓खर्व पाधा. भ्वा. पर. दर्पे.
 र्खर्व^b - र्वः वौगृ १,७,३६; -वेंण
 वौगृ १,७,३५.
 ख(र्व-क>)र्विका^c - काम् आपथौ
 २४,२,२३१.
 खर्वि (त>) ता^d - ताम् कप्र २,
 ६,९९.
 ✓खल्^e (यधा.) पाधा. भ्वा. पर.
 संचये.
 रखल^f - पाग २, ४, ३१; ५, ३,
 १०८; पावाग ४, २, ५१; -लः
 आथौ ९, ७, १४; काथौ २२,
 ३, ४२; आपथौ २२, ३, ४;
 ४, ९; अत्र ११, ३१; या ३,
 १०४; -लम् वाधूथौ ४, ६४^g :
 ६; -ले हिथौ १७, १, ४२; २,
 १८; लाथौ ८, ३, ५; पागृ २, १७,
 १६; अप ४८, १०५^h; निघ २,
 १७^h; या ३, १०^h; -लेषु
 अप ५८^h, ४, ४.
 खालिक- पा ५, ३, १०८.
 खल-क्षेत्र- त्रेषु वौध १, ५, ५५.
 खल-माला-> लि(न्>)नी-
 नीम् पागृ २, १७, ९१.

खल(ल-अ)जिन^b - (> नीय पा.)
 पाग ४, २, ९०.
 खलि(न्>)नी- पा ४, २, ५१;
 पावा १, ३, १०; ४, २,
 ५१.
 खले-बु[,श¹]स¹ - पाग २, १,
 १७.
 खले-यव- पावा, पाग २, १, १७.
 खले-वाली^k - ली आथौ ९, ७, १५;
 काथौ २२, २, ४७; आपथौ २२,
 ३, ७; वौथौ २६, ३२ : १६; १७;
 हिथौ १७, १, ४५; २, १८; लाथौ
 ८, ३, ६१; -लीम् वौथौ १८,
 २१ : ४; -ल्या काथौसं २८ :
 २.
 रखल्य- पा ४, २, ५०; ५, १, ७.
 रखल^l - पाउना ५, ८३.
 रखल^m -> खलीⁿ - पागम ५७.
 खले(ल-इ)ष्टका- काः अशां १३,
 २.
 खलकुल^o - लान् कौस् ८२, १८;
 -लैः अप १, २९, १.
 खलत- पाउश्वे ३, १०५.
 खलति^p - पाउ ३, ११२; पाग २, २,
 ३८; ३, ४, ७४; -तिः शाथौ
 १६, १८, १८; वौथौ १५, ३७ :
 २; १८, १ : ५; शंघ ३७७ : १;
 -तिम् आपथौ २०, २२, ६;
 हिथौ १४, ५, ४; -तेः वाथौ ३,

४, ५, १७.
 खलतिन्^q - तिनः अप ६८, १,
 ११.
 खलतिक^r - पावा १, २, ५२.
 खलतुल-प(र्ण >)र्णा^s - र्णा^s
 कौस् २९, १५.
 खलीन^t - पाउभो २, २, १९७^t; पाग
 २, ४, ३१.
 खलु^u आपथौ ८, ९, १२; २१, ५×४;
 वौथौ; या १, ५^u; १३, १२; पाग
 १, ४, ५७.
 रखल्य^v - ल्यका- (यक्र. > खाल्या-
 यनि-खाल्यकायनि- पा.) पाग
 ४, १, १५४.
 रखल्व^w - पाउभो २, ३, १२९^w; -ल्वान्
 कौस् ८२, १८.
 खल्व्वा (ल्व-आ) दि- दीनि कौस्
 २७, २६.
 रखल्व^x -> खल्वायनि- नयः
 वौथौप्र ४८ : ५.
 रखल्वका^y कौस् ८२, १८^x.
 खल्वका-, खल्व्वा- (> खाल्व-
 कायनि-, ल्वायनि- यक्र.)
 खल्य- टि. द्र.
 खल्वङ्ग^z - ङ्गान् कौस् २७, १४.
 खल्व्वाट^{aa} - पाग ५, १, १२७^{aa}; -टः
 शंघ ३७८ : १०; विघ ४५,
 २८.
 ✓खच् ✓खच् टि. द्र.

a) व्यप. । व्यु. ? । खजूर- इति [पक्षे] भारुडा. । b) वैप १, १२०१ i द्र. । c) वैप १ द्र. ।
 d) = अमावास्या- । e) खर्विकाम् इति जीसं. PW. च । f) या ३, १० परामृष्टः द्र. । g) = संग्राम-नामन्- ।
 h) खण्डालिन- इत्यन्यः इति पागम. । i) तु. पागम. । j) = काल-विशेष- । k) वैप २, ३खं. द्र. ।
 l) = दुर्जन- । m) = तिल-कलक-, पिण्याक- [खल- नभा.] इति । व्यु. ? । n) तु. पा ४, १, ४२ ।
 o) = धान्य-विशेष- । व्यु. ? । p) मत्वर्थायः इतिः प्र. उसं. (पा ५, २, ११६) । q) = पर्वत- वा वन-
 वा । व्यु. ? । r) = औपधि-विशेष- । व्यु. ? । पाठः ? 'लकुल' इति शोधः (तु. दारिलः) । s) = कविका- ।
 व्यु. ? । खलीन- इति अभा. शक., खलिन- इति शाकटायनः इति पागम. । t) < ✓खल् इति । u) व्यप. । व्यु. ? ।
 तु. पाका. । का- इति भारुडा., ल्वका-, ल्व्वा- इति पागम. । v) अपि-विशेष- । व्यु. ? । w) अर्थः व्यु. च ? ।
 = खल्व- (खल्वङ्ग- [कृष्ण-चणक-]) इति संस्कृतां (तु. भू II) । x) पृ ४४६ I द्र. । y) = खलति- । व्यु. ? ।

खश^१ -> खश-भद्र- द्राः अष ५६,
१,४.
ख-शया-, खशरीरिन्- रख- द्र.
✓खप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.
खण्प- पाठ ३,२८.
खस^२- पा, पाग ५,१,१७३.
ख्वा^३- खाः अष ४८, ७६; निघ १,
१३; खाम् ऋप्रा ४,६०.
खाजुरायण- खजूर- द्र.
खाञ्जन- खञ्जन- द्र.
खाञ्जार-, खाञ्जारायण- खञ्जार- द्र.
खाञ्जाल-, खस-, ख- खञ्जाल-, खस-,
ख- द्र.
खाञ्जुलायन- खञ्जूल- द्र.
खाट^४- टः अष ४८, ७७फं.
खाटि- पाठवृ ४,१२५.
खाटूर- वाटूर- टि. द्र.
खाट्वरेय- खट्वर- द्र.
खाट्वाभारिक- खट्वा- द्र.
खाडण्डक- खडण्ड- द्र.
खाडायन- प्रमृ. रखड- द्र.
खाडायनि- (खाडायनीय- पा.)
रखड- टि. द्र.
खाडिकि- खडिक- द्र.
खाडिन्ध- खडिव- द्र.
खाडूरक- खडूरक- द्र.
खाडूरैय- रखडूर- द्र.
खाडोन्मत्तेय- खडोन्मत्ता- द्र.
खाड्ग- प्रमृ. खड्ग- द्र.
खाण- खण- द्र.
खाण्ड- १-२खाण्डक- खण्ड- द्र.
१खाण्डव- १खण्डु- द्र.
२खाण्डव- २खण्डु- द्र.
खाण्डवक- १खण्डु- द्र.
खाण्डवीरण- (>खाण्डवीरणक-

पा.) खण्ड- टि. द्र.
खाण्डायनी-, खीय- खण्ड- द्र.
१-२खाण्डिक- प्रमृ. खण्डिक- द्र.
खाण्डित्य- रखण्डित- द्र.
खाण्डिनि- खण्डिन- द्र.
खात- प्रमृ. ✓खन् द्र.
✓खाद्^५ पाधा. भ्वा. पर. भक्षणे,
खादति आपश्चौ १४, २९, ३१;
वौश्रौ १०, ५९ : २४; भाश्रौ;
खादन्ति वाधूश्रौ ४,११८ : ९;
वौषि ३, ११, २; खादेव वौश्रौ
२५, ३२ : ३६; २९, ५ : २१;
२३; वाधूश्रौ ४, ११८ : ११३;
आमिगृ.
खादयन्ति शांश्रौ १४, २, १११^१;
खादयेव शंघ ३३३; गौध २४,
१४; खादयेयुः आमिगृ २, ५,
९ : १२; जैगृ २, ६ : १०.
खाद- दम् आपश्चौ २०, ५, १६;
हिश्रौ १४, १, ४७,
खादक- पा ३, २, १४६; -कः विघ
५१, ७४.
खादव- दतः विघ ५१, ६२; -दन्
कौसृ ३८, १७.
खादत > ०त-मोदता-, ०त-
वमता-, ०ता(त-आ)चमता-
पाग २, १, ७२.
खादति-> ०ति-कर्मन्- र्मा या
४, १९.
खादस- > ०दो-ञ(र्ण)>र्णा^६-
र्णाः अष ४८, ७६; निघ १,
१३.
खादित-> ०ता(त-अ) ध- धम्
शंघ २२६.
खादितवत्- वन्तः या १२, ४२.

खादित्वा आपश्चौ १५, २१, ७; वौश्रौ
२६, ३३ : १५; भाश्रौ ११,
२२, ९.
खादायन- खाडायन- टि. द्र.
खादि-> ख्वादिन्^७- दिनम् आश्रौ
२, १६, ७; शांश्रौ ३, १३,
१७.
खादिर- प्रमृ. खदिर- द्र.
खादूरक- खदूरक- द्र.
खानयित्वा, खान्य- ✓खन् द्र.
खाय-खेन^८- ने अष ४८, १०५फं.
खार- पाग ४, १, ४१.
खारी^९- पा ४, १, ४१; -र्णीम्
वौश्रौ ९, ४ : ५; १०, ७ : ६;
आमिगृ ३, ५, ७ : १८; -र्याम्
वौश्रौ ९, ४ : २७; १०, ८ : १०; वैश्रौ
१८, २ : ८; आमिगृ.
ख(री>)रिं-धम-, ०धय-
पावा ३, २, २९.
खारीक- पावा ५, १, ३३.
खारी-विवध- धम् वौश्रौ
१६, ३० : ७.
खारीविवधिन- धी
वौश्रौ १६, ३० : १.
खारी-होम^{१०}- मः वौश्रौ
१५, २० : ७; -मम् वाधूश्रौ ३,
७८ : ४; ८३ : ६-८; १२; १५;
१६^३; -मेन वाधूश्रौ ३, ८३ :
८.
खारीहोमा(म-अ)नुवाक-
कान् वाधूश्रौ ३, ८३ : १७.
खार-शत-> ०तिक- पावा ५, १,
५८.
खारणा, नादि- खर- द्र.
खारपायण- खरप- द्र.

a) = जनपद-विशेष- वा तद्वसित्- वा । व्यु. १। b) तु. पागम्. । c) वैप १ द्र. । d) = शव-
शय्या- । व्यु. १। e) पावा १, ४, ५२ परामृष्टः द्र. । f) खापम् इति C. । g) संप्राम-नामन्- ।
h) = अन्नहोम- वा तन्मन्त्रानुवाक- (वै.सं ७, ५, १२) वा ।

खारित्रीवि^१ - वयः वीश्रौप्र १७:४.
 खारी(री-इ)ण्ड्व^२ - ण्ड्वम् वीपि १,
 ६ : १३.
 खार्जूर- , खार्जूरकण- १खर्जूर- द्र.
 खार्जूरायण- २खर्जूर- द्र.
 खार्दमायण^३ - णाः वीश्रौप्र ४१ : ७.
 खार्दमायन^४ - नाः वीश्रौप्र ९ : १.
 खार्वमायन^५ - नाः वीश्रौप्र ४३ : ४.
 खालिक- १खल- द्र.
 ✓खिद् पाधा. भ्वा. पर. त्रासे.
 ✓खिद् ✓खेद् टि. द्र.
 ✓खिद्^६ पाधा. दिवा. रुधा. आत्म.
 दैन्ये; तुदा. पर. परिघाते, खिदति
 वाधुश्रौ ४, ६४^६ : १२; अखिदन्
 वाधुश्रौ ४, ६४^६ : ११.
 खिन्न- अत्राः वृदे ४, २१.
 खेद- दः वीश्रौ २, ५ : ७^७.
 खेदा(द-अ)नुकम्पा- म्पयोः या
 ६, २७.
 खेदन- नम् या ११, ३७.
 खेदा^८ - पा ३, ३, १०४^८; -दया
 शैशि २२२.
 खेदि^९ - दयः अप ४८, ११३;
 निघ १, ५.
 खिदिर- पाउ १, ५१.
 खिद्र^{१०} - पाउ २, १३; -त्रिद्रम् आपमं
 २, १८, ९; या ११, ३७.
 खिल^{११} - (> खैलायन^{१२} - पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 रखिल^{१३} - लः अत्र २०, १२७;
 -लानि ऋत्र ३, ७; -ले आपश्रौ

१५, २०, २; ८; २१, २; १०;
 वीश्रौ ९, १९ : ३; ३४; २० : ५;
 भाश्रौ ११, २१, २; ८; २२, ६;
 १३; हिश्रौ १०, ७, ६; भाग्य ३,
 ६ : ३; १५; ७ : ८; -लेषु
 कौसू १४१, ३८; ऋत्र ३, ३६;
 -लौ अत्र २०, ४८.
 खैलिक- -कानाम् ऋत्र ३, १७;
 -कैः ऋत्र ३, ३९.
 खिव- (> खैवायन-) पाग ४, १,
 ११०^{१४}.
 खील^{१५} - लः आपश्रौ ४, १२, ८;
 भाश्रौ ४, १८, ४; वैश्रौ ७, ६ :
 १४; १२ : २; हिश्रौ ६, ३,
 १७; ४, १०; -लाः आपश्रौ
 २१, २०, ३; हिश्रौ १६, ६,
 ४१.
 ✓खु पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.
 खुं शुप्रा ८, २४; याशि २, ९४.
 ✓खुज् पाधा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.
 ✓खुङ् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
 ✓खुण्ड् पाधा. चुरा. पर. खरडने.
 ✓खुद् [= ✓खुर्द] > चनीखुदत्-
 दत् आश्रौ २, १०, १४^{१६}.
 खोदन- नम् शाश्रौ १२, २४,
 ८^{१७}.
 खुम् पाग १, ४, ५७.
 ✓खुर् पाधा. तुदा. पर. छेदने.
 खुर^{१८} -> खुर-खुर-> ✓खुरखुराय
 > ष्यमाण- णः वैग्य ५, १:२६.
 रखुर^{१९} - पाउ २, २८^{१९}; पाग ४, १,

४५; ५६; -रैः काश्रौ १९, ४,
 १२.
 १खुरी- पा ४, १, ४५.
 खुरण(<न)स्- , ष- पावा ५,
 ४, ११८.
 रखुर^{२०} -> रखुरी^{२१} - यौ वीश्रौ
 १८, २४ : १०.
 ✓खुर्द् पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडायाम्-
 खे-चर- २ख- द्र.
 ✓खेद् पाधा. चुरा. पर. भक्षणे.
 ✓खेङ् ✓खेद् टि. द्र.
 खेड^{२२} - (> खैडायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 खेय- ✓खन् द्र.
 ✓खेल पाधा. भ्वा. पर. चलने.
 खेला- (> ✓खैलाय पा.) पाग
 ३, १, २७.
 खेल^{२३} - पाग २, २, ३८.
 ✓खेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
 ✓खै पाधा. भ्वा. पर. खदने.
 खैम(ख>)खा^{२४} - ०खाइ अत्र
 ४, १५; शौच १, ९६; १०५.
 खैलायन- १खिल- द्र.
 खैलिक- २खिल- द्र.
 खोः पाग १, ४, ५७^{२५}.
 ✓खोद् ✓खेद् टि. द्र.
 खोड^{२६} - पाग २, २, ३८.
 खोदन- ✓खुद् द्र.
 ✓खोर्, ल् पाधा. भ्वा. पर. गति-
 प्रतिघाते.
 खिना शैशि २१३.

a) = ऋप्रि-विशेष-। व्यु. ?। b) अर्थः ?। द्रस. ?। पूष. = [संभारार्थ-] पिटक- इति, उप. L परि-
 षेचनोपयोगिनं- जाल- इति C. [तु. भू. XI]। c) पा ६, १, ५२; ७, १, ५९ पावा ६, १, १६१ परामृष्टः द्र.। d) वैप १ द्र.।
 e) तु. पागम.। f) = रश्मि-। g) अर्थः व्यु. च ?। h) = देश-विशेष- ?। i) वैप १, १२०३ f, g द्र.।
 j) पाभे. वैप २, ३खं. खीलः तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र.। k) पाभे. वैप २, ३ खं. कुनीखुनत् तैत्रा २, ४, ६, ५ टि.
 द्र.। l) = शब्दानुकृति-। व्यु. ?। m) = शफ-। व्यु. ?। n) < ✓खुर् (छेदने) इति। o) = खुराकृति-
 लोहमय-द्रव्य-। व्यु. ?। p) विप. (उपांनह-)। q) = ✓खिद्, ✓खेङ्, ✓खोद् इति BPG.। r) व्यप.।
 व्यु. ?। खेट- इति MW.। s) = खड-। व्यु. ?।

✓ख्या^१ पावा. अदा. पर. प्रकथने,
 ङ्ङख्यत्^२ काश्रौ १६, २, १४;
 २५, ३. १५; आपश्रौ ९, १, ११;
 ७, ६; ९, १; १६, २, ८; वौश्रौ २,
 १३ : ९. x x.
 ख्यायते उनिसू ८ : ३६; ख्या-
 यन्ते या ३, २०.^३
 ख्यापयन्ति अप ६८, १, २५.
 ख्यात- पा ८, २, ५७; -त्तम् वृदे
 ६, १४६; आज्यो ५, १; -तान्
 अप ६४, १, ६.
 ख्यातवत्- पा ८, २, ५७.
 ख्याति- -ति: विध ९९, ५; -तौ
 ऋत ३, ८, ६.
 ख्याति-सदृश- शेषु ऋप्रा ६,
 ५६.
 ङ्ङख्यात्- -त्रे आपश्रौ २०, १, १७;
 वौश्रौ १५, ३ : ७; वाश्रौ ३, ४,
 १, ७; हिश्रौ १४, १, १२; पावा
 २, ४, ५४९.
 ख्यान- -नम् या २, २; १२, १६;
 -नेन या १२, २२०.
 ख्यापयत्- -यन् अप ६९, ७, ५;
 शंघ ३७२ : २; वृदे ५, ५१.

ग

ग^१ पि १, १०.

ग^० > ग-क-घा(घ-अ)क्षर- -रा: शैशि
 २५४.

ग-कार- -रम् या ७, १४.
 गकार-लोप- -पम् निसू २, १० :
 ११.
 गकारा(र-अ)न्त- -न्त: निसू
 २, १० : १०; -न्तात् अप्रा २,
 २, ५.
 ग-ज-ड-द-व- -वा: याशि २, ९४.
 ग-ड-द-व- -वा: नाशि २, ४, १०.
 ग-न- -नौ भाशि ६०.
 ग-प्रतिषेध- -धात् पावा ८, ४, ३.
 ग-म- -मौ अप्रा ३, २, १५.
 ग-र- -रौ भाशि ८८.
 र्ग^१- ग: वेज्यो १८.
 र्ग^२- नाशि १, ४, १२.
 गगत^१- पाठ २, ७७; -नम् निसू १,
 ५ : ६^१, सु ४, २; अप ५०, ७,
 १; ५८^२, २, ४; ६८, १, ४६; -ने
 विध ९९, ९.
 गगलतस्^१- -ना: वाधूश्रौ २, १३ :
 ५.
 गगला^१- -गला: हिश्रौ ५, २, ६२ ङ्ङम्.
 गङ्गा^१- पाठ १, ५२३; पाग ४, १,
 ११२; १२३; १५४; ५, १, ३९१;
 -ङ्गा शंघ ४५७ : ९; विध २३,
 ६१; या ९, २६; याशि १, ३४;
 -ङ्गाम् अप ४२, २, ४; शंघ
 ११६ : ११; -ङ्ङाया: काश्रौ
 १३, ३, २६; आपश्रौ २१, २०,
 ३; वौश्रौ १६, २३ : ४; वाश्रौ

३, २, ५, ४३; हिश्रौ १६, ६, ४७;
 वैताश्रौ ३४, ९; विध २०, २३९;
 -ङ्गायाम् जैश्रौका १९५; विध
 ८५, १०; -ङ्ङे आमिष्ट २,
 १, २ : १२०; हिष्ट २, १, ३०; या
 ९, २६; शैशि १३२.
 गाङ्ग^१- पा ४, १, ११२^१; -ङ्गम्
 विध ६४, १७.
 गाङ्गायन्- -ना: वौश्रौप्र ९ : २;
 ४३ : ४.
 गाङ्गायनि- पा ४, १, १५४.
 गाङ्गिक- पाग ५, १, ३९.
 गाङ्गेय- पा ४, १, १२३^१; -०य
 वैष्ट ५, २ : ५^१; -या: वौश्रौप्र ३:
 १२; -यै: वैष्ट १, ५ : ३^१.
 गङ्गा-द्वार^१- -रे शंघ १९४; विध
 ८५, २८.
 गङ्गा-प्रवाह-वत् जैश्रौका ३.
 गङ्गा(ङ्गा-अ)म्भस्- -म्भसि विध
 १९, ११; १२.
 गङ्गा-यमुना- -नया अप ४०, ४,
 ४^१; -नयो: वाध १, १२; वौध
 १, १, २६.
 गङ्गा-सागर-सङ्गम- -मे विध ८५,
 २८.
 ✓गच्छ्, गम्^१ पावा. भ्वा. पर. गतौ,
 गच्छते वौश्रौ २८, १३ : २१;
 गच्छति आश्रौ २, ७, १७; शाश्रौ;
 हिष्ट २, ३, ७^१; गच्छत: वौश्रौ

a) = ✓ख्या, ✓क्षा, ✓चक्ष् । या २, २; ४, ३ ऋप्रा ६, २१ शुप्रा ४, १६७ अप्रा ३, २, ११ पा ३, १, ५२
 परान्दृष्ट: द्र. । b) पाभे. वैष १, ११८५ f द्र. । c) एतेन इति शिव. ? । d) = गुरु-मात्रा- । e) = वर्ण-विशेष- ।
 f) विप. । वस. । g) = भग- । h) गन्धर्व- इत्यत्याद्य-वर्ण- । i) वैष १ द्र. । j) = कृत-छन्दो-
 विशेष- । k) व्यप. । वृ. ? । l) = गल्दा- । m) सपा. गगला: <> गगला: <> गल्दा: <> वल्गा: इति पाभे. ।
 n) भङ्ग- इति पाका. । o) सपा. आपमं २, ११, १२ चमुने इति, आपमं २, ११, १३ पाठ १, १५, ८ विशिष्टरच पाभे. ।
 p) विप. (जल-) । तस्येदमीय: प्र. । q) व्यप. । r) फक् प्र. उंसं. (पा ४, १, ११०) । s) = तीर्थ-विशेष- ।
 t) मलो. ऋत. । u) या ११, २४; २५ पा १, २, १३; २, ४, ४६; ४७; ४, ३, ८५; ५, १, ७४; ६, ४, ४०; ९८; ७, २, ५८
 पावा २, ३, १२; ३, १, ८६; ४, ४, १; ५, १, ७४; ६, ४, ४०; ७, २, ५८ परान्दृष्ट: द्र. । v) एन्ति इति पाठ: ? यनि.
 शोध: (वृ. संस्कर्तु: टि., सपा. गच्छति <> सर्पति <> गच्छन्ती इति च पाभे.) ।

२४,४: १२××; गच्छन्ति शांश्री
 ६, १२, १३; काश्री; आपमं
 २, १३, ११^१; गच्छथः अप्राय
 ६, ९^१; गच्छामि वौश्री ३,
 ५: २१^१; गच्छाति वौषि १,
 ८: ४^१; गच्छान् अप १, ३२,
 ७; ऋषा ४, ७३; ऋगच्छासि^१
 आपमं २, २, ७; आमिष्ट १, १,
 २: ३०; ५, १: २२××; वौश्री;
 ऋगच्छत् आपश्री ४, १२, ३;
 वौश्री १, १७: २१; भाश्री;
 गच्छताम् या १२, ४^१; गच्छन्तु
 वौश्री २, ८: २७; वाश्री; ऋगच्छ
 आश्री ८, १३, १०; काश्री;
 आपश्री ३, १४, ३^०; पाश्री १, ४,
 १२^१; ऋगच्छतम् आपश्री ७,
 २१, ३; ११, ७, २; वौश्री;
 ऋगच्छत शांश्री ७, १८, ९; आपश्री
 १३, ६, १४; वौश्री; गच्छाव
 सु ६, ५; अगच्छत् शांश्री १४,
 १२, २^१; वौश्री २, ७: २^१××;
 अगच्छन् वाधुश्री ४, २६^१: ८;
 ५५: ४; ७; निसु; अगच्छः भाश्री
 २, ७: १३^१; अगच्छतम् या १२,
 २^१; अगच्छम् शांश्री १४, १२, ३;
 गच्छेत् अप १, ४९, ३; गच्छेत्
 काश्री १६, ६; १९; काश्रीसं; माश्री
 २, १, ४, ६^१; शांश्री ४, ८, १८^०;
 गच्छेयुः काश्री २, ३, ४; २२, ६,
 ७; आपश्री; ऋगच्छेयम् आपश्री
 १०, २०, १०; वौश्री १८, ३०:
 १०; १२××; ऋगच्छेम वौश्री

१४, २१: २; ४; ९; ११; १६.
 गन्ति निघ-२, १४^१; ऋगन्त
 न्ता आश्री ३, ५, ७; कौश्री ३, ७,
 १०; शांश्री ४, ५, ८.
 गमति निघ २, १४; ऋगमाम
 हिश्री १५, ५, ४; जैश्रीप १२;
 आपमं २, ७, १५; गमेः अप ४८,
 २^१; गमेय शांश्री १, १२, ५^१;
 ऋगमेयम् आपश्री ४, १०, १^३;
 वौश्री; माश्री १, ४, ३, १६; द्राश्री
 ९, २, ३^१; लाश्री ३, ६, ३^१;
 ऋगमेम हिश्री ६, ६, १७; कौश्री
 ७०, १.
 जगति, जगन्ति निघ २, १४^१;
 ऋजगन् माश्री ३, ८, १; हिश्री
 १२, ६, ६; अप्राय ६, २; निघ
 २, १४; या ४, १४^१;
 ऋजगन्त आश्री ८, ३, ३०;
 अजगन्तन या १३, ३^१; जगम्याम्
 अप्राय ६, १^१.
 ऋजगाम आपश्री ७, १८, ८;
 वौश्री; जग्मतुः वृदे ४, ७६; या
 २, १; जग्मुः आपश्री २, १६, १;
 वैध; ऋजगन्थ आश्री १०, ९, २;
 शांश्री १६, ६, १; वैताश्री;
 गमिष्यति आपश्री ९, २०, ७;
 लुसु; गमिष्यन्ति शांश्री १४,
 ४०, १; गमिष्यसि पाश्री ३, ७, २;
 गमिष्यामि वौश्री १७, ४५: ६;
 गमिष्यामः वौश्री १६, १६:
 १०; ऋगम्यात् आपश्री ४, १२,
 ६^३; माश्री १, ४, २, १७; ऋगम्याः

हिश्री १२, ६, ६; ऋजगमत्
 आपश्री २०, १६; १६; वौश्री १५,
 ६: १५××; हिश्री; ऋजगन् आश्री
 ३, १३, १५^१; शांश्री २, ९, ७;
 काश्री; ऋजगात् काश्री ३, ६,
 १५; आपश्री ३, ७, ९; वौश्री;
 गन् शांश्री ७, १०, ९^१; ऋजगन्
 द्राश्री १५, ४, ७; लाश्री ५,
 १२, १५; अगमः या ४, १४;
 ऋगमः कौश्री ३, २, ६^६; गमत पाश्री
 २, १४, ११^१; ऋजगमम् आपश्री
 १०, ९, ४^३; हिश्री १०, २, ७^३;
 ऋजगन्म आश्री २, ५, १२; शांश्री
 ४, १२, ७; काश्री ३, ८, १३;
 १०; ९; ७^१; २५, ९, १५^१;
 आपश्री १८, ५, १४^१; माश्री
 २, ५, ४, ४०^१; वैश्री १७, १५:
 २^१; पाश्री १, १०, १०^०;
 अजगमत या १३, ३^१.
 गम्यते हिश्री ३, ८, २६; वृदे;
 गम्यति या ९, २^१; गम्यताम्
 वृदे ८, १३५; गम्येत आपश्री
 २४, ३, ४०; तैप्रा; गम्येरन्
 मीसु ८, ४, २५.
 गमयति वौश्री १४, १८: २७^१;
 माश्री; या १४, ३०; गमयतः तैप्रा
 ४, ५२; गमयन्ति आश्री ६, १०,
 २३; वौश्री १८, २५: १८; वाश्री;
 ऋगमयत् आपश्री ३, ७, ३; ४, १२,
 ७; वौश्री; ऋगमय शांश्री ६, ८, ९^१;
 आपश्री ३, ७, २; वौश्री; ऋगमय-
 तात् आश्री ३, ३, १; शांश्री ५,

- a) पामे. पृ ५८१ ज द्र. । b) पामे. वैप १, १२०६ ० द्र. । c) पामे. वैप १, १२०५ ६ द्र. ।
 d) पामे. वैप १, १२०५ ज द्र. । e) सप्र. गच्छत् <> गमयेत् इति पामे. । f) पामे. वैप १, १२०७ ७ द्र. ।
 g) सपा. आपश्री ४, १३, ३; ३ भूयासम् इति पामे. । h) लघुशास्त्रीयः पाठः । i) पामे. वै १, १२०५ १ द्र. ।
 j) पामे. वैप १, १२०७ ज द्र. । k) पाठः ? । पामे. वैप १ परि. आ...अगुः शौ ३, १२, ७ टि. द्र. । l) पामे. वैप
 १, १२०८ ८ द्र. । m) पामे. वैप २, ३ खं. अकः तैप्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. । n) पामे. वैप १, १२०८ ८ द्र. । o) पामे.
 वैप १ परि-अधुम् खि २, ११, १ टि. द्र. । p) पाठः ? गमयति इति शोधः संभाव्यते । q) पामे. वैप १, १२०५ ६ द्र. ।
 वैप ४-१-२७

१७, ३; गमयन्त या १२, ४३;
 कगमयन् वाधुश्रौ ४, ८८ : ७;
 गमयेत् आपश्रौ ९, ११, १९;
 वौश्रौ; कौगृ ३, ९, ५८^३; गमयेयुः
 आश्रौ ६, १०, २९.

गमयिष्यावः वाधुश्रौ ४, ७५ :
 १७.

कंगामय आपश्रौ ९, २, ७; माश्रौ
 ३, २, १०; ऋप्रा ९, ५०.

जिगमिषेत् द्राश्रौ ५, २, २४;
 लाश्रौ २, ६, १७.

अजिगाधसन् तैप्रा १६, १३^{कं}.

जङ्गन्ति निघ २, १४^{कं}.

गच्छत् - च्छतः शांश्रु १, ६, १;
 आमिष्ट २, ६, ५ : १०××; -च्छ-
 ताम् आपश्रौ १४, ८, ६^३; १०,
 १२; हिश्रौ १०, ८, २४; -च्छतोः
 निस् ६, ३ : १; -च्छसु द्राश्रौ
 १३, १, ८; लाश्रौ ५, १, ८; -च्छन्
 काश्रौ ९, ३, ३; १२, ५, १९××;
 -च्छन्तः वृदे ५, ७१; या १३,
 ८; -च्छन्तम् वैगृ २, १८ : १५;
 गौपि १, २, १०^{कं}; वाध.
 कंगच्छन्ती - न्ती आमिष्ट २, १,
 ३ : २३^{कं}; -न्तीः हिश्रौ १०, ४,
 ४५.

गत्- पा ६, ४, ४०.

गत, ता- त्तः आपश्रौ ६, २, ९; द्राश्रौ;
 -तम् आश्रौ ५, १९, ५; वौश्रौ;
 -तयोः काश्रौसं ३२:११; -तस्य
 चाश्र ३० : १८; ऋप्रा ९, २८;
 -कृता आमिष्ट २, ५, ६:११; विघ
 १, ४५; या २, ५, १४; -ताः आश्रौ
 ५, ७, १०; वाधुश्रौ; -तानाम्
 वौश्रौ २८, १०:४; अश्र ८, १^{कं};
 -तानि विघ २३, ५३; या १०,

२६; १४, १९; -ताभिः वौध
 १, ५, १८; -ताभ्याम् अश्र ६२,
 २, ६; -ताम् वैगृ ५, १५:१७^{कं};
 -ते शांश्रौ २, ६, १३; वौश्रौ;
 पावा ४, २, १०:४; -तेन सु
 ८, ४; -तेषु द्राश्रौ १५, ४, ८;
 लाश्रौ ५, १२, १५; कौगृ १, ८,
 १०.

गत-त्तम- -मम् या ७, १३.

गत-ताच्छौल्य^८ - ल्ये पावा १,
 ३, २१.

गत-प्र(ज >)जा- -जा वौध
 २, २, ६३.

गत-प्रत्यागत, ता- पावा २,
 १, ६०; -ता वौध ४, १, १८.

गत-भय^८ - येन या ६, १२.

गत-भास^८ - सम् या ६, ३५.

कंगत-मनस्^८ - नाः आपश्रौ
 १३, १४, ४; वौश्रौ ८, १४:१३.

गत-मात्सर्य^८ - र्यम् अश्र ६९,
 १, १.

गत-श्री^८ - श्रियः आश्रौ २,
 १, ३६; शांश्रौ २, ६, ५; काश्रौ

४; १३, ५; आपश्रौ; -श्रीः
 आपश्रौ २, १९, ३; ६, ४, १;

१६, ९, ७; वौश्रौ ३, ४ : १८;
 १०, १३ : १७; भाश्रौ.

गजा(त-आ)गत- पाग ४,
 ४, १९; -तम् अश्र ५८, ४, १३;

-तैः नाशि १, ४, ७.

गातागतिक- पा ४, ४, १९.

गता(त-आ)द्य (दि-अ) र्थ- र्थं
 पावा २, २, १८.

गता(त-अ)ध्वन्- > ध्वा^८-
 -ध्वा गोश्र १, ५, १०; -ध्वाम्
 कप्र २, ६, ९.

गता(त-अ)नुगत- (> गातानु-
 गतिक- पा.) पा ४, ४, १९.

गता(त-अ)भ्यस्त- -स्तम्
 वेज्यो ४३.

गता(त-आ)युस्^८ - युः अश्र
 ८, १; -युषाम् अश्र १७, १.

गता(त-अ)थै- पाग २, २, ३७.

गता(त-अ)सु^८ - सुम् आपश्रौ
 १५, २०, १९; अश्र ७२, ६, ६;
 -सौ वृदे ७, ८९.

गतासु-मांस- -सम् अश्र
 ३५, १, १३.

गतो(त-उ)क्कर^८ - रः जैश्रौका
 १६५.

गतवत्- -वन्तम् या १३, ८.

१गति- पाग ४, १, ४५; -तयः
 आश्रौ १२, ६, २५; -तिः आश्रौ

१, ९, ५^{कं}; शांश्रौ १, १४, १९;
 वौश्रौ; ऋप्रा १८, ५९; ऋत^८ २,

३, ९; ३, ५, १०; -तिम् आश्रौ
 २, ७, १७; १०, ५, १६;

वाधुश्रौ; -तिषु शांश्रौ ४, ६,
 १२; -ती वैगृ ५, १ : १२; -ती

आपध २, ४, २७^६; शुप्रा २,
 ५८; पा ३, १, २३; ७, ३, ६३;

८, ३, ११३; मांस ६, ५, ४८;
 १०, २०, ५५; -त्या माश्रौ ४, ४,

४; सुध ६५.

गती- पा ४, १, ४५.

गति-कर्मन्^८ - र्मणः या १, ७;
 २०××; -र्मणाम् या १४, १२

-र्मा या २, २××; -र्मणः निघ
 २, १४; या ३, ९.

गति-कल्प- -ल्पौ द्राश्रौ १५, १,
 ११; लाश्रौ ५, ९, ८.

गति-कृत्सना- -ना या २, ३.

a) पामे. पृ ९६९ e द्र. 1

b) पामे. पृ ९६८ v द्र. 1

c) पूष. = वृत्त- (तु. पातिवा.) 1

d) विप. 1 वस. 1 c) = [चतुर्दशीविदा-] अभावस्या- 1 वस. 1 f) अर्थः ? 1 g) पामे. पृ ४९१h द्र. 1

गति-चला-कर्मन्^a-र्मणः या
 ४,३.
 गति-चेष्टा-भाषिता(त-रश्चा)-
 छ-द्यम् विध २८,२५^b.
 गति-बुद्धि-प्रत्यवसाना (न-अ)
 र्थ- > र्थ-शब्दकर्मा (र्म-अ)
 कर्मक-काणाम् पा १,४,५२.
 गति-बुद्ध्या(द्वि-आ)दि-
 -दीनाम् पावा १,४,१.
 गति-मत्-मात् कौष्ट ३, १२,
 १२.
 गति-युक्त-क्तेषु पावा १, ४,
 २४.
 गति-हिंसा(सा-अ)र्थ-र्थेभ्यः
 पा १,३,१५.
 गति-हीन-नम् अप ६४,
 ३,३.
 गत्य(ति-अ)र्थ-र्थस्य या १,
 १७; -र्थेभ्यः पा ३, ३; १२९;
 -थेषु पावा १,४,५२.
 गत्य(ति-अ)र्थ^c पा १, ४,
 ६९; ८,१,५१.
 गत्यर्थ-कर्मन्-र्मणि पा २,
 ३,१२.
 गत्यर्था(र्थ-अ)कर्मक^d पा ३,
 ४,७२.
 गत्य(ति-अ)र्थावाद्^e-दात् मीसू
 ७,३,२४.
 गत्या(ति-आ)नुपूर्व्य-व्येण
 द्राश्रौ ३, ३, १७; लाश्रौ १,
 ११,९.
 रगति^d -तिः पा १,४,६०; ६,२,
 ४९; ८,१,७०; पावा ६,२,४९;
 ८,१,७१; -तेः पावा ६,२,४९^३;
 ८,१,७०; -तौ पा ८, १, ७०;

पावा ६,२,४९; -त्योः पा ८,३,
 ४०.
 गति-कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध-
 संप्रत्यया(य-अ)र्थ-र्थः पावा
 ६,१,७३.
 गति-कारक-पूर्व-र्वस्य पावा
 १,४,१३; -र्वे पावा २,१,४७.
 गति-कारके(क-इ)तर-पूर्व-
 पद^f-दस्य पावा ६,४,८२.
 गति-कारको(क-उ)पपद-
 -दात् पा ६,२,१३९; -दानाम्
 पावा ४,१,४८.
 गति-ग्रहण-णे पावा ८,१,५७.
 गतिग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा ८,१,७०.
 गति-त्व-त्वात् पावा ६, २,
 १३९.
 गति-दिवःकर्म-हेतुमत्-मत्सु
 पावा १,४,१.
 गति-संज्ञा-संनियुक्त-क्तम्
 पावा १,४,७४.
 गत्या(ति-आ)दि-दिभ्यः पावा
 ६,२,१३९.
 गत्यु(ति-उ)पसर्ग-सं(ज्ञा >)
 ज्ञ-ज्ञाः पावा १,४,६०.
 गत्यु(ति-उ)पसर्ग-संज्ञा-ज्ञे
 पावा १, ४, १.
 गत्यु-पाठना ४,११२.
 गत्वर- पा ३,२,१६४.
 ऋगत्वा शाश्रौ २, १४,४××; काश्रौ;
 आपश्रौ १७,१४,९^१; हिध २,१,
 ९६^१.
 गत्वाय शाश्रौ १२, २०, ५^१; सु
 ३१,९.
 गन्तव्य-व्यम् वैध ३, ७, ४;

आज्यो १०, ९.
 गन्तव्य-पण्य-ण्यम् पा ६,
 २,१३.
 गन्तु-पाठ १,६९; -न्तुः या ५,
 १८.
 गन्तुम् वाध २५, ७; वौध २, २,
 ७७; आज्यो २,९.
 गन्तु-न्ता या ५,१८.
 गन्त्री-न्त्री कप्र ३, ३,६.
 ऋगन्तोस(ः) आपश्रौ १४,१६,१;
 वाधूश्रौ ३,४ : १२; हिश्रौ.
 रगम- पा ३,३,५८.
 गमथ- पाठ ३,११३.
 गमध्ये भाश्रौ ७,८,१०^१.
 गमध्ये या २,७^११^१.
 गमन-नम् काश्रौ १९, ५, ११;
 कौष्ट; -नात् पाठ ३, १०, १०;
 या ९, २६××; -नानि या ४,
 ७; -नाय या २, ७; -ने काश्रौ
 २५, ४, १७; कौष्ट ३, ९, ६०;
 वौष्ट; -नेषु जैश्रौका ४२; -नौ
 आपश्रौ १, ५, १; हिश्रौ १,
 ३,५४.
 गमन-पातिन्-तिनौ या ६,
 ३३.
 गमन-वेधिन्-धिनौ या ६,३३.
 गमन-संयुक्त-क्तम् हिश्रौ ५,
 ३,४८.
 गमना(न-आ)गमन-नम् वौध
 १,११,२१.
 गमनागमना(न-अ)योग-
 -गात् काध २८१ : ७.
 गमयत्-यत् अप्रा २,४,१५^१.
 गमयित्वा आपश्रौ १४, २१, ९;
 वौश्रौ.

a) विप. । मलो. कस. > वस. । b) ष्वादिक्म् इति जीसं. । c) मलो. कस. । d) = पारिभाषिक-
 संज्ञा- । e) तु. पासि. । दस. > पंस. > कस. । f) पाभे. पृ ५८१ h द्र. । g) पाभे. पृ ७३४ k द्र. ।
 h) पाभे. वैप १,१२१० i द्र. ।

गमयिष्यत्-प्यन् द्राश्रौ ११, २, ११; लाश्रौ ४, २, १०.
 गमयिष्यन्ती-न्तीम् द्राश्रौ ११, २, ११; लाश्रौ ४, २, १०.
 गमिन्-पाठ ४, ६; पाग ३, ३, ३.
 गमि-नाम्या(मि-आ)दि-
 दीनाम् पावा २, १, २४.
 गमिष्यत्-प्यन् शश्रौ ३, ४, ९;
 वैगु ६, १६: १२.
 गम्य, म्या-न्त्यः ऋप्रा १४, ६३;
 -म्याः वैगु ३, ९: ८.
 ग्मा-पा ३, २, ६: ७.
 गामिन्-पाठमो २, १, २८७;
 -मिन्म् विध २०, ४०.
 गामिनी-नीम् आज्यो १, ९.
 गामुक-पा ३, २, १५४; -कः वौश्रौ १८, १५: २०.
 ?गमन्ता ऋप्रा ८, ३०ः.
 जमि-पा, पावा ३, २, १७१;
 -कम्मयः आपश्रौ १४, १६, ११;
 हिश्रौ १५, ५, १^{१०}; अप्राय ६, १;
 -मिः या ५, १८ः.
 जमिबस्-पा ७, २, ६८; -मुपः या १२, ४३; -मुपे या २, १४ः.
 जग्मु-ग्मवे आपश्रौ १४, २९, २^{१०}.
 जङ्गम-मम् सु १६, १^३; १७, ३;
 अप ७०^३, १२, ४; ७२, ६, १;
 या ५, ३, ९, १३; -मस्य या १२, १६;
 -मे अप ७०^३, १२, ४.
 जङ्गम-स्थावर-रस्य वृदे १, ६१; ८, ११६.
 जिगन्तु-पाठ ३, २१.

जिगन्तु-पाठमो २, १, ७६.
 जिगमिषु-षोः वृदे ४, ९३.
 किंजिगांसत्-सन् कौसू १३५, ९.
 गच्छ-पाठमो २, २, ८३.
 गच्छत्, ंती-✓गच्छ द्र.
 ✓गज्-पाधा. भ्वा. पर. शब्दे मदने च; चुरा. पर. शब्दे.
 गज-जः अप ७०^३, ७, ९××; वृदे ५, १२३; याशि १, ९; -जम् अप १, ३१, ३; ७××; विध ४४, ३८; ५०, २५; -जस्य वैश्रौ ११, ७: ५; अप १, ४४, ४;
 -जाः अप २०, २; ३; ५७, २, ६××; -जान् अप ६८, ३, ११.
 गाज- > गाज-वाज-गज-वाज-टि. द्र.
 गज-श्रय-ये अशां १७, ५.
 गज-ता-पावा ४, २, ४३.
 गज-दैवत-वाजिन्-जिनाम् अप ६४, ६, १.
 ?गज-पुरोहित-ते अप ७०^३, ११, ३५.
 गज-बन्धन-नम् आज्यो ८, ८.
 गज-भग्न-कृत-ते विध ७०, ८.
 गज-रोहण-ग्म आज्यो ८, ७.
 गज-वाज-पाग २, २, ३१.
 गज-वाजिन्-जिनः अप ६७, १, ४.
 गज-विषाण-णेन अप १, ४५, ४.
 गज-वीथी-थीम् अप ५०, ४, ४.
 गज-न्यवेपिन्-थी माशि १२, ६.
 गज-संमित-तम् आम्रिगु ३, ४, ५: १०; वौपि ३, १०; ३.
 गजा(ज-अ)ध्यक्ष-क्षम् अप ५,

५, ३.
 गजा(ज-अ)नन-नाय शैशि १.
 गजा(ज-अ)ध-पाग २; २; ३१^१;
 -धस्य शंध ३९५.
 गजा(ज-अ)ध-मरीचि-चयः विध २३, ५२.
 गजा(ज-अ)धो(ध-उ)ष्ट-गो-घाति-न्-ती विध ५, ४८.
 गजे(ज-इ)न्द्र-न्द्रे विध ९९, ११.
 गजेन्द्र-दन्ताग्र-कम्पित-महा-र्णववीचि-वृ(क्ष >)क्षा^१-क्षाम् अप २४, ६, २.
 गजेन्द्र-बलाहकौ(क-श्रौ)घ-स्वन-दुन्दुभि^६-भीनाम् अप २४, ५, १.
 गजेन्द्र-मद-संयुक्त-क्तम् अप ३५, २, १.
 गजो(ज-श्रौ)ष्ट-ष्टम् अप २३, ३, १.
 गजोष्ट-सदृशा(श-आ)का(र >): रा-रा अप ३०^३, १, १२.
 ✓गड् पाधा. भ्वा. पर. सेचने.
 गडिक-(>गाडिकि-पा.) खडिक-टि. द्र.
 गडु-पाठमो २, १, ५४; पाग ५, २, ९७.
 गडु-कण्ठ-पावां २, २, ३५.
 गडु-ज-(>जी-पा.) गडुल-टि. द्र.
 गडु-मत्-पा ५, २, ९७.
 गडु-ल-पा ५, २, ९७; पाग २, २, ३८; ४, १, ४१^{१०}; ५, १, १२४.
 गडुली-पा ४, १, ४१.

a) शुः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १, ८९, ७) । b) पामे. वैप १, १२१० p द्र. । c) वैप १. द्र. । d) समूहार्थे अण् प्र. इति पागम. । e) तु. पाका. । गोजवाज- इति भारटां., गाजवाज- इति पांसि., पागम. । f) =व्योममार्ग-विशेष- । g) विप. (अथेत्-) उप. अर्थः? । h) व्यप. । वस. । i) तु. पागम. । j) विप. । पच. > वस. > वस. । k) दस. > वस. > कस. । शोध- =जलौघ- । l) विप. (यज्ञपात्र-) । वस. । m) गडुज- इति पाका. ।

गांडुल्य- पा ५, १, १२४.
 गडुल-गालव- पा २, २, ३८.
 गडु-शिरस^१- पावा २, २, ३५.
 गड्वा(डु-आ)दि- -दिभ्यः पावा २, २, ३५.
 गडुक^१- पाग २, ४, ६९.
 गडेर- पाठ १, ५८.
 गडेर-क- > गडेरक-दशेरक^१- पाग २, ४, ६८.
 गडोल- पाठ १, ६६.
 ✓गण्^० पाधा. चुरा. पर. संख्याने,
 गणयेत्-शंभ १०७.
 गण^१- पाग-४, १, ९८^१; २, ६०; ३, ५४; ४, १०२; ५, १, ३९; -णः आपश्चौ १४, ३, १०; १५, १९, १; वौश्रौ; अप ३२, १, २१; २३-२५; निघ १, ११^१; या ६, ३६^१; -णम्-आपश्चौ १४, २, २; १७, १६, १५; वौश्रौ १०, ५३: ९×४; हिश्रौ; -णम्-आपश्चौ वैश्रौ १९, ६: १०६; -णस्य हिश्रौ १२, ५, ३२; ३७; वृदे ५, ४७; -णाः आपश्चौ २१, १५; १९; वौश्रौ ७, ५: ४^१×४; आसिगु; -णात् वौश्रौप्र २:५; याशि २, १०१; नाशि २, ८, २५; मीस् ८, ३, ११; -णान् आपश्चौ १७, १७, ४; वौश्रौ; माश्रौ: २, ४, १; ३५^१; वैताश्रौ १९, १८^१; -णानाम् आश्रौ ४, ६; ३; ऋशाश्रौ: ५, ९; १८; १४, १९; काश्रौ २०, ६; १३^१; आपश्चौ; पाय १, ५, १०^१; -णाभ्याम् आपश्चौ १४, ३, १४; -णाय

आसिगु २, ४, ५: ६^१; -णे आपश्चौ १४, १, १०; २, १३^१; ऋश्रौ १७, ३: ३; ६; हिश्रौ; पावा ११, ३४^१; -णेन आपश्चौ १७, १६, १५; वौश्रौ १०, ५३: ९; माश्रौ; -णेन-उ-णेन आपश्चौ १७, १६, १६; वैश्रौ १९, ६: १०६; -णभ्यः वौगृ २, ८, ९; अप ४६, ९, १६; अशा २४, ६; -णेणु आपश्चौ १६, २१, ९; वैश्रौ; -णैः आपश्चौ १७, १६, १५×४; वौश्रौ; -णौ वैश्रौ १५, ३७: १४; आसिगु २, ४, ५: ८^१; अशा २३, ३३^१; वौघ ४, ७, ५.
 गाणायन- L > ण्य- पा ५, ३, ११३] पा ४, १, ९८.
 गाणिक- पा ४, २, ६०; ४, १०२.
 गाण-कर्मन्- -मभिः कौस् १३९, ७; -र्मा अप ३२, १, २४.
 गण-काम- -मम् कौगृ २, २, ८^१; -मान् शागृ २, २, १३^१.
 गण-नाणिका-स्तेन-गायना (न-अ)न- -ज्ञानि विघ ५१, ७.
 गण-चोदना- -नायाम् मीस् ८, ३, ३.
 गण-तिथ- पा ५, २, ५२.
 गण-(त्वं >)त्वा- -ण्त्वायै कौस् २४, २०; अप १८^१, १, ११.
 गण-द्रव्या(व्य-अ)पहृत्- -र्ता विघ ५, १६७: < -
 गण-ना(मन् >)मनी- -मन्यः छुस् ३, ७: ५.

गण-निधन^१- -नम् निस् १०, १२: २२; -नाः निस् ८, ९: २२.
 गण-पति- पांग ४, १, ८४; ५, १, १२४; -तिभ्यः वौगृ २, ८, ९^१; -ण्तिम् आपश्चौ २०, १८, १; वौश्रौ १३, २६: १५; वाश्रौ ३, ४, १३; हिश्रौ १४, ४, ३; २२, ४, १०; आसिगु १, १, ३: ५४; २, ६, ३: २८; वागृ ५, २२; हिगृ १, ६, ११.
 गाणपत- पा ४, १, ८४.
 गाणपत्य- पा ५, १, १२४; -ण्त्वात् तैप्रा १३, ९.
 गण-पाद- पांग ६, ३, ८१^१.
 गण-प्रशंसा- -सयोः पा ३, ३, ८६.
 गण-वलि- -लिम् अप १९^१, ५, ४.
 गण-मध्य- -ध्ये काश्रौ १७, ११, ६.
 गण-मुख्य- -स्यम् वैगृ २, ६: १७^१.
 गण-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ २२, ११, ११.
 ऋगण-वत्- -वत् वौश्रौ १८, २८: १४; -वान् आश्रौ २, ११, ८.
 गणवती- -ती वौश्रौ १३, २६: १४.
 गणवत्सवन्मुखीयेषु^१ जैश्रौ १४: १५.
 गण-शब्द- -ब्दम् जैश्रौका १४५.

a) तु. पांगम. b) व्यप. व्यु. ?। c) पा ७, ४, ९७ पावा ७, ४, ८२ परामृष्टः द्र.। d) मन्त्र-गण-विशेष- [अअमू, अप ३२ प्रमृ.]। वैप. १ द्र. e) व्यप.। f) वाङ्-नामन्-। g) पामे. वैप १, १२११ द्र.। h) पामे. वैप १, १२११ द्र.। i) = गण-प्राठ-। j) = मन्त्रगण-विशेष-, भैषज्य-गण- [अप.]। क) परस्परं पामे.। l) विपं.। वंस.। m) वस. पूष. अर्थः ?। n) पामे. वैप १, १२११.। o) पामे. वैप १, १२११. j: द्र.। p) शणपाद-इति पाका.। q) अर्थः व्युत्पि-इति = ()।

गण-शस्(ः) आश्रौ ९,९,१६;
वौश्रौ.

गण-श्रि,श्री- -श्रिभिः वा ८,
२; -श्रिये आपश्रौ १४, २५,
११; -श्रियै हिश्रौ १५, ६,
२९.

गण-संवत्सर- -राणाम् निच्
१०,९:१६.

गण-समय-श्रेणी-पुन-चरण-व्य-
वहार-निष्ठा^१- -छा शंघ
२५५.

गण-सामन्- -मानि निच् ६,
११:१०.

गण-स्थान- -नम् निच् १०,
८:२१; -नात् वृदे ५,
१७२.

गणा(ण-आ)देश- -शे वाश्रौ १,
१,१,७१.

गणा(रा-अ)धिपति- -तिन्
वौष ३,६,२०.

गणा(रा-अ)न्त- -न्तेषु अय ३३,
६,३; अथां २४,५१.

गणान्त-त्व- -त्वात् पावा
७,४,७५.

गणा(रा-अ)द्व- -त्सम् वाघ १४,
१०; शंघ ४३४; विघ ४८,
२१; वौष ३,६,१०.

गणिका^२->गणिक्य- पावा
४,२,४०.

गणिका-भूर्त्तचारिणी(पी-ई)
क्षणिका-मायाविनी-कुहुकशीला-
विप्लुता- -वाभिः शंघ ७२.

गणिका-भूर्त्ता-व्यभिचारिणी-
प्रव्रजिते(ता-ई)क्षणिका-माया-

मूलकुहुकारिका-दुःशीला(ला-
आ)दि- -दिभिः शंघ ७७.

गणिका(का-अ)द्व- -त्सम्
वाघ १४, १०; शंघ ४३४;
वौष ३, ६, १०; विघ ४८,
२१.

गणिका-पाद- पाग ५,४,१३८.

गणिन्- पा ६,४,१६५; -गिनः
वौश्रौ ७,७:१०१.

गणिन- पा ६,४,१६५.

गणी√कृ>गणी-चिकीर्षा-
-र्षया निच् ६, ११:१०, -र्षा
निच् ६, ६:२१; ८:३५.

गणे(रा-इडा)>ड^३- -डा: निच्
८,९:२१.

गणे(रा-ई)श- -शम् भाशि १;
-शानाम् अय ७०^३, १०, ५;
-शेन क्रप्र १,१,१२.

गणेश-रूप- -पाय शौशि २.
गण्य- पा ४, ३, ५४; ४, ४,
८४.

गणक^४- -का: अय ५२,४,२.

गणन- -नात् वा ६,३६.

गणना- -ना अयं ४:२०.

गणयितुम् विघ २०,२३.

गणित^५- पाग ४, २, ६०^१; ५, २,
८८; -तम् वेज्यो ४.

गणित-, गणितिक- पा
४,२,६०.

गणितिन्- पा ५,२,८८.

गणकारि- (>गणकार्य- पा.)
पाग ४,१,१५१६.

√गण्ड् पाषा. भ्वा. पर. वदनैऋदेशे.
गण्ड^६- पाठ १, ११४; पाग ५, २,

९७; ४, १३८; -ण्डौ विघ ९६,
९२^१.

गण्ड-पाद- पा ५,४,१३८.

गण्ड-माला^१->गण्डमालिन्-
-ली शंघ ३७७:५.

गण्ड-ल- पा ५, २, ९७.

गण्डयन्त- पाठ ३, १२८.

गण्डयित्सु- पाठमो २, १, ८३.

गण्डु- पाठवृ १, ७; पाग ५, २,
९७^१.

गण्डु-ल- पा ५, २, ९७.

गण्डु^१- [>गण्डव्य- (>गण्ड-
व्याचान->नी)- पा. चक्र.गण
४,१,१०५;१८.

गण्डुप- पाठ ४,७८.

गण्डोल- पाठ १, ६६; पाग ५, ४,
१३८.

गण्डोल-पाद- पा ५,४,१३८.

गण्डोलक- (>गण्डोलक-पाद- पा.)
पाग ५,४,१३८.

गत्, गत-, १-२गति- प्रस्. √गच्छ
द्र.

गति(क>)ला- पाठवृ १, ५७.

गत्तु-, गत्तर-, गत्वा, गत्वाय
√गच्छ् द्र.

गद्युत्स^७- -नसः वावृश्रौ २, १३:२.
√गद्^८ पाषा. भ्वा. पर. व्यकार्या
वाचिः जुरा. लभ. देवशब्दे,
गदति अय ४८, ९१.

जगाद वृदे ३, १२६; १३७; ४,
३; ९५×२.

गदित- -तम् अय ७, १, १३;
वृदे ७, ९५; -ता: अय ६९, ६, १.
गद्य- पा ३, १, १००.

a) दस.>पस.>दस.>सस. । b) नाप. । नत्वर्थे ठ्ठ प्र. । c) विप. । वस. । d) =प्राज्ञपत्य-
ग्रह-विशेष. । e) शास्त्र-विशेष. । f) तु. पागन. । g) गणकार- इति पागम. । h) व्यु. ? <√गम् इति
पाठ., √गण्ड् इति भ्रमा. । i) = गण्ड-त्यल. । j) = व्याधि-विशेष. । पू. = गण्ड-प्रन्यि. । k) पासे. पृ ८३१
d द्र. । l) = ऋषि-विशेष. । व्यु. ? । m) व्यप. । व्यु. ? । n) पा, पावा ८, ४, १७ परावृत्तः द्र. ।

१गद^३-^३दाय आपसं २, ३, १९;
 आमिष्ट १, १, ३: ४३; हिष्ट १,
 ६, ५.
 गदा(द-अ)पनुत्ति-^३त्तये वैताश्रौ
 ४३, २.
 १गद^३- पाग ४, १, ९६; १०४;
 -०द बौश्रौ १८, १७: २२;
 आमिष्ट २, ७, ३: ३; ३, १०,
 ३: ११.
 गद-> गदायन- यक. पा ४,
 १, १०४; १००.
 गादि- पा ४, १, ९६.
 गदयित्तु- पाउ ३, २९.
 १गदा^३- पाग ५, २, १३६; -दया अप
 ३६, १, ९; -दा अप ७०^३, ५, २.
 गदा-रूप-> ०रूपिन्-^३पि विध
 ९८, २.
 गदा-वत्-, गदिन्- पा ५, २, १३६.
 २गदा^३-> गदान-कर्ण^३-^३णै माश्रौ
 ५, २, ६, ८^३.
 गदिक^३- (> गदिकि^३- पा.) पावा
 ४, २, ८०.
 १गदित-^३गद द्र.
 २गदित[व]^३- (> गदित्य^३
 [व्य^३]- पा.) पाग ४, २, ८०.
 १गदद- पाग ३, १, २७; ५, २, ६४.
 गदद-क- पा ५, २, ६४.
 १गदघ-^३गदघ पा ३, १, २७.
 २गदद^३-^३दः शैशि १६१; पाशि
 २७; माशि १५, २; याशि १,
 २७; नाशि २, ८, १२.

गद्य-^३गद द्र.
 १गध^३-> गधिता^३ निघ ४, २.
 १गध-^३धम् निघ ४, २; या
 ५, १५६.
 गध्यति-> ०ध्यत्यु(ति-उ)त्तरपद-
 -दम् या ५, १५.
 गघा^३-^३धायाम^३ आपश्रौ १९, २६,
 ४; बौश्रौ १३, ३८: १२.
 गन्तव्य-, गन्तु- प्रसृ. १गच्छ द्र.
 गन्दिका^३- (> गान्दिक- पा.) पाग
 ४, ३, ९३.
 १गन्ध^३ पाधा. चुरा. आत्म. अर्देने.
 गन्धन-^३ने पा १, २, १५.
 गन्धना(न-अ)वक्षेपण-^३सेवन-
 साहसिक्य-प्रतियल-प्रकथनो-
 (न-उ)पयोग-^३गेषु पा, पावा
 १, ३, ३२.
 गन्ध^३- पाग ५, २, ९५; ४, ३६;
 -^३न्धः बौश्रौ २, ५, ८; ११××;
 -^३न्धम् आपश्रौ २०, २१, ८^३;
 हिश्रौ १४, ४, ५३; आय ३, ६,
 ७; आमिष्ट; -^३न्धस्य बौश्रौ २६,
 १०: २४; पावा ५, ४, १३५;
 -^३न्ध्याः बौश्रौ २, ११: १; वैश्रौ
 १, ४: ११; आमिष्ट; -^३न्धान्
 बौश्रौ १५, २४: १८; २३, १: ३१;
 पाग १, १९, ४; भाग १, १०:
 १२; माग; -^३न्धानाम् आपध १,
 २०, १५; -^३न्धे आपध २, २८,
 १०; हिध २, ६, १०; -^३न्धेन
 हिश्रौ १०, ६, ४; या १४, ४;

-^३न्धे: आपश्रौ १४, १२, ९;
 लाश्रौ २, ६, १; निस्.
 गन्ध-क^३- पा ५, ४, ३.
 गन्ध-तोय^३-^३यै: वैष्ट ४, १०:
 १८.
 १गन्ध-द्वा(र>)रा^३-^३रा आमिष्ट
 २, ७, ७: १३; अप ३८, २, २;
 बौध ४, ५, १२; -^३राम् आमिष्ट
 २, ४, १०: १८; ६, १: २९;
 माग २, १३, ६; वैष्ट ४, १४: ८.
 गन्ध-पान^३-^३न्म् माग २, १४, २८.
 गन्ध-पुष्प-^३प्पाणि अप १, ३४, ५;
 -^३व्यै: आमिष्ट १, ६, ३: ४७;
 बौपि २, ९, ११; माग १, १६, १.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-^३पै: आमिष्ट
 १, २, २: ३६; ७, १: ८××.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्या (द्य-आ)
 दि-^३दिभिः विध ९०, ३.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-माल्य-^३ल्यम्
 हिपि १७: १९.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-वासस्-
 -^३ससाम् गौपि २, ३, २७.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपा (प-अ)द्म-फलो
 (ल-उ)दक-^३कै: भाग ३, ११: ७.
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपौ (प-ओ) दन-
 पायस-यावक-लाजा (ज-आ)
 दि-^३दि अप ४०, १, १०.
 गन्ध-पुष्पा (ष्प-अ)क्षत-धूप-^३पात्
 आमिष्ट २, ४, ६: १९.
 गन्ध-पुष्पा (ष्प-२आ)द्य-^३द्यै:
 आमिष्ट २, ३, ३: ९.

a) = रोग-। व्यु. ? < १गद इति अभा. । b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । c) = आयुध-विशेष-।
 व्यु. ? < १गद इति शक. । d) = रथावयव-विशेष-। व्यु. ? । e) पस. उव. = प्रान्त- । f) सपा.
 गदाकर्णे <> पूर्वस्यां गधायाम् <> प्रथमायां गधायाम् इति पामे. । g) तु. पागम. । अर्थः व्यु. च ? ।
 h) = देश-विशेष- ? । i) तु. पाका. । j) कर्तरि ङञि य-लोपः (पा ६, ४, ४९) । k) वैप १ द्र. । या ५, १५
 परामृष्टः द्र. । l) = गधित्- > -ता इति संभाव्येत । m) = जनपद-विशेष-। व्यु. ? । गन्दिका- इति
 पाका. पागम. । n) वैप १ द्र. । इह गन्धवत्यपि वृत्तिरिति विशेषः । धा. शिङ्गने वृत्तिः । तु. वैप ३ । o) = धातु-
 विशेष-। p) मलो. कस. । q) विप. । वस. ।

गन्ध-प्रवा(द>)दा^a- -दाभिः
 वैताश्रौ १०, ५; कौश १३, १२;
 ५४, ५.
 गन्ध-मादन^b- -नम् शंघ ११६ : ९;
 -नात् माग १, १०, १७१.
 गन्ध-माल्य- -ल्यम् अप ७०^c, ९,
 ४; आमिग २, ५, १ : १३;
 -ल्यानाम् कौश ४, १, १; -ल्यानि
 अप ४, १, १५; -ल्येन अप ४,
 ३, १; -ल्यैः अप ७०^c, ९, १;
 आमिग ३, १०, ४ : ४.
 गन्ध-माल्य-तिल- -लैः अप ४४,
 ३, ३.
 गन्ध-माल्य-धूप- -पैः शंघ २१५.
 गन्ध-माल्य-धूप-दीप- -पानाम् कौश
 ३, १३, ४.
 गन्ध-माल्य-धूप-दीपा(प-आ)च्छा-
 दन- -नानाम् आग ४, ७, १७.
 गन्ध-माल्य-धूपा(प-आ)च्छादन-
 सिद्धोपहार- -रैः शंघ १९६.
 गन्ध-माल्य-धूपा(प-अ)जना(न-आ)
 दर्श-प्रदीप- -पस्य अप ४४,
 ३, ६.
 गन्ध-माल्य-वस्त्रा(त्र-अ)लङ्कारा(र-
 आ)दि- -दिभिः विध २१, १.
 गन्ध-माल्या(ल्य-आ)भरणा- -णानि
 शंघ ७८.
 गन्ध-रस- -साः वाध २, २६.
 गन्ध-रस-कृतान्न-तिल-शाण-क्षौमा-
 (म-अ)जिन- -नानि गौघ ७, ९.
 गन्ध-रस-दुष्ट- -ष्टम् वैश्रौ ६१,
 ११ : १३.
 गन्ध-लिस- -सः आपग ८, ९.
 गन्ध-लेप-क्षय- -कर- -रम् आमिग

२, ६, ८ : ८; विध ६०, २४.
 गन्ध-वत्- पा ५, २, ९५; -वन्तः
 वैश्रौ २३, १ : ३१; -वन्तम्
 वौग १, ६, २२.
 गन्धवती- -तीभिः-द्राश्रौ ५, २,
 ४; गौग ३, ४, १०; -त्यः जैग
 १, १ : १३.
 गन्ध-वर्ण-रसा(स-अ)न्वि(त>)
 ता- -ताः वौध १, ५, ५७.
 गन्ध-वह- -हः नाशि-१, ५, ९९.
 गन्ध-वारि- -रिणा कप्र ३, ४, ११.
 गन्ध-शुक्ल-पुष्प- -पैः आमिग २,
 ५, ६ : १४.
 गन्ध-शेष- -पैः आमिग २, ५,
 १२ : ५.
 गन्ध-सज- -सजः अप ११, १, ९.
 गन्ध-स्रग्-दासन्- -सभिः माग २,
 ६, ६.
 गन्धस्रग्दाम-व (त >) ती-
 -त्याम् माग २, ६, ४.
 गन्धा(न्ध-आ)घ्राण- -गे गौघ २३,
 ७.
 गन्धा(न्ध-आ)च्छादन- -ने वाग
 १२, २.
 गन्धा(न्ध-आ)त्मक^d- -कम् वैग ५,
 १ : १७.
 गन्धा(न्ध-आ)दि- -दि आमिग २,
 ५, १२ : ५; ३, ११, २ : ६;
 -दिना आमिग १, ६, १ : २२.
 -दिभिः आमिग २, ५, १२ : ४;
 ३, ३, १ : १२; २ : ७; १८;
 -दीन् कप्र १, ४, ३.
 गन्धा(न्ध-आ)द्य- -द्यैः वैग ४, ३ :
 १०.

गन्धा(न्ध-अ)तुलिस,सा- -सः वौग
 १, १, २४; ५, १५; -साम् वौग १,
 १, २४.
 गन्धा(न्ध-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७८.
 गन्धा(न्ध-आ)भरणा(रा-आ)दि-
 -दीनि वैग २, १४ : १.
 गन्धा(न्ध-आ)मलका(क-आ)दि-
 -दिभिः वैग ३, ९ : ४.
 गन्धा(न्ध-आ)हुति- -तिभिः काग
 १९, ७.
 गन्धो(न्ध-उ)त्सादन^e- -ने माग
 १, ९, २६^e.
 गन्धो(न्ध-उ)दक- -कम् कप्र २,
 ८, ८; अप २०, ३, २; -केन
 काग १७, २; विध ७३, १२; -कैः
 वौग ३, १०, ४; गौघि १, ४, १९;
 २, ३, १६.
 गन्धौ(न्ध-ओ)पधो- -धीभिः जैग
 २, ५ : १३.
 गन्धक- प्रसू. गन्ध-द्र.
 गन्धन- प्रसू. √गन्ध् द्र.
 गन्ध-पान- गन्ध-द्र.
 गन्धपिङ्गला^f- (> गन्धपिङ्गलेय-
 पा.) पाग ४, १, १२३.
 गन्ध-पुष्प- प्रसू. गन्ध-द्र.
 गन्धरायण^g- -णाः वौश्रौ १९ : १.
 गन्धर्व^h- पाठभो २, ३, १२६; पाग
 ५, ४, ३८ⁱ; -र्वं पाग १, ११,
 २; -र्वैः आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ
 ५, १०, २५; १२, २०, २; काश्रौ
 २, ८, १; आश्रौ २, ९, ५; १५,
 १६, ९; वौश्रौ १, १३ : २०; ३,
 १३ : १२; ६, १६ : ७; ९, १६ :

a) विप. । वस. । b) = पर्वत-विशेष- । उस. । c) नासां गन्धवहः इत्यस्य स्थाने नासा गन्धावहः इति लासं. । d) विप. (वासस्-) दस. मत्वर्थे अच् प्र. । उप. = उद्धर्तन- । e) ञ्योत्सद् इति पाठः? यनि. शोधः [तु. मूको., भाष्यकारः, Knauer (पक्षान्तरोतु. पदसूची)] । f) व्यप. । व्यु. ? । शुद्धपिङ्गला- इति पाठा. । g) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । h) वैप १ द्र. । i) तु. पागम. ।

१६; ११, २ : ३; १८, ४६ : ६९;
 भाश्री २, ९, ३×४; माश्री १, २,
 ६, ८; वाधूश्री ४, ४७: ३९; वाश्री
 १, ३, ३, १४; वैश्री; या २, ६; -र्वम्
 वौश्री ८, १४: ४०; १८, ४६: ८;
 वैश्री १६, १८ : १७; काग २५,
 ३५; वैग-३, ४: ३; अप १, ४५,
 ५; वृदे ७, १३०; -र्वस्य आश्री
 ४, ७, ४; शाश्री ५, १०, २३; कौग
 १, १२, २; शांग १, १९, २;
 अश १४, २; नाशि १, ४, १२;
 -र्वाः आश्री १०, ७, ३; शाश्री
 १६, २; ८, आपश्री २२, ११,
 ८; ऋश्री ११, ६ : २२, २४,
 २७ : १२; वाधूश्री ४, ४७ : १;
 २; ११६ : १; हिश्री १७, ५,
 ५; वैताश्री ३६, २७; आपमं
 १, ७, ८; माग २, १८, २; अप
 ३३, ७, ५; ४८, १३७; ७१, १८, ३;
 हिध १, ६, २०; वृदे ७, ६८; अश
 १२, १; या ३, ८; अप्रा ३, ४,
 १; नाशि १, २, १३; २, ७, १२;
 -र्वाणाम् शुश्री १, १६४; -र्वान्
 वैश्री २१, १५ : ७; ऋश्री
 ७, १, ६०; १५, ७, १०; आमिग
 २, ५, ३ : ३१; पाग २, १२, २;
 वौग ३, ७, २१; कौस् १०६, ७;
 कप्र २, २, ३-८; नाशि १, २, १५;
 -र्वाम्यम् शाश्री ४, १०, १;
 -र्वान् द्राश्री ३, ४, ३०; लाश्री
 १, १२, १६; आपमं १, ३, २;
 ४, २; कौग १, ७, १; शांग १,
 ११, ४; पाग १, ४, १६; आमिग;
 -र्वे काग १२, ३; -र्वेण वृदे
 ८, ५२; -र्वेभ्यः माग २, १२,

१७; अप २०, ७, ३; -र्वेषु वौश्री
 १७, ४१ : २; आपमं २, ४, ६; ७,
 २४; आमिग १, १, ४ : ३७;
 काग ४१, १८; माग २, २० : ५;
 माग १, २२, ११; वाग ५, ३०;
 हिग १, ८, ४; १०, ४; जैग १,
 १२ : ४२; अप ७१, १७, ९९.
 गन्धर्वाणी^७ - णी काग
 २०, २.

गान्धर्व, र्वा^८ - र्वः आग १, ६,
 ५; वैग ३, १ : २; १०; वाध १,
 २९; ३३; आपध २, ११, २०;
 वौध १, ११, ६; विध २४, १८;
 २३; २८; हिध २, ४, ३५; गौध
 ४, १०; -र्वम् अप ७०^३, १०,
 ५; वौध १, ११, १६; -र्वाः नाशि
 १, ७, १८; -र्वान् वैग ६, १२ :
 १०; -र्वे वैग ६, १२ : १०; -र्वेण
 वैग ६, १२ : ७; विध २४, ३७.

गान्धर्वी^९ - र्वी अप
 ४८, १०२; अशां १६, १; निध
 १, ११०; -र्वीम् अशां १७, ५;
 -र्वीम् अशां १८, ७; १९, ८.

गान्धर्व, वेद^{१०} - दः चव्यूषः
 ११; -दम् शंघ ११६ : ३८;
 -दे याशि १, ६.

गन्धर्व-गण- णाः वौश्री १९, १० :
 २६.

गन्धर्व-नगर- रम् अप ६४, २, ८;
 ७२, ३, ६.

गन्धर्व-नामन्- मभिः माश्री ४,
 ४, २६.

गन्धर्व-पद- दम् अप ७०, १२, ५.

गन्धर्व-यजुस्- जूषि वौश्री ९, १६:
 १५.

गन्धर्व-राज- ञस्य चाश १४ :
 १; -जाय काग १७, १.

गन्धर्व-लोक- कम् वौषि १, ७ :
 १५; विध २४, ३७; ९१, १२.

गन्धर्व-लेना- नया सु २६, २.

गन्धर्वा (र्व-अ) प्सरस्- रसः
 आपश्री २२, ११, ६; वाधूश्री ४,
 ११६ : ३; हिश्री १७, ५, ४;
 वैताश्री ७, २२; निसू. ७, ७ :
 २६; ऋश्री ४३, २, ३१; ४५, २,
 १०; शंघ ११६ : १६; वृदे ७,
 ७१; ८, ११४; शुश्री २, ३३२; अश
 २, ३; ८, १० (५) नाशि १, ७,
 ६; -रसाम् वौश्री १४, १८ : ९;
 चाश ३९ : ११; -रोभ्यः शाश्री
 ६, २, २; वाधूश्री ४, १०४ : १०;
 कौस् ४९, १२.

गन्धर्वाप्सरो-देवता- > ण्य-
 ण्यम् अश २, २.

र्वा (र्व-अ) प्स (र >) रा-
 -राम्यः आपश्री १४, ११, ३;
 वौश्री १९, ७ : ५७; हिश्री १०,
 ६, ९.

गन्धर्वा (र्व-अ) प्सरी (रा-श्री) षधि-
 -धीः अश ४, ३७?

गन्धर्वा (र्व-आ) हुति- तिः आमिग
 २, ५, ३ : ४६; वौग ३, ७, २८;
 -तीः वौश्री १०, ५० : १५;
 वैश्री १९, ६ : १३४.

गन्धर्वे (र्व-इ) तरजन- नेभ्यः माश्री
 १, ६, १, ४७.

गन्धर्वे-छा^{११} - छास् माश्री २, ५,
 २, २१.

गन्धर्वो (र्व-उ) रग-राक्षस- साः वृदे
 ५, १४५; ७, ६८.

o) पाठः ? गांध इति शोधः (तु. लास.) । b) स्त्री. लीष् प्र. आनुग्-आगमश्च उक्तं. (पा ४, १, ४९) ।

c) विप., नाप. (विवाह-विशेष-) । तस्येदमीयस् तत आगतीयो वा अण् प्र. । d) = शान्ति-विशेष- । e) = वाच्- ।

f) षधिः इति पाठः ? यन्ति. शोधः । g) वैष १. द्र. ।

गन्धर्वायण^१- ञः वौश्रौ १८, २६ :
 १३; -जाः वौश्रौ १८, २६:२०.
 गन्धर्वाहृति- प्रसृ. गन्धर्व- द्र.
 गन्धार^२- पाग ४, २, १३३; १३४; ३,
 ९३.
 १गान्धार^३- पा ४, २, १३३; ३, ९३;
 -राः अप ५६, १, ४; ५७, २, ५.
 ग, गान्धारि^४- पावा ४, २, ५२;
 -रयः वौश्रौ १८, ४४ : २३;
 -रिभ्यः अप ४६, ५, ५१.
 २गान्धार- पा ४, १,
 १६९^५; पावा ४, २, ५२^६; -रान्^७
 वौश्रौ १८, १३ : १.
 गान्धार-कलिङ्ग-
 मागध- -घान् हिश्रौ १७, २,
 ६२^८.
 गन्धारि-कलिङ्ग-मगध-
 -घान् आपश्रौ २२, ६, १८^९.
 गान्धारक^{१०}- पा ४, २, १३४.
 गण्डिका- (> गाण्डिक- पा.)
 गण्डिका- टि. द्र.
 गंगम^{११}- -मे आपश्रौ १०, ८, १०;
 शंश्रौ १६, ४, १.
 गमस्ति^{१२}- पाठभो २, १, १८५^१; पाग
 ६, ३, १०९^२; -ङ्गस्त्वयः अप ४८,
 ११२; निघ १, ५; २, ५; -ङ्गस्ती
 अप ४८, ८१; निघ २, ४; -ङ्गस्ती
 आपश्रौ १२, १४, १५; हिश्रौ ८,
 ४, १७; -स्त्वोः या ५, ४१.
 गंगमस्ति-पूत- -तः वौश्रौ ७, ५ :
 ३३; या ५, ६.
 गमस्ति-माला-> लित्- -लिति

अप ६५, २, २.
 गभीका^१- पाग ४, ३, १६७^३.
 गंगमीर, रा^४- पाठ ४, ३, ५९; -रः अप
 ४८, ६८; निघ ३, ३; या ११,
 २०; -रम् निघ १, १२;
 या १४, ११; -रा अप ४८,
 १०२; निघ १, ११; -राः
 आपश्रौ ३, ८, १; -रे अप ४८,
 ६०; निघ ३, ३०.
 गंगम् √गङ् द्र.
 गंगम- ग द्र.
 गंगम- √गङ् द्र.
 गंगमन्^१- -मन् काश्रौ १७, ५, १^५;
 शुभ्र २, १६१.
 गम्मिष्ठ- -ष्ठम् वौश्रौ १०, ५६:१२.
 गम्मर^१- -रम् निघ १, १२^१.
 गंगमीर, रा^१- पाठ ४, ३, ५; -रः
 शंघ २४४; -रम् आपश्रौ १६,
 २५, २^१; वौश्रौ ७, ५:७^१; वौश्रौ
 १८, १७:५३^१; हिश्रौ ११, ७,
 ४२^१; अप ३, १, १३; ४८,
 ७५^१; ६२, ४, २; ७०^३,
 ४, ३; ष्प्रा २, ४, ६; -ङ्ग
 वौश्रौ ८, १९ : १४^१; अप ४८,
 १०२; निघ १, ११; -ङ्गरे अप
 ४८, ६०; निघ ३, ३०; -ङ्गरेभिः
 आपश्रौ २, ७, ९^१; -ङ्गरेः^१
 वौश्रौ ३, ११ : २२; आपश्रु
 ३, १, १ : ८; ३ : ३४; वौषि २,
 ९, १३^२; भाग २, ११ : ५; १४ :
 १४; हिश्रु २, १०, ५^१; १३, २.
 गान्भीर्य- पा ४, ३, ५८.

गम्भीर-कर्मन्^१- -र्माणः या ११,
 १७.
 गम्भीर-प्र(ज्ञा >)ज्ञ^१- -ज्ञाः या
 ११, १७.
 गम्भीर-वेपत्^१- -पत्तः या ११,
 १७^१.
 गंगमीर^२- (> गान्मीर- पा.) पाग
 ४, २, ७५.
 गंगय^१- पाठभो २, ३, ७; पाग ६,
 १, २०३; -यः जैश्रौ ११:
 १८^१; अप ४८, ८७^१; ऋअ २,
 ५, ९; १०, ६३; वृदे ३, ५५;
 शुभ्र २, ४५३; साअ १, ८२; ८४;
 ङनिघ २, २, १०; ३, ४; -यन्
 शु १२, ६; वौश्रु २, २, १०^१;
 -यत्त्व चाअ ४२ : ६; -ये वृदे
 २, १३०.
 गय-साधन^१- -नम् ऋप्रा ७, ५३^१.
 गय-स्फान^१- पावा ६, १, ६५; -ङ्गन्
 आपश्रौ २, १, २७; ४, ८, ८; शंश्रौ
 ३, ७, ३; १५, ८; काश्रौ ५, १२,
 १०; वौश्रौ.
 गंगय, या^१- पाग ४, २, ८२; -यान्
 अप ४२, २, ४; निघ ८५, ६७;
 -यायाम् काण्ड ४५ : ६; शंघ
 १२४.
 गय-शिरस्^१- -रसि या १२, १९.
 गया(या-आ)दि- -दौ कप्र ३,
 १०, ९.
 गया-शीर्ष^१- -ईम् शंघ ११६:
 १३; -र्षे निघ ८५, ४; ६६.
 गया-स्थ- -स्थः दाघ ११, ४२.

a) व्यप.। व्यु. ?। b) =देश-विशेष-। व्यु. ?। c) =तद्देश-नास्ति-। d) =[गान्धारि-प्रजायाः]
 विषय-देश-। वैप १ द्र.। ग इति आपश्रौ, अप.। e) =तद्-राज-। f) =गान्धारि-। g) परस्परं
 पामे.। h) =१गान्धार-। i) वैप १ द्र.। j) < √भस् इति। k) हु. पागम.। < गो- [पृथिवी-]
 + √भस् [दीर्घौ] इति। l) =वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। m) गर्गरिका- इति पाका.। n) पामे. वैप १, १२१४ p द्र.।
 o) पामे. वैप १, १२१४ k द्र.। p) पामे. वैप १, १२१५ g द्र.। q) 'रः इति पाठः ? यनि. शोषः।
 r) विप.। वस.। s) अर्थः व्यु. च ?। t) =नगरी-विशेष-। व्यु. ?। u) =स्थान-विशेष-। पूष. ?।

१गर- ग द्र.
 २गर- पाग ३, १, १३४.
 ३गर^१- पाग ५, २, ३६; ६, १, १६०;
 पावाग ८, २, १८^b; -रः अग
 ४८, ७५^१; -रम् वौश्रौ १८,
 ४७ : १; २; २३; -रस्य निसू ७,
 ७ : ३२.
 गर-गिर - -गीः काश्रौ २२, १०,
 १६; आपश्रौ २२, ११, १; हिश्रौ
 १७, ५, ७; वौध ४, ८, १.
 गर-गोर्ण^२- -र्णम् आश्रौ ९, ५, १.
 गर-इ- -दः वाध ३, १६; शंघ
 २०१; विध ४५, १६; -दाः शंघ
 ४४०.
 गरदा(द-अ)सिद- -दौ शंघ
 ३७७ : २.
 गरदा(द-अ)सिद-प्रसह्यतस्कर-
 -रान् विध ५, ११.
 गरित- पा ५, २, ३६.
 गरुण-वत्- √गृ (निगरणे) द्र.
 गरभ- पाठना ३, १२१.
 गरमाण-रोहिन्- √गृ(निगरणे)द्र.
 गरजि^३- -जिः आज्यो ४, ५; १७;
 -जिना आज्यो ५, ८.
 गरि- (>गारिय-पा.) पाग ४, २,
 ९७^b.
 गरित्-, √गृ, गृ (शब्दे) द्र.
 गरिमन्- गुरु- द्र.
 गरिष्ठ- गुरु- द्र.
 गरी- पाग ४, १, ४१^b.
 गरीयस्- गुरु- द्र.
 गरीर- पाठना ४, ३१.
 गरुड^४- पाठ ४, १५६; -डः सु १३,

१; १४, ४; १७, ५; २०, २; ४;
 २१, ४; २२, १; २५, २; २६,
 ५; ३४, ३; -डम् सु ४, ४; ५,
 १; ३१, १; शंघ ११६ : ३३;
 -डस्य सु ४, १; २२, ३; २४, १.
 गरुड-हंस-वत् माशि १५, ८; नाशि
 २, ८, २४; याशि २, १०२.
 गरुडे(ड-इ)न्द्र-> ०न्द्र-ताक्ष-
 -क्ष्याः सु १, ५.
 गरुत्^५- पाठ १, ९४; पाग ८, २, ९.
 गरुत्-मत्^६- -फमतः वौश्रौ ३, २५;
 ४; भाश्रौ ३, १७, ७; माश्रौ; चाश्र
 १६ : १४^६; -मत्ति सु २२, २;
 -०मन् सु ७, ३; ११, २; ४; १३,
 ५××; -मन्त्वम् सु ३१, १; कप्र
 २, १, १६; वौध २, ५, २४^६; या
 ७, १८; -फमान् शाश्रौ १७, १७,
 १; आपश्रौ १६, १०, १२^३; १७,
 १५, ४; वौश्रौ; ङ्अश्रौ ४, ६;
 ५, १३; ६, १२; १००; ७,
 ८८; १०, ४; या ७, १८^७.
 गरुमती- -ती सु १२, २.
 गरुम(त>)नी^७- -ती
 शुश्र २, ८१^७.
 गरुमत्-संभव- -वे सु ४, ५.
 गरुथ- √गृ, गृ (शब्दे) द्र.
 गर्ग^८- पाठ १, १२८; पाग ४, १,
 १०५; १५१^१; -र्गः अप ५१,
 १, २; ६२, १, १; ऋश्र; -र्गस्य
 अप ५०, ४, ४; ५१, ५, ६^३××;
 -र्गाः^१ वौश्रौ १ : ४; १९; १; ६;
 -र्गानाम्^१ आश्रौ १२, १२, २;
 आपश्रौ.

गार्ग्य- पा ४, १, १०५; १५१;
 -०र्ग्य आश्रौ १२, १२, २^३;
 आश्रौ; -र्ग्यः वौश्रौ १६, २७;
 २३; लाश्रौ ७, ९, १४^२; कौसू;
 -र्ग्यम् कौश्र २, ५, ३; शांश्र;
 -र्ग्यस्य ऋप्रा ६, ३६; ११, २६;
 पा ८, ३, २०; -र्ग्याणाम् वैध ४,
 ३, ३; -र्ग्येण अप ७०^३, २३, १.
 गार्गी- -र्गी आश्र ३,
 ४, ४^६; कौश्र २, ५, ३; शांश्र ४,
 १०, ३; अप ४३, ४, २२.
 गार्ग्य-नालव- -वयोः पा ७,
 ३, ९९.
 गार्ग्य-पार्थश्रवस- -तौ कौसू
 १७, २७.
 गार्ग्य-पार्थश्रवस-भागलि-का
 ङ्कायनो(न-उ)परिवश्रव-कौशिक-
 जाटिकायन-कौसुपथि- -थयः
 कौसू ९, १०.
 गर्ग-त्रिरात्र^१- पाग ६, २, ८१;
 -त्रः शाश्रौ १६, २, २; वौश्रौ
 १६, २७ : २६; -फत्रम् आश्रौ
 १०, २, ६; -त्रेण आपश्रौ २२,
 १५, १; १८, ७; वौश्रौ २६,
 १८ : १०; हिश्रौ १७, ६, १९;
 ७, २.
 गर्गत्रिरात्र-शस्य- -स्याः आश्रौ
 १०, २, १५;
 गर्ग-वैद-च्छन्दोमा(म-अ)न्तर्वसु-
 पराक- -काः काश्रौ २३, २, ८.
 गर्ग-भार्गाव- > ०विका^३- >
 ०विका-ग्रहण- -णम् पावा ४,
 १, ८९.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पागम. । c) = जल- । d) = [तदाख्य-]करण-वशेष- ।
 व्यु. । e) वैप १ गरुत्-मत्- टि. द्र. । f) = ऋषि-विशेष- । g) विप. (ऋच्-) । h) ०त्मी इति पाठः ?
 यति. शोधः (तु. उ. [मा १२, ४]) । i) तु. पाका. । गर्ग- इति भाण्डा. पागम. । j) बहु. < गार्ग्य- ।
 k) गर्गी इति पाठः ? यति. शोधः (तु. कौश्र. प्रच.) । l) = अहीन-विशेष- । m) मैथुनिके अर्थे लुच् प्र-
 (पा ४, ३, १२५) ।

गर्ग-वत् आपश्चौ २४, ७, ९; १०;
 वौश्रौष १९ : ८; ९; हिश्रौ.
 गर्ग-वत्स- पाग ६, २, ३७.
 गगर्ग^अ- पाडमो २, ३, ३५; पाग ४,
 १, १५१९; -रस्य हिश्रौ १, ७,
 २५.
 गार्ग्य- पाग ४, १, १५१.
 गार्गिका- गर्गीका- टि. द्र.
 √गर्ज्, पाषा. भ्वा. चुरा. पर. शब्दे,
 गर्जते अप २९, २, २; ७१, १४,
 ३; गर्जन्ति अप ७०^३, २१, ५.
 गर्ज- (> १ गर्जित- पा.) पाग
 ५, २, ३६.
 गर्जन- नम् अप ६१, १, १९; २१;
 ७०^२, २, ३; -ने अप ६१, १,
 २४; ७१, १, ४; ५; २, १.
 गर्जमान- -नः अप ६२, ४, २;
 -नेपु अप ६१, १, २१.
 रगर्जित- -तम् अप ७०^३, १७, ३.
 गर्त- पाड ३, ८६; पाग ४, २, ७७;
 ८०^३; ९०; १२७^६; -र्तः माश्रौ
 ४, १, २१६; अप ४८, ८९^६; निघ
 ३, ४^६; या ३, ५७; -र्तम् काठश्रौ
 ६३; ९८; वौश्रौ ६, ८ : ६××;
 माश्रौ; या ३, ५१; -र्ताः कप्र
 १, १०, ६; -र्तान् वौश्रौ ६, २५ :
 १६; -र्ते माश्रौ १, ८, ४, ४१;
 आगृ २, ८, १५; ४, ५, ७; कौश्रु;
 कौसू ४९. २३^१; -र्तेषु आगृ २,
 ८, १४; -र्तौ वौश्रौ १७, ३५ : ३.
 गर्त- पा ४, २, ७७.
 गर्तक- पा ४, २, १२७.
 गर्तकूल- (> गर्तकूलक- पा.)

पाग ४, २, १२७.
 गर्त-प्रस्रवण- णे अप ४२, १, २.
 गर्त-मित्- -र्मित् वौश्रौ १७,
 १३ : ३; २६, २३ : १७; -मितम्
 आपश्चौ १४, ६, ७; वौश्रौ १७,
 १३ : १; २६, २३ : १५; हिश्रौ
 ९, ८, २१.
 गर्त-सद्- -सद्म् आगृ ३, १०,
 १०^१.
 ऋगर्ता(त-आ)रुह- -रुक् या ३,
 ५७.
 गर्ता(र्त-आ)रोहि(न >)णी- णी
 या ३, ५.
 गर्तिक- पा ४, २, ८०.
 गर्तिन्- पा ४, २, ८०.
 गर्तीय- पा ४, २, ९०.
 गर्ते-छा- -छाः या ३, ५१.
 गर्ते(र्त-उ)त्तर-पद- -दात् पा, पावा
 ४, २, १३७.
 √गर्द् पाषा. भ्वा. चुरा. पर. शब्दे.
 गर्दत्त- -नम् अप ४८, ८०^१.
 गर्दभ- पाड ३, १२२; -भः आपश्चौ
 ९, १४, १४^१; वौश्रौ २४, ५ :
 १९; २५, २९ : ४^२; भाश्रौ ९, १६,
 १७; वाधूश्रौ; -भम् आपश्चौ ९,
 १५, १××; वौश्रौ; -भस्य
 आपश्चौ १६, २, २; ३, १०; हिश्रौ
 ११, १, १३^१; ३७; -भात् लाश्रौ
 ९, ८, १६; -भान् मागृ २, १४,
 ११; वैगृ ६७ : ११; -र्भे
 वौश्रौ २, ५ : ३; १०, ४ : १२;
 भाश्रौ; -भेन आपश्च १, २६, ८;
 हिघ १, ७, १९; गौध २३, १७;

-भौ शाश्रौ १२, २४, ३१.
 गर्दभी- -भी कौसू ११०, १.
 ?गर्दभी-सुख- > गर्द-
 भीसुख- -खाः वौश्रौष ४३ : ५.
 १गर्दभ^म- -भम् आपश्च १, ३२,
 २५; हिघ १, ८, ६६.
 २गर्द(भ >)भी^म- -भीम् शुभ्र
 २, १७.
 गर्दभ-ऋश्य-भास- -सानाम् अप
 ७०^३, ६, ६.
 गर्दभ-चर्म-वासस- -साः वौष २,
 १, ३.
 गर्दभ-प्रथम- -माः आपश्चौ १६,
 २, ४.
 गर्दभ-प्रवेश- -शे काध २७६ : ८.
 गर्दभ-मन्त्र- -न्त्रः वौश्रौ २२, १ :
 २०.
 गर्दभ-सुख- -खेन अप १, ३२, १०.
 गर्दभ-रशना- -नाम् वैश्रौ १८, १ :
 १७^३; -नायाः वौश्रौ २२, १ : ६.
 गर्दभ-सुग्रीव- -वः भागृ २, २१ :
 ८; ९^१.
 गर्दभा(भ-अ)जिन- -नम् विघ २८,
 ४९.
 गर्दभाजिनन्- -नी शंघ ३७९.
 गर्दभे(भ-इ)ज्या- -ज्या काश्रौ १,
 १, १३.
 ?गर्दूल- -लः वाधूश्रौ ३, ६९ : ३८.
 √गर्ध् पाषा. चुरा. पर. अभिकांज्ञा-
 याम्.
 गर्ध- , गर्धन- , गर्धित- √गृध् द्र.
 गर्भ- पाड ३, १५२; -र्भः शाश्रौ
 १५, ७, ८; १७, ११; काश्रौ २६,

a) = राजर्षि-विशेष- , कलश- । b) वैप १ द्र. । c) पृ ९७९ j द्र. । d) 'र्जा- इति पागन. ।
 e) वैप १ निर्दिष्टयोरत्रसमावेशः द्र. । f) अर्थः ? । सहृत् तु. पागम. । g) वर्चगर्त- इति पाका. ? । h) = गृह- ।
 i) 'र्ते इध्मौ इत्यत्र संघिरार्थः (तु. संस्कृतः टि., मू LVIII चं) । j) = देश-विशेष- ? । k) = उदर- । व्यु. ? ।
 l) व्यप. । वस. । m) विप. । तस्येदमीयः षण् प्र. । n) विप. (कच्-) । o) विप. । पस. > वस. । p) 'नम्
 इति पाठः ? यनि. शोधः । q) विप. (मणि-) । वस. । r) अर्थः व्यु. च ? ।

४, १३३; आपश्चौ ९, १९, २३; १४, २९, १३; १६, ३, ९; ३२, ४३; वौश्रौ ५, ९ : १९××; माश्रौ; आपमं १, १२, ५; ८^३; २, ११, १७^७; १८^७; २६^७; पाण्ड ३, ३, ५^७; हिण्ड १, २५, १^७; या २, १९; १०, २३^७; १३, ३०^३; ३९; १४, १६^३; -र्भम् आश्रौ २, ७, १३; ३, १०, ३१^७; १०, ९, ५; शाश्रौ; आपश्चौ ५, ८, ८^३; ९, ४, १^७; १८, १२^७; आपमं १, १२, १^७; ६^३; ७^३; पाण्ड १, १३, १^७; माण्ड २, १८, २^७; हिण्ड १, २५, १^७; या ३, ६; ४, २१^३; ६, १२; -र्मस्य शाश्रौ १३, ३, ५; काश्रौ २५, १०, ६; आपश्चौ ९, १९, ८; १२; वौश्रौ; चाश्र २ : १४^३; या १०, ३९; -र्भाः शाश्रौ १४, ४९, ३; काश्रौ २५, ११, १९; वौश्रौ २, १० : ३२; १०, ४२ : ६; माश्रौ; या ४, २१; १४, २९; -०र्भार्भाः आपश्चौ १२, ३, २; वैश्रौ १५, ३ : ९; हिश्रौ ८, १, ४१; जैश्रौ ९; ८; -र्भानाम् वौषि ३, ६, २; वृदे ५, ८६; ८, ६६; -र्भान् वौश्रौ १०, ३४ : १७; वाघ ११, ५०; ५१; अश्र १०, १३; पाणवा ५, २, ३६; -र्भान् शाश्रौ ३, १८, १४^६; आपश्चौ ६, ११, ५; १३, ९, ११; माश्रौ; -र्भम् आश्रौ ९, ७, २; शाश्रौ १२,

३, ११; आपश्चौ १, ८, ७; २०, २०, ९; हिश्रौ १४, ४, ३८; कौण्ड १, १२, ६^३; शाण्ड १, १९, १२^३; आपण्ड; -र्भम्भ्यः आपश्चौ ६, ११, ५; माश्रौ ६, १३, ६; वाश्रौ १, ५, २, ४५; हिश्रौ ३ ७, ९३; -र्भेषु कौण्ड १२४, ३३; -र्भौ वौश्रौ २६, ८ : १२. गर्भ-कर्तृ- -र्ता ऋश्र २, १०, १८४. गर्भ-कर्मन्- -र्मणि वृदे ५, ९२. गर्भ-क्ता (म >) मा- -मा कौण्ड १, १०, २४^३; शाण्ड १, १७, ९; पाण्ड १, ९, ५; -मायै शाश्रौ ५, १४, १२. √गर्भकाम्य > गर्भकाम्या- -स्यया वृदे ७, ५. गर्भ-कारम् आश्रौ ९, ११, ४; वैताश्रौ २७, १८; निण्ड ८, २ : २७. गर्भ-गृह- -हे आश्रिण्ड २, ६, ४ : २३; शंघ १३२. गर्भ-ज- -जः अश्र १३, ४, १. गर्भ-नृतीय- -ये जैण्ड १, ११ : १. गर्भ-दशम- -मेण्ड कौण्ड २, १, २; शाण्ड २, १, ३. गर्भ-दंहण- -णानि कौण्ड ३५, १२; -णाय अश्र ६, १७. गर्भदंहण-देवता- > षत्य- -त्यम् अश्र ६, १७. गर्भ-द्वादश- -शेष विध २७, १७; -शेषु कौण्ड २, १, ४; शाण्ड २, १, ५; आपण्ड १०, ३; वौण्ड २, ५,

२; भाण्ड १, १ : ५; वाण्ड ५, २; गोण्ड २, १०, २; आपण्ड १, १, १९; हिण्ड १, १, २१. गर्भ-ध- -धम् वौश्रौ १५, २९ : ३५^३. गर्भ-नवम- -मेण्ड भाण्ड १, १ : ६. गर्भ-निधा (न >) नीण्ड- -नीम् या ३, ६. गर्भ-पतन- -ने वाघ ४, ३४. गर्भ-पुरोडाश- -शम् आपश्चौ ९, १९, ६; ७; १३; वैश्रौ २०, ३८ : ७; हिश्रौ १५, ८, १९; २६; २८; -शेन आपश्चौ ९, १९, ७. गर्भ-भर्तृ-संयोग- -ने पावा ४, १, ३२. गर्भ-भूत- -ताः अश्र ६५, १, ७; -तानि निण्ड ८, २ : ५१. गर्भ-मास- -सस्य गोण्ड २, ६, १; -से आण्ड १, १३, २; १४, १; काण्ड ३१, १; माण्ड १, १५, १; १६, १; वाण्ड १६, ५; ७; -सेण्ड काण्ड ३२, २. गर्भमास-तुल्य- -ल्याः सुधण ८४ : २; -ल्यानि सुध १९. गर्भमास-स (म >) मा- -माः गौध १४, १६. गर्भमास-संमि (त >) ता- -ताः वौध १, ५, १११. गर्भ-रक्षण- -णम् कौण्ड १, १३, १; शाण्ड १, २१, १. गर्भरक्षणा (ए-अ)थ- -थम् अश्र ८, ६. गर्भ-रस- -सम् आपश्चौ ९, १९, ९;

a) सपा. गर्भः <> गर्भे इति पाठे. । b) पाठे. वैप १, १३७७ h द्र. । c) पाठे. वैप १, १२१७ h द्र. । d) पाठे. वैप १, १२१७ j द्र. । e) पाठे. वैप २, ३ खं. गर्भम् तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. । f) पाठे. वैप २, ३ खं. गर्भम् तैत्रा १, २, १, १४ टि. द्र. । g) पाठे. वैप १, ११८५ ० द्र. । h) पाठे. वैप १ पुत्रम् खि ४, १३, ३ टि. द्र. । i) पाठे. वैप १, १२१८ d द्र. । j) = ऋषि-विशेष- । k) गर्भम् इति सार्धयानिति C. (तु. तैत्रा २, ४, ५, ७) । l) षमः इति पाठः ? युनि. शोषः (तु. शाण्ड. पाण्ड. च) । m) = शस्त्र-विशेष- इति MW. । n) परस्परं पाठे. । o) वैप १ द्र. । p) विप. । उत्तं. उप. अधिकरणे ह्यत् ।

-साय आपश्चौ ९, १९, ५.
 गर्भ-लम्बन^a - नम् आगृ १, १३, १.
 गर्भ-वत् वैगृ ६, ३ : २; वृदे ५, ८५.
 गर्भ-वत् - वन्ति निस् ८, २ : २६;
 २७; ४४.
 गर्भवती - ती वौश्रौ २४, १८ :
 १६.
 गर्भ-त्रास - से शंघ ३७०.
 गर्भ-वासिन् - सी शंघ ३७७ : २३.
 गर्भ-विधान - नम् निस् ८, २ : ४७.
 गर्भ-विनिःसृत - तानाम् काथ
 २७४ : २.
 गर्भ-वेदन - > न्त-पुंसवन^b - नैः
 वैताश्रौ १२, १४.
 गर्भ-वेदि(न् >)नी^c - न्यः मागृ
 २, १८, २.
 गर्भ-शासन - नम् आपघ १, २१,
 ८; हिघ १, ६, ३८.
 गर्भ-संस्कार - राः वैगृ ६, ३ : १२;
 -रान् वैगृ ६, ३ : ९.
 गर्भ-संस्त्राव - वे ऋथ २, १०,
 १६२; अथ २०, ९६१^d.
 गर्भ-सङ्ग - ङ्गे वैगृ ३, १४ : ४.
 गर्भ-स्पन्दन - ने शंघ १५.
 गर्भ-संज्ञन - ने मुध १९; सुधप
 ८४ : २.
 गर्भ-स्रवण - णे वौषि ३, ६, २.
 गर्भ-स्त्राव - वे वौध १, ५, १७;
 विध २२, २५.
 गर्भस्त्रावि(न् >)णी - णी ऋथ
 २, १, १०१; ५, ७८.
 गर्भा(र्भ-आ)दि - दिः वौध १, २,
 ८; गौध १, ९; -दिभिः वैगृ ३,
 ९ : १२.

गर्भा(र्भ-आ)धान^e - नम् कागृ ३०,
 ८; ङ्गवैगृ ६, ३ : ४; कप्र १,
 ५, ५.
 गर्भाधान-काल - ले वैगृ ६,
 ३ : १.
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 जातकर्म-नामकरणो(ण-उ)पनि-
 प्कामणा (ण-अ)नप्राशन-चौलो-
 (ल-उ)पनयन-व्रतचर्या (र्या-अ)
 ध्ययन-समावर्तन-विवाह-यज्ञ-
 दाना (न-आ)दि - ङ्गिनि
 सुध ५.
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 जातकर्म-नामरक्षण (ण-अ)नप्रा-
 शन-चौलो(ल-उ)पनयन - नम्
 गौध ८, १३.
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 विष्णुबलि-जातकर्म-नामकरणो
 (ण-उ)पनिष्कामणा(ण-अ)न-
 प्राशन-चौलो(ल-उ)पनयना (न-
 आ)दि - दिः वौगृ ४, ६, १.
 गर्भाधान-वत् वैगृ ६, ३ : ६.
 गर्भाधाना(न-आ)दि - दिः वैगृ
 ६, ७ : ४; -दिषु शंघ २८;
 -ङ्गिन् वैगृ ६, ६ : ७.
 गर्भाधानादि-क्रिया - याम्
 वैगृ २, १, २.
 गर्भाधानादि-चतुर्थ - थै वैगृ
 ३, ११ : १.
 गर्भाधानादि-चौडका(क-अ)
 न्त - न्तेषु वैगृ ६, ६ : ३.
 गर्भाधानादि-वर्ष - र्षे वैगृ
 २, ३ : १.
 गर्भाधानादि-संस्कार - रम्

वैगृ ६, ७ : ६; -रान् वैगृ २,
 ३ : ८; -रेषु वैगृ ६, २ : १०.
 गर्भाधानाद्य (दि-अ)ष्टम-
 मे वैगृ ३, १२ : १.
 गर्भा(र्भ-आ)धानकर्त्ता - कम् आज्यो
 ९, ५.
 गर्भा(र्भ-अ)र्थ - र्थम् वृदे ५, ८३;
 ८५; ८, ८३; अथ ५, २५.
 गर्भा(र्भ-अ)र्थ-शिक्ष - शीः
 ऋथ २, १०, १८४.
 गर्भा(र्भ-अ)ष्टम - मे^f आगृ १, १९,
 २; पागृ २, २, १; शंघ-३१-३३;
 विध २७, १५; -मेपु^g कौगृ
 २, १, १; शांगृ २, १, १; आपगृ
 १०, २; वौगृ २, ५, २; भागृ १,
 १ : ५१; वागृ ५, १; गोगृ २, १०,
 १; वाध ११, ४९; आपघ १, १,
 १९; हिघ १, १, २१.
 √गर्भि, गर्भयेत् अप ७०^h, ७, १.
 गर्भित - पा ५, २, ३६.
 १गर्भिन्ⁱ - र्भिणः लुक् २, ६ : १.
 २गर्भि(न् >)णी^j - णा २, १, ७०;
 ४, २, ३८^k; -णयः^k आपश्चौ १९,
 १६, १०^l; -णी आपश्चौ २२,
 १०, १८; वौश्रौ १२, १९ : ७; १८,
 ३० : ६; वाश्रौ ३, ३, ४, ४४^m;
 निस् १, १० : २५; आपर्भः हिगृ
 १, २५, १ⁿ; -णीः हिश्रौ १०,
 ४, १४; -णीनाम् काश्रौ २४, ५,
 २८; काश्रौसं २१ : २२; २९ : २०;
 २२; मागृ १, ४, १५; -णीभिः
 वौश्रौ १२, २ : १४; -णीभ्याम्
 शाश्रौ १५, १४, १३; काश्रौ १५,
 ९, १२^o; -णीम् काश्रौ २५, ११,

a) = कर्म-विशेष-। उस. । b) = मन्त्र-विशेष-। द्रस. । c) = ऋग्-विशेष-। उस. । d) = स्तावे इति पाठः ? यनि. शोघः । e) = संस्कार-विशेष-। f) विप. । वस. । g) परस्परं पामे. । h) अर्थः ? । i) विप. (योपित्-प्रयु.) । वैप १ द्र. । j) = क्षेत्रभक्ति- (तु. पागम.) । k) वैप १, १२, १९ । द्र. । l) पामे. वैप १ पुत्रम् शौ ३, २३, ४ टि. द्र. । m) = ण्याम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. चौसं.) ।

१९; आपश्रौ १८, २१, १३;
 वौश्रौ १२, १९: ६×४; हिश्रौ;
 -णीषु लाश्रौ १०, १७, ३; -ण्यः
 आश्रौ ९, ४, १४; काश्रौ १२, ५,
 १४; वौश्रौ २४, ३८ : ४; -ण्या
 पा २, १, ७१; -ण्याः आमिगृ
 ३, १०, २ : १; वैगृ ६, ३ : ११;
 ७, ५ : ६; -ण्याम् वौषि ३,
 ९, १; -ण्यै वौध २, ३, ५७.
 गार्भिण- पा ४, २, ३८.
 गार्भिणि-प्रायश्चित्त^०- -त्तम्
 आपश्रौ ९, १९, १४.
 गर्भे-तृप्त^०, गर्भे-दृप्त^०, गर्भे-
 धीर^०, गर्भे-सूर^०- पाग २, १,
 ४८; ६, २, ८१.
 गर्भे(भे-ने)कादश- -क्षे^० विध २७,
 १६; हिध १, १, २१; -शेषु^०
 कौश्र २, १, ९३; शांश्र २, १, ४;
 आपगृ १०, ३; वौगृ २, ५, ३;
 भागृ १, १ : ५; वागृ ५, २;
 गोगृ २, १०, २; आपध १,
 १, १९.
 गर्भो(भ-उ)द्भव- -वाः अप ६४, ८,
 १०.
 गर्भो(भे-उ)पपत्ति- -त्तिः निस् ८,
 २ : ४८.
 गर्भुत्^०- पाउ १, ९५.
 गर्भुत्^०- -तः हिश्रौ २२, ५, २३;
 -तम् वौश्रौ १३; ३६ : १; ३;
 -ताः वौश्रौ २४; ५ : १८; -ते

माश्रौ ५, १, ९, २४; २५.
 गर्भुत्-सप्तम^०- -माः आपश्रौ
 १६, १९, १४.
 ✓गर्व^० पाधा. भ्वा. पर. दर्पे; चुरा.
 आत्म. माने.
 गर्व^०- पाउ १, १५५; पाग ३, १, १३^०;
 ५, २, ३६; -र्वम् माशि १२, ६.
 ✓गर्वाय पा ३, १, १३.
 गर्वित- पा ५, २, ३६.
 गर्वर- पाउ २, १२१.
 ✓गर्ह^० पाधा. भ्वा. आत्म. कुत्सायाम्;
 चुरा. उभ. विनिन्दने, गर्हते आपश्रौ
 २०, १८, ४; ६; वौश्रौ; गर्हन्ते
 आपध १, २०, ७; हिध १, ६,
 २१.
 गर्हते विध ९३, १२.
 गर्हणा- -णाम् विध ५५, १४.
 गर्हमा(ख >)णां- -णाम् वौश्रौ
 १५, २९ : ३१.
 गर्हा- -र्हायाम् या २, २; पा ३,
 ३, १४२; १४९; ६, २, १२६;
 पावा ३, ३, १४२.
 गर्हा-प्रभृति- -तौ पावा ३, ३,
 १४१.
 गर्हित, ता- -तः कप्र २, २, १२;
 वाध २, ४१; वौध १, ५, ७९;
 -तम् आगृ २, ८, ३; ५; भागृ;
 -ताः आपगृ ३, १२; -तेन विध
 ५४, २८.
 गर्हिता(त-अ)ध्यापक-याजक-

-काः वाध २३, ३६.
 गर्ह्य- -र्ह्यः या १, १४; -र्ह्यम् पा
 ४, ४, ३०; -र्ह्याय पावा ४, ४,
 ३०.
 गर्ह्य-पणितव्या (व्य-अ)निरोध-
 -धेषु पा ३, १, १०१.
 ✓गल्^० पाधा. भ्वा. पर. अदने; चुरा.
 आत्म. ह्वणे.
 गलन, ना^०- -नम्, -नाः या ६, २४^१.
 गालन^१- -नेन या ६, २४.
 जलगल्यमान- -नः या ७, १३^१.
 गल^१- पाग ४, १, ४५; ५६; २, ४९^१;
 पावा ८, २, १८^०; पागवा ५, २,
 ९७; -ले गोगृ १, २, २६; कौशि
 ३.
 गली- पा ४, १, ४५.
 गल-विल- -लस्य आशि ८, ७.
 गल-ल- पावा ५, २, ९७.
 गल-शु(ण्डक >)ण्डिका^०- -के विध
 ९६, ९२^०.
 गले-चोपक^०- पावा २, १, ३३.
 ग(ल्य >)ल्या- पा ४, २, ४९.
 गलडा^० (>)गालडि- पा.) पाग
 ४, १, ९६.
 गल्गा^०- -ल्गाः आपश्रौ ८, ७, १०^१.
 †१गल्दा^०- -ल्दया^१ निघ ४, ३; या
 ६, २४^०; शैशि ९२; -ल्दा
 निघ १, ११.
 †२गल्दा- -ल्दाः^१ माश्रौ १, ७, २,
 १८; या ६, २४^०.

a) पूष. ह्रस्वः (तु. पागम ७, ३, १०७) । b) तु. पागम. । c) परस्परं पार्श्वे. । d) वैप १ द्र. । e) विप. ।
 वसः । f) = दर्पे- । व्यु. ? < √गृ [शब्दे] इति पाउ., ✓गर्व इति अमा. MW. । g) वैप ३, २७१ h द्र. ।
 h) = रस- । भावे कर्तरि च प्र. । i) पृ ५५६ p द्र. । j) भाषः (क्षरण-) । k) = कण्ठ- । व्यु. ? । l)
 = मत्स्यबन्धन-विशेष- इति पागम., = वनस्पति-विशेष- इति MW. । m) = शरीरावयव-विशेष- । पस. । n) 'ल्लु^०
 इति जीर्ष. । o) = आमरण-विशेष- (तु. नागेशः) । उसः । p) व्यपः । व्यु. ? । q) = रगल्दा- । वैप १ द्र. ।
 r) पार्श्वे. पृ ९३८ m द्र. । s) = वाच्- । व्यु. ? < गल- + √वा इति दे. । t) वैप. १, १२१९ t द्र. । u) अर्थः
 व्यु. च ? । गल- + धा- (< √धा अधिकरणे) > नैप्र. यनि. ध्रमनि-पर्याय इति (तु. केचित् मूकोः, SEY. १०९. च) ।
 आ गल्दाः (आगलनाः) इति या. प्रभृ. पदमेकैः वुनायाश्चित्त्वाः (तु. स्वरः, पृ. ५५६ p; BNM च) ।

✓गल्म् पाधा. भ्वा. आत्म. धाट्ये.
 ✓गल्ह् पाधा. भ्वा. आत्म. कुत्सायाम्.
 ग(ल्ह्)ल्हा^१ -ल्हा अप्रा. ३, २,
 १३^१.
 गव- गो- द्र.
 गवय^२ - पाठभो २, ३, ७; पाग ४, १,
 ४१; -यः शांश्रौ १६, ३, १४;
 १२, १३; वाधूश्रौ ४, १९ : १९;
 ३० : ८; -यम् वौश्रौ १०, ३४ :
 १०^१; -याः अप-१, ८, ६; -ये
 वौश्रौ २, ५ : ६^१.
 गवयी- पा ४, १, ४१; पावा
 ४, १, ६३; -यी वाधूश्रौ ४,
 ३० : ८.
 गावय^३ -येन विध ८०, ९.
 गवल- पाठभो २, ३, ९८.
 गवाग्र- प्रसृ. गो- द्र.
 गवाद्ग- (> नी^४ - पा.) पाग ४, १,
 ४१.
 गवादिदक्षिणा- प्रसृ. गविनी-,
 गविष्-, गविष्टि- प्रसृ. गो- द्र.
 ?गवि-प्लुत^५ -ताय अप १, ४१, ५;
 अशां ११, ५.
 गवीडा- गो- द्र.
 गवीधुक, का^६ -काः आपश्रौ १६,
 १९, १३; वौश्रौ २४, ५ : १७;
 भाशि ५०^१; -कैः आपश्रौ १५,
 ३, १६; भाश्रौ ११, ३, ९.
 गावीधुक^७ -कम् आपश्रौ १७,
 १२, १; १८, १०, २०; वौश्रौ
 १०, ४७ : १५xx; माश्रौ ६, २,

४, ६; वैश्रौ १९, ६ : ४७;
 वाश्रौ २, २, ३, ९; हिश्रौ १२,
 ३, ८; १३, ४, १०; भाशि
 ५२^१.
 गवीधुक-यवागू- न्वा आपश्रौ
 १७, ११, ३; वैश्रौ १९, ६ : ३४;
 हिश्रौ १२, ३, ४.
 गवीधुक-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ
 १७, ११, ३; वैश्रौ १९, ६ : ३५;
 हिश्रौ १२, ३, ४.
 गवीधुका-ग्रहण- -णम् पावा ४,
 ३, १३४.
 गवीधुका-सक्तु- -क्तून् माश्रौ ६,
 २, ४, ३; वाश्रौ २, २, ३, ३^६.
 गवीनी^८ -न्याम्^९ आपसं १, १२,
 ६; माश्रु. २, १८, ४; -न्यौ
 वौश्रौ १४, १४ : २, १^१.
 गवेधु(क)का^{१०} -पाठभो २, २; २६;
 पाग ४, ३, १३६; -काः काश्रौ
 २६, १, ३; ११; -कानाम् काश्रौ
 १५, २, १२; -काभिः काश्रौ
 २६, १, २३.
 गावेधुक- पा ४, ३, १३६;
 -कः काश्रौ १५, १, २६; -कम्
 शांश्रु ५, ६, २; -के कांश्रौ १,
 १, १२.
 गावेधुका-सक्तु- -क्तून् काश्रौ १८,
 १, १.
 गावेर- पाठभो २, ३, ६०.
 ✓गवेष् पाधा. चुरा. उभ. मार्गणे.
 गवेप- (> गावेप- पा.) पाग ४,

२, ७५^६.
 गवेपण-, १, २गव्य- प्रसृ. गो- द्र.
 ✓गह्^१
 गहन^२ - पाठभो २, २, १९२^३; पाग
 ३, १, १८; ६, २, १७०; ८, ४,
 ३९; -नम् आपश्रौ २१, १२,
 ९^१; वाश्रौ ३, २, २, ३६^१; हिश्रौ
 १६, ५, ३^१; वैताश्रौ ३४, १^१;
 अप ४८, ७५; निघ १, १२; या
 १४, ११; -^१ने^४ आपश्रौ २;
 ११, १०; वौश्रौ १, १० : १६,
 भाश्रौ २, ११, ११; हिश्रौ १,
 ८, ३१.
 ✓गहनाय पा ३, १, १८; पावा
 ३, १, १४.
 गहन्^५ -हन्^६ माश्रौ ६, १, ७,
 -२२; वाश्रौ २, १, ६, ३६; -हना
 आपश्रौ २२, २६, १२; वौश्रौ
 १८, ९, ३८; हिश्रौ २३, ४, २७.
 गह^७ - ह्य वौश्रौ १०, ४१ : १०^१.
 गह्वर^८ - पाठ ३, १; -रः आपसं
 २, १७, २२^१; -रम् अप ४८,
 ७५^१; या १४, ११; याशि २,
 ६०; -^१रेषु आपश्रौ २, ११,
 १०; वौश्रौ १, १० : १६; भाश्रौ
 २, ११, ११; माश्रौ १, २, ४, ४;
 वाश्रौ १, १, २, १९; हिश्रौ १,
 ८, ३१.
 गह्वरेः(ष्ट)ष्टा^९ -ष्टा^{१०} वौश्रौ
 ६, २१ : १९; वाधूश्रौ ४, ६० :
 ७; वैश्रु १, २१ : २.

a) स्वरूपं पाभे. च वैप १, १२६९ i, j द्र. । सा. [श्रौ ६, २२, ३] तु = [स्तनयित्कुल्लक्षण-] वाच्- इति दृत्वा
 <✓गल्ह् [कुत्सायाम्] + कर्तरि कृदिति । संस्कर्तुः टि. अपि द्र. । b) वैप १ द्र. । c) गोरिवाऽयः (गमनम्) यत्येति
 कृत्वा वस. नैप्र. > यनि. इति पाठश्च [२, ६७] । d) विप. (मांस-) । विकारे अण् प्र. । e) = इन्द्रवारुणी-
 [लता-विशेष-] इति पागम. । व्यु. ? । f) पाठः ? । कवि-प्लु(<स्तु)त्- इति संस्कर्ता [अशां.] शोधुकः । g) 'वेधु'
 इति संस्कर्तुः टि. । h) पाभे. वैप १, १२२० f द्र. । i) पाभे. वैप १, १२२०, e द्र. । j) = गवीधुका- । k) तु.
 पाका. । श्वा- इत्यपि भारवा. । l) वैप १, १२२० j द्र. । m) = वन- । n) सपा. काठ ३६, १४ माश्रौ
 १, २, ४, ४ विचिष्टः पाभे. । o) पाभे. वैप १, १२१४ p द्र. । p) पाभे. वैप १, १२२० m द्र. ।

गह^१- (> गहीय- पा.) पाग ४, २,
१३८.

गहन- प्रसृ. √ गह द्र.

गह- (> रगह-र^०- पा.) पाग ४,
२, ८०.

१ गह- √ गह द्र.

√ गा^० पाथा. भ्वा. आत्म. गतौ, जु.

पर. स्तुतौ, गति निघ २, १४^१.

जगाति निघ २, १४^१; ऋजिगति

आश्रौ ४, १०, ४; शाश्रौ ५, १४,

१५; आपश्रौ; ऋजिगासि कौसू

४, २; जिगातु^० अप ४६, ३,

२^१; जगायात् निघ २, १४^१.

जगौ शाश्रौ १५, २६, १; ऋजिगम^१

आपश्रौ १९, २४, १०; आमिष्ट

२, ५, ३ : ४०; वौष्ट ३, ७, २६;

ऋजिगात् आश्रौ ३, १४, १२;

शाश्रौ ३, २०, ४^{१६}; काश्रौ;

ऋजिगात् आपश्रौ ९, १२, ४; १४,

२२, ३^१; वौश्रौ १८, १९ : ७^१;

भाश्रौ; आमिष्ट ३, ७, २ : २^१;

वौष्ट २, ४, १४^१; वौषि १,

१७ : २३^१; माष्ट १, २१,

८^१; त्राष्ट ४, १४^१; या ३, ४^१;

गुः वौश्रौ ६, १० : २०^१;

गाः वृदे ८, २८; ऋजिगात् आश्रौ

५, २, १४^१; शाश्रौ ६, ८, ६^१;

वौश्रौ १४, ९ : २९^१; भाश्रौ

१०, २२, ५; हिश्रौ १०, ८,

४४^१; जैष्ट १, १२ : २४;

ऋजिगात् आश्रौ २, २, ४, ५^१;

३, १, २, १९^१; द्राश्रौ ७, २, ७;

लाश्रौ ३, २, ७; आमिष्ट ३, ७,

१, २०; वौषि १, १७ : १८.

गाह- ऋजयन- प्रसृ. गज्ञा- द्र.

गाज- गाजवाज- गज- द्र.

गाडिकि- गडिक- द्र.

गाडुल्य- गड- द्र.

गाढ- √ गह द्र.

गाणकार्य- गणकारि- द्र.

गाणगारि^१- रिः आश्रौ २, ६, १६;

३, ६, ६; ११, १८; ५, ६, २५; १२,

१४; ६, ७, ४; ७, १, २१; ८, १२,

१९; १२, १०, १.

गाणपत- ल्ये- प्रसृ. √ गण द्र.

गाणस्पति^१- तयः वौश्रौ प्र २७ : ४.

गाण्डव्य- व्यायनी- रगरडु- द्र.

गाण्डि, ण्डी^१- > ण्डी, ण्डी^०- व^१-

पा ५, २, ११०; पाग २, ४, ३१.

गातागतिक- णुगतिक- √ गच्छ

द्र.

गातु^१- पाठ १, ७३; -तु^१ द्राश्रौ १२,

२, ५; लाश्रौ ४, १०, ४०; -तुः

ऋजिगात् आश्रौ २, १९, ३२; ५, १, ८;

शाश्रौ ३, १७, १^१; काश्रौ २५,

६, ७^१; अप ४८, ७२^१; ऋज

२, ५, ३२^१; सात्र १, ३१६^१; निघ

१, १९^१; ४, १; या ४, २५^१; ऋजुम्

आपश्रौ १, १, ४; ७, १६, ७^१;

वौश्रौ १, २१ : ३१^१ x x; भाश्रौ ४,

१, ३; माश्रौ १, १, १, १२^१ x x;

वाश्रौ १, २, १, २; वैश्रौ २०,

३६ : ५; हिश्रौ १, ४, ५५; ६,

८, ४^१; कौसू ८१, ३५; अप ४६,

३, २^१; अशां १४, २; या ४,

२१^१; २५.

ऋजिगात्-म(त >) ती- ल्या आपमं

२, १५, १९; पाष्ट ३, ४, ७; काष्ट

१२, १; माष्ट २, ११, १९.

√ गातुय, गातुय > या ऋषा ८,

३३^१.

ऋजिगात्-विद^१- वित् आश्रौ ४, १०,

४; आपश्रौ १, १, ४ x x; वौश्रौ

६, ३१ : ८; वैश्रौ १४, १६ : २;

हिश्रौ ६, ८, ४ x x; -विदः माश्रौ

५, २, १३, १^१; -ऋजिगदः

काश्रौ ३, ८, ४; ५, २, ९; आपश्रौ;

-विदौ माश्रौ ५, २, १३, १^१.

ऋजिगात्-वित्-तम- ऋः आश्रौ

४, १३, ७; माश्रौ १, ५, ३, ५;

वाश्रौ १, ४, ३, २७; जैश्रौ २२ : ६.

√ गातुय, गातुयन्ति ऋषा ९, ४६^१.

गातुव्य- √ गै द्र.

ऋजिगात्-णुयम् वाश्रौ ३, २, २, २.

ऋजिगात्-दास^१- सस् शंघ. ११६ : ५१.

१ गात्र^१- पाठ ४, १६९; -ऋजुम्

आमिष्ट ३, ६, ३ : १५; वौषि १, ११ :

- a) अर्थः व्यु. च ? । = ग्राम- (तु. पागम.) । b) = देश विशेष- ? । c) पा १, २, १; २, ४, ४५; ४९-५१; ७७ पावा १, १, ५९; २, ४, ४९; ७७ परामृष्टः द्र. । d) लघुशाखीयः पाठः । e) वैप १, १२२० W द्र. । f) पामे. वैप १, १२२० X द्र. । g) पामे. वैप १, १२०० j द्र. । h) पृ १७० अनुगात् इत्यत्र तु, गात् इति शोधः (तु. ऋ १०, १८, ४) । i) पृ १७० अनुगात् इत्यत्र अनु (कप्र.), गात् इति शोधः (तु. सा I तैत्रा २, ७, १७, २) । j) पामे. वैप १, १२२१ C द्र. । k) पामे. वैप १, १२०० d द्र. । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । m) व्यप. । व्यु. ? । n) = [मुष्टिग्राह्य-] दारु-खरड- (तु. पागम.) । व्यु. ? । o) तु. पाग. । p) = धनु-विशेष- । q) वैप १ द्र. । r) गातुवित्तमः (ऋ ८, १०३, १) इत्यस्य प्रतीकमात्रम् । s) = पृथ्वी- । t) = ऋषि-विशेष- । u) = गमन- (तु. या ४, २१) । v) गातुवित् [प्र १] > ऊह-विधया यनि. (तु. मै १, २, १५) । w) = मरुद्-विशेष- । व्यु. ? ।

१३; -त्रम्-त्रम्-आश्रौ ३, ३,
१; शाश्रौ ५, १७, ६; -त्रस्य वृदे
४, ३०; आशि ८, २०; २१; -त्रा
आपश्रौ १२, २४, १३^३; माश्रौ
२, ४, १, ३५^३; हिश्रौ ८, २,
२३^३; जैश्रौ १४: १८^३; वैताश्रौ
१९, १८^३; कौसू ६२, १७; अग्रा ३,
१, ७; -त्राणाम् वौश्रौ १४, १५:
१६^३; अप ६८, ५, ११; -त्राणि
शाश्रौ १०, १७, ४; काश्रौ ९,
१२, ४^३; आपश्रौ; -त्रे कौशि
३; -त्रैः अप ७०^३, ९, १; ७१,
६, ४.

गात्र-प्रहरण-ध्वज- -जान् अप
७०^३, ८, ४.

गात्र-भाज्- -भाजः वौश्रौ १४,
१५: १७^३.

गात्र-भेद- -दः अप ३, ३, १.

गात्र-शुद्धि- -द्धिम् वैश्र १, ३: २.

गात्र-शुभ- -भाः आश्रिण् ३, ४,
२: १६; वौपि ३, २, ३; गौपि
१, २, ४१.

गात्रा(त्र-आ)दि- -देः कौशि ४.

गात्रा(त्र-अ)नुलेपन- -नम् शंभ
१९७.

गात्रो(त्र-उ)त्सादन- -नम् कप्र ३,
६, १५.

गात्रोत्सादना(न-अ)जन-केश-
संयमन-पादप्रक्षालना(न-आ)
दि- -दीनि विष ३२, ६.

२?गात्र^३->गात्र-त्रीणा^३- -णा नाशि
१, ६, १^३; २.

गायक-, गाय- √गै द्र.

१गायिन्^३- -थिनि वृदे २, १३१; -थी
ऋञ् २, ३, १; १९.

गायिन्^३- पा ६, ४, १६५; -०न
आश्रौ १३, १४, ६^३; -नः ऋञ्
२, ३, १; साञ् १, ५४; ६२;
७९××; -त्रिनाः शाश्रौ १५, २७,
१^३.

गायिन्-भागव- -वौ वृदे
८, ७०.

०गायिन्-सामन्- -म जैश्रौ
२२: ६; जैश्रौका २१.

गायिन्: (सामन्-) आपश्रौ
५, १०, ११.

गायिनौ(न-श्रौ)वंश- -शौ
वृदे ३, ५६.

गाधि-पुत्र- -त्रः वृदे ४, ९५.

गाधि-सूनु- -नवे वृदे ४, ११२.

२गायिन्- √गै द्र.

गाद्-, गादायन-, गादि- रगद- द्र.

गादिकि- गदिक- द्र.

गादित्या[व्य] रगदिता, व] - द्र.

√गाघ् (= √गाह्) पाधा. भ्वा.
आत्म. प्रतिष्ठालिप्तयोर्ग्रन्थे च.

गाघ, घा^३- -घः या २, २; -त्रिधम्
आपश्रौ २१, २०, ७; पाश्र ३,
३, ५; भाशि ४८; -घाः या
२, २४; -घे आपश्रौ ६, ४,
७.

गाघ-लवण- -णयोः पा ६, २,
४.

गाघ-लवण- -णयोः पा ६, २,
४.

गाघेर^३- (> घेरकायनि- पा.)
पाग ४, १, १५८.

गात- प्रसृ. √गै द्र.

गान्तु- पाठ ५, ४३.

गान्त्र- पाठ ४, १६०.

गान्दिक- गान्दिका- द्र.

गान्धिपिङ्गलेय- गन्धिपिङ्गला- द्र.

गान्धर्व- , र्वी- प्रसृ. गन्धर्व- द्र.

१, २गान्धार- गान्धार- द्र.

३गान्धार^३- -रः नाशि १, ११; १३;

२, १; नाशि १, २, ५; ७; १५;

४, १; ४; ६; ८; ५, १; ५; १^३;

१३; १६; ७, ३; भासू ३, २१;

-रम् याशि १, ८; नाशि १,

५, ३; -रस्य नाशि १, ४, ७;

-रे माशि १, ९; नाशि १, २,

११.

गान्धार-ग्राम- -मम् नाशि १,
२, ८.

गान्धारक-, गान्धारि- गान्धार-
द्र.

गाण्डिक- गण्डिका- द्र.

गामि^३- (> गामि-शाला- पा.)

पाग ६, २, ८६.

गामिन्-, गामिनी-, गामुक- √गन्ध्
द्र.

गाम्भीर- रगम्भीर- द्र.

गाम्भीर्य- १गम्भीर- द्र.

गायत्-, ंन्ती-, गायत्र-, ंत्री- प्रसृ-

√गै द्र.

गारित्र- पाठ ४, १७१.

गारुत्मती- गरुत्-मत्- द्र.

गारेट- पाठभो २, २, ११०.

गारेटकायनि- गाधेर- टि. द्र.

गारेध->धकायनि-गाधेर- टि.
द्र.

a) पाभे. वैप १, १२२२ ० द्र. । b) पाभे. वैप १, १२२२ h द्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) = वीणा-
विशेष- । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) = विश्वामित्र- । g) पाभे. वैप २, ३३. गायिनाम् ऐत्रा ७, १८
टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पागम. । व्यय. । व्यु. ? । गारेध- इति पाका., गौधेर- इति भाण्डा.,
गारेट- इति [पक्षे] पागम. । j) = स्वर-विशेष- । व्यु. ? । k) ग^० इति लासं. । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ?
गौमि- इति पाका., गोमि- इति पासि. ।

गारेय- गरि- द्र.
 गार्ग्य- गर्गर- द्र.
 गार्गी- गार्ग्य- प्रसृ. गर्ग- द्र.
 गार्त- गार्तक- गार्तकूलक- गर्त- द्र.
 गार्त्समद- गृत्समद- द्र.
 गार्दभ- गर्दभ- द्र.
 गार्भिण- गर्भिणी- द्र.
 गार्मुत- गर्मुत- द्र.
 गार्हपत- प्रसृ. √गृभ्, ह् द्र.
 गालडि- गलडा- द्र.
 गालन- √गल् द्र.
 गालव- -वः वृदे १, ३४; ५, ३९;
 ६, ४३; ७, ३८; शुभ्र २, ३४०;
 या ४, ३; शैशि ५; -वस्य पा
 ६, ३, ६१; ७, १, ७४.
 गालव-गडुल- पा २, २, ३८^b.
 गावय- गवय- द्र.
 गावामयनिक- गाविष्टिर- शायण-
 गाविष्टिल- ग्लायन- गो- द्र.
 गावीधुक- गवीधुक- द्र.
 गावेधुक- गवेधुक- द्र.
 गावेश- गो- द्र.
 √गाह^c, पाधा. भ्वा. आत्म. विलोडने,
 गाहेते हिश्रौ १०, ५, २६.
 गाढ- ढम् कप्र १, ८, २.
 गाढ-तर- -रम् काश्रौ ८, २, ४;
 वैश्रौ १२, २४ : १^द.
 गाह- (> ०ही- पा.) पाग ३, १,
 १३४^०; ४, १, ४१.
 गाहन- -नम् माश्रौ २, १, २,
 ३२.
 गाहमान- -नः कौसू २६, ३१.
 नाहि- (> २गाह- गोह- टि. द्र.

गिद- -०द द्राश्रौ ५, ४, १०;
 लाश्रौ २, ८, ११.
 गिघ्न- पावाग ३, २, ५.
 गिर्- √गृ, गृ (शब्दे) द्र.
 गिरण- गिरति-कर्मन्- √गृ
 (निगरणे) द्र.
 ? गिरसयोः चाश्र ३० : २३.
 गिरि- पाठ ४, १४३; पाग ४, २,
 ९७^b; ५, २, १००; -रयः
 वौश्रौ २५, १० : ३; आग ३,
 ४, १; कौय २, ५, १; ३, १५,
 ५१^१; शोय ३, १३, ४१^१; ४, ९,
 ३; अपः -रिः आपश्रौ १४,
 २०, ४१; वैश्रौ २१, ६ : ४; अप
 ४८, १०१; निघ १, १०१;
 या १, २००^f; -रिभिः सु ९,
 ३; -रिभ्यः या ६, ३३; उसू
 २, २३; -रिम् माश्रौ ५, १, १०,
 ६४; पाय ३, १५, १२; आमिष्ट
 ३, ९, ३:११; वौषि; -रिषु वौश्रौ
 १५, १६:८; वैताश्रौ ३०, १३१;
 अप ३२, १, ७१; ६५, १, २; ऋश्र
 ५, ४; ९, १; अप २:४१; -रीणाम्
 सु ९, ३; या २, २४; -रीन्
 आपश्रौ २१, १२, ३१; वौश्रौ २५,
 १० : २; हिश्रौ; -रेः आपमं
 २, २२, ५१; पाय ३, ७, २;
 वौय; या ५, १६१; पा ५,
 ४, ११३; -रौ आश्रौ १०, ८,
 १२; १३; शाश्रौ १६, ४, २१;
 काश्रौ; आपश्रौ १४, २९, ३१^१;
 हिश्रौ १५, ७, १६१^१.
 गैरिक^k - > का(क-आ)दि-

-दयः वृदे ७, ८०.
 गैरेय- पा ४, २, ९७; -यान्
 वौश्रौ १५, १६ : ८.
 गैरेयी- श्रौ वौश्रौ १८,
 २ : ५.
 गैरेय-कविमती- श्रौ वौश्रौ
 १८, ३९ : २.
 गिरि-क^१-पाग ५, ४, २९^b.
 गिरि-गह्वर-कानन- -नाः अप ६८,
 १, ४७.
 गिरि-गुहा- -हायाम् अप ४०,
 १, ६.
 गिरि-ज^२- -जाय आश्रौ १२, ९,
 १८.
 गिरि-ण, नख- पावा ८, ४, १०.
 गिरि-ण, नदी- पावा ८, ४, १०;
 पा, पाग ८, ४, ३९.
 गिरि-ण, नद- गिरि-णि, नि-
 तम्ब- पावा ८, ४, १०.
 गिरि-नगर- पा, पाग ८, ४, ३९.
 गिरि-निकाय- -ययोः पा ६, २,
 ९४.
 गिरि-निलया(य-श्र) मि-जीविन्-
 -विनः अप ५१, ४, १.
 गिरि-मिद्- -मिक् काश्रौ २५, १४,
 २२; आपश्रौ १४, २०, ४१;
 हिश्रौ १५, ५, २३; -मिदाम्
 आपश्रौ ११, २०, ५.
 गिरि-राजे(ज-इ)न्द^m-पुत्री->
 ०त्री-महेश्वर-प्रियसुतⁿ- -सुम्
 ऋश्र ३, १.
 गिरि-वर-पतन- -नम् अप ७०^३,
 ११, १४.

a) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । b) तु. पागम. । c) या २, २ परामृष्टः द्र. । d) सप्र. गाढतरम्
 <> संतराम् इति पाभे. । e) तु. पासि. । गाहा- इति भाण्डा., ग्राह- इति पाका. । f) वैप २, ३ खं. द्र. ।
 g) अर्थः व्यु. च ? । h) वैप १ द्र. । i) सप्र. गिरयः <> पर्वतैः इति पाभे. । j) पाठः ? गिरिः इति श्लेषः
 (तु. शौ ६, ४९, २) । k) = धातु-विशेष- । तात्रभविकप् ठञ् प्रः उसं: (पावा ४, ३, ६० । l) = कुमार्याः ।
 क्रीडनक-विशेष-, पापाण- । m) = हिमाचल- । n) = गणेश- ।

गिरि-शर्मन्- -र्मा कप्र २, ९,
१६.
गिरि-शङ्क-ज- -जः अप ५१,
१,४.
गिरि-छा^०- -छाः आश्रौ २, १०,
१४; आपश्रौ ११, ९, १; हिश्रौ
७, ५, ३५; अप १, ३६, ४; या १,
२०^३र्क; उस् ५, १.
गिरि-स्थायिन्- -यी या १, २०.
गिर्यो(रि-श्रौ)षधि- -ध्योः पावा
३, ३, १०४.
२गिरि^०-> गिरि-त्र- -०त्र शुप्रा
५, १७^१.
गिरि-श^०- पा ५, २, १००; पावा ३,
२, १५; -गिरि^० शुप्रा ५, १७^१.
गिरि-षद्- -षदे पागृ ३, १५,
१२.
३गिरि^०- (> गैरायण- पा.) पाग
४, १, ११०.
? गिरिददाय वाश्रौ ३, ४, १, ५.
गिर्वणस- √गृ, गृ (शब्दे) द्र.
गिल-, गिल-गिल- √गृ (निगरणे)
द्र.
? गीःकोश्वोच्यौः^१ वैताश्रौ ३४, ९.
गीर्त्वा √गृ (निगरणे) द्र.
√गु, गू पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वये;
शब्दे गती [निघ.] तुदा. पर.
पुरीपोत्सर्गे, गवते निघ २,
१४^१.
गून- पावा ८, २, ४४.
गूजोगू^०- -गुवाम् आपश्रौ १९, १७,

१३; वौश्रौ ३, ३० : १३; अप्राय
१, ३.
गुँ^० याशि २, ९४; शुप्रा ८, २४.
गुग्गुल^०- -लम् वैगृ ६७ : १४; अप
१९^२, ३, २; विघ ७९, १०; वैघ
२, ४, २.
गुग्गुल-गन्धि^०- -न्धयः^१ वाश्रौ ३,
२, ५, ४२.
गुग्गुल-सुगन्धितेजन- -ने^१ वैश्रौ
१०, ६ : ११^६.
गुग्गुलि^१- -लिः वौश्रौ ४६ : १.
गुग्गुलु^०- -पाग ४, ४, ५३; -लु अप
३३, ७, १; -लुः वृदे ७, ७८;
-लुम् अप ४०, २, ४; ६६, २, २;
अशां २०, ५^१; शंघ १९७.
गुग्गुल- पावा ४, १, ७१.
गौग्गुलव- (> वी- पा.)
पाग ४, १, ७३.
गुग्गुल-क, की- पां ४, ४, ५३.
गुग्गुल-कुष्ठ-धूप- -पम् अप ४, ४,
७, ५, १०; ६, २, २; १७, २, १४.
गुग्गुलु-गन्धि^०- -न्धयः^१ वौश्रौ
१६, २३ : १; वैताश्रौ ३४, ९.
गुग्गुलु-लवण- -णे कौस् १९, १९;
२०, २५.
गुग्गुलु-सुगन्धितेजन- -न्म्^१ भाश्रौ
७, ५, २; हिश्रौ ४, २, १५
गुग्गुलु-सुगन्धितेजन-वैतुदारु-
-रुभिः आश्रौ ११, ६, ३.
गुग्गुलु-सुगन्धितेजन-वृष्णेस्तुका^०-
-काः काश्रौ ५, ४, १५.

गुग्गुलु-होम- -मः अशां २४, ६^१.
√गुड् पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वये
शब्दे, शब्दे च.
गु(ङ्गु>)ङ्गू^०- -ङ्गूः वैगृ १, ६ :
११^०; वृदे ८, १२५.
गुड्गवा(लू-२आच >)या-
-घाः वृदे ४, ८७.
गुच्छ- पाउभो २, २, ८३.
√गुज् पाधा. तुदा. पर. शब्दे.
√गुञ्ज् पाधा. भ्वा. पर. अन्वये शब्दे.
गु(टक>)टिका^०- -काम् अप ३६,
१७, १.
√गुड् पाधा. तुदा. पर. रक्षायाम्.
गुडा, ल^०- पाउ १, ११५^१; पाग
४, २, ८०^६; ४, १०३; ६, २,
१९४^५; -डः शंघ १८१; वौघ
१, ५, १४; -डम् विघ ४४, ३०.
गौडिक- पा ४, ४, १०३.
गौ(ड>)डी^०- -डी विघ २२,
८२.
गुड-कार्पास-धान्य- -न्यानि शंघ
३९५.
गुड-तिल-हिरण्य-वस्त्र-गो-धान्या-
(न्य-आ)दि-प्रतिग्रह^१- -रेषु
शंघ १७.
गुड-धेनु- -नुम् अप ९, ३, १.
गुड-पायस- -सम् आम्रिष्ट २, ५,
७ : १५; ३, ११, ४ : १३; वौष्ट
१, ११, ११.
गुड-प्रिय- पावा २, २, ३५.
गुड-मिश्र- -अम् हिपि १७ : ८-

a) = आचार्य-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) वैप १, १२२४ f द्र.। d) पाभे. वैप १, ११६ १ क द्र.।
e) व्यप.। व्यु. ?। f) पाठः ? (तु. पाभे. पृ ४७९ h)। g) = यम-विशेष-। h) विप.। वस.।
i) सपा. गुग्गुल^० <> गुग्गुलु^० <> गुग्गुलु इति पाभे.। j) सप्र. लसुगन्धितेजने <> लसुगन्धितेजनम्
<> गुग्गुलुसुगन्धितेजनम् इति पाभे.। k) ०जिते इति पाठः ? यनि. शोघः। l) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?।
m) = गुग्गुल-। व्यु. ?। n) प. अलुक् द्र. o) ङुः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. ऋ २, ३२, c)। p) = वटिका-।
व्यु. ?। q) आम्रिष्ट. वौघ. वैघ. पाठः। r) <√गु इति पाठवृ.। s) अर्थः ?। t) तु. पाका.। गुघ-
इति भाण्डा. प्रमृ.। u) = हुरा-। v) दस. > वस. > पस.।

गुड-र^०-पा ४,२,८०.
 गुडा(ड-अक्रु<)का-कया अप
 ३५,१,८.
 गुडा(ड-आ)ज्य-फल-युक्त-कम्
 वैध ३ १०,३.
 गुडा(ड-आ)दि-दीनाम् विध २३,
 ३१.
 गुडौ(ड-ओ)दन-नम् आमिष्ट २,
 ५,१ : ३४; अप २०,३,४.
 गुडूची^०-पाठभो २,२,८०^०; पाग ४,
 १,४१.
 गुडेर-पाठ १,५८.
 √गुण् पाधा. चुरा. उभ. आमन्त्रणे.
 १गुण^०-पाग ४,२,६०^०; ६३^०; ४,१०२;
 ५,२,९५; ६,२,१७६; -णः अत्राय
 ४,२; अप ६८,२,५६^०; वृदे २,
 १०८; या ३,१४; ६,३६; आशि
 ४,७; याशि १,४८; मीसू २,१,
 ८; १८; २,५××; -णम् भाश्री १,
 ४,८; ७,९,३; हिश्री ४,२,६६;
 वैष्ट ५, १ : १७; अप ६३, १,
 ६; शुअ ३,११७; -णस्य पा ५,
 २,४७; पावा; -णाः शांष्ट १,
 २,२; वौध ४,१,२७; वृदे २,
 १०८; या १०, २३; शैशि;
 -णात् पावा २,२, ९; ६,२,
 ९३; मीसू १, २, ४७××;
 -णान् शंध २२६; आपघ २,
 १०,२; हिध २,४, २; वृदे ८,
 ६३; या १०, २३; १४, ५;
 -णानाम् काश्री १,५, ९; ८, १;
 मीसू १,४, १६; २, २, ६; ३, १,
 १५; २१; ४, ४, ४०××; -णे
 वौश्री ४,४ : ४०; माश्री १,८,
 २,२८; वैश्री; पावा १,४,५१;

३, २, १२६; -णेन वौश्री
 ४, ४ : ३६; वैश्री १०,९ : ९;
 या ३; १३; पावा १, २, ४५;
 मीसू १०,३,६; -णेषु काश्री १,
 ६,१०; आपश्री १२, २८, १५;
 काठश्री ३; १२; -णैः द्राश्री १,
 १,८; लाश्री; पावा २,२, ८; ९;
 -णौ शौच १,१.
 गौण-णः मीसू ३,३, १५; ८,
 २४; १०, ३, ७१; -णाः वैश्री
 ११,१० : १४; ११ : ३.
 १गौण-मुख्य->ख्य-
 प्रभेद-तस(:) शंध
 १००.
 १गौणिक-पा ४,२,६०; ६३; ४,
 १०२.
 गुण-कर्मन्-र्मणि पावा १,४,५१;
 २,३,६५.
 गुण-काम-मेषु मीसू ८,१,२३.
 गुण-कात्स्न्य-त्स्न्य पा ६, २,
 ९३.
 गुण-काल-विकार-रात् मीसू
 १२,१,२.
 गुण-ग्राम-पावा ४,२,३७.
 गुण-तस(ः) ऋअ २, १०, १०५^०;
 वृदे ५, १५६; साअ १, १९७;
 २३१.
 गुण-त्व-त्वम् मीसू १०,४,५४;
 -त्वात् काश्री १५,९, २८; २२,
 ८,१४; मीसू ३, ८, १२××;
 -त्वे मीसू ३, ८, ६; ९,१,९;
 -त्वेन मीसू ६,१,१; ६,११; ८,
 १,३४.
 १गुण-दोष^०-पः अप ५८^०, १, ७;
 ६३, १; ६.

२गुण-दोष-पान् अप २२,१, १;
 शंध २१८; -चौ विध ३२,१३;
 कौशि ४१.
 गुण-द्रव्य-व्ययोः काश्री १, ४,
 १७.
 गुण-प(द>)दी^०-पाग ५, ४,
 १३९.
 गुण-प्रधान-नेषु मीसू ११,१,९.
 गुणप्रधान-त्व-त्वात् पावा ५,
 ३, ५७.
 गुणप्रधान-भूत-तानि मीसू
 २,१,६.
 गुण-भाव->विन्->वि-त्व-
 -त्वात् मीसू ९,४,३६.
 गुण-भूत-तानाम् आश्री ३,१४,
 ५; -तेषु वृदे ५,९६.
 गुणभूत-ता-त्ता मीसू ४, १,
 २०.
 गुणभूत-त्व-त्वात् मीसू २,
 १,१४; २,२०; ४,७; ३,४,४०;
 ४२; ४,१,११; ७,१,३××.
 गुणभूत-विकार-रः मीसू १०,
 १,३०; -रात् मीसू १०,१,२२.
 गुण-भेद-दात् वृदे ५,४९.
 गुण-भोक्तृ-क्तृ विध ९७,१७.
 गुण-मात्र-त्रम् मीसू ६,३,२; ४२;
 ९,३,२०.
 गुण-मुख्य^०-(> २गौणमुख्य-
 पावा.) पावाग ४,३,८८.
 गुणमुख्य-विशेष-पात् मीसू
 १०,१,३९.
 गुणमुख्य-व्यतिक्रम-मे मीसू
 ३,२,९.
 गुण-युक्त-क्ताः शुअ ३,४२.
 गुण-योग-गात् काश्री १, ५,१३-

a) =देश-विशेष-?। b) =श्रोत-विशेष- c) <√गुड् [रक्षणे] इति। d) वप्रा.। =गौण-, भाग-,
 घर्म-, रज्जु- प्रभृ.। वैप १ द्र.। e) गण-, गुण- इत्यस्य स्थाने गुणागुण- इति पाका.। f) गुण-, चरम- इति
 द्विपदस्य स्थाने चरम-गुण- इति [पक्षे] पागम.। g) मलो. कस.। h) पूष. =तन्तु- (तु. पागम.।)। i) तु. पागम.।

गुण-लोप- -वे शांश्रौ ३, २०, १७;
मीस् १०, २, ६१; ४, ३४.

गुण-वचन- -नम् पावा १, ४, १; ६,
४, ५५; -नस्य पा ८, १, १२;
पावा २, १, ५५; ४, १, ३; ६, ३,
३४; -नात् काश्रौ २०, ७, २०;
पा ४, १, ४४; ५, ३, ५८; पावा
४, १, ४४; -नेन पा २, १, ३०;
पावा २, २, ७; -नेभ्यः पावा ५,
२, ९४; -नेषु पा ६, २, २४;
पावा २, २, २४.

गुणवचन-स्व- -त्वात् पावा ८,
१, १२.

गुणवचन-ब्राह्मणादि- -दिभ्यः
पा ५, १, १२४.

गुणवचन-वत् पावा १, २, ६४.

गुण-वत्- -वत् विध ७७, ९; पा ५,
२, ९५; -वतः मागु १, १६, २;
वाध ११, १८; -वति आमिगु
२, ७, १० : ३; शंघ १५८; -वते
शंघ १३५; वौध २, २, १२; ४,
१, १२; विध २४, १९; ९२, ३२;
-वत्सु विध २८, ९; -वन्तः
शंघ ४२; -वन्तम् गौध १५,
२१; -वान् शंघ ७; वौध २, २,
१२; १३.

गुणवत्-ता- -तया शंघ ८५.

गुणवत्-सहायो (य-उ) पाय-
संपन्न^a- -न्नः गौध ११, ४.

गुण-वर्जित- -न्तः आज्यो १३, ५.

गुण-वाक्य- -क्यात् मीस् २, ३, २^b.

गुण-वाद- -दः मीस् १, २, १०.

गुण-विकार- -राः आपश्रौ १४, १,
१; हिश्रौ ९, ७, १; आपशु १२,
१; हिशु ४, २१; -रे मीस् १०,
३, ३०.

गुण-विकृत- -न्तम् आपश्रौ २१,
२४, १.

गुण-विग्रह- -हः वृदे २, १०२.

१गुण-विधान- -नम् काश्रौ ४, ४,
३.

१गुण-विधि- -धिः मीस् ७, ३, १७;
११, ४, ४८.

गुण-विशेष- -घात् मीस् ३, ६, ४६;
-षे काश्रौ १, १०; ११.

गुणविशेष-योग- -गात् ऋप्रा
१३, १३.

गुण-वृत्ति- -न्तिः नाशि १, ३, १.

गुण-शब्द- -ब्दः मीस् ९, १, ३७;
-ब्देन मीस् १०, ३, ५६.

गुणशब्द-स्व- -त्वात् मीस् १०,
५, १५.

गुण-शासन- -नम् मीस् १०, ४,
२६^c.

गुण-शास्त्र- -स्त्रम् आपशु १३, ७;
१४, ११; हिशु ४, ५०; मीस्
१०, ६, ६४; ७, ६४.

गुणशास्त्र-स्व- -त्वात् आपशु
१२, १; हिशु २, २१; मीस् १०,
४, ५८.

गुण-श्रुति- -तिः मीस् ३, १, २६;
६, ४०; ४, २, २५; -त्तेः मीस्
१, ४, ६; -तौ मीस् १०, ४, २४.

गुण-संयुक्त- -क्तः मीस् ३, १, २५.

गुण-संयोग- -गात् मीस् ७, ३, ४;
१०, ३, २१; ६, ६८.

गुण-संस्कार-विधि- -धीन् गौध
१५, ६.

गुण-संपन्न- -न्नः गौध २८, ३६.

गुण-संमित- -ताः अप ५७, २, ७.

गुण-स्थान- -ने मीस् १०, ४, ३४.

गुण-हानि- -नौ काश्रौ १, ६, ५;

-न्याम् आपध २, १७, ५; हिध
२, ५, ३४.

गुण-हीन- -नः वाध १५, १२;
-नम् वौध ४, १, १६; -नाय
वौध ४, १, १२.

गुणा(ण-अ)गुण- (> गौणागु-
णिक)- गुण- टि. द.

गुणा(ण-अ)चार-परिभ्रंश- -शात्
वाध १८, ७.

गुणा(ण-अ)दि- -द्वयः पा ६, २,
१७६; -दिभ्यः पात्रा ४, २, ३७.

गुणा(ण-अ)नुग्रह- -हात् काश्रौ १,
४, १९; ६, १.

गुणा(ण-अन्त >)न्ता^d- -न्तायाः
पा ५, ४, ५९.

गुणा(ण-अ)न्वित- -न्तः कप्र २, ५,
८; -न्तम् जैश्रौका ७; -ताय
कप्र २, ५, ८.

गुणा(ण-अ)पाय- -यात् मीस् ९,
३, ४२^e.

गुणा(ण-अ)भाव- -त्वात् मीस् ३,
२, ७.

गुणा(ण-अ)भिधान- -नम् मीस् ८,
४, ५; -नात् मीस् ३, २, २६; ७,
१०.

गुणा(ण-अ)भिधायक- -कानि वृदे
५, ९५.

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

गुणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् २,
१, ४१; -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६;
वृदे ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,
१, ४८^f; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;
-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २२^g;
८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;
-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

a) विप. । कस. > दस. > वृत्. । b) क्यत्वात् इति जीसं. । c) श्वास्त्र- इति जीसं. । d) बस.
पुप. = आवृत्ति- । e) णानपा इति जीसं. ? । f) र्थेन इति जीसं. ? । g) र्थः इति जीसं. ? ।

१७; ३, ६, २७.
 गुणार्थ-त्ता- -त्ता मीस् ६, २, ५.
 गुणार्थ-त्व- -त्वम् मीस् ६, ४, ६;
 १०, ७, ६८; -त्वात् मीस् ६, १,
 ३४^a; १०, ४, ४०××; -त्वेन
 मीस् ६, ४, १२^b.
 गुणार्थ-चत्^c मीस् ४, ३, १२.
 गुणा(ण-आ)वेश- -शः मीस् ८, ३,
 २९.
 गुणि(त>)ता- -ता माशि १६, ३;
 याशि २, १०४; १०५.
 गुणिन्- -गिनः पावा १, २, ४५;
 -गिनि पावा ५, २, ४७; -णी
 मीस् ६, ७, ३८.
 गुणि-द्वैध- -धे विध ८, ३९.
 गुणी/भू > गुणी-भाव- -वः
 मीस् ४, १, २०.
 गुणे(ण-इ)दन्ता^d-विकार- -रः मीस्
 १०, ३, ६४.
 गुणो(ण-उ)कृष्ट- -ष्टान् विध ८,
 ३९.
 गुणो(ण-उ)द्वेक- -क्वात् वैध ५, १ :
 १९.
 गुणो(ण-उ)पदेश- -शः मीस् १,
 ४, ३; -शात् मीस् १०, ८,
 १९.
 गुणो(ण-उ)पवन्ध- -न्धात् मीस् २,
 २, ११.
 २गुण^e- -णः पा १, १, २××; -णयोः
 पावा १, २, ३१; -णस्य पावा १,
 २, ६४; ३, १, ४५; -णात् पावा
 १, २, ५××; -णे पा ६, १, ९६;
 पावा.
 गुण-दर्शन- -नात् पावा १, १, ६.
 गुण-निमित्त-त्व- -त्वात् पावा ३,

१, ४५.
 गुण-पर-त्व- -त्वात् पावा ७, २,
 १००.
 गुण-प्रतिषेध- -धः पावा ३, २,
 १३९××; -धे पा ६, २,
 १५५.
 गुणप्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
 ७, ३, ८५.
 गुण-भूत- -तस्य पावा ७, ३, ८५.
 २गुण-विधान- -नम् पावा ७, ३,
 ८५; -ने पावा ७, ३, १११; ४,
 १०.
 २गुण-विधि- -धिः पावा ७, १,
 ६.
 गुण-वृद्धि- -द्धी पा १, १, ३; पावा
 ६, ४, १४८; ७, १, १०२; पाग
 २, २, ३१; -द्धयोः पावा १, १,
 ५१.
 गुणवृद्धि-प्रतिषेध- -धः पावा
 १, १, ५६; ५७; -धे पावा १, ३,
 १०.
 गुणवृद्धि-प्रसङ्ग- -ङ्गे पावा १, १,
 ५०.
 गुणवृद्धि-विषय- -ये पावा ६,
 ४, ८.
 गुण-वृद्धि-दीर्घत्व- -त्वेभ्यः पावा
 ६, ४, ४८.
 गुण-वृद्धि-द्विर्वचना(न-अ)ल्लोप-
 स्वर- -रेभ्यः पावा १, ४, २.
 गुणा(ण-आ)गम- -मात् ऋपा ११,
 १०.
 ✓गुण्^f पाधा. चुरा. पर. वेष्टने
 रक्षणे च.
 गुण्ठित- -ताः अप ५२, ६, १.
 ✓गुण्^g ✓गुण्^h टि. द्र.

गुत्स- पाउ ३, ६८.
 ✓गुद् पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडायाम्.
 गुद, दाⁱ- पाउभो २, २, १६५; पाग ४,
 १, ४५; ५६; १२३^j; २, ८०^k; -दः
 आपश्चौ २०, १८, १४; हिश्रौ ४,
 ४, ५८; कौस् ४५, ४१; -दम्
 शाश्रौ १६, ३, ३६; आपश्चौ
 ७, २२, ७१; २४, ६; वौश्रौ;
 -दस्य आपश्चौ ७, २४, ३;
 वौश्रौ ४, ८ : ६; ९ : ९; १० :
 ७; भाश्रौ; -दात् भाश्रौ ७,
 १९, १०; -दानाम् माश्रौ
 ५, २, १२, ३२; -दाम्यः
 आपमं १, १७, ३१; -दे काश्रौ
 ६, ७, १२; विध ६०, २५; वैध
 २, ९, ५; -द्वैः हिश्रौ ९, ८, ४१.
 गुदी- पा ४, १, ४५.
 गौदैय- पा ४, १, १२३.
 गुद-काण्ड^l- -ण्डम् आपश्चौ ७,
 २६, ११^m; माश्रौ ७, १९, ४;
 वाश्रौ १, ६, ७, २३; वैश्रौ १०,
 २० : १५; हिश्रौ ४, ५, ८; १२;
 ३७; -ण्डयोः हिश्रौ ४, ५, ९;
 -ण्डस्य काठश्रौ ७०; -ण्डानि
 भाश्रौ ७, २१, ११; -ण्डैः आपश्चौ
 १४, ७, ११.
 गुद-कोष्ठ- -ष्ठम् विध ९६, ९१.
 गुद-जावनी- -नी माश्रौ २, २,
 ५, २३.
 गुद-तृतीय- -यम् काश्रौ ८, ८, ३;
 आपश्चौ ७, २२, ६ⁿ; वाश्रौ;
 -यस्य काश्रौ ६, ९, १०;
 -यानि वौश्रौ ११, १३ : ३५××;
 -ये काश्रौ ६, ८, ९; वौश्रौ २०,
 ३० : १९; २२, १५ : १६; -येन

a) ष्ठि इति जीसं ।

b) ष्ठिन इति जीसं ।

c) तु. जीसं ।

d) उप. इदम् + ता ।

e) = पारिभाषिक-संज्ञा-1 व्यु. ? ।

f) = ✓कण्, गुण् इति [पक्षे] भाण्डा । चूर्णाकरणेऽपि इति BPG. ।

g) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र समावेशः द्र. ।

h) व्यप. वा नाप. वा ? ।

i) अर्थः ? ।

j) = गुदैकदेश- ।

वौश्रौ ४, १० : ५; ८, १६ : ४;
 -येषु वौश्रौ २२, १५ : १६;
 २३, १३ : ३५; -यैः वौश्रौ
 ११, १३ : ३५; १७, १० : २४.
 गुदतृतीया(य-अ)णिष्ठ- -ष्टम्
 काश्रौ ६, ७, ७.
 गुद-मध्य- -ध्यम् काश्रौ ६, ७, ६.
 गुद-मेदस्- -इसोः वैश्रौ १०,
 १९ : ५.
 गुद-र्- पा ४, २, ८०.
 गुद-वनिष्ठ- -ण्टु काठश्रौ ६३.
 गुद-श्रोणि- -णी कौस् ४५, ३१.
 गुद-हीन- -नः विध ५, २२.
 गुदा(द-आ)दि- -दीनाम् वाश्रौ
 ३, २, ६, ५४.
 √गुध् पाधा. दिवा. पर. परि-
 वेष्टने, क्र्या. पर. रोषे.
 गुधित्वा पा १, २, ७.
 गुध- गुड- टि. द्र.
 गुधेर- पाठ १, ६१.
 गुन्द्र- पाठभो २, ३, ३०.
 √गुप् पाधा.भ्वा. आत्म.गोपने, पर.
 रक्षणे; दिवा. पर. व्याकुलत्वे,
 चुरा. उभ. भापायाम्, गोपायति
 आपश्रौ ११, २१, १४^२××; १३,
 २०, ११^१; माश्रौ; कौगृ ३, ५,
 ९^१; गोपायन्ति वौश्रौ ६,
 ३४ : ११; १५, ८ : ९; वाधूश्रौ;
 ङगोपायताम् मागृ २, १५, १६^१;
 गोपायतु हिश्रौ ६, ६, १७^१ङ्;
 या ११, ४६; ङगोपायन्तु वौश्रौ
 ३, २८ : २; हिश्रौ ६, ६,

१७; पागृ; ङगोपायस्व शांगृ
 २, १८, ३^६; आमिष्ट; कौस्
 ५५, १५^१; ङगोपाय आश्रौ १,
 १२, ९××; शांश्रौ; आपश्रौ
 ५, १८, २^१; ६, २४,
 ६^१; वौश्रौ^१ २, १८ : १५;
 १७; १८; २०; २२; ३, १४ :
 ११; १२^२; १३^२; भाश्रौ ५, ११,
 ७^१; माश्रौ १, ६, ३, ७^११^१;
 वैश्रौ १, १४ : १५^२; हिश्रौ ६,
 ५, १६^१; आपमं २, ३, ३१^६;
 ४, १४; आगृ १, २०, ७^६;
 कौगृ २, ८, ९^६; या २, ४^१ङ्;
 ङगोपायतम् आश्रौ २, ५, २;
 आपश्रौ ६, २४, ४; भाश्रौ
 ६, ४, ११; माश्रौ; ङगोपायध्वम्
 काश्रौ २५, १३, २५^६; ङगोपायत
 आपश्रौ ६, २१, १; १४, २०, ७^६;
 वौश्रौ; गोपायेत् पागृ २, ७,
 १८; आपध १, ४; २३; विध;
 ङगोपायेताम् हिश्रौ ६, ६, १७;
 पागृ ३, ४, १०-१३; १४^१; १५^२;
 १६^२; १७^२.
 जुगुषुः अश्र १९, २७^१ङ्; गो-
 प्स्यामःवाधूश्रौ ४, ६१:३; ८६:५.
 गोपयेत् अप ६२, २, ४; आज्यो
 १०, ६; ङगुगुपः शांश्रौ २,
 १५, २^१; ४^२; ५^२; माश्रौ १, ४,
 ३, १७; ६, ३, १४^१; वाश्रौ १, ५,
 ४, ३६^१; हिश्रौ ६, ७, ७^१; ङगु-
 गुपः आश्रौ १, १३, ६; आपश्रौ ६,
 २५, १०××; २६, ५^१; भाश्रौ;

अजुगुपःऽअजुगुपः वाधूश्रौ २, ७:
 १; ङगुगुपतम् वाश्रौ १, ५,
 ४, ३७; हिश्रौ ६, ७, ७; जुगुपतम्
 माश्रौ १, ६, ३, १५^१; ङगुगुपतम्^१
 आश्रौ २, ५, १२; ६, २६, ३;
 भाश्रौ ६, ६, १.
 जुगुप्सते भाश्रौ ४, ४, ५; जुगुप्सते
 आपश्रौ ८, ४, ८; भाश्रौ; जुगुप्सेत्
 वाधूश्रौ ३, १०१:४; जुगुप्सेयाताम्
 गोय १, ६, ७; जुगुप्सेरन् द्राश्रौ ३,
 ३, १४; जुगुप्सीत काश्रौसं ३३:५.
 ङगुपित- -तः कौगृ १, १६, ७; शांगृ
 १, २४, ४.
 गुपिल- पाठ १, ५६.
 गुप्त, सा- -स^१ पागृ २, १७, ४; -सः
 आगृ १, १५, १^१ङ्; हिगृ १, १६,
 ६^१०; अप ४१, ३, ७; वृदे ७, १९;
 -सम् वौश्रौ १, २:२४; ३७; वैश्रौ
 ३, ८ : १२; हिश्रौ; -सा गौध
 २२, ३७; -साः आपश्रौ ५,
 १८, २^१ङ्; हिश्रौ ६, ५, १६^१ङ्; या
 २, १७; -साम् आपगृ ३, ११;
 -सायाम् शंघ ४००; -सासु
 वौगृ २, ७, ३.
 गुप्त-तम- -मे वाध ६, ९.
 गुप्त-तीर्था(र्थ-आ)यतन- -नेषु
 अप ४१, १, २.
 गुप्ति- -सिः वैश्रौ २०, १ : ३;
 -सिम् आपध १, ३१, १९; हिगृ
 १, ८, ३८; -ङ्ग्यै आपश्रौ ५,
 १२, २; १३, ८; १५, ६; वौश्रौ
 २, १६ : ४०; १७ : ३७; हिश्रौ.

a) = देश-विशेष-? । b) मलो. कस. । c) पा ३, १, ५; २८ पावा १, ३, ६२ परामृष्टः द्र. ।

d) पामे. वैप १, १२६२ f द्र. । e) सपा. गोपायति <> गोपायनम् इति पामे. । f) पामे. वैप १, १२२५ n द्र. । g) पामे. वैप १, १२२५ o द्र. । h) पामे. वैप १, १२२५ r द्र. । i) पामे. वैप १ पाहि मा ३, ३७^१ टि. द्र. । j) पामे. वैप १, १२२५ t द्र. । k) सपा. गोपायध्वम् <> गोपायत इति पामे. । l) पामे. वैप १, १२२६ c द्र. । m) सप्र. गुपितः <> गुप्तः इति पामे. । n) = वैश्य-संज्ञा- । अविभक्तिः निर्देशः । o) सपा. शौ ६, १२४, १ विशिष्टः पामे. ।

गुप्त्वा आपध १,४,२४^b.
 १गोप- पाग ३,१, १३४.
 गोपन- ने अप ४८,३४.
 गोपयत्य^b- त्यम् या ५,११^क.
 गोपायत्- यन् वौश्री १०, १ :
 ११; वैश्री १४,२० : १०; अप्रा
 ३,४,११.
 गोपायन- नम् शांठ ३,१०,२^क.
 गोपायमान,ना- नम् पाठ ३, ४,
 १५^३; माण २, १५, ११^३; -ना:
 वाधूश्री ३,७९ : १३.
 गोपायितव्य- व्यम् या ५, १.
 गोपायित्- ता या ३, १२^३; ७,
 ९; -तारः या ५,१.
 ङ्गोप्त्- प्त्वा वौश्री २०, ६:१११;
 द्वाश्री १०,२,७; लाश्री ३,१०,६;
 आपमं; अत्र १७, १^६; -प्त्तारः
 आपश्री २०,५, १४; वौश्री १२,
 १८:१०; वाधूश्री; -सारम्
 आपश्री ५, १२, २××; वौश्री;
 -प्तृणाम् वौश्री १५, १ : १७;
 ७ : १९; -प्तृणि या १२,३८;
 -प्तृन् वाधूश्री ३, ७५ : ३;
 -प्त्रे कौट २, ८,९^०; शांठ २,
 १८,३^०.
 ङ्गोप्त्री^१- -०प्त्रि कौट २, ८,
 ४; शांठ २, १३, ५; -प्त्री
 आपमं २, २, १०; काण्ड ४१,
 ११; वौट २, ५, १४; माण्ड;
 -प्यः आपश्री ६,२१,१.
 गोप्य->गोप्या(प्य-अ)र्थ- र्थान्
 आज्यो १०,६.

जुगुप्सा- >प्सा-विराम-प्रमादा-
 (द-अ)र्थ- र्थानाम् पावा १,
 ४,२४.
 जुगुप्सित- -तम् विध २७,९.
 जुगुप्सु- -प्सुः शांश्री ३, २०,५.
 √गुप्, म्फ पाधा. तुदा. पर. ग्रन्थे.
 √गुरु^२ पाधा. तुदा. आत्म. उद्यमने.
 गूर्त्,ती^b- पा ८, २, ६१; -र्त्तीः
 या १०,४७^क.
 गुरि्वीत्^b- >गौरि्वीत्- -०त
 हिश्री २१,३,१४; वैध ४,३,२.
 गुरि्वीत्-वत्^१ हिश्री २१, ३, १४;
 वैध ४,३,७^१.
 गुरु^{b,क}- पाठ १,२४; पा ६,४,१५७;
 पाग ५,१,१२२; -रवः जैट २,
 ८ : १८; आपध १, १४, ७;
 वौध ३,९,१०; हिध १,४,४०;
 -रवे आपश्री १५,२०,१०; २१,
 ३; माश्री ११, २१, १२; २२,
 ६; माश्री ४, ७, ५; आण्ड ३,
 १०,१; कौट २,३,१९; आम्रिण्ड
 १, १, ४ : ९; २, ३ : २५××;
 आपण्ड ११, १८; वौट ३, २,
 ५६; वौपि ३,४,९; भाण्ड; -रु
 आश्री ६,१२,३^१; माश्री २, ५,
 ४,९^१; वैताश्री २३,१२^१; निस्
 ४,९ : २; ११; कप्र २, ४, १८;
 ऋप्रा; पा १, ४, ११; पावा १,
 ४, १; -रुः वौश्री १८, ४७ :
 १; ३; ३३; जैश्रीका १७२; कौट
 २, ४, १९; ७, १४; शांठ २,^६
 ७,२२; ११,१०; काण्ड; अपण्ड,१,

७^१; -रुणा आण्ड ४,६, १; कौट
 २,३,१७; शांठ २, ६, ७; पाण्ड;
 -रुभिः वौध २,२,६२; -रुभ्यः
 कौट ३,११,२; शांठ ४,१२, २;
 आम्रिण्ड ३,११, ४ : २९^१; वौट
 २,११,३४^१; वैट २,१२ : १०;
 अप ४३,१, २६^१; ऋअ ३, ३;
 -रुम् आण्ड ३, ९, ४; पाण्ड २,
 ६, ९; गोण्ड २, ३, १३; ३, २,
 ३६; ४०; गौपि १,१,३; जैण्ड; या
 २,४^१; -रुपु हिपि ८:९; वाध
 २२, १५; आपध १, १०, २;
 वौध; -रु निस् ४,२:१६; १८;
 २१; १०,११ : ४; वृदे ४,६०;
 -रुणाम् वौश्री २०,१२ : २९;
 वैट ३, २२ : १२; ५, १३ : २;
 शोध ३७; ११६ : ७६^३; ११८^३;
 आपध १,१५,१; विध ३२, ८;
 हिध १, ४, ६०; गौध २, ५७;
 -रुणि वाध २२, १५; वौध ३,
 १०,१७; गौध १२, १९; ऋप्रा
 १, २०; तैप्रा २२, १४; -रुन्
 आम्रिण्ड २,६,३ : ५२; माण्ड १,
 २, १८; त्राण्ड ९, १८; गोण्ड २,
 ४, १०; द्राण्ड; -रोः लाश्री १,
 ९, ५; आम्रिण्ड २, ६, ५ : २०;
 काण्ड ३, १६; वौण्ड; अप ५१,
 ४, ३^m; ५२, १६, ४ⁿ; या २,
 ४^१; प्रा ३,३,१०३; ८,२,८६;
 पावा ८,२, ८६; -रौ आण्ड ४,
 ४, १९; पाण्ड २, ११, ७; अप;
 आज्यो ६, १२.

a) सप्र. गुप्त्वा <> गुह्यात् इति पाभे. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. पृ ९९२ e द्र. ।
 d) पाभे. वैप १, १२२६ k द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. सचित्रे माश ११, ५, ४, ३ टि. द्र. । f) विप.
 (मेखला-, स्वस्ति- प्रभु.) । g) या ३,५ परामृष्टः द्र. । √गुरु इति क्वचित्कः पाठः । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 i) सप्र. गुरिं <> गौरिं इति पाभे. । j) गुरु इति पाठः? यनि. शोचः (तु. तत्रैव गौरिं) । k) = पारिभाषिक-
 संज्ञा- (ऋप्रा. पा. प्रभु.) । l) = बृहस्पति- (देवगुरु) । m) = बृहस्पति- (ग्रह-) । n) = बृहस्पति-
 (आचार्य-) ।

गुर्वी^a -> गुर्वी-सखि, स्त्री-
-खिम् आपध १, २१, ९; -खीम्
वाध २०, १६^b; वीध २, १,
४४; हिध १, ६, ३९^b.
गौरव- पा ५, १, १२२; पाग ५,
२, ३६; -वम् निसू १, १ : २५;
आपध १, ६, ३५; हिध १, २,
५७; -वेण वाध १३, ४८.
गौरवित- पा ५, २, ३६.
गरिमन्- पा ५, १, १२२; ६, ४,
१५७; -म्णा वीश्रौ ३, १४ : १.
गरिष्ठ- पा ६, ४, १५७; -ष्ठम् शंघ
११६ : ६१.
गरीयस्- पा ६, ४, १५७; -यः
शांठ ४, ११, १४; विध ३२,
१६; गौघ; -यस्सु वीध ४,
१, २; २, २; -यांसि वीध
४, १, १; २, १; -यान् वाध १३,
५७; १७, ७९; विध; हिध २,
४, ५९^c; पावा ४, २, २१;
-यान्-यान् आपध २, १२,
२२^d.
गुरु-कर्मन्- र्मसु आपध १, ५,
२४; हिध १, २, २५.
गुरु-कुल- ले वीध २, १, ४७;
विध २८, ४३; वैध १, २, ३; ६;
-लेपु माशि १६, ४.
गुरुकुल-वर्जम् विध २८, ९.
गुरुकुल-वास- सः वीश्रौ २९,
८ : २; विध २८, १.
गुरु-कृत- तम् माशि १४, १०.
गुरु-ग(त>)ता- ताम् माशि
१६, ७; याशि २, १११; नाशि
२, ८, २७.
गुरु-(ग>)गा- गा वाध २१, १०.

गुरु-गीति^d - तीनि निसू २, ३ : ३;
९; १३.
गुरु-गौरव- -वात् याशि २, ११७.
गुरु-तल्प- पावाग ४, ४, १; -ल्पम्
वाध १, २०.
गौरुतल्पिक- पावा ४, ४, १.
गुरुतल्प-ग- -गः वाध २०, १३;
४४××; शंघ ३७८; ३८५××;
वीध २, १, १२; विध ४५, ६;
५५, ६; गौघ २३, ९.
गुरुतल्प-गमन- -नम् वीध ३,
५, ६; ६, १८; -ने विध ५, ७.
गुरुतल्प-गामिन्- -मी आपध
१, २५, १; २८, १५; हिध १, ६,
७५; ७, ५०.
गुरुतल्पिन्- -ल्पी वीध २, २, ६८.
गुरु-त्व- -त्वम् कागठ ४५ : १८;
विध ४२, २; तैप्रा २४, ५.
गुरु-द्रक्षिणा- -णा वाध १७, ६९;
-णाम् वीध ३, ३, ३१.
गुरु-दर्शन- -ने गौघ २, २०; ३३.
गुरुदर्शना(न-अर्थ)^d -र्थः हिध
१, २, १०५.
गुरु-दार- -रम् आपध १, २५, ११;
हिध १, ७, ७; -रेषु विध २८,
४५; ३२, १५.
गुरुदार-गमन- -नम् विध
३५, १.
गुरुदारगमन-सम- -सम्
विध ३६, ४.
गुरुदारा-निधेवण- -णम् अप ९,
३, ५.
गुरुदारा(रा-अ)भिगामिन्- -मी
सुध ५६.
गुरु-द्रुह- -द्रुक् अत्र ८, १.

गुरु-नियोग- -गात् वीध ३, ३, १६.
गुरु-निवासिन्- -सिनाम् शंघ ५३.
गुरु-पत्नी- -त्नी विध ३२, १३;
-त्नीः आम्रिण २, ६, ३ : ५२;
वीध २, ५, २९^f; -त्नीनाम् वीध
१, २, ३४; विध ३२, ५; ६; १४;
-त्नीभ्यः आम्रिण ३, ११, ४ :
२९; वीध; -त्नीम् काध २७५:४.
गुरु-पर-वश्यता^e -ताम् विध ९६,
३४.
गुरु-परिचारक- पाग २, २, ९^f.
गुरु-पुत्र- -त्रस्य वाध १३, ५४; -त्रै
विध २८, ३; १, ४४^f; पावा १, १,
५६.
गुरु-पूजन- -नात् शंघ ४१.
गुरु-पूर्व- -र्वात् पावा ६, ४, ५६.
गुरु-प्रयुक्त- -क्तः वाध २३, १०;
वीध २, १, २२.
गुरु-प्रसाद- -दः वाध २४, ७^g;
वीध ४, ४, १०^g.
गुरु-प्रसादन- > ^hनीय^h -यानि
आपध १, ५, ९; हिध १, २, ९.
गुरु-प्रसू (त >) ता^h -ता गौघ
१८, ५.
गुरु-शुध- -धयोः वैग ४, १४ : ७.
गुरु-भार्या- -र्याणाम् गौघ २, ४०.
गुरु-मत- -मतः पा, पावा ३, १,
३६.
गुरुमद्-वचन- -नम् पावा ३,
१, ३६.
गुरु-मध्य- पावा २, ३, ३५^f.
गुरु-लघु-संज्ञा- -ज्ञे पावा १, ४, १.
गुरु-वत् वाध १३, ५४^f; विध; पावा
१, १, ५६.
गुरु-वधू- -धूः माठ १, २, १८^f.

a) =मातृ-। b) गुर्वी सखीम् इति पाभे। c) परस्परं पाभे। d) विप.। वस.। सपा. आपध
१, ८, १७ गुरुं दर्शो इति पाभे। e) कस. > पस.। f) तु. पागम.। g) विप. (कर्मन्-). h) उप. < √सू
(धेरणे)। i) यन्वृन् इति वज्रोदासं.।

गुरु-वर्ण- -र्णः नाशि २, ६, ४.
 गुरु-विधि- -धिः पावा १, १, ५७.
 गुरु-वृत्ति- -त्तिः वीगु ३, ३, २५;
 ऋप्रा १८, ६०; -त्ती निसू १, १:
 २६.
 गुरु-वृद्ध-दीक्षित- -तानाम् वैध
 १, २, १०.
 गुरु-शासन- -नात् आसिगु १, ६,
 १ : २.
 गुरु-शिष्य- -ष्ययोः विध ३०,
 ३०.
 गुरु-शिष्य(प्य-ऋ)त्विज्- -त्विजः
 वैगु ७, १ : ६.
 गुरु-शुभ्रूपा- -पया विध ३१, १०;
 याशि २, ११३; -या कौगु २,
 ३, १८; शांगु २, ६, ८; पागु;
 -पापाम् कौगु २, ७, २१; शांगु
 २, १२, ६.
 गुरु-शुभ्रूधिन्- -धी वौध २, ६, १५.
 गुरु-सखि, खी- -खिम्-आपध १,
 २१, ९; -खीम्-वाध २०, १६;
 वौध २, १, ४४; हिध १, ६, ३९.
 गुरु-सङ्कर- > परिन्- -रिणः वौध
 २, ३, ९.
 गुरु-संज्ञक- -कम् माशि १२, ४.
 गुरु-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, १, ८; ५७.
 गुरु-संनिधि- -धौ आपध १, १०,
 १५; हिध १, ३, ४३; नाशि २,
 ८, १९.
 गुरु-समवाय- -ये आपध १, ७, १४;
 हिध १, २, ७१.
 गुरु-समीप- -पे शांगु ४, ८, ५;

वाध १३, २४.
 गुरु-स्तव- -वः वृदे ४, १०३.
 गुरु(रु-उ)दर^b- -रः सु १७, २.
 गुरुदरी- -री सु ३, १.
 गुरु(रु-उ)पोत्तम- -मयोः पा ४, १,
 ७८; -मात् पा ५, १, १३२.
 गुरुव(रु-अ)क्षर- -राणाम् ऋप्रा
 १८, ६०.
 गुरुव(रु-अ)क्षर^b- -रम् ऋप्रा १८,
 ६०.
 गुरुव(रु-अ)धीन- -नः वाध ७, १०;
 -नान् वागु ९, १८.
 गुरुव(रु-अ)नुज्ञात- -तः विध २८,
 ४२; अत्रभू ८; -तम् विध २८,
 १०८.
 गुरुव(रु-अ)न्त^d- -पावा २, ३, ३५.
 गुरुव(रु-अ)भाव- -वे वैध १, २, ११;
 गौध ३, ७.
 गुरुव(रु-अ)भिवादन- -नम् विध
 २८, १४.
 गुरुव(रु-अ)र्थ- -र्थम् वाध १४,
 १३.
 गुरुवर्थ-निवेशौपधार्थ-वृत्तिक्षीण-
 यक्ष्यमाणा(गु-अ)ध्ययनाध्व-
 संयोग-वैश्वजित- -तेषु वौध २,
 ३, १९; गौध ५, २२.
 गुरुव(रु-अ)र्थ- -र्थेषु गौध २३,
 ३१.
 गुर्वा(रु-आ)त्मन्- -त्मा या ७,
 १८.
 गुर्वा(रु-आ)दि- -दौ ऋत ५,
 २, ७.

गुर्वा(रु-आ)भरण-संयु(त>)वा^e-
 -ताम् अप ६९, ६, ३.
 गुर्जर- पाउभो २, ३, ३७.
 √गुर्द^f पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडायाम्
 चुरा. पर. पूर्वनिक्तेने.
 गुर्दा- (> र्दा- पा.) पाग ४, १,
 ४१.
 √गुर्व^g पाधा. भ्वा. पर. उद्यमने.
 गुर्वि(त>)णी^h- पाउ २, ५४; -णीम्
 विध ५०, ८; ६७, ३९; ६९,
 १७.
 गुल- गुड- द्र.
 गुलगुधा. ला^b (> धा. ला) √क
 पा.) पाग १, ४, ६१.
 गुल^c- (> गौलच्य- > व्यायनी-
 पा.) पाग ४, १, १८;
 १०५.
 गुलगुधा (> धा √क) गुलगुधा
 टि. द्र.
 गुलगुल- पाउभो २, १, १०६.
 गुलुच्छ- पाउभो २, २, ८५.
 गुलूगुधा (> धा √क) गुलगुधा
 टि. द्र.
 गुलुगुलⁱ- -लु आपश्रौ ७, ६, १;
 वौश्रौ ४, १ : २; ३ : १४.
 गौलुगुल^k- -वेन आपश्रौ २०,
 १५, १२; १३; २३, ७, ९; वौश्रौ
 १५, २५ : १; हिश्रौ १४, ३,
 २३; १८, ३, ३; वाश्रौ ३, ४,
 ३, ४४.
 गौलुगुल-गन्धि^l- -न्धयः^m काश्रौ
 १३, ३, २६; आपश्रौ २१, २०,

a) विप. (Lएनस्विन्-] द्विज-) । b) विप. । वस. । c) ष्तः इति जीसं. । d) तु. पागम. ।
 e) विप. । कस. > तृस. । f) अर्थः व्यु. चः । गूर्द- इति पाका. । g) = गर्भिणी- । व्यु. ?
 < √गर्व इति पाउ., < गुरु- इति PW. प्रमृ., उभयथेति भ्रमा. । h) पीडार्थे अव्य. । तु. पाका. ।
 गुलगुला, गुलूगुधा इति पागम., गुलुगुधा इति भाण्डा. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । तु. पाका. । गुहल-
 इति भाण्डा. । j) वैप १ द्र. । k) विप. । तेन संस्कृतमित्यर्थे अण् प्र. उसं. (पा ४, ४, ४) । l) = गुगुल-गन्धि- ।
 m) पाभे. पृ १८८ i द्र. ।

३; हिथ्रौ १६, ६, ४१.
 गुल्गुलु-सुगन्धितेजन-नम् आपथ्रौ
 ७, ६, १२.
 गुल्गुलुवा(लु-आ)दि- दयः शुभ्र
 १, ३, १६.
 गुल्फ^१- पाठ ५, २६; पाग ४, १, ५६;
 ५, २, २४; -ल्फः अप ४८,
 ११६; -ल्फात् शंघ ७७;
 -ल्फान् कौस् ३९, १३; -ल्फेषु
 विघ ९६, ६२.
 गुल्फ-जाह- पा ५, २, २४.
 गुल्फ-द्वज- -द्वम् वौथ्रौ १७, ३० :
 ५^२; हिथ्रौ ४, १, २२; आम्रिण्ट
 ३, ८, १ : ३०^२; वीपि १, १५ :
 ९^२; -ल्ते आपथ्रौ ७, २, ६;
 वौथ्रौ १०, ४८ : १३; माथ्रौ
 ७, १, १४; वैथ्रौ १९, ६ : ४३;
 हिथ्रौ ४, १, २०.
 गुल्फ-देश- -शे वौथ्रौ २१, ८ :
 १८.
 गुल्फ-मात्र- -त्रे वैथ्रौ १०, १ :
 १५.
 ङ्गुल्फित- -तम् आपथ्रौ १०,
 १०, ३^२; १३, ७, १६^२; माथ्रौ
 १०, ६, १७^२; हिथ्रौ १०, २,
 १२^२.
 गुल्म^१- पाठभो २, २, २४३^०; पाग
 २, ४, ३१^१; ५, २, २४^०; -ल्मान्
 अप ६८, २, २२^०.
 गुल्म-कृत, ता- -ताः वौथ्रौ १०,
 ४५ : २३; ११; २ : २९; वैथ्रौ

१९, ५ : १६; -तान् वौथ्रौ ११,
 ३ : ११.
 गुल्म-वल्ली-लता- -तानाम् विघ
 ५०, ४८; -तासु अप ७०^२,
 ८, ५.
 गुल्मवल्लीलता-युक्त- -क्ते अप
 २१, ४, १.
 √गुल्माय, गुल्मायते अप ७०^३,
 ११, ९.
 गुवाक^१- पाठभो २, २, १४.
 गुवेर- पाठभो २, ३, ६०.
 गुप्पित^१- -तम् अप्राय १, ५^१.
 √गु, गूह्^१ पाधा. भ्वा. उभ. संवरणे,
 गूहते या ५, १९^१; गूहति वाथ्रौ
 १, ६, ६, १९; गूहत् > ता ऋप्रा
 ७, ३३^१.
 गूहयति कौस् ४८, १९; गूहयेत्
 वैथ्रौ १२, ६ : ९; वैण्ट २, १३ :
 १२.
 ङ्गुगुञ्जतः ऋप्रा ४, ९८^१; उस्
 ६, ६^१.
 गुहा^१- पाग ३, ३, १०४; ५, १, ६६;
 ६, १, २०३; -ङ्गहा आपथ्रौ २,
 ११, १०; ५, १, ७; १०, २०, ८९^१;
 वौथ्रौ; कौस् ११७; ४^१; या
 १३, ९७; -हायाम् सु ११, १;
 १२, १; या १३, ९; -हासु
 आपथ्रौ ५, १, ७^१.
 गुहा-कारम् आपथ्रौ ५, १,
 ७^१.
 गुहा-शय- -यम् आपथ १,

२२, ५; हिघ १, ६, ५; आशि
 १, २; -यस्य आपथ १, २२, ४;
 हिघ १, ६, ४; -याः अप १,
 ८, ५^०.
 ङ्गुहा-हि(त >)ता- -ताम्
 माथ्रौ १, २, ४, ४; वाथ्रौ १, २,
 १९.
 गुह्य, ह्य^१- पा ५, १, ६६; पावा ३,
 १, १०९; -ह्यम् शांथ्रौ १८,
 १, ८^१; आपथ्रौ; -ङ्गह्या आथ्रौ
 २, ८, ३; शांथ्रौ; -ह्याः वृदे ८, ९८;
 -ह्यात् हिघ १, १४३^१; -ङ्गह्यानि
 शांथ्रौ २, ४, ३^१.
 ङ्गुह्य-क^१- -कम् कप्र १, ७, ९;
 गुह्य-प्रदेश- -शे वैध ३, ८, २.
 गुह्य-स्थान- -ने आम्रिण्ट ३, १०,
 ४ : १६.
 गुह्यो(ह्य-उ)पनिषद्-भासन^१-
 -नः विघ १, ९.
 रगुह्यक- -केभ्यः माण्ट २, १२, १७^१.
 गुह्यमान- -नम् आपथ्रौ १७, १८,
 १^१.
 गूह, ह्य^१- -ठः कप्र ३, ६, ६; -ङ्गठम्.
 अप्राय ६, ९; या ७, ३; -डात्
 वैध ३, १२, १३; १३, ६; १३;
 -ढे विघ १, २५; शुप्रा ४,
 १७६^१.
 गूह-ज^१- -जः वौध २, २, २३;
 -जम् वौध २, २, ३१.
 गूह-मन्त्र- -न्त्रस्य काशु ७,
 ३९.

a) पाभे. पृ ९८८ j द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, १२२७ p द्र. । d) ङ्गम् इति पाठः? यनि. शोधः । e) = सेनाङ्ग- । f) = जुप- वा आयस्थान- वा । <√गूह इति पागम. । g) तु. पागम. । = गुल्फ- । h) = जुप- । i) गुपाक- इति पाठनाट्ट. । j) या ११, ३२; १३, ९ पा ६, ४, ८९; ७, २, १२; ३, ७३. पावा १, १, ४९ परामृष्टः द्र. । k) 'शुक्ष्म' इति पपा. । l) सप्र. गुहा वने <> गुहाक्ये इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, १२२८ i द्र. । n) गूहा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तैत्रा १, २, १; २) । o) उत्तरेण संधिरार्यः । p) पाभे. पृ ९९३ a द्र. । q) पाभे. वैप १, १२२८ n द्र. । r) = शरीराङ्ग- । s) विप. । वस. पूष. = तदाख्योपनिषद्- । t) = देवयोनि-विशेष- । व्यु? । u) = पारिभाषिक-संज्ञा- । v) = अपत्य-विशेष- ।

गृह-मन्त्र-प्रचार^a-> ०२-सं-
वृत्त-रन्ध्र^b- -न्ध्रः शंघ २४४.
गृहा(ड-आ)चार- -रात् वैध ३,
१४, २.
गृहो(ड-उ)त्यन्त्र^c- -न्नः वाध
१७, २४; शंघ २९१; बौध २,
२, २२; विध १५, १३; वैध ३,
११, ६; १२, ६.
गृहो^d- -ह्यः पाग २, ६, १०.
गृह^e- पाउना ५, ५२; पाग ४, २,
८०^f; ५, २, १००^g; -हस्य
वैग ३, २२ : ६^h; ७; -हाःⁱ
बौश्रोप्र १४ : २.
गृह-र- पाग ४, २, ८०.
गृहिल- पा ४, २, ८०; ५, २,
१००.
गृहलु- पाउभो २, १, १०६.
गृह-लव्य- > व्यायनी- गुलु-
टि. द्र.
गृहाक्य- -क्ये हिश्रौ १०, १, २७ⁱ.
गृहिल- पाउ १, ५६.
गृहर- पाउ १, ६१.
गृह-गृह. द्र.
गृह- पाउ २, १२; पाग २, ४, ३१.
गृह-गृह. द्र.
गृह-पाधा. दिवाः आत्म. हिंसागत्योः;
चुरा. आत्म. उद्यमने.
गृह-पाउना ३, १, ३२.
गृह-गृह. द्र.

गृह^k- -र्दः आपश्रौ १६, ३०,
१; वैश्रौ १८, २० : ३२; हिश्रौ
११, ८, ४; लाश्रौ ७, १, १^l;
-र्दस्य लाश्रौ ७, १, २^m; -र्दाय,
-र्दे, -र्दस्यः आपश्रौ १६,
३०, १; वैश्रौ १८, २० : ३२;
हिश्रौ ११, ८, ४.
गृहⁿ-(>गृही-) गृह- टि. द्र.
गृह^o-गृहयति अप ४८, ९; निघ
३, १४; गृहय, >या ऋअ २,
८, १९; ऋप्रा ८, १३; १८, २.
गृह^p-(>गृहिल- पा.) पाग ४, २,
८०.
गृह-पाधा. भ्वा. पर. सेचने, चुरा.
आत्म. विज्ञाने.
गृह^q-जागृ(अवबोधने) पाधा. अदा.
पर. निद्राक्षये, जागृति आपश्रौ ४,
३, १३; ५, ८, ३४; आश्रौ; आमिगृ
२, १, ३; २४^r; हिगृ २, ३, ७^s;
जागृतः माश्रौ १, ५, २, ६; मागृ
२, १, ४; या १२, ३७^t; ऋजागरत्
आमिगृ १, १, २; ४६; ४७; ४९;
कागृ; अप्रा २, ३, १९^u; ऋजागरात्
हिगृ १, ४, ८; जैगृ; ऋजाग्रथ^v
आपश्रौ १, १४, ३; माश्रौ १,
१४, ९; हिश्रौ १, ३, ५५; पागृ
१, १६, २२^w; हिगृ २, ४, ५^x;
ऋजाग्रत्^y; आमिगृ २, १, ४;
२२^z; २३^{aa}; वैगृ २, १, १२^{ab}; भागृ
१, २५; १३^{ac}; हिगृ २, ४, ५^{ad};

गृह^{ae}- आपश्रौ ५, १४,
५; १०, १८, १; २२, १२,
२०; वैश्रौ; ऋजागृत, > ता
आपश्रौ १, १४, ३^{ae}; वैश्रौ;
माश्रौ १, १४, ९^{af}; माश्रौ
१, १, ३, ३७^{ag}; वाश्रौ १, २, २,
३४^{ah}; हिश्रौ १, ३, ५५^{ai}; ऋजागः
ऋप्रा १, १०३^{aj}; जागृयात्
गो १, ७; अप्राय १, ५.
ऋजागर कौगृ ३, १२, ३३^{ak};
अप्रा ३, १, ७; शौच.
जागरयन्ति आपश्रौ ५, ८, २;
११, २१, १२; २०, १, १५;
माश्रौ; जागरयित कागृ ४६, २;
जागरयेत् कप्र २, ९, १६; जागर-
येयुः मागृ २, १, २.
जागरण- -णम् आपश्रौ ४, ३, १६;
१०, ४, १२; वैश्रौ; -णात् या
९, ८.
जागरण-धारण- -णे काश्रौ ४,
८, ११.
जागरण-संतति- -तौ पावा ३,
२, ११०.
जागरयत्- -यन्तः वैश्रौ २, १५ :
१७; १५, ३ : ५; १८, १८ : ९;
वाश्रुश्रौ ३, ७० : ९.
जागरा- पांवा ३, ३, १०१; -रायै
वाश्रुश्रौ ३, ७० : ९.
जागरक- पा ३, २, १६५; -कः या
१, १४.

a) चिप. । वस. > दस. । b) कस. उप. वस. । c) = अपत्य-विशेष- । d) = अग्नि-विशेष- । वैप २, ३खं. द्र. ।
e) = स्कन्द- । कर्त्तरि कः प्र. (तु. अभा.) । f) तु. भाण्डा. पासि. । सङ्घत्त गृहा- इति भाण्डा. । अर्थः ? ।
g) तु. पागम. । अर्थः ? । h) = ऋपि-विशेष- । i) पामे. पृ ९९६ । द्र. । j) = देश-विशेष- । व्यु. ? ।
k) वैप १ द्र. । l) = साम-विशेष- । m) वैप १, १२२९ । ह द्र. । n) अर्थः व्यु. च ? । तु. पाका. । अह-
इति भाण्डा. । o) = देश-विशेष- ? । p) पा ३, १, ३८; ६, १, ६; १९३; ७, २, ५; ३, ८५ पावा १, २, १, ६,
१, ८; ७, २, १० परामृष्टः द्र. । q) सप्र. जागृति <> बोधयति इति पामे. । r) पांठः ? जागर इति शोधः
(तु. संस्कृतुः टि.) । s) Böht [ZDMG ५८, ८६] जागृय, जागृत इति यक. शोधकः ? । लेटि अडांगमे यनि. ह्ये.
स्याताम् । t) पामे. वैप १, १२२९. s द्र. । u) सपा. जाग्रत् [लोडर्थे लेटि द्र.] <> जागृत इति पामे. ।

जागर्या- पावा ३, ३, १०१.
जागृत- -त्सु अप ४८, ८०^a.
ङागृवस्^b- -वद्भिः आश्रौ ४, १३,
७; १५, ८; ऋश्च २, १०, ९१.
जागृवि^b- पाठ ४, ५४; पावा ६,
१, ६६; -ङि आपश्रौ १२, ८,
३; ११, ११; वौश्रौ; -ङिः
आपश्रौ १४, १२, १; वौश्रौ २,
१४ : १८; हिश्रौ; या ९, ८^c.
जाग्रन्- -ग्रत् काश्रौ ९, १, १३;
माश्रौ २, २, ५, ३; अश्र १६, ७^ङ;
-ग्रतः वैताश्रौ ५, ८; आमिगृ
३, १२, २ : १०; अप; -ग्रतस्
काश्रौ २५, ३, ११.
जाग्रद्-दुवृत्त्य^b- -ज्यस् अश्र
१६, ६^ङ.
जाग्रन्-मिश्र- -श्रौ गोगृ १, ६, ६.
√गृ, गृ^० पाधा. क्र्या. पर. शब्दे,
गृणाति निघ ३, १४^ङ; या ४,
२४; ङगृणन्ति अप १, ३७, ४;
अशां ७, ४; गृणीषे या १०, ४४^ङ;
ङगृणे आश्रौ ६, २, ६; ८, १२,
२४; ९, ५, ५; शाश्रौ ९, ६, ६;
१४, ३, १२; साश्र १, ३९१;
ङगृणामि या ५, ९^ङ; गृणीमसि
आश्रौ ७, ८, २; जुष् १, ६ :
१५; २३; ङ वैताश्रौ ३९, २; ४१,
१; ५.
गरित्- -न्ता या १, ७.
गरुय^d- -यस् या ६, १७.
गिर^b- पाठभो २, १, ३०३;
ङगिरः आश्रौ २, ८, ३××;

शाश्रौ; या १, १०^३; ५, १७;
१०, ६; १२, ३६; पावा ८, २,
२२; गिरस् वाध २८, ६; वौध
२, २, ५८; ङगिरा आश्रौ ६, ४,
१०; ८, १२, २४; ९, ५, ५;
शाश्रौ; या ६, २४^०; १०, ५^०;
ङ गिराऽगिरा आपश्रौ १७,
९, १; वैश्रौ १९, ६ : १;
गिरि शाश्रौ ८, २५, १^ङ;
गिरौ पावा ८, २, २२; ङगीः
वौश्रौ ५, ८ : २; वाधुश्रौ ४,
११५ : १५९; वैताश्रौ ३४, ९;
अप्राय ६, ९; अप ४८, १०२;
निघ १, ११; ऋप्रा ७, २६;
ङगीभिः आश्रौ १, ५, ३५; ६,
१^६××; ३, ७, १३^६; शाश्रौ;
या ६, १४; १४, ३२.
गिरा- पाग ४, १, ४^०.
ङगिर-वणस्^b- -णः आश्रौ ४,
६, ३; ९, ६; ६, १, २^३; शाश्रौ
५, ९, १२; १३, १०; आपश्रौ
११, ८, ४; वौश्रौ ६, २७ : २१;
माश्रौ २, २, ३, २६; ४, २, २८;
वैश्रौ १४, ६ : १४; हिश्रौ ७,
५, २९; ७, २१; वैताश्रौ ३९,
७; ४०, ४; आपमं १, २, ६^ङ;
आमिगृ १, २, ३ : ८; साश्र १,
१९५; शुप्रा २, १०; वैशि २३६;
नाशि २, १, ९; -णसे या ६,
१४^ङ; -णाः अप ४८; ११५;
निघ ४, ३; या ६, १४^०.
गीः-पति^१-, गीः-पुत्र-, गीः-

पति-, गीः-पुत्र- पावा ८, २,
७०.
गृणत्- -ङणते आश्रौ २, १६, ११;
७, ११, ७; शाश्रौ ९, १६, ३;
आपश्रौ १३, १८, १; माश्रौ २,
५, ४, १२; पागृ ३, ५, ३; -णन्
वृदे ४, ७८; -ङणन्तः आश्रौ
२, ८, १४; ९, ९, ७.
गृणाति-> -ति-कर्मन्- -र्मा या
६, ८.
गृणात्व(ति-अ)र्थ- -थे या ९,
४; १०, २३.
ङगृणान्, ना- -नः आश्रौ १, २, ७;
शाश्रौ १४, ११, ९; काश्रौ २५,
११, ३४; वौश्रौ १३, २७ : ८;
निसृ २, १३ : ३०; आपमं २,
२, १^१; आमिगृ १, १, २ : ४^१;
वौगृ २, ५, ९^१; मागृ १, ५ : ९^१;
हिरु १, ३, ५^१; अप्राय २, ७;
अप ४६, ३, ५; ऋप्रा ७, २६;
-ना आश्रौ ५, ५, १२; शाश्रौ
७, २, ७; आपश्रौ १६, २९, २;
वैश्रौ १८, २० : २८; हिश्रौ ११,
८, ४; आगृ ३, ५, ७; कौगृ ३,
७, १०; शांगृ ४, ५, ८; या ११,
४९; -नाः^१ आमिगृ ३, ७,
१ : ८; वौपि १, १७ : ८.
√गृञ्, ङ्गृञ् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
गृञ्- > गृञ्-क- -कम् वैध ३,
५, ८^०.
गृञ्जन्- पाठभो २, २, १९२; -नम्
वैध २, १५, ५.

a) = उदर-। घा. अर्थः ?। b) वैप १ द्र.। c) या १, १०; २, २८; ३, ५^१; ६, १७; ९, ५, ८ परागृष्टः
द्र.। d) = स्तोत्र-। क्यन् प्र. उसं. (पाठ २, ६ [तु. रू.])। e) पाभे. वैप १, १२३२ द्र.। f) 'अत्य
(सोमस्य) भदे (मदाय) गिरि (स्तुतौ सत्यां [तत् काष्ठमेव]) इन्द्रः षडपस्थात् (उपतिष्ठेत्)' इति वा. द्र. (वैतु. ? C. गिरि-ष्ठाः
इति)। g) पाभे. वैप १, १२३३ e द्र.। h) तु. पागम.। i) गीष्पति- इति केचित् (तु. पागम.)।
j) पाभे. वैप १, १३८४ i द्र.। k) पाभे. वैप १ वृणानाः ऋ १०, १८, ६ टि. द्र.। l) = गृञ्जन्-। व्यु. ?।
m) वृञ्जन् इति C., वृञ्जन् इति मूको.। n) = कन्द-विशेष-। व्यु. ?।

गृणत्- प्रसृ. √गृ (शब्दे) द्र.

गृत्स^१- पाठ ३, ६९; -त्सः अप ४८, ८५^१; निघ ३, १५^१; या ९, ५४.

गृत्स-मद^२- -दः आगृ ३, ४, ३; कौगृ २, ५, १; शांगृ ४, १०, ३; अप ४३, ४, ३^१; ऋअ २, २, १; ९, ८६; वृदे २, ५५××; शुअ; अअ २०, २०; ३४^१; या ९, ५४; -दम् वृदे ४, ७०; या ९, ४; -दस्य चाअ १६ : २; -दाः वृदे ४, ९८; -दे वृदे २, १५५; ३, १२८; -देन वृदे ३, २७.

गार्त्समद^३- -०द आश्रौ १२, १०, १३^२; आपश्रौ २४, ६, ४; वौश्रौ ९ : ४; हिश्रौ २१, ३, ७; वैष ४, २, ८; -दः शाश्रौ १०, ३, ४; ऋअ २, २, २७; वृदे ४, ७८^१; शुअ ३, २११; ४, २६; -दम् आश्रौ ७, ६, ३; ८, ८, ८; या ८, २२; -दाः आपश्रौ २४, ६, ३; वौश्रौ ९ : १; हिश्रौ २१, ३, ७; -दानाम् शाश्रौ ११, १०, ५; वैष ४, २, ८; -दानि शाश्रौ ११, १०, ४; -दे शाश्रौ ११, ७, ३; वृदे ३, ३६.

गृत्समद-न्त् आपश्रौ २४, ६, ४; वौश्रौ ९ : ४; हिश्रौ २१, ३,

७; वैष ४, २, ८.

गृत्स-मदन- -नः या ९, ५.

†गृद्^४- -दम् आपश्रौ २०, १८, ४; हिश्रौ १४, ४, १०.

√गृध्^५, पाधा. दिवा. पर. अभि-कांक्षायाम्, जागृधुः ऋप्रा ९, ५२^१.

गर्ध- (> गर्धित- पा.) पाग ५, २, ३६.

गर्धन- पा ३, २, १५०.

गृधु- पाठ १, २३.

गृधन्^६- -ध्नः शंघ २४३^१.

गृध्नु- पा ३, २, १४०; -ध्नुः आश्रौ ६, ३, १^१.

गृध्नु-परिवार^७- -रः शंघ २४३^२.

†गृध्व^८- -ध्वैः अअ १२, २^१.

गृध्र^९- पाठ २, २४; -ध्रः आपश्रौ १५, १९, ४; वौश्रौ ९, १८ : ११; भाश्रौ; वाघ १६, २३^१; या १४, १३; -ध्राः †अप १, ३६, ५; १^२, १, ७; ५१, ७××; -ध्राणाम् अप ७०^३, ११, २६; विघ ४८, ६^१; या १४, १३^१; -ध्राणि या १४, १३.

गृध्र-गोमायु-त्रायस- -सैः अप ६१, १, ११.

गृध्र-परिवार^{१०}- -रम् वाघ १६, २१; २२; २३^२.

गृध्र-श्येना(न-आ)रोहण- -णे काघ

२७६ : ७.

गृध्र-सङ्घ- -ङ्घैः अप ७०^३, ११, २९.

√गृभ्, ह्, अस्, ह्^१ पाधा. भ्वा. चुरा. आत्म. प्रहरो; क्वा. उभ. उपादाने, गृह्येत् कौसू ८२, २१. †गृभ्णामि आपमं १, ३, ३^१; १५, ४^१; आगृ १, ७, ३^१; कौगृ १, ८, १७^१; शांगृ १, १३, २^१; पागृ; अमत् आश्रौ ६, ५, १८^१; अमः शाश्रौ ९, २०, २६^१; गृभ्णान्तु वाश्रौ २, १, १, ३८^१; †गृभ्भाय शांगृ १, १९, ६^१; ऋप्रा ८, २; †अगृभ्णत या ७, २६^१; †अगृभ्णन् आपश्रौ १६, २, १; २०, ३, ३; वौश्रौ; †अगृभ्णाम् शैशि ६६.

जग्र(भ>)भा ऋप्रा ८, ३३^१; †जगृभ्म > भ्मा ऋअ २, १०, ४७^१; वृदे ७, ५६^१; ऋप्रा ७, ३३^१; शैशि ६६^१; पा ७, २, ६४^१; †अग्रभीत् आश्रौ ३, ४, १५; शाश्रौ; †आपमं २, ३, ३^१; ५^१; ८^१; आगृ १, २०, ५^१; कौगृ २, २, ११^१; शांगृ २, ३, १^१; आगृ १, ७ : १०^१; वैष २, ६ : ३^१; हिगृ १, ५, ९^१; †जैगृ १, १२ : २८^१; २९^१; अग्र-भीष्टाम् माश्रौ ५, २, ९, ६; अग्र-भीष्टुः शाश्रौ ६, १, ५; माश्रौ ५, २, ९, ६; †अग्रभीष्ट कौसू ७१,

- a) वैष १ द्र. । b) मेधावि-नामन्- । c) ळा इति पाठः ? यनि. शोधः । d) तस्यापत्थीयस् तेनदृष्टीयो वा अण् प्र. । e) सकृत् गृत्स^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । f) पाभे. वैष १, १२२५ । द्र. । g) या १४, १३ पा १, ३, ६९ परामृष्टः द्र. । h) विप. । न (क्) प्र. उस्. (पाठ ३, १२) । i) सप्र. गृध्रः <> गृध्रः इति पाभे. । j) विप. । वसः । k) सप्र. गृध्नुपरिवारः <> गृध्रपरिवारम् इति पाभे. । l) या २, २८; ५, १५; ९, ८; १०, २३. पावा ८, २, ३२ परामृष्टः द्र. । m) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. । n) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. । o) पाभे. वैष २, २ खं. अमत् ऐत्रा ४, १० टि. द्र. । p) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. । q) सप्र. पतिरेतो गृभ्भाय <> प्रति रेतो गृहाण इति पाभे. । r) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. । s) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. । t) पाभे. वैष २, ३ खं. अग्रहीत् मंत्रा १, ६, १५ टि. द्र. । u) पाभे. वैष १, १२३६ । द्र. ।

६; ऋग्रभैषम्^a वौश्रौ १७,
४१:१६; आपमं २, ८३; मागृ
२, २१, १७; अग्रभिसम् हिगृ १,
१०, ६१^a; अग्रभम् अग्र १९,
३८^१; ऋग्रहम् आमिगृ १, ३,
४:२^a; १०.

जग्रभम् पागृ १, १३, ११^a.
गृहीते आपश्रौ १६, २१, ८;
वौश्रौ १, १२: ५०; ५२; ५४;
५५××; माश्रौ; गृहाति शाश्रौ
३, १७, ८××; काश्रौ; आपश्रौ
१८, २, १^b; हिश्रौ ८, २, ३२^c;
आमिगृ १, १, ३: ६^d; हिगृ १, ५, ६;
या १०, २३; गृहाते भाश्रौ
५, ४, ११; गृहीतः काश्रौ
९, १३, ५; वौश्रौ; गृहन्ति
शाश्रौ १८, २४, ९; आपश्रौ;
ऋगृहे कौस् ३, ११-१५;
ऋगृहामि आश्रौ २, ९, ९; काश्रौ;
आपश्रौ १२, ७, १०^e; २१, २१,
४^f; माश्रौ १, ४, १, १५^g; २,
२, १, २^h; आपमं २, ५, २२ⁱ;
भागृ १, ७: ८^j; वागृ ५, १९^k;
हिगृ १, २०, १^k; गृहातु ऋआपश्रौ
१, १६, ३; ८, ६, २१; १५, २,
४^l; १६, ५, ३^l; काठश्रौ; वौश्रौ
९, ३: १९^l××; ऋगृहीष्व आपश्रौ
१, २५, ७; वौश्रौ १, १०: ६^m;
भाश्रौ; माश्रौ १, २, ३, ३०^m;
वाश्रौ १, ३, १, २६^m; ऋगृहाण

वौश्रौ ७, १६: ४६; ८, ७: ७;
आगृ; अगृहत् आश्रौ ८, १३,
१०; वाधूश्रौ ४, २६: ३; या
७, २६; अगृहन् आपश्रौ १८,
१३, १९ⁿ; वौश्रौ; गृहीत वौश्रौ
२५, ११: १६; हिश्रौ; आपमं
२, १३, १२ⁿ; भागृ १, २३:
११ⁿ; गृहीयात् आश्रौ १, १०,
३××; शाश्रौ; गृहीयाताम् भाश्रौ
८, ७, ५; वौघ २, २, ७१;
गृहीरन् वौश्रौ २३, ८: २५;
जुस्; गृहीयुः आपश्रौ १९, २,
१४××; वौश्रौ.

जग्राह शाश्रौ १५, १८, १; वौश्रौ;
जगृहः वृदे ३, १३६; जगृह
जुस् ३, १०: ३८; साग्र १,
३१७ⁿ; ग्रहीष्यसि सु १३,
१; ग्रहीष्यामि वौश्रौ ७, ६:
३५××; वैश्रौ; अग्रहीत् आमिगृ
१, १, ३: १३ⁿ××; कागृ ४१,
१६ⁿ; मागृ १, १०, १५; २२,
५ⁿ; ऋगृहीः कौस् ८७, १२;
अग्रहैषम् सु १४, १.

गृह्यते वौश्रौ १४, २६: १९××;
वाधूश्रौ; गृह्यते आपश्रौ १२,
२७, २; वौश्रौ; गृह्यन्ते आपश्रौ
१२, १८, ११××; वौश्रौ; या १,
२३; गृह्यते अप ५७, १-४, ३;
गृह्येरन् आपश्रौ १२, २१, २२.
ग्राहयति आपश्रौ ८, ६, २२; ९,

१५, ७ⁿ; वौश्रौ; ग्राहयतु वृदे ३,
२१; ग्राहयेत् वौश्रौ २६, ५:
१४; वौगृ; ग्राहयेयम् वाधूश्रौ
४, १०: २४.

जिगृहीषेत् वाधूश्रौ २, १०:
६; ९.

ऋगृभीत-तः या १४, २३; -तान्
कौस् ५, १.

गृह^१- पा ३, १, १४४; पाग २, ४,
३१; ४, २, ७५; -ऋहः आश्रौ ३,
६, २४; अप ३२, १, ५; अग्र ५,
६; -ऋहम् आपश्रौ ११, ७, २;
वाश्रौ; या १३, ३^२; -हम्-हम्
शागृ ३, १, ९^१; -हस्य हिश्रौ ३,
८, १; ६, ७, १; वागृ; -ऋहाः
आश्रौ १, ११, ७××; शाश्रौ;
वौगृ ३, २२^२; या ३, १३^२;
-०ऋहाः आश्रौ २, ५, १७; काश्रौ;
-ऋहाणाम् आपश्रौ ५, १८,
२××; वैश्रौ; -हाणि अप ५५,
६, ३××; -हात् शाश्रौ ४, ५,
१; आपश्रौ ५, ७, ६××; वौश्रौ;
-ऋहान् आश्रौ २, ५, २; १२;
१७^२; शाश्रौ; आपश्रौ ६, २७,
३^२; १६, १६, ४^२; वैश्रौ^२
१८, १४: १२; १५; हिश्रौ
६, ७, ८^२; द्राश्रौ ७, ३, ११^२;
लाश्रौ ३, ३, १^२; आपमं १,
८, २^२; कौगृ ३, ४, ३^२; ५^२;
शागृ ३, ५, ३^२; ७, २^२;

a) पामे. वैष १, १२३६ p द्र. । b) पामे. पृ ५६९० द्र. । c) पामे. पृ ३११ d द्र. ।

d) निगृहाति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिगृ १, ५, ६) । e) पामे. वैष १, ६५४ m द्र. । f) पामे. वैष १,

१२३८ b द्र. । g) पामे. वैष १, ६२७० द्र. । h) पामे. वैष १, १२३७ l द्र. । i) सपा. गृहामि <>

प्रतिगृहामि इति पामे. । j) पामे. पृ ६९५० द्र. । k) पामे. वैष १, १२३६ f द्र. । l) पामे.

वैष-१, १२३६ j द्र. । m) पामे. वैष १, १२३६ k द्र. । n) पामे. वैष १, १२३६ n द्र. । o) सपा. हिगृ २,

३, ७ यज्ञीत इति पामे. । p) पामे. वैष १, १२३६ q द्र. । q) पामे. वैष १, १२३८ h द्र. । r) वैष १ द्र. ।

s) पाठः ? प्रहाः इति शोधः । सपा. ?गृहा दाक्षिणानि <> ग्रहदाक्षिणानि इति पामे. । t) पामे. वैष १,

१२४० n द्र. । u) पामे. वैष १, १२४१ b द्र. ।

वीगृ १, ५, ३^{१९}; ६^{३७}?^{१९}; वीपि २,
-४, १८^{१९}; भागृ १, २७, ३^{१९}; मागृ १,
१४, ६^{१९}; हिगृ १, २९, १^{३७}?^{१९}; २^{१९};
या ४, ५; शुभा ३, १५०^{३७}?^{१९};
-†हाय आगृ १, २, ४; वीगृ २,
८, १९; -हासः आमिगृ ३, ८,
२ : ३६; वीपि १, १५ : ४३; -हे
शांश्रौ १५, १७, १××; काश्रौ;
†आपमं १, ९, ४^{१९}; २, ८, ८^{१९};
†हिगृ १, ११, १^{१९}; १९, ७^{१९}; या
४, २५†; ७, ६†; ८, ५; ११,
१६†; ४६; -†हेऽ-हे शांश्रौ
१५, २३, १; आपश्रौ १६,
२६, १; वीश्रौ; या २, २१;
-हेण वाधूश्रौ ३, ४९ : ४†;
-†हेभ्यः आपश्रौ ५, १, ७××;
भाश्रौ; -†हेषु आश्रौ ३, ११, ७;
काश्रौ; मागृ २, १७, १^{१९}; हिगृ
२, ४, ५^{१९}; -†हेः वीश्रौ १४, २१ :
१३; माश्रौ १, ४, ३, १; वाश्रौ.
गार्ह- पा ४, २, ७५.
गार्ह^{१९}- ह्याणि वैध ३, १, २.
गृह-कर्मन्- र्मं आज्यो १०, २;
-र्मणः आमिगृ २, ५, ९ : १; जैगृ
२, ६ : १; -र्मण अप २८, २, १.
गृह-कलविक्र^{१९}- पाग २, १, ४८.
गृह-कारिन्- री विध ४४,
३६.
गृह-कोष्ठ-प्रवेशन- नम् शंघ
१२.
गृह-क्षेत्र- त्रयोः शंघ ३०९.
गृहक्षेत्र-विरोध- धे वाध
१६, १३.

गृह-गोधा- -धा काथ २७६:५.
गृह-ग्राम-पुर- -राणि अप ६८,
२, ३३.
†गृह-(घ>)घी- -घी पागृ १,
११, २; ४; जैगृ १, २२ : २०.
गृह-दाह- -हे शांश्रौ ३, ४, १३;
आपश्रौ ९, ३, १७; वैश्रौ २०,
७ : ९.
गृहदाह-वह्नि- -ह्निना वैश्रौ
२०, ८ : ८,
गृहदाहा(ह-अ)घि- -घिना
कप्र २, ९, १५.
गृह-दीपक^{१९}- पाग २, २, ९.
गृह-देव- -वाः अप १९^{१९}, ५, ४;
-वान् अप ४, २, १४.
†गृह-देवता- -ताभ्यः आगृ १,
२, ४; आमिगृ १, ७, २ : ८; वैगृ
३, ७ : ९; ५, २ : १२; वाघ
११, ४; गौध ५, १४.
गृह-द्वार- -द्वारः या ८, १०;
-द्वारि आमिगृ २, ६, ४ : २२;
वीध १, ५, ११०.
गृह-द्वार- -रम् गोथ ४, ७, १८;
-रे आमिगृ २, ६, ७ : ५; वीपि
३, ४, २०; शंघ १३२; ३४५;
३४६; -रेऽ-रे वीध ३, २, ६.
गृहद्वार-पार्श्व- -र्श्वे गौपि
१, ४, १७.
गृह-धर्म- -र्मम् आमिगृ २, ७,
१० : १.
गृह-नमन्- पा, पाग ८, ४, ३९.
गृह-नामन्- -म या ४, ५^{१९};
-मानि निघ ३, ४; १३.

गृह-निहित- -तानाम् विध २३,
३१.
†गृह-प^{१९}- -०प, -पाय आपमं
२, १८, ३३; भागृ २, ९ : ९;
हिगृ २, ९, २.
†गृहपो- -०पि, -प्ये आपमं
२, १८, ३४; भागृ २, ९ : ९;
हिगृ २, ९, २.
गृह-पति- पाग ४, १, ८४;
६, २, १६०; -तये आश्रौ २,
४, ८; ४, १०, ९; शांश्रौ; -†तिः
आश्रौ १, १०, ५××; शांश्रौ;
वीगृ ३, १०, ६^{१९}; -†तिना शांश्रौ
४, १२, १०^{२१}; आपश्रौ ६, २६,
१^{३१}××; वीश्रौ; कौसू ७०,
९^{२१}; -तिभ्यः भागृ ३, १३ :
९†; -तिम् आश्रौ १; १०,
४; ८, १३, १४; शांश्रौ १, १५,
२†××; काश्रौ; आपश्रौ ४, १,
१०^{३१}†^{३१}; भाश्रौ ४, २, २^{२१}†^{३१};
हिश्रौ १, २, ५^{२१}†^{३१}; -ती निस्
१०, ८ : १९; -तीनाम् वीश्रौ
१०, ५६:१†; चात्र १८ : २^{१९};
-†ंते आश्रौ २, ५, १२; शांश्रौ
१, १५, ४; २, १५, ५××; काश्रौ;
-तेः आश्रौ १, १०, ६××;
शांश्रौ; -ती आश्रौ ६, १०, २६;
शांश्रौ ४, ९, ७××; दाश्रौ.
†गृहपती- -ती
आपमं १, २, ८; कागृ २५, ५;
वीगृ १, ५, ३^{१९}; जैगृ.
गार्हपत- पा ४, १, ८४;
-ते काश्रौ १, ६, १६; २२, ४, ७;

a) अ इति पाठः? यत्नि. शोधः । b) पामे. वैप १, १२४० n द्र. । c) पामे. वैप १, १२४१ b द्र. ।
d) पामे. वैप २, ३३३. गृहेषु संवा १, १, १३ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १७४५ n द्र. । f) पामे. वैप १, १२४०
k द्र. । g) सपा. गृहेषु <> देवेषु इति पामे. । h) विप. । तस्येदमीयः प्यः प्र. उंसं. (पावा ४, १, ८५) ।
i) तु. पागम. । j) = वरटा- (कीट-विशेष-। तु. मत् १२, ६६।) । k) वैप १ द्र. । l) पामे. वैप १, १२४२ i
द्र. । m) पामे. वैप १, ११२८ z द्र. । n) *तीना इति पाठः? यत्नि. शोधः ।
वैप४-तु-३१

लाश्रौ ८,६,१; पात्रा ६,२,४२;
मासू ६,६,२१.

१गार्हपत्य- पा ४,४,९०;
-तृत्वा आपश्रौ २,५,९; वौश्रौ
१,१२:३१; माश्रौ; -त्यः आश्रौ
२,२, १३; ५,१२^५xx; काश्रौ;
-त्यम् आश्रौ २,२,१; ३, १५;
१७; ५,२; ७, ११; १९, ३५;
३७; शाश्रौ; काश्रौ १७, १,३;
वैताश्रौ २८,२४; -त्यस्य आश्रौ
१, १०, ४xx; शाश्रौ; -त्याव
आश्रौ १, ११, ४; ९; २, २,
१; १४; शाश्रौ २, ६, २xx;
१५, ५^५; काश्रौ; -तृत्वानि
शाश्रौ ४, १२, १०; माश्रौ;
-त्याव माश्रौ १, ५, २, ९;
आपमं ११, ३,३; ९, ४; पाश्रु;
-त्ये आश्रौ १, १२, ३२xx;
शाश्रौ; -तृत्वेन शाश्रौ २,८, ८;
आपश्रौ ६,५, ६; आश्रु.

गार्हपत्य-कर्मण-
-मस्यः हिश्रौ ७,८:१३; -मार्गि
वाश्रौ १,६,२,५; हिश्रौ ७,८:१३.

गार्हपत्य-ऋष्याद्-
-व्यादौ कौसू ७०,१०.

गार्हपत्य-चित्ति-
-त्तिः वाघूश्रौ ४, ११५:२; १४;
-त्तिम् आपश्रौ १६, १५, ५;
वैश्रौ १८, १२:२६; -तीः
वाघूश्रौ ३, ७९:१४; -त्ते:
आपश्रौ १६, १४, १; ४; वैश्रौ
१८,१२:७; ११; हिश्रौ; -तौ
आपश्रौ १६,१४,५; वौश्रौ २२,
४:४; वैश्रौ; -त्याम् वाघूश्रौ
४, ११५:१६; -त्यै वाघूश्रौ
४,११५:६.

गार्हपत्य-दक्षिणासि-
-श्री आपश्रौ ९, ३, २१; हिश्रौ
३,६,२८xx; -न्त्योः वाश्रौ १,
३,२, २६; हिश्रौ १,८,१९xx.

गार्हपत्य-दक्षिणा-
सि-त्त्वान- > णीय- न्यम्
वाश्रौ १, २,३,३८.

गार्हपत्य-देश- -शम्
आपश्रौ १, १०, ८; -शे वैश्रौ
३,४:२२; ८:११; हिश्रौ १,
२,५७xx; कौसू २२,१४.

गार्हपत्य-पश्चात् अप
४५,२,१७.

गार्हपत्य-प्रवाद- -दः
हिश्रौ २,७,६८.

गार्हपत्य-लक्षण-
-गत्य माश्रौ १, ५,२,९; ३,१;
अप्राय ५, १; -णे माश्रौ १,५,
२,२०; वाश्रौ १,४,२,१०.

गार्हपत्य-लोक-
स्पृणा- -णाः काश्रौ १७, ७,
२६.

गार्हपत्य-विधान-
वत्त (:) अप २३,१०,४.

गार्हपत्य-शब्द-
-ब्दः आपश्रौ १, १०,२१; भाश्रौ
१, १०, १५; -ब्दम् वैश्रौ ४,
६:१२.

गार्हपत्य-श्रुत- -त्तम्
कौसू २२,१४.

गार्हपत्य-श्रोगि-
-गिम् वैश्रौ २,२:१८.

गार्हपत्य-संयुक्त-
-क्तानि हिश्रौ ५,२,४.

गार्हपत्य-सकाश-
-शाव वौश्रौ २६, ५:९; -शे

वौश्रौ २५,११:२७.

गार्हपत्य-स्थान- ने
काश्रौ ४, ११,८; नाश्रु १,६,२.

गार्हपत्य-स्थानीय-
-यम् भाश्रौ १,१०,१३.

२गार्हप(त्य>)त्या-
-त्याः वाघूश्रौ ४, ११९:२.

गार्हपत्या(त्य-अ)-
गार- -रे काश्रौ ४, ७,१४; ८;
१; आपश्रौ ४,३,१७; भाश्रौ.

गार्हपत्या(त्य-अ)-
सि- -सिम् वैश्रौ ४, १०:१३;
-श्री वैव २,६,३.

गार्हपत्या(त्य-आ)-
ज्य- -ज्यम् अप्राय २,३.

गार्हपत्या(त्य-आ)-
दि- -दीन् वैष २,३,४; ४,३;
७,५.

गार्हपत्या(त्य-अ)न्त-
-न्ते माश्रौ १,२, ५, २०; ७,४;
११; ६,१६; २,२,१,४१xx.

गार्हपत्या(त्य-अ)
न्वाहार्यपचन- -नौ आपश्रौ १,
७,१३.

गार्हपत्या(त्य-अ)न्वा-
हार्यपचना(न-आ)हवनीय-सन्त्या
(अ-आ)वत्त- -ध्यानाम्
वैश्रौ १,८:९.

गार्हपत्या(त्य-आ)यवन-
-नम् काश्रौ ४, ८, २१; आपश्रौ
५,४, २; १२xx; वौश्रौ; -नाव
माश्रौ ५,२, १८; हिश्रौ ३, ३,
९; -ने काश्रौ ३, १२, २५;
आपश्रौ.

गार्हपत्या(त्य-अ)-
चिन्- -चिः वैश्रौ २,४:३.

a) = तत्त्वान- [काश्रौ १७, १,३ प्रश्रु.] शिष्टं वैष १ द्र. । b) पामे. वैष १,१२४२ p द्र. । c) वत्त-
उप. = कुण्ड-चिह्न- । d) मत्तो. वसः मूप. = चित्ति-; उप. = इष्टका- । e) विप. (इष्टका- [तु. C.] ।

गार्हपत्या(त्य-आ)
हवनीय- -ययोः आश्रौ ३,
१०,१५; १३, ६; आपस्तु ४,१;
५^३; काशु; -यौ आश्रौ २, ५,
२; १२; ४, २, १२; शांश्रौ २,
१२, ६; काश्रौ १, ८, २३; २६,
२, ३०; आपश्रौ.

गार्हपत्याहवनीय-
संब(न्व>)न्धा^३- न्धाम्
वैश्रौ १, २ : १२.

गार्हपत्ये(त्य-इ)
ष्टका- -काः वैताश्रौ २८, २५.

गार्हपत्यो(त्य-उ)प-
स्थान- -नात्. भाश्रौ १, १०,
१२.

गार्हपत्योपस्था-
ना(न-अ)न्त^३- न्तम् भाश्रौ
८, २०, ६.

गार्हपत्यो(त्य-उ)
ल्लमुक- -कात् शांश्रौ ३, १९, १४.

गृहपति-गोत्रा(त्र-अ)न्वय-
-याः आश्रौ १२, १०, ३.

गृहपति-भक्त- -क्तम् अप
१, २७, २.

गृहपति-मरण- -णे आश्रौ
१२, ६, ३४^३; काश्रौ २४, ६, १८.

गृहपति-महानस- -सात्
गोश्र १, ४, २४.

गृहपति-मुख्य- -ख्यान वाश्रौ
३, २, १, १२.

गृहपति-यविष्ट- -ष्टयोः
ऋश्र २, ८, १०२.

गृहपति-वत् मीसू १०, ६,
५५.

गृहपति-वदन- -नम् शांश्रौ

१०, २०, १.
गृहपति-वर्जम् काश्रौ १२,
१, १८.

गृहपति-सप्तदश- -शाः
आश्रौ ४, १, ८; शांश्रौ १३,
१४, १.

गृहपत्य(ति-अ)न्वारम्भ-
-म्भः काश्रौ १२, १, १३.

गृहपत्या(ति-आ)हवनीय^३-
-ये काश्रौ १२, १, १६.

गृह-पोषण- -णे आज्यो ४, ८.

गृह-प्रद- -दः वाध २९, १४.

गृह-प्रपदन- -नम् आश्र २,
१०, १.

गृह-प्रवेश- -शः आज्यो ८, ८.
-शम् आज्यो ५, ९.

गृह-प्रवेशन- पाग ५, १, १११^०;
-नम् कौश्र ३, ३, ८.

गृहप्रवेशनीय- पा ५, १,
१११.

गृह-भू-कुड्या(ञ-आ)द्यु(दि-
उ)पमेत्तृ- -त्ता विध ५, १०८.

गृह-मध्य- -ध्ये माश्र २, १२,
६; वैश्र ३, ७ : ११.

गृह-मध्य(म>)मा- -मायाम्
माश्र २, १२. ५.

गृह-मही-रथ- -थाः अप १४,
१, ८.

गृह-मेध^३- -धम् आपश्रौ ५,
२६, ५; भाश्रौ ५, १८, १; -धान्
माश्रौ १, ७, ५, २३^०; -०घासः

आश्रौ २, १८, ४; शांश्रौ ३, १५,
९; -धे आपध १, ४, २९; २,
२५, ७; हिध; -धेभ्यः आश्रौ

२, १८, ३; शांश्रौ; माश्रौ १,

७, ५, ११; २२^३.

गृहमेधीय^३- पा ४, २, ३२;
-यः शांश्रौ १४, १०, १६; वौश्रौ

५, १० : १५; २५, २ : १७;
भाश्रौ; -यम् वौश्रौ ५, १० : ९;

हिश्रौ ३, ६, ५^३; -यस्य आपश्रौ
८, ९, ९; वौश्रौ २१, ३ : १४;

१६x५; भाश्रौ; -यात् भाश्रौ ८,
१२, १७; -याय भाश्रौ ८, ११,

९; माश्रौ १, ७, ५, १०; हिश्रौ
५, ३, २; -ये वौश्रौ २१, ६ :

१८; माश्रौ १, ७, ५, ५; -येन
आपश्रौ २२, ८, १६; काश्रौसं

२९ : ७; वौश्रौ.

गृहमेधीय-प्रभृति-
-वीनि वौश्रौ १७, ६० : १०.

गृहमेधीय-वत् मीसू १०,
७, ५०.

गृहमेधो(ध-उ)पदेशन-
-नम् आपध १, २, ७; हिध १,
१, ४०.

गृहमेध्य- पा ४, २, ३२.

गृह-मेधिन्^३- -धिनः आश्रौ
१०, ७, १; शांश्रौ १६, २, २;

आपश्रौ; -धिनम् कौश्र ३, १०,
३५; शांश्र २, १६, ६; -धिनाम्

वैताश्रौ ९, २; आज्यो ५, ८;
-धिनोः आपध २, १, १; १५; हिध

२, १, १; १४; -धिम्यः आपश्रौ
८, ९, ८; २०; १४, १०^३;

काश्रौ ५, ६, ६; वौश्रौ; -^३धी
आपश्रौ १७, १६, १८; वैश्रौ १९,
६ : १०८; हिश्रौ.

गृहमेधिनी- -नी
आपश्रौ ३, १०, ९; भाश्रौ ३,

a) विप. । वस. । b) मलो. कस. । c) तु. पागम. । d) = औपासन-होम- । वैप १ द्र. ।

e) पाभे. वैप २, ३खं. गृहमेधिनः टि. द्र. । f) पाभे. वैप २, ३खं. गृहमेधिम्यः टि. द्र. । g) वैप १ द्र. ।

h) पाभे. वैप १, १२४३ i द्र.

१२, ८; -नीनाम् वाध २१, १४.

गृहमेधि-व्रत- -तम् गोयु १, ४, १८.

गृहमेधि-स्विष्टकृत्- -कृतौ काश्रौ ५, ६, १७.

गृह-यु^१- पाउना १, ३७.

गृह-राज^२- -जाय वौयु २, ८, १९^३.

गृह-लाभ- -भः वाध २९, १३.

गृह-वत्- -वान् आपश्रौ १, २, ११^२; भाश्रौ १, ३, ४^२.

गृह-वृद्धि- -द्धिम् आमिगृ २, ५, ९ : १; जैयु २, ६ : १.

गृह-शयना (न-अ) लङ्कार- वासस्- -सांसि शेष २६२

गृह-शान्ति- -न्तिम् आमिगृ २, ५, ९ : २; जैयु २, ६ : २.

गृह-संकाश- -शौ कौस् २४, ११; ७७, १४.

गृह-सर्प- पाग २, १, ४८^०.

गृह-स्य- -स्यः आमिगृ ३, १०, ११; ६ x x; वौयु; -स्यम् वौपि ३, १, १०; वैयु ७, १ : १४; गौपि;

-स्यस्य आमिगृ २, ७, ३ : १; ३, १०, ४ : ३०; वौयु; -स्याः वैध १, ५, १; -स्यान् आमिगृ

३, ११, १ : ११; वाध ११, १७; -स्थानाम् अप ५३, ५, २; वाध ६, १९; शेष; -स्थे

वाध ८, १५; -स्थेन आमिगृ २, ७, ११ : ९.

गृह-स्य- -स्यः आमिगृ ३, १०, ११; ६ x x; वौयु; -स्यम् वौपि ३, १, १०; वैयु ७, १ : १४; गौपि;

-स्यस्य आमिगृ २, ७, ३ : १; ३, १०, ४ : ३०; वौयु; -स्याः वैध १, ५, १; -स्यान् आमिगृ

३, ११, १ : ११; वाध ११, १७; -स्थानाम् अप ५३, ५, २; वाध ६, १९; शेष; -स्थे वाध ८, १५; -स्थेन आमिगृ २, ७, ११ : ९.

गृह-स्य- -स्यः आमिगृ ३, १०, ११; ६ x x; वौयु; -स्यम् वौपि ३, १, १०; वैयु ७, १ : १४; गौपि;

-स्यस्य आमिगृ २, ७, ३ : १; ३, १०, ४ : ३०; वौयु; -स्याः वैध १, ५, १; -स्यान् आमिगृ ३, ११, १ : ११; वाध ११, १७; -स्थानाम् अप ५३, ५, २; वाध ६, १९; शेष; -स्थे वाध ८, १५; -स्थेन आमिगृ २, ७, ११ : ९.

३, ४ : १४; ४, २ : १०; आपघ.

गार्हस्थ्य-नैयमिक-

-केषु वाध १९, ३.

गार्हस्थ्य्या (स्थ-अ)

ङ्ग- -ङ्गानाम् वाध १९, १३.

गार्हस्थ्य्या (स्थ-अ)

नुसरण- -णम् वैध १, ३, ३.

गृहस्थ्य-धर्म- -र्माणि वैयु ६, १८ : ८; -र्मान् आमिगृ ३, ७, ४ : ३२. वौपि.

गृहस्थ्यधर्म-वृत्ति- -त्तौ शेष ४६१^०.

गृहस्थ्य-वत् वैयु ५, ७ : १३.

गृहस्थ्य-साधु- -धून् गौपि २, २, १०.

गृहस्थ्य्या (स्थ-आ) ध्रम- >

ध्रमिन्- -मी वैध ३, १, १.

गृहा (ह-आ) गत, ता- -तम् वैध १, ४, १; -ताः गौपि १, ७, ९;

-ताम् गोयु २, ४, ६.

गृहा (ह-आ) नन्- -नौ सु २, २.

गृहा (ह-आ) वश्यक- -कानि शेष ३३५.

गृहा (ह-आ) ध्रम- -मात् विध ५२, २७.

गृहाश्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहा (ह-अ) ध्रम- -ध्रमिन्- -मिणः विध ३३, २; ५८, १; -मी विध ५२, १; २८; २९.

गृहिणी-भक्त- -क्तम्

अप १, ३०, २.

गृहो (ह-उ) स्तर्ग- -र्गः शांयु ५, ११, १.

गृहो (ह-उ) पकरण- -णानि वाध १७, ४५.

गृह्य, ह्या^१- -ह्यः शांयु ५, २, ४;

गोयु १, १, २१; ३, १६; द्रायु;

-ह्यम् आयु १, ९, १; कौयु

३, ४, ५; शांयु; -ह्याः आपश्रौ

८, ११, २; वौश्रौ ५, १६;

६; भाश्रौ; -ह्याणि वौश्रौ २२,

१२ : ६; आयु १, १, १; आमिगृ

२, ७, २ : १ x x; हियु; -ह्याव

द्रायु ३, २, १; -ह्यान् काश्रौ ४,

१२, २३; वाध ११, ८; -ह्यानि

वौयु २, ६, १७; -ह्याभ्यः पायु २,

९, २; कायु ५४, ४; वौयु; -ह्ये

आयु १, २३, २५; कौयु; -ह्येयु

कौस् ८९, १६.

गृह्य-पुरुष^२- -पः वायु १, १.

गृह्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि

आमिगृ २, ७, ४ : १; भायु ३,

१८ : १.

गृह्य-त्यालीपाक- -कानाम्

पायु १, १, १.

गृ (ह >) ह्या-कर्मन्^३-

-र्माणि गोयु १, १, १; द्रायु १,

१, १.

गृह्या (ह-अ) भि- -भिम् वौयु

३, ५, ९; अप २२, १, ३; -भौ

कौयु १, १७, ७; वाध ११, ३;

वैध ३, १, २.

गृह्यालु- वा ३, २, १५८.

a) = गृह-वति-।

b) वैप १ द्र.।

c) तु. पागमं.।

d) = आश्रम-विशेष-।

e) वृत्तः इति-

मिताक्षरा [याज्ञ ३, २९०]।

f) विध. (ऋषि-). वस.।

g) विप., नाप. (वाल., देवता., कर्मन्-प्रभृ.)।

h) = परिशिष्ट-विशेष-।

i) कस. पूष. छान्दसो दीर्घः (तु. गृह्यात्महः [१; ३२-३८], भट्टनारायणः, ३५५; वैतु. खरकण्डः द्वे पदे इति)।

गृहीत, ता- पाग ५, २, ८८; -तः
 काश्रौ १०, ७, ८; वौश्रौ; -तम्
 आपश्रौ ९, ४, १३; १६, ९; भाश्रौ;
 -तम्ऽतम् वौश्रौ ३, १६; १९;
 -तस्य आपश्रौ २, ७, १२; भाश्रौ;
 -तानाम् आश्रौ १०, १, १७;
 -ताम् अप्राय २, ५; -तायाम्
 अप ३७, ६, १; वैध ३, ११, ३;
 -ते शाश्रौ ३, २०, २०; ७, १५,
 १७; हिश्रौ; -तेन अप १, ३१, ७;
 ३५, ३; विध ६६, १; ७९, १;
 -तेषु जैश्रौ ९ : २५; वैताश्रौ
 ३०, १०.
 गृहीत-गार्भा-लिङ्ग- -ज्ञानि
 वैश्र ३, १० : १.
 गृहीत-ग्रन्थ^१- -न्थः नाशि १,
 ६, २२.
 गृहीत-द्वर्भ^२- -र्भः अप १८^३,
 ८, १.
 गृहीत-घन-प्रवेश- -शे विध
 ६, ९.
 गृहीतघनप्रवेशा(श-अ)र्थ-
 -र्थम् विध ६, ९.
 गृहीत-पाणि^४- पावाग २, २,
 ३६.
 गृहीत-पा(द >)दा^५- -दाम्
 विध २९, १.
 गृहीत-मधुप्रक^६- -कः आमिष्ट
 १, ६, १ : ३.
 गृहीत-मूद्य^७- -दयम् विध ५,
 १२७.
 गृहीत-शिक्ष^८- -शः विध ६०,
 २४.
 गृहीत-सोम^९- -सम् काश्रौ ७,

गृहीत-स्तोत्र^{१०}- -त्रः जैश्रौका
 १८०.
 गृहीता (त-अ)नुगमन- -ने
 काश्रौ २५, ३, १५.
 गृहीता(त-अ)स्तमित- -तयोः
 अप ५३, ६, ४.
 गृहीतिन्- पा ५, २, ८८.
 गृहीत्वा आश्रौ १, ११, ९××; शाश्रौ;
 गृहीत्वाऽगृहीत्वा काश्रौ ९, ५,
 ९××.
 गृह्णन्- -ह्णन्तः वीश्र १, ८, ६; -ह्णन्त
 जैश्रौका १०४; -ह्णन्सु जैश्रौ
 ८ : ४; -ह्णन् आश्रौ ३, ६, १६;
 आपश्रौ; -ह्णन्तः वौश्रौ २६, १२ :
 २३; -ह्णन्तम् वैताश्रौ ५, ७;
 ३०, १०.
 गृह्णन्ती- -तीम् काश्र १४, ८.
 गृह्णन्ती- -न्तीम् गोश्र २, १, ७.
 गृह्णाति- >°ति-कर्मन्- -र्माया ६,
 ८.
 गृह्णान- -न्तः वौश्रौ १, १२ :
 ५४××; -न्तः काश्रौ ८, १, १८;
 वौश्रौ.
 गृह्य आमिष्ट २, ६, ६ : २०; द्राग्य
 ३, १, १४; वीध १, ४, ९××.
 गृह्य- पा ३, १, ११९.
 गृह्यमाण, णा- -णः अप ५३, २, ३;
 शुश्र १, ४९०; -णम् निम् १०,
 ८ : ३६; -णान् माश्रौ ५, २, १६,
 १२; -णानि माश्रौ ५, २, १६,
 १०; हिश्रौ ६, २, ९; -णासु
 माश्रौ १, ४, १, १२; वृदे ५,
 १५४; -णे आपश्रौ १३, ९, ४;
 जैश्रौका; -णेषु शाश्रौ ७, १५,
 १५; आपश्रौ १४, ९, ४; वौश्रौ.

गृभ्- -भय या ३, ३०.
 ग्रहण^१- पाउभो २, २, १९४; -णम्
 काश्रौ ३, ६, १८; ५, ४, ६××;
 ९, ५, १५^२; आपश्रौ; पा ५, २,
 ७७; पावा १, ४, ५१××;
 -णस्य तैषा १, २२; मीस् १०,
 ७, ३३××; -णाः माश्रौ २, ४,
 २, २^३; -णात् काश्रौ ७, ५, २४;
 १२, ६, २४; आपश्रौ; -णानि
 आपश्रौ १३, २, ५; हिश्रौ ८, ४,
 ६; -णे आपश्रौ १८, १३, १९;
 वौश्रौ; पावा २, ४, ७७; -णेषु
 हिश्रौ ९, ७, २१; पावा १, १,
 ५७.
 ग्रहणी- -णी^४ कौस् २९, २;
 -ण्यौ^५ आपश्रौ १८, ३, ६; हिश्रौ
 १३, १, १८.
 ग्रहण-काल- -ले अप ११, १,
 २; १३, १, २.
 ग्रहण-निर्वाप- -पे वौश्रौ २७,
 ४ : २१.
 ग्रहण-प्रतिषेध- -ध्वात् पावा १,
 ३, ९.
 ग्रहण-प्रदान- -ने आपश्रौ १२,
 २७, ३.
 ग्रहण-भेद- -दात् काश्रौ ९,
 ४, २३.
 ग्रहण-मन्त्र- -न्त्रः वौश्रौ २५,
 २३, ६.
 ग्रहण-लवन-स्तरणा(ख-आ)ज्य
 ग्रहण- -णेषु काश्रौ १, ७, ९.
 ग्रहण-विशेषण-त्व- -त्वात् पावा
 १, १, १२.
 ग्रहण-विसर्ग- -र्गौ वैश्र २, १३ :
 १७.

a) विप. वि. ब. b) तु. पागम. c) वैप १ द्र. d) भांप., नाप. (उपराग- [अप.])।
 e) ग्रहणहणम् इति Web. f) = मन्त्र-विशेष- (तु. मै १, ३, १६ प्रष्टे.)। g) = कटक-वन्ध-। h) = ऋग्-
 विशेष- (तु. मै १, ११, ४)।

ग्रहण-शक्ति- -क्तिः माशि १६,४.
 ग्रहण-संयुक्त- -क्ते आपश्चौ १८, १३, २०.
 ग्रहण-सादन- -नाः आपश्चौ १२, १५, १०; -नौ आपश्चौ १२, १५, ११; १८, १०××; वैश्रौ.
 ग्रहण सादन-प्रत्यसन- -नाः आपश्चौ १६, ३३, १; वैश्रौ १८, १६ : ६८.
 ग्रहण-सादन-स्तोत्रोपाकरण- होम-भक्षाहरण-भक्षण- -णानि काश्चौ १२, ४, १५.
 ग्रहण-सादना(न-अ)वदान- प्रदान- -नेषु काश्चौ १, ५, १२.
 ग्रहणा(ण-आ)च्छादन- -ने अप ६१, १, २४.
 ग्रहणा(ण-आ)दि- -दि काश्चौ २५, ७, ७; -दिभिः शंघ ११५.
 ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा १, १, ३४.
 ग्रहणा(ण-अ)न्त^b- -न्तम् आग्र १, २२, ३; भाग्र ३, ५ : २; चौघ १, २, ४; गौघ २, ५४.
 ग्रहणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थम् मीत् ९, २, १३; -र्था मीत् ७, २, १५.
 ग्रहणा(ण-आ)सादन- -ने आपश्चौ ८, १४, ७.
 ग्रहणा(ण-आ)सादन-प्रोक्षण- -णानि शाग्र १, ३, ४.
 ग्रहणो(ण-उ)पाधि- -धीनाम् पावा १, १, ७२.

ग्रहणि^c- पाउ ५, ६७.
 ग्रहिण- पाउभो २, २, १९४.
 ग्रहीतव्य, व्या- -व्यः आपश्चौ १२, ८, १२; वौश्रौ २४, २५ : १^२××; या ३, ३; -व्या जैश्रौका १७०; -नँव्याः वौश्रौ १४, ११ : २८; २९××; भाशि ८८; -व्यौ आपश्चौ १२, ८, १३; १४^२.
 ग्रहीतुम् आपश्चौ १२, ८, १०; हिश्रौ ८, २, ३२^d; वैश्रौ १५, ९ : ७.
 ग्रहीतु-काम- -सः अप ५३, १, २.
 ग्रहीप्यत्- -प्यतः द्राश्रौ १५, २, ७; लाश्रौ ५, १०, ७; -प्यन् आपश्चौ १, १६, ४; वौश्रौ.
 ग्रहीप्यमाण- -णः वौश्रौ २९, ४ : १; -णेषु द्राश्रौ १५, २, ११; लाश्रौ ५, १०, ११.
 ग्राह- पा ३, १, १४३; पाग ३, १, १३४^e.
 ग्राहक- -कः अप ४७, १, १४.
 ग्राहम् माश्रौ २, ३, ८, २××.
 ग्राहयित्वा वौश्रौ ५, १ : ३१; ५ : १९××; वाग्र १४, ३.
 ग्राहि^f- -हिम् कौत् ६१, २२; -ह्या अप्रा २, २, १९^g; -ह्याः आपमं २, १२, १०; आमिग्र २, १, ४ : ९; हिग्र.
 ग्राहिन्- पा ३, १, १३४.
 ग्राहक- -कः भाशि ६४^h; -काः हिश्रौ ११, ३, १९.
 ग्राह्य, ह्या- -ह्यः आपश्चौ १२, ८, ६; १४, २६, १^h××; हिश्रौ; -ह्यम्

कप्र २, ५, २१; अप ३८, १, ६; याशि २, ११७ⁱ; -ह्या अप्र १, ८, १७; -ह्याः वैश्रौ ११, १० : ६; १४××; कप्र ३, ७, ३; अप; -ह्याणि वैश्रौ ११, ११ : ८; -ह्याम् विघ ५७, ११.
 ग्राह्य-क- -कम् आमिग्र २, ७, ७ : ९.
 ग्राह्य-लोक^b- -कः वौश्रौ २१, २१ : ४.
 जिष्टक्षत्- -क्षन् गोश्र १, १, ८; २०.
 गृष्टि^c- पाउभो २, १, १८८^d; पाग ४, १, १३६; -ष्टिः माश्रौ ५, २, १०, १३; अप १, ५०, ३; -ष्टेः जैग्र १, ५ : १; कौत् १९, १५; -ष्ट्यै वौश्रौ २८, ४ : ८.
 गार्ष्ट्य^e- पा ४, १, १३६.
 गृष्टि-दामन्- -म कौत् २४, ७.
 गृह- प्रस. √गृम्, ह् द.
 √गृ (शब्दे) √ग्र द.
 √गृ^f पावा. तुदा. पर. निगरणे, गिरति या ९, ४; १०, २३; १४, १८^g; २१^g; मिल्ति या ९, २४.
 गृजगार वौश्रौ १४, ७; ४; भाश्रौ ६, १, ९; या १४, १८^h; मगारीः या ६, ८.
 गृजजीगःⁱ निघ ४, ३; या ६, ८^h; ऋप्रा १, १०३; शुप्रा १, १६८; तैप्रा ८, ८.
 गरण-> गरण-वत्- -वान् या ७, १८.
 गरमाण-> ण-नोहिन्- -हि या ६, १७.

a) तु. चौसं. Web. च; वैतु. कासं. णप्रदानस्तो इति । b) विप. । वत्त. । c) = [शरीरस्थ-] कळा- विशेष- (तु. अष्टाङ्गहृदये शरीरस्थानम् [३, ५०]) तात्त्व्यात् = ग्रहणी- [रोग-] । d) गृही इति पाठः? यनि. शोघः । e) तु. पाका. । गाह- इति भाण्डा. । f) वैप १ द. । g) सकृत् पासे. वैप १, १२४५ अ द. । h) <√गृ [निगरणे] । i) या २, २८; ६, ८; ९, ४ पा ८, २, २०; २१ पावा १, ३, ५१; ७, २, ११४; ८, २, २१ परानृष्टः द. ।

गिरण-णे अप ४८, ४९१.

गिरति->ति-कर्मन्-र्मा या ६, ८.

गिल-ले पावा ६, ३, ७०.

गिल-गिल-ले पावा ६, ३, ७०.

गीर्त्वा वीश्रौ १८, ४७ : १; २१; २४; आपृ ७, १९, ७.

√गेप् पाधा. भ्वा. आत्म. कम्पने गतौ च.

√गेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेचने.

√गेप् पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वि-च्छायाम्.

गेय-, गेष्य- √गै द्र.

गेह^a- पाग २, ४, ३१; फि ३; -हस् पावा १, ४, १; -हात् वाग् ४, २१; वैग् ५, २ : १; -हे वैग् ६, १८ : ३; पा ३, १, १४४.

गेहा(ह-अ)धि- श्रौ काण्ड ४० : ११.

गेह-दाह- हे काश्रौ २५, ४, ३६.

गेह-द्वार- नस् द्राग् ४, २, १३.

गेहा(ह-अ)न्तर- नस् आमिग् २, ४, ६ : ४२.

गेहे-क्ष्वेडिन्-, °वृत्^b-, °दाहिन्-, °दस-, °घृष्ट-, °नन्दिन्^c-, °नर्तिन्^c-, °नर्दिन्-, °पटु^c-, °पण्डित^c-, °प्रगल्भ^c-, °मेलि-रु^c-, °मेहिन्- °विचितिन्^c- °विजितिन्-, °व्याड-, °शूर- पा, पाग २, १, ४८; ६, २, ८१.

√गै^d पाधा. भ्वा. पर. शब्दे, गायते माश्रौ ४, ४, ३२; वैश्रौ; गायति शाश्रौ ५, १२, ३; १६, १७, ४; काश्रौ; गायतः वीश्रौ

१५, ९ : १०; हिश्रौ १४, २, ६; १८; १६, ६, ४०^f; वीग्; गायन्ति आश्रौ ७, ८, ३१; ऋशाश्रौ ११, ११, १२; १२, २६, २२××; काश्रौ; गायसि आपमं १, १३, ११; वीग्; ऋगाये जैश्रौ ८ : १६; द्राश्रौ २, ४, ११; ऋगायत् शाश्रौ १०, ११, ६; ११, ११, ९; ऋग् २, १, १७३; गायत् आश्रौ ९, ९, ८; १०, ७, ९; शाश्रौ; ऋगायतु आपश्रौ २१, २०, २^g; हिश्रौ; ऋगाय आश्रौ ८, १, १८; ९, ११, २१; शाश्रौ; वैताश्रौ १७, २^g; कौस् २३, २^g; ५०, १३^g; ५९, २५^g; अग् ६, १^g; ऋगायतम् आपृ १४, ४; वीग् १, १०, १०; ऋगायत, > ता आश्रौ ७, ३, २××; शाश्रौ; अगायन् वाधुश्रौ ४, ४७ : १; ६; गायेत नाशि १, ६, १५; गायेत आपश्रौ १५, १९, ११; भाश्रौ; जैश्रौ २२ : १६^g; २५ : ३^g; गायेताम् आपश्रौ २०, ७, १; २१, २०, १^g; गायेयुः आपश्रौ २१, १९, १९^g; जैश्रौका १८५. जगौ वृदे २, ३८; ४०××; जग्; वृदे ७, १०१; गास्यामि वाधुश्रौ ४, ४७ : ६; पाग् १, ७, २^h; ऋगास्यामः^h माग् १, १०, १५; वाग् १४, १३. गीयते शाश्रौ १६, ८, २८××; वैश्रौ ८, १४; ३; हिश्रौ; गीयन्ते माशि १, ७; गीयताम् जैश्रौका ५४.

गापयेत् द्राश्रौ २, १, ११; लाश्रौ १, ५, ८^g; कौग्. गातव्य- न्यम् जैश्रौका ४०; ५४. गायक- पा ३, १, १४६. गा(थ>)था^a- पाड २, ४; -थया वीश्रौ १६, ६; ५; निसू २, ११ : ३०^g; अग्; -था भाग् २, २१ : १०; अप ४८, १०२^g××; विध ८०, १३; ८३, २०; ८८, ३; निध १, ११^g; -थाः काश्रौ २०, २, ७^g; वीश्रौ; -थानाम् काश्रौ १५, ६, ३; -थाम् शाश्रौ १८, १५, ५^g; वाधुश्रौ ४, ४७; ५; ६; १२; पाग्; -थायाः आश्रौ ९, ३, ११; शाश्रौ; -थासु वाश्रौ ३, ३, ३३; ४, १, ३६; ऋत २, ४, ८; -थे विध ७८, ५१. गाथा-कार- पा ३, २, २३. गाथा-मिध्र, आ- अग् या ४, ६; -आः आपश्रौ १८, १९, १०; हिश्रौ १३, ६, ३५. गाथिक- कम् नाशि १, १, २. ऋगाथिन्^a- थिनः आश्रौ ६, ४, १०; ७, २, ३; शाश्रौ; या ७, २. गान- नस् काश्रौ ४, ९, ५; जैश्रौका ११९; १५९; द्राश्रौ; -नस्य नाशि १, ३, ११^g; -नेषु कप्र ३, ८, २१. गान-काल- लम् जैश्रौ २२; १; २३ : १; जैश्रौप १; -ले द्राश्रौ १५, ४, १२. गान-जाति- तिषु निसू १, ६; १. गान-संयोग- -नात् सीस् ९, १, ५५.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पाका. । c) तु. पागम. । d) या १, ८; ७, १२ परामृष्टः द्र. । e) सप्र. गायतः<>गायेताम् इति पाठे. । f) शोधार्थ-वैप १, ६२६। द्र. । g) गः इति पाठः? यनि. शोधः । h) परस्परं पाठे. । i) गायेत इति पाठः? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ. अमिस्वामी च) । j) थम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऐआ ५, २, १०). । k) °यत् इति लासं? ।

गायत्-यत्: आश्रौ ८, ७, २३;
वाधूश्रौ ४, ४७: ९; द्राश्रौ;
-यसु कौस् ९३, १३; अप ७२,
२, २; -यत् माश्रौ ६, १, २, २७;
लाश्रौ १०, १९, १०; -यन्तः
पागृ ३, १०, ९; -यन्तम्
वाधूश्रौ ४, ४७: ९.

गायन्ती- न्त्यः आपश्रौ २१,
१९, १८; वौश्रौ.

गायत्र^१- पा ५, ४, ३८^b; -त्रः
आश्रौ ४, १२, १; शांश्रौ;
वैध^० १, ३, १; २; -त्रम्
आश्रौ ४, १३, ७××; शांश्रौ;
या १, ८^०क^०; ऋत्रस्य वौश्रौ १३,
३२: १०^d; द्राश्रौ ९, ३, ४;
लाश्रौ; -त्राः आश्रौ ६,
४, १२; निसू ४, १०: ३; पि
३, २६; -त्राणाम् शांश्रौ ७,
२६, १२; -त्राणि शांश्रौ १२, २,
१७; वैश्रौ ११: १३; जुस् २,
९: २; निसू; -त्रात् शांश्रौ ९,
२०, ८; ऋश्रौ १०, ३५: ५;
१४, २२: १०; निसू २, ७:
२४; -त्रान् आश्रौ ८, ८, १;
वौश्रौ १०, ५६: ९; ५८: ६××;
-ऋत्राय शांश्रौ ९, २७, १; १७,
१३, १; आपश्रौ २०, ९, २;
वौश्रौ १५, १७: ११; माश्रौ;
शुश्र ३, १३२^०; -ऋत्रे आश्रौ ८,
२, १२; आपश्रौ ५, १६, ४; वौश्रौ;
-ऋत्रेण आश्रौ १, ३, २२; ६, ५, २;
शांश्रौ ४, १२, ४××; काश्रौ; -ऋत्रैः
उनिसू १: ५३; ५६-५८; पि

३, २३; ४८; -ऋत्रौ आश्रौ ६,
१३, ५; आपश्रौ २२, ६, ३;
वाधूश्रौ ४, ९८: ८; १३; हिश्रौ.

गायत्री^१- पाग ४, १, ४१^b;
५, ४, ३८^b; -०त्रि मागृ १,
२, २; -त्रियः वाधूश्रौ ४, ९१: ३;
११५: ११; १२; -त्रिया ऋआपश्रौ
१, ६, ८; ५, २, ४; ऋश्रौ १३,
७: १८^०; १४, २४: ३५^०;
२८: १५^०; १७, १७: १०; २७,
१०: ६^०; वाधूश्रौ ४, १०५: १;
हिश्रौ ३, १, ११××; -ऋत्रियाः
आपश्रौ १४, १९, १^h; वौश्रौ
१४, ४: १७; हिश्रौ १५, ५,
१६; -ऋत्रियै आपश्रौ ३, १८,
४^१; वौश्रौ ३, २३: १८^१; १४,
२२: १०; माश्रौ ३, १४, २^१;
वाधूश्रौ; हिश्रौ २, ८, १^१; -त्रियौ
वाधूश्रौ ४, ८५: ३; -ऋत्रौ आश्रौ
२, १४, १९; ४; १२, २; शांश्रौ
७, २७, १××; काश्रौ; या ७,
१२^०; -ऋत्रौ शांश्रौ १८,
१३, १; ८; काश्रौ; आपश्रौ
२२, ११, २२^१; हिश्रौ १७, ५,
१४^१; २३, २, ६^१; -ऋत्रिणाम्
शांश्रौ ९, ६, ११; निसू ४, ९:
२; ७, २: ६; -ऋत्रिभिः आपश्रौ ५,
६, २××; वौश्रौ; -ऋत्रिभ्यः काश्रौ
१७, १२, १२; -ऋत्रिभ्याम्
माश्रौ ६, १, ४, २०; वाश्रौ;
-ऋत्रिम् आश्रौ १, ४, ९; शांश्रौ
१४, ३३, ७; १८, ७, २; १६, २;
आपश्रौ १०, ९, १; १३, २२,

१^१××; वौश्रौ; या ७, १२; -ऋत्रिपु
आश्रौ १०, २, २०; वौश्रौ १८,
१: ८; लाश्रौ; -ऋत्र्यः आश्रौ
६, २, ३; ३, ५; शांश्रौ; -ऋत्र्या
आश्रौ ३, १२, २२^०; १४,
१०; आपश्रौ ९, १३, ८^१××;
वौश्रौ; माश्रौ ९, १२, १२^०;
कौस् १३३, ६^०; -ऋत्र्याः
आपश्रौ १४, २६, २; वैश्रौ;
-ऋत्र्याम् क्षुस् २, १४: ६; द्राश्रौ
८, ४, १३; लाश्रौ ४, ८,
१२; ६, ३, १८; निसू; -ऋत्र्यै
शांश्रौ १३, ५, ४^h; ऋकाश्रौ
२, १, १८^१; २५, १४, १५^१;
वौश्रौ; -ऋत्र्योः ऋश्र २, १०,
१०१; -ऋत्र्यौ शांश्रौ १६, २२,
१२; आपश्रौ ५, २८, २××;
माश्रौ.

गायत्रि-या(मन्) > ऋ-
ऋत्री^१ वैश्रौ ५, ७: ८; हिश्रौ
६, २, १७.

गायत्री-ग(र्भ) > र्भा-
र्भा अत्र १०, ८.

गायत्री-जप-निरत-
-तः विध-८३, १४; ८९, ३.

गायत्री-तृतीय-स्वन^१-
-नः वौश्रौ १६, १०: ८.

गायत्री-त्रिष्टुभ-
-ष्टुभोः लाश्रौ ७, १३, ११;
-ष्टुभौ शांश्रौ १, १७, ९; शुश्र
२, ६९××.

गायत्री-त्रिष्टुब्-उ-
ष्णिह- ष्णिहः शुश्र २, १३७.

- a) वैप १ द्र. । b) तु. पागम. । c) = ब्रह्मचारि-विशेष- । d) पामे. वैप १, १२४७ a द्र. ।
e) ष्याय इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा २९, ६०) । f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १, १२४७ e
द्र. । h) पामे. वैप १, १२४७ f द्र. । i) पामे. वैप १, १२४७ i द्र. । j) ? गायत्री-संपूर्णाः > गायत्री-
संपन्नाः इति शोधः (तु. C. [तु. लाश्रौ ९, ४, ३१]) k) ग^० इति पाठः ? यनि. शोधः । l) पामे. वैप १,
१२४६ l द्र. । m) सपा. *त्रियाम्नी <> *त्रियाम्नी इति पामे. । n) विप. । बस. > कस. ।

गायत्री-त्रिपुटु-जगती-
-तीभिः वीध १,२,१२; -तीषु
हिश्रौ २१,२,५१.

गायत्री-दश-साहस्र-
जप- -पेन विध ५५,५.
गायत्री-पाद- -दम्
लाश्रौ १०,६,९.

गायत्री-प्रतिपत्क^३-
-त्कम् लुस् १,१ : २३.
गायत्री-प्रातःसवन^३-
-नः वीश्रौ १६,१० : ५; -ने
वीश्रौ २६,१५ : ४.

गायत्री-बृहती- -व्यौ
शुभ्र ४,१०१.
गायत्री-बृहत्य (ती-अ)नु-
पुटुम्- -पुटुप्सु मीस् ५,३,१४.

गायत्री-माध्यन्दिन^३-
-नः वीश्रौ १६,१० : ७;
गायत्री-या (मन् >)
श्री- -श्री^३ आपश्रौ ४,७,२.
गायत्री-शंसम् शाश्रौ
१८,१६,१.

गायत्री-शत-पञ्चक-
-कम् विध २२,१४.
गायत्री-संप(अ>)ना-
-नाः काश्रौ २२,११,१७;
लाश्रौ ९,४,३१.

गायत्री-सामन्- -म
द्राश्रौ २, २, २४; लाश्रौ १, ६,
२२; ६, १२, १४; निस्; -
-मनी लाश्रौ ७,२, १; निस्
७, ५ : २९; -मसु लाश्रौ
७, ६, ८; -मानि लुस् २, ९ :
४;७; -म्नोः लाश्रौ ६,१२,५.

गायत्रीसामा(म-आ)
पञ- -न्नम् निस् ७, १ : १८;

८,६:५०.
गायत्री-स्थान- -नम्
निस् ७,८ : ८; ११ : ३२.

गायत्र्य(त्री-अ)ष्ट-शत-
-तम् आमिष्ट ३, १२, १ : ४;
अप ६७,८,२; शंघ २२६; विध
२२,१५.

गायत्र्य (त्री-अ) ष्ट-
सहस्र- -सम् विध २२, १०;
६३; सुध २२; २५; २६; ३५.

गायत्र्य(त्री-अ)सपत्ना-
-त्ताः काश्रौ १७,११,६.

गायत्र्या(त्री-आ)दि-
-दयः आपश्रौ १७,१०,५; -दि
अशां १८,३; अश्रु १-३; अप
११, ३, ४९; ऋप्रा १६, ११;
-दिः ऋप्रा १८, ५; -दीनाम्
उनिस् १ : ६; -दीनि शुभ्र १,४.

गायत्र्यु(त्री-उ)त्तर^३-
-रः निस् ४,१० : ७.

गायत्र्यु (त्री-उ)ष्णिग्-
अनुपुटुव्-बृहती-पङ्क्ति-
-ङ्क्तयः अश्रु ३.

गायत्र्यु(त्री-उ)ष्णिग्-
अनुपुटुव्-बृहती-पङ्क्ति- त्रिपुटुव्-
जगत्य(ती-अ) तिजगती-शक्य-
(री-अ)तिशक्य (री-अ)ष्टय(ष्टि-
अ)व्यष्टि-धृति-कृति-प्रकृत्या (ति-
आ) कृति-विकृति-संकृत्य (ति-
अ)भिकृत्यु(ति-उ)कृति- -ति
अश्रु १.

गायत्र्यु(त्री-उ)ष्णिग्-
अनुपुटुव्-बृहती-पङ्क्ति-त्रिपुटुव्-
जगत्य(ती-अ) तिजगती-शक्य-
(री-अ)तिशक्य (री-अ)ष्टय(ष्टि-
अ)व्यष्टि-धृत्य (ति-अ) तिधृति-

-तयः ऋप्रा १,३,२; शुभ्र ५,२.
गायत्र्यु (त्री-उ) ष्णिग्-
-ष्णिहौ शाश्रौ ७,२७,३०.

गायत्र-काकुम्- -मः ऋप्रा
१८,६.

गायत्र-च्छन्दस्^३- -न्दसः शाश्रौ
१४, ३३, ८; ९; काश्रौ २५,
१२, ५१; वीश्रौ; -न्दसम्
काश्रौ १२,५, १६१; -न्दसा
वीश्रौ २६, १५ : १०; १९; २८;
द्राश्रौ; -न्द्याः शाश्रौ ६,८,१०;
काश्रौ १३,१,११; आपश्रौ.

गायत्र-(नि>) णिधन- -नम्
निस् ३,३ : २; -नानाम् निस्
३,३ : २६.

गायत्र-ता- -तया निस् १,
१२ : ३.

गायत्र-त्रैपुटुम-जागत- -ताः
उनिस् १ : ३६.

गायत्र-धर्म- -र्मन् निस् २,
७ : २२.

गायत्र-पार्श्व^३- -र्श्वम् द्राश्रौ ८,
४, १४; लाश्रौ ४, ८, १२; ८,
५, २०; २२; निस् ८, ६ : ७.

गायत्र-बार्हत्^३- -तः ऋप्रा १८,
५.

गायत्र-वत्- -वान् निस् ३,५ :
११.

गायत्र-वर्तनि^३- -नि जैष्ट १,
४ : ८; कौस् ५, ७.

गायत्र-वैराज- -जौ ऋप्रा १७,
३७.

गायत्र-संहित- -ते लुस् १,
८ : १२; २, ९ : ६.

गायत्र-संज्ञा- > ष्णित- -तम्
जैश्रौका १०४.

a) विप. । वस. । b) पाप्मे. पृ १००८ m द्र. । c) मलो. कस. पूष. = प्रगाय. । d) विप. >

नाप. । वस. । e) वैप १ द्र ।

वैप४-नु-३२

गायत्रा(त्र-आ)महीयव-वे
 लुसू २,९:४.
 ङगायत्रिन्-त्रिणः चाश्रौ ७,
 ८; ३; शाश्रौ १८, ६,२; वौश्रौ.
 गायत्री✓कृ>त्री-कारम्
 आश्रौ ७,२, १६; द्राश्रौ:२, ४,
 १४.
 गायन-पा ३, १; १४७^b; -नम्
 काय ३,१७; अप ६८,५,१३.
 गायन-प्रहास-सैः अप ६८,
 ४,२.
 गायमान-नः आपश्रौ १२, ८, ५;
 वौश्रौ १४,१२: २५; वैश्रौ.
 ङगायिषे^a आश्रौ ७,१२, ७; ऋप्रा
 १८,२.
 गीत,ता-तः निसू २, ८: २९;
 नाशि १, ५, १३; १४; -तम्
 लाश्रौ ७, ७, ३३; ८, ५; निसू
 ३, ८: ६; पाण्ड; -ता आपश्रौ
 २१, २०, २^१; हिश्रौ १६, ६,
 ३९^१; वृदे ३, १५५; -तानाम्
 लाश्रौ १०, ९, ८; निसू ६, ७:
 ५४; अप ६४, ४, २; -तानि
 शंघ १०५; विघ ५६, २७;
 -तायाम् हिश्रौ १२, ७, ६; -ते
 जैश्रौका १९३; पाण्ड २, ७, ४;
 -तौ नाशि १, ५, १४.
 गीत-क-कम् अप ७०^३, ३, ३.
 गीत-कारिन्-री निसू ३, ८:
 १७.
 गीत-गान्धर्व-निस्वन-नाः
 अप ७०^३, २, ४.
 गीत-नृत्य-त्यम् अप ७०^३,
 ९, ३.
 गीत-वादित-रुदिवा(त-अ)ति-
 वात-तेपु गोग ३, ३, २७.

गीत-वादित्र-निर्वोप-अप
 ६४, ९, ८.
 गीत-वादित्र-निस्वन-नाः
 अप ५८^३, ४, १२; ७१, १५, ५.
 गीत-वादित्र-शब्द-ब्दाः अप
 ७१, २, २.
 गीतिन्-ती शैशि २०९; याशि
 २, ८२.
 गीति-तिपु मीसू २, १, ३४; -त्या
 क्षुसू ३, १०: ४६; निसू २, ३:
 ११; या ६, २४; १०, ५.
 गीति-तस (:) निसू ५, ५: ६.
 गीति-दोष-याः नाशि १, ३,
 ११; १२.
 गीति-विकार-रः लाश्रौ ७,
 १२, १.
 गीत्वा जैश्रौका ३०; १७२; १९५;
 द्राश्रौ २, १, २६××; लाश्रौ.
 गीयमान-ने आपश्रौ ५, ११, ६;
 १३, ८; १५, ६; वौश्रौ २, १७:
 ३८; माश्रौ.
 गेय-यम् जैश्रौका ४६; ८१××;
 लाश्रौ; -यानि जैश्रौ २४: १;
 २; २६: ९; जैश्रौका ८३; १०३;
 लाश्रौ ४, ७, १.
 गेया (य-आ) दि-निर्वोप-यु-
 क्त-क्तैः आमिण्ड २, ४, ६: ३९.
 गेष्यु-पाठ ३, १६.
 गैरायण-गिरि-द्र.
 गैरिक्-गैरेय-प्रष्ट. गिरि-द्र.
 गो^a-पाठ २, ६७; पाण्ड ४, २, ४९५;
 ५, १, २; गवा आश्रौ १२, ६,
 ३४; शाश्रौ ४, १७, १; १६, २२,
 १९; काश्रौ; गवाम् आश्रौ ९, ९,
 १४; १२, ६, ३२; ३४; शाश्रौ
 ७, १७, १७××; काश्रौ; या ६,

२; ९, २३^१; २४^१; गवि शाश्रौ
 ५, १०, १^३; काश्रौ २५, २, ३;
 आपश्रौ १७, १८, १^१; वौश्रौ; पावा
 ६, ३, ४५; ङगवे शाश्रौ ९, २८,
 ५; १७, १२, ३; आपश्रौ; गवो:
 माश्रौ ३, २, ११; ३, ६; वाश्रौ
 १, ५, ३, ५; अप्राय ४, ४;
 गाः आश्रौ १, ७, ८; ४, १२, ३;
 ८, १; ८; शाश्रौ ७, १८, २××;
 काश्रौ; माश्रौ ६, १, २, २६^१; ङ्या
 ६, २^१; १४, २५^१; गाम्
 आश्रौ ३, १०, १२××; शाश्रौ;
 आपमं १, ९, १०^१; हिण्ड १,
 १८, ५^१; पावा १, ४, १;
 ङगावः आश्रौ १, ७, ७^३; ३,
 ११; ६; ४, ७, ४^१; ५, ७, ५;
 शाश्रौ १, ११, १^३; ५, १०,
 ८^१××; काश्रौ; अत्र ४, २१^१;
 या १, १७; २, ७; १७; ६, ५;
 ८; ३२; १०, २१; १२, ७; १४,
 १४; १५^१; ङगावः शाश्रौ
 २, २८, ८××; आपश्रौ; गावा
 या ९, ३९^१; ङगावौ काश्रौ ७,
 ८, १४; आपश्रौ ५, २०, ११××;
 वौश्रौ; या ९, ३९; ङगो-
 आश्रौ ३, ५, ९; ९, ८, ३××;
 शाश्रौ; या २, ६; ४, २५; ६, २;
 १९; २०; पा ४, ३, १४५××;
 गोनाम् शाश्रौ १२, १४, ३^१;
 ङगोभिः आश्रौ २, ११, ३;
 शाश्रौ ३, ७, ४; काश्रौ; वा
 २, ५××; ङगोभ्यः शाश्रौ ९, २८,
 ५; वौश्रौ २८, १: २; शाण्ड;
 गोभ्याम् हिश्रौ ७, २, ७०^१; वृदे
 ५, ३१; गोपु शाश्रौ १३, २९,
 १६; काश्रौ ४, १५, ५; आपश्रौ;

a) वैप १ द्र. 1. b) नाप. 1. c) = स्तोम-विशेष- इत्यर्थाद् द्र. 1. d) तु. पागम. 1. e) पाभे. वैप १, १२५० e द्र. 1. f) पाभे. वैप १, १८५५ h द्र. 1. g) सङ्ख्य पाठः ? 1.

द्राश्री ७, ३, ४^११^१; लाश्री ३, ३,
४^२१^१; ऋश्री १, ७, ७^२१^१;
शांश्री; वाश्री ३, २, २, १५^१;
या १, १, १२, २, ५^१; १४^१.
गव^०- नस्य अप ६८, २, १४.
गवां-घ्रत^१- -तम् द्राश्री १२, २, ५;
लाश्री ४, १०, ५; नुसू १, ३ :
१९; २२.
गवा(व-अ)घ्र- -अे पावा ६, १, १२१.
गवा(व-आ)घ्रात- -तम् शंघ ४३१;
वैध २, १५, ३.
गवा(व-अ)जिन- -नम् कागृ ५, ९.
गवा(व-आ)दि-दक्षिणा- -गाम्
वैगृ ३, २३ : १५.
गवादिदक्षिणा-करण- -णम् वैगृ
३, २३ : ६.
गवा(व-आ)धिपत्य- -त्यम् विध
२०, ११.
गवा(व-अ)युगमन- -नम् विध ५०,
१६.
गवा(व-अ)नृत^०- -ते वाघ १६, ३४;
वौध १, १०, ३५.
गवाम्-अयन- -नम् आश्री ११,
७, १; २०; १२, ५, ७; शांश्री १३,
२८, १; काश्री २४, ४, ४९;
आपश्री २१, २४, १; २३, १४,
१०; २४, ४, ५; वौश्री; -नस्य
आश्री १२, ५, १०; शांश्री
१३, १९, १; १७; २४, १९७;
२५, ४; २७, ५; २८, १; वौश्री;
निसू १०, ९ : ४७; -नानाम् निसू
१०, १३ : १४; -नानि वौश्री
२४, ५; १२^१; -नाय काश्री १३,
१, २^१; -ने शांश्री १२, ९, ८;

वौश्री २४, १०; १८××; लाश्री;
-नेन आश्री १२, १, १; ५, १२; ६,
२३; काश्री २४, ५, २; आपश्री.
गावामयनिक- -कः
काश्री २४, ३, १६.
गवाम् (अयन-) लाश्री १०,
१३, १२.
गवामयन-न्याय- -येन लाश्री
१०, ३; १३.
गवामयन-पक्ष- -क्षयोः काश्री
२४, ५, ९.
गवामयन-प्रकृति- -तीनि काश्री
२४, ४, २; हिश्री १८, १, २.
गवामयन-विकल्प- -ल्पाः काश्री
२४, ७, २२; द्राश्री ८, १, १;
लाश्री ४, ५, १.
गवामयन-शस्य- -स्याः आश्री
१२, ५, १३; १४.
गवामयनो(न-उ)त्पाद^०- -द्वौ
निसू १०, १२ : ७.
गवा(व-आ)युस- -युषी वैताश्री
३३, १४.
गवा(व-अ)र्थ- -र्थे शंघ १४४; वौध
२, २, ७१; विध १६, १८.
गवा(व-अ)विक- -पाग २, ४, ११.
गवा(व-आ)शिर^१- -शिरः आश्री
७, ६, २; हिश्री १२, ६, ६.
गवा(व-अ)श्व- -पाग २, ४, ११;
-श्वम् वृदे ५, ६४; -श्वस्य वाघ
१७, ४३.
गवाश्व-प्रभृति- -तिषु पावा २,
४, ११; -तीनि पा २, ४, ११.
गवा(व-अ)श्वा(श्व-अ)ज-महिष-
मण्डल- -लेषु वैगृ ५, १५ :

१६.
गवा(व-अ)श्वा(श्व-अ)जा(जा-अ)
विक-हस्ति-दासपुरुष-वीहि-यव-
माष-तिल-दण्डो(ण्ड-उ)पानच्-
छत्र-कमण्डलु-याना(न-आ)सन-
शयनो(न-उ)पधान- -नैः वीगृ
२, ११, ४४.
गवा(व-आ)हिक- -कम् शंघ ३९०.
गवि(न >)नी- पावाग ४, २, ५१.
गवि(गो-इ)ष्^१- -विषे आगृ १,
१, ४^१.
गवि(गो-इ)ष्टि^१- -ष्टये^१ आश्री ३,
१३, १२; आपश्री १९, २५, १२;
-ष्टौ शांश्री ८, १६, १; शुप्रा ३,
१२९^१; अश्री ३, १, १५; शौच
२, २३.
गवि-छिर[ल^१]^१- -पा ८, ३, ९५; पाग
४, १, १००; १०४; पावा ६, ३, ८;
-रः शुप्रा ५, ३; ७^१; -रम् अप्रा
३, ४, १^१; -रस्य^१ चात्र १६ :
३; १९; -रणाम् आश्री १२,
१४, १; आपश्री २४, ८, १२;
वौश्रीप्र २९ : १; हिश्री २१, ३,
११; वैध ४, ५, ३.
गाविछिर[ल^१]^१- -पा ४, १,
१०४; -र आश्री १२, १४, १;
आपश्री २४, ८, १२; वौश्रीप्र २९ :
२; हिश्री २१, ३, ११; वैध ४, ५,
३; -राः वौश्रीप्र २७ : ५.
गाविछिलायन- -पा ४,
१, १००.
गविछिस्त्र^१ आपश्री २४, ८,
१२; वौश्रीप्र २९ : २; हिश्री
२१, ३, ११; वौध ४, ५, ३.

a) पामे. वैप १, १२५३ a द्र. । b) पाठः ? गोः इति शोधः (तु. कौ १, ४५८) । c) स्वार्थे षच्
प्र. उत्सं. (पा ५, ४, ३८) । d) = साम-विशेष- । e) मलो. कस. । f) तु. चौत्. । g) विप. ।
वस. । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १, १२५४ b द्र. । j) पामे. वैप १, १२५४ d द्र. । k) तु. पागम. ।
l) ष्टर^१ इति पाठः ? यनि. शोधः । m) बहु. < गाविछिर- ।

इगवीडा^a - डाम् वैताश्रौ ७, २;
४३, ६.

गवीडा (डा-आ) दि-श्रेष- -षे
वैताश्रौ ७, २५.

गवे(व-इ)न्द्र- पा ६, १, १२४.

ङ्गवे(गो-ए)षण^b - णः अप्रा ३, १,
१५; -णे शौच २, २३.

√गव्य > ङ्गव्यत् - व्यता शांश्रौ
१८, ९, ४; -व्यन्तः आश्रौ २,
२०, ४^३; शांश्रौ १४, ११, ८;
९; आपश्रौ.

ग(व्य >)व्या^b - व्या सात्र
१, १८६१.

गव्यु^b - व्युः या ६, ३११.

रगव्य, व्या^c - पा ४, २, ५०; ३,

१६०; ५, १, २; ३९; पावा ४,
१, ८५; -व्यः वाघश्रौ ४, ९६ :

५; अत्र ९, ७; -ङ्गव्यम् आश्रौ
२, १०, ४; शांश्रौ १४, ११, ९;

आपश्रौ १७, १८, १; वौश्रौ;
-व्यस्य मीसू ८, १, १८^d; -व्या

या २, ५^e; -व्याः आपश्रौ १९,
१६, १६; -व्यात् वौष १, ५,

१३८; -व्यान् आपश्रौ २०, २२,
४; २१, २३, ४; १०; वौश्रौ;

-व्यानि आपश्रौ २०, १२, २;
वौश्रौ १५, ३७ : १२; वौग;

-व्याम् शुश्र १, १८५;
-व्यायै वौश्रौ १५, २६ : १^f;

-व्ये आश्रौ ४, ७, ४; वौष १,
५, १३९; ऋश्रः शुश्र २, २०^g;

-व्येन काश्रौसं ३६ : ९; कौग;
२, १, ४; शांग २, १, ५; कप्र;

-व्यैः अप १, ३०, २.

गव्य-घृत-पूर्ण-कुम्भ-स्मेन
विध ९०, ३.

गव्य-मांस-तस्(ः) अप ३६,
१७, १.

गव्युति^b - पावा ६, १, ७९; -तिः
अप्रा ३, ४, ११^३; आपघ १, १८,

१; हिध १, ५, ७१; -तिम्
वौश्रौ १८, २० : १९.

गो-अ(प्र >)प्रा^b - प्राः आश्रौ
९, ११, १८^३.

गो-अर्घ^b - षम् तैप्रा ११, १६^३.

गो-अश्व- -श्वम् वौश्रौ ११, ६ :
३१; १२, ७ : ४२××; भागृ

१, २७ : ८^३; -श्वः वौश्रौ २८,
६ : १५; वैश्रौ; -श्वानाम्

आपश्रौ १९, ६, ८; हिश्रौ २३,
१, १८.

गो-अश्वा(श्व-अ)वि-मिथुन- नानि
द्रागृ २, ५, ३.

गो-आयुस्^b - युभ्याम् आश्रौ
१२, ६, २०^३; काश्रौ २४,

७, १७; वौश्रौ २६, १६ : ३;
१८; -युपः निस् ६, ३ : १६;

-युषी आश्रौ ९, १, ४; ११,
१, ११××; शांश्रौ; -युषोः द्राश्रौ

८, ३, ३५; लाश्रौ ४, ७, १३; ८,
१, १८; शुश्र ४, १८५.

ङ्गो-ऋजीक^b - ऋम् वाश्रौ ३, ३,
३, १; ऋप्रा २, ७४.

गो-ओप(श >)शा^b - शा ऋप्रा
२, ७४^३.

गो-कङ्काला(ल-अ)धिरोहण- णम्
अप ३६, ३, १.

गो-कर्ण-वत् वैश्रौ ११, ८ : १०;

वैगृ १, २ : ६; नाशि १, ६, १३.

गो-कर्णा(र्ण-आ)कृति-वत्

आग्निगृ २, ६, १ : ३.
गो-कुल- -ले अप ६६, ३, ४; ७०^३,

२३, ९.
गोकुला(ल-अ)न्तिक- -के आ

६६, १, ५.
गो-क्षीर- -रम् शंघ ४१८; वैष २,

१५, ५.
गो-क्षीर-कुमुद-प्रव्य- -व्याः

अप ५२, २, १.
गो-गजा(ज-अ)धा(ध-आ)दि-

पृष्ठ- -ष्टेपु शंघ १९२^३.
गो-गामन- -ने विध ५, ४२;

५३, ३.
गो-गामिन्- -मी शंघ ३७७ :

२२.
गो(गो-अ)ग्न्य(ग्नि-अ)र्ध- -र्धे गौष.

१२, २५.
गो-ग्रहण- -णे पावा ६, १, ९३.

गो-ग्रास- -सम् कौगृ ३, १५, ७;
शांगृ ३, १४, ४; वौगृ २, ११,

५७; गोगृ ४, १, २०.
गो-घ्न^b - पा ३, ४, ७३^३; -घ्नः शंघ

३७५; ३७७ : २××; विध ४५,
१९; -घ्नस्य सुघ ३६.

गो-चर^b - पा ३, ३, ११९; -रः अप
७०^३, २३, १०; वाघ ६, ४२;

-रम् वैश्रौ ३, ३ : ५; हिश्रौ १,
२, १६; -राय आपश्रौ १,
२, ४.

गोचरा(र-आ)दि- -दीनाम् पावा
३, ३, ११९.

गो-चर्मन्- -र्म वैगृ ६, १ : ३^३;

a) = अग्निहोत्री-। व्यु. ?। b) वैप १ द्र.। c) वैप १ निर्दिष्टयोस्तिहैकत्र समावेशः द्र.।

d) = गवामग्रन-। e) पाभे. वैप १, १२५५ d द्र.। f) 'युषीभ्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः। g) 'दिवृक्षेषु
इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. स्मृतियन्त्रिकायां श्राद्धकाण्डम् [पृ १४३])। h) उच. उप. कर्तारि कः प्र-

(पावा ३, २, ५)। i) = अतिधि-। संप्रदाने ट्क् प्र.। j) = व्रज-, विपय-। k) = प्रमाण-विशेष-।

गौपि १, ७, ५; -मैणा शंघ ३९३.
 गोचर्म-मात्र,त्रा- -त्रम् आयिष्ट १,७,१ : ५; २,४,५ : १३××;
 वौपि; -त्रा विघ ५, १८३;
 -त्राम् अप १०, १, ८; विघ ९२, ४; -त्रेण वाघ २९, १६.
 गोचर्ममात्रा (त्र-अ)धि-
 (क>)का- -काम् विघ ५, १८१.
 गोचर्ममात्रो(त्र-उ)पलिस-
 -से वैगृ ६, १ : ३.
 गो-चित्ति^१ - -तिम् आपश्रौ १७, ४, ११; वैश्रौ १९, ५ : ११; हिश्रौ १२, १, ४५.
 ?गोच्छगल्^१ - -लाः वौपि २, ३, १४.
 गो(गो-अ)ज- -जयोः काश्रौ १७, ५, १६.
 गो-जा^१ - -जाः या १४, ३११.
 गो(गो-अ)जा-महिपी-वर्जम् विघ ५१, ३८.
 गो(गो-अ)जा(जा-अ)श्च-मृग-
 पक्षिन्- -क्षिपु अप ६४, ८, १०.
 †गो-जित्^१ - -जित् आपश्रौ १६, १८, ६; २१, ४, २, माश्रौ ६, १, ५, ३८; वैश्रौ.
 गो-तर्पण- -गम् अप ४, ६, ५; ६९, ७, ४.
 गो-वृसि- -सिः वौघ १, ५, ५७.
 गोवृसि-कर- -रम् वैध ३, ४, ४.
 गो-त्र,त्रा^१ - पाठ ४, १६७; पाग ८, १, २७; -त्रः अप ४८,

१०११; निघ १, १०१; -त्रम्
 आपश्रौ १७, २१, ७१; वौश्रौप
 ५४ : १४; माश्रौ १, २, ५, ४१;
 २, १, २, २३; ३, ३, ६; हिश्रौ
 १२, ६, २६१; आयु ४, ४, १०;
 काण्ड ४२ : २०; कौसू ४,
 २१; अप ४१, ५, २; वैध ४,
 १, २; चव्यू ४ : २५; याशि
 १, १८; पा ४, १, १६२; पावा
 ४, १, १६३; -त्रस्य अप्रा ३,
 ४, ११; पावा २, ४, ६२; ४,
 १, ८९; -†त्रा आपश्रौ ३, १२,
 १; माश्रौ ३, ११, १; हिश्रौ
 २, ६, १४; अप ४८, ७२^१;
 निघ १, १^१; -त्राणाम् आपश्रौ
 २१, २, ५; ७; २४, ११, १५;
 १६; वौश्रौ; -त्राणि सात्र २,
 १२०५; पि ३, ६६; -त्रात् वैश्रौ
 ६, ५ : ३; हिश्रौ २, १, ५६; पा
 ४, १, ९४; ३, ८०; पावा; -त्राय
 वागृ ५, १३१; -त्रे वैध ४, १, २;
 पा २, ४, ६३; ४, १, ७८; ८९; ९३;
 ९८; २, १११; ८, ३, ९१; पावा
 ४, १, ८९; ९३^१; -त्रेण गोगृ २,
 ३, १३; ४, १०; अप ४१, ६, ५;
 आपध १, ६, ३०; हिध १, २,
 ५३; गौपि १, २, ७; ४, ९;
 द्रागृ १, ४, ५.
 गौत्रक- पा ४, २, ३९.
 गोत्र-कल्प- -ल्पः जैगृ १, ११ :
 २२.
 गोत्र-क्षत्रिया (य-आख्या >)
 ख्य- -ख्येभ्यः पा ४, ३, ९९;
 पावा ४, २, १०४.
 गोत्र-ग्रहणा(य-आ)नर्थक्य-
 -न्यम् पावा ४, १, १६३.

गोत्र-चरण- -णात् पा ४, ३,
 १२६; ५, १, १३४; पावा ४,
 २, १०४.
 गोत्र-ज- -जैः शंघ २८०.
 गोत्र-तस् (>) शंघ ३६१; ३६६.
 गोत्र-नामन्- -म वैगृ १, ७ : ८;
 कप्र ३, ३, २; -मभिः कप्र १,
 २, ७; -मानि शांगृ १, ६, ४.
 गोत्रनाम-पूर्व- -वैम् वैगृ
 ५, ६ : ११.
 गोत्रनाम-युक्त- -क्तम् वैगृ
 ३, १९ : ७.
 गोत्रनामा(म-आ)दि-
 -दिना वैगृ ५, १३ : १५.
 गोत्रनामा (म-अ)नुवादा
 (द-अ)न्त- -न्ते कप्र ३, ३, २.
 गोत्र-पूर्व- -वम् वैश्रौ १२,
 १० : १०.
 गोत्र-प्रकृति- -तौ पावा ८, ३,
 ९१.
 गोत्र-भाग-विभागा (ग-अ)
 थ- -थे शंघ २८०.
 गोत्र-भाज- -भाजः वौघ
 २, २, ३२; गौघ २८, ३४.
 गोत्र-भाव- -त्रे पावा ४, १,
 ९६.
 †गोत्र-भिद्^१ - -मित् वौश्रौ
 १०, २४ : ११.
 गोत्र-मूल- -लानि वौश्रौप ५४:
 १८.
 गोत्र-मैथुन- -नः वौपि ३, ४,
 १६.
 गोत्र-वचन- -वम् पावा ५, ३,
 ११८.
 गोत्र-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ४,
 १, १६२.

a) मलो. कस. । b) पाठः ? गौः, छ^१ इति द्विपदः शोषः (तु. वौपि १, २ : १४, B. च) । c) वैप १
 द. । d) नाप. (अपत्यसामान्य-, पौत्र-प्रमृति- [पा. 1] इतीह विशेषः । e) = पृथिवी- । f) विप. । वस. ।

गोत्र-स्त्री- -स्त्रियाः पा ४, १, १४७.
 गोत्रा(त्र-आ)ङ्गिरस-वासिष्ठ^ab-
 -ष्टम् अप ३, ३, ६.
 गोत्रा(त्र-आ)दि- -दिसु पावा
 ८, १, २७; -दीनि पा ८, १,
 २७.
 गोत्रादि-ग्रहण- -णे पावा
 ८, १, २७.
 गोत्रा(त्र-अ)न्त- -न्तात् पावा
 १, १, ७३.
 गोत्रा(त्र-अ)न्तेवासि-मानव-
 ब्राह्मण- -णेषु पा ६, २, ६९.
 गोत्रा(त्र-अ)व्यय- -वात् पा,
 पावा ४, १, ७९.
 गोत्रा(त्र-आ)श्रय^a- -यम् गोयृ
 २, १०, २१.
 गोत्रिन्- -त्रिणः अप्राय ३, ७.
 गोत्रो(त्र-उ)त्तरपद- -दस्य
 पावा १, १, ७३.
 गोत्रो(त्र-उ)त्पन्न- -जात् वैष
 ३, ११, ३.
 गो-त्व-वत् मीसू ६, ३, १२; ८,
 ३, १८.
 गो-दक्षि(णा>)ण^a- -णः वौश्रौ
 १३, १:१८; २४, २९: १०.
 गो-दक्षिणा- -णाम् कौसू ६३,
 २७.
 गो-दशक- -कस्य विध ८, १७.
 गो-दान- -नेन विध ९०, १४.
 गोदान-फल- -लम् विध ५९,
 १५; ९१, १७.
 गोदान-सम- -सम् विध ६७,

४६०.
 गो-दुह^a- -दुहे साश्रौ २, १, ३,
 १६; -धुक् हिश्रौ १, ३, ३९;
 या १२, ४३; -ङ्गुक् आश्रौ
 ४, ७, ४६; शाश्रौ ५, १०, १०;
 आपश्रौ.
 गो-देव-गृह-वासिन्- -स्त्री
 आसिन् २, ७, ११: १५.
 गो-दोह- -हात् कौय ३, १०, २१.
 गोदोह-मात्र^a- -त्रम् शंघ १३२.
 गो-दोहन- > ँन-काल-मात्र-
 -त्रम् वैष ३, ७, १.
 गोदोहन-मात्र^a- -त्रम् शंघ
 १३३; वौष २, १०, ४४.
 गो-दोहन^a- -नः पावा ३, ३,
 १२३; -नेन आपश्रौ १, १६, ३;
 माश्रौ १, १७, १२; माश्रौ १, २,
 १, ८; वैश्रौ ४, २: ९.
 गोदोहनी- -नीम् वौश्रौ ९,
 ५: २; १४; ३०.
 गोदोहन-सेनेजन- -नेन हिश्रौ
 ३, ७, ३२.
 गो-द्विजोत्तम- -मौ शंघ ४११.
 गो-धायस^a- -यसम् भाशि ४७५.
 गो-धेनु- -न्वाः अप १, ५०, ५६.
 गो-नाम^a- -मेपु मायृ १, ४, १२.
 गो-नामन्- -स कौसू २७, २१; या
 ४, १९; -सभिः हिश्रौ ९, ८,
 ४८; द्राश्रौ ९, २, ३; लाश्रौ ३,
 ६, ३; गोयृ; -ससु कप्र ३,
 ६, ५^२; -मानि लाश्रौ ९, ६, १७;
 मायृ १, ४, १५; निघ २, ११;
 या ३, ९.

गो-निर्हार-मुक्त^a- -कानाम् विघ
 ४८, १६^१.
 गो-निष्काल-प्रवेश- -शयोः कप्र
 १, ५, ६.
 गो-निष्कान्त- -न्तानाम् वौष ३,
 ६, २०^१.
 गो-न्यास-प्रसृदित- -तानाम् वौश्रौ
 २२, १७: १६.
 गो-प^a- > गोप-शौण्डिक-शैल्य-
 रजक-व्याध-स्त्री- -स्त्रीणाम्
 विघ ६, ३७.
 गो-पक्ष^ab- -क्षः काश्रौ २३, ५,
 २९.
 गो-पक्षि-शब्द- -वृद्धि- -दिः
 अप ६४, ९, २.
 गो-पति^a- -त्वे आपश्रौ ४, ३, ६;
 माश्रौ ४, ५, ४; हिश्रौ; -तिः
 आश्रौ २, ५, १७; ८, २, २१; १२,
 २०; शाश्रौ; -तिना अप १६, १,
 १३; -तिम् आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, १३; १; १८, ७, १५;
 आपश्रौ १; १३, ११; माश्रौ;
 -तेः कौय ३, ५, ४^१; शांय ३,
 ९, १; -तौ आश्रौ ३, ११, ६^१;
 आपश्रौ १, २, ९; वौश्रौ.
 गो-पत्य^a- -त्वः गोयृ ४, ५,
 १७^१; -त्वम् वौश्रौ ७, १४; २३;
 १४, ५: २७; -त्येन शाश्रौ २,
 १२, १; वौश्रौ ३, ८: २४; १३:
 १४.
 गो-पद^a- -दे वौय २, १, ८^१.
 गोपद-मा(त्र>)त्री^a- -त्रीम्
 आपश्रौ ७, ५, १.

a) विप. । वस. । b) गोत्र-इत्यस्य पूर्वनिपातः उंस. (पा २, २, ३७) । c) गोप्रदा^० इति जीसं. ।
 d) वैप १ द्र. । e) वृ. आन. । f) = पात्र-विशेष- । कास. उप. अधिकरणे ल्युट् प्र. । g) निर्विसर्गः पाठः? यनि.
 शोधः । h) पस.> वृस. पूष. = गोमय- । i) सप्र. 'मुक्तानाम्<>'निष्कान्तानाम् इति पामे. । j) = जाति-
 विशेष- । k) पूष. = गोष्टोम- । l) 'ते' इति पाठः? यनि. शोधः । m) पामे. वैप १, १२, ५७ p द्र. । n) विघ.
 प्राग्दीव्यतीयः प्यः प्र. (पा ४, १, ८५) । o) = गोष्ठ- । p) सप्र. गोपदे<>गोष्टे इति पामे. । q) पूष. = गोसफ- ।

गो-पयस्- -यः आपश्चौ १५, १०,
१; १४, १०; चौश्चौ ९, ४ : ४;
९: २६; १०, ७: ५; भाश्चौ; -यसा
वौश्चौ ९, ४ : १९; १०, ८ : ३;
वैश्चौ १३, ६ : ५; १८, २ : ७.
गो-पशु- -शुः कौश्र ३, १५, ७;
शांश्र ३, १४, ३; -शुम् कौश्र ३,
१०, ३१; शांश्र २, १५, १; -शुम्
वौश्चौ: २६, २६ : १.
गोपोल्- -पा ६, २, ७८; -ल्:
हिश्र १, १८, ११.
गौपाल्य- -ल्यम् निस्र १०,
११ : ३; ४.
गोपाल-धानी^b- > णी-पूला-
स- पाग २, २, ३१०.
गो-पा(ल्क^d>)लिका- पाय ४, १,
४०; ११२.
गौपालिक- पा ४, १, ११२.
गोपालिका (का-आ) दि-
-दीनाम् पावा ४, १, ४८.
गो-पितृ- -ता या ६, १५.
गो-मीठ^e- -ठे अप १, ४३, ५.
गो-पीथ^a- पाळ २, ९; -प्याय
कौस् १२७, ७; या १०, ३, ६६.
गो-पुच्छ- पाग ५, ३, १०७; -च्छम्
माश्चौ १, ८, १; १४; वाश्चौ १,
६, १, १५; हिथौ ४, १, ३१.
गौपुच्छ- पा ५, ३, १०७.
गौपुच्छिक- पा ४, ४, ६.
गोपुच्छ-वत् वैश्चौ १०, २ : ७.
गोपुच्छ-सदश- -शः अप २१,
२, ५.
गोपुच्छा (च्छ-अ) आ (अ-आ) कृ-
ति- -तिः अप २७, ३, ४.
गो-पुरीय- -पात् शंघ ४४८.

गो-पोष^a- -षम् आश्चौ १, १२,
३७; आपश्चौ ९, ३, १; भाश्चौ.
गो-प्रकाण्ड- पाग २, १, ६६.
गो-प्रकृति-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, १, ६१.
गो-प्रद- -दः अप १६, २, १.
गो-प्रदान- -नेन विध ९२, ५.
गो-प्रयुक्त- -क्ते वाध २९, ११.
गो-प्रल्ल- -लैः वाध १०, १०.
गो-प्रवाद- -दात् निस्र ७, ८ :
३८.
गो-वलीवर्द्ध-महिप-धूर्या(र्य-अ)
विक-हिंसा(सा-अ)वासि-
-सौ काध २७१ : ३.
गो-वाल- गो-वाल- द्र.
गो-विडाल-सिंह-सैन्धव- -वेषु पा
६, २, ७२.
गो-वीज-काञ्चन- -लैः विध ८, २२.
गो-ब्राह्मण- -णम् शांश्र ४, ९, ३;
अप ६८, २, १९; सुधप ८४ : ६;
-णात् अप ४३, २, ५१; -णाय
अप ७, १, ९; -णेभ्यः सुधप
८४ : ६; -णेषु शंघ ३९४.
गोब्राह्मण-क्षय- -यः अप ६४,
८, ६.
गोब्राह्मण-परित्राण- -णम् शंघ
२५१.
गोब्राह्मण-शरीर- -रे सुध ५०.
गोब्राह्मण-हत^b- -तानाम् गौध
१४, ९.
गोब्राह्मणो(ण-उ)पराग- -गे
विध ६८, ४.
गो-ब्राह्मण-नृप-मित्र-धन-दार-जीवि-
त-रक्षण- -णात् विध ३, ४५.
गो-ब्राह्मण-विधवा-पतित- -तेषु

आमिश्र ३, ११, ४ : ४३.
गो-ब्राह्मण-सूत-सांवत्सर-वैद्य-
-द्यानाम् अप ७२, ४, १.
गोभाजनाः वौश्चौ २, ११ : १६.
गो-भू-तिल-सुवर्ण- -णम् अप
३०^३, २, ६.
गो-भू-तिल-हिरण्य- -ण्यानि
आमिश्र २, ४, ५ : २६.
गो-भूमि-काञ्चना (न-अ) श्व-
-श्वानाम् अप ७०, ३, २.
गो-भूमि-तिल-हेम- -मानि वौध
४, ७, ९.
गो-भू-हिरण्य-वस्त्रा(स्त्र-अ)श्व- -श्वैः
अप ६९, ६, ३.
गो-भृत्^c- (> गौभृत्- पा.) पाग
४, २, ७५.
गो-मख^d- -खेन विध ३७, ३५.
गो-मचर्चिका- पाग २, १, ६६.
गो-मत्- -मत् आश्चौ ४, १५, २;
शांश्रौ ६, ६, २; १०, ८; आपश्चौ;
-मतः आश्चौ १०, २, २२;
आपश्चौ १४, ३, ६; १७, २, १, ७;
माश्चौ; -मता आश्चौ ३; ८, १;
८, ९, २; शांश्रौ; -मताम् काश्र
५८, १६; या ६, १७; -मन्त् शुश्र
३, ५९; -मन्तम् शांश्रौ ११, ८,
३; आपमं; -मान् शांश्रौ ४,
१२, १०; आपश्चौ.
गोमती- -ती कौश्र ३, २, ६;
शांश्र ३, ३, १; पाश्र २, १७,
९; ३, ४, ४; आमिश्र; -तीः
आपमं १, १४, ७; -तीम्
आपश्चौ ४, १६, १३; २०;
भाश्चौ ४, ३२, १४.
गोमती^a- पाग ४, ३, ८२;

a) वैष १ द्र. 11. b) = गोपाल-स्थान- 11. c) गौपालिधान-पूलास- इति पागम. । d) = गो-पाल- ।
e) तु. पागम. । f) = गो-स्थान- 11. g) तुस. वा चस. वा । h) सप्र. भूमितिलहिरण्यानि <> भूमितिल-
हेमानि इति पाभे. । i) व्यप. । उस. १। j) = गो-मेघ- ।

११०; -त्याम् विध ८५, ४३.
 गौमत्- पा ४, २, ११०.
 गो-मतल्लिका- पाग २, १, ६६^५.
 गो-मधुपर्का(र्क-अ)र्ह-र्हः आपध
 २, ८, ५; हिध २, १, १०७.
 १गो-मय^५- पा ४, ३, १४५; पाग २,
 ४, ३१; -०य अप ४२, १,
 ८^१; -यः गोय २, ९, ५;
 द्राय २, ३, १८; -यम् आय १,
 १७, ३; ४, ४, १३; ६, ४; कौय
 १, २१, ६; ५, ४, २; शाय;
 -यानि भाय २, २९ : १६;
 अप २६, ५, ७; -ये शाश्रौ
 ४, १५, ५; आय १, १७, ११;
 आयि २, ६, ८ : ६; गोय; -येन
 शाश्रौ १८, २४, २७; आपश्रौ
 १, ६, १३; भाश्रौ; -यैः गोय ४,
 ८, १५; द्राय ४, ३, ३.
 गोमयी^८- यीः वैश्रौ २०,
 ११ : ११; १९ : ६.
 गोमय-गर्त- तै वाध २१, ८.
 गोमय-गौरसर्प- -पम् गौपि
 १, ४, १६.
 गोमय-परिचय^९- -ये कौस् १५,
 १; १९ ८; २२, १२.
 गोमय-पर्युपित^९- -ते वाध १३,
 १२.
 गोमय-पायस- > (°यसीय^{१०}-)
 पाग ५, ३, १०६.
 गोमय-पात्रक- पाग २, २, ९^५.
 गोमय-पिण्ड- -ण्डम् पाय २,
 १, २२; भाय १, २८ : ८; १९;
 -ण्डान् वाय १०, १४; -ण्डे

पाय २, १, १२; भाय १, २८ :
 ९; १८.
 गोमय-लोट- -ष्टम् भाय १,
 ११ : ९; ११; भाय १, ७, ९;
 वाय १०, ९.
 गोमया(य-अ)शि- -शिना
 वाध २०, ४२.
 गोमया(य-अ)सुलेपन- -नम्
 शंघ ३१३.
 गो-महिषी-रत्न- -णम् वौध २,
 १, ४४.
 गो-महिष्य(पी-अ)जा- -जानाम्
 वाध १४, ३५.
 गो-महिष्य^१(पी-अ)जा(जा-अ)वि
 (क>)का- -कानाम् सुध ३४.
 गो-मांस-तुल्य- -ल्यम् वैध ३,
 ५, ९.
 गो-मांस-भक्षण- -णैः वाध १४,
 ३०.
 गो-मात्र- -त्रम् वाध २१, २५.
 गो-मायु^६- पाउभो २, -१, १;
 -यवः आपश्रौ ९, १२,
 ४; वैश्रौ २०, १५ : ३; -युः
 अप ५३, २, १; ६७, ७, २; -यू
 ऋकौस् ९६, १; ३.
 गोमायु-लोक- -काः वाध २६,
 १४.
 गोमायु-वदन^६- -ने कौस् ९३, ४.
 गो-मार्ग- -गार्त् अप १, ४३, ५.
 गो-मिथुन- -नम् आय १, ६, ४;
 १८, ८; माय १, ७, १२; वाय;
 -नेन वैय ३, १ : ७; वाध १,
 ३२; शंघ ६७; -नौ शाश्रौ ३,

१४, १७.
 गोमिथुन-ग्रहण- -णेन विध २४,
 २१.
 गो-मिन्- पा ५, २, ११४; पाग
 ४, १, ११०^१; -मिनः अप ५७,
 ३, ४; -मिनाम् अप ५८^३, ४,
 ४; वाध १७, ८.
 गौमायन- पा ४, १, ११०;
 -नाः वौश्रौ ४१ : १५.
 गो-मुख^१- पा ६, २, १६८; -^१०ख
 काय १७, २; वाय १३, ४.
 गो-मूत्र- पागवा ५, ४, ३; -त्रम्
 आयि २, ७, ७ : ६; १३; काय
 ७, ३; अप; -त्रस्य माश्रौ ५, १, ६,
 ३९, ६, २५; वाश्रौ ३, ३, २, २२;
 -त्राः वौश्रौ ४३ : ६^५; -त्रे
 वौध १, ६, ३८; ४, ६, ५; -त्रेण
 वौश्रौ २९, ११ : २; वौपि २, ८, ७;
 कौस् ४१, १९; विध ५०, २२.
 गोमूत्र-क^१- पा ५, ४, ३.
 गोमूत्र-गोमय-क्षीर-दधि-सर्पिः-
 कुशोदक- -कानि विध ४६,
 १९; सुध ६४.
 गोमूत्र-गोमया(य-आ)हार->
 रिन्- -रिणः वैध १, ९, ४^{१५}.
 गोमूत्र-भान- -गः वौध ४,
 ५, १३.
 गोमूत्र-मिश्र- -श्रेण काश्रौ २५,
 ११, १७.
 गोमूत्र-यावक- -कम् शंघ ३९०;
 ४२३.
 गोमूत्र-वर्णक^१- -काः अप ९,
 १, १.

a) तु. पागम. । b) = गो-पुरीय- । c) विप. (Lगोमयसंमिथिता-] २अप-) । d) उप. = राशि-
 e) उप. = उपलित- (तु. आपध १, ९, ५) । f) महिपाजा^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वाध १४, ३५) ।
 g) = शृगाल- । विप. (मएहृक- Lकौस्. J) । h) उप. = रुत- । i) व्यप. । j) = वाय-विशेष- । उपमाने वस. ।
 k) = ऋपि-विशेष- । l) = [गोमूत्र-वर्णक-] आच्छादन-विशेष- । मूत्रिका- इति पागम. । m) 'मयहा' इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. C.) । n) विप. (तिल-) । वस. ।

गोमूत्रा(त्र-आ)दि- -दि वौश्री
 २८, ११: १८; २९, ११: १६;
 २०; -दिभिः वौध ४, ५, १६;
 विध ४६, २०.
 गोमूत्रै(त्र-ए)क-पल- -लम्
 आम्रिय २, ७, ७: १०; अप
 ३८, २, १.
 गो-मृग^१- -नाः आश्री १०, ९, ५;
 शाश्री १६, ३, १३; १२, १२;
 आपश्री १९, १६, १६; वौश्री
 २६, ११: ५; वाश्री ३, ४, ३,
 १२; -गम् आपश्री २०, २०,
 २; वौश्री १५, १४: १३××;
 माश्री; -गस्य आपश्री २०,
 १९, ३, ९; काश्रीसं २६: २;
 वौश्री १५, ३०: २५××;
 वाश्री.
 गोमृग-कण्ठ- -ण्ठम् आपश्री
 २०, १९, ११; वौश्री १५, ३१:
 २५; हिश्री १४, ४, ३५; -ण्ठे
 वाधूश्री ३, ९६: ४; -ण्ठेन
 आपश्री २०, २२, १; वौश्री १५,
 ३४: ७; २४, ८: १५; वाश्री
 ३, ४, ५, १३; हिश्री १४, ४,
 ५८.
 गोमृगकण्ठा(रुठ-अ)श्च-
 शफ- -फयोः काश्री २०, ८, १.
 गो-मेध- -धेन वाधूश्री ४, १९:
 ३१.
 गो-यज्ञ- -ज्ञः पागृ ३, ८, १५;
 -ज्ञस्य कागृ ७१, १; -ज्ञे गोयृ
 ३, ६, ९; -ज्ञेन पागृ ३, ९, २;
 गोयृ ३, ६, १२.
 गोयज्ञ-कर्मन्- -र्मणः कप्र ३, ७,

८; -र्मणि कप्र ३, ७, १.
 गो-यवागू- -न्वोः पा ४, २,
 १३६.
 गो-यान- -ने विध ५३, ४.
 गो-युक्त- -क्तम् गोयृ ३, ४, ३०;
 द्रागृ २, ५, १४; ३, १, २७;
 -क्तानि हिश्री १३, १, ३१;
 -क्तेन आगृ ४, २, ३.
 गोयुक्ता(क्त-आ)रोहण^१- -णम्
 गोयृ ३, १, २२.
 गो-युग^१- पावा ५, २, २९; -गानाम्
 वौश्री २२, ६: १; -गेन माश्री
 ६, १, ६, ७.
 गो-नक्षक- -कान् वौध १, ५,
 ८०.
 गो-न्य- -थैः वाधूश्री ३, -७५:
 १३.
 गो-रस^१- -सम् वैध ३, ५, २; -सस्य
 शंघ १८३; -सैः विध ५०,
 २३; ९०, २५.
 गो-रूप- -रूपम् कौसू ११३, २१.
 गो-रोचन^१- पाउरृ २, ७८.
 शगो(गो-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७, २,
 ११५.
 शगो(गो-अ)र्थ- > गोर्थिन्- -र्थी
 अप १, ४३, ५.
 गो-र-द्वादशाह^१- -हः लुसू २, १६:
 १४.
 गो-लाङ्गल- -लानाम् अप ७०^३,
 ३, १.
 गो-लोक- -कः जैश्रीका १७९;
 -कान् विध ९२, ६.
 गो-लोमन्-(> गौलोमन- पा.)
 पाग ५, ३, १०७.

गो-वत् गौध १३, २१.
 गो-वध- -धः वौध १, १०, २३;
 -धे शंघ ३९४; विध ५०,
 २४.
 गो-वराह-ध-सर्प-मण्डूक-माजरीरा-
 (र-२आ)घ- -घैः वैगृ ६, १:
 १६.
 गो-वर्चस^१- -सम् गो २, ३४.
 गो-वर्जम् शंघ ४०८; गौध २२,
 ३८.
 गो-वशा- -शाम् वौश्री ११, ३:
 ३०.
 गो-वस्त्रा(स्त्र-अ)जा (जा-अ)वि-
 -वीनाम् काश्री १४, २, २९.
 गो-वाजि-यज्ञ- -ज्ञयोः कप्र ३,
 ७, ७.
 गो-वाट^१- -टे अप ६६, १, ५.
 गो-वा, वा^१पल- -लेन -हिय २,
 ९, ७; -लैः कप्र १, ७, ७; वाध ३,
 ५४; शंघ १८३; वौध १, ६,
 ४१; विध २३, २८; सुध ३३^१.
 गोवाल-रज्जु- -ज्ज्वा वौध १,
 ५, ३१; सुधप ८७: १३.
 गो-वासन^१- (> गौवासनि-
 (क>)का, की- पा.) पाग ४,
 २, ११६.
 गो-विकर्त^१- -र्तस्य आपश्री १८,
 १०, २०^१.
 गो-विकर्त^१- > कर्त्रे (र्त-अ)क्षा-
 वाप- -पौ हिश्री १३, ४, ८.
 गो-विद्^१- -वित् साअ २, ३०५;
 ३२९; -विदम् शाश्री १२,
 १४, ५.
 गो-विन्द^१- पावा ३, १, १३८;

a) वैप १ द्र.। b) पूष. = शकट-। c) पस.। पाप्र. = प्रत्यय-विशेष-। d) = दुग्धादि-। e) = ओषधि-
 विशेष-। f) = याग-विशेष-। g) उप. = मार्ग-। h) विध. पाठः। i) गोपलैः इति पाठः इयनि. शोघः
 (दु. विध.)। j) = ग्राम-विशेष-। गोधाशन- इति पाका., गौवासन- इति [पक्षे] पागम.। k) पाप्मे. वैप १,
 १२५९ ० द्र.। l) = गो-विकर्त-।

-०न्द^३ जैश्रौका ११११; विध
१, ५१; -१न्दम् आप्रिगृ २, ५,
७: ९; वौघ १, ११, ७; वैगृ ३,
१३: ४९; वौघ २, ५, २४.
गो-विप्र-पितृ-देव- -वेभ्यः वौघ ४,
५, ५.
गो-विप्रो(प्र-उ)दका(क-अ)ग्नि-वायव
(यु-अ)र्क-तारो(रा-इ)न्दु- -न्दून्
वैघ २, ९, ४.
गो-विराड्-अध्यात्म-देवता->
-व्य- -त्यम् अत्र ९, १०.
गो-विषाण- -णात् अप ६४, ८,
६.
गो-विसर्ग^३- -र्गे अप ६८, २, ५९.
गो-वीथी^०- -थी, -थीम् अप ५०,
४, ४.
गो-वृन्दारक^०- पाग २, १, ६०.
गो-वृष- -षः गौघ २८, ५; -षम्
अप ३०^३, २, ७; ६८, २,
३४.
गो-व्रज- -जे विध ६०, १९.
गो-व्रत- -तम् विध ५०, २४;
५३, ३.
२गो-व्रत^०- -तः हिश्रौ १७, ५,
२४.
गो-व्यच्छि(न्>)नी^३- -नी आप्रश्रौ
१८, १०, २३; हिश्रौ १३, ४,
१०.^६
गो-शकृत्- -कृत् वैगृ ३, २३: ३;
वौघ १, ६, ३६.
गोसकृत्-सुवर्णा(र्ष-अ)पो(प-अ)
ग्नि-नौरसर्प- -पात् वौषि ३,

४, २०^४.
गोशकृद्-सृद्-भस्मन्- -स्मभिः
वौघ १, ५, २६^१.
गोशकृद्-युक्त- -क्ते वैगृ २,
५: ८.
गो-शफ- -फः आश्रौ ८, ३, २३;
शाश्रौ १२, २३, ३; वैताश्रौ ३२,
२५; -फे शाश्रौ १२, २४, २१;
लाश्रौ ९, १०, ५.
गो-शब्द- -ब्दः ऋत ३, २, ९.
गो-शरण्य- -ण्यम् वाध ६, ३०.
गो-शान्ति- -न्तिः अप ६६, ३, ३;
-न्तिम् अप ६६, १, ३; -न्तेः
अप ६६, ३, ३.
गो-शाल, ला- पा ४, ३, ३५^१;
-लाम् कौसू २४, १०; ८१, २८.
गो-शिरस्- -रः वाश्रौ २, १, ७,
११.
१गो-शृङ्ग- -ङ्गम् अप ३६, २९, १;
-ङ्गेण जैगृ २, ५: १३; कौसू
३१, ६; अप ३६, ११, १; शंघ
१७८.
गोशृङ्ग-तस (:) अप ३६, ३, २.
२गो-शृङ्ग^३- > गौशृङ्ग^१- -ङ्गम्
जुसू ३, १०: ४३; लाश्रौ ७, २, १.
गौशृङ्ग-सञ्जय- -ययोः
लाश्रौ ६, १०, ११^१म्.
गौशृङ्ग-हारायण-कौल्मल-
वर्हिष-वैतहच्य- -न्यानाम्
लाश्रौ ७, २, १३.
गो(गो-अ)श्व-पुरुष-भूमि- -मिपु
गौघ १३, १६.

गो(गो-अ)श्व-वाल- -वाल^३- -लेन
काश्रौ १९, २, ९.
गो(गो-अ)धा(श्व-अ)जा(जा-अ)वि-
-वयः वौघ २, २, ९; -वीनाम्
कौसू ६९, १६.
गो(गो-अ)श्वो(श्व-उ)ष्टु-नाजा(ज-अ)
पहारिन्- -री विध ५, ७७.
गो-(<स)ष^०- > ष-तम- -मां
ऋश्रा ५, ३०^१.
गो-षा(<सा)^०- -षाः अप्राय
६, ३^१.
गोषु-चर- -रे पावा ६, ३, १.
१गो-पू[सू]क्त- -क्तैः कौगृ ४,
१, ९^३.
गोपूक्तिन्^३- -क्ती साश्र १, १२३;
१२४; ३८२; ३८३; २, ९९५.
गोपूक्त^३- -क्तम् लाश्रौ
७, २, १.
२गोपू[सू]क्त^३- -क्तम् जैश्रौ
२२: १६; निसू ८, ९: ३३;
वाध २८, १४; शंघ १०५; विध
५६, १८; -क्तेन आप्रश्रौ ६, १९,
९.
गोपूक्ता(क्त-अ)श्वसूक्त-
-क्ते जैश्रौ २२: १५; निसू १०,
१३: १.
गोपूक्त्य(क्ति-अ)श्वसूक्तिन्-
-क्तिनौ ऋश्र २, ८, १४; साश्र
१, २१२; अश्र २०, २७; ६१-
६४; १०६.
गो-ष्टो[स्तो]म^०- -मः हिश्रौ १८,
४, ३२; लाश्रौ १०, १६, १-

a) व्यप. (पुरुष). b) = रात्रि-याम-विशेष-। वस.। c) = आकाश-मार्ग-विशेष-। d) तु. पागम.।
e) विप.। वस.। f) नाप. ([गो-हन्त्री-] रज्जु-।) उस. उप. <√व्यच्छ् [व्यथने]। g) व्युच्छ् इति पाठः?।
h) पवितलान् इति B.। i) °कृद्भ° इति मैसू.। j) = गोशाल-जात-। k) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?।
l) = साम-विशेष-। m) गो इति पाठः? यनि. शोधः। n) हस. > पस. > पस. उप. = पवित्र-।
o) वैष १ द्र.। p) 'सू' इति पाठः। q) = ऋपि-विशेष-। r) पृ ४३३ e द्र.। s) पृ ४३३ f द्र.।
'सू' इति वाच. शंघ. विध.। t) इति आश्रौ.।

लुस् २, १६: १४; -सम् आपश्चौ
 २३, १२, १८; -मे लाश्रौ १०,
 १६, १; ६; -मेन आपश्चौ २२,
 १३, २२; हिश्रौ १७, ५, ४२.
 गोस्तोम-भूमिस्तोम-वनस्पति-
 सव^१ - नानाम् आश्रौ ९, ५, २.
 गो-ष्ट^२ - पा ८, ३, ९७; -ष्टः दाश्रौ
 ८, ४, १३; लाश्रौ; -ष्टम् काश्रौ
 ८, ४, ४; आपश्चौ; -ष्टस्य आपश्चौ
 १५, १९, १०; भाश्रौ; -ष्टाः मागृ
 २, १८, २१; -ष्टत् वौश्रौ २६,
 ५: २७^३; वाश्रौ १, ४, २, ८; आश्रुः
 -ष्टे शाश्रौ २, ११, ६; आपश्चौ
 ७, १७, १××; वौश्रौ; आश्रु २,
 १०, ९^६; कौस् ८९, १^१; -ष्टेन
 कौस् १९, १४; अप १६, १, ६;
 -ष्टेषु हिश्रौ १७, ६, ३८; अप
 ४, ६, ५; ५८^२, ४, ४; ६९,
 ७, ४.
 गोश्री- पा ४, १, ४२^६.
 गोष्ट-कर्मन्- माणि कौस् १९,
 १४.
 गोष्ट-क्षेत्र-परिष्कन्द^४ - न्दाः
 वौध ३, १०, १३.
 गोष्ट-नात्, ता- -तम् वौध १,
 ५, ५५; -ताः कौश्रु ३, ५, ७;
 हिश्रु १, १८, ४.
 गोष्ट-ज- फि ७०.
 गोष्ट-देवताक^१ - कम् अश्रु ३,
 १४.
 गोष्ट-मध्य- -ध्ये अप २६, ३, ३;
 ६६, १, ५.
 गोष्टवृत्तीय- -यम् अप २:

९१.
 गोष्ट-ध- पा ५, ४, ७७.
 गोष्टा(ष्ट-आ)दि- -दयः पावा
 ५, २, २९.
 गोष्टीन- पा ५, २, १८.
 गोष्टे-क्षेत्रिन्- , 'नदिन्-
 'पट्ट- , 'पण्डित- , 'प्रगल्भ- ,
 'वजित- > 'जितिन्- ,
 'व्याढ- , 'सूर- पाग २, १, ४८.
 गोष्टे-शय- -यः शंघ ३९३.
 गोष्-पद^१ - पाग ६, १, १५७^६;
 -दम् ऋत ४, ६, ९; पा ६, १,
 १४५; -दे सु २, ४.
 गोष्पद-मा(त्र>)त्री- -त्रीम्
 हिश्रौ ४, १, ६३.
 गो-संस्तव- -वे शाश्रौ १४, ११, ९
 गो-सखि^२ - खायम् ऋप्रा ५, २७^१.
 गो-सनि^३ - पाग ८, ३, ११०; -नि
 तैप्रा ६, १२; -निः आश्रौ ६,
 १२, २; ११; शाश्रौ; -निम् काश्रु
 ३२, ३; अप ४६, ५, २; अप्रा
 ३, १, ७.
 गोसन्या(नि-आ)दि- -दीनाम्
 शौच २, १०३.
 गो-समानाक्षर-नान्त- -न्तात् पावा
 ३, १, ८.
 गो-समास-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा १, २, ४८.
 गो-सव^४ - -वः काश्रौ २२, ११, ६;
 आपश्चौ २२, २५, १८; वौश्रौ;
 -वस्य शाश्रौ १४, १५, ६; -वे
 शाश्रौ १४, ११, १०; आश्रु;
 -वेन शाश्रौ १४, १५, १;

आपश्चौ.
 गोसव-विध- -धौ आश्रौ ९,
 ८, १२.
 गोसव-विध-वैश्यस्तोम- -मेषु
 वैताश्रौ ३९, १०.
 गोसवा(व-अ)भिषेचनीय-
 -ययोः वैताश्रौ ३९, ४.
 गो-सहस्र- -स्रम् अप १६, २, ३;
 ४××; शंघ ३७९; ३८२; वौध
 १, १०, २१; सुघ ४८; ५९.
 गोसहस्र-प्रद- -दः अप १६,
 २, २.
 गोसहस्र-विधि^५ - -धिः अप
 १६, १, १.
 गो-साद- , गो-सादिन्- , गो-सारथि-
 पा ६, २, ४१.
 गो-स्तेन- -नाः अप ५०, ५, २.
 गो-स्त्री- -स्त्रियोः पा १, २, ४८.
 गोस्त्री-जन्मन्- -न्म अप ६७,
 ३, २.
 गो-स्थान^६ - -नम् आपश्चौ २, १,
 ५; वौश्रौ १, ११ : ८; १३; १८;
 भाश्रौ.
 गो-स्थायिन्^७ - -यी अप ५०, ६, १.
 गो-रपशन- -नम् अप ६८, २, ६१.
 गो-स्रोतस्^८ - -तांसि कप्र ३, १०, २.
 गो-स्वामिन्- -मिने काश्रौ १५, ६,
 २२.
 गो-हन्तृ- > °न्तृ-प्रहोज्झ-तन्मन्त्र-
 कृद्-अवकीर्णि-पतितसावित्रीक-
 -केषु गौध २१, ११.
 गो-हर्तृ- -र्ता शंघ ३७७ : १७.
 गो-अग्र- प्रश्रु. गो- द्र.

a) एकाहविशेषाणां द्रस. । b) वैप १ द्र. । c) = [तत्स्थ-] रक्षो-विशेष- (तु. Knauer) ।
 d) नो^१ इति पाठः १. यनि. शोधः । e) पाभे. वैप १ परि. गोत्रे खि ४, १२, २ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १
 लोके मा १९, ४६ टि. द्र. । g) तु. पागम. । h) परिष्कन्द- = देवालय- । i) विप. । वसः । j) पस. ।
 लदकमानि (ऋत.), सेविताधेवितप्रमाणेषु (पा.) सुह् आगमः । k) = परिशिष्ट-ग्रन्थविशेष- । l) पाभे. वैप १,
 १२६१ f द्र. । m) उस. पू. = रश्मि- । n) पस. । उप. = छिद्र- ।

गोकक्ष^२- पाग ४, १, १०५; १५४^३.

गोकक्षायणि- पा ४, १, १५४^३.

गोकक्ष्य- पा ४, १, १०५; पाग ४, १, ८०^६; १५४; पावाग ४, १, ७९.

गोकक्ष्या- पा ४, १, ८०; पावा ४, १, ७९.

गोकक्षी-पति-, पुत्र-पागम ३७.

गोकक्ष्यायणि- पा ४, १, १५४.

गोख- गोखा- टि. द्र.

गोखा^४- पाग ४, १, ५६^६.

गोज-वाज- गज-वाज- टि. द्र.

गोण^५->गोणी^५- पा ४, १, ४२; ५, ३, ९०; पाग ५, ३, १०८; -ण्याः

पा १, २, ५०; पावा १, २, ४९^६.

२गौणिक- पा ५, ३, १०८.

गोणी-त्(र>)री- पा ५, ३, ९०.

गोत्- गो- द्र.

गोन्तम^६- पा, पाग २, ४, ६३^३; ६५;

-मः शांश्रौ १४, ६१, १; ६३, २; ऋअ २, ९, ३१; ६७; वृदेः -मस्य

शांश्रौ १४, ६१, १; १५, १, ८; १६, ३, ७; -माः^१ शांश्रौ ६, ४, ११^१;

लाश्रौ ४, ७, १५; वृदे ४, ९८; पा २, ४, ६५; -मात् वृदे ३, १२५;

-मानाम्^१ आश्रौ १२, ११, १; -मे वृदे १, ५८; २, १२९; ऋप्रा २, ६३; -मेभिः^१ शांश्रौ १४,

५७, १५^१.

गौतम^६- पाग ४, १, ४१;

-०म आश्रौ १२, ११, १^६; ३; आपश्रौ २४, ६, ११; १३; वौश्रौप्र

१०: ६xx; हिश्रौ; -मः आश्रौ

१, ३, ३३xx; आपश्रौ; -मम् द्राश्रौ ८, २, २३; लाश्रौ ४,

६, १६; वैद्य; -मस्य वौश्रौ १८, ५२: ११; द्राश्रौ १, ४,

१७; लाश्रौ १, ४, १३; -माः आपश्रौ २४, ६, १०xx; वौश्रौ;

निस् ५, १०: १२^१; -मात् ऋअ ३, २१; -मानाम् वौश्रौप्र १६:

५; -माय आमिष्ट १, २, २: १६; २१; वौद्य; -मे लाश्रौ १०, ४, ६.

गौतमी- पा ४, १, ४१;

७३; -मी अप १, ३, १.

गौतम-धानज्जय- -श्रौ लाश्रौ ६, ३, ६; ७, १०, ९; ९,

३, १४; १०, २, ७; निस् ३, २: २४; ४: ९; ४, १: ४.

गौतम-पुत्र- -त्रस्य चाअ ५: २.

†गौतम-द्रुवाण^६- -०ण द्राश्रौ १, ३, ३; लाश्रौ १, ३, १.

गौतम-भरद्वाज- -जौ शुअ ४, १९८.

गौतम-भारद्वाज-याज्ञ- वल्ल्य-हारीत-प्रभृति-

-तीनाम् वैद्य १, ९, २. गौतम-वत् वैद्य ४, ४, १-७^१.

गौतम-वार्कखण्डि- -ण्डी गोद्य ३, १०, ६.

गौतम-शाण्डिल्य- -श्रौ द्राश्रौ २, ३, १६xx; लाश्रौ १, ७, १४; ३, ९, २; ४, २, ३;

कप्र २, ८, २१.

गौतम-शाण्डिल्यायन- -नौ द्राश्रौ ५, ३, २; लाश्रौ २, ७, १.

गौतम-सार्दागव- -वौ लाश्रौ ७, ९, १३.

गौतमे(म-इ)च्छा- -च्छायाः वैद्य ४, ८, ८.

गौतमीय- -यम् द्राश्रौ १, ४, ४; २, ३, २०; लाश्रौ १, ४, ३;

७, १८; ९, ९, २; शुअ ४, १६३; -ये द्राश्रौ २, १, २५; लाश्रौ १,

५, १९; -येन लाश्रौ ८, २, २०.

गौतमि- -मिम् शांश्रौ ४, १०, ३.

गौतम-गौर- पाग २, २, ३८^३.

गौतम-चतुष्टोम- -मयोः आपश्रौ २०, ९, १२; हिश्रौ १४, २, ४२,

-माभ्याम् आपश्रौ २२, ११, १५; हिश्रौ १७, ५, ८.

गौतम-वत् आपश्रौ २४, ६, ११^१;

१३; वौश्रौप्र १०: ६^१; ११- ४xx; हिश्रौ २१, ३, ९^१.

गौतम-स्तोम^६- -मः आश्रौ १०, ४, १; ८, २; -मम् आश्रौ ९,

६, १; -मेन आश्रौ ९, ५, १४.

गौतमा(म-आ)दि- -दिभिः कप्र ३, ७, १४.

गौतमाद्यु(दि-उ)क्त- -क्तः कप्र २, ४, ८.

गोत्र- प्रभृ., १गोत्व- गो- द्र.

२गोत्व- पाउना ४, ११६.

गोद- पा, पाग ४, २, ८२.

गौदन्त^६- (>गौदन्तेय- पा.) पाग ४, १, १२३.

a) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। b) तु. पाप्ति.। गोकक्ष्य- इति पागम., गोकक्ष्य- इति पाका. भारडा. च, गोकक्ष्य- इति [पक्षे]भाण्डा.। c) गौलक्ष्य- इत्यपि पाका.। d) = पथङ्ग-विशेष-। व्यु. ?। e) गोख- इति पागम.। f) = धान्याद्यावपन- [शाण-कोप- प्रभृ.]। व्यु. ?। g)) वैप १ द्र.। h) तु. पागम.। i) बहु.< गौतम-। j) पाठः ? गौतमाः इति शोबः (तु. संस्कर्तुः टि.)। k) वैप २, ३ खं. द्र.। l) सप्र. गौतमवत् <> गौतमवत् इति पाभे.। m) गौतमगौर- इति [पक्षे] पागम.। n) = ऋतु-विशेष-।

१गो-दान- गो- द्र.

२गोदान^१- पावाग ५, १, ९४; -नम् काश्रौ ५, २, १४××; आपश्रौ; -नयोः वौश्रौ २५, १० : २; -नस्य कौश्र २, ७, १५; -नात् पाश्रु ३, ६, २; -ने गोश्रु १, ९, २४; द्राश्रु २, ५, १; -नेन कौस् ५४, १५.

गौदानिक^२- पावा ५, १, ९४; -कम् आश्रु ३, ८, ६६; -कैः काश्रु १७, १.

गौदानिक-व्रातिकौ(क-श्रौ)

पनिपद- -दाः जैश्रु १, १६ : १.

गोदान-करण- -णम् जैश्रु १, १८ : ३.

गोदान-कर्मन्- -र्म कौश्र १, २१, १७; शांश्रु १, २८, १९; आसिपट २, २, ५ : २१; हिश्रु २, ६, १५; -र्मणः भाश्रु १, ९ : १३; १० : १२; -र्मणि कौश्र १, २१, १६; शांश्रु १, २८, १८.

गोदान-व्रत- -तम् आपश्रु १६, १४.

गोदाना, निक^३-व्रातिका (क-आ)

दित्यव्रतौ(त-श्रौ)पनिपद- ज्ये L, ज्यै^४ छसामिक- -काः गोश्रु ३, १, २६; द्राश्रु २, ५, १७.

गोदाना(न-आ)दि- -दि गोश्रु २, १५.

गोदानिक^५- -कः माश्रु १, २१, १३.गोदावरी^६- -र्याः पावा ५, ४, ७५;

-र्याम् विध ८५, ४२.

गोध^७- -धान् अप ५०, २, ४.

१गोधा^८- पाग ३, १, २७; ३, १०४; ४, १, १२३; -धा अप १, ३०, २; ६८, ५, ८; वृदे ६, १०६; शुभा ५, ३७; अप्रा ३, ४, १; -धाम् विध ४४, २९; -धायाः वैश्रौ १८, १९ : २९; -धायाम् वौश्रौ २, ५ : ७.

गौधार- पा ४, १, १३०.

गौधेय- पा ४, १, १२३.

गौधेर- पा ४, १, १२९.

गोधा-कच्छप-श्वाविट्-छ (<श)र्यक

L, शल्यक^९]-खड्ग-शाश-पूति- L, तीक^{१०}] खप-वर्जम् आपध १, १७, ३७; हिध १, ५, ६८.

गोधा-प (द>) दी- पाग ५, ४, १३९.

गोधा-त्रीणा- (क>) का^{११}- -काः काश्रौ १३, ३, २१.

गोधा-शलभ-शल्यक-मत्स्य-कर्म- शिशुमार- -राणाम् सुध ३९.

गोधो (धा-उ)लृक-काक-ज्ञप-वध- -धे विध ५०, ३२.

२गोधा^{१२}- -धा ऋश्रु २, १०, १३४; वृदे २, ८२; साश्रु १, १७७; २, ४५७.

गोधाशन- (> गोधाशनिक-) गो-वासन- टि. द्र.

१गोधुकसा- -सा अप ४८, १३९.

गोधूम^{१३}- पाठ ५, २; पाग ४, ३, १३६; १५२^{१४}; -मम् काश्रौ १४, ५, ९;

वौश्रौ २२, १३ : १८; -माः आपश्रौ १६, १९, १३; वौश्रौ; -मान् आज्यो ३, ३; -मानाम् हिश्रौ १७, २, १८; -मैः विध ८०, १.

गोधूम^{१५}- पा ४, ३, १३६; १५२; -मम् वौश्रौ २२, १३ : १८; भाशि ५२.

गोधूम-चपाल^{१६}- -लः काश्रौ १४, १, २२.

गोधूम-कलापि, पी^{१७}- -पिः शांश्रौ १४, ४१, ८; -पी आपश्रौ १८, १, ८; -पीम् वौश्रौ ११, १ : ५; २ : १७.

गोधूम-कुवल-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ १९, २, १७.

गोधूम-खल- -लः शांश्रौ १४, ४१, ७.

गोधूम-चवाल^{१८}- -लः^{१९} शांश्रौ १५, १, १६; वैश्रौ १७, ४ : ६.

गोधूम-पिट- -ष्टानाम् वौश्रौ २२, १३ : १८; वाश्रौ ३, १, १, ८; -ष्टैः हिश्रौ १४, ४, १८.

गोधूमपिट-चवाल^{२०}- -लः^{२१} आपश्रौ १८, १, ८; हिश्रौ १३, १, ७.

गोधूम-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ १९, ७, १; माश्रौ ५, २, ११, १६; वाश्रौ ३, २, ७, ६३; हिश्रौ २३, १, २५.

गोधूमो(म-उ)वैरा- -रा शांश्रौ १४, ४१, ६; हिश्रौ १७, २, १८.

a) = (गावः [केशाः] दीयन्ते L < √दो अत्रखण्डने] अत्र) शिरोभाग-, [तत्स्य-]. केशसमूह- (तु. काश्रौ. प्रमृ.), = [तदधिकृतकर्मन्-] संस्कार-विशेष-। b) विप. । तदस्य प्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, १०९) पक्षे वृद्धयभावश्च उरसं. (पा ७, २, ११७) । c) विप. । तस्येदमीयः प्र. । d) गोश्रु. पाठः । e) = नदी-विशेष-। व्यु. ? । f) = देश-विशेष-। व्यु. ? । g) वैश्रु १. द्र. । h) हिध. पाठः । i) = वीणा-विशेष-। हस्ते प्र. । पृष. = गोधा-चर्मन्-। j) = ऋषिका-विशेष-। व्यु. ? । k) तु. पागम. । l) विप. । वस. । m) उप. = मुष्टि-। n) सप्र. गोधूमच° <> गोधूमपिटच° इति पाभे. ।

गोनर्त- (> गौनर्तिक- पा.) पाग
५, १, ६४^५.

१गोप- √गुप् द्र.

२गोप- गो- द्र.

३गोप^५- -०प वैताश्रौ १०, १७^५.

गौपायन^५- -नः साञ्च १, ४४९-५०;

२, ४५९; -नाः ऋञ्च २, ५, २४;

वृदे ७, ९०; -नान् ऋञ्च २, १०,

५६; वृदे ७, ८७; ९७; -नानाम्

निसू ९, ९; २६; -नैः वृदे ७,

१००.

४गोप^५, ष > पा-गिरि- ऋत ४,
७, १०.

गो-पथ^५- -थः अप २८, १, २; अञ्च
१९, २५; ४७; -थात् अप ३१,
१०, ५; -थेन अप २७, २, ५.

गोपथो(ध-उ)क्त- -क्तैः अप २०,
६, २.

गोपन-, गोपयत्- √गुप् द्र.

गो-पयत्- गो- द्र.

गोपवन^५- पाग २, ४, ६७; ४, १, १०४;
-नः ऋञ्च २, ८, ७३; साञ्च १,
२९; ८९; -नाः^५ वौश्रौप्र २७; ८.

गौपवन- पा २, ४, ६७; ४, १,
१०४.

गोपवना(न-आ)दि-प्रतिषेध- -धः
पावा २, ४, ६७.

†गोपा^५- -पा आश्रौ ८, १०, १; आपमं
१, ७, ११; अप्रा २, २, १३^२;

-पाः आश्रौ ४, १२, २; १३, ७××;

शश्रौ; या ३, १२; ७, ९६; १२,

३८; -०पाः आपश्रौ १२, ३, २;

हिश्रौ ८, १, ४१; -पाम् आश्रौ

४, ६, ३; आपश्रौ; या १४, ३.

गोपानसि^५- पाडभो २, १, २३८.

गोपायत्- प्रसृ. √गुप् द्र.

१गो-पाल-गो- द्र.

२गोपाल^५- > गौपालायन^५- -नः

वौश्रौ १८, २६; ७; १५.

गोपालि^५- -लिः वौश्रौप्र ४८; २.

गोपि^५- -पयः वौश्रौप्र ४८; ५.

गोपिका^५- (> गौपिक- पा.) पाग
४, १, ११२^५.

गोपिल- (> गौपिलेय^५- पा.) पाग
४, २, ८०^५.

१गो-पीथ- गो- द्र.

†२गोपीथ^५- -थः अप्रा ३, ४, १.

†३गोपीथ^५- -थाय आपश्रौ १, २०,
११; वौश्रौ १, १४; १९; वाश्रौ

१, २, ४, ३०; हिश्रौ १, ५, २०;

वौश्र १, ७, ३६.

गोपीथ्य^५- -थ्याय ऋप्रा ८, ४७.

गोपुर^५- -रे अप ७०^३, ११, २६.

गोपुरा(र-अ)टाल-शैल-प्रासाद-

वेश्मन्- -श्मनाम् अप ६४,

३, ९.

गो-पुरीप- प्रसृ. गो- द्र.

गोप्त्-, गोप्त्री-, गोप्य- √गुप् द्र.

गोफिल- (> गौफिलेय-) गोपिल-

टि. द्र.

गोफि, भिजि, लिजि^५- (> गौफि-
L, भिजि, लिजि- पा.) पाग ४,
१, ११२^०.

गोवल^५- > गोवल-दशरात्र- -त्रः
वौश्रौ २३, १३; ८.

गोभिल^५- (> गौभिलेय- पा.)
पाडभो २, ३, १०८; पाग ४, २,
८०^५; -लाः^५ वौश्रौप्र ४३; ४;

-लेन कप्र ३, ७, ६.

गोभिल-गौतम- -मौ कप्र २, ८,

२४.

गोभिलो(ल-उ)क्त- -क्तानाम् कप्र

१, १, १.

√गोम् पाधा. जुरा. उम. उपलेपने.

गोमठ- (> गौमठिक-), गोमथ-

(> गौमथिक-) २गोमथ- टि. द्र.

१गोमथ- प्रसृ. गो- द्र.

२गोमथ- (गौमथिक^५- पा.) पाग.
४, २, ८०^५.

?गोमहः मैञ्च १.

गोमहिपी- प्रसृ. गो- द्र.

गोर- (> गौर- पा.) पाग ५, ४,
३८^५.

गो-रथ- प्रसृ. गो- द्र.

?गोर्मायूक^५- -क्त्य चाञ्च ४०:
१७.

गोल^५- > गौलायन- गोलाङ्क- टि.
द्र.

गोल-त्रत्- अप ५८^२, २, ९; ४, ९.

गोलक^५- -कः वैध ३, ११, ४^५; -काः

a) तु. पागम. । b) वैप १, १२६१ S द्र. ।

c) अपत्ये फक् प्र. उसं. (पा ४, १, ९९) ।

d) = पर्वत-विशेष- । e) = [आथर्वण-] ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) = [तत्रोक्त-] ब्राह्मणग्रन्थ-विशेष- । g) वैप १

द्र. । h) बहु. < गोपवन- । i) = सौधाग्र-द्विदिस- । व्यु. ? < √गुप् वा गो- + √पा [पाने] इति वा

अभा. । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) व्यप. । व्यु. ? । l) = देश-विशेष- ? । व्यु. ? m) गोहित-, गोहिल-

इति पाका., गोफिल-, गोभिल- इति पागम. । व्यु. ? । n) = पुर-द्वार- । o) तु. पागम. । °लि° इति भारटा.,

°भिलिक- इति पाका. । p) < √*गुम् (शब्दे [तु. MWAL]) । q) बहु. < गौभिलेय- । r) गोमथ- इति

पाका., गोमठ इति पागम. । s) = मरुटलाकार-, व्यप. च । व्यु. ? < √गुह् [रत्तायाम्] इति अभा. प्रसृ. ।

t) वप्रा. । व्यु. ? । u) = (विधवायां) जारज- ।

शांठ ४, १९, ४^a; कागृ ७०, ५^a;
कप्र ३, ९, १८^b; -कानाम्^p गोपृ
४, ४, २५.

गो-लक्षण- गो- द्र.

गोलत्तिका^o- का शुभ्रा ५, ३७.

गोला, लु^qन्द- (>गौला, लु^qन्द-
पा.) पाग ४, १, १०५.

गोलाङ्क^o- (>गौलाङ्कायन- पा.)
पाग ४, १, ११०^f.

गो-लाङ्कल- प्रमृ. गो- द्र.

गौ^qगोपद^h- (> गोपदक- पा) माश्रौ
१, १, १, २४; वाश्रौ १, २,
१, १३; चाश्र १:२; पाग ५, २,
६२^h.

✓गोप्ट^h पाधा. भ्वा. आत्म. सङ्घाते.

गो-घोम- प्रमृ., १गोष्ठी- गो- द्र.

२गोष्ठी^l- (>गौष्ट- पा.) पाग ४,
२, ११०.

गोष्-पद- प्रमृ. गो- द्र.

गोह^l- (>गौह- पा.) पाग ४, २,
७७.

गो-हन्तृ- प्रमृ. गो- द्र.

गोहित- (>गौहितेय-), गोहिल-
(>गौहिलेय-) गोपिल-
टि. द्र.

१गोह्य- ✓गुहृ द्र.

२गोह्य- (>गौह्य-) गोह- टि. द्र.

गौकक्षायणि-, गौकक्षी^o-, गौकक्ष्य-,
गौकक्ष्या-, गौकक्ष्यायणि-
गोकक्ष- द्र.

गौकुक्ष्य- (>गौकुक्ष्यायनि-) गो-
कक्ष- टि. द्र.

गौगुलव- गुगुलु- द्र.

गौड->ड-पुर- पा ६, २, १००.

गौडिक-, गौडी- गुड- द्र.

गौण-, १, २गौणमुख्य-, गौणगुणिक-,
१गौणिक- गुण- द्र.

२गौणिक- गोणी- द्र.

गौतम- प्रमृ. गोतम- द्र.

गौतमगौर- गोतमगौर- टि. द्र.

गौदन्तेय- गोदन्त- द्र.

गौदानिक- प्रमृ. २गोदान- द्र.

गौदेय- गुद- द्र.

गौघार- १गोघा- द्र.

गौघाशनिक- गोघाशन- द्र.

गौधूम- गोधूम- द्र.

गौधेय-, गौधेर- १गोघा- द्र.

गौपत्य- गो- द्र.

गौपवन- गोपवन- द्र.

गौपायन- ३गोप- द्र.

गौपालायन- २गोपाल- द्र.

गौपालिक-, गौपाल्य- गो- द्र.

गौपिक- गोपिका- द्र.

गौपिलेय- गोपिल- द्र.

गौपुच्छ-, गौपुच्छिक- गो- द्र.

गौफि, मि^lलि^lक- गोफि, मि^lल-
L, लि^lक- द्र.

गौफिलेय- गोफिल- द्र.

गौभिलेय- गोभिल- द्र.

गौभृत- गो- द्र.

गौमतायन^h- (> ^oनक^l- पा.)
पाग ४, २, ८०.

गौमायन- गो- द्र.

गौमि- (गौमि-शाला-) गामि- टि.

द्र.

१गौर- गोर- द्र.

२गौर, रा^mo- पाउ २, २८; पाग ४,

१, ४१; ६, २, १९४;

-^h०^h जैश्रौ ३: १५, द्राश्रौ

१, ३, ३; लाश्रौ १, ३, १; -र:

आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ; या ११,

३९; -रम् वौश्रौ १०, ३४:६^h;

-रा: उनिस् ८: ९; -राय हिय

२, १६, ४^h;

-^hरे वौश्रौ २, ५:

६; द्रागृ ४, २, ६; -रै: अप ३६,

८, ३; १२, १.

गौरी^o- पा ४, १, ४१; -री

वौश्रौ १९, १०: २६^h;

वाधूश्रौ ४,

३०:७; हिश्रौ १७, ५, २६; वैगृ ६,

१३: ३^o; कप्र; या ११, ३९^h;

-^hरी: वौश्रौ १९, १०: २६^h;

आमिगृ २, ५, १: २४^h;

शंघ ११६: २२^h;

ऋअ २, १, १६४;

या ११, ४०; -रीम् वैगृ ६, १२:

१; वृदे २, ८१; ४, ३६; -^hर्थम्

आपश्रौ ६, २२, १; आमिगृ १,

१, ४: ३२, ३४; हिय १, ८:

३.

गौर-खर- रम् वाध २१, २.

गौर-नावय-शरभ- भा: वाध १४,

४३.

गौर-गो L, गौ^lतम- पाग २, २,

३८.

गौर-श्रीव, वि^h- (> गौरश्रीवीय-

पा.) पाग ४, ३, १३१.

गौर-पांसु^h- सु गोपृ ४, ७, ५.

a) = यवादिमय-पिरड-। b) = पलाशवृक्ष-। c) वैप १ द्र.। d) तु. पाका.। e) व्यप.। व्यु. ?।

f) गोलाङ्कय- इति पाका., गोल-, लङ्क- इति [पक्षे] पागम.। g) स्वरूपम्? वैप १, १२६३ II; १२८१ II

द्र.। h) ष्पद- इति पाका.। i) तु. पाका. पागम. च। गौष्ठी- इति भाण्डा. प्रमृ.। j) गाहि-

२गोह्य- इति पाका.। k) अर्थ: व्यु. च ?। < गौमत- इति पागम., < गो-मव्- इति PW. प्रमृ.। गोमतायन-

इति पाका.। l) = देश-विशेष-?। m) < ✓ सु इति। n) गौरावस्कन्दिन्- इति B.W. ?।

o) = कन्यावस्था-विशेष-। p) श्री इति पाठ: ? यनि. शोध:। q) व्यप.। वस.। r) विप.। वस.।

गौर-मृग- -गः कप्र ३,८,११.
 गौर-वर्ण^३- -र्णः अप्र ७०^३,२३,१.
 गौर-सर्षप- -पः विघ ४,४; -पाः
 अप्र १,३१, ४; ४३, १०; अशां
 २२, १; -पाणाम् आपव २,
 १९,१; हिघ २,५,७३; -पाप्
 पाप् ३,१०, २४; वौग्य; -पैः
 अप्र १,४३,६; विघ २३,२२.
 गौरसर्षप-कल्क- -ल्लेन वाघ
 ३,५५; वौघ १,५,३५; -ल्लैः
 कौग्य ४,१,१.
 गौरसर्षपकल्को(ल्ल-उ)द्वति-
 त-शरीर- -रः विघ ९०,३.
 गौरसर्षप-दूर्वा-श्रीहि-यव- -वाच्
 कौग्य ४,१,१.
 गौरसर्षप-सर्पिः-पयस्- -योभिः
 अप्र ३७,८,१.
 गौरस(र-आ)त्रिव^३- -चाः वौश्रौप्र
 २७ : ५.
 ३गौर^३- -रः सात्र २, ४५९; -राः
 वौश्रौप्र ३३ : ४; ४८ : ४; १३.
 गौर-खर- प्रच. २गौर-द्र.
 गौरख-, गौरवित- गुल्-द्र.
 गौरवीति^३- -तिः हिश्री १८,४,१८६.
 गौरवीत^३- -तम् हिश्री १५, ५,
 ४०^३; १६,२, १६^३; -तेन हिश्री
 १५, ५, १२^३; १५^३.
 गौरव्य^३- -व्याः वौश्रौप्र ४५ : ६.
 गौरपकथ- गौरिपकथ- टि. द्र.
 गौराङ्गिरस^३- -सत्य लाश्री ६, ११, ३.
 गौरात्रेय- २गौर-द्र.

गौराग्नि^३- -ग्निः वौश्रौप्र ५ : २.
 गौरिक्वि^३- -क्यः वौश्रौप्र ३० : २.
 गौरिप्रीवि^३- -व्यः वौश्रौप्र २७ : ४.
 गौरिमत्^३- (> षती-पा.) पादा
 ४,१,७३.
 गौरिवायण(^३,<न)^३- -गाः वौश्रौप्र
 १७,५; ४१ : ९.
 २गौरिवीत- -गुरिवीत-द्र.
 गौरिवी[त^३],ति^३- -तिः आपश्री
 २३, ११, १४^३; ऋअ २, ५, २९;
 ९, १०८^३; १०, ७३.
 २गौरिवीत- -०त लाश्री १२,
 १२, ५; ६; आपश्री २४, १०, ८;
 वौश्रौप्र २३:५; -तम्^३ आपश्री
 २३, १३, २२^३; वौश्री १४, २५ :
 २६^३; वाश्री ३, २, ५, ९; -तेन^३
 आपश्री १४, १८, ६; १०^३; १४^३;
 वैश्री २१, ४ : १०^३.
 गौरिवीत-सामन्^३- -सा
 वैश्री २३, ९ : ४^३.
 गौरिवी[त^३],ति-वत्^३ आपश्री २४,
 १०, ८; वौश्रौप्र २३ : ५.
 गौरिश्रवस्^३- -साः वौश्रौप्र ४५ : २.
 गौरिपकथ^३- -पागवा ८, ३, ९८५.
 गौरी- २गौर-द्र.
 गौरीचिति^३- -तिः शुभ्र ३, १८९;
 २२७; सात्र १, ३२०; ३३१;
 ५७९; २, ३०२.
 गौरीवित^३- -तः निच् ९, ९ : १९;
 -तम् जुच् २, १५:८××; लाश्री;
 -तस्य लाश्री १०, ३, १२; ८, ८;

निच् ९, १० : २२; -तानि निच्
 १०, ८ : २५; -तेन लाश्री २५,
 १२, ६; १३, ८; लाश्री ३, ७, १०^३;
 जुच् २, १० : ९; १६; निच् ९,
 ९ : ६; अत्राय ६, ६.
 गौरीवित^३- -व्यः निच् २,
 १२ : ३६.
 गौरीवित-वृहत्- -हती द्राश्री
 ८, २, १८; लाश्री ४, ६, १४.
 गौरीवित-लोक- -कम् जुच्
 ३, २ : २४.
 गौरीवित-श्यावाश- -श्रयोः
 लाश्री १०, ८, ९.
 गौरीवित-स्वर^३- -रः जुच् २,
 १० : ४; ८; -राः जुच् २, १६ :
 ४; ७; १०; ३, १ : १३.
 गौरीवित(त-अ)पाय- -याद्
 निच् ८, ११ : २७; ९, ५ : २२.
 गौरीवित(त-श्री)द्वल- -ले
 लाश्री ७, ९, १३.
 गौरीषित्^३- -षितः वौश्रौप्र ३० :
 २.
 गौरण्डि^३- -ण्डिन् जैग्य २, १४ : ९.
 गौरतल्पिक- -गुल्-द्र.
 गौरगुलवि^३- -विन् जैग्य १, १४ : ९.
 गौरह्य- (> गौरह्य-) गौरह्य-
 टि. द्र.
 गौर[लु]न्ध- गोवा[लु]न्द-द्र.
 गौरव्य-, घ्यायनि- गुल्-द्र.
 गौलाङ्घ्यायन- गोलाङ्घ-द्र.
 गौलाङ्घ्यायन- गोलाङ्घ-टि. द्र.

a) विप. । वस. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) = गौरिचिति- (वैप १ द्र.) । d) कप्र.
 गौरिचितिः <> गौरिचितिः इति पामे. । e) = गौरिचित- (वैप १ द्र.) । f) कप्र. गौरिचितम् <>
 गौरिचितवसाना इति पामे. । g) कप्र. गौरिचितम् <> गौरिचितम् इति पामे. । h) कप्र. गौरिचितेन <>
 गौरिचितम् <> गौरिचितेन इति पामे. । i) कप्र. गौरिचितेन <> गौरिचितेन इति पामे. । j) = ज्ञान-विशेष- ।
 व्यु. ? । k) व्यय. । व्यु. ? । l) वौश्री. पाठः । m) वैप १ द्र. । n) = ज्ञान-विशेष- । वैप १, १२६४ गु द्र. ।
 o) पामे. पृ ९९३ i द्र. । p) = मुनि-विशेष- । व्यु. ? < गौरी-लक्ष्य- (वस.) इति पादा. पागम. । q) 'रष'
 इति [पद्मे] पागम. । r) वैप १, १२६४ f द्र. । s) टप. = ज्ञान- । t) = श्राद्ध-विशेष- । व्यु. ? ।

गौलोमन- गो- द्र.
 गौलगुलव- गुल्युलु- द्र.
 गौवासन- (> णिका-, की-) गो-
 वासन- टि. द्र.
 गौशृङ्ग- गौपूक्त- गो- द्र.
 गौपूत्रायण- -णा: वौश्रौप्र ३: ५.
 गौपूठी- (> गौष्ट-) २गोष्ठी- टि. द्र.
 गौहलव्य- व्यायनि- गुहलु- द्र.
 गौहितेय- गोहित- द्र.
 गौहिलेय- गोहिल- द्र.
 गंगना^a- ग्ना: शांश्रौ १, १५, ४; ८,
 २१, १; आपश्रौ १४, १२, ४;
 काठश्रौ १३०; वौश्रौ १०, ७:
 १; माश्रौ ५, २, १४, १०; वाश्रौ;
 अपश्रौ ८, ८६, १०२; वृदे ८, १२८;
 निघ १, ११; ३, २९; या ३,
 २१६; १०, ४७६; १२, ४६;
 ग्रामि: क्रमा ८, ४४.
 गंगनाव^b- -व: वाधूश्रौ ४, ८४: ८;
 -वो(?) वम्^c काश्रौ २, ८, १२;
 आपश्रौ ११, १९, ८; वौश्रौ ७,
 ९: ११; २५, २१: १०; माश्रौ
 २, ३, ६, १७; हिश्रौ ७, ८, ४२^d.
 गंगनास-पति^e- -ति: क्रमा १३, ३०;
 उस् ८, १९.
 गमन्ता √ गच्छ द्र.
 गमा^f- ग्मा अप ४८, ७२; निघ
 १, १.
 √ ग्रथ्, न्थ् पाधा. भ्वा. आत्म.
 कौटिल्ये, क्रया: पर. सन्दर्भे,
 चुरा. उभ. वन्धने सन्दर्भे च,
 प्रथ्नाति वौश्रौ ६, ५: ८; वैश्रौ;

ग्रथ्नाति वाश्रौ ३, ४, ३, ४५;
 ग्रथ्नातु आपश्रौ १, ४, १३;
 वौश्रौ १, २: २०; भाश्रौ;
 ग्रथ्नीयात् आपश्रौ ११, ८, ७.
 ग्रथ्ग्रन्थ माश्रौ १, ३, ५, १७;
 वाश्रौ १, ३, ७, १७; माश्रु १, ११,
 २०.
 ग्रथ^g- > ग्रथि (न् >) नी^h- नी
 काश्रु ७, १२.
 ग्रथित- -त: अप २०, ७, १; -तम्
 वैश्रौ ११, १०: ३; माश्रु २, १४,
 २८; वैश्रु १, ८: ६; -ते वैश्रु १,
 ६, ४.
 ग्रथित्वा जैश्रु १, ५: ५.
 ग्रथⁱ- -ञ्ज: कप्र ३, ६, ७.
 ग्रन्थ- -न्थ: अप ३१, १०, ५;
 -न्थम् या १, २०; -न्थान् वाश्रौ
 ३, ४, ४, १३ⁱ; -न्थे ऋश्रु ३,
 १७; वृदे ५, २३; भाशि १०७;
 पा ४, ३, ८७; ११६; पावा ४,
 ३, ८७: १०१; ११६; -न्थेषु
 वृदे २, ९०; ९२; या १, ९.
 ग्रन्थ-परिसमाप्ति- -हे: अश्रु १,
 ३२.
 ग्रन्थ-संख्या- -ख्यया अप
 ३: १.
 ग्रन्था(न्थ-अ)न्त- -न्ते पावा ६,
 ३, ७८.
 ग्रन्थान्ता(न्त-अ)धिक- -के
 पा ६, ३, ७९.
 ग्रन्थो(न्थ-उ)च्चारण-शिक्षक-
 -कान् नाशि १, ६, २२.

ग्रन्थि^j- पाठ ४, १४०; पाग ५, २,
 ९७; -न्थि: कौश्रु ३, ५, २१;
 शांश्रु २, २, २; ३, ८, ५१;
 आम्रिग; -न्थिभि: वाश्रौ ३, २,
 ५, २५; अप २३, ३, ५; -न्थिम्
 काश्रौ २, ७, ३; ८, ४, १९;
 ग्रथ्आपश्रौ १, ४, १३^k × ×; १०,
 १०, ३^l; १३, ७, १६^l; काठश्रौ;
 भाश्रौ १०, ६, १७^l; हिश्रौ १०,
 २, १२^l; -न्थी वैश्रौ १४, ६: १६;
 ११: १; हिश्रौ ७, ५, १८; ३३; ७,
 २१; -न्थीन् आपश्रौ ११, ६, ३;
 १३, २४, १४; काठश्रौ ९०;
 वौश्रौ; -न्थे: भाश्रौ ८, ३, १९;
 वैताश्रौ ३२, २५.
 ग्रन्थि-करण- -णम् आपश्रौ ११,
 ८, ६; वौश्रौ २१, ९: ११; -णे
 वौश्रौ २०, ३: १; १०: १५.
 ग्रन्थि-छेद- -दा: अप ५०, ५,
 २.
 ग्रन्थिन्^m- -न्थिनम् आम्रिग ३,
 १२, १: १५.
 ग्रन्थि-भेदक- -कानाम् विघ ५,
 १३६.
 ग्रन्थि-ल- -पा ५, २, ९७.
 ग्रन्थि-संयु(क >)क्ता- -क्ता
 अप २६, ४, ३ⁿ.
 ग्रन्थि-समन्वि(त >)ता- -ता
 अप २६, १, ४. -
 ग्रन्थि-ही(न >)ना- -ना अप
 २६, ४, २.
 √ ग्रभ् प्रश्न. √ गृभ् द्र.

a) वैप १ द्र. 1 b) =त्वष्टृ-देव-। ग्ना- + (*भृत्- > [नैप्र.]) *व- (भाप. [धृति-]) > वस.
 यनि. । पाप्र. मत्वर्थयः वप् प्र. डसं. । c) पाठः? यनि. शोधः (तु. वैप १, १२६८ f, सजात्यं- > -त्यन् इत्यत्रापि
 टि. द्र.; वैतु ८. ग्ना-वत्->प्र३ इति [वाधूश्रौ.], द्वि. वा सं. वेति [आपश्रौ.] च) । पाम ३, १, ३४ गा वो नेष्टाव् इत्यस्य
 स्थानि ग्नावं नेष्टान् इति शोधः । d) ?ग्रा? इति पाठः? यनि. शोधः । e) =पृथिवी-। व्यु. ? < √ गम्
 इति दे. । f) भाप. । घञर्थे कः प्र. । g) विप. (रज्जु-) । h) =स्तवक-। कर्मणि नक् प्र. डसं. (पाठ ५, ३) ।
 i) =ग्रन्थि- । j) पामे. वैप १, १०४१ ० द्र. । k) =ग्रन्थि-रोगयुक्त । मत्वर्थे इति: प्र. (पा ५, २, ११६) ।
 वैप ४-नु-३४

✓ग्रस् पाधा. भ्वा. आत्म. अदने,
 चुरा. उम. ग्रहणे, असते अप
 ५०, ५, १; ६४, ८, ८; ६८, ३,
 १०; १२; असति अप १८, ३,
 ७; ५३, ३, ५; ६७, ६, १;
 असन्ति वैगृ ५, १: १८; असेत्
 वाध १२, १९; असेत् माशि १०,
 ७; याशि २, ६९.
 असीत् आपध २, १९, ५; हिध
 २, ५, ७७.
 अस्यन्ते या ४, २७; ६, १९.
 आसयेत् काश्रौ २५, १, १८;
 आपश्रौ ९, ५, ४; वैश्रौ २०, ९:
 ८; हिश्रौ १५, २, ३.
 अस- > असिष्ठ- -ष्ठ: या ६, ८^१.
 असत्- -सन्त: अप ६२, ३, ३.
 असित, ता- पा ७, २, ३४; -ताम्
 आपश्रौ १५, ८, १२^१; वैश्रौ.
 असितृ- > असितृ-तम- -म: या
 ६, ८.
 असिष्णु- -ष्णु विध ९७, १९.
 अस्त- -स्त: अत्र ३६, २४, १^१;
 -स्तम् अप ७२, १, २; ऋप्रा
 १४, ८^१.
 अस्त-दोष- -यम् शैशि ११८;
 १८७; याशि २, १७; नाशि
 २, ६, ९.
 आस^१- -स: वौध ३, ८, २४; ऋप्रा
 १४, १२^१; २२^१; -सम् आपध
 २, १९, ५; वौध ४, ५, ८; विध
 ८, १७; हिध २, ५, ७७; -सा:
 शंघ ४५२; वाध; -सान् वाध
 २३, ४५; शंघ १५९: ७; वौध;
 -से आपध २, २८, १०; हिध २,
 ६, १०.

आस-कर्म-कर्तृक- -कस्य पावा
 ८, २, ४४.
 आस-प्रदान- -नेन विध २३, ६०.
 आस-प्रमाण- -णम् गौध २७,
 ११.
 आस-मात्र^८- -त्रम् विध ५९,
 १६^१.
 आस (स-अ) वराध्व^{१०}- -ध्वम्
 आपगृ २१, ९; आपव २, १७,
 १६.
 आस-संसृष्ट- -ष्टम् सुध ६१.
 आसा(स-आ)च्छादन- -नम् वाध
 १९, ३३; -नै: वौध २, २, ३८.
 आसा(स-आ)च्छादन-स्ताना
 (न-अ)नुलेपन- -नेषु वाध १७,
 ६२.
 आसा(स-अ)नुमन्त्रण- -णम्
 गौध २७, ९.
 आसा(स-अ)वराध्व^८- -ध्वम्
 गौषि २, ५, १८.
 आसो(स-उ)पचय-भोजिन्-
 -जी वाध २३, ४५.
 आसयित्वा आपश्रौ ६, ३०, १४.
 जग्रसान- -न: सु १७, २; -नान्
 ऋप्रा ४, ६६.
 ✓ग्रह ✓ग्रह द्र.
 ग्रह^१- पा ३, १, १४३; ३, ५८; पाग
 ४, २, ८०; ५, २, १००^१; ६, १,
 २०३; -ह: आश्रौ ५, ५, २१;
 शाश्रौ १, १४, ५××; आपश्रौ;
 माश्रौ २, १, ४, २^१; -हम्
 आश्रौ २, ९, ९^१; ५, १७, ३; ८,
 १३, १०; २०; शाश्रौ ८, ५, २××;
 काश्रौ; आपश्रौ १९, १४, २०^१;
 -हयो: आश्रौ ५, ५, ६; वौश्रौ

२१, २०: १; अप ६३, ३, ६;
 -हस्य आपश्रौ १२, २८, ३;
 वौश्रौ ७, ५: ४६××; हिश्रौ;
 -हा: शाश्रौ १३, ११, ७; आपश्रौ
 १२, १९, ५^१; १८, १२, १६; वौश्रौ
 १०, ५७: ६××; माश्रौ; -०^१हा:
 शुअ १, ५५६; -हाणाम् आश्रौ
 ३, ९, ३; शाश्रौ ७, ४, १५;
 काश्रौ; -हात् काश्रौ २५, १२,
 १२; वौश्रौ १०, ५७: ६××;
 -हान् शाश्रौ १३, ११, ३;
 काश्रौ ९, ७, ८××; आपश्रौ;
 -हाभ्याम् आपश्रौ १२, २१, ७;
 -हाय आपमं २, ७, २१; वैगृ २,
 १४, २^१; हिगृ १, १०, ४^१; -है
 शाश्रौ ७, १५, १७; वौश्रौ; -हैऽहै
 वौश्रौ २२, १८: १३; २३, ५:
 २०; -हेण आश्रौ ५, १४, १;
 १८, १; ६, ५, २३; आपश्रौ १२,
 २६, १६××; काठश्रौ; -हेभ्यः
 काश्रौसं ३३: ९; माश्रौ; -हेषु
 शाश्रौ ७, १५, १५; १४, ५७,
 १६; आपश्रौ १४, ९, ४××;
 वौश्रौ; -है: आपश्रौ १४, २४,
 ७××; वाश्रौ; -हौ आपश्रौ १२,
 २२, ६; ८^१; वौश्रौ ७, १२
 २१^१××; माश्रौ.
 ग्रह-ऋक्ष- -क्षाणि अप ४, ६, ४;
 ६९, ७, ३.
 ग्रह-काल- -काल् हिश्रौ १०, ८,
 ४१; -ले आपश्रौ १३, १०, ११;
 १८, २, १.
 ग्रह-क्लृप्ति- -प्ति: आपश्रौ २१,
 १३, ६; २१, २; -प्ते: वौश्रौ १६,
 १०: १; १६: ७.

a) = उच्चारणदोष-विशेष- । b) = कवल- । c) विप. । वस. । d) तन्मात्रम् इति जीमे. ।
 e) छान्दसो हस्तः इति हरदत्तः । f) वैप १ द्र. । पाप्र. < ✓ग्रह इति । g) तु. पागम. । h) पागे. वैप
 १, १२६५ f द्र. । i) प्रतिग्रहम् इति C. शोधः (तु. ZDMG [५७, ७४२]) ।

ग्रह-गण-गणान् अप ३१, ७, ५;
 ७०, ९, ५.
 ग्रहगण-खचित- -ताः अप ७०^३,
 ११, २९.
 ग्रहगण-भिन्न-भूमिकम्प^३-
 -म्पाः, -म्पान् अप ५१, ५, ४.
 ग्रह-गृहीत- -तम् वाधुश्रौ ४, २६:४;
 -तानाम् आमिगृ २, ५, ३:
 ४३; वीश्रु ३, ७, २७.
 ग्रह-ग्रहण- -णम् काश्रौ १३, २,
 १४; -णात् आश्रौ ५, १२, ११;
 ६, १०, १३.
 ग्रहग्रहण-प्रतिगर-होम- -सेपु
 काश्रौ ३, ८, १८.
 ग्रहग्रहणा(रा-आ)दि- -दि
 काश्रौ २४, ३, ३९.
 ग्रह-ग्रहा(ह-अ)न्त- -न्ते जैश्रौका
 १०५.
 ग्रह-चमस- -सेपु वैश्रौ २१, १४:
 ४; -सैः वाश्रौ ३, १, २, ३८.
 ग्रह-जात- -तः जैगृ २, ९ : २१^३०.
 ग्रह-जात-क- -कम् अप ५१, १, ४^३.
 ग्रह-स्व- -स्वम् वाधुश्रौ ४, ८३ : ४.
 ग्रह-दाक्षिण^३- -णानि आमिगृ १, २,
 १ : १०^६.
 ग्रह-देवता- -ताः जैगृ २, ९ : १७.
 ग्रह-दैवत-पूजा- -जाम् अप १,
 ४२, १.
 ग्रह-नक्षत्र-ज- -जाः आज्यो १४,
 ९.
 ग्रह-नक्षत्र-तारा- -राणाम् अप ६४,
 ९, ७.
 ग्रह-नक्षत्र-पीडा- -डायाम् अप
 २६, ५, ९.

ग्रह-नक्षत्र-माला- >°लि(न् >)
 नी- -नीम् अप ४, ३, ५.
 ग्रह-नाराशंस- -साः आपश्रौ १२,
 २८, ९; १३, ८, ३; ६; १३,
 १३; वैश्रौ १५, ३६ : १७,
 -सानाम् वैश्रौ १५, ३६ : ९;
 हिश्रौ ८, ८, ३४; ३९; ९, २,
 २७.
 ग्रह-पात्र^३- -त्रम् आश्रौ ५, ५, ७;
 -त्रे वाश्रौ ३, २, ५, ९.
 ग्रह-पुत्र- -त्राः अप ५२, १, १.
 ग्रह-पूजा- -जाम् वैगृ ४, १४ : १७.
 ग्रह-प्रमेदन- -ने काष २७६ : १.
 ग्रह-मोक्ष- -क्षौ याशि १, ४७.
 ग्रह-याग- -नाः अप १८^३, १९, ३.
 ग्रह-युद्ध- -द्धम् अप ५१, २, ३.
 ग्रहयुद्ध-तन्त्र- -न्त्रम् अप ५१,
 १, २.
 ग्रह-रूप- -पेण आमिगृ २, ५, १:
 ५६.
 ग्रह-वत् मीस् १०, ७, २.
 ग्रह-वत्- -वान् निस् २, १३ : १३.
 ग्रह-वर्जम् आमिगृ ३, ४, १ : ३०.
 ग्रह-वर्ण- -र्णानि आमिगृ २, ५, १:
 १२; जैगृ २, ९ : ६.
 ग्रह-वैषम्य- -म्यम् अप ७२, ३, ६.
 ग्रह-शस्त्रा(स्त्र-अ)भाव- -वात्
 द्राश्रौ २, ४, ६.
 ग्रह-शान्ति- -न्तिम् वैगृ ४, १३ : १.
 ग्रह-शेष- -षम् काश्रौ ९, १४, १४;
 वाश्रौ ३, २, २, ३१; वैश्रौ १५,
 ३७ : ९; ३८ : १२.
 ?ग्रहशेषान् वाश्रौ ३, २, ६, २८.
 ग्रह-संछादन- -नम् अप ६१, १,

१९.
 ग्रह-संपात- -तम् हिश्रौ ८, ८, ४८;
 ५५; ६१.
 ग्रह-सादन- -नम् काश्रौ ९, ५, २३.
 ?ग्रह-स्व^६- -स्थान् वीश्रौ २३,
 ११ : ८.
 ग्रह-स्थाली- -लीः काठश्रौ ११७.
 ग्रह-स्थिति- -तिम् वैगृ ३, १४ : ७.
 ग्रहा(ह-आ)गम- -मम् अप ५८,
 १, ११.
 ग्रहा(ह-अ)ग्र- -ग्रम् माश्रौ २, ३,
 ५, ३; -ग्राणि आपश्रौ १२, १४,
 ४; माश्रौ २, ३, ५, १; वाश्रौ ३,
 २, ३; ३३; -त्रे हिश्रौ १५, ५,
 ४०; -त्रैः वीश्रौ २६, १५ : १.
 ग्रहाग्र-तस(ः) वैश्रौ २१, ९ : ४.
 ग्रहा(ह-आ)तिथ्य- -थ्यम् जैगृ २,
 ९ : ३; अप ७०, २, ४.
 ग्रहातिथ्य-त्रालिकर्मो(र्म-उं)
 पहार- -रान् आमिगृ २, ५,
 १ : १.
 ग्रहातिथ्य-विधि- -धी अप २४,
 १, २.
 ग्रहा(ह-आ)दान-प्रभृति- -तिः
 माश्रौ २, ४, २, ४१; ५, १, ४९.
 ग्रहा(ह-आ)धान^३- -नेषु वीश्रौ
 २३, ११ : १३.
 ग्रहा(ह-अ)न्तर-उक्थ्य^३- -क्थ्यः
 आश्रौ ९, ६, २; -क्थ्ये शाश्रौ
 ११, २, १४.
 ग्रहा(ह-अ)न्तर्गत-स्तनित-
 गम्भीरनिस्वन^३- -नेषु अप ६५,
 १, ६.
 ग्रहा(ह-अ)भाव- -वे मीस् १०,

a) विप. । पस. > वस. । b) परस्परं पाभे. । c) पाठः ? ताः इति शोधः । ष्टाः, जाताः इति C.
 शोधः ? । d) काण्डविशेषयोः द्वस. (= तै १, ४, १-४२; ४३) । e) पाभे. पृ १००० S द्र. । f) पूष. = सोम- ।
 g) पाठः ? ग्रहान् इति शोधः । h) उस. उप. अधिकरणे कृत् (तु. भवस्वामी) । i) विप. । तृस. > वस. ।
 j) विप. । पस. > कस. > तृस. > वस. ।

१,२८.
 ग्रहा(ह-आ)म्नान- नम् मीस् ३,
 ६,३०; १०,४,३^५.
 ग्रहा(ह-आ)यतन- > न-भूता-
 यतना(न-अ)न्यायतन- नैषु
 आमिण्य २,६,७ : ३७.
 ग्रहा(ह-आ)य(त>)त्ता- त्ता वैय
 ४,१३ : १.
 ग्रहा(ह-अ)र्ध- र्धम् मीस् १२,१,
 २४.
 ग्रहा(ह-अ)वक्राश^६- शैः आपश्रौ
 १३, २, ७; १४, १०, ६; वैश्रौ
 १५, २१ : १३××; हिश्रौ ८,५,
 १५; ९,१,१७; ३,३४.
 ग्रहिल- पा ४, २, ८०^०; ५, २,
 १००.
 ग्रहे(ह-इ)ष्टका^७- काः वैश्रौ १९,
 ७ : ५०.
 ग्रहे(ह-इ)ष्टका- > क^०- कम्
 मीस् ५,३,१५.
 ग्रहो(ह-उ)ख्य-याज्या-पृष्य-हिरण्य-
 वर्णोय^८- येषु तैप्रा ९,२०.
 ग्रहो(ह-उ)च्छेषण- णस्य हिश्रौ
 १३,८,२८.
 ग्रहो(ह-उ)दय- न्यम् आमिण्य २,
 ७,६ : २८.
 ग्रहोदय-निमित्तक^९- कम् अप
 ६३,५,४.
 ग्रहो(ह-उ)पस्थान- > न-कल-
 शोपस्थाना(न-अ)न्त^{१०}- न्तम्
 वाश्रौ १,१,६,६.
 ग्रहो(ह-उ)रस्वष्ट- ष्टानाम् जैय
 २,९ : ३६.

ग्रहो(ह-उ)पहत- त्तम् अप ७२,
 १,२.
 ग्रहो(ह-उ)ल्का(ल्का-अ)रानि-
 निर्वात- तैः आज्यो ११,
 १.
 ग्रहण- प्रभः √गृम्, हृद्र.
 √ग्राम^१ पाषा. चुरा. पर. आमन्त्रणे,
 उभ. संघाते.
 ग्राम^१- पाउ १,१४३; पाग ४,२,९५;
 -मः वैश्रौ १८,२५ : १५,२४,
 १४ : ५; जैश्रौ १ : ८; निस् ३,
 ३ : १०; कौश्रः पा ६, २, ६२;
 -मम् शाश्रौ १५, १८, १; १९,
 १६; २०, १; आपश्रौ १५, २०, ६;
 २०, २२, ९; २४, १७; वैश्रौ ९,
 १९ : ३१; २० : २६; माश्रौ;
 आपमं २, १३, ११^१; आमिण्य २,
 १, ३; १८^१; या ९, ३०^१; नाशि
 १, ५, १७^१; -मस्य माश्रौ ११,
 २२, ११; माश्रौ; पावा १, ४,
 २३; -माः निस् ७, ७ : ९; गोग्र
 ४, ८, १६; द्राग्र ४, ३, ४; अप
 ५७, १, ४; अश्र १२, १; नाशि
 १, २, ४^१; ६^१; -मात् आश्रौ ८,
 १४, ३; काश्रौ २१, ३, १८;
 आपश्रौ १२, १५, २^१; वैश्रौ;
 या ९, २९; -मान् लाश्रौ ९,
 १, २१; हिग्र २, ३, ७^१; कौश्र;
 -नैमाय कौग्र ३, ४, २; शांग्र ३,
 ५, २; अप ३२, १, १२; अश्र ६,
 ४; -नैमे काश्रौ ५, ५, १०; २१,
 १, १८; आपश्रौ; पा ६, २, ८४;
 -मेऽ-ने विव ५०, ३; -मेण

आपश्रौ २१, २०, ३^१; वैश्रौ १८,
 २५ : १५; हिश्रौ; -मेत्यः
 आपष २, २६, ७; हिग्र २, ५,
 २०, २; -मेषु वैश्रौ १५, १६;
 ७; हिश्रौ; -मौ या ३, ९.
 ग्राम-काम- मः आश्रौ ९, ७, २८;
 काश्रौ ४, १५, २१; आपश्रौ ८,
 २२, ५××; वैश्रौ; -मम् आपश्रौ
 २२, ६, १०; नाश्रौ ५, १, ५,
 १६××; हिश्रौ १३, ८, ४४; १७,
 ४, २४; गो १, २६; -मस्य काश्रौ
 २२, ५, ९; ८, ७; आपश्रौ ६, १०,
 ३; १५, १; वैश्रौ; -माः द्राग्र
 ४, १, २^१; -माय वैश्रौ १४,
 १७ : १०^१.
 ग्रामकाम-न्त्र- न्त्रेण नाश्रौ
 ५, १, ५, ६.
 ग्रामकाम-भूतिकाम- नयोः
 नाश्रौ ५, १, ५, ५. -
 ग्रामकाम-भूतिकाम-पशुकाम-
 -मानाम् माश्रौ ५, १, ५, ४.
 ग्रामकामा(न-अ)साद्यकामे(न-इ)
 न्द्रियकाम-तेजस्काम- नानाम्
 आश्रौ २, ३, २.
 ग्राम-कुक्कुट- न्यम् विष ८१, ९.
 ग्राम-कुण्ड्या-(> कुण्ड्येयक-पा.)
 पाग ४, २, ९५^म.
 ग्राम-कुमार- (> रक^०- पा.),
 ग्रामकुल- (> लक^०- पा.),
 ग्राम-कुलाल- (> लक^०- पा.)
 पाग ५, १, १३३.
 ग्राम-खण्ड^१- (> ण्डक^०- पा.)
 पाग ५, १, १३३.

a) एतम् इति कारं. । b) पस. उप. = मन्त्र-विशेष- । वस. वा (तु. भाष्यकारः [हिश्रौ ८, ५, १५]) ।
 c) = देश-विशेष- । d) मलो. कस. । e) विप. (श्रीपानुवाक्य-) । दस. > मत्स्ये वच् प्र. । f) दस. । ग्रह-
 = तै १, ४, १-४२ । g) विप. । वस. । h) विप. । दस. > वस. । i) √ग्राम् इति [पक्षे] BPG. । j) वैप १
 द्र. । k) सप्र. ग्रामम् <> ग्रामान् इति पाभे. । l) = सामन्तर-मेद- । m) तु. पागम. । n) 'रिका- इति
 पागम. । o) 'लिका- इति पागम. । p) तु. पाका. । षण्ड- इति भाषडा. । q) षण्डिका- इति पागम. ।

ग्राम-गवा(व-अ)श्वा(ध-आ)दि-
 -दि अत्र ४, २२.
 ग्राम-गो-दुह- पाग ६, २, ८१.
 ग्राम-चतुष्-पथ- -थे मागृ २, १४,
 २८.
 ग्राम-च(र्ये)>र्या- -र्याम् आश्रौ
 १२, ८, ३.
 ग्राम-चारिन्- -रिणः बाध १४, ४८.
 ग्राम-जनपद-मनुष्य- -प्येभ्यः पावा
 ४, ३, १२०.
 ग्राम-जनपदा(द-आ)ख्यान-चान-
 राट्- -टेषु पा ६, २, १०३.
 ग्राम-जनपदै(द-ए)कदेश- -शात्
 पा ४, ३, ७.
 ग्राम-जित्- -जितः आश्रौ २, १३,
 ७१.
 ग्रामट-(>टी- पा.) पाग ४, १,
 ४१^d.
 ग्राम-णी- पाग ४, ३, ९३^e; पावा
 ३, २, ६१; -णीः शाश्रौ २, ६, ५;
 काश्रौ १५, ७, १२; वौश्रौ १७,
 ४९ : १; २३, १७ : ८; भाश्रौ
 १, १५, ११; माश्रौ १, ६, १, ६;
 वाश्रौ १, २, २, ३८; ३, ३, ३,
 २२; वैश्रौ ३, ९ : ६; हिश्रौ
 १, ४, ९; भागृ २, २३ : ७;
 १३; अश्रः १९, ३१^f; पा ५, २,
 ७८; -ण्यः काश्रौ ४, ९, ३; १५,
 ३, ८; आपश्रौ ५, ११, ७; वौश्रौ
 २, १६ : ४७; १२, ५ : २६;
 भाश्रौ ५, ६, ७; हिश्रौ ३, ४,
 १०; तैप्रा ७, २; -ण्ये वाश्रौ
 ३, ३, ३, २२.
 ग्रामण- पा ४, ३, ९३.

ग्रामणि¹-कुल- -लम् पावा १, १,
 ३९.
 ग्रामणि¹-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दिसु
 पावा ६, १, ७०.
 ग्रामणी-सव- -वः शाश्रौ १४,
 २२, ३; वौश्रौ १८, ४ : १३.
 ग्रामणय^h- -याय जैश्रौ ११:७.
 ग्रामण्य(णी-अ)प्रतिचार-तसः()
 अप ७०³, ६, ७.
 ग्राम-तक्ष- पा ५, ४, ९५.
 ग्राम-तसः() काश्रौ २१, ३, २६.
 ग्राम-ता- पा ४, २, ४३.
 ग्राम-देश¹- -शात् कौसू ८६, १४.
 ग्राम-देश- -शयोः विध ५, ३२.
 ग्राम-दोष- -पाणाम् विध ३, ११.
 ग्राम-द्वार- -रे अप ७०³, ६, ८.
 ग्राम-धर्म- -र्माः आगृ १, ७, १;
 -र्मेण वैगृ ५, ६ : ३.
 ग्राम-नगर- -राणाम् पा ७, ३, १४.
 ग्रामनगर-वृद्ध-> ंद-श्रेणि-
 विरोध- -धे शंघ ३०९.
 ग्रामनगर-वृद्ध-श्रे [णि¹, णी-
 प्रत्यय- -न्यः बाध १६, १५;
 शंघ ३०९.
 ग्राम-न्याय- -यम् वौश्रौ २४, १ :
 १४.
 ग्राम-पशु- -शूनाम् बाध २, २८.
 ग्राम-पिष्ट^h- -ष्टानाम् काश्रौ २६,
 ४, ७.
 ग्राम-पुत्र-(>त्रक¹- पा.) पा ५,
 १, १३३.
 ग्राम-प्रतिषेध- -धे पावा २, ४, ७.
 ग्राम-बहिष्कृत- -न्तः वैध १, ७, ३.
 ग्राम-मध्य- -ध्ये अप ३६, १६,

१; वौध ४, १, २२; -ध्येन अप
 ७०³, ७, ५.
 ग्राम-मर्यादा- -दाः हिपि २३ : ६;
 -दाम् वौश्रौ २९, १२ : १७;
 आम्रिगृ ३, ९, १ : २०³; वौपि
 २, ६, ८; ९; हिपि २३ : २; ७;
 -दायाम् वैश्रौ २०, २३ : ५;
 आम्रिगृ ३, ९, १ : १८; वौपि २,
 ६, ७; हिपि २३ : १.
 ग्राम-याजन- -नम् वौध २, १, ४४.
 ग्राम-याजिन्- -जितः विध ८२,
 १३.
 ग्राम-योनि^m- -निः वौश्रौ २०, १ :
 २२; २३, ४ : २१; १९ : १९.
 ग्राम-राग^m- -गाः नाशि १, २, ७.
 ग्राम-वचन- -नम् पागृ १, ८, ११.
 ग्राम-वध- -धः अप ७०³, ६, ८.
 ग्राम-वर- -रः कौसू १७, १०;
 -रम् कौसू ९४, १७; १२०, १३;
 १२६, १३; अप ११, १, १३××.
 ग्राम-वासिन्- -सी अप ७०³, ११,
 २६³.
 ग्राम-शमशाना (न-अ)न्तर- -रे
 काश्रौ २१, ४, २४.
 ग्राम-पण्ड- (> ण्डक-) ग्राम-
 खण्ड- टि. द्र.
 ग्राम-संकर- -रम् शंघ १०२.
 ग्राम-जण्ड- , ण्डक-> ण्डक- ,
 > ण्डका- पा.) पाग ५, १,
 १३३^d.
 ग्राम-सद- -सदे मागृ १, १३; १०^f.
 ग्राम-समीप- -पम् काश्रौ २१, ३, ७.
 ग्राम-सांपद- -दानाम् कौसू ५९,
 ८; -दानि कौसू ११, ७.

a) दस. । पूष. दस. > पस. । b) वैप १ द्र. । c) = ग्रामटिका- । d) तु. पागम. ।
 e) = नगर-विशेष- । f) ह्रस्वः (पा ६, ३, ६१) । g) = एकाह-विशेष- । h) भावे ढक् प्र. उत्सं. (पा ५, १,
 १२७) । i) उप. = स्थल- । j) शंघ. पाठः । k) पूष. = सौत्तिकः [= अमन्त्रक-] । l) ण्त्रिका- इति
 पागम. । m) विप. । वसः । n) पूष. = स्वर-भेद- ।

ग्राम-सीमा(मा-अ)न्त-न्ते वौश्रौ
२९,९ : १३; वौध २,१०, १३;
३, १, १३.

ग्राम-सूकर-रः काध २७८ : ८.

ग्राम-न्तुव^a-वः अप ३६, ३०, १.

ग्रामा(म-अ)न्नि^b-न्निना काश्रौ २५,
४, २०; वौश्रौ २२, २ : १९; पागृ
३, १०, १२; -न्निम् काश्रौ ४, ८,
१०; -न्नेः वौश्रौ २०, १७ :
१७x; -न्नौ वौश्रौ २१, ३ :
३०.

ग्रामा(म-आ)दि-द्दीनाम् फि ३८;
-द्वौ वैध ३, १४, ७.

ग्रामा(म-अ)ध्यक्ष-क्षः विध ३,
११.

ग्रामा (म-अ) ध्ययना (न-अ) नन्त-
हित^c-नानि शां ६, १, ८.

ग्रामा(म-अ)न्त-न्ते वौश्रौ २९,
९ : १३; पागृ २, ११, ६; वैगृ.

ग्रामा(म-अ)न्तर-रम् पागृ २, ७,
५; गोय ३, ५, ३२; जैगृ १, १९ :
२५.

ग्रामा(म-अ)भिमुख-खेन आमिगृ
३, ४, १ : ११.

१ग्रामा(म-अ)रण्य^d-ण्ये कौगृ ३,
९, २१; शां ४, ७, २३.

२ग्रामा(म-अ)रण्य-ण्ययोः आपध
१, ११, ९; हिध १, ३, ६६.

ग्रामा(म-अ)शन-नम् वैध २, ४, ५.

ग्रामिक->ग्रामिक्य-पा.) पाग
५, १, १२४^e.

ग्रामिन्-मिणाम् माश्रौ ५, २, १,
११; -मी वौश्रौ १४, १७ :

१३^f; अप ३६, १६, २; तैप्रा ४,
५३^f.

ग्रामीण-पा ४, २, ९४; -ण्यः
कौसू ११, ९.

ग्रामीण-घात-तम् अप ७०^g,
६, ७.

ग्रामे-गेय-यः^h लुसू ३, १० : १५;
-यम्^h द्राश्रौ ७, ४, १६; लाश्रौ

३, ४, १५; गौपि १, ३, १५.

ग्रामेगेय-श्येन-नः लाश्रौ ७,
४, १.

ग्रामे(मे-अ)नुवाक्य^h-क्यस्य
आपश्रौ १७, १७, १ⁱ; हिश्रौ १२,
५, ३२ⁱ; ३३; -क्येन हिश्रौ १२,
५, ३५.

ग्रामेयक-पा ४, २, ९५.

ग्रामो(म-उ)घान-नम् आज्यो
२, २.

१ग्राम्य, स्याⁱ-पा ४, २, ९४;
-स्यः वैश्रौ १९, ६ : १०९;

कौसू १३३, १; वाध ६, २७;
-स्यम् जैगृ २, ४ : ११; -स्यस्य

आपश्रौ १५, २१; ८; वौश्रौ;
-स्य्याः आश्रौ २, २, १७; आपश्रौ

६, ५, ७x; वौश्रौ; -स्य्याणाम्
वौश्रौ १५, २६ : १३x; वैश्रौ;

-स्य्याणि वाश्रौ २, २, ४, ९;
-स्य्यात् आपश्रौ ४, ३, ६^j;

-स्य्यान् वौश्रौ १५, १६ : ८;
भाश्रौ ४, ५, ४^j; वाश्रौ; -स्ये

हिश्रौ १२, ५, ३२; कौसू २७,
३२; ९३, ४०; -स्येण आश्रौ

३, १३, ७; शाश्रौ; -स्येन

हिपि १ : २०; -स्येभ्यः वाधूश्रौ
४, १०४ : ३; ११; -स्यैः

आगृ ३, ९, १; कागृ ४१, २३.

ग्राम्य-कुक्कुट-सूकर-स्योः
गौध २३, ६; -सौ गौध १७,
२७.

ग्राम्य-घट्ट-पाग २, १, ५३^e.

ग्राम्य-पशु-शूनाम् वाध १०,
१६.

ग्राम्यपशु-घातिन्-ती विध
५, ५०.

ग्राम्यपशु-पीडा-कर-राः
विध ५, ७६.

ग्राम्यपशु-संघ-वेपु पा १,
२, ७३.

†?ग्राम्यमङ्कीरदाशकौ^k आपश्रौ
२१, २०, ३; वौश्रौ १६, २३ :
७^l; हिश्रौ १६, ६, ४१.

†?ग्राम्यमनिरसाकसै^m वाश्रौ ३,
२, ५, ४३.

ग्राम्य-वादिन्-दिनः माश्रौ ५,
१, ८, १२; -दीⁿ आपश्रौ १९,
२०, ७; वौश्रौ १३, २१ : ९;

माश्रौ ५, १, ८, ११.

ग्राम्या(म्य-अ)भोजन-नम्
काश्रौ २२, १, ३०.

ग्राम्या(म्य-आ)रण्य-ण्यान्
आश्रौ ११, २, १८; -ण्यानाम्

हिश्रौ १३, २, २१; आपध २,
१६, २८; विध ३९, १.

ग्राम्यारण्यौ(ण्य-श्रौ)षधि-
वोज-जानि वैश्रौ १, ११ :
१५.

a) =दर्वी-। b) पूर. =लौकिक-। c) विप. (ग्रहन्-। सप्त.>वृत्त-। d) पत्त-। e) तु.पागम-।
f) विप. (श्येन-।साम-विशेष-।)। g) विप.>नाप.(सामन्-।)। h) =मन्त्रगण-विशेष-। i) ष्ये इति पाठः ?
यनि. शोधः। j) वैप १ द्र.। k) अत्रग्रहः ? ग्राम्यमङ्कीर-दा^o [द्रस.] इति C.। ग्राम्य-मङ्कीर-दा^o (कस.
> द्रस.) इति संभाव्येत। सपा. व्याघ्रं मङ्की^o (यद्र.) इति पाठे। l) ग्राम्यं म^o इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु. C. आपश्रौ.)। m) पाठः ? शोधः (तु. k टि.)। n) शोधः वैप १, १२६७ d द्र.।

ग्राम्या(म्य-अ)लंकरण- णम्
 वैगु ५, २ : २.
 २ग्राम्य^२- पाग ४, १, १५४.
 ग्राम्यायण- णा: वौश्रौप्र ५ : १.
 ग्राम्यायणि- पा ४, १, १५४.
 ग्रावन्^३- पाउभो २, १, २७८; -वणि
 काश्रौसंज्ञे १३; -वभि: आपश्रौ
 १२, १२, ३; वौश्रौ; -ऋव्यम्य:
 वौश्रौ ९, ११:८; वैश्रौ १३, १३:
 १०; या ९, ९; -वम्याम् अप
 ११, १, ७१; -वसु आपश्रौ १२,
 ३, १३; काठश्रौ १४६; वौश्रौ;
 -ऋवा काश्रौ २, ४, ४; आपश्रौ
 १२, ९, २××; वौश्रौ; -वाण:
 आश्रौ ५, १२, २१; २४; शांश्रौ
 ४, १४, २६; आपश्रौ; या ९,
 ८१; -०वाण: आश्रौ ५, १२,
 १०; काश्रौ २३, ३, ११; आपश्रौ;
 -वाणम् आश्रौ ५, २, ३; आपश्रौ
 १२, १, ९××; वौश्रौ; -ऋवाणा
 आश्रौ ४, ६, ३; १५, २; शांश्रौ
 ६, ६, ६; ऋअ २, २, ३९; -वाणौ
 वैश्रौ ११, ९ : ६; ऋकौसू ६६,
 १८; १९; अअ ११, ११; -व्ण:
 आश्रौ ५, १२, ७; काश्रौ ८,
 ५, २४××; आपश्रौ; -ऋव्णा
 आपश्रौ १३, २०, ८; वौश्रौ ६,
 २८ : ४५××; माश्रौ; -व्णाम्
 वौश्रौ ७, ५ : ५; हिश्रौ ८, १,
 ४०; वृदे ७, ११६; ८, ७४;
 -व्णि शांश्रौ १३, १२, ३;
 छसू १, ११ : २७; अप्राय ६, ३.
 ग्राव्णी^४- व्णी ऋअ २, ७,

१०४; वृदे ६, ३०.
 ग्राव-वोप- णम् शांश्रौ ७, १५, २.
 ग्राव-द्रोणकलश-सोमपात्र- त्राणि
 काश्रौ ८, ७, ५; ८.
 ग्राव-मुख- -खम्य: वौश्रौ ७, ६ :
 १७; ८, १ : २१.
 ग्राव-वायव्य^५- -व्यानि काठश्रौ
 १०५; माश्रौ २, २, ४, २६; २९.
 ग्राव-स्तुत्^६- पा३, २, १७७; -स्तुत्
 आश्रौ ४, १, ६; ५, १२, १; शांश्रौ
 ७, १५, २; १३, १४, १; २४,
 १०; आपश्रौ २३, १०, १२; वौश्रौ
 २, ३ : ११××; माश्रौ; -०स्तुत्
 वैश्रौ १६, १ : २१; -स्तुत:
 आश्रौ ९, ४, २०; १२, ९, ११;
 शांश्रौ १०, १३, ५; वौश्रौ ८,
 ६ : ११; १६, २ : ५; वाश्रौ ३,
 ३, ४, २०; मीसू ३, ५, २८;
 -स्तुतम् आपश्रौ १०, १, ९१;
 वौश्रौ ७, १ : ४; ८, १ : ३१;
 ११, ६ : ५; १६, १ : १५; वैश्रौ
 १६, १ : १; हिश्रौ १६, १, ३६;
 -स्तुते काश्रौ १०, १, २; आपश्रौ
 १३, १, ५; १८, २१, ७; काठश्रौ
 १४६; वौश्रौ ८, १ : ९; माश्रौ
 २, ४, ४, २; वैश्रौ १६, १ : ७;
 हिश्रौ ९, १, ६; ३, २८; १३, ७,
 १५; लाश्रौ ९, ६, १.
 ग्राव-स्तुति- -ति: या ७, ७.
 ग्राव-स्तोत्रि, त्री(य >) या^१-
 -या: माश्रौ २, ४, ४, ३;
 आपश्रौ १३, १, ६; वैश्रौ १६,
 १ : ८.

ग्राव-हस्त^७- -स्तास: या ८, २१.
 ?ग्रावस्^८- > ग्रावो-वायव्य^९- -व्यम्
 वौश्रौ ६, ३० : २८; २५, १४ :
 ११; १५ : ९××; -व्यस्य वौश्रौ
 २१, २४ : २१; -व्यानि वौश्रौ
 २५, १२ : ३; ४; -व्येन वौश्रौ
 २१, २४ : १९.
 ?ग्रावाणकौ^{१०} वैगु ५, ४ : २९.
 ग्रास-, ग्रासयित्वा- √ग्रस् द्र.
 ग्राह-, ग्राहक- प्रस्. √ग्रस्, ह्र द्र.
 ?ग्री(व>)वा^{११}- पाउ १, १५४; -वा
 वैश्रौ १, १ : १८; १३, १७ : ५;
 अप २२, ४, ५; विव ९६, ७०;
 या २, २८१; -ऋवा: काश्रौ
 ४, २, १२; ७, ९, ९; आपश्रौ १०,
 २६, १४; वौश्रौ; -वाणाम् आपश्रौ
 १५, १५, १; माश्रौ ११, १५, ८;
 हिश्रौ २४, ६, १२; -वाभ्य:
 आपमं १, १७, २१; पा४, ३, ५७;
 -वाम् आपश्रौ ९, ११, २३;
 आग्रिगु; -वायाम् शांश्रौ ४,
 १५, १२; वौश्रौ २०, २७ : १५;
 वैश्रौ; या २, २८१; -वासु
 आपश्रौ ७, १७, ६; २०, १२,
 १३; १३, ४; १२; वौश्रौ.
 ग्रैव- पा ४, ३, ५७; -वम्
 शांश्रौ १८, ३, १.
 ग्रैवेय- पा ४, ३, ५७.
 ग्रैवेयक^{१२}- पा ४, २, ९६.
 ग्रै(व्य>)व्या^{१३}- -व्या: अअ
 ७, ७६१.
 ग्रीव-छि(व>)वा- -वा: तु २५,
 ६.

a) व्यप. । व्यु. ? । b) वैप १ द्र. । c) विप. (ऋच्-) । साऽस्यदेवतयोऽणि प्रकृतिभावाऽभावः
 उंसं. (पा ६, ४, १६७ [तु. पङ्गुसुशिव्यः]) । d) द्रस. उप. = दारुपात्र- (तु. BGG. [माश ३, ६, ३, १०]) ।
 वैप १, १२६८ d टि. परिहर्तव्यम् । e) = ऋदिवगं-विशेष- । f) पस. । उप. = ऋच्- । 'त्रि' इति माश्रौ. ।
 g) = ग्रावन्- । व्यु. ? । h) स्वल्पम् ? = ग्रावाणौ । व्यु. ? । i) = वमनी- (तु. पाका.) । j) पामे. वैप १,
 १२६८ h द्र. । k) = अलंकार-विशेष- ।

ग्रीव-द्वन्- -द्वम् वौश्रौ १७, ३० :
 ३; २२, ४ : १०; आग्रिण ३,
 ८, १ : २९; वौषि १, १५ : ८;
 -त्रे वौश्रौ १०, ४८ : १५; २०,
 १७ : २.
 ग्रीवा-तस् (:) वौश्रौ २०, ७ : ११;
 माश्रौ १, २, २, ५.
 ग्रीवा-व्यादेश- -शः या १४, ६.
 २ ग्रीवा^b- (> ग्रैवायण- पा.) पाग
 ४, १, ११०.
 ग्रीवाक्ष^b- (> ग्रैवाक्ष- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 १ ग्रीष्म^a- पाठ १, १४९; पाग ४,
 १, ८६; २, ६३^d; पागवा ४,
 १, ८६; -ष्मः काश्रौ ४, ७,
 ६; आपश्रौ; या ४, २७^f; ७,
 १०; -ः ऋष्म^e वौश्रौ ३, १८ : ८;
 माश्रौ १, ४, १, २७; वाश्रौ १,
 १, ३, १; -ष्मस्य वौश्रौ १२,
 १ : १३××; माश्रौ; -ः ऋष्माय
 आपश्रौ २०, १४, ५; २०, ६;
 हिश्रौ १४, ४, ४६; -ष्मे शांश्रौ
 २, १, २; १६, ९, २८; काश्रौ.
 ग्रैष्म^g- पा ४, १, ८६; -ष्मः
 आश्रौ ४, १२, १; -ष्माः आपश्रौ
 २०, २३, ११; वौश्रौ १५, ३८ :
 १२^f; वाधुश्रौ ४, २९^h : ७;
 -ः ऋष्माय शांश्रौ ९, २७, १;
 -ः ऋष्मौ वैश्रौ १९, २ : १०; अश्र
 १५, ४ⁱ.
 ग्रैष्मी- पावा ४, १, ८६;
 -ः ऋष्मी भाशि ३३.
 ग्रैष्मक- पा ४, ३, ४६; ४९

ग्रैष्मिक- पा ४, २, ६३; -कानि,
 -कैः वौग २, १०, ३.
 ग्रीष्म-प्रतिपद्- -पदि अप १८^j,
 १३, १.
 ग्रीष्म-वर्षा-शरद्- -रत्सु आश्रौ २,
 १, १३.
 ग्रीष्म-वसन्त- पाग २, २, ३१^k.
 ग्रीष्म-हेमन्त- -न्तौ वृदे १, १३१.
 ग्रीष्मा (ष्म-आ) दि- -द्वौ वौग २,
 १०, ३.
 ग्रीष्मा (ष्म-अ) न्त- -न्ते या ६, ३६.
 २ ग्रीष्म^b- (> ग्रैष्मायण- पा.)
 पाग ४, १, ११०.
 √ गृच्छ^l पाधा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.
 ऋगृ-मुष्टि^m- -ष्टिः भाशि २२; -ष्टिम्
 वौश्रौ ९, १३ : २; १६ : ९;
 १०, ५० : ५; १२; २४.
 ग्रैव- १ ग्रीवा- द्र.
 ग्रैवाक्ष- ग्रीवाक्ष- द्र.
 ग्रैवायण- २ ग्रीवा- द्र.
 ग्रैवेय- प्रमृ. १ ग्रीवा- द्र.
 √ ग्लस् पाधा. भ्वा. आत्म. अदने.
 √ ग्लह् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रहणे.
 √ ग्लह् (*देवने)ⁿ > ग्लह- पा ३,
 ३, ७०.
 ग्लाव^b- -वः वौश्रौ १७, १८ : २;
 वौग ३, १०, ६.
 √ ग्लुच् पाधा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.
 √ ग्लुच् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √ ग्लेप् पाधा. भ्वा. आत्म. दैन्ये.
 √ ग्लेच् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
 √ ग्लेप् पाधा. भ्वा. आत्म.
 अन्विच्छायाम्.

√ ग्लै^o > पाधा. भ्वा. पर. हर्ष-
 क्षणे, ग्लायते अप ६८, १, १२;
 ग्लायति पाग १, १६, २५;
 ग्लायत् द्राश्रौ ४, ४, १६; ५, ४,
 १६; लाश्रौ २, ४, ९; ८, १६;
 ग्लायेरन् शांश्रौ ६, ३, ८.
 ग्लान- > णा(न-आ)घ(दि-अ)र्थ-
 र्थे पावा २, २, १८.
 ग्लानि- पाठ ४, ५१; पावा ३, ३,
 ९५; -निः अप ५५, ४, २.
 ग्लायत्- -यन् काश्रौ ६, १०, ४;
 -यन्तः या १, २०.
 ग्लान्स्- पा ३, २, १३९.
 ग्लौ^p- पाठ २, ६४; ग्लौः वौश्रौ
 २, ५ : १९; कौस् ३१, २०.
 ग्वा^q वाश्रौ २, १, १, ३५.

घ

घ^a, > घा आश्रौ २, ९, १४; ३, ७, १४;
 १६, २; शांश्रौ; या ४, २०^f;
 पाग १, ४, ५७^m.
 √ घंप्, स^b पाधा. भ्वा. आत्म.
 कान्तिकरणे.
 √ घघ पाधा. भ्वा. पर. हसने.
 √ घट् पाधा. भ्वा. आत्म. चेष्टायाम्,
 चुरा. उभ. संघाते, भाषायाम्.
 घट^c- पाग ५, २, ११७; ४, २९^d; ६,
 २, ८५^p; -टः कप्र ३, ९, १;
 -टम् वैग ५, ५ : ८; अप ७०^o,
 ३; विध २२, ५७; -टान्
 आपश्रौ १२, २, १३; वैश्रौ १५,
 ३ : ७; ६ : २; काग ५७, २;
 -टे जैग २, ५ : १५; अप १८^r,

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) ष्वा-अ° > वस. इति MW. । d) = प्रत्य-विशेष- ।
 e) विन. (ऋतु-, माल-, पशु- प्रमृ.) । f) तु. पागम. । g) पा ३, १, ५८ परामृष्टः द्र. । h) = सर्ष-विशेष- ।
 व्यु. ? । i) √ क्लेच् इति [पक्षे] पासि. । j) पा ३, ४, ६५ परामृष्टः द्र. । k) = चन्द्र-, गरुडव्याधि- । व्यु. ? ।
 l) पाठः ? । उखाम् इति संस्कृतुः टि. (तु. माश्रौ ६, १, २, ६) । m) हिंसा-प्रातिलोम्य-पादपूरणे इति पागम. ।
 n) तु. BPG. । o) = कुम्भ- । वैप ३ द्र. । p) कट- इति [पक्षे] भाण्डा. प्रमृ. ।

१५, १; -टेन वौपि २, ७, ५^३;
 -टेषु जैगृ २, ९ : २०; -टैः वैश्रौ
 १५, ७ : १.
 घटी- पा ४, १, ४१.
 घटिं-धम- घटिं-धय-
 पावा ३, २, २९.
 घटी-ग्रह- पावा ३, २, ९.
 घट-क- पा ५, ४, २९^६.
 घट-ग्रह- पावा ३, २, ९.
 घट-वत्- पा ५, २, ११७.
 घट-शरावा(व-आ)दि- -दीनि
 वैगृ ५, २ : ८.
 घटा (ट-आ) सिक्त-द्रुम-ज-
 -जे विध ७०, १२.
 घटिक-, घटिन्-, घटिल- पा
 ५, २, ११७.
 घटो(ट-उ)दक- -कम् अप ३७,
 १८, १.
 रघट- -टः पा ५, २, ३५.
 घटा- पाग ५, २, १२७; पागवा
 ५, २, ९७^६.
 रघट- पा ५, २, १२७.
 घटाल- पा ५, २, ९७.
 घटि,टी^०- पाउ ४, ११८.
 घटिका^०- काः कागु ४४ : ८;
 आज्यो ५, १४.
 घटप्रत्ययण^१- -णस्य चाअ ३० : ४.
 ✓घट् पाश्चा. भ्वा. आत्म., जुरा. पर.
 चलने, घट्यति काश्रौ १७, ५,
 २.
 घटना- पावा ३, ३, १०७.
 ✓घण् ✓घृण् टि. द्र.

✓घण्ट् पाधा. जुरा. उभ. भाषायाम्.
 घ(ण्ट्)>ण्टा^३- पाउभो २, २, ९६.
 घण्टिक^३- -कः शंघ २०१; विघ
 ४५, २५.
 घण्टा-निर्हाद-वत् आशि ८, १२.
 घण्टा-पताका->०कि(न्->)
 नी-नी अप २०, २, ५.
 घण्टा-पताका-सज्ज- -सज्जः अप
 २०, १, ३.
 घण्टा(एटा-आ)भरण-भूषित- -तम्
 अप ६८, ५, ३०.
 घण्टा(एटा-अ)वसान->०सा-
 निक^१- -के वैगृ ५, १ : १३.
 घतन- पाउना ५, ५०.
 रघन,ना^१- -नः अप ७०^३, २, ५; या
 २, १; ९, २३; १४, ६; -नम्
 वैश्रौ ११, ७ : ४; ६; ९; ८ : ६;
 विघ १, २६; -ना शैशि ३२०^१;
 -नाः कप्र ३, ९, १०; अप ६१,
 १, ६; ६५, २, २; -नानाम् वाध
 १४, २६; -नायाः बौध १, ६,
 १६; -नैः कप्र २, ८, ४; अप
 ६४, १, ८; ६८, १, ४६; काशु ७,
 १८.
 घन-निचय- -यम् अप ६५, १, ९.
 घन-वन्ध^६- -न्वाः शैशि ६४.
 घना(न-अ)जुया (त>)ता- -ता
 अप ७०^३, ११, ८.
 घना(न-अ)स्थि(क>)का^६- का
 विघ ९६, ७५.
 रघन^१- -नः अप ५२, ५, ३.
 घनघन^३- -नाय अप ३६, ९, १८^१.

घनाघन- ✓हृत् द्र.
 घर्घर- पाउभो २, ३, ३५.
 र, रघर्म-, घर्म- ✓घृ द्र.
 घर्ष-, घर्षण- ✓घृष् द्र.
 ✓घष्^३ पाधा. भ्वा. पर. कान्तिकरणे.
 ✓घस्^० पाधा. भ्वा. पर. अदने,
 ऋवस्व आश्रौ ३, ४, १५; ८,
 ८; माश्रौ ५, २, ९, ६; या १२,
 ९; घसन् माश्रौ ५, २, ९, ६;
 घस्तु शाश्रौ ६, १, ५; घस्ताम्
 माश्रौ ५, २, ९, ६; घसन्तु शाश्रौ
 ६, १, ५.
 जग्धि निस् १, २ : ५.
 जक्षुः शाश्रौ १४, ७, १; द्राश्रौ ७,
 ३, २०; वृदे ६, ५८; अघसत्
 शाश्रौ ६, १, ५; माश्रौ ५, २, ९, ६;
 अघत् आश्रौ ३, ४, १५^१; शाश्रौ
 ६, १, ५; अघस्ताम् माश्रौ ५,
 २, ९, ६; अघसन् शाश्रौ ६, १, ५;
 माश्रौ ५, २, ९, ६; ऋवस्वन् शाश्रौ
 ३, १७, २; ६, १ ५९; काश्रौ ५,
 ९, १६; १९, ३, २१; आपश्रौ
 १, १०, १४; ८, १६, ९; वौश्रौ.
 ऋवसि^३- -सिः वौश्रौ २, ५ : ३;
 -सिना काश्रौ २, २, १८; आपश्रौ
 ३, २०, १^१; माश्रौ ३, १८, १^१; ५;
 वैश्रौ ७, १ : ७^१; द्विश्रौ २, ८,
 ३१.
 घस्मर- पा ३, २, १६०.
 घस्- पाउभो २, ३, २१.
 घास^०- पा २, ४, ३८; -सः कौसू
 २१, ११^१; -सम् आपश्रौ १२,

a) ष्टम् इति R. । b) तु. पागम. । c) कर्तरि कृत् । d) षघाटा- इति पागम. । e) वैप ३,
 २८६ ण द्र. । f) = अण्पि-विशेष- । व्यु. ? । g) = वाद्य-विशेष- । व्यु. ? । h) विप. । तेन जीवतीत्यर्थे प्र. ।
 i) विप. > नाप. (काल-) । मत्वर्थायिप् उन् प्र. । j) विप., नाप. (या., वैश्रौ., अप. प्रसू.) । व्यु. ? ।
 k) विप. । वस. । l) = ग्रह-विशेष- । व्यु. ? । m) = रुद्राणाम् अन्यतम- । व्यु. ? । n) = षुंप् इति BPG.,
 [पक्षे] भारुडा. । o) या २, ५ पा २, ४, ३७; ६, ४, ९८; १००; ८, ३, ६० पावा २, ४, ३७; ७, २, ६२ परामृष्टः द्र. ।
 p) वैप १-द्र. । q) ०सी^० इति पाठः ? यनि. शोधः ।

१२, १११; वौश्रौ २२, ८ : ४;
वाश्रौ १, ७, २, २०; माश्रु १, २३,
१६; वाश्रु ७, १५.
घास-दान- -नम् निसू २, ४:१७.
घासे-अज्र^३- -त्राणाम् शुभ्रा ४,
८५१.
घासो(स-उ)क्त^३- -क्ताः वौश्रौ
२१, २ : २७.
घासि^३- पाठ ४, १३०; -सिः अप
४८, ८८१.
वक्षिस्व^३- पा ७, २, ६७; -वांसः
या १२, ४२; तैप्र १६, १३१.
जग्ध,ग्धा- -ङ्घः आपमं २, १६,
१५२; १६३; १७२; हिर्य २,
१६, ५६; -ग्धम् या ४, ७;
माशि १५, ५; नाशि २, ८, ११;
-ङ्घ्या आपमं २, १६, १५; १७;
हिर्य २, १६, ५.
जग्ध-पाप्मन्^३- -प्मा अत्र ९,
६ (२)१.
जग्ध-सारङ्ग^३- पाग २, २, ३७^१.
जग्धि- -ग्धिम् विध ६७, ४०.
जग्ध्या (ग्धि-आ) दि- -दिषु
पावा १, १, ५७; २, ४, ३५.
जग्ध्या वौश्रौ १३, ९:५; ४३:१; माश्रौ.
१घाट- १घाटा- द्र.
२घाट- २घाटा- द्र.
घाटकर्करी^३- -रीः शांश्रौ १७, ३, १२.
घाटरी^३- -री शांश्रौ १७, ३, १६;
-रीः शांश्रौ १७, ३, १५^१.
१घाटा- (> १घाट-) घटा- टि. द्र.
२घाटा^३- (> २घाट- पा.) पाग ५.

२, १२७.
घाण्टिक- घण्टा- द्र.
घात- , घातक- ✓हृत् द्र.
घातकि^३- (> ंत्क्य- पा.) पाग ४,
१, १५१.
१, २घातन- , घातयित्वा- , घाति- ,
घातित- , घातुक- , घातिन्-
✓हृत् द्र.
घातैर्य^३- पाग ४, १, १७६^१; ५, ३,
११७^१.
घातैर्यी- पा ४, १, १७६.
घास- प्रथ. ✓घस् द्र.
घासकुन्द^३- (> ंन्दि- पा.) पाग
४, २, ८०.
✓घिष्णु पाधा. भ्वा. आत्म. ग्रहणे.
✓घु पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.
घुं^३ शुभ्रा ८, २४; याशि २, ९४.
✓घुष् ✓घष् टि. द्र.
✓घुद् भ्वा. आत्म. परिवर्तने, तुदा.
पर. प्रतिघाते.
✓घुण् भ्वा. आत्म., तुदा. पर., अमरणे.
घुण^३- -णः जैर्य १, ३ : २^१.
घुण्ड- पाठ १, ११५.
✓घुष्णु पाधा. भ्वा. आत्म. ग्रहणे.
घुम् पाग १, ४, ५७.
✓घुर् (वधा.) पाधा. तुदा. पर.
भीमार्थशब्दयोः.
घुरण- पाठ २, ८३.
✓घुष्म पाधा. भ्वा. पर. अविशब्दने,
चुरा. उभ. विशब्दने, घोषेत्
आपश्रौ ३, १६, २.
घोषयेत् अप १९^३, ५, ६.

घुष्ट- , घुष्टवत्- पा ७, २, २३.
१घोष^३- पाग ४, २, १२७^१; ६, २,
१८५; -पः वाधुश्रौ ३, ९४ : ८;
११; ४, ३३ : १; २; द्राश्रौ;
आपमं १, ४, ९१^१; आश्रिण्य १,
५, २:५४^१; वौश्रु १, ४, २२^१;
भाश्रु १, १४ : ६^१; हिर्य १, १९,
७^१; जैर्य १, २० : २२^१; अप.
४८, १०२^१; निघ १, ११^१,
या ९, ९; -घम् शांश्रौ १७;
१४, १२; १७, ७; आपमं
२, २०, ३४^१ सु २२, ५;
आश्रिण्य ३, २, २ : ४^१; भाश्रु २,
१५:६^१; माश्रु २, ८, ४^१; हिर्य.
२, १४, ४^१; अप; या ९, ९^१; १३;
-पाः आपश्रौ २१, २०, ६;
वौश्रौ ११, ८ : १६××; हिश्रौ;
-पाणाम् अप ४७, २, ९; -पात्
शैशि २१७; -पान् आपश्रौ २०,
१६, १०^१; वाश्रौ ३, ४, ३, ३४;
हिश्रौ; -ङ्घ्याय आश्रौ ५, ९, २६;
शांश्रौ; -पे ऋत ३, ६, ५; -पेण
आपश्रौ १२, ३, २^१; हिश्रौ ८, १,
४१^१; वृदे २, ६०.
घोषक- पा ४, २, १२७.
घोष-कृत- -कृतः शांश्रौ १७,
१४, १२; १७, ७.
घोष-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,
१२७.
१घोषदा- (> ंदक- पा.) पाग.
५, २, ६२^१.
घोष-बु(द्व>)द्वा- -द्वा दंवि २,

a) वैष १ द्र. । b) सप्त. पूष. वरुणप्रवास- इत्यस्याऽवयवः । c) विप. । वस. । d) तु. पागम. ।
e) = वीणा- । व्यु. ? । f) सप्त. वौश्रौ १६, २० : ५ भाषाघटीः इति पाभे. । g) अर्थः व्यु. च ? । h) व्यप. ।
व्यु. ? । i) = आशुधजीविंसंघ-विशेष- । व्यु. ? । j) तु. भाण्डा. (पक्षे) । घातैर्य- इति पाका. पासि., घौतैर्य- इति
भाण्डा. पासि. च । k) = [वर्ण-विशेष-] यम- । l) मुणः, त्र्यम्बुका इति C. पदच्छेदः; वैतु. श्रीनिवासाध्वरिः घुणस्त्री,
ए इति ? । m) या ९, ९ परामृष्टः द्र. । n) भाप., नाप. । o) = देश-विशेष- ? । p) पाभे. वैष २, ३ खं मंत्रा १,
१, १३ द्र. । q) वाद्-नामन्- । r) पाभे. वैष १, ११४९ f द्र. ।

७१.

घोष-यत्- -वत् अप ४७, १, १७; उस् १, ८; आशि ८, १५; शैशि २४; -वताम् ऋप्रा १३, १५; १४, १८; -वति शौच २, ११; ४३; ५४; याशि २, ९८; -वन्तः वीश्रौ ८, १ : १२; आशि ४, ४; -वाच् आपश्रौ १३, १, ८; सु १३, २; आपध.

घोषवत्-पर- -रः ऋप्रा ४, २४; तैप्रा ९, ८; -राः ऋप्रा ४, २.

घोषवत्-सं(ज्ञा >)ञ- -ञम् अप ४७, १, १६.

घोषवत्-स्वर- -रेपु शौच १, १३; २, २.

घोषवद्-आदि- -दि आगृ २, १५, ४; कौगृ १, १६, ९; शांगृ १, २४, ४; पागृ १, १७; २; वैगृ ६४ : ५; आमिगृ २, १, ५ : २९; आपगृ १५, ९; कागृ ३४, २; वौगृ.

घोषवद्-युक्त- -क्तः भाशि ५१.

घोष-सं(ज्ञा >)ञ- -ज्ञे शैशि १०२.

घोष-स्थल^a-, -ली- (>घोष-स्थलक- पा.) पाग ४, २, १२७.

घोषा(प-आ)दि- -दिः ऋत ५, ३, २.

घोषा(प-अ)नासिक्य-नासिक्य- -न्याः शैशि ३४४.

घोषिन्- -विणः ऋप्रा ६, ४७; १२, ६; १२; १४, ३५; -विणा ऋप्रा १३, १७; -विणाम् ऋप्रा

१३, ६; १७.

घोषो(प-ऊ)ष्मन्- -ष्माणः अप ४७, २, ९; -ष्माणौ अप ४७, २, १०.

घोषयित्नु- पाउभो २, १, ८३.

घोषयित्वा आमिगृ २, ४, ३ : १८.

रघो(ष >)षा^b- -षा ऋअ २, १०, ३९; वृदे २, ८२; ७, ४२; -षाम् शाश्रौ ६, ६, १२; -षायै वृदे ७, ४८.

वौषेय^c- -यः ऋअ २, १०, ४१.

घोषि^d- -षि आश्रौ ४, १, २३^०.

घोषित- -त्तम् आमिगृ ३, १०, ४ : ६.

†रघोषिन्^e- -०विणः; -पिभ्यः आपमं २, १८, ३५; भागृ २, ९ : ११; हिगृ २, ९, २.

†घोषिणी- -०णीः आगृ ४, ८, २७; २८; -णीभ्यः^f अप ३२, १, १२; ४६, ६, ४; अअ ११, २; अपं ३ : ४८; -ण्यः^g कौगृ ३, ५, ४; शांगृ ३, ९, १.

घुसुघुस^h- -साय अप ३६, ९, १९[†].

घुसृण- पाउभो २, २, १२३.

घूक- पाउभो २, २; ३.

√घूर पाधा. दिवा. आत्म. हिंसा-वयोहान्योः.

√घूर्ण पाधा. भ्वा. आत्म., तुदा. पर. भ्रमणे.

घूर्ण- -णम् भाश्रौ ७, १, ९.

घूर्णा(र्ण-अङ् >)ङ्गीⁱ- -ङ्गी कप्र १, ७, १४.

घूर्णि- पाउभु ४, ५२.

√घृ^j (वधा.) पाधा. जु. पर. क्षरण-दीप्तयोः; तुरा. पर. प्रसवणे, †जिवर्ति अप ४८, ३२; ४९; †जिवर्ति आपश्रौ १६, ३, १; वीश्रौ २, १४ : १७xx; वैश्रौ. धारयति वीश्रौ ११, ५ : १२.

१घर्म^k- पाउ १, १४९; -†०र्मं आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ३१; काश्रौ; आपश्रौ १५, १७, १०^l; १७, २०, १६[†]; वीश्रौ ९, १७ : १८^k; भाश्रौ ११, १८, १^k; माश्रौ ४, ४, ३९^k; -†र्मः आश्रौ ३, १४, १०; ४, ७, ४^mxx; शाश्रौ ५, ९, २५; १०, २३^mxx; १३, १२, १३^m; काश्रौ; आपश्रौ ११, २०, १०[†]; या ११, ४३; १४, २०; ११; -†र्मम् आश्रौ ४, ६, ३[†]; ७, ४^o; ८, १६; ८, १०, ३^o; शाश्रौ; या ६, ३२^o; ११, ४२^o; -र्मस्य आश्रौ ४, ७, ४[†]; †शाश्रौ ५, १०, १७xx; कश्रौ; -†र्मं ऋअ २, १०, ११४; वृदे ८, ३८; -†र्मं आपश्रौ ६, २१, १; वांघृश्रौ ३, ५४ : १; -र्मः वैश्रौ ९, ५ : ३[†]; -र्मति हिश्रौ ३, ८, २३; -†र्मयि काश्रौ २६, ५, ४xx; आपश्रौ; -†र्मसः आपमं २, २०, ३२; तैप्रा ११, ५; -†र्मं आश्रौ ४, १, २७xx; -शाश्रौ ५, १०, १०^o; काश्रौ; -र्मण आश्रौ ५, १३, २; आपश्रौ; वैताश्रौ १३, २७[†].

a) = देश-विशेष- । तु. पागम. । b) वैप १, १२७२ e द्र. । c) व्यप. । ढक् प्र. (पा ४, १, १२१) । d) वैप १ द्र. । e) वैप १, १२७२ h द्र. । f) नाप. (सर्प-) । g) नाप. (सेना-) । h) = छद्राणामन्यतम- । व्यु. ? । i) विप. । वस. । j) या ७, २४ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप १, १२७२ q द्र. । l) पाभे. वैप १, १२७२ t द्र. । m) सकृत् पाभे. वैप १ यज्ञः शौ ७, ७७, ३ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १, १२७२ s द्र. । o) पाभे. वैप १, १२७२ r द्र. । p) सकृत् पाभे. वैप १, १२७३ g द्र. । q) पाभे. वैप १, १२७३ o द्र. । r) पाभे. वैप १ प्रवर्ग्येण मै ४, ९, २ टि. द्र. ।

घर्म-कपाल- -ले माश्रौ ४, १, १४.
 घर्म-कार्य-विपर्यास- -से वौश्रौ ९, १७ : ३१.
 घर्म-दुघ- -दुघः वौश्रौ ९, ५ : ३२; ९ : ७; वैश्रौ; -दुघम् आपश्रौ १५, ९, ३××; वौश्रौ; -दुघि माश्रौ ११, १८, ५.
 घर्म-दु(घ>)वा^२- -घा अप्राय २, ४^२; -घाम् आश्रौ ४, ७, २; काश्रौ २६, ७, ४२; वैताश्रौ १४, ४; -घे वौश्रौ ९, ५ : ७.
 घर्मदुघा(घा-अ)र्ध- -र्थः वैश्रौ १३, ७ : १३.
 घर्म-दुह- -दुहः काश्रौसं ३६ : ६; वैश्रौ १३, ८ : १३; -दुहि आपश्रौ १५, १८, २; -धुक् काश्रौ २५, ६, ८; आपश्रौ; या ११, ४२; ४३.
 घर्मधुग्-च्वा(<ह्रा)ल^२- -ले काश्रौ २५, ६, २^{१०}.
 घर्मधुग्-दोह- -हाय वैताश्रौ १४, ३^{१०}.
 घर्म-देवता->^२ल्य,त्या- -त्यम् शुश्र ४, १४; -त्या शुश्र १, ५४८; -त्याः शुश्र ४, ८१; -त्यानि शुश्र ४, ७७; -त्ये शुश्र ४, ८६; ९२.
 घर्म-दैवत- -तम् शुश्र ४, ११२.
 ङ्घर्म-प^२- -पान् वौश्रौ ९, १० : २३; २४; १९ : १८^३; वौगृ ३, ४, ११; १२; -पेभ्यः वौश्रौ ९, ११ : १४; १९ : ९; १०; वैश्रौ

१३, १३ : १३; वौगृ ३, ४, ५; ६.
 घर्म-प(र>)रा^२- -राः वृदे ८, १५,
 घर्म-पात्र- -त्रम् वैश्रौ १३, १४ : १०; -त्राणि माश्रौ २, २, २, २××; द्राश्रौ.
 ङ्घर्म-पावन्^२- -वभ्यः माश्रौ १, २, ५, २७; वाश्रौ १, ३, ३, ६.
 घर्म-प्रायश्चित्त- -त्तानि आपश्रौ १५, १७, ४; वौश्रौ ९, १२ : २; १७ : १; ३१; भाश्रौ ११, १७, ४.
 घर्म-सेद- -दे काश्रौ २६, ७, ४६.
 ङ्घर्म-रुचि^२- -चिः आम्रिप २, ५, ३ : १८; वौगृ ३, ७, १५.
 घर्म(र्म-ऋ)त्विज्- -त्विजः काश्रौ १०, १, २३.
 घर्म-वत् वैताश्रौ २१, १९; २५, १५.
 ङ्घर्म-वत्- -वते वौश्रौ १३, ११ : ४; ९; माश्रौ ५, १, १, ३८.
 घर्म-वृद्धि- -द्धिः वेज्यो ८.
 घर्म-व्रत^{१०}- -ते जैश्रौ २३ : ८; जैश्रौका ५२.
 घर्म-व्रत-दुह^२- -दुहोः काश्रौसं ३६ : ८.
 घर्म-शिरस्^१- -रः वौश्रौ २४, १९ : १; -रसा आपश्रौ ५, ११, ६××; भाश्रौ; -रांसि आपश्रौ ५, १२, १; ३; १६, २; हिश्रौ ३, ४, १२.
 घर्म-शेष- -पत्य द्राश्रौ १४, ३, ७; लाश्रौ ५, ७, ६.

घर्म-संस्तव- -वः वृदे ६, १३४.
 ङ्घर्म-सद्^२- -सत् माश्रौ १, २, ४, २१; वाश्रौ १, ३, १, ४४; वागृ १, ७.
 घर्म-सादन- -ने जैश्रौका ६१.
 घर्म-सुक्त- -क्तम् अत्र ७, ७३; अंप २ : ८९; -क्तेन वैताश्रौ १४, ५.
 ङ्घर्मस्य-तनु^१- -न्तु जैश्रौ २३ : ८; जैश्रौका ५२; -न्तौ द्राश्रौ २, २, २७; लाश्रौ १, ६, २५.
 ङ्घर्मस्य-रोचन^१- -नम् द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६, २६; जैश्रौ २३ : ९; जैश्रौका ५५.
 घर्मा(र्म-आ)दि- -दि आश्रौ १, १२, १८.
 घर्मे(र्म-इ)न्धन- -नानि आपश्रौ १५, ५, ११; भाश्रौ ११, ५, १५; हिश्रौ २४, २, ५; -ने जैश्रौ २३ : ८.
 घर्मे(र्म-इ)एका^१- -काः वाश्रौ २, १, ६, ३५^६; -काम् आपश्रौ १५, ३, १३××; वौश्रौ; माश्रौ ६, १, ७, २०^६.
 घर्मो(र्म-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् वौश्रौ २५, १६ : २; -ष्टे वौश्रौ १६, २ : १०; वौघ १, ६, ३०.
 घर्मो(र्म-उ)पसद्- -सदौ वैताश्रौ १५, ५.
 घर्म्य- -र्म्यम् काश्रौ २५, ५, ३०; २६, ६, १६.
 रघर्मी- -र्मः ऋश्र २, १०, ११४; १८१.

a) वैप १ द्र. 1 b) पस. उप. भाप. <√हृल् । c) °दुग्ध्वा° इति पाठः ? यनि.
 श्लोघः (तु. चौसं.) । d) °धोहाय इति पाठः ? यनि. श्लोघः । e) विप. । वस. । f) = जाम-
 विशेष- । g) वैप २, ३सं द्र. 1 h) विप. । चस. > उस. । व्रत- = दुग्ध- । i) = रन्ध्र-
 विशेष- । < घर्मः शिरः [तैत्रा १, १, ७, १] । j) = इष्टका-विशेष- । k) परत्परं पाभे. । l) = ऋषि-
 विशेष- । घा. अर्थः ? ।

घृण,णा^२- पाठभो २, २, १२३;
 -पाग ५, २, १३६^२; -णः निघ
 १, ९^१; -णा बाध ६, २३.
 घृणा(ण-अ)दिघ- -दिघम् ऋअ
 ३, १.
 घृणा-वत्- पा ५, २, १३६;
 -वन्तः वैगृ ५, १३ : २.
 घृणिन्- पा ५, २, १३६; -णिने
 गौघ २६, १२^१.
 घृणि^०- पाठ ४, ५२; -^१णिः आश्रौ
 २, १९, ३२; शांश्रौ ३, १७, १;
 काश्रौ २५, ६, ७; आग्रिण्.
^१घृ(णि>)णी-वत्^०- वान्
 शुप्रा ३, ९७^१; तैप्रा ५, २१.
 घृत्^०- पाठ ३, ८९; पाग २, ४, ३१;
 फि २१; -^१तम् आश्रौ २, ५,
 १७^०; ८, ३; १०, ४××; शांश्रौ;
 आपश्रौ ६, २७, ५^०; आपमं १, ८,
 २^०; आगृ २, ९, ५^०; कौगृ ३, ४,
 ३^०; वांगृ ३, ५, ३^०; कागृ २७,
 ३^०; वौगृ १, ५, ६^०; मागृ १, १४,
 ६^०; २, ११, १७^०; वागृ १५, १७^०;
 अप्राय ६, ६^२; अप ४८, ७५^६;
 निघ १, १२^६; पावा ६, ४, ६६;
 -^१तस्य आश्रौ २, ८, ३××;
 शांश्रौ; काश्रौ १३, ३, २६^१;
 आपश्रौ ४, ७, २^१; २१, २०, ३^१;
 माश्रौ १, ८, ४, ३६^१; वैताश्रौ ३४,
 ९^१; आगृ १, १५, १^१; मागृ २, ४,
 ५^१; कौसृ ४५, ११^१; या ७, १७^१;
 -तात् माश्रौ १०, १५, २; वैश्रौ;
 -ते आश्रौ ५, १९, ३; काश्रौ;

हिश्रौ ७, १, १७^१; -^१तेन आश्रौ
 २, ५, १४××; शांश्रौ; आपश्रौ
 ४, १३, ४^१; ७, ६, ५^१; माश्रौ १,
 ४, ३, २^१; ७, ३, ४०^१; या ७,
 २४^१; ८, १७; १८^१; १०,
 ४०^१; १४, २७; -^१तेभिः आश्रौ
 ७, ८, १; शांश्रौ १२, ११, १९;
 -^१तैः आपश्रौ ५, ६, ३; १४,
 १७, १; वौश्रौ.
 घृत-कद्वला(ल-अ)गार^२-
 -राणाम् सुधप ८७ : १८.
 घृत-कम्बल^०- -लः अप ३१, ८,
 १; २; ३३, १, १०; ३, १; -लम्
 अप १९, १, ११; ३१, ७, ५; ३३,
 १, १××; -लस्य अप ३३, १, ९.
 घृतकम्बल-घृ(घृ>)ठा^१-
 -घा अप ३१, ८, ३.
 घृतकम्बल-संयु(त>)ता-
 -ता अप ३१, ८, १; २.
 घृत-कुण्ड- -ण्डे वौपि ३, ७, ४.
 घृत-कुम्भ- -म्भम् अप ३३, १,
 ७; ५, ७; विध ५०, ३६; सुध
 ३८; -म्भात् हिपि २३ : ३२.
 घृत-कुश-हिरण्यो(ण्य-उ)दक-
 प्राशन- -नम् सुध १८.
 घृत-क्षीर- -रम् वैध ३, ८, ४;
 -राभ्याम् वैगृ ५, १० : ३; ५.
 घृत-क्षीर-फला(ल-अ)स्ताव-
 -वे अप ६४, ८, ५.
 घृत-क्षीरा(र-अ)म्भस- -म्भलाम्
 अप ६४, ८, ५.
 घृत-गौरसर्वप- -पैः शंघ ३४५.

घृत-घट- -टः गौघ २२, २६.
 घृत-चर्मन्^१- -र्मणाम् वौश्रौ १५,
 १९ : २; -र्मणि वौश्रौ १५,
 १६ : २.
 घृत-तिल-तैल-पत्र-पुष्प-मूल-
 फल-केश-गृ^१-रक्तवस्त्र-पकान्न-
 विक्रय- -ये सुध ५८.
 घृत-तिल-मिश्र- -अम् वौपि २,
 १०, २.
 घृत-तुला- -लाम् विध ९०, २१.
 घृत-तैल- -लम् विध ६६, ११;
 -लानाम् शंघ १८३.
 घृत-दधि- -ध्ना अप २६, ३, ५.
 घृत-दधि-पयस-तक्र- -क्राणाम्
 शंघ १८१.
 घृत-दान- -नम् वैगृ ५, ४ : २०.
 घृत-द्रोण-शत- -तेन अप ३३,
 ३, ६.
 घृत-धारा-पातना(न-अ)थै-
 -थ्यम् वैश्रौ ११, ७ : ५.
 घृत-धेनु- -नुम् अप ९, ३, १.
^१घृत-निर्णिज्^०- -र्णिक् आपश्रौ
 ५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५५.
 घृत-पक्व- -कान् वौगृ ३, १०, ४.
 घृत-पट- -टम् बाध २१, ८.
 घृत-प(द् >)दी^०- पाग ५, ४,
 १३९; -^१दी आश्रौ १, ७, ७;
 शांश्रौ १, १२, १; वागृ १३, २;
 -^१दीम् आपश्रौ ३, १, ७; वौश्रौ
 १, १८ : ३; भाश्रौ ३, १, १;
 हिश्रौ २, ३, ८.
 घृत-पात्र- -त्रम् शंघ ४०१.

a) वैप १ निर्दिष्टावत्र समाविष्टौ द्र. । b) तु. पागम. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १, १२७४ ० द्र. । e) पु ६२४ k घृतमु^० इत्येवं द्र. । f) सङ्घत् पामे. वैप १, ६२२ a द्र. । g) = उदक- । h) पामे. वैप १, १२७५ f द्र. । i) पामे. वैप २, ३ खं. घृतस्य तैत्रा ३, ७, ६, ११ टि. द्र. । j) पामे. वैप १, १२७५ e द्र. । k) सप्र. वांगृ १, २४, ४ मखाय इति पामे. । l) घृतेचरुम् इति समस्तं व्याचक्षाणो गोपीनाथधिन्यः (तु. सप्र. काठ २२, १३ चरुधृते, आपश्रौ १०, ४, २-४ प्रंम्. च) । m) पामे. वैप १ त्रतेन खि ४, ८, ४ टि. द्र. । n) द्रस. कद्वल- = तक्र-अगार- = अर्थः ? । o) = महाभियेक- । मलो. कसः ? । p) विप. । वस. । q) उप. = [चर्ममय-]पात्र-विशेष- । r) पाठः ? गुड- ? ।

घृतपात्र-स्थ- -स्थम् अप ८,
१,८.
घृत-पायस- -सः अशां १२, १;
२; -सम् आमिष्ट २, ५, १: ३४;
जैत्र २, ९: २६; अप १, २७, २.
†घृत-पावन्^३- -वानः काश्रौ ६,
८, १६; आपश्रौ ७, २५, १०;
वौश्रौ ४, ९: २४; भाश्रौ; पावा
६, ४, ६६.
घृत-पिण्ड- -ण्डम् पाण्ड २, १, ८;
-ण्डान् आपश्रौ १७, ५, ८^१;
वौश्रौ २२, ८: २३; वाश्रौ २, २,
२, ११; कौश्र ५२, १९, ५४, १४.
घृत-पीत- पाण २, २, ३७.
घृत-पू^३- -पुत्रः वौश्रौ ६, २:
८^१.
घृत-पूर्णा, र्णा- -र्णम् अप ८, १, ५;
विध ९०, १५; -र्णान् अप १९^२,
२, ३; -र्णाम् काश्रौ १७, ४, १२;
२५, ७, २१.
†घृत-पृष्ठ, षा^३- -ष्ठः आश्रौ ५,
१९, ३^१; आपश्रौ १४, १७, १^१;
आपमं २, २, १^१; आमिष्ट १, १,
२: ४^१; वौश्र २, ५, ९^१; माश्र १,
५: १०^१; हिश्र १, ३, ५^१; वृदेष्ठ,
३३; या ४, २६; ५, ७; -ष्टा:
आपश्रौ १, १६, ८; माश्रौ १, १८,
६; हिश्रौ १, ४, ५४.
†घृत-प्रतीक, का^३- -कः आश्रौ २,
१०, ४^१; आपश्रौ ५, ६, ३; १४,
१७, ७^१; वौश्रौ; आपमं २, २, १^१;
कौश्र १, १७, ६^१; शाश्र १, २५, ७^१;
हिश्र १, ३, ५^१; -कम् आपश्रौ ५,
६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६; -का
आपश्रौ ४, ५, १××; भाश्रौ; -के

आपश्रौ ७, ५, १; भाश्रौ ७, ४, १;
हिश्रौ ४, १, ६२.
घृत-प्रदीप-माल्य- -ल्यैः अप
१९^२, ३, २.
घृत-प्रमाण- -णम् अप ३३, ३, २.
घृत-प्रस्तावि(न् >)नी- -न्यः
या १२, ३६.
घृत-प्रस्तावि(न् >)णी- -ण्यः
या १२, ३६.
घृत-प्राश^३- -शः वाध २३, २०;
विध ५०, ४९.
घृत-प्राशन- -नम् शंघ ४०२;
वौध ३, १०, १२; विध; -नेन
शंघ ४१२.
घृतप्राशाना(न्-अ)न्त^३-
-न्तम् वैश्र ३, १५: १५.
†घृत-गुण^३- -गुणः आश्रौ ५,
१९, ३; आपश्रौ ५, ६, ३; १४, १७,
१; हिश्रौ ३, २, ५५; १५, ५, १;
भाशि २१.
घृत-प्लुत- -न्तम् विध १३, ४;
७३, १२.
†घृत-बोधन- -नः अप १२, १, ५.
†घृत-भाग- -नौ अप ३३,
५, ७.
†घृत-भाग^३- -गाः आमिष्ट ३,
८, २: ५८; वौषि १, १५: ६३.
घृत-मधु-तैल-प्रदान- -नेन विध
९२, १६.
घृत-मांस- -सम् काश्र ६६, ४.
घृत-मात्रा- -त्रा अप ३३, २, ५;
३, ५.
घृत-मिश्र- -ध्रम् वैश्रौ १, ४:
४; आमिष्ट २, ५, ७: १५; ३,
११, ४: १३; वौश्र १, ११, ११;

-आन् कौश्र २७, १४.
घृत-या(ज्य >)ज्या^३- -ज्या
आश्रौ ५, १९, २; -ज्यायाम्
आश्रौ ४, १, १४; -ज्ये आश्रौ
९, २, १७.
घृतयाज्या-स्थान- -ने आश्रौ
८, १२, ७.
घृत-युक्त- -क्तम् शंघ १९७;
-क्तैः शंघ ४४१.
†घृत-योनि^३- -निः आश्रौ २,
१०, ४^१; आपश्रौ २, १०, ४××;
भाश्रौ; कौश्र १, १७, ६^१; शाश्र
१, २५, ७^१; -निम् आपश्रौ ५,
६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६; -०ने^१
आश्रौ ५, १९, ३; शाश्रौ ८, ४,
३; वौश्रौ ४, १: ११; ६, ३०:
३०.
घृत-लिङ्ग^३- -ङ्गः अप ३३, १, ९;
-ङ्गौ अप ३३, ६, ३.
घृत-लि(स >)सा- -साः वैश्रौ
१५, ६: ७.
†घृत-वत्- -वत् आश्रौ २, २,
१७, ६, १४, १६; शाश्रौ ५, १३,
५××; आपश्रौ; या १०, २२;
-वता माश्र १, २३, ११; वाश्र ७,
१०; -वति आपश्रौ २, १७,
१××; वौश्रौ; -वद्भिः माश्र १,
२३, १२९; -वन्तम् आश्रौ १,
११, १; शाश्रौ; -वन्ति शाश्रौ
३, १८, १५; आपश्रौ ८, २०, ५;
वृदे २, ५१९; -वान् आश्रौ १,
१२, ३७^१; काश्रौ; आपश्रौ ९,
३, १^१; भाश्रौ ९, ४, २^१; हिश्रौ
१५, १, ४९^१; -वान्ति ऋप्रा ९,
४९^१.

a) वैष १ द्र. । b) शोघः पृ ५१६ m द्र. । c) पामे. वैष १, १२७७ k द्र. । d) पामे. वैष १, १२७७ n द्र. । e) पामे. वैष १, १२७७ p द्र. । f) उप. भाप. । g) विप. । वस. । h) = ऋग्-विशेष. । i) पामे. वैष १, १२७८ j द्र. । j) = मन्त्र-विशेष. । वस. । k) पामे. वैष १, १२७८ o द्र. । l) पामे. वैष १, १२७८ n द्र. ।

घृतवती- ँती आश्रौ ४, १२, २××; शांश्रौ; निघ ३, ३०^३; -तीभिः आपश्रौ ५, ६, २; -ंतीम् आश्रौ १, ४, ११; शांश्रौ १, ६, १६; काश्रौ।
 घृत-वर्ण-निभ- -भः अप ७०^३, ५, ३.
 घृत-व्यञ्जना (न-आ) दि- -दि विघ ७९, १३.
 घृत-व्रत^३- -तः आपश्रौ २२, ९, १३; हिश्रौ १७, ४, ७; लाश्रौ ८, ९, ८.
 घृत-शब्द- -ब्दः काश्रौ १०, ६, १०.
 ँघृत-श्चुत्^३- -श्चुतः आपश्रौ १४, २८, ४^१; वैश्रौ २१, १५ : १२; हिश्रौ १५, ७, १२; आपमं १, २, ५; या १०, २४.
 घृत-श्च्युत्^३- -श्च्युतः कप्र ३, ७, १५.
 घृत-श्च्युन्-निघन^३- -नम् जैश्रौ २५ : ७.
 घृत-श्री^३- -श्रियम् माश्रौ ५, १, २, १७^१.
 घृत-संयु(त>)ता- -ताः अप ३१, ६, २; ६५, ३, ५.
 घृत-संस्कार- -रः अप ३३, ५, १.
 घृत-सानि(न्>)नी^३- -न्यः या १२, ३६.
 घृत-सानि(न्>)णी- -ण्यः या १२, ३६.
 घृत-सूक्त^३- -केन वीर्य ३, ७, २७; आमिश्रौ २, ५, ३ : ४३.
 ँघृत-सूदन^३- -नः आपश्रौ ९, १७, ४; ५; माश्रौ ३, ५, १५;

हिश्रौ १५, ७, २४; २५.
 घृत-स्तुति- -तिः ऋअ २, ४, ५८; शुअ २, ३२१; चाअ ४० : १२; -तिम् वृदे ५, ११.
 घृत-स्तोम->भीय- -यम् शांश्रौ १५, १, ३३.
 ँघृत-स्तु^३- -स्तुः आश्रौ ३, ८, १; -स्तुः आश्रौ ३, ८, १; या १२, ३६^१; शैशि ७७.
 घृत-होम- -मः गौध २२, ३८^२.
 घृत-ह (द>)दा^३- -दाः अअ ४, ३४. ँ
 घृता(त-अ)क्त, क्ता- -क्तः वाघ २०, ४२; -क्तम् माश्रौ ६, १, ३, २८; वाश्रौ २, १, २, २२; आग; -क्तया अप ३५, १, ८; -क्ताः काश्रौ ४, ८, ३; वीश्रौ १९, २ : १२; वाश्रौ १, ४, ४, ४; वैश्रौ; -क्तान् काठश्रौ १३९; पाग २, १४, ८; अप ८, १, ४; -क्तानि काश्रौ १६, १, ३०; पाग ३, ७, ३; वैग २, ७; ६; -क्ताम् माश्रौ ६, १, ४, २०; २१; वाश्रौ २, १, ३, २१; अप २६, ३, ४.
 घृता(त-अ)क्त- -ताः अशां १२, ४.
 ँघृता(त-अ)च्<>ची^३- -ची आश्रौ ४, १२, २^३; काश्रौ २, ८, १२; ३, ६, १८^१; आपश्रौ २, ९, १५××; वीश्रौ; -चीः आपश्रौ ५, ६, ३; ७, १७, १^१; वीश्रौ २, १४ : १४; ४, ६ : ३५^१; ११, ४ : १९^१; हिश्रौ ३, २, ५३; ५४; -ंचीः आपश्रौ २, ४, २; वैश्रौ ५, २ : १२; हिश्रौ १, ७, ५;

-चीनाम् आपश्रौ २, १०, ३;
 वीश्रौ १, १४ : २७; भाश्रौ २, ९, १६; हिश्रौ १, ८, १६; -च्यः आग २, १०, ६; कौग ३, ५, ६; शांग ३, ९, ३; -च्या हिश्रौ ३, २, ५३; -च्यौ^१ माश्रौ १, ३, ४, २८; ७, २, १२.
 घृता(त-आ)दि- -दीनि वैध ३, ४, २.
 घृतादि-दान- -ने विघ ७९, २२.
 घृतादि-द्रव्य-सर्व^३- -वैषु अप ३५, १, ५.
 घृता(त-अ)लुपिक्त, क्ता^३- -क्तम् वीश्रौ ७, १ : ३१; -क्तम् आपश्रौ १६, १२, ८; १०; वीश्रौ १०, १७ : १०; वैश्रौ १८, ११ : ८; ११; हिश्रौ ११, ५, ५; ६.
 ँघृता(त-अ)न्न- -न्नेन आमिश्र २, ४, ५ : ७.
 ँघृता(त-अ)न्न^३- -न्नः आपश्रौ १४, १७, १; हिश्रौ १५, ५, १.
 घृता(त-अ)न्व्यक्त, क्ता^३- -क्तम् वैश्रौ १२, १७ : २; -क्ताः आपश्रौ ५, १७, ४; १५, २०, २; वीश्रौ; -क्तानाम् आमिश्र २, ५, १ : ३२; -क्तौ अप १८, १, ८.
 घृता(त-अ)न्वीक्षण- -णम् शोध २५०.
 घृता(त-अ)भ्यक्त, क्ता- -क्तः वाघ २०, १४; -क्ताः वीर्य ३, १५; ३१
 घृता(त-अ)मृतौ (त-ओ)व- -कुल्या- -ल्याभिः कप्र २, ४, १३.
 घृता(त-अ)म्भस- -म्भसोः अप ३८, २, १.

a) = यावा-पृथिवी- । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १, १२७९ k द्र. ।
 e) = साम-विशेष- । f) उप. <√सानि <√सन् । g) = सूक्त-विशेष- । h) वैप १, १२७९ u द्र. ।
 i) पामे. वैप १, १२८० e द्र. । j) पामे. वैप १, १३५३ a द्र. । k) कस. >कस. उप. परिपातः ।

घृता(त-अ)चित्त- -तम् अप
३३,७,५.
घृता(त-अ)चिस^० - -०चिः विघ
९८,७२.
घृता(त-अ)र्थ- -र्थे अप ३१,
९, १.
घृ(त>)ता-वृध^० - -वृधा ऋप्रा
९,२३१.
घृता(त-अ)वेक्षण- -णम् अप ८,
१,१; -णस्य अप ८,२,१.
घृता(त-आ)शिन्- -शी अप ५,
३,३.
घृता (त-आ) सुति^० - -तिः
आश्रौ ८,१२,७१.
†घृता(त-आ)हवन^० - -नः आश्रौ
१,३,६; ५,१९,३०; शाश्रौ १,४,
१९; ८,२४,१.
घृता(त-आ)हुत^० - -तः माश्रौ
३,१,२८^०.
१घृता(त-आ)हुति^० - -तिभिः
आश्रु ३,३,२; -तिम् कप्र २,९,
१३.
२घृता(त-आ)हुति- -तिः,
-तिम् कौसु ७२,३२१.
घृते(त-इ)ष्टका^० - -काः आपश्रौ
१६,१३,१०; १७,५,७; वौश्रौ
१०,४५ : २८; वैश्रौ; -कानाम्
वौश्रौ २२,८ : २१.
घृतो(त-उ)दक^० - -कम् शंघ
११६ : ७.
घृतो(त-उ)न्न,न्न^० - -न्नम् काश्रौ
१५,५,१०; -न्नम् काश्रौ १६,
४,३५.

घृतो(त-उ)षि(त>)ता^० - -ताः
काश्रौ १८,३, १४; आपश्रौ १७,
१४,५; माश्रौ ६,२,५,३; हिश्रौ
१२,५,१.
घृतौ(त-ओ)दन- -नः काश्रु २४,
२१; -न्नम् आश्रु १, १६, ४;
कौश्रु १, १९; ५; शाश्रु १, २७,
५; आश्रु २,५,१ : ३५; -नेन
वौघ ४,७,६.
√घृण्^० पाधा. तना. उभ. दीप्तौ.
घृण,णा-, घृणि- √घृ द्र.
√घृण् पाधा. भ्वा. आत्म. ग्रहणे.
घृत- प्रसृ. √घृ द्र.
घृताचि^० - -चेः जैश्रौ २२ : ४;
जैश्रौका १९.
घृता(च>)ची- प्रसृ. √घृ द्र.
√घृप् पाधा. भ्वा. पर. संघर्षे,
घर्षयेत् शंघ १६७.
घर्ष- -पात् वाध ३,५७.
घर्षण- -णम् काध २७७ : ८.
घृष्वि^० - पाठ ४,५६.
?घृष्वचमस- -साय वाघृश्रौ ३,
९८ : १.
घोट^० - >घोट-प्रकार^० - -रे आपश्रौ
१५,३,१२; माश्रौ ११,३,७.
घोणा- पाग ४,१,५६.
१घोर,रा^० - पाठ ५, ६४; पाग ८,
१, ६७; -रः काश्रु २८, ४१^०;
†कौसु; -रम् वाश्रौ १, २, ३,
२९१; आश्रु; -†रा शाश्रौ
१०, ३, ५; ६, ७; वौश्रौ १७,
४४ : ५; वौश्रु; -†राः आपश्रौ
५, १५, ३; १७, ८××; वौश्रौ;

-राणि सु ५, ४; वैश्रु १, ६; ६१;
कौसु; -†रात् आश्रु २, ५,
३ : १९; वौश्रु; -रात् वैघ ३,
१५, १२; -राभिः माश्रौ ५, १०,
१३; वैश्रौ; -†राम् द्राश्रौ १०,
३, ४; लाश्रौ ३, ११, ३; -†राय^१
आश्रौ २, ७, ७^०; शाश्रौ ४, ५, १;
वौश्रौ; -रे अप ९, ४, १; वौघ;
-†रे माश्रौ ५, १, ८, १३;
अशां १५, ५; -रेभ्यः अप ४०,
३, ३१; -रेषु अप २४, १, ५;
३१, ८, ५; ६९, ४, ३; -रेः विघ
४३, ३३; ३६.
घोर-ख्यान^० - -नाय या ६, ११.
घोर-चक्षस्^० - -क्षसे या ६, १११.
घोर-तारक- -काः अप ५२, ७, ४.
घोर-रूप^० - -पम् वौश्रौ २, १५ :
४^०; २०, १६ : ३; -पाः अप
३, ३, ७.
घोर-वृक्ष- -क्षाणाम् अप ३१,
९, २.
घोर-स्तनित-दीर्घता- -ता अप
६४, ७, २.
घोरा(र-आ)चार->^०रिक्- -कः
वैघ १, ५, १; ५.
घोरा(र-अ)न्त^० - -न्तम् वैश्रु ३,
४ : ३.
२घोर^० - -रम् आश्रौ १०, ७, ४; शाश्रौ
१६, २, १२.
३घोर^० - -रः ऋअ २, ३, ३६; -रम्
आश्रौ १२, १३, १; -राणाम्
चाअ ३ : २; ४२ : २.
घौर- -०र आश्रौ १२, १३, १;

a) विप. 1 वस. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) पाभे. वैप १, १२७७ p द्र. 1 d) पाभे. वैप १, १२७८
० द्र. 1 e) विप. > नाप. (समुद्र-) 1 f) तुस. उप. < √उद् 1 g) उप. < √वस [निवासे] 1 h) = √घण्
इति BPG. 1 i) व्यप. 1 व्यु. ? 1 j) नाप. (अश्व-) 1 व्यु. ? < √घुद् इति अभा. 1 k) पाभे. वैप २, ३ खं.
घोपः मंत्रा १, १, ३ टि. द्र. 1 l) पाभे. वैप १, ११८३ 8 द्र. 1 m) अघोराय इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. मा २, ३२ मै १, १०, ३) 1 n) वा. क्वि. 1 o) = मन्त्र-विशेष- 1 p) = ग्रन्थ-विशेष- 1 व्यु. ? 1

-रः ऋअर, १, ३६; ८, १; वृदे ६, ३९; शुअ ४, ३९; साअ १, ५४; ५९; १३६; १८६; २२१; ५४०.

घोर-घुच- -त्रौ वृदे ६, ३५.

१-रघोप- प्रभृ. ✓घुप् द्र.

घोपत्^१ आपश्रौ १, ३, ३; ९, ९, ६; वौश्रौ १, २ : ३; भाश्रौ.

घोपि- प्रभृ. ✓घुप् द्र.

घौर- ३घोर- द्र.

घौषक- घौषस्थलक- , घौषेय- ✓घुप् द्र.

घन्त- प्रभृ. ✓हन् द्र.

घंस्त^१ -लः अप ४८, १११^b; निघ १, ९^b; या ६, १९^क; -सम् या ६, ४^क; ३६^क; -से या ६, १९^क.

घंस-विलीन- -नेन कौस् ४८, ३९.

घंस-श्रुत- -तम् कौस् ४८, ३९.

१घ्रन्^१ वैताश्रौ ४, ८^क.

✓घ्रा^१ पाधा. भ्वा. पर. गन्धोपादाने, जिघ्रति वैरु ३, २२ : ९; जिघ्रेत् शाश्रौ ७, ८, १२.

१घ्राण^१ - पा ८, २, ५६.

२घ्राण^१ -णम् कप्र १, १, ६; २, १, ९; शंघ ९७; चव्यु २ : २६; शैशि ३५८; -णयोः आमिगु ३, ४, २ : १०; -णे अप ९, १, ४; -णेन वैध १, ११, ८.

घ्राण-वत् कप्र १, ८, १३.

घ्राण-संमित- -तः पाठ २, ५, २८; वाध ११, ५७.

घ्राणा(ण-अ)न्त- > ण्तिक-

कः कौरु २, १, २१.

घ्राणवत्^१ - पा ८, २, ५६.

घ्रात^१ - पा ८, २, ५६; -तम् शंघ

१८३; विध २३, ३८; ५१, १७.

घ्रातवत्^१ - पा ८, २, ५६.

घ्राति- -तिः विध ३८, २.

जिघ्र^१ - पा ३, १, १३७; -घ्रेण वौश्रौ १, १८ : ८.

ङ

ङ^१ शुप्रा ८, ८.

ङ-कार- -रः ऋप्रा ६, १५; तैप्रा ९, १८; -रस्य माशि १४, २;

-रे ऋप्रा ४, १६; माशि १४, २. ङकार-णकार-नकार- -रेषु हिश्रौ २१, २, ३३.

ङकार-परिवर्जित- -तः याशि २, ७०; -ताः माशि १०, ९.

ङकार-श्रवण- -णम् शैशि ३०२.

ङकारा(र-अ)न्त^१ -न्तम् शैशि ३०१; ३११; भाशि ५९; -न्ते याशि २, ४१.

ङकारा(र-अ)वग्रह^१ -हाणि अप्रा २, २, २४.

ङ-ज-ण-न-म- -माः याशि २, ९४.

ङ-ण- -णे याशि १, ६२.

ङ-ण-न- -नाः शौच ३, २७; -नानाम् शौच १, ४७; -नेभ्यः शौच २, ९.

ङणना(न-अ)न्त- -न्ते माशि ४, ११.

ङ-ण-न-म- -मम् माशि १४, ६.

ङ-न- -नौ शैशि २९३; २९४.

ङ-न-वत्- -वन्तौ उस् ७, १६.

ङ-पूर्व- -र्वः तैप्रा ५, ३२.

ङ-श- -शयोः शैशि ३१३.

✓ङु पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.

च

च^१, > चा शाश्रौ १, १, ९; काश्रौ १, १, ७; आपश्रौ; आपमं २, २, ८^क; या १, ४; ऋप्रा ८, ३२^क पाग १, ४, ५७; पाप्रावा ८, १; फि ८४; चे शुप्रा ४, ७; ऋत ४, २, ४.

च-कार- -रः शैशि २६३; २७३; ३१९; -रम् ऋप्रा ४, ११; १८; तैप्रा ५, २२; ऋत ४, ५, ७; -रेण शुप्रा ४, २५.

चकार-करण- -णम् पावा ५, १, १२०.

चकार-प्रतिषेध- -धः पावा १, ३, ७.

चकार-वर्ग- -र्णम् शुप्रा ४, ९६; -र्णे शुप्रा ४, ९६.

चकारवर्गीय-> णीयो(य-उ)दय^१ - -यौ ऋप्रा ५, १३.

चकारा(र-आ) दि- -दयः याशि २, १.

च-ङ- -ङयोः शुप्रा ३, ७; १३४.

च-ञ-ज- -जेषु शैशि ३०९.

च-ट-न्त-वर्ग- -र्णेषु शौच २, २६; -र्णेः शौच ३, ९४.

च-ट-वर्ग- -र्णयोः शौच २, १४.

च-पर^१ - -रः तैप्रा ५, ४; २०; -रे उस् ६, २; अप्रा १, १, १४.

च-योग- -गाव् अप्रा १, १, २१.

चयोग-वाचचना(न-आ)नर्थ-क्य- -क्यम् पावा २, १, १.

च-ल-भो(म-उ)दय- -यम् ऋत ४, ४, ५.

च-वर्ग- -र्णः शुप्रा ८, ९; शौच १, ७; -र्णे तैप्रा २, ३६; शौच २,

a) वैप १ द्र. । b) अहर-नामन- । c) पा २, ४, ७८; ७, ३, ७८; ४, ६; ३१ परामृष्टः द्र. । d) निष्ठयां वा नत्वम् । e) = नासिका- । f) विप. । वंस. । g) पा. कर्तरि, वौश्रौ. भावे कृत् । h) = वर्ण-विशेष- । i) = वर्ण-विशेष- । समुच्चयार्थे अन्व. । j) पाभे. वैप १, १३१८ j द्र. ।

३९; शैशि ९७; याशि २, ३५.
 चवर्गीय- ये शौच २, ११.
 च-वा-योग- गत् अप्रा १, १, १४;
 -गे अप्रा १, १, १५; पा ८, १,
 ५९.
 च-वा-हा(ह-अ) है(ह-ए)व-युक्त-
 -क्ते पा ८, १, २४.
 ? चवैवाव्यतानि^१ अप्रा १, १, १४.
 चा(च-आ)दि- -दिभिः पावा २,
 १, १; -दिषु पा ८, १, ५८.
 चादि-लोप- -ये पा ८, १, ६३.
 चा(च-अ)नुबन्ध^२- -न्धः पावा ८,
 १, ६९.
 चा(च-अ)ह-लोप- -पे पा ८, १, ६२.
 ✓चक्^३ पाधा. भ्वा. आत्म. तृप्तौ प्रति-
 घाते च.
 चकित^४- -तः कप्र २, १, १६.
 चकद्र- , चकद्राति ✓कद्रा द्र.
 चकन^५- पाग ६, २, १३४.
 चकमान- ✓कम् द्र.
 चकान- ✓कै द्र.
 च-कार- प्रम्. च द्र.
 ✓चकास्^६ पाधा. अदा. पर. दीप्तौ,
 चकासति सु ४, २.
 चकवस्- ✓कृ द्र.
 १चकोर^७- पाठ १, ६४.
 २चकोर^८-> चकोर-भीमांग्रथ^९-
 -थाः अप ५६, १, ५.
 ✓चक्क् पाधा. सुरा. उभ. व्ययने.
 चकन- चकन- टि. द्र.

चक्र^{१०}- पाठना ५, ५३; पाग २, ४,
 ३१; ४, १, ११०^१; २, ८०^२; ३,
 १०४^३; ५, १, १२३^४; पावा ६, १,
 १२; -क्रः वौगृ १, १०, ६^५; -क्रम
 आश्रौ ९, ९, ८; शाश्रौ ७, १५, २;
 आपश्रौ ५, १४, ६; १८, ४, १०;
 वौश्रौ १४, १२ : ३ ११^६ × ×; भाश्रौ;
 कागृ २९, ११^७; वागृ १५, २२^८; ५,
 ४; शांश्रौ १, १५, ४; -क्रस्य आश्रौ
 ४, ९, ३; अप ७२, २, ६; -क्रा
 शाश्रौ ५, १३, ३; वौपि १, १० :
 १८; -क्राणि आपश्रौ ११, ७,
 २१; भाश्रौ २, २, २, १३; हिश्रौ
 ७, ५, ११^९; लाश्रौ १०, ५, १३^{१०};
 -क्राम्याम् आश्रौ ९, ३, ५; अप
 २३, ५, २; -क्रे आपश्रौ १, १७,
 ८; वौश्रौ; या ४, २७^{११}; -क्रेण
 अप १३, ३, ९; विध ८६, १०.
 १चक्री^{१२}- -क्रिया या ३,
 २२^{१३}.
 चक्री-वत्^{१४}- पा ८, २,
 १२; -वत् आश्रौ ३, १०, १०;
 शाश्रौ १३, २९, ३; आपश्रौ १५,
 २०, १८; भाश्रौ ११, २१, १८;
 माश्रौ २, ४, ५, १२; -वति शाश्रौ
 ३, ४, २; काश्रौ २५, ४, २०;
 -वती वौश्रौ १६, २९; ७; हिश्रौ
 १७, ८, ५; -वन्तम् भागृ ३, ६,
 २२; -वन्ति आश्रौ १२, ६, ५;

काश्रौ २४, ३, २६; ५, २६; आपश्रौ
 २३, १२, १३; हिश्रौ १८, ४,
 २८; लाश्रौ १०, ५, १३.
 चक्रीवत्-ता- ता
 लाश्रौ १०, १५, ९.
 २चक्री^{१५}- -क्री मागृ १, १४,
 १२^{१६}.
 चाक्र- पा ४, ३, १०४.
 चाक्रायण- पा ४, १, ११०.
 चाक्रेय- पा ४, २, ८०.
 चाक्रेय- पा ५, १, १२३.
 चक्र-काल-वृद्धि- -द्धिः गौघ १२,
 ३१.
 चक्र-कृत^{१७}- -तान् कौसू ८३, २.
 चक्र-चर-त्व- -त्वम् वौध ३, १, ३६.
 चक्र-ण(, न)दी-, चक्र-णि(, ति)
 तम्बा- पावाग ८, ४, १०^{१८}.
 चक्र-नुण्ड^{१९}- -ण्डः सु २३, ४.
 चक्र-दुन्दुभि- > ष्य^{२०}- -भ्याः
 काश्रौ १४, ३, १३.
 चक्र-धर- पाठवृ २, २२.
 चक्र-ध्वज-वेदमा (रम-आ) वसय-
 प्रासादा(द-अ)ग्र- -ग्रे अप ७२,
 २, २.
 चक्र-पाणि^{२१}- -णिः अप ६७, ६, ७.
 चक्र-पाल^{२२}- (> चाक्रपालेय- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 चक्र-पिशङ्ग- -ङ्गौ वौश्रौ १७, १८ :
 ५.
 चक्र-युक्त- -क्ते या ३, २२.

a) पाठः ? च-वै-वाव-युतानि इति संस्कृतुः टि. शोधः । b) विप. । वस. । c) या ४, २७ परानुष्टः
 द्र. । d) = भीत- (= परिवर्जुक्र- [तु. सकर्तृ- इति काचित्कः मूको.]) । e) अर्थः व्यु. च ? । तु. पाका.;
 चकन- इति भारण्डा.; चकन- इति [पक्षे] पाका. । f) पा ६, १, ६ पावा ३, १, ३५ परानुष्टः द्र. । g) = पक्षि-
 विशेष- । व्यु. ? । h) = देश-विशेष- । व्यु. ? । i) द्रस. उप. स्वरूपम् ? । j) वप्रा. । k) वैप १ द्र. ।
 l) = ऋषि-विशेष- । m) अर्थः ? । चकं- इति पाका. । n) तु. पागम. । o) तु. पाका., चक्र- इति भारण्डा. ।
 p) = सर्प-विशेष- । q) सपा. चक्रमिवाणुडुहः < > चक्रीवाणुडुहौ इति पाभे. । r) वैप १, १२९५ b द्र. ।
 s) विप., नाप. (रासभ- शकट- प्रम्.), व्यप. [पा.] । t) = चक- । u) पूष. = [पंजा.] चक्री । v) = ष्य-
 इति भारण्डा. । w) विप. (मन्त्र-) । x) अर्थः व्यु. च ? ।

चक्र-रूप- -पम् अप ७०^३, ५, २.
 चक्ररूपिन्- -पी विध २८, २.
 चक्र-वत् अप ५८^२, २, ७; ६४, १, ५;
 आपध २, २, ३; हिध २, १, २, ५;
 वृदे ४, ३, ५.
 चक्र-वत्- -वल्सु वीध १, २, ३, ५.
 चक्र-वर्तिन्- -र्तिनाम् वृदे ५, १२३.
 चक्र-वर्मन्- -र्मनी द्राश्री ५, ४, १, १.
 चक्र-वर्मन्^३-> चाक्रवर्मण^३- -णस्य
 पा ६, १, १३०.
 चाक्रवर्मायण^३- -णाः वीश्रौप्र
 ३२ : १.
 चक्र-वाक^३- पाग ४, २, ८०^०; ६, ३,
 ११८; -कम् शंघ ४२६.
 चाक्रवाक- -कम् आमिगृ
 १, ५, ४:४०; कागृ २९, १; वीगृ;
 १, ४, ५; भागृ १, १७:१४; मागृ
 १, १४, १२; वागृ १५, २२; हिगृ
 १, २४, ६; २, ५, १.
 चाक्रवाक्ये- पा ४, २, ८०.
 चक्रवाक-व(त्<)>ती- पा ६, ३,
 ११८.
 चक्र-वाल^०- (> चाक्रवालेय- पा.)
 पाठभो २, ३, १०५; पाग ४, २,
 ८०.
 चक्र-संस्था(न<)>ना^१- -नाः अप
 ५८^२, ४, ७.
 चक्रा(क-अ) क्ति- -तः शंघ-१२९.
 च(क<)>क्रा-वत्- -वल्सु वाश्री १,
 ५, ४, ४०^०?
 चक्रा(क-अ)ह्य^१- -यैः माशि ४, ५.

चक्रिन्- -क्रिणः^० हिगृ २, ७, २४^६;
 -क्री^० आपमं २, १६, १४^६; भागृ
 २, ७ : २४^६.
 चक्रि-दशमीस्था(स्थ-अ)नुग्राह-
 वधू-सातक-राजन्- -जस्यः गौध
 ६, २, ५.
 चक्रत्- ✓कृ द्र.
 चक्रति अप ४८, ५२^१.
 चक्रि- ✓कृ द्र.
 चक्रिक^१- -कः वैध ३, १४, ६.
 रचक्रिन्^१- -क्री वैध ३, १३, १२.
 चक्री-वत्- चक्र- द्र.
 चक्रु- ✓कृ द्र.
 चक्रन- चकन- टि. द्र.
 ✓चक्षु^१ पाधा. अदा. आत्म. व्यजायां
 वाचि, दर्शने, चष्टे अप ४८, २^१;
 निघ ३, १, ११^१.
 चक्षस्- पाठ ४, २३३; -क्षसा
 आश्री ३, ८, १; शाश्री ११, १४, ४;
 या १२, २२-२५; ऋप्रा १, १००;
 -क्षसे^३ आश्री ८, ६, ८; वीश्री
 ६, १६:१३; भाश्री १०, २०, ४;
 हिश्री १०, ३, ३०; जैश्री ६:४^६;
 १२:३; द्राश्री २, ३, ५^६; ताश्री
 १, ७, ५^६; आपमं २, ७, १३; या
 ९, २७^६.
 चक्षु^३- -क्षोः आमिगृ २, ७, ८:१२^१.
 चक्षु-निरोध- -धः आपध २, २७,
 १७^१.
 चक्षु-निष्पत्ति- -त्तिः आज्यो
 १२, ११.

चक्ष्वा(क्षु-आ)दि- -दि आमिगृ
 १, ६, ३ : १४.
 चक्षुस्^३- पाठ २, ११९; पाग ५, ४,
 ३८^३; ५१; -क्षुः आश्री १, ४, ९;
 १३, १; ३, ३, १^३××; शाश्री १, ६,
 २××; ५, १७, ३^३; काश्री; आपश्री
 ५, १२, १^०; ६, १९, १^३; ७, १, २^३;
 १६, ३२, ३^१; वीश्री २, १७:३९^०;
 हिश्री ३, ४, १२^०; ४, १, ४^३; ६,
 ६, १७^३; वैताश्री २६, १^६;
 आमिगृ ३, ६, १ : ६^३; या ४,
 ३^६; -क्षुभिः अप ४८, ३९^१;
 -क्षुभ्याम् आपश्री १२, १८,
 २०^१; वीश्री; -क्षुषः आश्री ८,
 १४, १८; काश्री; -क्षुषा-आश्री
 १, १३, १××; शाश्री; माश्री १,
 ६, ३, १८^६; आपध २, ५, १९^६;
 -क्षुषाम् वैताश्री ९, २७^१;
 -क्षुषि वाधूश्री ४, ३७ : १८;
 जैश्री १२ : ५; आमिगृ १, १, ३:
 ३१^१; हिगृ १, ५, १३^१; -क्षुषी
 आश्री ६, ९, ३; शाश्री; पावा ५,
 २, ३३; -क्षुषे आश्री ६, ९, १;
 काश्री; -क्षुषोः आपश्री १०,
 १४, ९^१; १२, २५, १; माश्री;
 -क्षुषि शैशि २७८^१.
 चक्षुष- पां ५, ४, ३८;
 -०प अप्रा ३, १, १३^१; -पः
 वृदे ८, ११९.
 चक्षुः-श्रोत्र- -त्रे वाश्री १, १,
 ३, १६; वागृ १२, २.

a) व्यप. । b) वैप १ द्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) विप. । वस. । e) पाठः ? क्री^० इति
 संस्कृतेरभिमतः शोधः । f) = चक्रवाक- । वस. । g) परस्परं पामे. । h) = [चौयति] शूद्रायां जात- । व्यु. ? ।
 i) = [गूढाद्] ब्राह्मण्यामुत्पन्न- । व्यु. ? । j) या १, ९; ४, ३ पा, पावा २, ४, ५५ परामृष्टः द्र. । k) पामे. वैप १,
 १२९६ C द्र. । l) सपा. क्षुनि^० <> क्षुर्नि^० इति पामे. । m) वक्षस्- इति [पक्षे] पाका. । n) पामे.
 वैप १, १२९६ j द्र. । o) पामे. वैप १, १२९७ d द्र. । p) पामे. वैप १, १२९५ S द्र. । q) पामे. वैप १,
 १२९७ b द्र. । r) पामे. वैप १, १२९६ m द्र. । s) पामे. वैप २, ३खं. ज्योतिषा तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. ।
 t) सपा. चक्षुषा त्वक्^० <> चक्षुस्त्वक्^० इति पामे. । u) पामे. वैप १, १२९८ d द्र. ।

चक्षुरा(इ-आ)दि-विनाशि(व>)
नी- नी अप २३, ३, ५.
चक्षुर्दणो^३-कर्म-वक्त्र- -त्राणि
जैश्रीका १४१^३.
चक्षुर्दा- -दाः आपश्रौ १७,
५, १६; वैश्रौ १८, २१ : १६१^३;
हिश्रौ ११, ८, १०.
चक्षुर्-निमित्त, ता- -ता वौश्रौ
२०, २५ : ३१; -ते वौश्रौ २,
१२ : २४; भाश्रौ ५, २, १७.
चक्षुर्-निरोध- -धः हिष २, ५,
२३६^३.
चक्षुर्-मुख- -खौ सु २४, २.
चक्षुर्-विषय^३- -ये शाश्रौ २,
१४, १०; विष २८, २३.
चक्षुश्-श्रोत्र-स्वग्-घ्राण-मनो-
व्यतिक्रम- -मेपु वौष ४, १, ५.
चक्षुष्-काम- -मः आपश्रौ ७,
१, १६; ८, १९, ५; वौश्रौ १३,
६ : ११; १५ : ९; ३० : २;
-मस्य माश्रौ ५, १, ६, २७; २,
२, १९; हिश्रौ २२, ३, ५; ४, १९;
माश्रु १, ४, १६.
चक्षुष्-पा- -पाः आश्रौ ५, ६,
७; शाश्रौ ४, ७, १२^३; ८, ४, ६^३;
काश्रौ ३, ६, १४; वौश्रौ १, १९,
३२××; भाश्रौ; -पाम्याम् वौश्रौ
७, १२ : ३७.
चक्षुष्-मत्- -मते^३ आपश्रौ

२१, ४, १; आश्रित २, ४, २ : ५;
माश्रु २, १८, २; याश्रु १, ७; -मान्
आपश्रौ ४, ९, ९; ११^३; वौश्रौ
३, १८ : १२^३; भाश्रौ ४, १३, ४^३;
१४, १^३; २^३; माश्रौ १, ४, २,
१^३; वाश्रौ १, १, ३, २^३; हिश्रौ
६, ३, २^३; विष ९२, १५९.
चक्षुस्-त्वक्-शिक्षो(श्र-उ)द्वारा-
(र-आ)रम्मण^३- -णात् हिष
२, १, १०१^३; १०, १५८.
चक्षुस्^३- -क्षुः ऋञ्ज २, ९,
१०६.
चक्षुष्- ऋञ्ज २, ९, १०६;
-षः साव १, ५६७; २, ११२;
११७६; -क्षुष्म शेष ११६;
४५^३.
चक्षुस्-, चक्षु-, चक्षुस्- √चक्षु
द्र.
चक्षुक्कुण^३-> चाकुण्ण- -गस्य चाञ्च
३८ : १३.
चक्षुक्कुर- पाठ १, ३८.
चक्षुक्कमा^३; -म्यमाण- √कम् द्र.
चक्षु-चञ्ज- च द्र.
√चक्षु पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
चञ्ज^३- (>चञ्ज-क- पा.), चञ्जत्-
(>त्व-क- पा.) पागवा ५, ४, ३.
चञ्जरीक- √चर् द्र.
चञ्जलीक- √चल् द्र.
चञ्जा^३- पाठमो २, २, ८२^३; -ञ्जा

पा ५, ३, ९८.
चञ्जु- पाठमो २, १, ७.
√चक्षु पाधा. डुरा. उभ. भेदने.
चक्षुक्क, क्ता^३- पाठमो २, २, ७; पा,
पाग ४, १, ४; पावाग ७, ३, ४५.
चाटकैर- पा ४, १, १२८.
चक्षुक्-विद्युद्-वज्र-निर्घात-
प्रपतन- -ने काघ २७५ : १०.
चक्षुक्^३- (> चाटकायन- पा.)
पाग ४, १, ९९.
चक्षु- पाठमो २, ३, ३८.
चक्षुत्वर्ग-, चक्षुवर्ग- च द्र.
चक्षुस्- पाठमो २, ३, १७३.
चक्षुक्कु- पाठमो २, १, ४०.
चक्षु^३- पाठमो २, १, ७५; पाग १, ४,
५७^३; ५, २, ९७.
चक्षु- पा ५, २, ९७.
चक्षु पाग १, ४, ५७.
√चक्षु पाधा. भ्वा. पर. गतौ दाने च.
चक्षुक्^३- (> चाणक्य- > चाणक्य-
पा. यक्र.) पाठमो २, २, ७; पाग
४, १, १०५^३; २, १११^३.
√चक्षु पाधा. भ्वा. आत्म. कोपे.
चक्षुक्^३- पाठ १, ११४^३; पाग ४, १,
४५; ५, १, १२२; ४, २९; -ण्डाः
अप ६४, ३, १०; नाशि १६, ५;
याशि २, १००; नाशि २, ८, १४;
-ण्डात् चक्षु ३ : १२.
चक्षु- पा ४, १, ४५;

a) = नस्- । लोटं छान्दसं द्र. । b) क्ताणि इति पाठः? यनि. शोधः । c) द्वा इति पाठः?
यनि. शोधः (तु. हिश्रौ.) । d) पामे. पृ १०४३ । द्र. । e) पस. । f) पामे. वैष १,
१२९८ h द्र. । g) पामे. वैष १, १२९९ c द्र. । h) पामे. वैष १ परि. वञ्जदः तै १, ६, २, ३ टि. द्र. ।
i) विष. (आलाव-) । द्रस. > वस. । j) पामे. पृ १०४३ t द्र. । k) ष्रभाणि इति पाठः? यनि. शोधः ।
l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) = सन्वन्तराऽन्यतन- । n) तु. पागम. । o) = वृणम्य-पुद- । व्यु. ? ।
p) < √चि इति । q) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? < √चट् इति अभा. प्रच. । r) = चक्षुस्-कुरण- [चटचट] ।
s) व्यप. । व्यु. ? । t) = प्रियाऽऽजाप- । व्यु. ? । u) < √चट् इति । v) तु. पाका. । चाटु- इति भारुडा. ।
w) अत्र्य. । = चेट् इति पासित. । x) √चण् इति निभाषयेति पावाग ७, ४, ३ । y) चण- इति पाका. ।
चणक- इति [पक्षे] भारुडा. । z) विर., नाप. । a^३) < √चण् इति ? ।

-ण्डि सु ३, ४.

१चण्ड- पा ५, १, १२२.

चण्ड-क- पा ५, ४, २९.

चण्ड-ता-, चण्ड-त्व- पा ५,
१, १२२.

चण्ड-पवन- -ने विध ३०, ७.

चण्डिमन्- पा ५, १, १२२.

२चण्ड^a-(> २चण्ड- पा.) पाग ४,
१, ११२.चण्डातक^b- पाउमो २, २, ४२;
-कम् काश्री १४, ५, ३.चण्डाल^c- पाउ १, ११७; पाग ४,
१, ७३; ३, ११८; -लः वीध १,
९, ६; वैध ३, १४, ७; -लम् कौय
२, ७, २३; शांठ २, १२, १०; ६,
१, ३; वीध १, ५, ५२; १२२;
-लात् वैध ३, १५, ११;
-लानाम् विध^d १६, ११; १४;
-लैः सुध १६.चण्डाली- पा ४, १, ७३;
-लीम् शंघ ४४२^e; वीध २, २,
६७.चण्डाली-गमन- -ने विध
५३, ५.चण्डाली-न्यवाय- -यः
वीध २, २, ६६.चण्डाल्य(ली-अ)वकी-
र्णिन्- -र्णी शंघ ३७८.चाण्डाल- पावा ५, ४, ३६;
-लः वाध १८, १; आपध २,
२, ६; हिध २, १, १२८.चाण्डाली- > ली-
पुकसी-गमन- -ने शंघ ३७७ :

१८.

चाण्डाली-न्यवाय-

-यः वाध २३, ४१.

चाण्डाल-स्लेच्छ-संभाषण-
-णे विध २२, ७६.चाण्डाल-संयुत- -ते कौसू
१४१, ३८.चाण्डाला(ल-अ)ग्नि- -श्री
अप ३१, ९, २.चाण्डाल-पतिता(त-अ)ज्ञ-
भोजन- -नेपु वाध २०, १७.चाण्डाला(ल-अ)ज्ञा(ज्ञ-अ)
द- -दः अप २, ६, ३:चाण्डालो(ल-उ)पस्पर्शन-
-ने हिध २, १, ३०^o.

चाण्डालक- पा ४, ३, ११८.

चाण्डालकि- पावा ४, १, ९७.

चण्डाल-दर्शन- -ने सुधप ८६:
१४^f.चण्डाल-पतित-स्पृष्ट- -ष्ट रू वीध
१, ५, ५४.चण्डाल-पतिता(त-आ)दि-दर्श^g-
-र्शे आमिष्ट २, ७, ८ : ९.चण्डाल-प्रेक्षित- -तम् सुध ६१.
चण्डाल-वत् वैध ३, १५, ११.चण्डाल-वैदेहक-सूत- -ताः विध
१६, ६^d.चण्डाल-शव-यूपा(प-आ)दि- -दि
शंघ १००.चण्डाल-सूतिक-पतिता(त-उ)दक्या-
शव-स्पर्शन- -ने सुध ३२.चाण्डाला(ल-आ)दि-स्पृष्ट- -ष्टानाम्
काध २७८ : ५.चण्डाला(ल-२आ)घ- -घैः विध
२३, ५०^d.चण्डाला(ल-अ)न्त^b- -न्तैः वैयु ७,
४ : १०.चण्डाला(ल-अ)ज्ञ- -ज्ञम् विध ५१,
५७^d.चण्डाला(ल-अ)वेक्षित- -तम् सुधप
८८ : ४.चण्डालो(ल-उ)पस्पर्शन- -ने आपध
२, २, ८^o.

चण्डाला- पाउवृ १, ५७.

✓चत्(वधा.)¹ पाधा. भ्वा.उभ.याचने,
नाशने[या.], चतति निध २, १४^f;
चातयसि या ४, २५; चात-
यामः या ६, ३०; चातया-
मसि या ६, ३०^f; ऋचात
यत्^k आपध १२, ३, २; हिश्री
८, १, ४१.चत्, ता- पा ७, २, ३४; -ऋत्ता
वृदे ८, ६०¹; -ऋत्ताय आपध १
२१, १२, ९; वाश्री ३, २, २, ३६;
वैताश्री ३४, १.

चत्य- पावा ३, १, ९७.

चातन^m- -नः अप ३२, १, ३; ३३,
६, २; अशां २३, १; अश्रभू २;
अश्र १, ८; १६; २८××; -नम्
अप १९³, ४, २; -नानाम् कौसू
२५, २२; ८०, १२; -नानि कौसू
८, २५; १३६, ९; अप ३२, १,
३; -नेन अप २१, ६, ८; अशां
२१, १; -नैः वैताश्री ५, १०;
अप ३३, ५, ६.

चातन-नाण- -णस्य अश्रभू २.

a) व्यपः । व्यु. ? ।

b) = [अर्धोरुक-] वस्त्र-विशेष- । व्यु. ? ।

c) नाप. । व्यु. ? ।

d) चा° इति जीसं. ।

e) सपा. चाण्डा° <> चण्डा° इति पाभे. ।

f) पाभे. पृ ४२४ d द्र. ।

g) द्रस. > वस. > पस. उप. = दर्शन- । h) विप. । वस. । i) वैप १ द्र. । या ६, ३० परामृष्टः द्र. । j) गती
वृत्तिः । k) पाभे. वैप २, ३३. चातयत् तैत्रा ३, ७, ९, १ टि. द्र. । l) वैप १, १२९९ k द्र. । m) = ऋषि-विशेष-
[अश्र.], गण-, सङ्ग- प्रभृ. [अप. अशां. कौसू.] ।

चतुर्^० -> चतस्- पा ७, २, ९९;
पाग ४, १, १०; -सरि पावा ७, २,
९९; -सृणाम् काश्रौ १७, ७, १४;
वौश्रौ ८, १० : १४××; माश्रौ;
पा ६, ४, ४; -सृभिः आश्रौ २,
१३, ९; शाश्रौ ४, ११, ६××;
काश्रौ; -सृभिःऽसृभिः आपृष्ट
२०, २; हिष्ट ६, ३९; -सृभ्यः
आपृश्रौ १३, १०, ११; १९, ६;
वौश्रौ; -सृषु शाश्रौ १४, ६१,
२; आपृश्रौ; -सृषुऽसृषु काश्रौ
१७, ३, ३; आगृ ४, ८, २२;
-सृः आश्रौ २, ४, १३××; शाश्रौ;
-सृःऽसृः काश्रौ १०, २, २४;
वौश्रौ १५, २२ : १६××;
माश्रौ ६, २, ५, २७; हिश्रौ.
चतुर्^१ - पाठ ५, ५८; पाग ५, ४,
१०७; -तुरः आश्रौ २, १६,
९; ११, ७, १०; शाश्रौ ५,
१, २××; काश्रौ; -तुरःऽतुरः
आपृश्रौ १७, २६, ४; २३, ११,
३; वौश्रौ; -तुर्णाम् आश्रौ ७,
५, ९××; शाश्रौ; -तुर्भिः आश्रौ
८, १, ११; १०, ३, २२; काश्रौ;
-तुर्भिःऽतुर्भिः वौश्रौ २१, १ :
३३; वैताश्रौ १६, ६; -तुर्भ्यः
आश्रौ २, १०, १८; आपृश्रौ;
-तुर्भ्याम् हिष्ट ६, २४; -तुर्षु
आश्रौ १०; २, ३०; शाश्रौ;
-तुर्षुऽतुर्षु वौश्रौ २८, ८ : १३;
वैश्रौ.
चतुः-कृष्णलो (ल-ऊ)न- ने
विध ९, ८.
चतुः-पारायण- -णम् चव्यू
१ : ६.
चतुः-प्रमा (ण>)ण^० -णा
काश्रु ३, ६.

चतुः-प्रस्थ^० -स्थम् अप. ३३,
३, ३.
चतुःप्रस्थो (स्थ-उ) दक-पू-
(ण>)ण^० -णा वैश्रौ ११,
९ : ८.
चतुर्-अक्ष^० -क्षः वौश्रौ १५,
१ : १५; वाधृश्रौ ३, ६९ : ३८;
-क्षम् काश्रौ २०, १, ३६†;
आपृश्रौ; -क्षौ हिपि १८ : ८†.
चतुरक्षी- -क्षी अत्र ५,
१९†.
१चतुर-अक्षर- -रम्ऽरम्
निसू ४, १० : ५; -राणि आश्रौ
६, ४, ६; शाश्रौ ९, १८, २; तुसू
१, ५ : ५; २५; ६ : २६; -रात्
ऋप्रा १७, १९; ४४.
चतुरक्षर-शस् (ः) लाश्रौ ७,
७, ९; ९, ११.
चतुरक्षरा (र-अ)धिक^० -
-कानि उनिसू १ : ४.
२चतुर्-अक्षर, रा^० -रः लाश्रौ
६, १०, २; ऋप्रा १६, ३३; -रम्
आश्रौ ६, ३, ८; ७, १, १२;
वाधृश्रौ; -रा वाधृश्रौ ४, ५० :
१; निसू १, ५ : ९; -राः आश्रौ
७, १०, ६; -रे शाश्रौ ९, ५,
१३; -रेण शाश्रौ ९, ६, ७-१०;
वाधृश्रौ ४, १०० : २३; निसू
२, १० : १६.
चतुरक्षर-ता- -तायाः निसू
१, १ : ७.
चतुर्-अङ्ग, ङा^० -ङ्गम् अप २६,
२, १; -ङ्गाम् अप ६८, २, २.
चतुर्-अङ्गुल, ला^० -लः काश्रु
७, २२; -लम् शाश्रौ १७, १०,
४; आपृश्रौ; -लम्ऽलम् काश्रौ
१६, ८, १८; -लाभ्याम् शाश्रौ

१७, १०, ४; -लाम् आपृश्रौ २,
२, ७; हिश्रौ १, ६, ९४; -ले
शाश्रौ १७, १०, ४; वौश्रौ ९,
३ : १८; १०, ५ : १७; हिश्रौ
४, ४, १३; -लेन वौश्रौ ४, २ :
३३; ६, २६ : २३; वैश्रौ.
चतुरङ्गुल-पृथ्वी- -थ्वीः
काश्रु ६५, ३; गोश्रु ४, २, १७;
विध २१, ४.
चतुरङ्गुल-मात्र- -मम् माश्रौ
१, २, ६, १२; -त्रेण वौश्रौ २६,
२३ : ७.
चतुरङ्गुल-मान^० -नेन अप
२५, १, १२; ३०^३, १, ९.
चतुरङ्गुल-विस्तार, रा^० -रम्
वैश्रौ ११, ८ : ९; -राम् वैश्रु
१, ८ : ११.
चतुरङ्गुलविस्तारो (र-उ)
न्न (त>)ता- -ता वैध १, ६, ५.
चतुरङ्गुला (ल^०-अ)प्र^० -
-मम् वैश्रु १, ८ : ६.
चतुरङ्गुलो (ल-उ)च्छ्र (य>)
या^० -या अप २२, २, २; -याः
माश्रौ १, २, १, ६.
चतुरङ्गुलो (ल-उ)स्से (घ>)
घा^० -घा वैध १, ६, ५.
चतुरङ्गुलो (ल-उ)न्न (त>)
ता- -ता वैश्रौ ११, ८ : ४;
-ताम् वैश्रौ १, १ : १६.
चतुर्-अङ्गुलि- > ण्लि-
स्तार- -रम् वैश्रौ १, २ : ५.
चतुरङ्गुलिविस्तारो-
(र-उ)न्न (त>)ता- -ताः वैश्रौ
१, ३ : ७; -ताम् वैश्रौ १, २ :
७, १२; वैश्रु १, ८ : १२.
चतुरङ्गुलि-विस्तारा (र-आ)
यत- -तम् वैश्रौ ११, ८ : ७.

चतुर्-अञ्जलि-मात्र- -त्रान्
गोष्ट २,१,१४.
चतुर्-अनीक^१- -कः ऋप्रा ५,
५३^१.
चतुर्-अनुतोद^२- -दम् निसू ३,
१२:१३; १७^३.
चतुर्-अनुवाक^३- -कम् अत्र
१८,१.
चतुर्-अनुपदुब्-अन्त^४- -न्तम्
ऋअ २,४,३७; ६,५९; ९,५;
१०,१६; ८७.
चतुर्-अन्त,न्ता^५- -न्तम् माश्रौ
१, ३, ३, २०^६; -न्ता विध
८७, ९.
चतुर्-अपस्त्राव^६- -वम् आपश्रौ
१८,१८, ५; वौश्रौ १२,१४:१५.
चतुर्-अभिष्टव^७- -वान् आश्रौ
११,७,२; १०.
चतुर्-अरवि,ली^८- -लितः काश्रौ
५,३, १२; ६, १, २४; आपश्रौ
७,२,१७; वौश्रौ; -लित् हिश्रौ
४, १, ४०; -लीम् वैश्रौ ९,४:
२; -ली वैश्रौ १०,२: ६.
चतुर्-अवत्त,त्ता^९- -त्तम् काश्रौ
३,३,११; आपश्रौ ११, १, १;
वौश्रौ; -त्तस्य वौश्रौ १३, २३:
९; २३, ३: १६; -त्ताम्
आपश्रौ ३,१,६; वैश्रौ ६,११:
२; हिश्रौ २,३,७.
चतुर्-वत्त-पञ्चावत्त- -त्ते
वाश्रौ १,१,१,४४.
चतुर्-वत्तिन्- -त्तिनः आपश्रौ
२, १८, ९; ७, २०, ११;
वैश्रौ ६, ८: ६; ९, ७: ११;

१२; -त्तिनाम् आपश्रौ ८, १५,
५; वौश्रौ २०, ५: ३२; भाश्रौ
८, १८, ३; वैश्रौ ९, ७: ८;
-त्ती भाश्रौ ७, १६, ५; गोष्ट
१,८,७; मीसू १०,७,७०^१.
चतुर्-अवदान^{१०}- -नस्य भाश्रौ
२,१८, १२; १९, ३×४; वाश्रौ.
चतुर्-अवर^{११}- -रान् वाष्ट ११,
२२.
चतुर्-अवरार्ध^{१२}- -र्धान् गोष्ट
४,२,६.
चतुर्-अवरार्ध्व^{१३}- -र्ध्याः द्राश्रौ
३,४,१; -र्ध्यान् लाश्रौ १, ११,
२५.
चतुर्-अवसा(न>)ना^{१४}- -ना
शुअ १, ३०४; २, ८१; अत्र
१०,५; १३,३; -नाः अत्र १३,
३^१; १९,३९; अर्प ३: ६९.
चतुर्-अवस्त्राव^{१५}- -वम् हिश्रौ
१३,६,१७^१.
चतुर्-अशीति- -तिः अर्प ५२,
२,२; ऋप्रा १६,९०.
चतुर्-अश्र,आ- पा ५,४,१२०;
-अः शाश्रौ १५,१,१६; आपश्रौ;
-अम् काश्रौ १६, ४, ९;
आपश्रौ; कौष्ट १,३,२^१; -अयोः
आपश्रु २, ६^२; हिश्रु १, २६;
२७; -अस्य आपश्रु १, १०;
७, ९; १३, ३; हिश्रु २, ५९;
४, ३५; -आ वैश्रौ ११, ८: ५;
अर्प; -आः आपश्रौ १७,२१,५;
माश्रौ ६, १, ४, ३९; वाश्रौ;
-आणाम् वौश्रु १८: ६; २१:
६; -आणि वौश्रौ २७,४: २९;

हिश्रौ १२,८,९; आपश्रु; -आत्
आपश्रु २,८; वौश्रु २: ३; हिश्रु
१,३०; -आन् वैश्रौ १४, १२:
४; हिश्रौ ७,७,२७; वौश्रु १९:
१; -आभिः वैश्रौ १८, १६:
३७,७६; आपश्रु; -आम् आपश्रौ
१६, ४, ७; ५, ४; वौश्रौ;
-आसु वौश्रु ६: २१; -अ
वौश्रौ २०, २५: ११; आपश्रु
८,३.
चतुर्-अ-करणी^१- -णी वौश्रु
२: २४.
चतुर्-अ-कृत,ता- -तस्य
वौश्रौ २६,१०: ३; -ताः वौश्रु
८: २३.
चतुर्-अ-चषा(ल>)ला^१-
-ले वौश्रौ २०,२५: ११.
चतुर्-अ-पा(घ>)घा^१- -घाः
वौश्रु १०: १९; २२; १२: ११;
१३: ६.
चतुर्-आ(अ-अङ्ग>)ङ्गी^१-
-ङ्ग्याम् काश्रौ १६, ५, ५.
चतुर्-आ(अ-आ)त्मन्^१-
-त्मा वौश्रु ८: २^१म्.
चतुर्-ओ(अ-उ)पलित- -से
वैध २,१४,७.
चतुर्-अश्रि^१- -श्रिः वौश्रौ २५,
३४: १; वैश्रौ १७, ७: ६;
-अश्रम् वौश्रौ ४, १: ३०; ११,
१: ५.
चतुर्-अष्ट(का>)क^१- -कः गोष्ट
३,१०,३.
?चतुर्(र-अ)ष्टादश- -शाः हिश्रौ
१७,२,४.

- a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) उप. अनु/तुद् + घञ् प्र. । d) विप. । कस. > वस. ।
e) सपा. चतुर्न्तम् <> चतुर्धा इति पाठे. । f) सपा. °पस्त्रावम् <> °वस्त्रावम् इति पाठे. । g) विप. ।
तद्वितार्थे द्विस. । h) मलो. कस. । i) तु. जीसं. । j) °र्ध्व- इति MW. । k) सपा. °अम् <> °अम् इति
पाठे. । l) मलो. कस. उप. = रज्जु-विशेष- । m) °आश्रा इति पाठः? यनि. शोधः ।

चतुर्-अक्ष,त्वा- -त्तः वाश्रौ ३,
१,१,७; काशु ७, २१; -त्तम्
काश्रौ ८, ५, २५; १७, ५, ३^३;
आपश्रौ १६, १४, १; माश्रौ;
शाशु १, ७, २^३; -त्वाणि कौसू
८५, ८; -त्वात् काशु ३, १;
-त्त्वाम् माश्रौ १, ७, ३, २१; ६,
११; -त्त्वे काश्रौ १६; २, २^०;
कौसू १३७, ७७.

चतुर्-अह^१- -हः काश्रौ २४,
३, २५; ५, ११; वाधुश्रौ;
-हम् आपश्रौ २१, ४, १३;
वौश्रौ १८, ३२ : ५×४; वैश्रौ;
-हम्-हम् आपश्रौ २१, ४,
१०; माश्रौ ४, ३, ५१; -हस्य
क्षुसू २, १२ : १०; -हाः आश्रौ
१०, २, २६; काश्रौ २३, २,
११; -हाणाम् वैताश्रौ ४१, १०;
-हात् आनिगृ २, ७, ४ : १०;
-हे शाश्रौ १३, १९, ५; काश्रौ
१३, १, ५; आपश्रौ ८, २०, १, ९,
८, ५; २१, १५, ५; वौश्रौ; -हेण
वौश्रौ १८, २३ : १६; -हौ वाध
२३, ४३.

चतुर्ह-तन्त्र- -न्त्राणि निसू
८, ९ : ६.

चतुर्ह-पञ्चाहा(ह-अ)हीन-
दशाह-छन्दोमदशाह- -हेषु
वैताश्रौ ४०, ४.

चतुर्हा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ
११, १, ११; शाश्रौ १३, १५, ७;
काश्रौ २४, १, १०; निसू ९, १० :
८.

चतुर्हो(ह-ऊ)न- -नान् वौश्रौ

२६, २६ : १२; १३; -नान्ऽ
-नान् वौश्रौ २६, २६ : ७.

चतुर्हो(ह-उ)पजन^०- -नाः
आश्रौ ११, ६; १५.

चतुर्-आण(व>) वा^०- -वा
याशि १, ११.

चतुर्-आवृत्- -वृताम् निसू १०,
१ : ३३.

चतुर्-आवृत्- -त्तः वौश्रौ २६,
१६ : ९.

चतुर्-आश्रम- -पावाग ५, १,
१२४.

चातुराश्रम्य- -पावा ५, १,
१२४; -स्यम् वैध १, ९, ८.

चातुराश्रमी->°श्रमि-
न्- -मिणाम् वैगृ १, २ : १.

चतुर्-आहाव^१- -वाः शाश्रौ ७,
१४, ४; -वानि आश्रौ ५, १०,
११.

चतुर्-उक्थ्य^०- -क्थ्यम् काश्रौ
२४, ७, २३.

चतुर्-उत्तर^०- -रः अप ४ : २९;
-रम् ऋप्रा १६, ८; १७, १९;

-राः निसू १, ५ : १५; ९ :
७-१०; -राणाम् शाश्रौ ७, २७,
३०^३; -राणि शाश्रौ १८, ६, १;

वौश्रौ; -रे अप ५२, ४, ३;
-रैः लाश्रौ १०, ६, १२; निसू

५, ३ : २८; -रौ निसू १, ५ :
२; ऋप्रा १६, ७९.

चातुरुत्तर्य^०- -र्यम् निसू
५, ४ : १.

चतुरुत्तर-च्छन्दस्- -न्दः
निसू २, १३ : ७.

चतुरुत्तर-प्रयोग- -गः लाश्रौ
१०, ७, ४.

चतुरुत्तर-संपन्न- -न्ने लाश्रौ
८, ५, २५^{१६}.

चतुरुत्तर-स्तोम^१- -मः शाश्रौ
१५, १, ८; १६, ३, ७; -मम्
शाश्रौ १४, ६१, ११.

चतुरुत्तरीय- -यः वौश्रौ २६,
१० : २६^१; ३३ : ९.

चतुर्-उदकुम्भ- -म्भान् मागृ
२, १४, २४.

चतुर्-उदय- -यः वौश्रौ २६,
१६ : ९.

चतुर्-ऊच^१- -चः वृदे ६, १८;
-चम् शाश्रौ १२, ८, ३; निसू;

-चान् अप २ : ४५; -चानाम्
लाश्रौ ६, ४, १०; -चानि अप

२ : ६०; ८०; -चे अग्र १९,
३; -चेन अग्र १, १^३; -चैवेम्यः

अप ४६, १०, १; अग्र १९, २३.
चतुर्कच-प्रकृति- -तिः अग्र

२, १.
चतुर्कच-स्थ- -स्थे निसू ६,
३ : १६.

चतुर्-औदुम्बर- -रान् अप १८,
१, १२.

चतुर्-ग(ण>)णी^१- -णीम् अप
३१, ५, ५.

चतुर्-गव^१- -वाणि काश्रौ २२,
११, २; -वानि लाश्रौ ९, ४, १९.

चतुर्-नायत्र्य(त्री-अ)न्त^१-
-न्तम् ऋग्र २, ३, ५९.

चतुर्-गुण,णा- -णः अप ३६,
१५, १; -णम् काश्रौ ७, ७, ९;

a) °श्रम् इति चौसं. । b) पाप्मे. पृ १०४७ k द्र. । c) °श्रे इति चौसं. । d) पृ ८०५ b द्र. ।

e) विप. । वस. । f) विप. (होत्रकन्, शस्त्र-) । वस. । g) °न्नो इति पाठः? यनि. शोधः । h) = एकाह-विशेष- ।
वस. । i) °त्ररी° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । j) विप., नाप. । वैप १ द्र. । k) समाहारे
द्वित. । l) विप. । वस. अच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ७५) । m) विप. । कस. > वस. ।

हिथ्रौ ७, २, ३९; वाघ; -णा
विघ ६, १३; -णा: वैताथ्रौ ३७,
९; या १४, ४; उन्सि ३: १७;
-णानि विघ २०, ९; -णे विघ
२, १४.

चतुर्गुणो(ण-उ)च्छ्रय^० -या:
अप २१, ५, २.

चतुर्-गृहीत, ता^० -तम् आथ्रौ
२, ५, १४; ३, १२, ३; १७; शांथ्रौ;
-तस्य माथ्रौ १, ७, ४, ३८; ५,
३३; -तानि काथ्रौ १५, ४, ३७;
२५, १, ९; आपथ्रौ; -ताभ्याम्
आपथ्रौ २, १८, १; -ते आपथ्रौ
३, १०, १; ९, ८, १; वौथ्रौ; -तेन
काथ्रौ १०, ८, २४××; आपथ्रौ;
-तै: कागृ ४३, ६; हिपि २३:
१७.

चतुर्गृहीत-हवन- ने चाथ्र
३०: २.

चतुर्गृहीता(त-आ)ज्य- ज्ये
हिथ्रौ २, ५, २७.

चतुर्-जगल्य(ती-अ)न्त^०-
-न्तम् ऋथ्र २, १०, ८४.

चतुर्-जगल्या(ती-आ)दि^० -दि
ऋथ्र २, १, ९२.

चतुर्-ज्योतिष्^० -तिषम् शंघ
११६: ५०.

चतुर्-ण(<न)वत^० -तानि
काथ्रौ १६, ८, १८.

चतुर्थ^० - पा ५, २, ५१; -र्थ:
आथ्रौ १, ५, ३४; ३, ९, २;
शांथ्रौ; अप १: ३५१३; -र्थम्
आथ्रौ ५, १२, १९××; शांथ्रौ;
आपथ्रौ १३, ५, ११; १२; वैथ्रौ

१६, ७: २; मीस् २, १, ३६^३;
-र्थस्य आथ्रौ ७, ७, २; शांथ्रौ;
-र्थ: वौथ्रौ २६, ११: २७;
शुप्रा; -र्थत् आथ्रौ ११, ६, २;
आपथ्रौ; पावा ५, ३, ८३; -र्थत्
आपथ्रौ १४, ४, १४; हिथ्रौ ९,
७, ४२; ऋप्रा ४, ५; -र्थानि
वैथ्रौ १, १: १९; -र्थभ्याम्
आपथ्रु १९, ४; ६; ७; हिथ्रु
६, २०; २६; -र्थाय वौथ्रौ ३,
२१: ३; १०, १६: ३; वैथ्रौ
१८, ८: ५; -र्थे आथ्रौ ७, ११,
१××; शांथ्रौ; -र्थेऽर्थे आपथ्रौ
२२, १४, १५; माथ्रौ ७, ११, १०;
८, २, २४; माथ्रौ १, ८, ३, १८;
वाथ्रौ १, ६, ४, २१; -र्थेन आथ्रौ
८, १२, २५; शांथ्रौ; -र्थेभ्य: वैथ्रौ
१६, ७: २; -र्थेषु वैताथ्रौ ४१,
११; अप ४७, २, ९.

चतुर्थी- र्थी आथ्रौ
५, ३, ३; शांथ्रौ; -र्थीम् आथ्रौ ५,
१२, १५××; शांथ्रौ; -र्थ्यै: आपथ्रु
१७, १; ७; वौथ्रु; -र्थ्यां शांथ्रौ
१६, ४, ८××; आपथ्रौ; पावा २,
२, १८; -र्थ्या: आथ्रौ ८, १, २२;
काथ्रौ २०, १, १६; वाघ ११,
१६; पा ६, ३, ७; -र्थ्याम् काथ्रौ
१५, १०, २××; काठथ्रौ; -र्थ्यौ
आपथ्रु १६, १४; १७, ३; ९;
हिथ्रु ५, ३६; ४१, ५१.

चतुर्थि-प्रभृति^०-
-ति आपथ्रु ९, १^१.

चतुर्थी-कर्मन्^०-
-र्मं शांथ्रु १, १८, १; गोथ्रु २, ५, १;

कप २, ९, ५.

चतुर्थी-निर्देश-

-श: पावा ४, ४, ६५; -शात्
पावा ५, १, ८०.

चतुर्थी-पञ्चमी-

-मीम्याम् गोथ्रु ४, १, १६; -स्यौ
अथ्रु २०, १२५.

चतुर्थी-प्रभृति-

-ति वौथ्रु १, ७, ४५^१.

चतुर्थी-वचन-

-न्म् पावा २, ३, ६२.

चतुर्थी-चत् वैथ्रु

४, १: ७.

चतुर्थी-वास-

-स: वैथ्रु ३, ५: १.

चतुर्थी-विधान-

-ने पावा २, ३, १३.

चतुर्थी-वत-

क्रिया-हीन- -ने वैथ्रु ६,
१८: ८.

चतुर्थी-पद्यी-

-द्यौ शुथ्र २, १२.

चतुर्थी-पष्ठव(छी-

अ) एमी-इशमी- -भ्य: ऋथ्र
२, ३, ३३.

चतुर्थी-होम-

-म् वैथ्रु ६, १८: १०.

चतुर्थ्य(र्थि-अ)

न्त-पर- -र: भाशि ४६.

चतुर्थ्य(र्थि-अ)र्थ-

-र्थे पा १, ३, ५५; २, ३, ६२;
पावा ५, १, ४७.

चतुर्थ्यर्थ-प्रे-

क्षा- क्षा वा १, १७.

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । कस. वस. । d) = मरुद्-विशेष- । व्यु. ? ।

e) प्र-७९७ j द्र. । f) क्विद् भागे अन् प्र. (पा ५, ३, ४९) । g) पाठ: ? र्थे इति संस्कृते: भाष्यानुसारी पाठ:
प्रतीयते । h) र्थ्यै: इति कासं. । i) पूष. हस्व: । j) सपां. र्थिप्रा < > र्थिप्रा इति पाठे. ।

k) = संस्कार-विशेष- ।

चतुर्व्या(धी-आ)-

दि- दि ऋञ्ज २,८,६३.

चतुर्व्या(धी-२आ-

व>)घा-घा: ऋञ्ज २, १, १३५; ३,६२; ७, ६६; ८, ६९; १०,५६; अञ्ज २०,६४;९५.

चातुर्थिक^१-कम् निसू

५, २: २९; -कस्य लाश्रौ ७, ७, २६.

चातुर्थ्य^२-ध्यात् निसू

३,६: ३५.

चतुर्थ-क-क: याशि २,

९४; भाशि ४३; नाशि १, १, १२; -कम् याशि २,२१.

१चतुर्थ-काल-ले आपघ

१, २७, ११; वौघ २, १, ४२; हिघ १,७,३६.

चतुर्थकाल-पान-भक्ष^३-

-क्ष: कागृ ४,१०.

चतुर्थकाल(ल-आ)हार^४-

-र: शंघ ४०१.

चतुर्थकालिक-क: शंघ

१५९: १२.

२चतुर्थ-काल^५-ला: आपघ

१, २५, ११; वौघ २, १, ४१; हिघ १,७,७.

चतुर्थ-नवम-मयो: काश्रौ

१२, ६, २२; -मे लाश्रौ ४, १३, ७.

चतुर्थ-पञ्चम-मयो: निसू

९, २: १३; -मान्याम् काश्रौ ३, ३, ६; -मे आश्रौ ८, ९, ४; निसू ३, ७: ११; ८, १०: १८.

चतुर्थ-प्रतिपद्-पदम् निसू

८, ९: ८.

चतुर्थ-प्रभृति- -तिषु वैश्रौ

१८, १२: ३^०; हिश्रौ ४, ५, ४०;आपशु १०, १३^०.

चतुर्थप्रभृत्या (ति-आ)

हार- रेषु हिशु ३, ५३^०.

चतुर्थ-भाग-भागिन्- नी

वाघ १५, ९.

चतुर्थ-भागो(ग-ऊ) न-कला

(ला-ञ्ज)वशिष्ट-ष्ट: क्रप्र २, ६, ७.

चतुर्थ-विसर्ग^१-नी: कौगृ ३,

१४, १८; शांय ४, २, ८.

चतुर्थ-वेला-लायाम् वौशु

१६: १८.

चतुर्थ-न्या(स>)सा^२-सा:

वौशु १९: ७.

चतुर्थ-यष्ट-ष्टयो: शांश्रौ

१२, ३, १९; लाश्रौ ७, ४, १९; ऋप्रा ११, १२; -ष्टे निसू ८, ३: २८; -ष्टौ आश्रौ ५, १५, ६.

चतुर्थ-पष्टा(ष्ट-ञ्ज)ष्टम-

काल-भोजिन्-जी वाघ ७, ८.

चतुर्थ-सप्तम-मान्याम्

आपशु १९, ८; हिशु ६, २८.

चतुर्थ-सविशेष-येण

आपशु १९, ३; ४; हिशु ६, २०.

चतुर्थसविशेष-सप्तम-

मान्याम् आपशु १९, ८; हिशु ६, २८.

चतुर्थसविशेषा(प-ञ्ज)र्ध-

-धर्म्याम् आपशु १९, ५; हिशु ६, २२^०.

चतुर्थ-स्वर-जीविन्-विन:

नाशि १, ७, ७.

चतुर्था(र्ध-ञ्ज)श-शम्

आमिष्ट २, ४, १०: ३९.

चतुर्थांशिन्-शिन: गौघ

२८, ३५.

१चतुर्था(र्ध-आ)दि-दौ

भाष्ट १, २२: १.

२चतुर्था(र्ध-आ)दि^१-दि

नाशि २, २, १०.

चतुर्था(र्ध-ञ्ज)तुवाक-के

वैश्रौ १९, ६: ३७.

चतुर्था(र्ध-ञ्ज)ष्टम-मयो:

आपश्रौ ७, १४, ८; वौश्रौ ४, ६:

१५; ५, ३: ८; ८: १२; १२, ४:

८; १५, २८: १०.

चतुर्था(र्ध-ञ्ज)हन्->चतु-

र्थाहिक^२-के शांश्रौ १५, ७,

१; ८, १.

चतुर्थो(र्ध-ञ्ज)त्तम-मौ

शांश्रौ ३, १३, १९; आपश्रौ ८, २, १५.

चतुर्थो(र्ध-ञ्ज)त्पाद^३-दम्

निसू २, १३: ४.

चतुर्-दंष्ट्र^४-दंष्ट्रान् अञ्ज ११,९^१.

चतुर्-दशन्-श आश्रौ ८, ३,

८; ११, ६, १५; शांश्रौ; -शभि:

आपश्रौ १६, १९, ११; २०,

२१, ९; वौश्रौ; -शष्टु आपश्रौ

१२, २७, ४; हिश्रौ ८, ८, १.

चतुर्दश-श: शांश्रौ १४,

७२, २; ऋप्रा १७, ३६; -शम्

अप ४१, ५, ७; आज्यो ९, ७;

-शस्य वेज्यो २७; -शे वौश्रौ

१२, २: ६x४; वौगृ; -शेन वौशु

१९: १०; -शै: काशु ७, ३७.

a) विप. । भवार्थे ढञ् प्र. । b) भवार्थे ण्य: प्र. उलं. (पावा ४, १, ८५) । c) विप. । वस. > दस. ।

d) विप. । वस. । e) पभि. पृ ५७९ c द. । f) पस. (तु. Old.; वैतु. भवत्रात: वस. इति) । g) प्याभ्याम्

इति पाठः? यनि. शोघ: (तु. सप्र. आपशु.) । h) विप.(सू.) । i) वैप १ द. ।

चतुर्दशी- पाग ४, ३,
१६; -शी वौश्री २४, २१ : ४;
आमिष्ट २, ७, ६ : ९^६; कप्र २,
६, २; वौध १, ११, ४०; विघ
७८, ५०; ऋअ २, ६, ५२; वृदे
५, १३२; आज्यो ६, ५; १०;
-शीम् शाश्री ९, ८, ३; आपश्री;
-श्या कप्र २, ६, ५, ९; -श्याम्
आश्री ८, ३, १२; आपश्री; -श्यो:
वैध २, ११, ७.

चातुर्दश- पा ४,
३, १६.

चतुर्दश्य (शी-अ)
पेक्षा- -क्षया कप्र २, ६, ४.

चतुर्दश्य (शी-अ) मा-
वास्या- -स्ययोः कौश्र ३, ९, ७;
शांष्ट ४, ७, ७.

चतुर्दश्य (शी-अ)
शमी- -मीषु विघ ३०, ४.

चतुर्दश्या (शी-
अ) च्छा^१ - च्छे ऋअ
२, ८, ९.

चतुर्दश-क^१ - कम् अत्र ५,
६; २२; ९, ६ (६); अर्ष ५ : ७.

चतुर्दश-गुण^१ - -गम् अप
२३, ८, ३.

चतुर्दश-गृहीत- -तम् अप
२३, ८, २; -तानि वौश्री २८,
१२ : २१.

चतुर्दश-प(द^१)दा^१ - -दा
उनिस् ६ : २८.

चतुर्दश-मा(त्रा^१)त्र- -त्रः
जैश्रीका ११६.

चतुर्दश-रात्र^१ - -त्रः वौश्री
१६, ३३ : १; २; -त्रस्य आश्री

११, २, ९; १०; १२; -त्राः
आपश्री २३, १, १२; हिश्री १८,
१, १६; -त्राणि आश्री ११, २,
४; काश्री २४, १, १८; -त्राभ्याम्
काश्री २४, १, २७; -त्रे निस्
९, १० : २९; १२ : १०.

चतुर्दश(श-अ)र्च^१ - -र्चम्
अत्र ५, २८; -र्चभ्यः अप ४६,
१०, ११^१.

चतुर्दश(श-अ)क्षर- -रम्
वाधुश्री ४, १०० : ८; २०.

चतुर्दश(श-अ)ङ्गु (ल^१)
ला- -लाम् अप ३०^३, १, ११.

चतुर्दश(श-अ)ङ्गुष्ट- -ष्टम्
आमिष्ट २, ३, १ : १४.

चतुर्दश(श-अ)भिष्टव^१ -
-वम् काश्री २४, ३, २५.

चतुर्-दिश- -दिक्षु वैश्री १,
२ : ९; अप ५, ३, २; ४, ५;
१९^२, २, २.

चतुर्-दि(शा^१)श- -शम्
वैश्री १, ८ : १२ x x; हिश्री.

चतुर्-दिष्टि^१ - -ष्टिम् माश्री १,
७, ३, १४.

चतुर्-दी(क्षा^१)क्ष^१ - -क्षः
काश्री १५, १, ३.

चतुर्-द्रो(ण^१)णा^१ - -णा अप
९, १, २.

चतुर्-द्वार^१ - -रम् अप १९^२,
३, ३; २१, ४, ५; ६६, २, १.

चतुर्-धा आश्री ६, ३, ९;
शाश्री; काश्री ३, ४, १०^१; वौश्री
१, १८ : १२^१; चतुर्धाचतुर्धा
वौश्र १६ : १७.

चतुर्धा-करण- -गम् वौश्री

२४, २९ : ६; ३७ : ५; -णानि
वौश्री २४, २८ : ९; -णे मीसू
१२, ४, ४६.

चातुर्धाकरणिक^१ -
-कानि वैश्री ६, ६ : ७; हिश्री
२, २, १३; ३, ५, १७.

चतुर्धाकरण-काल- -ले
आपश्री ५, २२, ३; १९, २१, ६;
२३, ४; भाश्री ५, १५, ३; हिश्री
२२, ४, २; १९.

चतुर्-नव(क^१)का^१ - -का ऋअ
१, ७, ९; शुअ ५, ५०.

चतुर्-नवति- -तिः ऋअ ४, ९.
चतुर्-निघन^१ - -नम् निस् ७,
११ : १५.

चतुर्-न्यून- -नम् कशु ७,
२६.

चतुर्-न्याहु^१ - -हुम् विघ १,
६१^१.

चतुर्-विल^१ - -लम् आपश्री
१, १३, १; ७, १७, १; भाश्री.

चतुर्-भाग^१ - -गः अप ३३, ३,
७^३; उचिस् २ : २३; -गम् ङ-गम्
काश्री २४, ५, १६; -गे अप
२२, ३, १.

चतुर्भाग-मात्र- -त्रम् याशि
१, ५७.

चतुर्भाग-त्रत- -तम् वैश्री
१९, १ : १९.

चतुर्भागी(य^१)या- -या
आपशु ११, ३; १६, ६; हिशु
४, ४; ५, २७; -याः आपशु १५,
६; वौशु ८ : १९; १७ : १२;
हिशु ५, ७; -यानाम् वैश्री १८,
१६ : ७८; आपशु ११, ५; हिशु

a) अत्र सप्तम्या लुक् । b) विप. । वस. । c) विप. । परिमाणे केन्द्र प्र. (पा ५, १, ५८) ।

d) वैप १ द्र. । e) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । f) पामे. पृ १०४७ ६ द्र. । g) विप. । तस्येदमीयम् उक् प्र. ।

h) भूवक्त्र- इति जीसं. । i) = चतुर्धा-भाग- । वैप २, ३ खं. द्र. ।

४,६; -यामिः वैश्रौ १८, १६ :
८१; आपशु ११,८; वौशु १० :
२४; २३; २० : १९; २५; हिशु
४,११; -ये वौशु १७ : १३.

चतुर्भागीया(या-अ)

क्षणयो(या-उ)भयतो-भेद-दः
आपशु १६,११; हिशु ५,३२.

चतुर्भागीया-मात्र-त्रम्

आपशु १६,६; हिशु ५,२७.

चतुर्भागीया(या-अ)र्ध-

-र्धम् आपशु १६, ७; हिशु ५,
२८.

चतुर्भागो(ग-ऊ)न,ना-नः

आपशु १९, १; हिशु ६, १६;

-नाः आपशु १५, ८; हिशु ५,

१३; -ने वौशु १ : १८.

चतुर्-भुज^१-जम् वैशु ४,११ :

४; विष ९७, १०; आम्रिय २,

४,१० : १३.

चतुर्-महारान्जिक^१-०क विष

९८,४१.

चतुर्-मात्र,त्रा-त्रः आश्रौ १,

२,१४; शांश्रौ १, २, १३; शैशि

३४६; ऋष्या १५,५; -त्रा शांश्रौ

१,२,३.

चतुर्-मास->चातुर्मा(स>)

सी^१-पावा ५, १, ९४; -सीः

द्राघ ३, २, २८; -सीषु आपघ

१,१०,१; हिष १,३,३०.

१चातुर्मास्य^१-पावा ५,

१, ९४; -स्यम् आम्रिय २, ४,

४ : २१; शंघ २५२; वैध २,५,४;

३,६,८; -स्यात् वैध ३, ६, ७;

-स्यान् वैश्रौ १,१८ : १; -स्या-

नाम् शांश्रौ ३, १३,१; काश्रौसं

२८ : १४; २४; २९ : ११;

वौश्रौ ३, २६ : १४××; भाश्रौ;

-स्यानि आश्रौ २, १५, १;

२०,६^२; ९, २, १; ३,३; शांश्रौ;

-स्यानिऽ-स्यानि वैश्रौ ९,१२ :

१५; -स्येभ्यः वाधूश्रौ ४,

१०३^२ : ७; -स्येषु आश्रौ २,

१५, ७; शांश्रौ; -स्यैः आपश्रौ

८,२१,२; वौश्रौ.

चातुर्मासिक-पावा

५,१,९४.

चातुर्मासिक^१-

-कानाम् वौश्रौ २१, १ : २८;

२६,१० : १८; -कानि वौश्रौ

२१,१ : ८.

चातुर्मासिन्-पावा

५,१,९४.

२चातुर्मास्य^१-स्याः

काश्रौ २२, ७, १; आपश्रौ २०,

१५, ३; वौश्रौ १५, १२ : ९;

१७, ६२ : २२^३; -स्यान् हिश्रौ

१४,३,१८.

चातुर्मास्यक^१-कान्

वाश्रौ १,७,५,१३.

चातुर्मास्य-पशु-

-शूनाम् वौश्रौ २४,१० : ११.

चातुर्मास्यपशु-

दक्षि(णा>)ण^१-णैः शांश्रौ

१४,१०,२३.

चातुर्मास्य-दक्षिणा-

-णाः वौश्रौ २१,६ : २०.

चातुर्मास्य-देवता-

-ताः शांश्रौ १४, १०, ४; १६,

३, १६; १२, १५; काश्रौ २०,

७, २२; -ताभ्यः शांश्रौ १६,

३,१५; १२,१४.

चातुर्मास्य-पर्वन्-

-वृणाम् शांश्रौ १३, २४, ४;

-वृभिः काश्रौ २४, ४, ३०;

-वृसु माश्रौ ५,१,७,२८.

चातुर्मास्य-पशुबन्ध-

सौत्रामणी-णीषु वैश्रौ २०,

२२ : ९.

चातुर्मास्य-प्रयोग-

-नाः काश्रौ ५,१,१; १५,१,१५-

चातुर्मास्य-मध्य-ध्वे-

हिपि २१ : १.

चातुर्मास्य-मन्त्र-

-न्त्राः शुश्रू,१, २२९.

चातुर्मास्य-याजिन्-

-जिनः आपश्रौ ८, १, १; २२,

८,१; हिश्रौ ५, १, १; १७, ३,

२५; -जी आपश्रौ ८, ४, १२;

१३; वैश्रौ ८, ८ : ७; वैध १,

५,३.

चातुर्मास्य-व्रत-

आपश्रौ २२,९,४.

चातुर्मास्य-वैश्वदेव-

>श्व-नार्ग-वैद-च्छन्दोमवत्-

पराका(क-अ)न्तर्वस्व(तु-अ)घमे-

धन्यह-हाणाम् वृताश्रौ ४१,२-

चातुर्मास्य-व्रत-

-तानि आश्रौ २,१६,२२.

चातुर्मास्य-संयोज-

न^१-नः वौश्रौ २६,२९ : ९-

चातुर्मास्य-हविस-

-वीपि शांश्रौ १४, ५, ५.

चातुर्मास्या(स्य-अ)

न्तराल-लेषु माश्रौ ८, ३, २९-

चातुर्मास्यान्तरा-

ल-व्रत-तानि वौश्रौ २८,८:१-

चतुर्मास-शस्(ः) काश्रौ

२४,५,८.

a) विप. । वस. । b) = पौर्णमासी- । c) = इष्टि- , व्रत-विशेष- । वैप १ द्र. । d) विप. । भवेऽर्थे
ऋ प्र. (पा ४,३,११) । e) विप. । तस्येदमीयः ऋण प्र. । f) विप. । तस्येदमीयः तुम् प्र. वसं. (पा ४,३,१२६) ।

चतुर्मासो(स-उ)पसक्त^a - स्के
काश्रौ १७,७,१२.
चतुर्-मुख^b - मुख् आमिष्ट २,
५,६ : ४; वौध २,५,२०.
चतुर्मुखी - खीम् अप ६,१,
१४.
चतुर्-सुहृत्^b - त्तम् गौध १६,
४५.
चतुर्-मेघ^a - धः आपध २,१७,
२२^c.
चतुर्-मेघस^a - धाः वाध ३,
१९^c.
चतुर्-यम - मम् तैप्रा २३,२०;
२३.
चतुर्-युक्त - क्तः नाशि २,
४,७; -क्तस्य अप १,३२,१.
चतुर्-युग - नाम्^d विध २०,
१०; ४३,२६^a; -गानाम् विध
२०,११.
चतुर्थ्युग-सहस्र - स्रम् विध
२०,१२.
चतुर्थ्युगा(ग-अ)न्त - न्ते अप
५२,१४,१.
चतुर्-युज - युक् काश्रौ २२,
५,१०; १०,३०; आपश्रौ २२,
१२, ४; वौश्रौ १८, २० : ६;
१९; लाश्रौ ८, ७, ३; -युजः
काश्रौ १४, ३, ११; वृदे ३,
१४७; १४९; -युजा आपश्रौ
२२, २, २०; हिश्रौ १७,१,३६;
-युजाम् वाधूश्रौ ३, ७९ : ३;
-युजौ लाश्रौ ९,४,१३.
चतुर्-व(क्त्र>)क्त्रा^a - क्त्रा
वाध २८,२१.

चतुर्-वर्ण^a - णम् वैगु ३,
१९ : ६.
चतुर्-वर्ण^a - पावाग ५, १,
१२४.
चातुर्वर्णिक^b - काः वैध ३,
१२,२.
चातुर्वर्ण्य - पावा ५, १,
१२४, -र्ण्यम् वाध ४,१; मीसू
६, १, २५; -र्ण्यस्य विध १,
६१; ६३.
चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थान -
-नम् विध ८४,४.
चातुर्वर्ण्य-संकर - रेण
वैध ३,११,१.
चतुर्-वार - रम् आमिष्ट २, ३,
२-४,
चतुर्-विंशत्^b - शत् अप ५२,
८,४.
चतुर्-विंशति - तिः आश्रौ ४,
८, १५; शाश्रौ; -तिः-तिः
शाश्रौ १६, १५, १८; -तिम्
शाश्रौ १०,१२, ९; १४,७७, २;
काश्रौ; हिश्रौ १६, १, ११^d;
-तेः विध २७, २६; -त्या
आपश्रौ १०, २६, ५; हिश्रौ;
-त्याम् आपश्रौ ५,४,४; भाश्रौ
५, २, १५; आपशु ४, ३; हिशु
२,२.
चतुर्विंश^a - शः आश्रौ १०,
३,११; आपश्रौ २३, ४, २; ७,
१३; ८, १०; वौश्रौ १०, ४२ :
५××; हिश्रौ; -शम् आश्रौ ८, १३,
३१××; शाश्रौ; -शस्य द्राश्रौ ११,
४, १; लाश्रौ ४,४,१; निस् ४,

५,५; -शाः शाश्रौ १४,४२, ३;
वौश्रौ १६, २८ : ३; ३४:७; ३६ :
२०; हिश्रौ १७; ७, ८; -शात्
शाश्रौ ११, ५, ७××; वौश्रौ;
-शानाम् आश्रौ १२, ५, १२;
-शानि आपशु ५,१३; हिशु २,
२४; -शे आश्रौ ७, २, १××;
शाश्रौ; -शेन आश्रौ ७,६,१; ८,
७,२; ९,१०,१; आपश्रौ; -शेषु
लाश्रौ १०, ८, २; -शौ शाश्रौ
१४, ३३, २; वौश्रौ १८, २३ :
५; २५, ३३ : ३; हिश्रौ १७, २,
५; निस् ७, ६ : १३.

चतुर्विंशी - शी
शाश्रौ १८, १४, ४; -शीम्
वाधूश्रौ ३, ५८ : ७.

चातुर्विंशिक^b - कम्
आश्रौ ७, ६, ६; ८, ५, ९; -कानि
शाश्रौ १२, २७, ४.

चतुर्विंश-चतुश्चत्वारिंशा-
(श-अ)ष्टाचत्वारिंश- -शाः
वैताश्रौ ३५, २०.

चतुर्विंश-त्रिणव - वौ
निस् ७, ९ : ४.

चतुर्विंश-वहिष्पवमान^a -
-नः हिश्रौ १७, २, ४.

चतुर्विंश-महाव्रत - ते
शाश्रौ १६, २०, १८.

चतुर्विंश-महाव्रता (त-अ)
भिजिद्-विश्वजिद्-विषुवत्-
-वत्सु आश्रौ ७, २, १०.

चतुर्विंश(श-क्)र्च^a -
-चम् अश्र ४, १७, ९, १.

चतुर्विंश-वत् वैताश्रौ ३३,

a) विप. । वस. । b) समाहारे द्विस. । c) परस्परं पाभे. । d) चा इति जीसं. । e) उप.
= अक्षर- । f) कष. उप. = जाति- । g) तत्रजातायै ठक् प्र. उत्सं. (पा ४, ३, २५) । h) उप. = विंशति-
(तु. वैप ३) । i) पाठः ? ण्तिः इति शोधः (तु. सप्र. काठ ३४, ९ तां १०, ३, ३) । j) विप. (सूक्त- [अश्र ८, ८]),
नाप. (स्तोम- , एकाह- प्रथ.) । पृ ७९४ C द्र. । k) विप. । तेननिर्घृतमित्यर्थे ठक् प्र. (पा ५, १, ७९) ।

१; ३७, ४.

चतुर्विंश-षष्ठ- -षात्
निसू ७, ९: २.चतुर्विंश-स्तोम- -मम्
शांश्रौ १०, ९, १; १२, १; ११, २, १.चतुर्विंश (श-अ) क्षर-
-रम् अप ३१, ४; २.चतुर्विंश (श-अ) इगुल,
ला- -लः काशु ७, २५; -ला
अप २२, २, २.चतुर्विंश (श-ए) क्विंशत्-
-शद्भ्याम् अप ४: १९.

चतुर्विंशक- -कम् अत्र २, ४.

चतुर्विंशिका- -का ऋत्र
२, ८, ४६.चतुर्विंशति-कृत्वस् (:)
शांश्रौ १८, १४, ९; आपश्रौ १५,
१२, ५; भाश्रौ ११, १२, ५; हिश्रौ
२४, ५, ६.चतुर्विंशति-नाव- -वम्
आपश्रौ १६, १८, ५; हिश्रौ ११,
६, २७; हिपि १५: ३.चतुर्विंशति-परम- -मा:
आपश्रौ २३, १, १.चतुर्विंशति-पार्श्व-भाग-
-नः काशु ७, ३७.चतुर्विंशति-पिण्ड- -ण्डान्
वौपि २, ११, ८;चतुर्विंशति-भाग- -नोन हिपि
१५: ५.चतुर्विंशति-मान- -नम्
वौश्रौ १८, ३७: ८; -नानाम्
वौश्रौ १८, ३७: १२; लाश्रौ ८,

१०, २; -ने वौश्रौ १८, ३७: ८.

चतुर्विंशति-नात्र- -त्रः शांश्रौ
१३, १६, ५; वौश्रौ १६, ३४: १; ४;
-त्रम् काश्रौ २४, २, १३; -त्रेण
आपश्रौ २३, ४, १; हिश्रौ १८,
२, १; -त्रौ आश्रौ ११; ३, ६;
आपश्रौ २३, ३, १४; हिश्रौ १८,
१, २९.चतुर्विंशति-वर्ग, गां- -गां
काश्रौ २२, १०, २७; -गांन्
लाश्रौ १, ४, १२.चतुर्विंशति-वर्ष- -र्षाणि
आमिष्ट ३, ९, ३: १६; वौपि २,
७, १५.चतुर्विंशति-स्तोत्रीय- -येण
हिश्रौ १७, २, १८.चतुर्विंशत्य (ति-अ) क्ष (र >)
रा- -रा शांश्रौ १४, ४२, ११;
वाधूश्रौ ४, ५८: ५×४; निसू;
-राम् वाधूश्रौ ४, १००: ७.चतुर्विंशत्यक्षरा (र-आ)
दि- -दीनाम् शांश्रौ ७, २७,
३०; -द्वीनि ऋत्र १, ३, ३; शुभ्र
५, ३.चतुर्विंशत्य (ति-अ) इगुल-
-लम् वैश्रौ ११, ७: १; अप २३,
३, ४; ५, ५; -ल्यत् वैश्रौ ११,
१०: १५.चतुर्विंशत्य (ति-अ) इगुला-
(ल-आ) यत्, ता- -तम् वैश्रौ
११, ८: ११, -ताम् वैश्रौ १,
१: १५.चतुर्विंशत्य (ति-अ) इगुलि-
-ल्यः आपशु १५, ७; हिशु ५,

११.

चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह- -हः
वाध २२, १३; वौध ३, ७, ७;
१०, १६; गौध १२, १८; -है
पाठ २, ३, ६; शुभ्र ४, १७८.चतुर्-विद्या- (> १ चातुर्वेद्य-
पा.) पाठ ७, ३, २०.चतुर्-विद्य- -पाठवा ५, १,
१२४.चातुर्वि, वैद्य- पा
५, १; १२४; -द्यम् वाध ३, २०.चतुर्-विध- -धः काय १३, २;
साधि २, ५; ५, ५; याधि २,
८; -धम् शांश्रौ १६, २३, १;
४; २६; कप्र; -धस्य अप २,
१; ७; गौध ८, २; आज्यो ७,१७; -धाः वैध १, ३, १; ५,
१; ७, २, ९, १; १०, २; -धानाम्
वृदे २, ३५; -धे अप ३, ३; ८; ६१,
१, २०; -धैः अप ३६, १, २.चातुर्विध्य- -ध्यात् निसू ८,
९: २३.चतुर्-वीर- -रः निसू ८, ९:
१; -रे निसू ९, ४: २८.चतुर्-वृत्- -वृत् वौश्र १, २,
१२.चतुर्-वृष- -षः अत्र ५, १६.
१ चतुर्-वेद- -दात् वौश्र १,
७, ७.चातुर्वेद्य- -द्यम् चव्यू
१: २.२ चतुर्वेद- -पाठवा ५, १,
१२४.

२ चातुर्वेद्य- -पा ५, १,

a) विप. । वस. । b) विप. । तदितार्थे द्विस. । c) पृ ७९४ f द्र. । d) अर्थतार्थीयत्व प्र. लुक् ।

e) तु. पासि. । f) त्वार्थे प्यञि प्र. उप. वा वृद्धिः उत्सं. (पा ७, ३, २५) । g) सपा. चातुर्विद्यम् <>

२ चातुर्वेद्यम् इति पाठे. । h) = अहीन-विशेष- । वस. उप. = पुत्र- । i) = मधुपर्क-विशेष- । उत्स. उप. अधिकारणे
क्विप् प्र. । j) वैष १, ५०२ i द्र. । k) समाहारे द्विस. ।

१२४; -घम् वीध १,१,८.
 चतुर्वेदा (द-आ) दि-मन्त्र-
 न्त्रात् वैगृ ६, ११ : ३; वैध २,
 १३,६^१; -न्त्रैः वैगृ ६,१० : ४.
 चतुर्-हविस्^० -विः वीथी
 १७, ५३ : ५; १०; माथी ५,
 १,१,३२; १०, ३८; २,२,१५;
 हिथी १३,३,३०; -विपः माथी
 ५, १, १, ३४; २, ३; १०, १;
 -विपम् वीथी १८, ६ : ७;
 -विपा आपथी १८, ९, ६; माथी
 ५, १, १०, १०.
 चतुर्-हस्त, स्ता^१ -स्तम् वैथी
 ११, ९ : १; वैगृ ६, १ : ३; कागृ ७
 ४५ : ४; अप ३०^२, १, ३; ४;
 -स्ताम् अप १८, १, १०.
 चतुर्हस्ते (स्त-इ) डा-डाम्
 वीथी १, २० : १५.
 चतुर्-हस्तो (स्त-उ) च्छित्त^०-
 न्तः विध १०, २.
 चतुर्-हाय (न >) णी- णीम्
 माथी ५, २, १०, २.
 चतुर्-हायन^० -पाग ८, ४, ३९;
 -नाः वाथी ३, ४, ३, १९.
 चतुर्-होतृ^० -तरि शाथी १०,
 १५, १; -ता वीथी १७, २१ :
 ८; माथी ५, २; १४, २;
 हिथी २१, १, २^१; -तारः
 आपथी १४, १३, २×४^१; वीथी;
 -तारम् शाथी १०, १५, २;
 आपथी ४; ९, ७; ५, २४, ७×४;
 वीथी; -तुः आपथी २१, १०,

७; वीथी १९, ७ : ५२; २६,
 २९ : १; हिथी १६, ४, २४;
 -तृभिः कागृ ४३, ६; -तृणाम्
 आपथी १४, १३, १; वीथी १९,
 ७ : १४; हिथी १०, ७, १;
 चात्र १० : ३; -तृत् आपथी ८,
 १३, ६; आपथी ५, ११, १×४;
 वीथी; -त्रा आपथी २, ११, ५;
 ४, ८, ७×४; काथीसं.
 चातुर्होतृक^१ -कम् कागृ
 ४३, १.

चातुर्होतृ, होतृकी-
 कीमागृ १, २३, १^१; वागृ ७,
 १^१.

चातुर्होत्र^१ -त्रः आपथी
 १९, १४, १८; २७; १५, ११;
 हिथी २३, ३, १६; २१; ३१;
 -त्रम् अप २३, १०, ७^१; ११,
 २^१.

चातुर्होत्र-विधान-
 -नेन अप ५, ३, २.

चातुर्होत्रीय^१ -यम्
 आम्रिगृ १, २, १ : १२; वीगृ
 ३, १, २३.

चातुर्होतृ-न्याख्यान^१ -नम्
 काथी १२, ४, १६.

चतुर्-हो (त्रा >) त्र^१ -त्रम्
 वैगृ ५, ४ : २; ४.

चतुर्होत्रे (त्र-इ) एकाम्^१ -काः
 वीथी १९, ७ : ११.

चतुर्-चक्र^१ -कः वीथी १७,
 ५३ : १; ५४ : १; २; -काणि

वीथी १५, १४ : ७; -के वीथी
 २३, १७ : २८; वीध १, ६, ३०.
 चतुर्-चत्वारिंशत्-शत् शाथी
 १२, २, १७; वाधुथी ४, ४६ : ५;
 ६५^१ : ५; अत्र १०, १०; ११;
 निघ ३, १४; या ३, १९; ऋप्रा
 १६, ६४; -शतम् आपथी २१,
 १, १४^१; वीथी २६, ४ : ९;
 हिथी १६, १, ११^१.

चतुश्चत्वारिंश-शः आपथी
 १७, ३, २; वीथी; -शम्
 आपथी २१, ८, ११×४; वीथी;
 -शाः वीथी १६, ३४ : १४;
 ३६ : २०; -शे आथी ७, ५,
 ११; १२, ७, १२; लाथी ६, २,
 २१; -शेन लाथी ६, ७, १९.

चतुश्चत्वारिंश-स्तोम-
 -मम् शाथी १०, १०, १.

चतुश्चत्वारिंशद्-क्षत्र (र >)
 रा- -रा वाधुथी ४, ६५^१ : ६;
 १००^२ : ९; निस् १, ४ : १.

चतुश्चत्वारिंशत्-शी
 माथी ६, २, २, १; वाथी २, २,
 १, २०.

चतुः-श-शत^१ -तम् शाथी
 १८, १३, १; ८; वीथी; -तान्
 आपथी १८, १९, ५; हिथी १३,
 ६, २९; -ते लाथी १०, ७, ११.

चतुःशता (त-अ) क्ष (र >)
 रा^० -रा निस् १, ५ : २.
 रचतुः-शत^१ -ताः आपथी
 २०, ५, १२.

a) पाभे. पृ १०५४ g द्र. । b) ञ्त्रम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. C.) । c) विप. । वस. । d) विप. ।
 तद्विदार्ये द्विस. । e) कस. पूष. समाहारे द्विस. । f) वैप १ द्र. । g) विप. । भवार्ये टक् > कः प्र. (पा ४, ३, ७२)
 तप. वृद्धिर्वा उलं. (पा ७, ३, २५). । h) होँ इति वागृ. । परस्परं पाभे. । i) = यज्ञ-, अग्निचयन- । तस्येदमीयः
 अण् प्र. । j) = ग्रन्थ-विशेष- । [= तैत्रा ३, १२, ५] । स्वार्थे छ > ईयः प्र. । k) = शस्त्र-विशेष- । तु. आपथी ८,
 १३, ८] । l) = मन्त्र-विशेष- । वस. । m) = इष्टका-विशेष- । n) विप., नाप. (यज्ञ-) वस. । o) शोधः
 पृ ४३९ W द्र. । p) = १०४ । मलो. कस. । q) वस. समासान्तपृ डक् प्र. (पा २, ३, २५; ५, ४, ७३) ।

चतुःशमी^a-मीम् कौचु १३७,
 ५.
 चतुःशं(य>)वा^b-याम् माश्रौ
 १,७,३,१३.
 चतुःशं(य>)वी^c-न्या
 काश्रौ ९२.
 चतुःश-शाराव^d-वः वौश्रौ
 १४,१८ : २८; माश्रु २, १५ :
 ९; हिश्रु २, १४, ४; वम्
 आश्रौ ३, १४, १; आपश्रौ ५, ५,
 १××; वौश्रौ; वत्स्य आश्रु २,
 ४, ५.
 चतुःशाराव-वैः वैश्रौ १, ५ :
 १०.
 चतुःशख^e-खाः आश्रौ ६,
 ४, ७.
 चतुःशखि(ण्ड>)ण्डा^f-
 ण्डा^g आपश्रौ ४, ५, १; ६,
 २; ११, ५, ३; भाश्रौ ४, ६, ४;
 ८, ३; वैश्रौ ४, १-१:४; ५, ६ : ३;
 १४, ४ : १३; हिश्रौ ६, २, २;
 १०; ण्डे आपश्रौ ७, ५, १;
 भाश्रौ ७, ४, १; वैश्रौ १०, ४ :
 १३; हिश्रौ ४, १, ६२.
 चतुःशिला>)ल^h-ले कौचु
 ३६, १८.
 चतुःशुद्धⁱ-ह्रम् वैश्रु २, १ :
 ८; -ह्रान् जैश्रु १, ६ : ४.
 चतुःशुद्ध^j-ह्रः आपश्रौ ५,
 १७, ४; हिश्रौ ३, ४, ४८.
 चतुष्क^k-कः लाश्रौ ६, ७,
 १; ऋश्रु; -कम् लाश्रौ ६, ७,
 ३; वाश्रु २, ४८; विष ६, २;
 ऋश्रु २, १, ४९××; अश्रु.

चतुष्क-प्रवृत्ति-वयः निश्रु
 १, ९ : ३; १०; २१.
 चतुष्क-प्रदक-इकाम्याम्
 अनिश्रु १ : ५२; इकौ पि ३,
 ४७.
 चतुष्कप(र्द>)र्दा^l-र्दा^m
 लसू ५, ६५.
 चतुष्कपालⁿ-लः आपश्रौ
 २२, १८, १८; हिश्रौ १७, ७,
 १०; -लम् वौश्रौ १६, २८ :
 १४; अप्राय ४, १; -लाः वौश्रौ
 १३, ४१ : ११; -लान् वौश्रौ
 १३, ३३ : १××; माश्रौ.
 चतुःष्कर(ण>)णी^o-णी
 काश्रु ३, ६७; आपश्रु २, १२;
 हिश्रु १, ३२.
 चतुष्क(ल>)ला^p-ला ऋत
 २, ४, २.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^q-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^r-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^s-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^t-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^u-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^v-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^w-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^x-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^y-
 काः वैश्रु २, ८, १.
 चतुष्काल->चतुष्कालिक^z-
 काः वैश्रु २, ८, १.

२; -ये कौचु १, १६; १६; वाश्रु
 १, २४, ७; -येन वौश्रौ १३,
 २५ : १७; २४, १ : १६; निश्रु
 १, ६ : ७.
 चतुष्टयी-यीः वौश्रौ १५,
 २ : १××; -यीनाम् वौश्रौ १८,
 १८ : १०; -यीषु वौश्रौ १५, ३;
 १२; वाश्रौ ३, ४, १, ११; -य्यः
 आपश्रौ २०, २, ३; ९, १०.
 हिश्रौ १४, १, १६; २, ४१.
 चतुःष्टोत्र^{aa}-मः वाश्रौ १५,
 १२, ४××; आपश्रौ; मम्
 आपश्रौ २२, ६, ८; १०; वौश्रौ;
 -मयोः लाश्रौ ६, ८, १; ९, ४, ८;
 -मत्स्य वाश्रौ १६, २४, ९;
 -माः आपश्रौ २२, १८, १४;
 वौश्रौ १६, २८ : ८; -माश्रु
 वाश्रौ १६, २९, १२; -माश्रु
 वौश्रौ १६, २५ : ८; १८, ४९ :
 ११; १९; -मे वौश्रौ १८, ४८ :
 १८; १९; निश्रु ८, ७ : ३२;
 -मेन वाश्रौ १४, ५१, ३××;
 वौश्रौ; -मेषु निश्रु १०, ५ : २३;
 -मौ काश्रौ २२, १०, १८;
 आपश्रौ २२, ११, १४; वौश्रौ
 १८, ४८ : २७.
 चतुष्टोत्र-कारि(त>)वा-
 वाः निश्रु ८, ८ : ७.
 चतुष्टोत्र-विष्कम्भ^{ab}-कुप्
 आश्रौ १०, ३, २२.
 चतुष्टोत्र-न्याय-येन निश्रु
 ९, १ : ३५.
 चतुष्टोत्र-सर्वस्वोम-नयोः
 लाश्रौ ९, ११, १३; १४.

a) विप. 1 पृ ४३९० द्र. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) विप. 1 वस. उप. <✓शंस [लुतां]। d) पामि.
 वैप १, १३०३ d द्र. 1 e) विप. 1 वस. 1 f) विप. 1 तदत्य. परिमाणे कन् प्र. (पा ५, १, ५८)। g) र्दाः इति
 पाठः? यनि. शोषः। h) =रज्जु-विशेषः। i) =वानप्रस्थ-विशेषः। j) विप. (शर्ष-). क्च. 1 k) हिश्रौ
 १७, २, ५३; ५८ 'तुःष्टो' इति पाठः। l) =अर्हीन-विशेषः।

चतुष्टोम-स्तोम-संपद-
अतिरेक-कात् द्राश्रौ २, ४,
६.

चतुष्-द्व(<त्व)-द्वम् या
१, २.

चतुष्-पद्वक्त्य(द्विक्-अ)न्त^१-
-न्तम् ऋञ्च २, ८, ३१.

चतुष्-पञ्च-कृत्वस् (:) शाश्रौ २,
८, १७.

चतुष्-पय- -यः वौश्रौ ५, १६:
८; -थम् माश्रौ ८, २१, ९;

वैश्रौ ९, १० : १५; हिश्रौ;
-धात् आगृ १, ५, ५; कागृ १४,

५; गोगृ २, १, ४; कौसू ३७, ९;
-थान् गोगृ २, ४, २; -थे काश्रौ

५, १०, ७; आपश्रौ ८, १७, १२;
वौश्रौ २, ८ : १४; २४, ८ : ३;

माश्रौ; -थेषु कागृ २६, ७; अप
४, ६, ५; ६९, ७, ४.

चातुष्पय^२- -थम्
आपश्रौ ८, १८, १.

चातुष्पय-सद- -सदे मागृ १,
१३, १३; वागृ १५, ६.

चतुष्-पद^३- -पत् आपश्रौ १८,
१९, ७^४; वाधृश्रौ ४, १०० :

३०; वौगृ ४, २, ९^५; -^४पदः
शाश्रौ ४, २०, १; आपश्रौ;

-पदाम् आम्रिगृ २, ५, ९ : १५;
जैगृ २, ६ : १२; गौध २८, ७;

-^४पदे आश्रौ २, ९, १०;
शाश्रौ.

चातुष्पदा- -दया आपश्रौ
३, १४, ४; -दा शाश्रौ ७, २७,

६; वौश्रौ; -दाः निसू १, ३ :
२२; ७, ८ : ६; ऋञ्च १, ३, १२;

शुञ्च ५, १३; अञ्च २, २४; ऋषा
१७, ५०; -दानाम् ऋषा १८,

४७; आज्यो ४, १०; -दायाम्
निसू १, ७ : ७; -दे अञ्च १८,

४; १९, १६; उनिसू १ : ५४.
चातुष्पदा (दा-अ)ति-

शक्करी- -थेः अञ्च ५, २४^६.
चातुष्पदी- -^४दी वौश्रौ

१४, १४:३१; आगृ १, ७, १९^७;
कौगृ १, ८, २८^८; शांगृ १, १४,

६^९; या ११, ४०; -दीम् उसू
५, ६^{१०}; -द्याः आपश्रौ १८, २०,

५; वाश्रौ ३, ३, ४, ४; हिश्रौ १३,
६, ४६.

चातुष्पत्-पक्षि-भुजग- -गान्
अप ७०^{११}, १२, ३.

चातुष्पत्-पक्षि-मानुष- -पाः
अप ७०^{१२}, २१, ३.

चातुष्पत्-पक्षि-सदश-
-शानि अप ७०^{१३}, १०, ४.

चतुष्-पद- -दम् आज्यो ४, ६;
९; -दे निसू ६, ३ : १०; आज्यो

५, १५.
चातुष्पद^{१४}- -द्वौ निसू ५,
८ : ५.

चतुः,प्-पर्याय^{१५}- -यः वौश्रौ
१७, ९ : १७; -याः लाश्रौ ६,

८, १; -थान् निसू ७, ८ : २.
चतुष्-पञ्च^{१६}- -ञ्चः वौश्रौ १७,
३२ : ८.

चतुष्-पाणि^{१७}- -णि अप २५,

२, ५.

चतुष्-पात्र^{१८}- -त्रम् वौश्रौ २९,
१० : १९.

चतुष्-पाद- -पात् आपश्रौ ४,
११, ११^{१९}; वौश्रौ १२, ७:४४; १६:

५; भाश्रौ; कौसू ३३, ९^{२०};
-पासु माश्रौ ५, २, १, ३; वौगृ ३,

५, १२; -पादः वौश्रौ १४, ९:३;
माश्रौ १, ८, ३, ३^{२१}; आम्रिगृ २, ५,

५ : ३^{२२}; मैत्र १०; अञ्च ८, १०
(३, ४^{२३}); पा २, १, ७१; -पादि

वौश्रौ २८, ११ : ५; -पाद्व्यः
या १२, १३; पा ४, १, १३५.

चातुष्पाच्-ञ्च (<ञ्)कुनि-
-निषु पा ६, १, १४२.

चतुष्-पाद,दा^{२४}- -दः विच ८६,
१५; -दाः शाश्रौ १६, २३, ३;

निसू ७, ८ : ३; वौश्रौ २७, ४ :
१; -दाव्यः निसू १, ४ : २५;

-दे कागृ १७, १.
चतुष्-पा (द >) दी^{२५}- -दी
वेज्यो ३०.

चतुष्-पुट^{२६}- -टम् आपश्रौ १२,
२, १४.

चतुः,प्-पुत्र^{२७}- -पः आपश्रौ
१६, १७, ११; माश्रौ ६, १, ५,

३१; वाश्रौ; -पम् जैश्रौ ७ : ५.
चतुः,प्-प्रकार^{२८}- -रः अप ७०,

१०, १; -रम् अप ४४, १, २.
चातुष्-प्राश्य-> चातुष्प्राश्य^{२९}-

पावा ५, ४, ३६; -श्यम् काश्रौ
४, ६, ११; ८, २; १०; द्राश्रौ १२,

१, १६; ४, ८; लाश्रौ ४, ९, १०;

- a) विप. । कस. > वस. । b) विप. । तत्रभवनीयः अण् प्र. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप २, ३ खं.
चातुष्पात् ऐत्रा ८, २० टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, १३०३ k द्र. । f) कस. । एतदनुष्टु ९० अतिशक्क्यः इत्यत्र
यनि. शोधः । g) पाभे. वैप २, ३ खं. चत्वारि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । h) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. ।
i) विप., नाप. (अतिरात्र-) । वस. । j) विप. । वस. । k) तद्विदार्ये द्विस. । l) पाभे. वैप १,
१३०३ ll द्र. । m) समाहारे द्विस. ।

१२,८; -इयात् वौश्रौ २०,६ :
३; २३, २-३ : ३; -इयाम्
वैताश्रौ ६,६^०.

चातुष्प्राश्य-पचन-वत्
पाय १,२,४.

चातुष्प्राश्य-प्राशन-नम्
द्राश्रौ १२, २, ११; लाश्रौ ४,
१०,११.

चतुः-पटि- -पिः वौश्रौ २१,
६ : २०; अप ३३, ३, २; विघ;
-पिम् वौश्रौ १८, ३७ : १२;
१७; विघ ५, ६७; वौश्रु १६,
१०; १६; १९.

चतुःपट^० -ष्टम् काश्रौ २४,
५,११; लाश्रौ १०,१४,१३^०.

चतुः, ष्-पोडशिन्^० -शी
आपश्रौ २२,५,१४; हिश्रौ १७,
२, ४२.

चतुसः (ः) पा ५, ४, १८; ८,३,
४३; आश्रौ ७, ११, ११; १६;
शाश्रौ; वैश्रौ २६ : १२^०; चतुः-
ऽचतुः भाश्रौ ७, २२, ११; निस्
७,८ : ४; कप्र ३,६,२.

चतुस-त्रिंशत् -शत् शाश्रौ १६,
३, २४; वाधूश्रौ ३, ८२ : ३;
द्राश्रौ; -शतम् काश्रौ २३, ४,
४^०; २५, ६, १; वाश्रौ; -शताम्
काश्रौसं २९ : २३.

चतुर्विंश- -शः वौश्रौ १०,
४२ : ८; -शम् निस् १०, ७ :
१; -शानि लाश्रौ ८, १२, १४.

चतुर्विंश-पवमान- नः
वौश्रौ १२, १६ : २८; -नाः
वौश्रौ १६, २८ : १९.

चतुर्विंशद्-अक्ष(>)रा-
-रा निस् ३,४:२९; -राः निस्
२, १२:२३; २७; ४,१०० : १३.

चतुर्विंशद्-धो (< हो)म-
-मः काश्रौ २५, १२, १७.

चतुर्विंशद्-रात्र^१ - -त्रः
वौश्रौ १६, ३५:१३; -त्रम् आश्रौ
११, ४, ५; काश्रौ २४, २, ३२;
आपश्रौ २३, ५, १२; हिश्रौ १८,
२, ११.

चतुर्विंशद्-त्राच्य- > च्य-
त्व- -त्वात् मीस् ९, ४, १७.

चतुस-त्रि-द्वि-भाग- > णी-
√कृ > णी-कृत- -तान् विघ
१८, ७.

चतुस-त्रिषुद्-मन्त^० -न्तम्
ऋअ २, १, ५८; १०१.

चतुस-त्र्ये(त्रि-ए)क- -कैः कप्र
१, ७, १०.

चतुः-सं(स्या >)स्य- -स्यः
वैताश्रौ २६, १५.

चतुः-सस(क >)का- -का ऋअ
१, ५, ८; शुअ ५, ३१.

चतुः-सहस्र^० -सम् ऋप्रा ५,
२७^०.

चतुः-सी(ता >)त^१ -तम्
वौश्रौ १७, २८ : ११; हिश्रौ
१२, ८, ५.

चतुः-सुवर्णक^१ -कः विघ ४,
१०.

चतुः-सुकत^१ -क्तानि शाश्रौ
१२, ३, ४; -क्तौ ऋअ ३, १५^१.

चतुः-स्तन, ना^० -नम् आपश्रौ
१७, २६, ७; २१, ४, १४; २३,

११, ६; भाश्रौ १२, ४, ५; वैश्रौ
१२, २४ : ६; हिश्रौ १०, ३,
३९; -नानि आपश्रौ १६, ३५,
१०; वैश्रौ १९, १ : १७; हिश्रौ
११, ८, २६; १२, ८, २०; १६,
१, ४७; वाधूश्रौ ४, १०६ : ४;
६; -ने माश्रौ २, २, १, ४९.

चतुः-स्तम्भ^१ -म्भम् अप २१,
६, १.

चतुः-स्तोत्र^१ - -त्रः काश्रौ १२,
६, ६.

चतुः-स्थान- -ने काश्रौ २०,
४, ९.

चतुः-स्यू(या >)ण^१ -णम्
आपश्रौ ११, ९, ४; माश्रौ २,
२, ३, १२; वैश्रौ १४, १० : १.

चतुः-सक्त^१ -क्त आपश्रौ
१२, २, १××; वौश्रौ; -क्तः
काश्रौ २६, ७, १४^०; आपश्रौ
१५, १४, ५^०; २२, ९, १८;
वौश्रौ; -कितना काश्रौ १२,
५, २; ७; १७, ३, ३; -कितम्
काश्रौ ५, ३, ३१; आपश्रौ ७, ५,
१××; काठश्रौ; -क्तोन् काश्रौ
१८, ६, ७; -क्तौ वौश्रौ १२, ६ : २.

चतुस-स्वर- > चातुस्स्वर्थ-
-यैन् भास् ३, २६.

चतु (< तुर्)-रात्र^० -त्रः
शाश्रौ १६, २३, ७; हिश्रौ १७,
७, ६; निस् ८, १० : १७; शौच
४, ८०^०; -त्रम्^० काश्रौ १९, १,
१४; वैश्रौ २०, १५ : ७; आम्रिअ
१, २, १ : २०; वौश्रु ३, १, २६;
गौपि १, ५, १; -त्रस्य आपश्रौ

a) = ब्रह्मोदननिर्वर्तिका-घेनु- (तु. गो १, २, २१ प्रमु.) । b) विप. । अधिकार्ये षः प्र. उसं. (पा ५, २, ४५; ४६) ।

c) ष्टमिति पाठः ? यनि. शोधः । d) = ब्राह्म-स्तोत्र-विशेष- । वस. । e) तु. भाष्यम्; वैतु. संस्कृतुः सूची उत्तरेण
समस्तम् इति ? । f) = सत्र-विशेष- । g) विप. । कस. > वस. । h) वैप १ द्र. । i) विप. । वस. ।

j) चतुष्कौ इति संस्कृतुः टि. द्र. । k) समाहारे दस. ।

२२, १४, ५; हिथ्रौ १७, ६, ३;
-त्राः आपथ्रौ २२, १८, ११;
बोध २, १, ६५; -त्राणाम् निसू
३, ७ : ८; -त्राय बौथ्रौ १६,
२८ : १; ६; १०; -त्रे बौथ्रौ
१६, २८ : १२-१४; -त्रेण शांथ्रौ
१६, २३, १; २६; निसू ८, १० :
१४; २१; -त्रेभ्यः लाथ्रौ ९,
५, ६.

चात्तरात्र^० -त्राय निसू
८, ४ : २९.

चत्तरात्र-प्रभृति- -तयः निसू
९, ८ : १९; -तिषु आपथ्रौ २२,
१४, १५; हिथ्रौ १७, ६, ५.

चत्तरात्रा(त्र-आ)दि- -दिषु
काथ्रौ २२, १, ७.

चत्तरात्रो(त्र-उ)पज्ज^० -नम्
आथ्रौ ११, २, १४; ३, ४; ११;
४, ५; ८.

चत्वार^० - पाठ ५, ५८^d; पा ७, १,
९८; -त्वारः आथ्रौ ४, १, ४××;
शांथ्रौ; माथ्रौ १, ६, ४, २१^f^०;
वाथ्रौ १, ५, ५, ७^f^०; पाठ ३,
१, २^f^०; काय २६, ७^f^०; वैय
४, २ : ५^f^०; बोध २, ६, १३^f^०;
अथ १६, ८^f^०!; या १, ४; ३,
८; १०^f^०; ११; १९; -त्वारि
आथ्रौ ३, ८, १^f^०××; शांथ्रौ;
आपथ्रौ १०, २२, १२^f^०; आपमं
१, ३, १०^f^०; पाठ १, ८, १^f^०;
आमिथ्रौ १, ५, ४ : ४३^f^०; काय
२५, ४२^f^०; भाग १, १७ :
२^f^०; भाग १, ११, १८^f^०; वाय
१४, २३^f^०; हिथ्रौ १, २१, १^f^०;

जैय १, २१ : २८^f^०; या १,
१; १२; ३, ११; १३, ७^f^०;
९^f^०; -त्वारिऽ-त्वारि आथ्रौ ९,
४, ५; काथ्रौ २२, ११, १; बौथ्रौ
१३, २३ : ८; २३, ३ : १५;
माथ्रौ १, १, १, ३; २, १, १, १७;
५, १, ९, ६; लाथ्रौ ७, ५, १३;
१२, ९^f^०.

चत्वारिन्- > ँरि-शत्^० - पा ५,
१, ५९; फि ७; -शत् शांथ्रौ
४, १५, ११××; आपथ्रौ; -शतम्
आपथ्रौ १७, ३, ४; २१, १, १४^h;
बौथ्रौ; हिथ्रौ १६, १, ११^h;
-शतम्ऽ-शतम् शांथ्रौ १६, ८, ९;
-शता आपथ्रौ ९, ११, २३; निसू
५, १२ : १४; आमिथ्रौ ३, १०, ५ :
५; बौपि ३, ८, १; हिपि २३ :
२१; गौपि २, १, ८; गौध ८, ८;
-शते तैत्रा १६, २४^f^०.

चात्वारिंश^० - पा ५, १,
६२.

चात्वारिंश- -शम् आपथ्रौ
२३, ९, ८; १४; हिथ्रौ १८, ३,
१६; -शाः बौथ्रौ १६, ३४ :
१३; -शे लाथ्रौ ६, ६, १९; -शौ
बौथ्रौ १८, २३ : ९.

चात्वारिंशच्-चतुःपञ्चाशत्-
-शतम् निसू ५, १२ : ६.

चात्वारिंशच्-छ(< श)त-
-न्तानाम् बौथ्रौ १६, २५ : १९.

चात्वारिंशत्-कर(ण >)णी^१-
-णी काशु २, ९.

चात्वारिंशत्-प(द >)दा-
-दाम् काथ्रौ १७, ३, १४.

चात्वारिंशत्-प्रभृति- -तौ पा
६, ३, ४९.

चात्वारिंशद्-अत् (र >)रा^०-
-रा वाध्रौ ४, १००^३ : ८; ११५ :
१०; निसू १, ३ : १.

चात्वारिंशद्-अन्त^० -न्तानि
काथ्रौ २४, १, २.

चात्वारिंशद्-दिवस- -साव
वैय ३, १९ : १.

चात्वारिंशद्-रात्र^० -त्रम्
आथ्रौ ११, ४, ८; काथ्रौ २४, २,
३६; -त्रात् शांथ्रौ १३, १४, ९;
काथ्रौ २४, २, ३१; निसू ९, १० :
११; -त्रेण आपथ्रौ २३, ६, ११;
हिथ्रौ १८, २, १७.

चात्वारिंशद्-वर्ष- -र्षः बौथ्रौ
२६, ६ : १३.

चात्वारिंशन्-मान^० -नम्
आपथ्रौ ५, २१, ९; वाथ्रौ १, ४,
४, २६; वैथ्रौ १, १६ : १३;
हिथ्रौ ६, ५, १८.

तुरीय, या^० - पावा ५, २, ५१; -^१यः
आपमं १, ३, १^१; पाठ १, ४,
१६^१; काय २५, २२^१; बौय १,
४, ७^१; भाग १, १६ : २^१; हिथ्रौ
१, २०, २^१; जैय १, २१ : ६^१;
अपं ४ : ४^१; -यम् वाध्रौ ३,
१७ : ८^१××; कौय; या ६,
२१^१; १३, ९^१; ^१; ^१; -या
आपथ्रौ १९, १७, १०^१; बौथ्रौ
१४, १५ : ११; हिथ्रौ २२, १,
२१^१; पाठ ३, ३, १३; अथ ५,
६; १३, १; -चे कप्र २, ६, १;
वृदे ६, १२९; -येण शांथ्रौ १५,

a) स्वार्थे ऋण प्र. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) < √ चत् । e) पाप्मे. वैप १,
१३०५ ज द्र. । f) चत्तराः इति पाठः? यनि. शोचः । g) पाप्मे. वैप २, ३खं. चत्वारि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. ।
h) शोधः पृ ४३९ w द्र. । i) = ब्राह्मणग्रन्थ-विशेष- । j) चतुष्करणी- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । k) = सत्र-
विशेष- । l) पाप्मे. वैप १, १३०६ c द्र. ।

३,७; ऋषा १८,४५.
 तुरीय-क^३- -कम् शंभ २७३.
 तुरीयो(य-ऊ)न- -नम् कप्र २,
 ५,१५.
 तुर्य^३- पावा ५, २, ५१; -यैः
 आमिष्ट १, ५, ३ : १५^३; चाष्ट
 १४,१०^३; अर्ष ५ : १७; -यैम्
 माश्रौ २, ४, ५, ७; -यै भाशि
 १०९; -यैण जैश्रौ ९ : २०.
 तुर्य-मुत्स^३- -यम् माश्रौ ६, १,
 ५,३३.
 तुर्य-वाह^३- -वाहः वाश्रौ ३,४,
 ३,१९^३.
 तुर्यौही- -ही शुभा ५,४०^३.
 चतुर^३- पाठ १,३८^३; पा,पाग ५, २,
 १२७; पाग ५,१,१२४^३.
 चातुर्य- पा ५,१,१२४.
 चतुरानर्तनम्^३ कौष्ट १,७,२; शांठ
 १,११,५.
 चतुरोर्नर्तनम्^३ काष्ट २२, १.
 चतुस् प्रमृ. चतुर्- द्र.
 चत्त-, चत्त- √चत् द्र.
 चत्र^३- -त्रम् कप्र १,७,२;५;८,४.
 चत्र-दुष्ण- -श्रे कप्र १,८,२.
 चत्रा(त्र-अ)प्र-कीलका(क-अ)प्र-
 (त्य>)स्था^३- -स्थाम् कप्र १,
 ८,३^३.
 चत्रौ(त्र-श्रौ)वीलीक^३- -कम् कप्र ३,
 २,११^३.

चत्वर^३- पाठ २, १२१^३; -रे अशां
 १५,१.
 चत्वारध्याम्^३ वैतु ६३ : ४.
 चत्वार- चतुर्- द्र.
 चत्वारभाग- -ने कौशि २.
 चत्वारम् जैश्रौका २०९.
 चत्वारिंशत्- प्रमृ. चतुर्- द्र.
 √चद् पाषा. भ्वा. उभ. याचने.
 √चन् (बधा.) पाषा. भ्वा. पर.
 हिसायाम्^३, चुरा. उभ. श्रद्धोपह-
 ननयोः.
 चन्स्^३- पाठ ४,२००; पावा १,४,
 ६०; -त्तनः आपश्रौ १६, ७,४;
 वैश्रौ १८,४ : २१; हिश्रौ ११,२,
 २; निष ४,३^३; या ६, १६^३;
 -नसि वाषुश्रौ ४,९४^३ : ३,४.
 √चन्त्य > चन्सित^३ -उत्
 आपश्रौ १०,१२,८; माश्रौ १०,
 ७, १५; माश्रौ २, १, २, २९;
 -त्म् आपश्रौ १०,१२,७; माश्रौ
 १०,७,१४; हिश्रौ १०,२,३७.
 चन्सित-व (त् >) ती-
 -तीम् वौश्रौ ६, ६ : ७; १९; वैश्रौ
 १२,११ : २.
 चन्सिता(त्-अ)न्त^३- -न्तम्
 वैश्रौ १२,११ : ३.
 चन्सितो (त्-उ) चर^३- -रम्
 वैताश्रौ ११,१९.
 चनो-हित^३- -तः वाषुश्रौ ४,

९४^३ : ५;८; -त्म् वाषुश्रौ ४,
 ९४^३ : ६.
 चन्त्^३ आश्रौ १, ३, १३xx; शाश्रौ;
 आपश्रौ ६,१७,१०^३; माश्रौ ६,
 ४,४^३; या २,१४; ११,३८^३;
 १३, १; ४८^३; पा ८, १, ५७;
 पाग १,४, ५७^३; आज्यो ५,१२.
 चनीखुदत्- √खुद् द्र.
 √चन्द^३ पाषा. भ्वा. पर. आहादे.
 चन्दन्^३- पाठ २,७८; पाग २,१,
 ५६; -नम् आमिष्ट १,३,१ : ३-
 माष्ट २,१८ : ३; हिष्ट १,१०,४-
 अर्ष ९,२, १; ३६, २८, १; या
 ११,५^३; -नत्य आमिष्ट १, ३,
 ३ : १५; -नेन आपष्ट १२-
 ८; भाष्ट २, २० : ७; अर्ष १८,
 ३, १; निष १६, २३; -नैः
 जैश्रौका १२; अर्ष १,४५,२.
 चान्दन्^३- -नः अर्ष २१-
 ३, ३.
 चान्दन्-अणि- -गिन् हिष्ट
 १,१०,६^३.
 चान्दन्-तुरोदका(क-अ)-
 क्षताक्षत-गोनप-दूर्वास्त्वन्वो(न्व-
 ट)दुन्दर-पलाश-शानी-वैकङ्कता-
 (त्-अ)अत्य- -त्येन हिष्ट २,
 ९,७^३.
 चान्दन्-कानन- -नम् अर्ष ६८-
 १,२९.

a) = तुरीय-। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १,१३०६० द्र.। d) विप.। तद्विद्यार्थे द्विज.। e) विप.
 > नाप.(प्रवीण-).। व्यु. ?। f) < √चव। g) तु. पागम.। h) पाठः ? चतुरम्, नर्तनम् (ररु) > रान न वा
 शोन वेति बाधि.। इति शोधः। काष्ट. ? कुर्यात् > कुर्युः इति शोधः (तु. सक्रमं गायेयुः इति; वैतु. Old. [शांठ.] चतुर,
 क्षान् इति)। i) = मन्थन-दण्ड-। व्यु. ?। चात्र- इति BI.। j) विप.। पत्त.>सत्त.>पत्त.>उत्त.। k) आश्रवः
 की इति जीसं., चात्रोर्ष्वकी इति BI., चत्राश्रवः की इति अल्फ. पामे.। l) समाहारे द्वज.। m) विद्विक्त्-
 इति अल्फ.। n) = अङ्गन-। = चतुष्पथ- [अश्रं.]। व्यु. ?। o) स्वरुम् ? तप्र. आपष्ट १४, ११ विरिष्टः पामे.।
 p) तु. BPG.। q) वैप २, ३४. द्र.। r) विप.। वस.। s) पामे. वैप १,१३०७० द्र.। t) तु. पाका.।
 वन इति भाण्डा.। u) या ११, ५ परामृष्टः द्र.। v) विकारार्थे सण् प्र.। w) षन्, न इति Bōht
 [ZDMG ५२,८२]। x) चन्द इति Bōht [ZDMG ५२,८७]।

चन्दन-कुङ्कुम-कर्पूर-मृगमद-
जातीफल-वर्जम् शंघ १२८.
चन्दन-कुङ्कुम-कर्पूरा(र-अ)गुरु-
पञ्चक- -कानि विध ७९, ११.
चन्दन-मृगमद-दारु-कर्पूर-कुङ्-
कुम-जातीफल-वर्जम्^१ विध ६६,
२.
चन्द्रना(न-अ)गुरु- -रु अत्र ३६,
१५, १; -रुम् अत्र ६६, २, २^b.
चन्द्रनागुरु-संयुत- -तम्
आमिष्ट २, ४, ६ : २४.
चन्द्रना(न-अ)दि-प्रदीपान्त^०-
-न्तैः आमिष्ट २, ४, १० : ९.
चन्द्रना(न-अ) दि-विलेपन-
-नम् कप्र २, ८, ५.
चन्द्रनो(न-उ)क्षित-सर्वाङ्ग-
-ङ्गम् कप्र ३, २, ४.
चन्द्र, चन्द्रा^{१०} - पाठ २, १३; पाग ५,
२, ३६^१; -चन्द्र वीथी ८, ६ :
६; पायु; -न्द्रः शांथी ६, ३, १^३फ;
जैथीप ९; सु; या ११, ५^३फ;
-न्द्रम् शांथी ६, ३, १फ; च्चाथी
७, ८, १४; २६, ४, १; आपथी २०,
१८, १०; -न्द्रस्व अत्र ५०, ४,
५; वीध ४, ५, २०; वृदे १, ८८;
आज्यो ७, २३; -न्द्रा वीथी ६,
१३ २१फ; भाशि १२०फ; नाशि
१, २, १०^६; -चन्द्राः वीथी १२,
९ : ७; भाशि ११५; -चन्द्राणि
आपथी १०, २६, १०; वीथी ६,
१५ : ३; वैथी १२, १९ : ३;
हिथी ७, २, ७४; -चन्द्रात् काथी
२५, ६, ८; अप्राय २, ९;

-चन्द्राय आपथी १४, २५, ११;
कौस् ४९, १२; १००, २; १३५,
९; -न्द्रे अत्र ६८, २, ४; ७०^३,
११, २३; विध १, ३६; शुप्रा
३, ५४फ; ऋत ४, ७, ३फ;
-चन्द्रे द्राथी ९, २, ३; लाथी
३, ६, ३; -चन्द्रेण वीथी ६, १५:
२; १२, ९ : ७; कौग १, १०,
१; शांथ १, १६, ३; अत्र १, ५,
६९.
चान्द्र^१ -न्द्रम् अत्र २, १९;
या ११, ५; -न्द्रे विध ७८, २.
चन्द्र-क- (>चन्द्रकित-)
चन्द्र- टि. द्र.
चन्द्र-कला(ला-अ)भिवृद्धि-
-द्धौ विध ४७, ३.
चन्द्र-ग्रह^१ - -हे आमिष्ट २, ५,
१ : ६.

चन्द्रग्रह-निमित्त- -त्तानि
अत्र ५३, २, २.
चन्द्र-चार-विद्- -विद्ः कप्र
२, ६, ६.
चन्द्र-दक्षि(णा>)ण^१ - -णाः
वीथी ८, ५ : २१; वैथी १६,
७ : ३; हिथी १०, ४, ४५.
चन्द्र-दर्शन- -नम् काय ३८, १;
-ने कप्र १, ९, ७.
चन्द्र-निर्णय^१ - -र्णिक् ऋप्रा
१४, ४५; उस् ५, १.
चन्द्र-पर- -रः तैप्रा ५, ५.
चन्द्र-प्रमाण^१ - -णाः लाथी १०,
१६, १३.
चन्द्र-वृहस्पति- -ती विध ४९, ९.

चन्द्र-भाग^१ ->णा^१ - पाग ४,
१, ४५; -गायाम् विध ८५, ४८.
चन्द्रभागी^१ - पा ४, १, ४५.
चन्द्र-मास^१ - -सः अत्र ५२,
१०, १.
चन्द्र-भास्कर- -रौ अत्र ६२, ३,
३; ६४, ३, ८.
चन्द्र-मस्^१ - पाठ ४, २२८;
पाग ६, २, ४३; -०मः शांथी
४, ८, ४फ; -मसः वीथी १८,
५२ : १५; निस् २, ५ : ३०;
कौस् ९३, ८; कप्र; या ४, २५फ;
११, ३; ४; १४, ८; पावा ४, २,
३; -मसम् शांथी ३, ८, १५फ;
आपथी १, ७, १; वीथी; या २,
६; ११, ४; १४, ८; १८; २३;
-मसा आथी ३, १३, १३; काथी
२५, ४, ३७; आय ३, ११, १फ;
अप्राय ५, ६; या ७, ११; १३,
३६; १४, २३; -मसि च्चापथी
५, ९, ७xx; वीथी; -मसे
आपथी ६, ८, १फ; १०, १०, ६फ;
वीथी; -मसौ अत्र १, ४१, ६;
अशां ११, ६; -माः च्चाथी
५, १३, १४; १०, ९, ३; च्चाथी
५, १, ३; १६, ५, ४; आपथी;
वैथ ५, ४ : ३६^१; या ११,
५फ.
चान्द्रम^१ - -मः निस् ५, १२:
१९.
चान्द्रमस^१ - -सः द्राथी
८, ४, ६; लाथी ४, ८, ६; निस्
५, ११ : ७; साअ १, १४७;

a) मदागुरुक^० इति जीसं. । b) मलो.कस. । c) विप. । वस.>कस. । d) = ग्रह-, हिरण्य-, मेदस्-,
साम-विशेष- प्रमृ. । e) वैप १ द्र. । f) तु. पाका. । चन्द्र-क- इति भाण्डा. । g) = मूर्च्छना-विशेष- ।
h) विप. । सास्यदेवतीयः तस्येदमीयश्च अण् प्र. । i) उप. = उपराग- । j) विप. । वस. । k) = पर्वत-
विशेष- (तु. पागम.) । व्यु. ? । l) = नदी-विशेष- । चान्द्र^० इति केचिदिति पागम. । m) = ग्रह-विशेष- ।
n) म्ना इति पाठः ? यनि. शोधः । o) = चान्द्रमस- । डण् प्र. उत्सं. इति विशेषः ।

-सम् वौश्रौ १८, ३७ : ५; २६, ३३ : ६; वैगृ ५, १ : ११; अप्राय ३, ४; अत्र; -साः निस् ५, ११ : ३१; -से या १३, ५; -संसेन आमिगृ ३, ९, ३ : २४; वौषि २, ७, १९; -सौ वृदे ७, १२५.

चान्द्रमसी^० -सी शांश्रौ १४, ३२, ३; अत्र १८, ४; -सीभिः वौध ३, ८, १८; -सीम् वौध ३, ८, ९; शुअ १, ८६; -स्यः निस् ४, ९ : ५; या ५, ११; -स्या आश्रौ ९, ८, २; -स्यौ अत्र ६, ६८. चान्द्र-रथ^० -थम् आपश्रौ ५, १०, ४; माश्रौ १, ५, २, १४; वाश्रौ १, ४, २, ५; हिश्रौ ३, ३, ३६.

चन्द्र-रश्मि-मनोहर- रम् विध १, ३४.

चन्द्र-राहु- पाग २, २, ३१^०.

चन्द्र-ललाट^० -टाय गौध २६, १२^०.

चन्द्र-वत् अप ४, २, १२.

चन्द्र-वपा- -पयोः आपश्रौ २०, १९, ३^०; हिश्रौ १४, ४, २७^०; -पानाम् वाश्रौ ३, ४, ४, २२^०.

चन्द्र-वरुण-विश्वेदेव- -वाः अश्रभू ३.

चन्द्र-वल्ल (भ >) भा^० -भाम् अशां १, ३.

चन्द्र-शब्द- -न्दे ऋप्रा ४, ८४; उत्सू ६, ५.

चन्द्र-सामन्^१ -स विध ५६, १४.

चन्द्र-सालोक्य- -क्यम् विध

९२, १२.

चन्द्र-सूक्त- -क्ते विध ५६, २०.

चन्द्र-सूर्य- -र्ययोः अप ६७, ६, ४; ७०^२, ३, १; वृदे ६, १२६.

चन्द्रसूर्य-ग्रह^६ - -हे कप्र १, १०, ७; अप ५३, ६, ५.

चन्द्रसूर्यग्रहो (ह-उ)

पग- -गान् विध ९०, २९.

चन्द्रसूर्य-तला (ल-आ) अय- -याः^५ अप ५२, ७, ५.

चन्द्रसूर्यो (य-उ) पराग- -नो वाध १३, ३४.

चन्द्रा (न्द्र-अग्र >) मा^० -आः या १२, १८^०.

चन्द्रा (न्द्र-अ) दर्शन- -ने काश्रौ ४, १, १; माश्रौ १, १, २, १; -नेन वाश्रौ १, १, २, १.

चन्द्रा (न्द्र-आ) दित्य- पाग २, २, ३१^०; -स्यौ आमिगृ २, ६, १ : १७.

चन्द्रादित्य-गत- -तम् आज्यो १, २.

चन्द्रा (न्द्र-आ) न (न >) ना- -०ने विध ९९, ३.

चन्द्रा (न्द्र-अ) यण- > १ चान्द्रायण^१ - पाग ४, २, ५४^१; -णः वाध २३, ४७; २७, २१^२; विध ४७, ३६; गौध २७, १६; -णम् वौश्रौप ५४ : ५; आमिगृ ३, १२, १ : ७; वैगृ; -णेन शंघ ४४२; सुध ४४; -णैः विध ९५, १३.

चान्द्रायण-कल्प- -ल्पम् वौध ३, ८, १.

चान्द्रायण-द्वय- -यम् विध ५३, ६.

चान्द्रायण-भक्त- पा ४, २, ५४.

चान्द्रायण-विधि- -धिः वाध २३, ४४.

चान्द्रायण-व्रत- -तम् वाध २३, १६; वैध १, ७, ८.

चान्द्रायणा (ण-अ) ऋद- फल- -लम् शुभ ४, २२१.

चान्द्रायणिक- पा ५, १, ७२.

चान्द्रायणो (ण-उ) तर- -रम् वाध २१, १३.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कर्क- पाग २, २, ३१; -र्कयोः अप ७२, ३, १५; शंघ ४६; -कौ अप ६७, ६, १; ७२, २, १.

चन्द्रार्क-संनिकर्ष-विप्रकर्ष- -र्षयोः विध ५९, ४.

चन्द्रार्को (र्क-उ) पराग- -नो विध ६८, १.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कर्क-तार (क >) का- -काः विध ६८, ३७.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कौ (र्क-उ) ल्का- प्रमेद- -दाः अप ६४, ६, ६.

चन्द्रा (न्द्र-अ) र्ध- -र्धः काशु ७, २१.

चन्द्रित- पा ५, २, ३६.

चन्द्रे (न्द्र-इ) न्द्रध्वज-सूर्य- -र्याणाम् अप ६८, २, ३७.

चन्द्रो (न्द्र-उ) तरपद- -दे पा ६, १, १५१.

चन्द्रो (न्द्र-उ) द्य- -ये विध ९०, १.

a) विप. (इष्टि-, ऋच्- प्रथ.) । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) विप. । वस. । e) चन्द्रस्य वपयोः इति पाठः? यन्ति. शोधः (तु. सपा. आपश्रौ.) । f) = साम-विशेष- । g) उप. = उपराग- । h) विप. । पस. > वस. । i) = व्रत-विशेष- । j) = राज-विशेष- ।

चन्दन- ✓चन्द् द्र.
 चन्दिर- पाठ १, ५१^१.
 चन्द्र-, चन्द्र-मस- ✓चन्द् द्र.
 रचन्द्रमस्^१- पाग ४, १, १५४.
 रचन्द्रमस- साः वौश्रौप्र ३: १२.
 चान्द्रमसायनि- पा ४, १, १५४.
 ✓चप् पाधा. भ्वा. पर. सान्त्वने,
 चुरा. पर. परिकल्कने.
 च-पर- च द्र.
 रचपल, ला^०- पाठ १, १११; पाग
 २, १, ४०; ५९; ७०; ३, १, १२;
 ५, १, १२४; १३०; ६, २, २४; ३,
 ३४; -लः कागृ ३५, १^१.
 चापल- पा ५, १, १३०; -ले
 पावा ८, १, १२.
 चापल्य- पा ५, १, १२४.
 चपल-मध्य^१- ध्वे विध ७०, १४.
 ✓चपलाय पा ३, १, १२.
 रचपल^१- (>चापलायन- पा.)
 पाग ४, १, ११०.
 चपेट- पाठमो २, २, १०९.
 चप्पट्टक^१- (>चाप्पट्टक्य- पा.)
 पाग ४, १, १५१^१.
 चफट्टक^१- (>चाफट्टकि->चाफट्ट-
 कायन- पा.) पाग २, ४, ६१.
 ?चव्वाम् वाधूश्रौ ४, २६: १.
 ✓चम्^१ पाधा. भ्वा. पर. अदने, स्वा.
 पर. भक्षणे, चमन्ति या १०,
 १२; चमताम् वाश्रौ १, १, २,
 ३^१.
 चमस^१- पाठ ३, ११७; पाग २, ४,
 ३१; ४, १, ४१^१; १०५^१; -सः
 ङश्रौ १, ३, ६××; शाश्रौ; ङया
 १०, १२^१; १२, ३८; -सम्

आश्रौ ५, ७, ७; ९, ३, १८; शाश्रौ;
 वौषि १, ५: १८^१; ङ; या १०,
 १२^१; -सस्य आपश्रौ १२, २४,
 ५; वौश्रौ १४, २: २५; हिश्रौ;
 या ११, १६; -साः आश्रौ ५, ६,
 २३; ६, १२, ६; काश्रौ ९, १४, ६;
 २४, ४, ४०; आपश्रौ; -सात्
 वौश्रौ ३, २९: १५; लाश्रौ ९, २,
 ४; -सान् आश्रौ ५, ६, १३××;
 शाश्रौ; -सानाम् वौश्रौ २१, १९;
 २६××; माश्रौ; -सायऽसाय
 वौश्रौ ८, १२: ४२; २५, २३:
 ७; -से शाश्रौ १३, १२, ११;
 काश्रौ ११, ४, ९; २५, ११, ३३;
 आपश्रौ; -सेन काश्रौ १०, ५, १;
 आपश्रौ ८, ३, ८; वौश्रौ; -सेभ्यः
 आश्रौ ५, १७, ५; ६, १२, ७;
 वौश्रौ; -सेपु आश्रौ ६, ४, १०;
 १२, ११; काश्रौ; -सैः काश्रौ
 १०, ५, ८××; आपश्रौ; -सौ
 आपश्रौ १२, २६, ८; वौश्रौ ५,
 ९: १०; माश्रौ.
 चमसी- पा ४, १, ४१;
 पाग ६, २, १३४.
 चामस्य- पा ४, १, १०५.
 चमस-गण- गणः वौश्रौ १७,
 ९: १६; माश्रौ २, ५, ३, १३;
 वैश्रौ १७, ५: ५; हिश्रौ ९, ७,
 ५९; -णाभ्याम् वौश्रौ १७, ९:
 १५; -णाय आपश्रौ १४, २, २;
 २१, १०, ३; वैश्रौ १५, ३८: ३;
 हिश्रौ ८, ८, ५४; ९, ७, २२; १३,
 २, २८; १६, ४, १५; -णेभ्यः
 आपश्रौ १४, १, ६; ३, ८; ४, १२;

हिश्रौ ९, ७, ८; ३८; ५८; -णेपु
 वैश्रौ १७, ४: ६; -णौ वौश्रौ
 १७, ७: १४.
 चमस-ग्रह-पात्र- त्राणि अप
 २३, १, २.
 चमस-दर्वी- ध्व्यौ गोपृ ३, ७,
 ११; १५.
 चमस-निधान- नात् काश्रौ
 १०, १, २६.
 चमस-पात्र- त्राणाम् वौध १,
 ५, ४४.
 चमस-रस- रसम् आपश्रौ १३,
 १७, ९.
 चमस-वत् काश्रौ १८, ५, ४;
 शंघ १६७; मीसू ३, ५, ८.
 चमस-श्रुति- तिः मीसू ३, ५, ३१
 चमसा(स-आ)कृति- ति काश्रौ
 १, ३, ४०.
 चमसा(स-अ)ध्वर्यु^१- ध्वः
 काश्रौ ९, ११, ३; २२, १०,
 ६; आपश्रौ १०, १, १४^१××;
 वौश्रौ; -ङ्गध्वः काश्रौ ९,
 ११, ३; आपश्रौ १०, ३, १;
 १२, २३, ४^२; वौश्रौ; -ध्वे
 आपश्रौ १४, २८, १; वैश्रौ १५,
 २०: ११; हिश्रौ ८, ७, ३३;
 -ध्वः वैश्रौ १५, ६: १; -ध्वभ्यः
 आपश्रौ १३, ६, ६; हिश्रौ १०,
 ४, ५९; ६१; -ध्वन् आपश्रौ १०,
 ३, १; वौश्रौ; -ङ्गध्व्यौ काश्रौ
 ९, ३, ३; आपश्रौ १२, ५, २;
 २६, ४; वौश्रौ.
 चमसाध्वर्यु-प्रसर्पक-सदस्य-
 स्येभ्यः आपश्रौ १३, ६, ७.

a) = चन्द्र- वा हस्तिन्- वा । b) व्यप. । व्यु. ? । c) विप. , नाप. (वालिग्रह- [कागृ.] । व्यु. ? । < ✓उपु
 इति श्रमा. प्रसृ. , ✓कम्प इति MW. । d) पूष. = दुर्व्यसनिन्- । e) तु. पागम. । f) वृदे ७, १२९यां ११, ५
 परामृष्टः द्र. । g) पाशे. वैप २, ३खं: रमताम् तैत्रो ३, ७, ४, ३ टि. द्र. । h) वैप १. द्र. । i) पाशे.
 पृ ५८६ i द्र. ।

चमसिन्- पाग ४, १, ९९^३;
-सिनः आश्रौ ५, ९, २७;
आपश्रौ; -सिनाम् वैश्रौ १५,
३१ : ८; हिश्रौ ८, ७, ३८; मीस्
३, ५, ३०; -सी वैश्रौ १५, ३१ :
९; हिश्रौ ८, ७, ३९.

चामसायन- पा ४, १, ९९.

चमसो(स-उ)न्नयन-काल- -ले
काश्रौ १०, ९, ३०.

चसू^b- पाठ १, ८०; -फँसू शाश्रौ
१०, ४, ५; आपश्रौ १९, ३, २९;
शुप्रा १, ९६; -म्वा कौस् ४८,
४; -फँसोः शाश्रौ १५, २३, १;
या ४, २१६; -फँसौ अप ४८,
६०; निघ ३, ३०.

चसू-पाल- -लान् अप ६३, ३, ९.

चमकुटिल- -लानि या १४, ३१.

चमर^d- पाठ ३, १३२; पाग ४, ३,
१५०^e.

चामर- पाठ ३, १५०; -रम् विघ ६५,
१४; -रैः आम्रिष्ट २, ४, ६; ३८.

चामर-ग्राह- (> ण्हिक- पा.)
पाग ४, १, १४६.

चामर-छत्र-संयुक्त- -क्तम् अप
५, ४, ४.

चमूरु- पाठभो २, १, १०४.

√चम्प^f पाधा. चुरा. पर. गत्याम्.

चम्पा- पाठभो २, २, २०९; पा, पाग
४, २, ८२.

चम्पू- पाठभो २, १, १२४.

√चय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

श्चय^g- (> षचाय- पा.) पाग ४,
३, १५२^h.

श्चय-, चय-क-, चयन- प्रसृ.

√चि द्र.

चयमान^b-> षचायमान- -नः वृद्धे
५, १२४; -नत्य ऋञ्ज २, ६,
२७; -नेन वृद्धे ५, १३८.

चन्योग- च द्र.

√चर्ⁱ पाधा. भ्वा. पर. गतौ भक्षणे.

च, चुरा. उभ. संशये, चरते

माष्ट १, २२, २०; बौध २, १०,

३०; या ६, ११; चरति फँआश्रौ

८, १४, ४; १०, ९, २ⁱ; शाश्रौ;

वौश्रौ १०, ४ : ५^j; पा ४, ४,

८; ४१; पावा ५, १, ९४; चरतः

शाश्रौ १५, १९, १^k; काश्रौ;

चरन्ति आश्रौ १, ५, १××

शाश्रौ १५, १७, १^k; या १४,

१०; चरसे वाश्रौ १, २, १,

३३^k; चरसि काश्रौ ५, ५,

५^l; विध; चरस्यः या १२, २^k;

फँचरथ^l शांष्ट ३, ११, १४; पाष्ट ३,

९, १६; विघ ८६, १६^m; फँचरामि

आपश्रौ ५, २५, २०××

वौश्रौ;

फँचरावः आश्रौ २, ५, १०;

वौश्रौ; माश्रौ २, ५, ५, १८ⁿ;

फँचराति शाश्रौ १५, १९, १;

आपमं २, १, ५; जैष्ट १, ११ :

१७; चरान् कौस् १०४, २^k;

फँचरतात्^o आपमं २, ३, १;

आम्रिष्ट १, १, ३; २; हिष्ट १, ५, १;

कौस् ५६, १४; जैष्ट १, १२ : २७;

चरन्तु अप १^r, १, ७^k; फँचर, >

रा शाश्रौ १५, १९, १^r; हिश्रौ;

चरतम् माश्रौ २, ३, ७, २^k;

फँचरत, >ता माश्रौ २, १, २,

२७^k; कौष्ट ३, ६, ९; माष्ट १,

२२, २^o; वाध ३०, १९; चराणि

कत्र २, २, १०; चराम हिष्ट १,

१५, १^k; फँचरत् आपश्रौ ४,

८, ३; वौश्रौ १८, ४७ : ८;

भाश्रौ; लचरः आपश्रौ ५, १, ७^k;

वाश्रौ १, ७, २, २७; चरेत् शाश्रौ

९, २८, १८; काश्रौ; हिध १, ८,

४३^o; या १४, ३१^r; चरेयाताम्

शांष्ट १, १७, ५; आम्रिष्ट; चर्युः

आश्रौ ३, ५, ५××

काश्रौ.

चचार शाश्रौ १४, ५०, १××

आपश्रौ १, ९, ९^k; वौश्रौ;

चरिष्यति शाश्रौ १४, ५०, १;

फँचरिष्यामि आश्रौ ८, १४,

६; शाश्रौ ४, ८, ३^k; आपश्रौ

४, ३, २^o××

वौश्रौ; लचारीत्

वौश्रौ २४, १२ : ६; फँचचा-

रिषम् शाश्रौ ४, १२, १०^k;

आपश्रौ ४, १६, ११^k; वौश्रौ.

चर्यते वाधूश्रौ ४, ७४ : ७;

फँचर्यताम् कौस् १७, १९; बौध

१, ११, ३; गौध ४, ७.

a) व्यप. । b) वैप १ द्र. c) पामे. वैप १ परि. चर्षिं ऋ १०, ९१, १५ टि. द्र. । d) =पशु-
विशेष- । व्यु. ? < √चम् इति पाठ. । e) तु. पागम. । f) = √छम् इति BFG. । g) अर्थः
व्यु. च ? । h) चर्ग- (तु. भारडा.), चाप- इति पाका. । i) या २, ५; ४, २७; ६, ११; ८, १५ पा ३, १, २४; ७, ४,
८७ पावा ६, ३, ५३ परानृष्टः द्र. । j) पामे. वैप १, १३११ d द्र. । k) पामे. वैप २, ३६. मिथुनीभवन्ति
ऐत्रा ७, १३ टि. द्र. । l) पामे. वैप १, १३१२ v द्र. । m) चरत इति Jolly । n) शोधाः वैप १,
१३१२ k द्र. । o) सपां. चरतात् (मंत्रा १, ६, १४) < > चरता इति पामे. p) पामे. वैप १,
११४२ j द्र. । q) सपा. न चरेत् < > वर्जयेत् इति पामे. । r) चरत् इति BN. । s) सपा. चचार <
> चरती < > विचरन्ती इति पामे. । t) पामे. वैप १, १३१३ a द्र. ।

चारय>या शुभ्रा ३, ९७[†];
चारयेत् आपश्रौ १०, १९, ५[‡];
१३, ७, १२; हिश्रौ १०, ३,
१०.

चञ्चरीक- पाठ ४, २०.

चर^१- पाग ३, १, १३४; ४, १, ४१;
९९; ५, ४, ३८^०; -रम् विध ९७,
१८; -राः शुभ्रा ६, २८; -राणि
अप ४, ३, ६.

चरी- पा ४, १, ४१.

१ चार^१- पा ५, ४, ३८.

चार-चक्षुस्^०-क्षुः विध
३, ३५.

चार-प्रतिचार- रौ शंघ
२५१.

चार-भट^१- -टे अप ९,
४, ५.

चारायण- पा ४, १, ९९;

-गाः वीश्रौप्र २३ : २.

चारायणीय- -याः चव्यू

२ : ३.

चर-कर्मन्- र्मसु अशां ३, ३;
५, ३[†].

चरकर्म-प्रसाधक- -०क अशां
१, ६; ५, १.

चरकर्म-प्रसाधकी- -०कि
अशां ५, २.

चर-वृत्ति^०- -त्तिः हिध १, ७,
५५.

१ चरण^१- पाग २, ४, ३१; ३, १, २७;

५, ३, १०३; -णम् शांश्रौ १५,
१, २०; १६, ३, ६; १२, ७; काश्रौ
५, ८, १; काश्रौसं ६ : ९; वीश्रौ;

-णस्य काश्रौसं ६ : २०; -णान्
जैश्रौका ९६; -णाय काश्रौसं
६ : १९^२[†]; या ४, १९; ६, २०;
-णे शांश्रौ ५, ११, १५; या ५,
१[†]; -णेन वाश्रौ ३, २, ६, ४९;
-णौ गोगृ १, २, २७; वृदे
४, २.

१ चारण^१^१^d-णः आपशु ६,
९[†]; हिशु २, ३८[†].

चरण-चारण^१- -णान् अप ५३,
२, ५.

चरण-मध्य-गत-भू- -भुवम्
विध ९७, १०.

चरण-शब्द- -ब्दे काश्रौ ३,
७, ६.

चरण-हत्- -त्तः हिश्रौ १७, २,
५३; आपध २२, ६, ८.

✓चरण्य पा ३, १, २७.

चरण्य- पा ५, ३, १०३.

चरत्- -रतः शांश्रौ १५, १९, १^३[†];

काठश्रौ १३६^२; निस्; -रताम्

चाशि १, ६, १६; -रते या ६,
११^३; -रत्सु काश्रौ ८, ६, ३६;

आपश्रौ १५, १७, २०×; माश्रौ;
-रन् शांश्रौ १५, १९, १^४[†];

काश्रौ; -रन्तः अप १, ७, ४; ७;
४०, ५, ३; वैध १, ९, २; -रन्तम्

वीश्रौ १४, ५ : ३६; १५, २४ :
२[†]; १९, ७ : ३४[†]; वैताश्रौ.

चरत्- -ती^१ वीश्रौ २, १० : ७;

आपमं २, १९, १; ३; ५; कौगृ ३,
१५, ५; आमिगृ ३, १, १ : २०;
हिगृ २, १०, ७.

चरन्ती- -न्ती शंघ ३०४;
-न्तीः वैताश्रौ ३८, ५; -न्तीनाम्
अप ४२, १, ८[†]; -न्तीम् भाग्य
१, ११ : ७; विध ७१, ६१; वैध
३, २, १५; -न्त्या या १०,
२१.

चरति->०ति-कर्मन्- -र्मा या ११,
१८.

चरथ^१- -थाय या ४, १९[†][†].

चरथ्रै^१ या ६, २०[†][†].

चरस्^१^१- -राः पागृ २, १, १६[†][†].

चराचर^१- पावा ६, १, १२; -रः
अप्रा ३, ४, ५[†]; -चरम् आश्रौ

२, २, १७[†]; आपश्रौ ६, ५, ७[†];

माश्रौ ६, १०, ५[†]; माश्रौ १, ६,
१, १५[†]; वाश्रौ १, ५, २, १७[†];

हिश्रौ ३, ७, २८[†]; भाग्य २, २ :
४[†]; हिगृ २, १७, २[†]; शंघ ४५७ :

१८[†]; -रे विध ५१, ६७;
-चरभ्यः वीगृ २, ८, ३३; शुभ्रा
५, ३७.

चराथ^१- -था या १०, २१[†].

चरि- पाठ ४, १४०.

चरित- पाग ३, १, १३; -तम् जैश्रौ

१२ : १; निस् ४, २ : ३३;
कौगृ; -ते काश्रौ ५, ५, २०××;

हिश्रौ; लाश्रौ ९, १०, ८.

चरित-निर्वेश^०- -शम् वीध
२, १, ३७; हिध २, ५, २१९;

-शस्य आपध १, १८, १२; हिध
१, ५, ८१[†].

चरित-प्रायश्चित्त^०- -त्तः हिध
१, ७, ३४[†].

a) सपा. १०<>० इति पामे. । b) विप., नाप., व्यप. । c) तु. पागम. । d) स्वायं
क्षण प्र. । e) विप. । वस. । f) कस. उप. = वन्दिन्. । g) भावे वा करणे वा ल्युट् प्र. । h) = रथ-
विशेष- । i) दस. पूष. अर्थः ? । j) पामे. पृ १०६४४ द्र. । k) वैप १ द्र. । l) = वायु- । m) सप्र.
आपमं २, १, ५ आगृ १, १७, १३ प्रमृ. विशिष्टः पामे. । n) पामे. वैप १ सरीसृपम् शौ ३, १०, ६ टि. द्र. ।
o) विप. । वस. उप. = प्रायश्चित्त- । p) ०थस्य इति पाठः ? । q) सप्र. आपध. कृत-प्रा० इति पामे. ।

चरित-ब्रह्मचर्य^a- र्यः कागृ ४, २२; २३; -र्यम् आपध १, ८, ३०; हिघ १, २, ११८; -र्ये कौगृ २, ७, १७.
 चरित-व्रत^b- त्तः आगृ १, ८, १२; -तानाम् वाध १५, १७; -त्वाय आगृ १, २२, २०.
 ✓चरिताय पा ३, १, १३.
 चरिता(त-अर्थ्य >)र्या^c- र्या कप्र ३, १०, ६.
 चरित्र^d- पा ३, २, १८४; पाग ५, ४, ३८०; -त्राः आपधौ ७, १८, १०; वौश्रौ ४, ६ : ५३; भाश्रौ ७, १४, ७; वैश्रौ १०, १४ : ११; -त्राणि कौसू ४४, २४१; -त्रान् माश्रौ १, ८, ४, ५.
 चारित्र- पा ५, ४, ३८.
 चारित्र्य- न्यम् शंघ ७७; ७९; ३४१.
 चरित्र-वत्- वन्तम् आगृ ४, ८, १५.
 चरित्वा आश्रौ ३, ५, ५×५; शाश्रौ.
 चरिण्यु- पा ३, २, १३६; -ण्यु^e शाश्रौ १, ११, १^२; वौश्रौ ३, २९ : ८^१; शागृ २, १, ३०; कागृ ४१, १३; वागृ ५, ९; -ण्यु या ७, २९६.
 चरिण्यत्- न्यत्सु आश्रौ ४, ६, १; द्राश्रौ १३, ३, १६; १५, २, २; लाश्रौ ५, ४, १; १०, १; -ण्यन् काश्रौ ६, ६, २२; काश्रौसं;

-ण्यन्-ण्यन् काश्रौ २६, २, १; -ण्यन्तः काश्रौ ५, ९, २; काश्रौसं.
 चर्य- पा ३, १, १००.
 चर्यमाण- णम् आपध १, २०, ३; हिघ १, ६, १७.
 चर्या^e- र्याया आपध १, ३१, १९; -र्या आपधौ ११, ४, ४; १२, २८, १५; २०, २१, ४; वौश्रौ; -र्याम् निसू ९, ८ : १३; -र्यायाः आपधौ १३, २०, ६; वौश्रौ २५, २३ : १; ३२ : १; -र्यायै वौश्रौ २०, ३० : १३×५.
 रचार- रः कौसू १०१, २^१; -रम्^f कप्र २, ६, ८; अप ५३, ६, ७; -रे^g कौसू ५१, २; २०.
 रचारण^h- > ण-दार- -रेषु वौघ २, २, ५६.
 चारयित्वा आश्रौ ८, १४, १; लाश्रौ.
 रचारित्र- पाठ ४, १७२.
 चारिन्- री आपध १, १८, ३०; हिघ १, ५, ९७^१।
 चर- प्रसू. ✓चर द्र.
 रचरक^b- पाठ २, ३२; पा ४, ३, १०७; पाग २, ४, ३१०; -काः चव्यू २. : २; ३; -काणाम् भासू ३, २५.
 चारकीण- पा ५, १, १११.
 चरक-सौत्रामणी^k- णी द्राश्रौ १३, ४, १४; लाश्रौ ५, ४, २०; शुश्र १, ६३५.
 रचर(क >)का^l- पावाग ७, ३, ४५.

रचरण- ✓चर द्र.
 रचरण^m- णम् कौसू १४१, ९; -णात् पावा ४, ३, १२०; -णाताम् पा २, ४, ३; -णे पा ६, ३, ८६; -णेभ्यः पा ४, २, ४६.
 रचरणⁿ- णः गौघ ६, १७; -णम् आपध १, १४, १३; हिघ १, ४, ४५.
 चरण-वत्- वतः वौघ २, ८, ६; -वन्तः वाधूश्रौ ४, १८ : २४; २७; -वान् वाधूश्रौ ४, १८ : २०; २१; ३१.
 चरण-विद्या^o- > चारणविद्य^p- द्याः चव्यू ४ : ३.
 चारणवैद्य^q- द्यैः अप २२, २, ४.
 चरण-व्यूह^r- हम् चव्यू १ : १; ४ : २९; ३१; ३३; ३५.
 चरणव्यूह-श्राद्धकल्प-शुल्ब- ल्वानि चव्यू २ : ३०.
 चरण-संबन्ध- न्धेन पावा ४, २, १३८.
 रचरण^s- (> चरण-स-, चरणिल- पा.) पाग ४, २, ८०^२.
 ✓चरण्य प्रसू. ✓चर द्र.
 चरम, मा^t- पाठ ५, ६९; पाग ४, २, ६३^१; -मः वैश्रौ ८, ७; १५; -मम् नुसू १, १ : ३; विघ २८, १३; -मया वौश्रौ १०, ४८ : ३; -मायासू वौश्रौ १०, ४८ : १८; १९, ४ : २४; वैश्रौ १९, ६ : ३२;

a) विप.। वस.। b) वैप १ द्र.। c) तु. पागम.। d) सपा. चरिण्यु <> जरिण्यु <> जरिण्युः इति पाभे.। e) शः प्र. यगागमश् च उसं. (पावा ३, ३, १०१)। f) =सूर्य-। कर्तरि णः प्र.। g) भाप.। h) =गोचर-प्रदेश-। i) =कुशीलव-। गिजन्ताल् ल्युः प्र. (पा ३, १, १३४)। j) चाऽऽर्य^० इति पाठः? यनि. च खविधि^० (पृ ४०९ f द्र.) च शोधः (तु. आपध.)। k) =याग-विशेष-। l) अर्थः व्यु. च?। m) =शाखा-। व्यु. ?। n) =समानशाखाव्यायिन्। o) =अथर्वशाखा-विशेष-। p) ऋणि प्र. (पा ४, २, ५९) उप. वृद्धिर्निभापया उसं. (पा ७, ३, २०)। q) =परिशिष्ट-विशेष-। r) =[प्रकरणातः] ग्रन्थ-। पृ ९८९ f द्र.।

४८; -मे काठश्रौ ५८; वैश्रौ
१४, ४ : १७; काय ५१, ११;
-मेण वौश्रौ ६, १५ : ५१.

चारमिक- पा ४, २, ६३.

चरमगुण-(>चारमगुणिक-)

१गुण- टि. द्र.

✓चरम्य पाग ३, १, २७.

चरस्- प्रमृ. ✓चर् द्र.

चरु^a- पाठ १, ७; पाग ३, ४, ७४^b;

-रवः काश्रौ १५, २, १६××;

हिश्रौ; -रवे वौश्रौ ५, १ : १९;

-रुः आश्रौ २, ९, ८; शाश्रौ;

काश्रौ १५, १, २६^c; अप

४८, १०१^d; निघ १, १०^e;

या ६, ११^f; -रुणा शाश्रौ ५,

५, १; आपश्रौ; -रुभिः काश्रौ

२०, ३, १२; -रुभ्यः आमिष्ट

३, ८, ३:२; वौपि १, १५ : ७४;

-रुम् आश्रौ १२, ६, ९; शाश्रौ;

-रुपु माश्रौ १, ७, १, १२; -रु

काश्रौ २५, ५, ६; आपश्रौ २२,

२, १२; माश्रौ; -रुणाम् वौश्रौ

२०, १२ : ११; माश्रौ; -रुन्

वौश्रौ ५, २ : १७; २७, १४ :

२३; वैश्रौ; -रोः आश्रौ २, ७,

३; आपश्रौ २, ७, ९^g××;

वौश्रौ; -रौ काश्रौ २०, ८, १;

वाधूश्रौ ४, ४४ : ४; वैश्रौ.

चरव्य^h- न्यान् वौश्रौ १, ७ : १७;

५, १ : २५; २६; माश्रौ ५, १४,

६; १४; ८, १, २१; माश्रौ १,

७, १, १८; वाश्रौ १, ४, ४, ३१.

चरुकपाल- लम् माश्रौ १, ७,

१, १४.

चरुकल्प- लपः आपश्रौ १३, १३,

१५; १९, १, ६; आमिष्ट २, ५,

३ : १०; वौष्ट १, ६, ९; ३, ७,

११; -ल्वान् हिश्रौ ३, ८, ५५;

-ल्वेण वैश्रौ ११, १ : ८; हिश्रौ

५, १, १७; १३, ८, ५.

चरु-तन्त्र- -न्त्रम् अप ६७, १, ८;

२, ४; ७, ५; -न्त्रेण अप ३९,

१, ४.

चरु-द्वय- -यम् काश्रौसं ४ : ६; ७;

चरु-निष्काषⁱ- -षम् माश्रौ २, १,

३, २८.

चरु-पयो-वत् मीस् ९, ४, ४१.

चरु-पञ्च- -धोः काश्रौ १९, १, १७.

चरु-पञ्चपुरोडाश- -शौ वौश्रौ १८,

२४ : १७.

चरु-पाकयज्ञ- -ज्ञानाम् कौष्ट १,

६, २; शांष्ट १, १०, ४.

चरु-पात्र- -त्रम् कौष्ट ५, २, १२.

चरु-पुरोडाश- -शान् वैध ३,

५, ७.

चरुपुरोडाश-गण- -णे आपश्रौ

२४, ३, २०.

चरुपुरोडाशीय- -यान् आपश्रौ

२४, ३, २०; वौश्रौ १, ७ : १७.

चरुपुरोडाश्य- -श्यान् हिश्रौ ३,

८, ६३.

चरु-भैक्ष-सक्तु-कण-यावक-शाक-

पयो-दधि-घृत-मूल-फलो (ल-उ)

दक- -कानि गौध २७, १२.

चरु-मुख^j- -खानि वौश्रौ २०,

२२ : ३; -खेषु वौश्रौ २०, ८ :

१०.

चरु-मेक्षण-वर्हिस्- -र्हिः काश्रौ ७,

५, १४.

चरु-शब्द- -ब्दात् मीस् ८, १, ३८.

चरु-शेष- -षम् वाश्रौ ३, ४, ५, ७;

-षेण वौपि २, १०, ३; वैष्ट ४,

४ : १५.

चरु-स्थाली- -ली वैश्रौ ११, ९:१२;

कप्र २, ५, १२; अप; -लीः वौश्रौ

५, १ : ५; २३; ५ : ३; १० : ३;

१८:३; २०, ८:८; भाश्रौ ८, १,

१७; -लीम् आश्रौ २, ६, ५;

आपश्रौ १, ७, ५; वौश्रौ; -ल्या

गोष्ट १, ३, ९; ७, २; द्राष्ट १, ५,

१२; अप; -ल्याः अप ४५, २, २;

-ल्याम् भाश्रौ ५, १४, १२;

माश्रौ २, १, ३, ४२; कौस् ८९,

२; अप्राय; -ल्यौ माश्रौ १, ७,

३, ८; गोष्ट ४, २, २६.

चरुस्थालि^k-शूर्प-स्फयो (स्फय-उ)

ल्लखल-मुसल-धूर्व^l-कृष्णाजिन-

सकृदाच्छिन्ने (ज-इ) धम-मेक्षण-

कमण्डलु- -ल्ल् आश्रौ २,

६, ४.

चरुस्थाल्या (ली-आ) ज्यस्थाली-

सुक्-सुवे (व-इ) धम-मेक्षणे (ण-इ)

डापात्र-स्फय-शूर्पो (प-उ) ल्लखल-

मुसला (ल-आ) दि-पात्र-

-त्राणि वैष्ट ४, ५:४.

चरु-सुक्-सुव- -वाणाम् विध २३,

९.

चरु-हविस्- -विषाम् वौश्रौ २५, ८ :

१२.

?चरु (रु-ऊ) जम् आमिष्ट २, ५,

१२ : ७.

चर्व (रु-अ)र्थ- -र्थान् काश्रौसं ४ : ५.

चर्क- (> चर्क्य-) चक्र- टि. द्र.

चर्करीत- प्रमृ. ✓कृ द्र.

चर्ग- (> चार्ग-) १चय- टि. द्र.

a) वैप १ द्र. । b) वहचरु- इति [पक्षे] भागडा. । c) च इति चौसं. । d) पर्वत-नामन्. । e) मेघ-
नामन्. । f) यत् प्र. (पा ५, १, २) । g) = [सलेपा-] चरु-स्थाली- (तु. सप्र. काश्रौ ७, ५, १४) । उस्-
उप. अधिकरणे घञ् प्र. । h) विप. । वस. । i) हस्तछान्दसव इति गर्गनारायणः ।

✓चर्च पाधा. भ्वा. पर. परिभाषणहिंसा-
तर्जनेषु; तुदा. पर. परिभाषण-
भर्त्सनयोः; चुरा. उभ. अथ्ययने,
चर्चयेयुः ऋप्रा १५, १६; २०.

चर्चक^१ - कः चव्यू १ : ५.

चर्चा^२ - पा ३, ३, १०५; पाग ४, २,
६०; ३, ७३^०; -र्चा चव्यू १ : ५;
-र्चयाम् शुप्रा ३, २०; ४, १८;
९५.

चार्व - पा ४, ३, ७३.

चार्विक - पा ४, २, ६०.

चर्चा-पद - दानि ऋग्र ३, ४६.

चर्चा-परिहास^३ - सयोः शौच
४, ७४.

चर्चा-भार - पावाग ३, २, १.

चर्चा-मन्त्र - न्त्रेषु कप्र ३, ८,
२१.

✓चर्चाय, चर्चायते ऋग्र ३,
१८.

चर्चित - तानि ऋग्र ३, ४५.

चर्षट - पाउवृ ४, ८१.

✓चर्च पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

चर्मक - पाउमो २, २, ११.

चर्मन्^४ - पाउ ४, १४५; पाग २, ४,
३१^०; ४, २, ३८; ९०; ५, २,
११६; -र्म शाश्रौ ४, १६, २;
१४, २२, १७; काश्रौ; या २,
५^३कृ; -र्मणः वौश्रौ ६, १४ : ९;
माश्रौ २, २, ३, ३८; वैश्रौ;
पा ५, १, १५; -र्मणा शाश्रौ
१७, ३, ५; ५, ६; ९; काश्रौ;
-र्मणाम् वौध १, ५, ३७;

-र्मणि काश्रौ ४, ८, २××;
आपश्रौ; -र्मणी द्राश्रौ १०, २,
१२; लाश्रौ ३, १०, ११; -र्मन्
आपश्रौ १३, २१, ३^१; वौश्रौ ६,
२८ : ४५××; -र्मणि काश्रौ
१, १०, ४; वौश्रौ १५, १९ : १;
अप.

चार्म - पावा ६, ४, १४४.

चार्मण - पा ४, २, ३८.

चर्म-कर्त्त^५ - -र्त्तम् वौश्रौ १६, २० :
३; २१ : १; ३; -र्त्तं आपश्रौ २१,
१८, ४; १९, ९^६; वौश्रौ १६, २२ :
४^६; हिश्रौ १६, ६, २८^{१६}५.

चर्म-कर्त्त^६ - -र्त्तुः विध ५१, ८.

चर्म-कार - -रः वैध ३, १५, ५;
-रस्य शंघ ४३४.

चर्म-चीर-वासस् - साः विध १४, ८.

चर्म-जीव - वात् वैध ३, १५, ६.

चर्म-जीविन् - वी वैध ३, १५, ५^१.

चर्मण्य - ण्यम् वौश्रौ १५, १४ :
११; द्राश्रौ ५, ४, २; लाश्रौ २,
८, २.

चर्मण्य-वृत्^७ - -वृते तैप्रा १३, १३;
भाशि ६३.

चर्मण्वती^८ - पा ८, २, १२; पाग
४, २, ९५^१.

चार्मण्वतेयक - पा ४, २, ९५.

चर्म-तूणी^९ - -ण्यः काश्रौ १५, ३,
१९.

चर्म-नद्ध - -द्धः आपश्रौ १९, ६, २.

चर्म-पक्ष - -क्षे आपश्रौ १०, २०,
१३.

चार्मप(क्ष>) क्षी^{१०} - क्षीम्याम्
वौश्रौ १२, १६ : २३; १८, १९ :
२; -क्ष्यौ वौश्रौ १२, १६ : २२;
१८, १६ : २.

चर्म-पूरम् पा ३, ४, ३१.

चर्म-प्रशंसा - सा ऋग्र २, १, २८.

चर्म-मण्डल - ले वाश्रौ ३, २, ५,
३८^६.

चर्म-मय - -यः वाध ३, ११; वौध
१, १, ११; -यम् वैध ३, ४, १;
-याः आपश्रौ १८, १०, २७;
हिश्रौ १३, ४, १३; -यैः वौश्रौ
१८, २४ : ८.

चर्म-मन^{११} - मनम् शुप्रा ३, ९२^१.

चर्म-वारवाण-वाणिज्य - कारिन्-
-री वैध ३, १५, ११.

चर्म-हविस् - -विः कौसु ६१, ६.

चर्मा(र्म-अ)न्तर(ः) वैश्रौ १५, ३:९.

चर्मा(र्म-अ)वनद्ध - -द्धम् विध ९६
४५.

चर्मिक - पा ५, २, ११६; पाग ५, १,
१२८.

चार्मिक्य - पा ५, १, १२८.

चर्मिन् - पा ५, २, ११६; पाग ४,
१, १५८^०; २, ३८^०.

चार्मिकायणि - पा ४, १, १५८.

चार्मिण - पा ४, २, ३८.

चार्मिणि - पा ४, १, १५८.

चर्मीय - पा ४, २, ९०.

चर्मशिरस्^{१२} - नाः या ३, १५.

चर्य - प्रथ. ✓चर् द्र.

✓चर्च पाधा. भ्वा. पर. अदने.

a) =संहिता-याठप्रकार-विशेष-। b) भाप., नाप. (चर्चक)। c) तु. पागम.। d) द्रस. उप.
=क्रम-याठ-। e) वैप १ द्र.। f) =चर्म-खण्ड-। उप. <✓कृत् [छेदने]। g) सपा. चर्मकते <>
चर्ममण्डले इति पाभे.। h) श्रै (°कृते) इति पाठः ? ननि. शोधः (तु. आपश्रौ. वौश्रौ.)। i) =चर्म-कार-, °जीव-,
°जीविन्-। उरस.। j) तु. C. नृको. च। k) =नदी-विशेष-। l) तु. पाका., पागम.। चर्मती- इति
भारडा.। m) =इयु-धानी-। n) विप.। विकारे ण्य प्र.। o) व्यप.। p) तु. पाका.। q) =ऋपि-
विशेष-। व्यु. ?।

चर्षणि- पाठभो २,१, २१४९;
-णयः अप ४८,७८; निघ २,
३; -णिः निघ ४, २; या ३,
११; ५, २४६; -णिभ्यः आश्रौ
३,७, १३; शाश्रौ १, ८, ११; ६,
१०, ९; माश्रौ; -णीः ऋप्रा २,
६१; -णीनाम् आश्रौ ७, ४,
४; शाश्रौ.

चर्षणि-प्रा- -प्राः शाश्रौ १७, ९,
५; वौश्रौ २५, २२ : १०; २६,
१५ : ६; माश्रौ.

चर्ष (णि >) णी-घृत्- -घृतः
आश्रौ ७, ५, ९; शाश्रौ ३, १७, १२;
आपश्रौ; -०घृतः शाश्रौ ७, १०,
१४; १०, ९, १६; आपश्रौ १२,
२८, ४; वौश्रौ; या १२, ४०६;
-घृतम्^१ आश्रौ ६, १, २; शाश्रौ
९, २, ३; ऋप्रा २, ३, ५१; साश्रु
१, ३, ७४; -घृतौ अप १, ४१, ८;
अशां ११, ८.

चर्ष (णि >) णी-सह^२ -सहम्
ऋप्रा ५, २८; ९, ८; -सहाम्
शुप्रा ३, ८३; १२९.

चल् पाधा. भ्वा. पर. कम्पने; तुदा.
पर. विलसने; चुरा. उभ. मृत्तौ,
चलते अप ५७, १-३, २; ४, २;
६; चलति या ४, ३; चलन्ति
अप ७०^३, २, २; चलेत् अप
५७, ४, ६.

चालयति वैगृ ४, १ : १७;
चालयन्ति वौघ २, २, ५६; चाल-
येत् भाश्रौ १०, १२; १३; माश्रौ.

चञ्चल- पाठभो २, ३, ९८०.

चञ्चलीक^४- पाठना ४, २०.

चल्- पाग ३, १, १३४; -लः आश्रिगृ

२, ६, १ : ६; -लम् अप ७०^३,
२, ५^३; आपध १, १९, ६; हिध
१, ५, १०८; -लाः अप ६८, १,
३८; -लानाम् अप ६४, ३, ४;
-लानि आज्यो ४, ४; ७, ४.

चल-त्व- -त्वम् अप ६४, ३, ४.
चल-दर्शन- -नम् अप ५७,
१-२, ८; ३, ६.

चल-निकेत^५- -तम् आपध १,
२२, ४; हिध १, ६, ४.

चल-विक्रान्त^६- -न्ताः अप ६८,
१, ३८.

चलत्- -लतः गौघ ११, १०.

चलत्-कर्मन्- -र्मं आज्यो ६, ५.

चलत्-तुन्द- > ण्दिन्- -न्दी
वौघ १, ५, ८६.

चलन- > ण-पत्तन-सर्पण-
-णानाम् गौघ ८, २.

चलन-शब्दा(ब्द-अर्थ)- -थत्
पा ३, २, १४८.

चलन-समर्थ- -र्थः या १४, ६.

चलना- -नायाम् गौघ २२, २८.

चलाचल^७- पावा ६, १, १२; -लासः
या ४, २, ७५.

चलित- -ते अप ७०, ७, २.

चलित-त(म >)मा- -मा या
३, १०.

चलित-दन्त^८- -न्तम् अप ३७,
८, १.

चाचलि- पावा ३, २, १७१.

चाल- पाग ३, १, १४०.

चालयित्वा वैगृ १, २० : ११.

चलमोदय- , चवर्ग- , चवायोग- ,
चवाहाहैव-युक्त- च द्र.

चव्य^९- > चव्य-दाडिम- -सम् शंघ

२२०.

चल् पाधा. भ्वा. उभ. भक्षणे.

चल्^१- -घः वाधुश्रौ ४, १९; २९; ३०.

चल्क^२- पाठ २, ३२; पाग २, ४, ३१.

चपाल^३- पाठ ४, १०७; पाग
२, ४, ३१; -लः आश्रौ ९,
७, १८; -लम् शाश्रौ १४,
४०, ९; ४१, ८; काश्रौ ६, १, २७;
२, १४; ३, ३; १२; आपश्रौ;

-लस्य वौश्रौ ४, १ : २८;
-लात् आपश्रौ ७, ३, ६; भाश्रौ
७, २, ११; माश्रौ १, ८, १, १७;
वाधुश्रौ; -लानि आपश्रौ १४, ६,
११; हिश्रौ ९, ८, २८; -लाय
वौश्रौ ४, १ : ३०; -ले वौश्रौ
११, २ : १८; २८, ७; १३; वैश्रौ
२०, २४ : ३; -लेन वाधुश्रौ
४, ६३ : ९; -लेषु वौश्रौ १७,
१२ : ८.

चपाल-भा(ग>)गा^४- -गा लाश्रौ
८, ३, ६; ८.

चपाल-भाजन- -नम् वौश्रौ १८,
२१ : १४; २६, ३२ : १७.

चपाल-मुख^५- > ष्व-तरसपुरोडा-
शोर(?)^६ निष्ठुसव-ब्रह्मसव-क्षत्र-
सव-भूमिसवौ (व-श्रौ) पधिसवौ
(व-श्रौ) दनसव-वनस्पतिसव-
-वानाम् शाश्रौ १४, ७३, ३.

चपाल-वत्- -वन्तः आपश्रौ ७,
२८, २; हिश्रौ ६, ८, ६; -वान्
वौश्रौ २०, २५ : ७.

चपाल-संमि(त >)ता- -ताम्
आपश्रौ १४, ६, १०; वौश्रौ १७,
१२; ७; २६, २३ : ९; हिश्रौ ९,
८, १८.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, १३१७ e द्र. । c) < चल् इति । d) = चञ्चरीक- ।
e) भावे कर्तारि च कृत । f) विप. । वस. । g) = श्रोपधि-विशेष- । व्यु. ? । h) = झप- [मत्स्य-विशेष-] ।
व्यु. ? । i) = पात्र-विशेष- । व्यु. ? । j) = एकाह- । k) पाठः ? ष्वात्त-वनि° इति शोधः ।

चपाल-होम^१- > चपालहोमीय-
 -यम् वौश्रौ १०, ५० : ८.
 चपाला (ल-अ)र्थ- र्थे काश्रौ २२,
 ३, ४८.
 चपाले (ल-ई)क्षण- -णात् काश्रौ
 ८, ८, १३.
 ✓चह् पाधा. भ्वा. पर; चुरा. उभ.
 परिकल्पने.
 चाकशत्-, श्यमान- ✓काश् द्र.
 †चाकुपान- न्तः आपश्रौ १४,
 २८, ४^b; १६, २६, ६०; १२०;
 वैश्रौ १८, १९ : १^b; २१, १५ :
 १५^b; हिश्रौ ११, ७, ५१^c.
 चाक्र- चक्र- द्र.
 †चाक्रपाण- -णः हिश्रौ १५, ७, १२[†].
 चाक्रपालेय- प्रमृ. चक्र- द्र.
 १, २चाक्षुप- ✓चन् द्र.
 चाखायितुम्, यित्- ✓खन् द्र.
 चाङ्कुण- चङ्कुण- द्र.
 चाचलि- ✓चल् द्र.
 चाटकायन- रचटक- द्र.
 चाटकैर- १चटक- द्र.
 चाट्ट- पाठ १, ३; पाग १, ४, ५७.
 चाट्ट-कार- पा ३, २, २३.
 चाणक-, क्य- चणक- द्र.
 †चाण्ड- ✓चण्ड द्र.
 २चाण्ड- रचण्ड- द्र.
 †चाण्डा- -ण्डा अप ४८, ११५[†].
 चाण्डाल-, लक-, लकि-, ली-
 प्रमृ. चण्डाल- द्र.
 चातन- प्रमृ. ✓चत् द्र.
 चातप- पाठभो २, २, २१२.
 चातुराश्रमिन्- प्रमृ. चतुर- द्र.
 चातुर्य- चतुर- द्र.
 चातुर्वर्णिक- प्रमृ. चतुर- द्र.

चात्र^d-त्रम् अप २२, ७, १; ८, ३;
 १०, १; -त्रस्य अप २२, ८, १;
 -त्रात् अप २२, ६, ५; -त्रे अप
 २२, ७, ३.
 चात्र-पीडक^e- -कौ अप २२, ६, ५.
 चात्वारिंश- चतुर- द्र.
 चात्वाल^f- पाठ -१, ११६; -लः
 आपश्रौ ७, ४, १; ११, ५, ४; ५;
 भाश्रौ १२, ५, ५; वाधूश्रौ;
 -लम् आश्रौ १, १, ६; शाश्रौ ६,
 १२, ८; काश्रौ; -लस्य काश्रौ
 ९, ३, ९; वौश्रौ ५, ५ : २५××;
 माश्रौ; -लाः आपशु १४, ३[†];
 -लात् काश्रौ १, ८, ३८; आपश्रौ
 ११, ५, ४××; वौश्रौ; -लात्
 वौश्रु १८ : १०; -ले आश्रौ ३,
 ५, १; ५, ३, १३; शाश्रौ ५, १८,
 १२; ६, ११, १७; काश्रौ.
 चात्वाल-ग (त >) ता- -ताभ्यः
 काश्रौ २५, १३, २३.
 चात्वाल-देव(ता >)त्त- -तम् शुभ्र
 १, ४६९.
 चात्वाल-देश- -शम् द्राश्रौ ३, ३,
 २७; लाश्रौ १, ११, १८; -शात्
 काश्रौ १७, १, १८; माश्रौ ६,
 १, ५, ८; वाश्रौ २, १, ४, १५;
 -शे वौश्रौ १६, ९ : ११; २५,
 २४ : २४; द्राश्रौ ६, ३, २२;
 लाश्रौ २, ११, १६.
 चात्वाल-भूमि- -मौ जैश्रौका १२७.
 चात्वाल-मार्जन- -नात् आश्रौ ५,
 ३, ५.
 चात्वाल-वत्- -वत्सु आश्रौ १, १, ६.
 चात्वाल-समीप- -पे द्राश्रौ १५, १,
 ३; लाश्रौ ५, ९, २.

चात्वाल-सारि(न् >)णी- -णीः
 वौश्रौ २५, ५ : ४.
 चात्वाल-स्थान- -नात् आपश्रौ १६,
 १५, १.
 चात्वाला(ल-अ)वेक्षण-प्रभृति- -ति
 द्राश्रौ ३, ४, ३४; लाश्रौ १, १२,
 १९.
 चात्वाला(ल-अ)न्त- -न्ते माश्रौ २,
 ३, २, ९; १२; १५; ५, २, ३३;
 ३, ३०; ४, ५, १२.
 चात्वाला (ल-अ) वट- -टान् हिश्रु
 ४, ४४.
 चात्वालो(ल-उ)त्कर- -रयोः वैश्रौ
 १४, १८ : १; -रौ शाश्रौ ५,
 १४, २××; काश्रौ.
 चात्वालो(ल-उ)त्कर-शामित्रो(त्र-ऊ)
 वध्यगोहा(ह-आ) स्तावा(व-आ)
 शीघ्रीया(य-अ)च्छावाकवाद-
 -दम् वैताश्रौ १८, १३.
 चादि-, चानुबन्ध- च द्र.
 चान्दन्-, चान्द्र-, १चान्द्रमस-
 ✓चन्द द्र.
 २चान्द्रमस-, चान्द्रमसायनि-
 २चन्द्रमस्- द्र.
 †चान्द्रायण- ✓चन्द द्र.
 २चान्द्रायण^१- -णाः वौश्रौ ५ : १;
 २३ : ३.
 चान्द्रायणिक- ✓चन्द द्र.
 †चाप- १चय- टि. द्र.
 २चाप- पाग २, ४, ३१^b.
 चापल- १चपल- द्र.
 चापलायन- २चपल- द्र.
 चापल्य- १चपल- द्र.
 चापट्टक्य- चपट्टक- द्र.
 चाफट्टकायन-, ट्टकि- चफट्टक- द्र.

a) सप्त. पूष. = [उपचारात्] रथाप्र- (तु. संस्कृतुः सूची) । b) पाप्मे. वैप १, ११७१ m द्र. ।
 c) पाप्मे. वैप १, ११७१ n द्र. । d) चत्र- इत्यनेन सन्वयायता द्र. । e) = पात्र-विशेष- । f) वैप १ द्र. ।
 g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) तु पागन. ।

?चामत्त^a जैग्य २, १ : २७.

चामर- प्रमृ. चमर- द्र.

चामरज्जु^b- पा, पाग ५, ३, १००.

चामसायन-, चामस्य ✓चमृ द्र.

✓चाय^c पाधा. भ्वा. उभ. पूजानिशा-
मनयोः.

चायत्- न्यच् वृदे ७, १२९; या ६,
२८; ११, ५.

चायन- > नीय- न्यः वृदे ७,
१२९; -यम् या ४, ४; १२, ६;
१६.

चायनीया(य-अ)अ^d- -आणि
या १२, १८.

२चायमान- -नः या ४, १४.

चायित्- -ता या ५, २४.

चैचाय्य- -स्यः^e वाग्य ५, ९; १२,
३; हिग्य १, ४, ३.

१चाय- १चय- द्र.

२चाय- ✓चि द्र.

१चायमान- १चयमान- द्र.

?चायि अप ४८, २१.

१-२चार- प्रमृ. ✓चर् द्र.

चारक्रीण- चरक- द्र.

चारचक्षुस्-, १-२चारण- प्रमृ.
✓चर् द्र.

३चारण-, चारणविद्य- वैद्य-
२चरण- द्र.

चारमशुणिक-, ंमिक- चरम- द्र.

चारयित्वा, चारायण-, चारायणीय-,
१-२चारित्र-, चारिव्य-,
चारिन्- ✓चर् द्र.

चार^f- पाठ १, ३; पाग ५, १, १२२^g;

६, २, १६०; ८, २, १६; -चैरवः^h

आपश्रौ ६, २३, १; भाग्य २,
२० : १२; -चैरⁱ आश्रौ २,

१०, ४; आपश्रौ १४, २, १३;
वौश्रौ; ङ्या ८, १५६; ११, ५;

-चैरः आश्रौ ६, ३, १; शांश्रौ ९,
५, २; आपश्रौ; या ८, १५;

-चैरम् आश्रौ २, १३, २;
शांश्रौ १, ५, ९^j; आपश्रौ १९,
३, २; २४, १२, ६^k; वाधुश्रौ; या

१०, ३६; -चै पावा ३, २, ४९.

चारिमन्- पा ५, १, १२२.

चारु-चामर-ह (स्त >) स्ता-
-स्ताभिः अप १९^l, ४, ४.

चारु-ता-, चारु-त्व- पा ५, १, १२२;
-चैरुत्वम् आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ १३,
४, ३.

चारु-दर्श(न >) ना^m- -नाम् अशां
५, ६; -०ने अशां ५, ८.

चारु-द्रेण- पाठभो २, २, १२९.

चारु-नदⁿ- पाग ८, ४, ३९६.

चारु-ना(स >) सा^o- -साम् विध
१, २३.

चारु-पत्रै-मनोरम- -मः अप १८,
३, ५.

चारु-बुद्धिमत्- -मन्तम् आमिग्य २,
७, ६ : ३६.

चारु-मत्- पा ८, २, ९.

चारु-लोच(न >) ना^p- -०ने अशां
४, १.

चारु-सर्वा(र्व-अङ्ग >) ङ्गा^q- -०ङ्गे
अशां १, ५.

चार्व- पा ५, १, १२२.

चार्व(रु-अङ्ग >) ङ्गी^r- -०ङ्गि विध
१, ३२.

चारवा(रु-आ)वाट, त- पावा ३, २,
४९.

चार्केय- चर्क- द्र.

चार्गी- चर्ग- द्र.

चार्चि-, चार्चिका- ✓चर्च द्र.

चार्मि-, षर्मण-, षर्मण्वतेयक- प्रमृ.
चर्मन्- द्र.

? चाल्यकम् अप्राय ६, २.

चाप^s- -पः अप १, ३२, ३; ऋप्रा १३,
५०; माशि १३, ३; याशि १,
१७; भाशि ९६^t; -पस्य अप
७०^u, ३, ५; -पे वौश्रौ २, ५ :
२२.

चाप-काक-कलापिन्- -पिनाम्
कौशि ६९.

चाहलोप- च द्र.

✓चि^v पाधा. स्वा. तुरा. उभ. चयने,
चैचयसे अप ४८, ११५; निघ
४, १; या ४, २५६.

चिनुते वौश्रौ १०, ३५ : २६××;
वाधुश्रौ; चिनोति काश्रौ १२, १,
२५; १८, ६, ७; २५, ७, १५;
आपश्रौ; चिन्वते आपश्रौ १९,
१४, ४; वौश्रौ; चिन्वन्ति काश्रौ
१६, ५, ९; वाधुश्रौ ३, ८१ : ६;
वाश्रौ; चिनवत् हिश्रौ ११, ८,
१४^w; चैचिनवन्^x आपश्रौ १६,
३४, ४; हिश्रौ ११, ८, १५^y; चिनुत
चिनुत् अश्रौ ११, १^z; चिनुत

a) स्वधा चामत्त इति पाठः? षाऽऽचामत्त इति शोधः। षा, अत्त इति ०. ?। b) अर्थः व्यु. च ?।

तु. पाक्ता. वायरज्जु- इति भाखडा., चामरज्जु- इति पागम.। c) या ३, १३ पा ६, १, ३५ परामृष्टः द्र.। d) विप.।
वस.। e) पाभे. वैप १, १३१८ j द्र.। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) पाभे. वैप १ चहोः पै १९, २८,
११ टि. द्र.। i) कचित् वा. क्वि.। j) पाभे. वैप १ शुश्रूषेण्याम् तै ३, ३, २ टि. द्र.। k) पा ६, १,
५४; ७, ३, ५८ पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र.। l) पाभे. वैप १, १३१९ g द्र.। m) चिन्वन् इति पाठः? यनि.
शोधः (तु. आपश्रौ.)।

वौश्री १५, १४ : २; †मचिनुत
भाशि ७; १०३; चिन्वीत आपश्री
१४, २३, ९××; वौश्री; चिनुयाव
वौश्री २३, १४ : २१; वाधूश्री;
चिनुयुः वाधूश्री ३, ८१ : ७;
लाश्री ८, ८, ४५.

चिकाय वौश्री १८, ४५ : ५;
चेप्ये वौश्री २, १ : १५.

चीयते आपश्री १६, १५, ६†;
१९, ११, २; वौश्री.

मचिकीषत भाशि १०३†.

२चय- पाग ५, २, ६४; ६, १,
१९९.

चय-क- पा ५, २, ६४.

चयन- नम् काश्री १६, ७, १२;

१७, १, ११; आपश्री १२, ४;

हियु ४, २६; -ने चाश्री १७ :
१७.

चयन-पुरीपनिवपन- ने काश्री
१७, ७, ३.

चयना(न-अ)न्त^५- न्तम् हिपि
१२ : ९^६.

२चाय- पा ३, ३, ४०.

चिकयां/कृ, चिक्रयामकः पा ३,
१, ४२†.

चिकीषमाण- णः काश्री १६, १, ५०.

†१चित्^६- चित् काश्री १७, १,

१२; आपश्री १, २२, ३; १६,

१४, ७; वौश्री; चितः काश्री २,

४, ३३××; आपश्री; चित् आपश्री

१७, १३, ३; वौश्री १०, २३ :

१४; १६†; वौश्री १८, १४ : ३२;

३३; १९, ६ : ६७.

चित, ता^७- न्तः हिश्री १२, ७, २४;

कौसू ८५, ११; -तम् आपश्री

१६, ३४, ४†; वैश्री; कौसू ८०,

५२†; -ता आपश्री १४, २३,

६; -ताः वाश्री ३, २, २, १५†;

या ५, ५; -ताम् लाश्री ८, ८,

१५; आम्रिगृ; -तायाः आम्रिगृ

३, १०, २:२; -तायाम् आम्रिगृ

३, ४, २:१५××; वौपि ३, ६, ४^८;

-ते आपश्री १४, २३, ९; माश्री;

-तेन अप १, १०, ५.

चित-मूल-भारिन्- -रिपु पा ६,

३, ६५; पावा १, १, ७२.

चिता(ता-अ)मि- -मौ अप ३१,

९, २.

चिता-धूम-सेवन- ने विध २२,

६६.

चिता-पूर्व- -र्वम् वैगृ ५, ३:१७.

चिता-प्रमाण- -णम् वैगृ ५, ३ :

७.

चिता(ता-अ)स्थि- -स्थीनि वैगृ

५, ६ : २२; ७, ६ : १०.

चितो(ता-उ)देश- -शम् वैगृ ५,

३ : ४.

चितवत्- -वति वैश्री १८, १२ :

२४.

१चिति^१- -तयः आपश्री १९, १५,

४; वौश्री १९, ८ : ४; १० :

५४; माश्री; -तिः आपश्री १४,

२३, ६××; वौश्री; -तिभ्यः

शाश्री ९, २४, ९^१; -तिम्

शाश्री ४, १४, ९; काश्री १७,

३, २२××; आपश्री; ऋमाश्री ६,

१, ७, ११^६; २, १, १४^६; ३,

१५^६; ५, १३^६; †हिश्री १६,

७, २९^६; १२, १, ४३^६; -तिम्

ऽ-तिम् आपश्री १६, ३५, १; २;

माश्री; -तिपु वौश्री १९, ५ :

१७; ८ : ४; हिश्री १२, १, १;

द्राश्री १४, ४, ९; लाश्री ५, ८,

९; -तीः वौश्री १९, ८ : ५;

१० : ५४; माश्री; -तीनाम्

माश्री ६, १, ६, १३; वाश्री २,

१, ६, ५; -तीभ्याम् तैप्रा ३,

७†; -तेः आपश्री १६, २१, २;

१७, ४, ९; वैश्री १९, ५ : १;

हिश्री; -तेऽ-तेः आपश्री १४,

८, ५; -तौ शाश्री ४, १४,

१२; काश्री २२, ६, १५;

२५, ७, १९; आपश्री १६, १५,

१××; माश्री; -त्या आपश्री

१५, १७, ५; १७, ११, ३;

वौश्री; -त्याः आम्रिगृ ३, ७,

३ : ३१; वौपि २, ३, ५;

-त्याम् आपश्री १६, २४, ४;

१७, ४, १३; वाधूश्री ४, ११९ :

३; वाश्री २, १, ८, ६; वैश्री १९,

५ : १३; हिश्री ११, ७, ३६;

१२, १, ४६; आम्रिगृ २, ६, ८ :

५; -त्याम्ऽ-त्याम् माश्री ६,

१, ५, ७××; वाश्री.

चिति-क्लृप्ति- -सिः वौश्री ७ :

२०; -प्त्या आपश्री १६, ३४, ३;

वौश्री १०, ३६ : १७××; वैश्री

१८, २१ : २९; हिश्री ११, ८,

१४.

चिति-पुरीष- -पे काश्री १७, ७,

१०; १४.

चिति-प्रणयन-> नीय- -यम्

a) विप. । वस. । b) सपा. चयनान्तम् <> चित्यन्तम् इति पाभे. । c) "कीर्णं इति पाठः? यनि. शोधः । d) वैप १ द्र. । e) विप., स्त्री. नाप. (श्वन्-चित्वा- [लाश्री. आम्रिगृ. प्रवृ.]) । f) "त्तम् इति पाठः? यनि. शोधः (वृ. सप्र. शौ १८, ४, १४) । g) पाभे. वैप १, १३२० e द्र. । h) चितायाः इति द्र. । i) भाप., नाप. । j) सपा. चित्तिभ्यः <> चित्यभिभ्यः इति पाभे. । k) पाभे. वैप १, १३२० f द्र. ।

वौश्रौ २४, १८ : १५.
 चिति-भस्मन्- -स्म अप ३५,
 १, १३.
 चिति-वृत् काश्रौ २१, ३, २१.
 चिति-स्तोम- -मः आपश्रौ २२,
 ६, १; हिश्रौ १७, २, ४६.
 चिति-होम- -माः वाश्रौ २, १, ८,
 १५; -मान् माश्रौ ६, १, ८, १५.
 चि(ति>)ती-मुख- -खः विध
 १, ३.
 चित्य(ति-अ)ग्नि^१- -ङ्ग्निभ्यः^२
 आपश्रौ १६, २१, ३; माश्रौ ६,
 १, ६, १, ४; वाश्रौ २, १, ६, ५;
 वैश्रौ १८, १६ : २८; हिश्रौ ११,
 ७, ४; -न्तीनाम् आपश्रौ १४,
 ८, ६; हिश्रौ १०, ८, २३.
 चित्य(ति-अ)न्त- -न्ते वौश्रौ
 २२, ७ : १८; २०; हिश्रौ ११, ८,
 २२; आम्रिण ३, ६, १ : ८; ७, ३ :
 ३१; वौषि १, ८ : ७; २, ३, ४.
 चित्य(ति-अ)न्त- -न्तः
 आपश्रौ १७, १, १०××; हिश्रौ
 १२, १, ७; २०; २९; -न्तम्^३
 आम्रिण ३, ७, ३ : २९; वौषि २,
 ३, २.
 चित्य(ति-अ)न्वारव्य- -व्यः
 काश्रौ १८, ५, ९.
 चित्या(ति-आ)दि-लक्षण- -णे
 कप्र ३, २, ८.
 चित्य- -त्यःऽ-त्यः वौश्रौ १४, १९;
 १२; -त्यम् काश्रौ १८, २, १;
 १३; ३, १९; ४, १; माश्रु १,
 ३, ४; -त्यस्य शाश्रौ ९, २५, १;
 १०, ७, १०; काश्रौ १६, ७, ३१;

१८, ६, ३४; चाश्रु ४० : ११;
 -त्ये काश्रौ १८, ५, १४.
 चित्य-नामन्- -म काश्रौ १८,
 ६, २२.
 चित्य-यूपो(प-उ)पस्पर्शन- >
 ँन-कर्णक्रोशा(श-अ)क्षिवेपन-
 -नेषु गोश्रु ३, ३, ३२; द्राश्रु २, ५,
 ३५.
 चित्या(त्य-अ)ग्निचित्या- -त्ये पा
 ३, १, १३२.
 चित्या(त्य-आ)रोहण- -णम्
 काश्रौ १८, ३, ४.
 चित्या(त्य-अ)शक्ति- -क्तौ काश्रौ
 १८, ६, ३२.
 चित्यो(त्य-उ)पस्थान- -तम्
 काश्रौ १७, ६, १.
 चित्या^४->चैत्य- -त्यम् आश्रु ३,
 ६, ८; वाश्रु १५, ४; -त्यस्य
 माश्रौ १, ५, १, २४; ४, ७, ३;
 वाश्रौ १, ४, १; १०^५; -त्याय
 आश्रु १, १२, १^६; -त्येषु अप
 ७०^३, २१, १.
 चैत्य-तैल-परिखव- -वाः
 अप ६४, ६, ८.
 चैत्य-द्रुम- -माणाम् अप
 ७०^३, ११, १९; २४.
 चैत्य-यज्ञ- -ज्ञे आश्रु १,
 १२, १.
 चैत्य-वृक्ष- -क्षः अप ७०^३,
 ७, १०; १५; ७१, १०, ३; ११, ३;
 -क्षम् वौध १, ५, ५२; -क्षाः
 अप ७१, १०, १.
 चैत्यवृक्ष-स्तम्भ-पतन-
 -ने अप ७२, ३, ९.

चैत्यवृक्षा(क्ष-अ)मिघात-
 -तेषु अप ५८^२, ४, ३.
 चैत्यवृक्षो(क्ष-उ)द्भव-
 -वानि शंघ १९७.
 चैत्य-शुष्क-विरोहण- -णे
 अप ७१, १, ४; १६, ३.
 चित्वा काश्रौ १८, ४, १३; २५, १४,
 १; आपश्रौ.
 चिन्वत्- -न्वते लाश्रौ ८, २, २३;
 -न्वन् आपश्रौ १६, २१, ८;
 वैश्रौ १९, १ : १; हिश्रौ ११, ७, ७.
 चिन्वान- -नः आपश्रौ १६, १३,
 ११××; वौश्रौ; अप्राय ६, २^१.
 चीयमान- -नम् जैश्रौ प. १९; -ने
 काश्रौ २२, २, १; माश्रौ ५, २,
 १६, २३; वाश्रुश्रौ ४, ११४ : ४;
 द्राश्रौ २, १, ८; १२; लाश्रौ १, ५,
 ५; ९.
 चेतन्य, न्या- -न्यः आपश्रौ १९,
 १४, ६; वौश्रौ १९, १ : ११;
 हिश्रौ २३, ३, ४; -न्या आपश्रौ
 १७, २६, १.
 चेत- -तारः वृदे ६, ७^१; -तुः हिश्रौ
 २३, ३, ३३.
 चैष्यत्- -ष्यतः वौश्रौ १०, २१ :
 १३; -ष्यत्सु द्राश्रौ १४, ४, १;
 लाश्रौ ५, ८, १; -ष्यन् माश्रौ ६,
 १, ५, ३.
 चैष्यमाण- -णः आपश्रौ १६, १, १;
 १९, ११, ३; वौश्रौ; -ष्यस्य शाश्रौ
 ९, २२, १; -णाः काश्रौ १२, १,
 १५; हिश्रौ १६, १, ३५;
 -णानाम् शाश्रौ ९, २२, ६.
 चि^६ वेज्यो १८.

a) विप. । वस. । b) नाप. । 'अग्न्यर्था चितिः [= इष्टका]' इति कृत्वा कस. परनिपातः । c) पाभे. पृ. १०७२ j टि. द्र. । d) पाभे. पृ. १०७२ b द्र. e) वैप १ द्र. । f) = चत्वर- । g) विप., नाप. । तत्रभवाद्यर्थे अण् प्र. । h) ञ्यं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. माश्रौ.) । i) अर्थस्य कृते तु. Old. टि. द्र. । j) पाभे. वैप १, १३२० h द्र. । k) चित्रा-नक्षत्र-बोधक- । वैप ४-तृ-४०

चिकियां ✓कृ ✓चि द्र.
 चिकार- (> चैकार्य- पा.) पाग
 ४,२,८०.
 चिकित^a- (> १चैकित्य-, L> १चै-
 कित-] पा.) पाग ४, १, १०५;
 २, १११; -ताः^b वौश्रौप्र ३१:३.
 चिकित-कालवद-मनुतन्तु-वधु-यज्ञ-
 वल्को (लक-श्रौ) लोन्त्ये (न्य-ई)
 मरि-वृहदग्नि-सांशित्य-वारकि-
 तारकायण-शालावत- -ताः
 हिश्रौ २१,३,१२.
 चिकित-गालव-कालवद-मनुतन्तु-
 कुशिक- -कानाम् आश्रौ १२,
 १४,२.
 चिकित-मनुतन्तुवौ (न्तु-श्रौ)लकि-
 वालुकि-यज्ञवल्को (लक-उ)लक-
 वृहदग्नि-वधु-गालवि-शालावत-
 शालङ्कायन-कालवद- -नाः
 आपश्रौ २४,९,१.
 चिकितान-, ँकिति-, चिकित्व-,
 ँत्वस्-, ँत्वक-प्रमृ. ✓कित् द्र.
 चिकिन- पा ५,२,३३.
 चिकीर्षत्- प्रमृ. ✓कृ द्र.
 चिकीपमाण- ✓चि द्र.
 चिकुर- पाउमो २,३,५२.
 ✓चि L, चु] कक् पाधा. चुरा. पर.
 व्यथने.
 चिक्क- पावा ५, २, ३३.
 चिक्कण- (> ण-कव्य- पा.) पाग
 ६,२,१२५.
 चिक्करा^c- शेषु कौस् २१,१४.
 चैक्करा- -शम् कौस् ४८, ४१.

चिक्यत् ✓कि द्र.
 चिक्रि^d- -कि: अय ४८, ११६१.
 चिखल्ल- पाग ६,३,१०९.
 चिञ्चा^e- पा, पाग ४,३,१६५.
 ✓चिद् पाधा. भ्वा. पर. परप्रेष्ये.
 ✓चित्^f पाधा. भ्वा. पर. संज्ञाने; चुरा.
 आत्म. संचेतने, ँचेतति आश्रौ
 ८,२,२१; ऋप्रा ८,४५; अचेतत्
 आश्रौ ३, ७, ६१.
 ँअचेति वृदे ६, ८५; साअ १,
 ४४७; उनिस् ५: १६.
 चेतयसे या ५, ५; चेतयध्वम् या
 ७, २१; चेतयानि वौश्रौ ७, १२:
 ३०; ४३; ५५.
 र^gचिद्^h- चित् काश्रौ ७, ६, १३;
 आपश्रौ ४, १०, ४; १०, २२, ८;
 वौश्रौ.
 ँचित्-पतिⁱ- -ति: काश्रौ ७,
 ३, १; आपश्रौ १०, ७, १०;
 १२; वौश्रौ ६, २: २०; २०, ८:
 २१; भाश्रौ १०, ५, १; माश्रौ.
 चिदा(द्-आ)नन्द- न्दाय शैशि
 ४.
 चितयत्- -यन्तम् आमिष्ट २, ५, १:
 ३११.
 ?चितयम् लाश्रौ ९, १०, ९१.
 ँचिता(न >)ना^j- -ना: वौश्रौ
 १२, ८: ६; १७; ९: ७.
 र^kचिति^l- -त्ये] आश्रौ १०, ९, २;
 शांश्रौ १६, ६, १; वैताश्रौ ३७, १.
 चित्त^m- पाउमो २, २, १३३; -त्तम्
 आश्रौ ८, १३, ९; शांश्रौ १०,

१४, ४; आपश्रौ; ँया १, ६, ३;
 ९, ३३ⁿ; -त्तस्य काय ४१,
 १३१; -ंत्तानि आपमं १, ३,
 १४; आमिष्ट १, १, ३: २५;
 हिष्ट १, ५, ११; या ९, ३३;
 -ंत्ताय आपश्रौ ५, २४, २;
 हिश्रौ २२, १, ३०; आमिष्ट.
 १, १, २: १६; ५, २: १८; ६, २:
 ३; हिष्ट १, ३, ९; -ंत्ते आमिष्ट.
 १, ५, ४: ३९; वौष्ट १, ४, १;
 भाष्ट १, १७: ९; -ंत्तेन आमिष्ट.
 १, १, ३: २३; हिष्ट १, ५, ११.
 चित्त-वत्- -वति पा ५, १, ८९.
 चित्तवत्-कर्तृक- -कात् पा
 १, ३, ८८.
 चित्त-विनाशन- पाग ३, १,
 १३४.
 चित्त-विराग- नो पा ६, ४, ९१-
 चित्त-व्यापल्यु: ?^o अप्राय ३, ५.
 चित्ता(त-आ)दि^p- -दि वैष्ट १,
 १७: ५.
 चित्तै(त-ए)कीकरण-काम- -म:
 अत्र ६, ४३.
 चित्ति^q- ँत्तये हिश्रौ २२, १, ३०;
 आमिष्ट १, १, २: १६; ५, २:
 १८; ६, २: ३; हिष्ट १, ३, ९;
 -त्ति: आश्रौ ८, १३, ९; शांश्रौ
 १०, १४, ४; आपश्रौ; -ंत्तिभि:
 अय १, ४१, ७; अशां ११, ७;
 या २, ९४; -ंत्तिम् आपश्रौ
 १६, २३, २^o; ३४, ३: ४; १७, १,
 १३^o; ३, ९^o; १५, ७९; वौश्रौ;

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु: ?। तु. पाका.। चे इति भारडा. पासि. च। b) बहु. < चैकित्य-।
 c) = यव-चूर्ण-। व्यु: ?। = ँस्- इति कृत्वा < ✓चिक्क इति शक.। d) अर्थ: व्यु. च ?। e) तु. पागम.। f) नाप.
 (तिन्तिढी-। चिम्पा- इति [पक्ष] प्रासि. भारडा. च। व्यु. ?। g) या १, ६ परामृष्ट: द्र.। h) वैप १ द्र.।
 i) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र.। j) पामे. वैप १, १३२२ ० द्र.। k) पामे. वैप १, १३२२ f द्र.।
 l) पाठ: ? उप. = व्यापति: ?। m) पूष. < चित्तं च (तै ३, ४, ५, १) इति। n) वैप १ निर्दिष्टयो: समावेश-
 द्र.। o) पामे. वैप १, १३२० f द्र.।

शंघ ११६: ५७^६; शुभ्र २, ३१३; -^१चि^२ आपश्रौ ४, १०, ४; भाश्रौ ४, १५, २; हिश्रौ ६, ३, २; -त्या कौस् ४२, १७^१; -त्यै आपश्रौ ५, २४, २^१.

चेतत्- -ततः वाधूश्रौ ३, ५८: ८^१.

चैतन^०- -नस्य^१ आपश्रौ १४, २०, २; वीश्रौ २९, ५: ३; हिश्रौ १५, ७, १८.

चैतन्य- > ^०न्या (न्य-आ) धार- -०२ विध १, ५६.

चेतना- ^०ना-वत्- -वान् या २, ११; ८, ५.

चेतनावत्-त्व- -त्वात् पावा ३, १, ७.

चेतनावद्-वत् या ७, ६; ७.

चेतय- पा ३, १, १३८.

चैतय(त् >)न्ती- -न्ती या ८, १३^६.

चेतयमा(न >)ना- -ना या ८, १३.

चेतस्- -^१तः अप ४८, ८४; वृदे ४, ११३^३; अश्र ९, ७; निघ ३, ९; -तसः वृदे ७, १०१; -तसा

वीध ४, ७, २; -^१तसे कौस् ५४, ११; अप्राय २, ५; अश्र ६, ४१.

चैत्- -त्ता वीश्रौ ३, १६: २१; २२; २४; १८, १०: १८; १७: १८; -चारम् हिश्रौ २१, १, २.

श्चित्- √चि द्र.

श्चित्- प्रमृ. √चित् द्र.

चित, ता- √चि द्र.

चितयत्-, ?चितयम् √चित् द्र.

चितवत्- √चि द्र.

चितान- √चित् द्र.

श्चिति- √चि द्र.

श्चिति- √चित् द्र.

श्चिति^०- > चिति-प्रायश्चित्ति-शमी-शमका-सर्वशा-शाम्यवाका-तला-शा-पलाश-वाशा-शिशपा-शिव-ल-सिपुन-दर्भा(र्भ-अ)पामार्गा-

(र्ग-आ)कृत्तिलोष्ट-वल्मीकवपा-दूर्वाप्रान्त-त्रीहि-यव^१- -वा: कौस् ८, १६.

चित्या(ति-आ)दि- -दिभिः वैताश्रौ ५, १०.

चित्कण- (> ^०ण-कन्थ- पा.) पाग ६, २, १२५.

चित्त- √चित् द्र.

चित्ता- > ^०त्ता/कृ चिन्ता- टि. द्र.

चित्तानसि- पाउभो २, १, २३९.

चित्ति- √चित् द्र.

चित्य- √चि द्र.

चित्र पाधा. सुरा. उभ. चित्रीकरणे.

श्चित्र^०- पाउ ४, १६४^४.

चित्र-कर- पा ३, २, २१.

चित्र-संनिभ- -भः नाशि २, ८, १८.

श्चित्र- (> ^०त्र-क- पा.) पाग ५, ४, ३^१; -त्रः अप १, ३४, ३^१.

श्चित्र^०- > चित्र-क- -कम् वैध ३, ५, ८.

श्चित्र^१- -त्रम् वीध २, २, २५; -त्राय आमिष्ट २, ६, ८: ३५; अप ४३, ५, ४७.

चित्र-गुप्त^१- -सः जैग २, ९: १६;

-सम् शंघ ११६: २०; वीध २, ५, २५; -साय आमिष्ट २, ६, ८: ३५; अप ४३, ५, ४८.

५चित्र, त्रा^०- पावा ४, ३, ३४^४; -^१त्र आपश्रौ ४, १, २३; ७, ८, ३; शाश्रौ ११, ११, १५××; आपश्रौ; या ४, ४; -^१त्रः आश्रौ २, १७, १५××; शाश्रौ; वैग ४, १४: ४^०; या २, १९^६; -त्रम्

चित्राश्रौ २, १६, ११××; शाश्रौ; या २, १९; ४, ४^६; १२, ६^६; १६^६; शुभा ६, २७^१; -त्रया वीश्रौ १३, ३६: ४; ५; १५, २: ५; १८, ३६: ६; ४०: १८; अप १, २८, २; -त्रा काश्रौ ४, ७, ४; आपश्रौ २०, १, २; माश्रौ १, ५, १, ५; हिश्रौ; नाशि १, २, ९^१; वेज्यो ३६; या ४, १९^१; -त्रा: शाश्रौ ८, २०, १^१;

वीग ३, १०, ४; चो २, ९; १०; अप ६४, ८, १०; -^१त्राणि अप १, ११, १××; अशां ६, ७; १२, ५; चाश्र १५: ७; अश्र १९, ७; -त्रान् वीश्रौ १०, २४: १२^१; गो २, ९; -त्राभिः शाश्रौ ८, १६, १; १९-२०, १^१;

-^१त्राम् आपश्रौ ५, १७, ५^१; १७, १५, ६^१; १९, २५, १४; वीश्रौ १०, ५२: २२^१; १५, २: ४; १८, १६: ५; ४०: १७; भाश्रौ ५, १०, १०^१; वैश्रौ १९, ६: ९२^१;

हिश्रौ ३, ४, ४९^१; ११, ३, १५^१;

a) वीतिहोत्रम् इति अप २१९, २६। b) = देवगवी-। c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, ११७१ h द्र.। e) = ओपधि-विशेष-। व्यु. ?। f) वृक्षौपधीनां द्वस.। g) = आलेख्य-। व्यु. ?। h) < √चि [चयने]। i) तु. पागम. अर्थः ?। j) = पक्षि-विशेष-। व्यु. ?। k) = [तदाख्य-] यमगण-विशेष-। व्यु. ?। l) = प्रहदेवता-विशेष- [जैग.]। व्यु. ?। वस. उप. भाप. इति शक.। m) = इष्टि-विशेष-। शिष्टं वैप १ द्र.। n) जातार्थे विहितस्य प्र. लुक्। o) उत्तरेण संधिरार्षः। p) = मूर्च्छना-विशेष-। q) पाभे. वैप १, १३२५ d द्र.।

१२, ५, १०^a; भाग ३, १: २६^b;
गो २, ७; अप १, १०, १; ३९, २;
अशां ३, २; ९, २; -त्राय आपगृ
१३, २०; -त्राया: माश्रौ ५, २,
१०, ४२; अप १, ७, ४; -त्रायाम्
आपश्रौ ५, ३, १३; वौश्रौ २, १२:
१३^c x x; भाश्रौ; -त्रायै शां
१, २६, १२; वैगृ ३, २० : ६;
अशां १२, २; -त्रासु अप ६५,
१, ७; -त्रै शाश्रौ ८, १९, १;
काश्रौ १७, ४, ४; भाग १, १२ :
१४; अशां ३, २; -त्रेण या ६,
१७^d; -त्रै: हिश्रौ ८, ६, ३३^e;
अप ७१, ११, ५.

१चै(त्र>)त्री^b-त्री काश्रौ १३,
१, ६; वैगृ १, १: ७; ४, ८: १; विघ
९०, ९; गौघ ८, १६; मीसू ६,
५, ३१; -त्र्या वैगृ ६, २० : ३;
-त्र्या: हिश्रौ १६, ५, १७;
वैताश्रौ ३६, १०; ३७, ११; हिपि
१३ : २; -त्र्याम् आश्रौ २, १४,
३; शाश्रौ ३, १३, २; काश्रौ; -त्र्यै
आपश्रौ २१, १५, ६; वौश्रौ १२,
१ : २; १६, १३ : ७; १७,
५५ : ३.

२चैत्र^c- पा ४, २, २३;
-त्रस्य आपश्रौ २१, २, ११;
काश्रौ २४, ७, २; -त्रे विघ ३,
४०.

चैत्र-पक्ष-क्षस्य वाश्रौ
३, २, १, १०.

चैत्र-वैशाख-खयो:
लाश्रौ ९, ९, ८; अप ५५, ५, १.

१चैत्रिक^d-कानि-, कै:
वौगृ २, १०, ८.

चैत्र्य^e-ज्यागि वैगृ ४,
८ : ११.

२चैत्रिक- पा ४, २, २३.

चैत्री-पक्ष-क्षस्य लाश्रौ
१०, २०, २; -क्षेण लाश्रौ १०,
५, १८.

चैत्री-प्रयोग-नास्य शाश्रौ
३, १४-१५, २.

चैत्री-यज्ञ-विहीन-ने वैगृ
६, २० : २.

चैत्री-समापन^f-नौ वाश्रौ
१, ७, ५, ९.

चैत्र्या(त्री-आ)रम्मण^g-
गौ वाश्रौ १, ७, ५, ९.

चैत्र-ज्योतिष^h-ति: वौश्रौ १०,
५३ : २; माश्रौ ६, २, ५, २३.

चित्र-तन्तुⁱ-न्तव: वौश्रौ ३१:
७.

चित्र-तम-तम: शाश्रौ ११, ११,
१२^j.

चित्र-त्ता-त्तया वाश्रौ ३, २, २, १४.

चित्र-दण्ड-ण्डै: अप १९^k, ४, ४.

चित्र-दद्रु-विचर्चिका-का: अप
२६, १, ५.

चित्र-पक्ष^l-पक्ष पागृ ३, ६, ३;
-क्षा: अप २०, २, ३.

चैत्र-भानु^m-नु वौश्रौ १८, १६:
१०; -नु: शाश्रौ ८, २४, १;
आपश्रौ १६, ३५, ५ⁿ; हिश्रौ ११,
८, २३^o; कौसू १३५, ९; अप
७०^p, ५, ३; -नुम् वाश्रौ २, १,

८, १६^q; -०नो शाश्रौ ७, १०,
१३; वैताश्रौ ३१, १६; ३३,
१४; ४०, ११; छसू २, १०:
२६; ११ : १६; वृदे ७, ६५^r;
शुभा ३, ९२; अत्रा ३, १, ७.

चित्र-महसू^s-हसम् आश्रौ ४,
१३, ७; शाश्रौ १०, ८, २०; १४,
५७, ४; -हा: ऋअ २, १०,
१२^t.

चित्र-माल्य-ल्यै: अप १, ४४, २.

चैत्र-रथ^u-थ: अत्र ८, १०(५);
-थम् आश्रौ ४, ५, ३; शाश्रौ ५,
७, ४; -थाय कौसू ७४, ८^v.

चैत्र-रथ^w-थम् आश्रौ १०,
२, ३; -थेन आपश्रौ २२, १४,
२२; हिश्रौ १७, ६, १७.

चित्र-रथ-वा, वा^xहीक-पा,
पाग २, २, ३१.

चित्र-रू(प>)पा^y-पाम् अशां ३,
२.

चित्र-च(त>)ती^z-ती नाशि १,
२, ९^{aa}; -तीषु आश्रौ ९, ९, ९;
शाश्रौ १५, ३, ३; -त्य: निसू २,
११ : २४; -त्या वौश्रौ १०,
५७ : १४.

चित्र-वर्ण^{ab}-र्णम् आमिगृ २, ५, ६:
४.

चित्र-वस्त्र-प्रदान-नेन विघ ९०, ९.

चित्र-वासस^c-सस: वौध १, ६, ९.

चित्र-शिखण्ड-धर-०२ विघ ९८,
६५.

चित्र-श्याम-श्यावदन्त-कुनखि-
जटिल^d-रु: अप १, ३२, ५.

a) पामे. वैप १, १३२५ a द्र.। b) = चैत्रपौर्णमासी-, [तत्रविहित-] पाकयज्ञ-विशेष-। c) = मास-
विशेष-। d) = अन्न-। भवार्थायपु ठक् प्र.। e) भवार्थाय: यत् प्र.। f) विप.। वस.। g) वैप १ द्र.।
h) = ऋषि-विशेष-। i) पामे. वैप १, १३२५ i द्र.। j) = सर्प-विशेष-। k) = अर्हीन-विशेष-। तेनदृष्टायः
अण् प्र.। l) तु. पाक.। m) = ऋच्- (<चित्रं देवानाम् [ऋ १, ११५, १])। n) = मूर्धना-विशेष-।
o) द्रस. > मलो. क्त.।

चित्र-श्रवस्-तम^३- -०म आश्रौ
 १०,६,७; शांश्रौ ३,१५,१०; ५,
 ५,६; आपश्रौ; -मस् वौश्रौ ९,
 ४ : ७; १०,७ : ९.
 चित्र-संनाह^४- -हम् अप २०,२,३.
 चित्र-सेन^५- -नाः वौश्रौप्र ६ : ३;
 -नाय कौस् ७४,८^६.
 चित्रसेन-प्रमुख^६- -खान् शंघ
 ११६ : १६.
 चित्रसेनि^७- -नयः अप ७१,
 १८,३.
 चित्रा-कर्मन्- -र्म कौस् १८,१९.
 चित्राकर्म-निशा- -शायाम् कौस्
 २३,१२.
 चित्रा-नग^८- -गः अप ३२,१,१८^३;
 अशां १८,२; २४,२^१.
 चित्रा(त्र-अ)न्त^९- -न्तम् आपश्रौ
 १९,२०,२; हिश्रौ २२,३,१९.
 चित्रा-पक्ष- -क्षम् कौस् ७५,४.
 चित्रा-पूर्णमास- -से आपश्रौ १९,
 २५,१४; हिश्रौ २२,५,२५.
 चित्रि(त्र>)त्रा-म(घ>)वा^{१०}-
 -घा अप ४८,११०; निघ १,८.
 चित्रा-यु(त>)ता^{११}- -ता विघ
 ९०,९.
 चित्रा(त्र-आ)युस्^{१२}- -युः आश्रौ
 २,८,३; ३,७,६; ५,२०,६.
 चि(त्र)त्रा-त्रसु^{१३}- -सुना^१ आपश्रौ ६,
 १६, ११; भाश्रौ ६, २, ३;
 -^१सो शांश्रौ २,११,४; काश्रौ
 ४, १२, ३; वौश्रौ; -सो^१
 आपश्रौ ६,१६,१०.

चित्रा-विशाखा- -खयोः वैगृ २,
 १३ : २.
 चित्रा-विशाखा-स्वाति-बहुला(ला-
 अ)पाढा(डा-आ)हिर्वुध्न्य-
 याम्य- -न्यस्य अप ६५, २, ५.
 चित्रा(त्र-आ)सङ्ग^१- -ङ्गाः वौघ १,
 ६,९.
 चित्रा-स्वाति- पाग २, २, ३१;
 -त्योः वौश्रौ २५, ५ : ८; काश्रु
 ७,३५.
 चित्रिय^१- -यम् आपगृ ९, ३;
 -यस्य आपश्रौ ५,५,१०; वौश्रौ;
 -याणाम् वौगृ ४, २, १५;
 -याणि वौगृ २, २, १३; -^१यात्
 आपश्रौ ५,६,१; वौश्रौ.
 चित्रिया(य-अ)श्रुत्य- -श्रुत्यस्य
 भाश्रौ ५,३,१२.
 चित्रो^१√कृ>चित्रो-करण- -णे पा
 ३,३,१५०; पावा ३,१,२६; ३,
 १५१.
 √चित्रोय पा ३,१,१९.
 चित्रो,त्रौ^१(त्र-ओ)दन- -नम्
 आम्रि २,५,१ : ३६; जैगृ २,
 ९ : २८.
 चित्र्य^१- -स्यम् भागृ २,३१ : १.
 चित्रि^३- पाग ४, १, ९९^६; २, ८०;
 -त्रः वृदे^३ १,४८^१; २,१३७^१;
 ६, ६०; -त्रम् वृदे ६, ५९^३;
 -त्रस्य ऋअ २,८,२१^३.
 चैत्र- -त्रस्य चाअ ३९ : १८.
 चैत्रायण- पाग ४,१,९९; २,८०.
 चैत्रेय^६- -याः वौश्रौप्र ३१ : ७.

चित्वा √चि द्र.
 चिद्^१ आश्रौ २, १,११; शांश्रौ; या
 ३, १६; ४, १७^१कृ; पा ८, १,
 ५७; २, १०१; पाग १, ४, ५७^०;
 चिद्-उत्तर^२- -रम् पा ८, १, ४८.
 चिदाकोः^३ आपश्रौ २१, ९, १५;
 हिश्रौ १६, ४, १३.
 चिनुही^१ वैगृ १, १४ : १३.
 चिन्त् पाधा. चुरा. पर. स्मृत्याम्,
 चिन्तयन्ति वृदे ७, ४६; चिन्त-
 येत् आम्रि २, ४, १० : ५;
 अप २३, ४, १; ४३, ६, ३; विघ
 ९६, २३; ९७, १; नाशि २, ८, १.
 चिन्तयत्- -यतः वृदे ५, ६७; -यत्
 आपध १, २३, १; हिध १,
 ६, ९; -यन्तम् आश्रौ ४, १, २३.
 चिन्तयन्ती- -न्ती सु ३, ३.
 चिन्तयाम् √अस्, चिन्तयामास
 विध १, १९.
 चिन्तयित्वा वैगृ ५, ६ : २५.
 चिन्ता- पा ३, ३, १०५; पाग १,
 ४, ७४^१; -न्ताम् अप ३३, १,
 ३; विध १, २०; वृदे ७, ४३.
 चिन्ता√कृ पा १, ४, ७४.
 चिन्तित- -त्तः मैअ ३३; -ताः
 आज्यो २, २.
 चिन्ति- पाउभो २, १, १९०.
 चिन्ति->न्ति-सुराप्^१ -पाग ६,
 २, ३७.
 चिन्वत्-, चिन्वान- √चि द्र.
 चिपिट- पा ५, ३, ३३; -टः अप-
 ६८, २, ३१.

- a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) = ऋषि-विशेष- । d) = सर्प-विशेष- । e) वस. पूष.
 = गन्धर्व-राज- । f) = गन्धर्व- । इति प्र. आदिशुद्ध्यभावः उसं. (पा ७, २, ११७) । g) = मन्त्रगण-विशेष- ।
 h) = वैत्री- । i) = मन्त्र- । j) विप. । वस. उप. = उत्तरीय- । k) वैप २, ३ खं. द्र. । l) आग्निगृ. पाठः ।
 m) वप्रा. । व्यु. ? । n) = नृप-विशेष- । o) तु. पागम. । p) पाठः ? चिता गोः इति शोधः (तु-
 वैप १, १३२० e) । q) = सूर्यरश्मि-विशेष- । व्यु. ? । c. टि. अपि द्र. । r) चित्ता- इति भाण्डा. ।
 s) जनपदयोः द्वस. ।

चिवुक्^a- पाठभो २, २, २६; -कम् विध २६, ९२.

चिम्पा- चिम्बा- टि. द्र.

चिर^a- -रम् आपश्चौ १३, ९, ९; १७, १४, ३१; वौश्रौ; कौश्र १, ८, २३^क; शांश्र १, १४, १^क; या १०, ४०××; पाग १, १, ३७; -रस्य पाग १, १, ३७; -रात् शांश्रौ १४, १४, १; अप; पाग १, १, ३७; -राय छ ३१, ३; पाग १, १, ३७; -रेण या १४, ८; पाग १, १, ३७.

चिर-कृच्छ्र- -च्छ्रयोः पा ६, २, ६.

चिर-जीवि-त्व- -त्वम् वाध २९, २.

चिर-त्न- पावा ४, ३, २३.

चिरंतन- पा ४, ३, २३.

चिर-मग्न-गात्र-मात्र- -त्रः अप ६८, ३, १२.

चिर-रात्र- -त्राय पाग १, १, ३७.

चिर-लब्ध- -ब्धः या १०, ३९.

चिर-लोपिन्- -पी आमिष्ट २, ७, १ : २.

चिर-स्थान- -ने गौध १२, २८.

चिरा(र-अ)चिर-वचन- -नात् पावा १, १, ७०.

चिरा(र-आ)युस्^c- -युः माग १, १२, ३.

चिरन्त^d- (> चैरन्त्य- पा.) पाग ४, २, ८०.

?चिरस्या आमिष्ट २, ६, १ : १६.

✓चिरि पाधा. स्वा. पर. हिंसायाम्.

? चिरोणु^e या १४, ५.

✓चिल् पाधा. तुदा. पर. वसने.

१चेल- पाग ३, १, १३४^f.

चिलिचिम^g- -मः वौध १, ५, १३४.

✓चिल्ल पाधा. भ्वा. पर. शैथिल्ये भावकरणे, हावकरणे^h च.

चिल्ल- पावा ५, २, ३३.

चिश्चाⁱ या ९, १४^क.

चिश्चिपा^j > षा ✓कृ > षा-कारम्^k आपश्चौ १३, १७, ६; वैश्रौ १६, २१ : ४; हिश्रौ ९, ४, ५१.

चिहण^l- (> चिहण-क(न्या >) न्य- पा.) पाग ६, २, १२५.

चिह्न^m- -ह्म काध २७८ : ६; -ह्नि अप ७०ⁿ, ११, १३; -ह्नैः विध ७, १२.

चिह्न-युक्त- -क्तः वैध ३, १५, ११.

✓चीक् पाधा. चुरा. उभ. आमर्षणे.

चीपु-दु^o- -दुः अप्रा ३, ४, १^क.

✓चीव् ✓चीव् टि. द्र.

१चीवा, व¹म²र- -रम् गोश्र ४, ९, ७; कप्र ३, ९, १८.

✓चीभ् पाधा. भ्वा. आत्म. कथने.

✓चीय् ✓चीव् टि. द्र.

चीयमान- ✓चि द्र.

चीर^p- पाठ २, २५; पाग ४, २, ८०^q; -रम् वौश्र २, ६, ९; वैध २, २, २; पा ६, २, १२७.

चैरेय- पा ४, २, ८०.

चीर-चर्म-जल-प्रिय^r- -यः वौध ३, ३, १९.

चीर-वलकल-वसन^s- -नः वैध १, ७, ६.

चीर-वलकल-वासस्^t- -साः शंघ ४४२.

चीर-वासस्^u- -साः जैश्र २, ८ : ३; वौध ३, ९, २; विध ५३, १.

चीरा(र-अ)जिन-वासस्^v- -साः वौध २, ६, १७; गौध ३, ३४.

चीरा(र-अ)जिन-वासिन्^w- -सी वाध ९, १.

चीर्ण- ✓चृ द्र.

✓चीव्^x पाधा. भ्वा. उभ. आदानसं- वरणयोः; चुरा. पर. भापायाम्.

१चीवर- चीवर- द्र.

२चीवर^y- पाठ ३, १; -रम् शांश्रौ २, १६, २; या ११, ४७.

✓चीवरि पा ३, १, २०.

चीवि-वाच्^z- -वाक्^{aa} विध ४४, २४.

✓चुक्क् ✓चिक्क् टि. द्र.

चुक्त्^{ab}- -क्ते काश्रौ २५, १२, २^c.

चुक्^{ac}- (> चुक्-ता-, चुक्-त्व-, चुक्मिन्-, चौक्य- पा.) पाग ५, १, १२३.

चुक्षा^{ad}- पाग ४, ४, ६२^d.

१चौक्ष- पा ४, ४, ६२; पाग ५, १, १२४.

चौक्ष्य- पा ५, १, १२४.

✓चुच्य ✓१-२चुच्य टि. द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, १६३९ p द्र. । c) विप. वस. । d) तु. पासि. । चिरत- इति पाका., चिरत- इति भाण्डा. । e) अर्थः व्यु. च ? । f) तु. पागम. । g) = मत्स्य-विशेष- । व्यु. ? । h) तु. BPG. । i) = शब्दानुकृति- । व्यु. ? । j) सप्र. चिश्चि <> चुश्चु इति पाभे. । k) वैप ३ द्र. । l) कप्र. पाठः । m) = लोहचूर्ण- । व्यु. ? । n) = वस्त्र-खण्ड- । व्यु. ? । o) वीर- इति भाण्डा. प्रश्र. । p) विप. । द्रस. > वस. । q) विप. । द्रस. > उक्त. । r) ✓चीव्, ✓चीय् इति BPG. । s) = वस्त्र- । व्यु. ? < ✓चि इति पाठ. । t) = झिल्लिका- (नभा. झिगुरी) । व्यु. ? । u) तु. MW. । चीरी (वस.) इति कृष्णपरिडतः; वीचि इति जीसं., चीरी-वाक्- इति मनुः (१२, ६३) । v) तु. चौसं. । चुक्नु^o (तु. कासं.), चुक्न्, चुक्क^o इति BC. । w) = अम्ल- इति पागम. । x) = शौच- इति पागम. । y) चो इति वामनः (तु. पागम.) ।

✓चुट् पाधा. तुदा. चुरा. पर. छेदने.
 ✓चुट्^१, चुट् पाधा. चुरा. पर. अल्पीभावे.
 ✓चुट् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
 ✓चुट् पाधा. भ्वा. पर. भावकरणे.
 ✓१चुण्ट्^२ पाधा. चुरा. पर. छेदने.
 ✓२चुण्ट् ✓चुम् टि. द्र.
 ✓चुण्ट् पाधा. भ्वा. पर. अल्पीभावे
 ✓२चुण्ट् ✓१चुण्ट् टि. द्र.
 ✓चुट्, क्तुत्त^३ आश्रौ ३, १०, ३११;
 काश्रौ २५, ९, १५.
 ✓चुट् पाधा. चुरा. पर. संचोदने,
 चोदत् वौश्रौ १८, ४१ : ४१.
 चोदयति वैश्रौ १०, ११ : ५;
 १६ : ११; हिश्रौ ४, ३, ३१×४;
 या ७, १३; चोदयतः आपश्रौ
 ७, २७, २; चोदयसि या ११,
 २४११; चोदयत् आश्रौ ४,
 १८, ५, ५, ६, ३; आपश्रौ १२, १४,
 १३१; वौश्रौ ७, ६ : ४७१; या
 १०, ३९; क्तुचोदय वाश्रौ ३, १, २,
 २; या ४, २५; ९, २०^४; चोदयेत्
 आपश्रौ १५, १४, ३; वौश्रौ २,
 ३ : १८; २९, २ : १; भाश्रौ;
 चोदयेयुः आश्रौ २, ११, १९; १८,
 १३.
 चोदयिष्यामः वौश्रौ १६, ३ : ८.
 चोद्यते शाश्रौ १, १७, ७; लाश्रौ;
 चोद्यन्ते शाश्रौ १, १, २४; आपश्रौ.
 चोद^५ - > ण्-प्रवृद्ध^६ - ङः शैशि
 ३१०१.
 चोदक^७ - कः ऋप्रा १०, १५; ११,
 २७.
 चोदन - नम् हिश्रौ १६, १, ६; -नात्
 वाश्रौ १, १, १८; हिश्रौ १३, ३,

९; मीस् ४, ३, ३९; ८, ३, ४.
 चोदना - ना काश्रौ २५, १, २;
 वाश्रौ १, १, १, ६५; हिश्रौ;
 -नाः मीस् ७, ३, ७; -नानाम्
 मीस् ४, ४, १; १०, ३, ५८;
 -नाम् मीस् १०, २, ६४; १२,
 ३, ८; -नायाम् शाश्रौ १३, १५,
 ५; १४, ३, १३; कौश्रु; पावा १,
 २, ६४; -नासु मीस् १०, ५,
 १२; पावा १, २, ६४.
 चोदना-गुण - गेषु काश्रौ १, ८,
 २२.
 चोदना-गुण^८ - त्व - त्वात् काश्रौ
 ५, १२, ८.
 चोदना-तसः (:) मीस् ४, ४, ४;
 ९, १, ५; १२, १, १.
 चोदना(ना-अ)नुपूर्व्य - न्येण
 शाश्रौ १, १७, २.
 चोदना(ना-अ)नुबन्ध - न्वः
 मीस् ९, २, ४०.
 चोदना(ना-अ)न्तर - रम् मीस्
 २, ३, ५; -रात् मीस् १०, ४, ३७.
 चोदना-पृथक्त्व - त्वम् मीस्
 ११, २, ४९; -त्वात् मीस् ११,
 ३, ५१; -त्वे मीस् ११, ४, २३.
 चोदना-प्रकरण - णे शाश्रौ १,
 १७, १.
 चोदना-प्रतिभाव - वात् मीस्
 ३, ८, ७^९.
 चोदना-प्रभुत्व - त्वात् मीस् १०,
 ३, ३.
 चोदना(ना-अ)भाव - वात्
 मीस् १०, ६, ३८.
 चोदना(ना-अ)भिसंबन्ध -
 न्धात् मीस् १०, ३, ६५.

चोदना-भूत - तम् मीस् ९,
 १, १.
 चोदना-भेद - दात् काश्रौ ६,
 ७, २७.
 चोदना(ना-अ)र्थ - र्थेन मीस्
 ४, ३, १०.
 चोदनार्थ-काल्पर्य - त्स्न्यात्
 मीस् ३, ६, ८.
 चोदनाथा(र्थ-अ)विशेष -
 -पात् मीस् ६, ३, १५.
 चोदना-लक्षण^{१०} - णः मीस् १,
 १, २.
 चोदना-लिङ्ग-संयोग - नो
 मीस् १०, ४, २.
 चोदना-विधि-शेषत्व - त्वात्
 मीस् ११, २, ९,
 चोदना-विरोध - धात् मीस् ३,
 ५, ९; ६, ४, ९; ८, ३४.
 चोदना-विशेष - पात् मीस् ३,
 ८, ४२; ५, ३, ४४.
 चोदना-व्यवाय^{११} - यात् मीस्
 ११, १, ६८.
 चोदना-शब्द - ङ्दस्य काश्रौ
 २०, ७, २०; -ङ्दात् काश्रौ १,
 १०, १.
 चोदनाशब्द-सामान्य -
 -न्यात् मीस् ७, ४, १२.
 चोदना-शेष-भाव - वात् मीस्
 ७, १, ३.
 चोदना-संयोग - नात् हिश्रौ १,
 १, ६०.
 चोदना-संदेह - हे शाश्रौ ६,
 १, ७.
 चोदना-समुदाय - यात् मीस्
 ९, १, २८.

a) तु. BPG. । b) ✓२चुण्ट् इति BPG. । c) = ✓च्युत् । d) पाभे. वैप २, ३खं.
 अनुचुट्चोत् तैत्रा ३, ७, ३, ६; ७ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, १३२९ e द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = अग्रप्रह- ।
 h) विप. । वस. । i) चोदनां, प्रति, भावात् इति जीसं. । j) पसं. उप्र. = व्यवधान- ।

चोदना-सामान्य- -न्यात् मीस्
७,३,२७.
चोदनै(ना-ए)क-काल- -लम्
मीस् ११,४,५०.
चोदनै(ना-ए)कत्व- -त्वात्
मीस् ४, ३, १२; ६, २, ६; ८,
१, २६××.
चोदनै(ना-ए)क-वाक्य-त्व-
-त्वात् मीस् ११,२,५३.
चोदनै(ना-ए)कार्य- -ध्यात्
मीस् ३,६,५.
चोदयत्- -यन् लाश्री १०,११,५;
-यन्ता अत्राय ६,९१.
चोदयन्-न्वत्- -वति आपश्री ५,
६,३; हिश्री ३,२,६.
चोदयित्वा लाश्री १०,५,२.
चोदित,ता- -तः द्राश्री १,३, २८;
-तम् जैश्रीका ३७; अप २३,
११, ३; माशि ५, ५; ६, ६;
आज्यो ११,६; मीस् १,३, १०;
-तस्य मीस् १०, ४, ३८; -ता
काश्री २२, १, १३; -ताः वृदे
५, २४; -तान् अप २२,१, २;
-तानाम् लाश्री ९, ६, २१;
-ताभ्यः शाश्री ३,२०, २०; -ते
काश्री ४,३,२०; अप ७०, ११,
२; मीस् २, २, ६; ३, १, १४;
९,१, ३९; -तेन मीस् १०, ४,
२६.
चोदित-त्व- -त्वात् काश्री १,
८,१; ४,३,२४; ५,८,२०; मीस्
३,२,६; २५××.
चोदिता(त-अ)तिक्रम- -मे वैश्र

२,८ : ७.
चोदिता(त-अ)भाव- -त्रे काश्री
१,४,१.
चोदिता(त-अ)भिधान- -नान्
मीस् ९,१,३६.
चोद्यमान- -नम् लाश्री ६,१, १;
-नानाम् शाश्री ५,१९, ५; १३,
२०,११; -नानि शाश्री २,२७,
३; आपश्री २४, २, २६; -ने
आपश्री ६,१६, २; २४,१, २३;
हिश्री ३,८,१६.
चुनम^{ab} (>चौनमायन- पा.) पाग
४,१,११०.
√चुन्द √वुन्द टि. द्र.
√चुप् पाधा. भ्वा. पर. मन्दायां गतौ.
√चुप् √छुप् टि. द्र.
चुप^{bc} (>चौपायन- पा.) पाग ४,
१,११०^d.
चुपुणीका^e- -का विव ६७,७^e; तंप्रा
१३,१२१.
चुपुणीमुख^f- -खः कागृ ३५,१.
चुप्र- पाउना २,२८.
†श्चुवुक^g- -कः दंवि २, ११; -कात्
आपमं १,१७,१^h.
चुवुक-द्वन्- -न्नः आपश्री १०,१०,
५; हिश्री ७, १, ५५; -न्नम्
आपश्री ७,८, ३; वाश्री २,२,२,
२१.
चुवुक-प्रतिष्ठित- -तम् आपश्री १०,
२४,४ⁱ.
चुवुका(क-अ)न्त^j- -न्तम् वैश्री १०,
७ : ४.
श्चुवुक^k- -कयोः वौश्र १५, ३;

-कात् वौश्री ६,२५ : १२; -के
वौश्री ६, २५ : ६××; वैश्री
१४, ६ : ३^l; वौश्र १४ : ४;
६.
चुव्र- पाउ २,२८.
चुमुरि^m- -रिः वृदे ४, ६७; -रिम्
आश्री ९,८,४१.
चुम्प- (>चौम्पायन-) चुप-
टि. द्र.
√चुम्प् पाधा. भ्वा. पर. वक्त्रसंयोग;
चुरामⁿ. पर. हिंसायाम् चुम्बते
याशि २,६३.
चुम्बुक^o- -काय हिश्री १४, ५,
४१.
चुम्ब्र- पाउना २,१६.
√चुर^p पाधा. चुरा. पर. स्तेवे.
चुरण- (> √चुरण्य पा.) पाग ३,
१,२७.
चुरा- पाग ३, ३, १०४^q; ४, ४,
६२.
श्चौर- पा ४,४,६२.
चोर- पाग ३, १, १३४; ४, १, ४१^r;
५, १, १२४; १३३; ४, ३८; -०र
वाध २०, ३०; -रः अप ६८, २,
५५; शंघ ३२८; -रम् वाध
२०, ३०; -रस्य वाध १४, १७;
शंघ ४३४; वौध ३, ६, १०.
चोरी- पा ४, १, ४१.
श्चौर- पा ५, ४, ३८; -रः
विध ५, १९६; -रस्य विध
४८, २१; -राणाम् अप १,
४४, १; -रे पा ५, १,
११३.

a) तु. पाका. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) चुम्प- इति पाका. (तु. BPG) । d) चुपदासक- इति [पक्षे] पागम. ।
e) = वलिदेवता-विशेष- । व्यु. ? । क्षिप्रगिका इति जीतं. । f) वैप १ द्र. । g) = वालग्रह-विशेष- । व्यु. ? ।
h) पाभे. वैप १, ७३७ h द्र. । i) सप्र. चुवुकप्रतिष्ठितम् <> मुखेन प्रतिष्ठाप्य इति पाभे. । j) विप. ।
वस. । k) = वेदिभाग-विशेष- । व्यु. ? । l) = हविर्धानशकटभाग-विशेष- । m) = √२चुण्ड इति BPG. ।
n) = जुम्बक- । तु. वैप १. । पाभे. वैप १, १३८१ p द्र. । o) पा-३, १, २५ परामृष्टः द्र. । p) तु. पागम. ।

चौर-भय- -यम् अप

६०, १, २.

चौर-वत् विध ५, १६०;

१६६; १७०.

चौर-न्याधि-भय- -यम्

अप ७०^३, २, १२.

चौर-शस्त्रा(त्र-अ)दि-

न्यु- -न्युभिः अप ६३, २, ४.

चौर-हृत- -तम् विध ३,

६६.

चौरक- पा ५, १, १२३^६.

चौर्य- पा ५, १, १२४; -र्यम्

आज्यो ८, ४; -र्यात्- वैध ३,
१४, ६.

चौर-भक्त-प्रद- -दः वाध ३, ४.

चौर-राजा(ज-अ)न्यु(मि-उ)

दक- -कैभ्यः कौष्ट ३, १२, ३०.

चौर-वृत्त- -त्तात् वैध ३, १४, ४.

चौर-सम- -मः गौध १२, ४६.

चौर-हस्त-ग(त>)वा- -न्ता
वाध २८, २.

चौर-हृत- -तम् गौध १०, ४६.

✓चुल्ल पाधा. चुरा. पर. समुच्छ्राये.

चुल^१- (>चुल्य- पा.) पाग ४, २,
८०.

चुल^२- -लुः याशि १, ४४; माशि २,
११^{११}.

चुलक- (>चौलक्य- पा.) पाउना
२, २९; पाग ४, १, १०५^६.

✓चुल्ल पाधा. भ्रा. पर. भावकरणे.

चुल- पावा ५, २, ३३.

चुली^१- -ल्ली शंघ १३१; विध ५९,
१९; -ल्ल्याः वैष्ट ३, ७ : १९^{१६};

-ल्ल्याम् वैष्ट ३, १५ : १.

चुश्चूपा^१ > ष्पा/कृ > ष्पा-कारम्^१
माश्री २, ५, ४, ७.

चूचुक- पाउना २, २९; -कात् वैध
३, १४, १०^१.

चूडा, ला^१- पाग ३, ३, १०४; ४, १,
९६^१; ५, २, ९७^३; १३६; पावाग
५, १, ११०; -डाः काष्ट ४०, १;
माष्ट १, २१, १; वैष्ट ३, २३ :
११; हिष्ट २, ६, ११; -डाम् वैष्ट
३, २३ : १०.

चौड, ल^१- पावा ५, १, ११०;

-डम् आष्ट १, १७, १; आमिष्ट

२, २, ५ : १७; अपष्ट १६, ३;

वौष्ट १, १, ५; भाष्ट १, २८ : १;

द्राष्ट २, ३, १६; -डात् आमिष्ट

३, ७, ४ : ५; वौपि २, ३, १०; ३,
६, १; -डेन भाष्ट १, १० : १०.

चौडक- -कम् वैष्ट ३, २३ :

१; ६, ५ : ८; -कात् वैष्ट ५,
११ : ६; ७, ५ : ४; ७ : १;

-के वैष्ट ६, ५ : ५.

चौड-करण- -णेन जैष्ट १,
१८ : ४.

चौल-कर्मन्- -र्म आमिष्ट २,
२, ५ : १.

चौडकर्मो(र्म-उ)पनयन-

गोदान-विवाह- -हाः आष्ट १,
४, १.

चौल-वत् वौष्ट २, ५, ७; ३, २,
५३; द्राष्ट २, ५, १.

चौलो(ल-उ)पनयन-गोदान-

-नेषु द्राष्ट १, ३, १०.

चौडि- पा ४, १, ९६.

चूडा-करण- -णम् कौष्ट १, १, ५;

शांष्ट १, ५, २; पाष्ट २, १, १; वैष्ट

६५ : २; ३; गोष्ट २, ९, १; कौस्

५४; १५; विध २७, १२; -णे

पाष्ट १, ४, २; -णेन गोष्ट ३,
१, २.

चूडा-कर्मन्- -र्म कौष्ट १, २१, १;

१७; शांष्ट १, २८, १; १९; वौष्ट

२, ४, १; हिष्ट २, ६, १; शंघ २५-

२७; -र्मणि गोष्ट १, ९, २४.

चूडाल- पा ५, २, ९७.

चूडा-वत्- पा ५, २, १३६.

चूडिक- (>चौडिक्य- पा.)

पाग ५, १, १२८.

चूडिक(>)का^०- -कायाम् वैष्ट

५, ४ : ३५.

चूडिन्- पा ५, २, १३६.

चूडो(डा-उ)पनयन- -नानि आज्यो

२, ५; १०, १०; -ने आज्यो ५,
३; -नेषु अप २४, १, ३.

चूडार- (>चौडार्य- पा.) पाग ४,
२, ८०.

चूडारक^१- पाग २, ४, ६९.

चूडाल(>)ला^१- (>चौडालि-

पा.) पाग ४, १, ९६.

चूडितिक- (>चौडितिक्य- पा.)

पाग ५, १, १२८.

✓चूर पाधा. दिवा. आत्म. दाहे.

✓चूर्ण पाधा. चुरा. पर. प्रेरणे,

संकोचने.

चूर्ण^१- पा ३, १, २५; पाग २, ४, ३१^{११};

५, ४, ३^३; -र्णाः अप ४८, ७५^५;

a) चौरिका- इति पागम. । b) चुल- इति पाका. । c) = हस्ताकार-विशेष- । व्यु. ? । d) च^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.; याशि. च) । e) पृ ८२७ ड द्र. । f) नाप. [चुल्हा इति नभा.] । व्यु. ? । g) ल्याः इति पाठः ? यनि. शोधः । h) चुश्चु इति MW. । i) पाप्मे. पृ १०७८ i द्र. । j) = वयसंकर-विशेष- । k) = शिला- । व्यु. ? । < ✓चुद् [समुच्छ्राये] इति अभा. । l) व्यप. । व्यु. ? । m) तु. पागम. । n) = कर्म-विशेष- । o) = चूडा- । p) = पिष्ट- । व्यु. ? । q) = उदक- ।

-र्णानि आपथौ १९, ५, ८;
हिश्री २३, १; ७; हिग १, १४,
७; कौसू ११, १७; आपथ २,
१९, १; हिध २, ५, ७३; -णैत
अप ३५, १, १३; २, ९; -णैपु
कौसू ४१, २२; -णैः काश्री १९,
१, २०; वौश्री १७, ३१ : २०;
कौसू ४१, २५; अप ३६, ७, ४.

चूर्ण-क- पा ५, ४, ३.

चूर्ण-कृत- -तम् वौश्री १७, ३१ :
३; -तैः वाश्री २, १, १, ३४^३.

चूर्ण-पेषम् पा ३, ४, ३५.

चूर्ण-मासर- -रैः काश्री १९, १,
२१.

चूर्णा(र्ण-आ)दि- -दीनि पा ६, २,
१३४.

✓चूर्णि पा ३, १, २५; चूर्णयेत्
माश्री ३, ८, २.

चूर्णयित्वा वैश्री १३, ६ : ८.

चूर्णित->°त-लवण- -णस्य
विध ९०, १.

चूर्णिन्- पा ४, ४, २३.

चूर्णी/कृ>चूर्णी-कृत- -तैः माश्री
६, १, २, ३^३.

चूर्णी-कृत्य काश्री १५, ९, २४.

चूर्णि- पाठ ४, ५२.

✓चूप पाधा. भ्वा. पर. पाने.

✓चृत्^३ पाधा. तुदा. पर. हिंसा-
श्रन्थनयोः.

✓चृप् पाधा. चुरा. पर. संदीपने.

✓चृ(समासौ)>चोर्ण- -णैपु वौग २,
६, ५.

चोर्ण-निर्णय- -यः वौपि २, ७,

१४.

चोर्ण-पितृ-व्रत- -तः वैग ५,
७ : ५.

चोर्ण-प्रायश्चित्त- -तौ कप्र १,
६, ३.

चोर्ण-व्रत- -तः वौध ३, ५, ८.

चोर्ण-व्रता(त-अ)न्त- -न्तेन वौग
४, १२, २.

चोर्णा(र्ण-अ)न्त- -न्ते काध
२७१ : ७; २७२ : १; ६; १०;
१२.

चेकित- (>२चैकित-, २चैकित्य-)
चिकित- टि. द्र.

चेकितत्-, °तान- ✓कित् द्र.

१चेट- -टः आपथ १, १७, ३८; हिध
१, ५, ६९.

चेट-नावय-शिशुमार-नक-कुलीर-
-राः वाध १४, ४१.

२चेट- (>चेटी- पा.) पाग ४, १,
४१.

चेतत्-, चेतन- ✓चित् द्र.

?चेतना^१ कौग ५, ४, ७.

चेतना- प्रथ. ✓चित् द्र.

चेतव्य- ✓चि द्र.

चेतस्- ✓चित् द्र.

चेत्- ✓चि द्र.

चेत् ✓चित् द्र.

चेद् पाग १, ४, ५७; आश्री १, १,
११; शाश्री; या १, ११^१; पा ३,
३, १५४; चेत्ऽचेत् पाग १,
१६, २४.

चेद्-अर्थ- -यै पावां ८, १, ३०.

चेदि- पाग ४, २, ११६^३; -द्वयः अप

१, ७, २^१.

चैदिका-, चैदिकी- पा ४, २,
११६.

चैद्य- -यस्य ऋअ २, ८, ५.

चैर- -रवे आश्री ५, १५, ३; शाश्री
७, २०, ४; लूसू २, ११ : ४.

✓चैल् पाधा. भ्वा. पर. चलने.

१चैल- ✓चित् द्र.

२चैल- -लानाम् शंघ १७४; १७५;
वौध १, ५, ३६.

चैल- -ले वाध १०, २३.

चैल-वत् वाध ३, ५३; काध
२७७ : १२.

चैल-शिरस्- -रसोः वौश्री
२७, ९ : २.

चैल-क्नोपम् पा ३, ४, ३३.

चैल-वेट-कटुक-काण्ड- -ण्डम् पा
६, २, १२६.

चैल-पिण्ड- -ण्डात् गौध १२,
२४.

चैल-राज्या(ज्य-आ)दि- -दिभ्यः
पावा ६, २, १३०.

चैल-वत् शंघ १७४; वौध १, ५,
३७; गौध १, ३५.

चैलो(ल-उ)पमार्जन- -नैः वैग ५,
३ : १.

चैलक^१- -काः^३ वौश्रीप्र १७ : ५.

चैलकि- -किः शुअ १, १७६.

✓चैष्ट^३ पाधा. भ्वा. आत्म. चेटायाम्,

चैष्टते वैश्री १२, १२ : २१;

अप ७०^३, ७, २०; ७१, १२, ३;

चैष्टति वौश्री ४, २ : ३५; ५, १६ =

१××; वौग; चैष्टन्ति वौश्री ६,

a) ष्णी इति संस्कृता । सपा. ष्णी<>ष्णी इति पाप्मे । b) पा ७, २, ५७ परान्मृष्टः द्र. । c) विप. ।

वस. । d) = मत्स्य-विशेष- । व्यु. ? ।

e) = नाटकीय-पात्र- । व्यु. ? । f) पाठः ? चेद्, अनया (ऋचा) इति

द्विपदः शोधः । g) वप्रा. । व्यु. ? ।

h) वैदी- इति [पक्षे] पाका., १वेदि- इति पाप्मि. । i) = चेदि-निवासिन्- ।

j) वैप १-द्र. । k) समाहारे द्रस. ।

l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) बहु. < चैलकि- । n) पा

७, ४, ९६ परान्मृष्टः द्र. ।

२७ : १४; ७, १ : २६; २० : ७;
 ८, १४ : १४; ११, २ : १८;
 चेष्टताम् हिण् १, २३, १; चेष्टे-
 ताम् द्राश्रौ १२, २, ३३; ३४;
 लाश्रौ ४, ११, ३^२; चेष्टत द्राश्रौ
 १२, २, २; लाश्रौ ४, ११, ५;
 चेष्टत् गोण् १, ६, २१; चेष्टेरन्
 माश्रौ ३, ६, २२.
 चेष्टिपि हिण् १, २३, १.
 चेष्टयति शाण्ड ४, १५, ७; चेष्ट-
 यन्ते शाश्रौ ८, ९, २.
 चेष्ट- वेष्ट- टि. द्र.
 चेष्टत्- -ष्टति आपघ १, ६, २८;
 हिण् १, २, ५१; -ष्टन्तम् वौश्रौ
 २४, ३७ : १४; वाधूश्रौ ४, ६९ :
 ४; ७६ : ६; ८० : ४; कौसू ८०, ११.
 चेष्टा- -ष्टया मीसू ३, १, ९; -ष्टाः
 आश्रौ १, १, ८; -ष्टानाम् आपण्ड
 ६, ३; हिण् २, ३१; -ष्टाम् कौसू
 ४८, १४; याशि १, २३; नाशि
 १, ६, १२; -ष्टायाम् पा, पावा २,
 ३, १२; -ष्टासु आश्रौ १, १२, ५.
 चेष्टा-दृष्टि-पर- -रम् माशि २,
 १२.
 चेष्टा-भोजन-त्राण्-रोध- -धे
 विध ५, ६९.
 चेष्टित- -त्तम् वाधूश्रौ ४, ३६ : ७; ५० :
 १३; द्राश्रौ ११, २, १०; कप्र;
 -तानिअप ६४, ३, ६; अण्ड ३, ६.
 चेष्टित्वा वौश्रौ २, १८ : ३३; ६,
 ६ : १३; ९, ११ : २५.
 चेष्ट्यत्- , चेष्ट्यमाण- ✓चि द्र.
 चैक्यत^{अ०}- (> ष्यत-विध-, ष्यत्या-
 पा.) पाग ४, १, ८०^०; २, ५४.

चैकार्य- चिकार- द्र.
 १चैकित- चिकित- द्र.
 २चैकित- चेकित- द्र.
 १चैकित्य- चिकित- द्र.
 २चैकित्य- चेकित्- द्र.
 चैकित्सित-, ष्सित्य- ✓कित् >
 चिकित्सित- द्र.
 चैकीर्षत-, ष्षित- ✓कृ द्र.
 चैकश- चिकश- द्र.
 चैटयत्^०- (> चैटयत-विध-, चैट-
 यताथनि-, चैटयत्या- पा.)
 पाग ४, १, ८०^०; १५४; २, ५४^०.
 चैतन्य- ✓चित् द्र.
 चैत्य- प्रमृ. ✓चि > चित्या- द्र.
 १, २चैत्र- षचित्र- द्र.
 ३चैत्र- षचित्र- द्र.
 चैत्ररथ- षचित्र- द्र.
 चैत्रायण- षचित्र- द्र.
 १, २चैत्रिक-, चैत्री- षचित्र- द्र.
 चैत्रेय- षचित्र- द्र.
 चैत्र्य- षचित्र- द्र.
 चैदिका-, षकी-, चैद्य- चेदि- द्र.
 चैरन्त्य- चिरन्त- द्र.
 चैरन्दि^१- -न्दिः वौश्रौ ४४ : ४.
 चैरेय- चीर- द्र.
 चैल- रचेल- द्र.
 चैलकि- चेलक- द्र.
 चोड, ल^०- पावा, पावाग ४, १, १७३.
 चोद्-, चोदक- प्रमृ. ✓चुद् द्र.
 चोपन- ✓चुप् द्र.
 चोर- प्रमृ. ✓चुर् द्र.
 चोलपल^१- -लाः वौश्रौ ४४ : ४.
 चोष्क्यति-, चोष्क्यमाण- ✓ष्कृ द्र.
 चौक्य- चुक- द्र.

१चौक्ष- चुक्षा- द्र.
 २चौक्ष^१- -क्षाः वौश्रौ ९ : २.
 चौक्ष्य- चुक्षा- द्र.
 चौटयत्- (> ष्त-विध-) चैटयत्-
 टि. द्र.
 चौड-, चौडक- प्रमृ. चूडा- द्र.
 चौडकायन^१- -नाः वौश्रौ ४५ : ६.
 चौडार्य- चूडार- द्र.
 चौडालि- चूडाला- द्र.
 चौडि-, चौडिक्य- चूडा- द्र.
 चौडितिक्य- चूडितिक- द्र.
 चौडहल^१- -लाः वौश्रौ ३४ : १.
 चौनमायन- चुनम- द्र.
 चौपदासकायन- चुपदासक- द्र.
 चौपयत्^०- (> ष्त-विध-, ष्तायनि-,
 ष्या- पा.) पाग ४, १, ८०;
 १५४; २, ५४.
 चौपायन- चुप- द्र.
 चौम्पायन- चुम्प- द्र.
 १-२चौर- प्रमृ. ✓चुर द्र.
 चौल- पाग ६, २, १३४.
 चौलि^१- -लिः वौश्रौ ४८ : १२.
 चौलुक्य- चुलुक- द्र.
 चौवल^१- -लाः वौश्रौ ३१ : ५.
 ✓च्यु^० पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ,
 च्यवते अण्ड १, ५; अप ३७,
 ३, १; वाध ८, १७; शंघ ११;
 वौध; चाय ४० : १८^१; निघ
 २, १४^१; च्यवन्ते वौश्रौ ८, २१ :
 ९; लाश्रौ १०, ८, ८; निस् ६, ५ :
 १२; १४; भाशि ७०; च्यवताम्
 हिण् १, २३, १^१; च्यवेरन्
 वाधूश्रौ ४, १०० : १३; च्यवेयुः
 भाश्रौ ९, १४, १५.

a) तु. पागम. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) चैतयत्- (< ✓चित्) इति पाणिनिः (तु. पागम.) ।
 d) तु. पाका. । चैट इति ? [पक्षे] भाण्डा. प्रमृ. । e) तु. पाका. । चौट इति [पक्षे] भाण्डा. । f) कपि-
 विशेष- । व्यु. ? । g) = जनपद-विशेष- । व्यु. ? । h) पा ७, ४, ८१ परामृष्टः द्र. । i) च्यवते इति
 पाठः ? यत्नि. शोधः ।

विच्युषे पा ६, १, ३६; च्योष्यते
वाधुश्रौ ४, १०१ : ११; १२;
च्योष्यन्ते शाश्रौ २५, १६, ११;
च्योष्यन्तु हिर १, १८, ३; भाशि
१९; च्योषि हिर १, १८, ३^१;
२३, १.
च्यावयते या ११, ७; च्यावयति
आपश्रौ ९, ९, ६; वौश्रौ; या ११,
६; च्यावयन्ति निसू ५, ६ : २४;
च्यावयामि आपश्रौ १२, १६,
८^१; च्यावयतु कौश्र ५, २,
६^१; हिपि २ : १२; च्यावय
ऋप्रा ९, ३२^१; च्यावयेत् निसू ९,
१ : ३४; १०, २ : २४.
सच्युच्योत् वैताश्रौ २४, १;
च्युच्युच्युः हिश्रौ ९, १, १०;
५, ३६.
च्यवन^१- नः आपमं २, १३, ८;
९; पाग १, १६, २३^३; आमिष्ट
२, १, ३ : १३; भाग १, २३ : ४;
हिर २, ३, ७; जैग १, ८ : १५.
च्यवन^१- नः काग ४, १५; अप
४८, ११५^१; ऋअ २, १०, १९;
निघ ४, १^१; या ४, १९^१;
-नम् अप १, ४१, ७^१; अशां
११, ७; या ४, १९; -नस्य चाअ
२ : ८; ४२ : ३; -च्युनाय काग
४, २०; वैग २, १२ : १३.
च्यावन- ०न आश्रौ १२,
१०, ६-९; आपश्रौ २४, ५, १२;
१५; वौश्रौ ३ : १६; ४ : ४;

५ : ३; हिश्रौ २१, ३, ७^३; वैघ
४, २, २; ३; -नम् लाश्रौ ६, १२,
१४^१; -ने लाश्रौ ६, १०, ९^१.
च्यावनी^१- नीभ्याम्
वाग २, २^१.
च्यावन-वत् आपश्रौ २४, ५, १२;
१५; वौश्रौप्र.
च्यावन^१- नम् या ४, १९^२;
-च्युना^१ अप ४८, ८१; निघ २, ४.
च्यावयत्- च्युन् निसू ४, ४ : १०;
कौसू १३५, ९^१; ऋप्रा ८, ३^१.
च्यावयितु- ता यां ४, १९.
च्युत- -तः नाशि १, ६, २०; -तम्
अप ३७, १९, २; -ताः विघ
२३, ५१; -तेषु गौघ १, ४६;
-तैः वैग १, ५ : ३.
च्युति- -तिः कप्र १, ८, ४; -तेः
गौघ १, ४५.
च्यौत^१- पाड ४, १०४; -तः ऋप्रा
४, ७४^१; -तम् अप ४८,
१०३; निघ २, ९.
√च्यु^१ पाधा. जुरा. उम. सहने हसने
च.
च्युक्त- पाडना ४, ११५.
√च्युत् पाधा. भ्वा. पर. आसेचने,
च्योतन्ति कौसू १०५, १.
च्युतत् आपश्रौ ९, १८, १२^१.
च्योतत्- तत्सु कौसू ९३, १३.
च्युप- पाड ३, २४.
√च्युस् √च्यु टि. द्र.
च्यौत्नी- पाडमो २, २, १८४.

छ

छ^१- शुप्रा ८, ९; ऋत ५, ६, २; छम्
शुप्रा ४, ९८; ऋत ४, ४, ४.
छ-कार- -रः ऋप्रा ६, ३; १२; शौव
२, १७; १८; -रम् ऋप्रा ४, ४;
१२; तैप्रा ५, ३, ४; वाशि २,
४१; -रे शुप्रा ४, २५.
छकार-वत्- वत् ऋप्रा ५, ५९.
छकारा(र-आ)दि- दिडसू ८, ७.
छ-स्व- स्वम् शौशि ३१४; ३१६.
छ-पर- रम् नाशि २, ६, १०.
छंवद्, ष्ट छंम्वद् टि. द्र.
रङ्गाल^१- पाड १, ११३; -ल-
आपश्रौ २०, २२, १३; हिश्रौ
१४, ५, ९; -लम् वौश्रौ ९, ५ :
३४; -लाः आमिष्ट ३, ५, २ :
१०^१; वौपि १, २ : १४; ३ :
१४; २१; २९; -लान् आमिष्ट
३, ५, २ : १०^१; वौपि १, २ :
१४; -लानाम् वौपि १, ३ :
१४; २१; २८.
रङ्गाल, ला^१- पाग ४, १, ९६^१; २,
८०; ३, ९३.
छागल- पा ४, १, ११७; ३, ९३;
-लाः वौश्रौप्र २७ : २.
छागलि- पा ४, १, ९६.
छागलेय- पा ४, २, ८०.
रङ्गालेच^१- न्याः च्यु २ : ७.
छागलेय-ब्राह्मण^१- णम्
वौश्रौ २३, ५ : १५.

a) चौपीः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरायं स्थलं संस्कर्तुः टि. च)। b) पासे. वैप १, ९०५ b द्र.।
c) च्यातव^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिपि.)। d) = बालग्रह-विशेष-। e) = ऋपि-विशेष-। f) = साम-
विशेष-। g) = ऋप्रद्वय-विशेष-। h) वैप १ द्र.। i) = बाहु-। j) शौव ४, ९१ परानुष्टः द्र.। = √च्युस्
इति BPG.। k) पासे. वैप २, ३६. अवसुश्रोत तैत्रा ३, ७, ३, ६; ७ टि. द्र.। l) = वर्ण-विशेष-।
m) शकलाः इति पाठः? यनि. शोधः [तु. वौपि.]। n) छकलाम् इति पाठः? यनि. शोधः [तु. वौपि.]।
o) वप्रा.। व्यु. ?। p) व्यप.। q) = ऋपि-विशेष-। अपत्यार्थे ढक् > एचः प्र. (पा ४, १, १२०)।
x) उप. = प्रन्थ-।

छगलिन्->छगलेयिन्- पा ४, ३, १०९.

√छञ्ज पाषा. चुरा. पर. छञ्जूर्जावने.

छटा- पाठमो २, २, ९६.

फिँछत् आपमं २, १६, ३; ६; ९-११; भाग्य २, ७ : १२; १८; २३; २४; २७; हिय २, ७, २५.

१छत्र^b ->छात्रि^c (>छात्रि-शाला- पा.) पाग ६, २, ८६.

छत्राक^d -कम् आमिग्य २, ५, २ : ४; वीग्य ३, ६, १.

छत्राक-कवका(क-अ)शन- ने विध ५१, ३४.

छत्व- छ- द्र.

छत्वर- पाठ ३, १.

√छद्, न्द^e पाषा. भ्वा. पर. ऊर्जने; चुरा. उम. अपवारणे; पर. संवरणे, फिँछन्दति अप ४८, ९, निघ ३, १४.

फिँछन्सत् आपश्रौ २१, १२, ९, वाश्रौ; अप ४८, ३; निघ २, ६; अच्छान् या ९, ८^f; अच्छान्तसु: अप ४८, ३^f.

छद्यते निघ ३, १४; अच्छ-दयत् वाधुश्रौ ४, २९ : २०.

छन्दयाते वेताश्रौ ३८, ५^f.

छादयति काश्रौ १७, १, ५; ३, १५; ६, १०; कौग्य ३, ६, ३; शांग्य;

फिँछादये हिश्रौ २१, १, १; ३;

छादयामि अप ३७, १, ११^f;

छादयेत् काश्रौ ४, ६, ६; पाग्य ३, ९, ६; काग्य ५९, ५; अप.

अचच्छदत् या ९, ८.

छायते शांग्य ३, ११, ९; अप ६४, १, १०; या ४, १८.

रछत्र^b - पाठ ४, १५९; पाग २, ४, ३१; ४, ४, ६२; -त्रम आपश्रौ १५, २०, १७; वीश्रौ ९, १९ : ४२; १७, ३९; ६; ४२:९; भाश्रौ; -त्राणि काश्रौ २१, ३, ६; अप ६४, ७, ६; -त्रे अप ७०^g, ११, १५; विध ९९, १२; -त्रेण जैग्य १, १६:४; १७:७; कौसू ३३, ९.

छात्र^b - पा ४, ४, ६२; पाग ५, १, १३३.

छात्रक- पा ५, १, १३३.

छात्र-च्यंसक- पाग २, १, ७२.

छत्र-दान- नात् वाध २९, १३.

छत्र-धारिन्- री काग्य ३, ११.

छत्र-ध्वज- जम् अप ७०^g, ९, २.

छत्र-ध्वज-पताका- का: अप ६७, ४, २; -कासु अप ७१, १९, २.

छत्र-प्रदान- नेन विध ९२, २९.

छत्र-भङ्ग- ङ्ग: अप ६४, ६, ७.

छत्र-वत् अप ५८^g, २, ७.

छत्र-वस्त्र-ध्वज- जानाम् अप ६४, ५, ६.

छत्र-च्यंसक- पाग २, १, ७२^h.

छत्रा(त्र-आ)का(र>)राⁱ - रा अप ५८^g, ४, ७.

छत्रा(त्र-आ)दृशी-फलो(ल-उ)

णीप-शुक्कमाल्या(ल्य-आ)

गम- से अप ६८, २, १२.

छत्रा(त्र-आ)दान- नात् वीग्य २, ६, ९.

छत्रा(त्र-आ)दि- दीनि अप ४, २, १४.

छत्रा(त्र-अ)पहारिन्- री शंघ ३७८.

छत्रा(त्र-अ)सि-धनुस्- नुपाम् अप ६८, २, १३.

छत्रिक- (>छात्रिक्य- पा.) पाग ५, १, १२८.

छत्रिन्- त्रिणम् आमिग्य २, ३, ३ : ३.

छत्रो(त्र-उ)पानह^k - हम् कौग्य २; ३; १९.

छत्रोपानह-प्रदान- नेन विध ९०, ११.

छद्र^l - देन आपश्रौ २२, ११, ९.

छद्रि^m - दिम् आमिग्य २, ७, १० : १२.

छघ(दि-अ)न्तराल- लेपु आपश्रौ ११, ८, २.

छदिस्ⁿ - पाठ २, १०८; -दि: काश्रौ ८, ३, २०××; आपश्रौ; -दिप: निस् १, ११ : ११; -दिपाम्

हिश्रौ ७, ५, २७; ७, २१; -दिपि शांश्रौ ५, १३; ६; हिश्रौ २२, ६, ७ⁿ; द्राश्रौ; -दिपी आपश्रौ

११, ८, २; वैश्रौ १४, ६ : १४; -दीपि काश्रौ ८, ४, १७; आपश्रौ ११, १०, ८; १९, २६, ३;

वीश्रौ ६, २६ : ८ⁿ; माश्रौ २, २, ३, २४; हिश्रौ.

a) =कलाप्यन्तेवास्यन्यतम-। मत्वर्थे इति: प्र. (तु. P.W. प्रम्.)। b) व्य१.। c) =आचार्य-विशेष-।

d) नाप.। व्यु. ? <छत्र- + √अक् इति अभा. शक., छत्रा- + √कै इति [पत्ते] शक., √छद् इति P.W. प्रम्.।

e) वैप १ द्र.। f) पा ६, ४, ९६; ९७ परामृष्ट: द्र.। g) =आतपत्र-। h) व्यु. ?। 'गुरुद्वयम्, गुरुणा शिष्य-

सद्वचनच्छाद्यः शिष्येण च गुरुद्वयवत्परिपाल्यः' इति पाम.। √शास् > शास्त्र- (= शिष्य-) = नैप्र.यनि. इति तु मतम्।

i) तु. पागम.। j) विप.। वस.। k) समाहारे द्वस. समासान्तपृ टच् प्र. (पा ५, ४, १०६)। l) = उपच्छद-।

m) = छदिस्-। इ: प्र. उसं. (पाठ २, १०८)। n) सप्र. आपश्रौ १९, २६, ४ प्रम्. विशिष्ट: पामे. (तु. पृ १७५ f)।

छादिषेय- पा ५, १, १३.
 छदिर्-अन्त- न्तम् माश्रौ २,
 १, ४, २९; -न्तेषु माश्रौ २, २,
 २, २८.
 छदिर्-दर्श^१- शौ आपश्रौ ६,
 २५, ६; वैश्रौ २, १० : ७.
 छदिष्-मत्- मत् वाश्रौ १, २, ४,
 १९; -मता आपश्रौ १०, २४,
 २; हिश्रौ ७, २, ३६; -मती
 माश्रौ १२, ६, ९; हिश्रौ ७,
 ५, १.
 छन्न- पाठ ४, १४५; -त्तं द्राश्रौ
 २, ३, १७; लाश्रौ १, ७, १५;
 आगृ ३, ८, १९; -ज्ञाना विध ९३,
 १२; अत्र ८, १.
 छान्निक^२- कः विध ९३, ८.
 छन्दयाम्/अस्, छन्दयामासुः वृदे
 ७, १५७.
 छन्दस^३- पाठ ४, २१९९; -न्दः
 आश्रौ ४, १२, २; ६, २, ९;
 शाश्रौ; हिश्रौ ९, ५, ४३^४; या
 ७, १२; १३; पा ५, २, ८४; पावा
 ६, ४, १०६; -न्दसः आश्रौ २,
 १४, २०××; वौश्रौ; पा ४, ३,
 ७१; पावा १, १, ६; ५, २, ८४;
 -न्दसः-ऽन्दसः शाश्रौ १६,
 ८, ९; -त्तं दसा आश्रौ १, ३,
 २२; ६, ५, २^३; शाश्रौ; आगृ
 १, २४, १८^६; कौसू ६८, १^६;
 २^३; -न्दसाम् आश्रौ ४,
 १२, २; १५, २; शाश्रौ; -न्दसि
 आपश्रौ ५, १६, ४^३; वौश्रौ;
 पा १, २, ३६; ६१; ४,
 ९××; पावा १, ४, ६०; ८०;
 २, १, २××; -न्दसी लाश्रौ
 १०, ६, ९; निस् ५, ३; २३;

२७; -न्दसे शाश्रौ १३, ५,
 ४-६; काश्रौ; -न्दसोः निस्
 ५, ४ : ८; -न्दःसु वाधूश्रौ ४,
 २९ : ४; अशां १८, ३; या
 १३, १३; -न्दांसि आश्रौ १,
 २, १^१; ४, ९^१; ५, १४, ९;
 शाश्रौ १६, २६, २; आपश्रौ १३,
 २२, १^१××; वौश्रौ; या ७,
 १२^१; ८, २२^२; १३, ७;
 -न्दोभिः आपश्रौ १३, २१, ३;
 १६, २९, १; वौश्रौ; -न्दोभ्यः
 वौश्रौ १४, २९ : ३०; ३४;
 वाधूश्रौ; या १, १.
 छान्दस- पा ४, ३, ७१;
 पाग ५, १, १३३; -सः निस्
 ३, १२ : १२; ४, २ : ६; कौसू
 १४१, ३४; -सम् निस् ३,
 ११ : २३; जैगृ २, ८ : १४;
 वृदे २, १०१; अत्र ८, ९; १९,
 २१; -सस्य निस् २, १ : ३१;
 -सानि निस् ४, १२ : १५; २१;
 ५, २ : २३; -सेन निस् २, २ :
 ४; ११.
 छान्दसी- स्ती निस्
 २, १० : २२.
 छान्दसक- पा ५, १,
 १३३.
 छान्दस-वठर^१- पा २, २,
 ३८.
 छन्दः-प(छ >)चा^१- श्ले^१
 अत्र ८, ९; अत्रा ३, ३, ५.
 छन्दः-पवित्र- त्रैः वाधूश्रौ ३,
 १६ : ४.
 छन्दः-पाद- द्वाः निस् १,
 १ : २.
 छन्दः-पादा(द-अ)क्षर-

संयोग- नात् नाशि १, ३, २.
 छन्दः-पुरुष- षम् शुभ्र ४,
 १९६.
 छन्दः-प्रत्यय-ग्रहण- णम् पावा
 ६, १, ७.
 छन्दः-प्रमाण-लिङ्ग-दैवत-
 -तानि आश्रौ ५, १०, २६.
 छन्दश्-चित्त^१- चित् वौश्रौ
 १७, २८ : २; -त्तितम् आपश्रौ
 १७, २६, २; वौश्रौ.
 छन्दश्-चित्ति^२- तित्मा वाश्रौ २,
 २, १, २९; -तीः माश्रौ ६, २, २,
 २१.
 छन्द-संयोग-रूप- -पः निस्
 ५, ४ : १.
 छन्दः-सवनो(न-उ)पदेश-
 -शम् जैश्रौ १४ : १५.
 छन्दः-सूक्त- -क्तम् वृदे १, १६.
 छन्दस-तस् (:) लाश्रौ ६, १,
 १९.
 छन्द-स्तोम-रोह- -हम् निस्
 ३, १२ : ४६.
 छन्दस्-त्व- -त्वम् लनिस् ८ :
 ३५.
 छन्दस्य, स्या^१- पा ४, ३, ७१;
 ४, ९३; पावा ४, ४, १४०^१; -स्यः
 अप ४८, ९७; -स्यम् लुस् ३,
 ८ : २; -स्याः काश्रौ १७, ९,
 ९; १२, ४; आपश्रौ; -स्यानि
 निस् ९, ३ : २८; -स्ये निस्
 ९, ३ : ४०.
 छन्दस्या-पशु- -शुनाम् चाभ्र
 १६ : २९.
 छन्दस्-त्र(त्र >)ती- ती^१
 आपमं २, २०, ३१; तैषा ४,
 २०.

a) वैप १ द्र. । b) ठक् प्र. (पा ४, ४, ८) । c) <√चन्द इति । d) पाभे. वैप १, १३३२ B द. ।
 e) सप्र. शाश्रौ ४, २१, १२ विशिष्टः पाभे. । f) तु. पागम. । उप. =मूर्ख- । g) पाभे. वैप १, १३३३ B द. ।

छन्दो-ना^३-नाः लाश्री ८, ८, ३५; अप २, २, ४; ४, ३; ४४, २, ४; बाध ३, १९; -नाम् शांश्री १३, १, ४; -गाः आश्री ६, ३, २१; १०, १५; शांश्री; -गात् आश्री ५, २, ४; -गान् वौश्री १६, २८ : ४; ९; २१; वैश्री २१, १६ : १; -गानाम् वाश्री ३, २, २, ४२; लाश्री; -गेभ्यः आश्री ५, १९, ६; शांश्री १७, १४, १; लाश्री ९, ६, २; -गैः आश्री १०, ५, २०.

छन्दोग्य- पा ४, ३, १२९; -न्ये आश्री ८, १३, ३२; काश्री २२, ५, १; ६, २५.

छन्दोग्य-श्रुति-तिः वैध ४, ८, ८.

छन्दोग-गुह-रूणा अप २, ५, १.

छन्दोग-तस् (:) वौश्री १४, ४ : २८; ३१.

छन्दोग-प्रत्यय-यम् आश्री ८, १३, ३३.

छन्दोग-ब्रह्मच-चाः वौश्री २३, ११ : ४; १८ : १७; -चेपु वौश्री १४, २६ : १; २३, ८ : २०; २२.

छन्दोग-ब्रह्मच-तस् (:) वौश्री १६, १० : ५.

छन्दोग-ब्रह्मच-च-अ) ध्वर्यु-प्रत्यय-येन वौश्री २४, १ : १३.

छन्दोग-ब्राह्मण-गम् आपश्री १०, १, ३; २, ५; वौश्री २, २ : २०; २५, ४ : ६१.

छन्दोग-वश-शेन शांश्री

१०, ८, २१.

छन्दोग-सूत्र-मानवसूत्र-त्रयोः काश्रीसं २७ : १.

छन्दो-गण-गः अशां १८, २.

छन्दो-ग्रहण-णम् पावा ४, ३, १०४.

छन्दो-देव(ता>)त^३-ताः या ८, २२.

छन्दो-देवता-ताः शुअ ४, १३३.

छन्दोदेव(त्य>)त्या-त्या लुसू १, ८ : १८.

छन्दो-देवत-प्रतिरूप-पः वैताश्री ३५, ५.

छन्दो-देवत-सामान्त-योग-गान् लाश्री ६, ९, १.

छन्दो(न्दस्-अ)नन्तर-रेण शांश्री ६, ६, १७.

छन्दो-नामन्-ग्नि पा ३, ३, ३४; ८, २, ९४.

छन्दोनामानाम् माश्री २, १, ४, ६१.

छन्दो-निषेध-धः मीसू ३, २, ३८.

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रम->क्रम-लक्षण-गम् मैअ १.

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रमण-णम् अश्रभू १.

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रान्ति-विज्ञान-नाय अश्र १८, २१.

छन्दो(न्दस्-अ)न्त-न्तैः माश्री ६, १, १, २२.

छन्दो-ब्रह्मवर्चस-काम-मस्य अशां १७, २.

छन्दो-ब्राह्मण-णानाम् पावा ४, २, ६६; -णानि पा ४, २, ६६;

पावा १, ३, १०.

छन्दो-भक्ति-क्तिः निसू ३, ४ : १.

छन्दो-भाषा-पाग ४, ३, ७३; -षा चव्यू २ : २९; -षाम् तैप्रा २४, ५.

छन्दोभाष-पा ४, ३, ७३.

छन्दो-म^१-मम् वौश्री १६, ६ : १-३; निसू ९, ६ : ३४; १०, ६ : २२; -मयोः शांश्री १२, ४, ५××; -मस्य निसू ९, ६ : ३४; -माः आश्री ८, ७, १८××;

शांश्री; -मात् शांश्री ११, १३, १३××; -मान् आश्री ११, २, २; शांश्री; -मानाम् शांश्री १०, ११, १०; वौश्री; -मे शांश्री १२, ३, १७××; आपश्री; -मेभ्यः निसू ५, ६ : ६; -मेपु शांश्री १०, ९, ५××; वैताश्री; -मौ शांश्री १४, ३९, २.

छन्दोम-मः शांश्री १६, २२, ६; -माः शांश्री १५, ६, १; -मात् निसू १०, ६; २१.

छन्दोमिक^१-क्रम या ७, २३; २४; -कस्य आश्री ८, ७, २०; शांश्री १०, ९, ६; -कानि निसू ५, २ : २०; ७ : १७; -के काश्री २२, ६, २३; वृदे ६, १०८.

छन्दोम-चतुरह-हः निसू ३, ६ : २३.

छन्दोम-ता-तायै निसू १०, ७ : २.

छन्दोम-त्रिककुद्-दः शांश्री १६, २९, १४.

a) वैप २, ३खं. द्र. । b) विप. । वस. । c) शोधः पाभे. च वैप १ द्र. । d) = एकाह-विशेष-

स्तोम-विशेष-प्रसृ. । वैप १ द्र. । e) विप. । तत्रभविक्र् उक् प्र. । f) = त्र्यह-विशेष- ।

छन्दोमन्व्यह- हे निसू ८,
६ : ७.

छन्दोमन्दशारात्र^a- -त्रः
आपश्रौ २३, ९, ८; १४.

छन्दोमन्दशाह^a- -हः काश्रौ
२३, ५, ३१; २४ ४, १०; १५;
-हम् शाश्रौ १३, २१, १३;
-हयोः लाश्रौ १०, १०, १; -हे
छुस् ३, १ : १६; १० : ४१;
१२ : २३.

छन्दोमन्पवमान^b- -नम्
आश्रौ १०, ३, १०; आपश्रौ २२,
२२, १८; हिश्रौ १७, ८, २२;
निसू ८, १३ : २५; -नेन आपश्रौ
२२, १८, ८; २२, १७; हिश्रौ
१७, ७, ३; ८, २२.

छन्दोमन्पवमानन्त्रत^c-
-तम् आश्रौ १०, ३, ६.

छन्दोमन्पवमाना (न-अ)
न्तर्वसु- -सू आश्रौ १०, २,
१२.

छन्दोमन्प्रथमा(म-अ)न्त्य-
-न्त्ययोः वैताश्रौ ४२, ७.

छन्दोमन्भक्ति- -क्तयः वौश्रौ
२६, २१ : ११.

छन्दोमन्वत्- -वता आपश्रौ
२२, २४, ३; -वति छुस् ३, १ :
१३; निसू ९, १३ : ३१; -वन्तम्
आश्रौ १०, ३, २४; -वान् निसू
९, ५ : १.

छन्दोमन्विलोप- -पः निसू
६, २ : २१.

छन्दोमन्सादृश्य- -श्यात्
निसू ९, १ : ३९; ४६.

छन्दोमन्सामन्- -म निसू
८, ४ : १९.

छन्दोमन्स्तोम- -मम् निसू
१०, ६ : ११; ७ : ५.

छन्दोमे(म-इ)डा- -डाम्
नुस् ३, १२ : १९.

छन्दोमन्मय- -यम् वाधूश्रौ ४,
७२ : १; ६; सु १, २; -यौ
वौश्रौ १८, ३८ : ५; १४.

छन्दोमन्मान- पाग ४, ३, ७३;
-नम् हिश्रौ २१, १, १४^३; २,
३२; नाशि २, ६, १; -नस्य
शाश्रौ १, १, १९; -नेन नाशि
२, ६ २.

छान्दोमान- पा ४, ३, ७३.

छन्दो-योग-पर्वन्^d- -र्वणि निसू
९, १० १९.

छन्दो-योग-विकार- -रः निसू
६, ११ : १०.

छन्दो-रथ- -थः वाधूश्रौ ४,
२६^v : १७; -थेन वाधूश्रौ ४,
२६^v : १८.

छन्दो-रु (<ह्)-स्तोम^e-

-मस्य शाश्रौ १०, ८, २१.

छन्दो(न्दस्-ञ)र्थ- -र्थम् पावा
४, ३, १०१; ८, १, ७०.

छन्दो-वा-वचन- -नम् पावा ६,
४, १०६.

छन्दो-विचिति^f- पाग ४, ३, ७३;
-तिः आपध २, ८, ११; हिध २,
१, ११३; -तिम् शंघ ११६ : ३९.

छान्दोविचित- पा४, ३, ७३.

छन्दो-विजिति^f- (> छान्दोवि-
जित- पा.) पाग ४, ३, ७३.

छन्दो-विद्- -वित् अनिसू ८ :
४१.

छन्दो-विषय-त्व- -त्वात् पावा
१, १, ६; २, ६.

छन्दो-व्यतिक्रम- -मात् मीस्
१०, ५, ८८.

छन्दो-व्यूह- -हे निसू ४, ९ :
२३.

छन्न, ज्ञा- पा, पावा ७, २, २७; -ज्ञः
वैश्रौ २०, २४ : १; हिश्रौ २१,
१, १; ३; -न्नम् शाश्रौ १४, २२,
९; काश्रौ; -ज्ञा काश्रौ ५, ४, १;

-ज्ञाः -वाधूश्रौ ४, ५७ : ४;
-ज्ञाम् भाश्रौ १२, ५, १०; वैश्रौ.

छन्न-पाप- -पाः अप ५१, ५, १.

छन्नो(ञ-ञ)पन्न- -ज्ञाः वाध
१८, ७.

छादन- -नात् या ७, १२.

छादयत्- -यन् वाश्रौ १, ३; ३, १३;
गोय १, ७, १२; जैय १, १ : २०;

कौस् १३७, ३६^{१६}; अप १, ३२,
८; -यन्तः द्राश्रौ ३, ४, ७.

छादयित्वा गौपि १, ३, १२.

छादित- पा ७, २, २७; -ताः अनिसू
८ : ३२.

?छान्दोम्येन निसू ९, ७ : १६.

छ-पर- छ- द्र.
√छम् पाधा. भ्वा. पर. अदने.

छम्पण्ड- पाउवृ १, १२९.

√छम्प् √चम्प् टि. द्र.
छम्बद्^h पाग १, ४, ५७; वौश्रौ
१७, ५० : १३^२.

छम्बत् > छम्बत् √कृ, छम्बत्कुर्व-
न्ति वौश्रौ १६, १३ : ८^१.

a) = त्र्यह-विशेष-। b) = अहीन-विशेष-। c) = सतरात्र-विशेष-। d) वस. > कस.। e) = याग-
विशेष-। f) = शास्त्र-विशेष-। g) छादयन्तोत्त^० इति पाठः? ०यन्, भा, उत्त^० इति त्रि-पदः शोधः (उ.
मूको., सप्र. गोय. जैय. च)। h) वैप १ द्र.। i) तु. पाका.। छंबद्, ट इति भाण्डा.। j) पाभे. वैप १
परि. छम्बत्कुर्वन्ति तै ७, ४, ८, २ टि. द्र.।

छम्बल^a - लः हिय २, ७, २^b.
 छय^c - यम् शंघ ११६ : ५७^d.
 ✓छर्, छरति अप ४८, ९^e.
 ✓छर्द् पाधा. जुरा. उम. वमने, छर्द-
 यते कौसु २८, ३; छर्दयति काश्रौ
 २५, ११, ३२; छर्दयेत वाधुश्रौ
 ३, १०४ : १; ३; लाश्रौ ८, १०,
 ९; छर्दयेत् आमिष्ट ३, १२, १:२.
 छर्दन- नम् गौध २३, २७; -ने
 वैधं २, १२, ३.
 छर्दयित्वा वौश्रौ २८, ९ : ९; वैश्रौ
 २१, १ : ६; आपघ १, १०, २२;
 हिघ १, ३, ४९.
 छर्दि^f - र्था काश्रौ २५, ११, ३२.
 छर्दि-ज्वरा(र-अ)तिसार- -राः
 अप ५५, ४, २.
 छ(र्दक>)र्दिका^g - का वाधुश्रौ ३,
 १०४ : १.
 छर्दित- -तस्य वाध १३, २८.
 छर्दित्वा आपश्रौ १०, १३, ११.
 छर्दिस्^h - पाठ २, १०८; -र्दिः
 आपश्रौ ५, १२, १; ६, १७, १०ⁱ;
 वौश्रौ; -र्दिपा वौश्रौ १०,
 ३१ : ६; ३९ : १५, ४६ : ३८.
 छर्दिप्-पा^j - पौ शैशि १२५^k.
 छल^l - पाठ १, १०४; पाग २, ४,
 ३१.
 छल-द्युत-व्यवहार- -रे वौश्र ४,
 ३, ९.
 छुवका- -काम अप १, ६, ५.
 छुवि, वी^m - पाठ ४, ५६; -विम् पाग

३, १२, ६; -वी निसु ६, ६:११.
 छुविका- पाठमोठ २, २, १८.
 ✓छप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.
 छ्वाग, गाⁿ - पाठ १, १२४; -र्गंग
 आपश्रौ ९, १८, २; वौश्रौ; -गः
 वौश्रौ ६, ८ : २^o; २८, ६ : १६;
 हिश्रौ ४, ३, १; मीसू ६, ८, ३३;
 -गम् काश्रौ ६, ३, १८; आपश्रौ
 ९, १८, २; वौश्रौ; -र्गस्य काश्रौ
 १६, ३, १०××; आपश्रौ; -र्गगा
 काश्रौ ७, ८, १४; आपश्रौ १०,
 २६, ७; वौश्रौ; -गाः वौश्रौ २६,
 ११ : २३; ३२ : १९; -गानाम्
 आपश्रौ २०, १९, ५^q; काश्रौसं
 २६ : ५^r; वौश्रौ; -गाम् वौश्रौ
 ६, १० : २; १४ : १××; -गायै
 वौश्रौ ९, ५ : २××; वाधुश्रौ ३,
 १०० : १०; -गेन मीसू ६, ८,
 ४०; -गैः वौश्रौ १५, २८:१६^s.
 रछाग^t - गेन विध ८०, ६.
 छ्वाग-काल- -ले माश्रौ २, ५, ५, ८.
 छाग-पक्ष- -क्षे कप्र ३, १०, ६.
 छाग-मित्र^u - (>°त्रि [क>] का,
 °की- पा.) पाग ४, २, ११६.
 छाग-मेघ- -पाभ्याम् वायु ३, १२.
 छाग-लक्षण^v - -णम् चव्यू २ : ३०.
 छाग-वृषभ- -भाः शंघ ३०६.
 छाग-स्थान- -ने आश्रौ ३, ४, १०.
 छागा-पयस्- -यः वौश्रौ ९, १ :
 ४××; -यसा वौश्रौ ९, ४:१५;
 १०, ७ : १३; वैश्रौ १८, २ : ६;

-यसि वौश्रौ ९, ४ : २२; १७ :
 ९; १०, ८ : ६.
 छागो(ग-उ)न्न-मेघ- -पाः काश्रौ
 २०, ७, १९.
 रछाग^w - (>छाग्यायनि- पा.) पावा
 ४, १, १५५.
 छागरि^x - -स्यः वौश्रौप्र ४१ : १.
 छागल- , १छागलि- रछागल- द.
 रछागलि^y - -स्यः वौश्रौप्र २६ : ३.
 १, रछागलेय- , °यिन्- प्रमृ.
 रछागल- द.
 छ्वागल्यः^z अप ३६, २५, ४.
 छागव्य^{aa} - -व्याः वौश्रौप्र ४१ : ५.
 छागसि- -स्यः वौश्रौप्र ४१ : ४.
 छ्वाणुश्चतेस्य^{ab} वाश्रौ ३, ३, १, ३८.
 छात- पाठ ३, ८६.
 छात्र- , छात्रक- प्रमृ. ✓छद् द.
 छात्रि- १छत्र- द.
 छात्रिक्य- , छादन- प्रमृ. ✓छद् द.
 छान्दि^{ac} - -न्दिः वौश्रौप्र २७ : १.
 छान्दोगि^{ad} - -गिः वौश्रौप्र २७ : १.
 छान्दोग्य- , °न्दोभाष- , छान्दोम- ,
 °मिक- , छान्दोमान- , छान्दो-
 विचित- , °जित- प्रमृ. ✓छद् द.
 छाय^{ae} - -यः अप ७२, ३, ९.
 छायक^{af} - -कात् अप्रा ३, ४, १^{ag}.
 छा(य>)या^{ah} - पाठ ४, १०९; पा २,
 ४, २२; -यया विध ९१, ७;
 वौश्रु ८ : ७; -या आपश्रौ ११,
 १०, ९^{ai}; वौश्रौ; निघ ३, ४^{aj};
 आज्यो १, ८; -यानाम् शाश्रौ

a) = बालप्रह-विशेष-। व्यु. ?। b) सपा. छम्बलः <> शबलः इति पाठे.। c) साध्यदेव-विशेष-।
 व्यु. ?। d) साध्यम् इति अपु २१९, २६ पाठः। e) अर्चायां वृत्तिः। f) = रोग-विशेष-। इः प्र. उत्स.
 (पाठ २, १०८)। g) = रोग-विशेष-। ण्वुल् प्र. (पा ३, ३, १०८)। h) वैपः १ द्र.। i) पाठे.
 वैपः १, १३३४० द्र.। j) = छ्वाग-। व्यु. ?। <✓छिद् वा ✓छो (तु. अभा.) वा इति पाठ्यु., <✓स्क्ल्
 इति Fw. प्रमृ.। k) विप. (मांस-)! l) ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। m) = परिशिष्ट-विशेष-। n) प्रकरणातः
 °ली-> -ल्याः प१ इति स्यात् ?। o) पाठः ? सप्र. आपश्रौ १८, १०, २५ पालाकलस्य इति पाठे.। p) अर्थः
 व्यु. च ?। q) गृह-नामन्।

२, ६, २; अप्राय १, १; -याम्
 आपश्रौ ५, १८, २१; हिश्रौ;
 -यायाः हिश्रौ ७, ८, ५०;
 -यायाम् आपश्रौ १०, १३, ८××;
 काठश्रौ; -यायै आपश्रौ ११,
 २०, ७; वौश्रौ ६, ३२ : ६; १६,
 ३ : ६.
 छाया(या-आ)तप- -पयोः माश्रौ २,
 २, ५, १५.
 छायातपो(प-उ)प(मा>)म-
 -मम् माशि ३, ६; नाशि १, ६,
 १८.
 छाया-दर्शन- -नम् अप ६४, ४, ३.
 छाया-पत्नी-सहाय^०- -यः विष
 १, ९.
 छाया-प्रमाण-तस् (:) आत्ज्यो
 १, ५.
 छाया-शुष्क^०- पा २, १, ४०.
 छाया-संभेद- -दात् माश्रौ ६, ७, ५.
 छाया-संभेदन- -ने अप ४१, ४, २.
 छाल- पाग २, ४, ३१.
 छित्ति- ✓छिद् द्र.
 छित्त्वर- पाउ ३, १.
 छित्त्वा- ✓छिद् द्र.
 ?छित्त्वा^० पाग ३, ७, ३.
 ✓छिद्^० पाधा. रुधा. उभ. द्वैधीकरणे,
 ?छित्स्व वौश्रौ २९, ११ : २.
 छिनत्ति काश्रौ २, ३, ३०; ४, २,
 १; आपश्रौ; -पावा १, ४, १;
 छिन्दते वौश्रौ १५, १४ : १;
 छिन्दन्ति वौश्रौ १५, १ : ३;
 वाश्रौ; ऋच्छिनन्ति काश्रौ ४, २, २;
 आपश्रौ; छिन्धि सु २७, ५; पाग

२, १, १८; छिन्दत^० वौश्रौ १५,
 १४ : १; २; अच्छिनत् वाधूश्रौ
 ४, ६४^० : १; वृदे ५, १५;
 छिन्दीत वौश्रौ ३, ११ : १०ः;
 २४, ३२ : १९; भाश्रौ; छिन्द्यात्
 वौश्रौ २४, २३ : ६; जैग्य; छिन्युः
 लाश्रौ ९, २, २६.
 ऋच्छिच्छिद्दुः वौश्रौ १७, ४५ :
 ९××; वैश्रौ; छेत्स्यसि वाधूश्रौ ४,
 ४९ : ३; अछिद्दत् वृदे ६, १५०;
 छित्याः आपश्रौ ६, २२, ११; छिदः
 वौग २, १, १३ः; छैसीः आश्रौ
 १, ३, २२ः; वाधूश्रौ ३, ९६ :
 २; ऋच्छित्सि शाश्रौ १, ५, ९; ४,
 १३, १; आपश्रौ; छैस्ति जैश्रौ
 १९ : ५; छित्स्महि वौश्रौ ६,
 १७ : १९ः; अच्छेत्स्यताम्
 वाधूश्रौ ४, ९९ : ८.
 छिद्यते आपश्रौ १२, ५, ६; हिश्रौ;
 छिद्यन्ते वाध १६, ३५; अच्छिद्यत
 वौश्रौ १४, २९ : २०; वाधूश्रौ;
 छिद्येत आपश्रौ १४, २६, ३;
 वौश्रौ.
 ऋच्छेदि शाश्रौ १०, १८, ६;
 आपश्रौ ४, १६, ४; भाश्रौ.
 छेद्यति वौश्रौ १८, २० : १;
 छेद्यन्ति शाश्रौ १७, १, १५;
 छेद्येत् गोश्र ४, २, १२.
 छित्ति- पावाग ३, ३, १०८^०.
 छित्त्वा काश्रौ ६, ६, ८; ७, २, १०;
 आपश्रौ; कौग १, २१, ९^६.
 छिदक- पाउ २, ३७.
 छिद्वा- पा ३, ३, १०४.

१छिदि- पाउ ४, १४३.
 २छिदि->छिदि-क्रिया- -या पावा
 १, ४, २३.
 छिदिर- पाउ १, ५१.
 छिदुर- पा ३, २, १६२.
 छिद्यमा(न>)ना- -नासु कौस ३३,
 ३.
 १छिद्^०- पाउ २, १३; -ऋद्रम् आश्रौ
 ३, १४, १०^१; आपश्रौ; -द्रयोः
 कौग १, २०, ७; आपश्र ९, १;
 हिश्रु; -द्राणि माश्रौ ६, १, ७,
 २६; निस् २, ११ : १७-१९;
 २१; अप; -द्रे आपश्रौ ७, ३, ८;
 आपश्रु; -द्रेण काश्रौ १६, ३,
 १४; -द्रेभ्यः शंघ ४६२; -द्रेषु
 वाश्रौ २, १, ७, ५; कप्र ३, २, ५;
 आपश्रु ८, १३; हिश्रु ३, २०.
 छिद्-ग्रन्थि-विवर्जि(त>)ता-
 -ता अप २२, ३, १.
 २छि(द्र>)द्वा- -द्वा अप २३,
 ३, ३; -द्राम् काश्रौ १६, ३, ३;
 १७, ४, १५; -द्रे काश्रौ १७,
 १२, २४.
 छिद्वा(द्र-अ)पिधान- -नाय वैश्रौ
 १७, ६ : २.
 छिद्वापिधाना(न-अ)र्थ-त्व-
 -त्वात् मास १२, २, ८.
 ?छिद्वावर्त- -र्ताः अप ७०^३, १८,
 ४.
 छिद्दी✓भू, छिद्दीभवेत् अप
 ७०^३, १५, २.
 छिन्दत्- -न्दत् भाश्रौ ९, १५, १०^१;
 हिश्रौ १५, ४, १^१;^६; -न्दन् आश्रौ

a) विप. । कस. > वस. । b) तु. पागम. c) पाठः ? शिक्त्वा (< ✓ शिक् ['वन्धने' तु. शिक्त्वा-]),
 त्वा इति द्वि-पदः शोधः (तु. सत्य. टि. ?परित्वाह्) । d) पा ३, २, ६१ परामृष्टः द्र. । e) लोटि मपुः विकरण-
 द्वयोपेतं रूपम् । f) छे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. पै २०, ४८, ५) । पामे. वैप १, १३३६ a द्र. ।
 g) सप्र. शांश्र १, २८, ११ विशिष्टः पामे. । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १, १३३६ e द्र. । j) = छिन्दत्
 आपिन्- । k) सप्र. छिन्दत् <> छिन्दत्-प्राणि <> वैश्रौ २०, २७ : १ अजाम् इति पामे. ।

९,७,११; निसू ५,५ : २५.
 छिन्दत्-प्राणिन्- -णि आपश्रौ
 ९, १३, १^३; १६, ८; भाश्रौ ९,
 १५, ८^३; वैश्रौ २०, २७ : २;
 हिश्रौ १५, ४, १.
 छिन्धि > ँन्धि-विचक्षणा- पा २,
 १, ७२.
 छिन्न, ज्ञा- -ज्ञः अप ५०, ८, १;
 -ञम् शाश्रौ १३, १२, १३^१;
 ऋश्रौ^० ३, १५ : १८; २४;
 वाधूश्रौ; -ज्ञया आपशु २, ११;
 वीशु २ : ५; हिशु १, ३१;
 -ञस्य हिश्रौ ४, ४, १५; -ज्ञा
 आपशु २, १२; हिशु; -ज्ञाम्
 हिश्रौ ७, ४, ५०; -ज्ञे वीश्रौ २७,
 २ : १२; हिश्रौ ३, ८, ५३; वीशु;
 -ज्ञौ वैश्रौ १३, ७ : १२.
 छिन्न-क^० > ँक-तरा (र-आ)
 दि- -दयः पावा ५, ३, ७२.
 छिन्न-पक्ष^० - क्षाय शाश्रौ १२,
 १६, १^१.
 छिन्न-मूल^० - लेषु अप ६५, १, ६.
 छिन्न-शीर्ष^० - पाग २, २, ३७.
 छिन्न-स्तुक^० - कस्य भाश्रौ ७,
 ५, २^१.
 छिन्न-हस्त^० - स्तः शंघ ३७७ :
 १०.
 छिन्नां (ज-अं)श-द्रव्य-
 दर्शन^० - नम् अप ६८, २, ५१.
 छिन्ना (ज-अ)प्र^० - प्रः वैश्रौ
 १३, ७ : १९; -अम् वैश्रौ १०,
 १५ : १४.
 छिन्ना (ज-अ)अ- -अेषु अप

६५, १, ६.
 छिन्नो (ज-अो)ष्ठ^० -ष्ठः शंघ
 ३७७ : १०.
 छेत्तव्य, व्या- -व्यम् वीश्रौ २४,
 ३२ : १९; २१; शंघ २६०;
 ३२९; -व्या वीश्रौ २४, २३ : ५.
 छेत्स्यत्- -स्यन्तः हिश्रौ ४, १, १०.
 छेद- पाग ४, १, ४१; ५, १, ६४;
 -दः शैशि १८१; माशि ९, ६;
 याशि २, ८; नाशि १, ६, ११;
 -दम् आपशु ५, ९; हिशु २,
 १८; -दे माश्रौ ६, १, २, २४;
 वैशु ६, १ : १८; सुध ४७.
 छेदी- पा ४, १, ४१.
 छैदिक- पा ५, १, ६४.
 छेद-दाहो (ह-उ)पघात- -तेषु
 वीश्रौ २७, १ : २३.
 छेद-संहि (त >)ता- -ते वीशु
 २० : २२.
 छेदा (द-आ)दि-पथिन्- -थिभ्यः
 पावा ५, १, ६७.
 छेदन- -नम् या ११, ३७; पावा
 १, ४, २३; -ने विध ५०, ४८;
 पावा १, ४, २३.
 छेदन-ज्ञान- -नाय वीश्रौ २६,
 २३ : ४^१.
 छेदन-भेदन-खनन-निरसन-
 पित्र्य^१-राक्षस-नैर्दत-रौद्रा (द्र-अ)-
 भिचरणीय- -येषु वीशु ३, १३,
 ४; वीध १, ७, ६.
 छेदन-भेदन-भोजन-मैथुन-
 -नानि अप ४१, ३, ३.
 छेदन-भेदन-विलिखन-विमर्दना-

(न-अ)वस्फोटन- -नानि गौघ
 ९, ५१.
 छेदन-भेदना (न-अ)वदारण-
 दहन- -नेषु अप्राय ६, ९.
 छेदन-मन्त्र- -न्त्रः हिश्रौ ३, ८,
 ५३.
 छेदन-संमार्गा (ग-अ)वदान-
 -नेषु मीसू ११, १, ३६.
 छेदम् लाश्रौ ८, ५, ४.
 छेदयत्- -यन् अप १, ९, ८.
 छेदयित्वा शाश्रौ १७, १, ८; वैश्रौ.
 छेदि- पाठ ४, ११९.
 ✓छिद्र पाधा. चुरा. उभ. कर्णभेदने,
 करणभेदने इत्येक.
 छिन्दत्-, छिन्न- प्रमृ. ✓छिद्र द्र.
 छुच्छुन्दरि^१- -रिः विध ४४, ३१.
 ✓छुट् पाधा. तुदा.; चुरा. पर. छेदने.
 ✓छुट् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
 ✓छुप् पाधा. तुदा. पर. स्पर्शे.
 ष्छुवुक^१- -कात् पाठ ३, ६, २; दंवि
 २, ९.
 ✓छुर पाधा. तुदा. पर. छेदने.
 छुरि(क >)का- पाठानाट २, ४४.
 ✓छृद्^१ पाधा. रुधा. उभ. दीप्ति-
 देवनयोः; चुरा. उभ. संदीपने,
 ष्छृणुषु वीश्रौ ९, ४ : १७^३;
 माश्रौ ४, १, २९; ष्छृन्धि वीश्रौ
 ९, २ : १८; ४, १८^३.
 ✓छृप् पाधा. चुरा. उभ. संदीपने.
 छेक- पाठमो २, २, ६.
 छेत्तव्य-, छेत्स्यत्-, छेद- प्रमृ.,
 छैदिक- ✓छिद्र द्र.
 ✓छो^३ पाधा. दिवा. पर. छेदने,

- a) पामे. पृ १०९० k टि. द्र. । b) पामे. वैप १, १३३६ e द्र. । c) कन् प्र. (पा ५, ४, ४) ।
 d) त्रिप. । वस. । e) तु. पागम. । f) सप्र. आपश्रौ ७, ६, १ ल्लस्य. इति पामे. । g) वस. > कस. > पस. ।
 h) ज्ञायाय इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भवस्वामिभाष्यम्) । i) ँपितुरा इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. वीध.] ।
 j) = प्राणि-विशेष- [छुच्छुन्दर इति नभा.] । व्यु. ? । k) वैप १ द्र. । l) पा ७, २, ५७ परामृष्टः द्र. । m) पा २,
 ४, ७८; ७, ३, ३७; ४, ४१ परामृष्टः द्र. ।

कृच्छति आपश्चौ २०, १८, ९;
वाधूश्चौ ३, ९४ : १५; हिश्रौ
१४, ४, २०; शुप्रा ४, १५५.

✓कृष्ण^२ पाष्वा. भ्वा. आत्म. गती.

ज

१जू- शुप्रा ८, ९^०; पि १, ६९.

२जू^१- जौ वेज्यो १८.

जौ>जावा(जौ-आ)वं(दि-अं)श-
-शैः वेज्यो १७.

१जू^२- -जः शुप्रा ४, १६६; शैशि
२०५; भाशि २.

ज-कार- -न्म् तैप्रा ५, २३.

जकार-लकार- -न्योः ऋप्रा ४, १०

जकारा(र-आ)दि- -दिषु अप्रा
२, ४, १५.

ज-न- -जौ भाशि ६०.

ज-पर- -रः तैप्रा ५, २३.

ज-भाव- -वः पावा ६, ४, २२.

ज-शब्द- -द्दः याशि २, ५२.

२ज- ✓जच् द्र.

✓जंस पाष्वा. चुरा. पर. रक्षणे.

✓जम्^० पाष्वा. अदा. पर. भच्छहसनयोः,
जक्षति अप ४८, ५३^१.

जक्षिवस्- ✓षच् द्र.

जं?जसुः^१ शांश्रौ १८, २१, ११; काश्रौ
१३, २, २४.

जगत्^१- पाठ २, ८४; पावा ३, २,
१७८; -कृगत् आश्रौ ४, २, ५;
आपश्चौ ९, १७, १^०xx; वौश्रौ;
हिश्रौ १५, ७, २३^५; आपर्म १, ९,

१०^१; हिय १, १८, ५^१; या ५,
३४; ९, १३४; -कृगत् आश्रौ
४, १२, २; शांश्रौ; अप ४८,
७८^१; निघ २, ३^१; या १२, १६४;
-कृगति वौगृ २, ८, २९; भागृ ३,
१३:१०; अप १, ३८, ५; अशां ८,
५; विघ २०, २७९; वृदे ४, ३७९.
जगती^१- पाग ४, १, ८६; शांश्रौ
७, २७, ९xx; काश्रौ; या ७,
११; १३४; -कृतीः काश्रौ १७,
१२, ७; आपश्चौ; -तीनाम् शांश्रौ
१३, १०, ५; ऋञ ४, ५; -तीभिः
आश्रौ ६, ३, ९; शांश्रौ ८, ९, २^१;
आपश्चौ; वौश्रौ १, ९, ८^१; -तीम्
आश्रौ १, ४, ९^१; शांश्रौ; -तीषु
जुस् ३, ११ : १६; निस् ५, ९ :
१; १०; -त्यः आश्रौ ६, २, ६;
शांश्रौ; अश्र ३, २६^१; -कृत्या
आश्रौ ३, १२, २२^०; ४, १२, २^१;
काश्रौ; कौस् १३३, ६^०; -त्याः
शांश्रौ ७, २७, १७; २६; आपश्चौ;
-त्याम् निस् ५, ३:३३; ३७; अप
२०, ७, ११; ऋञ २, ६, ७५; -त्यै
शांश्रौ १३, ५, ६; काश्रौ; -त्योः
निस् ९, २ : १३; -त्यौ भाश्रौ
९, १६, १४; हिश्रौ.

जागत^१- पा ४, १, ८६;

-तः शांश्रौ १५, १०, ३; आपश्चौ;
-तम् आश्रौ ४, १३, ७xx;
शांश्रौ; -तस्य शांश्रौ ९, ८, ३xx;
लाश्रौ ७, १०, १२; निस् ८, ४ :

६; -ताः आश्रौ ४, १२, १^०
-तात् शांश्रौ ९, २०, १८; ऋप्रा
१७, ४४; -तान् आपश्चौ १३,
१८, ८; २०, २०, ११; वाश्रौ ३,
४, ५, ६; हिश्रौ; -तानि शांश्रौ
१०, ११, ११; १२, १०, २; जुस्
३, १० : २८; १२ : १६; निस् ९,
५ : २८; -ताभ्याम् पि ३, २४;
उनिस् १ : ५८; -ते शांश्रौ ७,
२६, ६; आपश्चौ; -कृतेन आश्रौ
६, ५, २; शांश्रौ; कौस् ३, १०^०.
-कृतेभ्यः शांश्रौ ९, २७, १^१.
-तैः पि ३, ३५; -तौ ऋञ १,
६, ३xx; शुञ.

जागती^१- -ती

निस् १, १ : २३^२; -तीम् अप्राय
२, ९^१; शुञ १, ४४८.

जागत-नायत्र-

-नाभ्याम् उनिस् १ : ४०; पि
३, १६; -त्रौ ऋञ २, ३, ५१.

जागत-ता- -तया

निस् १, १२ : ५.

जागत-प(द>)दा^१-

-दा ऋञ १, १०, १; शुञ ५, ७१.

जागता(त-अ)नुग-

-गम् पाशि ८.

जागती-ना(र्भे>)र्भा^१- -र्भाः

अश्र ८, ५; १०, ५; ११, २.

१जगती-छन्दस्- -न्दसा

वौश्रौ २३, १३ : ३३; २६, १५ :
११; १८; २७; जैश्रौका १४६.

a) ✓क्यु, ✓कृ, ✓कु, ✓क्यु, ✓क्यु इति BPG. 1

b) = वर्ण-विशेष-1 c) = जनण-

[छन्दो-गण-] 1 d) = अस्वयुज् [अस्विनी-नक्षत्र-] 1 e) पा ६, १, ६; ७, २, ७६; ३, ९८; ९९ परानृष्टः द. 1

f) पाठः ? चक्षुः इति शोधः (तु. BC.) 1 g) वैप १ द्र. 1 h) पाभे. वैप १ हविः काठ ३५, ४ टि. द्र. 1

i) पाभे. वैप १ पशुम् शौ ८, ७, ११ टि. द्र. 1 j) मनुष्य-नामन्- 1 k) पाभे. वैप १, १३३८ अ द्र. 1

l) ल्यौ इति पाठः ? यनि. शोधः 1 m) पाभे. वैप १, १३३८ d द्र. 1 n) ल्येनं इति

पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै ४, ४, १२, २) 1 o) पाभे. पृ २०१ a द्र. 1 p) = छन्दोवृत्ति-विशेष-1

q) विप. 1 वस. 1

२^१जगती-छन्दस्^१- न्दसः
 वौश्रौ ८, १२:३७××; वैश्रौ १६,
 १४:१०; -न्दाः आपश्रौ १९,
 ४, ९; वौश्रौ; जैश्रौ ११:
 १८^b.
 जगती-त्रिष्टुम्- -ष्टुश्री
 शुश्र २, ४४४.
 जगतीत्रिष्टुम्-अन्त^१-
 -न्तम् ऋश्र २, ६, ६१.
 जगती-प्रातः-सवन- -ने
 वौश्रौ २६, १५:१२.
 जगती-शंसम् शाश्रौ ११,
 १५, ११.
 जगती-संप(ञ>)ञा-
 -ञाः लाश्रौ ९, ४, ३१.
 जगत्य- पा ४, ४, १२२.
 जगत्य(ती-अ)न्त^१- -न्तम्
 ऋश्र २, १, ८२××; अश्रमू १;
 ऋप्रा १६, ११.
 जगत्य(ती-अ)र्ध^१- -र्धे ऋश्र
 २, ६, ७५; -र्धेन शुश्र ३, १२०.
 जगत्या(ती-आ)दि- -दि
 ऋश्र २, १०, ८३; १७७.
 जगत्यु(ती-उ)त्तर^१- -रः
 ऋप्रा १८, २९.
 जगत्-छन्दस्^१- न्दसः शाश्रौ १४,
 ३३, १४; १५; काश्रौ २५, १२,
 ६; माश्रौ २, ५, १, ३३; ५०;
 -न्दसा निसू ३, ६:२९; -^१न्दाः
 शाश्रौ ६, ८, १२; काश्रौ १३, १,
 ११; माश्रौ २, ५, १, २२.
 जगत्-कारण-कारण- -णम् विघ
 १, ६१.
 जगत्-तृतीयसवन^१- -नः वौश्रौ

१६, १०:६.
 जगत्-पति- -०ते विघ ९८, १९.
 जगत्-परायण- -०ण विघ ९८,
 १००.
 जगत्-प्रसु- -शुः अश्र ४, १, २१.
 जगत्-प्रातः-सवन^१- -नः वौश्रौ १६,
 १०:६.
 जगत्-संभूति-संरक्षा-संहारै(र-ए)
 कविनोद^१->०दिन्- -दिने
 शैशि ३.
 १जगत्-सामन्^१- -न्नि मीसू १०,
 ५, ५८.
 २जगत्-सामन्^१- -मा आपश्रौ १२,
 १४, १; माश्रौ २, ३, ५, २.
 जगत्-स्वामिन्- -मिति अश्र ७१,
 १९, ६.
 जगद्-(हि>)धित- -ताय अश्र
 ५१, १, २.
 जगद्-बीज- -जम् शुश्र ३, १३७;
 अश्र ३, ६.
 जगद्-वृत्ति^१- -त्तयः निसू ५, ९:४.
 जगन्-नाथ- -०थ विघ १, ५०; ५८.
 जगन्-माध्यंदिन^१- -नः वौश्रौ १६,
 १०:८.
 ?जगता^१ आपमं २, १५, ४; आमिष्ट २,
 ४, १:१५; काश्र ११, २; भाश्र २,
 ३:८ माश्र २, ११, १२; हिश्र
 १, २७, ४.
 ?जगति विघ २, १४^१.
 ?जगदैः^१ पाश्र ३, ४, ४^१; ८.
 ?जगति विघ २, १४^१.
 जगुरि^१- -रिः या ११, २५^१कृ.
 जग्ध- प्रसृ. √घस् द्र.
 जग्मि-, जग्मिवस्-, जग्मु- √गच्छ

द्र.
 जग्नस्य- √प्रस् द्र.
 जघन^१- पाठ ५, ३२; पाग ४, ३,
 ५४; ५, ३, १०३; -नम् कौसू
 १३९, १५^१; अश्र; या ९, २०^१कृ;
 -नान् या ९, २०^१; -नानि या
 ९, २०^१; -ने वौपि ३, ३, १२^१;
 वैश्र ३, १४:४; कौसू २५, १७;
 ८०, ३३; माशि ९, ३; -नेन
 शाश्रौ १६, १, ७; १७, ५, ८; १०,
 ४; आपश्रौ; वौपि १, १४:
 १३^१.
 जाघ(न>)नी^१- -नी मीसू ३,
 ३, २०; -नीः वौश्रौ १७, ५:
 ८^१; २६, २२:१२; -नीनाम्
 वाश्रौ ३, २, ६, ५४; -नीभिः
 आपश्रौ १४, ७, ११; हिश्रौ ९,
 ८, ४२; -नीम् आश्रौ १२, ९,
 १०; काश्रौ; -न्या काश्रौ ६, ९,
 १४; १९; आपश्रौ; -न्याः माश्रौ
 ७, २२, १०; वैश्रौ १०, २१:
 १७; -न्याम् वैश्रौ १०, २१:
 १९; -न्यै आपश्रौ ७, २७, १०;
 वौश्रौ ४, १०:१६; १७;
 २०, ३१:५; ७; ८; १०; हिश्रौ
 ४, ५, ४९; ५०.
 जाघनी-नुद- -न्दम् काश्रौ
 ६, ८, १३.
 जाघनी-शेष- -पम् भाश्रौ ७,
 २२; १४; हिश्रौ ४, ५, ५१.
 जघन-च्युति^१- -तिम् आश्रौ २,
 १०, १४^१.
 जघन-तस् (:) कौसू ७५, १३; १८;
 ८१, २१^१.

a) विप. । वस. । b) पाशे. वैप २, ३खं. जगच्छन्दाः तां १, ५, १५ टि. द्र. । c) = [जगतीछन्दस्क-] अर्धर्च- । d) पस.>दस.>कस. । e) मलो. कस. । f) पाठः ? पाशे. ?जगता<>?जगदैः<>?जाघताम् इति, तच्छोधार्थं तु. सस्थ. टि. वत्स-> -त्सः ? । g) लघुशाखीयः पाठः । h) वैप १ द्र. । i) ०नेन इति पाठः ? यनि. शोधः । जठरे इति R. । j) पाशे. पृ. २५३ a द्र. । k) = पशु-पुच्छ- । l) उत्तरेण संधिरार्धः (तु. संस्कृतां [भू. LVIII]). ।

जघन-देश- -शे कौसू ४४, ७.
जघना(न-अ)र्ध- -र्धात् वाश्रौ १, ६,
७, ४; आग्निष्ट २, ९, २ : ९; वौषि
२, ७, ८; वौष ३, ४, ७; -र्धे
आपश्रौ १९, ११, ११; हिश्रौ
२३, २, ११; जैश्रौ १९ : १४;
आपष्ट १२, ४.

जघन्य, न्या^{1b} - पा ४, ३, ५४; ५, ३,
१०३; -न्यः आश्रौ १, १३, ७;
शांश्रौ ३, ८, २६; आपश्रौ; -न्यम्
शांश्रौ १३, १२, ८; आपश्रौ; -न्यम्
ऽ-न्यम् आपघ २, ११, ११;
-न्यत्त्व शंघ ३३२; -न्या आपसं
२, १४, ११; आग्निष्ट २, १, ३ :
२३; भाष्ट १, २३ : १५; हिष्ट
२, ३, ७; शंघ ८५; -न्याः वैष्ट
३, १ : १२; -न्यान् गौष ५,
२६; -न्यानि आपघ २, १६, ६;
हिष्ट २, ५, ६; -न्याम् आग्निष्ट
३, ५, ३ : २; कौसू ८१, २०;
-न्यायाम् आपश्रौ १९, २६, १०;
-न्ये हिश्रौ २२, ६, १०; -न्येन
वाधूश्रौ ३, २९ : २३.

जघन्य-ज- -जः वृदे २, ६१.
जघन्य-तर- -रे लाश्रौ ८, ४, ८.
जघन्य-वाप्य^c - -प्यान् वौश्रौ
१८, २० : ५.
जघन्य-विधि- -धेः लाश्रौ ९,
७, ७.
जघन्य-ब्रज्या^d - -ज्याम् लाश्रौ
८, १२, २.
जघन्य-संवेदिन्- -शी काष्ट १,

११; आपघ १, ४, २८; वौष १,
२, २२; हिष्ट १, १, १४७; गौष
२, २७.

जघन्य-सम-समाना(न-आ)सना
(न-अ)नुचरण- -णानि वैश्रौ
१७, १८ : ९०.

जघन्य-स्तवन- -नम् लाश्रौ
१०, ९, ४.

जघन्या(न्य-अ)हन्- -हःसु वौश्रौ
११, १ : १३; १८, २० : ८; २२,
१३ : ९; २६, ३२ : १.

जघन्यो(न्य-उ)ङ्क^e- -के वौश्रौ
१६, २९ : ८; ३० : २.

जघन्वस्- , जग्नि- , जग्निवस्- ✓हन्
द्र.

जघ्नु- पाठमो २, १, २०.

जङ्गम- प्रनृ. ✓गच्छ् द्र.

जङ्गल^f- पाठमो २, ३, ९५; -लम्
अप ५, ७, ३, ४^g.

जाङ्गल- -लम् विष्ट ३, ४;
-लानि अप्राय ३, १०; -ले अप
६२, ३, ४.

जङ्गल-धेनु-वलजा(ज-अ)न्त-
-न्तत्य पा ७, ३, २५.

जङ्गल-पथ->जाङ्गलपथिक-
पावा ५, १, ७७.

जङ्गिड^h- -डः अशां १९, ६ⁱ; अत्र
१९, ३४^j; -डम् अशां १९,
६.

जङ्गिड-देवताक- -कम् अत्र २, ४.

जङ्गिड-मणि- -णिम् अत्र २, ४.

जङ्गनत्- , जङ्गन्यति- ✓हन् द्र.

ज(ङ्ग>)ङ्गा^k-पाठ ५, ३१; पाग^l ४,
१, ९६^m; ५, २, ९७; -ङ्ग्योः
वैताश्रौ ३, १४; आष्ट ४, ३, १४;
वैष्ट १, २ : १२; अत्र ९, २,
१; शंघ १०२; विष्ट ९६, ६४;
-ङ्गा अत्र २२, ४, ४; -ङ्गानिः
भाशि ३९ⁿ; -ङ्गान्याम्
आपश्रौ १९, १०, २; वाश्रौ ३,
२, ७, ३८; हिश्रौ २३, १,
५२; आपसं १, १७, ४^o; हिपि ९;
१०६; -ङ्गाम् वाश्रौ ३, ४, १७;
५, १, २५; लाश्रौ १, १२, २; २,
५, २०; -ङ्गायाः आपघ २, २०,
१४; हिष्ट २, ५, १०१; -ङ्गे
शांश्रौ १५, १९, १^p; वैश्रौ.
जाङ्गिक^q- -कम् शंघ २५५.

जङ्गा-कर^r- पा ३, २, २१.

जङ्ग-द्वय- -यम् विष्ट ९६, ९०.

जङ्गा-प्रहत- (>जाङ्गाप्रहतिक-
पा.), जङ्गा-प्रहत^s- (जाङ्गाप्रह-
तिक- पा.), जङ्गा-प्रहत-
(>जाङ्गाप्रहतिक- पा.) पाग
४, ४, १९.

जङ्गा-मात्र- -त्रम् अत्र ३०, १, ४.

जङ्गानात्री- -त्रीम् काश्रौ १६,
८, २३.

जङ्गान्य^t- पाग २, ४, ६३.

✓जङ्ग् पाधा. म्वा. पर. वृदे.

✓जङ्ग्, >जङ्ग्(व>)ती^u-
-तीः निष्ट ४, ३; या ६, १६.

२जज्ञान- ✓जन् द्र.

२जज्ञान- ✓ज्ञा द्र.

a) वैष १ द्र. । b) = पधिमन्, नीच- । c) विप. (यघ-) । उत्त. । d) वृत्त. उप. माप. ।
e) वृत्त. > कर्त्त. > वृत्त. । जघन्य समासना¹ इति संस्कर्तुरभिमतः ? । f) विप. । वस. । g) = अररत्य- । व्यु. ?
< ✓गल् इति शक., ✓जन् इति पाठमो. । h) अर्थः ? । i) वृ. पागम. । j) व्यप. । k) पाभे. वैष १
प्राणिन्याम् ऋ १०, १६३, ४ टि. द्र. । l) विप. > नाप. ([जङ्गान्यदेव-] राजशुक्ल- [वृ. विवावरत्नाकरः
पृ ६६२]) । तस्येदनीयम् टक् प्र. उत्तं. (पा ४, ३, १२४) । m) = दूत- (= जाङ्गिक- [वृ. राजतरङ्गिणी ७, १३४८
अमा. शक. च] इति, जङ्गारिक- [वृ. कौटिल्यार्थशास्त्रम् २, १, १९] इति च) । उत्त. । n) वृ. पाञ्च. ।

जक्षि- ✓जन् द्र.
जअ- ज-द्र.
✓जञ् पाधा. भ्वा. पर. युद्धे.
जक्ष- पाग ६, १, १६०.
जक्षण^१-> जक्षणा ✓भू >
 †जक्षणा-भवत्- चन् अप ४८,
 २०; निघ १, १७.
जक्षप-, †क- ✓जप् द्र.
जक्षभत्-, †भान-, †भ्यमान-
 ✓जम् द्र.
✓जट् पाधा. भ्वा. पर. संघाते.
जटा^२- पाठ ५, ३०^०; पाग ५, २,
 ९७; १००; १२७; -टा कौशि
 ५४; -टा: वागृ ४, १; जैगृ १,
 ११; १; शंघ १५९ : ८; -टाम्
 कौशि ५३; ५७; -टायः कौशि
 ५५; -टायाम् कौशि ५६.
 जाट्य^३- -ट्य: या १, १४.
जट- पा ५, २, १२७.
जटा-करण- णम् वागृ ५, ४;
 -णेन वागृ ९, २.
 जटाकरणीय- -यान् वागृ ५,
 १०.
जटा-घर- -र: वैध १, ७, ६.
जटा-धारिन्- -री शंघ ३८१.
जटा-ल- पा ५, २, ९७.
जटा-लोम-नख- -खानि पाग २,
 ६, १७.
जटा-श्मश्रु-रोम-नख- -खानि
 वैध ३, ५, ७.
जटा-श्मश्रु-लोम-नख- -खम्
 कागृ ३, ५; -खान् विध ९४, ९.
जटिन्- -टी आम्रिगृ १, १, ४ :

४६; २, ७, १० : ४; वैगृ २, ८ :
 ११; हिय १, ८, १०; अप ४०,
 २, ९; शंघ ३६९; वैध १, ३, ६.
 †जटिल, ला- पा ५, २, १००;
 -ल: सु १६, ५; कागृ १, २४;
 वाध; -लान् मागृ २, १४, ९;
 अप ५३, २, ३; -†लाय अप ६६,
 २, ६; ३, २; -०†ले अप ३६, १,
 ४; १३; -लेन विध २८, ४१.
जटायु- पाठभो २, १, ४.
जटायुस्- पाठवृ २, ११८.
जटालि- पाठदु ६, २२.
जटि- पाठ ४, ११८.
रजटिल- पाठदु ५, ५३.
जटिलक^४- पाग २, ४, ६९.
जटिलिक^५- (> जाटिलिक- पा.)
 पाग ४, १, ११२^१.
जठर^६- पाठ ५, ३८^०; पाग २, २,
 ३८; ४, ३१^२; -रम् आश्रौ ६, ३,
 १†; शांश्रौ; या ४, ७४; -†रा
 आश्रौ ६, २१, १; वीश्रौ
 १४, ७ : १३; २६, ७ : १६;
 वाधूश्रौ ३, ५४ : १; ४, १०२ :
 ३; -†रे आश्रौ १, १३, १; ६,
 ३, १६; शांश्रौ; वैताश्रौ १२, ८^३.
 जाठर- -रम् नाशि २, ८, ७^१.
 जठर-तस (:) आम्रिगृ ३, ९, १ : १०;
 वीपि २, ६, २.
 †जट्ट^७- पाग ५, १, १२३; -ड:
 आम्रिगृ ३, १०, १ : ४; वीपि ३,
 ५, २; शंघ ३७८; -डम् अप
 ३, २, ४; -डस्य गौध २८, ४५;
 -डं अप ३, २, ५.

जाह्य- पा ५, १, १२३.
जड-ह्रीव- -वौ गौध २८, ४४.
जड-मूका(क-अ)न्ध-वधिर-कुञ्ज-
 वामन-कुण्डक- -कान् कप्र १,
 ६, ५.
जडिमन्- पा ५, १, १२३.
रजड^८- (> जाडायन- पां.) पाग ४,
 १, ११०.
जटु- -ढव: अप ४८, ११५†.
जत्^९- (> †जातायन- पा.) पाग ४,
 १, ९९.
जतु^{१०}- पाठ १, १८; पाग ४, २,
 ८०; -तु वाध २, २६; -तुना
 कौस् १३, ३; २६, २१.
जत्- पावा ४, १, ७१.
जतविल- पा ४, २, ८०.
जतु, त्, †कर्ण^{११}- पाग ४, १, १०५^३;
 २, १११; -र्णाय आम्रिगृ १,
 २, २ : १८.
जातुकर्णि- -र्णि: † वाधूश्रौ ४,
 १०८ : ३; ५.
जातुकर्ण्य- -र्णय्य वीगृ ३, ९, ५.
 †जातुकर्ण- पाग ४, १, १०५^३;
 -र्णम् शांगृ ४, १०, ३; -र्णा:
 वीश्रौ ४, ५ : ३; -र्णाय भागृ
 ३, १० : ३.
जातुकर्ण्य- पा ४, १, १०५; -र्ण्य:
 शांश्रौ १, २, १७; ३, १६, १४;
 २०, १९; १६, २९, ६; काश्रौ ४,
 १, २६; २०, ३, १७; २५, ७,
 ३७; अप १, ३, १; -र्ण्यम् अप
 ४३, ४, ४०; -र्ण्यस्य गुप्ता ४,
 १२५; १६०; ५, २२; -र्ण्यय

a) वैप १ द्र. । b) = दीर्घकेश-संघात-, आवृत्तपद-संघात- [जटापाठ-] । c) < ✓जन् ।
 d) मत्वर्थीयः यण प्र. उसं. (पा ५, २, १२०) । e) व्यप. । व्यु. ? । f) तु. पाका. । †लिका- इति भारडा. ।
 g) तु. पागम. । h) पामे. वैप २, ३३. गोत्रा १, २, ७ टि. द्र. । i) जठरम् इति कालिंसं., लासं । j) = मूर्ख- ।
 व्यु. ? < ✓जल् इति अभा. । k) = जल्हु- । सपा. जढवः <> जळहवः इति पामे. । l) = लाक्षा- ।
 m) तु. पाका. । जातुकर्ण- इति भारडा. । n) उत्तरेण संधिरार्यः ।

हिगु २, १९ : ६.

२जातूकर्ण- पा ४, २, १११.

जतुक^a- पाग २, ४, ६९^b.

जतुरक^a- पाग २, ४, ६९^b.

जजु^c- पाठ ४, १०२; -जुः विघ
९६, ७१; -जुभ्यः काश्रौ २५, ५,
३०^d; कागु २७, २^d; -जूणाम्
आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११,
१५, ९; -जूणि वैश्रौ १२, १७,
५; -जोः वैगु २, ५ : ८.

✓जन्^e पाधा. जु. पर. जनने; दिवा.
आत्म. प्रादुर्भावे, ऋजनिष्व
प्वा आपश्रौ १६, ३, ७^f; वैश्रौ
१८, १ : ४३^f; हिश्रौ ११,
१, ३२^f; ऋप्रा ७, ५६; तैप्रा
३, ८^f.

जजनत् शाश्रौ १०, १५, ६१^f.

जायते ऋश्रौ २, १६, १९××;
ऋशाश्रौ; आपश्रौ २, १, ३^f;
वौश्रौ १, १० : २०^f; भाश्रौ
२, १, ४^f; हिश्रौ १, ६, ६१^f;
वौपि ३, १२, ३^g; जायेते वौश्रौ
१८, ५० : २६; वाधूश्रौ ४, ८३ :
९××; जायन्ते शाश्रौ १५, १८,
१^h; आपश्रौ; ऋजायसे आपमं
२, ११, ३३; १४, ३; आगु;
ऋजायत आश्रौ ८, १, ९; शाश्रौ
१०, ८, १; १८, २३, ११; ऋअ
२, १, १२८; जायते वैश्रौ १८,
१५ : ५^f; जायते वाधूश्रौ ३,

१२ : १०; जायते वौश्रौ १०,
२४ : १९^f; ऋजायथाः आश्रौ
८, ५, १२; १०, २, २२; शाश्रौ;
ऋजायताम् शाश्रौ ४, १४, ३६;
१५, १८, १; काश्रौ; आगु २, ८,
१६^f; आगिगु १, ५, ५ : १४^k,
हिगु १, २५, १^k; जायेताम्
हिश्रौ १५, ४, १४^l; ऋजायन्ताम्
शाश्रौ १५, १८; १^h; भागु;
ऋजायस्व आपश्रौ ५, १०,
९; भाश्रौ; ऋजायत वौश्रौ १०,
२२ : ८; वाधूश्रौ; ऋजायेताम्
ऋअ २, १, १६६; ऋजायन्त
वौश्रौ ७, ४, २०; शुप्रा ४,
७८; ऋजायथाः आगु ४, ३,
२७; कौसू ८१, ३०; जायेत
शाश्रौ १५, १८, १; काश्रौ;
जायेयाताम्^m आपश्रौ ९, १४,
७; भाश्रौ ९, १६, १३; वैश्रौ
२०, ३० : १; अप्राय ५, ५;
जायेरन् काश्रौ २२, ३, २; आगु
१, ७, ३; भागु.

ऋज्जे आश्रौ ३, १२, २२××;
शाश्रौ; वाश्रौ १, ४, २, १०^l;
अप्राय ५, १^h; ऋज्जान आश्रौ
६, १४, १६; शाश्रौ; ज्जाते वृदे
३, ११; ६, १६३; या १२, १०;
ज्जतुः आश्रौ ३, ८, १^f;
ज्जिरे शाश्रौ १५, १८, १^h;
वाधूश्रौ; ऋज्जिपे या १, १५;

अप्रा १, १, १२; ऋज्जिता माश्रौ
५, २, ४, ६; ११, ५; ऋज्जिन्यते
काश्रौ १२, २, ८; आपश्रौ; ज्जिन्ये
शाश्रौ १, ५, ९; वृदे ४, १३०;
ज्जिषीय अअ ९, १^f; ऋज्जन्^o
आपश्रौ ५, ११, २; वैश्रौ १, ११ :
१; ऋज्जनि शाश्रौ १५, १८, १;
आपश्रौ; अप १, १७, १९^f; जानि
ऋप्रा ९, ४७^f; ऋज्जनिष्ट आश्रौ
३, ७, ८××; शाश्रौ; या २ १९;
ज्जिनष्टो(ष्ट-उ) या ११, ३६^f;
ऋज्जत शाश्रौ १५, १८, १^h; भाशि
६०; ऋज्जनिष्ठाः कौसू ६०, २३;
७०, १; गो २, ६; ७; वौध १, १०,
३२^f; अअ ११, १; ऋज्जिष्ठाः
आश्रौ ५, १४, १९; ९, २, ५;
शाश्रौ; ऋज्जनिद्वम्, ज्जिद्वम्
गो २, ९; १०.

ऋजायि^p या ६, १५.

ज्जयते अप ५३, ५, १; ६५, १,
३; पाशि ९; ज्जयति ऋआपश्रौ
९, ९; ११××; वौश्रौ; कौसू
५९, १९^f; ज्जयतः आपघ १,
१, १८; हिध १, १, १७;
ज्जयन्ति वाधूश्रौ ३, १३ :
१४; ४, ११६ : ३; निसू;
ऋज्जनयः^r आपश्रौ ५, ८, ६;
वौश्रौ २, १५ : ९; हिश्रौ ६, ५,
१०; ऋज्जनय^sथा जैश्रौ
१२ : ५; आपमं; ज्जये आपश्रौ

- a) व्यप. । व्यु. ? । b) तु. पागम. । c) वैप १ द्र. । d) शोधः वैप १, १३४०
m द्र. । e) पा १, ३, ८६; २, ४, ८०; ३, १, ६१; ६, १, १९३; ४, ४२; ४३; ९८; ७, २, ७८; ३, ३५; ७९ पावा
६, १, १९१ परामृष्टः द्र. । f) पामे. वैप १, १३४१ d द्र. । g) पामे. वैप १, १४५४ c द्र. । h) सकृन्
प्रन्त्रियते इति B. । i) पामे. वैप १, १३४२ d द्र. । j) पाठः ? वृ १०९३ g द्र. । k) सपा.
जायताम् <> धीयताम् इति पामे. । l) सप्र. ष्येताम् <> ष्येयाताम् इति पामे. । m) यजे इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. मै १, ६, १) । n) जाजे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै २, २, ४, ८) । o) पामे. वैप
१, १३४४ b द्र. । p) = ऋजारयायि । कर्मणि लुङि हपम् । q) पामे. वैप १, १३४४ i द्र. । r) पामे.
वैप १, १३४५ l द्र. ।

१९; ३, २^५; ऋजनयामि कौट
१, १३, ६^{१५}; या ६, ९; ऋजनयन्त
आपश्रौ १४, १६, १; वौश्रौ;
जनयासि^० शांश्रौ १, १९, ६^१;
ऋजनयत् शांश्रौ २, १०, १^५;
माश्रौ ९, १४, १७; अप ४५, २,
३^५; ऋजनयन्तु आपमं १, १३, २;
हिय १, २५, १; ऋजनय > या
शांश्रौ १७, १३, १०; वौश्रौ
३, ३० : १३; कौट १, १२, ६^{०१};
शांश्रौ १, १९, ६^{२०}; अप्राय १,
३; ऋप्रा ८, २८; तैप्रा ३, १२;
ऋजनयत्^६ माश्रौ १, ५, २, ३;
लाश्रौ १, ४, १, २०; ऋजनयत्
शांश्रौ ४, १४, ३६x; आपमं;
ऋजनयन्त आपश्रौ ३, ८, १;
आय ३, १०, ९; पाय; ऋजनयन्
वैताश्रौ ३०, १६^१; या ७, २८;
ऋजनयम् आपमं १, ११, ९;
वौश्रौ १, ७, ४३; माय;
ऋनयेत् आपश्रौ ३, १३, १२;
शांश्रौ; जनयेयुः लाश्रौ ८, ५,
१७; ऋजनयेयम् वौश्रौ १०,
१३ : १६; १३, १८ : ९; वैश्रौ.
ऋनयिष्यति कौट १, १, १०;
शांश्रौ १, ५, १०; भाय;
ऋनयिष्यतः^५ माश्रौ १, ५, २,
४; वाश्रौ १, ४, १, १९;
ऋनयिष्यथः^५ आपश्रौ ५, ८, ८;
वौश्रौ २, १५ : १३; हिश्रौ ६,

५, १०; ऋनयिष्यामि वैश्रौ
११ : ३; वृदे ८, १९; ऋज्जी-
जन्त आपश्रौ २, १५, २; ८, ९, ७;
शांश्रौ; ऋजनत् शांश्रौ १०, ९,
१७^१; ऋज्जीजनत् आपश्रौ
१६, १५, ५; वौश्रौ २, १६ :
३५; भाश्रौ; ऋजीजनयाः पाय १,
१६, १९^१; ऋज्जीजनः शुभ्र ३,
१०; ऋप्रा १६, ४८.
रज, जा^१— जाः अप ४८, ८७^१; निष
२, २; या ६, ९; जाम् या ३,
६; जासु ऋप्रा ८, ४५^१; जे पा
७, ३, १८.
ऋज्जान— नः आपश्रौ ६, ४, १०;
आपश्रौ १६, ३५, ५x; वाश्रौ;
या १४, २४; —नम् आपश्रौ ४,
६, ३; ९, ९, १२; शांश्रौ.
जज्जि^१— पा, पावा ३, २, १७१;
—ऋज्जि आपश्रौ २०, ८, १३; १२,
८; वौश्रौ १५, २६ : १५; हिश्रौ
१४, २, ३०.
ऋजन^१— पाय ४, २, ८०; ६, १, १९९;
—ऋनः शांश्रौ १२, १५, १x;
काश्रौ २२, १; २९^१; आपश्रौ
१०, ७, १३^५x; वौश्रौ; लाश्रौ^०
९८, २, १०-१२; —ऋनम् आपश्रौ
३, १३, १५^५x; आपश्रौ
९, १०, १६^२; १३, ५^१; १०,
१५, ११^१; १४, २८, २^१; २२,
६, ७८^१; वौश्रौ; आमिय २, ७, ९;

१०^{१५}; भाय ३, १८ : १४^{१५};
चाय ३० : १२^{१५}; या २, १०;
१२, १४^२; —ऋनस्य आपश्रौ ४,
१३, ७; ७, ७, ४; शांश्रौ; —नाः
आपश्रौ ७, ४, २^१; आपश्रौ; या
१०, २७; १४, ४; —ऋनाः आपश्रौ
८, ३, १०; शांश्रौ; —नात् कौट
३६, २५^१; अय ७, ४५^१; अपं
२ : ६७^१; या २, १०; माशि १५,
१०; —ऋनात् आपश्रौ ३, ११,
२२; आपश्रौ; आपमं १, ६, ९^१;
वौश्रौ १, ५, २^१; भाय १, १८ :
५^{१५}; या १, १५^६; १०, २२;
१२, २२-२५; —ऋनानाम् आपश्रौ
१, ११, १; आपश्रौ; या १०,
२०; —ऋनाय वौश्रौ १, १७ :
२४x; वैश्रौ; या ४, २५; १४,
२६; —ऋनासः आपमं १, ३, ४;
या १०, २७^१; —ऋनासः कौट
६, १७; ३४, १; ५२, ३; अय १,
३२; या १०, १०; —ऋने आपश्रौ
४, ११, ६; ६, ४, १०; शांश्रौ;
काश्रौ^१ २२, १, २७; २८;
आपश्रौ २, ११, ४^१; भाश्रौ ९,
१४, १६^१; वैश्रौ २०; २० : ४^१;
हिश्रौ १५, ३; ३०^१; ३१^१;
आपमं १, १५, ४^१; हिपि २२ :
८^१; १२^१; —नेन वौश्रौ १३,
२६ : १६; माश्रौ ५, १, ५, १६;
—नेभ्यः वैताश्रौ १७, ७; —ऋनेषु

- a) पामे. वैप १, १३४५ a द्र. । b) पाठः ? जनयासि इति शोधः (तु. c टि.) । c) जनयासि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पामे. वैप १, १३४५ h) । d) पामे. वैप १ रमयत्तु का ३, २, ५ टि. द्र. । e) सख्वं पामे. वैप १ विन्दस्व शौ ३, २३, ४ टि. द्र. । f) जनयत् इति पाठः ? यनि. शोधः । g) पामे. वैप १, १३४५ l द्र. । h) पामे. वैप २, ३खं. जनयिष्युयः तैप्रा १, २, १, १४ टि. द्र. । i) पामे. वैप १, ११७१ a द्र. । j) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र समावेशः द्र. । k) वैप १ द्र. । l) वप्रा. । प्रायेण = मनुष्य- । वैप १ द्र. । m) = वैश्य- । n) पामे. वैप १, १३४७ h द्र. । o) = राज्ञ्य- , जनपद- प्रमृ. । p) शोधः वैप १, १३४७ j द्र. । q) जन इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मै १, ४, ४) । r) पामे. वैप १, १३४८ f द्र. । s) नाम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपमं. प्रमृ. BC. च) । t) पामे. वैप १, १३४८ b द्र. । u) पामे. वैप १, १३४९ d द्र. । v) = देशान्तर- । w) पामे. वैप १, १३४९ e द्र. ।

आश्रौ ३, १२, २७^३; शाश्रौ ३,
१९, १६^३xx; आपश्रौ ९, ९,
३^३xx; वौश्रौ; हिश्रौ १५, ३,
२^३; अप्राय ५, १^३.

जनक(ल्य >) ल्या^३ - ल्याः
शाश्रौ-१२, २१, १.

जनकीय- पावा ४, २, १३७;
३, ६०.

जन-ह्य- -यः अप ५१, २, ४;
३, २; ५८^१, ४, २; -यम् अप
६१, १, ९; ७०^३, ११, १५.

जनक्षय-का(रक >) रिका-
-काः अप ५८^३, ४, ११.

जन-ता^१ - पा ४, २, ४३; -ता
वाघुश्रौ ३, ७९ : ११; -ताः

अप्रा ३, ४; १^१; -^१ताः
आपश्रौ १८, १२, ७; हिश्रौ १३,
५, ४; -ताम् वौश्रौ १३, २ :

८xx; माश्रौ; -तायाम् आपश्रौ
५, २४, ४^१; भाश्रौ; -^१तायै

आपश्रौ ५, २४, ४^१; वाश्रौ ३,
३, २, ३६९; हिश्रौ ३, ५, २५^१;

-०ते वाश्रौ ३, २, ३६^१.

^१जन-घा^१ - -घाः^१ आपश्रौ १०,
१०, ६; १२, २२, १^३; १८,
१६, ९; वौश्रौ.

^१जन-घायस्^१ - -याः वौश्रौ ९,
१४ : ११^३; माश्रौ २, ४, १,
६^३.

जन-पद- पाग ४, १, ८६; -दः
लाश्रौ ८, २, १२; कौत् ९४, १;
अप ३०^३, १, २; -दम् काश्रौ

२२, ११, ३०; माश्रौ; -दयोः
वौश्रौ २३, ५ : १३; -दस्य

वौश्रौ १०, ३० : १३; वैश्रौ;
पा ७, ३, १२; पावा १, १, ७२;

-दाः वौश्रौ २६, ५ : २०; अप
१, ७, ८; ८, ५; ५, ५, २; -दात्

हिय १, २३, १^१; पावा ४, १,
१६६; २, १२४; १३७; -दात्
आपश्रौ २२, २८, २४; वाघुश्रौ;

-दानाम् पावा ४, २, १०४;
-दे काश्रौ २२, २, २२; माश्रौ;

पा ४, २, ८१; पावा ४, २, ५२;
-देन पा ४, ३, १००; -देभ्यः

वौश्रौ १५, १६ : ७; -देशु
आपश्रौ २२, २८, १; हिश्रौ २३,
४, ४१.

जानपद- पा ४, १, ८६;
-दम् अप ७१, ३, २; ११, २;
१४, २; ७२, ४, ५.

जानपदी- पा ४,
१, ४२; पा, पाग ४, २, ८२^१;

-दी लाश्रौ ८, ३, ९; -दीभिः
वाश्रौ ३, ४, ३, १७; -दीषु वा

१, १६.

जानपदिक- -कम् अप
७१, १७, ५.

जनपद-तद्वधि- -ह्योः
पा, पावा ४, २, १२४.

जनपद-धर्म- -र्माः आश्रु १,
७, १.

जनपद-वत् पा ४, ३, १००.

जनपद-शब्द- -शब्दात् पा
४, १, १६८.

जनपद-स्त्री- -स्त्रीणाम् अप
७०^३, ११, ३५.

जनपदा(द-घ्रा) ल्या-

-ख्यायाम् पा ५, ४, १०४.
जनपदिन्- -दिनाम् पा ४,
३, १००.

जन-प्रथम^१ - -नाय वौश्रौ ८,
१२ : २७^१.

^१जन-मृत^१ - -मृतः आपश्रौ
१८, १३, १६; वौश्रौ १२, ८ :
१४; वाश्रौ ३, ३, २, २४; हिश्रौ

१३, ५, १४.

जन-मरण- -गे काश्रौ २५, ५,
२४.

जन-मार- -रेण अप ५०, ७, ३;
७०^३, १५, ४.

जनमारी- > ०री-भय-
-यम् अप ७०^३, १८, २.

जनमार-भय- -यम् अप
७०^३, ६, १.

जनमारभय-कर- -राः
अप ७०^३, ७, ४.

जन-न्-एजय^१ - -यः शाश्रौ
१६, ९, १; वौश्रौ १७, १८ : ७^१;

वौश्रु ३, १०, ६^१; -यम् शाश्रौ
१६, ८, २७.

जनमेजय-राज्य- -ज्ये
वाघुश्रौ ३, ७९ : २५.

^१जन-योपन^१ - -नः वा १३,
३^१.

जन-राज- पाग ५, १, १२४^३.

जन-राजन्^१ - -ज्ञः ऋप्रा १८,
३०^१.

जानराज्य^१ - पा ५, १, १२४;
-ज्याय वौश्रौ १०, ५६ : ५^१.

जन(न-ऋ)धि- -धिन वौश्रु २, ५,
२७.

a) पामे. वैप १, १३५२ f द्र.। b) =ऋन्-। c) वैप २, ३३८. द्र.। d) वैप १ द्र.। e) पामे.
वैप १, १३५० c. द्र.। f) पामे. वैप १, १३५० e द्र.। g) पामे. वैप १, १३५० g द्र.।
h) पामे. वैप १, १३५० j द्र.। i) अर्थः!। जालपद- इति पाका., जालपदी- इति [पक्षे] भाण्डा. पाणि. व।
j) सर्प-विशेष-। k) तु. पागम.।

जन-वाद्- पाग ४, ४, १०२;
-दम् जैगृ १, १९ : २९.

जानवादिक्- पा ४, ४, १०२.
†जन-विद्^a- -वित् कौसू ७८,
१०; -विदे^b मागृ १, १०, ८^c;
वागृ १४, १०^c; कौसू ७८,
१०.

जन-श- पा ४, २, ८०.
जन-श्री^d- -श्रियम् या ६, ४^e.
जन-समवाय- -यम् कौगृ ३,
११, ७; शांगृ ४, १२, ९.
?जनस्य भद्रे मे वतम्^o वाश्री
३, २, ५, ४३.

जन-हित- -तः वृदे २, ३८.
जना(न-अ)र्दिन^h- पाग ३, १,
१३४; -नम् विध १, ३१; -ने
विध १, १९.

?जने(न-इ)च्छ^o- -च्छम् निसू ८,
१ : २१.

जने-वाद्-(> जानेवादिक्- पा.)
पाग ४, ४, १०२.

†जन्य-न्या^a- पा ४, ४, ९७;
-न्यः वाश्री ३, ३, २, ४८^f; वृदे
२, ३८; या १०, १०^g; -†न्यम्
आश्री ४, ४, २; शाश्री; -न्याः
छसू १, ३ : १६; निसू २, ४ :
१२; -†न्यानि आश्री ५, १,
१७; शाश्री ६, ७, १०; -न्याय
वौश्री १२, ९ : १३.

जन्य-मित्र- -त्रम् आपश्री
१८, १६, ५^h; हिश्री १३, ५,
३३^h.

२जन^b- पाग ४, १, ९९^b; ११०.

१जान- -नः ऋअ २, ५, २; वृदे
५, १४; -नम् वृदे ५, १८.
जानायन- पा ४, १, ११०; -नाः
वौश्रीप्र ३ : ६.

†जनक¹- -०क वौध २, २, ३४;
-कः वाधूश्री ३, ४० : १^h;
आपध २, १३, ६; हिध २, ३,
६.

जानकि^h- (> जानकीय-
पा.) पाग ५, ३, ११६^h.

जनक-नोत्र- -त्रम् शोध ३५०.
जनक-ससरात्र¹- -त्रः शाश्री १६,
२६, ७; काश्री २३, ५, ११; वौश्री
२३, १३ : ३; -त्रम् आश्री १०,
३, १४; -त्रे निसू ९, १ : ४;
-त्रेण आपश्री २२, २३, ५; हिश्री
१७, ८, २३.

†जनत्^k- -न्त् वाधूश्री ४, ९८ : ५;
वैताश्री १, ३; १८; २, १; ८,
३××; आपमं.

जनद्-वत्- -†वत्ते शाश्री ३,
१९, १५; आपश्री ९, ९; १; ९;
१३; १४; भाश्री; -नात् आश्री
३, १२, २६; निसू ३, १२ : ३८.

जनद्वती- -त्यः निसू ६, ९ :
१; -त्याम् निसू ३, १२ : ३८.

२जनत्¹- -नतः चाअ ४० : ३.

जनन¹- -ना आश्री ३, ८, १^h;
-नात् वैगृ ७, ५ : ३; गोगृ; -ने
वैगृ ६, ४ : १; कौसू; -नेन मीस्
६, २, २३.

जननी- -नी शाश्री १५, १७,
१^h; मागृ १, १४, १८^h; ऋअ
२, २, ९; -नीम् अप ४, ३,
४.

जनन-मरण- -णयोः वौध १, ५,
९०; १०३; ११, ३९; विध २२,
१; -णे विध २२, ३९.

जननमरणा(ण-अ)न्तर- -रे
विध ८, २६.

जनन-मारक- -के भागृ ३, १४ :
२२^h.

जनना(न-अ)शौच- -चम् विध
२२, ३५.

जननादौच-मध्य- -ध्ये विध
२२, ३५.

जनमान- पाग ४, १, १०५^h;
-ने या ६, ८^h.

जानमान्य- पा ४, १, १०५.

†जनयत्- -यत्^h आपश्री १४, १२,
१; हिश्री १०, ६, ९; -यन् आश्री
२, १९, ३२; शाश्री; -यन्तः
हिश्री १४, ४, ३८; -यन्ती आपमं
१, ११, ७.

जनयन्ती- -न्ती आपमं १, ८,
३^h.

†जनयति^a- -त्यै काश्री २, ५, १४;
आपश्री १, ३४, ५; वौश्री.

जनयां√क, जनयांचकार वौश्री १८,
१३ : ८; वाधूश्री; जनयांचकुः
वाधूश्री ४, ९७² : १.

जनयास्√अस्, जनयामास वृदे
४, २५.

a) वैप १ द्र. 1 b) सप्र. जनविदे<>जनिविदे <>बसुविदे इति पाभे. 1. c) पाठः ?
जनः, सः, भद्रम्, एधति इति चतुष्पदः शोधः (तु. शाश्री १२, १७, १ वैताश्री ३४, ९) । d) =विष्णु- ।
e) =सामन्- ? व्यु. ? । f) पाठः ? जन्यः, मित्रम् इति द्विपदः शोधः (तु. मै. ४, ४, २, ८. च) ।
g) व्यप. 1 h) तु. पागम. 1 i) =पितृ- । j) =क्षीमायग-विशेष- । k) =व्याहृति-
विशेष- । वैप ३ द्र. 1 l) =ऋवि-विशेष- । m) तु. पाका. 1 । १जरमाण- इति भाएहा. 1 n) पाभे.
वैप १, १३५१ III द्र. 1

जनयित्- ता वृदे २,३८; या ४, २१; १०,१०; १४,१२; -तुः सु १३,५; वाघ; या ३,१.
 जनयित्री- -व्यः भाशि ६१; -व्यौ या ८,१४.
 जनयित्तु- पाठभो २,१,८३.
 जनयित्त्वा हिश्रौ ९, ४, ५५; कौस् १३३,६.
 †जनस्- -नः माश्रौ १,६, १, २६; वैश्रौ १,३ : ५; आश्रिण् २, ६,३ : १३; ८ : २६; कप्र २,१, ६; शंघ १०७; वौघ २,५, २०; १०,३२.
 जनो-लोक- -कम् शंघ ११६ : ६६.
 रजनस्- > जनो-वाद- (> जानो-वादिक्-) जनवाद- टि. द्र.
 जनस्य- -स्यान् अप १७, २, १३.
 ?जना संस्तये वीश्रौ १८,४१ : १४.
 -जनि, नी- पाठ ४,१३०; -जनयः वीश्रौ १०, ७ : ३; वैश्रौ १८, १ : ८५; आपमं १, १, ६९; आश्रिण् ३,७,२ : १०; वौषि १, ६,२६९; ४,१, ११९; वौषि १, १७:३०; या ८,१०; -कनिभ्यः आपमं १,११,९; कौस् ३०, ३; वौषि १, ७, ४३; माण् १, १४, १६; -निम् वैताश्रौ ३२,२५१; -निषु अप्राय ५,११; -नीनाम् या १०, २१; १२, ४६; -नीम् आश्रौ ८,३,१९१.

जनि-कृत्- -तुः पा १,४,३०.
 †जनित्-त्व- -त्वम् आश्रिण् ३, ५,६ : १७; वौषि १,५ : ४.
 †जनि-मत्- -मन्तम् कौषि १, ५,२६; शाण् १,९,९; काण् २५, ३१; ३६; -मान्-कौषि १, ५, २६; शाण् १, ९, ८; काण् २५, ३१.
 √जनिय, जनियन्ति अप्रा ३, १,१४१.
 जनि-वत्- -वतः या ३,२११.
 †जनि-विद्- -विदे आपमं १,४, १-३; आपण् ५, २; काण्.
 जनी-मत्- -मान् आश्रौ ८, ३, १९१.
 √जनीय > †जनीयत्- -यन्तः^h आश्रौ ३, ८,१; शाश्रौ २,४,५; ६,११,८; वृदे ६, १९; साय २,८१०; ऋप्रा ९,१६.
 रजन्य,न्या- पा, पावा ४,४, ८२; पाग ४,२,९०; -न्याः वाण् १०,१३;१५; -न्यान् वाण् १०, १३; -न्यानाम् गोण् २,१,१२.
 जन्य-यात्रा- (> जान्यया-त्रिक- पा.) पावाग ४,४,१.
 जन्यीय- पा ४,२,९०.
 जनित- -तौ अप्राय १, ५१.
 जनितृ- -०तः ऋप्रा १,१०१; -ता आश्रौ ३,८, १; आपश्रौ; या ४, २१; १४, १२; पा ६,४, ५३; -तारा आश्रौ ६,७,६.
 †जनित्री- -०त्रि आपश्रौ १४,

३३, २; हिश्रौ १५, ८, ३५; अप्राय ६, १; -त्री आश्रौ ३,८, १××; शाश्रौ; या ८,१४; -त्रीः माश्रौ ७, १३, ४; -त्रीम् कौस् ८०,२३; ८१,४५; कप्र २,२,९९; -व्याः गोण् २,८,४.
 जनितोस् (-) वाघश्रौ ३,३० : २.
 जनित्र- -त्रम् शाश्रौ १२, ९, १७; काश्रौ ५,१,२२१; आपश्रौ; -कत्रे आपश्रौ ९, १, १७; माश्रौ ९,१, १७; माश्रौ ३,४, १; हिश्रौ १५, १,१८; लाश्रौ.
 जनित्र-स्यान्- -नम् लाश्रौ ९, १२,८.
 रजनित्व- पाठ ४, १०४; -कत्वम् या ४,२३; १०,२१; अप्रा ३, ४,१; -त्वैः आपमं २, ११,२९.
 जनिमन्- पाठ ४,१४९; अप्रा ३, ३,१९१; -मा ऋप्रा ८, १०१; -मानि कौस् ६,१११.
 जनिप्यत्- -प्यत् सु २२,२.
 जनिष्यमाण- -णः या १०,२१; -कणाः आपश्रौ ४,६, ५; ७,२; माश्रौ; -कणानाम् जैश्रौ ७ : ६; द्राश्रौ; -णाम् वीश्रौ २, १८ : १५; -कणाय आपश्रौ २०,१, १७; वीश्रौ; -णे आश्रौ १, २, ११; या ६,८.
 †जनुस्- पाठ २, ११५; -नुपः ऋप्रा २,४४; -नुपम् आश्रौ ८, १,२; आण् ३,१०,९; या ९,४८

a) = व्याहृति-विशेष-। वैप ३ द्र.। b) = १जनः। c) = जनता-। समूहाद्यैः प्र. उंसं. (पा ४, २,४९)। d) वैप १ द्र.। e) पामे. वैप १,१३५२ ० द्र.। f) पाठः ?। वैप १ परि. √आजन्य टि. द्र.। g) पामे. वैप १,१३५२ f द्र.। h) पामे. वैप १,१३५२ m द्र.। i) पामे. पृ १०९९ ० द्र.। j) वंश्रा. † = जामातृ-व्यस्य-, कन्या-जातिजन- [गोण्. संस्कृतः टि.], प्रतु.। k) तु. पागम.। l) जनिता वयम् इति पाठः? यनि-शोधः। m) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। n) श्री इति पाठः? यनि-शोधः (तु. आपश्रौ.)। o) = सामन्-लाश्रौ. प्रतु.। p) पामे. वैप १,१३५३ f द्र.। q) पामे. वैप १,१३५४ ० द्र.।

-नुपा आश्रौ ४, ६, ३^१; वाश्रौ ३, ३, ३, १; आपमं १, १०, २; कौगु; -नुषे आश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ ५, ९, ६.

जनुपा(पा-अ)न्ध- -न्धः पावा ६, ३, ३.
जनुषै(पा-ए)कर्व- -र्वौ निस् २, २ : २०; ७, ८ : ३०; ८, ४ : ६; ९ : १५.

जन्तु- पाउ १, ७३; -न्तवः ऋश्रौ २, १६, ७××; शांश्रौ; निघ २, ३^१; -न्तवे आपश्रौ १४, १२, १; हिश्रौ १०, ६, ९; -न्तुः कौसू ८३, २३; विघ २०, २९; ८५, ६५; या १४, ६^१; आज्यो १४, २; -न्तुभिः वौश्रौ २७, ७ : १; वैश्रौ २०, ३१ : ६; अप २२, ९, १; -न्तून् वाध २८, १५; शंघ १०५; विघ ५६, २७; वैध ३, ६, १०; -न्तुनाम् अप ६४, ५, ४; विघ ४४, ४५; -न्तोः वौपि २, १०, ६; या ४, १९^१.

जन्तु-प्रतिम- -मम् वैश्रौ १५, २ : ४; ११ : ३; १२; १५ : २; २२ : ३.

जन्त्य- -न्त्याः वौपि १, ७ : ७^१.
जन्मन्- पाउ ४, १४५; -न्म अप ६३, ५, ४; आपध; निघ १, १२^१; या ९, ४; -न्मन् आपश्रौ ५, १७, ५; १७, १५, ५; वौश्रौ; -न्मनः आश्रौ २, १६, ४; ६, ५, १८^१; शांश्रौ; -न्मना आश्रौ ४, ८, २५; शांश्रौ; या १४, १; २; -न्मनि आमिष्ट २, ५,

६ : १२; वैध १, ११, १३^१; वृदे ४, ७३^१; आज्यो ११, २; -न्मनिः-न्मनि चव्यू ४ : २६; -न्मनी तैषा ४, १२^१; -न्मने आश्रौ ८, ९, ५^१; -न्मभ्याम् वैगृ ६, ७ : ३; -न्मसु अप ४१, ४, ७; या ११, २३^१; -न्मानि कप्र ३, १, १३; अप १४, १, ४; या ९, २८^१; १२, २३^१६.

जन्म-कर्मन्- -र्मणि आज्यो ९, ३; ११.

जन्म-कर्म(र्म-ऋ)र्त्विज्- -र्त्विजः जैश्रौ १ : ५.

जन्म-कर्म-त्रतो(त-उ)पेत- -ताः विघ ३, ७.

जन्म-कर्म-श्रुत-शील-शौचा(च-आ)चार-वत्- -वन्तः शंघ २५८.

जन्म-कर्म-सांघातिक-सामुदा-यिक-वैनाशिक (क-ऋ)र्क्ष- संस्थ- -स्थेषु वैगृ ४, १४ : १५.

जन्म-तसः (ः) कप्र १, ८, ६; आपध १, १, ५; वौध.

जन्म-तिथि- -थिम् कौगृ १, १७, ३; ६; शांश्रौ १, २५, ५; १०.

जन्म-त्रय- -यम् आमिष्ट २, ७, ६ : १९.

जन्म-दिन- -ने अप १८^२, १, १.

जन्म-नक्षत्र- -त्रम् वैगृ ३, २० : १; अप ७२, १, २; -त्रात् आज्यो ९, ५; -त्रे वौश्रौ २८, ३ : ८; आमिष्ट २, २, १ : २××; वौगृ.

जन्मनक्षत्र-याग-होम- -सः अप १८^१, १८, १.

जन्म-प्रभृति- -ति वौगृ ३, १३, १.

जन्म-मरण- -णम् या १४, ६^०.

जन्म-मृत्यु-जरा(रा-आ)दि- -दीन् वैध २, ६, १.

जन्म(न्म-ऋ)र्क्ष- -र्क्षम् विघ ७७, ५.

जन्म-वार- -रे आमिष्ट २, ५, ४ : २.

जन्म-शरीरलक्षण-गुणो(ण-उ)पेत- -तान् शंघ १९८.

जन्म-सम्पद्-विपत्-क्षेम्य- -म्याः आज्यो ९, ४^१.

जन्मा(न्म-आ)दि- -दि वौगृ ३, १३, ८.

जन्मा(न्म-अ)न्तर- -रेषु अप ९, २, ७; वैध १, ११, १२; १३.

जन्मा(न्म-अ)न्ध- -न्धः अश्रुम् ८.

३जन्य- पाउ ४, १११; पा ३, ४, ६८; पावा ३, १, ९७; -न्ये गौध २२, २.

जन्त्यु- पाउ ३; २०.

१जात, ता^१- पा ३, ४, ७२; -०त् आपमं २, १७, २^१; -न्तः आश्रौ ३, १, ९××; शांश्रौ; पा ४, ३, २५; -तम् आश्रौ २, १६, ५; आपश्रौ; वैताश्रौ ६, १^१; आपमं १, १७, ६^१; -तम्-तम् काश्रौ १२, २, ६; -तस्य शांश्रौ १५, १७, १^१; काश्रौ; -ता कागृ ४१, ११^१; भागृ १, २७ : १९^१; कप्र ३, ९, ४; वाध १८, ८; या १२, ३^१; -न्ताः आपश्रौ १, ५, ५××; वौश्रौ; -न्तान् काश्रौ

a) पाभे. वैप १, १३५४ m द्र. । b) = साम-विशेष- । c) = २जनित्व- । वैप २, ३खं. द्र. ।

d) = उदक- । सपा. जन्म<>जङ्ग इति पाभे. । e) णे इति राज. । f) ष्पद्विपक्षे इति पाठः ? यनि. शोधः ।

g) = सुद- । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १, १३५४ a द्र. । j) पाभे. वैप १, १३५६ f द्र. ।

१७, ११, ३; आपश्चौ; -तान्-
तान् वौश्रौ १८, ४४ : १६; १८;
-तानाम् कौश्र १, १२, ६†;
शांश्र १, १९, ६†; अप; -†तानि
आश्रौ ४, ३, २; १०, ६, ९; शांश्रौ;
आपमं २, २२, १९^३; आमिष्ट १,
५, ४ : १३; ३, २, २:९; जैश्र १,
४:१३^३; या ७, १९^३; १०, ४३^३;
१२, २३६; -†ताम् आपश्चौ
५, १, ४; वौश्रौ २, ६ : ३२;
१८ : १५; हिश्रौ ३, २, ३; गो
२, २६; या ३, ४; -ताय शांश्रौ
३, १३, १७; काश्रौ; -तासु
आमिष्ट १, २, १ : १; भाश्र ३, ८ :
२; हिश्र २, १८, २; -ते आश्रौ
१, २, १†; काश्रौ; षंया ३, २२;
६, ८; पा ६, २, १७१; -तेऽ-ते
या १, ८; ७, १९; -तेन आपमं
२, ११, २९†; काश्र ३२, ३†;
शंघ २८२; २८५; -तेभिः शांश्रौ
१८, ९, ७; -तेभ्यः वौश्रौ २०,
२० : ३८; ३९; -तेषु द्राश्रौ ६,
३, ११; लाश्रौ २, ११, ५; काश्र;
-तैः अप ११, २, ४; वृदे १, ९२;
शैशि १०१†; -तौ आपश्चौ २०,
२, ११; हिश्रौ १४, १, २३; या
१२, ३.
जात-क्व^b -कम् वैश्र ७, ४ : ८;
-कात् वैश्र १, १ : १२; -कौ
कौसू १११, ४.
जातक-संस्कार- -रः वैश्र ७,
१ : १.
जातका(क-अ)मि- -मिः वौश्र
४, १०, २; -मिना वैश्र ७, २ :
४; -मिम् वैश्र ३, १५ : १; १८ :

१; ६, ४ : १०; ७ : ८; -मौ
वैश्र ६, ४ : ५; ८; ५ : २; ६;
७, ४ : ८.
जात-कर्मन्^c -र्म कौश्र १, १६,
१; शांश्र; -र्मणः वौषि २, ७, ८;
-र्मणा काश्र ३६, १२; ४४, २.
जातकर्म-नामकरण- -णयोः
आमिष्ट २, ३, २ : १५.
जातकर्म-प्रभृति- -ति आमिष्ट
३, ९, ३ : १०; वौषि २, ७, ९;
हिषि २२ : ३२.
जातकर्म-वत् वाश्र ३, १०.
जातकर्मा(र्म-आ)दि-
संस्कार- -रान् वौषि ३, ७, ४.
जातकर्मो(र्म-उ)व्यान-
-नयोः वैश्र ६, २ : १६.
जातकर्मो(र्म-उ)पनयना
(न-आ)दि- -दि वैश्रौ २०,
२३ : ७.
जात-तुष- -षेषु माश्रौ १, २,
२, १८.
जात-दन्त- पाग २, २, ३७;
-न्तम् वैश्र ७, २ : ७; -न्तस्य
वैश्र ७, २ : ५; ७ : १; -न्ते वाश्र
३, ८.
जात-दुः(सु>)खा^d - पाग २,
२, ३७^e.
जात-धन^d -नः या ७, १९.
जात-पक्ष^d -क्षाः वाघ ६, ३.
जात-पुत्र^d -पाग २, २, ३७^e; -त्रः
भाश्रौ ४, २१, ७; माश्रौ १, ५,
१, ४; वैश्रौ २, ८ : ५; ७, १३ :
१२; हिश्रौ ६, ४, २७; ६, १७.
जातपुत्र-कल्प- -ल्पः भाश्रौ
६, ३, ६.

जात-प्रज्ञान^d -नः या ७, १९.
जात-प्रतिषेध- -धः पावा ४, १,
५२.
जात-बल^d -लः वाघ २७, २.
जातमर्का^d -र्कः जैश्र २, ९ :
१८.
जात-मात्र- -त्रः वैश्र १, १ :
१२; वृदे ४, १३१; -त्रस्य तु ४,
१; वैश्र ६, ७ : १; -त्रेण तु ३, ४.
जात-मृत- -न्ते विष २२, २६.
जात-मृतक-सूतक- -कै काघ
२७३ : ३.
जात-रूप- -यम् शांश्रौ ३, १९,
९; वाश्रौ; -पेण वैताश्रौ ५,
१६; कौश्र १, १६, ७; शांश्र;
-पेभ्यः पा ४, ३, १५३.
जातरूप-मय- -यम् अप
१४, १, २.
जातरूप-शकल- -लेन कौश्र
१०, १६; १९, २३.
जात-वित्त^d - -त्तः या ७, १९.
जात-वि(द्या>)द्य^d - -द्यः वृदे
२, ३०; या ७, १९.
जात-विद्या^d - -द्याम् या १, ८†.
जात-वीर्य^d - -र्यः वौश्र १, २,
३४.
जात-वैदस्^d - पाठ ४, २२७;
-†दः आश्रौ १, २, १××;
शांश्रौ; कौसू ७२, १३^b; १४^b;
-†दसः कौसू ८१, ४५; ८७,
२३; अप ४०, ३, ४; या ७,
१९†; -†दसम् आश्रौ ६, ५,
१८; शांश्रौ; -दसा वृदे ८, ७;
-दसि शांश्रौ १५, १७, ११†; कप्र
३, १, १९; -दसौ वृदे १, ९७;

a) पाभे. वैप १, १२५७ h द्र. । b) = अत्यन्त, संस्कार-विशेष- । c) = संस्कार-विशेष- । d) विप.
वस. । e) तु. पागम. । f) पाठः ? जातः, अर्कः इति द्विपदः शोधः । g) वैप १ द्र. । h) पाभे. वैप १
परि. अक्षरः मा १२, ८ टि. द्र. ।

या ७,२०; -^१दसे आश्रौ ५,५, १९; ७,१,१४; वीश्रौ; -^१दसौ माश्रौ ५,१,३,२७; कौस् १०८, २; -^१दा: आश्रौ १,६,५; १२, ३७^०xx; शाश्रौ ८, २४, १३^०; आपश्रौ ९, ३, १^०; भाश्रौ; माय १,१०, १०^०; या ७,१९^०५; -दो३ शाश्रौ ७,९,३^१.

जातवेदस- -सम् या ७, २०; अश्र ५,१२; २९; -सानाम् या ७,२०; -से अश्र ७,३४.

जातवेदसी- -सी शुश्र ४, ५६; अश्र १८, २; -स्याम् या ७,२०; १४, ३३.

जातवेदसीय- -यम् शाश्रौ ८,६,६; १०,८,२०xx.

जातवेदस्-त्व- -त्वम् या ७, १९.

जातवेदस्य^१- -स्यम् आश्रौ ८,१२,२४; ऋअ २,१,९९; १०, १८८; वृदे; -स्यानाम् आश्रौ ७,१,१४; -स्ये आश्रौ ८,८,६.

?जात-शिला^१- -ला: कप्र ३,९, १०; -लासु गोय ३,९, ६.

जात-श्मश्रु- -पाग २,२; ३७.

जात-श्री- -श्रियम् या ६,४.

जात-श्रुति- -ते: काश्रौ ५,३,४.

जात-सेवत्स(र>)रा^१- -पाग २, २,३७.

जात-संस्कार- -र: -रेण वीचि ३,१, ४.

जात-सु(ख>)वा^१- -पाग २, ३, ३७.

जा(त>)ता-ज्वाल^१- -लेन कौस्

३०, ८.

जाता(त-अ)धिकार- -र: मीस् ३,३,१.

जाता(त-अ)र्थ- -थै पावा ४, ३, ३६.

जातो(त-उ)क्ष- -पा ५, ४, ७७.

जाति- -तय: विध १६, १७; वृदे ५,१४६; -ति: अप ५३,४, ४;

ऋत ४, ६, ५; अप्रा १, २, ५;

याशि १,१८; पा २,१, ६५; ४,

६; ६, १,१४३^०; पावा १,४,१;

४,१,४; मीस् १,४,२४; -तिम्

आपध २, २, ३; ६, १; विध;

-तीनाम् हिश्रौ १०, ३, ३; अप

७०,७, ३; -ते: काश्रौ १५, ४,

१७; पा ४,१,६३; ६, ३, ४१;

४८; ८,१,४; पावा ४,१,१४^३;

मीस् ६,८,४५; -ते:ऽ-ते: काश्रौ

१४, २, ३२; -तौ पा ४, १,

१६१xx; -त्यै हिपि १७:१६^१.

जाति-कल्प- -ल्प: लाश्रौ १०, १,९.

जाति-काल-सुखादि- -दिभ्य: पां ६,२,१७०; पावा २,२,३६.

जाति-ग्रहण- -णम् पावा ४, १, १३७.

जाति-नामन्- -न्न: पा ५,३,८१.

जाति-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्

पावा १,२,५२.

जाति-नैमित्तिक- -कम् मीस् ९, ३,३.

जाति-परिग्रह- -श्रे पा २, १, ६३; ५,३,९३.

जाति-परिवृत्ति- -तौ आपध २,

११,१०; ११; हिध २, ४, २५; २६.

जाति-परा- -गानाम् विध ५, ३१.

जाति-पूर्व- -र्वात् पावा ४, १, ५२.

जाति-भेद- -दे आपश्रौ २४,४, १७.

जाति-भ्रंश-कर- -रम् विध ३८, ७; -रस्य विध ५, १७३;

-राणि विध ३८,६; -रेषु विध ३३,४.

जाति-मात्रो(त्र-उ)पजीविन्-

-विनाम् वीध १, १, १०; वाध

३,५; हु १८,३.

जाति-वाचक-त्व- -त्वात् पावा

१,२,१०; ४,१,१४.

जाति-विद्- -वित् कौस् ७८, १०^३; -विदे कौस् ७८, १०.

जाति-विशेष- -पात् मीस् ३,५, ११.

जाति-शब्द- -ब्द: मीस् ६, ८, ४१;

-ब्देन पावा १, २, ५८;

-ब्देभ्य: पावा ४,१,१४.

जाति-संहार- -र: लाश्रौ ६,६, १४; -रम् लाश्रौ ६,७,१०; १७.

जाति-संज्ञा- -ज्ञयो: पा ५,४, ९४.

जाति-स्मर^१- -र: चव्यू ४: २६.

जातिस्मर-त्व- -त्वम् अप ४२,२,१३; वाध २८,१५; शंध १०५; विध ५६,२७.

जाति-स्वर-प्रसंग- -ग: पावा २,१,२४.

a) पाभे. वैप १,१३६००८ द्र. । b) सप्र. जातवेदा: <> वैश्वानर: इति पाभे. । c) सप्र. आपमं १, ४, ७ पाय १, ५, ११ हिपि १, १९, ७ विशिष्ट: पाभे. । d) प्राग्दीव्यतीयेऽथै यत् प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । e) = [शकैरा-भिन्न-] शिला-विशेष- । f) तु. पागम. । g) [वृक्षभूमौ] 'जाताभि: । [ओषधीभि:] ज्वाल: (तपनं) यस्य' इति कृत्वा विप.>नाप. (उदक-). । h) तु. पाका. प्रमृ. । तौ इति भाण्डा. BPG. चं । i) उप. कर्तरि-ञच् प्र. ।

१जात्य^६- -त्यम् अप ४०, १, १४; -त्यानाम् माशि १५, ९; याशि २, १०९; नाशि २, ८, २३. २जात्य^७- -त्यः ऋप्रा ३, ३४; शुप्रा १, १११; शौच ३, ५७; शैशि २३३; २३४; माशि ७, २; ५; ८, २; याशि १, ७६; ७८; नाशि १, ८, १०; २, १, १; ८; -त्यन् ऋप्रा ३, ८; -त्यस्य याशि १, ५६; -त्ये याशि १, ६८. जात्य-वत् ऋप्रा ३, २६. जात्य-वर्ण- -र्णानाम् नाशि २, १, १०. जात्य-स्वर- -रः शैशि २३४. जात्या(त्य-आ)दि- -दिः शैशि २३८; याशि १, ५६. जात्या(त्य-अ)मिनिहित-क्षेप्र-प्रक्षिप्त- -ष्टाः भास् १, १०. जात्य(ति-अ)धिकार- -रात् पावा ४, १, १५. जात्य(ति-अ)न्त- -न्तात् पा ५, ४, ९. जात्य(ति-अ)न्तर- -रात् मीस् ४, २, २; -रे वौश्रौ २८, २ : ५४; मीस् ११, ४, ३८. जात्य(ति-अ)न्ध-> ^१न्ध-मूक-बधिर- -रैः अप २३, १२, ४. जात्य(ति-अ)पहारिन्- -रिणा विव ५, ९९. जात्य(ति-अ)भाव- -वात् काश्रौ १, ४, १०. जात्य(ति-अ)र्ध- -र्धस्य मीस् ६, १, ८. जात्या(ति-आ)ख्या- -ख्यायाम् पा १, २, ५८; पावा १, १, ५६;

८, १, ४. जात्या(ति-आ)चार-संशय- -ये आपध २, ६, १; हिघ २, २, १. जात्या(ति-आ)दि-निवृत्त्य- (ति-अ)र्ध- -र्धम् पावा ४, १, ९३. २जान्- -ना या १४, ३६१. १जानु(क>)का- -का आपधौ १, १०, ११; भाश्रौ १, १०, ९; ३, ९, १०. जायमान,ना- -नः आश्रौ २, १९, २४xx; आपधौ; -नम् वाधूश्रौ ४, ६८:६; वैश्रौ १, १० : ११; -नस्य आपधौ १६, १६, ११; वैश्रौ १८, १४ : ८१; वैगृ २, १८ : १६; -ननाः आपधौ १, ११, १०; ७, १२, ८; वौश्रौ; -नात् वाधूश्रौ ३, १५ : १; या ८, १५१; -नान्यै कौस् ६६, २; अत्र १०, १३; -ने वैगृ ३, १४ : ८; कौस् ७२, ३९; या १०, ४७१. जाया- पाठ ४, १११; -यया शाश्रौ १२, १७, ११; कौगृ; -नया शाश्रौ १०, १, ११; १२, १७, १; १५, १७, १३; आपधौ; -याः शाश्रौ १५, १७, १; वौपि २, ४, २; या ७, ६१; ८, १०; -यानाम् या १०, २१; १२, ४६; -यामिः वौश्रौ १५, २४ : २१xx; वाधूश्रौ ३, ९० : ५, ९; -याम् शाश्रौ ३, १३, ३०; १५, १७, ११; काश्रौ; -यायाः वौश्रौ १८, ४६ : ७; गोगृ; पा ५, ४, १३४; -यायाम् आमिगृ ३,

७, ४ : २७; वौपि; -यायै वागृ १५, २२; कौस् ३६, ३५; -ये वौश्रौ १४, १३ : ८१; आमिगृ ३, ७, ४:१९१; वौपि २, ४, २; -नये काश्रौ १४, ५, ६; आपधौ १८, ५, ९; वौश्रौ. जाया-काम- -मः कौस् ५९, ११; अत्र ३, २५; ६, ८२. जाया-ज- पा ३, २, ५२. जायान्य- > ^१यान्ये(पन्-इ)-न्द-द्वैवत्- -नम् अत्र ७, ७६. जाया-पति- -ती काश्रौ ५, ५, १०; ३०; आपधौ; पान २, २, ३१; -त्योः वौश्रौ २९, ९ : ३; आमिगृ ३, ७, ४ : २२; वौपि. जायापति-कर्मन्-> ^१र्मण्य- -ण्यम् जैगृ १, २२:१३. जाया(या-अ)मिवृद्धि- -द्वयै अत्र ६, ७८. जाया-वर्जम् विव २०, ३९. जास-> जास-पति-> जास्य- -नृत्यम् आपधौ ३, १५, ५; आपमं; -त्ये शुप्रा ४, ४१. विजनिषमाण- -गस्य निस् ७, १ : ५. नृजेत्य- -न्यः आपधौ १६, ३, ७; वैश्रौ १८, १ : ९३; हिश्रौ ११, १, ३२. १-२जन-, जनक-, १-२जनत्-जनन- प्रसृ. √जन् द. जनघर- (> जानंघरायण-)जलघर- टि. द. जनपलण्डुकुम्भीक- -कः शुष २१. जनमान- √जन् द. !जनयति^६ हिश्रौ १, ६, ३२.

a) विप. (स्वम-; ह्य-). b) = स्वरित-विशेष-। c) वैप १ द.। d) न्यै इति पाठः ! यनि. शोधः। e) वैवत्यम् इति W.। f) पाठः ! लशुनपलाण्डुकुञ्जनकु इति संस्वर्तुः टि.। g) पाठः ! जनयति-> न्यै इत्यस्यैव विद्वतं रूपं द.।

जन्तु- ✓जन् द्र.
 जन्तुक^१- पाग २,४,६९.
 जन्त्य- जन्मन्- प्रमृ. ✓जन् द्र.
 ✓जप्^b पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां
 वाचि, मानसे, जपति आश्रौ १,
 १,१६××; शांश्रौ; वौषि २, ५,
 ७^०; जपतः काश्रौ २०, २, ९;
 आपश्रौ; जपन्ति आश्रौ ५, ३,
 २२; ६, १३, १४; काश्रौ; जप
 काश्रौ १८, ३, १७^०; जपेत्
 आश्रौ १, ४, ८××; शांश्रौ;
 जपेरन् शांश्रौ ३, ६, ३; जपेयुः
 शांश्रौ १०, २१, १५; द्राश्रौ.
 जेपुः ऋअ २, १०, ५८; ५९;
 वृदे ७, ९०; ९१.
 जापयेयुः आश्रौ ९, ९, ८.
 जज्जपूक- पा ३, २, १६६.
 जप- पा ३, ३, ६१; पाग ६, १,
 १५६; -पः आश्रौ १, २, २४;
 ५, १०, २२; आपश्रौ; -पम्
 आश्रौ १, २, ६; २, ९, ९; काठश्रौ;
 -पाः आश्रौ ४, ८, २; आपश्रौ
 १४, १५, ४; वौश्रौ ३, ३० : २३;
 द्विश्रौ ६, १, ७; ११; १०, ७,
 २६; विध २०, ४५; मीसू १२,
 ४, १; -पात् कप्र २, २, १;
 -पान् शांश्रौ १७, १२, ४;
 -पानाम् शांश्रौ ३, १६, १९;
 -पे वृदे ८, १३४; -पेन आश्रौ
 ६, ३, १५; -पेभ्यः शांश्रौ १,
 १, १८; -पैः अप्राय ६, ९; अप.
 जाप^c- पः आपगृ १५, १.
 जप-कर्मन्- मणि हिध १, ४,
 ६०^e; अथ ११, ३ (२).
 जप-नैत्यर्क^d- कम् वाघ २६,

१९.
 जप-मन्त्र^f- न्त्राणि शांश्रौ ३,
 १६, २०.
 जप-यज्ञ- ज्ञः वाघ २६, ९;
 विध ५५, १९; -ज्ञस्य वाघ
 २६, १०; विध ५५, २०.
 जप-संस्कार- रम् मीसू १०,
 २, ४७.
 जप-हवना (न-अ) ध्ययन-ब्रह्म-
 चर्य-पर- रः सुधप ८५ : ५.
 जप-होम- -मः अप ७०^३, ९,
 ४; १०, १; -मैः सु २, २;
 -मौ अप ५३, ६, ४.
 जपहोम-तस्(ः)अप ७, १, १.
 जपहोमा (म-आ)दि- -दि
 शुअ ४, १९५^६.
 जपहोमादि-कर्मन्- मीसू
 कप्र १, १, ९.
 जप-होम-पितृक्रिया- -याः अप
 २३, १०, ७.
 जप-होम-प्रतिग्रह- -हान् वौध
 २, ८, १६.
 जप-होमे (म-इ)ष्टि-यन्त्र-
 -न्त्राणि वौध ४, ५, ३.
 जपहोमेष्टियन्त्र-स्थ- -स्थः
 वौध ४, ५, ५.
 जपहोमेष्टियन्त्रा (न्त्र-२आ)
 घ- -घैः वौध ४, ५, २.
 जपा(प-आ)दिक- -कम् शंघ
 १०१.
 जपा (प-अ) ध्याय-तपो-दान-
 -नैः अप २३, १२, ३.
 जपा(प-अ)नुमन्त्रणा(ण-आ)प्या-
 यनो (न-उ) पस्थान- -नानि
 आश्रौ १, १, २०.

जपा(प-आ)वृत्ति- -स्या अप
 ३६, ८, ४.
 जपत्- -पता जैश्रौका १६९; -पताम्
 वाघ २६, १४; -पस्तु काश्रौ ९,
 ६, ३४; -पद्भिः अप ६८, ४, ५;
 -पन् आश्रौ २, ५, ४; आपश्रौ;
 -पन्तः आश्रौ २, १९, ३६××;
 शांश्रौ; -पन्तम् जैगृ १, २; १९९^f.
 जपन- -नम् वैगृ ३, २२ : १.
 जपित्वा आश्रौ १, २, ५××; शांश्रौ.
 जप्त,सा- -सम् अप ३६, २४, १९^f;
 -सा शंघ ४५४; -सानि वाघ
 २८, १५; -सैः अप ३६, १२, १.
 जप्तव्य,व्या- -व्यम् अप ३६, ८, ५;
 -स्याः अप ७०^३, ३, ५.
 जप्तुम् > प्तु-काम- -मः शंघ
 १००.
 जप्तवा आमिगृ २, ५, ६ : २६××;
 वैगृ.
 जप्य^g- -प्यम् शांश्रौ १७, १४, ४;
 अशां २३, ३; शंघ ११४; विध
 ५०, ४८; -प्याः कागृ ४१ : ६;
 वौध ४, ६, १; -प्ये शंघ १०६;
 विध ६४, ४०; -प्येन विध २२,
 ९०; ५४, २८; ५५, २१; -प्यैः
 अप ५४, २, ५.
 जप्य-कर्मन्- -र्मणि आपव १,
 १५, १^e.
 जप्य-होम-तपस्- -पांसि विध
 ८५, २.
 जप्या (प्य-अ) मिपरिमृजन- -ने
 हिध २, १, ९७.
 जप्या (प्य-अ) मिहवना (न-आ)
 दि- -दिपु शंघ १००.
 जापिन्- -पिन्म् वाघ २६, १२.

a) व्यप. । व्यु. १. । b) पा ३, १, २४; ७, ४, ८६ परामृष्टः द्र. । c) जपेत् इति B. । d) जप- ।

e) सपा. जपक^०<>जप्यक^० इति पाभे. । f) त्रिप. । वस. । g) तप^० इति पाठः ? यनि. शोषः । h) कर्मणि
 यत् प्र. (पा ३, १, ९८) ।

जाप्य- -प्येन वाघ २६, ११.
जाप्य-पर^a- -रः वाघ २६, १२.
ज-पर- ज द्र.
जपा^b- -पायाः याशि २, ७५.
जपारूप^b- > ^०प-काकुल्या-भण्डी^d-
कुरण्डक-वर्जम् जैगृ १, १ : १२.
जपित्वा- प्रमृ. ✓जप् द्र.
जंजवारु^e- -रु अप ४८, ११५; निघ
४, ३; या ६, १७; उस् २, ११.
✓जम्, म्^f पाधा. भ्वा. आत्म.
गात्रविनामे; चुरा. -पर. विनाशे,
जंजम्भयामसि आमिगृ ३, ७, २ :
६; वौषि १, १७ : २७; जंजम्भ-
य > या आपमं २, १७, १; या
३, ११; ऋप्रा ७, ३१.
जंजमत्- -मतौ शाश्रौ ४, २०, ११.
जंजमा(न >)ना- -ने कौस् ११४,
२१.
जंजम्भमान- -नः आपश्रौ ४, ३,
१२; हिगृ १, १६; २.
जम्भ^g- पाग ४, १, ११२^h; -जंम्भे
वाश्रौ २, १, ८, १^h; आपमं १,
१०, ७x; याशि २, ९४.
जाम्भ- पा ४, १, ११२.
जम्भ-गृहीत- -ताय कौस् ३२,
१; ३५, १३.
जम्भ्य- -भ्यान् तैप्रा २, १७.
जम्भ्य^e- -जंभ्येभिः आपश्रौ
२०, २१, ९^h; वौश्रौ १५, ३५ :
५; हिगृ १४, ४, ५५.
जम्भक^h- -कः मागृ २, १४, २९^h.
जम्भन- > ⁿन-नर्तन-गान-कृत्यⁱ-

-त्यः वैध ३, १४, ४.
जंजम्भयत्- -यन्तः या १२, ४४;
ऋप्रा २, ४३; शुप्रा ४, ६५.
जन्मिन्- -स्मिनः अप ६८, १, ४१.
ज-भाव- ज-द्र.
✓जम्^k पाधा. भ्वा. पर. अदने,
जमीत निघ-२, १४^l.
जंजमत्^m- -मत् अप ४८, २०;
निघ १, १७.
जमद्-अग्निⁿ- पाग ४, १, १०५;
२, १११; -अयः^m वृदे ४, ११४;
या ७, २४^o; -अये आमिगृ १,
२, २ : १५; वौगृ ३, ९, ३^o;
भागृ ३, १० : १^o; हिगृ २, १९,
३^o; -ग्निः शाश्रौ १४, ६७, १;
१५, २१, १^o; वौश्रौ १७, ४२ :
३^o; १९, १० : २८^o; वौश्रौप्र
५४ : १२; आपमं २, ८, १०^o;
शांश्र ४, १०, ३; पागृ २, ६, २३^o;
भागृ २, २२ : ५^o; हिगृ १, ११,
४^o; २, १९, २; कौस् ३१, २८^o;
ऋअ; -जंमिना आश्रौ ५, ५, १२;
शाश्रौ ७, २, ७; आगृ ३, ५, ७;
कौगृ ३, ७, १०; शांश्र ४, ५, ८;
-जंमिभिःⁿ आश्रौ ८, ९, ७; शाश्रौ
१०, १०, ८; या ७, २४; -जिम्
वैगृ १, ४ : १५^o; -ज्मीनाम्ⁿ
काश्रौ १, ९, ३; आपश्रौ २, १८,
२; ६, ८, २; भाश्रौ २, १७, ६;
वाश्रौ १, १, १, ३०; वैश्रौ ६, ६ :
५; हिगृ २, २, ९; -जंमिः वौश्रौ
१७, ४० : ४; १८, ५२ : १०^o;

आपमं २, ७, २; कौगृ.
जामदग्नि^o- -ग्नाः काश्रौ
२३, २, १२; -अम् आश्रौ १०,
२, २३; ३, ६; वृदे ८, ३७;
-अय लाश्रौ ९, १२, १.
जामदग्न्य^p- पा ४, १,
१०५; -अग्न्य आपश्रौ २४, ५,
१२; १३; वौश्रौप्र ३ : १६;
हिश्रौ २१, ३, ७; वैध ४, २, ३;
-अग्न्यः आश्रौ ३, २, ८; वृदे ५,
२५; -अग्न्यम् आपश्रौ २, १८,
२; भाश्रौ २, १७, ७; माश्रौ १,
३, २, ५; वाश्रौ १, १, १, ३०;
हिश्रौ २, २, १०; -अग्न्यस्य माश्रौ
१, ३, २, ५; ७, ६, ३१; -अग्न्या-
आपश्रौ २४, ५, ११; हिश्रौ २१,
३, ७; -अग्न्यानाम् आगृ १, ७, ९;
कौगृ १, ५, १२; जैगृ १, ३ : २३;
द्रागृ २, १, १७; -अग्न्याय निघ.
८, ४ : २९^q; वौगृ ३, ९ : ३;
-अग्न्येन आपश्रौ २२, १८, १६;
हिश्रौ १७, ७, ९.
जामदग्नि- पा ४, २,
१११; -ग्नाः आश्रौ १२, १०, ६-
जमदग्नि-वत् आपश्रौ २४,
५, १२; १३; वौश्रौप्र ३ : १७;
हिश्रौ २१, ३, ७^r; वैध ४, २, २-
जमदग्नेश-चतुरात्र- -त्रः
शाश्रौ १६, २३, ७.
जमदग्न्या(ग्नि-आ)^s- -यं-
ऋअ २, ३, ६२.
जम्-पति^t- -ती पाग २, २, ३१.

- a) विप. 1 वस. 1 b) नाप. 1 व्यु. ? 1 c) दस. (तु. C.; वैतु. माष्यम् जपा-रूप- इति) 1
d) चण्डी- इति C. 1 e) वैप १ द्र. 1 f) पा ३, १, २४; ७, १, ६१; ४, ८६ परामृष्टः द्र. 1 g) व्यप. 1
h) पाभे. वैप १, १३६३० द्र. 1 i) = विनायक-विशेष- 1 j) विप. 1 दस. > वस. 1 k) या २, ६ परामृष्टः द्र. 1
= ✓जिम् इति BFG. 1 l) गतौ वृत्तिः 1 m) ज्वलने वृत्तिः 1 n) बहु. < जामदग्न्य- 1 o) = अर्हान-
विशेष-, [आश्रौ-] सूक्ष्- 1 p) = अर्हान-विशेष-, ऋपि-विशेष- प्रमृ. 1 q) अग्न्ये इति पाठः ? यनि. शोध-
(तु. मूको.) 1 r) नाप. 1 व्यु. ? (तु. वैप १ द्रम्-पति-) 1

जम्ब- पाठवृ ४, ९५.
जम्बाल- पाठभो २, ३, १०५.
जम्बीर- पाठभो २, ३, ५०.
जम्बु, म्बु^१- पाठ १, ९३; पा ४, ३,
१६५; १६६; पा, पाग ४, २,
८२; पाग ४, २, ८०.
जाम्बव- पा ४, ३, १६५.
जाम्बवक- पा ४, २, ८०.
जम्बु-द्वीप- -पम् शंघ ११६: ४.
जम्बु-फल- -लानि शंघ २३२.
जम्बुक^२- पाठभो २, २, २६; -कः अथ
७०^३, ६, ८; -कम् अथ ७०^२, २,
७; -काय वाश्रौ ३, ४, ५, १७५.
जम्बुक-प्रवेश- -शे काथ २७६: ७.
जम्ब- प्रम्. √जम् द्र.
जम्बल- पाठवृ १, १०६.
जम्बिन- १, २जम्ब- √जम् द्र.
१, २जय- जयत्- प्रम्. √जि.द्र.
१जयन- पाठभो २, २, १८५.
२जयन- १, १यन्त- प्रम्. √जि द्र.
१जयमने या १३, ५.
१जयाहे नाष्ट्यं तु (?) कल्पयते^३
आमिष्ट २, ५, ५: १.
१जयेते^४ या १४, ७.
जर-, जरठ-, जरण- प्रम्. √जू
(वयोहानौ) द्र.
जरति^५- (>जारतेय- पा.) पाग
४, १, १२३.
जरतिन्->जारतिनेय- जरति-
टि. द्र.
जरन्त- पाठ ३, १२६.

१जरमाण- पाग ४, १, १०५.
जारमाण्य- पा ४, १, १०५; -प्यः
वौश्रौ ४१: १२.
२जरमाण- जरयित्-, जरस्- √जू
(वयोहानौ) द्र.
जरसान- पाठ २, ८६.
१जर- √जू (वयोहानौ) द्र.
२जर- √जू द्र.
३जरमाण- √जू द्र.
१जराध्य अथ ४८, ११५५.
जरायु^६- पाठ १, ४; -ःयु आपश्रौ
१४, २९, ३; १६, ३२, ४^५; वौश्रौ;
वौषि १, १७: १३^५; या १०,
३९५; १३, ५; -युणा वौश्रौ १०,
४८: ३५५; माश्रौ; -युणि कौस्
३३, १५; -यो: वौश्रौ २६, २: ४.
जरायु-गर्भ-शब्द- -शब्दाभ्याम् वृदे
५, ८७.
जरायु-ज- -जः कौस् २६, १;
३८, १; अथ ३२, १, ७; अथ
१, १२; -जम् या १३, ५.
जरायु-स्थान- >नीय- -यः या
१०, ३९.
१जरिताम् √जू (वयोहानौ) द्र.
१जरित्- -ता ऋञ् २, १०, १४२.
२जरित्- √जू द्र.
जरित्वा-, जरिमन्- √जू (वयोहानौ) द्र.
१जरिमाणेयो^७ आमिष्ट- १, १, २: ४५;
४७; ४९.
जरिष्णु- √जू (वयोहानौ) द्र.
जरूथ^८- पाठ २, ६; -ःथम् निघ ४,

३; या ६, १७.
जरूप- पाठभो २, ३, १६६.
√जर्च् √जर्च् टि. द्र.
√जर्च्^९ पाथा. भ्वा. पर. परिभाषण-
हिंसातर्जनेषु; तुदा. परिभाषण-
भर्त्तनयोः.
जरर्ज- √जू (वयोहानौ) द्र.
√जर्म् √जर्म् टि. द्र.
जर्ण- पाठ ३, १०.
जर्त- पाठना ५, ५८; पाग ४, १,
१७३^१.
जर्तिल^{१०}- -ला: आपश्रौ १६, १९,
१३; वौश्रौ २४, ५: १७; -लै:
आपश्रौ १७, ११, ३; हिश्रौ १२,
३, ४.
जर्तिल-नैल- -लम् वौश्रौ २८, १३: ६
जर्तिल-मिश्र- -आन् काश्रौ १८,
१, १.
जर्तिल-यवाग्- -वा आपश्रौ १७,
११, ३; वैश्रौ १९, ६: ३४;
हिश्रौ १२, ३, ४.
जर्तु- पाठ ५, ४६.
१जर्तुभ्यः^{११} आपम १, ७, १५.
√जर्त्स् √जर्त्स् टि. द्र.
जर्भरि- √म् द्र.
जर्वर^{१२}- -रः वौश्रौ १७, १८: १०.
जर्हपन्त, जर्हपाण- √हृष् द्र.
√जल् पाथा. भ्वा. पर. घातने; चुरा.
पर. अथवारणे.
१जल^{१३}- -लम् वैश्रौ १२, ६: १२;
जैश्रौक; वेज्यो १०^{१४}; -लत्

a) = वृक्ष-विशेष, तत्फल- । b) = शृगाल- । व्यु. ? । c) पाठः ? जयात्, होष्यन्, उपकल्पयते
इति त्रि-पदः शोधः (तु. सप्र. वौश्रौ १४, १६: १) । d) पाठः ? । जायेते इति दु. प्रम्., जायते इति निरु २,
५ । e) तु. पागमं. । जरतिन्- इति भारुडा. प्रम्. । f) व्यप. । व्यु. ? । g) पृ १०९९ m द्र. ।
h) वैप. १. द्र. । i) -प्य इति पाठः ? अनि. शोधः । j) पाठः ? सपा. शौ १९, ३, ४, २; ३. काय ४१, ७२ हिश्रु
१, ४, ८^{१५} प्रम्. विशिष्टः पाभे. (तु. वैप १, १३८८ p, १८४५ g) । k) = √जर्च्, जर्त्स् इति [पक्षे] BPG. ।
l) तु. पागम. । m) शोधः वैप १, १३४० m द्र. । n) = सर्प-विशेष- । o) सपा. जर्वरः (तां २५, १५, ३ च)
<> जीर्वरः इति पाभे. । p) = वारि- । व्यु. ? । q) देवतास्त्रिनोपचारः

काशु ७, ४; -लानाम् अप ६८,
२, १३; -लानि अप ५५, ६, ३;
-ले आग्नि २, ६, १ : २; वौषि;
या ६, २७; -लेन वैश्री १२,
१९ : ८; वैशु; -लेषु अप ६५, १,
६; विध ९९, १७; -लैः वैध २,
९, ५.
जल-क्रीडा-डाम् कप्र ३, ६, १५.
जलक्रीडा-रुचि-शुभ-भम्
विध १, २^०.
जल-क्लिन्न-वासस्-साः गौध
२४, ७.
जल-क्षय-यम् अप ५८^३, ४, ८.
जल-गत-तयोः शंघ २८८.
?जलगोत्रसामृत-तम् अप ६५,
२, ९.
जल-नर-रम् विध ५०, ४५; या
६, २७; -राणाम् विध ४१, १.
जलचर-गाति^०-तिः या ७, १३.
जलचर-योनि-नयः विध
४४, ६.
जल-ज-जम् विध ६६, ९; ७१,
१२; -जाः गौध १७, २७;
-जान् शंघ ४२६; -जानाम्
विध ४१, १; -जानि विध ७२,
६; -जैः अप ६५, २, ३.
जलज-योनि-नयः विध ४४, ५
जल-जाति^०-तिः अप ६०, १, ३.
जल-ज्वलन-चौर-राणाम् अप ६३,
२, ८.
?जल-द-दाः अप ६१, १, ७.
जल-दु(गं>)गां-गाम् या ७,
२०; १४, ३३.
जल-धेनु-नुम् अप ९, ३, २;

विध ९०, १३; काध २७१ :
८.
जल-पथ-पा, पाग ५, ३, १००.
?जल-पवित्र^०-त्रम् आग्नि २, ४,
६ : ८; -त्रे आग्नि २, ४,
६ : ९.
२जल-पवित्र^०-त्रम् बौध २, १०,
१२; ३२^२.
जल-पिण्ड-दाना(न-आ)दि-दि
वैशु ५, १५ : १२.
जल-पूरित-तान् जैश्रीका २००.
जल-पूर्ण-कुम्भ-म्भम् वैशु ५,
५ : ६.
जल-पूर्ण-पात्र-त्रे वैशु ४, १० :
१२.
जल-प्रद-दः विध ९१, ३.
जल-प्लव^०-त्रः शंघ ३७७ : १४.
जल-विन्दु-न्दवः अप ४१, ४, ३.
जल-बुद्बुद-संविभ-भे कप्र ३,
३, ५.
जल-भय-जल-संक्षय-ययोः अशां
१७, ४.
जल-भाण्ड-ण्डैः अप ६८, २,
४९.
जल-वत् बौध १, १, १५.
जल-वेग-समाहि(त>)ता-ताः
अप ५५, १, ७.
?जल-शयन->न-पञ्चतपो-
(पस्-अ)आवकाश-शान् शंघ
३९०.
जलशयन-पञ्चतपो^०(पस्-अ)
आवकाश-नियम-पर^०-रः
शंघ ३६२.
२जल-शय(न>)नी^०-नी वैशु ३,

१६ : ८.
जल-संनिधि-धौ अप ६८, ५,
२२.
जल-स्थल-लेषु वैशु १, २ : ३.
जल-स्नाव-वे अप ७०^३, ८, ४.
जल-स्तुति-तौ अप ७०^३, ९, १.
जल-हारिन्-री शंघ ३७७ : २०.
जल-होमा(म-आ)दि-कर्मन्-
मैणि कप्र १, ८, २४.
जल-हृद्-हृद् (> जालहृद्-पा.)
पाग ४, १, ११२.
जला(ल-अ)जल-ज-संतान^०-
नान् अप ६५, २, ७.
जला(ल-अ)जलि-लिम् वैध २-
७-८, ६; -लीन् विध ८५, ६५.
जलाजलि-त्रय-यम् शंघ
१२२.
जला(ल-अ)दिक-कम् आग्नि १-
३, ३, ३ : १२.
जला(ल-अ)नु(ग>)गा-गाम्
विध १, १.
?जला(ल-अ)न्त-न्ते वैध २, १२,
७.
२जला(ल-अ)न्त^०-न्तम् वैशु ५,
७ : ३.
जला(ल-अ)भ्याश-शौ बौध ३,
२, ३.
जला(ल-अ)र्थ->र्थिन्-र्थिनः
वैशु १, ४ : २३; कप्र १, १०, ८;
अप ४२, २, ५.
जला(ल-अ)शय-यम् विध ८६-
१९; -ये आग्नि २, ४, ७ :
१४x४; वाध २७, १७; विध
८६, १९; -येषु विध २३, ४६.

a) ँचि, शुभम् इति जीसं. । b) विप. । वस. । c) उप. = जीव- । d) = [जलपात्र-] मणिक- ।

e) = जलपावन-वस्त्र- । उस. उप. करणे कृत् । f) नाप. । उस. । g) 'पात्रा' इति पाठः ? यनि. शोधः ।

h) विप. । दस. > वस. । i) = व्याहृति-विशेष- । उस. उप. कर्त्तरि कृत् । j) व्यप. । व्यु. । k) दस. >

उस. > पस. पूष. = जलचर-स्थलचर-, उप. = समूह- ।

ज(ल>)ला-षाह^a- पाग ८,३,
९८^b.
जले-चर- -रान् शंघ ४२६.
जले-भव- -त्रम् या ६,२७.
जले-शय- -यम् या ६, २७^क.
जलेशय-विलेशय- -यम् शंघ
४१०.
जलो(ल-उ)दर^c- > णिन्- -री
शंघ ३७७ : ९.
जलो(ल-उ)द्व- -वानि शंघ १२७.
जलो(ल-उ)पजीविन्- -विनः अप
५७,३,५.
जलौ(ल-ओ)घ- -घैः अप ७०^३,
११,१६.
२जल^d- -लः शांश्रौ १६,२९,६.
जलडा^{d2e}- (> जालडी- पा.) पाग
४,१,९६.
१जल-द- १जल- द्र.
२जलद^d-> द^f, -दः अप २,५,२.
जलदायन^f- -नैः अप २२,२,४.
जलद्व^d- -द्वः हिश्रौ २१,३,१०.
जलधर^{d2g}- पाग ४,१,९९.
१जलधरायण- पा ४,१,९९; पाग
४,२,५३.
जलधरायणक- पा ४,२,५३.
जलधरि- -रिः वीश्रौ ४३ : ६.
?जलाली अप ४८,११६^क.
†जलाष^h- -पम् अप ४८,६४^१; ७५^१;
निघ १,१२^१; ३,६^{h2k}?
†जलाष-भेषज^h- -ज अप ३२,१,

१७;१८.
जलिक^१- (>जालिक्य- पा.) पाग
५,१,१२८.
जलू(क>)का^m- पाउभो २,२,२७.
जलका-वत् वैगृ ५,१ : २७.
जले-चर- प्रमृ. १जल- द्र.
जलाल्यमान- √गल् द्र.
√जल्पⁿ पाधा. भ्वा. परः व्यक्तायां
वाचि, †जल्पति^o अप ४८,९;
निघ ३,१४; जल्पन्ते अप ७०^३,
१२,२; जल्पन्ति अप ७०^३,९,
१; ७१,४,१; जल्पेत् कागृ १,
१९; मागृ १,१,९; वागृ ६,८.
जल्प^p- पाग ६,१,१५६.
जल्पत्- -ल्पन् आग्निगृ २, ६, १ :
४; वीध १,५,१५.
जल्पन- पाग ३,१,१३४; -ने अप
७०^३,८,५.
जल्पक- पा ३,२,१५५.
जल्पि^h- -ल्प्या या १४,१०^क.
ज(ल्प>)ल्प्या^l- -ल्प्या वीश्रौ
२,५ : २२^क.
†जल्ह^h- -ह्वः निघ ४, ३; या ६,
२५^क; शैशि ११३.
१जव- (>जावायनि- पा.) पाग
४,२,८०.
२जव- √जु द्र.
१जवनⁱ- पावा, पावाग ४,१,१७३.
२जवन- , जवमान- प्रमृ. √जु द्र.
जवी√भू, जवीयस्-, ळी √जू द्र.

√जप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.
जप^h- -षः भांशि ९६^क.
√जस्^r दिवा. पर. मोक्षणे; चुरां. पर.
हिंसायाम्; उभ. ताडने, जसति^r
निघ २,१४^क.
जसुरि^h- पाउ २, ७३; -†रिः अप
४८, ११५; निघ ४,१; -रिम्
या ४,२४^क.
जस्त- -स्तम् या ४,२४.
जस्यत्यम्^१ अप ४८,११६^क.
जहा-, जहजोड-, जहि-स्तम्ब-
√हन् द्र.
जहनु^h- पाउ ३, ३६; -ह्नुनाम्^h
शांश्रौ १५, २७,१.
जहम्न^१- -ह्य अप ४८,७५^क.
जा- √जन् द्र.
?जांबुक- -कम् वाश्रौ ३,४,५,१२.
जागत- प्रमृ. जगत- द्र.
जागर-, *ण- प्रमृ. √गृ (निद्राक्षये)द्र.
जाघनी- जघन- द्र.
जाङ्गल-, *ल्पथिक- जङ्गल- द्र.
जाङ्गप्रहतिक- प्रमृ. जङ्गा- द्र.
जाङ्घि^१- पाग ४,१,९६^क.
जाङ्घिक- जङ्गा- द्र.
जाङ्घिन्न- जाङ्घि- टि. द्र.
जाङ्गमायन^{१2x}- -नम् कौसू ३,२; ६८,
१७.
१जाजल^d- (>जाजलायनि- पा.)
पाग ४,१,१५४.
जाजलिन्^d-> २जाजल^y- पावा ६,

a) विप. वा नाप. वा । उस. । b) तु. पाका. प्रमृ. । षाडम् इति [पक्षे] भारडा., षाडम् इति [पक्षे] पासि. । c) = रोग-विशेष- । d) व्यप. । व्यु. ? । e) तु. पागम. । f) = तल्लोक्तशाखाध्यायिन्- । g) जलंधर- इति पागम., जनंधर- इति भोज्यमते । h) वैप १ द्र. । i) = सुख- । j) = उदक- । k) *शम् [डु.] इति पाठः ? यनि. शोधः । l) अर्थः व्यु. च ? । m) = जलौका- । व्यु. ? । n) पावा १,४, ५२ परामृष्टः द्र. । o) अर्चने वृत्तिः । p) तु. पाका. भारडा. प्रमृ. । तल्प-, नल्प- इति पासि. । q) भावे क्यप् प्र. उसं. (पा ३,३,९८) । r) तु. पागम. । = देश-विशेष- । s) पा २, ३, ५६ परामृष्टः द्र. । t) गतौ वृत्तिः । u) वहु. < जाह्व- । v) पामे. पृ ११०-११८ द्र. । w) < जङ्घ- वा जङ्गा- वेति P.W. । जाङ्घिन्न- इति पासि. जाग्घि- इति पाका. । x) = जलपात्र- विशेष- इति संस्कर्ता [भू. L], जाग्मायन- इति केशवः । y) = शाखाध्यायिन्- ।

४,१४४; -लैः अप २२,२,३.
 जाज्वल्यमान- ✓ज्वल् द्र.
 जाटिकायन^a- नः अत्र ६, ३५;
 ११६.
 जाटिलिक-, जाब्ज- ✓जट् द्र.
 जाठर- जठर- द्र.
 जाडायन- रजड- द्र.
 जाड्य- १जड- द्र.
 ?जाणवत्पलाशशाखावन्ति-
 -तयः वौश्रौप्र १९ : ४.
 जाणवत्स^a- त्साः वौश्रौप्र ४३ :
 ३.
 जाण्ट- पाउभो २,२,९५.
 र्जात- ✓जन् द्र.
 र्जात- (> र्जातायन- पा.) पाग
 ४,१,११०.
 र्जात- (> र्जात्य-> र्जात-)
 अभय-जात- टि. द्र.
 ?र्जातमर्क^b जैग २,९ : १८.
 र्जातायन- जत- द्र.
 जाति- ✓जन् द्र.
 जातु^c वैताश्रौ ३८,६१; काण्ड ४२ :
 १९; बाध १०,२; विध ९९,२३;
 या ४,२; पा ८,१,४७; पाग १,
 ४,५७; पावा ८,१,७२.
 जातु-यद्- -यदोः पा ३,३,१४७.
 जातुकार्णि-, ण्य- जतु- द्र.
 जातूकर्ण- प्रभृ. जतु- द्र.
 र्-र्जात्य- ✓जन् द्र.
 र्-र्जात्य^d- -त्यम् भाग्य २,१ : २;
 ११.
 र्, र्जान-, जानकि- प्रभृ. ✓जन् द्र.
 जानत्- ✓ज्ञा द्र.
 जानन्तरि^e- -रिः वौश्रौप्र ४३ : ६.

जानन्ति^f-> ण्ति-बाहवि-नाग्य-
 गौतम-शाकलय-वाभ्रव्य-माण्ड-
 व्य-माण्डकेय- -याः आगृ ३,
 ४,४; कौगृ २,५,३.
 जानंधरायण- जनंधर- द्र.
 जानपद्-, ण्दिक-, ण्दी-, ण्मान्य-,
 ण्राज्य-, ण्वादिक- ✓जन् द्र.
 ?जाना वाश्रौ ३,४,२,४.
 जानान- ✓ज्ञा द्र.
 जानायन- ✓जन् द्र.
 जातु^g- पाउ १, ३; पाग ५,४, २९;
 -नु आश्रौ १, १२, ३१; २, ३,
 १५x; शाश्रौ; आपश्रौ २०,
 ३,९; -नुः वौश्रु १ : ५; -नुनः
 कप्र १,२,६; -नुना शांश्रु २,७,
 ५; -नुनि आपध २,२०, १४;
 हिध २,५,१०१; -नुनी काठश्रौ
 १५६; माश्रौ १, २, ५, ११;
 वाश्रौ; -नुनोः अप २२,५, १;
 याशि १, १९; पा ५, ४, १२९;
 -नुभिः विध ४३, ४३; -नुभ्याम्
 आश्रौ ६, ५, ४; आमिगृ २, ४
 ९ : १५; गोश्रु ३, १, ३१; अप;
 -नुम् हिश्रौ १४, १, ३००;
 आमिगृ ३, ४, ४ : १९; ११, १ :
 ५; वौश्रु; वौषि ३, ४, १७;
 -नु शांश्रु ४, ८, ९; शंश्रु २१६;
 २१८; -नुनि आमिगृ २, ५,
 ६ : २; वौषि १, ४ : १८;
 हिपि ५ : २; -नोः वैश्रौ १८,
 १६ : ७४; आपश्रु ९, १५;
 वौश्रु ५ : ९; ७ : ३; -नुवोः जैगृ
 १, १६ : ५; वौध १, २, २८;
 वैध २, १०, ७.

२जानु-क- पा ५,४, २९.
 जानु-कपोल- -लयोः विध ९६, ६५.
 ?जानु-जङ्घा- -ङ्घयोः जैगृ २, ४ :
 ५.
 जानुजङ्घा(ङ्घा-अ)धीवत्- -वतोः
 शाश्रौ ४, १५, १९; कौगृ ५,
 ६, ५.
 जानु-दघ्न^h- -घ्नम् आपश्रौ ७, ४, २;
 १६, १३, ११; काठश्रौ; -ज्ने
 आपश्रौ ५, १४, ८x; वौश्रौ.
 जानुदघ्नी- -घ्नीम् वौश्रौ १९,
 १० : ४; आपश्रु १०, १०.
 जानु-ग्रहत- (> ण्तिक- पा.)
 पाग ४, ४, १९.
 जानु-मात्र- -त्रम् आगृ २, ८, २; ४,
 ४, ८; -त्रे काश्रौ १८, १, २.
 जानुमात्र-पा(द< >)श्रीⁱ- -श्रीम्
 काश्रौ १९, ४, ७.
 जानु-शिरस्- -रसा आश्रौ १, ४,
 ८.
 जानु-हस्त^j- -स्तेन अप १, २८, ४.
 जान्व(नु-अ)क्त- -क्तः आपश्रौ १०,
 ९, २; माश्रौ १०, ५, १५; वाश्रौ
 १, १, २९.
 जान्व(नु-अ)स्यि- -स्थि आपश्रौ
 १, ३, १७.
 र्जानु-क- ✓जन् द्र.
 जानेवादिक-, जानोवादिक- ✓जन्
 द्र.
 जाप-, ण्पिन्-, ण्य- ✓जप् द्र.
 जाबालि^k- -लाः चव्यू २ : ३६;
 ४ : २.
 जाबालि^l- -लयः वौश्रौप्र ३१ : ५;
 -लिः वौश्रौप्र ३ : १३.

a) = ञ्पि-विशेष-। व्यु. ?। b) पाठः ? जातः अर्कः इति शोधः (तु. सपा. अप ५१, १, ३)।
 c) वैप १ द्र.। d) = अज्ञान-विशेष-। व्यु. ?। e) सप्र. णु <> णुम् इति पामे.। f) णु इति R.।
 g) जनोः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रु.)। h) विप.। घस.। i) पामे. वैप २, ३६; काश. जान्वकः
 ४, २, १, ३ टि. द्र.। j) < जबाला- इति संभाव्येत (तु. वैप ३)।

जावालेय^a-पा, पाग ५, ३, ११७^b.
 १-२जामदग्र-, अन्य-√जम् द्र.
 जामलायन^c-ना: वौश्रौप्र ४: ३.
 जामालि^c-> श्लै (लि-ऐ) तिशायन-
 विरोहित-माण्डव्या(व्य-अ) वट-
 मण्डु-वैद-रेतवाह-प्राचीनयोग्य-
 न्यानाम् हिश्रौ २१, ३, ७.
 जामाट^d-पाठ २, ९५; -फं०त: ऋप्रा
 १, १०२; शुप्रा १, १६८; -ता
 विध ८३, १७; वृदे ५, ५७-५९;
 या ६, ९६; -तरम् आमिगृ १,
 ७, १: १५; -तु: या ६, ९.
 जामि^d-पाठभो २, १, १६८; -फंमय:
 आश्रौ ५, ७, ३२; शाश्रौ: अप ४८,
 ८२०; निघं २, ५०; या ३, ४^f;
 -फंमये वृदे १, ५७; या ३, ६६; -मि
 आपश्रौ ९, ९, ९; भाश्रौ: अप ४८,
 ७५१^f; निघं १, १२१^f; -फंमि:
 शाश्रौ १४, ५३, ५; ७; अप ४८,
 ११५; निघं ४, १; या ३, ६६^f;
 ४, २०; १०, १६; -फंमिम्
 आपश्रौ ३, १३, ५^h; भाश्रौ^h २,
 ८, ८; ३, १२, ३; माश्रौ: -मिपु
 ऋप्रा ९; ४५१^f; -फंमी आपश्रौ
 १२, ७, १०^f; द्राश्रौ १३, ३,
 ३६; हिश्रौ ८, २, ९¹¹; वौगृ ३,
 ११, ४; -मीनाम् अश्र १६, ८^f;
 -म्या: शाश्रौ १२, २०, २^f; या
 ३, ५; -म्यै कौसू ३४, १५; २०.
 जामि-करण-ण: निस् १, १३: ९.
 जामि-कल्प-ल्प: लाश्रौ ९, ११,
 १५.
 जामि-कलस-सा: ह्रस् २, ६: १४.

जामि-ता-ताया: तुस् ३, ११: ३२.
 फंजामि-शंस^d-स्तात् आपमं २,
 १२, १०; आमिगृ २, १, ४:
 १०; हिगृ २, ३, १०.
 जाम्यव-, वक-जम्-द्र.
 जाम्यवत^k, न्त^k-j(>०तक-
 [न्तक-] पा.) पाग ४, २, ८०.
 जाम्वि-जाङ्घि-टि. द्र.
 जाम्वील^d-> श्ल-स्कन्दन-ने
 वैताश्रौ १२, ८.
 जाम्भ-√जम् द्र.
 जायमान-, जाया-प्रभृ. √जम् द्र.
 जायु-, जायुक-√जि द्र.
 जार^d-पावा ३, ३, २०; -०ंर
 जैश्रौ ३: १५; द्राश्रौ १, ३, ३;
 ८; ४, ७; लाश्रौ १, ३, १; ४, ४;
 -र: शाश्रौ १४, ५६, ११^f;
 आपश्रौ ८, ६, २२; वौश्रौ ५, ७:
 ६; ७; भाश्रौ ८, ८, ५; वैश्रौ ८,
 १२: ३; मागृ २, १८, २^f;
 या ३, १६६^f; ५, २४^f; १०,
 २१^f; -रम् आपश्रौ ८, ६, २२;
 वौश्रौ ५, ७: ७; भाश्रौ ८, ८, ५;
 वैश्रौ ८, १२: २; हिश्रौ ५, २,
 ४६; कौसू ३६, ३५; -रा:¹
 आपश्रौ ८, ६, २०; भाश्रौ ८, ८,
 ४; वैश्रौ: -रात् वैध ३, १२, २;
 ११; १३, ४; -रे लाश्रौ १, ३,
 ८; -रेण वाध २८, १; वैध ३,
 १३, १०; -फंरेम्य: भागृ १,
 १५: १२; हिगृ १, २४, ५.
 जार-ना(भे>)भा-भा: नाशि २,
 ८, १९.

फंजार-(हन् >)श्री-श्री. कौगृ १,
 १०, २; -श्रीम् आपमं १, १०,
 ३; ६; शांश्र १, १६, ४; पागृ १;
 ११, ४; वौगृ १, ६, -१२; भागृ
 १, १९: १५; हिगृ १, २४, ५.
 जार-भर-पाग ३, १, १३४.
 जार-स्त्री-(> जारस्त्रैण्य-पा.)
 पाग ४, १, १२६^m.
 जारिणी-णी या १२, ७^f.
 जारो(र-उ)पन्न-न्न: वैध ३, १३, २.
 जारतिनेय-जरतिन्-द्र.
 जारतेय-जरति-द्र.
 जारत्कारव-√जू (वयोहनौ) द्र.
 जारयन्ति-√जू द्र.
 फंजारयायि^d-निघं ४, ३; या ६, १५.
 जारी-√जू (वयोहनौ) द्र.
 जाल^{d,m}-पा ३; १, १४०; ३, १२४;
 पाग २, ४, ३१; ४, १०; १२; ५,
 ४, १३८; -लम् काश्रौ ७, ४, ७;
 काठश्रौ; या ६, ५; १२; २७^f;
 -लानि कौसू १६, १६; -लेन
 आपश्रौ १६, २५, २; वैश्रौ १८,
 १७: ५१; हिश्रौ ११, ७, ४२;
 पागृ १, १६, २४; आपगृ १८, १;
 अप ६३, २, ६.
 जाल-नद्ध-द्वा: ऋअ २, ८, ६७.
 जाल-पाद-पाग ५, ४, १३८; -दान्
 शंघ ४२६^o.
 जाल-स्था (स्थ-अ) कं-मरीचि-
 गत-तम् विध ४, १.
 जाल-द्वस्त^p-द्वस्तेन अप १, २९, ४.
 जाला(ल-अ)घ्यास^p-स: वाधूश्रौ
 ४, ९८: २०.

a) = आयुधजीविसंघ-विशेष-। व्यु. ? । b) तु. पाका. । ज्यावाणेय- इति भागडा. । c) = ऋपि-
 विशेष-। व्यु. ? । d) वैप १ द्र. । e) = अह्युलि-। f) पामे. वैप १, १३६६ i द्र. । g) = उदकं ।
 h) पामे. वैप १, १३१० j द्र. । i) पामे. वैप १, १३६६ j द्र. । j) मीनम् इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. आपश्रौ.) । k) तु. पाका. । l) पामे. पृ ८४१ ० द्र. । m) तु. पांगम. । n) पाप्र. <√जल्
 (घातने) । o) = पक्षि-विशेष-। p) मलो. कस. । q) = अन्वाख्यान-विशेष-।

जालिक- पा ४,४,१०; १२.
जालकीट- पा, पाग ४,२,११०.
जालडी- जलडा- द्र.
जालंधर-> (२जालंधरायण-)
जलंधर- टि. द्र.
१जालंधरायण- णक-, ष्वरि-
जलंधर- द्र.
जाल-पद- (> ष्पदी-) जानपदी-
टि. द्र.
जालमानि^a-(> णीय-पा.) पाग ५,
३,११६.
जालहद- १जल- द्र.
जालागत^b- -ता: वौश्रौप्र ४७ : १.
जालिक्य- जलिक- द्र.
जाल्म^c- पाठभो २, २, २४७; -ल्मः
वाश्रौ १,६,५,१०^१.
^१जाल्मी- -०लिम वाश्रौ ३, २, ५,
३२; द्राश्रौ ११, ३, १०; लाश्रौ
४,३,११.
^१जालिम- अप १,३१,८.
जावन्य- √जु द्र.
^१जाष्कमद^c- -दा: अप १, ३६, ५;
अप्रा ३,४,१.
जास्पत्य- √जन् द्र.
जाहपाण- √हृप् द्र.
√जि^d पाधा. भ्वा. पर. जये, अभि-
भवे; चुरा. उभ. भाषार्थे,
जयति आश्रौ ९, ९, ८; काश्रौ;
या ९, १४^१; पा ४, ४, २;
जयन्ति आपश्रौ ५, २०, २××;
हिश्रौ; जयथ या ५, २६;
^१जयामि आश्रौ २, २, ४९; ११,

८^{२१}; शांश्रौ; जयामः या १०,
१५; ^१जयामसि वाश्रौ १, ५,
२, ५; आपभं २, १८, ४७; या
१०, १५; ^१जयति वौश्रौ १३,
२८ : १६; १७; वैताश्रौ; जयात्
वाधूश्रौ ४, ९४ : ८; ९४^२ : ९;
९४^३ : ८; ९४^४ : ९; जयाथ या ५,
२६; ^१जयतु आश्रौ ८, १४, ४^३;
वौश्रौ ६, ३० : २४; गोश्रु ३, ४,
३१; या ९, १२; जयताम् आपश्रौ
१६, २६, १^१; ^१जय, > या वाश्रौ
१, ३, ४, ५; ३, २, २, ५५; माश्रौ;
^१जयत्, > ता आश्रौ ५, ७,
३^{२६}; ९, ९, ८^१; शांश्रौ १६,
१७, ६^१; वौश्रौ; ^१जयानि^c
शांश्रौ २, ६, ७; आपश्रौ ६, १,
८; भाश्रौ; भजयत् शांश्रौ १४,
४३-४८, १; वौश्रौ; या १,
१५^१; भजयन् वौश्रौ १४, १६ :
१३^३; वाधूश्रौ; ^१भजयः आश्रौ
५, १९, ४^१; आपश्रौ ५, ९, ११^१;
माश्रौ १, ५, २, १५^१; वाश्रौ;
जयेत् वौश्रौ १८, ४९ : ५;
वाश्रौ १, ४, ४, १७; हिध २, ५,
१७८^१; अश्रु; जयेरन् वौध २,
२, ४८; जयेवहि वृदे ५, १ २६;
^१जयेम काश्रौ २, १, ३; आपश्रौ;
वैताश्रौ २७, ९^१; या ५, २;
९, १७^१.
जेत माश्रौ १, ५, ५, १३^१.
^१जिगाय आश्रौ २, २, ४; शांश्रौ;
जिग्युः वौश्रौ १८, ४६ : २०^१;

^१जिग्युः आपश्रौ २२, १६, ४;
वौश्रौ; जेष्यन्ति वौश्रौ १८, ४६ :
१६; ^१जेष्यसि वौश्रौ १५, २७ :
२; ८; वाधूश्रौ ३, ८८ : ३; २०;
^१जेष्यामः काश्रौ १२, २, ८;
वौश्रौ; जेषथ शांश्रौ ७, ६, ३^१; ५;
^१जेषम् आपश्रौ १८, ४, ८; १७,
५^१; वौश्रौ ३, १८ : २३××;
१२^१, १२ : ९; १३ : २४; माश्रौ;
हिश्रौ १३, ६, ४^१; जेष्म वौश्रौ
१, ६ : २१^१; ^१भजैत् आश्रौ
३, २; १०; शांश्रौ; भजयित्^c
वौश्रौ ११, ८ : १४^१; ^१भजेषीत्
आपश्रौ २२, १६, ९; हिश्रौ १७,
६, ३३; ^१भजैः^c माश्रौ १, ३, ४,
२; वैताश्रौ ४, २; भजेषीः वाश्रौ
१, ३, ५, १६^१; ^१भजैग्म कौसुष्ठ९,
१९; अश्रु १६, ६; ऋप्रा १४, ४४;
भजयिष्यत् वाधूश्रौ ३, २२ : १४.
जीयते प्रभृ. ✓* जी द्र.
जापयत् वौश्रौ ११, ८ : १४^१.
भजीजिपत् वौश्रौ ११, ९ : ८^१.
१जय^m- पाग ४, २, ८०ⁿ; ५, २,
६४; -यः अप ५४, २, १; ६३.
५, १; आज्यो ५, १३; पा ६, १,
२०२; -यम् अप २४, ५, ४;
२६, ५, ४; ५१, १, २; ७०^३, २६,
१; वृदे ८, १३; -याः वौश्रौ
२६, ९ : ३^१; माश्रु १, ११,
१५^१; वैश्रु १, १७ : ६; -यान्
आपश्रौ ५, २४, १; ३; वौश्रौ;
-यानाम् वौश्रौ १४, १६ : १;

a) = आयुधजीविसंघविशेष-। व्यु. ?। b) व्यप.। व्यु. ?। c) वैप १ द्र.। d) या ९, १७ ऋप्रा
१४, ४४ पा ३, २, ६१; ६, १, ४८; ७, ३, ५७ परामृष्टः द्र.। e) सप्र. जयामि <> जयानि इति पाभे.।
f) पाभे. वैप २, ३खं. जयतु तैत्रा २, ४, ६, १२^२ टि. द्र.। g) पाभे. वैप २, ३खं. जेषथ शांत्रा २८, ६ टि. द्र.।
h) पाभे. वैप १, १३६९ ८ द्र.। i) पाभे. २, ३खं. आ...भजयत् तां १, ५, १९ टि. द्र.। j) पाभे. वैप
१, ११७० ८ द्र.। l) पाभे. वैप १, १३६८ १ द्र.। l) पाभे. वैप १, १३७० १ द्र.। m) वैप १
निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। n) तु. पागम.।

१३; आग्नि २, ५, ५ : १; १०^१;
 मागृ १, १०, ११; वागृ १४, १३;
 -येषु वौश्रौ २३, ७ : १०; -यैः
 वाश्रौ १, ४, ४, ४४.
 जय-क- पा ४, २, ८०; ५, २,
 ६४.
 जय-काम- मेन अप २, ४, २.
 जय-घोष- -यैः अप २१, ६, ६.
 जय-त्व- -त्वम् वौश्रौ १४, १६ :
 १४; आग्नि २, ५, ५ : १०^१.
 जय-प्रभृति- -तयः कागृ २५,
 २६; -ति आग्नि १, ७, ३ :
 ३८; २, ४; ४१७××^१; वौगृ
 १, ६, १९; ११, १०××; मागृ;
 -तिभिः कागृ २३, २; २८, ४××;
 मागृ.
 जय-शब्द- -ध्वेन आग्नि ३,
 १०, ४ : ६.
 जय-होम- -मम् आग्नि २, ७,
 ७ : २.
 जया(य-आ)दि- -दि आग्नि १
 १, २, २ : ४१; आपगृ; -दीन्
 वौश्रौ २९, १२ : ८.
 जया(य-अ)भ्यातान- -नाः
 आपश्रौ १९, १७, १८; मागृ १,
 ११, १४; -नान् हिश्रौ २२, १,
 २९^१; पागृ; वैध २, २, ३^१;
 -नानाम् वागृ २, ७.
 जया(य-अ)र्थ- -र्थम् अप १,
 ७, ५.
 जयार्थिन्- -र्थी अप ६८,
 ४, २.
 जया(य-आ)वह, हा- -हा अप

२६, ४, ३; -हाः आज्यो ६, १२.
 जये(य-ई)प्सु- -प्सुः अप ६९,
 ५, ३.
 रजय, या^०- -यः^१ ऋअ २, १०, १८;
 शुअ २, ३५४; -यम् शंघ
 ११६ : ५४^०; -या आज्यो ६,
 ८; १०^१; कप्र १, १, ११^६; विघ
 ९९, ४; -याम्^१ आग्नि २, ५,
 ३ : २२^१; शंघ ११६ : ३७;
 आज्यो ६; १२^१; -यायाम्
 आज्यो ७, ३^१; -नीययै मागृ १,
 १०, ११; २, १३, ६.
 जय-विजय^१- -याय अप ६६,
 ३, २^१.
 जया(य-अ)धिपति- -तये ६६,
 ३, २^१.
 जयत्- -नीयताम् वौश्रौ १८, ४१ :
 १२; माश्रौ; या ९, २१; -यते
 आपश्रौ २०, ७, १६; २२, २१,
 ७; -नीयन्तम् वौश्रौ १८, ५ :
 १२; आग्नि २, ५, ३ : २०;
 वौगृ ३, ७, १६; उनिस् ४ : ११.
 जयन्ती- -न्ती आपमं १,
 १६, ५^१.
 रजयन्- -नम् या ५, २६; -नात्
 या ९, २४.
 जयन्त^१- पाठ ३, १२८; -नीन्त
 आपमं २, १८, १३^१; भागृ २,
 ८-९ : १०; -न्तः हिगृ २, ८,
 ५^१; -न्तम् आपगृ २०, ३;
 भागृ २, ८ : ७; हिगृ २, ८ : ४;
 वौध २, ५, २२; -नीन्ताय
 आपमं २, १८; १३; ३०; वौगृ

२, ८, ९; भागृ २, ८ : १०; ९ :
 ५; १०; हिगृ २, ८, ५; ८^१.
 रजयन्ती- -न्त्याः वौश्रौ १८,
 ४६ : १७.
 रजयन्ती^१- -न्ती अप ५, २, १.
 जयिन्- पा ३, २, १५७; -यो विघ
 ८, ३८.
 जय्य- पा ६, १, ८१.
 जायु- पाठ १, १.
 नीजायुक^१- -कम् आपश्रौ १६, ९,
 ८; भाश्रौ ६, ३, २७; वैश्रौ १८,
 ७ : ११.
 नीजि [गि^१, गीवस्- -वांसः वौश्रौ
 ११, ९ : ५; तैप्रा १६, १३;
 -वांसम् आपश्रौ ३, ४, ७; वौश्रौ
 १, १९ : ६; भाश्रौ ३, ४, ८;
 वाश्रौ १, ३, ५, १६; वैताश्रौ ४,
 २; -वान् अप्रा ३, ४, १; शैशि
 २९०; -ग्युषः वौश्रौ १३, २ :
 १४^१; -ग्युषाम् कौस् ४६, ५४;
 -ग्युषे आपश्रौ १७, ८, ७; वैश्रौ
 १९, ५ : ५३.
 जिगीपत्- -पतः शाश्रौ १४, ४२,
 १६; -पन् शाश्रौ १४, ४३, १^१;
 ४४, १^१; ४५-४८, १^१; माश्रौ ५,
 १, ९, १७.
 जिगीपमाण- -णौ वौश्रौ १८, ५० :
 ३०.
 जिगीपु^०- (>जैगीपव्य->न्या-
 य(ण>)णी- पा.) पागं ४,
 १, १८; १०५.
 जित, ता- -नीतम् अप ३२, १,
 १५; अअ १०, ६; १६, ८; ९;

a) व्याप्र^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वौगृ. प्रभृ.) । b) जयान्, अभ्यातानान् इति C. ।

c) वप्रा. । व्यु. ? । d) = अयि-विशेष- । e) = मरुद्-विशेष- । f) = तिथि-विशेष- ।

g) = मातृदेवता-विशेष- । h) = [लक्ष्म्यादिसाहचर्यात्] देवी-विशेष- । i) मलो. कस. । j) पाठ.

विहाय व्यप. । k) सपा. जयन्त<>जयन्तः इति पाठे. । l) = श्रोपधि-विशेष- । m) वैष १. द्र. ।

n) वौश्रौ. तैप्रा. पाठः । o) व्यप. ।

पा ४, ४, २; -ता सु ७, १; -ते
शांश्रौ २, ९, ७; -तौ वृदे ५,
१२४.
जित-काम-नाग-द्वेष-लोभ-
मत्सर- -रः शंघ २४४.
जित-वर- -रम् वीश्रौ १८,
४९ : २.
जित-स्थाना(न-आ)सन- -नम्
अप ३, १, १३.
जित-स्थाना(न-आ)सन-हिमा-
(म-आ)तप- -पः शंघ २४४.
जिता(त-अक्ष>)श्री^१- श्री
हिय १, १५, ७.
जिते(त-इ)न्द्रिय, या- -यः कौगृ
३, १२, ३१; अप ४, ६, ६; ६९,
७, ५; वीध; -यम् अप ३, ३,
८; ४, ६, ३; ६९, ७, २; -यत्स्य
वाघ १०, १७; -याः वाघ ६,
२५; -यासु विघ ९९, २२.
जिति- -तिम् वाधूश्रौ ४, ३ : ५;
६; १३; १४; -कैश्रौ २,
६, ७; काश्रौ १९, ५, ४; आपश्रौ.
जिति-नामन्^२- -मसु निसू ६,
६ : १४.
जिति-प्रवाद^३- -दानि निसू ६,
४ : १०.
जित्य^४- पा ३, १, ११७.
जित्वन्- पाठ ४, ११४.
जित्वर- पा ३, २, १६३.
जित्वा आपश्रौ १८, १७, ८; २०,
५, १६; वीश्रौ.
जिष्णु- पा ३, २, १३९; -ष्णवे
कौसू ४९, ४१; -कैष्णुः वैताश्रौ
३७, १५; कौसू ९८, २३; या
१२, ३; -कैष्णुम् शांश्रौ ८,

१८, १; आपश्रौ ९, ८, ८; वीश्रौ
१३, ४३ : १३; वीश्रु १, ६, १८;
-ष्णो विघ ९८, ९४; -ष्णोः
अप ४६, ३, ४१.
जेतव्य- -व्यानि या ९, १२.
जतुम् अप २, १, २.
जेतु- पाग ५, ४, ३८^६; -ता शांश्रौ
८, २४, ११; गौध १०, १९; वृदे
२, ३८; या १०, १०; १४, २८;
जेत्र- पा ५, ४, ३८.
जेतृ^७- -ता ऋअ २, १, ११; शुअ
२, ११६; साअ १, ३४३;
३५९.
जैत्व^८- -त्वानि गोगृ ३, ४, ३१;
या ९, १२.
जैजिम्^९- -मानम् वीश्रौ ३, १८ :
१९; माश्रौ ४, १४, ८; माश्रौ १,
४, २, ६; वाश्रौ १, १, ३, ५.
जेमन्^{१०}- -मना, -मने या १३,
५१.
जेव्यत्- -व्यन् वाधूश्रौ ३, ६९ :
१५; १६; -व्यन्तः आपश्रौ १८,
४, १४१; वीश्रौ ११, ७ : २३;
कौसू १५, १६; -कैव्यन्तम्
आपश्रौ २, १३, १; वीश्रौ १,
१५ : १२; माश्रौ २, १२, १०;
वाश्रौ १, ३, ४, ५; हिश्रौ २, १,
११; वैताश्रौ २, १३.
जैव्यन्ती- -न्ती आपश्रौ ८,
८, २; वैश्रौ १६, २५ : २.
जेत्र^{११}- -त्राय शांश्रौ १२, १६, ११;
या ४, ८; वाश्रु ५, १३१.
जैत्री- -त्रीम् आश्रौ ४, १३,
२.
जैत्रिय^{१२}- -याय आपश्रौ ६,

२०, २; हिश्रौ ६, ६, २४; माश्रु
२, २१ : १४.
जैव्य^{१३}- -व्याय वीश्रौ १७,
४१ : १४; आपमं २, ८, १;
आमिष्ट १, ३, ४ : ८; हिष्ट १,
१०, ६.
जिका- -का अप ३५, १, ५.
जिगत्सु-, जिगनु-, जिगमिषु-,
जिगांसत्- √गच्छ् द्र.
जि [गि,] गीवस्-, षत्- षमाण-
√जि द्र.
जिघांसत्- प्रभृ. √हन् द्र.
जिघृक्षत्- √गृभ् द्र.
जिघ्र- √ग्रा द्र.
जिजनिषमाण- √जन् द्र.
जिजीविषु- √जीव् द्र.
जिज्ञास- प्रभृ. √ज्ञा द्र.
जिज्ञास्थि- पाग २, २, ३१.
जिज्यासत्- √ज्या द्र.
जित-, प्रभृ. √जि द्र.
जित्व, त्वन्- (> जैत्वायनि- पा.)
पाग ४, २, ८०.
रजिन- पाठ ३, २.
रजिन्^{१४}- > णन्वचना(न-अ)
धीन- पाग २, १, ४०^६.
जिनत्-, जिनाति- √ज्या द्र.
√जिन्व^{१५} पाघा. भ्वा. पर. श्रीणने,
जिन्वति हिश्रौ ११, ३, २४^३;
अप ४८, ३१^३; निघ २, १४^३; ४,
३; अप्रा १, १, १५; जिन्वन्ति
या ६, २२^३; ७, २३^३; जिन्वसि
शांश्रौ १७, १३, १०; जिन्वथः
ऋप्रा- ४, ५३; जिन्वथ जैश्रौ
१२ : ५; आपमं २, ७, १५;
जिन्वत् आश्रौ ६, २, ११; जिन्व-

a) विप. । वस. । b) = जित्- । तु. लभि-जित्- प्रभृ. । c) = हलि- । d) पाने. वैप १ परि.
सुष्टः टि. द्र. । e) तु. पागम. । f) व्यप. । g) वैप १ द्र. । h) पृ ६७६ वृ द्र. । i) भावे व्यञ् प्र. ।
j) तु. भाण्डा. । k) = जिन-मुनि- । l) या ६, २२ परामृष्टः द्र. । m) पाने वृत्तिः । n) गतौ वृत्तिः ।

ताम् हिश्रौ ६, ३, २; जिन्वतु
वौश्रौ २, ४: २५; जिन्वताम्
आपश्रौ ५, १५, २^५, वौश्रौ; वाश्रौ
१, ४, ४, ४१^५; जिन्व, >न्वा
आश्रौ १, ७, ८; शाश्रौ; आपश्रौ
३, २, ११^{२०}; ६, १२, ४^{५०};
भाश्रौ ३, २, ४^{२०}; हिश्रौ ६,
३, २^{२०}; लाश्रौ ५, ११, ३^{१०};
वैताश्रौ ३३, २७^०; जिन्वेथाम्
हिश्रौ ८, ७, १५; जिन्वतम्
आपश्रौ १, १३, १^१; १२, २२,
६^६; ८^६; वौश्रौ ७, १३:
१६^३-१८^३; भाश्रौ; हिश्रौ १,
३, ३६^१; ८, ७, ११^६; जिन्वत
आपश्रौ १६, १, ३; षजिन्वत्
शाश्रौ ८, २५, १.
जिन्वन्त्यामि वौश्रौ १८, ४५:
१५.

जिन्वमान- नस्य वाश्रौ १, ३, १, २४
√जिन्वर- न्वः वौश्रौ १३, ३८:
६; आमिष्ट २, ५, ११: १२.

√जिन्व् √जुञ्च टि. द्र.

√जिम् √जम् टि. द्र.

√जिरि पाधा. स्वा. पर. हिंसायाम्.

जिन्वि- √जू (कयोहानौ) द्र.

√जिप् पाधा. भ्वा. पर. सेचने.

जिष्णु- √जि द्र.

जिहरिपु- √ह द्र.

जिहीति- तयः वौश्रौ ३: ७.

जिहीरिपु- प्रष्ट. √ह द्र.

जिह्वा, ह्वा- पाठ १, १४१; पाग ३,
१, १३^५; -ह्वा: आपश्रौ १२,

११, ९; १३, १८, ५; १६, १, ५;
हिश्रौ २, ६, २४; ९, ४, ६१;
-ह्वाम् शाश्रौ १, ६, २^५; आपश्रौ
२, १४, ३; २४, १२, ६^५; भाश्रौ
३, ६, ४; हिश्रौ २, १, ३१; या
८, १५^६; -^५ह्वानाम् आपश्रौ
१६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५: २;
हिश्रौ ११, २, २; या ८, १५.
जैह्वय- ह्वयम् वौध २, २, ७८;
विध ३८, ३.

जिह्व-(ग>)गा- गा: अप ५८^१,
३, ७.

√जिह्व-सा- सौ अप १, ४१, ४;
अशां ११, ४.

√जिह्वाय, पा ३, १, १३; जिह्वा-
येते वैताश्रौ १०, १७.

जिह्वाय(त् >)न्ती- न्त्यः या
१, ११^५.

जिह्वा(ह्वा-अ)शिन्- पाग ४, १,
१२३^१.

जैह्वाशिन्य- पा ४, १, १२३;
६, ४, १७४.

जिह्व- ह्वय माश्रौ २, २, ३३^५फं.

जिह्वरतम् √ह द्र.

जिह्वा- पाठ १, १५४; -^५ह्वया
आश्रौ ६, १२, ३; शाश्रौ; -ह्वा
आश्रौ २, ८, ३^५; ^५शाश्रौ; या
५, २६^३फं; १४, ७; -^५ह्वा:
आपश्रौ ५, १८, १×४; वौश्रौ;
-ह्वाम् काश्रौ ६, ७, ६; वौश्रौ;
-ह्वाया: आपश्रौ ७, २४, २;
वौश्रौ; -ह्वायाम् अप ९, १, ४.

जैह्व- -ह्वा: सु १७, १.
जिह्वा(ह्वा-अ)प्र- प्रम् तैप्रा २,
१८; शौच १, २२; २४; -प्र
वौश्रौ ३, २५: ५; वैश्रौ; -प्रण
तैप्रा २, ३७; ३८; आशि २, ८.
जिह्वाप्र-करण- -गा: शुप्रा १,
७६.
जिह्वाप्र-मध्य- -ध्येन तैप्रा २,
४१.
जिह्वाप्रा(प्र-अ)घस(ः)आशि
२, ७.

जिह्वाप्रीय- >प्य-फलित-
-तम् शैशि ३३२.

-जिह्वा-च्छेद- -दः गौघ १२, ४;
-दम् आपध २, २७, १४^५.

जिह्वा-च्छेदन- नम् हिघ २, ५,
२३३^५.

जिह्वा(ह्वा-आ)दी (दि-इ)न्द्रिय-
-याणि वैष्ट २, १८: ४.

जिह्वा(ह्वा-अ)न्त- -न्ताभ्याम् ऋप्रा
१४, २७.

जिह्वा-प्रथन- नम् ऋप्रा १४, २१.
जिह्वा(ह्वा-अ)भिमर्शन- नात् शंघ
६२; गौघ १, ४४.

जिह्वा-मध्य- -ध्यम् तैप्रा २, २२;
-ध्येन तैप्रा २, ३६; आशि २, ५.

जिह्वा-मध्या(ध्व-अ)न्त-
-न्ताभ्याम् तैप्रा २, १७; ४०.

जिह्वा-मूल- -लम् अप ४७, १, २०;
ऋप्रा; -ले शुप्रा १, ६५; ऋत
२, १, ४; पाशि १७; याशि २,
४९; ९३; -लेन तैप्रा २, ३५;

a) पामे. वैप २, ३खं. जिन्वतम् तैप्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । b) पामे. वैप २, ३खं. जिन्व तैप्रा ३, ७,
५, ७ टि. द्र. । c) सकृत् सप्र. माश्रौ १, ६, १, ४८ प्रीगामि इति पामे. । d) जित्वा इति पाठः ? यनि. शोधः ।
e) पामे. वैपं १, १३७४ & द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. जिन्वत तैप्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । g) वैप १ द्र. ।
h) तु. पागम. । i) उप. <√गम् । j) विप. । उस. उप. <√सन् (वैतु. संस्कर्ता [अशां.]) जिह्व-ग-
[=मन्दगति-] इति । k) व्यप. । l) षशिन- इति पाका. ? यनि. शोधः (तु. स एव पा ६, ४, १७४) । m) पामे.
वैप १, १३७४ ० द्र. । n) =अभि- । o) विप. । उस. । p) परस्परं पामे. ।

आशि २,४.

जिह्वामूल-निग्रह- हे ऋप्रा १४,
८.

जिह्वामूल-प्रयोज(न>)ना^१-

-नाः नाशि १,८,९.

जिह्वामूलीय- पा ४, ३, ६२;

-यः अप ४७, १, १०; २०;

शुप्रा ८,१९; शैशि २९; याशि

२,१; आशि १, ९; -याः ऋप्रा

१,४१; श्रुप्रा ८, ३८; याशि २,

१,९४; -यानाम् शौच १,२०.

जिह्वामूलीय-नासिक- के
पाशि २१.

जिह्वामूलीया(य-अ)नुस्वार-

-राः शुप्रा १,८३.

जिह्वामूलीयो(य-उ)पध्मा-

नीय- -याम्याम् शुप्रा ४,

१०५; -यौ शुप्रा ३,१२.

जिह्वो(हा-उ)पात्र- -ग्रेण आशि २,
६.

जिह्वय- -ह्यः आशि १, ९; -ह्याः

आशि १,१०; -ह्यप्रानाम् आशि

२,४.

†जिह्वय-तालव्य-सूर्धन्य-दन्त्य-

-न्त्यानाम् आशि २,२.

जिह्वाकाल्य^b-> ल्य-हरितकाल्य-
वर्जम् पावा १,१,७४.

जिह्वाप्र- प्रयु. जिह्वा- द्र.

√जी,जीयते^c आपश्चौ ९,८,२; वायूश्चौ

३, ७९; १९; अप ३१, १, २;

३६, २४, १; जीयन्ते-हिश्चौ १८,

४, ३९^d; लाश्चौ १०, १७, ७;

जीयते आपश्चौ ९, २०, ६; २२,

४, २६; जीयेरन् आपश्चौ २३,

१३, ४; वौश्चौ १६, २९; १५;

हिश्चौ १७,८,११.

जीन-, जीनवत्- √ज्या द्र.

जीमूत^e- पाठ ३, ९१; पाग ६, ३,

१०८; -०त् विघ १, ५५;

-†तस्य आपश्चौ २०, १६, ४;

वौश्चौ १५, २४; ७; वाश्चौ ३,

४,३, २८; हिश्चौ १४, ३, २७;

ऋश्च २, ६, ७५; वृदे ५, १२८;

शुश्च ३, ११४; -ताः आपश्चौ

१७, ५,३; वैश्चौ १९, ५; १९;

हिश्चौ १२, २, १७; चाश्च ४० :

५; अप्रा ३, ४, १†; -†तेषु

आपश्चौ १७, ५, ३; वैश्चौ १९,

५; १८; १९; हिश्चौ १२, २,

१७.

‡जीमूतस्य^f चाश्च ४२ : ८.

‡जीयान् वायु ५,९^g.

‡जीयाम् वायु १२,३^h.

जीर् √जू द्र.

जीर^e- पाठ २, २३; पावा १, १, ४;

-रः आश्चौ ८,९,२†; -†राः

अप ४८,१०६; निघ २,१५.

जीर-दानु^e- पाठवृ २, २३; -†नुः

आश्चौ ३, १४, १०; आपश्चौ २,

३,१०^b; ८, १, ४; ९, १३, ९;

वौश्चौ १, ११; ३५^b; ३, १५ :

१४; भाश्चौ ९,१६,२; वैश्चौ २०,

२८ : ३; वौष्ट ४,१,५; पावा ६,

१,६५; -†नू आश्चौ १, ९,१ⁱ;

शाश्चौ १,१४,४ⁱ.

जीर्ण- प्रयु. √जू (वयोहानौ) द्र.

जीर्वर^j- -रः वौष्ट ३,१०,६^k.

जीर्वि- पाठ ४,५४.

जील^l- -लः गौध २२,२८.

√जीव^m पाधा. म्वा. पर. प्राणधारणे,

जीवति वायूश्चौ ३, ४५ : ४; :

लाश्चौ; पा ४, १, १६३; १६५;

४,१२; ५,२, २१; पावा ४, १,

१६३; जीवतः आपश्चौ १७,२६,

१५; हिश्चौ; जीवन्ति गौपि १,

४,१; अप; जीवय वृदे ६, १३७;

जीवामि पाठ २, ६, २०†ⁿ;

आमि २,६,१ : २६; जीवामहे

वृदे ६,१३८; †जीवाति काष्ट ३१,

२; माग १,११,१२०; या ४,२५^o;

जीवात् आपश्चौ १४,२९,१†;

अप्राय ६, ३†; या १४, २५;

जीवतु कौष्ट १, ८, २३†^p;

शांष्ट १,१४,२†^p; वौपि; वा ४,

२५; †जीवातु आपमं १, ५,२;

वौष्ट १, ४,२६; वायु १६, १०;

†जीवन्तु आपश्चौ ९,१२,४; १४,

२२, ३; भाश्चौ; †जीव आपमं

२, २, ७××; आष्ट; वायु १२,

३^o; जीवतात् आमि ३,

१०,२ : ४†; †जीवाहि जैष्ट.

१, ८ : ३; १२ : ६; ८; ११;

†जीवानि आपश्चौ १, ५, ५;

भाश्चौ १, ५, १; हिश्चौ २, ७,

५; जीवेत् शांश्चौ १४, २२, २१;

काश्चौ २२, ६, ५; १९; २५;

a) विप. । वस. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) वैप १,१३७५ g द्र. । d) ष्यन्ति इति पाठः? यनि.

शोधः (तु. लाश्चौ.) । e) वैप १ द्र. । f) पाठः? जीमूत-> -तस्य इति शोधः (तु. ऋ ६, ७५, १) ।

g) सपा. शौ १९, २४,६ वै १५, ६,३ आपमं २, २,८ जीवन् इति पामे. । h) पामे. वैप १,१३७६ d द्र. ।

i) पामे. वैप १,१३७६ e द्र. । j) = सर्प-विशेष- । व्यु. ? । k) पामे. पृ ११०७ ० द्र. । l) = दति- ।

व्यु. ? । m) पा ७,४,३ परामृष्टः द्र. । n) सप्र. जीवामि<>जीव<>जीवेम इति पामे. । o) पामे.

वैप १,१३७६ l द्र. । p) पामे. वैप १, १६३९ p द्र. ।

७, २; काठश्री; जीवेयुः वीश्री
१८, १३ : १४; द्राश्री १, ३,
२१; लाश्री १, ३, १९; ?जीवेत^a
अप्राय ६, ६^१; जीवेव आश्री १,
७, ६^१; ङजीवेम आपश्री ५, १,
७^३; २, ४; वीश्री; माश्री १, ९,
२७^b.
जीव्यासम्^c कौसू २४, १३;
जीवीत् अश्री १६, ७^१; अजी-
विप्यत्-वाधुश्री ३, ७७ : ४.
ङजीवयत् आश्री ६, ९, १^३;
आपश्री १४, २०, ८^३; माश्री.
जिजीविषेत् काश्री २२, ६, २०;
लाश्री ८, ८, ४१.
जिजीविषु- -पुः अप. १, ९, २;
विध ६९, १७; ७१, ७६.
जीव, वा^d - पाग ५, २, ९७^e; -ङवः
आपश्री १, १२, १४^{१५}; १४, २९,
१; -वम् माश्री १, ८, ३, ३^१;
वाश्री; आश्री १, ८, ४^१; कौश्री १, ९,
२^१; शाश्री १, १५, २^१; कौसू ७९,
३०^१; -ङवाः आश्री २, ७, ७;
६, ९, १; आपश्री; माश्री १, १,
३, १८^१; ६, ४, २१^१; -ङवान्
आपश्री १४, २९, १; अप्राय ६,
३; या ६, २७^१; भाशि ११७;

१२०; -वानाम् अश्री १२, २^१;
-वाभिः^k वैताश्री १, १९; कौसू
३, ४; ५८, ७; ९०, २२; -ङवाम्^l
आपमं १, १, ६; वीश्री १, ६,
२६; ४, १, ११; -ङवाय^१ आश्री
२, ७, ७; शाश्री ४, ५, १;
वीश्री ३, ११ : १२; वैश्री ५,
३ : २१; गोश्री ४, ३, १८; गौपि
२, ४, १६; जैश्री २, २ : १८;
द्राश्री ३, ५, २४; -वे आश्री ३,
१३, ११^१; -ङवेभ्यः ङआश्री २,
६, २०; २२; शाश्री ४, १६, ५;
काश्री २१, ४, २४; आपश्री
९, १२, ४; १३, २२, ५; १४, २२,
३; वीश्री ४, ११ : १५; २७,
२; २; भाश्री ३, १०, २; वैश्री
२०, ७ : १; २५ : ६; आपमं
२, २२, २४; आश्री ४, ६, ९;
कौश्री ५, ८, ५; आश्री ३, ७, २ :
१; वीपि १, १७ : २२; हिपि
११ : १०; कौसू ७२, १७;
वृदे ७, ११; शुश्री ४, ५२;
अश्री ८, १; -वेपु आपश्री १,
१०, १२; वीश्री ३, ११ : ३;
भाश्री १, ८, ७; माश्री ५, २, ११,
३; हिश्री २, ७, ६२; शाश्री ५, ९,

४; भाश्री १, २७ : ५; गौपि २,
६, २१; जैश्री २, २ : २६; कौसू
७०, १; ८९, १; अप. ५८^२, २,
२६.
जीव-कोष(रा^g)णी^m- ण्याम्
कौसू २६, ४३.
ङजीव-गृभ्^d- गृभः या ३, १५;
शुश्री २, ९.
जीव-ग्राहम् माश्री ५, १, १, ५१;
पा ३, ४, ३६.
जीव-घात्यⁿ- त्यम् कौसू ७,
२४.
?जीवघात्यायाः^o कौसू १८, ५.
जीव-चर्म-करण- ण्डैः शंघ
२३४.
जीव-छत्र-पताका- > ण्ताकि-
(न् >)नी- -नीम् अप. ६८,
२, २.
जीव-ज- -जम् विध ७९, ९.
जीव-जात- -तम् विध ६६, १०.
जीव-जीवक^p- -कः विध ४४,
३७^१.
जीव-तण्डुल^q- -लम् आपश्री १,
७, १२^१; ५, ५, ७; भाश्री १, ७, ७;
५, ३, ९; ९, १८, ६; माश्री १,
१, २, ५; ५, १; १९; ६, १०; ६,

a) पाठः ? जीवयत् इति शोधः । b) पाभे. पृ १११६ ण ड्र. । c) पाभे. पृ ५३३ f ड्र. ।
d) वैप १ ड्र. । e) तु. पाका. । वीज- इति माण्डा. प्रसू. । f) तु. C., BC. । g) पाभे. वैप १, १३७७ P
ड्र. । h) पाभे. वैप १, १३७७ k ड्र. । i) पाभे. वैप १, १३७७ i ड्र. । j) पाभे. वैप १ परि. अजीताः तै ५,
७, २, ४ टि. ड्र. । k) = ऋग्विषेप- [श्री १९, ६९, १-४ (तु. B. LJAOS ११, ३८०); वैतु. Garbe = उदक- इति] ।
l) पाभे. वैप १, १३७७ j ड्र. । m) नाप. [जीवतः (सतः [चर्मैकदेशे कृता-]) कोपवती- (लवस्तुधारणार्थविहितरिक्त-
स्थानवती-] = स्थाली-स्थानीया-)] । पस. उप. = [√कुष् (निष्कर्षे [खनने, रेचने] > कर्मणि) कोप- (= खात-
रिक्तस्थान-) > *कोप-वन्ती- (= कोपवती-) > नैप्र. यनि. (तु. [शोधितः सन्] दारिलः = चर्मार्द्ध-?ङ्] स्थ[?स्या]लिका-
इति; वैतु. B. तात्पर्याऽप्रहृणः (?)] । n) नाप. [सजीव (समर्थ-पशु-)] *चर्मन्- । पस. उप. < √हृन् [*आच्छादने
(हन्यते आच्छाद्यतेऽनेन [तु. दारिल-केशवौ पूषः; वैतु. B. पूष. = जीवत्- इति, सर्वे च ते उप. < √हृन्
'हिसायाम्' इति ?)] । o) पाठः ? जीव-घात्य-वासस्- > -साः (= अहताऽन्यवसनः संश्रममात्रवसनः) इति
शोधः । *त्यवासाः > नैप्र. *ध्यायाः इति दिक् (वैतु. अन्येऽसंगतवदाः ?) । p) = पञ्च-विषेप- । q) जीव-
जीवकः, जीवजीविकः इति पाठान्तरौ । r) नाप. ।

२,५,२७; वाश्रौ १,२,३, ६; ४, १,७; हिश्रौ २,७,१३; कौगृ ५, १,१०; मागृ २, २, ३; वैगृ ४, ५ : १३; गौपि १,५,१७.
 ङ्जीव-दानु^६- -नवः कागृ ४०, १०; वागृ ४,८.
 ङ्जीव-धन्य,न्या^६- -न्यः आश्रौ २,१४, १२; आपश्रौ २०, २०, ९; हिश्रौ १४,४, ३८^६; -न्याः आश्रौ ५,१,१९.
 जीव-नाशम् पा ३,४,४३.
 जीव-पति^६- -त्यः आगृ १, १४, ८.
 ङ्जीव-प(ली>)त्ति^६- -त्तिः कागृ २५,३१;३६; ३८.
 ङ्जीव-प(ति>)त्ती- -त्ती आपसं १,४,९; आगृ १,७,२२; आम्रिगृ १,५, २ : ५५; वैगृ १, ४,२२; भागृ १, १४ : ७; वागृ १४, १९^६; हिगृ १, १९, ७; गोगृ २, ७, १२; जैगृ १, २० : २३; -न्याः आगृ १,७, २१.
 जीव-पितामह^६- -हः वौश्रौ २४, ३२ : ३.
 जीव-पितृ^६- -ता आपश्रौ १, ९, ८; वौश्रौ २४, ३२ : २; भाश्रौ १,८,१०; हिश्रौ २,७,३२; -तुः शाश्रौ ४,४,७^६; वौश्रौ २४,३२ : १^६; भाश्रौ ५,२,९; हिश्रौ २,७, ३५^६; ३,१, १६; आम्रिगृ ३,९, ३ : ६; वौपि २,७,५.
 जीवपितृ-क- -कः काश्रौ ४,१,२३; वागृ ११,३; -कम् वागृ १५,१९; -कस्य काश्रौ ४,

१,२४.
 जीव-पुत्र,त्रा^६- -त्रः कागृ २०, २; पागृ २,४,३; -त्रा कागृ २८, ४^६; -त्रायाः आपगृ ६, ११.
 जीव-प्र(ज>)जा^६- -जाः आगृ १,१४,८; -जायाः आगृ १, ७, २१.
 जीव-भर्तृ(क>)का^६- -कायाम् वैध ३,११,४.
 ङ्जीव-भोजन^६- -नः शाश्रौ १६, ३,३६; -नम् वैताश्रौ ३६, ३०.
 जीव-मातृ^६->^६क- -कम् वागृ १५,१९.
 जीव-मृत- -तानाम् आश्रौ २, ६,१९; -तेभ्यः आश्रौ ६, १२, १०.
 ङ्जीव-ल,ला^६- पा ५, २, ९७; -ला अत्र १९, ३९^६; -ङ्गलाः आपश्रौ ७, ९, ९; भाश्रौ ७, ७, ११; अत्राय ६,६; अत्र १९,६९; -लाम् अत्र ८,२.
 रजीवल्^६- -लः शुश्र १, १७६.
 ङ्जीव-लोक- -कम् आगृ ४, २, १८; आम्रिगृ ३,५, ६ : १५; ७, ४ : १०; वौपि १,५ : ३; २,४, १; अत्र १८, ३; -के आम्रिगृ ३, ८, २ : १९; वौपि १, १५ : २९; अत्र १,५०,१०६.
 जीव-वत्- -वन्तौ आपश्रौ ८, १४, २३; २४; वौश्रौ २८, ३ : ९; वैश्रौ ९,७ : ४.
 जीव-व(त्स>)त्सा^६- -त्सायाः कागृ ५९,५; पागृ ३,९, ६.

जीव-विषाण- -ण पागृ ३,७,२; आपगृ २३,६; भागृ २,२७ : १२.
 जीव-मृङ्ग- -ङ्गम् हिगृ १, १४, ३; -ङ्गे हिगृ १,१४,२.
 जीव-संयोग- -गात् मीसु १०, २,५५.
 जीव-संचर- -रः कौसु ८३,२६.
 ङ्जीव-सू^६- -सूः आपसं १,१, ४^०; वैगृ १, १, २५; भागृ १, १५ : १२; हिगृ १, २०, २; गोगृ २,७,१२^६; जैगृ १,५:४;२१:९.
 जीव-सूवरी^६- -री मागृ २, १८, २^१.
 जीवा(व-आ)दान^६- -नम् विध ६५,२.
 जीवा(व-अ)न्त- -न्तः आश्रौ २, ६,१८.
 जीवा(व-अ)न्तर्हित- -ताय शाश्रौ ४, ४, ८; -ते काश्रौ ४, १, २३; -तेभ्यः आश्रौ २, ६, २१.
 जीवा(व-आ)वृत्ति- -त्तिः वृदे ७,८५.
 जीवो(व-ऊ)र्ण^६- -र्णया मागृ १, १२,४; वागृ १६,११; -र्णनाम् काश्रौ ९, २, १६; आपश्रौ १०, ९,६; भाश्रौ १०,६,७.
 रजीव^६- -वम् ऋप्रा १७,५; निस् १, ५ : १९.
 ३जीव- पागृ ४,१,१२३^१; २, ८०; -वम् शंघ ११६ : ४८^म.
 जैव- -वे विध ७८,५.
 जैवि- पा ४,२,८०.
 जैवेय- पा ४,१,१२३.

a) वैप १ द्र. । b) ञ्वः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.) । c) विप. वस. । d) ञ्वीः इति पाठः? यनि. शोघः । e) सप्र. ञ्वपि<>ञ्वत्पि इति पाठे. । f) = वैप २, ३३. द्र. । g) विप. । उस. । h) पाठे. वैप १ वीरसूः ऋ १०, ८५,४४ टि. द्र. । i) ञ्वरी- इति वसं. ? । j) = प्राणप्रतिष्ठापन- । k) = [छन्दो-विशेष-] द्वापर- । व्यु. ? । l) व्यप. । व्यु. ? । m) = नक्षत्र- ।

जीवत्-वत् आमिष्ट ३, ८,
१ : २६^१; वौपि १, १५ : ५;
-वतः शांश्री ४, १४, १; १५,
१७, १; जैश्रीका; या ६, २७;
-वता आमिष्ट ३, १०, २:५; वौपि
३, ९, ३; -ऋवताम् आपमं १, ४,
८; पागृ; -वति वैश्री १०, ११ :
२; शंघ; पा ४, १, १६३; १६५;
मीस् १०, २, ५८; -वते भागृ
२, ५ : १३; -वतोः आपमं १, ८,
५^१; -वन् माश्री २, ५, १८^१;
आपमं २, २, ८^१; आमिष्ट १, १,
२ : ३४^१; कागृ ४१, ७^१; वौगृ
२, ५, १२^१; वौपि ३, ७, ४; भागृ
१, ६ : ३^१; हिगृ १, ४, ३^१;
कौस् ८२, २१^१; अग्राय; -ऋवन्तः
आश्री २, ७, ७^१; आपश्री; आमिष्ट
३, ८, २ : ४४^१; कागृ ४० : १;
वौपि १, १५ : ५१^१; कौस् ८९,
१२; अगृ १८^१, १, ४; -वन्तम्
काश्री ४, १, २७; आपश्री.

जीवती- ऋती^१ आमिष्ट १,
५, १ : २६; भागृ १, १३ : ११;
-त्याम् कागृ ३९ : १.

जीवन्ती- ऋन्तीः आपश्री
१, १२, १४; माश्री; -न्तीम् भागृ
१, १४, ९; माशि ७९; -ऋन्त्याः
शांश्री ४, १४, १४; आपमं;
-न्त्याम् कप्र ३, १, ७.

जीवत्-पितामह^१-हः वाश्री
१, २, ३, २२; -हस्य माश्री १,
१, २, २१.

जीवत्-पितृ^१-तुः^१ माश्री १, १,
२, २१; वाश्री १, २, ३, २०.

जीवत्पितृ-क-कः भागृ १,
९, ४.

जीवद्-आत्मन्^१-त्मानम् सु
१८, ५.

जीवद्-अंश्य^१-अंश्यम् पावा ४,
१, १६२; -अंयात् पावा ४, १,
१६३.

जीवद्-व(त्स>)त्सा^१-त्सायाः
विघ ८६, ४.

जीवथ-पाठ ३, ११३.

जीवन^१-नः या १, १४^१; -नम्
आपमं १, ९, ९^१; ऋभागृ २,
३१ : ६××; हिगृ; -नाय शांश्री
१६, १२, ४^१; आगृ; या १,
१०^१; १०, ४०; १२, ३६; ३९.

जीवन-कर्मन्^१-र्मणः या ११,
४७.

जीवन-क्षय-यात् शंघ २७२.

जीवन-वत्-वन्तौ शांश्री ३,
१६, २४.

जीवनस्य^१> ऋजीवनस्या-
स्याथै वौश्री १३, ३२ : ११;
१३; १५.

जीवना(न-अ)र्थ-र्थम् वृदे ७,
११०.

जीवना(न-आ)शा-शा वाघ
३०, ९.

जीवन्त^१-पाठ ३, १२७.

जीवन्ती^१-न्तीम् कागृ
२५, ४५; भागृ १, १४, ९; वागृ

१५, २१; शौच ३, ६^१.

जैवन्तायन- पा ४, १, १०३.

जैवन्ति- पा ४, १, १५.

जीवन्त^१-जीवन्ती^१-(>जैव-
न्तायनि- पा.) पागृ ४, २, ८०;

ऋजीवयत्-अयन् अप १, ३९, ३;
अशां ९, ३.

ऋजीवसे आश्री २, ५, १०; ३, ८,
१; १२, १४; शांश्री; आपमं २, १,
२०; भागृ १, २१, ३०; या १२,
३९; माशि ४३.

ऋजीवातु^१-पाठ १, ७८^१; -तवे
वौश्री १३, ३२ : ११××;
माश्री; या १०, ४०^१; -तुः
वृदे ७, २९; -तुम् आश्री ६,
१४, १६; शांश्री; या १२, ११^१;
-तवै आपश्री ४, ११, २^१; ५,
११, ५; वौश्री.

जीवातु-मत्-मन्तौ आश्री २,
१०, २; १९, १६; हिश्री ५,
४, ४७.

जी(वक>)विका-ऋकाः आश्री
६, ९, १; आपश्री; -काम् या
११, ११.

जीविका^१/कृ पा ४, १, ७९.

जीविका(का-अ)र्थ-र्थे पा ५,
३, ९९; ६, २, ७३.

जीवित-वम् सु १२, ३; कप्र;
-तस्य वौघ १, २, ५; -ते आपघ
१, २३, ३; हिगृ १, ६, ११.

जीवित-परिमाण-णे पावा ५,
१, ५८^१.

a) जीवम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. वौपि.) । b) सपा. ऋवन् (शौ १९, २४, ६) <> ऋती इति पाठे. । c) पाठः ? जीवयन्तः इति शोघः (तु. वैप १ परि. ? ज्योग् जीवन्तः [काठ ९, ६]) । d) पाठे. वैप १ परि. जीवम् शौ १८, ४, ५१ टि. द्र. । e) विप. । वस. । f) पाठे. पृ १११८० द्र. । g) भाप., नाप. । h) = इत्तु-रस- इति दु. । i) वैप १ द्र. । j) नाप., व्यप. । k) = तारा-विशेष-, श्रोपधि-विशेष- [शौच.] ? । l) पाठे. वैप १, १२७९ k द्र. । m) अर्थः व्यु. च ? । n) तु. पाका. । o) पाठे. वैप १ वृचसा शौ ६, ६८, २ टि. द्र. ।

जीवित-वत्- -वन्तौ माश्रौ ५,
१,४,१६; ५, ४७; -वान् माश्रौ
५,१,५, ४५; ४९xx.
जीवित-विज्ञान- -न्म् कौस्
१५,१२.
जीविता(त-अ)वन्मृद्य- -थात्
गेष्ट १,३,१४.
जैवावृक्- पाठ १,७९^a.
जीविति^b- -त्यः वौश्रौष ४१ : ७.
? जीवितु अप ३७,१४,३.
जीव्य(वी-अ)लाका^c- -काभ्याम् कौस्
३१,२८.
जीह्वरतम् √हृ द्र.
√जु, जू^d, जवते या ३, १८; जवति
निघ २,१४^f.
जुनाः वौश्रौ ७,४ : ३^f.
रजव^e- पात्रा ३, ३, ५६; -वः
काश्रौ १४,३, ८^f; वैताश्रौ ३,
१४; सु १०, ४; -वन् वौश्रौ
११, ६ : २२^f; -वात् सु २५, २;
-वानि अप १, ११, १^f; -वे
पाठ २, १७, १६; पा ६, ४, २८;
-वेन शाश्रौ १६, १, १५; वौश्रौ
३, ११ : २२^f; हिश्रौ; -वेषु या
१३, १३^f.
जवा(व-अ)र्थे- -थान् अप १,
१०, २.
जवी √भू > जवी-भाव-
-वानाम् या १४, ७.
जवीचस्- -यः सु २५, ३; -यान्

सु २५, २; अप्रात्र ६, ९^f.
जवीयसी- -सी सु २५, १.
रजवर्न- पा ३, २, १५०; पाग ३,
१, १३४^f; ५, १, १२३.
जावन्य- पा ५, १, १२३.
जवन-काम- -मः शांष्ट १, २७,
४^b; -मस्त्व^b कौष्ट १, १९, ४;
पाठ १, १९, ९.
जवमान->जवमान-रोहित्र- -हि
या ६, १७.
जू^e- पाठ २, ५७; पा ३, २, १७७;
पात्रा ३, २, १७८; ङजुवः शाश्रौ
१०, ७, ३; ऋअ ३, १९; ङजूः
काश्रौ ७, ६, ७; आपश्रौ.
ङजूति^f- पा ३, ३, ९७; -ङ्तिः
लाश्रौ ४, १२, १^g; अपयः या १०,
२८^g; -तिम् माश्रौ ६, १, ७, २८;
वाश्रौ २, १, ७, ११.
? जुगुः अप ४८, ११६^f.
जुगुप्ता- प्रथ. √गुप् द्र.
√जुङ्ग्न् पाधा. भ्वा. पर. वर्जने >
जुङ्गित-> षो(त-उ)पग(त->)
ता- -त्ता वाघ २१, १०.
जुजुर्वस्- √जू (वयोहानौ) द्र.
जुजुषाण- √जुप् द्र.
√जुञ्च्^h पाधा. जुरा. पर. भाषार्थे.
√जुट् पाधा. तुदा. पर. वन्वने.
√जुड् पाधा. तुदाⁱ. पर. गतौ; जुरा.
उम. प्रेरणे.
√जुव् पाधा. भ्वा. आत्म. भासने.

√जुन् √जुट् टि. द्र.
ङ्जुम्बक^k- -काय काश्रौ २०, ८, १६;
आपश्रौ २२, २२, ६; वौश्रौ १५,
३७ : ३; २६, ११ : १६; वाष्ट्रौ
३, ९९ : ५; हिश्रौ १४, ५, ४^l;
वैष्ट्र ६, ८ : ४; शुभ्र ३, ४७.
√जुप् पाधा. तुदा. आत्म. प्रातिसेव-
नयोः; जुरा. पर. परितर्क्यो,
जोष > पा ऋप्रा ७, ३३^f.
ङ्जुजोषति शाश्रौ १८, १५, ५;
आपन १, १, १; वौष्ट्र १, १४;
जुजोषत् पात्रा ७, ३, ८७.
ङ्जुपते अप ४८, ३; निघ २, ६;
जुपन्ते कौस् ७३, १८^f; वौष १,
५, ६२; ६, १; वृदे; ङ्जुपे^m आपश्रौ
७, २, २; वौश्रौ; ङ्जुपताम् आश्रौ
१, ६, ५; २, ५, १४; ३, ४, १५xx;
शाश्रौ; आपश्रौ २२, १९, १ⁿ; हिष्ट्र
१, ८, ४^o; ङ्जुपेताम् माश्रौ ५,
१, ३, २७; वाश्रौ १, ४, ४, ४^o;
माशि; ङ्जुपन्ताम् आश्रौ १, ७,
७; ३, ९, ३^p; शाश्रौ; ङ्जुपस्व
आश्रौ १, ७, ८; २, २, १७^q; १४,
३१; ३, २, ६; ४, १^rxx;
शाश्रौ; आपश्रौ ६, ५, ७^r;
ङ्जुपेयाम् आश्रौ २, २०, ४;
शाश्रौ; आपश्रौ १४, ३०; २^s;
ङ्जुपध्वम् शाश्रौ ४, १९, ८;
आपश्रौ; ङ्जुपत आश्रौ १, ९,
१; ५; शाश्रौ १, १४, ६xx; वौश्रौ;

- a) वैष १ द्र. । b) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । c) ओपधि-विशेषयोः द्रस. । d) गतौ वेगे च वृत्तिः (तु. पात्ति. प्रथ. ३, २, १५०) । या ५, १; ६, ४; ८, ९ परानृष्टः द्र. । e) वैष १ निर्दिष्टयोः सन्निवेशः द्र. । f) भावे कर्त्तरि च ह्रस्व । g) तु. पागम. । h) परस्परं पामे. । i) पामे. वैष १, १३८१ n द्र. । j) √जिन् इत्यपि BFG. । k) √जुन् इत्येके । l) ष्णु इति पाठः ? यनि. शोधः । एतदनु वैष १, १३८१ p शोधार्थः । m) पामे. वैष १, १३८२ e द्र. । n) पामे. वैष २, ३३. जुहुता तां २१, १०, ११ टि. द्र. । o) पामे. वैष १, ७०९ f द्र. । p) जुपेतः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रकरणम्, सप्र. तै ३, ५, १, २ जुपेयाम् इति पामे. च) । q) पामे. वैष १, १३८२ k द्र. । r) पामे. वैष १ प्रति...गुन्नाय शौ ३, १०, ६ टि. द्र. । s) तु. ज्ञान. । BL पाठः ? । t) पामे. वैष १, ६२२ a द्र. ।

अजुपत् आपश्चौ १२, २५, १३१;
 ऋजुपेताम् शांश्चौ १, १४, ९;
 ११; १२; ऋजुपन्त आश्चौ
 १, ९, ५; शांश्चौ १, १४, १४;
 आपश्चौ; अजुपन् ऋप्रा १४,
 ५८१.

जुजोष वौश्चौ ३, ३ : ४१;
 ऋजोषिपत् आपश्चौ १६, ७, ४;
 वैश्चौ १८, ५ : ११^{१०}; हिश्चौ ११,
 २, २; ऋजोषि वौश्चौ १६, ५ :
 ११; १२^१.

जोषयते आपश्चौ ७, १, १९; वौश्चौ
 ६, १ : १०××; माश्चौ; जोषयतः
 वौश्चौ २६, १० : ८; जोषयन्ते
 ऋश्चौ ७, १, १०; जोषयध्वम्
 वौश्चौ ६, १२ : १८; जोषयेत्
 गोय ४, ७, १; जोषयेत् वौश्चौ
 २०, २७ : ४; आमिण्य ३, ४, १ :
 १३××; वौषि.

जोषयिष्यन्ते शांश्चौ ३, ८, २२.

जुजुपाण- णासः या ६, १६१^११.

ऋजुपमाण- णः आपश्चौ ५, १३,
 ४; वौश्चौ; -णाः आपश्चौ ८, १५,
 १७.

ऋजुपाण, णा- णः आश्चौ १, ५,
 २९; २, १०, ४^b××; शांश्चौ;
 आपश्चौ १३, १९, १०^b; पा
 ६, १, ११८; -णा आश्चौ २,
 ८, ३^c××; शांश्चौ २, ४, ३^c××;
 काश्चौ; -णाः आश्चौ १, ५, २४;
 ४, ७, ४; शांश्चौ; या १२, ४२;
 -णानि शांश्चौ ६, ३, ८; -णे कौसु
 २२, ९; -णौ शांश्चौ १, ८, ७.
 जुपाण-या(ज्या>)ज्य^d- ज्यौ

हिश्चौ २१, २, ४६^{१०}.

ऋजुष्ट, ष्टा^f- ष्टः आश्चौ २, ११,
 ९××; शांश्चौ; -ष्टम् शांश्चौ ४,
 १७, ७××; आपश्चौ; -ष्टा वौश्चौ
 ३, १८ : २६; ६, १२ : ९;
 -ष्टाः वौश्चौ ६, २७ : २२;
 आपमं; -ष्टात् आपश्चौ ४, १२,
 ६; -ष्टान् वौश्चौ ७, ३ : १८;
 माश्चौ; -ष्टाम् शांश्चौ १, ४, ५६;
 आपश्चौ २, २, ६××; वौश्चौ; -ष्टे
 वौश्चौ २, १२ : २१××; शांश्चौ;
 -०ष्टे हिश्चौ ६, ३, २; लाश्चौ ३,
 ६, ३^२.

ऋजुष्ट-तम- -मम् काश्चौ ९, ८,
 १५; वौश्चौ १, ४ : ३०; ५ : १०;
 -मात् हिश्चौ ६, ३, १४.

जुष्ट-त्(र>)रा- -रा आपश्चौ
 ४, १२, ६१.

जुष्ट-व(त्>)वी- -वी आश्चौ
 २, १४, २०.

जुष्टा√कृ>जुष्टा-कार->का-
 रा(र-आ)दि-संवापनान्त-
 -न्तम् वैण्य ५, १४ : ८.

जुष्टा(ष्ट-अ)र्षित- -ते पा ६, १,
 २०९.

ऋजुष्टि- ष्टयः वौश्चौ ६, २७ : २२;
 आपमं; -ष्टिः वौश्चौ ३, १८ :
 २५; वैश्चौ ७, १ : १३; -ष्टिम्
 शांश्चौ १, १२, ५; वौश्चौ ३, १८ :
 २६; माश्चौ.

जुष्ट्य- पा ३, १, १०९.

ऋजोष- -यम् वौश्चौ १, १९ :
 ३४; माश्चौ १, ३, ४, २६;
 वाधुश्चौ; पाण १, १, ३७६.

ऋजोष-नाक^१- -कम् अप ४८,
 ११५; निघ ४, २; ५, २२.

जोषण- -णेन वाश्चौ ३, २, ६, ५.

जोषणा(रा-आ)दि- -दि माश्चौ
 ५, २, १२, ३.

जोषणा->जोषणा-श्रुति- -तेः
 काश्चौ ५, १२, ७.

जोषयमाण- -णाः या ६, १६.

जोषयितव्य- -व्यम् या ५, २१.

जोषयि(त्>)त्री- -त्र्यौ या ९,
 ४१; ४२.

जोषयित्वा हिपि १० : ६; २३ : ८.

ऋजोष्ट^१- -ष्टम् माण्य १, ४, २^१;
 वाण्य ८, २.

ऋजोष्टी- -ष्टीम् काण्य ९, २^१;
 माण्य १, ४, २^१; वाण्य ८, २.

ऋरजो(ष्ट>)ष्टी- -ष्टीम् आश्चौ
 २, १६, १२; शांश्चौ; वृदे १,
 ११४६.

जुहवां√कृ √हु(दाना^०) द्र.

जुहुराण- √हृ द्र.

जुहुरे अप ४८, ११५^१.

ऋजुहृ^१- हृः ऋण्य २, १०, १०९; वृदे
 २, ८२; ३, ५८; ८, ३६.

२जुहृ^१- पाठ २, ६०; पावा ३, २,
 १७८; -ऋण्य आपश्चौ २, १३,
 २; ४, ७, २; वौश्चौ; -हृ हिश्चौ ४,
 २, २७; -हृः आश्चौ १, ३, ६१;
 शांश्चौ १, ४, २११^१; ३, १९, ५;
 काश्चौ; -हृम् शांश्चौ ४, ९, ५;
 १४, १८; काश्चौ १, १०, ९××;
 आपश्चौ; हिश्चौ २, ६, ५४^१५;
 -ऋण्य शांश्चौ २, २, १७; आपश्चौ;
 -ह्रा शांश्चौ १०, १६, ६१^१; काश्चौ

a) ज्योतिषत् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्चौ.) । b) पामे. वैप १, १३८४ i द्र. । c) पामे.
 वैप १, १३८५ b द्र. । d) विप. । वस. । e) जुपाणा या^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आश्चौ १, ५, २९) ।
 f) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । g) वैप १ द्र. । h) भाप. । i) जुष्टीयम् इति पाठः ? यनि.
 शोधः (तु. माण्य. वाण्य.) । j) व्यप. । व्यु. ? । k) जुहु^० इति पाठः ? यनि. शोधः ।

१,८,४४××; आपश्चौ; या १२, ३६५; -हाः आपश्चौ २,१०,२; माश्चौ; -हाम् काश्चौ २, ७, ९××; आपश्चौ; -हे वाश्चौ १,६, २,११?; -हौ वौश्चौ ५,६:६. जौहव^१-वम् मीस् ४,१,४३; -वस्य आपश्चौ ११, ३, ११; मीस् ४, १, ४७; -वानि काश्चौ ६,७,६.

जुहू-दर्शन-नात् काश्चौ ६,१०,१८.

जुहू(हू-उ)पभृत्-भृतः भाश्चौ ७, २२,३; -भृताम् वैश्चौ १०,२१: १४; -भृतोः काश्चौ ६, ८, ८; आपश्चौ ७,२३,११;१२; काठश्चौ; -भृतौ काश्चौ ३, १, १६; ५, १७; आपश्चौ.

जुहू(हू-उ)पभृद्-ध्रुवा-वाः शुभ्र १,१०७.

जुहू-प्रतिषेध-धात् मीस् ४, १, ४५.

जुहू-वत् काश्चौ २,७,१५; आपश्चौ ३,१६,१६××; वैश्चौ.

जुहूवद्-आया(म>)मा^२-मा वैश्चौ ११,८:१.

जुहू-षट्कपाल^३-लौ आश्चौ ८, १५,३.

जुहू(हू-अ)प्र-भ्रे काश्चौ ६,४,१०.

जुहू(हू-आ)दि-दीनाम् वैश्चौ ११, ७:१; मीस् ६,६,३३.

जुहू(हू-आ)स्व^४-स्यः कौस् १०८,२; अप्राय २,७.

जुह्वत्-ह्वान-√हु (दाना°) द्र.

√जू,जू-√जु द्र.

जूटा-पाउमो २,२,९५.

रजूति-√जु द्र.

रजूति^५-तिः ऋञ्च २,१०,१३६.

√जूर् पाधा. दिवा. आत्म. हिंसा-वयोहान्योः.

रजूर्णि^६-पाउ ४, ४८; -र्णिः अप ४८, १०६; निघ २, १३; १५; ४,३; या ६,४६.

रजू(रिं>)र्णि^६-र्णिञ्च २, २४.

√जूप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

जूष-पाउना ४,८१.

√जूम् पाधा. भ्वा. आत्म. गात्र-विनामे.

जूम्भ-पाग २, ४, ३१.

जूम्भ(ण>)णी^७-णी वौग् २, १, १९.

जूम्भमा(ण>)णा-णाम् वैध ३, १, ९.

जूम्भित्वा आग् ३,६,७.

√जू^८ पाधा. दिवा. क्वा. पर.; चुरा. उभ. वयोहानौ, जीर्यते विघ १३, ५; जीर्यति वौश्चौ ३, ८: १५^२××; जीर्यन्ति वाधूश्चौ ४, १०:१; वाध ३०,९^२.

जूर्यन्ति अप्राय ६,९५.

जरयसि पाग् ३,३,५५^१.

जर^९-पाग ३, १, १३४^१; -राय आमिग् १,२,२: २४^३; या ४, २७५.

जरठ-पाउट् १, १००; -ठम् काशु

७,७.

जरण-णम् वाधूश्चौ ४,१०२:२.

जरत्^{१०}-पा ३,२,१०४; -रत् अप्रा २, ४, १५५; -रत् शाश्चौ १२, १५, १५; -रन्तः कौस् ८,१७.

जरती-पाग ४, १, १२६; -तीम् आमिग् ३, ५, ३:१; -वौपि १, ३:१; हिपि ४:४; कौस् ७१,५५.

रजारतिनेय-पा ४, १, १२६.

जरत्-छत्र-त्रम् कौस् १८,१०.

जरत्-कद्रय-यः वौश्चौ १८, २५:६;९.

जरत्-कर्ण-र्णः ऋञ्च २,१०,७६

? जरत्-कार-सूनु^{११}-नोः अप १,३८,२५; अशां ८,२.

? जरत्-कार^{१२}-(>जारत्कारव-पा.) पाग ४, १, ११२.

जरत्-कोश-विल^{१३}-ले वौश्चौ ५,१६:३.

जरत्-कोष्ठ-घात् कौस् १८, १३; -ष्ठे कौस् ७१, ९.

जरत्-खात-ते कौस् २७,३.

जरत्-पर्वन्-र्वसु शौच ४, ५३.

जरत्-पु(र्व>)र्व^{१४}-र्वया वौश्चौ १५, ५:८; २६, १०:१२; -र्व वौश्चौ १५, १:१६; वाधूश्चौ ३,६९:३९.

जरत्-प्रयोग्य^{१५}-न्याभ्याम् वौश्चौ १८,२५:७;९.

a) पाठः? 'हौ इति शोधः। b) तस्येदमीयः षण् प्र.। c) विप.। वस.। d) उप. = [षट्कपाल-संस्कृत-] पुरोडाश-। e) वैप १ द्र.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) वैप १,१३८७ d द्र.। h) = मात्-विशेष-। घा. अर्थः ?। i) पा ३,१,५८;६,४,१२४ परामृष्टः द्र.। j) पाभे. वैप १, १३८७ h द्र.। k) भावे कर्तरि च कृत्। l) तु. पाका.। रज- इति भारुडा.। m) व्यप.। n) वैप १ निर्दिष्टानामेकत्र समावेशः द्र.। o) पूष. व्यप.। व्यु. ?। p) = जीर्ण-मञ्जूपा-। q) = वन्धन-रज्जु-। व्यु. ?। r) लपा. आपश्चौ २०,३,९. वेशसा इति पाभे.। s) कञ. उप. = प्रयुग्य- [वलीवर्द-]।

जरत्-संख्याय^१- -यः शांश्रौ २,
५, २७.

जरद्-अश्व- -श्वः वाधूश्रौ ३,
६९ : ३७; -श्वम् वाधूश्रौ ३,
७५ : २.

जरद्-अष्टि- -ष्टयः आगृ १,
७, १९; कौगृ १, ८, १८; शांगृ १,
१३, ४; पागृ १, ६, ३; -ष्टिः
वौश्रौ १३, ३२ : १८; १८, ९ :
३२; आपमं १, ३, ३; २, १, ३^b;
४, २; आगृ १, १७, १०^b;
कौगृ; पागृ २, १, ११^b; मागृ १,
२१, ६^b.

जरद्-उपानह- -नहा कौसू ८४,
९; -नहौ आपश्रौ १८, २२, २;
कौसू १८, १०.

जरद्-दास- -सः आगृ ४, २, १८.
जरमाण- > ण-रोहिन्- -हि या
६, १७.

जरयितृ- -ता या ३, १६; ५, २४;
१०, २१.

जरस्^०- पा ७, २, १०१; पागवा ५,
४, १०७; -जरसः आमिगृ ३,
५, ६ : ३; वौपि १, ४ : २०;
हिपि; -जरसम् आपश्रौ १४, १६,
१; माश्रौ २, ५, ४, २०^d; वाधूश्रौ;
आपमं २, २, १^d; ४, ३; आगृ; कागृ
४१, ७^e; वौगृ २, ५, ९^d; भागृ
१, ५, ९^d; हिगृ १, ३, ५^d; -रसा
वौश्रौ १७, ४० : ११; वाधूश्रौ;
आमिगृ १, ५, १ : २०^f; कागृ
२५, ४^f; वौगृ २, ५, ११^f;

हिगृ १, ४, २^f; जैगृ १, २० :
१५^f; या ११, ३८^f; -जरसे
आपमं २, २, १; ५^f × ४; पागृ १,
४, १३^f; आमिगृ; मागृ १, १०,
८; २२, ३.

जरसान- पाठ २, ८६.

जररा^०- -रया आमिगृ ३, ५, १ :
१; वौपि; या १०, ३९^२; ११,
३८; -रा आपश्रौ १३, ३, ३^f;
वौश्रौ; -जराम् आश्रौ २, ९, १०;
आपश्रौ; -रायाः पा ७, २, १०१;
पागवा ५, ४, १०७; -रायाम्
वौश्रौ २, ५ : ७^f; -रायै जैगृ
१, ८ : ९; अश्र ३, ११^f.

जरा-मरण-क्षुत्-पिपासा-शोक-
क्रोध-लोभ-मोह-भय-मत्सर-हर्ष-
विषादे(दं-ई)र्ष्या(र्ष्या-अ)सूया-
(या-आ)त्मक- -कैः या १४, ७.
जरा-मर्ष^६- -र्षम् अप्राय ३, ६;
वाध १९, २.

जरा-मृत्यु- पाग ६, २, ३७.

जरिताम्^h मागृ १, १३,
१८^f.

जरिमन्^०- -मन् कौसू ५४,
१३; -मा वैताश्रौ ३६, १९;
आमिगृ^१ १, १, २ : ४५; ४७;
४९; हिगृ १, ४, ८^१; जैगृ^१ १,
१२ : ६; ८; १०; अपं ३ :
२६; अप्रा ३, ४, १; -माणम्
अप्राय ६, ९; अश्र २, २८^२.

जरिमा(म-आ)युर्-दैवत- -तम्
अश्र २, २८.

जरित्वा पा ७, २, ५५.

जरिष्णु- -ष्णु^१ आपमं २, २, ११;
आमिगृ १, १, २ : ४१; वौगृ २,
५, १६; भागृ १, ६ : १२; हिगृ
१, ४, ६; -ष्णुः पागृ २, २, ११^१.

जरीत्वा- पा ७, २, ५५.

जर्जर- पाठ ३, १३१.

जर्जर-ग्रह- -हाः श्रप ५२,
१३, १.

जा(रि >)री^०- -री वाधूश्रौ ४,
१०२ : १७; -रि^० वौश्रौ १४,
७ : २४; २६, ७ : २१; वाधूश्रौ
४, १०२ : १६.

जि, जो^१ जि^०- पाठ ५, ४९; पावा
८, २, ७८; -जयः या ३, २१^f;
-जि^० आपमं १, ९, ४^१; जैगृ १,
२२ : ५.

जीर्ण, र्णा- पा ३, ४, ७२; पाग ५, ४,
३; -र्णः आपश्रौ ३, १४, १३;
वैश्रौ ३, १ : ३; या ३, १८;
-र्णम् आपश्रौ १९, १७, ३; हिश्रौ;
-र्णस्य वौश्रौ २९, ५ : २०; -र्णा
श्रप ३७, १७, १; -र्णाः वौश्रौ
१६, ९ : २; या ३, २१; -र्णानि
गौध १०, ५८; -र्णाम् वौश्रौ
२७, ७ : ६; अप; वौश्रु ७ : २;
या १४, ३३^f; -र्णाय शांश्रौ
१४, १२, २; -र्णे आपश्रौ १९,
१७, १; वौश्रौ.

जीर्ण-क- पा ५, ४, ३.
जीर्ण-पर्णा(र्ण-आ)हार- -रः
आमिगृ ३, ७, १० : ९.

a) कस. उप. करणे घञन्तम् = पट- । b) पामे. वैप १, १३८८ d द्र. । सपा. शौ ६, ६८, ३-

विशिष्टः पामे. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १, १३८८ m द्र. । e) पामे. वैप १, १३८८ p द्र. । f) पामे.

वैप १, १३८८ o द्र. । g) वैप २, ३४. द्र. । h) पाठः ? जरताम् इति संस्कृतुः टि. ? । i) जरिमाणे यो

इति पाठः ? जरिष्णे नयेत् इति शोधः [तु. j टि.] । j) पाठः ? जरिष्णे नयेत् इति Bôht [ZDMG ५२, ८१] शोधः ।

k) पाठः ? जरिष्णे इति शोधः (तु. j टि.) । l) पामे. पृ. १०६६ d द्र. । m) आपमं. जैगृ. पाठः ।

n) पामे. वैप १, १३८९ k द्र. ।

जीर्ण-मलवद्-वासस्-साः विघ
७१,९; गौघ ९, ३.
जीर्ण-मल-वासस्-साः वैघ
३, २, १६.
जीर्णा(र्ण-आ)हार-रः नाशि
२, ८, १.
जीर्यत्-र्यतः वाधूश्रौ ४, १० : १;
वाध ३०, ९^३; १०.
जीर्यद्-रङ्गेश्वर^३-रम् जैश्रौका
१.
जुजुर्वस्-वान् ऋप्रा ४, ६८^१.
√जू^३०, ऊँजते आपमं २, ११, २१^३;
अप ४८, ९; निघ ३, १४; ४, १;
या ४, २४^३.
ऊँजरमाण-णः आश्रौ ९, ११,
१४; शाश्रौ १५, ८, ७.
रजरा^३-ना या १०, ८.
ऊँजरा-बोध^३-०ध आश्रौ ९,
११, १४; शाश्रौ १५, ८, ७; वृदे
३, ९९; सात्र १, १५; या १०,
८६.
जराबोधोय^३-यम् वौश्रौ
१८, १५ : १६; छुस् ३, १२ :
१८; निस्; -यस्य निस् ८, २ :
५३.
ऊँजरि^३-०तः आश्रौ ८, ३,
१९^६××; शाश्रौ; -ता अप ४८,
९७; निघ ३, १६; या १, ७;
-तारः भाशि ९३; -तारम्
आपश्रौ ७, ६, ७; वौश्रौ; -तृणाम्
आपश्रौ १७, ७, ८; -त्रे या १,
७; ऋप्रा ७, ३५.
जारय(त् >)न्ती-न्ती ऋप्रा ९,

४८.
जेतव्य-, जेतुम्-प्रमृ. √जि द्र.
जेन्य-√जन् द्र.
१-२जेमन्-√जि द्र.
√जेप् पाषा. भ्वा. आत्म. गतौ.
जेप्यत्-प्रमृ. √जि द्र.
√जेह् पाषा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने,
जेहते निघ २, १४^१.
जेहमान-नाः आश्रौ २, १९, २४.
√जै पाषा. भ्वा. पर. क्षये, जायति
निघ २, १४^१.
जैगीषव्य-, जैगीषव्यायणी-,
१-२जैत्र-√जि द्र.
३जैत्र-(>जैत्रायणि- पा.) पाग ४,
२, ८०.
जैत्रिय-, जैत्री-प्रमृ. √जि द्र.
जैमिनि^३-निः जैश्रौका १७१; जैगृ
२, ८ : १७; अप ४३, ४, १४;
मीस् ३, १, ४; ६, ३, ४; ८, ३, ७;
९, २, ३९; -निम् जैगृ १, १४ :
८; -नेः मीस् १२, १, ७.
जैमिनि-वैशम्पायन-मैल-सूत्र-भाष्य-
गार्ग्य-बन्धु-वाञ्छव्य-मण्डु-माण्ड-
व्य-न्याः शांरु ४, १०, ३.
जैमिनीय-यैः जैश्रौका १७२.
जैव-, जैवन्ति-, जैवन्तायन-,
जैवावृक्-, जैवि-, जैवेय-
√जाव् द्र.
जैहाशिनैय-, जैहाय- जिह्व-द्र.
जैह्व- जिह्वा-द्र.
जोगु-√गु(शब्दे) द्र.
ऊँजोवत्का^३-काः आपश्रौ १९, १२,
१२; वौश्रौ १९, ३ : ३२; हिश्रौ,

२३, २, २३.
जोप-प्रमृ. √जुप् द्र.
जोहु(व >)वा-ना या ५, २६^१.
जोह्व-√हे द्र.
जौलायन-(>जौलायन-भक्त-
पा.) पाग ४, २, ५४.
जौहव-रुहू-द्र.
जौह्वत-√हु(दाना^३) द्र.
ज्ञ-, ज्ञका-√ज्ञा द्र.
√ज्ञप्^३ पाषा. जुरा. पर. ज्ञाने ज्ञापने-
च, अजिज्ञपत् भाशि ६०.
ज्ञीप्सति वाधूश्रौ ३, ६९ : १७;
ज्ञीप्सन्ति-वाधूश्रौ ४, १०८ :
१५; १९.
ज्ञपित-, ज्ञप्त- पा ७, २, २७.
ज्ञीप्समान- पा १, ४, ३४.
√ज्ञा^३ पाषा. भ्वा. पर. मारखतोपण-
निशामनेषु; क्र्या. पर. श्रवबोवने;
जुरा. उभ. नियोगे, जानाति
वौश्रौ ३, २७ : ९; २५; ३१ :
१; वैश्रौ; या १४, २०^३; जानते
या ४, १०^१; जानन्ति शाश्रौ
१५, १७, १^१; आपश्रौ २३, ७.
८; हिश्रौ; जानीषे विघ १०, १०;
१३, ६; जानामि या २, ८;
जानीमः निस् २, ३ : २४; ३, ३ :
३४; १२ : २९××; जानानु गौपि
१, १, २७^१; ऊँजानन्तु आपश्रौ
६, २७, ३; हिश्रौ; आमिगृ ३,
९, १ : ५^१; वौपि २, ५, १^१;
जानीष्व तु १२, २; ऊँजानीताव.
माश्रौ २, ५, ५, २१; अप्रा २, ४,
१८; जानीतम् या ४, ६; ५, २१;

a) उप. व्यप. । d) वैप १ द्र. । c) या १०, ८ परामृष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १, १३४० ऽ द्र. ।
e) = साम-विशेष- । f) गतौ वृत्तिः । g) = ऋपि-विशेष- । h) वैप २, ३६. द्र. । i) = जिह्वा- । व्यु. ?
<√हे (तु. SEX [७४]) वा √हु वेति । j) पा ७, २, ४६; ४, ५५ पात्रा ७, ४, ५५ परामृष्टः द्र. ।
k) या १४, १० पा १, ३, ७६; ३, ४, ६५; ७, ३, ७९ परामृष्टः द्र. । l) जाय इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिपि
२१ : १६; B. [वौपि.]) ।

जानीध्वम् आगृ २, १०, ८^३कं;
 जानीत माश्रौ २, ५, ५, २१^४;
 जानीयात् वौश्रौ १३, १:१०××;
 वाश्रौ; जानीरन् आश्रौ ११,
 ६, ४; काश्रौ २४, ३, १४;
 जानीयुः आपश्रौ -२३, ७, ८;
 हिश्रौ १८, ३, ३.
 जने या २, ८; जनुः वौगृ ३, ११,
 ३^१; ज्ञास्यामि कौगृ ३, १२, ८.
 ज्ञायते वौश्रौ २४, १४: ६;
 निसू ९, ६: ३; अप; पावा १,
 २, ६४; ज्ञायेत वैश्रौ २०, २२:
 १०; वृदे ३, ७८.
 ज्ञापय अप ७०^३, १, २; ज्ञापयेत्
 आपघ १, ८, १६; हिघ १, २,
 १०४; ज्ञापयेयुः आश्रौ २, ५,
 १८.
 जिज्ञासित निसू १, ६: ७; ८.
 रजज्ञान वैगृ २, २: ५^१०.
 जानत् -कंनतः^० आपश्रौ ६, २७,
 ३; हिश्रौ ६, ७, ८; द्राश्रौ ७,
 ३, १; लाश्रौ ३, ३, १^१०; शांगृ
 ३, ७, २; कागृ २७, ३; भागृ
 १, २७: ५; हिगृ १, २९, १;
 -कंनता वौगृ २, २, ८; कौसू
 ७३, १७; -नते या १, १६^१;
 -नन् शाश्रौ ३, २, ३; काश्रौ ९,
 ६, २३××; वौश्रौ; या १४, २२;
 -नन्तः विघ ८, ३७; -नन्तम्
 या १, १५; १६.
 जानती- कंनत आपश्रौ १२,
 १५, ६, हिश्रौ ८, ४, २१.
 जिज्ञासा- -सा मीसू ४, १, १;

-सायाम् पावा १, ३, २१.
 जिज्ञासित- -तम् भासू २, ११;
 -तयोः भासू ३, २.
 जिज्ञासु- -सुः वृदे २, ११९.
 ज्ञ, ज्ञा- पा ३, १, १३५; ७, ३, ४७;
 ज्ञाय अप ६६, २, ६^१; ज्ञेभ्यः
 कौगृ १, ८, ३७^०.
 ज्ञ, ज्ञि(क>)का- पा ७, ३,
 ४७.
 ज्ञ-समवाय- -ये गौघ ६, ५.
 ज्ञात- पाग ५, ४, २९; -तः वौघ
 २, २, २२; ३, ५, ८; गौघ २६,
 २३; -तम् कप्र २, ९, १२;
 कौशि ५८; -ते मीसू ३, ८, १८;
 -तेषु वौश्रौ २२, १३: १७.
 ज्ञात-क- पा ५, ४, २९.
 ज्ञात-प्रिया(य-अ)नृचान- -नान्
 काश्रौ ९, ७, १५.
 ज्ञातव्य- -व्यः याशि १, ४२;
 -व्यम् जैश्रौका १३२.
 ज्ञाति- -तयः शाश्रौ ३, ६, १;
 आपमं; -तये काश्रौ १०, २, ३३;
 आपश्रौ; -तिः वैगृ ४, ७: ७;
 या ४, २१०; -तिभिः भागृ २,
 ५: ११; -कंनतभ्यः काश्रौ ५,
 ५, ८; वैताश्रौ ३७, १४; १७;
 आपमं २, २२, ५^१; कौगृ; हिगृ
 १, १४, २^१; -तिम् आपश्रौ ८,
 ६, २२; वौश्रौ; -तिषु आपघ
 १, १०, ३; हिघ १, ३, ३२;
 -तीन् वौश्रौ २८, २: ५४;
 द्राश्रौ; या ४, २१; -तीनाम्
 आपश्रौ १, ८, ७; लाश्रौ; -ती

आगृ ४, ४, २२.
 ज्ञाति-कर्मन्- -र्म गोगृ २, १, १०.
 ज्ञाति-कुल- -लम् भागृ १, १३:
 ११.
 ज्ञाति-धन- -नम् आपघ २,
 १४, ९; हिघ २, ३, २०.
 ज्ञाति-नामन्- -मानि शाश्रौ ६,
 १, ६.
 ज्ञाति-पत्नी- -त्नीः आमिगृ २,
 ६, ३: ५४; वौघ २, ५, २९^१;
 -कंनतभ्यः आमिगृ ३, ११, ४:
 ३२; वौगृ २, ११, ३४.
 कंनत-मत्- -मन्तम् कौगृ १,
 ५, २६; शांगृ १, ९, ९; -मान्
 कौगृ १, ५, २६^१; शांगृ १, ९, ९^१;
 कागृ २५, ३६^२.
 ज्ञाति-मरण- -णम् विघ १४,
 ४; -णे विघ २२, ३८.
 ज्ञाति-वर्ग- -र्गः वैगृ ५, १५:
 ७; -कंनतभ्यः वैगृ १, ४: १९;
 ४, ४: ९.
 ज्ञातिवर्ग-पत्नी- -कंनतभ्यः
 वैगृ १, ४: २०; ४, ४: १०.
 ज्ञातिवर्गपत्न्य(त्नी-अ)-
 न्त- -न्तेभ्यः वैगृ ३, ७: १४.
 ज्ञाति-विद्- -विद्^१, -विदे
 कौसू ७८, १०^१.
 ज्ञाति-श्रेष्ठ्य- -ष्ठ्यम् विघ ७८,
 १८.
 ज्ञाति-संभाप- -पौ आमिगृ १,
 ६, ३: ४२.
 ज्ञातेय- पा ५, १, १२७.
 ज्ञातुम् वृदे ३, ३९; ११०.

a) पाभे. वैप १, १३९१ i द्र. । b) णम् (मा १३, ३) इत्यस्य प्रतीकं द्र. । c) पाभे. वैप १,
 १०२६ II द्र. । d) जान इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । e) सपा. शांगृ १, १४, १७ यान्निकेभ्यः
 इति पाभे. । f) सञ्जल^० इति ST. । g) वैप १ द्र. । h) सप्र. पागृ ३, ७, २ विशिष्टः पाभे. ।
 i) सप्र. ज्ञातिमान् <> ज्ञातिविद् इति पाभे. । j) विप. । वस. । k) जाति^० इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. BC.) ।

ज्ञातृ- ता विध १, ३२. या १४,
१०; -नारम् आण्ट ३, १०, ११;
-तुः वैष ४, ८, ८.
ज्ञात्र- -त्रम् गो २, ७; १०; ङं;
-त्रेण निच् ५, ९ : २३.
ज्ञात्वा काश्रौं ३३ : १६; सु.
ज्ञान- नम् निच् १, ६ : ९; क्प्र २,
६, ३; वाघः -नत्य गोण्ट १,
५, १३; या ३, १२; वाज्यो
७, १७; -नात् अप ४, २, १०;
आपघः -ने शुप्रा ८, २६;
पाप्रवा ६; -नेन भाण्ट १, ११ :
१६; वाघ ३, ६०; शंघ.
ज्ञान-कर्मन्- -र्मणः या १४,
१३.
ज्ञान-कृत- -तः या १४, १०;
-तेभ्यः वौष ३, ५, ५.
ज्ञान-नाम्य- -०न्य विध ९८,
३३; -न्यन् विध ९७, २०.
ज्ञान-न्तस्- (ः) विध ३२, १८.
ज्ञान-दुर्वल- -लः सुध १३.
ज्ञान-दृग्ण- -ग्णः या १४, २४.
ज्ञान-पति- (> पत- पा.) पाण
४, १, ८४.
ज्ञान-पूर्व- -र्वम् गौष २०, ९.
ज्ञान-प्रद- -दम् काघ २८२ : ६.
ज्ञान-प्रशंसा- -सा या १, १७.
ज्ञान-मोक्षा(क्ष-ञ्)क्षर-प्रशंसा-
-सा ऋञ् २, १, १६४.
ज्ञान-नाशि- -शिना वेज्यो ४२.
ज्ञान-लोचन- -नः अप ३०, १,
२.
ज्ञान-विधूत-पाप्मन्- -प्मा या
१, १८; ङं.

ज्ञान-विषय- -ये चांश्रौ १३,
५, १.
ज्ञान-संस्तव- -नः वृदे ८, ९२.
ज्ञाना(न-ञ्)ज्ञान- -ने वैण्ट ५,
१ : २८.
ज्ञाना(न-ञ्)पहारिन्- -नी शंघ
३७७ : १८.
ज्ञाना(न-ञ्)भिनिवेश-
-शाम्यान् गौष २८, ५४.
ज्ञानो(न-ञ्)क- -कानि या १४,
९.
ज्ञापक- -कः पावा २, १, ४५; ३,
१, ३६xx; -कन् पावा १,
१, ११; १९xx; -कात् पावा
१, २, १८.
ज्ञापित, ता- -तान् आण्ट ४, ७, २;
-तायाः वाघुश्रौ ३, १५ : ४.
ज्ञाप्यमान- -ने पावा २, ३, १३.
ज्ञाप- (> प्य- पा.) पाण ४, ३,
५४.
ज्ञायमान- -ने आपघ १, ९, ८; १४,
१४; हिघ १, ३, ८; ४, ४६.
ज्ञेय, या- -यः क्प्र ३, ८, ११; अप;
-यम् वैश्रौ १, १ : १३; क्प्र २,
८, ५; अपः -या क्प्र १, ७, ९;
अपः -याः जैश्रौका १६८; अपः
-यात् आपघ १, २३, २; हिघ
१, ६, १०; -यानि आपशु ५, ७;
हिशु २, १६; ऋञ् ३, ४६;
-यानिः आपशु १, ९; हिशु १,
१४; -ये वृदे ५, ८६; -यौ ऋञ्
३, ४०; वृदे.
ज्ञेय-नाशि- -शिनू वेज्यो ४२.
ज्ञात- √ज्ञा द्र.

ज्ञातल- (> ल्य- पा.) पाण ४,
१, १२३.
ज्ञाति- प्रच., ङिका- √ज्ञा द्र.
ज्ञीन्तमान- √ज्ञन् द्र.
ज्ञु- > ज्ञु-वाङ्- -वाघः माशि ५९; ङं.
ज्ञुजन्- -जन् आश्रौ ३, ८, १;
आपश्रौ २०, ३, १५; वौश्रौ १५,
६ : ११; हिश्रौ १४, १, ३६;
शुञ्च २, २७३.
जन्- -याः या १२, ४३; ङं.
जन्मा- -जन् आश्रौ ४, १५, २;
वैताश्रौ ३३, १९; साञ्च १, ५२;
ज्मा आश्रौ २, ९, १४; ३, ७,
१०; चांश्रौ ६, १०, ६; अप ४८,
७२; निघ १, १; या १२, ४३.
√ज्या^१ पाषा. ऋवा. पर. वयोहानौ,
जिनाति वाश्रौ ३, ३, ३, २; ङं;
हिश्रौ १३, ६, ८; जिनाति आश्रौ
२, १०, १६; ङं; जिनाति आश्रौ
१५, ६, २१; ङं; जिनाति आश्रौ
२०, ६, १४; वौश्रौ १५, ९ : ८;
हिश्रौ १४, २, १७; जिनीयात्
चाश्रौ ९, १, १५; जिनीयुः
वाघुश्रौ ३, ७९ : १६; १८.
ज्यात्यते वाघुश्रौ ३, ७५ : ११;
७९ : २०; ज्यात्यन्ति वौश्रौ
१५, ४ : ११; ८ : ४; !वज्यातिदि^२
वौश्रौ २४, १२ : १५; १८ : २.
जिज्यात्यत्- -सतः वौश्रौ ७, ४ :
१७; अप्रा ३, ४, १.
जिनद्- -नतान् अञ्च १२, ५(६); ङं.
जीन- , जीनवद्- पा ८, २, ४४.
ज्यानान- -नः वौश्रौ १७, १७ : ३.
ज्यानि- -पाट ४, ४८; पावा ३, ३,

a) वैष १ द्र. । b) विप. । वन. । c) हु. पाणि. । न्याय- इति भारवा. प्रच. । d) शतल-
इति पाणम., [पले] भारवा. च । e) पाणि. वैष १. १३९२ III द्र. । f) या २, १७ पा ६, १, १६; ७, ३, ८० पावा
७, ३, ५७ परामृष्टः द्र. । g) पाणि. वैष २. ३४. जहृष्यं तैश्च २, ५, ३, १ टि. द्र. । h) षडिपि इति पाटः ? दनि.
शोषः (हु. वृदत्तः, संत्कर्तुः [आपश्रौ ५, २६, ३] टि. च) ।

पावा १,३,४०; वेज्यो २; -तिषि
शांश्रौ १८,१,८; आपश्रौ; -तिषी
वौश्रौ २४,३० : २; ६; निसू ४,
६ : १३; ऋअ २,८,२२; या ७,
१६; १८; २०^३; २३; ३१; १२,
२६; -तिषे काश्रौ ३, ८, २३;
आपश्रौ; -तिषोः द्राय ३, २,
३०; गौघ १६, १६; -तिष्णु
वृदे ३, १२; -तीषि शांश्रौ ९, ५,
१; १६, २१, २; आपश्रौ; या २,
१४; १०, २६; १४, १९.

ज्यौतिष-पाः निसू ८, ३ :
११.

ज्योतिर्-अतिरात्र^१-त्रः वौश्रौ
१७, ६१ : १; ६२ : ९.

ज्योतिर्-अनीक^२-कः ऋप्रा ५,
५३^३.

ज्योतिर्-अयन-नम् वौश्रौ
१६, ३२ : ८; १७, ५९ : १.

ज्योतिर्-आयतन-नम् कौसू
१६, ३१; -नस्य कौसू ३८, १६.

ज्योतिर्-उदयन^४-नः निसू ५,
२ : १४; १६.

ज्योतिर्-उद्गमन-ने पावा १,
३, ४०.

ज्योतिर्-गण-गेषु अप ६५,
१, २.

ज्योतिर्-गणना (ना-आ) दिका
(क-अ) धिक-वृत्ति^५-त्तिः वैध
३, १२, ८^६.

ज्योतिर्-जरायु^७-युः या १०,
३९^३.

ज्योतिर्-भाग-गः या १२, १.
†ज्योतिर्-भासू^८-भाः वौश्रौ

९, १४ : २२; वैश्रौ १३, १६ :
१९.

ज्योतिर्-मध्य-ध्ये आग्नि २,
४, १० : ७.

ज्योतिर्-मय-यम् अप १३,
५, ६.

ज्योतिर्-लोक-कम् अप १५,
१, ९.

ज्योतिर्-वर्ण^९-र्णस्य या ७,
३१.

ज्योतिर्-विचार-रान् निसू ४,
७ : २६.

ज्योतिर्-विध-धानि निसू ५,
८ : ९.

ज्योतिश्-चक्र-विद्-विद्ः कप्र
२, ६, ७.

ज्योतिः-शब्द-ब्दैः आश्रौ ५,
९, ११.

ज्योतिः-शास्त्र-प्रयुक्त-कानाम्
आज्यो ७, ६.

‡ज्योतिष^{१०}-पाग ४, २, ६०^{११};
-षम् अप १, १५, १; शंघ ११६ः
३९; आपघ २, ८, ११; हिध.

ज्योतिषिक^१-कः अप ७,
१, १०.

ज्यौतिषिक-पा ४, २, ६०.
२ज्योतिष^१-> षी-> षी-

मत्^१-मान् अप्रा ३, १, १८^३.

ज्योतिषाम्-अयन-नम्^{१२} चव्यू
२ : २५; वेज्यो ३; -नेन वौश्रौ
२८, ४ : ३१.

ज्योतिषामयन-विकल्प-

-ल्पाः लाश्रौ ४, ८, १.
ज्योतिष्-कृत्^{१३}-कृत् शैशि

१२५^३.

‡ज्योतिषोम^{१४}-पा ८, ३, ८३;
-मः आश्रौ ९, १, ३××; शांश्रौ;

-मम् द्राश्रौ ८, २, १६; लाश्रौ;
-मस्य लाश्रौ ६, ९, १××; लुसू;

-माः काश्रौ २४, ७, ३०; ३२;
लाश्रौ १०, १३, ४; -मात्

द्राश्रौ २, ४, २३; लाश्रौ; -माय
लाश्रौ ९, १, २; -मे आपश्रौ १४,
८, १; हिश्रौ; -मेन काश्रौ १४,
१, ३; २२, ११, ३२; आपश्रौ;

-मैः वाश्रौ ३, २, २, ४७; -मौ
लाश्रौ ८, ११, ११; निसू ८, ९ :
१६.

ज्यौतिषोम-मम् निसू
६, ८ : २६; ७, ४ : ३३; ८,
३ : १०.

ज्यौतिषोमी-म्यः
मीसू १०, ६, ६५.

ज्यौतिषोमिक^{१५}-कात्
मीसू ७, १, १६; -कानि मीसू ७,
३, ६; -कैः काश्रौ २४, ५, १६.

२ज्योतिषोम^{१६}-मानाम्
निसू ३, १० : ४०; ४, १२ : १२;
-मानि निसू ३, ९ : ३××.

ज्योतिषोमी-मीमिः
निसू ६, १३ : १; -मीम् निसू
४, ७ : २७.

‡ज्योतिषोम-तन्त्र-त्रे
लाश्रौ ४, ५, १७; ८, ११, ६.

२ज्योतिषोम-तन्त्र^{१७}-त्रः
निसू ९, ६ : ३४; १०, १३ : २१.

ज्योतिषोम-दक्षि(णा >)
ण^{१८}-णाः वौश्रौ २३, १९ : १२.

a) = महायज्ञ-। मलो. कस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । वस. । d) विप. । पस. > वस. >

वस. > कस. । e) का वृत्तिः इति रंगा. । f) वैप २, ३ खं. द्र. । g) = वेदाङ्ग-। अन् प्र. (पा ५, २, १२७) ।

h) तु. भाएडा. प्रम्. । षि- इति पाका. ? । i) = ज्यौतिषिक- । j) वैप १, १३९७ f, g द्र. । k) = ज्योतिः-

शास्त्र-। l) = क्रतु-विशेष-। m) विप. । तस्येदमीयः प्र. । n) विप. । तान्त्रमविकस्य प्र. लुक् (पाम ४, ३, ६६) ।

ज्योतिष्टोम-दशाह- -हाभ्याम्
निसू ४, १२ : ११.

ज्योतिष्टोम-धर्म- -र्माः काश्रौ
१२, १, १.

ज्योतिष्टोम-प्रद(शिक >)-
शिका- -काम् वैश्रौका ५.

ज्योतिष्टोम-प्रदेश- -शात्
लाश्रौ ९, १२, १७^२.

ज्योतिष्टोम-प्राय- -याणि
लाश्रौ १०, १, १६.

ज्योतिष्टोम-विचार- -रेभ्यः
निसू ६, २ : २२.

ज्योतिष्टोम-विधि- -धिः
लाश्रौ ९, ६, १८.

ज्योतिष्टोम-विश्वजित्-त्रिवृत्-
पञ्चदश-सप्तदशै(श-ए)कविश-
-शाः काश्रौ २३, १, १८.

ज्योतिष्टोम-सर्वस्तोम- -मौ
निसू ८, ३ : २६.

ज्योतिष्टोमा (म-अ) दि-
-दिभिः लाश्रौ ८, ११, ६.

ज्योतिष्टोमा(म-अ)यन- -नम्
निसू १०, ९ : १४.

ज्योतिष्टोमायन-विकल्प-
-ल्पाः द्राश्रौ ८, ४, १^३.

ज्योतिष्टोमो(म-उ)ःपाद-
-दम् निसू २, १३ : १^४.

ज्योतिष्टोम्य- -म्यम् निसू
९, २ : २८.

ज्योतिष्-(त्व >)द्व- -द्वम्
-वौश्रौ २८, ४ : ३१; शौच ४,
१०२.

ज्योतिष्-प्रायण^५- -णः निसू ५,
२ : १४; १६.

ज्योतिष्-मत्- -मत् आपश्रौ
९, ८, ८; वौश्रौ; -मत्तः आपश्रौ
१०, १६, १६; २२, ९, १९; १२,
१०; वौश्रौ; -मति आपश्रौ २,
१२, ७; १४, १; १८, ६; वौश्रौ;
-मते शाश्रौ ३, १९, १०; काश्रौ;
-मन्तम् आपश्रौ ९, ८, ८; १२,
७, ७; वौश्रौ; -मान् आश्रौ ३,
१२, २८; आपश्रौ १६, १२, ६;
वौश्रौ.

ज्योतिष्मती^६- -ती निसू
१, ४ : २; ५; पाण्ड ३, ३, ५^६;
काण्ड; -तीः आपश्रौ १७, ६, ४;
वौश्रौ; -तीभिः आमिष्ट ३, ७,
३ : २२; वौषि २, २, ३; हिपि
१९ : ९; -तीभ्याम् वौश्रौ १०,
१८ : ६; २७, ११ : ८; वैश्रौ
१८, ११ : १५; -मतीम् आपश्रौ
१६, २४, ७x४; वौश्रौ; -त्यः
उनिसू १ : ६०; ६१; -त्या
आपश्रौ १६, ७, ७; माश्रौ; -त्वौ
उनिसू ५ : १४.

ज्योती-रथ-प्रवाद- -दम् उस्
६, ९.

ज्योत्स्ना^७- पा ५, २, ११४;
पावाण ५, २, १०३.

ज्योत्स्न- पावा ५, २,
१०३; -त्स्नः गोष्ट २, ८, १;
-त्स्नस्य शाश्रौ १३, १९, ६;
-त्स्ने माश्रौ १, ६, २, ४; ४,

७, १; ८, १; माण्ड १, २१, १^३
२, १, २; -त्स्नाः गोष्ट २, ८, ६.

ज्योत्स्न^८- -त्स्ने द्राण्ड २, ३, १
ज्येष्णा अप ४८, ११६^९.

ज्येष्ठ, घ्रा^{१०}- पा ५, ३, ६१; ६२; पाण्ड
४, १, ४; १२६; फि २२; -ष्ठः
आश्रौ ४, ११, ५^१; शाश्रौ १२,
२०, ३^१x४; वौश्रौ; अप ४८,
१०५^१; -ष्ठःऽ-ष्ठः आपण्ड
१९, १०; -ष्ठम् आश्रौ ७, ४,
३^१; मशाश्रौ; या २, १०; ३, ५;
१४, २४^१; -ष्ठया पाण्ड २, १३,
१; आपण्ड २१, १०; भाण्ड २,
१५ : २; अप १, ५, २; २९, २;
४०, १^१; अशां १०, १^१; विघ
२६, १; -ष्ठस्य शाश्रौ २, १२,
१०; काश्रौ; कप्र २, ६, ६^१; -ष्ठा
कप्र ३, १, ४; अप; -ष्ठाः काश्रौ
२२, ४, ६; वाघुश्रौ ४, २६, ५;
१२; निसू ६, १२, २; अप १, ७,
८; -ष्ठानाम् शाश्रौ १४, ७२, १;
आपश्रौ; पाण्ड १, ५, १०^१;
-०ष्ठानाम् शाश्रौ ४, १०, १^१;
-ष्ठानि अप १, २८, २; -ष्ठा-
भ्याम्^{११} वौष्ट २, ८, ३०^१; -ष्ठाम्
अशां ४, १; वृदे ६, ७७; -ष्ठाय
शाश्रौ ९, २६, २^१; काश्रौ; शाण्ड
१, २६, १६^१; -ष्ठायाम् आमिष्ट
३, २, ५ : १; काण्ड ३९ : १;
अप १, ४, ४; १०, ४; ३३, ९; ४४,
६; ४९, ५; अशां १३, ३; -ष्ठायै
वैष्ट ३, २० : ८^१; अशां १२,

a) पाठः ? (तु. सप्र. लाश्रौ ४, ८, १; धन्वी च ज्योतिषाम् इति) । b) ष्मात्पा० इति पाठः ? यनि.
शोधः । c) विप. । यस. । d) = छन्दो-विशेष- (ऋग्र. ऋद्रा. प्रष्ट.), = ऋग्-वितेप- (वौश्रौ १०, १८ : ६ प्रष्ट.) ।
दिष्टं वैप १ द्र. । e) पामे. वैप १, १३९७ ० द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = शुक्ल-पक्ष- । मत्त्वर्थीयः ऋत् प्र. ।
h) वप्र. । वैप १ निर्दिष्टानामेकत्र समावेशः द्र. । i) पामे. वैप १, १३९८ f द्र. । j) = संग्राम- । k) = ज्येष्ठ-
मास- । l) पामे. वैप १, १३९८ h द्र. । m) पामे. वैप २, ३४. ज्योत्स्न- > -०जसाम् तैत्रा ३, ११, ४, २ टि. द्र. ।
n) पृ ८४६ p द्र. । o) सपा. °ष्टाय <> °ष्टायै इति पामे. ।

३; -ष्टे आश्रौ ३, ८, १; ८, ८,
६; वैष्ट ६, १३ : ६; १४ : १;
४; शंघ २७०; -०ष्टे अशां १,
२; ४, १; -ष्टेन कौसू ८०, ४६.
ज्यैष्ठिनेय^१ - पा ४, १, १२६;
-यः आपश्रौ २२, १३, २१;
हिश्रौ १७, ५, ४१; -यस्य काश्रौ
२३, १, १५; आपश्रौ २, १९, ३;
६, ४, १; वौश्रौ ३, ४ : १८;
भाश्रौ ६, ९, १; २; वाश्रौ १,
१, १, ४०; ५, २, १२; वैश्रौ २,
२ : ७; हिश्रौ २, २, १८; ३,
७, १९; गौघ २८, १५.
ज्यैष्ठ > ष्टी^२ - ष्टी विघ ९०,
११; -ष्टयाः वैताश्रौ ३६, १२.
ज्यैष्ठ^३ - ष्टे अप ५५, ६, १.
ज्यैष्ठ्य^४ - ष्ट्यम् शाश्रौ १४,
३१, १; ङकाश्रौः - ष्ट्यात् हिश्रौ
१०, ५, २५१; - ष्ट्याय शाश्रौ
१०, १६, २; ८; १५, २६, १;
आपश्रौः - ष्टये शाश्रौ १५, २७,
१९.
ज्यैष्ठ्य-काम- -मः आपश्रौ
१९, १४, ११; हिश्रौ २३, ३, ९;
-मम् अप १, ४४, ६; -मस्य
जुसू १, ६ : २०.
ज्यैष्ठ-ज्वन्व^५ - न्याः आगृ ४, ४,
१२.
ज्यैष्ठ-त्वम- -माय शाश्रौ १४, ३१,
३१.
ज्यैष्ठ-न्तसः(ः) आपश्रौ ६, ७, ८; अत्र

११, ३(१)१.
ज्यैष्ठ-ता- -ताम् वौश्रौ १८, १४ :
१३.
ज्यैष्ठ-ताति- पा ५, ४, ४१.
ज्यैष्ठ-दक्षिण^६ - णाः कौगृ ४, ४,
१०?१; शांगृ ४, १८, ६.
ज्यैष्ठ-पुत्र-प्रसूत- -तस्य शंघ
२८४.
ज्यैष्ठ-प्रथम^७ - -माः आगृ ४, २, ९;
-मान् मागृ २, ७, ४.
ज्यैष्ठ-वन्धु- -न्धुः वौश्रौ १४, १८ :
२३; २४; १८, १४ : १२;
माश्रौ २, ३, ५, ३१; हिश्रौ ८,
४, ५१.
ज्यैष्ठ-भार्या- -र्या वैध २, ११, २;
-र्याम् शंघ ३२७.
ज्यैष्ठ-आतृ- > °तृ-श्वसुर-पितृव्य-
मातुल- -लान् कप्र २, २, ३-८.
ज्यैष्ठ-यज्ञ- -ज्ञः निसू ६, १२ : १;
-ज्ञम् निसू ६, १२ : ३; -ज्ञे
निसू ६, २ : १९; १२ : ४.
ज्यैष्ठ-राज्^८ - राजम् वागृ ५, २२१.
ज्यैष्ठ-लक्ष्मी^९ - लक्ष्मीम् वाधूश्रौ ३,
१९ : ६१.
ज्यैष्ठ-वत् वृदे ४, ११२.
ज्यैष्ठ-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू ४,
४, ९१.
ज्यैष्ठ-सामन्^{१०} - -मनः गोगृ ३, २,
४७; -मन्ताम् वौध ३, १०, ११;
गौघ १९, १३.
ज्यैष्ठसाम-ना^{११} - -नाः^१ अप ४४,

२, ४; वाघ ३, १९; शंघ १९९-
२००; आपघ २, १७, २२; विघ
८३, ४; गौघ १५, २८.
ज्यैष्ठसामिक^{१२} - -कः^१ वौध २,-
८, २; हिघ २, ५, ५०.
ज्यैष्ठ-स्तोम^{१३} - -मः शाश्रौ १४,
३१, १.
ज्यैष्ठां(ष्ट-अं)श- -शाः वौध २, २, ९;-
-शम् वौध २, २, १२.
ज्यैष्ठांश-हीन- -नम् गौघ २८,-
३७.
ज्यैष्ठानाम-अग्निष्टोम^{१४} - -मः वौश्रौ
१८, २६ : १; २६, ३३ : १.
ज्यैष्ठा(ष्ट-अ)भिन्व्याहार- -रे शाश्रौ
१४, ३१, ५.
ज्यैष्ठा-यु(त >)ता- -ता विघ ९०,-
११.
ज्यैष्ठा(ष्टा-अ)वकाश^{१५} - -शो वौगृ २,-
८, ३०.
ज्यैष्ठो(ष्ट-उ)त्तर-कर^{१६} - -रान् कप्र
१, २, ९.
ज्यैष्ठ्यथ^{१७} हिश्रौ १७, ६, २७.
ज्यैष्ठ- , ष्टिनेय- , ष्टी- , ष्ट्य-
ज्यैष्ठ- द्र.
ज्यैष्ठ्योक्^{१८} आपश्रौ ५, ८, ८; १०, ८, ९;-
वौश्रौ; माश्रौ १, ६, ४, २११;-
वाश्रौ १, ५, ५, ७१; पागृ ३, २,
२१; जैगृ २, ३ : ६१; पाग १,-
१, ३७.
ज्यैष्ठ-भामयाविन्^{१९} - -वितः वौश्रौ
१४, १९ : ३; वाश्रौ; -पूवीः

a) वैतु. सा [तां २०, ५, २], विद्याधरः [काश्रौ २३, १, १५], MW. <ज्यैष्ठिनी- इति । b) = वीर्य-
मासी- । c) = ज्यैष्ठ-मास- । d) वैप १ द्र. । e) पामे. वैप २, ३खं. धृत्यै ऐत्रा ७, १८ टि. द्र. । f) विप. ।
वस. । g) उप. = सव्येतर- । h) ण्णाया इति पाठः ? ण्णाः पा इति द्विपदः शोधः (तु. शांगृ.) । i) °शब्दात्
इति जीसं. । j) = साम-विशेष- । k) उप. <√नै । l) सप्र. °सामगः <>°सामिकः इति पामे. ।
m) विप. । तदर्थात् इत्यर्थे ठन् प्र. उंसं. (पा ४, २, ६३) । °मक- इति MuI. पामे. । n) = एकाह- [याग-] ।
o) पूष. = अगारैकदेश- । p) विप. । त्रिपदः वस. । q) पाठः ? ज्यैष्ठ्यम्, अथ इति द्विपदः शोधः संभाव्येत् ।
r) पामे. वैप १ परि. ? अजीताः तै ५, ७, २, ४ टि. द्र. ।

आपश्रौ १९, २३, १०; वौश्रौ
१३, ६ : ७×४; माश्रौ.
१ज्योक्ति^a- -त्तयै आपश्रौ १३, ३, १.
ज्योता- , ०ति-, ०तिप्- √ज्युत् द्र.
ज्योतिपा^b- -पायाः विध ८५, ३३.
ज्योतिपिक- ०पी-मत्- . ज्योतिस्-
ज्योत्स्न- √ज्युत् द्र.
१ज्योत्स्नस्य वाश्रौ ३, ४, १, ४३.
ज्योत्स्ना- √ज्युत् द्र.
ज्योन्ताक- पाउभो २, २, १४.
ज्यौतिप- , ०पिक- प्रमृ. √ज्युत् द्र.
√जि पाधा. भ्वा. पर. अभिभवे;
चुरा. उभ. वयोहानौ, ज्रयति
निघ २, १४०.
√ज्व^d पाधा. भ्वा. पर. रोगे.
ज्वर^e- पाग ५, २, ३६; ६, १, १९९;
-रः कौस् १३, १२; अप ३६,
८, १; -रम् अप ५३, ५, १;
शंघ ११६ : २१^f; -राय हिण्य
२, १९, ६^g; -रेण अप ३६,
१०, २.
ज्वर-गृहीत- -तानाम् वौश्र ३,
७, २७.
ज्वर-इ(त>)ता- -ताम् वैश्रौ
१२, १४ : ६.
ज्वरा(र-आ)गम- -मम् अप ६८,
२, ४०
ज्वरित- पा ५, २, ३६.
√ज्वल् पाधा. भ्वा. पर. दीती,
ज्वलते अप २९, २, १×४;
ज्वलति आपश्रौ १६, ११, २;
भाश्रौ; ज्वलन्ते अप ६७, ४, ३;
ज्वलन्ति अप ७०^h, २१, २; ७०^h,
११, ७; ज्वलतु वैश्रौका २१५;

भाण्य २, ३१ : १^h; ज्वल्युः
अप ७१, १९, ५.
ज्वलिष्यन्ति पावा १, ४, २३.
ज्वलयन्ति आपश्रौ १३, १५, ४;
अप ५८^h, १, ४; ज्वलयेरन् वौश्रौ
२६, १२ : २३.
जाज्वलयमान- -नम् या ५, ३.
ज्वल- पा ३, १, १४०.
ज्वलत्- -लत् हिश्रौ ३, ७, ४७^h;
-लतः आश्रौ २, ५, ९; ३, १२,
९; आपश्रौ; -लता आश्रौ २,
३, ७; आपश्रौ ६, ६, ६; आपण्य
१, २२; -लताम् अप ७०^h,
२०, ५; -लति माश्रौ १, ३, १,
५; वाधुश्रौ ३, ३२ : १; -लसु
काश्रौ १६, २, ११; वौश्रौ २३,
९ : ७; -लन् वैश्रौ २, ६ : ९;
आपध २, ६, ३; हिघ; -लन्तम्
आश्रौ २, २, १; काश्रौ.
ज्वलन्ती- -न्तीम् माश्रौ १, ६,
१, ३६; वाश्रौ १, ५, २, ३४;
वौध २, १, १३; विघ; -लन्त्यः
आपध २, २४, १३; हिघ २, ५,
१७७; -न्त्याम् आपश्रौ ६,
१०, ३; हिश्रौ ३, ७, ६३; गोण्य
४, ८, १६.
ज्वलति-> ०ति-कर्मन्- -र्मणः या
२, २०; ६, १; १३; ८, ११; ११,
३९; -र्मणः निघ १, १६; या
२, २८.
ज्वलन्^b- पा ३, २, १५०; -र्नः
अप १, ३७, १; अशां ७, १; -नम्
अप ६४, ३, ९; ७०^h, ११, १८;
मीसू १०, १, ५७; -नानि अप

६४, ६, ३; -ने अप ७१, १, ५;
-नेन या ६, २५.
ज्वलन-क्रिया- पावा १, ४, २३.
ज्वलन-च्छ(व>)वा^l- -वा अप
५०, ९, २.
ज्वलन-मरण-काल-वृद्ध-योग-
नाम् अप ६८, ३, ११.
ज्वलन-रवी(वि-इ)न्दीवर-करण्ड-
तपनीया(य-अ)र्कंदिय-हरिताल-
नीलोत्पल-घृत-मधु-अन्धुजीवक-
जपापुष्प-किंशुक-राशि-
संनिका(श>)शा- -शा अप
६५, २, १.
ज्वलन-वहन- -नौ माण्य १,
१०, ७.
ज्वलना(न-अ)र्क-सम- -मः वाच
२७, ९.
ज्वलयत्- -यन्तः वौश्रौ २, १६ :
५; १०, १९ : १४.
ज्वलित,ता- -तः या १, १७; -तम्
अप ६८, ५, १; -ताम् आपध
१, २५, २; हिघ १, ६, ७६; -ते
द्राण्य ४, ३, ४; अप ७०, ७, २.
ज्वलिता(त-अ)ङ्गार-कुण्ड-
-ण्डाः शंघ ३७४.
ज्वलिता(त-अ)ङ्गार-संका(श-
>)शा- -शा अप ५८^h, ३, ७.
ज्वाल,ला- पा ३, १, १४०; -ला
आमिण्य ३, ६, ४ : ८; वौपि १,
१३ : ८; अप २३, १२, २×४;
-लाः अप ७०^h, ४, ४; -लान्
माश्रौ १, २, ३, २९; वाश्रौ १, ३,
१, २६; -लाम् वैश्रौ २, ५ : ६;
-लैः आपश्रौ १, २५, ९.

a) स्त्री. नाप. । अर्थः व्यु. च ? । < ज्योक् इति MW. । b) = नदी-विशेष- । व्यु. ? । c) गतौ
वृत्तिः । d) पा ६, ४, २० परामृष्टः द्र. । e) = रोग-विशेष- । f) = ज्वराधिदेवता- । g) = व्याहृति-विशेष- ।
-सम्. आपश्रौ ६, ८, ३ पृथक् इति पाभे. । h) भावे कर्तरि च कृत् । i) विप. । वस. उप. छवि- + समासान्तः
अच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ७५) ।

ज्वाल-भार- -रैः अप २४, ४, ४.
ज्वाला(ला-अ)प्र- -प्रैः अप
७०^३, ३, २.

ज्वाला(ला-अ)ङ्कुश-धर- -राः
अप ५२, १३, १.

ज्वाला(ला-अ)द्भुत- -तानि
अप ६९, ६, १.

ज्वाला-पिण्ड- -ण्डः याशि २,
९१; -ण्डान् याशि २, ९३.

ज्वाला-भङ्ग- -ङ्गम् अप ३६,
३, २.

ज्वाला-भार-विसर्पि(न्)गी-
-ण्यः अप ५८^३, २, २.

ज्वाला-मा(ला)ल- -लाः अप
५२, ३, ५.

ज्वाला-माला(ला-आ)कुल-
-लः अप २४, ३, ४.

ज्वाला-मुख-भयान(क)का-
-काः अप ३६, २५, ३.

ज्वाला-रूप- -पेण अप ७०^३, २, ३
ज्वाला-विमु(चि)ची^०- -ची
अप ७०^३, ११, ३०.

ज्वालविधा अप ३६, २५, १.

√ज्वसेन^० शांय ३, ८, ३.

झ

झगिति झटिति टि. द्र.

झञ्झा- पाठभो २, २, ९३.

झटिति^० पाग १, १, ३७^०.

√झर्झ^० पाधा. तुदा. पर. परिभाषण-
भर्त्सनयोः.

झर्झर- पाठभो २, ३, ३५.

√झप्^१ पाधा. भ्वा. उभ. आदानसव-

रणयोः.

ज

जर्- > ज-कार- -रः शौच २, १०;
-रम् ऋप्रा ४, ६.

ट-ठ

टर्- > ट-कार- -रात् शौच २, ८.

टकार-नकार- -रयोः ऋप्रा ४, १७

टकार-वर्ग- -र्गम् ऋप्रा ५, ११.

टकारा(र-आ)दि- -द्वयः याशि
२०१.

टकारा(र-अ)न्त- -न्तम् उस्
७, २०; -न्तात् शैशि ३०७;

-न्ते माशि १४, ३; याशि १,
६२; २, ३७.

टन-कार- -पूर्व- -र्वैः तैप्रा ५, ३३.

टवर्ग- -र्गैः शुप्रा ८, १०; तैप्रा १४,
२०; -र्गस्य शौच २, ३९; -र्गैः
तैप्रा २, ३७; भाशि ४१.

टवर्ग-पर- -रः तैप्रा १३, ११.

टवर्गीय- -यम् उस् ५, १; -ये
शौच २, १२.

टा(ट-अ)न्त- -न्तम् ऋत ४, ५, ४.

√टङ्क् पाधा. चुरा. पर. वन्धने.

१टङ्क्^० पाग २, ४, ३१.

२टङ्क्^१ > टाङ्क् - ङ्गम् विध २२, ८३.

√टल् पाधा. भ्वा. पर. वैकल्ये.

√टिक् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

टिक्^० (> टैकेय- पा.) पाग ४, १,
१२३.

टिट्ठिभ- पाठभो २, २, २३४.

√टीक् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

!टीकाः हिश्री २२, ३, १९.

टेक^१ -कः हिद्य २, ७, २१.

टोट- (> थि- पा.) पाग ४, १, ४१-

√ट्वल् पाधा. भ्वा. पर. वैकल्ये.

ठर्- > ठ-कार- -रेण याशि २, ८८.

ड

ड, ळ^०-ळः, डम् तैप्रा १३, १६.

ड-कार- -रः ऋप्रा १, ५२; शैशि १४;

-रम् शुप्रा ३, ४५; -रस्य ऋप्रा

१, ५१.

ड-ड- -डयोः शैशि २२; -डौ शुप्रा

४, १४६.

ळ-कार- -रः ऋप्रा १, ५२;

-रेण उस् ७, २०.

ळ-ळह- -ळहौ शुप्रा ४, १४६.

√डप्^१ पाधा. चुरा. आत्म. संघाते.

डमर- पाठभो २, ३, ३९.

√डम्प √डप् टि. द्र.

डम्वर- पाठना ३, १.

√डम् √डप् टि. द्र.

डहर- पाठभो २, ३, ३९.

डहल्^० (> डहल्-पा.) पाग ५, ४, ३८-

डाक^१ (> डाकि(न्)नी- पावा.)

पावाग ४, २, ५१.

डामर- पाठभो २, ३, ३९.

डिकम् पाग १, ४, ५७.

डिण्डिम- पाठभो २, २, २५१.

डिण्डीर- पाठभो २, ३, ५०.

√डिप् पाधा. दिवा. तुदा. पर. क्षेपे;

चुरा.^० आत्म. क्षेपे, सङ्घाते.

√डिम्प √डिप् टि. द्र.

डिम्व- पाठभो २, २, २२२.

a) विप. । उस्. । b) पाठः ? पाभे. वैप १ सवसुम् मा ३, ६१ द्र. । c) तु. पागम. । d) झगिति

इति केचित् । . . e) √जर्झ इति [पक्षे] BPG. । f) √ऋप् इति [पक्षे] BPG. । g) = वर्ण-विशेष- ।

ढ > ढ इति ऋप्रा. प्रभृ., ढ > ढ इति तैप्रा. । h) = पापाण-छेदन- (तु. पागमं.) । व्यु. ? । i) = कपित्य-विशेष- ।

व्यु. ? । j) = बालप्रह-विशेष- । व्यु. ? । k) √डम्प, √डम् इत्यधिकः BPG. । l) डूक- > डूकिनी-

इति [पक्षे] भाण्डा. । m) √डिम्प, √डिम्म् इति [पक्षे] BPG. ।

✓डिम्म् ✓डिप् टि. द्र.

✓डी पाधा. भ्वा. दिवा. आत्म. विहाय-
सागतौ, डीयते निघ २, १४१.

डुपद^b- (> डौपदायनि- पा.) पाग
४, २, ८०.

डुमल- पाडभो २, ३, १२०.

डुल-(>डुल्य- पा.) पाग ४, २, ८०.

डूक-(>डूकित्>|नी-)|डाक-टि.द्र.

ढ

ढ, ळ्ह^b->ढ-कार- -रः ऋप्रा १, ५२

ळ्हकार-ता- -ताम् ऋप्रा १, ५२.

ळ्ह-ळ-जिह्वामूलीयो (य-उं)पध्मानी-

य-नासिक्य- -क्याः शुप्रा ८, ३५.

✓ढौक् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

ण

ण^b->ण-कार- -रः शौच २, १२;

-रम् शुप्रा ३, ८४; तैप्रा ७, १;

१३, ६; -रस्य माशि १४, ३;

-रे माशि १४, ३; -रेण शैशि

७१; याशि २, ८९.

णकार(र-ऋ)कार- -रौ शुप्रा १,

८८.

णकार-पकारा(र-आ)देशा(श-

आ)दि- -देः पावा ६, १, १; ४,

१२०.

ण-य- -थौ अप्रा ३, २, २३.

त

श्त^b->त-स-ल- -लाः ऋत २, १, ७.

रत्^c- पि १, ५.

श्त^b->त-कार- -रः ऋप्रा ४, १०;

शुप्रा ४, १३; तैप्रा ५, २२; ३३;

अप्रा; -रम् ऋप्रा ४, १७;

-रस्य शौच २, १३; -रात् ऋप्रा

१२, २; -रे ऋप्रा ५, ३१; शुप्रा

३, ८०; याशि १, ६२; पावा ७,

२, ४८; ३, ३२; -रेण शौच २,

८; -रौ माशि १४, १.

तकार-नकार- -रयोः शुप्रा ३,

१११.

तकार-पर- -रः तैप्रा ६, ५; १४.

तकार-वर्ग- -र्गः ऋप्रा १, ४४;

५, ११; शुप्रा ४, ९६.

तकार-सकार- -राभ्याम् शौच

४, ४७.

तकारा(र-आ)दि- -दयः याशि

२, १; -दौ शौच २, ८३; ४, ६१.

तकारा(र-अ)न्त^d- -न्तः अप्र

३४, १, २; -न्तम् अप्रा १, १,

२; -न्तानि अप्रा २, ४, १८; ३,

२, ३; -न्ते अप्रा २, ४, १५;

माशि ४, १०; १४, ४; याशि २,

३५; ३९.

तकारा(र-आ)वाध- -धे अप्रा २,

३, २१; ३, ३, १९.

तकारे(र-इ)त्व- -त्वम् पावा १,

२, १७.

त-च- -चयोः शैशि २२१.

त-त्व- -त्वे पावा ७, ४, ४७.

त-त्व-निपातना(न-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा ६, ४, १७४.

त-त्व-प्रतिषेध- -धस्य पावा ६,

४, १७४.

त-थ- -थयोः शुप्रा ३, ८; १३५;

-थौ शुप्रा ३, ७९; शैशि ३०८.

त-पर^e- -रः पा १, १, ७०; भाशि

८२; -रम् पाप्रवा ६, १; -रे

उस् ५, २.

त-पर-करण- -णम् पावा ७, १,

९०; पाप्रवा १, १४; -णे पावा

१, १, ७०; ४, १०९.

त-पर-निर्देश- -श्वात् पावा १, १,

६९; २, २७; ८, ४, ६८.

त-पर(र-उ)चारण- -णम् पाप्रवा

४, १.

त-पर(र-उ)पदेश- -ज्ञः पाप्रवा

४, १.

त-म- -मौ अप्रा ३, २, १४.

त-य-कार- -रयोः उस् ८, ३.

त-लोप- -पः शुप्रा ३, ५२; पा ४,

३, २२; पावा ६, १, ६७; -पस्य

पावा ६, ४, १०४; -पे पावा १,

१, ६३.

त-लोप-वचना(न-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा ४, ३, २२.

त-वर्ग- -र्गः शुप्रा ८, ११; -र्गस्य

अप ४७, २, १; -र्गे शुप्रा ३,

९३; तैप्रा २, ३८; अप्रा ३, ३, ३.

त-वर्ग-पर^d- -रः तैप्रा १४, २०.

त-वर्ग-प्रतिषेध- -धः पावा १,

३, ४.

त-वर्गीय- -यम् उस् ५, १; -यस्य

शौच २, १५; -यात् शौच २, १७.

त-वर्ण-लोप- -पः अप्रा १, २, १६.

त-स- -सौ अप्रा ३, ३, २१.

त-स-वर्ण- -र्गम् याशि २, ४१.

ता(त-आ)दि- -देः पावा ६, ४, १४९;

-दौ ऋत ५, २, १०; पा ६, २,

५०; पावा ६, २, ५०; ८, ३, ४१;

१०१.

ताद्य(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६,

२, ५०.

तो(त-उ)प(धा>)ध- -धात् पा

४, १, ३९.

२त्, ता- तद्- द्र.

✓तंस् पाधा. भ्वा. पर.; चुरा. उम-

अलंकारे, षडतंसयत् आश्री १०.

a) तु. पाका. । हुपद- इति भाण्डा. । b) =वर्ण-विशेष- । ढ>ळ्ह इति । c) =तगण- ।

d) विप. । वस. । e) विप. । पसं. वा वस. वा । f) तु. BPG. ।

८, १०; शांश्री १६, ४, १; तैप्रा १६, १३; भाशि ६१.
 √तक्^१ पाधा. भ्वा. पर. हसने, तकति निघ २, १४^१; या ६, २२^२.
 तकितुम् या ९, ३.
 तक्य- पावा ३, १, ९७.
 ऋतक्नु^३ -क्वा अप ४८, ८३; निघ ३, २४.
 तक पाग १, ४, ५७.
 तका- तद्-द्र.
 ऋतकरी^४ -रीम् आपश्री ९, १९, ३; वौश्री १४, १४ : २०; वैश्री २०, ३७ : ७; हिश्री १५, ८, १७.
 त-कार- प्रम्. १त-द्र.
 तकिला- पाउवृ १, ५७.
 तक्कोल- पाउनावृ १, ६३.
 ऋतकमन्^५ -कम अप ४८, ८७; निघ २, २; या ११, २५^६; -०कमन् अप्रा ३, ३, ३; -कमा अत्र ११, २; -कमानम् कौसू २९, १८; अप ३२, १, ७; अत्र ५, २२; अपं २ : ५०.
 तकमनाशन^६ -नः अप ३२, १, ७; -नम् अत्र ५, ४; २२; -नानि अप ३२, १, ७.
 तकमनाशन-गण- -णस्य अत्रभू २.
 तकमनाशन-देवता- > ०वत्य- त्यम् अत्र ५, २२.
 तकमा(कम-अ)पवाध- -धाय अत्र ५, २२^७.
 तक्र^८ - पाउ २, १३; पाग ७, २, ५३^८; -क्रम् शंघ १४०; १८१; -कं

पाशि १९; -कं शैशि २२८.
 √तक्^९ पाधा. भ्वा. पर. तनूकरणे, त्वचने, तत्तति आपश्री १४, ५, ८; वाश्री १, ६, १, १५; कौसू ८, १२; तक्षत् सात्र १, ५३^९; ऋतक्नु आश्री ५, १८, ५; शांश्री ८, ३, १४; तक्षत^१ या ४, १९^१; अतक्षन् शांश्री ८, २०, १^२.
 तक्ष्णोति हिश्री ४, १, ३०; तक्ष्णयुः लाश्री ८, ८, १२.
 ऋततक्ष कौसू ७६, ३२; अत्र ११, ५; १४, २; ततक्षुः वृदे ३, ८७^३; या ६, २७^४; ततक्षथुः या ४, १९; तक्षथुः या ४, १९^५.
 तक्षयति वैश्री १०, २ : ८; तक्षयेत् अप १, ९, १०.
 तक्ष- > तक्ष-क^६ - पाउ २, ३२; -०क आपमं २, १७, ९; -ऋकः वौश्री १७, १८ : ३; वौगृ ३, १०, ६; वैध ३, १४, १०^७; अत्र ८, १० (४); १४; -ऋकाय कौगृ ४, ४, ९; शांगृ ४, १८, ३; भागृ १, ८ : २; ङकौसू २८, १; २९, १; ३२, २०; ५६, १३.
 तक्षक-देवता- > ०त्य- त्यम् अत्र ४, ६, ५, १३; ७, ८८.
 तक्षक-दैवत- -तम् अत्र ६, १२; १०, ४.
 तक्षका(क-अ)न्न^८ - न्नम् विघ ५१, ८.
 तक्ष-शिला^९ - पाग ४, २, ८२; ८६; ३, ९३.

ताक्षशिला- पा ४, ३, ९३.
 तक्षशिला-वत्- पा ४, २, ८६.
 तक्षो(क्ष-उ)पतक्ष- -क्षाम्याम् कागृ ५४, २; कौसू ७४, ८; विघ ६७, ५^{१०}.
 तक्षण- -णम् काश्री २२, ६, १०; वौध १, ५, २९; सुघ; -णात् शंघ १६४; वैध ३, ३, ११; -णानाम् हिश्री ४, १, ३६^{११}; -णेन विघ २३, ४; २७.
 तक्षण-शस्त्र- -स्त्रम् भाश्री ७, १, ३.
 तक्षत्- -क्षतः विघ ९६, २३; -क्षन् ऋत्र २, १, १११^{१२}.
 तक्षती- -ती या ११, ४०^{१३}.
 तक्षन्^{१४} - पाउ १, १५६; पाग ४, १, ४१; ११२; १५१^{१४}; पागवा ४, २, ९१; ६, ४, १५३; -क्षम्यः आपश्री १७, ११, ४; -क्षा आपश्री ७, १, १३; ९, ९^{१५}; वौश्री; शुत्र १, १७५^{१६}; या १, १४; -क्षानः वौश्री १५, १३ : १४; -क्षानम् वौश्री ४, १ : १३; -क्षः आपश्री १८; १०, १९; वौश्री; पा ५, ४, ९५; पावा ४, १, १५३; -क्षणाम् वाघुश्री ३, ७६ : ४; -क्षिण शांश्री १६, ११, ११; -क्षणे हिश्री ४, १, १०.
 तक्षणी- पा ४, १, ४१.
 १ताक्षण- पा ४, १, ११२;
 पावा ४, १, १५३.

a) या ११, २५ परामृष्टः द्र. । b) गतौ वृत्तिः । c) वैप १ द्र. । d) व्यु. पागे. च वैप १, १४०१८, f द्र. । e) ष्ययो इति पाठः? यनि. शोघः । f) = उदशिवत्- व्यु. ? < √तन् इति पाठः । g) तत्र- इति [पत्ते] भाण्डा. । h) या ४, १९ पा ३, १, ७६ पावा ३, १, २६ परामृष्टः द्र. । i) कारणे वृत्तिः । j) = वर्णसङ्कर- विशेष- । k) पूष. = वर्धकि- । l) = नगरी-विशेष- । पूष. अर्थः ? । m) भक्ष्योपभक्ष्याभ्याम् इति जीसं. ? (तु. कागृ. प्रम्.) । n) = काष्ठ- । o) तु. पागम. । p) = ऋषि-विशेष- ।

रता(दण>)क्षणी^१-
 -क्षणीनाम् शाश्रौ २,३,१४.
 ताक्षण्य- पा ४,१,१५१.
 तक्षकीय- पा ४,२,९१.
 ताक्षक- पा ६,४,१५३.
 तक्ष-रथकार- -रयोः आपश्रौ
 १८,१०,१७; हिश्रौ १३, ४, ८;
 -रौ हिश्रौ १३,४,८.
 तक्षणुवत्- -वन् या ५,२१.
 तण्ड- -टस्य वाश्रौ १,६,३,१४; -टे
 आपश्रौ ११,१३, १; हिश्रौ ७,
 ६,२८; -ष्टेषु या १३,१३१.
 तण्ड- -तृया आश्रौ ७,४, ९; शाश्रौ
 १२,५,३; ऋश्र २, ३, ३८; या
 ५,२१.
 तगर^२- पाठभो २,३,३९^०; पाग ४,
 ४,५३; -रम् अप ३५,१,१४;
 २,३;९.
 तगरिक- पा ४,४,५३.
 तगरो(र-उ)शीर- -रेण कौसू १६,१.
 √तङ्क् पाधा. भ्वा. पर. कृच्छ्रजीवने.
 तङ्क- पाग २,४,३१.
 √तङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 तङ्ग(ण>)णा- पाठभो २,२,१२४.
 तच्च- १त-द्र.
 √तञ्च् पाधा. भ्वा. पर. गतौ;
 -रथा. पर. संकोचने^३.
 √तञ्ज् √तञ्च् टि. द्र.
 √तट् पाधा. भ्वा. पर. उच्छ्वाये.
 तट^४- पाठनाट्ट ४, ११६^१; पाग ४,१,

४१; ५,२,१३५.
 तटी- पा ४,१,४१.
 तटि(त्>)नी- पा ५,२,१३५.
 तटाक^५- पाग २, ४, ४१; -कम्
 आमिष्ट २,५,११ : ६; -के वैग
 ४,१० : ११.
 तटाक कल्प- -ल्पम् आमिष्ट २,
 ४,३ : १.
 तटित्^६- पाठना १,९५^१.
 √तट्, ष् पाधा. चुरा. उभ. आघाते,
 भाषायाम्, ताडयति आमिष्ट
 २, ४, ९ : १४; या ३, १०;
 ताडिह निघ २, १९^१; ताड-
 येत् आमिष्ट २, ४, ७ : ११;
 विघ ५, १०५; ७१, ८१.
 ताड्यन्ते विघ ४३, ३८; ४२.
 तडि- पाठ ४, ११८.
 ताड->ताड-घ- पा ३, २, ५५.
 ताडन- -नम् शंघ ३१३; वैध ३,
 ३, ७.
 ताड्यमान- -नाः विघ ४३, ३७.
 तड- २तनु- टि. द्र.
 श्ताडाक^७-(>ताडाक- पा.)पाग ४,
 १, ११२.
 श्ताडा(क>)का- पाठ ४, १५.
 तडाग^८- पाठभो २, २, ५८; पाग २,
 ४, ३१; -गम् अप ७१, १२, ५;
 -गानाम् अप ७०^३, ७, २२; -नो
 अप ४२, १, २; ३; वैध २,
 १३, ८.

तडाग-कर्व- -सुं अप ४२, १, ३.
 तडाग-कूप- -पान् अप ६५, २, ५.
 तडाग-कृत्- -कृत् विघ ९१, २.
 तडागा(ग-आ)राम-कूप- -पानाम्
 अप ६८, २, ३०.
 तडि- √तट् द्र.
 तडित्^९- पाठ १, ९८; -डित् ऋष
 ४८, १९; ७३^२; ऋनिघ २, १६;
 १९; या ३, १०; ११^१फ.
 तडित्-प्रकाश- -शो विघ ९९, ९.
 तडुल- पाठना ५, ८.
 तणाधीतासम्^{१०} वाश्रौ ३, ३, ३,
 १३.
 √तण्ड् पाधा. भ्वा. आत्म. ताडने.
 तण्ड^{११}- पाग ४, १, १८; १०५.
 ताण्ड्य- पा ४, १, १०५; पाग
 ४, ३, १०४; १०६^६; -ण्ड्यः जैश्रौ
 १ : १८.
 ताण्ड^{१२}- -ण्डम् लाश्रौ ७,
 १०, १७.
 ताण्डक^{१३}- -कम् आपश्रौ २१,
 १६, ५; १४; हिश्रौ १६, ६, २;
 ऋश्र २, ७, ३२; अश्र २०, ७९.
 ताण्डिन्^{१४}- पा ४, ३, १०४;
 १०६; -ण्डिनः आपश्रौ २४,
 १०, १८; हिश्रौ २१, ३, १८;
 उनिस् १, ४२; ४९; ८, २९; पि ३,
 ३६; -ण्डिनाम् वौश्रौप्र २६; २.
 ताण्डिनाम्-अयन^{१५}- -ने
 वौश्रौ २३, १९ : ३५.

a) = इष्टि-विशेष-। तस्येदमीयः अण् । b) = सुगन्धिव्य-विशेष-। व्यु. ? । c) <√तङ्ग् इति ।
 d) √तञ्ज् इति [पक्षे] BPG. । e) = तीर-। व्यु. ? । f) <√तम् इति । g) = जलाशय-। व्यु. ? <
 तट- + √अक इति अभा. । h) = तडित्-। व्यु. ? । i) <√तट् [आघाते] इति । j) लटि मपुत्र इति दे. ।
 k) व्यप. । व्यु. ? । l) = जलाशय-। व्यु. ? । m) वैष १ द्र. । n) पाठः ? तण्- + अधी-घास- (भाप.
 <अधि/घास [धारणे]) > वस. > °धा(स>)सा- (विघ. [आसन्दी-]) -साम् इति शोधः । o) = ऋषि-
 विशेष-। व्यु. ? √तण्ड् + अच् प्र. इति (पाका ६, २, ३७) । p) = तारडक-। अण् प्र. उस्. इति ततो विशेषः ।
 q) = तारण्य-ब्राह्मण-। तस्येदमीयः बुञ् प्र. यलोपश्च (पा ४, ३, १२६; ६, ४, १५१) । r) = ताण्ड्य-शखिन- ।
 s) = सत्र-विशेष- ।

ताण्डि-भाल्लविन्-

-विनाम् नाशि १, १, १३; भास् ३, १५.

ताण्ड्याच(न>)नी- पा ४,

१, १८.

तण्डक^a- पाग २, ४, ३१.

तण्ड-वतण्ड- पा, पाग ६, २, ३७.

तण्डि^b- णिडः वौश्रौप्र ३१ : २३.तण्डिन्^{c,d} (>ताण्डिन्य- पा.)

पाग ४, १, १०५.

तण्डु- पाठभो २, १, ५१.

तण्डुल^e- पाठ ४, १०७; ५, ९; पाग

२, ४, ३१; ५, १, ४; -लः अशां

१२, १; -लम् आमिगृ २, ३, ३ :

१८; ५ : २; २४; -लाः आपश्रौ

१, ८, ५××; वौश्रौ; -लान्

काश्रौ २, ५, ६; १५, ३, २८; २५,

४, ३८; आपश्रौ १, २०, ११; २१,

२१^f; ××; वौश्रौ; -लानाम्

वौश्रौ २६, ६ : ६; भाश्रौ; -लेन

वैगृ ४, २ : २; -लेषु भाश्रौ १,

२१, ८; वैश्रौ; -लैः काश्रौ ४,

१५, २३; आपश्रौ.

तण्डुल-किण्व- पाग २, २, ३१.

तण्डुल-चर्मन्^g- मर्मागि वौश्रौ १५,

१६ : ३.

तण्डुल-प्रक्षालन- नम् वौश्रौ १,

६ : ३०; भाश्रौ १, २२, १२.

तण्डुल-प्रक्षेप- नः अप ३६, १९, १.

तण्डुल-भाव- न्वात् मीस् ५, २,

१५.

तण्डुल-भूत- न्तेषु आपश्रौ ९, ४,

८; ११; मीस् ६, ५, १६.

तण्डुल-मिन्न- श्रम् कौस् २२, ७.

तण्डुल-संपात- नान् कौस् २१, २४.

तण्डुला(ल-आ)दि- दि कप्र ३,

५, ३.

तण्डुला(ल-अ)पनय- नः काश्रौ

२५, ४, ४१.

तण्डुला(ल-अ)भाव- न्वात् अत्राय

५, ३; -वे आश्रौ १, १४, २.

तण्डुलीय-, ंलय- पा ५, १, ४.

तत्- √तन् द्र.

१तत्^e- पाग ५, ४, ३८^d; -तं०त

आश्रौ २, ६, २४; शाश्रौ; -तः

या ६, ५^fर्ण; -तस्य कौस् ८८,

१०; -तंताः पागृ १, ५, १०;

कौस् ८८, २४; -०ताः आमिगृ

१, ५, २ : ३४^f; -तान अत्र ५,

२४; -तंताय वौश्रौ २, १० :

२१; आमिगृ ३, १, ३; २४; २, ३ :

१४; -ते आपश्रौ २१, १९, १५.

तात- पा ५, ४, ३८.

२तत्-, ततन- प्रवृ. √तन् द्र.

ततस्(:) तद्- द्र.

तंतामह^e- हस्य कौस् ८८, ९; -हाः

पागृ १, ५, १०; कौस् ८८, २४;

अप ४६, ५, ५; अत्र ५,

२४; अप्रा ३, ४, १; -०हाः

आमिगृ १, ५, २ : ३४; कौस्

८८, २५.

तति- √तन् द्र.

ततुरि- √तृ द्र.

ततृपाण- √तृप् द्र.

तत्तन्त अप ४८, १०७^f.तत्त्व^h- च्चम् पावाग ४, २, ३७^f;

अप ५१, १, १; ६८, १, ५५;

वृदे ८, १३०; मीस् १, ३, २७;

९, ३, २९; १०, २, ७२; -च्चात्

या १, २; -त्त्वेन अप २६, १,

१; ७१, २, ३; वृदे ३, ३९;

माशि १५, ३; १६, १६; -त्त्वैः

विष ९७, १.

तत्त्व-चिन्तक- क्तैः विष ९७,

१५.

तत्त्व-ज्ञ- ज्ञैः अप ५२, ६, ४.

तत्त्व-तस्(:) अप ३९, १, १; ६८,

३, १; २; वृदे ३, १३४; ४, ४७;

आज्यो १४, ११.

तत्त्व-दर्शिन्- शिभिः हिपि १९; ३;

ऋअ ४, ११; वृदे १, १०.

तत्त्वा(त्त्व-आ)ख्यान- ने पावा ३,

२, १२६.

तत्त्वा(त्त्व-आ)त्मन्ⁱ- त्मानम् विष

९७, १७.

तत्त्वा(त्त्व-अ)र्थ-चिन्तक- काः

याशि १, ६०.

तत्य- √तन् द्र.

√तत्र^k, तत्रते अप ४८, ९^f.

तत्र तद्- द्र.

तत्रु- पाठभो २, १, २०.

तत्त्व- १त- द्र.

तत्त्वज्ञाति-, तत्त्वाय √तन् द्र.

त-थ- १त- द्र.

तथा तद्- द्र.

तथा पूत ह्यातन वैगृ १, ९; ४^f.तद्^e-

२त, ता- तम् आश्रौ ६, ३, २२;

शाश्रौ १, १, २१; आपश्रौ १,

a) = ग्रन्थ-विशेष- (तु. पागम.) । तेन प्रोक्तमित्यर्थे बुन् प्र. उत्सं. (पा ४, ३ १०१) । b) व्यप. व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । d) तु. पागम. । e) वैप १ द्र. । f) तु इति पाठः ? यनि. शोधः । g) उप. = [चर्म-मय-] मान-पात्र- । h) वैप ३, ३ ३९ त द्र. । i) तु. पाका. । j) विप. । वस. । k) धा. अर्थः ? । l) पाठः ? लक्षानुहो नखतन (ऋ १०, ५३, ७) इति ८. समाधायुकः ? ।

३,८; २,१३,१; वीश्री १०,१ :
 १२; माश्री; हिय २, १३, १३^१;
 पा ५, १, ८०; तम्स्तम् वीश्री
 २५, ३० : ५; वैताश्री ३३, १;
 आपश्रु ७, २; तथा आश्री २,
 २, ४^१; ३, २५; शांश्री २, ६,
 ७^१; आपश्री १, २, २; ६, १,
 ८^१; माश्री; हिय २, ११,
 १^१; तयोः आश्री १, ५,
 ७; आपश्री; पा ५, ३, २०; ८,
 २, १०८; पा ३, १३२; ५,
 ३, २०; तयोःस्तयोः ऋप्रा ११,
 ५८; तस्मात् आश्री २, २, ३^१;
 आपश्री; तस्मिन् आश्री १, ७,
 ७^१; काश्री; तस्मै आश्री १,
 ११, १५^१; शांश्री ९, २८, ३^१;
 आपश्री; आपमं २, ११, २^१;
 शांश्री १, २२, ८^१; तस्मैस्तस्मै
 आश्री २, ६, १६; माश्री २, ९, २;
 तस्य आश्री १, १, ८; काश्री;
 हिय २, ११, ४^१; कौश्रु ११७,
 ४^१; तस्यस्तस्य काश्री १७,
 ५, २१; आपश्री १, २३, ४; हिश्री
 ९, ८, ३८; ४०; ११, ७, ६२;
 अप ६८, १, ५१; तस्याः आश्री

१, ७, ८; शांश्री १८, २२, ७^१;
 आपश्री; या ११, ४१^१; तस्याम्
 आश्री २, १, ३३; आपश्री;
 तस्याम्स्तस्याम् अप ६४, २,
 ६; तस्यै आश्री १, १०, ८^१;
 आपश्री; तस्यैस्तस्यै आश्री ३,
 १३, १४; वीश्री २७, ३ : १०;
 आश्री १, १०, ६; ता आपश्री
 १३, १८, २^१; माश्री १, ८, २;
 १८^१; आपमं १, ६, १२^१; या
 २, ७^१; १४, २०^१; २३; ऋप्रा;
 तास्ता शांश्री १२, २१, १-६^१;
 ताः आश्री १, २, ८; आपश्री;
 कौश्रु ५, ३, ३१^१; अश्राय २,
 ९^१; ताश्च शौच १, १०५^१;
 तान् आश्री १, ३, १५; २, ६,
 २^१; ५, ५, २१; आपश्री; लाश्री
 ९, १०, १२^१; वीपि ३, ५, २^१;
 तानि आश्री २, १०, १६^१; शांश्री;
 तामिः आपश्री ४, ४, ४^१; हिश्री;
 आपमं २, २२, ७^१; ताम्यः
 आश्री ५, १, २; नाश्री; ताम्याम्
 आश्री २, ४, २१; काठश्री; या
 ७, २३; पा ७, ३, ३; ताम्
 आश्री १, ८, ७^१; आपश्री; पाश्रु

३, २, २^१; ताम्स्ताम् आश्री १,
 २, १७; ऋप्रा १७, २४; तासाम्
 आश्री १, ६, १; आपश्री; तासु
 आश्री ५, १, १५; लाश्री; १ते
 शांश्री १, ३, ५; १०, १५, २^१;
 काश्री; आपश्री ७, १०, ८^१;
 द्राश्री ९, १, १६^१; लाश्री ३,
 ५, १५^१; तेन > ना आश्री ३, ४,
 १२; शांश्री १, १, ८; ५, ८, ४^१;
 आपश्री; वैश्री १६, ७ : ६^१;
 आपमं २, १४, ५^१; आश्री ६,
 १५, १२^१; पाश्रु १, १६, ६^१;
 तेनस्तेन आपश्री १३, ६, ४; हिश्री;
 ऋतिभिः आश्री ३, १४, १०^१;
 काश्री; कौश्रु १, १२, ६^१; शांश्री
 १, १९, ६^१; तस्यः आपश्री ३,
 ४, ३; काठश्री; तेषाम् आश्री २,
 १४, ३; काश्री; शांश्री १, १९, ७^१;
 तेषु आश्री २, २, १६; ५, १७^१;
 आपश्री १, १२, १; ६, २७, ५^१;
 वीश्री; लाश्री ९, १०, ९^१;
 १०^१; आपमं १, ८, २^१; माश्री १,
 १४, ६; २, ११, १७; हिय १, २९,
 २^१; तेषुस्तेषु वीश्री ४, १, १;
 २, १; तैः आश्री २, १, २; आपश्री;

a) सपा. तम् <> त्वम् इति पाठे. । b) सपा. तथा <> त्वया इति पाठे. । c) पाठः ? त्वया
 इति शोधः (तु. आपमं २, १९, ७; Old. च) । d) पाठे. वैप १, १४१२ j द्र. । e) द्विः तस्य इति पाठः ?
 तस्याः इति शोधः (तु. C., Böht [ZDMG ५२, ८७]) । f) पाठे. वैप १, १४१४ f द्र. । g) पाठे. वैप १,
 १४१५ j द्र. । h) सपा. सत्या, ता <> सत्यादा इति पाठे. । i) पाठे. वैप १, १४१६ g द्र. । j) पाठे. वैप
 १, १४१७ b द्र. । k) वैप १, १४१६ h द्र. । l) शोधः वैप १, १४१७ i द्र. । m) ष्याः इति पाठः ? यनि.
 शोधः (तु. तैआ ६, ३, २) । n) सकृत् ता इति पाठः ? यनि. शोधः । o) शोधः पृ ३७ e द्र. । p) पाठे.
 वैप १ त्वा मां २३, ५२ टि. द्र. । q) ता इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. B.) । r) पाठे. वैप १, १४२१ e द्र. ।
 s) पाठे. वैप १ त्वा तै ५, ७, २, १ टि. द्र. । t) पाठः ? तम् इति शोधः [तु. C.] । u) पाठः ? तेत् (=ताः [आपः]-
 इत्) कृष्णन्तु इपमूर्जं रायस्पोषं तद्-विदे इति पादशोधः । v) पाठे. वैप १, १०६६ a द्र. । w) तेषु इति पाठः ?
 यनि. शोधः । x) पाठे. वैप १, १४१४ d द्र. । y) तेषु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. भै १, ७, १ । तै
 १, ५, १०, ४ तु तेषाम् इति पाठे.) । z) तेषुः इति पाठः ? यनि. शोधः । a¹) सपा. खि २, १०, ५ तैः इति
 पाठे. । b¹) पाठे. वैप १ पुत्राणाम् शौ ३, २३, ३ टि. द्र. । c¹) सपा. शांश्री ३, ५, ३ अन्येषु इति पाठे. ।
 d¹) सकृत् तेषु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा २२, ४९) ।

तौ आश्रौ १, ५, २९; आपश्रौ।
 त(क>)का- पा ७, ३, ४५;
 -काः काश्रौ १३, २, २६^३।
 त-तस्(ः) आश्रौ १, ५, ३३;
 शांश्रौ; अप्राय २, ५१^३; ततःऽ
 ततः अप ५८^२, ४, १९।
 ततो-बृहतीक- -कः शांश्रौ
 ११, १२, १।
 तत्र, त्रा आश्रौ १, १, ३; शांश्रौ;
 मीस् ३, ७, २९; तत्रऽतत्र वौश्रौ
 १९, ६ : ४, २६, ५ : २५; वैश्रौ।
 तत्र-ग्रहण- -णम् पावा ३,
 १, ९२।
 तत्र-चक्षुर-मनस्^१- -नाः
 गौष १, ५३।
 तत्र-जाता(त-आ)दि- -दिषु
 पावा २, १, २४; ४, ३, २५।
 तत्र-न्य^२- -न्यः शुभ्र ४,
 १२०; -त्येन वैष १, ११, २^३।
 तत्र-प्रकरण- -णे पावा ४,
 ३, ५३।
 तत्र-भव- -वेन पावा ४, ३,
 ३९; ५, १, ९६।
 तत्र-वचन- -नम् पावा ३,
 १, ९२।
 ?तत्र-लोक- -कात् हिपि
 १८ : २५।
 तत्र-स्य- -स्यः जैश्रौका ९;
 २०३; -स्याः अप्राय ३, १०;
 -स्यैः जैश्रौका २१०।
 रतया आश्रौ १, ३, १९; शांश्रौ
 १, २, २८; काश्रौ।
 तथा-काम- -मः निस् २,

४ : १५।
 तथा-कृत- -तेन वौश्रौ १४,
 २७ : ८।
 तथा(धा-आ)कृति^१- -तिम्
 काशु ४, ३।
 ?तथा-केतु-वसुन्धरा^२-
 -राम् अप ६८, २, २।
 तथा-गत- -तम् विध ७२,
 ६; -ताव ऋप्रा ३, १०।
 तथा-गुण^३- -णाः आपध २,
 २६, ५; हिध २, ५, २००।
 तथा-जात- -तः वौष १, ५,
 १४२।
 तथा-न्व- -त्वम् मीस् १, २,
 २३; ९, १, २८^३; १०, २, ३१।
 तथा-दृष्ट-त्व- -त्वात् आश्रौ
 १२, ४, ११।
 तथा(धा-अ)न्वय^४- -यम्
 आश्रौ २, १९, ५।
 तथा(धा-अ)पवर्ग^५- -र्नाः
 वौष १, ७, २।
 तथा-भाव- -वात् मीस् ९,
 ४, २५।
 ?तायाभाव्य^६- >
 रतायाभाव्य^६- -न्यः शुभ्रा
 १, १२०; साशि ७, १०; ८, १;
 याशि १, ७७; ८५; ८६।
 तथा-भूत- -तः याशि १, ८९;
 -तम् मीस् १०, ३, ४; -तस्य मीस्
 ९, ४, ३२; -तेन मीस् १०, ३, १०।
 तथाभूत-विवक्षा- -क्षा
 मीस् १०, ८, ३३।
 तथाभूतो(त-उ)पदेश-

-नाः मीस् ९, १, ५३; -शाव्
 मीस् ६, ३, १; ७, ३, ३४।
 तथा-मित- -तम् वैश्रौ १६,
 १ : १०।
 तथा-मुख^७- -त्वाः आपश्रौ
 ८, ७, २०; वैश्रौ १६, २४ : ७;
 -त्वाः गोगृ ४, २, ५।
 तथा(धा-आ)यत्- -तम् गोगृ
 ४, २, ४।
 तथा-युक्त, क्ता- -क्तम् ऋप्रा
 २, ३६; पा १, ४, ५०; -क्तात्
 शांश्रौ १३, १९, ९; १६;
 -क्ताभ्याम् आश्रौ ३, १, १७;
 -क्ताम् आपशु ५, ९; हिशु २,
 १८।
 तथा-रूप^८- -पम् वृदे ५, ८७;
 ६, ९४; ८, ६२; -पाम् वौश्रौ
 १५, १६ : ७; लाश्रौ ९, १२, १२।
 तथा-लिङ्ग-दर्शन- -नात्
 मीस् ३, ८, २३^१।
 तथा(धा-अ)वखा(त>)
 ता^२- -ताः गोगृ ४, २, १७।
 तथा-वादिन्- -दी विध ५,
 २७।
 तथा-वि(धा>)ध^३- -धम्
 विध ५८, १२।
 तथा-श्रुति- -तेः ऋष ३
 १३।
 तथा(धा-आ)सीन, ना- -नस्व
 वैश्र ३, १९ : ३; -नायाः वैश्र ३,
 १२ : ४।
 तथा-सूर्य^४- -र्नाः वौश्रौप्र
 ४१ : १६।

- a) पामे. पृ ५९४ e द्र. । b) भत इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. अप ३७, ५, २) ! c) भतव्यं इति
 जीसं. । d) विप. । वस. । e) भवार्थे ल्यप् प्र. (पा ४, २, १०४) । f) तत्रत्येन इति C. ।
 g) वा. ? । वस. > क्त. । h) तथा इति जीसं. । i) वस. वा. क्तिवि. । j) स्वाम्.
 प्यञ् प्र. । k) = स्वरित-विशेष- । मत्वर्थे सञ् प्र. (तु. भाष्यम् [याशि १, ८५]) । l) दर्शनात् इति कालिसं. ।
 m) व्यप. ।

तथा-स्वर^१-नम् लाश्रौ ७,
१०,२०; -राः लाश्रौ ७,५,३.
तदा आपश्रौ २२,७, २५; वैश्रौ;
पा ५, ३, १५; १९; तदाऽतदा
भाण्ड १,२५ : १७.
तदानीम् आपश्रौ ८, १३, १;
वौश्रौ; या १३, ४८; पा ५,३,
१९; पाग १,४,५७^b.
तमुद्गुहीय^c-यात् शाश्रौ १०,
११,१३.
तथा-देव(ता>)त^d-तम्
आपश्रौ १६,१४, १०; १५,१०;
वौश्रौ; -तेन आपश्रौ २४, ३,
१६; वौश्रौ २२,६ : १३; १६.
तथादेवत-सुददोहस-हसः
वौश्रौ २२, ६ : २०; ८ : ४;
-हसे वौश्रौ २२,४ : २८.
तहि आपश्रौ ६,२,९; वौश्रौ.
तद्-पाठभो २, १, २७०; पाग १, १,
२७०; ४, ५७; तत् आश्रौ १, २,
१; शाश्रौ; ऋआपश्रौ^f ६, २२,
१; ९, १२, १०; भाश्रौ ५,
१२, ११^g; माश्रौ २, ५, ५, १८;
जैश्रौ ८ : ३^h; हिण्ड १, ८, ३^f;
तत्तत्त या ३, १०; १०, १७.
तच्-चमस-सान् काश्रौ २०,
४, २९.
तच्चमस-ता-ता आश्रौ ५,
६, २५.
तच्-चरु-रुम् वैण्ड २, २ : १५.
तच्-चर्या-र्याः निस् ३, ३ :
३४.

तच्-चिकीर्षा-र्षा मीस् ६, ३,
१७; २७.
तच्-चोदक-केषु मीस् २, १,
३०.
तच्-चोदना-ना मीस् ८, ४,
१८.
तच्-छक्ति-विषय-ये आपध
१, ६, २८; हिध १, २, ५१.
१तच्-छन्दस->छन्दस्य^१-
स्यानि निस् ५, ५ : ४; ५.
२तच्-छन्दस^१-न्दसः शाश्रौ
१५, ९, ४.
तच्-छ^१, छा^१ न्दस^१-न्दसम्
जैण्ड २, ८ : १४; वौध ३, ९, ९^m.
तच्-छन्दस(क>)का-काभिः
कप्र ३, ८, २०.
१तच्-छन्द-व्दाः^m मीस् ५,
३, ५; -व्दात् काश्रौ २४, ४, १७.
ताच्छद्य-व्यम् पावा १,
३, ४३; ४, ३, ६६; मीस् ११,
१, ८; -व्यात्. मीस् ८, २, १.
२तच्-छन्द-व्दात् काश्रौ
१४, १, २४.
तच्छन्द-त्व-त्वात् मीस्
७, ३, ३२; १०, ४, ३२.
तच्-छमन-नम् अप ७०, ८, ५.
तच्-छिष्ट-ष्टम् वैश्रौ १३, ३ :
६; -ष्टेन वैण्ड ३, २२ : ६.
तच्-छील-लम् शंघ ३३३.
ताच्छीलिक-के पावा
४, १, १५.
ताच्छील्य-ल्ये पा ३,

२, ११; ७८; ६, ४, १७२.
ताच्छील्य-वयोवचन-
शक्ति-क्तिपु पा ३, २, १२९.
तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुका-
रिन्-रिपु पा ३, २, १३४.
तच्छीला(ज-आ)दि-दिषु
पावा १, ३, १०.
तच्-छुद्धि-द्धये कप्र १, ६, ८.
तच्-छेय-यः हिश्रौ १, १, ९;
मीस् १, ४, १९; -यम् वैश्रौ ९,
२ : २; जैण्ड १, १३ : ९; -वेण
आपश्रौ २४, ३, ५४; कौण्ड ३,
१३, ९; आमिण्ड २, ४, १० : २०;
वौध २, ८, ८.
तच्-छमश्रु-श्रुणा पावा ८,
४, ६३.
तच्-छापिन्^०-पिणः काश्रौ
२, ५, १८; ७, ६.
तच्-छुत-तेन मीस् ६, ६, १४.
१तच्-छुति-तिः मीस् ६, ३,
२०; -तौ मीस् ७, ३, १; १०,
१, ४०; ३, १६; ७, ६८.
२तच्-छुति^१->छुति-त्व-
त्वात् मीस् ६, ७, २१; १०, ८,
३४.
तच्-छूलोक-केन पावा ८, ४,
६३.
तज्-ज-जम् शंघ १६३.
तज्ज-सन्न-न्नानि अप
३६, २६, १.
तज्-जघन-नेन वैश्रौ १८,

a) विप. । वस. । b) तु. पागम. । c) = सुक्ल-विशेष- । <तमुद्गुहि (क ६, १८, १) । d) <तया
द्वैततया (तै ४, २, ४, ४) । e) <तन् इति पागम. । f) पाभे. वैप १, ४३८ d द्र. । g) पाठः ? तया
इति शोधः (तु. माश्रौ १, ५, ५, १६) । h) तद् (त्वद् मूको.) इत्युभयविधः सामासिकः पाठः ? तत् (= तथा हि).
इति वर्च इति च द्वे पदे पृथक् द्र. । शेषं सस्थ. वर्चस्वन्तः इत्यत्र द्र. । i) विप. । भवार्थे यत् प्र. । j) विप.
(सामातान- [सामप्रगाथ-]) । k) जैण्ड. पाठः । l) तस. सामासान्तपृट् प्र. (पा ५, ४, १०३) । m) च्छ
इति मीस्. । n) च्दः इति जीसं. । o) विप. । उस. उप. <आ [पाके] ।

१७ : २७.

तज्-जघ(न्य>)न्या- न्याम्
वौषि १,३ : २; हिपि ४ : ४.तज्-जपे(प-इ)ज्या-होम- माः
वैश्रौ २०, १ : ७.तज्-जाति^a-> जातीय^b- यम्
वौश्रौ १८, ११ : २३; २८, ६ :
१३; १५; वैश्रौ १८, १९ : २८;
हिश्रौ १५, ८, ६; ११; -यस्य
वौश्रौ २४, ३५ : ३; -यानि
निस् २, ४ : १०; -ये हिश्रौ
१५, ८, ७; ११.तज्जातीय-विवेक- कः निस्
१, ९ : २४.तज्जातीय-व्यवाय- यात्
पावा १, १, ७.तज्-जीवन- नम् विघ १६,
१२.तज्-ज्ञ- ज्ञाः वैश्र ३, १४ : २;
आज्यो ७, ७; -ज्ञैः शंघ ३७२;
नाशि १, ८, २.

तज्-ज्ञान- नात् या १४, ३.

तज्-ज्योतिस्^c- तिषम् निस्
१, २ : १५.तज्-ज्वाला-रूप^d- पम् वैश्रौ
२, ६ : १२.तज्-कर^e- पा, पावा ३, २, २१;
-रः या ३, १४४.तज्-क(ण>)गी^f- गी काशु
२, ७.

तज्-कर्तृ- र्ता वैघ ३, ८, ३.

तज्-कर्मन्- र्म काश्रौ १५, ६,
२८; वौश्रौ २९, ११ : ७.तज्-कर्म-जन्म- माहात्म्य-
-स्यम् अप ५२, १४, १५.तज्-कारित-> त-त्व- स्वात्
हिश्रौ ३, १, ७.तज्-कारिन्-> रि-त्व- स्वात्
मीस् ६, ५, १७; ९, ४, ५४.

तज्-कार्य- र्थम् शंघ ३०२.

१ तज्-काल- लम् पाय २, ११,
५; ६; वौघ; -लात् काश्रौ १, ४,
१५; -ले शंघ ४६२; मीस् ३,
८, ३९.तात्कालि(क>)का, की-
पावा ४, २, ११६; -की शंघ
२३६.तात्काल-प्रसङ्ग- ङ्गः पावा
१, १, ५०.२ तज्-काल, ला^g- लः मीस्
११, ३, १०; -लम् काश्रौ १, २,
२२; २५, १, १; -लस्य पा १, १,
७०; -ला मीस् ५, १, १९; ११,
३, २१; -लाः काश्रौ १२, ४,
१६; मीस् ११, ३, ५; -लानाम्
पाप्रवा ५, १६.तज्-काल-स्थान^h- नम् ऋप्रा
६, ३९.

तज्-कीर्तन- ने पावा १, १, ४४.

तज्-कुल-> त्-कुलीन- नम्
विघ ३, ४७; -नेषु शंघ ३२१.तज्-कृत- तः विघ २३, ३९;
-तैः विघ ७, १२.तज्-कृत-त्व- स्वात् मीस् ९,
२, ४१.तज्-कृत-प्रसङ्ग- ङ्गः पावा ४,
१, ३६.तज्-कृता(त-श्च)र्थ- र्थेन पा
२, १, ३०.

तज्-क्रम- मात् कप्र २, ९, २२.

तज्-क्रिया- या कप्र १, ३, ६.

तज्-क्रिया-परिसमाप्ति- सेः
वैश्र ६, १३ : ५.तज्-क्षग^b- णम् अप ६८, २,
२२; -णात् अप १६, २, १;
३८, ३, ५; ७०, ७, ६; वृदे ७,
३२; -णेन तु ४, ५.तज्-क्षीर-व्रत- तौ काश्रौ ७,
४, २०.तज्-तज्-> तज्-कर्मन्- र्मणिः
आमिद्य २, ३, ४ : २.तज्-तज्कर्मा(र्म-श्च)पन्न-
-न्नः जैश्रौ २६ : ५.तज्-तज्कर्मा(र्म-श्च)र्ह-
-र्हाणि वैश्रौ ११, १० : २.तज्-तज्-काल- ले वैश्र ६, ५ :
४; वैघ २, १२, ३.तज्-तज्काल-निबन्धनⁱ-
-नम् वाशि २, ५१.तज्-तज्-प्रसङ्ग- ङ्गे वैश्रौ २१,
१८ : ६.तज्-तज्-संभार-संग्रहण-
-मन्त्र- न्त्रैः वैश्रौ १, ९ : १३.तज्-तज्-संस्था-चमस-गाण-
-गानाम् वैश्रौ १६, १८ : ५.१ तज्-तज्-स्थान- ने वैश्र ४,
१४ : ९; ६, १ : १८.२ तज्-तज्-स्था(न>)ना^j-
-नाः ऋअ १, २, १२.तज्-तज्-आधान-मन्त्र- न्त्रैः
वैश्रौ १, ११ : १५.तज्-तज्-दिक्-पति- -तिभ्यः
वैश्रौ २०, २९ : ५.तज्-तज्-देवता- ताचै वैश्रौ
९, ७ : १०.

a) विप. । वस. । b) स्वार्थे छ>इयः प्र. (पा ५, ४, ९) । c) विप. । वस. >वस. । d) पा.

ः प्र., पावा. अच् प्र. इति विवेकः । e) = रज्जु-विशेष- । f) कचित् वा. क्विचि. । g) विप. । वस. >वस. ।

h) कप्र. वा. क्विचि. ।

तत्तद्देवत्य- -स्यम् वौषि
२, ७, १७; -ल्याः वौश्रौ २६,
९ : १६.

तत्तद्-ध(<ह)विस्- -विषः
वैश्रौ २, ७ : १०.

तत्तद्-धो(<हो)म-व्रत-
-तानि वैश्रौ २०, ७ : ६.

तत्तद्-यजुस्- -जुषा वैश्रौ
१४, ८ : ५.

तत्तद्-योनि-तस्(ः) वैश्रौ
२०, १६ : १०.

तत्तद्-रूप- -पाद् शंघ
११६ : २४.

तत्तद्-व्रत- -तानि वैश्रौ २०,
७ : ८.

तत्तद्व्रत-सूक्त- -क्तानि
वैश्र ३, २१ : ३.

तत्-त(न्त्र >) न्त्रा- -न्त्रा
मीसू १२, २, १७.

तत्तन्-नामन्- -म्ना वैश्र ३,
१३ : ६.

तत्-तीर- -रे वैध २, १४, २.

तत्-त्य- -स्यः या ८, १५.

तत्-त्रय- -यम् विध ४, ३;
४; ६.

तत्-पञ्चक- -कम् विध ४, ७.

तत्-पञ्चाह- -हः द्राश्रौ ८, ४, ६;
लाश्रौ ४, ८, ६.

तत्-पत्नी- -त्नी वैध २, ३, १;

-त्नीनाम् शांश्र ४, १, ११;

-त्नीभ्यः वैश्र ४, ७ : ५; -त्नीम्
शंघ ११६ : ३५; ३६; ३७;

-न्याम् वौध १, २, ३८.
तत्-पत्र-त्रि-सहस्र- -तस्(ः)
अप ३५, २, ५.

तत्-पद- -दानि वैश्र ६, १ : १७.
१ तत्-पर, रा- -रा अत्र ५, ३;
-रौ याशि १, ८९.

२ तत्-पर- -पाय ५, १, १२४;
-रः आपश्रौ १४, १३, १२;

पावा १, ४, ११०; -रम् ऋत
४, ४, १४; -रस्य पावा ७, ३,
५४; -रे पावा ८, ४, ४८.

तात्पर्य- पा ५, १, १२४.

तत्पर-त्व- -त्वात् काश्रौ १,
४, १६; ५, ५.

तत्पर-विज्ञान- -नम् पावा
१, १, २७.

तत्-परिग(त >)ता- -ता वैध
१, ६, ५; -ताम् वैश्रौ १, २ : ६;
वैश्र १, ८ : १२.

तत्-परिमह- -हान् अप ५२,
१४, ५.

तत्-परिपूर्ण- -नेत्र-वदन- -नः
वौध २, ३, ५३.

तत्-परिमाण- -णम् काश्रौ १, २,
२३.

तत्-परिवार- -रम् शंघ २४३.

तत्-परिहरण- -णात् वौध १,
५, १०६.

तत्-पश्चात् शाश्रौ १७, १०, ४.

?तत्पातपरित्यक्त^० अप ७०^२,
२३, १४.

तत्-पात्र- -त्रेण काश्रौ १५, ३,
२७.

तत्पात्र-क्षालन- -नेन कप्र १,
३, १४.

तत्पात्रो(त्र-उ)दक- -केन वैश्र
४, ४ : १४.

तत्-पाद- -दः ऋषा १६, १०.

तत्-पाप- -पम् वाध ३, ६.

तत्-पाल- -लः विध ५, १४०^०.

तत्-पावन- -नाय विध ८, १६.

तत्-पितामह- -हाय विध २१,
१२.

तत्-पितृ- -ता वैश्र ६, ३ : १०;
-तुः कप्र २, ८, २०; -त्रे विध
२१, १२.

तत्-पित्रा(तृ-२आ)घ- -घैः
वैध ३, ३, ८.

तत्-पुट- -टयोः वैश्रौ ११, ७ : ९.

तत्-पुत्र- -त्रः वैश्रौ २०, ३ :
११; वैश्र ७, ९ : ३; हिपि २ :
३; २२ : ३; -त्राः विध १५,
३८; -त्रान् वौश्रौ १८, २६ :
१८; विध ८२, ११; -त्रे वौध
१, २, ३७; वैध १, २, ११; -त्रैः
विध १८, ४३.

तत्पुत्र-वर्जम् वौध १, ५, ९५.
तत्-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दीन् वैध
२, १, २.
तत्-पुत्र-पौत्र- -त्रैः विध ६,
२७.
तत्-पुनराधान- -नम् वैश्र ६,
१५ : ८.

तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२.

तत्-पुरुष- -पः वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;
पावा १, ४, १; -पस्य लाश्रौ
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा
५, ४, ७३; -पाः काश्रौ ७, १, ८;
वौश्रौ २, ३ : २१; वाश्रौ ३, २,
१, ५; -पात् पा ५, १, १२१; ४,
७१; -पाय लाश्र १७ : १४^१;
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२.

तत्-पुरुष- -पः वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;
पावा १, ४, १; -पस्य लाश्रौ
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा
५, ४, ७३; -पाः काश्रौ ७, १, ८;
वौश्रौ २, ३ : २१; वाश्रौ ३, २,
१, ५; -पात् पा ५, १, १२१; ४,
७१; -पाय लाश्र १७ : १४^१;
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२.

तत्-पुरुष- -पः वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;
पावा १, ४, १; -पस्य लाश्रौ
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा
५, ४, ७३; -पाः काश्रौ ७, १, ८;
वौश्रौ २, ३ : २१; वाश्रौ ३, २,
१, ५; -पात् पा ५, १, १२१; ४,
७१; -पाय लाश्र १७ : १४^१;
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२.

तत्-पुरुष- -पः वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;
पावा १, ४, १; -पस्य लाश्रौ
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा
५, ४, ७३; -पाः काश्रौ ७, १, ८;
वौश्रौ २, ३ : २१; वाश्रौ ३, २,
१, ५; -पात् पा ५, १, १२१; ४,
७१; -पाय लाश्र १७ : १४^१;
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२.

तत्-पुरुष- -पः वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;
पावा १, ४, १; -पस्य लाश्रौ
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा
५, ४, ७३; -पाः काश्रौ ७, १, ८;
वौश्रौ २, ३ : २१; वाश्रौ ३, २,
१, ५; -पात् पा ५, १, १२१; ४,
७१; -पाय लाश्र १७ : १४^१;
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

a) विप. । वस. । b) वैप १, ७१२ d) यद् उक्तं तद् दु. मतेन द्र. । c) पाठः ? उच्चातपरित्यक्तस्य
इति शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । d) लकः इति जीसं. । e) पस. > वस. । f) = समास-विशेष- [वृदे., पा. ।]
वस. वा कस. वा ।

१९३; ३,१३; १०१; पावा २,
४,६४; ६,२,२; -वेभ्यः आसिगृ
२,६,४ : २४†.

तत्पुरुष-ग्रहण- -णम् पावा
१,४,१.

तत्पुरुष-त्व- -त्वे पावा १,
४,१.

तत्पुरुष-वचन- -नात् पावा
१,४,१.

तत्पुरुष-विज्ञान- -नात् पावा
४,१,२७.

तत्पुरुषा(ष-अ)न्तोदात्तत्व-
-त्वम् पावा १,४,२.

तत्पुरुषा(ष-आ)हृत- -त्ते
जैश्रौका १०.

तत्-पुष्प- -ष्पाणाम् अप ३५,
२, ६.

तत्-पूर्व,र्वा- -र्वम् वौश्रौ २६,
३२ : ३; वैश्रौ ४, ९ : ६; भागृ
२, ५ : १; अप्रा १, १, २८;

-र्वस्य शैशि ७९; २५२; -र्वाः
ऋअ २, ८, ४; २६; -र्वाणाम्
कौगृ ३, ९, १२; शांगृ ४, ७, ११;

-र्वात् शुप्रा ३, ५७; -र्वे ऋअ
२, ८, १९; वृदे ४, ८७.

तत्पूर्व-मृत- -ताः वैगृ ५,
१५ : ६.

तत्-पूर्वक-त्व- -त्वात् मीसृ ७,
३, ६.

तत्-पूर्वपदो(द-उ)त्तरपद-ग्रह-
ण- -णम् पावा २, ४, २; ६, ३,
२३.

तत्-पृथक्-त्व- -त्वम् मीसृ
१०, ३, २८.

तत्-घृष्ट^१- -ष्टः शाश्रौ १४,
२२, ६.

तत्-प्रकरण- -णे लाश्रौ १०, २,
१; मीसृ ३, ४, ६.

तत्-प्रकीर्तन- -ने पावा-१, १,
४४.

तत्-प्रकृति^२- -ति या १, २०;
१३, १२; -तीनि शाश्रौ १३,
१९, १८; -तेः मीसृ ५, ३,
४०.

तत्प्रकृति-त्व- -त्वम् मीसृ
३, २, २८; -त्वात् मीसृ ७, ३,
१६xx.

तत्-प्र(ख्या>)ख्य^३- -ख्यम्
मीसृ १, ४, ४.

तत्-प्रजा- -जाम् शंष ११६ :
३५^२; ३६^३; ३७.

तत्-प्रतिनिधि- -धिः काश्रौ
२५, ५, ४.

तत्-प्रतिपादना(न-आ)गम-
-मम् वैध १, ११, ६.

तत्-प्रतिषिद्ध- -द्धम् या २,
१४.

तत्-प्रतिषेध- -धः या १, ८;
९, २६; ११, १८; -धात् पावा
१, ४, ३; -धे मीसृ ९, ४, ३२.

तत्प्रतिषेध-विज्ञान- -नम्
पावा ६, ३, ३३.

तत्प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ- -र्थम्
पावा २, ३, १.

तत्-प्रत्यय- -यम् आपध २,
१५, ९; वौध १, ५; ११०^b;

-यस्य पा ७, ३, २९; -यात् पा,
पावा ४, ३, १५५.

तत्प्रत्यय-त्व- -त्वात् वौध
१, ११, १२.

तत्प्रत्यय-विज्ञान- -नात्
पावा ७, २, ११४.

तत्प्रत्यय-विज्ञान- -नात्
पावा ७, २, ११४.

तत्प्रत्यय-विज्ञान- -नात्
पावा ७, २, ११४.

तत्प्रत्यय(य-अ)न्त- -न्वात्
पावा ४, ३, १५३.

तत्-प्रथम- पा ६, २, १६२.

तत्-प्रदान- -नम् याशि २,
११५; -नात् कप्र २, ४, १२;
-नेन विध ९२, २.

तत्-प्रधान,ना^४- -नाः अप २२,
४, ३; या १०, २१; -नानि विध
२६, ७; -नायाम् मीसृ ४, ३, ३;
-ने मीसृ ३, ४, ७; ९, १, ४०.

१ तत्प्रधान-त्व- -त्वात् मीसृ
३, ४, १; ८, ४; ४, २, ११; २६; ३,
३५.

२ तत्-प्रधान-त्व- -त्वम् मीसृ
९, १, १०; -त्वात् मीसृ ४, २,
७xx.

तत्-प्रपितामह- -हाय विध २१,
१२.

तत्-प्रभव^५-त्व- -त्वात् मीसृ
८, २, १३; २२^c.

तत्-प्रभृति- -ति^d शाश्रौ ५,
१४, २; छुसृ ३, १३ : ८; ९;
गोय २, ३, १५; -तिः लाश्रौ
६, ६, १; -तिम् वाधुश्रौ ३,
८३ : १८; -तीनाम् लाश्रौ ७,
४, १५; ९, ५, ७; -तीनि द्राश्रौ
५, १, २९; लाश्रौ २, ५, २४.

तत्-प्रमाण,णा^६- -णः विध ५,
३७; -णम् वैगृ ५, १० : ३;
-णा अप २२, ३, ५; -णाः वैगृ
१, ८ : ८; -णैः वैगृ ५, ३ : १४.

तत्प्रमाण-त्व- -त्वात् मीसृ
४, १, १४; ५, १, १.

तत्-प्रमाणा(ण-आ)कार^e- -रौ
वैश्रौ १२, ८ : १०.

तत्-प्रयाज^f- -जस्य शाश्रौ ५,

a) विप. । वस. । b) वा. क्रि.वि. (वैतु. भाष्यं णमुलन्तम्) । c) प्रधानत्वात् इति जीसं. ।

d) कचित् वा. क्रि.वि. । e) पस. > हस. ।

१६,७.
 तत्-प्रयुक्त- -क्तः मीसू ९, १,
 १; -क्तम् मीसू ९, १, २.
 तत्प्रयुक्त-त्व- -त्वे मीसू ९,
 १, १५.
 तत्-प्रयोग- -ने हिश्रौ १२, ८,
 २; कप्र ३, ६, १.
 तत्-प्रयोजक- -कः पा १, ४, ५५.
 तत्-प्रयोजन- -त्व- -त्वात् शंघ
 २५२.
 तत्-प्रयोजन-मात्र- -त्रम् अप
 २३, ९, १.
 तत्-प्रयोज्युग- -गाः वौश्रौ २८,
 १२:२०.
 तत्-प्रवाद- -दौ श्रापश्रौ १२,
 १८, ४; हिश्रौ २२, २, ४.
 तत्-प्रवृत्त- -त्ते विध ९१, १.
 तत्-प्रवृत्ति- -त्तिः मीसू ८, १,
 १५; -त्या मीसू १२, २, ३५.
 तत्-प्रसव-सरण- -णे विध
 २२, ३४.
 तत्-प्रसाद- -दः शंघ ३१२.
 तत्प्रसाद-तसः (ः) विध १,
 ३२.
 तत्-प्रसूत- -तः गौध ११, १५;
 वैश्रौ २१, ६:९.
 तत्-प्राची- -च्याम् वैश्रौ १,
 ३:८.
 तत्-प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ
 १६, ६, ७.
 तत्-प्रायवचना(न-अर्थ)वत्त्व-
 -त्वाभ्याम् मीसू ६, ८, ४५.
 तत्-प्रेप्सु- -प्सुः या ६, २८.
 तत्-फल- -लम् अप ६८, २,
 ५७; वैध १, ९, ९; -लस्य अप
 ६२, ४, ७; -लेन शुश्र १, ११.

तत्-पट्क- -कम् विध ४, ५.
 तत्-पोडशक- -कम् विध ४, १२.
 तत्-संयुक्त- -क्तम् मीसू १, ३,
 १५; ३, ४, ६; -क्ताः शाश्रौ १,
 ३, ९.
 तत्-संयोग- -गः विध ३५, २;
 -गात् हिश्रौ ३, ८, ४१; मीसू
 २, ४, ३२, x; -गेन मीसू ४, ३,
 २०.
 तत्-संशय- -यात् गौध २८, २०.
 तत्-संस्कार- -रः मीसू १०, १,
 २३; -रात् काश्रौ ६, १, २१;
 मीसू ४, ४, २३; ११, ४, ४६.
 तत्संस्कार-कृत- -कृतः वैद्य
 ५, ८:११.
 तत्संस्कार-श्रुति- -तेः मीसू
 १०, ८, २९.
 तत्-संस्तव- -वात् मीसू ३, ४,
 ४९.
 तत्-सं(स्था>)स्थ- -स्यम्
 हिध २, ३, ३७.
 तत्-संस्था-श्रुति- -तेः काश्रौ
 २५, ७, १.
 तत्-सकाया- -शै वैश्रौ २, १०:३.
 तत्-सख- -खः या ३, ११.
 तत्-सं(ख्या>)ख्य- -ख्यम्
 मीसू १०, ५, ५७,
 तत्-सद्- -सदे भाग २, ३०:
 ३; ४; हिद्य १, १६, १३.
 तत्-सदृश- -शम् या ३, १३;
 -शात् पावा ४, १, ९६; -शेषु
 कप्र १, ८, २३.
 तत्-संधि- -धिः भासू १, ४.
 तत्-संनिधि- -धेः मीसू २, २,
 १६; -धौ मीसू ४, ४, ३४.
 तत्-सम- -मम् अप ३१, ७, ४;

४६, ८, २; बाध; -मेन काध
 २७३: ७.
 तत्सम-त्व- -त्वात् मीसू ९,
 ३, १७.
 तत्-सम-काल- -लम् विध
 १२, ४.
 तत्-सम(र्थ>)यां- -र्थां शंघ ५.
 तत्-समवाय- -यः मीसू ६, ८,
 १४.
 तत्-समाहार- -रः शैशि १२८.
 तत्-समिध्- -सिधाम् अप ३५,
 २, ४.
 तत्-समीप- -पम् अप ४२, २, ५;
 -पे श्रापश्रौ १८, १, १३; १५.
 तत्समीप-वर्तिन्- -वर्ति-
 नाम् विध ५, ७४.
 तत्-समुत्थान- -नम् शंघ ३२७.
 तत्-समुदाय- -ये पावा ८, ४, २.
 तत्समुदाय-ग्रहण- -णम्
 पावा ६, २, १३६.
 तत्-समुह- -हम् वेज्यो २१.
 तत्-संपातिन्- -ती या १२, २२.
 तत्-संप्रत्यया(य-अर्थ)- -र्थं म्
 पावा ४, १, १.
 १ तत्-संबन्ध- -न्धात् मीसू ५,
 १, २२; -न्धेन या ११, २.
 २ तत्-संबन्ध- -न्धे पावा ५,
 ३, ६७.
 तत्-संबन्धि-वान्धव- -वानाम्
 शंघ ११८.
 तत्-सवर्ण- -र्णः शैशि २८२.
 तत्-स-स्थान- -नम् कप्र ४, ३१
 तत्-सहि(त>)ता- -ते काश्रौ
 ७, ३, ८.
 तत्-सामर्थ्य- -र्थ्यम् मीसू १,
 ४, १७.

a) विप. । वस. । b) सप्र. श्रापध २, १५, ७ विशिष्टः पाभे. । c) तस. समासान्तपृ ट्च् प्र. ।
 d) वस. (तु. नागेशः) ।

तत्-सामान्य- -न्यात् या २, २;
मीसू १, २, २३; ४, ३, २९; १०,
३, ५६; -न्येन मीसू ६, ३, ३२.
तत्-साम्य- -स्यम् विध ५३, ५.
तत्-सायुज्य- -ज्यम् बौश्रौ
१८, ५३ : २०.
१तत्-सिद्धि- -द्धिः मीसू १,
४, २३.
२तत्-सिद्धि^a-> ंद्धि-त्व-
-त्वात् काश्रौ १, ४, १.
तत्-सुत- -तः अप ६७, ८, ४;
ऋत्र २, १०, ११०.
तत्-सेवा (वा-अ)शक्ति- -क्तौ
विध २६, ४२.
तत्-स्तेय- -येन कप्र २, ५, ७.
तत्-स्तोत्र- -त्राय आश्रौ ५,
२, ७.
तत्-स्थ- पाग ५, १, १२४^b;
-स्थम् या ६, ३२; -स्थस्य पावा
८, ४, १४; -स्थे पावा २, ३,
२१; -स्थैः पावा २, २, ८.
तात्स्थ- पा ५, १, १२४.
तत्-स्थान- -नात् वैगृ ५, १५ :
२; ऋप्रा ४, ८०; -ने आश्रौ २,
१, २३; ३; १०, २६; आपश्रौ; या
१४, ३०.
तत्स्थानीय-> थ्य-त्व-
-त्वात् मीसू ६, ५, १९.
तत्-स्नानो(न-उ)द्रक- -कात्
विध १४; २. .
तत्-स्नेह- -हात् ऋत्र २, १०,
३३.
तत्-स्पृष्ट-प्रपद^c- -द्रम् वैश्रौ
६, ३ : ७.
तत्-स्वामिन्- -मिनाम् विध ५,
५९; -मी अप ७३, ४, ३.

तद्-अंस- -सस्य वैश्रौ १४, ४ :
११.
तद्-अ-कर्मन्^d- -र्मणि मीसू ६,
३, ३.
तद्-अग्नि- -अयः वैगृ २, ७ :
१४; -ग्निना वैगृ ७, २, २; -अैः
वैगृ ४, ५ : १८; -अौ वैगृ ७,
४ : १९.
तद्-अग्र- -अ्रेण वैश्रौ १०, १० :
९; -अैः कप्र २, ८, ४.
तद्-अङ्ग- -ङ्गम् काश्रौ १, २, ३;
४; आपश्रौ; -ङ्गस्य कप्र १, ३,
६; -ङ्गानाम् मीसू ३, ८, ३६;
-ङ्गानि वाश्रौ १, १, १, ६२;
-ङ्गेषु मीसू ३, १, १७.
तद्-ङ्ग-त्व- -त्वात् मीसू १०,
२, ३७; ५, ५०.
तद्-ङ्ग-भाव- -वेन मीसू ७,
२, ३.
तद्-ङ्ग-वत् मीसू ४, ४, २६.
तद्-अङ्गुष्ठ- -ष्टेन वैगृ २, २, १४.
तद्-अतिक्रम- -मे आपध १,
५, २; विध ३२, ९; हिध १, २, २.
तद्-अतिक्रम(ण>)णी- -णीम्
विध ५, १८.
तद्-अधस्तात् शाश्रौ १७, १०,
१४.
तद्-अधिकरण- -णानाम् पावा
१, ४, १०.
तद्-अधिकार- -रात् मीसू ६,
७, ३३; १०, ३, ६७.
तद्-अधिदेवता- -ताः वैगृ ३,
२० : २; -ताम् वैगृ ४, १३ :
१०.
तद्-अधिप- -पान् वैगृ ४,
१४ : १.

तद्-अधिष्ठान- -नेषु या ४, १५.
तद्-अधीन, ना- -नः जैगृ १, २० :
१; -नम् गौध ११, १८; १३,
२४; -ना आपध १, ७, १४;
हिध १, २, ७१.
तद्-अधीन-वचन- -ने पा ५,
४, ५४.
तद्-अध्यक्ष-कर- -चिह्नित-
-नम् विध ७, ३.
तद्-अध्ययन- -नेन विध ३०,
३१.
१तद्-अध्याय- -यम् बौश्रौप्र
५४ : ८.
तद्-अनन्तर- -रम् अप ३३, ५,
२; ३६, १६, ३; ४६, ८, ३;
याशि १, २२; नाशि १, ६, ४;
७, ३.
तद्-अनुकारिन्- -रि कप्र २, ५,
२१.
तद्-अनु-चक्षुस्^e- -क्षुपः माश्रौ
४, ८, ३.
तद्-अनुमान-ज्ञ- -ज्ञाः बौध
१, १, ६.
तद्-अनुयायिन्- -यिना अप
५८^f, २, १.
तद्-अनुरूप-गर्भ- -र्भम् निष्
८, २ : ३१; ३४; ३७; ४०.
तद्-अनुरूप-त्व- -त्वात् मीसू
१, ३, २८^f.
तद्-अनुव्रत- -न्नेभ्यः ऋप्रा
१५, १.
१तद्-अन्त- -न्ते काश्रौ १०,
९, २१××; कप्र २, ६, ४; ७.
तद्-अन्त-तसु (:) बौश्रौ २६,
२९ : ७.
२तद्-अन्त,न्ता^g- -न्तः काश्रौ

a) विप. । वस. । b) तु. पागम. । c) विप. । वृस. > वस. । d) उप. तस. । e) विप. । सस.

> वस. । f) अनु^o इति जीसं. ।

२२, १, १२; मीस् ६, ७, ८;
-न्तम् काश्रौ ८, ९, ४; २२, ६,
६; आपश्रौ १९, २२, १; मीस्
५, १, २४; २, ६^२; आश्रौ ४,
१२; -न्तस्य पा १, १, ७२;
पावा १, १, ७२; ३, १, ३; ४, १,
१; ७, ३, ८; -न्ता माश्रौ १, ७,
४, ४१; -न्तात् पावा ३, ३,
२१; ४, १, १५; ५, १, २०; २,
१३५; ३, ५५; ४, ४.

तदन्त-कर्म-कर्तृ-त्व-

-त्वात् पावा २, ३, ६५.

तदन्त-ग्रहण- गम् पावा

५, १, २०; ७, ३, १.

तदन्त-त्व- त्वे पावा १, १,

५; १९; २१.

तदन्त-द्विर्वचन- नात् पावा

७, २, १०.

तदन्त-निर्देश- शात् पावा

७, १, ३७.

तदन्त-प्रतिषेध- धात् पावा

६, १, १३.

तदन्त-विधि- धिः पावा ४,

३, १२१.

तदन्तविधि-प्रतिषेधा

(ध-अ)र्थे- र्थम् पावा १, ४,

१४.

तदन्ता(न्त-अ)ग्रहण- गम्

पावा ४, १, १७५; -णात् पावा

७, ४, ८३.

तदन्ता(न्त-अ)न्त-वचन-

-नात् पावा १, १, ७२.

तदन्ता(न्त-अ)प्रतिषेध-

-धस्य पावा ४, १, १४.

तदन्तो(न्त-उ)पाधि-प्रसङ्ग-

-ङ्गः पावा १, १, ७२.

तद्-अन्तरः (ः) कौस् ६६, २६.

तद्-अन्तर- रम् वीध २, ८,

१४; काश्रु १, ३; -रात् काश्रौ

८, ५, ६; -रे वैश्रौ १, २ : १३.

तद्-अन्तेवासिन्- -सिनम्

आपघ १, ६, ३४; हिघ १, २, ५६.

तद्-अन्न- अम् वैश्रौ १, १५ :

३.

तद्-अ(अ>)ज्ञा^b- ज्ञा निस्

१०, ९ : १९.

तद्-अन्य- न्यः भाशि ३९;

-न्येषु जैश्रौका १२०.

तदन्य-परिसंख्यान- -ने

मीस् १०, ७, ६.

तदन्य-वनस्पति- -वीनाम्

वैश्रौ ११, १० : १३.

तद्-अन्यत्र भाशि ४८.

तद्-अन्वय- -यात् ऋप्रा ११, ९.

तद्-अन्वारोहण- गम् विघ

२५, १४.

तद्-अपचार- -रे निस् २, ११ :

२२.

तद्-अपत्य- -स्यम् सुघप ८५ :

३; या ६, ३२; -त्याय कौस्

४६, ३६; -त्ये गौघ ३, ७.

तदपत्य-त्व- त्वम् वीध

२, १, ४१.

तद्-अपवाद-निवृत्त्य(त्ति-अ)

र्थे- र्थम् पावा ६, २, ३३.

तद्-अपे(क्षा>)क्ष^b- क्षः गौघ

८, ७; -क्षम् मीस् ११, ४, २०.

तदपेक्ष-त्व- त्वात् मीस् ९,

२, ३२^c.

तद्-अभाव- -न्वः मीस् ११, २,

३; -वात् मीस् ६, ३, ३६; १०,

२, ५२; -वे काश्रौ ४, २, २२××;

आपश्रौ; पा १, २, ५५; पावा १,
१, ४६; ७, ४, ६०.

तद्-अभिधान- -ने पावा ५, १,
११९^d.

तदभिप्र-य^e- -यात् लाश्रौ १०,
५, १३.

तद्-अभिप्राय- -यात् वृदे १, ३.

तद्-अभिमन्त्रण- -णम् अप ३६,
५, २.

तद्-अभिवादि(न्>)नी- -नी

या २, १६; ५, १४; ९, ४; ६; २३;

१०, २६; ३२; १२, १०.

तद्-अभिहार^b- -रम् वीश्रौ

२४, ९ : ५.

तद्-अभिहित-श्रोतृ- -तारः^e

विघ ८, १२.

तद्-अभीष्ट्या- -ज्या मीस् ९,

२, ५१.

तद्-अभ्यास- -सः मीस् ८, ३,

९; ९, २, २१; २४; १०, ६, २९.

तद्-अर्थे, र्थ^f पावाग ५, १,

१२४; -र्थेः हिश्रौ १, १, २३;

निस् १, १३ : ९; गौघ; -र्थम्

आमिष्ट १, ५, १ : २८; हिपि; पा,

पावा ५, १, १२; पाप्रवा ८, १;

-र्था मीस् ३, ५, ३१; ५, ३, ३०;

-र्थान् आपघ २, ६, १६; हिघ

२, २, १७; -र्थे पा ६, १, ८२; २,

४३; मीस् ३, ८, २०^g; ९, ४,

२६; १२, २, १९; -र्थेन आपश्रौ

२४, ४, १९; मीस् ५, ४, ६; १३;

११, २, ६६; ४, ४४; -र्थेषु

आपघ २, १४, ३; हिघ २, ३, १४;

पा ६, २, ७१; मीस् ९, १, ४१.

तदर्थिक- -कौ कौस्

६०, ५.

a) ऋम् इति जीसं. । b) त्रिप. । वस. । c) ष्वेक्षः इति जीसं. । d) पाठः? तदभिप्रयागात् इति शोधः (तु. सप्र. तां २४, १९, ३) । e) ष्वित-ज्ञातारः इति जीसं. । f) चस. वा वस. वा । g) र्थेः इति जीसं. ।

तादर्थ्य- पावा ५, १, १२४; -थ्यम् मीसू ९, ४, ४८; १०, १, ९; ७, २७; १२, १, १; -थ्यात् पावा १, २, ४३; ४, ३, ६६; मीसू ६, १, २४४; -थ्ये पा ५, ४, २४; पावा २, ३, १३; मीसू ६, २, ५; २२; -थ्येन मीसू ५, ४, ९.
 तदर्थ-गति- -त्ते: पावा २, १, १.
 तदर्थ-ज- -जम् ऋप्रा ११, ६.
 तदर्थ-त्व- -त्वम् मीसू ५, ४, ७; -त्वात् आश्रौ २, ६, १६; आपश्रौ; पावा ३, १, १३१; ६, १, १२; ८, २, ४८.
 तदर्थ-निर्देश- -शात् मीसू ९, १, ४६.
 तदर्थ-प्रतिषेध- -ध: पावा २, २, १९.
 तदर्थ-प्रत्यय-प्रतिषेध- -ध: पावा १, ३, १.
 तदर्थ-मात्र- -त्रेण पावा २, १, ३६.
 तदर्थ-वचन- -नात् मीसू ५, ४, ७.
 तदर्थ-वत्- -वत् मीसू ४, ४, २४; ६, ७, २५; ९, १, २२.
 तदर्थ-वाद-वदन- -नात् आश्रौ ५, १३, ९.
 तदर्थ-शास्त्र- -खात् मीसू १, २, ३१.
 तदर्थ-सूक्त- -क्तानि अपं २: ९०.
 तदर्था(र्थ-अ)र्थवसान- -नम् पावा २, १, ३५.

तदर्था(र्थ-अ)र्थ-वलि-हित- सुख-रक्षित- -त्तै: पा २, १, ३६.
 तद्-अर्ध,र्धा- -र्धम् शंघ ३८२; ४१०; ४४०; विध; -र्धा अप २२, ३, ५; -र्धे कप्र २, ३, ८; काशु ७, ३३; वीशु १: २८; -र्धेन अप २१, ५, २; ३.
 तदर्ध-पूर्ण- -र्ण: वैश्रौ ११, ९: १५.
 तदर्ध-भाज्- -भाक् अप ६८, २, ५८.
 तदर्ध-विस्तार- -रम् वैगृ ५, ३: ७.
 तदर्ध-व्या(स>)सा- -सा: वीशु १४: २.
 तद्-अर्पित- -तम् निस् २, १०: ११.
 तद्-अर्ह- -र्हम् वैगृ ३, १९: ७; ४, १४: १४; -र्हणं वैगृ ४, १४: १.
 तद्-अलाम- -मे आपश्रौ २२, २, १२; ३, १५; वैश्रौ.
 तद्-अवसान- -नात् द्रागृ १, २, ३.
 तद्-अवासि- -सौ विध ९६, ३६.
 तद्-अशक्ति- -क्ति: मीसू १, ३, २८.
 तद्-अज्ञ(न>)ना- -ना वीश्रौ १८, ४४: १३.
 तद्-अश्मन्- -श्मनि वैगृ ७, ६: ३.
 तद्-अश्रु-पात- -कारिन्- -री विध २२, ६०.
 तद्-अष्टक- -कम् विध ४, २.

तद्-अष्टम- -मेषु वीध १, २, ८.
 तद्-असंयोग- -गात् मीसू १०, ५, ६८.
 तद्-असंभव- -वे वैगृ ६, ७: ५.
 तद्-असहन- -ने पावा ५, २, १२२.
 तद्-अस्थन्- -स्थनाम् वैगृ ७, ३: ८.
 तद्-अस्थि- -स्थि विध २२, ७०; -स्थिभि: वैगृ ७, ३: १२; -स्थीनि वैगृ ७, ३: ४; ७.
 तद्-अह(न् >)स- -हस्सु काध २७३: ८.
 तदहः-स्नात- -तानाम् आश्रिगृ १, ३, २: ३९.
 तदहर-जन-संभा(र>)रा- -राम् वीध ३, ३, २१.
 तद्-आकृति- -ति अप २३, २, १.
 तद्-आक्षेपण- -णे विध ५४, १४.
 तद्-आख्य,ख्या- -ख्य: मीसू २, ३, २३; ३, २, २१; -ख्यम् काश्रौ २२, ४, १३; १५; मीसू ७, ४, १३; ९, ३, २८; १०, ५, ५८; -ख्या काश्रौ १६, ३, २०; -ख्या: काश्रौ २२, ४, ७; -ख्यानि काश्रौ २२, ४, २२; -ख्याम् अप ५, १७.
 तदाख्य-त्व- -त्वम् मीसू ८, ३, १३; -त्वात् मीसू ८, ४, २.
 तदाख्या-मिप- -तसु (:) अप ५, १७६.
 तद्-आगम- -मे मीसू ४, १, १५; ४, २२.

a) तु. गङ्गा. । यद्वा 'वत्' इति अर्थाधीन्यः वति: प्र. (पा ५, १, ११७) इति विमृश्यम् । b) विप. । वस. । c) विप. । वस. उप. < √अश[भोजने] । d) तु. पासि. । तन्न सहते इति पाका. भारुडा. । e) सपा. भाग्य २, १८: ८ एतदहं इति पाभे. । f) पस. उप. = छद्मन्- । g) 'पता' इति पाठः? यनि. शोधः ।

तद्-आज्य^a -ज्यम् शाश्रौ ११,
१३, १८.

तद्-आत्मक^b -कम् याशि १,
४३; नाशि २, ७, ११.

तद्-आदान- -नम् विध ३०,
४२.

तद्(द्-आ)दि- -दि आश्रौ १,
१२, २६; शंघ २६७; पा १, ४,
१३; वेज्यो ६; मीस् ५, १, २४;

-दिप् भाशि ५; मीस् ८, १,
१८^c; १०, ५, ६७; -दीनि वृदे

८, ९३; -देः पावा ३, १, ३^३; ४,
३, ६०; ५, २, ४६; ३, ८३; -दौ

-पावा १, १, ७२; ६, १, १३; ३,
११५; -द्योः वैताश्रौ ३२, १४.

तद्(द्-अ)हण- -णम् पावा
७, ३, १; -णस्य पावा ७, ३, ८.

तद्(द्-अ)दन्त-विज्ञान-
-नात् पावा १, ४, १३; ७, १, ९६.

तद्(द्-अ)द्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, ६; -त्वे पावा १, १, २१.

तद्(द्-अ)वचन- -नम् पावा
१, ४, १३.

तद्(द्-अ)दि-दिहास- -सः
ऋअ २, ५, ४०.

तद्(द्-अ)दि-दि-वचन-
-नात् पावा १, ४, १३.

तद्(द्-अ)दि-दि-चिख्यासा-
-सायाम् पा २, ४, २१.

तद्-आदेश- -शम् द्राष्ट ३, ४,
२८; -शात् काश्रौ १, ७, २७.

तद्-आनन्तर्य- -र्यात् मीस् १०,
६, २७.

तद्-आनुग- -नाम् शंघ ३६१.
तद्-आपत्ति- -त्तेः मीस् १०,

२, ६७.

तद्(द्-अ)पत्ति-वचन- -नात् मीस्
१०, ८, ३०.

तद्-आयतन^b - -नानाम् अप
४८, ७२; ९८; १०८.

तद्-आया(य-अ)पाय-व्यथन-
-नानि ऋपा १४, १.

तद्-आयुस्^b - -युषाम् मीस् ६,
७, ३१.

तद्-आरम्भ- -म्मात् द्राष्ट १,
२, ३.

तद्-आरूढ- -ढे हिश्रौ ७, १,
४७.

तद्-आवपन-श्रुति- -त्तेः काश्रौ
२५, १४, १३.

तद्-आवृत्ति- -त्तिः मीस् ८, ३,
३; -त्तिम् मीस् ८, ३, ७.

तद्-आवेश- -शात् मीस् ९, २,
४३.

तद्-आशि(त>)ता- -तायाः
काश्रौ ४, ६, १३^d.

१ तद्-आशिस् > तद्(द्-अ)शिष्-
द्व- -त्वात् मीस् ९, ३, ३८;
१०, २, ५४.

२ तद्-आशिस्^b - -शिषः ऋअ
२, ८, ३१.

तद्-आशौच-व्यपगम- -मे
विध २२, २१.

तद्-आश्रम- > ^०मिन् -मिणः
वैध १, १, १३.

तद्-आश्रय, आ- -यम् पावा २,
४, ८; ३, २, १२४; -या शंघ
३५०; -याः वीपि ३, ७, ३;

-ये पावा १, १, १.

तद्(द्-अ)श्रय-स्व- -स्वात् पावा

१, १, ५०; २, ६४.

तद्-आसक्ति- -त्तिः मीस् १०,
६, १०^e; -त्तेः मीस् ११, १, ४५.

तद्-आसन^b - -नः आपघ २,
१९, १; हिघ २, ५, ७३.

तद्-आहार- -रः वीध ४, ५, १४.

तद्-इच्छा- -च्छया विध २२,
५२.

तद्-इति-कर्तव्यता- -तया
काश्रौसं ३५: ३.

तद्(द्-अ)इद(द्-अ)र्थ- -र्याः
आश्रौ ६, ४, १०; वैताश्रौ २६, ५.

तद्(द्-अ)दीयासीय^b - -यम् शाश्रौ ११,
२, ६; १५, ८, १.

तद्-ईप्सा- -प्सा मीस् ६, ३, ३५.
तदीय- पा १, १, ७४; -यम्
वैय ५, १३: २०; शुअ ३, १४३.

तद्-उक्त- -क्ते मीस् ४, २, २८.
तद्(द्-अ)क-दोष^b - -पम् मीस् ९,
२, २.

तद्(द्-अ)क-प्रतिषेध- -धात् मीस्
९, ४, ३६.

तद्(द्-अ)क-संख्या-प्रमाण^b -
-णानि वैश्रौ ११, ९: १०.

तद्(द्-अ)क-हेतु- -तुः मीस् ९, ३,
७^f; १२, ४, २०.

तद्-उक्ति-स्व- -स्वात् मीस्
६, १, ७.

तद्-उच(र>)रा- -रे वृदे ४,
८८.

तद्-उत्तरपद^b - -दस्य पावा १,
१, ७२.

तद्-उत्थान-व्यय- -यम् विध
५, ७५.

तद्-उत्पत्ति- -त्तेः मीस् ६, ३,

a) पस. उप. = स्तोत्र-। b) विप. । वस. । c) एतद्दा^० इति कांसं. । d) ^०ता इति पाठः ?
यनि. शोभः (वृ. चीसं.) । e) ^०त्तेः इति जीसं. । f) वैप १ द. । g) < तद्(द्-अ)स (ऋ १०, १२०, १) ।
h) कस. > वस. । i) ^०क्तो हे^० इति कांसं. ।

४०; ९, २, ४१; १०, ३, १२;
१२, ३, २४.

तद्-उत्पात-न्ताः अत्र ५४, २,
५; ५५, १, ६.

तद्-उत्सर्ग-नौ मीस् ४, १, ३.

तद्-उद्गतो(त-ऊ)म्-हर्ष-
न्तारः कौस् ८४, ७.

तद्-उपकृत-न्ताः निस् ६, ८:४.

तद्-उपक्रम-न्मात् मीस् ५,
१, ८.

तद्-उपदेश-न्शः मीस् १२,
१, ४३; -शे पावा ७, १, ५८.

तद्-उपनयना(न-अ)ग्नि-
-ग्निना वैग् ७, १ : १५.

तद्-उपरि गौपि १, ४, १८;
वैष १, ९, ४.

तद्-उपरिष्ठात् आग्निग् ३, ८,
१ : १५; १६; वौपि १, १४:१४.

तद्-उपलेपन-न्मात् विध ९१,
१८.

तद्-उपसृष्ट-न्शः निस् २,
१२ : २४.

तद्-उपा(ख्या>)ह्य-त्व-
-त्वात् मीस् ८, १, ३२.

तद्-ऊन-न्म ऋप्रा १३, ३३;
मीस् १०, ३, ७२.

तद्-ऊर्ध्व-न्ध्वम् वौपि २, ५, ४.
तद्-ऊर्ध्वो(र्ध्व-उ)पयम-न्म

आग्निग् २, ७, ६ : १२:११.

तद्-ऊतु-फल-मिश्र-न्श्रेण
आग्निग् १, ७, ४ : ९.

तद्-एकदेश-न्शः मीस् ४, २, ३.
तद्-एकदेश-त्व-न्त्वात् मीस्

११, २, ६१.

तद्-एकदेश-विज्ञान-न्मात्

पावा १, १, ७२; ४, १३.

तद्-एकान्त-ग्रहण-न्म

पावा ४, २, १०; ५, ४, १३५.

तद्-एव (>वक-पा.) पा ५,
२, ६२^०.

तद्-ऐक्य-न्क्यम् शैशि १२८.

तद्-ओजस्-न्जाः वौश्रौ २८,
२ : ४६.

तद्-गण-न्गः अत्र ७०^३, १३, ३.

तद्-गात, ता-न्ताः विध १, १३;

-तानि वृदे ५, ९५.

तद्-नामिन्-न्मी वौष १, ५,
९७.

तद्-नामिन्-न्त्वात् वाध
१९, ३६.

तद्-नीति-न्तिः मीस् ९, १,
५४.

१तद्-गुण-न्गाः आश्रौ १२,
४, १६; -गान् अत्र ५२, १४, ५;

-णे पावा १, २, ३१; -णैः वौश्रौ
२९, ८ : २५.

तद्-गुण्य-न्प्यम् मीस्
९, १, ५.

तद्-गुण-त्व-न्त्वम् मीस् १०,
२, ६; -त्वात् मीस् ५, १, ४×४.

तद्-गुण-दर्शन-न्मात् काश्रौ
१२, १, १; १३, १, १; २३, १, ५;
२४, ४, २.

तद्-गुण-भाव-न्मात् आश्रौ
७, १, १९.

तद्-गुण-विका(र>)रा-न्ताः
वैश्रौ १७, १ : १.

तद्-गुण-व्यतिपन्न-न्ज्ञात्
काश्रौ १६, १, १.

तद्-गुण-शास्त्र-न्त्वात् मीस्

१०, ६, ४०.

तद्-गुण-संविज्ञान-न्मात्
पावा ६, १, १.

तद्-गुणा(ए-अ)नुरोध-न्मात्
वैताश्रौ २८, ४:

तद्-गुणा(ण-अ)न्वित-न्म.
वैग् ३, १४ : ८.

तद्-गुणा(ए-अ)भाव-न्ने
काश्रौ १४, २, १४; १५, १०, ४.

तद्-गुणा(ए-अ)यत्त-न्तः
वृदे २, ९९.

तद्-गुणा(ए-आ)श्रित-न्तः
उनिस् ८ : ४२.

तद्-गुणी√भू>तद्-गुणी-
भूत-न्तः पावा १, १, २०.

२तद्-गुण-न्गाः मीस् १, ४, ९.
तद्-गुरु-न्रूपाम् नौष ६, ३.

तद्-गृह-न्हम् अत्र ३६, ६, ३;
-हे अत्र ३६, ६, २; वैग् ७, ५ :

१२.
तद्-ग्रह-न्हाणाम् आग्निग् २, ५,
१ : ७.

तद्-ग्रहण-न्गात् पावा ७, ३, १;
मीस् ३, ७, ५२; -णे मीस् १०,
७, ३२; -णेन पावा १, १, २०.

तद्-ग्राम-न्मे वैग् ७, ५ : ११.
तद्-इ-न्इः वा ३, १०.

तद्-इक्षिण-पार्श्व-न्ध्वं वैग् ४,
१३ : १०.

१तद्-इक्षिणा-न्गस्याम् वैग्
४, ४ : १.

२तद्-इक्षिणा-न्गाम् वैश्रौ
२०, ३८ : ६.

तद्-इक्षिण-न्नाय अत्र १, ३२,
११.

a) विप. । वस. । b) भः इति पाठः ? यनि. शोधः । c) भोजमते इति पाठम्. । d) पत्. वा

वस. वा । e) द्वस. पूष. = कर्मन्. । f) उप. <√दा[दाने] । g) पत्. उप. = दिश्. । h) तत्. उप.

= दान. ।

तद्-दातृ- -तृन् ऋञ् २, १०, १०७.

तद्-दासी- -सी हिश्रौ १, ५, ७२.

तद्-दिन- -ने वैगृ ५, १४ : १.

तद्-दिवस-शेष- -यः वौघ १, ११, २६.

तद्-द्वी(क्षा>)क्ष^a- -क्षः काश्रौ १५, ८, ९.

तद्-दुःख- -खे विघ ३, ९८.

तद्-दूषक- -कान् विघ ३, ३४.

तद्-देव^a- -वः वृदे १, ६.

१तद्-देवत, ता^a- -तः आपश्रौ

७, २२, ४; -तम् कौसू ९२, २१;

-तया कागृ ४७, ११; -ता या

१२, ३०; -ताः आपश्रौ २०,

२४, ११; हिश्रौ १४, ६, ९; या ७,

४; -ते शाश्रौ १, १६, ८; १७, ९;

१८; काश्रौ २५, २, २३; -तेन

काश्रौ २४, ६, ४०; -तौ आपश्रौ

१९, १८, ४; हिश्रौ २२, २, ४.

तद्देवता-स्व- -त्वात् मीसू

९, ४, ५६^b.

२तद्-देवता- -ताः शाश्रौ १५,

९, ४.

तद्देवत्य, त्या- -त्यः काश्रौ

८, ७, २५; वौश्रौ २४, १० : ६;

वैश्रौ १४, १७ : १५; अप्राय ३,

३; -त्यम् शाश्रौ १३, २, ७;

काठश्रौ ६३; निसू २, १३ : २३;

-त्ये वौश्रौ १३, १० : १६; ऋअप

१, ३८, ४; ५; ऋअशां ८, ४; ५;

-त्यैः द्राश्रौ ११, ४, २३; लाश्रौ

४, ४, २१; १०, २०, ९.

तद्-देवयजन^a- -नः वाधूश्रौ

४, १८ : ३१.

तद्-दैवत^a- -तः या ७, १; -तम्

आश्रौ ७, २, १४; काश्रौ २५, २,

२३^c; आपश्रौ; पागृ ३, ११,

१०^d; -ताः वृदे ८, १०३; -ते

आश्रौ ६, ६, १८.

तद्-दैवत्य, त्या^a- -त्यम् वौश्रौ

१८, ११ : २३; २८, ६ : १२;

आमिगृ ३, ९, ३ : २०; -त्याम्

अप्राय ६, ८.

१तद्-देश- -शो काश्रौ २५,

१३, २२.

तद्देश-धर्म- -र्मान् विघ ३,

४२.

तद्देश्य^e- -श्यानाम् अप

५८^f, ४, ५.

२तद्-देश^a- -शानाम् मीसू ९,

१, २५; १०, ५, ६६.

१तद्-द्रव्य- -व्याणाम् काश्रौ

१४, १, १५; आपघ १, ८, ६;

हिघ १, २, ९४; -व्याणि शंघ

१७६.

तद्द्रव्य-संस्पर्श^a- -र्शात् अप

३५, १, १६.

२तद्-द्रव्य^a- -व्यः मीसू ७, ३,

१६.

तद्-द्वादश- -शम् विघ ४, ८.

तद्-द्विगुणा(ण-श्रौ)याम- -मम्

वौश्र २० : १०.

तद्-धर्म- -र्मः मीसू ३, ४, २०;

६, ७, १४^f; २८; १०, ३, ३५;

-र्मण मीसू १०, ६, ५६.

तद्-धर्मन्^a- -र्म मीसू ९, ४,

३०^g; -र्मा काश्रौ १, ६, १२;

आपश्रौ २४, ३, ५३; मीसू ६, १,

४१; ३, २६; -र्माणः वाघ १५,

१६.

तद्धर्म-स्व- -त्वात् मीसू १०,

५, २९.

तद्-ध (<ह) विस- -विपः

आपश्रौ ८, १५, २१.

तद्-ध (<ह) स्त- -स्तम् वैगृ

२, १६ : ३.

१तद्-धि (<हि) त^a- -तान् वृदे

१, ३; -तेषु आपघ २, २९, ४;

हिघ २, ६, १७.

२तद्-धि (<हि) त¹- -तः पा

१, १, ३८; ४, १, १७; पावा ३, २,

१५; ६०; -तम् शांगृ १, २४, ४^h;

पागृ १, १७, २^h; वैगृ ६४; ६^h;

वागृ ३, १^h; -तस्य पा ६, १,

१६४××; -ताः पा ४, १, ७६;

६, २, १५५; पापवा १३; -ते वृदे

२, १०६; शुप्रा ५, ८; २९; अप्रा

३, ३, २१; शौच २, ८३; ४, १३;

पा ६, १, ६१××; पावा ३, १,

९४××; -तेषु पा, पावा ७, २,

११७××.

ताद्वित- -तम् या २, ५;

६; -तेन या २, ५.

तद्वित-ग्रहण- -णम् पावा ७,

४, १३.

तद्वित-पूर्वपद-स्या(स्य-अ)-

प्रतिषेधा(घ-अ) र्थ- -र्थम्

पावा ८, ४, ३.

तद्वित-बलीयस्व- -स्वम्

पावा ४, १, १.

तद्वित-लोप- -ये पावा ८,

३, ५६.

तद्वित-वचन- -नम् पावा

a) विप. । बस. । b) त्वात् इति जीसं. । c) ष्वेतम् इति कासं. । d) तस. । e) भवार्थे यत् प्र. । f) र्मा इति जीसं. । g) तु. गङ्गा. (वैतु. प्रयासं. उत्तरेण समस्तमिति) । h) तस. उप. १-२द्वित-द्र. ।
 z) = प्रत्ययसंज्ञा- वा तदन्त- वा । j) पाने. पृ ८१ b द्र. ।

४, १, १७.

तद्धित-विधाना(न-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ४, १, १.

तद्धित-समास-सान् या २,
३; -सेषु या २, २.

तद्धिता(त-अ)नुव्यक्ति- -त्तिः
पावा २, १, ५१; ४, १, १.

तद्धिता(त-अ)न्त- -न्त्वन्
कौट १, १६, १३; अप्रा १, २, १२.

तद्धिता(त-अ)र्थ- -र्थेन पावा
२, १, ५१.

तद्धितार्थ-निर्देश- -शे
पावा ४, १, ९२.

तद्धितार्थ-प्रतिषेधा-
(घ-अ)र्थ- -र्थम् पावा २, ४, १.

तद्धितार्थो(र्थ-उ)त्तरपद-
समाहार- -रे पा २, १, ५१.

तद्धितो(त-उ)त्यक्ति- -त्तिः
पावा २, १, ५१.

तद्धितो(त-उ)द्वय- -यः
अप्रा १, १, ११.

तद्-धु(<हु)व- -वौ माट २,
४, ८.

तद्-धे(<हे)वु- -वुः मीत्
११, २, २८.

तद्-धो(<हो)म- -मात् अप
३६, १८, १.

तद्-बन्धन-त्व- -त्वात् मीत्
८, १, २०.

तद्-बन्धु- -न्धुन् शंघ ७७.

तद्-बुध्न- -ध्नम् कप्र १, ८, २.

तद्-ब्राह्मण- -णम् बौध ३,
९, ९.

तद्-ब्राह्मण- -णम् जैग २,
८ : १४.

तद्-भ- -भम् वेजो २६.

तद्-भ(क)का- -काः वृदे
१, ७२.

तद्-भक्ति- > भक्ति-
-भक्तिनाम् अप ५८, ४, ४.

तद्-भक्ति- -कीनि अप ४८,
१३६; १४१; १४६.

तद्-भक्ष- -क्षः कौट १८, २४.

तद्-भगिनी- -न्यः सुघप ८५:२.

तद्-भय- -यन् अप ६४, ८, ५;

७१, १८, ३.

तद्-भर्तृ- -र्तुः विघ १७, १९.

तद्-भस्मन्- -स्म वैग ६, ४ :

८; १५ : ९; -त्सना अप ३६,

२५, ४.

तद्-भार्या-पुत्र- -त्रयोः वैघ २,

१२, १; -त्रेषु गौघ २, ३८.

तद्-भार्या-पुत्र-सब्रह्मचरि-

सद्- -सद्भ्यः गौघ २, ४७.

तद्-भाव- -वम् वृदे ४, ५०;

अप्रा १, ५६; -वात् काश्रौ ४,

३, १३.

ताम्रान्य- -व्यन् या १३,

१३.

तद्-भावि(त)वा- -वान्

बौश्रौ ९, १ : ८; १०, १ : ७.

तद्-भूत- -तानाम् मीत् १,

१, २५; -तेषु मीत् ८, २, २९.

तद्-भूत-त्व- -त्वात् मीत् ५,

३, २२.

तद्-भूत-वचन- -नात् मीत्

१०, १, २०.

तद्-भूत-स्थान- -नात् ११,

३, २४.

तद्-भेद- -दात् मीत् २, २,

१९; ७, १, ३; ११, १, ५३; २, १०;

४; २४; -दे काश्रौ १, ७, ४.

तद्-भ्रातृ- -तरः सुघप ८५ : २.

तद्-भ्रातृ- -जिनः विघ ८२,
१७.

तद्-भुक्त- -क्तं मीत् १२, १,
१७; -कस्य मीत् ३, ४, १५;

२, १, १६; -कार पा ५, ३,

७७; ४, ३६; पावा २, ३, २८;

३५; ४, २, ३; ५, ३, ७४;

-कानाम् अप्रा १, ५८; -के

मीत् ३, ७, ९; ५, ४, १९; ६, ७,

२७; १०, ५, ६६.

तद्युक्त-त्व- -त्वात् आक्रि

३, १, १ : ५.

तद्-युक्ति-प्रतिरूपक- -कैः

विघ ७, १२.

तद्-योग- -गाः आपश्रौ १८,

१९, २; आपध २, १०, १०;

हिघ २, ४, १०.

तद्-योगि-पूर्व-त्व- -त्वात्

मीत् १०, ४, ४२.

तद्-लक्षण-धर्म-> धर्मिन्

>)नि-त्व- -त्वात् गौघ १०,

२७.

तद्-रत्न- -सान् वैघ ३, १४, ५.

तद्-(र)रा- -रा या ५, १३.

तद्-राज- -जः पावा ४, १,

९५; -जस्य पा २, ४, ६३;

-जाः पा ४, १, १७४; ५, ३,

११९; -जात् पावा २, ४, ५८.

तद्-राजा(ज-आ)दि- -दीनाम्

पावा २, ४, ६२.

तद्-रूप- -रम् काश्रौ १०, ५,

१३; मीत् ३, १२ : ३३; ४३;

१०, १३ : ६; वैग ४, १० : ४;

वैघ ३, ९, ४.

तद्-रूप- -पः निघ ३, १३.

a) विप. । बस. । b) उप. = २ब्राह्मण- । c) उप. = नक्षत्र- । d) प्लुक्म् इति जीसं. । e) पितृः

इति जीसं. । f) मत्वर्थीयः रः प्र. । g) = प्रत्ययसंज्ञा- । पसः समासान्तप् टच् प्र. ।

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-पम् शांश्रौ १३; २, ७; वौश्रौ; -पाः वैगृ ५, १३ : २५; चाश्र १ : ८; -पान् अप ५२, १४, ५. तद्-प-त्व- -त्वात् मीसू २, १, ३८; ६, ५, ३. तद्-रूप-वर्ण-व्यस^१- -व्यसम् आपश्रौ ९, १८, ५; ८. तद्-वंश-विनाश- -शः वैगृ ७, ८ : ११. तद्-वक्तृ- -कृन् वाध ३, ६. १तद्-वचन- -नात् मीसू १०, २, ६८; ५, १, १७; ९, ३, २४. तद्-वचन-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ३, ४; २, ८, ४; ७, ९, १०; ८, ३, २८; मीसू ३, ५, ३५. २तद्-वचन^२- -नाः आश्रौ १, ३, १५. तद्-वत् काश्रौ १०, ९, ३०; १७, १२, ५८; आपश्रौ; पावा १, १, ६९; २, १; ७, १, ९५; पाप्रवा १, १४. तद्-वद-अतिदेश- -शे पावा १, २, १. तद्-वत्- -वत् या १२, ३०; -वतः पावा १, १, ५९; -वति शुप्रा ५, ८; -वन्तः या ३, ८; -वान् या ३; १९; ४, ८; १२, २५; ३०; पा ४, ४, १२५. तद्-वती- -ती या ९, २६. तद्-वर्ध- -र्धे या ६, ३१. तद्-वर्ण- -वर्ण-निर्देश- -शात् पावा ५, २, ७९. तद्-व्यस^३- -व्यसम् काश्रौ २५, ९, १; वौश्रौ १८, ११ : २३;</p> | <p>२८, ६ : १२; माश्रौ ३, ५, २; हिश्रौ १५, ८, ६; ११. तद्-वर्जम् काश्रौ ४, ११, १०; पावा ६, १, १५४; मीसू ३, ६, ३. तद्-वर्ण^४- -र्णः निघ ३, १३१; -र्णम् काश्रौ २५, ९, १०; वौश्रौ १८, ११ : २३; २८, ६ : १२; माश्रौ ३, ५, २; हिश्रौ १५, ८, ६; ११; अप्राय २, ९; ५, ५. तद्-वर्ण-वर्ण^५- -र्णैः वैगृ ४, १३ : १४. तद्-वर्ण-संकरा(र-अ)भक्ष्य- नियम- -मः गौध ७, २४. तद्-वर्तन- -नात् वौध ३, १, २. तद्-वर्ध- -र्धात् अप ७१, ५, २. तद्-वश- -शेन निम् ९, २ : १६; १०, २ : २९. तद्-वस्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दीन् वैध ३, १५, ११०. तद्-वहन- -न्म वैध ३, ८, ७. तद्-वाचक- -कम् मीसू ७, १, १६. तद्-वाचक-त्व- -त्वात् पावा २, १, ५५. तद्-वाचिन्- -चिनः पावा १, १, ६८. तद्-वाद- -दः काश्रौ १२, ४, २१. तद्-वामिन्- -मिनः काश्रौ १९, २, ११. तद्-विकार- -रः मीसू ३, ६, १०××; -रात् मीसू ९, २, ४८; -रे मीसू ५, ३, १२; -रेषु हिश्रौ ४, ५, ६४; ६५; ६६.</p> | <p>तद्विकार-त्सः (ः) पावा २, ३, २०. तद्विकार-त्व- -त्वात् मीसू ८, १, ५. तद्विकारा(र-अ)शन- -ने शंघ ४१८; ४२४. तद्-विघात- -त्स्य पावा १, १, ३९. तद्-विद्^६- -विदः विघ ९६, ९७; -विदाम् गौध १, २; -विदि मीसू ३, ३, ५; -विद्भ्यः गोरु १, ५, १३. तद्-विध, धा^७- -धा वौध १, २, ४९; विध २९, ८; -धेषु वौध ३, ७, १०. तद्-विधान- -त्स्य पावा ३, २, ८४; ३, १३३; -नात् पावा ३, ४, ११४; ८, ४, ३०. तद्-विधि- -धिः पावा ५, १, १९; पाप्रवा ४, ९; मीसू ८, ४, १८६. तद्विधि-निर्णय- -ये द्वि १, ३. तद्-विन्यास- -सः कप्र २, ४, १. तद्-विपर्यास- -सम् कौश्र ५, २, ९; -से पावा २, ३, ३६. तद्-विमुष्- -मुष् वैध ३, ४, ९. तद्-विभक्ति^८- -क्तीनि निम् ५, १ : १३. तद्विभक्ति-पर-पूर्व^९- -र्वम् अप्रा २, ४, ३. तद्-विभाग- -नो पावा ३, ३, १३७; मीसू १०, ६, ५. तद्-विभावित- -त्तः विघ ६, २०.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) विप. । वस. > द्वस. । b) विप. । वस. । c) तु. चौसं. । d) विप. । तस. > वस. ।

e) 'दीन् गृ' इत्यस्य स्थाने तद्द्विधादिग्राही इति C. । f) उप. < √ विद् [ज्ञाने] । g) विधिः इति जीसं. ? ।

h) समानविभक्तिः परो वा पूर्वो वा यस्माद् इति वस. द्र. ।

तद्-विमोक्त-कै मीसू १२, २,
१३.

तद्-वियोग-गात् या ३, १५.

तद्-विवृद्धि-द्धेः लाश्रौ ५,
११, ११.

तद्-विवृह^३-हात् कौसू ७५,
१०.

तद्-विशिष्ट,ष्टा-ष्टम् मीसू ९,
१, ४१; -ष्टाः मीसू ८, ३, १०.

तद्-विशेष-षः ऋप्रा १३, ८;
-षम् आपशु २, २; हिशु १,
२३; -षाणाम् पावा १, १, ६८^२;

-षेभ्यः पावा ४, ३, ११६.

तद्-विशेषक-कः पावा ८, ३,
६५.

तद्विशेषकत्व-त्वात् पावा
२, १, ५७.

तद्-विशेषण-णम् पावा ३,
४, १०२; -णैः पावा २, २, ८.

तद्-विषय-ये पावा ३, २,
१०८; ४, २, १०४.

तद्-विषय^b-न्यः पावा ४,
२, ६६; -यम् पावा १, २, ७१;

२, २, २९; -यात् पा ५, ३,
१०६; -याणि पा ४, २, ६६;

-यौ मीसू ९, २, ५८.

तद्-विषय-ता-ता पावा
१, १, ४४.

तद्विषय-दर्शन-नात् पा
१, २, ७१; २, २, २९.

तद्विषय-प्रसङ्ग-ङ्गः पावा
४, २, ६६; ४, २०.

तद्विषय-वचन-नम्, -नात्
पावा ४, २, ६६.

तद्-विस्तारो(र-उ)च्छ्रय^c-
-यम् वैगृ ५, ३ : १५.

तद्-वृत्ति-त्तिः गौघ ८, ७;
-त्त्या गौघ १०, १८.

तद्-वृद्धि-द्धेः द्राश्रौ १५,
३, ११.

तद्-वेद-वर्ण-ज्ञ-ज्ञः शैशि
३५५.

तद्-वेला-लायाम् या १२,
१३.

तद्-व्यञ्जन-नम् आपश्रौ
१७, १७, १०; हिश्रौ ३, ८, ८६;
१२, ६, ४.

तद्-व्यतिक्रम-मे आपष २,
२७, ६; हिध २, ५, २२५.

तद्-व्यपदेश-शम् मीसू १,
४, ५.

तद्-व्यवगृहीत-तानि वौश्रौ
२३, ३ : १७; १९.

तद्-व्यवेत-त्तैः लाश्रौ ८,
११, ६.

तद्-व्रत-तम् काश्रौ ७, ४,
२२.

तद्-व्रत-श्रुति-त्तैः काश्रौ
१८, ६, ३१.

तद्-व्रत^b-त्तः काश्रौ २५,
४, ३७; माश्रौ ३, १, १५; गौघ
२४, १२.

तद्-नपात्-पातम् वृदे ७,
३५.

तद्-नाद्-द्ः कौशि ७३.

तद्-नामन्-म वैगृ ३, २२ :
७; -म्ना वैगृ २, १ : १०; ५,
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अप
३६, १७, १.

तद्-नामा(म-आ)दि-दिना
वैगृ १, ३ : २२; ४ : ६.

तद्-नामन्^b-मा वृदे २,

१२८; -म्नि पा ४, २, ६७.

तद्-नाम-नोत्र-त्रायाम्
विध २१, ३.

तद्-ना(मक>)मिका-काम्यः
पा ४, १, ११३.

तद्-नाश-शै वैश्रौ १८, १९ :
२७.

तद्-निकामन-नात् द्राश्रौ
१५, ३, १२; लाश्रौ ५, ११,
१२.

तद्-निधान-नात् या २, ७.

तद्-निभ-भैः अप ७०^२, १५,
४.

तद्-निमग्न-ग्नः विध २२,
१०; ६३.

तद्-निमित्त-त्तः आपशु १,
६; हिशु १, १०; -त्तस्य पा ६,
१, ८०; -त्तै गौघ २२, ६.

तन्निमित्त-ग्रहण-णम् पावा
१, १, ५; २, १, २; ४, १, ८८.

तन्निमित्तत्व-त्वात् वाष
४, २२; पावा ५, १, २८; ६, ४,
५२; ८, २, २; मीसू १, १, २५;
३, ९×४.

तद्-नियुक्त-कायस्य-कृत-
-तम् विध ७, ३.

तद्-नियोग-नाय निसू ३
१० : १८.

तद्-निर्देश-शः पावा ५, २,
४८; ६, १, ८४.

तद्-निर्मावृ-ता या ६, ९.

तद्-निर्वृत्ति-त्तैः काश्रौ १, ७,
१७; ४, ३, १०^१; -त्त्या मीसू
११, १, २७; ४, २.

तद्-निवास-सात् या १०,
४४; ११, ४५.

a) पस. रूप. = विच्छेद-। b) विप.। वस.। c) विप.। वस. > दस.। d) निवृत्तेः इति पाठः ?
यनि. शोधः (तु. चौसं.) ।

तन्-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्
सुध ४.
तन्-निष्कृत्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्
विध ५९, २०.
तन्-निष्, ष्ठा^१- -ष्ठः या १४,
३; -ष्ठया हिथौ ४, ४, १६.
तन्-निसनी^१- -गात् वागृ ६, १७.
तन्-न्याय- -येन आश्रौ ६, ५,
१५.
तन्-न्याय-त्व- -त्वात् मीसू
१, ३, १६×४.
तन्-मत- -तेन अप २२, ८, ४.
तन्-मध्य- -ध्यस्य पावा १, १,
७१; -ध्ये काश्रौ ५, ८, २१;
वैश्रौ १४, १० : ७×४; कौगृ.
तन्-मनस्- -नाः शंघ ८९;
-वौध २, ७, ६; विध.
तन्-मन्त्र- -न्त्रम् वौश्रौ २९,
११ : ७; अशां २०, ४१; -न्त्रेण
वौपि २, ११, ८.
तन्मन्त्रां(न्त्र-अ)हो-सुच-
-चैः अप ४६, ७, ३.
तन्-मन्यु- -न्युम् हिध १, ७,
६४.
तन्-मय- -यः वैगृ ५, १ : १६;
-यम् पागृ २, १७, २; अप ३६,
२६, १; -यान् अप ५२, १४, ५.
तन्मयी- -यी कप्र १, ७,
२२.
तन्मय-त्व- -त्वात् शंघ
३४०.
तन्-मरण-दिन- -ने वैगृ ७, ७:९
तन्-मात्र- -त्रम् विध २३, ३५;
माशि २, ११; याशि १, ५३.
तन्मात्री- -त्री जैगृ १,
२० : ११.

तन्मात्र-च्छेद- -दः शंघ
१७५.
तन्-मास- -सम् वौध ४, १,
२०.
तन्मास-तुल्य- -ल्यैः वैगृ
७, ५ : ६.
तन्-मिश्र- -श्रम् निसू १, १ :
४; -श्रैः पागृ २, १७, ८.
तन्-मुख- -खे कागृ ३४, ६.
तन्मुख-निःसृत- -तम् अप
८, २, ३.
तन्-मुख^१- -खाः आश्रौ ४, १,
८.
तन्-मूल- -लम् वैश्रौ ११,
७ : ८; -ले विध ९६, ७३;
-लैः भाश्रौ २, ४, ४.
तन्मूल-स(क्त>)क्ता- -क्ता
कप्र १, ६, ९.
तन्-मूल, ला^१- -ला शंघ
२६२.
तन्मूल-त्व- -त्वात् गौध ६,
२३.
तल्-लक्षण-त्व- -त्वात् मीसू
३, ७, १८; ९, ३, ४०.
तल्-लक्ष्मन्- -क्ष्म वौश्रौ २८,
३ : ६.
तल्-लिङ्ग, ह्ना^१- -ह्नाः निसू ५,
२ : ५; -ह्नानाम् अप ६५, २, ९;
-ह्ने शाश्रौ १, १७, ५; -ह्नेन निसू
५, ४ : ३.
तद्धिङ्ग-त्व- -त्वात् आपश्रौ
१९, १८, ४; २४, १२, ४; मीसू
१०, ६, २३.
तद्धिङ्ग-दर्शन- -नात् लाश्रौ
९, ६, १९.
तद्धिङ्ग-संयोग- -गात् मीसू

६, ४, २२; ४२.
तद्धिङ्गीय- -यान् निसू २,
११ : २२.
तस्य-निमित्त-प्रकरण- -णे पावा
५, १, ३८.
तस्य-पुनर्-वचन- -नम् पावा
४, ३, १३२.
तस्य-प्रकरण- -णे पावा ४, ३,
१३२.
तस्ये(स्य-इ)दं-वचन- -नात्
पावा ४, २, ९२; ३, १३२.
तस्ये(स्य-इ)दं-प्रत्यय- -यस्य,
-यात् पावा ४, २, ६०.
ता-दृश- -दृक् आश्रौ १२, ९,
१७; आपश्रौ.
तादृग्-विध^१- -धेन विध
७, ९.
ता-दृश- -शः निसू ३, १२ :
३१; ४२; भाशि १२८; आज्यो
१२, ७; -शम् वैश्रौ २०,
३५ : ३; ५; निसू; या ७, ७;
-शाः माशि १६, ४; -शानाम्
सु ७, ३; -शानि आपश्रौ ९, ९,
११; भाश्रौ; -शे निसू ३, १२ :
२९; ४, ७ : २१; -शेन अप
३१, २, ३.
तादृशी- -शी वैगृ ३, ९ : ६.
ता-वत्- पा ५, २, ३९; पागृ १,
४, ५७^१; -वत् आश्रौ ७, १, २२;
शाश्रौ; वौपि ३, ७, ३९; -वत्:
काश्रौ १४, २, ४×४; आपश्रौ;
पावा १, ३, ११; -वत्ऽ-वत्तः
काश्रौ २०, २, ११; आपश्रु;
-वत्ता आपश्रौ १६, १७, ८; वैश्रौ;
-वताम् आश्रौ ४, १, १९; शंघ;
-वति आपश्रौ ११, ५, ४; वौश्रौ;

a) विप. । वस. । b) चस. उप. = दान- । c) तस. वा वस. वा । d) तु. पागम. । e) वानि

इति B. ।

वैप४-तु-५०

-वत्सु द्राश्रौ ६, ४, १५; लाश्रौ
२, १२, १६; -वन्निः लाश्रौ १०,
२०, ९; वृद् २, १०२; -वद्भ्यः
वैगृ ३, ७ : १५; या १, १२;
-वन्तः शांश्रौ ८, २१, १३;
आपश्रौ; -वन्तःऽ-वन्तः काश्रु
३, ७; -वन्तम् वौश्रौ ८, ३ :
४; माश्रौ; -वन्ति आपश्रौ ८,
५, ४१; वौश्रौ; -वान् आपश्रौ
७, २, १३; वाश्रुश्रौ.

तावती-ती वौश्रौ २,
१० : २०; २३; २७; माश्रौ;
-तीः शांश्रौ ८, २१, १३; आपश्रौ;
-तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुत्
१, ७ : १९; २५; -तीम् आपश्रौ
२, २, ७; वौश्रौ; -त्यः शांश्रौ ८,
७, ५x; वौश्रौ; -त्याम् वौश्रु
१ : २१.

तावतिथ- धम् पा, पावा
५, २, ७७; -थेन काश्रौ ३, १,
९; पावा ५, २, ७७.

तावति-सूक्त^{a,b}- -क्ताः
आश्रौ ८, ५, ७.

तावत्-काल- लन् वौपि
२, ८, ७; वैगृ.

तावत्-कृत्वस् (ः) आपश्रौ
१४, ७, १४; वौश्रौ.

तावत्-प्रमाण^a- -गौ वैश्रौ
११, ९ : २.

तावद्-जघः-खा (त >)
ता^a- -ताः विघ २१, ४८.

तावद्-अन्तर, रा^a- -रम् विघ
११, २; -राः कागृ ६५, ३; विघ
२१, ४.

तावद्-अन्तराल^a- -ले वौश्रु
८, ११; हिश्रु ३, १७.

तावद्-अवखा (त >) ता^a-
-ताः कागृ ६५, ३०.

तावद्-अवरार्ध^a- -र्धः
वौश्रौ २४, २३ : २.

तावद्-द्वय- -अम् वौश्रौ
१०, ४६ : ३१.

तावद्-वर्ध^a- -र्धां लाश्रौ
९, १२, १२.

तावन्-मात्र- -त्रम् वौश्रौ
२९, १२ : १२; -त्राः वौश्रौ
२६, २३ : ९; १०; -त्रेण वौश्रौ
१७, २८ : १२.

तावन्मात्री- -त्रीः वौश्रौ
१९, २ : ११.

तावन्-मान^a- -नम् आपश्रौ
१९, २३, १२; वौश्रौ १३, ३१ :
६; २६, ६ : १२; हिश्रौ २२,
५, १.

तैस्-त्वम्-जादि-वर्जम् शौच
२, ८४.

तस्, सा- तसः आश्रौ १, २, १; ४,
७, ४०; शांश्रौ; आपश्रौ १२, १९,
५; २३, ८६; आमिगृ ३, १०,
५ : १०; हिश्रु १, ५, १; कौत्
१२९, २; ४; पा S५, १,
५६x; सःऽसः आपश्रौ १२,

२५, ३; वौश्रौ १२, ५ : १५;
सा आश्रौ १, १०, ८; शांश्रौ;
काश्रौ ९, ११, १; पागृ ३, ३,
५; हिश्रु; सो (सः-ऽ) माद् १,
११.

स(क >) का- पा ७, ३, ४५.

तावत्पिथ उद् √ रूप > उदपितः
टि. द्र.

तावद्दुर्तो अप्राय ६, ८.

तावद्दुरि शौच १, १०, ५.

तावद्-पाठभो २, १, ११३.

तावद्द्विदेय^a द्राश्रौ ९, १, १६; लाश्रौ
३, ५, १५.

तावत् पावा. तना. उम. वित्तारेः
चुरा. उम. श्रद्धोपकरणयोः
तावत्तन्त^a नागृ १, १०, ८;
२२, ३.

तनुते या ४, ११; तनोति
अप्राय १, ५; या १०, २९;

तावत्तन्वते. पागृ ३, ३, ५; वागृ;
तावत्तुताम् वौश्रौ ३, १८ : २८;

२९ : २१; वाश्रौ १, ३, ५,
११; तानोतु^a द्राश्रौ १२,
४, १; लाश्रौ ४, १२, १;

तन्वताम् नाश्रौ ५, २, ८,
२०; तावत्तुहि द्राश्रौ ६, ३, ९;

लाश्रौ २, ११, ३; तनुत
भाशि १०२; तावत्तन्वत्
आपश्रौ १४, १२, ४; वौश्रौ;

तावत्तन्वत् नागृ १, १०, ८;
२२, ३; वागृ ५, ९; तन्वीत

a) विप. । वस. । b) णि^a इति पाठः ? ष् इति शोषः संभाव्येत (तु. भाष्यम्) । c) सप्र.

जघः सावाः < > षवसाताः इति पाठे. । d) तद्विधौ द्वि. । e) पाठे. वैप १, १४४९ C द्र. । f) पाठे.

वैप १, १४४८ h द्र. । g) पाठे. वैप १, १४४७ a द्र. । h) पाठः ? ते इति शोषः (तु. सपा. आपश्रौ ९, ११,

२३) । i) सप्र. आपमं २, ३, १ सु इति पाठे. । j) पाठे. वैप २, ३ खं. त्वन् तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । k) पाठे.

वैप १, १४५१ h द्र. । l) वैप १ द्र. । m) पाठः ? तद्विद्- > -विदे इति शोषः (तु. सत्य. टि. तद्-> ते) ।

n) या २, १६; २८; ३, १४; १०, ७ पा २, ४, ७९; ३, १, ७९; ६, ४, १७; ३७; ४४; ९९ पावा ६, ४, ७७; ७, २, ४६-

परामृष्टः द्र. । o) पाठे. वैप १ परि. बुद्धन्त शौ १४, १, ४५ टि. द्र. । p) पाठे. वैप १, १४५३ j द्र. ।

आपश्चौ ९, १५, १५; वौश्रौ;
 तनुयात् कप्र २, २, १२; तनुयुः
 आश्रौ २, १, १८.
 ऋततान आपश्चौ १०, २७,
 १०; या १०, २९; ऋततान
 ऋप्रा ९, ४६; ऋततन्थ पाण्ड १,
 ४, १३^३; भाशि ५४; अल्लत
 या १२, ३४^१; अतनियत्
 या १२, ३४.
 तायते आपश्चौ ३, ११, २^१; १३,
 १, १; वौश्रौ; माश्रौ १, २, ४, ५^१;
 वाश्रौ १, १, २, २०^१; तायन्ते
 वाधुश्रौ २, १०:२; कौसू १२७, २.
 तत्- > तत्-वत्- > ^१वत्-नीति-
 -ति: पावा १, ४, १०९.
 तत्त, ता- ऋत: शाश्रौ २, १२,
 १०; काश्रौ ३, ८, २२; -ऋतम्
 आश्रौ ७, ७, ३; शाश्रौ; -ता:
 या ८, ५^३.
 तत्-वत्- -वत् या ४, ९.
 तत्तन^१- -नात् या ५, १९; ६, २८.
 ऋततनुष्टि^१- -ष्टिम् अप ४८, ११५;
 निघ ४, ३; या ६, १९^१.
 तत्तन्वस्- -न्वत्^१ या ५, १५.
 तति- -ति: वौश्रौ २४, ५: १××;
 निसू; -तौ शाश्रौ ६, १, ३; वौश्रौ.
 तत्य आमिष्ट २, ४, ९: ५.
 ऋतत्वाय वाधुश्रौ ४, १०३: ८.
 ऋतन्^१- ऋतना^१ वौश्रौ ११, ३: १४;
 १७, ३४: ३; निघ २, १०;
 ऋप्रा ७, ३१; तने^१ आश्रौ ७,
 १२, ७; ऋप्रा ६, १२.
 तनन- -नात् वृदे २, २६.

तनय^१, या^१- पाठ ४, ९९; पाग ६,
 ३, ३४; -य: निघ २, २^१;
 -ऋयम् अप ४८, ८७; या १०,
 ७^१; १२, ६; -ऋयाय आपश्चौ
 ५, १२, १^२; वौश्रौ २, १६:
 ४२; १७: ४; हिश्रौ ३, ४,
 १२^२; -ऋये आश्रौ ३, ३, १;
 शाश्रौ ५, १७, ९; आपश्चौ ४,
 १६, ५; भाश्रौ ४, २१, ४; हिश्रौ
 ६, ४, २६; भाण्ड ३, १२: २०;
 -येषु या १०, ७^१; -यै: वृदे
 ५, १६४.
 तनय-लाम- -माय आज्यो ६, ३.
 ऋत(न >) ना^१- -नाया: आश्रौ ४,
 ७, ४; शाश्रौ ५, १०, १८.
 तनि(तु >) त्री- -त्री या १२, ३०.
 षतनु^१- (> तनु-क- पा.) पा ५,
 ४, २९.
 तनु^१- पाठ १, ७; पाग २, २,
 ३८^१; ५, १, १२२; -तुना अप
 ६३, २, ६; -तुभ्याम् गौध २,
 ५०; -तुन् काश्रौ ८, ५, २२.
 तनिमन्- पा ५, १, १२२; -म^१
 वौश्रौ ४, ८: ४; ९: ११; वैश्रौ
 १०, १७: ६; १९: ५; -म^१
 वौश्रौ ४, ९: २.
 तनिष्ठ- -ष्टे माश्रौ १, ८, ४, १२;
 वाश्रौ १, ६, ५, २५; आपश्चौ ७,
 १९, १; भाश्रौ ७, १४, १४.
 तनु-ता- पा ५, १, १२२.
 तनु-तृणविन्दु- पाग २, २, ३८^१.
 तनु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वे
 पा, पावा ५, ३, ९१.

तनु-त्वङ्-नख-रोमन्^१- -माणः
 अप ६८, १, ११.
 तनु-पुरीष- -वम् वौश्रौ १०,
 २१: १०; ३७: ५; ४६: २४;
 १९, ४: १६; वैश्रौ १८, १२:
 २१; वौपि १, १६: १२; वौशु
 २१: ९.
 तनु-प्र(भा >) भ^१- -भा: अप
 ५२, १३, ३.
 तनु-मध्य- -ध्यानि हिश्रौ ५, ४,
 ४.
 तनु-मिश्र- -श्रेण माश्रौ २, १, १,
 ८.
 तनु-शि(र >) रा^१- -रा ऋत्र
 १, ५, ५; २, १, १२०; अत्र ५,
 २८; ऋप्रा १६, ३५.
 तनु^१/कृ > तनु-करण- -णे पा
 ३, १, ७६; पावा ३, १, २६.
 तनु^१, नू^१- पाठ १, ७; ८०; -नव:
 शंघ २८६; -तु: वृदे २, २६;
 -तुभि: वाधुश्रौ ३, १३: १६;
 -ऋतुभ्य: आपश्चौ ३, ७, ५;
 भाश्रौ ३, ६, ९; वैश्रौ ७, ६:
 १२; हिश्रौ २, ४, २७; -तुम्
 आपश्चौ ८, ४, १; वौश्रौ २७, ७:
 ६^१; अप ३६, ५, १; ३; विघ
 १, ३७; वृदे ३, १; -ऋतुव:
 आपश्चौ २, २०, ६; ५, १०, २^१;
 ३××; १६, १४, ४^१; १९, ११, ९^१;
 वौश्रौ २, १६: १३^१××; १०, २०:
 ७^१; १९, २: २४^१; भाश्रौ ५, ५,
 १५××^१; वाधुश्रौ; हिश्रौ ३, ३,
 ३९^१; ११, ५, २८^१; २३, २, ९^१;

- a) पृ ११५४ ० द्र. । b) पाभे. वैप १, १४५४ ० द्र. । c) तु. पाम. । = तन्वन्-नीति- यद्र. ।
 d) = तनन- (भाप. [तु.टु.]) । व्यु. १ । e) वैप १ द्र. । f) पाग. पाठः । g) = सत्र- । h) = कृश-
 सूक्ष्म- । i) तनुतड- इति (काचित्कः पाभे. [तु. भाण्डा.]), तड-, तनु- इति पासि. । j) = यद्वन्- ।
 k) तु. पागम. । l) विप. । वस. । m) = उष्णिक्-छन्दो-विशेष- । वस. । n) अप २२, ९, २ त्वचम् इति पाभे. ।
 o) पाभे. वैप १, १४५५ ० द्र. ।

आमिष्ट ३, ६, १ : १०^०; वौषि
१, ८ : ९^०; -तनुवम् आपश्रौ
१, २५, ९^०; १०, ६, ६; वौश्रौ
१, १० : ९^०xx; माश्रौ १, २६,
७^०xx; वैश्रौ; हिश्रौ १, ६,
५२^०; भाष्ट २, ३० : १४^०;
-तनुवा आपश्रौ १०, ३, ८;
वौश्रौ; -तनुवे आपश्रौ ४,
१६, ५^०; ५, १५, ५; वौश्रौ
३, १२ : २३^०; माश्रौ ४, २१, ४^०;
हिश्रौ ६, ४, २६^०; पाष्ट ३, १,
४^०; जैष्ट १, २४ : ६^०; -तनुवे
आपश्रौ ९, १, १७^०; १४, २९,
३^०; माश्रौ ९, १, १७^०; हिश्रौ
१५, १, १८^०; ७, १६^०; आमिष्ट
३, ६, ३ : १९^०; ७, १ : १३^०;
वौषि १, ११ : १६^०; १७ :
१२^०; हिष्ट १, १६, ७; -तनुवौ
आपश्रौ ५, १५, २^०; वौश्रौ; -तनु
जैश्रौ २३ : ८; जैश्रौका ५२;
आपमं १, ११, २^०; काष्ट ३०,
३^०; वाष्ट १६, १^०; तैश्रा ४, ५२;
-तनुः आश्रौ ३, १०, ६; ८,
१३, १२; शाश्रौ; या ८, ५;
-तनुनाम् आपश्रौ १४, १६, १;

१७, ९, १; वौश्रौ; -तनुभिः
आश्रौ २, ११, १२; शाश्रौ;
-तनुभ्यः आपश्रौ ३, ११, २;
वौश्रौ; -तनुम् आश्रौ २, १९,
३२^०; शाश्रौ ३, १७, १^०; काश्रौ
५, २, १४^०; २५, ६, ७^०;
आपश्रौ; वौश्रौ १, १२ : २१^०;
वाश्रौ १, ३, २, २१^०; आपमं १,
२, ७^०; पाष्ट २, १, ९^०; -तनुषु
शाश्रौ १८, ११, २; आपश्रौ;
-०नो या २, १२; -तनुः
आश्रौ २, ५, ९xx; शाश्रौ २,
११, ३^०; ४, ११, ६^०; काश्रौ;
माश्रौ १, ६, ४, २५^०; वाश्रौ १,
५, ५, ८^०; द्राश्रौ ४, १, ८^०;
लाश्रौ २, १, ७^०; कौसू ४६,
१४^०; ७४, १९^०; या ८, ५;
-तनुम् आश्रौ ३, ११, ११;
शाश्रौ; आपश्रौ ७, ६, ५^०; ९,
६, ३^०; माश्रौ ९, ८, ६^०; माश्रौ
१, २, ३, २८^०; ७, ३, ४^०;
वाश्रौ १, ६, २, १^०; ६, ११^०;
वैश्रौ २०, ११ : ४^०; या १,
८; १९; ३, २१; १०, १८^०;
४^०; -तनुवा आश्रौ २, ५, १०;

३, ८, १^०; शाश्रौ; माश्रौ १, ३,
५, १८^०; ८, ३, २९^०; ४, ३६^०;
वाश्रौ १, ५, ४, २९^०; ६, ४, ३४^०;
माष्ट २, ४, ५^०; कौसू ४४, १४^०;
४५, ११^०; या २, १२^०; १२,
३; -तनुः पाष्ट २, ४, ७^०;
-तनुवाम् आश्रौ २, १९, ३२^०;
शाश्रौ ३, १७, १^०; काश्रौ २५,
६, ७^०; माश्रौ; -तनुवी ३^० ऋषा ८,
१५^०; -तनुवे माश्रौ ३, ४, १^०;
या १४, २६; -तनुः कौष्ट ५,
५, ६^०; -तनुः शाश्रौ १४, २९,
३; ६; काश्रौ २६, ४, १२^०;
वाश्रौ १, ५, ४, ३८^०;

१तान्व- -तनुः या ३, ६^०।

तनु-कृ^० -कृभ्यः वैश्रौ १४,
१४ : १३^०।

तनु, [तनु^०] -त्यज् -त्यक् या ३
१४; -त्यजः आमिष्ट ३, ४, ४ :
११; वौष्ट १, ५, २९^०; वौषि
३, ४, १४; १५; आपम २, २६,
३; हिष्ट २, ५, १९^०; -त्यजा
या ३, १४^०।

तनु-त्याग-सदृश- -शः विष्ट ३,
४४.

- a) सपा. ऋ १०, १६, ४ तन्वः इति पामे. । b) पामे. वैप १, १४५५ I द्र. । c) सपा. शौ ६,
१२४, २ तन्वः इति पामे. । d) पामे. वैप १, १४५६ k द्र. । e) पामे. वैप १, १४५७ j द्र. । f) पामे. वैप
१, १४५८ a द्र. । g) संहितायां सानुनासिकत्वं द्र. । h) = सपा. तै १, ७, १२, २ मै १, १०, ३ ऐश्रा १, ३, ४ ।
काठ ९, ६; १४, ३; ४५, १२ तु तन् इति, शौ ७, ३, १ तन्वा इति च पामे. । i) पामे. वैप १, १४५८ u द्र. ।
j) पामे. वैप १, १४५७ a द्र. । k) पामे. वैप १, १४५६ g द्र. । l) पामे. वैप १, १४५५ l द्र. । m) सप्र.
शौ १०, ५, २३ विशिष्टः पामे. । n) पामे. वैप १, १४५५ m द्र. । o) पाठः ? न्वाम् इति शोषः (तु. माश्रौ
३, २, ५ हिश्रौ १५, २, ११) । p) पामे. वैप १, १४५८ w द्र. । q) पामे. वैप १, १४५९ k द्र. । r) पामे.
वैप १, १४५६ b द्र. । s) पामे. वैप १, १४५६ c द्र. । t) पाठः ? त्व इति शोषः (तु. तै १, ५, १०, १) ।
u) = सपा. मै १, १०, ३ ऐश्रा १, ३, ४ । काठ ९, ६; १४, ३; ४५, १२ शौ ७, ३, १ तु तन्वम् इति, तै १, ७, १२, १-
तनुवाम् इति च पामे. । v) न्वि इति पपा. । w) पामे. वैप १, १४५६ i द्र. । x) उत्तरेण संघिरापः
y) पामे. वैप २, ३३ तनुवे तैश्रा ६, ४, १ टि. द्र. । z) वैप १, १४६० f द्र. । a^१) = तनु-कृ^० । b^१) सपा.
ऋ ८, ७९, ३ प्रमृ. तनुकृभ्यः इति पामे. । c^१) या. पाठः । d^१) पाठः ? तनुत्वच्- > -त्वचः इति शोषः-
(तु. सपा. हिष्ट १, २४, ४ त्वचः इति पामे.) ।

तनु-हविस्^a- -विभिः भाश्रौ
५, १३, १५; -विर्भ्यः भाश्रौ ५,
१४, २; -वीषि भाश्रौ ५, १३,
२०; १४, १.

तन्-कृत्^b- -कृतः शाश्रौ ७,
१०, १४; -कृद्भ्यः आपश्रौ ११,
१६, १६; वौश्रौ ६, २० : १६;
माश्रौ २, २, ४, २४; हिश्रौ ७,
८, १७; चाश्र ३ : २.

तन्-ज^b- -जम् सु २७, ५.

तन्-त्यक्त्- -क्ता या ३, १४.

तन्-दूषि^b- -पिः पाण २, ६,
१०.

तन्-देवता- -ताः शाश्रौ २, ३,
१०; -ताभिः शाश्रौ २, ३, १४;
-ताभ्यः काठश्रौ १७.

तन्-नपात्^b- -पाण ६, २, १४०;
-पात् तआश्रौ १, ५, २१; २, ८,
६; शाश्रौ; वौश्रौ ५४ : ३०;
वैष ४, ८, १३०; ऋश्र २, १, १३;
या ८, ५६; -०पात् या ८, ६१;
-पातम् आपश्रौ २, १७, २;
भाश्रौ २, १६, ७; वैश्रौ ६, ७ : ४;
हिश्रौ २, २, ३१.

१तानूनपा(त>)ती^d-

-ती निस् ४, ८ : २; -तीम्
वौश्रौ १०, ११ : ८; ९; लाश्रौ
६, ४, १३; निस् ४, ८ : ४; ९.

२तानूनपात्^e- -तेषु

निस् ४, ८ : ४.

तानूनपातिन्^f-

-तीनि निस् ४, ८ : ३; ६.

तानूनपात्-वत्- -वन्ति या

८, २२^g.

तानूनपाद्^h- -दानाम् वैष
४, ८, ९.

तन्-नप्त्^b- -प्त्रा या १०, १८;
-तप्त्रे काश्रौ ८, १, १५; वौश्रौ
६, १९ : १; माश्रौ २, २, १, २;
वाधुश्रौ ४, ५४ : ५; वैताश्रौ
१३, १६; शुभ्रा २, ४७; याशि
१, ८५.

तानूनप्त्र^b- -प्त्रम् आश्रौ ४,
५, ३; शाश्रौ; काश्रौ ८, १, १९;
हिश्रौ १०, ३, ३१^h; -प्त्रस्य वौश्रौ
१४, २ : ५; ९; २१, १३ : १९;
-प्त्रे अप्राय ३, १.

तानूनप्त्र-पात्र- -त्रे
वैताश्रौ १३, १६.

तानूनप्त्रिन्- -प्त्रिणः
आपश्रौ ११, १, ११^h; १३, १८,
२; वैश्रौ १२, २३ : ६; १६,
२२ : ६^h.

तन्-प^b- -तपात्^k आश्रौ ५, २,
१४; वौश्रौ १४, ९ : २९; हिश्रौ
१०, ८, ४४; वैताश्रौ १७, ४;
कौस् १०८, २.

तन्-पा^b- -तपाः शाश्रौ २,
११, ३; ४, १२, १०^l; ६, ८, ६^k;
आपश्रौ; -तपौ शाश्रौ १, ६, ११.

तानूनपावन्^b- -वानः आश्रौ
५, ६, १^l; ७^l; ११^l.

तन्-पृष्ट^m- -ष्टः लुस् २, १४ :
१५; -ष्टस्य शाश्रौ १०, ८, २१;
-ष्टे वैताश्रौ ४२, ९; -ष्टौ लुस्
२, ९ : २४.

तन्-पृष्ट^m- -ष्टयः आश्रौ ८, ४,
२७.

तन्-शुभ्र^b- -भ्रम् या ६,
१९^h.

तन्-शोभयितृ- -तारम् या ६,
१९.

तन्-हविस्^b- -वीषि काश्रौ ४,
५, ८; १०, ७; वौश्रौ २, ७ : २३.

तनुस्^b- पाठ २, ११७.

तन्ति, न्ती^b- -तन्तिः हिण् १, २३,
१; गो २, २०; -न्तिम्
आपश्रौ २१, ८, २; हिश्रौ १६,
३, ३७; हिण् १, २३, १^h; गो
२, २०^h; -न्ती गोण् ३, ६, ७;
द्राण् ३, १, ४९; -न्तीम् गोण् ३,
६, ७; द्राण् ३, १, ४९.

तन्ति-चर^b- -रः आपश्रौ ३, ४,
८; वौश्रौ १, १९ : ८; भाश्रौ ३,
४, ९; माश्रौ १, ३, ४, ३; वाश्रौ
१, ३, ५, १७; हिश्रौ २, ३, ४९;
गोण् १, ८, २७; द्राण् २, १, २६.

तन्ति-पाल- पा ६, २, ७८.

तन्ती-विहरण- -णम् गोण् ३, ६,
८.

१तन्तु^b- पाठ १, ६९; -तन्तवः
आश्रौ ३, १४, १०; शाश्रौ;
-तन्तवे काश्रौ ३, ८, २३;
आपश्रौ; -न्तुः शाश्रौ २, १२,
९^h××; काश्रौ; या ६, १२;
-न्तुना अप ५८^l, ३, २;
-तन्तुभिः द्राश्रौ ११, १, ६;
लाश्रौ ४, १, ६; -तन्तुम् आश्रौ
१, ११, ९××; शाश्रौ; -न्तु

a) = तन्-ह^o। ण्^o इत्यपि मूको। b) वैप १ द्र.। c) = प्रवर-विशेष-। d) = ऋन्-।

साऽस्य देवतीयः अण् प्र.। e) = तानूनपातिन्-। मत्वर्थीयः अच् प्र.। f) मत्वर्थीयः इनिः प्र.। g) मत्वर्थे

अच् प्र.। h) = आज्य-विशेष- [आश्रौ. काश्रौ. प्रच्.]। शेषं वैप १ द्र.। i) अम् इति पाठः ? यनि. शोचः।

j) तन्^o इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपश्रौ.)। k) पाभे. वैप १, १४६० S द्र.। l) पाभे. वैप १,

१४६१ C द्र.। m) = सोमयाग-विशेष-। वस. पूष. अर्थः ?। n) = [तन्शब्द-युक्तं] हविर्-विशेष-।

कौस् १०७, १; -न्त्स् आपश्चौ
२१, १७, ९; हिश्रौ; -न्त्स्नाम्
आपश्चौ १, १२, ८; हिश्रौ १, ३,
२९; -न्तोः शाश्रौ १५, २४, ११†;
-न्त्वा शुभ्र १, १६८†; -न्त्वोः
कौस् ९३, १५.

तान्तव^१- -वम् वाध २, २५;
११, ६७; -वे पावा ७, ३, ४५.
तन्तु-त्रय- -यम् कप्र १, १, २.
तन्तु-मत्- -मते आपश्चौ ९, ८,
५; वौश्रौ; -मान् वौश्रौ २७, ६:
२३; वैश्रौ २०, १५: १०; ३२:
५.

तन्तुमती^२- -ती वौश्रौ
२७, ११: १८; २०; २९, १:
१२; -तीः आमिष्ट २, ६, ५:
५××; वौष्ट; -तीम् वौश्रौ २७,
४: १८; वैश्रौ २०, ३९: ०;
-त्यः वौश्रौ २८, ११: १०;
-त्या वौश्रौ २९, ७: ६; ८:
१६; -त्यौ माश्रौ ५, १, २, १६.

तान्तुमत^३- -त् आमिष्ट २,
६, ५: ७; वौष्ट २, ९, १०;
भाष्ट ३, १५: १६; २१: १०.

तन्तु-त्राय^४- -यः वैध ३, १४, १.
तन्तु-शब्द^५- -ब्दाः वौश्रौप्र
३१: ८.

तन्तु-शुक्लपटो(ट-उ)पर्म^६- -माः
अप ५२, १३, २.

तन्तु(न्तु-अ)ग्र- (>तन्त्वग्रो-
य- पा.) पाग ४, २, १३८.

१तन्त्र^७- पाउभोर, ३, ८५; पाग ५,
२, ३६†; -न्त्र^१ काश्रौ १, ७, ७;

-न्त्रम् शाश्रौ १४, ३९; ५××;
काश्रौ; -न्त्रयोः निस् ६, २:
२३××; -न्त्रस्य आश्रौ १, १,
३; वौश्रौ; -न्त्राणाम् आश्रौ
१२, १०, २; कौशि ७५; -न्त्राणि
वौश्रौ २०, १९: ८; २४, ११:
९; निस्; -न्त्रात् वौश्रौ २३,
६: १२; पा ५, २, ७०; -न्त्राय
वौश्रौ २०, ३: २१; -न्त्रे आश्रौ
४, १, ९; शाश्रौ; -न्त्रेऽन्त्रे
वौश्रौ २०, ३: २२; २१, ८:
३९; -न्त्रेण काश्रौ १६, ७,
१७××; वौश्रौ २३, १९: १७;
निस् ८, २: ११; -न्त्रेभ्यः निस्
८, ११: २२; -न्त्रेषु वौश्रौ २०,
१८: ७; निस् ८, ५: ६.

तान्त्र^१- -न्त्राणि या ८, ७.

तान्त्री- -न्त्रीः आपश्चौ
१४, १२, ६; -न्त्रीणाम् आपश्चौ
१४, १२, ५; हिश्रौ १०, ६, ८;
मीस् १०, ८, ४९^६.

तान्त्रिक- -कः अप्राय २, ५.

तन्त्र-क- पा ५, २, ७०.

तन्त्र-करण- -णे वौश्रौ २०,
१८: १०; १९: ७; २२: १४.

तन्त्र-ज्ञान^१- -त्रेण निस् ३, ६:
३४; ५, ९: २४.

तन्त्र-तर- -रम् निस् ५, ८: ७^३;
६, ७: ३३; ७, ४: ४३.

तन्त्र-ता- -ताम् आश्रौ ११,
१, १५.

तन्त्र-नियम- -मः मीस् १२,
३, ३.

तन्त्र-भाव- -वः मीस् ११, २
११; ४, ३१.

तन्त्र-भृ(त>)ता- -ताम् अशां
२०, १†.

तन्त्र-भूय- -यम् वौश्रौ २४, ३:
९.

तन्त्र-भूयस्-त्व- -त्वात् मीस्
१२, ३, १.

तन्त्र-भेद- -दः मीस् ११, ४,
१४; १२, १, २; २, १५.

तन्त्र-मध्य- -ध्ये मीस् १२,
१, ३; २, १७; ३२.

तन्त्र-लक्षण- -णम् शाश्रौ १,
१६, ६; लाश्रौ ६, ९, १३.

तन्त्र-विकार- -रः आश्रौ २,
१४, १४.

तन्त्र-विधान- -नात् मीस् ११,
२, १४; २०.

तन्त्र-विलोप- -पः लाश्रौ ९,
११, १३; १५.

तन्त्र-शेष- -षम् आमिष्ट २,
५, ४: १५.

तन्त्र-समास- -सः वौश्रौ २०,
१८: २३; २२: १; -से वौश्रौ
२, ७: २०; २०, १८: २३;
२२: १.

तन्त्र-स्थ- -स्थः निस् ९, २:
३२.

तन्त्र-स्थान- -नम् वौश्रौ २४,
३: ६.

१तन्त्र-स्वर- > २तन्त्रस्वर^२-
-राणि आश्रौ २, १५, १६.

तन्त्र-हर, रा- -र्या वौश्रौ २२,

a) विकाराथे अण् प्र. । b) = आहुति-विशेष- । c) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । d) नाप. । उस. ।

e) विप. । वस. । f) विप. । द्वस. > वस. । g) भाप., नाप. (शास्त्र-, सामन्-, प्रवाणी- [पा ५, २, ७०]) ।

वैप १ द्र. । h) तन्त्र-, विघ्न- इति भाण्ड. [पक्षे], पागम., विघ्नतन्त्र- इति भाण्ड. पासि. । i) = तन्त्रेण ।

j) विप. । तस्येदमित्याद्यर्थे प्र. । k) ञ्त्री° इति जीसं. । l) उप. √शा + ष्टून् प्र. (पाउ ४, १५९) । m) शोधार्थं

पृ ८१० b द्र. । n) मत्वर्थायः अच् प्र. ।

१२ : ११; -राणाम् बौश्रौ २१,
१ : २९.
तन्त्रा(न्त्र-आ)कृपार^३ -रम्
निसू ९, ५ : ३४.
तन्त्रा(न्त्र-आ)दि-दिषु वाश्रौ
१, १, ५, १.
तन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर-रे कप्र ३,
७, ८,
तन्त्रा(न्त्र-अ)न्वित-तानि
निसू ४, १२ : १४; ५, २ : १९;
७ : १६; -ते निसू २, २ : २९.
१तन्त्रा(न्त्र-अ)पवर्ग-नों बौश्रौ
२०, ३ : २३.
२तन्त्रा(न्त्र-अ)पवर्ग^३ -र्गः
मीसू ११, ३, ७.
तन्त्रा(न्त्र-अ)पेत्-तः निसू ९,
२ : ३३.
तन्त्रा(न्त्र-आ)यिन्^० -यिणे
शाश्रौ ८, १५, १२^१; द्राश्रौ १४,
३, ५^१; लाश्रौ ५, ७, ४^१.
तन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-र्थस्य मीसू
१२, १, ३.
तन्त्रा(न्त्र-अ)विलोप-पः
निसू ५, ११ : १९; ८, ८ : २०.
√तन्त्रि>तन्त्रयित्वा वैगृ ६,
६ : ४; ७; ७, ४ : ९.
तन्त्रित-पा ५, २, ३६.
तन्त्रिन्->०न्त्रि-समवाय-ये
मीसू १२, १, १.
तन्त्री/मू>तन्त्री-भाव-
-वात् आपश्रौ २१, ३, २; भाश्रौ
६, १७, ४; हिश्रौ १६, १, ३६.
तन्त्रै(न्त्र-ए)क-कम् वाध

२३, ४३.
तन्त्रो(न्त्र-उ)पधि-धिना निसू
९, ७ : १६.
तन्त्र्य, न्या-न्यम् निसू ६,
८ : ६; -न्याः माश्रौ १, ५,
५, ४.
२त(न्त्र>)न्त्री^०-पाउ ३, १५८;
-न्त्रीभिः बौश्रौ २३, ११ : २९;
-न्या कौसू ३२, १२.
३त(न्त्र>)न्त्री^१-न्त्रीम् काश्रौसं
२८ : १; -न्यः द्राश्रौ ११,
१, २; लाश्रौ ४, १, २.
१तन्त्र्यतु-पाउ ४, २.
तन्त्रवत्-न्त्रन् आश्रौ^६ १, ११,
९x४; शाश्रौ; आगृ ४, ६, ७^६;
-न्त्रन्तम् बौश्रौ १, ९ : १४;
नाशि १, ६, १९.
तन्त्रवत्-इयामाक-कम् कौसू
७४, १६.
तन्त्रान-नस्य निसू २, ७ : १७.
तान-पावा ३, १, १४०; -तः
काश्रौ १, ८, १८^६; भासू ३,
२७^१; २८^६; -नाः नाशि
१, २, ४^१, -नान् नाशि १, २,
८^१; -नेन वैताश्रौ ३०, २७^६.
तान-राग-स्वर-ग्राम-मूर्च्छना-
-नानाम् नाशि १, २, २.
तायमान->०न-रूप^३-पाणाम्
आश्रौ ७, १, ११; -पाणि शाश्रौ
१३, २४, १६; १८.
तितनिपु-पुम् या ६, १९.
√तन् (=√स्तन् [शब्दे])>२तन्त्र-
तु^०-तुः या १२, ३०^१.

तन्त्यु^०-न्यवः या ४, १९^१.
तन्-प्रय., १-३तनु-√तन् द्र.
४तनु^६-[>तान्व्य-(>०व्याय-
[न>[नी-]) पा.] पाग ४, १,
१०५; १८.
तनुतड-२तनु-टि. द्र.
तनुल-पाउना ५, ८.
तन्तस्-(>√तन्तस्य पा.) पाग ३,
१, २७.
तन्ति, न्ती-, १तनु-प्रय. √तन् द्र.
२तन्तु^६-[>तान्व्य-(>०व्याय
[न>[नी-]) पा.] पाग ४, १,
१०५; १८.
√तन्त्र-पाधा. जुरा. आत्म. कुटुम्ब-
धारणे.
१-३तन्त्र-प्रय. √तन् द्र.
तन्थी(>तन्थी/कृ पा.) पाग १, ४,
६१.
√तन्द् >तन्द्र->तन्द्वा^१-पाउना
२, १५; पाग ५, २, ३६; -न्द्रा
नाशि २, ८, २९^३.
तन्द्वा-विन्^३-विणम्
बौश्रौ ९, ८ : २०^१.
तन्दिच-पा ५, २, ३६.
√तन्द्र>तन्द्रालु^०-पा ३, २,
१५८.
√तन्दि, तन्द्रयते शाश्रौ १५,
१९, १^१.
तन्दि^०-पाउ ४, ६६; -न्द्रिः बौश्रौ
२, ५ : २^१.
तन्द्नी-पाउभो २, १, २४२;
-न्द्री आज्यो १२, १०; -न्द्रीम्
गौपि १, ५, ६.

a) साम-विशेषयोः द्वस. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) प्यणे इति पाठः? यनि. शोघः
(तु. मा ३८, १२) । e) = वीणा, वीणा-गुण- । <√तन्त्र इति पाठ. । f) = स्नायुमयरज्जु- । g) पामे.
वैप १, १४५४ f द्र. । h) = एकश्रुति- । i) ततः इति पाठः? यनि. शोघः । j) = संगीत-स्वर- ।
k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) पाप्र. < त (द्) > न् + √द्रा इति । m) तन्त्रीम् इति कालिसं. ।
n) विनिः प्र. उरसं. (पावा ५, २, १२२) । o) पाप्र. <√तन्द्रा इति ।

१तन्नोक्तस्यामानोः वाधूश्रौ ४, ६४:४.

१तन्यतु- √तन् द्र.

२तन्यतु- √तन् (=√स्तन्) द्र.

१तन्यन्तः अप ४८, ११६.

तन्व^०->२तान्व^०- न्वः ऋअ २, १०, ९३.

१तन्वोपप्लवमध्य^०- ध्यैः वीशु ६ : १०.

√तप्^० पाधा. भ्वा. पर. संतापे; दिवा.

आत्म. दाहे ऐश्वर्ये च; चुरा.

उभ. दाहे, तपति आश्रौ ८, १३,

१४; शांश्रौ १४, २४, ३; १५,

२४, ११; १६, ३, १०; वीश्रौ;

तपन्ति वीश्रौ १, ८ : २१; सु

१७, १; ऋया २, २२; ४, ६; ६,

३२; तपामि वैताश्रौ १४, ११;

तपत् आश्रौ १, १२, ३४^११^०;

तपः आश्रौ १, १२, ३४^११^०;

१तपत्तु आपश्रौ १४, २९, १०;

आमिगृ ३, ६, १ : ९; वीपि १,

८:८; तपन्तु आश्रौ २, १२, २^११^०;

१तपस्व आपश्रौ १४, २९, ३^१;

हिश्रौ १५, ७, १६^१; आमिगृ;

१तप, > पा, पो (पा + उ) शांश्रौ

५, ९, १०; आपश्रौ १४, २९, ३^१६;

वीश्रौ २, ७ : १४^३५^३; भाश्रौ;

माश्रौ ४, २, १८^१; हिश्रौ १५,

७, १६^१; तपध्वम् वृदे ६, १४०;

तपत् > ता तैत्रा ३, १२^१.

तेपे शांश्रौ १४, १२, २; ऋअ २,

१०, ४७; वृदे ५, १५५; ७, ४९;

तताप वैताश्रौ ४, ८^१; तेपिरे

या १४, ८; ९; तेषुः वृदे ६, १४१.

तप्यते आपश्रौ २१, २०, ३^१;

२३, १४, ३; वीश्रौ; तप्यति

वाध २७, ५; तप्यासहे कौसू ५७,

२३; तप्यताम् वाश्रौ १, ३, २,

१८^११^०; हिश्रौ ६, ३, १७^११^०;

तप्यतु वाध २५, ५; तप्यन्ताम्

माश्रौ १, २, ५, ८^११^०; १तप्यस्व

आपश्रौ १, १२, ३; वीश्रौ;

१तप्येयाम् वीश्रौ २०, ८ :

२३; माश्रौ १, २, ३, ८;

१तप्यध्वम् आपश्रौ १, २३, ६;

वीश्रौ १, ८ : १८; २०, ८ : २३;

भाश्रौ १, २४, ९; हिश्रौ १, ६,

२१; अतप्यत शांश्रौ १६, १५,

१; वीश्रौ.

तापयति कौसू २६, २५; २९,

२२; १तापयामसि माश्रौ १, २,

५, ८^१; वाश्रौ १, ३, २, १८^११^०;

हिश्रौ ६, ३, १७^११^०; तापयेत् अप

३१, ९, ४; ५; वैध ३, २, ६.

१तप- पाग ३, १, १३४; -पाय^१

कागृ ४, २०^१.

१तप(प-ऋ)धि^०- धीन् आमिगृ

२, ६, ३ : ३७; वीध २, ५, २७.

१तपिष्ठ- -०ष्ठ आपश्रौ १४,

२९, ३; हिश्रौ १५, ७, १६; अत्राय

५, ६; -ष्टैः या ६, १२.

तपिष्ठ-तम- -मैः या ८, १९.

तपत्- -पतः वीश्रौ १८, ५२ : १५;

-पन्तः वीश्रौ ९, ७ : ३^१.

१तपन, ना^०- पाग ३, १, १३४;

-१ना^० आपश्रौ ४, ६, ४; भाश्रौ

४, ९, २; हिश्रौ ६, २, १५; -ने

मैअ २१^११^०.

तपन-मन्त्र- -मन्त्रम् वीश्रौ २०,

८ : २२.

तपनीय^०- -यम् अप ११, २, १.

तपनीय-त्र(र्ण>)र्णा- -०र्णे

विध ९९, ३; ७.

२तपन्^१- > तापनीय^०- -याः

चव्यू २ : ३५.

तपन्त^१- -न्ताय कागृ ४, २०^१.

१तपस्^०- पाउवृ ४, १८९; पाग ४,

४, ६२; -पः शांश्रौ ४, १३,

११×१^१; काश्रौ; माश्रौ २, ३, ७,

४^११^०; शोध १०७^११^०; वीध २, १०,

३२^११^०; -१पसः काश्रौ ७, ८,

१९; आपश्रौ; कागृ ४१, ११^११^०;

- a) वैप १ द्र. । b) अर्थः व्यु. च? । पस. > पस., तन्व- = तन्, उपप्लव- = अन्त इति द्वारिकानाथयज्वा ।
 c) या ६, ३; ११ पा ३, १, ८८; २, ४६; पावा ३, १, ८७ परामृष्टः द्र. । d) पामे. वैप २, ३ खं. तमत्^१, तमः तैत्रा ३,
 ७, २, ७ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, ६३९ g द्र. । f) पामे. वैप १, १४६६ k द्र. । g) सकृत् तपा इति
 पाठः? सकृच्च पामे. वैप १ त्व ऋ ६, ५, ४ टि. द्र. । h) शोधार्थं वैप १, १४६४ a द्र. । i) पामे. वैप २, ३ खं.
 शोचतु तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. । j) ता^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वाश्रौ.) । k) पामे. वैप २, ३ खं. नाश-
 यामसि तैत्रा ३, २, १ टि. द्र. । l) = देवता- । m) नाप. । कंस. । n) भाप. विप. नाप. च । o) पामे.
 वैप १ परि. तपनाः वै १३, १०, ९ टि. द्र. । p) अर्थः व्यु. च? = प्रकरण-विशेष- इति संभाव्येत । q) = दुवर्ण- ।
 अर्हार्थं छ>ईयः प्र. (वैतु. अभा. करणे बनीयर् इति) । r) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । s) तेनप्रोक्तमधीत इत्यर्थे
 छप् प्र. खं. (पा ४, ३, १०२) । t) कर्तरि ङच् प्र. (पाउ ३, १२८) । u) पामे. वैप १ मनसः तै ३,
 २, ८, २ टि. द्र. । v) = व्याहृति-विशेष- । w) सकृत् तपः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. आपमं २, २,
 १० प्र.) ।

शुप्रा ३, २७^a; -पसा आश्रौ ३,
१२, २७^२; शांश्रौ; आम्रिण ३,
६, १ : ९^b; माण २, १३, ६०;
-पसाम् अप ३८, १, १; वैध २,
५, ९; -पसि शांश्रौ १६, १५, १;
आपश्रौ; -फपसे आपश्रौ १५,
७, ३; २०, १, १७; काश्रौसं;
-पांसि वाध ६, २; वौध.

१तापस- पा ४, ४, ६२; ५,
२, १०३; -सः वौध ३, ३, १९;
२०.

तापसी- पाग २, १,

७०.

तापसा (स-अ) पसद^d-

पाग २, १, ५३.

तपः-कर्मक- -कस्य पा ३, १,

८८; पावा ३, १, ८७.

तपः-क्षय- -ये अप ४२, २, १३.

तपःक्षय-जन्म-आपक^e-

-त्व- -त्वात् वैध १, ९, १४^e.

तपः-पूत- -तः विध ८३, ११.

तपश्-चित्^f- -चित्ते वौश्रौ १०,

२३ : १५; वैश्रौ १८, १४ : ३३.

तापश्चित्^f- -तम् आश्रौ

१२, ५, ११; १३; शांश्रौ;

-तस्य काश्रौ १७, ११, १२^h;

लाश्रौ १०, १३, १; -तानि आश्रौ

१२, ५, ८; -ते काश्रौ १७, ७,

१४; आपश्रौ १७, २६, ३^f;

वौश्रौ ९, १२ : २४; लाश्रौ १०,

१०, ६.

तापश्चित्-विकल्प-

-ल्पः काश्रौ २४, ७, २७.

तपश्चिताम्-अयन¹- -नम्

आपश्रौ २३, ११, १; -नेन वौश्रौ
१७, २३ : १.

तपः[, स¹]शब्द- -ब्दः आपध
१, ५, १; हिध १, २, १.

तपः[, श¹]शील¹- -लः वैध
१, ७ : ५; वौध २, ६, १७; गौध
३, २६.

तपसादे^m काश्रौसं ७ : २.

फतपस्-पत्ति- -तिः वौश्रौ ६,
१९ : ५; वैताश्रौ १३, १८ⁿ.

√तपस्य पा, पावा ३, १, १५.

तपस्यमान- -नान् या २,
११.

१तपस्य, स्या- -स्यम् वौध २,
३, १; -फस्याः आपश्रौ १०,

१४, १; वौश्रौ २८, ९ : १८;

वैश्रौ २१, २ : ५; -स्याभ्यः

काश्रौ २५, ११, २९^फ.

तपस्-वत्- -वत्ते शांश्रौ ३, १९,

१५; आपश्रौ; -वान् आश्रौ ३,

१२, २६; माश्रौ १, ४, १, २७^फ;

वाश्रौ; अप्राय ५, ६^फ.

तपस्वती- -तीम् अप्राय ५, १

तपस्-विन्- पा. ५, २, १०२;

-विनः वाश्रौ ३, २, ५, ३५; शोध;

-विनम् शांश्रौ १, २, ६; विध ३,

७०; गौध ११, १४; -विनाम्

अप ५८^२, ४, ५; विध ९९, १४;

-विने आश्रौ २, १, ४; या २, ३;

-विनौ वृदे ५, १५०; -फवी

आपश्रौ ४, ५, ३; १०, १२, २;

२१, १, १०; भाश्रौ ४, ६, ६४^x;

वाश्रौ.

तपस्विनाम्-अयन¹- -ने
हिश्रौ १८, ४, ११.

तपस्-संयोग- -गम् वैध २,
५, ५.

फतपो-जा- -जाः आश्रौ ५, ६,
१३; ७^२; ११^२; आपश्रौ.

तपो-धन, ना¹- -ना सु ३, ४;
-नैः अप २२, ८, ३.

तपो(पस्-अ)धिक¹- -काय
व्यामिण २, ७, १० : १४.

तपो-निधि- -धिः आज्यो १३,
९.

तपो(पस्-अ)न्त¹- -न्तम् विध
९५, १६.

तपो-बल- -लात् शांश्रौ ४, ५,
१५; ऋअ ३, ४.

तपो-मध्य¹- -ध्यम् विध ९५,
१६.

तपो-मय- -यम् सु २७, २; वाध
६, २६.

तपो-मूल¹- -लम् विध ९५,
१६.

तपो-युक्त- -क्तः आपण १८, १;
३; अप ३, ३, ५.

तपो(पस्-अ)धे- -धेम् सु २, ५;
६; -धेन सु १, ३.

१तपो-लोक¹- -कम् शंध
११६ : ६६.

तपु¹- -पोः ऋप्रा ४, ६३^फ.

तपुषि, पी¹- -पिः या ६, ३^फ;
-पिम् या ६, ३^फ; -पी निध
२, १३^फ.

a) पांमे. वैप १; १४६५ f द्र. । b) वैप १, १४६५ k द्र. । c) पांमे. वैप १ मुणिना स्त्रि २,
६, ७ टि. द्र. । d) तु. पागम. । e) °यात्, °कत्वात् इति B.I. पांमे. । f) = देवता-विशेष- (तु. तां २५, ५, ३) ।
g) = [तपश्चिद्विद्वष्ट-] सत्र-विशेष- । h) विप. (तु. P.IV. प्रमृ.) । i) = सत्र-विशेष- । j) आपध पाठः ।
k) वौध. गौध. पाठः । l) विप. । वस. । m) <तपसा देवाः (तैत्ति ३, १२, ३, १) । n) पांमे. वैप १,
१४६६ h द्र. । o) पांमे. वैप १ वीर्यावान् काठ ४, १४ टि. द्र. । p) पूष. = व्याहृति-विशेष- । q) वैप १ द्र. ।

तपुस्- पाठ २, ११७; -पुः या ६, १११^क.

तपुस्-मूर्धन्- -र्धा आपश्चौ १४, १७, ११^क; हिश्रौ १५, ५, ११^क; ऋत्र २, १०, १८२^०.

तप्त,सा- सः आश्रौ ४, ७, ४^३; शांश्रौ; -सम् आश्रौ ४, ७, ४; शांश्रौ; -सस्य माश्रौ २, २, १, ९; -सा वाधूश्रौ ३, २८ : २; -साः वौश्रौ १९, १० : १४; -सानाम् काठश्रौ ८९; -सानि गौध २३, २; -सामिः आपश्चौ १, २४, ५; माश्रौ; -साम्यः माश्रौ १, २, ३, ९; वाश्रौ १, ३, १, ८; -साम् माश्रौ ६, १, २, २२; वाध २०, १४; -सायाम् माश्रौ ६, १, ३, २३; -से आपश्चौ ८, २, ५; वौश्रौ ५, १, २७; माश्रौ; -सेन पागृ २, ८, ६; वौध १, १०, १८.

तप्त-करम्म-वाळुक- -काः शंघ ३७४.

तप्त-कृच्छ्र- -कृच्छ्रः वाध २१, २१; वौध २, १, ६३; ४, ५, १०;

विध ४६, ११; -कृच्छ्रम् कागृ ६, ११; वैगृ ६, १६ : १८; ७, ४ :

१३; वाध २२, १८; शंघ ३९०; ४१६; ४४७; विध ४१, ५; ५१, २८; ५४, १७; लुध ४८; ६२;

सुधष ८५ : २; -कृच्छ्रेण शंघ ४४०; ४४९; विध २२, ५८; ४०, २.

तप्तकृच्छ्र-सहित- -तम् वाध २२, १६.

तप्तकृच्छ्रा(च्छ्र-अ)विधान- -ने

अप ३३, ४, २.

तप्त-तप्त- -मैः या ६, १२.

तप्त-तर- -रेण वाधूश्रौ ३, २८ : ३.

तप्त-रहस- पा ५, ४, ८१.

तप्त-न्नत- -तः आपश्चौ ११, २, २; वौश्रौ ६, १९ : २४; माश्रौ १२, २, ५; वैश्रौ १२, २४ : २;

हिश्रौ १०, ३, ३४; -तौ माश्रौ २, २, १, ४७.

तप्त-शर्करा- -रामिः कौस् २५, २६.

तप्ता(प्त-अ)तङ्कय- -ङ्कयम् माश्रौ २, ५, १, २१^क.

तप्तातङ्कय-शीतातङ्कय- -ङ्कये माश्रौ २, २, ५, २९.

तप्तसा(प्त-अ)य(न>)नी- -नी^१ काश्रौ ५, ३, २२; माश्रौ १, ७, ३, १५; वाश्रौ.

तप्तसो(प्त-उ)दक- -केन भागृ १, २५ : १७.

तप्तसो(प्त-उ)द(क>)का- -का शंघ ३७४.

तप्त्वा शांश्रौ १४, ६, १ x x; वौश्रौ.

तप्यमान,ना- -तः आपश्चौ १०, १२ : ३; -नम् अप १, ३८, २१^क;

अशां ८, २^{१६}; -तप्ता आपमं २, २०, ३५; पागृ; -तप्ताः वौश्रौ २६, ९ : २२; माशि २३.

ताप- -पेन वाध २५, ६; वौध ४, १, २६.

तापन- -नम् शंघ १६५; विध ४३, १०^६.

तापयित्वा द्रागृ ४, ३, ३;

ताप्यमान- -नम् वैताश्रौ १३, ३०-
तेपान- -नात् वाधूश्रौ ४, १४ : २-
९४^३-९४^५ : १.

रतप- √तप् द्र.

रतप^१- -पाय वौश्रौ ७, १६ : ३२^क.

र-रतपन- प्रगृ. √तप् द्र.

रतपवर्गनिमित्ताभावात् अप्राय ४, २.

रतपश्चात्^१ वाश्रौ २, २, १, ५.

रतपस्- √तप् द्र.

रतपस्^३- -पः काश्रौ १७, १२, २१; आपश्चौ १७, ४, ५; वौश्रौ १०, ४४ : १४; वैश्रौ १९, ४ : २०;

हिश्रौ १२, १, ३४; आपमं १, १०, ८^६; आमिगृ १, ७, ४ : ११^क;

वौगृ २, १०, ७; वैगृ ४, ८ : ७; वेज्यो ६९; -पत्ते माश्रौ ८, १४, ६.

रतपस्^१->रतापस^१- -सः वौश्रौ १७, १८ : १; वाधूश्रौ ३, ५१ : २; वौगृ; -तप्साय कागृ ४, २०; गौध २६, १२.

रतपस्य- √तप् द्र.

रतपस्य^३- -स्यः काश्रौ १७, १२, २१; आपश्चौ १७, ४, ५; वौश्रौ; आपमं १, १०, ८^६; आमिगृ १, ७, ४ : ११^म; वौगृ २, १०, ७; वैगृ ४, ८ : ७; -स्याय वौश्रौ ७, १६ : ३९; माश्रौ ८, १४, ६; माश्रौ २, ४, २, १३.

तपु-, तपुपि, धी-, इतपोलोक- √तप् द्र.

रतपोलोक^१- -काः वौश्रौ प्र ४७ : २-

a) वैप १ द्र.। b) = ऋषि-विशेष-। c) = नरक-भेद-। d) = व्रत-विशेष-। e) विप.। वस.। f) पामे. वैप १, १४६७ p द्र.। g) पाठः? न्नाः इति शोधः (तु. संस्कृत-अनुवादः)। h) = नरक-विशेष-। i) = रतपस्-। j) पाठः? तपस्याः इति शोधः (तु. सप्र. माश्रौ ६, २, १, ६ वयस्याः इति पामे.)। k) पामे. वैप १, १४६८ d द्र.। l) व्यप.। व्यु. ?। m) पामे. वैप १, १४६८ f द्र.।

तप्ते^० आपश्चौ २१, १२, ३.
 तप्त्ना वौश्रौ २, ५ : १९.
 त्ता, ता^०प्य^० वाश्रौ १, ३, २, १८;
 हिश्रौ ६, ३, १७.
 तप्यमान- √तप् द्र.
 √तम्^० (वधा.) पावा. दिवा. पर.
 काङ्क्षायाम्, ऋतमत्^० आपश्चौ
 ९, २, ९^२; माश्रौ; ऋतमः^० आपश्चौ
 ९, २, ९; भाश्रौ.
 ताम्यति वौश्रौ १४, २४ : ९;
 २५; कौसू ८८, २०; ताम्यन्ते
 माश्रौ १, ७, ६, ४९; वाश्रौ १, ७,
 ४, ५१; ताम्येत् आपश्चौ ९, ८,
 ४; भाश्रौ ९, ११, ६; वैश्रौ २०,
 १४ : ३; हिश्रौ १५, २, ३१.
 तमयति काश्रौ ६, ५, १७.
 त्तम->०मी- पाग ४, १, ४१.
 त्तमत्- पाउ ३, ११०.
 त्तमन- नात् शाश्रौ २, ७, ७; ४, ४,
 १३; काश्रौ ४, १, १३.
 त्तमयित्वा आपश्चौ ५, २, ४^१.
 त्तमितोस (:) काश्रौ २५, ४, १०;
 आपश्चौ.
 त्तमिन्- पा ३, २, १४१.
 त्तान्त- न्तः द्राश्रौ ३, ४, १५;
 वौघ २, ४, ८; गौघ २४, १२;
 -ऋन्तस्य आपश्चौ ५, २, ४;
 वैश्रौ १, ७ : ९.
 त्तान्त-गान-विवर्जित- त्तः
 नाशि २, ८, १३.
 त्तमि^०- मीः कौसू ८८, २०.
 त्तमक- पाउमो २, २, ७.

तमङ्ग- पाउमो २, २, ५९.
 त्तमतन्वाशि वैश्रौ २०, १० : २.
 त्तमस्^०- मः आश्रौ ८, १०, ३; १२,
 ३; शाश्रौ; अय ४८, ७४^१;
 निघ १, ७^१; या २, १६^१;
 ५, १^२; ९, २९^१; -मसः
 आश्रौ ४, १५, ९; ६, १३,
 १५^१; शाश्रौ ६, ८, ९^१; आपश्चौ;
 -मसा ऋआपश्चौ १७, २१, ७;
 २१, १२, ३; वौश्रौ; या ७, ३^१;
 ९, ३३^१; १४, १०; शौच ३,
 ६५; -मसि माश्रौ २, ५, ४,
 २४; वौघ ४, ४, १२; कौसू ४,
 १७; शंघ ४४०; काश्रु ७, १८;
 ऋप्रा ८, ४६^१; श्रुप्रा ३, १४४;
 -मसे वौघ ३, ४, ४^१; -ऋमांसि
 शाश्रौ ८, २४, १; वौश्रौ; -मोमिः
 माश्रौ ५, २, १०, १६.
 त्तमस- सः अय २२, ४, १;
 -सम् शंघ ११६ : ४५^१.
 त्तमसी- सी अय ३०^२,
 १, १०.
 त्तमस-कीलक- काः अय
 ५२, ३, ४.
 त्तम-उक्त- क्ताः निस् ४, ६ : १२.
 त्तमः-पर- रम् ऋप्रा ११, ७.
 त्तमस्-काण्ड- पाग ८, ३, ४८.
 त्तमस्-व(त् >)ती- ती अय ४८,
 ७४^१; वृदे ३, १०; निघ १, ७^१;
 -०तीः अप्राय ६, २^१.
 ऋतमस्-व(त् >)री- ०रीः^६
 वौश्रौ १३, ३८ : ८; आशि २,

५, १० : १९.
 त्तमस्-वि(त् >)नी- न्याम् कप्र
 २, ३, ९.
 त्तमिस्, स्त्रा- पा ५, २, ११४; पावाग
 ५, २, १०३.
 त्तमिस्, स्त्रा- पावा ५, २, १०३;
 -स्य विघ ४३, २^१; -स्य वाश्रौ
 ३, २, ३, ३^३; -स्त्रा गोघ ३, १०,
 ७; -स्त्राः काश्रु ६१, २; -स्त्राणाम्
 माघ २, ८, २; -स्त्रे माश्रौ १,
 ६, २, ४; -स्त्रौ गोघ ४, ६, १४.
 त्तमिस्-प्रथमा- मा वाश्रौ
 ९, ३, ८.
 त्तमिस्त्रा(स्त्र-आ)दि- दौ
 गोघ ४, ६, १२; द्राघ ४, २, १; ३.
 त्तमिस्त्रा(स्त्र-अ)न्तर- रेघु
 गोघ ४, ६, १५.
 त्तमिस्त्रा(स्त्र-अ)टमी- म्यः
 द्राघ ३, ३, २७.
 त्तमो-धूम-रजस्का^०- स्काः अय
 ५८, १, ६.
 ऋतमो-नुद- ०द माघ १, १९, ४;
 २, १४, ३१.
 त्तमो(मस्-अ)पह- पा ३, २, ५०.
 त्तमो-भावा- नाः या १२, १०.
 त्तमो(मस्-अ)भिधान- ने पावा
 ७, २, १८.
 त्तमो(मस्-अ)भ्यय- ये काश्रौ ४,
 १५, १२.
 त्तमो-मूढ- ढाः वाघ ३, ६; वौघ
 १, १, १२.
 त्तमो-लिङ्ग^०- ङ्गः या १४, ३.

a) पाठः ? तत्, ते इति द्विपदः शोधः (तु. हिश्रौ १६, ४, ३५; C. च) । b) वाश्रौ. पाठः ।
 c) पाठः ? सपा. तैत्रा ३, ७, ६, १९ अहं शुचम् इति पाभे. अनु तप्ये [उपु १] इति शोधः विमृश्यः । d) पा ७,
 ३, ७४ परामृष्टः द्र. । वा. धासनिरोधेऽपि वृत्तिः (तु. काश्रौ ४, १, १३) । e) पाभे. वैप २, ३ खं. तमस्^३, तमः
 तैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द्र. । f) = रात्रि- इति पागम. । g) स्त्री. प्राति. । = प्राणायाम- इति केशवः । षी-
 इति [पक्षे] P.W. । h) वैप १ द्र. । i) रात्रि-नामन्. । j) = मन्वन्तर-विशेष- । k) पाभे. वैप १, १४६९
 र्द द्र. । l) = नरक-विशेष- । m) = कृष्ण-पक्ष- । n) विप. । वस. । o) पृ. १६६ g द्र. ।

तमस- पाठ ३, ११७.

तमायीवयः अप ४८, ११६।

तमाल^१- पाठ १, ११८; पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०; ५, २, १३५.

तामालेय- पा ४, २, ८०.

तमालि (त् >) नी- पा ५, २, १३५.

तमासमाप्यति^२ वाश्रौ ३, ४, १, ४१.

तमितोस् प्रभृ. √तम् द्र.

तम्बभ्युक्ता अत्र २०, ६२.

तम्बल^३- लः कप्र ३, ८, १११.

तम्बल^४- > ल-वीणा- -णाः^० आपश्रौ २१, १७, १६; १९, ३.

√तय् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

तय्- शुष्मद्- द्र.

ता, ता^५य^६- पाग ६, १, १९९.

तर^७- > तर-तम- पाग ५, १, १२४; -मयोः शुप्रा ५, २; शौच ४, १६.

तारतम्य- पा ५, १, १२४.

तर- √तृ द्र.

तरक्षु^८- पाठभो २, १, १०९; फि ४३; -क्षुः अप ६८, ५, ८.

तरङ्ग^९- (> तरङ्गित-, °ङ्गिन्-]णी- पा.) पाठ १, १२०; पाग ५, २, ३६; १३५.

तरङ्ग-व (त् >) ती^१- (> तारङ्ग-

वतिक- पा.) पाग ४, २, ६०.

तरण-, णि- प्रभृ. √तृ द्र.

तरण्ड^{१०}- पाठभो २, २, ११६; पाग २, ४, ३१^१.

√तरण्य, तरत्-, ण्ती-, ष्वै √तृ द्र.

तरन्त^{११}- पाठ ३, १२८; -न्तम् वृदे ५, ६१; ८०.

तरन्त-पुरुमीढ [, ल्ह^०] - ढाभ्याम्

निसू ९, ९ : १०; -ढौ ऋअ २, ५, ६१; वृदे ५, ६२.

तरन्त-महिषी- -षीम् ऋअ २, ५, ६१.

तरन्ता (न्त-अ)नुम (त् >) ता- -ता वृदे ५, ६३.

तरन्ती- √तृ द्र.

तरल^{१२}- पाठभो २, ३, ९८१.

तरल-रथ-नेमि-घोष- -षेषु अप ६५, १, ६.

तरस्- √तृ द्र.

तरस्^{१३}- -सम् वौश्रौ २८, १३ : २; -सेन वौश्रौ २८, १३ : २२.

२तरस^{१४}- -साः आपश्रौ २३, ११, १३; हिश्रौ १८, ४, १६.

तरस-पुरोडाश- -शाः आपश्रौ २३, ११, १४; -शम् आपश्रौ २३, ११, ११; हिश्रौ १८, ४, १४;

निसू १०, ९ : १८.

तरस-मय- -याः काश्रौ २४, ५, २०; वाध १४, १५.

तरसान^{१५}- पाठवृ २, ८६.

तरस्वत्- प्रभृ. √तृ द्र.

त(र >) रा^{१६}- -रा याशि १, ७१.

१तार- > रा^{१७}- -राम् याशि १, ७२.

तरि^{१८}- पाठवृ ४, १३९.

तरितव्य-, तरिन्-, तरिष्यत्- √तृ द्र.

शतरी^{१९}- -र्यः वौश्रौ १७, ३१ : १४; १७.

२तरी- √तृ द्र.

तरीष- पाठ ४, २६.

तरु^{२०}- पाठ १, ७; पाग २, १, ५६; ५, २, १००.

तरु-वत् वृदे ३, २८.

तरु-श- पा ५, २, १००.

तरुक्ष^{२१}- पाग ४, १, १८; १०५; -क्षाय

आमिष्ट १, २, २ : १८; वौष्ट ३, ९, ५; भाष्ट ३, १० : ३; हिष्ट- २, १९, ६.

तारुक्ष्य- पा ४, १, १०५.

तारुक्ष्याय (रा >) णी- पा ४, १, १८.

तरुण, णा^{२२}- पाठ ३, ५४; पाग ४, १, ४१; ८६; ५, १, १२३; पावाग ८, २, १८^२; -ः णः आपमं २, १५, ४; सु ८, १; आष्ट २, ८, १६; कौष्ट ३, २, ६; शांष्ट ३, २, ८; पाष्ट ३, ४, ४; आमिष्ट २, ४, १ : १५; काष्ट ११, २; भाष्ट २, ३ : ८; माष्ट २, ११, १२; हिष्ट १, २७, ४; -णम् माशि १४, १, २७, ४; -णम् माशि १४, १, २७, ४; -णम् माशि १४, १, २७, ४;

a) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? < √तम् इति पाठ. । b) पाठः? वावि. इति कृत्वा तद्, (मास्-) मासम्, आप्याययति इति शोधः । c) = मृग-विशेष- । व्यु. ? । d) = तामिल-देश- । व्यु. ? । e) सपा. तम्बलवी^० <> तालुकवी^० इति पाठे. । f) तु. भाण्डा. । g) < √ताय् इति न्यासः । h) आतिशायनिकः प्र. । व्यु. ? । i) = हिंस-जन्तु- । व्यु. ? < तर- [गति-] + √क्षि [हिंसायाम्] इति अभा. शक., < √तृ इति पाठभो. । j) वप्रा. । व्यु. ? < √तृ इति पाठ. । l) = देश-विशेष- । l) तु. पागम. । m) = छत्र- । n) वैप १ द्र. । o) वृदे. पाठः । p) विप. । व्यु. ? । q) < √तृ इति । r) = मांस- । व्यु. ? । s) मत्वर्थे अच् प्र. । t) = नौका- । u) = ऊर्मवृत्ति-विशेष- । v) = तरा- । w) = मञ्जूपा- । x) = अफुड-बीहि- (तु. स्वरी-) । व्यु. ? । < √तृ (= √स्तृ) इति विमृश्यम् । y) = वृक्ष- । व्यु. ? ।

१०; १५, १; -फणा वैगृ १, ११ :
६; -णाः वौश्रौप्र २५^६ : २ अप
७१, १५, २; -णैः अप २१,
४, १.
तरुणी- पा ४, १, ४१; पावा
४, १, १५; -णी अप ४६, ८, २;
-ण्या कप्र २, ८, २५.
तारुण- पा ४, १, ८६.
तारुण्य- पा ५, १, १२३.
तरुण-गृह- -हेषु वाध १६, १२.
तरुण-ता-, तरुण-त्व-, तरुणिमन्-
पा ५, १, १२३.
तरुणे(ण-इ)न्दु- -न्दुम् आमिगृ २,
४, ६ : ४३.
तरुवृ-, -रुत्र- प्रभृ. √तृ द्र.
√तर्क^१ पाधा. चुरा. उभ. भाषायाम्.
√तर्क^२(बधा.)>तर्क- -र्कः पागृ २,
६, ५; गौध ११, २५; चव्यू २ :
२८; -र्कम् या १३, १२; -र्कं
द्राश्रौ ९, ४, १५.
तर्कन्तस् (ः) या १३, १२.
तर्कार- (> णी- पा.) पाउवृ ३,
१३९; पाग ४, १, ४१.
तर्कु^३- पाउ १, १६; -कुं या २, १.
√तर्ज^४ पाधा. भ्वा. पर. भर्त्सेन; चुरा.
आत्म. तर्जने.
तर्जनी^५- न्याः याशि १, ६४.
तर्जनि(क>)का- -काम् याशि
१, ६२.
तर्जनी-मूल- -ले विध ६२, ४.
तर्जन्य(नी-उ)गृगृह- -घयोः याशि

१, ६५.
तर्जन्यङ्गुष्ठ-योग- -गेन शंघ
५७^७; ४५६^८; ४५७; ४५८.
तर्जन्यु(नी-उ)परि याशि १, ५२.
तर्ण- पाउभो २, २, १८२.
?तर्थाः^९ अप ४८, ८३^९.
√तर्द् (= √ तृद्) पाधा. भ्वा. पर.
हिसायाम्.
तर्द्-, तर्दन- √तृद् द्र.
तर्द्- पाउ १, ८९.
तर्द्मन्- √तृद् द्र.
तर्पण- प्रभृ. √तृप् द्र.
तर्पर^{१०}- पावाग. ८, २, १८.
तर्पित- √तृप् द्र.
तर्प- पाउ ३, ६२.
तर्हि तद्- द्र.
√तर्ल् पाधा. चुरा. उभ. प्रतिष्ठायाम्.
१तर्ल्^{११}- -लम् वाश्रौ ३, ४, ३, ३७;
आगृ ३, १२, ११.
२तर्ल्^{१२}- -लम् शंघः ५७^{१२}; या ५, २६^{१३};
-लेन कप्र १, १, ७^१.
तर्-तीर्थ-क्रम- -मेण वैगृ १,
४ : २.
३तर्ल्^{१४}- (> तालिन्- पा.) पाग ४, ३,
१०६.
तर्लवकार^{१५}- पाग ४, ३, १०६; -रम्
जैगृ १, १४ : ८.
तर्लवकारिन्- पा ४, ३, १०६.
तर्लाशा^{१६}- -शा अत्रा ३, ४, १^{१६}.
तर्लिन- पाउ २, ५३.
तर्लुक्ष^{१७}- [> तालुक्ष्य (> लुक्ष्याय-

[ण>]णी-) पा.] पाग ४, १,
१८; १०५.
तर्लुन^{१८}- पाउ ३, ५४; पाग ४, १, ४१;
८६; पावाग ८, २, १८^{१८}.
तर्लुनी- पा ४, १, ४१; पावा ४,
१, १५.
तर्लुन- पा ४, १, ८६.
तर्ल्पा^{१९}- पाउ ३, २८; -ल्पः मागृ २,
७, ८^{२०}; -ल्पम् आपश्रौ १४,
११, ३^{२१}; १२, ९; हिश्रौ;
-ल्पस्य अप ६, १, २; १०;
-ल्पान् हिपि १२ : ५; -ल्पे
आश्रौ ११, २, ६; काश्रौ; -ल्पेन
आमिगृ ३, ५, ३ : ९; वौपि १,
३ : ७.
तर्ल्पा^{२०}- -ल्पाः कौस् १७, १४.
तर्ल्प्य^{२१}- -ल्प्यस्य आपमं २,
१५, ३^{२२}.
तर्ल्प-ज- -जः विध १५, १४.
तर्ल्प-देश- -शम् वौगृ ३, ५, ६; ९.
तर्ल्प-रूप^{२३}- -पम् वौश्रौ २६, ३३ :
३.
तर्ल्प-वल्- -वन्तम् वौगृ १, ६, २२.
तर्ल्प-सम- -मः गौध २३, १२.
तर्ल्प-(स्थ>)स्था- -स्था नाशि २,
८, १७.
तर्ल्पा(ल्प-अ)न्न-धन-लाभ- -वध^{२४}-
-धेषु गौध २२, ३०.
तर्ल्पा(ल्प-आ)रोहण- -णम् या ६,
२७.
तर्ल्प्य^{२५}- -ल्प्याः आपश्रौ २०, ५,

a) = ऋपि-विशेष-। b) वैप ३ द्र.। c) नाप.। कर्तु- (< √ कृत् [छिदने]) > नैप्र. यनि.।
d) = अल्युलि-विशेष-। व्यु. ?। e) सकृत् सप्र. कप्र १, १, ७ कनिष्ठाङ्गुष्ठयोः इति पाभे.। f) = स्तेन-।
प्राति. व्यु. च ?। g) = पशूनां कण्ठघरटा- इति पागम.। h) = हस्तम-। व्यु. ?। i) = तला इति नभा.।
j) सप्र. लम् <> ल्नेन इति पाभे.। k) < √ लत् इति। l) वैप १ द्र.। m) = तरुण-। n) तु-
पागम.। o) = तल्प-। तत्रजातार्थायः अण् प्र.। p) स्वार्थे ष्यञ् प्र.। q) सपा. आगृ २, ८, १६
मागृ २, ११, १२ पोषस्य इति पाभे.। r) विप.। वस.। s) द्वस. > पस. > पस.। तल्प- = (तात्स्थ्यात्)
भार्या.। t) तत्रभवीयः यच् प्र.।

१३१; वौश्रौ; -ल्य्यानाम् वौश्रौ
 १५, १ : १७; ५ : १०.
 तल्पल^३- पावाग ८, २, १८.
 तव- √तु द्र.
 तवर्- युष्मद्- द्र.
 तवश्यावीय^४- न्यानि गौपि १, १, ७.
 तवस्- तविष- तवीयस्- प्रभृ.
 √तु द्र.
 ?तशिने आग्नि १, ५, ५ : १२.
 तष्ट- तष्ट- √तत् द्र.
 √तस्^५ पाधा. दिवा. पर. उपक्षये.
 तस्^६- पाठ ३, ७५; -स् निस् ६,
 ७ : २७; -रेण^७ आपश्रौ १९,
 ५, ७; हिश्रौ २३, १, ६.
 तस्^८-पक्षमन्- -क्षमणा वाश्रौ ३, २,
 ७, २.
 तस्कर^९- पावा ६, १, १५७; -रः आश्रौ
 ९, ५, २१; अप ४८, ८३१; शंघ
 २०१; निघ ३, २४१; या ३,
 १४१; अप्रा ३, ४, ११; ऋत ४,
 ७, ७; -रा या ३, १४१; -राः
 आग्नि २, ५, ९ : १२; जैगृ २,
 ६ : १०; अप ५२, ३, १; श्रा
 ५, ३७१; -राणाम् हि २, ९,
 ६१; -रान् हि १, ११, ८३१;
 अप ५३, २, ५; श्रा ३, ५२१;
 -राभ्याम् या ३, १४; -रेभ्यः
 आपध २, २६, ६; हि २, ५, २०१
 तस्कर-कितवा (व-अ) जपाल-नाण-ना
 णिका-शूद्र-प्रेष्या (ष्य-अ) गम्या
 गामि-परिवेत्त-परिवित्त-पर्याहि
 त-पर्याधान-पौनर्भवा (व-अ) न्ध-
 वधिर-चारण-क्लीवा- (व-अ) वकी

णि-वार्षुषिक-गरदायि-कृत्साक्षि-
 नास्तिक-वृषलीपत्यु (ति-उ) पह
 तादो (द-उ) त्वष्टाग्नि-सोमविक्र
 य्य (यि-अ) विक्रेयविक्रेतृ-पौस्तिक-
 कयक-कुण्डाशि-कुण्ड-गोलक-
 यन्त्रकार-काण्डपृष्ठ-दुश्चर्म-चण्ड-
 विद्वशिभ-देवलक-पण्डा (ण्ड-आ)
 रुढपतित-प्रायोत्थित-कुनखि-कि
 लाशि-?श्यावदन्त-वर्णाङ्क-शिल्प-
 वादिन्नृत्यगो (?) तालोपजीवि-
 मूल्यसांवत्सरिक-महापथिका
 (क-अ) श्मकृष्टक-हीनातिरिक्ताङ्ग-
 -ज्ञाः सुधप ८४ : ४.
 तस्कर-क्रीकपा (प [? कितवा] -अ) ज
 विक्रयि-पापण्ड-नाण-गणिका-
 प्रेष्य-परिविण्ण-परिवेत्त-अग्नेदि
 धिषु-पर्याहितधेनु-पुनर्भवा (व-
 अ) न्ध-वधिर-वा (? वा) रण-क्ली
 वा (व-अ) भिश्शस्ता (स्त-अ) वकी
 णि-वार्षुषिक-कारु-गायक-कृत्
 साक्षि-स्तैयि-वृषलीपत्यु (ति-अ)
 हुताशिनो (?) -विस्तथानि (? ति) -
 सोमविक्रयो (? यि) -कुण्डगोलका-
 शियन्त्रकार-?कान्धवृषुदुकीट-श्व-
 श्वापद-आपणी (? णि) शिलो
 (? लपो) पजीवी (? वि) -वादिन्नृत-
 गानोपजीवी (? वि) -संवत्सर-महा-
 पथिका (क-अ) श्मकृष्टक (? चर्म)
 विक्रमो (? यिन्- > - ? यि) णाम्
 सुध ६२.
 तस्कर-भय- -यम् आपध २, २५,
 १५; हि २, ५, १९५.
 तस्कर-श्यापदा (द-आ) कीर्ण- -णं

शंघ ४४३.
 तस्तमान- √स्तम् द्र.
 तस्तुव^१- वम् अप ४६, ५, ४१.
 तस्थिवस्- √स्था द्र.
 ?तस्समे^२ आग्नि ३, १, २ : १४; १७;
 २०; २, ३ : ३; ६; ९.
 ताक्षशिल- प्रभृ. √तक्ष् द्र.
 ताच्छन्ध- प्रभृ. तद्- द्र.
 ताजक्^३ आपश्रौ १३, ९; ९१×५;
 वौश्रौ; पाग १, ४, ५७.
 ?ताजत्^४ अप ४८, १०६; निघ २, १५.
 ताड-, षडघ-, षडन- √तड् द्र.
 ताडाक- १तडाक- द्र.
 ताड्यमान- √तड् द्र.
 ताण्ड- प्रभृ. तण्ड- द्र.
 ताण्डव- पाग २, ४, ३१.
 ताण्डिन्य- तण्डिन- द्र.
 तात^५- पाठ ३, ९०; पा ५, ४, ३८;
 -०त शाश्रौ १५, २४, १; उ
 १२, २; १९, २; अप १४, २;
 -तः वृदे ७, ४४; -ते कप्र २, ७, ९.
 तात-पाद^६- पाग २, १, ६६.
 तातृपाण-, तातृपि- √तृप् द्र.
 तातृपाण- √तृप् द्र.
 तात्कालिक-, तात्पर्य-, तात्स्थ्य-,
 १-२ताथाभाव्य- तद्- द्र.
 ?तादर्कसहस्रयाजिन्^७- जी हिश्रौ
 १७, ६, २८.
 तादर्थिक-, तादर्थ्य- तद्- द्र.
 ?तादु (र >) री^८- -०रि अप ४८,
 ११६; या ९, ७; अप्रा ३, १, ७.
 तादृश-, श- प्रभृ. तादृश्य-, द्वित-,
 श्लाघ्य- तद्- द्र.

a) = गजपृष्ठैकदेश- इति पागम. । b) = साम-विशेष- । व्यु. ? । c) या ४, २४ परानृष्टः द्र. ।
 d) वैप १ द्र. । e) अर्थः ? । f) सप्र. तस्सरेण, पक्षमणा < > तस्सरेणपक्षमणा इति पाभे. । g) पाठः ? तस्य मे
 इति द्वि-पदः शोधः (तु. सप्र. वौध २, ८, १२ तस्य ते इति पाभे.) । h) तोजक् इति [पक्षे] पागम., माजक् इति [पक्षे]
 भाण्डा. । i) = ताजक् (तु. वैप १, १४७२ ० द्र.) । j) = १तत- । वैप १, १४०३ ८ द्र. । k) < १तत- इति
 पागम. । l) तु. पागम. । m) पाठः ? तद्, जर्कसं इति संभाव्येत ।

तान- √तन् द्र.
 तानव्य-, व्यायन- ४तनु- द्र.
 १, २तानूनपात-, नप्त्र- प्रमृ.
 √तन् द्र.
 तान्त- √तम् द्र.
 तान्तव- √तन् द्र.
 तान्तव्य-, व्यायन- २तनु- द्र.
 तान्तुमत-, तान्त्र-, १तान्व-
 √तन् द्र.
 २तान्व- तन्व- द्र.
 ताप- प्रमृ.; १तापस- √तप् द्र.
 २तापस- ३तपस्- द्र.
 ताप्यमान- √तप् द्र.
 तावुच^३- चम् अत्र ५, १३; दंवि
 १, १०.
 तामरस- पाठवृ ३, ११७.
 तामल^३- > ली- ली आपध १, २,
 ३७; हिध १, १, ६८; लीम्
 जैगृ १, १२ : ४९.
 तामस- प्रमृ. तमस्- द्र.
 तामालेय- तमाल- द्र.
 तामि- √तम् द्र.
 तामिस्व- तमस्- द्र.
 तामु^३- सुः निघ ३, १६१.
 ताम्बूल^३- पाठ ४, ९०; लम् आम्रिगृ
 २, ४, १० : ३८; ३, ३, १ : १८.
 ताम्बूला(ल-आ)दि- दि आम्रिगृ
 ३, ३, १ : १३.
 ताम्र^३- पाठ २, १६१; पाग ५, १,
 १२३; -त्रः वैध ३, १५, ७६,
 अप २३, १, ४; ६, २; २९, २, ४;
 ५३, ५, १; ६२, १, ४; -त्रम्

वाधूश्री ४, ६८ : ४, आम्रिगृ २,
 ४, ६ : ७; वैगृ ४, १४ : १२;
 अप २१, ३, ३; वाध ३, ६३;
 निघ ३, ७१^३; -त्राः विध १,
 २७; -त्राणि वौश्री २६, ५ :
 ३१; -त्रे अप ६३, ४, ५; -त्रैः
 अप ५, १, २; २७, १, १; २;
 -त्रौ अप ३९, १, १०.
 ताम्र-कर्ष^३- > अकार्षिक^३- -कः
 विध ४, १३.
 ताम्र-जीव^३- -वः वैध ३, १५, ७६;
 -त्रात् वैध ३, १५, ८.
 ताम्र-ता- पा ५, १, १२३.
 ताम्र-तिल- -लेन शंघ ११६:७८.
 ताम्र-त्रपु-सीसा (स-आ)यसा (स-
 आ)य- -द्यानि वैध ३, ३, ११.
 ताम्र-त्व- पा ५, १, १२३.
 ताम्र-धु(स-आ)^३- -त्राः अप्रा ३,
 २, २४^३.
 ताम्र-पट्ट- -ट्टे विध ३, ८२.
 ताम्र-पात्र- -त्रे अप ३८, १, ४;
 -त्रेण अप ३८, ३, १.
 ताम्र-भाजन- -नम् अप ९, १, ५.
 ताम्र-मय- -यम् आम्रिगृ २, ६, ८ :
 १; -ये अप ४, २, ९.
 ताम्र-रजत-सुवर्ण- -र्णानाम् वौध
 १, ५, २७.
 ताम्र-राजत-हैम- -मानाम् अप २१,
 २, १.
 ताम्र-रीति-त्रपु-सीस-मय- -यानाम्
 विध २३, २५.
 ताम्र-वत् काध २७८ : १.

ताम्र-वर्ण,र्णी^३- -णीः चव्यू ४ : १५;
 -र्णियाः अप ३८, १, ५.
 ताम्रवर्णी^३- > णी^३-पयस्- -यः
 आम्रिगृ २, ७, ७ : ७.
 ताम्रा(स-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७८.
 १ताम्रा(स-अ)यस^३- > २^३स^३-
 -सम् काशु ७, २८; -सेन वौगृ
 १, ३, १७.
 ताम्रिमन्-, ताम्रय- पा ५, १, १२३.
 ताम्रप(र्ण)^३- > णी^३-पा, पाग ४, २, ८२.
 √ताम्^३ पाधा. भ्वा. आत्म. संतान-
 पालनयोः.
 ताय- पाग ६, १, १९९.
 ?तायत्- स्तायत्- टि. द्र.
 ?तायतम्^३ अप ४८, १०७^३.
 तायमान- √तन् द्र.
 तायु^३- सुः अप ४८, ८३; निघ ३,
 २४; या ४, २४; -युम् आश्री
 ८, १२, २४; या ४, २४^३.
 १तार- तरा- द्र.
 २तार^३- > २-पङ्क- -ङ्के अप ३, ३, ३.
 ३तार^३- -रम् पाशि ८; माशि ४, ६;
 तैप्रा २३, १२.
 ४तार^३- > तार-भाव- -वः पावा ६, ३,
 १०९.
 ५तार, रा^३- पाग ३, ३, १०४; -रा
 आज्यो ७, १९; -राः अप ५८^३,
 १, ८; ४, १८; ७०^३, २३, ६;
 -रान् वैगृ १, ४ : १२^३.
 तारा-गणा(ण-आ)द्य- -द्ये विध
 ९९, ९.

a) वैप १ द्र.। b) = तमाल-। c) = स्तोत्र-। व्यु. ? < √तम् [काङ्क्षायाम्] इति दे.।
 d) = नागवल्ली-। व्यु. ? < √तम् इति अत्रा. प्रमृ.। e) विप., नाप. (धातु-विशेष-). वैप १ द्र.। f) < √तम्
 इति। g) = जाति-विशेष-। h) = रूप-। i) उप. = परिमाण-विशेष-। j) तस्येदमीयप् उक्त् प्र.
 उभयपदवृद्धिश्च। k) ष्वी इति ८.। l) विप.। वस.। m) = धेनु-। स्त्री. ङीप् प्र. उसं. (पा ४, १, ६३)।
 n) पृ ९२५ e, f द्र.। o) = नगरी-विशेष-। व्यु. ?। p) पा ३, १, ६१ परामृष्टः द्र.। q) अन्तर्हित-नामन्-।
 r) = घन-। व्यु. ?। s) = वाक्स्थान-विशेष-। व्यु. ?। t) = तीर-। व्यु. ?। u) = नक्षत्र-। व्यु. ?।

तारा-ग्रह-परिवेष- -षाः अप ६३, ४,४.
 तारा-पात- -सैः अप ६४,२,१.
 तारा-पुञ्ज-प्रतीकाश- -शाः अप ५२,४,२.
 तारा-बल- -लम् आज्यो ७,२०.
 तारा-मण्डल-संवृत- -ताः अप ५२, ४,२.
 तारा-षष्टि-समन्वित- -तः आज्यो ७,२२.
 तारो(रा-उ)ल्का-पात-कलुष- -पम् अप ६४,९,३.
 तारो(रा-उ)ल्का-पात-पिङ्गल- -लम् अप ६४,८,९.
 तारका^१- पाग ५,२,३६; पावा ७,३, ४५; -का कौसू १२६, ९१^०; -काः अप ५८^२,३,१०; ६४,७, ४; -काणाम् चात्र ४० : १९^०; -के अत्र ३,७.
 तारक^२- -काः आपश्रौ २०, १४, ६१
 तारका(का-आ)कार^१- -राः अप ५२, ८,५.
 तारका(का-आ)कृति- -तौ अप ५२, ७,५.
 तारका-युक्त- -क्ताः अप ५२,४,३.
 तारकित- पा ५,२,३६.
 तारकाद्य^१- -द्याः वौश्रौप्र २३ : २.
 तारकायण^१- -णाः वौश्रौप्र ३१ : ५.
 तारङ्गवतिक- तरङ्ग-द्र.
 तारङ्गि- (> ^१ङ्गिक > |का-, -की-) भारङ्गि,ङ्गी- टि. द्र.
 तारण- \sqrt तृ द्र.

तारतम्य- १तर-द्र.
 तारयितृ-, ^१रयितुम्, तारसिक- प्रमृ.
 \sqrt तृ द्र.
 तारा- १,५तार-द्र.
 तारिक- \sqrt तृ द्र.
 तारुक्ष्य-, ^०क्ष्यायणी- तरुक्ष-द्र.
 तारुण-, ^०रुण्य- तरुण-द्र.
 तारुक्षक- तृक्षाक-द्र.
 शतार्क्ष्य^१- -र्क्ष्यः आश्रौ १०,७,९^६; शाश्रौ^१ ११, १४, २८; १६, २, २५; आपश्रौ १४, १६, ११^०; वौश्रौ १७, १८ : ४^१; हिश्रौ १५, ५, ११^०; सु २, ६^६; २, १६; वौश्र २, २, ११^०; ३, १०, ६^१; माश्र २, १५, ६१^०; अप्राय ६, ११^०; †अप ४८, ९३^१; १३७; †निघ १, १४^१; ५, ४; या १०, २७^०; ऋअ २, १०, १७८^०; वृदे १, १२३; साअ १, ३३२^०; -र्क्ष्यम् आश्रौ^१ ७, १, १३; ८, ६, १४; सु २, २^१; ४^६; १७, ४^६; १२, ५१^०; ६^६; वौश्र २, २, ९^०; १०^०; ऋअ २, १०, १७८^०; वृदे २, ५८^०; या १०, २८^०; -र्क्ष्यस्य शाश्रौ १२, ११, १२^६; सु ७, ३^६; -र्क्ष्याय कौसू ७३, ७; -र्क्ष्येण आश्रौ ८, १२, २०^६.
 तार्क्ष्यो^१- -र्क्ष्यो साअ १, ३३२.
 तार्क्ष्य-देवता-> ^०त्य- ^०त्यम् अत्र ७, ८५.
 तार्क्ष्य-दैवत्य- ^०त्यम् वृदे ८, ७७.
 तार्क्ष्य-पुत्र- -त्र सु ३०, ४;

-त्रः सु २७, ३; ऋअ २, १०, १४४.
 तार्क्ष्य(र्क्ष्य-ऋ)र्षि- -र्षिः वृदे २, ५८.
 तार्क्ष्य-वर्जम् आश्रौ ९, १, १५.
 तार्क्ष्य-सामन्- -मनी जैश्रौका २४; ३९; द्राश्रौ २, २, २१; लाश्रौ १, ६, १९.
 तार्क्ष्या(र्क्ष्य-आ)दि- -दिः आश्रौ ६, ९, ५.
 रतार्क्ष्य-, ^०क्ष्यायण- प्रमृ. तृक्ष-द्र.
 तार्क्ष्य- -र्क्ष्यम् कौसू ४८, २४.
 शतार्ण- १तृण-द्र.
 रतार्ण- २तृण-द्र.
 तार्णकर्ण- तृणकर्ण-द्र.
 तार्णविन्द्वि-, ^०वीय- १तृण-द्र.
 तार्णयन- २तृण-द्र.
 तार्तीय- प्रमृ. त्रि-द्र.
 तार्प्य^१- -र्प्यम् शाश्रौ १६, १२, २०; काश्रौ; -र्प्याणि माश्रौ ५, २, ५, १; -र्प्ये हिश्रौ १४, ३, ५६; १७, ६, ३१; -र्प्येण वौश्रौ १५, २८ : २६; २९; ३३; वाश्रौ ३, ४, ४, ९; हिश्रौ १४, ४, ९; भाशि ७१^०.
 तार्प्य-पांडुवा(ड्व-अ)शीवासो(स-उ) णीय^१- -पाणि शुअ १, ६००.
 तार्प्य-प्रमृति- -तीनि काश्रौ १५, ५, १४.
 तार्प्य-वृकल^१- -लानाम् वौष १, ६, १२.
 तार्प्या(र्प्य-आ)दि- -दीनि काश्रौ १५, ७, २५.
 †तार्पा(घ>)वी^१- -वीः अप ४६,

a) वैप १ द्र. । b) पाशे. वैप १, १४७३ द्र. । c) विप. । = तारका-सदृश- । d) विप. । वस. । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) वप्रा. । विवेकः उत्तरेषु टि. द्र. । g) = गृह- । h) पाशे. वैप १, १४७३ j द्र. । i) = सर्प-विशेष- । j) = अश्व- । k) = सूक्त-विशेष- । l) = ऋषि-विशेष- । m) = ऋसु- । n) = मणि- । अर्थः व्यु. च ? । = पलाशकमणि- इति केशवः; = अस्थिकमणि- इति दारिलः । o) = वस्त्र- (क्षीम- वा त्रिपाण- वा घृताक- वा | तु. काश्रौ १५, ५, ७-१०) । p) दस. । पांडुव = रत्नकमल- इति म. (तु. तत्रत्यं टि.) । q) नाप. । दस. उप. अर्थः ? ।

५,५; अशां २१,३.
 ✓ताण्य- ✓तृप् द्र.
 ३ताल^१- पा, पाग ४, ३, १५२;
 -लात् पावा ४,३,१५२.
 ताल-वृन्त^२- -न्तैः आग्नि २, ४,
 ६ : ३९.
 तालवृन्त-चामर-प्रदान- -नेन
 विध ९२,३०.
 तालवृन्त-चामरा(र-अ)ध-गजा-
 (ज-अ)ज-गो-दधि-क्षीर-मधु-
 सिद्धार्थक- -कान् विध ६३,३०
 ३ताल^०- -लम्^३ आपथौ १६, १८,
 ४; वैश्रौ १८, १५ : १२; हिश्रौ
 ११,६,२६.
 ३ताल^०- -लम् वैश्रौ ११,१० : ५.
 ४ताल^१-> ताल-हीन- -नम् याशि
 १,३०; नाशि १,३,१२६.
 ५ताल- (> ताली^४- पा.) पाग ४,
 १,४२.
 तालवकारिन्- तलवकार- द्र.
 तालव्य- तालु- द्र.
 तालि- पाउभो २,१,१६८.
 तालिन्- ३तल- द्र.
 ताली^१ (> ताली^४✓कू पा.) पाग १,
 ४,६१.
 तालीस- पाउभो २,३,१८०.
 तालु^१-पाउ १, ५; पाग ५, ४, २९;
 -लु अप ४७, २, १; या ५,
 २६^५; ऋप्रा; -लुनि कौसू १०,
 १७; २९, २२; ऋत २, १, ५;
 -लौ शुप्रा १,६६; तैप्रा २,२२;

३६; ३,४०.
 तालव्य,व्या- -व्यः वृदे ८, ११२;
 ११७; माशि ८, १^३; नाशि
 २,५,५; -व्यस्य याशि २,२०;
 -व्याः शुप्रा ८, ३९; पाशि;
 -व्यानाम् शौच १, २१; आशि
 २,५; -व्याभिः शंघ ९३^६;
 -व्ये ऋप्रा ४, ११; १४, ४६;
 -व्यौ ऋप्रा १,४२.
 तालव्या(व्य-आ)दि- -देः ऋत
 ५,३,६.
 तालु-क- पा ५,४,२९.
 तालु(ग >)गा- -गाभिः शंघ
 ९४; वैध २,१०,१.
 तालु-स्था(स्थ-अ)चल- -जिह्व-
 -ह्वः विध ९७,१.
 १तालु-स्थान- -ने शांश्रौ १,२,४.
 २तालु-स्थान^१- -नः ऋप्रा १४,४७;
 -नाः शुप्रा १,७९.
 तालु(लु-उ)दर- -रम् विध ९६,
 ९२.
 तालुवो(लु-ओ)ष्ठ- -ष्ठयोः अप ४७,
 १,१९; शुप्रा १,७३.
 तालुक-वीणा^३- -णाः हिश्रौ १६,
 ६,२१^३.
 तालुक्ष्य-, °क्षयायण-, °णी- तलुक्ष-
 द्र.
 तालुन- तलुन- द्र.
 तालूर- पाउभो २,३,५८.
 ताल्प-, °ल्प्य- तल्प- द्र.
 तावक-, °वकीन- युष्मद्- द्र.

तावत्-, °तिय- तद्- द्र.
 ताविष- ✓तु द्र.
 तासीर- पाउभो २,३,५०.
 ति^०-> ति-लोप- -ये पावा १,१,५७.
 ✓तिक् पाधा. भ्वा. आत्म.; स्वा.
 पर. गतौ.
 तिक^३- पाग ४,१,९९; १५४; २,९०५.
 तैकायन- पा ४,१,९९.
 तैकायनि- पा ४,१,१५४.
 तिक-कितव- पा, पाग २,४,६८.
 तिकीय- पा ४,२,९०.
 ✓तिग् पाधा. स्वा. पर. गतौ.
 ✓तिञ्^१ पाधा. भ्वा. आत्म.; चुरा.
 पर. निशाने, तितिक्षते वाधुश्रौ
 ३,१ : १; तितिक्षते निस् २,८ :
 २५; विध ९६,१९.
 तैतिके पा ७,४,६५.
 तिक^०- -क्तम् विध ६१,१५.
 ऋत्किा(क-अ)य(न >)नी^१-
 -नी^१ आपथौ ७,३,१४; वौश्रौ ४,
 २ : ७; भाश्रौ ७, ३, १; हिश्रौ
 ४,१,४३.
 तिग्म^१- पाउ १,१४६; -ग्मः निध
 २,२०^१; -ग्मम् वैताश्रौ ९, २;
 कौश्र १, १९, १०^१; शांश्र १,
 २७, ७^१; या १०,६६; भाशि
 ११९^१; -ङ्गमै न काश्रौ १८,३,
 ११; आपथौ.
 ऋत्तिग्म-न्ता- -तया अप १,३८,
 १; अशां ८,१.
 तिग्म-तेजस्^१- -जसाम् वृदे ६,

a) विप., नाप. (वृत्त-विशेष-) । व्यु. ? । b) = व्यजन- । वस. । c) = ताड- [कशा-] । व्यु. ? < ✓तल्
 (ङ्) इति स्यात् । d) सपा. मै २,७,१२ ताडम् इति पामे. । e) = [द्वादशाङ्गुल-] प्रमाण-विशेष- । व्यु. ? ।
 f) वैप ३,३६० f द्र. । g) तालुही^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. कालि. याशि. च) । h) तु. पागम. ।
 = [लोहमयी-] कुञ्चिका- । i) अर्थविस्तरः पागम. द्र. । j) वैप १ द्र. । k) विप. ([तालुगा-] २अप्-) ।
 l) विप. । वस. । m) = वाद्य-विशेष- । व्यु. ? । n) पामे. पृ ११६४ e द्र. । o) विशति- इत्यस्या-
 -ऽन्तिमवर्ण- । p) व्यप. । व्यु. ? । q) अर्थः ? । r) पा ३, १,५ परामृष्टः द्र. । s) = रस-विशेष- ।
 t) पामे. वैप १, १४६७ p द्र. । u) पामे. वैप १, १४७४ g द्र. ।

८४; -^१जा: बौश्रौ १, ११ :
 ४; भाश्रौ २, १, १; याशि २, ८.
^१तिम-^२ह्-^३ः आश्रौ ७, ५,
 २०×४; शाश्रौ.
 तिग्मा(ग्म-आ)युध^४- -धाय या
 १०, ६^१र्क.
 तिग्मे(ग्म-इ)वु^५- -षवः या १०,
 ३०^१.
 त्तिजिल- पाठ १, ५६.
 त्तिक्षि^६- (> तैत्तिक्ष्य-^७L > १ तैत्ति-
 क्ष-^८ पा.) पाग ४; १, १०५; २,
 १११.
 त्तिक्षि- पाग ४, ४, ६२; -क्षा
 वाधूश्रौ ३, १ : ८; विध ९९, ५;
 -क्षायाम् पा १, २, २०.
 २ तैत्तिक्ष- पा ४, ४, ६२.
 १ तीक्ष्ण, क्ष्णा^९- पाठ ३, १८; -क्ष्णः
 अप ३६, २, ६; ६८, १, ११;
 काशु; -क्ष्णम् अप ३६, १६,
 १×४; आपध; -क्ष्णा काश्रौ १६,
 २, ५; वाधूश्रौ ४, १५:२; -क्ष्णाः
 सु ८, ३; -क्ष्णाम् माश्रौ ६, १,
 १, ८; वाधूश्रौ ४, १५ : ४;
 -^१क्ष्णाय अप ३६, ९, १५; ६६,
 २, ६; ३, २; गौध २६, १२;
 -क्ष्णे वैश्रौ १०, १ : १०.
 तीक्ष्ण-काष्ठ- -ष्टेन बौध ३, २, ३.
 तीक्ष्ण-तैल^{१०}- -लम् अप ३६,
 ३०, १.
 तीक्ष्ण-डीसि-प्रकाश-त्व-
 -त्वात् नाशि १, ५, १५.
 तीक्ष्ण-द्वंष्ट्र^{११}- -ष्ट्राय अप ३६,
 ९, १५^१.

तीक्ष्ण-रूप- > ^{१२}पिन्- -पिणे
 गौध २६, १२^१.
 तीक्ष्ण-शूल-विशाला (ल-
 अग्र >) ग्रा^{१३}- -ग्रा अग्र ५८^२,
 २, ३.
 तीक्ष्ण-स्वर- -रेण अप ७०^३,
 ६, ८.
 तीक्ष्णा(क्ष्ण-अ)ग्र^{१४}- -ग्राः शंघ
 ३७४.
 तीक्ष्णा(क्ष्ण-अन्त >) न्ता^{१५}-
 -न्ताः कप्र २, ८, २.
 तीक्ष्णा(क्ष्ण-अ)र्ध^{१६}- -त्वात्
 काश्रौ ८, २, १७.
 तीक्ष्णा(क्ष्ण-अ)सृग्-विष-
 युक्त^{१७}- -कानाम् अप ३६, २, ५.
 तीक्ष्णी^{१८}√कृ > ^{१९}क्ष्णी-करण-
 -णम् वैश्र ३, २३ : ५.
 तीक्ष्णी-कृत्य वैश्रौ ४, ११:७.
 तीक्ष्णीयस्^{२०}- -यसी निस् ३,
 १३ : २७.
 तेक्षिण^{२१}- -ष्टम् आपश्रौ २१,
 १२, ३^१.
 २ तीक्ष्ण^{२२}- (> तैक्ष्णायन- पा.) पाग
 ४, १, ११०.
^१तेज^{२३}- > ^{२४}तेजिष्ठ, छा^{२५}- -ष्टस्य
 वाश्रौ १, ३, २, १४; -छा आपश्रौ
 ४, ६, ४; माश्रौ ४, ९, २; वैश्रौ
 ५, ७ : २; हिश्रौ ६, २, १५;
 -ष्टेन आपश्रौ २, ४, १०; १६,
 ३२, ५; बौश्रौ १, १२ : ३; माश्रौ
 २, ४, ११; वैश्रौ १८, १६ : ४६;
 हिश्रौ ११, ८, ११.
 तेजीयस्- -यसा बौश्रौ १३, ५ :

-१४^१.
 तेजन^{२६}- पाग ४, १, ४१; -^{२७}नम्
 आपश्रौ १४, २९, ३; हिश्रौ १५,
 १, १६; आम्रिष्ठ ३, ७, १ : १४;
 बौषि १७ : १३.
 तेजनी^{२८}- पा ४, १, ४१;
 -नी हिश्रौ ७, ५, २५; लाश्रौ ९,
 २, २७; -नीः आपश्रौ ११, ८,
 २; २१, १२, ९; हिश्रौ ७, ५, २७^२;
 ७, २१; -नीभिः हिश्रौ १६, ५,
 ३; -नीम् काश्रौ २१, ३, २६;
 वाधूश्रौ; -नीपु वाय १०, १३;
 -न्याम् माश्रौ २, २, २, २९; ३१;
 वाय १४, ५.
 तेजनि-संघात- -ते
 हिश्रौ १६, ६, ३३^१.
 तेजन्य(नी-अ)न्त-
 -न्तौ माश्रौ २, २, २, ३०.
 तेजन^{२९}- -नः आपश्रौ १७,
 १४, ८^१; -ने वाश्रौ ३, ४, ५, ९.
 तेजनी- > ^{३०}नि-त्वत्-
 -^{३१}त्वक् द्राश्रौ ११, २, ९; लाश्रौ
 ४, २, ८.
 तेजन-संघात- -ते आपश्रौ
 २१, १८, ५^१.
 तेजस्^{३२}- -जः ^{३३}आश्रौ २, ३, ४×४;
 शाश्रौ; आपश्रौ १०, २८, ५^२;
 -जसः पाय २, ६, २९; वृदे १,
 ९८; या १४, ५; -जसा आपश्रौ
 ३, १४, १३; काश्रौ; आपश्रौ ८,
 ४, २^१; माश्रौ ६, १, ८, १०^१;
 -जसाम् वाश्रौ १, १, २, ३^१;
 -जसि शाश्रौ १५, ४, ४; बौश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) पूष. = कृष्ण-सर्वप. । d) विप. । वस. ।
 e) विप. । कस. > वस. > कस. । f) कस. > मलो. कस. > तुस. । g) वैप २, ३ खं. द्र. । h) = यष्टि- इति
 गोपीनाथः । i) सप्र. ^१निसंघाते < > ^२नसंघाते इति पाभे. । j) विप. । वस. पूष. हत्वः । k) पाभे. वैप २,
 ३ खं. तेजः तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । l) पाभे. वैप २, ३ खं. तेजसा तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द्र. । m) पाभे. वैप १,
 १४ ७६ i द्र. ।

२०, २ : १७^१; माश्री १, ७, २,
२३^१; -जसे आश्री ५, १३,
१२; शाश्री; आपश्री १९, ९,
१३^१; आपमं २, ८, ११^१;
-जांसि अप ५८^२, २, ९; -जोभिः
कप्र ३, १, १५.

तैजस^d -सः या १२, ३७^०;
-सम् वौध १, ५, २२; या १४,
७; -सानाम् शंघ १७९; वौध
१, ५, २६; ६, ३५; विध ९२, १५;
-सुधप ८७ : १६; -सानि विध
७९, १४; २२; ८७, ६; -सैः वृदे
१, ८८.

तैजस-द्रव्य-संभ(व>)
-वा- -वा कप्र २, ५, १०.

तैजस-मार्त्तिक-द्वारव-
-त्तान्तव- -वानाम् गौध १,
३१.

तैजस-मृन्मय-दारव-ता-
-न्तव- -वानाम् वाध ३, ४९.

तैजस-वत् वाध ३, ५०;
-वौध १, ५, ३८; गौध १, ३२.

तैजसा(स-अ)पहारिन्-
-री शंघ ३७६; ३७७ : १.

तैजसा(स-अ)श्ममय-मृ-
-न्मय- -येषु आगृ ४, ७, १०.

तैज-आदि- -दि आपश्री २, ६, ४.

तैजसस-काय- -यम् आपध १,
२२, ६१.

तेजम्-काम- -मः शाश्री १४,
४, १××; काश्री; -मम् वौध २,
५, ५; आपध १, १, २३; हिध १,
१, २३; -मस्य शाश्री १५, ४, २;

आपश्री; -माः वौश्री ३, १४ :
९; -मानि शाश्री १४, ७८, २.

तेजस-कामिन्- -मी आग्रिगृ २,
४, ११ : २४.

तेजस-काय- -यम् हिध १,
६, ६१.

तेजस-त्व- -त्वात् मीस् ८, १,
३५.

†तेज(स्य>)स्या^१-स्या वौश्री
१३, ३४ : ५; -स्याः आपश्री
१८, १३, १७; वौश्री १२, ८ :

१५; हिश्री १३, ५, १४.

†तेजस-वत्- -वत् आपश्री २२,
२६, ३; वौश्री १८, ९ : ५^१;

हिश्री; -वते आपश्री २२, २६,
२; वौश्री १३, ५ : १२; १४,
११; ४^१; ५^१××; हिश्री; -वन्तम्

आपश्री २२, २६, २; वौश्री;
-वान् वौश्री १८, ९ : ६; माश्री.

तेजस-विन्- -वि अप १, ९, ४;
-†विन्^१ आपश्री १३, ८, ९;

वौश्री १४, ११ : ६; वैश्री १६,
९ : १४; हिश्री ९, २, ३२;

-विन्म अप ३, १, १३; -विना
अप १८^३, १, ११; -†वी आपश्री

६, २३, १; १९, १४, १३; वौश्री
७, १३ : २६; १४, ११ : ६^१××;

हिश्री ६, ६, २६; ९, २, ३२^१××;
पागृ.

तेजस्विनी- -०नि मागृ
२, १४, ३०; -नीः हिश्री ११, ८,
११.

तेजस्वि-न्तम- -मः काय

५९, ५.

†तेजः-सद्^१- -सत् आपश्री
१६, २९, २; वैश्री १८, २० : २८;
हिश्री ११, ८, ४.

तेजो-दा^१- -दाः अप्राय ६, ३^१;
तेजो-धातु-मय- -याः अप ५२,
१२, ५.

तेजो-वल- -लेन सु २४, १.

तेजो-ब्रह्मवर्चस-पुरोधा-काम-
-मस्य काश्री २२, ५, ११.

तेजो-मय- -यः शुभ्र ४, २१९.
-येन वौश्री १, २, १४.

तेजो-मूर्ति- -र्तिः वैश्री २, ६ : ९,
तेजो-रूप- -पम् शंघ १२३.

†तेजोवत्सव^१ः वैश्री २, १४ : ३;
वैध २, २, २.

†तेजो-वित्^१- -वित् आपश्री
१३, ८, ९; वौश्री १४, ११ : ८;

वैश्री १६, १० : १.

तेजो-विशेष- -वेण आपध २,
१३, ८; हिध २, ३, ७.

तेजो-व्रत^१- -तम् कौस् १८, २३;
अप १८, १४, १.

†तेजिजान^१- -नः वौश्री ४, १ :
२६; माश्री ७, २, ४.

तितउ^१- पाउ ५, ५२; -उ अप ४८,
११६^१; निध ४, १^१; या ४,
९^१; -ठना या ४, १०; कप्रा

२, १३^१; -उनि कौस् २६, २;
३१; ३०, १७.

तितउ-प्रश्न^१- -श्री कौस् २६, ३; ५.

तितनिपु- √तन् द.
तितित्त^१-, क्षा- √तिज् द.

d) पामे. पृ ११७० I टि. द्र. । b) पामे. वैप १, १४७७ e द्र. । c) पामे. पृ ४६७ j द्र. ।
d) विप. । स्वार्थे विकारार्थे वा अण् प्र. । e) = (स्वप्नावस्थायाम्) आत्म-स्वरूप- । f) सप्र. जसत्का <> °जस्का°
इति पामे. । g) वैप १ द्र. । h) पामे. वैप १, ६९० h द्र. । i) पामे. वैप १, ६९८ d द्र. । j) पामे.
वैप १, ६९० q द्र. । k) पाठः ? (तु. संस्कृतः टि.) । l) = घृताशन- (तु. दारिद्रः) । m) पामे. वैप १-
१४७४ n द्र. । n) द्रस. उप. = उष्णीप- वा इण्डव- वा ।

तित्तिम्भ^a- (>तैत्तिम्भ- पा.) पाग
४,१,१०५.

श्तित्तिरि^b- रम् शंघ २२३.

शैत्तिरि- रम् आगृ १,१६, ३; कौट
१,१९, ३; शांगृ १,२७, ३; -रेण
आपगृ १६, २.

श्तित्तिरि^c- राय^d आम्रिगृ १,२, २ :
२८; हिगृ २,२०, १^e.

श्तित्तिरि^f- पाउवृ ४, १४३; -रि:
विष ४४, २६; या ३, १८६;
शुप्रा ३, ८१^g; -रिम् विष
५०, ३७; -रीन् आपश्रौ २०,
१४, ५^h.

तित्तिरि-कपिञ्जल-लावक-वर्तिका-
मयूर-वर्जम् विष ५१, ३१.

तित्तिरि-कपोत-कपिञ्जल-वार्ध्राणस-
मयूर-वारण- ग्नाः वौष १, ५,
१३३.

श्तित्तिरिⁱ- पाग ४, १, १०५^j; २,
१११; -र्ये^k वौगृ ३, ९, ६; मागृ
३, ११ : १; -रिः वृदे ६, १५१.

तैत्तिरीय^l- पा ४, ३, १०२; -याः
वौश्रौप्र ९ : २; निस् ९, ३ : १९;
२५; नाशि १, १, ११; -याणाम्
तैप्रा २३, १८.

तैत्तिरीयक^m- काः चव्यू २ :
१३; तैप्रा २३, १७.

तैत्तिरीय-ब्राह्मण- गम् अप्राय
६, ८.

तैत्तिरीया(व-आ)हूरक- केपु

नाशि १, १, ९.

तैत्तिर्य- पा ४, १, १०५.

२तैत्तिर- पा ४, २, १११.

तितीरिपत्-, श्तीर्षत्-, श्वमाण-,
श्व- √तृ द्र.

तिथ- पाउ २, १२.

तिथिⁿ- पाउभो २, १, २०३; -थयः
शंघ ११५; आज्यो ६, ८; ११;

-थये गोवृ २, ८, १२; -थिः
अप २, ५, ५; ३५, १, ४; वौष;

-थिम् मागृ १, १०, ९; २, २,
१५; वागृ; -थिषु या ४, ५;

-थेः कागृउ ४४ : ८; आज्यो
७, १३; १७; २१; -थौ शांगृ ५,

२, २; अप २२, १, ४; ३१, ५, १;
आज्यो ७, ४.

?तिथि-ऋक्षाह्-जयोगतसः(?)^o अप
३६, २, १.

तिथि-करण-मुहूर्त-नक्षत्र-ग्रहा(ह-
आ)दि- दीनान् अप ७२, ३, ६.

तिथि-छिद्र- द्राणि अप ३१, ५, १;
-द्रेषु अप ३१, ८, ६.

तिथि-ज्ञ- ज्ञाः आज्यो ६, १३.

तिथि-देवता- ताः कप्र ३, ६, ९;
-ताम् मागृ १, १०, ९; २, २, १५.

तिथि-द्रव्य-ब्राह्मण-संयोग- ने अप
४४, १, ६.

तिथि-नक्षत्र- त्रम् वेज्यो २०.

तिथि-नक्षत्र-करण-मुहूर्त- तैन्
आज्यो ७, १२.

तिथि-नक्षत्र-पर्व-समवाय- ये गोवृ
१, १, १३.

तिथि-निष्ठा- ष्टम् वेज्यो २२.

तिथि-भा(भ-आ)दान->दानि-
(क>)का^p- काः वेज्यो २१.

तिथि-वारा(र-आ)दि- दिभिः
वौपि २, १०, ७.

तिथि-विचक्षण- ग्नाः आज्यो ७, ४.

तिथिवक- (>तैथिवक्य- पा.) पाग
५, १, १२८.

तिनिश- पाउभो २, ३, १४७.

तिन्तिडीक^q- पाउ ४, २०.

तिन्त्रिणीक- पाउना ४, २०.

तिन्दुक^r- पाउभो २, २, २२.

तिन्दुक-ज्योतिस^s- (>पतिषीय-
पा.) पाग ५, ३, १०६.

√ति,ते^t पाघा. श्वा. आत्म. क्षरणे.

√तिम् पाघा. दिवा. पर. आद्रोभावे.

तिमि^u- पाउ ४, १२२; पाग ८, २,
९^v.

तिमि-निल^w- पावा ६, ३, ६९.

तिमि-मत्- पा ८, २, ९.

तिमिर^x- पाउ १, ५१; पाग २, ४,
३१; पावाग ८, ४, ३९^y.

तिमिर-मकर-नग-नाग-नक्र-ग्राह-शि-
शुमार-शङ्ख-दुम-कूर्मो(र्न-उ)नि-

झप-महिष-वराह-दिग्द्वरद-नव-
कुमुद-खण्डाकृति-नल-कलश-

कुड्मलापीठ-तोरणा(ए-आ)वर्त-
स्वास्तिक-वर्धमान-रवौहूरजतम-

a) तु. पागम. । व्यप. । व्यु. ? । b) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । d) सपा. ।
श्राय <> श्रये इति पामे. । e) श्रायो इति पाठः ? श्रये उ० इति शोषः (तु. Böht [ZDMG ५२, ८८] ।
f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १, १४७८ k द्र. । h) पामे. वैप १, १४७८ l द्र. । i) तु. पागम. ।
j) = शास्त्राध्यायिन्- । k) = तैत्तिरीयागनाय- । तस्येदनीयः बुब् प्र. (पा ४, ३, १२६) । l) = काल-विशेष- ।
व्यु. ? । < √तन् इति पाउभो., < √कत् इति द्रभा. । m) पाठः (तु. संत्कर्तुः सूत्रो) ? श्वा(झ-आ)घ-चो
इति शोषः विमृश्यः । n) मत्वर्थे ठन् प्र. । o) तिन्तिडीक- इति पाम ४, ३, १५६ । p) = वृत्त-विशेष- ।
व्यु. ? । q) = मत्स्य-विशेष- । व्यु. ? । r) उत्त. उप. कः प्र. । s) वप्रा. । व्यु. ? । t) = पावाग ८, ४, ६ ।
विमिरा- इति भाण्डा. पात्ति., तिमिरिका- इति पाका. ।

द्राणिपताकाशिवतात्या-स्थान-
विविध-जलचर-पक्षि-विरुत-चतु-
प्पदा(द-आ)कार^१- रेषु अप
६५, १, ४.

तिमिर, रा-वन- पावाट, ४, ३९.

तिमिरिका-वन- तिमिर- टि. द्र.

तिर^१ > तिर/अच् > तिर (इ-अ)-
च् - रक् वौश्रौ २५, ३ : ३१^०.

१तिरइची^१ - श्रीः ऋअ २, ८, ९५;
साअ १, ३४९; ३५०; -१इच्याः
आश्रौ ७, ८, ३; शाश्रौ १२, २६,
६.

तैरइच्य^० - इच्यम् जुसू २, १५ :
२४; निसू ५, ७ : २७, ८, ४ :
२१; २३; ८ : ३२.

तैरइच्य(श्च्य-ऋ)च् - छुं
लाश्रौ ६, ८, १२.

तैरइच्यो(श्च्य-उ)त्त(म >)

मा- -मायाम् लाश्रौ ६, ८,
१२.

तिरश्री-श्रुतान- नौ अअ २०,
१३७.

२तिरइची-, ष्चिन- तिरस् द्र.

१तिरइचीनर्थ^१ कौसू १२४, ४.

तिरस्^१(ः) पाठना ४, २२४; १आश्रौ
१, २, ७; २, ५, ७; शाश्रौ ८, २४,
११; १आपश्रौ ६, २५, २; ९, १२,
४४; १४, २२, ३४; वौश्रौ; १आश्रौ
३, १०, २४; ६, ५, ५; आपमं
२, २२, २४१; आमिष्ट ३,
७, २; ३१; वौशिष्ट, १७; २४१; १;

कौसू ७२, २१; निच ३, २९; १;
या ३, २०; ५, ४; ५; १२,
३२; पा १, ४, ७१; पाग १, १,
३७; ३, १, २७.

तिरः-पवित्र^१- -त्रम् आपश्रौ १,
१३, ६; १४, ३१; वौश्रौ १, ३ :
३१; ४ : २१ x ४; भाश्रौ; हिष्ट
१, १, २४^१.

तिरश्-चर्म^१- -र्मन् वौश्रौ ६, २८ :
४५; ७, ५, १९; ८, १, ११; २५,
२२, ६.

तिरस्/कृ > कृत्य काश्रौ ६, १,
१२; वौध १, ५, ६८; पा १, ४,
७२.

√तिरस्य पा ३, १, २७.

तिरो-अह्वि^१- -यस्य वौश्रौ १७,
१० : १७; -याः तैप्रा ११,
१७; -यान् आपश्रौ १४, ४,
८; वौश्रौ १७, १० : १३; वैश्रौ
२१, १५ : ९; हिश्रौ ९, ७,
५३; १५, ७, १०; -यानाम्
आपश्रौ १४, ४, ७; वौश्रौ
१७, १० : १०; २३,
१३ : ३०; ३२; हिश्रौ ९, ७,
५३; -येभ्यः काश्रौ २०, ८,
१४.

तिरो-अह्वय^१- -ह्वयस्य द्राश्रौ ६, ३,
१८; लाश्रौ २, ११, १२; -ह्वयान्
माश्रौ २, ५, ३, २४; -ह्वयानाम्
आश्रौ ६, ५, २४; शाश्रौ ९,
२०, ३१; काश्रौ १२, ६, १३;

माश्रौ २, ५, ३, २३; -
१ह्वयासः आश्रौ ६, ५, २४;
शाश्रौ ९, २०, ३०; -ह्वयेषु
आपश्रौ १४, २८, २.

तैरो-अह्वय^१- -ह्वये आश्रौ ५,
५, २०.

तिरो-अह्वया(ह्वय-आ)दि- -दि
काश्रौ २४, ३, ३८.

तिरो(रस्/अ)च् > तिरश्-च्^१-
-रश्चः काश्रौ १८, ६, ७; अत्राय
४, ४; -रश्चा या ६, २०.

२तिरश्री- -श्री आश्रौ

८, १४, ४; शाश्रौ ४, १८, ११;
काश्रौ २, ८, ५; आपश्रौ १६, १४,
६; वौश्रौ; द्राश्रौ १०, ४, ७; लाश्रौ
३, १२, ६; -श्रीः वौश्रौ
५, ६ : ६; माश्रौ १, २, ५, २;
हिश्रौ १, ७, ३; -श्रीम् आपश्रौ
२, १, २; वौश्रौ; -श्रीषु काश्रौ
१७, १, १३; -इच्यौ काश्रौ १७,
१, १०; ४, १४.

तिरश्चि(क >)का^१-

-काः आश्रौ १, २, १.

तिरश्चिन, ना^१- -नः शुअ ३,
२३६; -नम् भाश्रौ ७, १४, ९;
वैश्रौ ६, ८ : ५; -नाः कौसू
१३१, २.

तिरश्चिन-निघन^१- -नम्
लाश्रौ ६, ११, ४.

तिरश्चिन-संनद- -दम्
वाधुश्रौ ३, ७५ : ६; ८.

a) द्रस. > वस. १ पूष. = जल-जन्तु- १ b) तिरस् > यनि. १ c) सपा. तै १, १, २, १ तैत्रा ३,
२, २, ५ आपश्रौ १, ३, १२ तिर्यक् इति पामे. १ d) वैप १ द्र. १ e) = साम-विशेष- १ f) पाठः ?
तिरश्चिनं यत् इति web. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) १ g) पामे. वैप १, १४७९ a द्र. १ h) वैप २, ३खं. द्र. १
i) Böht [ZDMG ५२, ८१] पद-द्वयम् इति (तु. ऋ १, १३५, ६) १ j) अस्त. टजभावपत्तः (पा ५, ४, १०९) १-
k) पामे. वैप १, १४७९ c द्र. १ l) सपा. ष्हियान् <> ष्हियान् इति पामे. १ m) सप्र. ष्हियानाम् <>
ष्हियानाम् इति पामे. १ n) विप. (आश्विन- [अतिरात्र-]) । स्वार्थे अण् प्र. १ o) चेतरो अह्वये इति पाठः? यनि. शोधः
(तु. आन.) १ p) सपा. शौ १५, ३, ५ इच्ये इति पामे. १ q) नाप. १ स्वार्थे कः प्र. हस्य १

तिरश्चीना(न-अ)प्र,प्रा^१-
-ग्रान् वौश्रौ ९, १५ : २१;
-ग्राम् वौश्रौ ९, १५ : २३;
-ग्रौ वौश्रौ ९, १५ : १०.

तिर(स्>)श्-च-^b>श्च-ता-
-ता^c सु २२, १.

तिरश्च-राजि^b- -जिः^d आपमं
२, १७, १७^१.

†तिर(स्>)श्-चि-^b>श्चि-
राजि^b- -जिम् अत्र ३, २६^d;
-जेः कौसू ३२, ५; अत्र ७,
५६; अपं २ : ८६.

तिर्यं(रि-अ)च्, च्- पा ६,
३, ९४; -र्यक् शाश्रौ ४, १२, ५;
१७, १, ११; काश्रौ; आपश्रौ १, ३,
१२^e; हिश्रौ ५, ४^e, ६; -र्यञ्चु
विध ५, १७, ७, -र्यङ् वाधूश्रौ
३, ६ : २^३; ६९ : ३५; लाश्रौ;
-र्यचि पा ३, ४, ६०; -र्यञ्चः
वाधूश्रौ ३, ६ : ३, द्राश्रौ १०,
४, ८^१; लाश्रौ ३, १२, ७^१;
विध ५१, ६३; -र्यञ्चम् आपश्रौ
२, ३, ११×५; वौश्रौ १, ११ :
३६×५; १२, ९ : २४^१; -र्यञ्चि
वौश्रौ ६, २६ : ८; वाधूश्रौ ३, ६ :
२; -र्यञ्चौ आपश्रौ २, १२, ८;
वौश्रौ ५, ५ : ३०.

तिरीच, ची- -चम् वाधूश्रौ
३, ६ : १; -ची वाधूश्रौ ३, ६ :
१; २; -चीः वाधूश्रौ ३, ६ : १.

तिरीचीन^b- -नम् आपश्रौ
२, १८, ९.

तिर्यक्-तस् (:) आपश्रौ १४,
६, ११; हिश्रौ ९, ८, २८.

तिर्यक्-स्व- -स्वम् विध ४४,

४४; ४५, १; ५८, ५.

तिर्यक्-प्रमाण- -णानि
आपश्रौ १, ३, १७; -णेन आपश्रौ
१६, ४, ७.

तिर्यग्-अङ्गुरि^b- -रिम्
कौसू ८७, १४.

तिर्यग्-अनय- > तैर्यगयनि-
क- -कः लाश्रौ ४, ८, ७; द्राश्रौ
८, ४, ७; निस् ५, १२ : १५.

तिर्यग्-ग, गा- -गा अप
५८^१, ४, ६; -गाः अप ५२,
१३, १.

तिर्यग्-द्विगुण- -णानि काशु
६, ७.

†तिर्यग्-विल्^b- -लः शुभ
४, १९७; या १२, ३८^१.

तिर्यग्-भे(द>)दा^b- -दाः
वौशु १७ : ८; १९ : ७.

तिर्यग्-योनि- -नयः विध
४४, १; -निषु विध ९६, ३९;
-नौ अप ७०^२, १२, २; ४; विध;
-न्याम् वाध ४, ३१.

तिर्यग्योनि-गत- -तान्
वौश्रौ २८, २ : ५३.

तिर्यग्योनि-भयावह-
-हौ अप ६३, ४, ७.

तिर्यग्योनि-व्यवाय- -ये
वाध २३, ५.

तिर्यङ्-नद्- -द्म् काश्रौ
२२, ४, १०.

तिर्यङ्-नीच- -चः शुप्रा १,
१४९.

तिर्यङ्-मान^१- -नम् काशु
७, ३२.

तिर्यङ्मानी^१- -नी काशु

२, ७; ९; ११; आपशु; -नीम्
आपशु ४, ७; वौशु २ : ९; हिशु
२, ६; -न्या काशु ३, ३; आपशु
२, १५; हिशु १, ३६; -न्याः
काशु ७, ५; वौशु १५ : २, -न्यौ
आपशु ५, १२; हिशु २, २२.

तिर्यङ्मानी-शेष-
-षः काशु १, १३; १५; आपशु १, ७
? तिरोधसा वाधूश्रौ ४, १०२ : १५.
तिरो/धा^b> धा- -धाम् अत्र
८, १०(५)^१.

†तिरो-धाय वौश्रौ १४, ७ : २३;
२६, ७ : २०; २१; वाधूश्रौ ४,
१०२ : १४.

तिरो-हित- -तम् विध ७१, १९.
तिरो/भू, तिरोभवति आपश्रौ
२३, १३, १५; हिश्रौ १८, ४,
५२; लाश्रौ १०, १९, ११;
निस् १०, ११ : ५; तिरः
...भवति वौश्रौ १४, १ : २०;
तिरोभवन्ति हिश्रौ १८, ४, ४१;
४२; तिरः (अभवत्) वाधूश्रौ
४, २६^२ : ४.

तिरः...चमूच वाधूश्रौ ४, ७५ :
३५; तिरो...भवितास्मि वाधूश्रौ
४, ७५ : २४; तिरोऽभूत् वाधूश्रौ
४, ७५ : २४; ३६.

तिरो-भूत्वा वाधूश्रौ ३, २९ : ५.
तिरो-विराम^k- -मः शैशि २३६;
माशि; -मम् माशि ७, ९; नाशि
२, १, ५^१.

तैरोविराम- -मः शुप्रा १, ११८;
-मम् याशि १, ८३^१.

तैरोविराम-क- -कः याशि
१, ७७.

a) विप. 1 वस. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) वा. क्वि. इति BW. 1 d) पाभे. वैप १, १४७९ j द्र. 1 e) पाभे.
पृ ११७३ ० द्र. 1 f) पाभे. वैप १, १४७९ ० द्र. 1 g) = तिरश्चीन- 1 h) पाभे. वैप १, १४८० f द्र. 1 i) उस. उप.
भावकरणयोर्लुट् प्र. 1 j) = रज्जु-विशेष- 1 k) = स्वरित-विशेष- 1 l) सप्र. तिरो<>तैरो इति पाभे. 1

तिरोव्यञ्जन-> तैरोव्यञ्जन^१- नः
 शुप्रा १, ११७; तैप्रा; नाशि १,
 ८, १०^१; २, १, ४^१; ८^१.
 तैरोव्यञ्जन-पादवृत्त- -त्तयोः
 तैप्रा २०, १२.
 तैरोव्यञ्जन-संज्ञा-> ङ-
 -ङः याशि १, ७७.
 तैरोव्यञ्जन-स्वरित- -तः
 कौशि ८.
 तिरिन्द्रि^२- -रस्य ऋअ २, ८, ६;
 -रे शाश्रौ १६, ११, २०; २१.
 तैरिन्द्रि^३- -रम् वृदे ६, ४७.
 तिरीच, ची- प्रभृ. तिरस् द्र.
 तिरीट- पाठ ४, १८५.
 तिरोअह्निय- प्रभृ. तिरस् द्र.
 तिर्परीक-, तिर्पिरिका- पावाग ८,
 २, १८^४.
 ऋ?तिर्य^५- -र्यम् अप्रा ३, २, ३१.
 तिर्यच्, ङच्- तिरस् द्र.
 ✓तिल् पाधा. भ्वा. पर. गतौ; तुदा.
 पर. स्नेहने.
 तिल^६- पागवा ५, ४, ३; -लः हिश्रौ
 २१, ३, १०; आगृ; -लम्
 आम्रिगृ ३, ११, ४ : १८; वैगृ
 ४, ४ : १८; वीघ ३, १०, १५;
 -लस्य शंघ ४०५; -लाः वैश्रौ
 १६, ६ : ५; वीगृ; -लान् आपश्रौ
 १३, ५, ४^६; माश्रौ; -लानाम्
 वैगृ ५, १३ : १३; जैगृ; -लेभ्यः
 वीश्रौ २, २० : ४; २४, २१ :
 ९; २८, ८ : ५; वैश्रौ १, १६ :
 ३; वीपि ३, १२, १; -लेषु
 वीश्रौ १८, २३ : १६; कौस् ९३,
 २९; -लैः कौगृ ३, १४, २; शागृ.
 तैल^७- पाग २, ४, ३१^७; -लः

कौस् ९२, १०; -लम् वीश्रौ
 २८, १३ : ५; वैश्रौ; या ६, १७;
 -ले कौस् ९३, ३९; अप ७०^८,
 ७, १३; ७२, १०, ४; ५; -लेन
 वैताश्रौ ४३, १२; अप १, २८,
 १; विध ४३, ३८,
 तैल-गुड-शुक्कगोमये (य-इ)
 न्धन-नृण-कुश-पलाश-भस्मा-
 (स्म-अ)ङ्गार- -रान् विध ६३,
 ३७.
 तैल-द्रोणी- -ण्याम् वैश्रौ
 २०, २३ : २; हिपि २२ : १२.
 तैल-धारा- -रा माशि ४,
 १५; -राम् शैशि ३५०.
 तैल-परिप्लु (त>) ता-
 -ताम् अप ६८, ५, १.
 तैल-पात्र- -त्रम् गोयु ३,
 ५, ३०.
 तैल-पायिन्^९-> ण्यि-क-
 -कः विध ४४, २३,
 तैल-पीत- पाग २, २, ३७.
 तैल-विन्दु- -न्दुः विध ३,
 ९७.
 तैल-मिश्र- -श्रम् अप १,
 ४८, ३; अशां १३, १.
 तैल-वत् विध ६४, १२.
 तैल-संयु (त>) ता- -ताः
 अप ३२, ९, २.
 तैल-संपर्क- -र्कः वैगृ ५, १४ :
 २.
 तैल-संपात- -तम् कौस्
 ३०, १.
 तैल-सर्पिस्- -र्पिपी आपघ
 १, १७, १६; वीघ १, ६, ४८;
 हिध १, ५, ४८.

तैला (ल-अ) क्त- -क्तम् अप
 ३६, १६, १.
 तैला (ल-अ)प्- -पस्य कायु
 ७०, १.
 तैला (ल-अ)भ्यक्त, क्त- -क्तः
 अप ६८, ५, १; -क्ता अप २६,
 ३, ५.
 तैला (ल-आ) मलक-संनिभ-
 -भाः अप ६३, ४, ८.
 तैलो (ल-उ) दक- -कयोः
 विध ७१, २३.
 तैलीन- पा ५, २, ४.
 १ तिल-क- पा ५, ४, ३.
 तिल-कट- पावा ५, २, २९.
 तिल-कर^{१०}- -रम् विध ९, ६.
 तिल-कल्क- -ल्कैः विध १९, १८.
 तिल-काल^{११}- (> ञ्ल-क- पा.)
 पागवा ५, ४, ३.
 तिल-गान्ध-पुष्प-मालय- -ल्यैः वीपि
 २, १०, २.
 तिल-गोमय-कर्म- -मैः अप ६८,
 ५, ११.
 तिल-तण्डुल- -लाः अशां १२, २;
 -लान् आम्रिगृ ३, ४, १ : २२;
 १०, १ : ९; वीपि; -लानाम्
 आम्रिगृ ३, ४, १ : २०; वीपि;
 -लानि आम्रिगृ ३, ४, ४ : २६.
 तिल-तण्डुल-दधि-मधु-क्षीर-
 -राणाम् वैगृ ५, ४ : १.
 तिल-तण्डुल-पकात्र- -त्रम् वाध २,
 ३९^{१२}.
 तिल-तण्डुल-संपर्क- -र्कः कप्र ३,
 ६, ८.
 तिल-तैल- -लम् अप २३, ५, ४;
 -लेन शंघ २४२.

a) = स्वरित-विशेष- । b) ञ्ल्य^{१३} इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. याशि. प्रभृ.) । c) वैप १ द्र. ।
 d) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । e) तु. पागम. । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । g) = [परोप्या-
 नामक-]पक्षि-विशेष- । उस. । h) उप. = रेकर- । i) णम् इति पाठः ? यनि. शोघः ।

तिलतैल-तुला-लाम् विध ९०, २२.
 तिल-द्रधि-श्रौद्र-लवण-लाक्षा-मद्य-
 मांस-कृतान्न-स्त्री-पुरुष-हस्त्य-
 (स्ति-अ) इव-वृषभ-गन्ध-रस-
 कृष्णाजिन-सोमो (म-उ) दृक्-
 -कात् शंघ १५३.
 तिल-दर्भ-भर्त्तु आग्नि ३, ३,
 १ : १५.
 तिल-दान-ने वौध २, ८, १५^b;
 -नेन अप ४, २, १०.
 तिल-द्रोण-णम् विध ५०, ३७.
 तिल-धान्या(न्य-अ)ल-वस्त्र-
 -स्त्राणाम् शंघ ३२५.
 तिल-धेनु-नुः अप ९, ३, ५;
 -नुम् आग्नि ३, १०, २ : १०;
 वौषि ३, ९, ५; अप ९, १, १;
 अशां १३, ५; काध २७१ : ८.
 तिल-तुद-पावा ३, २, २८.
 तिल-पात->तैलपा(त>)ता^b पा
 ६, ३, ७१.
 तिल-पात्र-दान-नम् अप ६८, २,
 ६१.
 तिल-पिङ्ग-पावा ४, २, ३६.
 तिल-पिशित-तम् वाग् ४, २३.
 तिल-पिङ्गल-इलम् नाग् १, २१,
 १२^d.
 तिल-पिष्ट-मापो(प-ओ)दन^e -नम्
 जैगृ २, ९ : २७^f.
 तिल-पिष्टा(ष्ट-आ)दि-दिभिः
 आग्नि ३, ३, १ : १३.
 तिल-पेज-पावा ४, २, ३६.
 तिल-पेशल-लम् काग् ४०, १८^d.

तिल-प्रद-दः विध ९२, २३.
 तिल-प्रस्थ-स्थस्य हिपि १७ : ८.
 तिल-भक्ष-क्षः आपध १, २६,
 १५; २७, १; हिध १, ७, २५; २६.
 तिल-मधु-संसृष्ट-ष्टम् वौग् २,
 ११, ५३.
 तिल-मय-पा ४, ३, १४९.
 तिल-मात्र-चित्र-त्रः या ३, १८.
 तिल-मात्र-तुन्न-न्नम् या ४, ९.
 तिल-माष-पाः आपध्रौ १६, १९,
 १३; जैगृ १, ११ : ६; आपध
 २, १६, २३; हिध २, ५, २३;
 -पाणाम् कौग् १, २१, ६; शाग्
 १, २८, ६; जैगृ १, ११ : ४;
 -पात् द्राश्रौ ५, ४, २८; लाश्रौ
 २, ८, २८; -पैः गोग् २, ९, ६.
 तिल-माष-व्रीहि-यव-वाः वौश्रौ
 २४, ५ : १५.
 तिल-माष-व्रीहि-यवो(व-उ) दृक्-
 दान^e -नैः गौध १५, १४.
 तिल-मिश्र, आ¹ -श्रम् आश्रौ ८,
 १४, ३; वौश्रौ २६, ३३ : १४;
 आग्नि ३, ४, ४;
 -आः आग्नि ३, ४, ४;
 २०; ८, १ : ६; वौग्; -आभिः
 आग्नि ३, ८, २ : ३८; ६५;
 वौषि १, १५ : ४५; हिपि १५ :
 १५; -श्रेण आग्नि ३, ११, २ : ४.
 तिलमिश्र-गन्धो(न्ध-उ)दृक्-
 -कैन वौषि २, १२, २.
 तिलमिश्र-पिष्ट-मापौ(प-ओ)
 दन-नम् आग्नि २, ५, १ : ३५^f
 तिलमिश्रो(श्र-उ)दपात्रा(त्र-आ)
 नयन-नम् हिध २, ५, ४५¹.

तिल-मुद्ग-माष-यव-गोधूमा (म-
 आ)दि-द्रीनाम् शंघ १४६.
 तिल-मुद्ग-मिश्र-श्रम् पाग् १,
 १५, ४; जैगृ १, ७ : २.
 तिल-लाज-जैः वैग् ५, १० : ५.
 तिल-वत् कप्र १, ३, ९.
 तिल-व(त्स>)त्ता^k -त्साः
 आग्नि ३, ८, २ : ३९; वौषि १,
 १५ : ४६.
 तिल-वर्जम् शंघ २७७.
 तिल-व्रत (> णित्- पावा.)
 पावाग् ५, १, ९४.
 तिल-व्रीहि-यवा(व-आ)दि-
 -द्रीनाम् अप ७०, ४, ९.
 तिल-शण-नोमय-शान्ता-ज्वाला¹-
 -लेन कौग् २७, ३३.
 तिल-सक्तु-कुभिः वौग् २, १, १८.
 तिल-सक्तु-द्रधि-लाज-जम् वैध
 २, १५, १.
 तिल-संवन्ध-न्धम् विध ६८, २९^m
 तिल-सर्पप-पैः कौग् ३, १, २;
 शाग् ३, १, ३; वैग् ३, १४ : २;
 अप ३१, ८, ५.
 तिला(ल-अ)क्षत-तान् वैग् ५,
 १२ : ४; -तेषु वैग् ५, ६ : १०.
 तिलाक्षता(त-आ)दि-द्रीनि
 वैग् ५, ४ : २२.
 तिला(ल-अ)क्षतो(त-उ)दृक्-
 -कै वैग् ५, २ : २०; २४.
 तिला(ल-अ)नुप्रकिरण-णम् हिध
 २, ५, ४५.
 तिला(ल-अ)न्तर-नम् नाशि १, ६,
 ९.

a) ल्लादा¹ इति Hultsch । b) जः प्र. (पा ४, २, ५८) । c) पस. । उप. ? = चूर्ण- वा पात्र-
 वेति भाष्यम् । d) सपा. षिङ्गलम् <> षेशलम् इति पाभे. । e) पस. > मलो. कस. । f) सपा. तिल-
 पिष्टमापो <> तिल-मिश्रपिष्टमापौ इति पाभे. । g) उप. कर्त्तरि कृत् । [h] तु. जीसं. St. । i) विप.,
 नाप. [वौश्रौ. प्रम्.] । j) सप्र. आपध २, १७, १७ उदपात्रानयनम् इति पाभे. । k) विप. । वस. ।
 l) शान्ता- = श्रोपधि-विशेष- । m) संयुक्तम् इति जीसं. ।

तिला(ल-अ)म्भस्-म्भाः शंघै
१२१.

तिला(ल-अ)र्थ-र्थः आगृ २, ५,
१५; कौगृ; -र्थम् वौगृ १, १,
२४; -र्थाः अप ४४, १, १०.

तिला(ल-अ)शन-नः वौघ ४, ५,
२६.

तिलो(ल-उ)दक-कम् आम्रिगृ
३, ३, २ : २२; ११, ३ : २१;
वौगृ; -केन आम्रिगृ १, २, २ :
३७; -कैः आम्रिगृ ३, ११, २ :
१०; ३ : १७; वैगृ ७, ८ : ३.

तिलोदक-दाना(न-अ)न्त-
न्तम् वौपि २, ११, ५.

तिलोदक-पात्र-त्रम् वौपि २,
९, २; १०, ३; -त्रे वौपि २, ९,
५; ११, २.

तिलोदक-प्रदान-नम् वौपि
२, १२, ४; भागृ ३, १७ : १०.

तिलो(ल-ओ)दन-नः अप १, ३४,
४; -नम् वैगृ ५, १३ : ८;
-नस्य वैगृ ५, १४ : ६; -नेन
वैगृ ५, १३ : १६.

तिलो(ल-उ)दुस्वरपत्र-दर्भ-भान्
वैगृ ५, १५ : १, २.

तिलौ(ल-ओ)दन-नः कौसू १३८ :
२.

तिल्य-पा ५, १, ७; २, ४; फि ७६.

तिल-क-तिल-द्र.

तिलक^b-पाग ५, १, १२८^c; २, ३६.

तैलक्य-पा ५, १, १२८.

तिलक-वत्-वान् वौश्रौ १५,
३७ : १; १८, १ : ६.

तिल(क>)का-वल^d-लः शांश्रौ

१६, १८, १८; -लम् आपश्रौ
२०, २२, ६; हिश्रौ १४, ५, ४.

तिलकित-पा ५, २, ३६.

तिलदा^e-न्दे आपमं २, ११, १९;
आम्रिगृ २, १, ३ : ९; भागृ १,
२२ : १४; वैगृ ३, १४ : १३;
हिगृ २, ३, ३.

तिलिका (>तैलक्य-) रतिलक-
दि. द्र.

तिलिपिञ्ज-ञम् अप्रा ३, ४, ११.

तिलिपिञ्ज-ञ्याः कौसू ८०, २८.

तिलिपलिका^f-पावाग ८, २, १८.

तिल्ल^g पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

तिल्व^h->तिल्व-क, का-कः आगृ
२, ७, ६; -काम् आम्रिगृ ३, ५,
५ : ६; वौपि १, ४ : ६.

तैल्वकⁱ-कः काश्रौ २२, ३, ९;

आपश्रौ २२, ४, १५; हिश्रौ १७,
२, २१; -कम् आपश्रौ १६, १०,
३; हिश्रौ ११, ३, १९; -कानि
वौश्रौ १८, ३६ : २; -कौ वैश्रौ
१८, ७ : १८.

तैल्वकी-कीम् माश्रौ ६,
१, ३, २८; २९; वाश्रौ २, १, २,
२८.

तिल्विल, ला^b-ला आपमं २, १५,
३; आगृ २, ८, १६; कौगृ ३, २,
६; शांश्रौ ३, ३, १२; भागृ २,
११, १२; -ले ऋप्रा १४, ५८.

तिव वाधूश्रौ ३, ५ : १.

तिव्यपासम्ⁱ वाश्रौ ३, २, १, २४.

तिष्ठत्-प्रगृ. √स्था द्र.

तिष्य^j-फि २३; -ष्यः वौगृ १, १,
२१; भागृ २, १८ : ६; -ष्यात्

आपघ २, २०, ४; हिघ २, ५, ९;
-ष्याय वैगृ ३, २० : ५; -ष्ये
वौश्रौ १७, ३९ : ९; आम्रिगृ;
-ष्येण आगृ १, १३, २; आपगृ.

तैष-पाग ६, २, १९४^k; पा,
पावा ६, ४, १४९; -षस्य शांश्रौ
१३, १९, ३; -षे वौगृ २,
११, २.

तैषी-षीम् गोगृ ३, ३, १४;
जैगृ १, १५ : १; -ष्याः हिश्रौ
१३, ३, २; वैताश्रौ ३६, २, गोगृ
३, १०, १६; -ष्याम् वौश्रौ १३,
१७ : ३; माश्रौ.

तैषी-पक्ष-क्षस्य
आम्रिगृ १, २, २ : १; भागृ ३,
८ : ११; हिगृ २, १८, ८; हिघ
१, ३, २.

तैष्या(षी-आ)दि-दि
आश्रौ ८, १४, २२.

तिप्य-नक्षत्र-संयुक्त-क्ते अप ५,
४, २.

तिप्य-पुनर्वसु-स्वोः कौगृ १, २०,
३; पा १, २, ६३.

तिप्य-पुनर्वस्व(सु-अ)नुराधा(धा-अ)
श्वि-नेवती-त्याम् आम्रिगृ २,
२, ३ : २.

तिप्य-पुण्य-प्ययोः पावा ६, ४,
१४९.

तिप्य-वृहस्पति-तिभ्याम् कागृ
१८, २.

तिप्य-मूल-लयोः आम्रिगृ २, ५,
१२ : १.

तिप्य-रोहिणी-ष्याम् आम्रिगृ २,
५, ६ : १२.

a) विप. । वस. । b) = विशेषक- । व्यु. ? । c) तिलिका- इति पाका. । d) मत्वर्थे
वलच् प्र. उसं. (पा ५, २, ११२) पूष. दीर्घः (पा ६, ३, ११८) च । e) = जरायु- । व्यु. ? । f) वैप १ द्र. ।
g) तु. पागम. । h) विप. (स्थूणा-, क्षेप-) । वैप १ द्र. । i) पाठः ? व्यत्यास-> सम् इति शोधः (उ-
तत्रैव ३२) । j) = नक्षत्र-विशेष- । व्यु. ? । k) अर्थः ? । नैष- इति पाका. ।

ति(ष्य>)ष्या-पूर्णमास^a-से वौश्रौ
 १३, १७: २; २३, २: २२;
 हिश्रौ २२, ३, ७.
 तिष्यो(ष्य-उ)त्तर- रेपु वैगृ २,
 १३: २.
तिस्- प्रभृ. त्रि-द्र.
तिस्णीभिः^b अप १, ४०, ३; अशां
 १०, ३.
तिस्तिराण- √स्तृ, स्तृ द्र.
 ✓तीक् पाघा. भ्वा. आत्म. गतौ.
१, २तीक्ष्ण- प्रभृ. √तिज् द्र.
 ✓तीह पाघा. चुरा. उभ. कर्मसमाप्तौ.
तीर^c- रयोः हिश्रौ १०, ३, १७;
 -रस्य पावा ६, ३, १०८; -रे
 माश्रौ ५, २, २, ६; लाश्रौ;
 आमिगृ २, १, २: १२१^c;
 वीयुः हिगृ २, १, ३१^c -रेण
 आश्रौ १२, ६, ३; शांश्रौ;
 ऋआपमं २, ११, १२^c; १३^c;
 वीयु १, १०, ११^c; भागृ १,
 २१: ८^c.
तीर-रूप्यो(ष्य-उ)त्तरपद- द्वात्
 पा ४, २, १०६.
तीर्थ^d- पाठ २, ७; पाग २, ४, ३१;
 ४, २, ८०; १२७; ३, ७६; ५,
 १, ६४; ९७; -र्थम् आश्रौ १,
 १, ७; शांश्रौ; या ४, १५;
 -र्थस्य वाश्रौ ३, २, ५, ४५; वैगृ
 ५, ७: ९; शंघ १०३; -र्धात्
 काश्रौ १४, ३, १६; वौश्रौ; -र्थांनि
 वौश्रौ १५, १: ४; वाधूश्रौ;
 -र्धाय वाश्रौ ३, ४, १, २०;
 -र्थे काश्रौ १४, ४, ११; आपश्रौ;
 आपघ २, १६, २५^d; हिघ^d २,
 ५, २४; १०५; पा ६, ३, ८७^d;

-धेऽर्थे वाधूश्रौ २, १७: २;
 -र्थेन आश्रौ १, ११, १४^fxx;
 काश्रौ ५, ५, १०xx; आपश्रौ;
 वैगृ १, २: ६; ५: ६; ८; १०;
 १३: १; १४: ४; -र्थेभिः
 या १४, ३१; -र्थेषु जैगृ २, ५:
 १५; अप; -र्थैः अश्र १८, ४^f;
 या १४, ३१.
 तैर्थ- पा ४, ३, ७६; ५, १, ९७.
 तैर्थक- पा ४, २, १२७.
 तैर्थिक- पा ५, १, ६४.
 तैर्थ्य- पा ४, २, ८०.
 तीर्थ-गमन- -ने वौश्रौ २१, ८: १;
 वाध २१, ९.
 तीर्थ-देवा- -शात् आश्रौ ५, २, ६;
 ८, १३, २३; -शे आश्रौ ५, १,
 १३; ६, १२, ६; ९, ९, ८; वैताश्रौ
 २७, ९; ३४, १२.
 तीर्थ-पूत- -तः विघ ८३, ९.
 तीर्थ-मृत्यु- -त्यवः अप ४१, ४, ७.
 तीर्थ-यात्रा^e- (>तैर्थयात्र> |
 त्री- पा.) पात्राग ५, १, ११०.
 तीर्थयात्रा(त्रा-आ)श्रित-
 -त्तम् शंघ १०४.
 तीर्थ-वासिन्- -सिनाम् वाध २६,
 १२.
 तीर्थ-व्यतिक्रम- -मे वीगृ ४, ३, ६.
 तीर्थ-सद्- -सदे मागृ १, १३,
 १४^f.
 तीर्थ-स्थाणु-चतुष्पय-व्यतिक्रम- -मे
 आपगृ ५, २५; वीगृ ४, २, १४.
 तीर्थ-स्थान- -ने वैगृ ५, ७: ९.
 तीर्थ-स्नान- -नात् शंघ १००.
 तीर्था(र्थ-आ)ग(त>)ता- -वा
 माशि १५, ७.

तीर्था(र्थ-अ)नुसरण- -णम् विघ २,
 १६; -णेन विघ ३६, ८.
 तीर्था(र्थ-अ)न्त- -न्ते वाश्रौ ३, १,
 १, ३०; ४, १, २३.
 तीर्था(र्थ-अ)भाव- -वे शंघ १००.
 तीर्थो(र्थ-उ)दक- -कम् अप १६,
 १, ५; -केन अप १६, १, ६.
 तीर्थोदक-पूर्ण-कलश- -शम्
 अप १०, १, १.
 तीर्थ्य^g- -र्थांन् वौश्रौ ६, १, २५.
 तीर्ण- , तीर्त्वा √तृ द्र.
 ✓तीव् पाघा. भ्वा. पर. त्यौत्ये.
 तीवर- पाठ ३, १.
 तीव्र, त्रा^h- पाठभो २, ३, ३०; पाग
 ३, १, १८^h; ४, २, ५३^h; -त्रः
 शांश्रौ १४, २१, २; आशि ८,
 २०; -त्रम् माश्रौ २, ५, १, ३२;
 अप; -त्रस्य आश्रौ ९, ७, ३२;
 शांश्रौ; -त्राः ऋआश्रौ ६, ५, २४;
 ७, ६, २; शांश्रौ; वृदे ३, ९,
 ४^h;^h; या ९, १७^h; -ऋत्रात्
 काश्रौ १०, ५, ९; आपश्रौ; -त्राम्
 वौश्रौ १७, ३२: १^h; -त्रेण
 वौश्रौ १७, ३२: १^h; अप ५२,
 २, १; वाध २५, ७.
 तैत्रक- पा ४, २, ५३.
 तीव्र-नाति-त्व- -त्वात् आशि ८,
 २०.
 तीव्र-तर, रा- -रम् तैत्रा १७, १,
 ४; -रा आपघ २, १६, २४;
 हिघ २, ५, २४.
 तीव्र-ता- -ता वौश्रौ १८, ३०: ५;
 -ताम् वौश्रौ १८, ३०: ९^h;
 तीव्र-दारु^k- (>तैत्रदारु- पा.)
 पाग ४, ३, १५४.

a) वैप १ द. । b) पाठः ? त्रि-सु(णिग>)णीभिः इति अशां. संस्कर्तुरभिनतः शोधः । c) सपा.
 तीरे<>तीरेण इति पाठे. । d) = दानार्ह-पात्र- । e) = गुरु- । f) र्थे इति BI. । g) तु. पागम. ।
 h) तु. पाका. । i) व्यप. । j) उत्तरण संघिरार्थः । k) = वृक्ष-विशेष- ।

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तीव्र-सव ^१ -वः शांश्रौ १४, २१, १. १तीव्र-सुव ^२ -सुव शांश्रौ १४, २१, २१. २तीव्र-सुव ^३ -सुव काश्रौ २२, ९, १५; -सुतम् वौश्रौ १८, ४१ : १६१; -सुता आपश्रौ २२, १०, ६; हिश्रौ १७, ४, २३; -सुति काश्रौ ८, ८, २०; लाश्रौ ८, १०, ७. तीव्रसुच्-चतुःपर्याय- -ययोः वैताश्रौ ४०, ५. तीव्रसुद्-उपशब्दो (दृ-उ) पह्व्य- -व्येषु वैताश्रौ ३९, ९. तीव्र-सोम ^४ -मः वौश्रौ १६, ३१ : १८; -मे वौश्रौ १८, २९ : २१; -मेन आश्रौ ९, ७, ३१. तीव्रा(व-अ)न्त ^५ -न्तम् आश्रौ ५, १, १५. √तीव्राय पा ३, १, १८. तीव्रा(व-अ)र्थ-तर- -रम् या ४, २५. तीव्री√कृ ^६ > कृ(त >)ता- -ताभिः वैश्रौ १६, २२ : २. तीव्री-कृत्य आपश्रौ १३, १७, ९; हिश्रौ २, ४, ५५. √तु ^७ पावा. अदा. पर. गतिवृद्धि- हिंसासु, ऋताव निघ ४; १; या ४, २५. तूतोक् ऋप्रा ७, ४२१. *तक् > तवीयस् ^८ -यान् अप्रा ३, ३, ४. तव्य(म् >)सी ^९ -सीम् | आश्रौ ५, २०, ६; शांश्रौ ८, ६, ६; निस् ३, ९ : २०; ऋय २, १, १४३. तवस् ^{१०} -वः निघ २, ९१; -वसः शांश्रौ ८, २३, १; अप ४८, ६८१ ^{११} निघ ३, ३१ ^{१२} ; या ५, ९१ ^{१३} ; -वसम् आश्रौ २, १३, ९; ४, १३, ७; शांश्रौ; या ५, ९; -वसे आश्रौ ७, ४, ८; शांश्रौ १२, ४, १७; शांश्रु ५, ६, २; ऋप्रा २, ४४. तवस्-तम- -मः ^{१४} शांश्रौ ८, १७, १; १८, ३, २. तवस्-तर- -रम् आश्रौ ६, ४, १०; आपश्रौ. तविष, पा ^{१५} पाउ १, ४८; -पः निघ ३, ३१ ^{१६} ; -पाः आश्रौ २, १३, ७१; कौसू ६, ९१; -पेभिः या २, २४१ ^{१७} . तविषी- -षी अप ४८, १०३; निघ २, ९; या ९, २५१ ^{१८} ; -पीभिः आश्रौ ९, ५५; आपश्रौ ५, १०, ४; माश्रौ १, ५, २, १४४; वाश्रौ १, ४, २, ५; हिश्रौ ३, ३, ३६; -पीम् हिश्रौ १२, ६, ६; या ९, २५१; √तविष, ?तविष्यते निस् ७, ८ : ३४१ ^{१९} . ताविष- पाउभो २, ३, १५७. तु, > तू ^{२०} आश्रौ १, १, ३; २, १८, १९; शांश्रौ १, १, ४०; १५, २७, ११; १६, १३, १५ ^{२१} ; १८, | १३, ४; १५; काश्रौ; पा ८, २, ९८; पाग १, ४, ५७ ^{२२} ; पावा १, १, १××; पापवा १, ६; ९; ११; ५, १४. तु-तु-पूर्व- -र्वः तैप्रा ५, १३. तु-शब्द- -ब्दः उनिस् २ : १३. तु-हि-ह-वै-त(द >)च्-छ(<श) व्द-विशिष्ट- -ष्टानि ऋय १, १२, ३. तुक ^{२३} -कः अप ४८, ८९. तुक्ष- (>तौक्षायण- पा.) पाग ४, २, ३०. शुतृ ^{२४} - > तौतृय- -यः शैशि ३३०; -अग्रम् ऋप्रा ५, ३६. शुतृ- > तुतृय- पा ४, ४, ११५. तु(अग्र >)श्रया ^{२५} - -श्रया निघ १, १२; -श्रयाः अप ४८, ७५. तु(अग्र >)श्रयावृष् ^{२६} - -वृषः ऋप्रा ९, १११. तुग्वन् ^{२७} - -व या ४, १५१ ^{२८} ; -तुग्वनि अप ४८, ११५; निघ ४, १. तुङ्ग- पाउभो २, २, ६६. तुच् ^{२९} - पाउभो २, १, २४६ ^{२९} ; तूक् अप ४८, ८७ ^{३०} ; निघ २, २; तूत्वे साग्र १, ३९५ ^{३१} . तुच्छ- पाउभो २, २, ८३. तुच्छय ^{३२} - -च्छयान् ऋप्रा १४, ५२१. तुच्छव्दः दंवि २, ११. √तुञ्,ञ्ज् ^{३३} पाधा. भ्वा.पर.हिंसा- याम्; चुरा. पर. हिंसाबलादान- निकेतनेषु, तुञ्जते वैताश्रौ ३१, २७; तुञ्जति अप ४८, १३; १४; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) = एकाह- [याग-विशेष-]। उस. उप. अधिकरणे प्र.। b) विप.। उस.। c) वैप. १ द्र.।

d) पाभे. वैप २, ३खं. तीव्रान्तम् ऐत्रा २, २० टि. द्र.। e) या ९, २५ पा ६, १, ७; ७, ३, ९५ परामृष्टः द्र.।

f) बल-नामन्-। g) महन्-नामन्-। h) पाभे. वैप १, १८९१ q द्र.। i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.।

j) = बलवत्-। विशेषः वैप १, ८४३ k द्र.। k) वैप १, १४८३ d द्र.। l) पाभे. वैप २, ३खं. स्य ऐत्रा ७,

१८ टि. द्र.। m) पृ १९४ b द्र.। n) तु. पागम.। o) रह-नामन्-। p) <√तु इति। q) या ६,

१७ परामृष्टः धा. च दाने वृत्तिः द्र.।

निघ ३, २०.
 तुज्यते या १४, २६५.
 तुज्^१- तुजा उसू २, २५५.
 तुज^२- जः निघ २, २०५.
 √तुज्यमान- नासः अप ४८,
 १०६; निघ २, १५.
 √तुज्ज^३- जः निघ ४, ३; या ६,
 १७५; -ज्जेऽञ्जे या ६, १८५.
 √तुतुजान^४- नः अप ४८, १०६;
 निघ २, १५; या ६, २०५; ऋप्रा
 ७, २७.
 तुतुजि^५- जिः अप ४८, १०६;
 निघ २, १५.
 √तुजः^६ शांश्रौ १८, ३, २.
 √तुजि^७- ज्ये या १२, ४५५.
 √तुज् पाधा. भ्वा. पर. पालने; चुरा.
 पर. भाषार्थे.
 √तुद् पाधा. तुदा. पर. कलहकर्मणि.
 तुटि-> तुव्या(टि-आ)कार^१- रम्
 वैगु ४, १३: ८.
 √तुड् पाधा. भ्वा., तुदा. पर.
 तोडने^२.
 √तुण पाधा. भ्वा.; तुदा. पर. कौटिल्ये.
 √तुण्ड पाधा. भ्वा. आत्म. तोडने^३
 तुण्ड^४- पा, पाग ५, २, १२७^५; -ण्डैः
 अप ६४, ७, ९.
 तुण्डिक^६- कः अप्रा ३, ४, १५.
 तुण्डेल^७- लम् अप्रा ३, ४, १५.

तुण्डदेव^१- (> ँव-भक्त- पा.) पाग
 ४, २, ५४.
 तुण्डि- पाठ ४, ११८; पाग ५, २, १७५.
 तुण्डि-भ- पा ५, २, १३९^१.
 तुण्डिकेर^२- रः भाग १, २३: ३५^३.
 तुण्डिडल- पाठ १, ५४^२; पा ५, २,
 १७०; -लः कौगु ४, ४, १९;
 शांगु ४, १९, ३^२; -लस्य कागु
 ७०, ४^१.
 √तुत्थ पाधा. चुरा. उभ. आवरणे.
 तुत्थ- पाठ २, ७^१.
 तुथ^३- थयः शांश्रौ ६, १२, १७;
 आपश्रौ; माश्रौ २, ४, १, ६^{३५}.
 तुथ्य^४-> तुथ्या(थ्य-आ)निवेश्यौ
 (श्य-श्रौ)र्जयान- नानाम् हिश्रौ
 २१, ३, १०^५.
 √तुद्व पाधा. तुदा. उभ. व्यथने,
 तोतुद्येते कौसू १०७, २^५.
 तुद^६- दस्य या ५, ७.
 तुद्यमान- नाः विघ ४३, ३५.
 तु(ञ>)ञा- चा या ९, २६.
 तुन्न-वत्- वत् या ४, ९.
 तोत्त्र^७- पा ३, २, १८२; -त्त्रेण कौसू
 १४, ६.
 √तोद^८- दः निघ ४, २; या ५,
 ७५; -दस्य या ५, ७; -देन
 कौसू १०७, २^{५५}.
 रतुद^९- (> तौदिय- पा.) पाग ४,

१, १२३.
 तुतुपूर्व- तु द्र.
 रितुन्द^१- पाठ ४, ९८; पाग ५, २:
 ११७; १२७.
 रतुन्द- पा ५, २, १२७.
 तुन्द-परिमृज- पा, पावा ३, २, ५.
 तुन्द-वत्- पा ५, २, ११७.
 तुन्दा(न्द-आ)दि- दीनाम् पावा
 ५, २, ९७.
 तुन्दिक-, तुन्दिन्- पा ५, २, ११७.
 तुन्दिल- पा ५, २, ११७; -लः मागु.
 २, १०, ४.
 तुन्दि^२-> ँन्दिम- पा ५, २, १३९.
 तुन्य^३- न्यम् अप १, ७, १.
 √तुप्, तुप्, तुप् पाधा. भ्वा. ७.
 तुदा. पर. हिंसायाम्.
 √तुभ्^४ पाधा. भ्वा. आत्म., दिवा.
 क्र्या. पर. हिंसायाम्.
 तुभ्य- तुभ्यद्- द्र.
 तुम् पाग १, ४, ५७.
 तुमुल^५- पाठभो २, ३, ११०; -लः
 द्राश्रौ ४, ३, ३; लाश्रौ २, ३, ३-
 अप ७०^३, २१, २; ५; -लम् अप
 ५०, ७, १; ७०^३, ३, १.
 √तुम् √तुप्, √तुम् टि. च द्र.
 √तुम् √तुप् द्र.
 √तुम् पाधा. भ्वा. पर. अर्दने; चुरा^१-
 पर. अर्दने.

a) वैप १ द्र. । b) = वज्र- । कर्तरि षच् प्र. (तु. दे.) । c) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । d) पाठः? शोधार्थं
 वैप १, १४८६ d द्र. । e) वैप १, १४८५ s द्र. । f) विप. (ग्रहपीठ-) । वस. पूष. = तुटि-(अर्थः?। तु. C. टि.।) ।
 g) √तुड् इत्यपि BPG. । h) चुरा. पर. प्रेरणे इति BPG. । i) तु. पागम. । j) = मनुष्यजाति-विशेष-
 इति MW. । k) = तुन्दि- इति पागम. । l) = बालग्रह-विशेष-। व्यु. ? । m) सपा. तुण्डिकेरः <> तौण्डुल्यः-
 <> शाण्डिकेरः इति पाभे. । n) <√तुण्ड इति । o) <तुण्डि- इति पागम. । p) अर्थः? = (पिष्टमय-)
 तुन्दिल-पुरुष- इति नारायणः । q) = पुरोडाशाकृति- इति देवपालः । r) < √तुद इति । s) पाभे. वैप
 १, १४८६ j द्र. । t) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । u) पाभे. पृ ८७७ p द्र. । v) या ५, ६; १०, ७ परानुष्टः द्र. ।
 w) = तोद- । कर्तरि कः प्र. । x) = प्रतोद- । y) करणे प्र. । z) व्यप. । व्यु. ? । a^१) = जठर-। व्यु. ? ।
 b^१) = [वृद्धा-] नाभि-। व्यु. ? । c^१) अर्थः व्यु. च ? । d^१) पा ३, १, ५५ परानुष्टः द्र. । e^१) विप. । व्यु. ?
 <√तु इति भ्रमा., √तम् इति पाठभो. । f^१) √तुम् इत्यपि BPG. ।

तुम्बर^a-रम् अप ३६,४,२.
 तुम्बर-दण्ड- -ण्डः अशां २२,१५;
 -ण्डेन कौस् ७६,२.
 तुम्बुरु^b- पाठभो २,१,१०२; पाग
 ४, ३, १०६०; -रुणा नाशि १,
 ५, १४.
 तौम्बुरचिन्- पा ४,३,१०६.
 तुम्बुरु-नारद-वसिष्ठ-विश्वाम्बस्वा(सु-
 आ)दि- -द्वयः नाशि २, ७,
 १२.
 ऋतुम्ब^c- -अम् आश्रौ ३,८, १; शांश्रौ
 १४,२१,२.
 √तुम्ब^d पाधा. जु. पर. त्वरयो.
 ऋतुम्ब^e- तुम्ब आश्रौ ६, २२,१;
 कौस् ९१,१०.
 षतुम्ब^f- ऋं० गोट ४,९,१६; द्राघ
 ४,४, २; -रः आश्रौ ६, १७,
 १२१०; हिश्रौ ६, ६, १६१०; आश्रमं
 १,१४, २१; वाघ ५, १५; ऋया ३,
 २१०; १२,१४४; -रस्य आश्रौ
 ७, ११, ३४; -राणाम् वौश्रौ
 १३, २०:९१; हिश्रौ २२, ३, १९;
 ऋया १७, २४; -राय आश्रौ २,
 १६, ११; ३, ७, १२१; वौश्रौ १४,
 १६, ९१; ३१, ५१; ४९, २; हिश्रौ
 ९, २, २४१; वैताश्रौ ३१, १९.
 तुम्ब-र्ग^g- नाः अप ७०^३, ११,
 ३१; -गे विध ९९, ११.
 तुम्ब-र्ग^h- गम् विध ५०, २६;
 ७८, ३४; -गस्य भाग २, ६ :
 १६.
 तुम्ब-स्कन्ध- पावा ४, २,
 ५१.

तुरंगम- -मानाम् अप ७०^३,
 ११, १३.
 तुर-या(न>)ण->तौरयाण^e-
 -णः निघ ४, २; या ५, १५१५.
 तुर-श्रवस्^b- -वाः साअ १,
 २९.
 तौरश्रवस्^c- -सम् आश्रौ
 १४, २०, १; लुस् १, ८ : ९;
 १४; लाश्रौ ७, ३, ३; -से काश्रौ
 २५, १४, १३.
 ऋतु(र>)रा-पा(<सा)ह^d-
 -पाट आश्रौ ५, १६, २; ६, ३,
 १; शाश्रौ ९, ५, २; वृदे ४, ७५;
 अअ २, ५; अप्रा ३, ४, १.
 √तुरीय, तुरीयति निघ २,
 १४१.
 तुरण- पाठभो २, २, १२६; पाग ३,
 १, २७;
 तुरण्य->√तुरण्य^e, तुरण्यति
 या २, २८४१.
 ऋतुरण्यत्- -ण्यतः वौश्रौ
 ११, ८ : ३६; १५, २९ : १७.
 ऋतुर्वणि^f- -णिः निघ ४, ३; या
 ६, १४४.
 तूर्ण- पा ७, २, २८^k; -र्णः काश्रौ
 १०, १, ८; -र्णम्^l काश्रौ ८, १,
 २; २५, १०, २३; भाग २, १० :
 १६; अप ३५, २, ९; ७०^३, १९,
 ६; ७१, ८, २; वृदे २, ५८; ३, १६;
 या २, २८; ४, १५; ५, १६; २५;
 ६, २०; ८, १३; १०, २७; पाग १,
 १, ३७.
 तूर्ण-गति^m- तिः या १२, १४.

तूर्ण-यानⁿ- -नः या ५, १५५.
 तूर्ण-चनि^o- निः या ६, १४.
 तूर्णा(र्ण-आ)पिन्^p- -पि या ६,
 २१.
 तूर्णि^q- पाठ ४, ५१; -र्णिः आश्रौ
 १, ३, ६; शांश्रौ; या ७, २७४;
 -र्णिम् आश्रौ ५, १०, ४;
 माश्रौ १, ५, २, १४; वाश्रौ १, ४,
 २, ५; हिश्रौ ३, ३, ३६.
 तूर्ण्य(र्णि-अ)र्थ^r- -र्थाः आश्रौ
 ५, १, १११.
 २तुर^s->तौर^t- -रम् निस् १०, ११ :
 १०; -रेण लाश्रौ १०, २०, १.
 तुरा(र-अ)यण- -णम् आश्रौ २,
 १४, ४; शांश्रौ ३, ११, १५;
 काश्रौ २४, ७, १; -णेन आश्रौ
 २३, १४, १; हिश्रौ १८, ४, ५३.
 तौरायणिक- पा ५, १, ७२.
 तुरि- पाठभो २, १, १५९.
 ऋतुरीप^u- -पम् आश्रौ १, १०, ५; ३
 ८, १; शांश्रौ; या ६, २१४.
 तुरीय- प्रसृ. चतुर्- द.
 तुरुष्क- पाठभो २, २, ६.
 ऋतुर्फरि^v- -री या १३, ५४.
 ऋतुर्फरीतु^w- -त् या १३, ५४.
 तुरमिश्^x- -मिश्म अप १, ११, ११.
 तुर्य- प्रसृ. चतुर्- द.
 तुर्वणि- √तुर् द.
 ऋतुर्वशा^y- -शाः अप ४८, ७८; निघ
 २, ३; -शाय आश्रौ ९, ५, २;
 -शे निघ २, १६; अप ४८, ७३.
 √तुल् पाधा. तुरा. पर. उन्माने,
 तुल्यते विध १०, ११.

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। b) व्यप.। व्यु. ?। c) तु. पागम.। d) वैप १ द्र.। e) पाप्मे-
 वैप १, १४८० f द्र.। f) = अश्व-। उस. उप. <√गम्, पूष. भाप. (तु. अभा. प्रसृ.)। g) विप.। वस.
 पूष. (तूर्ण- [धा.]) > स्वार्थिकः जन् प्र. (तु. SEY १०९)। h) = ऋषि-विशेष-। वस.। i) = साम-विशेष-।
 j) वैप १ द्र. (वैतु. पाप्र. <तुरण- इति)। k) <√त्वर। l) वा. किवि.। m) विप.। वस.। n) उस.
 उप. <√चम्। o) उस. उप. <√भाप्। p) वैप २, ३ खं. द्र.। q) = याग-विशेष-।

तुला^१- पाग ३, ३, १०४^b; -ल्या
वाध २, ४२; वौध १, ५, ७९;
विध ८, ३६; -ला विध ९, २३;
१०, ३; -लाम् अप ११, १, १०;
शंघ ४०५; विध १०, ९.

तौल्य^c- -ल्यम् अप ११,
१, १५.

तुला-कूट- -टम् अप ९, ३, ४.

तुला-धार^d- -रम् विध १०, ८;
-रस्य विध १०, ९.

तुला-धृत- -तम् वाध २, ४७.

तुला-धुंस्^e- -धुमान् वौध ४, ५,
२२.

१तुला-पुरुष^f- -पः विध ४६,
२२.

२तुला-पुरुष- > ^gप-विधि-
-धिम अप ११, १, १.

तुला-मान^h- > ^hन-कूट-कर्तृ-
-र्तुः विध ५, १२२.

तुलामान-प्रतिमान-समुल्य-
-ल्यानि शंघ २६२.

तुलामान-प्रतीमान-व्यवहारा-
(र-अ)र्ध-संस्थापन- -नम् शंघ
३२०.

तुला(ला-आ)रोहण- -णम् शंघ
२६५.

तुलित- -तः विध १०, १२.

१तुल्य, ल्या- पा ४; ४, ९१;
-ल्यः वैगृ ५, ११ : २; वृदे;

-ल्यम् काश्रौ १२, २, ७××;
काठश्रौ; -ल्ययोः आपशु २, ६;

ह्रिगु १, २६; -ल्या काठश्रौ
८८; काश्रौसं २८ : ६; ३१ :

१३; अप; -ल्याः काश्रौ १५,
८, २१; १६, १, १०; वैगृ; -ल्यान्

माश्रौ ५, २, १२, ४; अप २६, ४,
५; -ल्यानाम् मीस् ११, १, ५५;

६७; -ल्यानि मीस् ४, ४, ३९;
-ल्याम् वाश्रौ १, १, १, ७०; वैगृ

५, ९ : ८; -ल्ये काश्रौसं ३ :
४; ऋत ४, ३, ८; -ल्येन काठश्रौ

८८××; कागृ; -ल्येषु मीस् ५,
३, ४०; ९, १, १९; १०, ६, ५७;

-ल्यैः वाध १७, ७१; -ल्यौ
गोगृ ३, ५, २३; जैगृ २, १९; ३१.

तुल्य-कल्पⁱ- -ल्पाः मीस्
६, ६, १.

तुल्य-कारण-त्व- -त्वात्
पावा १, २, ७१; २, २, २९; ३,

१, ७; मीस् १०, ७, ३५.

तुल्य-काल^j- -लाः आगृ १,
३, ९; -लानाम् मीस् ५, १, ८.

तुल्यकाल-त्व- -त्वात्
पावां ४, ३, १०५; मीस् ३, ५,
५१; १०, ८, ८.

तुल्य-क्रि(या>)य- -यः
पा; पावा ३, १, ८७.

तुल्य-गात्रक^k- -काः अप
६९, ३, ४.

तुल्य-गुण^l- -णेषु आपध २,
१७, १०; हिध २, ५, ३९.

तुल्य-चोदन- -नात् लाश्रौ
८, १, १०.

तुल्य-तस(ः) वाध १७, २३.
तुल्य-त्व- -त्वात् मीस् १, ४,
७; ३, ६, ७; १०, ७, ३१; ८, २४.

तुल्य-देश-प्रयत्न- -तम्
पावा १, १, ९.

तुल्य-दोष^m- -पः वाध २०,
३०.

तुल्य-धर्म-त्व- -त्वात् मीस्
१०, ५, ७१.

तुल्य-नामन्ⁿ- -मानौ वृदे
१, ९२.

तुल्य-निमित्त-त्व- -त्वात्
पावा ३, १, ३१.

तुल्य-प्रकृति-ता- -ता अप
६८, १, ६.

तुल्य-प्रमाण^o- -णानाम्
काशु २, २१.

तुल्य-प्रमाणक-त्व- -त्वे कप्र
३, ९, १७.

तुल्य-बल-त्व- -त्वात् पावा
१, ४, २.

तुल्य-बल-विरोध- -धे गौध
१, ६.

तुल्य-भाज्- -भाक् गौध
२८, ३६.

१तुल्य-योग- -नो पा २,
२, २८.

तुल्ययोगिन्- > ^oनि-
त्व- -त्वात् मीस् २, १, ४६.

२ तुल्य-योग, गा^p- -गा
नाशि २, ३, ८; -गात् याशि १,
१०; ५९.

तुल्य-रूप^q- -पान् वृदे ५,
६७; -पे पाप्रवा ४, १३.

तुल्य-वत् आपश्रौ २४, २,
३७; मीस्.

तुल्य-वयस्^r- -यसः वृदे
५, ६८; -याः पागृ ३, ८, १७.

तुल्य-वर्चस्^s- -र्चसः अप
५२, ८, १.

तुल्य-शब्द-त्व- -त्वात्
मीस् ३, ५, ५४; ८, २, २६.

a) वैप १ द्र. b) तु. पागम. । c) कर्मणि प्रयञ् प्र. । d) नाप. । टस. उप.
कर्तरि क्त. । e) = (पद्यशाहिक-) व्रत-विशेष- । f) तुस. > सस. > पस. । g) विप. । वस. ।
h) उप. = आयुस्- ।

तुल्य-श्रुति-त्व- -त्वात् मीस्
२,१,१०; ५,२,१८.
तुल्य-सं(ख्या >)ल्य^१-
-ख्यानाम् मीस् ११,४,४०.
तुल्य-संख्यान- -नात् मीस्
४,४,१५.
तुल्य-संनिपात- -ते लाश्रौ
६,९,८.
तुल्य-समवाय- -ये काश्रौ
१,५,१०.
तुल्य-हेतु-त्व- -त्वात् मीस्
९,१,५०; १०,८,३.
तुल्या(ल्य-अ)पकृष्ट-वध-
-धे वौघ १,१०,२०.
तुल्या(ल्य-अ)थे^३- -थानाम्
वाश्रौ १,१,१, ६९; कौस् ६३,
१७; -थैः पा २,३,७२.
तुल्यार्थ-तृतीया-सप्तम्यु
(मी-उ) पमाना (न-अ) व्यय-
द्वितीया-कृत्य- -त्याः पा ६,
२, २.
तुल्या(ल्य-आ)स्य-प्रयत्न-
-त्तम् पा १,१,९.
तोल्य- -ल्यः अप ११,२,१.
२तुल (> २तुल्य- पा.) पाग ४, २,
८०.
तुलभ (> ०भीय- पा.) पाग ५, ३,
११६.
तुलम्य^१- -भ्याः वौश्रौष ३६ : १.
तुलसी^१ > ०सी-दल-भक्षण-
-गाम् शंघ १२९.
तुलसी-भू-महादेवी-चूर्ण- -स्पृष्ट-
-ष्टः अप ३५,२,१०.
१तुल्य- √तुल द.
२तुल्य- २तुल- द.

तुल्वल^१- पाउभो २,३,१२३.
तौल्वलि- पाग २, ४, ६१; -लिः
आश्रौ २,६,१७; ५,६,२४.
तौल्वलायन- पा २,४,६१.
†तुवि^१ -वि अप ४८, ६६; निघ
३,१.
तुवि-क्वर्मि^१ -मिः शांश्रौ १८,७,५१
†तुवि-क्ष^१ -क्षम् या ६,३३६.
†तुवि-क्ष(त्र >)त्रा^१ -त्राम् आश्रौ
२,१,२९; शांश्रौ २,२,१४.
†तुवि-जात^१ -तः वैश्रौ १८, १ :
१५; या १२,३६६.
तुवि-नृम्ण^१ -म्णः आपश्रौ १२,
१४,१५१.
†तुवि-शुष्म^१ - -ष्म शांश्रौ १०,
१३,९; -ष्मः शांश्रौ १५,२,१.
†तुवि-श्रवस^१ > ०स्-तम- -मम्
आश्रौ २, १०,९; काग ३२,३.
तुवि-ष्वण (<स्वन)स^१ - -णसम्
माश्रौ ५, १,२,१७१.
तु (वि >) वी-सव^१ - -व भाशि
३९१.
तु (वि >) वी-रव^१ - -वम् क्रपा ९,
२१.
तुचिस^१ > तुविष्ट (सन्त)म^१ - -मः
शौच ३,९६१.
तुविष्टम-वर्जम् शौच ४,५९.
√तुश^१ > तोश^१ -शा आश्रौ ५,
१०, २८; शांश्रौ १२, २, १८;
साअ २,१०५२.
तु-शब्द तु. द.
√तुप् पाधा. दिवा. पर. प्रीतौ,
तुप्यति आमिष्ट २, ५, १ : ४७;
जैग २, ९ : ३५; कप्र २, १०,
६; अप ७०^३, २९, २; आज्यो

११, ५; तुप्यन्ति नाशि १, ५,
१६; तुप्येव शांश्रौ १, १७, ५;
तुप्येरन् अप १३, ४, ८; तुप्येयुः
अप ३०, ४, १; ७०, ३, ३; अशां
२५, ३.
अतोषयत् वृदे ४, ५८.
तुपित^१ - -०त विघ ९८, ४७.
तुष्ट - -ष्टः आमिष्ट २, ५, ४ : १७;
वौघ; -ष्टाः अप ५, ५, २; १३,
५, १; विघ १९, २३; -ष्टे ऋअ
३, १; -ष्टेषु विघ १९, २३.
तुष्ट-तम- -माः विघ १९, २३.
तुष्टि- -ष्टिः कप्र १, १, १२; आपध
१, २३, ६; हिध १, ६, १४;
-ष्टिम् अप ६८, २, २५; वौघ
२, ५, २४१.
तुष्टि-क्वदि- -द्वी आमिष्ट २,
३, ३ : २७.
तोपथित्वा आपध २, १३, १२; हिध-
तोपित- -तः कप्र २, १०, ७.
तुप^१ - पाग ४, २, ८०^६; -पम् कौस्
६१, २५; -पाः आपश्रौ ८, ७,
१५; भाश्रौ; -पाणाम् आपश्रौ
८, ८, १२; वौश्रौ २०, ७ : १०;
-पान् काश्रौ २, ४, १९; आपश्रौ;
-पैः आपश्रौ ८, ७, १४; वौश्रौ.
तौपायण- पा ४, २, ८०.
तुप-केश-पुरीप-भस्मा (म-अ) स्थि-
श्लेष्म-नख-लोम- -मानि शंघ
८७.
तुप-धान्य-वर्जम् वौघ ३, ३, ७.
तुप-निष्कास- -सम् आपश्रौ ८, ८,
१३; भाश्रौ ८, १०, १३; माश्रौ
१, ७, ४, ३४^१; वैश्रौ ८, १४ :
६; -सस्य माश्रौ १, ७, ४, ४०^१।

a) विप.। वस.। b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। c) = औपधि-विशेष-। व्यु. ?। d) वैप १ द.।
e) पाभे. वैप १, १४९१ वृ द.। f) = विष्णुनामाऽन्यतम-। व्यु. ?। g) अर्थः ?। h) ०ष्काप- (लैवि.) इति
पाठः ? यनि. शोधः।

†तुप-प(क>)का^३- -काः काश्रौ
 १७, १, २३; आपश्रौ १६, १५,
 ८; वौश्रौ १०, १९ : ३; २२ :
 ९; माश्रौ ६, १, ४, ३९; वाश्रौ
 २, १, ४, २३; वैश्रौ १८, १३ : ७;
 हिश्रौ ११, ६, ५.
 तुप-प्रतिपादन- -नम् हिश्रौ ५, ३,
 ४८.
 तुप-विहीन- -नान् वौध ३, २, १०.
 तुषा(प-अ)मि- -मिना आमिष्ट ३,
 १०, ४ : २०; -मिम् आमिष्ट
 ३, १०, ४ : ५.
 तुषा(प-आ)द्य(दि-अ)मि- -प्रविष्ट-
 -थानाम् काध २७४ : १.
 तुषा(प-आ)पूरित- -तेन वैश्रौ ४,
 ७ : ९.
 तुपो(प-उ)पवपन- -नम् आपश्रौ
 ६, २९, १७.
 तुषार^३- पाठ ३, १३९; -रेण अप
 ६८, १, ३१.
 तुष्टुवस्- √स्तु द्र.
 √तुस् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 तुस्तूर्पमाण- √स्तु, तृ द्र.
 √तुह् पाधा. भ्वा. पर. अर्दने.
 तुहिन- पाठ २, ५२.
 तुहिहवैतच्छब्द-विशिष्ट- तू, तु द्र.
 तूख^३- -खानाम् चाअ ९ : १; १० :
 २; ३९ : १०; ४१ : १४; १८;
 १९; २२.
 √तूह् √तुह् टि. द्र.
 √तूण् पाधा. चुरा. आत्म. पूरणे.
 तूण^३- पाठभो २, २, १२३; पाग ४, १,
 ४१; -णम् शुश्र ३, ११९;
 -णात् अप ६७, ६, ५.

तूणी- पा ४, १, ४१.
 तूणी-बन्ध- -न्धः वौश्रौ १८,
 ३५ : ८.
 तूणकर्ण- (>तौणकर्ण)- तूणकर्ण-
 टि. द्र.
 †तूणव^३- -वम् काष्ट १७, २; -वान्
 आपश्रौ २१, १७, १७; १९, ४;
 -वे तैप्रा १३, १२; -वेषु या
 १३, ९.
 तूणव-ध्म^३- -ध्मम् शुप्रा ५, ५†.
 तूणीर^३- पाठवृ ४, ३०; -रात् अप
 ७१, १४, ४.
 तूतुजान- , तूतुजि- √तुज् द्र.
 †तूतुम^३- -मा या ५, २५†.
 तूतोत् √तु द्र.
 तूपर^३- -रः आश्रौ १०, ९, ५; शाश्रौ;
 -रम् आपश्रौ १६, ७, १××;
 वौश्रौ; -रस्य †आपश्रौ २०,
 १९, ३^३; ९; काश्रौसं; -राः शाश्रौ
 १५, १, २२; आपश्रौ; -रान्
 आपश्रौ १८, २, १३; वाश्रौ ३,
 १, १, २०; -राय वौश्रौ २६,
 १० : १९; -रेण विध ८०, ११.
 तूपर-गोमृग- -गयोः आपश्रौ २०,
 १८, ८; हिश्रौ १४, ४, १७.
 तूपर-मिथुन-दक्षिणा^३- -णा काश्रौ
 १८, ६, २३.
 तूवर- पाठभो २, ३, ७४.
 †तूय^३- -यम् अप ४८, ७५; १०६;
 निघ १, १२; २, १५; या ३,
 २०; ५, २४†; ८, १३†.
 √तूस् पाधा. दिवा. आत्म. गतित्वरणहि-
 सनयोः.
 तूर्ण- प्रष्ट. √तूर द्र.

†तूर्णा(र^३-ना)श^३- -शम् निघ ४, २;
 या ५, १६†.
 तूर्णि- √तूर द्र.
 तूर्य^३- -र्याणि अप ५, ४, ३; ७१,
 १५, ४.
 तूर्य-घोष- -घेण अप ४, २, १३;
 १९^३, ५, १.
 तूर्य-निर्घोष- -घः अप ७०^३, २, ३.
 तूर्य-माण, नज- पावा ८, ४, १०.
 तूर्यन्ती^३- -न्तीम् आमिष्ट २, १, ३ :
 २; आपष्ट १४, १४; भाष्ट १, २२ :
 १०; वैष्ट ३, १४ : ९; हिष्ट २, २, ८.
 √तू (<तु)र्व^३ पाधा. भ्वा. पर.
 हिंसायाम्, तूर्वति अप ४८, १९†.
 तूर्व->तूर्व-या(न >)ण^३- -णम्
 शाश्रौ १४, ४९, ३†.
 √तूल् पाधा. भ्वा. पर. निष्कर्षे.
 तूल^३- -लः आपमं २, १६, ८; हिष्ट
 २, ७, २; -लम् अप ११, २, ४;
 आपष १, ३२, २४^१; वौध २, ७,
 १५^३; हिध १, ८, ६५^१; -लानि
 माश्रौ १, १, ३, २; -लेषु, -लैः
 माश्रौ १, १, ३, १.
 √तूलि पा ३, १, २५.
 तूलि- पाठवृ ४, १२०.
 √तूप पाधा. भ्वा. पर. तुष्टौ.
 तूप^३- -पम् लाश्रौ ८, ६, २१†.
 तूष्णीम्^३ आश्रौ १, ३, २९××; शाश्रौ;
 पाग १, १, ३७; तूष्णीम् तूष्णीम्
 आमिष्ट ३, ५, ५ : १६.
 तूष्णीं-शंस^३- -सः आश्रौ ५, ९,
 ११; शाश्रौ ९, २५, १; १८, १,
 २; -सम् आश्रौ ५, ९, १; शाश्रौ
 ७, ९, १; १७, १७, १५; १८, २१,

- a) वैप १ द्र. । b) = हिम- । व्यु. ? < √तुप् इति प्रायोवादः । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 d) = इषु-धि- । व्यु. ? । e) उप. = २दक्षिणा- । f) वैप १, १४९२ ङ द्र. । g) = वाद्य-विशेष- । व्यु. ? ।
 h) = ओषधि-विशेष- [अवका-] । व्यु. ? । i) वप्रा. । वैप १, १४९३ ङ द्र. । j) = आगामिनी- संपद्- ।
 k) = इपीकाप्र- । l) कूलम् इति पाठः ? यनि. शोधः । m) ऋक्समृहसंज्ञा- ।

१; -से शांश्री १७, १४, ३.
 तूष्णीं-स्तोम^१ -मः वौश्री १६, ८;
 ७; -मात् वौश्री २६, १४;
 १०; १४; -माय वौश्री १६,
 ७ : २.
 तूष्णीं-क, का- पावा ५, ३, ७२;
 -कः वौश्री २०, १६ : २५××;
 -कम्^२ आपश्री २१, ११, ११;
 वौश्री; -का वौश्री २१, १९ :
 १०××; -काः वौश्री २१, १ :
 ७××; -कान् वाश्री १, ७, ४,
 १३; -कानि वौश्री २१, १ :
 ८; २२, २० : १५; २५, १ :
 १६; -कामिः हिश्री ७, ४, ५८;
 -काम् आपश्री १४, २३, ७;
 वाश्री १, १, २७; ६, ३, १; पावा
 ५, ३, ७२; -केन वौश्री २१,
 १६ : १२; वैश्री ३, ८ : २;
 हिश्री १, ३, ४९; ३, ८, १७;
 २२, ३, ७; -केषु आपश्री ३,
 १८, ७; १४, २३, ५; भाश्री ३,
 १५, १; वैश्री २१, १० : ७; हिश्री
 १, १, २२; २, ८, ८; १५, ६, ४.
 तूष्णीं-न्याय^३ -यम् कौश्र ५,
 ६, ३.
 तूष्णीं√भू > भावम् पा ३, ४,
 ६३.
 तूष्णीं-भूत- -ताः विध ८, ३७.
 तूष्णीं-भूत्वा, °भूय पा ३, ४, ६३.
 तूस्त^४ - पाठो २, २, १३४; पाग ६, २,
 १३४.
 √तूस्ति पा ३, १, २१.
 √तूह, तूह^५ पाधा. तुदा.; रुधा. पर.

हिसायाम्, हंहन्ति तैप्रा १६,
 २६१.
 तूणेढि अप ४८, १९; निध २,
 १९; तृणहान् अप्रा २, ४, १५१.
 हंहत्- -हत् ऋप्रा ८, २७१.
 √तून् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 तूक्ष^६ - पाग ४, १, १०५; -क्षम्
 आपश्री २४, ८, ८.
 रताक्ष्य- पा ४, १, १०५;
 -०क्ष्य आश्री १२, १२, १;
 आपश्री २४, ८, ८; -क्ष्यम् आश्री
 १२, १२, १.
 ताक्ष्यायण- पाग ४, २, ५४;
 -णाः वौश्री ७ : २.
 ताक्ष्यायण-भक्त- पा ४,
 २, ५४.
 तूक्षन्त् आपश्री २४, ८, ८.
 तूक्षाक^७ (> ताक्षाक- पा.) पाग ४,
 १, ११२.
 तूच- त्रि- द्र.
 तूचि जैश्रीका ५३.
 √तृण पाधा. तना. उभ. अदने.
 तृण^८ - पाठ ५, ८; पाग २, ४, ३१; ४,
 २, ४९; ८०; ९०; ९१; ३, ७६;
 १४४; ६, २, ८५; पावा
 २, ४, १२; पावाग ४, २, ५१;
 -णम् आश्री १, ३, ३१××; शांश्री;
 -णस्य हिश्री ४, ४, १५; -णानाम्
 वौश्री २०, ५ : १८; कौस्;
 -णानि आश्री १, ३, २२; शांश्री;
 -णाभ्याम् काश्री ९, १४, ४;
 -णे काश्री २, ६, ९××; काठश्री;
 -णेन काश्री ४, १४, ५; आपश्री;

पावा १, ४, २३; -णेषु आश्री
 ८, १४, १३; १४; वौश्री; -णैः
 काश्री २, ३, ६; आपश्री.
 १तार्ण- पा ४, ३, ७६.
 तृण-काण्ड- पावा ४, २, ५१.
 तृण-काष्ठ- पाग २, ४, १११; -ष्ठम्
 अप ५०, ९, ३; वौध २, १, ५५६;
 -ष्टेषु आपध १, १५, १४; हिध
 १, ४, ७३; -ष्टैः आपध १, २१,
 २; हिध १, ६, ३१.
 तृणकाष्ठा(ष्ठ-अ)पासन- नम्
 काश्री ७, ७, ८.
 तृण-काष्ठ-दुम-शुष्कान्न-गुड-वस्त्र-
 चर्मा(र्म-अ)मिप- -पाणाम् विध
 ५२, ९.
 तृण-काष्ठ-शुष्कपलाश- -शानाम्
 विध २३, १६.
 तृणकीय- पा ४, २, ९१.
 तार्णक- पा ६, ४, १५३.
 तृण-कूर्च- -चैत जैश्र १, ३ : २४.
 तृण-च्छेदन-> तन-लोष्टविमर्दन-
 [नि]ष्टीवन- -नानि आपध १,
 ३२, २८; हिध १, ८, ६९.
 तृण-च्छेदिन्- -दी विध ५, ५८;
 ७१, ४३.
 तृण-जम्भ- पा ५, ४, १२५.
 तृण-जय^९ -याय वौश्र ३, ९, ५.
 तृण-निरसन- -नम् शांश्री ४, ६, ५.
 तृणनिरसना(न-अ)दि- -दि
 वैश्री १५, २४ : ४; ५.
 तृण-प(द् >)दी- पाग ५, ४,
 १३९.
 तृण-पाणि^{१०} -णिः ऋप्रा २, ५, ४९;

a) = स्तोम-विशेष-। b) प्रायेण द्वि१ सत् क्वि। c) वा. क्वि। d) विप.। वस.। e) अर्थः
 व्यु. च ? । = जटीभूत-केश- इति पासि., = धूलि- इति MW.। f) पा ७, ३, ९२ परासृष्टः द्र.। g) वैप १ द्र.।
 h) व्यप.। व्यु. ?। i) षु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आश्री १२, १२, १; C. च)। j) तु. पागम.।
 k) तृणं, का इति चौसं.। l) हिध. पाठः। m) = ऋपि-विशेष-। n) व्यप. (तु. साय. वृदे.; वैतु-
 पङ्गुरुशिष्यः विप. इति)। वस.।
 वैप४-तृ-५४

साञ्च १,४१.
 तृणपाणि-क- -कम् ऋञ्च २,
 ६,४८; -कस्य वृद्धे ५, ११३.
 तृण-प्रासन-प्रभृति- -ति द्राश्रौ ४,
 १,१५; लाश्रौ २,२,३.
 तृण-वि(,वि^१)न्दु^२- पाग ४,१,९६;
 पावाग ४,२,२८; -न्दवः वौश्रौप्र
 २७ : २; -न्दवे आशिष्ट १, २,
 २ : १८; वौष्ट ३, ९, ५; भाष्ट
 ३,१० : ४; हिष्ट २,१९,६.
 तार्णवि,वि^३न्दवि- पा ४,
 १,९६.
 तार्णविन्दवीय- पावा ४, २,
 २८.
 तृणविन्दु-तनु- पाग २, २,
 ३८^४.
 तृण-भूम्य(मि-अ)म्यु(मि-उ)दक-
 वाक्सुतृता(ता-अ)नसृया- -याः
 वाघ १३,६१.
 तृण-मय- पा ४, ३,१४४.
 तृण-सृष्टि- -ष्टिम् वौश्रौ २, ८ : ४;
 २४; वैष्ट २,१६ : ७.
 तृण-वंश- -शम् वौश्रौ २५,४ : ४.
 तृण-वर्त^५- -र्तान् वौश्रौ ६, २७ :
 २०.
 तृण-वल्ली-समाह(ल >)ला-
 -लाम् अप ७०^३,२३,१०.
 तृण-श- पा ४, २,८०.
 तृण-शायिन्- -यी विघ ५०,४.
 तृण-संवाह- -हः आपध १, ११,८;
 -हिघ १,३,६५.
 तृण-हिरण्य- -ण्यैः काश्रौ १२,
 ६,१.

तृणा(ण-अ)प्र- -ग्रम् काश्रौ ६, ६,
 १४; वाश्रौ १,३, १,३३; ६,५,
 २१; -ग्राणि वाश्रौ ३,२,६,४६.
 तृणा(ण-अ)द- -दान् अप ७१,
 ५,३.
 तृणा(ण-अ)दि- -दि काश्रौ ३, ७,
 १३; -दीनाम् अप ६४,५,१०.
 तृणा(ण-अ)घ- -घात् आपश्रौ २०,
 २,११^३; हिश्रौ १४,१,२३^३.
 तृणा(ण-अ)न्तर्धान- -नेन वाश्रौ ३,
 २,१,१८.
 तृणा(ण-अ)पचयन- -नम् शाश्रौ २,
 १५,३.
 ?तृणापल- तृणोलप- टि. द्र.
 तृणा(ण-अ)र्ध- -र्धे काश्रौ २,८,७.
 तृणिल- पा ४,२,८०.
 तृणीय- पा ४, २, ९०.
 तृणे(ण-इ)द- -दः हिश्रौ १५, ३,
 ११^४.
 तृणै(ण-ए)घ^६- -घः भाश्रौ ९,१३,
 ९^४; -घे आपश्रौ ९,९,१२^४.
 तृणो(ण-उ)दक- -काय वौश्रौ ६,
 ९ : ७.
 तृणो(ण-उ)दक-भूमि- -मि गौघ ५,
 ३६.
 तृणो(ण-उ)लप^७- पाग २,४, ११.
 तृणौ(ण-ओ)पधि- -धीनाम् वौघ
 ३,२,१५.
 तृण्य- पा ४,२,४९.
 २तृण^८- पाग ४, १,९९;११२^४.
 २तार्ण- पा ४,१,११२.
 तार्णयन- पा ४,१,९९.
 तृणकर्ण^९- पा, पाग २, ४, ६३; ४,

१,११२^४।
 तार्णकर्ण- पा ४,१,११२.
 तृण-काष्ठ- प्रमृ. १तृण- द्र.
 तृणव^१- (> वीय- पा.) पाग ४, २,
 ९०.
 ?तृणवः अप १,७,५.
 ?तृत- -ते कौसू ४६,२६^५.
 तृतीय- प्रमृ. त्रि- द्र.
 ?तृत्यम् वाश्रौ ३,२,५,२६.
 तृत्सु^१- -स्त्वः या ७,२^५.
 √तृद् पाधा. हवा.उम. हिसानादरयोः,
 अतृणत् ऋपा १,९८^५; तृद्यात्
 या १,१२.
 तृत्त^६ या १०,४१^५।
 तृत्त^६- -०र्द अत्र ६, ५०; -र्दम्
 कौसू ५१, १७; १९; अप ३२,
 १,१२; अत्र ६,५.
 ?तृत्तपते^१ अत्र ६,५०^५.
 तृत्त^६- -नम् या १, १३.
 तृत्त^६- -ञ्ज काश्रौ ६,१,२८; काष्ट
 २५,९^५; कौसू ७६,१३; -ञ्जसु
 काश्रौ ७,३, १७; काष्ट २६,३^५.
 तृत्त^६- -अ आपमं १,१,१०^५.
 √तृप्, ऋ^७ पाधा. दिवा. स्वा.
 पर. प्रीणने; तुदा. पर. तृप्ते;
 चुरा. उम. तृप्ते रंदिपने च.
 तृप्यति वौश्रौ १०, १० : १;
 २७, १२ : ९; साश्रौ; तृप्यन्ति
 वौश्रौ २७, १२ : ६;८; वाश्रौ;
 तृप्यामि गौष्ट १,९,३; तृप्यामहे
 विघ ८३,२१; तृप्यत् आश्रौ ५,
 ६,२^५; शाश्रौ; तृप्यताम् अप
 ४३, २, १५×४; तृप्यन्ताम्

a) तु. पागम. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) = तृण-पूल- । d) सपा. तृणद्वः <>
 तृणैघः <> तृणैघे इति पाभे. । e) विप. । वस. । f) तृणापल- [पक्षे] इति भारडा. । g) व्यप. । व्यु. ? ।
 h) तृण-, कर्ण- इति भारडा. पाका., तृणकर्ण- इति पासि. । i) तृण^७ इति पाका. । j) तु. पाका. । k) पाठः ?
 त्रित्वे इति शोघः (तु. शौ ६,११३,१) । l) वैप १ द्र. । m) = १तृण- । n) पाभे. वैप १, १४९४ II द्र. ।
 o) या १०, १० पाग ८, ४, ३९ पावा ३, १, ४४ परामृष्टः द्र. ।

आमिगु; -प्तान् आगु ४, ७, २६;
कागु ६३, १९; कागुज; -प्ताम्
या १४, २९१; -प्तेषु वाधुश्चौ
४, ७४ : ३०; वैगु ४, ४ : १;
कप्र १, ३, ९.
तृप्त-तम- -मैः या ६, १२.
तृप्त-वत्- -वन्ति निसू २, ११ :
१३.

√तृसाय पा ३, १, १८.

तृसिन्- पा ५, २, १३१.

२तृस^a- -सम् निसू १, ५ : १९;
ऋप्रा १७, ५.

तृसि- -सिः आपश्चौ ४, ८, १^३१;
भाश्चौ; अप ४८, ७५^३७;
निघ १, १२^३७; -तृसिम्
आगु १, २३, १५; २४, २४;
आमिगु; -सौ अप ४८, ५०.

तृसि-कर- -रम् वैष १, ९, १५;
-राः वाघ ३, ४७.

तृसि-कर्मन्- -र्मणः या २, ५;
९, ५.

तृसि-प्रश्न- -श्नः शांगु ४, ४, १४.

तृप्सु(सि-अ)न्त- -न्ते वौगु २,
११, ४१.

तृप्यत्- -प्यन् गौघ २, ४८.

तृप^a- -पाः वौश्रौ २५, ३४ : ११;
-पाणाम् हिश्रौ १३, ५, २३.

तृपल-प्रभर्मन्- -र्मा या ५, १२७.

तृप(ल>)ला- पाळ १, १०४.

तृपु- प्रभु. √तृप् द्र.

तृप्यधि-द्वय^१- -येन वैगु १, १३ : ५.

तृप्र, प्रा^e- पाळ २, १३; ^२पाण ५, १,
१२२^१; -प्रम् अप ४८, ६५^११;

-प्राम्यः काश्चौ २५, ११, ३११.
तार्प्र- पा ५, १, १२२.

तृप्र-ता-, तृप्र-त्व- पा ५, १, १२२.

तृप्र-प्रहारिन्- -री या ५, १२.

√तृप्राय १तृप्त- टि. द्र.

तृप्राळ- पावा ५, २, १२२.

तृप्रिन्- १तृप्त- टि. द्र.

तृप्रिमन्- पा ५, १, १२२.

तृप्रो(प्र-उ)त्प(ल>)ञा- पा, पाण
२, २, ३७^१.

√तृप्, स्फु^k पाधा. तुदा. पर. तृप्तौ.

तृफला- पाळवृ १, १०४.

√तृप्^१ पाधा. दिवा. पर. पिपासा-
याम्, तृतातृपुः आश्रौ २, १९,
२४; शाश्रौ; कतीतृषाम ऋप्रा
१, १००^१.

तृतातृषाण- -णः ऋप्रा ९, ४४;
-णम् ऋप्रा ९, ४३.

तातृषाण- -णम् ऋप्रा ९, ३२^१.

तृप्-(>तृषित- पा.)गान् ५, २, ३६
तृषाण- -णान् ऋप्रा ४, ६६^१.

तृष्ण(प्-नै)ञ^e- पा ३, २, १७२;
-ष्णक्, -तृष्णजे या ११, १५७^१.

तृष्णा^e- पाळ ३, १२; पाण ५, १,
१२३^१; -ष्णया विघ ४३, ३५;

-तृष्णा वौश्रौ २, ५ : १०; वैश्रौ
१, १४ : १२; -ष्णाम् कौसू २७,
११; ७०, १^१; वाघ ३०, १०.

ताष्ण्य^१- पा ५, १, १२३.

तृष्णा-गृहीत- -तस्य कौसू २७,
१०.

तृष्णिमन्- पा ५, १, १२३.

तृप्यत्- -प्यतः अप १, ३२, ७^१.

तृपु^e- -पु आपश्चौ ३, १५, ५; अप-
४८, १०६; निघ २, १५.

तृष्वी^e- -ष्वीम् या ६, १२^१.

तृष्ट^e- -ष्टम् ऋप्रा २, १०, ८५^३;
वृदे ७, १३४; अत्र १४, २.

तृष्ट-दंश्मन्^e- -श्मा कौसू १३९, ८^१.

तृष्ट(ष्टक>)ष्टिका^e- -०के कौसू ३६,
३८; अत्र ७, ११३.

तृष्टिका-देवता- > -वत्य- -त्यम्
अत्र ७, ११३.

तृष्णा-चरुत्रि^३- -त्री पाण ६, २, १४०.

√तृह् √तृह् द्र.

√तृ^०पाधा. भ्वा.पर. प्लवनतरणयोः.
तरते अप ७०^२, २३, १२; तरति

वौश्रौ २, ११ : २१^१; भाश्रौ;
तरन्ति अत्र १८, ४^१; तृतरामि^३

माश्रौ १, ५, २, १; वाश्रौ १, ४,
१, १६; तृतरत् वैगु १, ४ : २७;

२, १० : १०; गौषि; या १३, ६^१;
तृतर> रा शुप्रा ३, १२९; तृप्रा

३, ८; तृतरत> ता वौश्रौ १४,
२१ : १३; आमिगु ३, ४, ४ :

१७; शुप्रा ३, १२९; तृप्रा ३,
१२; कतरत् आश्रौ २, ११, ८^१;

डु ३१, ९; वृदे ८, ३२; कतरः
या ११, २५^१; तरत् काश्रौ २५,
११, २३; भाश्रौ; तृतरम् कागु

४५, १०; वाघ.

तिरति अप ४८, १६^१.

तरुषेम्^e या ५, २^१७^१.

तृतर ऋप्रा २, ७२^१; तृजतारि-
पम् हिश्रौ ७, २, ८३; तृजतारिष्प^३

आश्रौ ४, १५, ७; आपश्चौ १६,

a) = छन्दो-विशेष- । व्यु. ? । b) = उदक- । c) विप. । वस. । d) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? ।

e) वैष १ द्र. । f) पूष. ? (वृ. C. टि.) । g) वप्रा. । वैष १ द्र. । h) पृ ११८७ D, 0 द्र. । i) तु. पाणम. ।

j) = दुःख- । k) पावा ७, १, ५९ परामृष्टः द्र. । l) या ११, १५ या ३, ४, ५७ परामृष्टः द्र. । m) त्रिष्टम् इति

पाठः ? यनि. शोधः । n) वैष १, १४९८ c, d द्र. । o) या ५, २६; ६, १२; १२, १४ परामृष्टः द्र. ।

p) पाभे. वैष २, ३३. अति...तरामि तृप्रा १, २, १, १५ टि. द्र. । q) पाभे. वैष १, १२०८ b द्र. ।

१९, ८; वैश्रौ; ऋतात्म द्राश्रौ
११, १, ६; लाश्रौ ४, १, ६.
तारयते जैगृ २, ८ : २५; कौस्
८२, १०; तारयति कौस् ७१,
२४; ८६, २७; वौघ; या ७, २०;
१४, ३३^३; तारयन्ति वाघ ६, २;
५; तारयत् आम्रिगृ ३, १२, १ :
१५; अप ३९, १, ७; चव्यू २:३६.
तृत्तुरि^३ -रि: शाश्रौ १, ११, १^३;
-रिम् या ६, ३.
रतर- पा, पाग ३, १, १३४.
तरण- पाग ३, १, २७^३; -णम् अप
६४, ९, ६; -णात् या ३, १८;
-णानि कौस् ५२, १०^६; -णे
वैताश्रौ १२, ११^३; अप ६८,
२, ३६.
√तरण्य पा ३, १, २७.
तरणि^३- पाउर, १०२; -णि: आश्रौ
२, २०, ४×४; शाश्रौ; अप ४८,
१०६^३; निघ २, १५^३; -णिम्
आपश्रौ ५, ११, ६^३; वौश्रौ.
तरणिन्व- -न्वेन या ११,
१६^३कुं.
तरत्- -रन् आपश्रौ १०, १९, १२;
कौगृ ३, १३, १७; शांगृ ४, १४,
५; -रन्तौ सु २, ३.
तरती- -ती आपश्रु ६, २.
तरन्ती- -न्तीम् वौगृ ४, ३, ६;
-न्त्याम् कौगृ १, ९, १५; शांगृ
१, १५, १८.
तरत्समन्दी^३- -न्दीभि: गौघ
२०, ११; -न्त्य: वौघ ४, २, ४.

तरत्समन्दीय- -यम् वौघ २,
३, ८; विघ ५६, ६; -यै: वौघ
४, २, ५.
तरत्स(म>)मा^३- -मा: वाघ २८,
११; शंघ १०५; वौघ ४, ३, ७.
तृतरध्वै आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ
१८, १६ : २; हिश्रौ ११, ६, २९.
तरत्स^३- पाउर ३, ११७; पाग ५,
३, १०८^३; -तृ: आश्रौ ८, १०,
१; शाश्रौ १०, १०, ४; अप ४८,
१०३; वृदे ६, १८; निघ २, ९;
-तृसा आपश्रौ ४, ४, ४; भाश्रौ;
-तृरोभि: आश्रौ ५, १६, २; ७,
४, ४; शाश्रौ.
तारसिक- पा ५, ३, १०८.
तरत्सन्व- -वान् हिश्रौ २१, ३,
१०.
तरत्स्वती^३- -त्य: निघ १,
१३^३.
तरत्स-त्रिन्^३- -त्रिनाम् वौश्रौप्र
२६ : १.
तरित्वय,व्या- -व्यम् आगृ १,
१२, ६; -व्या: वागृ १५, १०;
मागृ १, १३, १५.
तरिन्^३- -री अश्रु ५, २७^३.
तरिण्यत्- -ण्यन् कौगृ ३, १३, १३;
शांगृ ४, १४, १.
रतरी^३- पाउ ३, १५८.
तारिक^३- -क: विघ ५, १३१.
तरत्स^३- पा ७, २, ३४; -तारम्
या १०, २८कुं.
तरत्स^३- पाउभो २, ३, ८९; -तृत्र:

वौश्रौ १०, २४ : १०.
तृतरुत्री- -त्री कागृ ४१, ११;
मागृ १, २२, ७^३; वागृ ५, ७.
तरत्स^३- > √तरण्य^३, तरण्यति
निघ ४, २^३.
तारयितुम् वाघ ६, २५.
तारयितृ- -तारम् या १०, २८.
तितीरियत्^३- -पत: हिश्रौ २, ६,
५१.
तितीर्यत्- -पत: हिश्रौ ३, ७, ३३.
तितीर्यमाण- -णस्य भाश्रौ ६,
१०, ८.
तितीर्या- -र्या हिश्रौ १७, १, २६.
तीर्ण,र्णा- -र्णम् या ३, २०; -र्णा
वौश्रौ १०, १२ : ६; -र्णाणि या
३, २०; -र्णे या १०, २७.
तीर्ण-तम,मा- -म: या ४, ६;
-मम् या ५, २६; ७, १२; -मा
या ३, १०.
तीर्ण-निर्णय^३- -य: आम्रिगृ ३,
९, ३ : १४.
तीर्त्वा वौश्रौ १४, २१ : २४^३;
वाधृश्रौ.
१ते तद्- द.
१ते युष्मद्- द.
तृतेक^३- -क: आपमं २, १६, ८; भागृ
२, ७ : २०.
तेक्षिणष्ट- √तिज् द.
√तेज्^३ पाधा. भा. पर. पाल्ने.
तेजन-,^३नी-,तेजस्- प्रष्ट. √तिज् द.
१तेदनि,नी^३- -निम् शांगृ २, १२,
१०; -नीम्^३ कौगृ २, ७, २३^३.

a) वैप १ द्र. । b) तरिण- इति [पक्षे] भारुडा., पासि. । c) = तरण-साधन- । d) = क्षिप्र- ।
e) = ऋच्-विशेष- । < तरत् सु मन्दी (ऋ ९, ५८, १) । f) तु. पागम. । g) = नदी-विशेष- ।
h) = ऋपि-विशेष- । i) = नौका- । j) = नाविक- । जीवत्यर्थे ठक् प्र. (पा ४, ४, १२) । k) पाभे. वैप २, ३ सं.
परस्वी मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । l) या ५, २ परामृष्ट: द्र. । m) इडागमस् छान्दस: । n) विप. । वस. ।
o) = श्वप्रह-विशेष- । व्यु. ? । p) सप्र. हिगृ २, ७, २ टिक: इति पाभे. । q) या १०, ६ परामृष्ट: द्र. । r) तेजनीम्
इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. शांगृ.) । s) सपा. णिम् <> नीम् इति पाभे. ।

१२?तेदनी^१ - नी शांश्रौ १२, १८, २०.

√तेप् √तिप् द्र.

तेपान- √तप् द्र.

तेलु^२ (> तैलवक- पा.) पाग ४, २, ५३.

√तेव् पाधा. भ्वा. आत्म. देवने.

तैकायन-, णि- तिक- द्र.

तैक्ष्णायन-, तैजन- प्रभृ. √तिज् द्र.

तैटीकि^३ - कि: या ४, ३; ५, २७.

१तैतल- (> °लायनि-) १तैतिल- टि. द्र.

२तैतलिन्- (> २तैतल-) तैतिलिन्- टि. द्र.

१-२तैतिक्ष-, तैतिक्ष्य- √तिज् द्र.

१तैतिल^४ (> °लायनि-पा.) पाग ४, १, १५४^०.

तैतिल-कहू- पा ६, २, ४२.

तैतिलिन्^५ (> २तैतिल-)

पावा ६, ४, १४४.

३तैतिल^६ - ल: आज्यो ४, ५; -लस्य आज्यो ५, १६; -ले आज्यो ५, ६.

१तैत्तिर- १तित्तिर- द्र.

२तैत्तिर-, शीय-, र्थ- २तित्तिरि- द्र.

तैथ्विक्य- तिथ्विक- द्र.

तैदेह^७ - हा: वौश्रौप्र १० : २; १७ : २; २७ : ४; ४३ : ६.

तैरश्च्य- १तिरश्ची- द्र.

तैरिन्द्रि- तिरिन्द्रि- द्र.

तैरोधिराम-, षमक-, व्यञ्जन-

तिरस् द्र.

तैर्थ-, तैर्थक-, तैर्थयात्रिक-, ण्यिक-, ष्य- तीर्थ- द्र.

तैर्यगयनिक- तिरस् द्र.

तैल- प्रभृ. तिल- द्र.

तैलक्य- २तिलक- द्र.

तैलम्पात- तिल- द्र.

तैलवक- तेलु- द्र.

तैलीन- तिल- द्र.

तैल्वक- तिल्व- द्र.

तैल्वल- (> °लक- पा.) पाग ४, २, ५३^१.

तैवक-, 'व्रदारव- तीव्र- द्र.

तैपी- तिष्य- द्र.

तैस्त्वामादिवर्जम् तद्- द्र.

१तोक^१- पाठभो २, २, ४९^६; -कम्

अप ४८, ८७; निघ २, २; या ३,

५; १०, ७७^९; १२, ६७^९; जुप्रा

३, १२९; -काय आपश्रौ ४,

१६, ५; ५, १२, १^२; वौश्रौ; या

१४, २६^९; -के आश्रौ ३, ३, १;

शांश्रौ ५, १७, ९; आमिग; -केषु

या १०, ७.

तोक-वत्- वत् काश्रौ ५, १३, ३^१.

१तोक-साति^१- ता आपश्रौ ५, ४,

१; वौश्रौ २, ६ : ८; हिश्रौ ३,

३, ७.

तोकि(न् >)नी- नी मागृ २, १८,

२^१.

तोकम^१- क्मस् वाश्रौ ३, २, ७, ३;

-क्माणाम्^३ वौश्रौ १७, ३१ :

१९; -क्मानाम् काश्रौ १९, १,

१८; -क्मै: आपश्रौ १९, ५,

११; हिश्रौ २३, १, ८.

तोकमा(क्म-श्र)वा(स्त >)स्ता^२-

-स्ताभि: आपश्रौ २२, २८, १३;

हिश्रौ २३, ४, ५१.

तोकमन्^१- पाठना ४, १६४; -क्म

निघ २, २^१; -क्माणि^३ वौश्रौ

१७, ३१ : २; २६, २२ : १८;

१९; -क्मानि आपश्रौ १९, ५,

७; हिश्रौ २३, १, ६; कागृ २५,

३२^{१०}; वौगृ १, ५, ८.

तोकम-किण्व- ण्वे आपध १, २०,

१२; हिघ १, ६, २६.

तोकम-चूर्ण- णानि काश्रौ १९, १,

२५.

तोकम-सक्तु- क्तुभि: माश्रौ ५, २,

११, १६.

तोजक् ताजक् टि. द्र.

१?तो ते^१ आपश्रौ १०, २३, ४; वौश्रौ.

१?तोतो^१ काश्रौ ७, ६, २३.

तोत्त्र-, तोद- √तुद् द्र.

तोमर^२- पाठवृ ३, १३१; पाग २, ४,

३१.

तोमर-ग्रह- पावा ३, २, ९.

तोय^३- यस् जैश्रौका ९; कप्र; -ये

शंघ १०३; -येन वैध १,

४, १; -यै: वैश्रौ २, ६ : १.

तोय-ग्रहण- णम् अ्रप ५, १, २.

तोय-द- -द: वाध २९, ८; -दा:

अ्रप ५२, १, १३.

a) वैप १, १५०-१२ द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । d) व्यप. । व्यु. ?

<तितिलिन्- इति पाका ६, २, ४२ । e) तु. पाका. पासि. । १तैतल- इति भाण्डा., पागम. (<तितल-, इति) च ।

f) = आचार्य-विशेष-, [उपचारात्] ग्रन्थ-विशेष- । णिनि: प्र. उखं. (पा ४, ३, १०६) । तैतलिन्- इति पागम. ।

g) = [ज्योति:शास्त्रसंज्ञित-] करण-विशेष- । व्यु. ? । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । १) तु. पागम. । वैल्वल-

इति क्वाचित्क: पाठ: (तु. पागम.) । j) वैप १ द्र. । k) तौ^० इति पाठ: ? यनि. शोघ: । l) = अङ्कुरित-यव- ।

व्यु. ? । m) णत्वं द्र. । n) विप. । वस. । o) रुपा: तोकमानि <> लाजान् इति पासे. । p) = अङ्कुरित-विशेष-

व्यु. ? । q) = जल- । व्यु. ? ।

तौयद-सोमा (म-अ)र्क- -र्काः
 अय ६४, ९, १०.
 तौय-धारा- -राम् अय ७, १, १०.
 तौय-धि- -धिम् वैगृ ५, ६ : ७.
 तौय-पार्थ- -र्थे वैध ३, ७, ६.
 तौय-पिठ- -ष्टौ वैगृ २, १७ : ४.
 तौय-प्रदान-पूर्वक- -काः वैगृ ३,
 १ : १२.
 तौय-विन्दु- -न्दुभिः वैध ३, ४, १२.
 तौय-माल्या(त्य-अ)मुलेपन- -नम्
 अय ६८, १, २६.
 तौया(य-आ)दि- -दि शंघ २२६.
 तौया(य-अ)वक- -कम् वाश्रौ ३,
 २, १, ५९.
 तौया(य-अ)वलम्बि-जलद-
 स्तनिता-(त-—अ)भिराम-
 -मः अय २४, ६, २.
 तौया(य-आ)हार- -राः वौध ३, २,
 ९; १३.
 तौरण- -पाय २, ४, ३१; -णम् अय
 १८, १, ५; ७०^३; २०, १; -णानि
 अय १, ९, १०; ६७, ४, २; -णे
 अय ७०^३, २३, ९; ७०^३, २७, १०.
 तौरण-गृह-रथ्या (थ्य-अ)न्तर- -रेपु
 शंघ ३१०.
 तौरणा(ण-अ)टालक- -कानि अय
 ५५, ६, २.
 तौत्य- √तुल् द्र.
 तौश- √तुश द्र.
 तौपयित्वा, तौषित- √तुष् द्र.
 तौसल- पाउना १, १०५.
 तौत्तायण- तुक्ष- द्र.
 तौशय- तुप्र- द्र.

तौज्वलि- -लयः वौश्रौप्र १७ : ६.
 तौणकर्ण- तूणकर्ण- द्र.
 तौण्डि- -ण्डिः वौश्रौप्र १० : २.
 तौण्डुलेय- -यः कागृ ३५, १०.
 तौदेय- √तुद् द्र.
 तौम्बुरविन्- तुम्बुर- द्र.
 तौर- रतुर- द्र.
 तौरयाण-, तौरश्रवस- √तुर द्र.
 तौरायणिक- रतुर- द्र.
 तौत्य- √तुल् द्र.
 तौत्वलायन-, ण्लि- तुल्वल- द्र.
 तौत्विलि(क>)का- -के अय ६,
 १६.
 तौपायण- तुप- द्र.
 त्मन्- पावा ६, ४, १४१; कृत्स्ना
 आश्रौ २, ११, १२; शाश्रौ; या
 ३, २२; ६, २१; ११, ३१;
 त्मने आश्रौ ६, ९, १^{१६}; ऋप्रा
 ५, ५९; त्मानम् आश्रौ ६, ९,
 १^{१६}; त्मन्या^१ या ८, १७^६;
 अय ३, २, १३.
 त्य, त्या- त्यद्- द्र.
 त्यग्नायिस्- -यिः द्राश्रौ २, २, १;
 ६, ४, ७; लाश्रौ १, ६, १; २,
 १२, ८.
 √त्यज्ञ^१ पाधा. भ्वा. पर. हानौ,
 त्यजति वैगृ २, ८ : १०; वैध
 ३, ५, ११; या १४, ३४^३;
 त्यजन्ति अय ६४, ४, ९; वाध
 ६, ३; या १४, ३४; माशि १६,
 ४; त्यजेत् शाश्रौ २, १६, ३;
 वौश्रौप्र; त्यजेयुः द्राश्रौ ९, २, २;
 लाश्रौ ३, ६, २१.

तित्याज पा ६, १, ३६.
 त्यक्त- -क्ते वैगृ ६, १६ : १९.
 त्यक्त-प्रन्न(ज्या>)ज्य- -ज्यः
 विध ५, १५२.
 त्यक्त-मङ्गल^१- -लम् आश्रिगृ
 २, ५, १ : २; जैगृ २, ९ : २.
 त्यक्तव्य- -व्यानि अय ७०^३, ११, १.
 त्यक्त्वा सु १८, ६; माय.
 त्यजत्- -जतः वाध ३०, १०;
 -जन् विध ५, १५३; वैध ३, ५,
 ७; -जन्तः अय ५२, २, ३.
 त्र्यजस्^१- -जः अय ४८, १८;
 निध २, १३.
 त्याग- पा ६, १, २१६; -गः काश्रौ
 १, २, २; जैगृ; -गाः माय २, १३,
 ६^१; -गात् विध ५२, २; -गे
 काश्रौ १, ७, २०; वैगृ २, ८ :
 १०; शंघ ३०३.
 त्यागिन्- पा ३, २, १४२; -गिनाम्
 विध ८१, २२; -गो शंघ
 २४४.
 त्याज्य आश्रिगृ ३, ११, २ : १०.
 त्याज्य, ज्या- -ज्यम् अय ७०^३,
 २७, ९; वृदे २, १००; -ज्या
 वाध २८, ३; -ज्याः विध ५७,
 १; -ज्यानि अय ७०^३, ११, ३.
 त्यद्-
 त्र्य, त्या- त्र्यम् आश्रौ २, १३,
 २××; शाश्रौ; आपश्रौ १५, १६,
 १०^{२०}; द्विश्रौ २४, ६, १६^{२०};
 या १०, २८^६; त्या आश्रौ
 २, १३, ७; आपश्रौ; त्या-
 शाश्रौ ६, ५, १२; ऋय २, १

a) = [अपचमानक-] वानप्रस्थ-। वस.। b) नाप.। व्यु. ?। c) व्यप.। व्यु. ?। d) = बालग्रह-
 विशेष-। व्यु. ?। e) पामेः पृ ११८० III टि. द्र.। f) वैप १ द्र.। g) पामे. वैप १ स्मने, स्मानम् मै ४,
 ८, ७ यक. टि. द्र.। h) = साम-विशेष-। व्यु. ?। i) पावा ७, ३, ६६ परामृष्टः द्र.। j) विप.। वस.।
 k) = क्रोध-। l) पाठः ? (नागाः इति Knauer)। पामे. वैप १, ११६९ b द्र. m) सहत् पामे. वैप १
 स्वम् ऋ १, २७, ४ टि. द्र.।

१२; १०, २२; वृदे ३, १२४;
या १२, ७१; त्यान् शांश्रौ १,
२४, ३; वौश्रौ; ऋत्ये आश्रौ ४,
७, ४; ७, ४, ३^३; शांश्रौ ७, २३,
५^३××; १२, ४, २२^३; हिश्रौ;
वैताश्रौ २२, ११^३; २७, १२^३;
३३, २४^३.

त्यद्- पाठ १, १३२; पाग १, १,
२७; ५, ४, १०७; ऋत्यत् आश्रौ
४, १४, २; ५, १३, ६^७; ६, ४,
१०; शांश्रौ १, १५, ५^०; ७, १६,
८^७; ८, ८, ९^०××; काश्रौ २६,
७, ५५^७; आपश्रौ; माश्रौ ४, ५,
९^७.

त्यादायनि- पावा ४, १,
१५६.

त्यदादि-विधि- धयः पावा
५, ३, १; -धौ पा १, १, २७.

१स्य, स्या- स्यः आश्रौ ४, ७,
४^१××; शांश्रौ; ऋत्या २, २८;
१३, ३; पा ६, १, १३३; ऋत्या
आश्रौ ३, ७, ६; ४, १४, ३; ८,
१०, १; शांश्रौ; स्यो३ शांश्रौ
१२, १३, ५^१.

? त्यवे^० वैश्रौ २१, २ : ७.

त्यादचोप्र^० अप ३४, १, ८.

त्याग- प्रमृ. √त्यज् द्र.

? त्वैततः सु ५७.

√त्रख् = √उख् यद्र.

√त्रङ्क् = √कङ्क् यद्र.

√त्रन्द् पाधा. भ्वा. पर. चेष्टायाम्.

√त्रप् पाधा. भ्वा. पर. लज्जायाम्.

त्रप^०->त्रपिष्ट^०, त्रपीयस्^०- पा ६,
४, १५७.

१त्रपु^०- पाठ १, १०; -पु वाधूश्रौ ४,
५९^२: ५; वाध २, २६; अत्र ११,
३^१; -पुणः शंघ १६४.

त्रापुष- पा ६, ४, १३८.

त्रपु-चामर-सीसक-विक्रयिन्- -यो
विघ ४५, २२.

त्रपु-जलु- -लुभ्याम्. गौघ १२,
४.

त्रपु-मिथु-पूर्वं- -र्वः तैप्रा ५, ४.

त्रपु-सीस- -सम् आपघ २, १६,
१८; हिघ २, ५, १८.

२त्रपु^०- -पुः अप ४८, ७७^१.

त्रपुषी^०- -षी अप ४८, १०४^१.

त्रपुस्^०- -पुः माश्रौ ५, २, १४, ९.

त्रपुस^०->त्रापु(स >)सी- सीः
अशां २१, २.

त्रपुस^०-सुसल-खदिर-ताष्टाघ-
-धानाम् कौस् २५, २३.

त्रय- प्रमृ. त्रि- द्र.

√त्रस्^० पाधा. दिवा. पर. उद्देगे;
जुरा. उभ. भापायां धारणे, ग्रहणे,
वारणे. च

त्रन्तु- पा ३, २, १४०.

त्रसदस्य^०- -०स्य वैघ ४, ३, ४.

त्रसदस्य-वत् वैघ ४, ३, ४.

त्रसदस्यु^०- -स्युः ऋत्र २, ४, ४२;
वृदे ५, १३; ३१; शुत्र १, ४४६;
-स्योः ऋत्र २, ८, १९; वृदे ६,
५१.

त्रासदस्यव -०व आश्रौ १२,

१२, २; आपश्रौ २४, ८, ९;
वौश्रौप्र २० : ४; -वम् निस्
७, ५ : ३५; वृदे ७, ३५; -वस्य
ऋत्र २, १०, ३३.

त्रसदस्यु-वत् आपश्रौ २४, ८, ९;
वौश्रौप्र २० : ५.

त्रसरेणु- पाठवृ ३, ३८.

त्रसरेणु-लंज्ञक^०- -कम् विघ ४, १.

१, २त्राण- √त्रै द्र.

१त्रात^०- -तस्य चात्र ४२:६.

२त्रात-, त्रातुम्, त्रातृ- √त्रै द्र.

त्रापुप- १त्रपु- द्र.

त्रापुसी- त्रपुस- द्र.

त्रायक-, प्यमाण- √त्रै द्र.

त्रायोदश- त्रि- द्र.

? त्रासुरर्धर्मम् कौशि ७३.

त्रि^०->तिस्र- पा ७, २, ९९; पाग ४,

१, १०; -सृणाम् आश्रौ २, १६,

२; शांश्रौ; -सृभिः आश्रौ २, ३,

२९××; शांश्रौ; कौश्रु^० ८, २^१५;

-सृभिःऽ-सृभिः शांश्रौ १६, १३,

६; आपश्रौ; -सृभ्यः आपश्रौ

१३, २, १; १५, ८; वौश्रौ; -सृषु

शांश्रौ १४, ४२, ८; ९; काश्रौ;

-सृषुऽ-सृषु वौश्रौ १८, ३६ :

१२; -स्रः आश्रौ २, १, ३०××;

शांश्रौ; आपमं २, १७, २६^११;

-स्रःऽ-स्रः आश्रौ २, ४, १७××;

शांश्रौ.

तिस्र-चतस्र-त्व- -त्वम् पावा

१, १, ३९.

तिस्र-धन्व^०- -न्वम् आपश्रौ

a) पामे. वैप १, १५०३ ज द्र. । b) पामे. वैप १, १४३९ ० द्र. । c) पामे. वैप. १, १४३८ d द्र. ।

d) पाठः ? सप्र. शौ ७, १०५, १ कृण्वे इति, वौश्रौ २८, ९ : २० करवै इति, काश्रौ २५, ११, २१ करवै इति च पामे. ।

e) प्रचोदयात् इत्यस्य वैपरीत्येन निर्देशः । f) पा ६, ४, १२२ परामृष्टः द्र. । g) अर्थः व्यु. च ? ।

h) पाप्र. <वृप्र- इति । i) वैप १ द्र. । j) =कृप- । व्यु. ? । k) =वज्र- । व्यु. ? । l) =वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? ।

m) द्रस. उप. ? । n) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२४ परामृष्टः द्र. । o) =ऋपि-विशेष- । व्यु. ? ।

p) विप. । वस. । q) पामे. वैप १, १५९५ ङ द्र. । r) सप्र. तिस्रः <> सर्वाः इति पामे. ।

१७, १२, ३; १८, २१, १७; २२, २६, ५; वौश्रौ.

तिसृधन्विन्- -न्विनाम्
वाधुश्रौ ३, ७९ : ७; -न्वी वौश्रौ
१६, २० : १४; २२ : २.

तिसृ-भाव- -वे पावा ७, २, ९९.

तिस्रस-कारम् आश्रौ ५, १५, ५;
माश्रौ ६, २, ३, १^३.

त्रि- पाठ ५, ६६; पा ४, २,
९१^३; त्रयः आश्रौ १, ८,
५××; शांश्रौ; या ३, १०^६;

त्रयःऽत्रयः आश्रौ ७, ५, २१;
शांश्रौ; त्रयाणाम्^b आश्रौ २,
१०, २१××; शांश्रौ; त्रिभिः

आश्रौ ८, १, ११; १२, ८, ३१;
काश्रौ; या १४, २९; ३१;
त्रिभिःऽत्रिभिः आपश्रौ १५, ४,
१०; माश्रौ; त्रिभ्यः आपश्रौ

१४, १, ६; काश्रौ; या ७, १४;
त्रिषु आश्रौ १०, ९, २^३; शांश्रौ;
त्रिषुऽत्रिषु आपश्रौ ८, २२, १५;

माश्रौ; ऋश्रौ आश्रौ ९, ५, १६;
शांश्रौ; ऋश्रीणाम्^b शांश्रौ १२,
२, १४; आपश्रौ; त्रीणि आश्रौ

४, २, ३××; शांश्रौ; आपश्रौ
१०, १२, १२^०; आपमं १,
३, ९^०; पाठ १, ८, १^०; माण्ड १,
११, १८^०; ऋद्वि १, २१, १^०;

त्रीणिऽत्रीणि आश्रौ १२, ९,
१२; आपश्रौ; ऋश्रीन् आश्रौ ३,
८, १××; शांश्रौ; गौध २६,
१^१;

त्रीन्ऽत्रीन् आश्रौ १०,
२, ३०; शांश्रौ; त्रेः पा ६, ३, ४८;
७, १, ५३.

तृ [त्रि]च^b- पावा ६, १, ३७;
-चः आश्रौ ८, १, २३; १२, २४;
शांश्रौ; या २, १; -चम् आश्रौ

१, १, १९××; शांश्रौ; अत्र ६,
२^०; -चम्ऽचम् आश्रौ ५, १०,
४; -चयोः आश्रौ ८, १२, ६;
द्राश्रौ; -चस्य तुसु १, ६ : १३;
द्राश्रौ; -चाः आश्रौ ४, १५,
२××; शांश्रौ; -चात् आश्रौ ९,
१०, १५; शांश्रौ; -चान् आश्रौ

५, १२, १५××; शांश्रौ; -चानाम्
शांश्रौ ७, १९, १९; १८, २,
२; -चानि शांश्रौ १०, ३, ५××;
-चे आश्रौ ५, १०, ८××;
शांश्रौ; गौपि १, ३, २१^३; -चेन
शांश्रौ १, १२, ८××; काश्रौ

१४, ४, ५^६; आपश्रौ; -चेभ्यः
शांश्रौ १२, ३, १६; १२, ११;
द्राश्रौ; -चेषु जैश्रौ २२ :
१३; २६ : ७; द्राश्रौ; -चैः
शांश्रौ १६, १३, १४; काश्रौ

१५, १०, १६^६; १७, ३, ८^६;
-चौ आश्रौ ३, ८, १××;
शांश्रौ.
तृच-करण- -णम् लाश्रौ ६,
३, १४.
तृच-क्लृप्त- -प्तः शांश्रौ
१७, ८, ११; -पत्रम् शांश्रौ ११,
३, १××; छसु.
तृचक्लृप्त-शाख^b- -खौ
शांश्रौ १४, ४२, १४.
तृच-चतुष्टय- -यम् जैश्रौका
१५२.
तृच-ता- -ताम् निसु ६,
१३ : १३.

तृच-दृष्टि^b- -ष्टयः निसु ४,
२ : ११; -ष्टीनि निसु २, २ :
१; ९.
तृचदृष्टि-त्व- -त्वात् निसु
२, २ : २०.
तृच-प्रथ(म >)मा^d- -मा
निसु ६, २ : २८; ७, ८ : ३२;
९, ३ : ३३; -मायाम् निसु ६,
३ : २०.
तृच-प्रायण^b- -णम् निसु ६,
१३ : २४.
तृच-भा(ग >)मा^d- -मा
लाश्रौ ६, ५, १; ४; ५; निसु १, ८ :
१७; ८ : २०; २१.
तृचभागा-स्यान- -नेषु
लाश्रौ ६, ५, ७; ७, ४; निसु १,
११ : ३३.
तृच(च-क्त)र्च- -र्चं उनिसु
७ : २.
तृच(च-क्त)र्चा(चा-अ)र्धर्च-
पाद- -दानाम् साश्र १, १.
तृच-विकार- -रः उनिसु ७ :
३०.
तृच-शत- -तम् ऋश्र ३,
४०; चव्यू १ : १२.
तृच-समाप्ति- -प्तये निसु
६, १० : २४; ७, ९ : २९; ९, १ :
५४; ५ : ३४.
तृच-सूक्त- -क्तानाम् लाश्रौ
६, ३, १; -क्तानि छसु २, ९ :
३.
तृच-स्थ- -स्थम् तुसु २,
१५ : ३०; ३, ५ : १४; ६ : १४;
-स्थयोः आश्रौ ५, १५, १२;
-स्थानि जैश्रौ २२ : १२; २६

a) तु. पागम. । b) वैप १ द्र. । c) पभि. वैप २, ३खं. त्रीणि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. ।

d) तु. ST. । e) तृचः इति पाठः ? यनि. शोधः । f) त्रिचे इति पाठः । g) त्रि^० इति चौसं. ।

h) विप. । वस. । i) पस. । j) = स्तोत्रीया-विशेष- ।

७; -त्ये निसू ६, ३ : २०.
 तृच-स्थान- -ने आश्रौ १०,
 १०, ४; ६.
 तृचा(च-आ)दि- -दिषु मीस्
 १०, ५, ७.
 तृचा(च-अ)धम^१- -मम् वृदे
 ८, ९९.
 तृचा(च-अ)न्त- -न्तेषु आश्रौ
 ५, १२, १५.
 तृचा(च-आ)पत्ति- -त्तिः
 निसू ७, २ : १६.
 तृचा(च-आ)पत्ति^२- -त्तीनि
 द्राश्रौ २, १, २; लाश्रौ १, ५, २.
 तृचा(च-आ)पत्त- -न्नम् निसू
 २, २ : २१.
 तृचा(च-अ)र्थ- -र्थः निसू
 ९, ४ : २८.
 तृचे(च-ई)प्सता- -तायै
 जैश्रौ २६ : ८.
 तृचै(च-ए)कर्व- -र्वान् निसू
 ६, ३ : १७.
 तृचैकर्व-त्व- -त्वम् लाश्रौ
 ६, ३ : २०.
 तृचो(च-उ)त्तमा- -मायाम्
 लाश्रौ ६, ३, २०.
 तृचो(च-उ)द्वयन^३- -नम्
 निसू ६, १३ : २४.
 त्रिच-त्रय- -यम् जैश्रौका
 १२१.
 त्रिचा(च-आ)दि- -दिषु
 काश्रौ १९, ७, २.
 तृचा^४ अत्राय ६, ४.
 तृतीय, या- पा ५, २, ५५; -यः
 आश्रौ १, ५, २३; २, १७, १५, ५,

३, ३; शाश्रौ; नौथ २६, १९०;
 या ४, २६१; ७, ९; १०, २११;
 -यम् आश्रौ २, ५, १३××;
 शाश्रौ; अत्र ६, ९९^५; या ३, १७;
 ७, २८१; -यम्-यम् काश्रौ २०,
 ४, २७; काशु ५, ७; -यचा आश्रौ
 ४, ६, ३; शाश्रौ; -ययोः आश्रौ
 ६, ३, ११; -यस्य आश्रौ ५,
 ५, १५××; शाश्रौ; -यस्याः
 वैश्रौ ३, ७ : १४१; हिश्रौ ९,
 ४, ३४; आपसं २, १६, १;
 ७१^६; कौसू ८२, ३६; १३९,
 २५; -यस्याम् आश्रौ २, १, २६;
 काश्रौ; भागृ २, ७, १९१^७; हिश्रु
 २, ७, २१^८; -यस्यै आपश्रौ
 ११, ६, ८; ५, २, ४; वाधुश्रौ;
 -या शाश्रौ २, २, १२××; काश्रौ;
 -याऽ-या लुसू १, ८ : १८;
 -याः आश्रौ ५, १०, १९; वौश्रौ;
 आज्यो ६, १३?; -यात् शाश्रौ
 १०, ८, १३××; लुसू; पा,
 पावा ५, ३, ८४; -यान्
 आपश्रौ १४, ४, १४; हिश्रौ ९,
 ७, ४२; ऋषा ४, १; -यानि
 आश्रौ ८, ४, १७; वैश्रौ १, १ :
 १९; लुसू ३, १३:४; -याभ्याम्
 पा ७, ३; ११५; -याम् आश्रौ
 ३, ६, २६; ६, ५, २१; शाश्रौ;
 -याय आपश्रौ १३, ६, १२;
 वौश्रौ ८, ४ : ३०; लाश्रौ ७, ६,
 ४; -यायाः काश्रौ २०, १, १५;
 वौश्रौ; पा ५, ४, ४६; ६, २,
 १५३; ३, ३; -यायाम् काश्रौ
 १७, ९, १; २२, ८, १८; आपश्रौ;

पा ३, ४, ४७; -यये आश्रौ ५,
 ४, ३××; शाश्रौ; वैताश्रौ ४, ९^९;
 -येऽ-ये लाश्रौ १०, ६, ७; ८, ४;
 -येन आश्रौ ७, ७, ८××; शाश्रौ;
 -येभ्यः काश्रौ १०, २, २४; वैश्रौ
 १६, ७ : २; अप ४६, ९, १०१;
 -येषु आश्रौ ७, ११, ९; ८, ३, ९;
 आपश्रौ; -यैः माश्रौ ५, २, १२,
 ५; शुषा ४, ११०; -यौ शाश्रौ
 ७, २७, १८; वैश्रौ १०, १९ : ५;
 द्राश्रौ ५, १, १६; लाश्रौ २, ५,
 १३; नाशि २, २, १०.
 तार्तीय^६- -यम् आश्रौ
 १०, २, ४.
 तार्तीयिक^७- -कानि
 निसू ८, ५ : २३; -केषु निसू
 ८, ६ : २४^१.
 तृतीय-क, का- -का क्रप २,
 १, ५; -के जैश्रौका १४३; क्रप
 ३, ६, ४.
 तार्तीयिक^१- -कम् निसू
 ७, ४ : ३.
 तृतीय-कर(ए>)णी^२- -णी
 काशु २, १५; १८; आपश्रु २, ४;
 ५; वौशु.
 तृतीय-ग्रह- -हम् माश्रौ २,
 ३, ३, १२.
 तृतीय-चतुर्थ- -र्थयोः निसू
 ५, २ : १; -र्थाः आशि ४, ४;
 -र्थाभ्याम् लाश्रौ ६, ११, ८;
 -र्थे आश्रौ ४, १३, ७; ८, २, ६;
 -र्थौ अपं ४ : १५; तैषा २३,
 १९; आशि ४, ४.
 तृतीय-ता- -ताम् ऋग ११,

a) विप. । वस. । b) पाठः ? तत्र ऋक्षु इति संस्कर्तुः टि. संभावितः पाठोऽपि ? तृचेन (तृ१) > नैप्र-
 चनि. इति प्रतीयते (तु. तत्रैव सप्र. ६, ६ गौरीवितेन इति) । c) तु. St. । d) उत्तरेण संधिरार्थः । e) सप्र.
 ष्याः <> ष्याम् इति पाठे. । f) तृतीयम् इति C. शोधः । g) तस्येदनीयः कण् प्र. । h) तस्येदनीयम्
 ठ्क् प्र. । i) पाठः ? ष्यिकेषु इति संभाव्येत (तु. संस्कर्तुः टि.) । j) स्वार्थे कण् प्र. । k) नाप. ।

२५.

तृतीय-तुर्य- र्ययोः भाशि
७१.

तृतीय-त्व- त्वम् भाशि
४८.

तृतीय-ध्विन्न- न्नम् वैश्री
१३, १७ : ७.

तृतीय-पञ्चम- मयोः शाश्री
१२, ३, १८; १०, ५; १२, ५; निस्
५, ३ : २२; -माभ्याम् लाश्री
७, ४, १८; -मौ आश्री ५,
१५, ८.

तृतीय-प्रथम-ऋष्ट- षान्
नाशि १, १, ११.

तृतीय-प्रभृति- तिभ्यः
शाश्री १२, २७, ३.

तृतीय-भाव- वम् ऋप्रा २,
१०; -वे ऋप्रा ११, ४८.

तृतीय-भूत- तैः ऋप्रा ४, ५.

तृतीय-मात्र- न्नम् माश्री
५, २, २, ६; गोष्ट ४, १, १४; ३, ८.

तृतीयमात्री- त्रीम्
द्विश्री १३, ८, ११.

तृतीयमात्र-खात- तानि
काठश्री ११६.

तृतीय-मास- मासि आमिष्ट
२, १, १ : १.

तृतीय-वर्ष- र्पस्य वाष्ट
४, १.

तृतीय-त्रेला- लाम् आपश्री
१५, ३, ५; वीश्री; -लायाम्
वौश्री २४, ३५ : ४.

तृतीय-शस् (:) आपश्री २२,
७, १५; द्विश्री १७, ३, १४.

तृतीय-श्रुति- तैः काश्री

१०, ३, ६.

तृतीय-पष्ट- षे क्षुस् २, १४;
१९.

तृतीय-सवन- नम् आश्री
५, १७, १××; शाश्री; या ७, ११;
-नस्य शाश्री ८, १, २; वीश्री;
-नात् शाश्री १३, ९, १; काश्री;
-नानि आश्री ७, १०, ३; ८, ८,
३; शाश्री ११, १२, ९; -नाय
काश्री ९, ४, ३४; वीश्री; -ने
आश्री ५, २, १३××; शाश्री;
-नेन आपश्री १२, ११, ५; २९,
१२; काश्रीसं; -नेषु काश्री २१,
२, ८.

तार्तीयसवन^b- नम्
पाशि ८.

तार्तीयसवनिक^c-कः
माश्री २, ३, २, ३; ५, ३, १०;
वाश्री ३, २, २, ३२; -कम् माश्री
२, ३, १, १९; ४, ६, २३; -कस्य
आपश्री २१, १०, ३; -कात्
द्विश्री १६, ४, १५; -कान्
आपश्री २२, ८, १८; -कानाम्
वीश्री २१, २३ : १३; -कानि
निस् २, ११ : २३; -के आपश्री
१४, १९, ११; वीश्री २१, २२ :
१७; -केन वीश्री २८, ४ : ७;
-केभ्यः वीश्री २१, १९ : ४;
-केषु वीश्री २१, १९ : ३; मीस्
१२, २, १२^d; -कैः वीश्री २६,
२२ : १४.

तार्तीयसवनिकी-
क्यः आश्री ५, ५, १९; -क्याः
शाश्री ५, ३, ७.

तृतीयसवन-काल- लै

आपश्री २१, २४, ९.

तृतीयसवन-चर- राणि
क्षुस् ३, ११ : ६.

तृतीयसवन-ज्ञान- त्रेण
निस् ५, ७ : २४.

तृतीयसवन-भाज्-
-भाजः वाधूश्री ४, ७६ : ४.

तृतीयसवन-श्रुति- तैः
काश्री १०, ४, १३.

तृतीयसवन-सामा(म-
श्र)न्त-न्तः निस् ९, ३ : ८.

तृतीयसवना(न-अ)ति-
वृद्धि- द्विः वीश्री २१, १९ :
६.

तृतीयसवना(न-आ) द्वि-
द्वि वैताश्री ३७, ६.

तृतीयसवनिक- कः
वीश्री २५, २३ : ६.

तृतीयसवनीय, या- -याः
वीश्री २५, २१ : १६; वाधूश्री
४, २९^e : ८; -यान् शाश्री १४,
२, १९; १३, ५; वीश्री; -यानाम्
वीश्री १८, २२ : ७; २६, २१ :
६; -येषु वीश्री १८, ३७ : १६.

तृतीय-सवन^f- नः द्विश्री
१६, ८, २५.

तृतीय-स्थान, ना^g- नम्
निस् ७, ३ : २९; -ना निस् ९,
३ : ३२.

तृतीययां(य-अं)श- हर^h-
राः वीध २, २, ११.

तृतीयया/ह पा ५, ४, ५८.

तृतीयया-चतुर्थी- श्यौः शाश्री
१०, १२, १५; ऋअ २, १, १२०;
अश्र ३, २६.

a) तद्धितार्थे द्विस. प्र. लुक् (पा ५, १, ८९) । b) तस्येदमीयः अण् प्र. । c) तस्येदमीयप् ठक् प्र. ।

d) प्वन^o इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. शबरभाष्यं प्रयासं. च) । e) विप. । मत्वर्थीयः अच् प्र. । f) विप. ।
बस. । g) उस. उप. अच् प्र. (पा ३, २, ९) ।

तृतीया-चतुर्थी-नवमी- -स्यः
अत्र २, ३९७.

तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी- -स्यः
उनिस् ७ : ४०.

तृतीया(या-आ)दि- -दि
ऋत्र २, ३, २८; ८, १०१; -दिः
पा ६, १, १६८; -दिसु आश्रौ
७, ५, ४; अत्रा २, ४, ३; पा ७, १,
७४; ९७; -दीन् वैताश्रौ ३१,
१७; -दीनाम् वैताश्रौ ३२, ६;
-दौ पा २, ४, ३२.

तृतीयाच(दि-अ)युज्-
-युजः ऋत्र २, १, १६५.

तृतीया(य-आ)धेय- -यम्
वौश्रौ २४, १९ : ७; -ये वाश्रौ
१, ५, १, २०.

तृतीया-नवमी- -स्यौ ऋत्र
२, ७, ९७.

तृतीया(य-अ)नुरूप- -पस्य
शाश्रौ ११, ११, १५; १७; १९;
१३, २६; १२, १२, १४.

तृतीया(य, या-अ)न्त- -न्तम्
अत्रा ३, २, २६; -न्तस्य शौच
३, १९; -न्ताः पावा २, १, १०;
-न्तानि अत्रा २, २, १८-२०;
शौच १, ८.

तृतीयान्त-सप्तम्यन्त-
-न्तेषु पावा २, २, २८.

तृतीया(य, या-अ) न्य, न्या-
-न्ये वृदे ३, ७१; अत्र ३, १;
-न्यौ अर्प २ : १५.

तृतीया-पञ्चदशी- -श्रौ ऋत्र
२, ६, १५.

तृतीया-पञ्चमी- -स्यौ ऋत्र
२, ८, ५५.

?तृतीया-पर- -रे कप्र २, ६,

८.

तृतीया-पूर्वपद- -दः पावा
२, १, ३५.

तृतीया-प्रभृति- -तयः शाश्रौ
८, ७, ३; -तीनि पा २, २, २१.

तृतीया(य-आ)याम- -मम्
आपष्ट ७, ४; हिश्रु २, ५२.

तृतीया-युक्त- -क्तात् पा १,
३, ५४.

तृतीया(या-अ)र्थ-निर्देश-
-शः पावा २, १, ३०.

तृतीया(य-अ)लाम- -मे
माश्रु १, ७, ७; वाश्रु १०, ६.

तृतीया-वर्जम् कौस् ३८, ११;
४२, १४.

तृतीया-विधान- -ने पावा २,
३, १८;

तृतीया-पद्यी- -द्यौ ऋत्र २,
१, १६२; शुत्र ३, ५४.

तृतीया-षोडशी- -श्रौ ऋत्र
२, ९, १०७.

तृतीया(य-अ)ष्टम- -मयोः
सात्र २, १५६; १५७; -मे आश्रौ
४, १३, ७.

तृतीया-संदेह- -हे अत्रा २,
२, ३.

तृतीया-सप्तमी- -स्योः पा
२, ४, ८४; -स्यौ ऋत्र २, ३, ८;
५, ५६.

तृतीयासप्तम्य(मी-अ)
न्त- -न्तेषु पावा २, २, २७.

तृतीया-समास- -से पा १,
१, ३०; पावा २, १, ३०; ६९;
६, १, ८८.

तृतीयासमास-वचन-
-नात् पावा ६, २, ११.

तृतीयासमासवचना-
(न-आ)नर्थक्य- -न्यम् पावा ६,
२, ११.

तृतीया(य-अ)ह- -हम्
अत्राय २, ९.

तृतीया(य-अ)हन्->तार्ती-
याहिक- -के शाश्रौ १५, ८, ३.

तृतीयिन्- -यिनः आश्रौ
२१, २, १८; माश्रौ; -यिभ्यः
आश्रौ ९, ४, ५; माश्रौ २, ४, ५,
७; हिश्रौ १०, ४, ३९; -वी
ऋत ५, ५, ५^०.

तृतीयिनी- -नीनाम्
लाश्रौ ९, ६, ६; -नीभ्यः लाश्रौ
९, ११, ३; -न्यः लाश्रौ ९, १,
१२.

तृतीयो(य-उ)त्तम- -मा-
भ्याम् आश्रौ ८, २, १०^३; -मौ
आश्रौ ४, ७, ४.

तृतीयो(य-उ)दुप्त- -प्तानि
माश्रौ २, ३, १, १३.

त्रय- पा ५, २, ४३; -यम्
आश्रौ ४, ८, २७; वौश्रौ; -क्याः
काश्रौ १९, ५, ८; ७, ४; आपश्रौ;

-याणि वौश्रौ १७, ३१ : ४;
वाधुश्रौ ३, १ : ८; १०१ : २;
आपमं २, ११, २२; या ९, २८;

-यान् आपश्रौ १९, ६, ७; शाश्रौ
१०, १४, ८; वौश्रौ १७, ३१ :
३; हिश्रौ २३, १, १६; -येण
वौश्रौ १०, १० : ९; २५, १८ :

७; माश्रौ ६, १५, ६.

त्रयी- -योः वौश्रौ २५,
१७ : ४; -योम् आपध २, २४,
८; वौध २, ६, ३६; हिश्रु २, ५,
१७३; या १३, १०; -न्यः

a) विप. । वस. । b) त्वाये इनिः प्र. उस्. (पा ५, २, ११५) । c) = [तृतीयदक्षिणावती-] होदा- ।

d) विप. च नाप. च ।

वाधूश्री ४, १५: १३; -य्या
काश्री २५, ८, ५१; -य्याम् गौघ
११, ३; -य्यै आपमं २, १०,
१; काय २४, १३; वीय १, २,
३४; भाय २, २४: १०.

त्रयि-विद^१ -दा:
वौश्री २, १८: २२.

त्रयो-मय-यम् शुअ
१, १.

त्रयो-वि(द्या>)घ^१-
>ष्या(द्य-आ)ख्या-ख्यामीस्
३, ३, ५.

त्रयो-विद्या- -य्याम्
निसू २, १: ३८.

त्रया(य-आ)देश- -शे पावा
१, १, ५६.

त्रया(य-अ)न्त^१ -न्तानि
निसू ५, २: २०.

त्रयस्^१ - पा ६, ३, ४८.

त्रयस्-त्रिशत्^१ -शत् आश्री
३, १४, १०१^१; शांश्री १३,
१२, १३१^१×; आपश्री; आमिग
३, ९, १: १२^१; वीपि २,
६, २^१; या ३, १०; -शत:
वौश्री २५, २३: ९; माश्री ६,
२, ५, २६; वाश्री २, २, ४, ५१;
लाश्री ८, ६, २७; -शतम् शांश्री
१६; २२, १६; काश्री; आपश्री
२१, १; १४^१; हिश्री १६, १,
११^१; -शतम् ऽ-शतम् काश्री
२२, ४, २७; -शता काश्रीसं २९:
२१; लाश्री ८, ६, २६१^१;
-शताऽ-शता आपश्री २२, ५,
१०; वौश्री १८, २५: ४; हिश्री

१७, २, ३८; -शतो द्राश्री ११,
१, ३; लाश्री ४, १, ३.

त्रयस्त्रिंश- -श: आश्री
४, १२, १; ११, ३, ८; आपश्री;
वैश्री १८, २१: २४^१; -शम्
शांश्री १०, १२, २××; काश्री;
-शस्य वौश्री २३, १३: ११;
लाश्री ६, २, २०; निसू ४, ५:
१५; -शा: शांश्री ४, १०, ३१;
आपश्री १६, १, ३१; २१, २५,
३; वौश्री १६, ३६: १९; हिश्री
११, १, ६; हिग २, १७, ४;
-शात् वौश्री १६, ३४: ५; १५;
३५: ३; ६; -शान् निसू ४,
१३: ९; -शानि आश्री १२, ४,
२३; आपश्री २३, १०, ९; हिश्री
१८, ४, ६; लाश्री ९, १२,
१६; निसू ८, १२: २३; -शाय
शांश्री ९, २७, ११; -शे आश्री
७, ५, ११; १२, ७, १२; आपश्री;
-शेन आश्री १२, ३, ३; शांश्री;
-शेभ्य: हिग १, २२, १४; -शौ
वौश्री १८, ३६: १४; २६, ३३:
३; लाश्री १०, १०, ८.

त्रयस्त्रिंश- -शोम्
आश्री १२, ७, १४.

त्रयस्त्रिंशद्-द्वार्त्रिंश^१-
-शौ निसू ६, १२: १०.

त्रयस्त्रिंशद्-प्रभृति- -ति
वौश्री १६, १४: १९.

त्रयस्त्रिंशद्-स्तोम- -म:
या ७, ११; -मम् शांश्री १०,
७, १; -मान् वौश्री १७, २२:
१६.

त्रयस्त्रिंशद्(श-आ)-
रम्भण^१- -ण: शांश्री १३, १६,
४; ५; हिश्री; -णा: आपश्री २३,
१०, ५; हिश्री १८, ४, १^१.

त्रयस्त्रिंशद्(श-अ)-
यन- -ने निसू ५, ४: २२.

त्रयस्त्रिंशद्-क^१- -कौ
अपं ४: १५.

त्रयस्त्रिंशद्-कपाल^१-
-लम् वौश्री १३, ३५: ८; २३,
४: ११.

त्रयस्त्रिंशद्-चिति- -तौ
वौश्री २३, १५: ८.

त्रयस्त्रिंशद्-छ(\leq श)त-
-तम् निघ ४, ३.

त्रयस्त्रिंशद्-प्रभृति-

-तौ लाश्री १०, ८, २.

त्रयस्त्रिंशद्-सप्तशत-
-तम् अत्र ८, १० (१).

त्रयस्त्रिंशद्-अक्ष(\gt)
रा- -रा: निसू ४, ८: ३०.

त्रयस्त्रिंशद्-अरलि- -ले:
आपश्री ७, २, १२; भाश्री ७,
२, ६; हिश्री ४, १, २८.

त्रयस्त्रिंशद्-रात्र- -त्र:
शांश्री १३, १७, १; वौश्री १६,
३५: १०; -त्रम् हिश्री १८, २,
१०; -त्रा: आपश्री २३, ५, ५;

-त्राणि आश्री ११, ४, १; काश्री
२४, २, २४; -त्रात् निसू ९,
१३: १; -त्रे लाश्री १०, ३,
२१; निसू ९, १३: ३८.

त्रयस्त्रिंशद्(च \gt)नी^१-
-नी वाधूश्री ४, ९७: ३; ५;

a) वैप २, ३ खं. द्र. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १, १३०४ k द्र. ।

e) = त्रयस्त्रिंशद्स्थि-परिमाण- । तद्धितस्य लुक् । f) शोध: ४३९ पृ IV टि. द्र. । g) पाठ: ? शम् इति शोध:
[तु. आपश्री १६, ३३५ हिश्री ११, ८, ३] । h) पाठ: ? श-द्वा° इति शोध: । i) ण: इति पाठ: ? चनि.
शोध: [तु. आपश्री.] । j) विप. । परिमाणे कम् प्र. । k) तद्धिताये द्विस. । l) ७९५ पृ f टि. द्र. ।

९; १४; १८; २१; -न्यः वाधूश्रौ
४, ९७^३ : ३.

त्रयोदशन्- -श आश्रौ ८,
८, ८; ९, १०, २; शाश्रौ; या ३,
१९; ८, २१; -शऽ-श काश्रौ
२०, ६, ६; -शभिः काश्रौ २६,
३, ९; आपश्रौ; -शभ्यः आपश्रौ
१४, ३, ८; हिश्रौ ९, ७, ३८; १७,
६, ४२; -शसु आपश्रौ १२,
२७, ३; हिश्रौ ८, ८, १; -शानाम्
आश्रौ ९, ९, १३; शाश्रौ १५, ३,
१०.

त्रयोदश- -शः आपश्रौ
१६, १८, ८; वाधूश्रौ; -शम्
शाश्रौ ९, २०, १०; काश्रौ;
-शस्य वौश्रौ २१, ६ : ११;
-शाः याशि २, ९४; -शे वौश्रौ
१२, २ : ४×४; लाश्रौ; -शेन
आपश्रौ २१, १, १३; आपश्रु ११,
१४; हिश्रु ४, १७.

त्रयोदशी^३- पाग
४, ३, १६; -शी शाश्रौ १८, १४,
६; आपश्रौ; -शीम् आपश्रौ ५,
२४, ३; माश्रौ; -श्या शाश्रौ ९,
८, ३; अश्र ५, २४; -श्याम्
वौश्रौ २६, २ : १५; माश्रौ.

त्रायोदश-
पा ४, ३, १६.

त्रयोदश्य(शी-
अन्त्य >)न्त्या- -न्त्ये ऋञ्च
२, १, ५२.

त्रयोदश्यां(शी-
आ)दि-चतुर्- -तुर् अप ३८,
३, ३.

त्रयोदश-चतुर्दश-
-शौ आपश्रौ १२, २७, ५; वैश्रौ
१५, ३४ : ८.

त्रयोदश-त्रयोविंश-
-शयोः लाश्रौ ६, ७, ५.

त्रयोदश-क^०- -कम् अञ्च
५, १४; २३; २५; ८, १०.

त्रयोदश-कपाल- -लम्
काश्रौ २५, ४, ३५; आपश्रौ ९,
१४, ७; वैश्रौ २०, ३० : १; हिश्रौ
१५, ४, १४; अप्राय ५, ५^१;
-ले माश्रौ ५, १, १, ४९; ६, ४१.

त्रयोदश-गाव^०- -वम्
आमिश्र ३, ८, २ : ६; वौपि १,
१५ : १६.

त्रयोदश-प(द>)दा^१-
-दे उनिसू ६ : २७.

त्रयोदश-पुस्त^०- -षः
वाधूधौ ४, ११३ : ३; ३.

त्रयोदश-रात्र^१- -त्रः
वौश्रौ १६, ३२ : १३; हिश्रौ १७,
५, ३५; -त्रम् आपश्रौ ५, २३,
३; -त्रे काश्रौ २४, १, १४;
लाश्रौ १०, ३, १२; निसू ९, १० :
१४; १०, ३ : १५; -त्रौ आश्रौ
११, २, १; आपश्रौ २३, १, ७;
हिश्रौ १८, १, ११.

त्रयोदशरात्रा(त्र-आ)
दि- -दिषु मीसू ८, २, २७.

त्रयोदश(श-ऋ)र्च- -र्चः
शुञ्च ३, २४४; -र्चम् शुञ्च २,
३२१; ३९२; अञ्च ३, १०;
-र्चैभ्यः अप ४६, १०, १०;
अञ्च १९, २३.

त्रयोदश-समाप्ति-
-प्त्याम् मैव २५.

त्रयोदश-सूक्त^१- -क्तौ
अपं २ : १४.

त्रयोदशा(श-अ)क्षर^१-
-रम् वाधूधौ ४, १०० : ९; २२;
-रौ ऋपा १६, ५२.

त्रयोदशाः(श-आ)गम-
-मात् शाश्रौ ९, १, १०.

त्रयोदशा(श-अ)रति-
-तिः आपश्रौ २०, २, ७; हिश्रौ
१४, १, २०; -तिम् काश्रौ २०, १,
७; वाश्रौ ३, ४, १, १४; अप २०,
१, ३; -त्वौ वौश्रौ १५, २ : ४.

त्रयोदशा(श-अ)ह- -हम्
आज्यो १२, १; निसू ५, १२ :
१०; -हम् ऽ-हम् निसू ५,
१२ : ४०.

त्रयोदशि(क>)का^१-
-का आपश्रु ५, ४; हिश्रु २, १२;
-के वौश्रु १ : ४.

त्रयोदशिन- -शिनोः
ऋञ्च १, ७, ७; शुञ्च ५, ४८.

त्रयो-विंशति- -तिः आश्रौ
१२, ५, १४; शाश्रौ; या २, १८;
-तिम् आश्रौ ८, २, २३; हिश्रौ
१६, १, ११^३.

त्रयोविंश^१- -शः वौश्रौ
१०, ४२ : ७; -शम् माश्रु १,
४, १४; आज्यो ९, ७.

त्रयोविंशक^१- -कम् अञ्च
११, ६.

त्रयोविंशति(क>)का^१-
-कया अञ्च १४, १.

a) वैप १ द्र. । b) विप. । परिमाणे कन् प्र. । c) विप. । वस. उप. समासान्तः मच् प्र. उत्तं. (पा ५,

४, ७५) । d) विप. । वस. । e) विप. । तद्वितार्थे द्विस. । उत्तरेण संधिरार्यः । f) = सत्र-विशेष- । g) विप.

प्रमाणार्थे प्र. । h) शोषः पृ ७९४ a द्र. । i) वैप १, १०३३ k द्र. । j) पृ ७९४ f द्र. ।

k) पृ ७९४ g द्र. ।

त्रयोविंशति-द्वार^१ -रुः
 आपथ्रौ ७, ७, ७; ८, १, १४;
 -रुम् भाथ्रौ ७, ६, ४; ८, १, १५.

त्रयोविंशति-दी(क्षा>)

क्ष- -क्षः काथ्रौ २१, १, १.

त्रयोविंशति-रात्र- -त्रम्
 आथ्रौ ११, ३, ५; काथ्रौ २४, २,
 १२; आपथ्रौ २३, ३, १२; हिथ्रौ
 १८, १, २८.

त्रयो(यस्-अ)शीति- -तिम्
 वौथ्रौ १५, ६ : २२; वाधूथ्रौ ३,
 ८३ : ३.

त्रिंशत्^२ - पा ५, १, ५९;
 -शत् शाथ्रौ ४, १५, १४××;
 आपथ्रौ; -शतः वौथ्रौ २६,
 २७ : ३; निस् ४, ९ : २८;

-शतम् शाथ्रौ १४, ९, ५; काथ्रौ;
 आपथ्रौ २१, १, १४^{१०}; हिथ्रौ
 १६, १, ११^०; या ५, ११;
 -शतम्-शतम् शाथ्रौ १४,
 ३२, ९; -शता आथ्रौ ५, १८,
 ५; शाथ्रौ; -शति आथ्रौ ८,
 ११, ३^१; शाथ्रौ; -शते तैप्रा
 १६, २४; -शन्निः काशु ७, ३७.

त्रिंश- -शम् आपथ्रौ २३,
 ९, ८; १४; हिथ्रौ १८, ३, १३;
 १६; -शाः वैथ्रौ १८, १ : १०^१;
 -शानि दाथ्रौ ८, १, ११; १४;
 लाथ्रौ ४, ५, ११; १४; -शे लाथ्रौ
 ९, ५, ४.

त्रिंशी- -शी ऋथ्र २,
 ९, ६७.

त्रैश- पा ५, १, ६२.

त्रिंशक- पा ५, १, २४.

त्रिंशच्-छ(<श)त्- -तानाम्

वौथ्रौ १६, २५ : ५; ११.

त्रिंशत्-क्^३ -काः अर्पं ४ :
 १२.

त्रिंशत्-कुत्वस्(:) लाथ्रौ १०,
 १२, ८.

त्रिंशत्-तम- -नम् वौथ्रौ
 २६, १६ : २.

त्रिंशत्तमी- -मी शाथ्रौ
 १८, १४, ६; -मीम् काथ्रौ १७,
 ११, ११.

त्रिंशद्-अक्ष(र>)रा^४ -रा
 वौथ्रौ १८, ३२ : ७; वाधूथ्रौ
 ४, ९१ : ५; ९७^२ : ४.

त्रिंशद्-अन्त^५ -न्तानि
 काथ्रौ २४, ३, ३२.

त्रिंशद्-रात्र- -त्रः वौथ्रौ १६,
 ३५ : २; -त्रम् आथ्रौ ११, ३,
 ११; आपथ्रौ २३, ४, १२; हिथ्रौ
 १८, २, ७; -त्रात् आमिगृ २,
 ७, ९ : ३५; भागृ ३, २० : ४;
 -त्रे वौथ्रौ २३, १३ : १६.

त्रिंशद्वात्रा(त्र-अ)न्त-
 -न्तानि लाथ्रौ १०, १, १०.

त्रिंशद्-वत् काथ्रौ १, २, १७.

त्रिंशद्-वर्ग- -र्गं वौथ्रौ २६,
 १८ : ४; -र्गं वौथ्रौ २६, १८ : ३.

त्रिंशद्-वर्ष- -र्षः वौथ्रौ २६,
 ६ : १२.

त्रिंशन्-निमित्त^६ - -त्ताः अर्पं
 ४ : ५.

त्रिंशन्-मान^७ - -नम् वौथ्रौ
 २, २० : १२; भाथ्रौ; -ने आपथ्रौ
 ५, २१, ९; हिथ्रौ ६, ५, १८.

त्रिंशन्मान-चत्वारिंश-
 न्मान- -ने वौथ्रौ २, २० : १८;

भाथ्रौ ५, १६, १८.

त्रिंशन्- -शिनः लाथ्रौ १०,
 १०, ६; -शिनौ लाथ्रौ १०,
 १०, ९^१.

त्रिंशि-मास- -सः आपथ्रौ
 २०, ७, ४; हिथ्रौ १४, ३; १९.

त्रिं-शति^८ - -तेः अर्पं ४ : ३१^६.

त्रि-क, का^९ - -कः मीस् १०,
 ५, १०; -कम् शाथ्रौ १०, १२,
 ३; लाथ्रौ; -काः कागृ ७३,
 ४; -काणि लाथ्रौ ८, ५,
 २४; निस् ६, १० : ३; -के
 लाथ्रौ ६, ५, १०; ६, १२;

निस् ४, ९ : २८; -केण जुस्
 १, ७ : १२; ११ : ७; दाथ्रौ
 ९, ४, ७; लाथ्रौ ३, ८, १; निस्
 ७, ८ : २४; कप्र २, १, १०;

-कौ अग्र १५, ९; अर्पं ५ : १९.
 त्रिक-चतुष्क- -ष्कयोः आपथ्रु
 ५, २; वौथ्रु १ : ३६; हिथ्रु २, ९.

त्रिक-पञ्चिन्- -ञ्चिनी लाथ्रौ
 ८, ५, २५.

त्रिक-प्रभृति- -तयः लाथ्रौ
 ६, ५, २०; निस् १, ८ : १३;
 ९ : ८; १५.

त्रिक-भाव- -वात् पावा ५,
 १, ५५.

त्रिक-विष्टाव^{१०} - -वः लाथ्रौ ६,
 ७, १६.

त्रिक-स्तोम- -मः निस् ४,
 ८ : २७.

त्रि-ककुद्^{११} - पा ५, ४, १४७;
 -कुत् आपथ्रौ २२, २३, १७^३;
 हिथ्रौ १७, ८, ३२^३; -कुदः
 शाथ्रौ १६, २९, १२.

a) विप. िवस. । b) वैप १ द्र. । c) शोधः पृ ४३९ W द्र. । d) परिमाणे कन् प्र. । e) विप. ।
 वस. उप. = मान- । f) = त्रिंशत्- । वैप १, १५११ h द्र., दशति- इति ततो विशेषः । g) वैः इति पाठः ।
 यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । h) स्वार्थे वा परिमाणे वा कन् प्र. । i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

त्रैककुद्- -दम् आपश्चौ
१०,७,२; वौश्रौ; -देन आपश्चौ
१०,७,१; वौश्रौ १७, ४२ : ४;
भाश्रौ.

त्रैककुदा(द-आ)जन-
-नेन काश्रौ ७, २, ३१.

त्रैककुदाजन-द्वैव-
त- -तम् अश्र ४, ९.

त्रिककुद्-दशाह- -हस्य
वैताश्रौ ४२, ५.

त्रि-ककुम्^b- -कुप् आश्रौ १०,
३, २१; काश्रौ २३, ५, १९; शैशि
२६७^१; -कुभः निसू ९, ७;
२५.

त्रैककुम्^c- -भम् जुसू १,
३ : २०; जैश्रौका २५; द्राश्रौ
२, २, ४७; लाश्रौ १, ६, ४४; निसू
४, १३ : १; ६, ८ : २०; ९, १ :
७; -भस्य माश्रौ २, १, १, ३८^d;
लाश्रौ ७, ५, १८; निसू ४, ७ :
१९; माग १, ११, ८^d; -भानि,
-भे निसू ९, ५ : २७.

त्रैककुम्-वैखानस- -नसे
लाश्रौ ७, ९, १३.

त्रि-कण्टक^e- (>त्रैक^e- पा.)
पाग ४, ३, १५४.

त्रि-कद्रुक^f- -काः आश्रौ १०,
३, १३; काश्रौ; -काणाम् निसू
१०, १० : २२; -कान् द्राश्रौ ८,
४, ७; लाश्रौ; -कैभिः आपश्चौ
१७, २१, ८; हिश्रौ १२, ६, २६;
अश्र १८, २; -क्रेभ्यः काश्रौ
२३, ५; १७; द्राश्रौ १, ४, २७;
लाश्रौ १, ४, २२; -केषु आश्रौ

६, २, ६××; शाश्रौ; -कैः आश्रौ
१२, ६, २१; काश्रौ २४, ५, ५, ७,
१६.

त्रैकद्रुक- -कः निसू ९,
१३ : ६; ३०.

त्रिकद्रुक-क्लृप्त- -सम् निसू
१०, १० : १९.

त्रिकद्रुक-त्र्यह- -हः निसू ५,
११ : २०; -हम् निसू ५, ११ :
१२.

त्रिकद्रुक-द्वादशाह- -हाः
जुसू २, १६ : १.

त्रिकद्रुक-पञ्चाह- -हः निसू
५, ११ : १७.

त्रिकद्रुकी(य>)या^g- -या
शाश्रौ १०, १३, ७; -यासु ऋप्रा
१७, ४५.

त्रि-कपाल- -लेषु अप ३६,
२५, १.

त्रि-कपाल- -लः काश्रौ १५,
२, १७; आपश्चौ २२, १८, १८;
हिश्रौ १७, ७, १०; -लम् आपश्चौ
१८, १०, १७; २०, १९; वौश्रौ.

त्रि-कर(ण>)णी- -णी काशु
२, १४; २०; आपश्चु २, ३; वौशु
१ : ३३; हिशु १, २४; -ण्या
आपश्चु ५, ११; हिशु २, २१.

त्रि-कर्ण-समास- -सः काशु
४, ९.

त्रि-कला- -ला ऋत २, ३, ९.

त्रि-कारण- -णम् नाशि २, ६, १.

त्रि-काल- पाग ५, ४, २३^h.

त्रैकाल्य- पा ५, ४, २३^h;
-ल्यम् श्रुपा १, १५.

त्रिकाल-स्नान-> स्ना-
निन्- -नी वैध ३, ५, ७.

त्रि-किणⁱ-> किणिन्-
-णिनम् वौश्रौ २४, १३ : ६.

त्रिकीय- पा ४, २, ९१.

त्रि-कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
९, ७.

त्रि-कोण^j- -णम् वैश्रौ १, ३ :
९; वैग ४, १३ : ८; आगिग २,
५, १ : १८; ७ : ८; जैग २,
९ : ११; अप २५, १, ६; ११;
शंघ १४१.

त्रिकोण-क- -कम् अप २५,
१, ३.

त्रि-क्रम- -मः उस् ४, १८;
-मम् कौशि ४९; -मे कौशि ५०.

त्रिक्रम-कारण- -णे ऋप्रा
११, १७.

त्रि-कोश^k- -शे आपश्चौ २२, २,
२०; ४, ५; हिश्रौ १७, २, ७.

त्रि-ग(धा>)घ^l- -घम् आपश्चौ
१९, २६, २; वौश्रौ १३, ३७ :
३; २६, ६ : १८; हिश्रौ २२,
६, ७^l.

त्रि-गम(न>)ना^m- -ना या ७,
१२.

त्रि-गर्तⁿ- पाग ४, १, १७६; ५,
३, ११७; -तान् अप ५६, १, ८.

त्रैगर्त- पा ५, ३, ११७;
-तः अप ५१, ४, १; ५३,
३, १; -ते पा ४, १, १११.

त्रैगर्ती- पा ४, १, १७६.

त्रैगर्तीयन-> नक- पा.)
पाग ४, २, ८०.

- a) वैप १ द्र. । b) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । c) = साम-विशेष- । d) विप. (आखन-) । e) = वृक्ष-विशेष- ।
f) = अहीन- (तु. आश्रौ. प्रम्.) । शिष्टं वैप १ द्र. । g) = ऋच्- । मत्स्ये छ > ईयः प्र. उसं. (पा ५, २, ५९) ।
h) तु. पागमः । i) कस. उप. = ज्याघाताङ्क- प्रम्. [तु. पदस्वी] । j) विप. । वस. । k) समाहारे द्वित. उप.
= ऋश- । l) ण्वम् इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. आपश्चौ.] । m) = देश-विशेष-, तद्वासिन्- च । वस. ।

त्रि-गायत्र्य(त्री-अ)नुष्टुब(प-
अ)न्त^१-न्तम् ऋअ २,८,३३.

त्रि-गायत्र्य(त्री-अ)न्त^१-न्तम्
ऋअ २,४,५५.

त्रि-गुण,णा^०-णः काश्रौ २०,
४,१५; काश्रु ५, २; वीश्रु २१ :

१३; -णम् आपश्रौ १०, २४, ७;
वाघः या १४, ४; -णया भाश्रौ

७, ९, २; -णा काश्रौ ६, ३, १३;
आपश्रौ ७, ११, २; भाश्रौ ७, ८,

१८; माश्रौ १, ८, २, २३; विघ
६, १२; -गानि विघ २०, ८;

अश्र १६, ८; अष ५ : २६;
चव्यू २ : १९ -णाम् काठश्रौ

५२; वीश्रौ; -णायै वीश्रौ ४,
५ : १८; -णासु वीश्रौ ११, ३ :

३२; -णे शाश्रौ १७, २, ३;
जैश्र १, १८ : ३; विघ ९, १३;

-णेन अप १८^२, १, ५.
त्रिगुणा-रञ्जु^१-ञ्जु माश्रौ

१, १, ३, ६.
त्रिगुणी^१/कृ^१>णी-कृत-

-तस् आमिष्ट २, ४, ९ : १०.
त्रिगुणी-कृत्य आमिष्ट २,

४, ९ : १४.
त्रिगुणे(स-ई)श्वर^०-राणि

वैश्र ५, २ : २३.
त्रि-ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा ७, ४, ७५.
त्रिच-प्रभृ. त्रि->तृच-द्र.

त्रि-चक्र^०-पावा ६, २, १९९.
त्रि-चतुर-युष्मद्-अरमद्-ग्रहण-

-णेषु पावा ७, २, ९८.
त्रि-चतुर-युष्मद्-अरमत्-त्यदा-

दि-विकार-रैषु पावा ६, ४,
१३०.

त्रि-चतुर-पावा ५, ४, ७७.
१त्रि-चतुर्थ^१-थम् वाश्रौ १, ३,

१, ३२.
२त्रि-चतुर्थ-थयोः शैशि २६०.

त्रि-चतुः-शराव-वान् वैश्रौ
१७, १२ : ५.

त्रि-चत्वारिंशत्-शत् अप ७७,
३, ६.

त्रि-चित्^१-चितम् काश्रौ १७,
१, २२.

त्रि-चितिक^०-कम् वाश्रौ २,
१, ४, १७.

त्रि-चितिक^०-कम् आपश्रौ
१६, १५, ३; वैश्रौ १८, १२ : २३;

हिश्रौ ११, ५, २९; १२, ७, २६.
त्रि-चैल^०-लः कौस् ८२, ४३.

त्रि-च्छदिस^०-दिः हिश्रौ २२,
६, ७.

त्रिच्छदिप्-क-कम् वीश्रौ
२६, ६ : १९.

त्रि-जगत्या(ती-आ)दि^१-दि
ऋअ २, ६, ६१.

त्रि-जाग(त>)ता^०-ता शुश्र
५, ४७; ऋअ १, ७, ६.

त्रि-ज्योतिस्^१-तिपम् शंघ
११६ : ५०.

त्रि-ण(<न)व,वा^०-वः आश्रौ
४, १२, १; शाश्रौ १४, ३३, ५;

१६, २३, १२; आपश्रौ २२, ६,
१९^१; २३, १८^२; वीश्रौ; या ७,

११; -वम् शाश्रौ १३, १६, ५^२;
१६, २३, ११; आपश्रौ; -वाः

वीश्रौ १६, ३६ : १९; अप ५२
१२, ४; -वान् निस् ४, १३ : ९;

-वानि शाश्रौ १५, ६, ३; -वाभिः
आपश्रौ १६, २०, १०; हिश्रौ

११, ६, ५९; -वाय शाश्रौ ९,
२७, ११; -वे आश्रौ ७, ५, ११;

१२, ७, १२; आपश्रौ; -वेन
आश्रौ १२, ३, ३; ४, २३; आपश्रौ;

हिश्रौ १७, २, ६३^१; -वौ
आपश्रौ १६, ३३, ५^१; वीश्रौ

१६, ३१ : १९; वैश्रौ १८, २१ :
२३^१; हिश्रौ ११, ८, ३^१।

त्रिणव-त्रयस्त्रिंश-शयोः
निस् ८, ४ : १७; -शभ्याम्

निस् १०, ७ : १८; -शे शाश्रौ
१६, १५, १२; निस् ६, १२ : ११;

-शौ काश्रौ २१, २, ११, वीश्रौ.
१त्रिणव-स्तोम-मः या ७,

११.
२त्रिणव-स्तोम^०-मम्

शाश्रौ १०, ६, १.
त्रि-णा(<ना)चिकेत^१-न्तः अप

४४, २, ४; वाघ ३, १९; शंघ
१९९; २००^६; आपश्र २, १७,

२२; वीघ २, ८, २; विघ ८३,
२; गौघ १५, २८.

त्रि-णामन्-त्रि-नामन्-द्र.
त्रि-णि(<नि)घन^०-न्तः चुस्

३, १० : १४; -नम् लाश्रौ ६,
४, ५; ७, ४, १; धुस् ३, ५ : १३;

१२ : १०; निस् ८, १ : १७;
१८; २१; २८; ३४; -नस्य लाश्रौ

७, ९ : ८; चुस् ३, १० : १५;
-नानि निस् ५, १ : १४; -ने

a) कस.>दस.>वस. । b) कस.>वस. । c) विप. । वस. । d) विप. । वस. पूष. पुंवद्भावा-
भावश्छान्दसः । e) वैप १ द्र. । f) त्रिरावृत्तश्चतुर्थो भागो यत्रेति कृत्वा वस. वा. क्वि. । g) वैप २, ३२.
द्र. । h) = मरुत्- । वस. । i) सप्र. च्वः<>ध्वेन इति पाठे. । j) वैप ३ द्र. । k) ष्वाः इति पाठः १
यनि. शोधः (तु. पमा [१, २ पृ ३४०]) ।

लाश्रौ ७,४,१; ८,११.

त्रिणिधना(न-अ)नुग्रह-
-हाय निस् ६, १० : १८; १०,
१२ : २३.

त्रित^२- -तः वीश्रौ २४, २६ : १३;
हिश्रौ; या ४, ६; ९, २५[†]कृ;
-तम् वृदे ३, १३२; या ४, ६;
-तस्य वृदे ३, १३६; १३७;
-कृताय काश्रौ २, ५, २६; वीश्रौ;
-ते अत्र ६, ११३[†].

त्रैत^३- -तम् लाश्रौ ७, ३, ३.

त्रि-तय- पा ५, २, ४३.

त्रितय-यु(क>)क्ता- -क्ताः
उनिस् ३ : १८.

त्रि-ता- -ता या ७, १२कृ.

त्रि-त्रिद्व-अन्त^४- -न्तम् ऋअ
२, १, १६८; ६, ७१; ८, १०१;
१०, ११.

त्रि-त्रिद्व-आदि^५- -दि ऋअ
२, ६, ६०; १०, ४४.

त्रि-दक्षि(या>)ण^६- -णः
काश्रौ १५, ३, १६.

त्रि-दण्ड^७- -ण्डम् आमिगृ ३,
१०, ४ : १४; वैध २, ६, २; ८, १;
३, ८, २; -ण्डे वैध ३, ६, ९.

त्रिदण्ड-क्रमण्डलु-कापायधा-
तुवस्त्रग्रहणवेष-धारिन्^८-
-रिणः वैध १, ९, ३.

त्रिदण्डा(एड-आ)दि- -दि
वैध ३, ८, ४.

त्रिदण्डिन्- -ण्डी वीध २,

१०, ४०.

त्रि-दश^९- -शाः शंघ १५०.

त्रि-दिव^{१०}- -वम् वीश्रौ १७, ४६;
५; सु; -वात् अप ४२, २, १३;
-वे सु ३०, ५-७.

त्रि-द्वय(द्वि-ए)क- -के वेज्यो
१४; -केसु शुप्रा २, ३.

त्रि-धा^{११} आपश्रौ ५, १७, ४^{११}; १७,
१८, १; वाश्रौ; हिश्रौ ३, ४,
४८^{११}; या १२, १९; १३,
७^{११}कृ^{११}; शुप्रा २, ४४^{११}; त्रिधा-
दत्रिधा वैगृ १, ७ : ९; वीशु ७:
१३.

त्रिधा-कृत- -तम् वैध १, ६, ४.

त्रि-धातु^{१२}- -तु आश्रौ ७, ३,
१९^{१२}; शाश्रौ; -तुः या १४, २^{१२};
-तुम् आपश्रौ १९, २१, २२;
२७, १५; वीश्रौ; -तूनि वीशि
२४^{१२}कृ^{१२}; -तौ वीश्रौ २६, ६ : १९.

त्रैधात(व>)वी^{१३}- -वी शाश्रौ
१५, १६, २; काश्रौ १३, ४, ७;
१५, ७, २९; १०, २४.

त्रैधातव्य(वी-अ)न्त- -न्ते
काश्रौ २१, १, १७.

त्रैधातवीय, या^{१४}- -यया
आपश्रौ २०, २३, ५; २४, १६;
१७; वीश्रौ; -या आपश्रौ २०,
८, ४^{१४}; २२, १५, २; वाधूश्रौ;
-याम् आपश्रौ १४, २३, २;
-येन वीश्रौ १३, ४१ : १; वीध
३, १, ९.

त्रैधात(व्य>)व्या^{१५}- -व्ययाः

माश्रौ ५, २, ५, १; -व्या वाश्रौ
३, ४, १, ४६^{१५}कृ.

त्रि-धातु^{१६}- -तवे वीगृ ३, ९, ५;
आमिगृ १, २, २ : २२; भागृ ३,
१० : ७; हिगृ २, १९, ६.

त्रि-नक्षत्र^{१७}- -त्राः आज्यो ९,
११.

त्रि-नयन^{१८}->^{१८}न-मुख-निःस-
(त>)ता- -ताम् पाणि ३२.

त्रि-नव^{१९}- -वम् माश्रौ २, २, ३-
१३^{१९}.

त्रि-नाक^{२०}- -के अत्र ९, ४;
अप्रा ३, १, ७.

त्रि-नाभि^{२१}- -न्भि अप्रा ३,
१, ७; या ४, २७.

त्रि-ना, णा^{२२}मन्^{२२}- -मन् तैप्रा
७, २; अप्रा ३, १, ७; -मानम्.
अत्र ६, ७४.

त्रिनाम-देवता->^{२३}व-
(त्य>)व्या- -त्या अत्र ६, ७४-
त्रि-निष्क-, त्रिनैष्किक- पा ५,
१, २०.

त्रि-नेत्र^{२४}- -त्रः अप ६९, २, ३-
त्रि-पक्ष^{२५}- -क्षे शांगृ ४, ३, २;
आमिगृ ३, ३, २ : १४; १२, १ : ९.

त्रिपक्ष-वत् आमिगृ ३, ३,
२ : ३०.

त्रिपक्ष-श्राद्ध- -दम् आमिगृ
३, ३, १ : ४; २ : ३०; -द्वे.
आमिगृ ३, ३, २ : १४.

a) वैप १ द्र. । b) = सामन्- । c) कस. > वस. । d) विप. । वस. उप. = २दक्षिणा- ।

e) समाहारे द्विस. । f) विप. । द्वस. > उस. । कापाय-वातुना (गैरिकेण) रक्तानां वस्त्राणां ग्रहणं यत्र तथाभूतं

वेषमिति भावः (वैतु. C. ग्रहण- शब्दमनभिप्रयञ्जिति) । g) = देव- । वस. समानान्तपृ डच् प्र. (पा ५, ४, ७३) ।

h) पाभे. वैप १, १५१४ b द्र. । i) पाभे. वैप १, १५१४ g द्र. । j) = इष्टि-विशेष- । k) सपा. ष्वीया<>

प्या इति पाभे. । l) व्यप. । व्यु. ? । m) विप. । वस. । n) = [त्रिनेत्र-] शिव- । o) विप. । तद्विधितार्थे

द्विस. प्रमाणे प्र. लुक् । p) स. प्र. वैश्रौ १४, १० : ५ बटादश इति, आपश्रौ ११, ९, ७ सप्तविंशतिः इति च पाभे. ।

q) तैप्रा. पाठः । r) मज्जो. द्वस. वा समाहारे द्विस. वा ।

त्रि-पञ्च^a-क^b- -कः ऋअ ३,
२३; २५; -काः ऋप्रा १६, १८.

त्रि-पञ्च-सूक्त^c- -क्तः ऋअ ३,
२०.

त्रि-पञ्चाशत्- -शत् अअ १२, ४.

त्रि-पद्^a- -पदः अअ १८, ४.

त्रिपदा- -दा शांश्रौ ७, २७,

१; निस् १, २ : १; ६; ४ : २६;

१२ : २६; ८, ६ : ४४; विध

५५, १५; ऋअ १, ४-५, १; शुअ

५, १४; २३; अअ १, २;

१७; २६xx; उनिस् १ : २१;

५ : १८; -दाः अअ २, ११;

१०, ५; १५, ५; उनिस् ६ : २२;

७ : २८; -दानाम् निस् १, ७ :

५; -दाम् या ७, १२†; -दायाम्

वाध २५, ९; -दासु ऋप्रा १८,

४६; -दे अअ ९, ६.

त्रिपदा-प्रभृति- -तीनाम्

निस् १, ७ : ३.

त्रिपदी- पाग ५, ४, १३९;

-दी वौश्रौ १४, १४ : ३१;

आगृ १, ७, १९†^d; कौश्र १, ८,

२८†^d; शांगृ १, १४, ६†^d; -द्या

आश्रौ ८, २, १४^d.

त्रि-पद्^e-

त्रैपद, दा^f- -दम् वौश्रौ

१८, २० : १९; लुस् ३, ६ : ४;

-दाः वेदे ४, ८; -दे शांश्रौ १४,

४१, ११.

त्रिपद-क्रम- -मः कौशि

५०.

त्रिपद-परिणाह^a- -हानि
वौश्रु ४ : २४.

त्रिपद-प्रभृति- -तितैप्रा १,
६१^d.

त्रिपद-मात्र- -त्रे आश्रौ ४,
४, २.

त्रिपदा(द-आ)द्या(दि-आ)

वर्तमान- -ने शुप्रा ४, १६८.

त्रि-पद, दा^a†^b- -दः आश्रौ ५,

९, ११; काश्रौ १६, ८, १६; कप्र

३, ९, ५; आपशु ६, २; हिशु २,

२७; -दम् शंघ ३१०; काशु

७, ३४; -दया काठश्रौ ९२;

-दा काशु २, ८; -देन वौश्रौ

२३, १९ : ८.

त्रि-प(व >)द्या^b- -द्यायाः

वेज्यो १४.

त्रि-पर्ण^a- -र्णाः वैश्रौ ११, ११ :

१.

त्रि-पर्याय^a- -यः काश्रौ ९, ५,

२; आपश्रौ १२, १२, १०; -यम्

काश्रौ ७, ४, ७; -यान् काश्रौ

१०, १, ३; ३, १५.

त्रि-पर्वन्^a- -र्वणे अप३६, ९, २.

त्रि-पर्वा- -र्वया आपश्रौ

२१, १८, ८†^d; हिश्रौ १६, ६, १५.

त्रि-प(र्व >)र्वी^d- -र्वी शंघ ५३.

त्रि-पल^k- -लम् आमिगृ २, ७,

७ : ११.

त्रि-पशु^a- -शुः काश्रौ १५, १०,

१; वौश्रौ १७, ३२ : ७; माश्रौ

५, २, ११, ११; -शुना हिश्रौ

१४, ५, ११; -शोः काश्रौ १९,

३, १०; ६, १४; शुअ २, ४३८.

त्रि-पाद्^d- पा ६, २, १९७;

-पात् आमिगृ २, ७, ८ : ७^m;

अप ३०, ३, २; ३१, ३, २; अअ;

-पादः अअ २, १९; ५, २४; ६,

१३३; ९, ६(३, ४); -पादम् अप

३१, ४, २; -पादौ अअ ९, ३;

१५, १२.

त्रिपाद्-गायत्र- -त्रम् अअ

२, १७; -त्राणि अअ २, १९.

त्रि-पाद्-> °द-मात्र- -त्रम्

वाध १६, १२.

त्रि-पाद्, दा^a- -दः शैशि ३६;

३७; -दाः अअ ४, ३९; -दे

कौस् २६, ३२^m; ३५, २७; ४१, ७.

त्रिपाद्-क^o- -कम् कौस् ८३,

३.

त्रि-पुण्डू- -ण्डूम् शंश्रु २,

१०, ९.

त्रि-पुरुष^d- -पम् शांश्रौ १६,

२२, २९; पागृ २, ५, ४२; वाध

४, १८; वौध १, ११, १८†;

विध ५७, ४; गौध ४, ३०.

त्रिपुर्या(प-अ)वधि- -धिः

वैगृ ६, ४ : ३.

त्रि-पुरु(व >)पा^k- -पाम्

काशु ५, १२.

त्रि-पुरुष^a- -षाः आश्रौ ४,

१, ४.

त्रि-पुष्कर^p- -रे वाध १०,

२३.

- a) विप. । वस. । b) पृ ४४३ f टि. द्र. । c) विप. । वस. > वस. । d) पाभे. वैप २, ३३.
त्रीणि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । e) कस. वा समाहारे द्विस. वा । f) तस्येदमीयः षण् प्र. । g) उप.
= प्रमाणविशेष- वा चतुर्थभाग- वा । h) = पौर्यामासी- । i) त्रिः पर्वयेत् इति पाठः ? यनि. च उत्क^o इति
च शोधः (तु. हिश्रौ. C. च) । पृ ८२८ कट-शलाका- > -कया इति नेष्टम् । j) समाहारे द्विस. । k) विप. ।
तद्वितार्थे द्विस. । l) वैप १ द्र. । m) पाभे. वैप १, १५०७ C द्र. । n) = शिष्य- इति दारिलः । o) = त्रिपाद्-
[नमा.] । .p) = तीर्थ-विशेष- । द्विस. उप. = पुष्करिणी- ।

रत्रि-पुष्क(र>)रा^a- -राम्
लाश्रौ ९, २, ९.
त्रि-पूर्व^b- -र्वः माशि ५, ८.
त्रि-पृष्ठ^c- -ष्टम् गौपि २,
४, ८; साश्र १, ५२८.
त्रि-प्रकृति^d- -तीनि ऋप्रा १६,
८.
त्रि-प्रक्रम- -मे काठश्रौ २७.
त्रि-प्रगाथा(थ-आ)दि- -दि
ऋश्र २, ७, ५९, ८, २२, ७०.
त्रि-प्रगाथा(थ-अ)न्त- -न्तम्
ऋश्र २, ८, ७१.
त्रि-प्रतिषेध- -धः पावा ६, १,
१७६.
त्रि-प्रभृति- -ति काश्रौ ९, २,
२२; -तिषु शाश्रौ १, १, १८;
ऋप्रा ११, २१; पा ८, ४, ५०.
त्रि-प्रमा(ण>)णा^b- -णा काश्रु
३, ६.
त्रि-प्रवर- -रम् आश्रौ १२.
१०, १२; १३.
रत्रि-प्रवर^b- -राः वौश्रौप्र १:६.
त्रि-प्रस्ता(र>)रा^b- -राः
आपश्रु १०, १३; हिश्रु ३, ५३.
त्रि-प्लक्ष^d->प्लक्षा(क्ष-अ)-
वहरण^e- -णम् काश्रौ २४, ६,
३६; लाश्रौ १०, १९, ९.
त्रि-फ(ल>)ला^f- -पा, पाग ४,
१, ४; -लाम् याशि १, ३८;
नाशि २, ८, ६.
रत्रि-फ(ल>)ला^b- -ला अप
२६, २, १.
त्रि-वर्हिस्^g- -र्हिः वाधूश्रौ २,
२:१; ३, १३:१४; -र्हिपः

वाधूश्रौ ३, १४:४; ६.
त्रि-ब्रह्मन्^b- -ह्य शैशि ३५२.
त्रि-भाग- -गान् वौश्रु ७:१६.
त्रिभाग-तत्सु (:) अप २,
३, १.
त्रिभागो(ग-आ)दि-प्रवृत्ति-
-तौ गौघ १६, २६.
त्रिभागो(ग-ऊ)न- -नः
वौश्रु १७:६; -नम् वौश्रु ३:
१५; -नाः वौश्रौ १९, १:१४;
वौश्रु १७:४.
रत्रि-भाग^b- -गम् निस्र ३, ७:
२; अप २३, १०, १; -गाः अप
५२, ३, २.
त्रि-भाव- (>त्रैमाव्य-पा.)
पाग ५, १, १२४.
त्रि-भृष्टि^b- -ष्टि माश्रौ २, ३,
१, १५; -ष्टिभिः माश्रौ १, ५,
२, १५^h.
त्रि-मणि^b- -णिम् कौश्रु १, ८,
८; शांश्रु १, १२, ८.
त्रि-मधु^b- -धुः अप ४४, २, ४;
शंघ १९९; आपघ २, १७, २२;
वौघ २, ८, २; गौघ १५, २८.
त्रि-मधुर^d- -रम् अप ३६, १५,
१; १९, १; ३०, १; -रस्य कौश्रु
१, २०, ६; -रेण कौश्रु १, २०,
८; अप ३६, ७, ३; १८, १;
-रैः अप ६९, २, ५.
त्रिमधुरा(र-अक्त >)क्ता-
-क्ताभिः वैश्रु ४, १४:५.
त्रि-म(ध्य>)ध्या^b- -ध्या अप
२४, १, ४.
त्रि-मात्र^b- -त्रः शाश्रौ १, १,

१९; ऋप्रा १३, ५०; १५, ५६
तैप्रा २२, १३; ऋत २, ५, ५-
शौच १, ६२; याशि १, १४; १६;
-त्रम् आश्रौ १, २, १०; ७, ११,
२; उस् १, ११; ऋत २, ४, ९; शैशि
३५१; माशि १३, २:३; याशि
१, १८; -त्रयोः ऋप्रा ३, २७;
-त्राणि माश्रौ ५, १, १, ११;
शुप्रा २, ५०; -त्रात् शैशि ३५३;
-त्रे ऋप्रा १, ६४.
त्रि-मास^l- -सः वैश्रु ५, १४ =
३; -से गौपि २, ६, १८.
रत्रि-मास^d- > त्रैमासिक-
-कम् वैश्रु २, ११:७.
त्रिमासिक^l- -कः अप ५७,
४, ७.
त्रि-मूर्ध^b- -पा ५, ४, ११५.
त्रि-मूर्धन^k- -पा ६, २, १९७;
-त्रिर्धनम् आश्रौ ४, १३, ७;
शाश्रौ १४, ५७, ११; ऋश्र २,
१, १४६.
त्रि-मय(त्रि-अ)म्वक^l- -कम्^m
आश्रु २, ३, ५:२६; ५, ४:
७; ८; १०:२३.
त्रि-यव^b- -वम् माश्रौ ५, १,
९, ३; काश्रु ७, २८.
त्रिय(त्रि-अ)ह^o- -हः वाधूश्रौ ३,
७:२.
त्रिया(त्रि-आ)यु^p- -यम्^q
जैश्रु १, ११:२४^r; २५^r.
त्रिया(त्रि-आ)लिखि(त>)ता-
-ताम् वैश्रौ १८, १:७६.
त्रि-युक्त- -क्तः काश्रौ १५, १,
२०.

a) वस.उप. = कमल- । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) सनाहारे द्विस. । e) = प्रदेश-विशेष- । वस. । f) नाप. ।
द्विस. । g) वैप १, १५१६ p द्र. । h) नाप. (ऋ १, ९०. ६-८ इति मधुशब्दोपेतमन्त्रत्रयाध्यायिन-) । i) कस.
पूष. = तृतीय- । j) विप. । मत्वंधीयप् ठ्ठ् प्र. । k) वैप १, १५१५ t द्र. । l) = व्यस्यक- । m) पाभे. वैप १, १५२२ j
द्र. । n) विप. । तद्वितार्थे द्विस. उप. = परिमाण- । o) = व्यह- । p) = व्यादुप- । q) पाभे. वैप १, १५१६ b द्र. ।

†त्रि-युग^१ - गम् आपथौ १,
५, ५; भाथौ १, ५, १; हिथौ १,
२, ३३; या ९, २८.

त्रियुगा(ग^१-आ)दिक- -कम्
वैथौ १८, १५ : १५.

त्रि-युज^२ - युजा आपथौ २२,
२, २०.

त्रि-यून^३ - नम् काथौ १, ३,
२१.

त्रि-यूप^४ - पः काथौ १५,
१०, ६.

त्रि-योग^५ - गाणाम् बाधूथौ ३,
७९ : ४.

त्रि-योजन^६ - नः अप ६१, १,
२६.

त्रि-रात्र^७ - -त्रः आपथौ १४, १९,
८; वौथौ १६, १० : ५×५; हिथौ;
गौध २३, ३५^{३३}; -त्रम्^१

आथौ ८, १४, ९; शांथौ; शंघ
४६१; आपघ १, २६, ३; वौध;

-त्रस्य आपथौ २२, २, ५; १४,
४; १५; हिथौ; -त्राः निसू ८, ५ :

१; -त्राणाम् लाथौ ९, ६, १; निसू
३, ७ : ५; -त्रात् भाग १, ९ : ६;

३, २० : ८; गोय; -त्राय काठथौसं
३१ : १५; कायुड ४१ : ७; -त्रे

शांथौ १६, २०, १७; काथौ; सुघ
१४; -त्रेण शांथौ १६, २१, १;

२२, ३०; वौथौ १४, २७ : ७×५;
वाध; -त्रेषु लाथौ ९, ११, १३;

निसू ८, ११ : २२; -त्रौ वौथौ
१८, ५१ : २३; २६, ३३ : २१.

त्रैरात्रिक- -काणि निसू
७, ३ : १२.

त्रिरात्र-तन्त्र^८ - -न्त्राः निसू
८, ८ : १९.

त्रिरात्र-न्याय- -येन निसू
६, ८ : ५; ३३.

त्रिरात्र-परम^९ - -मम् गौध
२३, २८.

त्रिरात्र-प्रभृति- -तयः निसू
९, ८ : १६; -तिषु निसू ७, ३ :

३४; ४०.

त्रिरात्र-विध- -धः निसू ६,
८ : २२.

त्रिरात्र-संमित- -तः काथौ
२२, २, ८; आपथौ २२, २, ५;

हिथौ १७, १, २३.

†त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त- -न्ते
काथौ २५, ११, १७.

‡त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त^{१०} -
-न्तानि वौषि ३, ७, ४.

त्रिरात्रा(त्र-आ)सि- -सिम
निसू ६, ८ : २.

त्रिरात्रा(त्र-अ)भोजन- -नम्
गोय ४, ५, ९.

त्रिरात्रा(त्र-अ)वर- -रम्
काथौ ४, ११, ३; आपथौ १५,
१९, ८; भाथौ ११, २०, ४;

आपय ९, ४; गौध २३, २४.

त्रिरात्रि(क>)की- -क्यः
निसू ६, ८ : २२.

त्रिरात्री(ण>)णा^{११} -णा
आपथौ ९, ३, ३.

त्रिरात्रो(त्र-ऊ)न- -नात्
वौसू १३९, २०.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पजन^{१२} - -नम्
आथौ ११, ३, ११; ४, ८.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पवास- -सः
शंघ ४०२; सुघ ४३.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पेपिसन्- -प्सी
माथौ ५, २, ५, १.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पोषित- -तः
आमिग २, ६, ५ : २६; वौग २,
९, २५; गोय ४, ८, २०; अप
३१, ५, ५; शंघ ३९६; ४०१;

वौध ४, ७, ४; विध २२, १३;
५५, ६.

त्रि-रूप, पा^{१३} - -पम् काथौ २०,
१, २७; -पाम् काथौ १३, ४,
१४.

त्रि-रेखा- -खा नाशि १, ६,
८.

त्रि-लक्षण- पाग ४, २, ६०^१.

त्रि-लोक- पावाग ५, १, १२४.

त्रिलोकी- -कीम् विध
९९, ६.

त्रैलोक्य- पावा ५, १, १२४;
-क्यम् अप ५१, ४, २.

त्रि-वङ्कर- पावाग ६, २, १९९.

त्रि-वण- त्रि-वेणी- द्र.

त्रि-व(त>)ती^{१४} - -त्या आपथौ
१९, २७, १८; वौथौ १३, ४२ :
५; हिथौ २२, ६, २६.

त्रिवत्स, त्सा^{१५} - -त्सः काथौ २२,
३, ३९; आपथौ १८, १०, २२^१;

२२, २, २५; वाथौ ३, ३, ४, २०;
हिथौ १७, १, ३८; लाथौ ८, ३,
९^३; मीसू १०, ३, ६०; -त्साः

आपथौ २२, २०, ११; हिथौ
१७, ७, २२; -त्साम् अप १,
५०, ३; -त्सेन वौथौ १८, २१ :

a) उप. = काल-विशेष- ।

b) उप. = धुर- ।

c) विप. । उ.स. उप. कर्मणि प्र. । d) विप. ।

तृस. उप. <√यू[यन्धने] । e) विप. । वस. । f) विप. । तद्धितार्थे द्विस. उप. = अथपरिमाण- ।

g) = याग- । तद्धितार्थे समाहारे च द्विस. । h) = व्रत-विशेष- । i) कचिन् वा. क्विन्. । j) व्यहा^१ इति ङ. ।

k) भूतार्थे ख>ईनः प्र. (पा ५, १, ८७) । l) तु. पागम. । m) = ऋच्- । n) वैप १ द. ।

२; २६, ३२ : १०.

त्रि-वन्धुर^१ - रम् वृदे ३, ८६;
ऋप्रा ७, ३२१.

† त्रि-वल्थ^२ - थम् भाश्रौ १०,
२२, ४; हिश्रौ ७, ३, ५६.

त्रि-वर्ग^३ - र्गम् जैश्रौका १३०;
जैगृ २, ८ : १६; -र्गाः^४ द्राश्रौ

१२, ४, ११; लाश्रौ ७, १२, ८;
-र्गाणाम्^५ आज्यो ९, ३; -र्गौ

काश्रौ ८, ६, ८; लनिसू ३ : १३.
त्रिवर्ग-सेवा - वाम् विध

५९, ३०.
‡ त्रि-वर्ण^६ - > त्रैवर्णिक - >

क-भेद-सूचक - कान् काध
२७० : ५.

‡ त्रि-वर्ण^७ - र्णम् कौगृ ३, ६, ३;
शांगृ ३, ११, ७; -र्णाः ऋप्रा ९,

३१; -र्णे अप ६१, १, १५; -र्णैः
अप ३६, १२, १; ६१, १, १५.

त्रिवर्ण-सर्षप - षैः अप ३६,
१८, १.

‡ त्रि-वर्ण^८ - र्णाय आमिगृ १,
२, २ : २२^८.

त्रैवर्ण - र्णाः वौश्रौ ७७ : २.
‡ त्रि-वर्ण^९ - र्णात् सुध २०.

त्रैवर्णिक^१ - कम् आश्रौ
१२, ५, ६; ११.

त्रैवर्णिक^२ - कम् गौध
२२, १५; -कैः वैगृ ५, १ : ३.

त्रैवर्णिका(क-अ)धि-
का(क-अ)ज्ञ - ज्ञः शंघ १४८.

त्रैवर्णिका(क-अ)भ्य-
धिका(क-अ)ज्ञ - ज्ञः विध
५२, ८.

त्रिवर्ष-पूर्व - र्वः आपध १,
१४, १३; हिध १, ४, ४५.

‡ त्रि-वर्ष^१ - र्वः आश्रौ ९, ४,
२०; लाश्रौ ८, ३, ११.

‡ त्रि-वर्ष^२ - र्पाय आमिगृ १,
२, २ : २२; वौगृ ३, ९, ५; मागृ

३, १० : ७; हिगृ २, १९, ६.
त्रि-वलि^३ - लिः आपश्रौ १०,

९, १९; वौश्रौ ६, ५ : १६; २१,
७ : २०; -लिम् काश्रौ ७, ३,

२५^१; भाश्रौ १०, ६, १३; वैश्रौ
१२, ९ : ४; हिश्रौ ७, १, ५२.

त्रिवली-क^४ - कम् वौश्रौ
२६, ६ : १८.

त्रि-विकल्प^५ - ल्पः कप्र २, ९,
१२; -ल्पम् कप्र २, १०, १६.

त्रि-विक्रम^६ - मम् आमिगृ २,
५, ७ : १०; वौगृ १, ११, ७; वैगृ

३, १३ : ४; वौध २, ५, २४; वृदे
२, ६४.

त्रि-वितस्त^७ - स्तम् आपश्रौ
७, ४, २; भाश्रौ ७, ३, ४; वैश्रौ

१०, ३ : १०; हिश्रौ ७, १, ४६.
त्रि-विदग्ध - ग्धम् कौसू २६,

२७.
त्रि-विद्या - पात्रा ७, २, ६०.

त्रैविद्य^८ - पा ५, ४, २३^८.
त्रैविद्यक^९ - कम् माश्रौ

७, ७, ८; कागृ ४२, १; मागृ १,
२३, २४; वागृ ६, १४; ७, १६;
आपध १, १, २८; २, ६; हिध
१, १, २६; ३९.

त्रैविद्य-वृत्ति - त्तिम्
लाश्रौ ८, ६, २९.

त्रैविद्य-वृद्ध - द्धाः वाध
१, १६; विध ८, ८; -द्धानाम्

आपध २, २३, १०; विध ५, ३१;
हिध २, ५, १६३; -द्देभ्यः वौध

१, ५ १००; गौध ११, २७;
-द्द्वैः वौध २, १०, ५७^९.

त्रैविद्य-समवाय - येषु
शंघ ९.

त्रैविद्य-साधु - धुम्यः
वाध १७, ८७.

त्रि-विध, धा^{१०} - धः आपश्रौ १६,
१७, १५; जैगृः या १४, ३; -धम्

शाश्रौ १६, २१, १××; वौश्रौ;
-धा कप्र १, ३, १; विध २२,

८२; वृदे २, ७२; ३, १४; माशि
१६, ६; याशि १, ७१; -धाः

अप ३, ३, ७; वैध १, १०, १; या
७, १; -धान् अप ६४, १, १;

७१, २, ४; -धानि वृदे १, १७;
३, ४२; -धेन वृदे ३, १२.

त्रैविध्य - > ष्य-गत - तेषु
वौश्रौ २१, ११ : ६; २५, ५ :

१६.
त्रि-विराड्-अन्त^{११} - न्तम् ऋप्र
२, ७, ३१.

a) वैप १ द्र. । b) समाहारि द्विस. । c) कस. । d) उप. = जाति-वचन- । e) विप. । वस. ।

f) उप. = अक्षर- वा रङ्ग- वा । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) सप्र. त्रिवर्णाय <> ध्यरुणाय इति पाठे. ।

i) = सत्र-विशेष- । भावीत्यर्थे ठल् प्र. उप. वृद्धिप्रतिपद्यथ । j) विप. । तत्रभवीयत् ठक् प्र. उभयपदवृद्धिश्च ।

k) तद्धितार्थे द्विस. । l) त्रिव^० इति कासं. । m) = विष्णुनामाऽन्यतम- । वस. । n) डः प्र. उरसं. (पा ५,

१, ५७) । o) तद्देदेत्यर्थे अण् प्र. (पा ७, २, ५९) । p) तु. पागम. । q) विप. वा नाप. (गत-) वा । त्रैविद्यानां

धर्म इत्यर्थे वुञ् प्र. [पावा ७, ३, १२६ (तु. हरदत्तः [आपध.]; वैतु. देवपालः < त्रि-विद्या- इति)] । यदा त्रिविद्य-

+ कर्मणि वुञ् प्र. (पा ५, १, १३२) इति विमृश्यम् । r) त्रयीवि^० इति मैसू. । s) कस. > वस. ।

त्रि-विशाख^a- खे हिश्री १४,
५, ११.

त्रि-विपू(क>)का^b-काम् हिपि
१४ : ३; -के हिपि १४ : ७.

त्रि-विष्टप^c- पाटवृ ३, १४५;
-पम अय १९^३, ५, ९; ५५, ५
३; ंध २८४.

†त्रि-विष्टपि^d आपश्री ५, २, ११,
शाश्री १, ८, २, ७; हिश्री ३, ३, २२.

त्रि-विष्टाव^e- वा: निसू १, ८ :
१६.

†त्रि-विष्टि^f- ष्टि आपश्री
१६, ६, ७; वाश्री २, १, ५, २०;
वैश्री १८, ४ : ८; हिश्री १२, १,
७३;

त्रि-वीषि(वि^g)^h- ष्रीः(ःश्रीः)
वैश्री १, ५ : २; वैश्री ५, २ : १८.

त्रि-वृत्ⁱ- पावाग ६, २, १९९;
-वृत् आश्री ४, १२, १; २××;

शाश्री ९, २, १, १; १३, १६, ५××;
काश्री २, ७, १९; ४, २, १६××;

आपश्री १, ६, ९; १०; १०, ९,
१३××; वौश्री १, ३ : ३××;

माश्री १, ६, ११; १३†; माश्री ६,
१, ४, ९; २, १, २३; वाधुश्री ३,
७६; २६; २७^३××; वाश्री १, २,
२, ६; २, २, १, १७†; वैश्री ३, ५;
११^३; १२, ८ : १३; १७, ५ :
१; १८, २१ : २०†××; हिश्री
१, ३, ३; ४; ७, १, ४९; १२,
८, ३†××; लाश्री १०, ५,
१; वैताश्री २६, ८; ३५, १५;
लुसू १, १० : १०; निसू १,

१० : ३; ९, १३ : ११××;
कौश्री १, ३, ८; १४, ११†; शांश्री
१, ८, २; २३, १५; आमिश्री २,
२, ४ : ७; वौश्री १, २, ११; वैश्री
३, १० : ७^३; हिश्री १, १२, ११;
२, ५, २; कप्र १, १, २^३; ७, ७;

अप्राय ६, ३†; अप ४८, १३६;
आपध १, २, ३३; वौध १, ५, ५;
२, १०, १३; ४, ५, ७; हिध १,
१, ६५; वृदे १, ११५; चाअ
१७ : ३†; या ७, ८; १२†;

†भाशि ६६; ७०; ९४; १०७;
-वृत्तः आश्री ६, १०, २२; ९,
१, १७××; शाश्री १३, २९, ३२;
१४, ६, ४××; काश्री १६, ५,
२; २२, ५, ६××; आपश्री २२,
७, १; १८, ५××; †वौश्री १०,
३५ : ६; १४, २२ : ११××;

माश्री ३, ८, ७; हिश्री १७,
२, ३२; ३, १६××; लाश्री
६, २, ४; ५, ११××; निसू
१, १० : ५; १०××; -वृत्तम्
काश्री १, ३, २३; ६, २, १३^३××;

आपश्री १२, १४, १०; २१, ६,
१०; वौश्री १, २ : २८; १३ :
१९××; माश्री १, ६, ५; वाश्री
१, २, २, १; ३, २, १, ४२;
हिश्री १, २, ७४; ७५;

†वैताश्री १०, १७; २६, ८;
निसू ४, ११ : १३; ७, ५ : १२;
७ : ३५; १०, १३ : १७; शांश्री
१, १२, ६^३; पाश्री १, १५, ६;
आमिश्री १, १, २ : ३८; आपश्री

१३, ११; काश्री ४१, १२; भाश्री
१, २ : ६; हिश्री १, ४, ५; १२,
१०; गोश्री १, ७, १०; जैश्री १,
१८ : ३; १९ : ३; १८; द्राश्री १,
२, ११; अप २२, ७, २; अशा
१९, २; ५; ७; वैध २, ६, २; अअ
५, २८; -वृता आश्री १, ३, २२;
१२, ३, ३××; शाश्री १४, २७,
५; ११××; काश्री २, ७, १;
१६, ३, ५; आपश्री १२, १८,
१२; २२, ६, ५××; †वौश्री ३,
२७ : २२; १४, २० : १५××;

भाश्री १०, ६, १०; माश्री १, ८,
२, २४××; वाधुश्री ४, २६ :
६; वाश्री १, ६, ३, २०; वैश्री १५,
१९ : ६; २१ : ११××; हिश्री ८,
५, १३; ११, १, ३४; ×× लाश्री ९,
७, ९; १०, ४, ४^३†; लुसू १, १० :
२०; निसू ९, १३ : १०^३; ३७^३;
१०, १ : ३५^३; कौश्री २, १, २९;
आमिश्री १, १, ४ : २८; ४३××;

वौश्री १, ८, ४; २, २, १३××;
वौपि ३, १०, २; भाश्री १, ६ : ६;
हिश्री १, ७, २२; ८, ७; हिपि १३ :
९; जैश्री २, १ : २२†; अप्राय;
-वृताम् आश्री ११, ५, ३;
लाश्री ८, ७, २; १०, १४, ८;
-वृत्ति शाश्री १२, २, ११;
काश्री १६, ५, १; निसू ४, ७ :
१०; शांश्री १, २२, १०^३; कौश्री
१५, १; १९, ८; २२, १२;
याशि १, २५; मीसू १०, ६, २२;
-वृत्ती आपश्री २२, २०, ८;

१० : ३; ९, १३ : ११××;
कौश्री १, ३, ८; १४, ११†; शांश्री
१, ८, २; २३, १५; आमिश्री २,
२, ४ : ७; वौश्री १, २, ११; वैश्री
३, १० : ७^३; हिश्री १, १२, ११;
२, ५, २; कप्र १, १, २^३; ७, ७;

अप्राय ६, ३†; अप ४८, १३६;
आपध १, २, ३३; वौध १, ५, ५;
२, १०, १३; ४, ५, ७; हिध १,
१, ६५; वृदे १, ११५; चाअ
१७ : ३†; या ७, ८; १२†;

†भाशि ६६; ७०; ९४; १०७;
-वृत्तः आश्री ६, १०, २२; ९,
१, १७××; शाश्री १३, २९, ३२;
१४, ६, ४××; काश्री १६, ५,
२; २२, ५, ६××; आपश्री २२,
७, १; १८, ५××; †वौश्री १०,
३५ : ६; १४, २२ : ११××;

माश्री ३, ८, ७; हिश्री १७,
२, ३२; ३, १६××; लाश्री
६, २, ४; ५, ११××; निसू
१, १० : ५; १०××; -वृत्तम्
काश्री १, ३, २३; ६, २, १३^३××;

आपश्री १२, १४, १०; २१, ६,
१०; वौश्री १, २ : २८; १३ :
१९××; माश्री १, ६, ५; वाश्री
१, २, २, १; ३, २, १, ४२;
हिश्री १, २, ७४; ७५;

†वैताश्री १०, १७; २६, ८;
निसू ४, ११ : १३; ७, ५ : १२;
७ : ३५; १०, १३ : १७; शांश्री
१, १२, ६^३; पाश्री १, १५, ६;
आमिश्री १, १, २ : ३८; आपश्री

१३, ११; काश्री ४१, १२; भाश्री
१, २ : ६; हिश्री १, ४, ५; १२,
१०; गोश्री १, ७, १०; जैश्री १,
१८ : ३; १९ : ३; १८; द्राश्री १,
२, ११; अप २२, ७, २; अशा
१९, २; ५; ७; वैध २, ६, २; अअ
५, २८; -वृता आश्री १, ३, २२;
१२, ३, ३××; शाश्री १४, २७,
५; ११××; काश्री २, ७, १;
१६, ३, ५; आपश्री १२, १८,
१२; २२, ६, ५××; †वौश्री ३,
२७ : २२; १४, २० : १५××;

भाश्री १०, ६, १०; माश्री १, ८,
२, २४××; वाधुश्री ४, २६ :
६; वाश्री १, ६, ३, २०; वैश्री १५,
१९ : ६; २१ : ११××; हिश्री ८,
५, १३; ११, १, ३४; ×× लाश्री ९,
७, ९; १०, ४, ४^३†; लुसू १, १० :
२०; निसू ९, १३ : १०^३; ३७^३;
१०, १ : ३५^३; कौश्री २, १, २९;
आमिश्री १, १, ४ : २८; ४३××;

वौश्री १, ८, ४; २, २, १३××;
वौपि ३, १०, २; भाश्री १, ६ : ६;
हिश्री १, ७, २२; ८, ७; हिपि १३ :
९; जैश्री २, १ : २२†; अप्राय;
-वृताम् आश्री ११, ५, ३;
लाश्री ८, ७, २; १०, १४, ८;
-वृत्ति शाश्री १२, २, ११;
काश्री १६, ५, १; निसू ४, ७ :
१०; शांश्री १, २२, १०^३; कौश्री
१५, १; १९, ८; २२, १२;
याशि १, २५; मीसू १०, ६, २२;
-वृत्ती आपश्री २२, २०, ८;

१० : ३; ९, १३ : ११××;
कौश्री १, ३, ८; १४, ११†; शांश्री
१, ८, २; २३, १५; आमिश्री २,
२, ४ : ७; वौश्री १, २, ११; वैश्री
३, १० : ७^३; हिश्री १, १२, ११;
२, ५, २; कप्र १, १, २^३; ७, ७;

अप्राय ६, ३†; अप ४८, १३६;
आपध १, २, ३३; वौध १, ५, ५;
२, १०, १३; ४, ५, ७; हिध १,
१, ६५; वृदे १, ११५; चाअ
१७ : ३†; या ७, ८; १२†;

†भाशि ६६; ७०; ९४; १०७;
-वृत्तः आश्री ६, १०, २२; ९,
१, १७××; शाश्री १३, २९, ३२;
१४, ६, ४××; काश्री १६, ५,
२; २२, ५, ६××; आपश्री २२,
७, १; १८, ५××; †वौश्री १०,
३५ : ६; १४, २२ : ११××;

a) विप. । वस. । b) विप. ([त्रिशाखा-] मेथी-) । वस. उप. < विष्वन्- । c) = स्वर्ग- ।

कस. पू. = नृतीय-, उप. = भुवन- । d) वैप १ द्र. । e) विप. (स्तोमानां पर्याय-) ।

f) इति शोधः (वु. C.) । g) कस. उप. = कर्पू- । h) सप्र. आपश्री ७, ११, ५ त्रिः प्रदक्षिणं

वृषम् इति पाठः । i) सपा. कौश्री १, ८, ६ 'ता-> -ताम् इति पाठे । j) सपा. 'वृत्ति <> 'वृत्ते इति

पाठे ।

निस् ७,७ : २९; जैगृ १, १८ :
२; -वृते शांश्रौ ९, २७, ११;
माश्रौ ६, २, ६, ४; हिश्रौ १४, २,
३५१; वैताश्रौ २६, ८१; -वृते-
ऽवृते ऋष ३६, ९, १३; २३;
-वृतौ लाश्रौ १०, १०, ७;
-वृद्धिः आपश्रौ ५, ६, १;
वौश्रौ २, ६ : २५; हिश्रौ ३,
२, ५१; -वृन्ति आश्रौ ११,
५, २; शाश्रौ १४, १२, ६;
२५, २××; आपश्रौ २२, २३, ६;
२३, ८, ३××; वौश्रौ २६, १६ :
४; हिश्रौ १७, ८, २४; १८,
३, ३३.

त्रिवृच्-छिरस्^a - रसम्
आपश्रौ १, ६, ५; भाश्रौ १, ६,
५; वैश्रौ ३, ५ : ५.

त्रिवृत्-पञ्चदश^b - शयोः
निस् ४, ११ : ४; २४; १०,
१० : १८; -शे शांश्रौ १५, ६,
२; लाश्रौ १०, १८, ७; जुस् १,
१० : २; -शौ शांश्रौ १३, २१,
२; १४, २९, ४; वौश्रौ १८, ३० :
१८; ३५ : ९; २५, ५ : ११; निस्
४, ११ : २५; १३ : ८; ७, ९ : २६.

त्रिवृत्पञ्चदश^c - शाः
लाश्रौ ८, ११, ८; निस् ८, ४ :
२५; -शम् निस् ८, ४ : ३१;
१०, १० : १६; -शाः आश्रौ
१२, १, २; आपश्रौ २३, ९, ४;
-शानि गांश्रौ १४, ३३, ३.

त्रिवृत्पञ्चदश-स्तोम^d -
माः काश्रौ २४, ४, ३; -मे

काश्रौ २४, ६, २४.

त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदशै(श-ए)
काविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश- -शाः
काश्रौ २२, ६, २६; वैताश्रौ ३५,
१६.

त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदशै(श-ए)
काविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश-नव-सप्त-
दश- -शेषु वैताश्रौ ४०, ८.

त्रिवृत्-पवमान^e - नः, -नस्य
जुस् १, ११ : १५.

त्रिवृत्-प्रभृति- -तयः शांश्रौ
१६, २१, ३; -तीनाम् शांश्रौ १३,
२४, ५; २८, ५.

त्रिवृत्-प्राशन- -नम् वैगृ ३,
१२ : ६; १९ : ४; २२ : २.

त्रिवृत्प्राशना(न-आदि)-
-दीनि वैगृ ३, ११ : ६.

त्रिवृत्-सप्तदश- -शौ वौश्रौ
१६, २८ : १६; निस् ७, ९ : ६.

त्रिवृत्-स्तोम- -माः निस्
८, ८ : २५; -मे लाश्रौ ६, १,
१८; -मेन शांश्रौ १४, ५१, २.

त्रिवृत्-स्तोम^f - मः निस्
१०, १३ : २१; -मम् शांश्रौ
१०, २, १; १३, २१, ९.

त्रिवृद्-आदि-वत् वैताश्रौ
४१, १४.

त्रिवृद्-इष्टका- -काः वैश्रौ
१८, २१ : २४.

त्रिवृद्-उत्तम^g - माः आपश्रौ
२३, १०, ५; हिश्रौ १८, ४, १.

?त्रिवृद्-दशरात्र- -त्रस्य
शांश्रौ १२, ९, १६.

त्रिवृद्-देवता->°त्य-
-स्यम् अत्र ५, २८; १९, २७.
त्रिवृद्-वहिष्पवमान- -नेन
काश्रौ २५, १३, ३८.

त्रिवृद्-रायन्तर^h - -रःⁱ
आपश्रौ १४, ४, ३; -रम्^j हिश्रौ
९, ७, ४९.

त्रिवृद्-वत् मीसू १०, ६, १५;
६, १७.

त्रिवृन्-मुञ्ज-पञ्चाङ्गी-
वद्- -द्वाः काश्रौ १६, २, ४.
त्रि-वृत्, ता^k - ता काश्रु ७, १३;
-ताम् कौगृ १, ८, ६^l; आमिष्ट
१, १, १ : १६; आपगृ १०, ११;
वौगृ २, ५, १३; वैगृ २, २ : ३;
हिगृ १, १, १७^m; -ते कौगृ १,
१४, ८ⁿ.

त्रिवृती^o / कृ^p > °ती-कृत-
-तम् अत्र २०, ७, १.
त्रि-वृषन्-> त्रैवृष्ण^q - ष्णः
वृदे ५, १३; १४.

त्रैवृष्ण-पौरकुत्स्य- -स्त्यौ
ऋअ २, ५, २७; साअ १, ४३२;
२, ८५६.

त्रि-वेणो^r - (> त्रिवण->
त्रैवण- पा. l > °गीय पा ४, २,
९०.) पाग ४, १, ११२.

त्रि-वेद^s - -दः वौश्रौ १८, १ : ६.
त्रिवेद-संयोग- -गात् काश्रौ
२५, १४, ३७.

त्रि-वेदस्^t - -दसः वौश्रौ १७,
२१ : १; -दाः वौश्रौ १८,
३२ : १५; ३३ : १२.

a) विप. । वस. । b) द्वस. पुं. न. । c) मत्वर्थे षच् प्र. । d) यनि. समस्तमित्त ?C. ।

e) उप. स्वार्थे ञण् प्र. f) परस्परं पाभे. । g) = त्रि-वृत्- । उस. उप. कर्मणि कः प्र. ।

h) पाभे. पृ १२०७ k टि. द्र. । i) Bōht. (ZDMG [४३, ५९९]) त्रिवृत्- > -तम् इति शोधः अकि-
ञित्कः । j) पाभे. पृ १२०७ m टि. द्र. । k) वैप १ द्र. । l) व्यप. । वस. ? । m) नाप. (ब्रह्मन्) ।

अध्ययनार्थीयस्य प्र. लुक् (पा ४, १, ८८) । n) उप. = वेद- ।

त्रि-वेदि-सहित- -तम् वैध १, ६, ५.
 त्रि-व्या(म>)मा^३- -मा काश्रौ ६, ३, १३; -माम् काठश्रौ ५२.
 त्रि-व्याया(म>)मा^३- -मा आपश्रौ ७, ११, २; भाश्रौ ७, ८, १८; माश्रौ १, ८, २, २३; -माम् वाश्रौ १, ६, २, ११; वैश्रौ १०, ७ : २; हिश्रौ ४, २, २७; ६१.
 त्रि-व्रत^३- -तम् अप ४६, ८, ४.
 त्रि-शक्र^०- -क्रम् शंघ १२६ : ५०.
 त्रि-शङ्कु^३- -ङ्कुः अप ५२, १०, १.
 त्रि-शत^०- -तम् शंघ १४७.
 त्रिशती- -ती वैज्यो २८;
 -तीम् विध ४७, ९.
 त्रिशत-स्तोत्री(या>)य^३-
 -यम् छुस् ३, २ : २९.
 त्रि-शत^३- -तम् शाश्रौ ९, २०, १३; -ताः या ४, २२^१।
 त्रि-शब्द- (> त्रैशब्द्य- पा.)
 पाग ५, ४, २३.
 त्रि-श(य>)या^३- -याम् माश्रौ १, ७, ३, १३.
 त्रि-शस्(ः)ऋद्रा १८, ५०; ५१.
 त्रि-शा(खा>)ख^३- -खः वाश्रौ ३, ४, ५, २२; -खम् कौस् ९०, ३.
 त्रि-शाण-> त्रिशाण्य-,
 त्रैशाण- पा ५, १, ३६.

त्रि-शि(खा>)ख^३- -खः वीगृ २, ४, १७; -खाः अप ५२, ३, २.
 त्रि-शिरस्^३- -राः अप ५२, ८, १; ऋश्र २, १०, ८; वृदे ६, १४७; १४९; १६२; शुश्र २, १४८; साश्र १, ७१.
 त्रि-शिल^०- -ले कौस् ३६, १५; १७; १८^१.
 त्रि-शीर्ष^३- -र्षाय अप ३६, ९, २.
 त्रि-शीर्षन्^३- -र्षणम् शाश्रौ १४, ५०, १; वाध ५, ८; -र्षणः चाश्र ४ : ७; १३ : ३.
 त्रि-शुक्^३- -क्कः आपश्रौ २२, ७, ७; वौश्रौ १८, १ : ४; ६; हिश्रौ १७, ३, ७.
 त्रि-शुक्रिय^३- -यः शाश्रौ १६, २२, २९; -यम् द्राश्रौ १, १, १६.
 त्रि-शुक्^३- -क्काः वैगृ ५, १३ : २.
 त्रि-शुक्^३- -शुक्^३ शाश्रौ ७, १६, ८; वौश्रौ ८, ३ : १७.
 त्रि-शोक्^३- -क्कः ऋश्र २, ८, ४५; शुश्र १, ४७४; ३, १८५; साश्र १, १३३; १३६; १६१; २०७; २१६; अश्र २०, ४३^३;
 -काय वृदे ६, ८१.
 त्रैशोक^०- -कम् जुस् १, २ : ९; सस् ३७, ६६; -काय जुस् १, २ : १७.
 त्रैशोक-वैखानस- -से निस् ८, ४ : ६.

त्रैशोकौ(क-श्रौ)र्णायव-
 भास- -सैः^३ सस् ३५, ३८.
 त्रि-श्ये(त>)ता^३- -तया माश्रौ १, ७, २, २३; मागृ १, १२, २^३; १५, १^३.
 त्रि-श्रुत्^३- -श्रुत्^३ आश्रौ ५, १३, ६^१.
 त्रि-श्रेणि^३- -णि वौश्रौ ११, ३ : २३; २४; २२, १४ : ५.
 त्रि-श्रेणि-नर्त- -नर्तन् वौश्रौ ६, २६ : १०.
 त्रि-श्वे(त>)ता^३- -तया^३ कौगृ १, १४, ७; वागृ १६, १०; गोगृ २, ७, ८.
 त्रि-पं(<सं)युक्त^३- -क्तम् वाश्रौ ३, ३, १, २८; हिश्रौ १३, ३, ४४^३;
 -क्तुषु काश्रौ १५, २, ११; -क्तैः वौश्रौ १२, ४ : २४; २६, ३ : ४; हिश्रौ १३, ३, ४३.
 त्रि-पं(सं)वत्सर^३- -रम् काश्रौ २४, ५, १२; आपश्रौ २३, १४, १०^३.
 त्रि-पं(सं)वत्सरो(र-उ)पसक्त^३-
 -क्तम् काश्रौ २४, ५, ६.
 त्रि-पं(<सं)त्य^३- -त्याः वौव २, १०, २८; ४, २, ११.
 त्रि-पं(<सं)धि^३- -धिः अश्र ११, ९^१; -धीनि कौस् १६, २४; -०धे शौच ३, ६५^२.
 त्रि-पं(<सं)निपात- -ते वौगृ

a) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । उप. = व्यायाम- । b) विप. । वस. । c) = सरुद्विशेष- । ऋः इति शक. । तु. वायु- । d) व्यप. । वस. । e) समाहारे द्विस. । f) वैप १ द्र. । g) वैप १, १५१८ d द्र. । h) उप. = हस्त- । i) विप., व्यप. (विश्वरूप-) । j) वैप २, ३३^३ द्र. । k) पाभे. वैप १, १५१८ h द्र. । l) = त्रि-शुक्^३ । m) पाभे. वैप १, १५०५० द्र. । n) °क्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ८, ४५) । o) = साम-विशेष- । p) °र्णसभा (सै? रथैः) इति पाठः ? यनि. शोधः । q) विप. । तस. । r) व्री° इति वसं. ? । s) सप्र. त्रि-श्ये<> त्रि-श्वे<> त्रि-श्वे° इति पाभे. । t) 'श्येनया इति वसं. । u) पाठः ? त्रि-शुक्-> -शुक् इति शोधः (तु. m टि.) । v) वस. । वा. किवि. । w) = क्रतु-विशेष- । तद्धितार्थे द्विस. । x) सप्र. त्रि-पं<> त्रि-सं<> त्रि-सां° इति पाभे. । y) विप. । समाहारे द्विस. > वसं. । z) वैप १, १५१८ u द्र. ।

त्रैष्टुभ-जागत- -तात्
निसू ५, ९ : ५; -तानि
ऋप्रा १८, ६२; -ते शांश्री १८,
६, ५; माश्री ४, २, २७; -तौ
ऋप्रा १७, ३८.

त्रैष्टुभ-जागत-चतु-
ष्क- -ष्काः ऋप्रा १, ५, ४; शुभ्र
५, २७.

त्रैष्टुभ-ता- -तया
निसू १, १२ : ४.

त्रैष्टुभ-प(द>)दा^१-
-दा ऋप्रा १, ९, १; शुभ्र ५, ६०.

त्रैष्टुभा(भ-अ)नुग^२-
-गम् पाशि ८.

त्रैष्टुभौ(भ-श्री)
ष्णिह- -हौ ऋप्रा २, १, ७९.

त्रिष्टुक्-शब्द- -ब्दः भाशि
३२.

त्रिष्टुक्-माध्यंदिन^३- -नः
वौश्री १६, १० : ६.

त्रिष्टुप्-छ(<श)त- -तम्
शांश्री १८, १९, १.

त्रिष्टुप्-छन्दस्- -न्दः
जैश्रीका १४५.

त्रिष्टुप्-छन्दस^४- -न्दसः
आश्री ५, १३, ६××; शांश्री;
-न्दसा वौश्री २६, १५ :
११××; द्राश्री; -ऋन्दाः शांश्री
६, ८, ११; काश्री; जैश्री ११ :
१७?०.

त्रिष्टुप्-तृतीयसवन^५- -नः
वौश्री १६, १० : ७.

त्रिष्टुप्-त्व- -त्वम् या ७,
१२.

त्रिष्टुप्-प(र>)रा^६- -रा

अथ १, १४.

त्रिष्टुप्-पूर्(र्व>)र्वा^७- -र्व
ऋप्रा २, ६, १६.

त्रिष्टुप्-प्रातःसवन^८- -नः
वौश्री १६, १० : ७; -ने वौश्री
२६, १५ : २०.

त्रिष्टुप्-शक्वर्य(री-अ)
न्त- -न्तम् ऋप्रा २, १०, ११५.

त्रिष्टुप्-संपन्न- -न्नानि
निसू ७, ५ : १८.

त्रिष्टुप्-अनुष्टुभ्-
-ष्टुभौ लाश्री ७, १३, १०; शुभ्र
२, ५१; -ष्टुब्भ्याम् शुभ्र ३,
१२५.

त्रिष्टुवनुष्टुव्-ग(र्भ>)
र्भा^९- -र्भा अथ १२, १.

त्रिष्टुव्-अन्त- -न्तम् ऋप्रा
२, १, ६४××; अथ २०, ९४;
-न्तस्य ऋप्रा १, १२, १३; -न्ते
ऋप्रा २, ९, ८२.

त्रिष्टुव्-अ(नया>)न्त्य^{१०}-
-न्त्यम् शुभ्र ३, १३७.

त्रिष्टुव्-आदि- -दि अथ
२०, ९४.

त्रिष्टुव्-उत्तम^{११}- -मे आश्री
७, १२, १८.

त्रिष्टुव्-उत्तर^{१२}- -रः ऋप्रा
१८, २८; -रौ ऋप्रा १८, ३१.

त्रिष्टुव्-उष्णिग्-ग(र्भ>)
र्भा- -र्भा अथ ८, ८,

त्रिष्टुव्-ग(र्भ>)र्भा^{१३}-
-र्भा अथ ९, १; १०, ५; ११;
११, १०; १४, २.

त्रिष्टुव्-गायत्री- -त्र्यौ शुभ्र
४, ६७.

त्रिष्टुव्-जगती- -न्तीः निसू
५, ९ : ९; -तीनाम् शांश्री ७,
२६, ४; -तीभ्यः आश्री ६, ५,
१६; -त्योः लाश्री ७, १३, ११;
उनिसू १ : ५९; -त्यौ शांश्री
७, २७, ३०; ऋप्रा १८, ५९;
उनिसू १ : ५४; ७ : ३३.

त्रिष्टुव्-बृहती-ग(र्भ>)
र्भा^{१४}- -र्भा अथ १२, १.

त्रिष्टुव्-बृहत्य(ती-अ)
नुष्टुव्-अन्त- -न्तम् ऋप्रा २,
६, ६०.

त्रिष्टुव्-व(त्>)ती- -ती
आश्री २, १४, २०.

त्रिष्टुव्-विराज्- -राजोः
शांश्री ७, २७, २२.

त्रिष्टुव्-विराद्-जगती- -त्यः
ऋप्रा २, ८, ९.

त्रिष्टुम्-मध्य^{१५}- -ध्यम् ऋप्रा
२, १०, १६४.

त्रिष्टो(<स्तो)म^{१६}- -मः
आपश्री १८, २२, १८; २२, २४,
२९; -मम् वौश्री २६, १४ :
१०; १४; -मानि शांश्री १६,
२२, ८; -मेन शांश्री १४, ५१,
२; १५, १६, १०.

त्रिष्टोम-ज्योतिष्टोम- -मौ
काश्री १५, ९, २०.

त्रि(स्थ>)ष्ट- पा ८, ३, ९७.

त्रिस्(ः)^{१७} आश्री १, २, १९××;
शांश्री; आपश्री ७, ११, ५^{१८}; वाघ
२०, २८^{१९}; आपश्री १, २४, २१^{२०};
द्विष्ट^{२१} १, ६, ६९; या ३, २१^{२२};
७, १२; त्रिःत्रिः आश्री २, २,
११; शांश्री.

a) विप. । वस. । b) विप. । उस. । c) °देति (=°न्दाः इति) इत्यत्र सन्धिरार्षः (तु. तांरा
१, ५, १२) । d) वैप १ द्र. । e) तु. पृ १२०७ h द्र. । f) सप्र. गौध २२, ७ इत्यत्रम् इति, मनुः ११,
८० त्रिवारम् इति च पाठे. ।

त्रिः-प्राय^३- -यम् आपध २,
१७, १४; हिध २, ५, ४२.

त्रिः-प्लक्ष^३- -क्षम् आपधौ
२३, १३, १४^६.

त्रिः-अभ्यास^३- -साः माश्रौ
२, १, ३, १९^६.

त्रिः-आगव^३- -वम् याशि
१, १२.

त्रिः-उपसक्त^३- -त्कः माश्रौ
४, ३, ४९.

त्रिः-उपेत- -तः निस् २,
१२ : १०.

त्रिः-एकादश^३- -शाः
आपधौ ४, ४, १; १६, १, ३;
वौश्रौ ३, २७ : ३२; माश्रौ ४,
४, ३; हिश्रौ ११, १, ६.

त्रिः-वचन^३- -नस्य माश्रौ
५, १, ३, १३.

त्रिः-शुक्ल^३- -क्या
कौसू २९, १२.

त्रिः-श्चे (त^३)ता- -तया
शांश्रु १, २२, ८^६.

त्रिः-ताव, वा^३- पा ५, ४,
८४; -वः आपधौ २०, ९, १;

वौश्रौ २६, १० : ७; आपशु २१,
१०^६; वौशु २१ : १३^६; हिशु
६, ६८^६; -वा वाश्रौ ३, ४, १,

५३; हिश्रौ १४, ६, १६.

त्रिः-सप्त^३- -सैः आपशु ९,
५; गोश्रु २, ६, ६.

त्रिः-सप्तन्->त्रिः-सप्त-

कृत्वस् (ः) शंघ १७९; वौध
१, ५, ४२; काध २७८ : ३.

त्रिः-सप्त-पुरुष- -वैः अप
११, २, ४.

त्रिः-सप्त-मार्जन- -नात्
शंघ १६५.

त्रिः-स्ताना (न-अ)क्षार-
भोजन- -नम् अप ३८, ३, ३.

त्रि-संयुक्त- -क्तेन माश्रौ ५, २,
७, १६.

त्रि-सं, सां^३वत्सर^३- -रम्
शांश्रौ १३, २८, ४^६; हिश्रौ १८,
४, ६५^६; लाश्रौ १०, २०, १३.

त्रि-संवत्सर- -रम् वैध १, ३, ५.

त्रि-सं(स्था>)स्थ^३- -स्थौ शांश्रौ
१४, ४२, १७.

त्रि-सङ्गम- -मे ऋप्रा ११, १८.

त्रि-सत्ता- -त्तायाम् कौसू १४१,
३७.

त्रि-स (न्ध्या>)न्ध्य- -न्ध्यम्
कौश्रु ३, ९, ४; शांश्रु ४, ७, ४;
पाश्रु.

त्रि-ससति- -तिः काशु ७, २८;
३६.

त्रि-ससन्^३- -स भाशि ९४.

त्रि-ससन्क^३- -कम् वौध ४,
५, १६.

त्रि-ससाह- -हात् विध १४, ४.

त्रि-सहस्र- -स्रम् वाश्रौ ३, ४,
३, ४५.

त्रि-सहस्र-युक्त- -कम् ऋष्य

३, ४५.

त्रि-सांवत्सरिक^३- -कम् वृदे ५,
१७.

त्रि-सागरा(र-अन्त>)न्ता-
-न्ता अप २४, ५, २.

त्रि-सुपर्ण^३- -र्णम् वाध २८,
१४; शंघ १०५; विध ५६, २३.

त्रि-सुपर्ण^३- -र्णः वाध ३,
१९; आपध २, १७, २२; वौध
२, ८, २; विध ८३, १६; हिध
२, ५, ५०; गौध १५, २८.

त्रि-सुपर्णिन्- -र्णी अप ४४,
२, ४; शंघ १९९.

त्रि-सौपर्ण^३- -र्णः शंघ २००.

त्रि-सूक्त^३- -क्तः ऋष्य ३, १५.

त्रि-स्तन^३- -नम् काश्रौ ८, ३,
१; आपधौ; -नानि आपधौ
१६, ३५, १०; वैश्रौ.

त्रि-स्तन-द्विस्तन- -ने माश्रौ
२, २, १, ४९.

त्रि-स्तन-द्विस्तनै (न-ए)-
कस्तन-व्रत- -तस्य वौश्रौ १८,
३२ : १३; २६, ३२ : २३.

त्रि-स्तन-व्रत- -तम् वौश्रौ
६, १० : १०; २१ : २३^६; २४;
२७^६; १०, १९ : १३; २३ : ४, ५.

त्रि-स्थान->न्ता(न-अ)धि-
ष्टि(त>)ता- -ताम् वृदे ८, ११.

त्रि-स्थान, ना^३- -नः शुश्रु २,
३११; या ९, २५; -नम् वृदे
१, ६५; शैशि ३५२; -नाम्

a) विप. । वस. । b) समाहारे द्विस. । c) सप्र. तां २५, १३, ४ त्रिप्लक्षान् इति पाभे. । d) उप.

= अणु-परिमाण. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. पृ १२०९ S टि. द्र. । g) विप. (वेदि-, अग्नि-) ।

h) शांश्रौ. पाठः । i) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । निर्वृतेऽर्थे अण् प्र. उप. वृद्धिर्विभाषया उंसं. (पा ७, ३, १५) ।

j) पाभे. पृ १२०९ X टि. द्र. । k) ग्राम्याः (तै ६, १, ८, १) इति प्रकरणे त्रयः सप्त-शब्दा इति भावः ।

l) विप. । तेन निर्वृतीयः कम् प्र. उंसं. (पा ५, १, ९०) । m) = त्रि-संवत्सर- । उप. उण् प्र. (पा ५, १, ७९) ।

इति विशेषः । n) वैप २, ३ खं. द्र. । o) नाप. (ऋ १०, ११४, ३-५ इति सुपर्णशब्दोपेतमन्त्रत्रयाध्यायिनः) ।

अध्ययनार्थायस्य प्र. लुक् । p) तद्वीति तद्वेदेत्यर्थे अण् प्र. उप. वृद्धिश्च ।

निसू ७, २ : ६; ८, ६ : ९.

त्रि-स्वर-पावाग ५, १, १२४.

त्रैस्वर्य-पावा ५, १, १२४;

-र्यम् माशि ६, १; याशि २,

२९; नाशि २, ५, २.

त्रैस्वर्यो(र्य-उ)पनय-येन
आशि ६, २.

त्रि-हलिका-ग्राम^a-मे विध
८५, २४^b.

त्रि-हविस्^c-विः आश्रौ २, १४,

६; शाश्रौ; -विपः माश्रौ ५, १,

१, ३३; -विपम् आपश्रौ १६,

८, ११; १८, २१, १६; वौश्रौ;

-विषा आपश्रौ २०, ८, ११;

माश्रौ ५, १, ५, १८××; -विषाम्

माश्रौ ५, २, ६, २०.

त्रिहविष्(क>)का^d-क्या
काश्रौसं ३ : ३.

त्रि-हस्त-स्तः काशु ७, २.

त्रि-हायण^e-णम् वाश्रौ ३,

४, १, १४; विध ५०, ३९; -णेन

वौश्रौ २६, ३२ : १२.

त्रिहायणी-पावा ४, १, २७;

-णी हिश्रौ ७, २, १६; -णीम्

माश्रौ ५, २, १०, २; -ण्यः

काश्रौ २२, ९, १३; -ण्याः कौस्

१२, ८; काशु ७, २३.

त्रिहायणी-बाल^f-लाः

काशु ७, २४.

त्रि-हायण->त्रैहायण^g-

-णात् शौच ४, ८३.

त्रि-हायन-नाः वाश्रौ ३, ४, ३,

१८; -नेन काश्रौसं २७ : १४.

त्री(त्रि-इडा>)ड^h-डम् लुस्

१, ७ : २०.

त्रीणि-प्रभृतिⁱ-तिभिः कौस्

८१, ४१.

त्री(त्रि-इ)पु^j-पु शाश्रौ २, २, ७.

त्रीपु-क^k-कम् काश्रौ २५,

४, ४५.

त्रे(त्रि-एत>)णी^l-णीम्

वौश्रौ ५, १ : ३; ५ : २; १० :

२; १८ : २; -ण्या काश्रौ ५, २,

१५; वौश्रौ ५, ४ : २४××;

माश्रौ; आमिष्ट २, १, २ : ९?!

त्रेता^m-त्ता शाश्रौ १५, १९, ११^k;

वाधूश्रौ ४, ५९ : ४^k; विध २०,

८^k; -तायाम् शंभ १३८^l.

त्रेता-कलि-च्छन्दस्-

-न्दांसि निसू १, ६ : ४.

त्रेता-स्तोम-माः निसू १,

९ : ८; १५-१७.

त्रेता-स्थान-नम् निसू १,

६ : ५.

त्रेधा शाश्रौ १२, १६, १^k;

काश्रौ ५, १, १९; आपश्रौ; या

७, २८^k; १२, १८^k; १३, ७;

पा ५, ३, ४६.

त्र्यं(त्रि-अ)शⁿ-शः^p वेज्यो

२७^o; -शाम् वाध १७, ४८.

त्र्य(त्रि-अ)क्तो(क-उ)दुस्वर-

समिध्-मिधः अप ३६,

२०, १.

त्र्य(त्रि-अ)क्षर^q-रम् निसू

३, ४ : ७; -राणाम् निसू १, ६ :

२१; -राणि निसू २, १२ : ३३;

-रेण आमिष्ट २, ४, १२ : ४.

त्र्यक्षर-णि(<नि)घन^r-

-नम् निसू ६, ८ : १९.

त्र्यक्षर-प्रभृति-तीनाम्

कृत ५, २, ५.

त्र्यक्षर(र-अन्त>)न्ता^s-

-न्ताः कप्रा २, ५५.

त्र्य्य(त्रि-अ)क्षर, रा^t-रम्

वाधूश्रौ ४, १०० : ५; लाश्रौ;

-राः निसू २, १२ : ३२; -राणि

लाश्रौ ७, ७, ७; -रेण वाधूश्रौ

४, १०० : २२.

त्र्य(त्रि-अ)ङ्ग^u-ङ्गणाम् वौश्रौ

४, ९ : ७; २५, ३२ : ६; १८;

माश्रौ ७, १९, ४; माश्रौ १, ८, ५,

१९; माश्रु २, ४, ११; तैप्रा ७,

१०^k; -ङ्गणि माश्रौ ७, १९, ४;

हिश्रौ ९, ८, ३९; -ङ्गानि आपश्रौ

१४, ७, ८; वौश्रौ ४, ८ : ६; कौस्

४५, ४^k; -ङ्गेषु आपश्रौ २०,

१८, १३; -ङ्गैः मीस् १०,

७, ११.

त्र्यङ्ग-वत् मीस् १०, ७, १२.

त्र्य(त्रि-अ)ङ्गुल, ला^v-लम्^w

काश्रौ ६, १, २८××; आपश्रौ

७, ३, ६; ८, ५, १०^t; वौश्रौ;

-लाम् आपश्रौ २, २, ७^t; हिश्रौ

a) = तीर्थ-विशेष-। b) काश्रमे इति जीसं.। c) विप.>नाप. (इष्टि-विशेष-। वैतु. MW. विप. इति)। वस.। d) विप.। तद्वितार्थे द्विस. णत्वम् उरसं. (पावा ४, १, २७)। e) उप. = केश-। f) वैप १ द्र.। g) विप.। वस.। h) पूष. त्रीणि (शौ १८, १, १७)। i) = त्रेणी-। पररूपम् उरसं. (पावा ६, १, ९४)। j) त्रै० इति पाठः? यत्रि. शोधः; k) = युग-विशेष-। l) = अग्नि-। m) समाहारे द्विस. (तु. विध १८, ३)। n) कस. पूष. = तृतीय-। o) शौ इति कासं.। p) कस. वा द्विस. वा। q) कस.। = दक्षिण-दोस्, सव्या-श्रेणि-, गुद-। तु. माश्रौ ७, १९, ४ प्रसू.। r) विप.। तद्वितार्थे द्विस.। पाप. (५, ४, ८६) तु °लि- + समासान्तःअच् प्र.। s) कचित् वा. किवि.। t) नसप्र. °लम् <> °लाम् इति पाठे.।

१, ६, ९४; वैगृ २, ३ : ११; -ले
वौश्रौ ९, ३ : १८××; वैश्रौ;
-लेन वैश्रौ १०, ७ : १२; हिश्रौ
४, २, ३८××.

व्यङ्गुल-खा(त>)ता-त्ताम्
काश्रौ २, ६, १.

व्य(त्रि-अ)ङ्गुलि^१->लि-नि-
(त्र>)न्ना-न्ना वैश्रौ ११, ८ :
४.

व्य(त्रि-अ)ङ्गुष्ट^२-ष्टम् कप्र १,
७, ९.

व्य(त्रि-अ)धिक,का^३-का ऋअ
२, १, ९१××; अअ १८, ३; अपं
४ : ३४; वेज्यो ३८; -कान्
अपं ४ : ४०; -केपु वौध १, २,
९.

व्य(त्रि-अ)नीक,का^४-का
आपश्रौ २२, १४, ४; २२, ९^५;
-का: हिश्रौ १६, २, १२; ७, २२^६;
-कान् वौश्रौ २६, १६ : १८;
-काम् आपश्रौ २२, १४, १; २२,
७; हिश्रौ १६, ७, १६; -कायाम्
मीसू १०, ५, ७७.

व्यनीका-प्रवृत्ति-न्ति: मीसू
१०, ५, ८३^७.

व्य(त्रि-अ)नुतोद^८-दम्
निसू ३, १२ : ११; १६^९.

व्य(त्रि-अ)नुवाका(क-अ)न्त-
न्ते काश्रौ १८, १, २.

व्य(त्रि-अ)नुपुव्-अन्त-
न्तम् ऋअ २, २, ३२.

व्य(त्रि-अ)नुपुव्-ग(र्भ>)
र्भा-र्भा अश्रौ १०, ९.

व्य(त्रि-अ)नूयाज^{१०}-जम्
आपश्रौ ८, २०, ७.

व्य(त्रि-अ)न्तर^{११}-र: द्राश्रौ ३,
४, ८^१; -रम् नाशि १, १, ३;
-रेण लाश्रौ १, ११, २७^१.

व्य(त्रि-अ)पक्रम-मम् वैश्रौ
१, ५ : २.

व्य(त्रि-अ)द्द-द्दाव् कप्र १,
६, ८.

व्य(त्रि-अ)भिक्रम-मे ऋप्रा
११, २६.

व्य(त्रि-अ)भिप्लव-वम् काश्रौ
२४, २, २७.

व्य(त्रि-अ)म्बक^{१२}-क: या
१४, ३२; -कम् काश्रौ ५, १०,
१३^{१३}; आपश्रौ ८, १८, २^{१४}; ३^{१५};
४^{१६}; वौश्रौ ५, १६ : १४; १९^{१७};
२३^{१८}; भाश्रौ ८, २१, ९^{१९}; १०^{२०};
वाश्रौ १, ७, ४, ७^{२१}; वैश्रौ ९,
११ : ७^{२२}; हिश्रौ ५, ५, १५^{२३};
१८^{२४}; द्राश्रौ १३, २, १३; ३, ३^{२५};
लाश्रौ ५, ३, ५; ७^{२६}; वैताश्रौ ९,
१९^{२७}; काश्रु २५, ३७^{२८}; माश्रु
२, ३, ५; वैगृ ३, १७ : ५^{२९}; ४, ९:
५^{३०}; वृदे ६, ३९; शुअ १, २२^{३१};
या १४, ३२^{३२}; उस् ८, ३५^{३३};
शैशि ३२^{३४}; -कस्य अप ३१,
२, ३; ५२, १५, ५; -कान् शांश्रौ
१४, १०, २१^{३५}; -कान्^{३६} आश्रौ
२, १९, ३७; शांश्रौ ३, १७, १०;
वौश्रौ १४, ८ : ६; वाश्रौ १, ७,
४, १३; १५; तैप्रा ६, १४^{३७};
-काय गौध २६, १२; -कै: वाश्रौ

१, ७, ४, ५९^{३८}.

१त्रैयम्बक^{३९}-कम्

वैताश्रौ ९, १८; -का: वौश्रौ
२५, ३ : १५; हिश्रौ १४, ३, १८;
द्राश्रौ १३, २, १०; लाश्रौ ५, ३,
१; -काणाम् वौश्रौ ५, १६ :
१०; १८; २१, ५ : १९; २७;
२४, ३ : १८^{४०}; -कान् काश्रौ
५, १०, १; आपश्रौ २०, १४,
१३^{४१}; वौश्रौ ५, १६ : २^{४२}; वैश्रौ
९, १० : ९; हिश्रौ ५, ५, १;
-कै: आपश्रौ २२, ८, २०;
काश्रौसं २९ : १०; वौश्रौ १५,
११ : ४^{४३}; १७, ५७ : २५, ६२ :
१०.

व्यम्बक-वत् काश्रौ १५, २, ३.

व्य(त्रि-अ)रलि^{४४}-न्ति: काश्रौ
६, १, २४; आपश्रौ ७, २, १७;
वौश्रौ २४, ३५ : ७; भांश्रौ ७, २,
७; हिश्रौ ४, १, २९; -त्तिम्
काश्रौ २, ६, १; हिश्रौ ४, १, ४०;
-त्तौ वैश्रौ १०, २ : ६; कौसू
४५, १.

व्यरलि-विस्तार-रम्

आपश्रौ ११, ८, १; वैश्रौ १४, ६ :
१२.

व्य(त्रि-अ)रुण^{४५}-ण: वृदे ५,
१४; ३१; -णाय वौगृ ३, ९, ५;
माश्रु ३, १० : ७; हिश्रु २,
१९, ६.

व्यरुण-त्रसदस्यु-स्यू ऋअ

२, ५, २७; ९, ११०; शुअ ३,
१०; साअ १, ४३२; २, ८५६.

a) पाप्र. समासान्तस्य प्र. अभावः । b) विप. । तद्विधौ द्विस. । c) विप. । वस. वा लृस. वा ।

d) नाप. (द्वादशाहे नवाहसंज्ञाविशेष-) समाहारे द्विस. । e) सप्र. °का <> °का: इति पाभे. । f) °कापरि° इति
जीसं. । g) विप. । वस. । h) उप. = अभ्यास- (तु. सा [तां ८, ९, १३.]) । i) परस्परं पाभे. । j) वप्रा. । वैप १
द्र. । k) पाभे वैप १, १५२२ j द्र. । l) [=व्यम्बकनिमित्तक-] कर्म-विशेष- । m) वैप १, १५२२ k द्र. ।
n) [=व्यम्बकोद्दिष्ट-] पशु-, पुरोडाश-, अरूप-, होम- प्रसृ. । शिष्टं वैप १ द्र. । o) वैप १ द्र. ।

ज्य(त्रि-अ)वदात्- -तान् जैगृ २,
१ : ४.

ज्य(त्रि-अ)वम^१- -मान् वौश्रौ
६, ३४ : ५.

ज्य(त्रि-अ)वर, रा^{१०}- -रम् गौघ
२२, ७^१; -राः वैश्रौ ३, ३ : ५;
द्रागृ ४, ३, ५; -रान् वैश्रौ ३,
३ : ४; १५, ६ : २; आपगृ
२१, २; वैगृ ४, ३ : ४; वौघ २,
८, ६.

ज्य(त्रि-अ)वरार्ध, र्धा^१- -र्धम्
कौसू १, १७; -र्धाः हिश्रौ ८,
१, ६०; -र्धान् वैश्रौ १०, १ :
१२; शांगृ ४, १, २.

ज्य(त्रि-अ)वरार्ध^{१०}- -र्धः
वौश्रौ २८, ३ : ९; -र्धम् आपश्रौ
३, १६, ९; हिश्रौ २, ६, ५०; ५,
६, १३; आपगृ २१, ९; -र्ध्याः
लाश्रौ १, ११, २४^०; गोगृ ४, ८,
१७; कौसू ६७, ३; -र्ध्यान्
हिश्रौ ४, १, १३; कौगृ ३,
१४, २.

ज्य(त्रि-अ)वसान(न>)ना^१-
-नां शुअ १, २०९××; अश्रः
-नाः शुअ १, १८७; २, ४८;
अश्र १०, ५××; -नाम् शुअ १,
५४१; -ने शुअ १, २३१; २,
४०२; अश्र ११, ९; १२, १^३;
१३, ३; १९, ३९.

ज्य(त्रि-अ)वि^१- -वयः वाश्रौ
३, ४, ३, १८; -विः आपश्रौ १७,
१, ८^१; वौश्रौ १०, ३५ : १७;
३८ : १७^१; १४, २२ : १७;

माश्रौ ६, २, ५, २६^६; वैश्रौ १९,
२ : ११^१; हिश्रौ १२, १, ६^१.

ज्यवी- -वी माश्रौ ६, २,
५, २६^१.

ज्य(त्रि-अ)शीति- -तिः अपं ४ :
११.

ज्य(त्रि-अ)श्र- -श्रम् आपशु
२०, १५^१.

ज्य(त्रि-अ)श्रि^१- -श्रि हिशु ६,
५५^१; -श्रिः हिश्रौ १२, ८, १५.

ज्य(त्रि-अ)ष्ट(का>)क^१- -कः
गोगृ ३, १०, ५.

ज्य(त्रि-अ)ष्ट-सूक्त- -क्तः ऋअ
३, २९.

ज्य(त्रि-अ)ष्टिका-योग^१- -नेन
वैगृ ५, २ : १५^१.

ज्य(त्रि-अ)स्ति^१- -स्ति^१ काशु
६, ७^१.

ज्य(त्रि-अ)ह^१- -हः आश्रौ ९,
२, १३; ११, ३, ८; शाश्रौ; -हम्
शाश्रौ २, ३, १४; आपश्रौ;
-हम्S-हम् आपश्रौ २१, ४,
१४; कागृ ६, ४; वौघ ४, ५, ६;
८; १०; -हयोः निसू ५, २ : १;
-हस्य शाश्रौ १०, ५, ७××; निसू
७, ३:१३××; -हाः आश्रौ ९, १,
८; १०, २, १४; काश्रौ; -हाणाम्
आश्रौ ९, १, ५; क्षुसू ३, १३ :
२; -हाणि अप ७०, २, १;
-हात् आश्रौ ८, ७, १५; ९,
१, ९; शाश्रौ; -हान् आपध १,
२९, १७; वौघ २, १, ४८; ४,
५, ९; हिध १, ७, ७४; -हे

आश्रौ ८, ८, १; ९, १, ९; ११,
३, ८; शाश्रौ; -हेण वौश्रौ १८,
२३ : १२; वाध २, २७; -हौ
निसू ८, १२ : २; ९.

ज्यह-क्लृप्त- -से आश्रौ ८,
७, १५.

ज्यह-तन्त्र- -न्त्रे निसू ५,
११ : १७.

ज्यह-तृतीय- -यानि काश्रौ
२४, ७, १३.

ज्यह-द्वितीय- -यानि काश्रौ
२४, ७, १३.

ज्यह-प्रथम- -मानि काश्रौ
२४, ७, १२.

ज्यह-भाग- -गात् निसू ३,
६ : ३५.

ज्यह-वत् वैताश्रौ ३३, ४.

ज्यह-व्रत- -तम् आमिगृ १,
१, ४ : २९; हिगृ १, ८, १.

ज्यह-शसः (ः) जुसू ३, १३ :
५; ७; निसू ३, ६ : ४^१.

ज्यहा(ह-अ)भ्यन्तर- -रे
वैगृ ६, १५ : ८.

ज्यहा(ह-अ)भ्यस्त- -स्तम्
शोध ४४५; -स्तैः विध ४६,
२१.

ज्यहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ
११, १, ११; शाश्रौ १३, १५, ६;
काश्रौ २४, १, ९; निसू ९, १० : ८.

ज्यहो(ह-उ)पक्रम- -मात्
निसू ४, १३ : २४.

ज्यहो(ह-उ)पजन^१- -नः
आश्रौ ११, २, १२; -नम् आश्रौ

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) क्वचित् वा. क्विवि. । d) पामे. पृ १२११ f द्र. ।

e) सपा. द्राश्रौ ३, ४, १ चतुरव^० इति पामे. । f) पामे. वैप १, १५१५ W द्र. । g) पामे. वैप १,
१५१५ X द्र. । h) पामे. वैप १, १५१६ a द्र. । i) सपा. अश्रु <> अश्रु <> अश्रु इति पामे. ।

j) कस. > पस. पूष. इकारलोपः । k) त्रि-यष्टि^० इति सूको. C. च । l) अश्रुः इति पाठः ? यनि. शोधः ।

m) वैप १, १०३६ k द्र. । n) अश्रुः इति पाठः ? यनि. शोधः ।

११, २, १३.

त्र्य(त्रि-अ)हन्^a -हानि हिश्रौ
१७, ६, २१.त्र्यहीन^b -नः लाश्रौ ८, ४,
११.त्र्या(त्रि-आ)युष^c - पा ५, ४,
७७; - ऋषम् काश्रौ ५, २, १६;
वौश्रौ.त्र्या(त्रि-आ)षेय^d - वः आपश्रौ
२४, ६, २××; वौश्रौ; वैष ४, ८,
४६; -यम् आपश्रौ २४, ५,
१३××; हिश्रौ; -याणाम् वौश्रौप्र
३१ : २.त्र्याषेय-संनिपात-ते वौश्रौप्र
२ : ३.त्र्या(त्रि-आ)लिखि(त>)ता^e-
ताः काश्रौ १६, ४, ६; आपश्रौ;
-ताम् काश्रौ १६, ३, २१; ४, २४;
आपश्रौ.त्र्या(त्रि-आ)वृत्^f -> वृत्-
पुरोडाश-शकल-लानि जैश्रौ
१८ : १६.त्र्या(त्रि-आ)वृत्त- -तः वौश्रौ
२६, १६ : ९.त्र्या(त्रि-आ)श्रम-> श्रम^g-
-यन् वैष १, ९, ८.त्र्यु(त्रि-उ)त्तर- -राः निम् १, ९ :
२५-२७.त्र्युत्तरी^h √भू-> त्र्युत्तरी-
भाव-वेन लाश्रौ ६, ५, १७.त्र्यु(त्रि-उ)द्वयⁱ -यः वौश्रौ २६,

१६ : ९.

त्र्यु(त्रि-उ)द्वि^j -द्विः वौश्रौ
१०, ५ : १६; -द्विम् आपश्रौ
१५, २, १४; १६, ४, ७; वौश्रौ
१०, ५ : १५; माश्रौ ११, २, २३;
माश्रौ ६, १, २, ६; वाश्रौ २, १,
१, ३६; वैश्रौ १८, १ : ७०;
हिश्रौ ११, ५१; २४, १, १५;
-द्वौ वैश्रौ १३, ३ : १२; -द्वौ
आपश्रौ ५, २२, ६; माश्रौ १, ५,
६, ५; ४, १, १७; वाश्रौ १, ४, ४,
२८; हिश्रौ ३, ५, १७.त्र्यु(त्रि-उ)द्वत्^k -तम् वाधूश्रौ
४, १० : १५; -ते वाधूश्रौ ४,
१० : १४.त्र्यु(त्रि-उ)परिष्टाद्वृहत्या(ती-
आ)दि- -द्वयः ऋश्र २, ७, ५५.त्र्यु(त्रि-उ)पसक्त^l -क्तः काश्रौ
९, २, ३७; लाश्रौ ८, ५, १९;-क्तम् वौश्रौ २५, २७ : १; २;
१३; २८ : १; -क्ते काश्रौ १७,
७, ६; आपश्रौ १५, १२, ५; माश्रौ

११, १२, ५; हिश्रौ २४, ५, ६.

त्र्यु(त्रि-उ)पिण्-अनुष्टुप्-
अन्त- -न्तम् ऋश्र २, ६, ५१.त्र्यु(त्रि-उ)पिण्-जादि- -दि
ऋश्र २, ५, ४०; ७८.त्र्यु(त्रि-ऊ)न, ना- -नम् ऋश्र ३,
४०; चत् १ : १२; -ना ऋश्र
२, २, २७; ३, ३२; ५, ४३; ५२; ६,
५२; १०, ६३.त्र्यु(त्रि-ऊ)च- -चम् शुश्र १,
१९१; १९४; १९५; २१९; -चेन
वाश्रौ १, ६, ६, १३; माश्र २,
२८ : १४.त्र्यु(त्रि-ऊ)तु^m -तुः वा ४, २७.
त्र्ये(त्रि-ए)कⁿ -केण आश्रौ ९,
५, १३.त्र्ये(त्रि-एत>)गी^o -ण्या
काश्रौ ५, २, १५१; आपश्रौ ८, ४,
१; आश्र १, १४, ४; पाश्र १, १५,
४; २, १, १०.

त्रि-क्-त्रि-द्र.

त्रिक्- (> त्रिक्क्- पा.) पाग
४, २, ८०.

त्रि-कङ्-प्रसृ. त्रि-द्र.

√त्रिङ्क् पावा. भ्वा. पर. गतौ.

त्रि-चक्र-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रित्वशुमुदुसुखान्^p वाश्रौ ३, ३,
२, ३९.

त्रि-दक्षिण-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रिदशानुपरिक्षिणः^q वाश्रौ ३, ४,
१, ३१.

त्रि-दिव-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रिपाण^r -णम् काश्रौ १५, ५, ९.

त्रि-पाद्-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रिरुजाहुः अप १, ६, १०.

त्रि-रूप-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रिपतम्^s वाश्रौ ३, २, ५, ४७.

त्रि-गत्य-प्रसृ. त्रि-द्र.

?त्रिपि अप ४८, २१.

त्रि-पुम्-प्रसृ. त्रि-द्र.

a) क्त. उप. समासान्ताऽभावः । b) तद्धितार्थे द्विस. । निर्द्वितेऽर्थे ख>ङ्ङनः प्र. (पा ५, १, ८७) ।

c) वैप १ द्र. । d) विप. । वस. । e) उत्तरेण समस्त इव पाठः शोष्यः (तु. उत्तरं स्थलम्) । f) स्त्रार्थे व्यम्

प्र. वृद्धयभावश्च । g) = एकाह- [याग-] । h) = त्रेणी- । वैप २, ३ खं. द्र. । i) त्रे इति चौंसं. । j) पाठः ?

त्रीन् इषून् षमृदुसुखान् इति त्रिपदः शोषः संभाव्यते (तु. श्रंततः सप्र. आपश्रौ १८, १४, ११; सा. [तै. पृ १२२०] च) ।

k) पाठः ? त्रिशतान् उपरिक्षिणः इति शोषः (तु. सप्र. आपश्रौ २०, ५, १०-१४) । l) विप. । त्र्यु. ? उत्स. उप.

<√पा [पाने] इति कर्कवियाधरौ, वावि. <त्रि-पर्णी- इति ३१९. । m) पाठः ? त्रिः इति संस्कृतः टि., सप्र.

काश्रौ १३, ३, १५ त्रिः समन्तम् इति पाठः ।

√वृद्^३ पावा. तुदा. पर., सुरा. आत्म. छेदने.

वृटि^३ - ति: आज्यो १, ४; -रीनाम् आज्यो १, ५.

√वृप्, म्प्, वृप्, म्प् पावा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

त्रेता- प्रसृ. त्रि- द्र.

√त्रै^३ पावा. भ्वा. आत्म. वाघ; पादने, त्रायते वीद्यु ३, २, ६३; त्रायन्ते विव २०, ४५; ऋत्रायसे आपमं २, १७, ३; आद्य २, १, १०; माद्य २, १६, ३; त्रायध्वे ऋद्य २, ७, ५९; ऋत्रायताम् आपथी १०, ८, ९; १६, १९, १; वैथी १८, १६: १०?; हिथी; ऋत्रायन्ताम् वृदे ८, ५०; अत्र ८, ७; ऋत्रायस्व आपथी ६, ११, ३x४; वीथी; कौसू ४७, १६?; ऋत्रायथाम् आपथी ७, १४, ११; वीथी.

त्राति वाघ ३०, ६; त्राहि अप ७, १, २; त्राव्वम् ऋप्रा १८, २१; पावा ६, १, ४५.

१त्राग- णम् आपमं २, १७, ३; आपव २, २७, ११; हिव २, ५, २३; या ५, २५.

२त्राग- पा ८, २, ५६.

३त्राव- पा ८, २, ५६; -ऋतः आपथी ४, १०, १; वाथी १, १, ३, ६?; हिथी ६, ४, ४२.

त्रातुम् अप ७, १, ४; विव १०, ११; ११, १२; १२, ८; १३, ७.

ऋत्रावृ- ऋतः ऋप्रा १, १०१; ४, ५२; -ता वाथी २, १०, ३; वाथी; -तारः वाघ १७, २५; -वारम् आपथी २, १०, ४; ६, ९, ५; वीथी; -तुः आपथी ४, १०, १; वाथी १, १, ३, ६; हिथी ६, ४, ४२; -ऽत्रे आपथी ३, १५, ७; वीथी १३, १२: ६.

त्रायक- कः वैघ ३, १५, १३.

त्रायमाण, णा^३ - ऋणः शांथी ६, १०, १०; १५, ८, १९; अप ४, ४, १; -णम् अप ४, १, ८; -णस्य नाथ ३०: ७; -णा वीथी १७, ४१: ७; आपमं २, ७, २५; पाद्य १, १३, १; वैद्य ६३: ५; आन्त्रिय १, ३, ४: १; भाद्य २, २१: ३; ऋद्विद्य १, १०, ६; ११, ३; -ऋणाय अप ३२, १, १८; अत्र ६, १०७; अप २: ५७; -णे अप ४, ५, ८.

त्रोत्र- पाठ ४, १७३.

त्रैश- प्रसृ., त्रैत- त्रि- द्र.

२त्रैत^३ - तम् वीथी २४, २९: १; -तानाम् आपथी २०, २३, १; माथी ५, २, १०, ६; हिथी १४, ५, ११.

त्रैतन^३ - नः वृदे ४, २२.

त्रैघातवी- प्रसृ., त्रैयम्बक- त्रि- द्र.

२त्रैयम्बक^३ - कम् कप्र ३, ९, १८.

त्रैयम्बक-प्रमाण^३ - णाम् गोरु ३, १०, १२.

त्रैयह्वक- च्यहव- द्र.

त्रैयाहावक- च्याहाव- द्र.

त्रैरात्रिक- प्रसृ. त्रि- द्र.

त्रोटि- पाठयो २, १, १६३.

त्रोत्र- √त्रै द्र.

√त्रौक् पावा. भ्वा. आत्म. गती.

त्र्यंश- प्रसृ. त्रि- द्र.

त्र्यक्ष^३ - (> त्र्य [त्र्या] क्षायण^३ -> ष्यणभक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.

त्र्यम्बु(क>)का^३ - का जैद्य १, ३: २.

त्र्यरत्नि- प्रसृ. त्रि- द्र.

त्र्यहव^३ - (> त्रैयह्वक- पा.) पाग ४, २, १२७.

त्र्याचण- (> ष्यण-भक्त-) त्र्यक्ष- टि. द्र.

त्र्यायुप- प्रसृ. त्रि- द्र.

त्र्याहाव- (> त्रैयाहावक-) त्र्यहव- टि. द्र.

त्र्युत्तर- प्रसृ. त्रि- द्र.

१त्व- > त्व-शब्द- वृदे उनिस् २: १३.

२त्व- त्वद्- द्र.

३त्व- तुष्मद्- द्र.

√त्वच्^३ पावा. भ्वा. पर. तन्- करणे.

ऋत्वक्षस्^३ - चः अप ४८, १०३; निघ २, ९.

१त्वष्टि^३ - > ऋ^३ त्व (ष्टि>) षी-म (त्>) ती^३ - ती^३ आपथी १०, २३, ७; १५, ८, १७; वीथी ६, १३: १२; ९, ८: २२; माथी ११, ८, २२; वैथी १२, १७: ६;

१२, १०: २१; हिथी २४, ३, ७.

२त्वष्टृ^३ - पाठ २, ९५; पावा ३, २,

a) पा ३, १, ७० परामृष्टः द्र. । b) = काल-विशेष, परिमाण-विशेष- । व्यु. ? । c) पा १, ४, २५ परामृष्टः द्र. । d) ताय^३ इति पाठः ? यनि. शोवः । e) त्रयस्व इति पाठः ? यनि. शोवः । f) त्राता इति पाठः ? यनि. शोवः (तु. आथी.) । g) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । h) वैप १ परि. द्र. । i) त्रै^३ इति पाठः ? यनि. शोवः [तु. सप्र. तै २, १, १, ६] । j) वैप १ द्र. । k) = करतल- । l) निप. । वस. । m) तु. पागमं. । n) तु. भागडा. प्रसृ. । o) त्र्याचण- इति पाका. । p) = मल्लिका-विशेष- । व्यु. ? । q) तु. पासि. १: त्र्याहाव- इति भागडा. प्रसृ. । r) वृदे. ३, १६ या ८, १३ परामृष्टः द्र. । s) पामे. वैप १, १५२६ ० द्र. ।

१३५; -फं०ष्टः आश्रौ ३,८,१;
शांश्रौ; -ष्ट आश्रौ २, ११,२;
३फं; ४फंx; शांश्रौ; या ६,
१४फं; २१फं; ८, १४^२फं; १०,
३३; ३४फं; १२,११फं; -ष्टारम्
आश्रौ १, १०, ४x; शांश्रौ;
या ८, १४फं; -फंष्टुः आपश्रौ
१६, २७, ११; वौश्रौ; या ४,
२५; ८, १५; -ष्टार वौश्रौ ८, १४:
२४फं; २५, २३ : १३; वैश्रौ;
या १०, २७; अप्रा ३, २, २६फं;
-ष्टे शांश्रौ १५, १४, ४; आपश्रौ.

त्वाष्ट्र^१ - -ष्ट्रः काश्रौ ५,
१२, ३; ८, ९, १; वौश्रौ; -ष्ट्रम्
शांश्रौ १३, ४, १; १४, ५०, १;
काश्रौ; -ष्ट्रस्य वौश्रौ २३, १४:
१२; १४; १७; अशां ६, ४;
-ष्ट्राः आपश्रौ २०, २२, १३;
हिश्रौ १४, ५, ९; साश्र १, ७१;
-ष्ट्रान् वौश्रौ १५, ३७ : ८;
-ष्ट्रे अप ३१, ५, २; विष ७८,
१९; -ष्ट्रेण आश्रौ ६, १४, १०;
शांश्रौ ९, २७, ४; वौश्रौ २८,
६ : १७; कौस् ३६, २५फं; -ष्ट्री
आपश्रौ २०, १३, १२; वौश्रौ
१५, २३ : ६; २६ : ७; हिश्रौ
१४, ३, १४.

त्वाष्ट्री - -ष्ट्री अशां
१६, १; ऋश्र; या १२, १०;
-ष्ट्रीः आपश्रौ ९, १९, १७;
वौश्रौ १४, २८ : ५; -ष्ट्रीम्
अशां १७, ५; वृदे ७, ३; -ष्ट्र्याम्
अशां १८, ६; १९, ७; -ष्ट्र्यौ
ऋश्र २, २, ३२; वृदे ४, ८६.

त्वाष्ट्री-सामन्-
-म लाश्रौ ७, ३, १५; ८, ५;
तुस् ३, २ : १६; १७; ५ : १३^२;
१२ : १०; ११; निस् ५, २ :
१; -मनः लाश्रौ ७, ४, १३;
-मिन् लाश्रौ ७, ८, ११.

त्वाष्ट्रीसामा-
(म-आ)यास्य- -त्ये लाश्रौ ७,
४, १^१०.

!त्वाष्ट्रेत्वष्ट्रे वौश्रौ १४,
२८ : ६.

त्वष्ट्र-दैव(त>)ता- -ता अप
१, ४, ३.

त्वष्ट्र-दैवत्य- -त्यः पाश्र ३,
१५, ५.

फंत्वष्ट्र-मत्^१ - -मन्तः^० काश्रौ
२६, ४, १५; आपश्रौ १०, २३,
८^१०; शुश्र ४, ८५.

त्वष्ट्र-वनस्पति- -त्योः काश्रौ
८, ९, ५.

त्वष्ट्रि- > ष्ट्रि-मत्^१ - -मन्तः^०
फंमाश्रौ २, १, ३, ४७; ४, २, ३७.

?त्वक्षरितेति^० वैश्र २, १० : १३.

?त्वग्दात्रे^० शांश्रौ ७, १८, ३फं.

?त्वग्रस्थाश्विनः वाश्रौ ३, २, ७, ७०.

√त्वङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ
कम्पने च.

√त्वच् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.

त्वच्^१ - पाठ २, ६३; त्वक् शांश्रौ ६,
१, ६; काश्रौ; त्वचः शांश्रौ १३,
३, ५; १६, १५, १०; काश्रौ; हिश्र
१, २, ४, ४^१; त्वचम् शांश्रौ ५, १७,
४फं; आपश्रौ; या १४, ३४^२फं;
त्वचा फंआपश्रौ १०, १४, ९; १६,

१९, १; वाश्रुश्रौ; त्वचाम् कौस्
६२, २३; त्वचि आपश्रौ ८, १९,
९फं; वौश्रौ.

त्वक्-केश-नख-कीटा (ट-आ)सु-
पुरीष- -पाणि वौध २, ७, ५.
त्वक्-छि (<शि)रुनो (श्र-उ) दरा
(र-आ)रम्भण^१ - -पान् आपश्रौ
२, ५, १९^१.

त्वक्-तस्(ः) द्राश्रौ ५, २, ३;
लाश्रौ २, ६, १; निस् १, ११ : ६.

त्वक्-आसेचन^१ - -नानि वौश्रौ
२०, १६ : ६; ८.

त्वक्तो-वि(ल>)ला^१ - -लाः
आपश्रौ १, १५, १२; काठश्रौ ७;
हिश्रौ १, ४, ३२; काश्रु ४६ : ५-
?त्वक्पाश्रुवर्धभा(ग>)गा-
-गाम् वैश्रौ १, १ : १४.

?त्वक्पाश्रुवर्धेविल- -लम् वैश्रौ
११, ७ : २.

त्वग्-अस्थि-गत- -तम् आश्रिष्ट.
२, ७, ७ : २०; अप ३८, ३, २.

त्वग्-द्रोष-> षिन्- -षी वृदे
७, १५६.

त्वग्द्रोषिणी- -णी वृदे
६, ९९.

त्वग्द्रोषो(प-उ)पहते(त-इ)
न्द्रिय^१ - -यः वृदे ८, ५.

त्वग्-वि(ल>)ला^१ - -ला अप
२३, ३, १; -लाः काश्रौ १, ३,
३८; भाश्रौ १, १६, ६; -लाम्
भाश्र १, १ : ३.

त्वग्-रोम-नख-दन्तौ (न्त-ओ)ष्ट-
पाणि-पादतला(ल-आ)दि-
-द्रिषु अप ६८, १, ३९.

a) वैप १ द्र. 1 b) षी^० इति पाठः? यनि. शोधः । c) पाभे. वैप १, १५२६ ८ द्र. 1

d) त्वष्ट्रम् इति पाठः? यनि. शोधः । e) पाठः? तु, अक्षरितम्, इति इति त्रिगदं संभाव्येत ।

f) पाठः? त्वक्-दात्र-> -त्रे इति शोधः (तु. वैप १ परि मा ७, ४७ टि.) । g) तनु-त्वचः इति संस्कृतः शोधः ।

h) विप. । द्रस. > वस. । i) पाभे. पृ १०४३ t द्र. 1 j) विप. । वस. ।

त्वग्-सोमन्-मानि वैश्रौ १३, १७ : १५.
 त्वग्-व्यादेश-शः या १४, ६.
 त्वङ्-मस्तिष्को(ष्क-उ)दृत-
 -तानि काश्रौ १६, १, ३०.
 त्वङ्-मांस-रुधिरा (र-अ) स्थि-
 -स्थोनाम् अप ६४, ५, ८.
 त्वङ्-मांस-शोणित-तानि या
 १४, ५.
 त्वचः-सुख^६-खाः आमिगृ ३,
 ४, २ : १७; वौपि ३, २, ३;
 गौपि १, २, ४१^७.
 त्वचा(चा-अ)न्त^८-न्तः शुभ्र
 ३, ४६.
 √त्वचि पा ३, १, २५.
 त्वचो-वि(ल >)ला^९-लाः
 माश्रौ १, २, १, ६.
 ? त्वचनस्थितिः जैश्रौका ३०.
 त्वच्छ्री-गुष्मद्-द्र.
 √त्वञ्च् पावा. भ्वा. पर. गतौ.
 ? त्वञ्चसत्वम् अप १, ४१, २.
 त्वत्-पितृ-, त्वत्-पुरोहित-प्रभृ.
 गुष्मद्-द्र.
 त्वद्^{१०}-
 र्व- पाग १, १, २७; त्वः अप
 ४८, ११९^{११}; वृदे २, ११४;
 निघ ३, २९; ऋया १, ७; ८^{१२};
 १९^{१३}; ३, २०; शुभ्र २, १६^{१४};
 तैप्रा ११, ५^{१५}; भाशि १४^{१६};
 त्वत् पाग १, १, २७; या १,
 ९; त्वम् या १, ८^{१७}; त्वस्मै या
 १, ८; १९^{१८}; ऋवे आपश्रौ
 २१, २२, ४; वाश्रौ; आपमं १,
 ७, ९^{१९}; या १, ९^{२०}; १३, १३.

१-२त्वदर्थ-प्रभृ., त्वम्, त्व-मति-,
 त्वय्-गुष्मद्-द्र.
 √त्वर् पावा. भ्वा. आत्म. संप्रमे,
 त्वरते अप ३१, ५, ३; वाध
 २७, १७; वौध ४, ५, ३०;
 त्वरध्वम् वौश्रौ २५, ९:४; त्वरेत्
 आपश्रौ ९, ९, ८; १२, १३, १२;
 भाश्रौ; त्वरेत् अप्राय ४, ३;
 त्वरेन् वाश्रौ १६, ७, ७.
 त्वर्येति वाश्रौ ३, २, २, २९.
 त्वर^१-रम् अप ७१, १०, २.
 त्वरत्-रन् ऋ १, ६, ७.
 त्वरमाण-पाग ६, २, १६०; -णः
 माश्रौ २, ३, ८, ९; हिश्रौ ८, ३,
 ५७; अप्राय ५, १; अप १६, १,
 ७; वौध १, ५, १५; या ६, २०;
 ७, २७; आज्यो ७, १४; -णैः
 वौश्रौ २७, ४:२६.
 त्वरा^२-रया वैश्रौ १२, १४ : ९;
 या १२, १४; -राम् विध ७९,
 २१.
 त्वरा-क्रोध-विवर्जित-त्तः विध
 ६६, १५.
 त्वरा-युक्त-त्व-त्वात्-मीस्
 १०, ७, ४२.
 त्वरित, ता- पा ७, २, २८; -तम्^३
 शंघ ७७; भाशि १६, ३; नाशि
 २, ८, १८; -ता आज्यो ७, १६.
 त्वा पाग १, ४, ५७.
 त्वा-, त्वा-दात्-प्रभृ. गुष्मद्-द्र.
 ? त्वा^४र्याद्या वाश्रौ ३, १, ३६.
 त्वाव^५ वाधुश्रौ ४, ३७ : ३०; पाग १,
 ४, ५७^६.
 त्वावत् पाग १, ४, ५७^७.

त्वाचत्-गुष्मद्-द्र.
 त्वाप्-ष्टी √त्वच् द्र.
 √त्विप् पावा. भ्वा. उभ. दीप्तौ,
 त्विष्यति अप ४८, १६^८.
 ऋतिविषे वाश्रौ ३, २, १, ५८;
 हिश्रौ ८, ४, २७.
 त्विप्-पावाग ३, ३, १०८;
 ऋतिविषः काश्रौ २६, ७,
 ५६; शुभ्र ४, १११; त्विपा
 वौश्रौ २५, २० : २५^९; वृदे ६,
 १२१; विषे माश्रौ ४, ३, ३०^{१०}.
 त्विषि^{११}-ऋतिः काश्रौ १५, ५,
 १; २५; आपश्रौ १०, ११, १; १८,
 १५, ५; वौश्रौ १२, १० : १२^{१२};
 १७, १९ : ४^{१३}; वाश्रौ; या १,
 १७^{१४}; -ऋतिम् शाश्रौ १४,
 ३४, १^{१५}; १७, १३, १०; हिश्रु
 १, २४, २; -ऋत्यै आपश्रौ १५,
 ११, १; वौश्रौ ९, १० : ३१;
 भाश्रौ.
 त्विषि-काम-मः शाश्रौ १४,
 ३४, १.
 त्विषि-देवता- > व्य-व्यम्
 अत्र ६, ३९.
 त्विषि [पी^{१६}] मत्-मता शाश्रौ
 १४, ३४, ३; -मति वौश्रौ २६,
 ८ : ४; -ऋमते कौस् ४, १; शुभ्रा
 ३, ११६; तैप्रा ३, ७; -मन्तः
 ऋप्रा ९, ९^{१७}; -मान् काश्रौ ३,
 ३, ५^{१८}; वौश्रौ १८, २९ : ९-१२.
 त्विषि-तस् (:) वृदे ३, १६.
 त्विष्य(पि-अ)पचिति-ऋयोः
 आश्रौ ९, ८, २१; वैताश्रौ ४०, १.
 त्विषित-त्तः या १, १७^{१९}.

a) विप. । वस. b) त्वचसु इति पाठः ? यनि. शोधः । c) पू. त्वचा (सा २५, ९) । d) वैप १
 द्र. । e) पामे. वैप १ पुर्ये शौ १४, २, ७ टि. द्र. । f) या ६, १३; १२, १४; १३, ९ पा ६, ४, २०; ७; ४, ९५.
 परामृष्टः द्र. । g) वा. क्वि. । h) तु. पागमः । i) या ८, १३ परामृष्टः द्र. । j) = दीप्ति-, ऋतु-विशेष- ।
 k) कौस्. ऋप्रा. शुभ्रा. तैप्रा. पाठः ।

√त्वेष^१-यः आश्रौ ६, ३, १९;
काश्रौ २२, ६, १६; आपश्रौ १३,
१६, ८; माश्रौ १, ५, ३, ४;
वाश्रौ; -पम् आश्रौ ६, ७, ९;
आपश्रौ; या ९, २९; ११, ८;
-घस्य आपश्रौ १३, १६, ८;
हिश्रौ १०, ५, १३; -षासः शाश्रौ
८, २३, १.
√त्वेष-नुम्ण^२-म्णः आपश्रौ
२१, २२, ३; वाश्रौ ३, २, ५, २०;
हिश्रौ १६, ७, १५; या १४,
२४; ऋप्रा ५, ५१.
त्वेष-पुर्वे(र-ए)वम्-आदि-
-दिपु ऋप्रा ५, ५१.
त्वेष-प्रती(क>)का^३-का
या १०, २१, ११.
त्वेष-संदश^४-दशाः शाश्रौ ३,
५, ११.
त्वेषत्^५-पाठना १, १२४.
श्त्वै पाग १, ४, ५७.
रत्वे गुप्मद्-द्र.
त्वै^६ आपश्रौ २४, १३, ११ पाग १,
४, ५७.
√त्वैतानाम्^७ वाश्रौ ३, ४, ५, २३.
त्वोत-गुप्मद्-द्र.
त्सघी^८-वीः अप ४८, १०२.
√त्सर् पाधा. भ्वा. पर. छद्मगतौ,
√त्सरति कौस् १००, २; निघ २,
१४; त्सरन्ति वाधूश्रौ ४, २६^२;
५; ६; अत्सरत् वाधूश्रौ ४,
२६^२ : ४.
√अत्साः या ५, ३; ऋप्रा १,
९१.
त्सरत्-रन्तः आपश्रौ १२, १७, ३.

त्सरु^९-पाठ १, ७; पाग ५, २, ६४;
-रु वाध २, ३५; -रुः आपश्रु
१३, ९; १०; वौश्रु १७ : ५;
हिश्रु ४, ३७; -रुणि वौश्रौ २५,
१३ : १९; -रोः वौश्रु १७ :
१२.
त्सरु-क-पा ५, २, ६४.
त्सरु-पार्श्व-श्वयोः आपश्रु
१३, १६; हिश्रु ४, ४१.
त्सरु-मत-मतः आपश्रौ १२,
२, ८; माश्रौ २, ३, १, २०; वैश्रौ
१५, २ : १५; हिश्रौ ८, १
३२.
त्सरु-वर्जम् आपश्रु १४, १२;
हिश्रु ४, ५१.
त्सरु-ओण्य(णि-अ)न्तराल-
-लयोः वौश्रु १७ : ९.
त्सर्व(र-अ)प्र-अ आपश्रु १३,
१३; हिश्रु ४, ४१.
त्सारिन्^{१०}-री शैशि १०७.
थ

थ^{११}->थ-कार-रः या ७, २९;
-रेण याशि २, ८८; -रौ माशि
१४, १.
थ-स-वर्ण-णम् याशि २, ३९.
√थङ्क् √मुङ्क् टि. द्र.
√थर्व^{१२}
थलथल-पा, पाग २, ४, ६९^६.
थलित^{१३}-अप ४८, ६१.
था^{१४} पाग १, ४, ५७.
थाट् पाग १, ४, ५७.
√थुद् पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
√थुर्व पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

द

द.दा^{१५}-दः ऋत ४, ३, ५.
द-कार-रः अप ३४, १, २; त्रैप्रा
५, ८; -रम् श्रुप्रा ३, ५५; -रात्
अप ३४, १, ३; -रे ऋप्रा ५,
१४.
दकारा(र-अ)न्त^{१६}-न्तात् अप्रा
२, ३, १६.
द-को(क-ऊ)र्ध्व-ध्वः भाशि ९६.
द-संयुत-तम् भाशि ८४.
१दा(दा-अ)न्त-न्तम् माश्रु १,
१८, १; गोश्रु २, ८, १६.
१दाण^{१७}-णस्य शैशि २५४.
√दंश, दश^{१८} पाधा. भ्वा. पर. दर्शने;
चुरा. आत्म. दंशने, उभ.
भाषायाम्, दशेत् माश्रौ ३,
५, ६.
ददंश भाश्रु २, १ : १६; दाहृष्टुः
माश्रु २, १६, ३१.
दंशयति कौस् ३०, १६; ४६,
४४.
दंश^{१९}-पाग ३, १, १३४; ४, १,
८६^६; ५, २, १३६; -शः विष
४४, १७; या १, २००^{१०}; -शान्
आपश्रौ २१, १२, ३; हिश्रौ
१६, ४, ३५.
दंश-पा ४, १, ८६.
दंश-मशक-कान् आपश्रौ २१,
१२, १; हिश्रौ १६, ४, ३४; वौध
३, ३, १९.
दंश-वत्-पा ५, २, १३६.
दंश-वारणा(ण-अ)र्थ-धाः या
१, २०.

- a) वैप १ द्र । b) = देव-विशेष- । c) पाठः? त्रैतानाम् इति शोधः (तु. हिश्रौ १४, ५, ११) ।
d) वाह-नामन्- । व्यु. ? । e) = वर्ष-विशेष- । f) या ११, १८ परामृष्टः द्र. । g) तु. पागम. ।
h) कर्म-नामन्- । व्यु. ? । i) विप. । वत्त. । j) पाठः ? । द-वर्ण- इति स्यात् ? । k) या १, २० पा ३, १,
२४; ६, ४, २५; ७, ४, ८६ परामृष्टः द्र. । l) षु इति पाठः ? यनि. शोधः । m) भाप. नाप. व्यप. च ।

दंशु-वीर्ष^{१०} - र्याः वीश्रौ १७, १८ : १०.
 दंशुन्- पा ५, २, १३६.
 दंशुक- काः वीश्रौ १७, १८ : १०; निस् १०, १३ : ३; तैप्रा १६, १९५.
 दंशुन्- - इम कौस् २९, ६^१; ३२, २४.
 दंष्ट्र, ष्ट्र^१ - पाठ्य ४, १५९; पा ३, २, १८२; पाग ४, १, ४^१; ५, २, ११६; - ष्ट्रः गोश्र २, ९, १३६;
 - ष्ट्र्या अप ३६, १, १०;
 - ष्ट्रामिः शैशि १६४; पाशि २८; माशि ४, ७; याशि २, ७९; नाशि २, ८, ३०; - ष्ट्राम्याम् आपश्रौ १६, १०, ३५^१; २०, २१, ९; वीश्रौ; - ष्ट्रौ वैताश्रौ १०, १७५.
 दंष्ट्रा(ष्ट्र-अ)प्र- - ग्रेण विध १, ११.
 दंष्ट्रा-घण्टा-निना(द>)दा- - दाः अप ३६, २५, ३.
 दंष्ट्रिक- पा ५, २, ११६.
 दंष्ट्रिन्- पा ५, २, ११६; - ष्ट्रिणः वाश्रौ ३, ४, ३, २२; आमिगृ २, ५, ९ : १२; जैगृ २, ६ : १०; अप ६८, ३, १३; वाध २, २८; - ष्ट्रिणा वैगृ ७, ४ : ११^१;
 - ष्ट्रिणाम् विध ५, १८८;
 - ष्ट्रिभिः अप ६८, २, ३९;
 - ष्ट्रिभ्यः हिपि २३ : १७.
 दंष्ट्रि-श्रुङ्गिन्- - ङ्गिणाम् अप ३६, २७, १.
 दक्षुण- पावा ३, २, १३९.

दक्षयत्- - स्यन्तम् आपमं २, १७, १.
 दंशुक- पा ३, २, १६६; - कम् आपमं २, १७, १५; - ण्काः आपश्रौ १८, १५, ६; वीश्रौ १२, १० : १५; वाश्रौ ३, ३, २, ४५; हिश्रौ १३, ५, २७; आपमं २, १७, १३; आमिगृ ३, ३, २ : ५^१; वीषि २, ९, ९; या १४, ९५;
 - ण्कानाम् आपश्रौ १०, २६, १४; वीश्रौ ६, १५ : १३; माश्रौ १०, १७, १९; माश्रौ २, १, ४, १४; वैश्रौ १२, १९ : ६; हिश्रौ ७, २, ७८; - केभ्यः वीगृ ३, १०, ५५.
 दशत्- - शतः आपश्रौ २२, १७, ५; हिश्रौ १७, ६, ४२; - शते मागृ २, १६, ३५; - शन्तम् आपमं २, १७, १५.
 दशान^१- - नाः विध ९६, ५७.
 दशान-छदो(द-उ)पहत- - तः विध २२, ८०.
 दशाना(न-अ)प्र- - ग्रेण दंवि २, १.
 दष्ट- - ष्टः कौस् २९, ७; ३२, २५; वाध २३, ३१; शोध ४१२^३; वीध १, ५, १२६; विध ५४, १२; - ष्टम् गोश्र ४, ९, १५; अप ६२, २, ७; - ष्टस्य गौध २३, ८.
 दष्ट-मत्- - मङ्गिः द्रागृ ४, ४, १.
 दक्षुम् वृदे ६, १२.
 √दंस पाथा. चुरा. आत्म. दर्शन-दंशनयोः, पर. भाषार्थे, दंसयन्ति या ४, २५^१; ण्दंसयः^१

निध ४, १; या ४, २५.
 ण्दंस(न>)ना^१ - - नाभिः आपश्रौ १९, २, १९; - नाभ्यः वीश्रौ १३, ८ : ८; तैप्रा १६, १९.
 दंसना-वत्- - वाच् शाश्रौ ८, १७, १५.
 ण्दंसस्- - सः अप ४८, ६१; निध २, १; ऋप्रा ८, १८; - सांसि माश्रौ ४, ४, ३८; कागृ; - सोभिः अप्राय ६, ९५; तैप्रा १६, १९.
 दंसस-वत्- > दंसिष्ठ- - ष्ट ऋप्रा ७, ४६^१.
 दस्म- पाठ १, १४५; - ण्स्मः आपश्रौ १६, २०, १४; हिश्रौ ११, ६, ६१; - स्मम् वाश्रौ ५, १६, २५^१××; शाश्रौ.
 दस्म-वर्चस्- - र्चाः आपश्रौ ५, २३, ९५.
 दस्म्य^१- - म्यम् आगृ १, १, ४५.
 दस्- पाठ २, १३; - ष्टः वृदे ७, ६५; - ष्टम् शोध ११६ : ६४^१; - ण्- ष्ट्वा आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८; या ६, २६; शुअ ३, २२१; - ष्ट्वाः आमिगृ २, ५, १० : ३०^१; - ष्ट्वा वीश्रौ ७, ३ : २५.
 √दक्ष^१ पाथा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ शीघ्रार्थे गतिहिंसनयोश्च, दक्षत् ऋप्रा ४, ९८^१; ण्दक्षन्त भाशि ११८; १२०.
 दक्षयति वाधुश्रौ ४, ४ : ६; ८; दक्षयेत् वाधुश्रौ ४, ४ : ३.

a) विप. । वस. । b) दंशु इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पै दे, १४, ३ संस्कृतः टि.च) । c) = दष्टस्थान- । अधिकरणे मनिन् प्र. (पाठ ४, १४५) । d) दंस इति दारिलः । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम. । g) पाभे. वैप २, ३खं. दंष्ट्रः मैत्रा १, ६, ४ टि. द्र. । h) ष्वा इति पाठः? यनि. शोधः । i) ण्त इति पाठः? यनि. शोधः । j) = दन्त- । k) ण्त्वे इति शिवसं. । l) वैप १, ५८८ b द्र. । m) तु. आन. । n) व्यप. (अश्विनोरन्यतर-) ।

सदक्षत् वाधूश्री ४, ४ : ४.
 दक्ष, क्षा^३ - पाग ४, १, १५४^b; -क्षः
 शांश्री ७, १६, ८^०; आपश्री;
 वृदे^d ७, ११४; ८, १२८; शुभ्र^e
 ३, २३५; ४, ३४; या ११, २३^f;
 १२, ३६^f; -क्षम् आश्री ५,
 १८, २^f; शांश्री ८, ३, ४^f; ६, ११;
 १२, २, १४; आपश्री ८, १४,
 २४; वौश्री ६, ५ : ५; ९, १६ :
 १६; अप ४३, ३, २१^f; शंघ
 १११६ : ३०^g; ४०^g; ६२^h;
 -क्षस्य शांश्री ७, १०, ११^f;
 पाग १, १८, ५^f; वृदे ७, १०४^f;
 या २, १३; ११, २३^f; -क्षा
 कप्र २, १०, ४; -क्षाः वौश्री
 २१, २४ : ४; -क्षात् या ११,
 २३^f; -क्षाय आश्री ४, १२,
 २; शांश्री ९, २७, २^f; आपश्री;
 या ११, ३०^f; -क्षे आपश्री १०,
 ३, ८^f.

१दाक्षायण^a - > ण-

यज्ञ^a - ज्ञः काश्री ४, ४, १;
 आपश्री ३, १७, ११; वौश्री २४,
 ४ : ६; वैताश्री ५, २४; ४२,
 २०; -ज्ञस्य शांश्री ३, ८, ३;
 ६; -ज्ञाः शांश्री १४, ५, ३;
 -ज्ञे आश्री २, १४, ७; वौश्री
 २१, १ : ११; २६, २२ : २२;
 वीध १, ६, ३०; -ज्ञेन आपश्री
 ३, १७, ४; वौश्री १७, ५१ : १;
 २३, १७ : २१. वाधूश्री १, १,
 १, ८५; हिश्री २, ६, ५६.

दाक्षायणयज्ञिन्-

-ज्ञी काश्री ४, २, ४८.
 दाक्षायणयाज्ञिक^१-
 -कानि शांश्री ३, ९, ४.
 दाक्षायण-सव- -वः
 कौशि ४२.
 २दाक्षायण^a - पाग ४,
 २, ५३^b; ५४; -णाः शुभ्र ५,
 ३७.
 दाक्षायणक- पा ४, २,
 ५३.
 दाक्षायण-भक्त- पा ४,
 २, ५४.
 ३दाक्षायण^a - णम् काश्री
 ४, ४, २५.
 दाक्षायणि- पा ४, १, १५४^b;
 -णयः वौश्रीप्र ४१ : ११.
 दाक्षायणी^१ - णी अप
 १, ३, १; ३७, ५^f; अशां ७,
 ५^f; ऋअ २, १०, ७२; या ११,
 २३; -णीम् शंघ ११६ : ३०;
 -णयः आम्रिण २, ५, ३ : २४^f;
 वौग ३, ७, १८^f; वृदे ५, १४३;
 -ण्याः चाअ ७ : ३.
 दाक्षि- पाग ४, २, ५३;
 -क्षिः वौश्रीप्र २७ : ३; ३० : १.
 दाक्षी- > दाक्षी-
 पुत्र- त्राय पाशि ३१.
 दाक्षीपुत्र-
 पाणिनि- निना पाशि ३१.
 दाक्षक- पा ४, २, ५३.
 दाक्षि-कृत- पाग २, २,
 ३८^b.
 दाक्षि-भिद्युक्- पाग २,

२, ३१^b.

दाक्ष्य^m - क्ष्येण वृदे ८,
 १३०.

दक्ष-क्रतु- तुभ्याम् आपश्री
 १२, १८, २०; वौश्री १४, ८ :
 २१; ३४; माश्री २, ३, ७, १;
 वैश्री १५, २२ : ४; हिश्री ८,
 ५, १९; -त् आश्री ६, ९, ३;
 आपश्री ४, ३, १२^c; १२, १९,
 ५; १४, २१, ४; वाधूश्री ४,
 ९३ : ५९; हिश्री १५, ५, २६;
 २७; आग ३, ६, ७^c; हिग १,
 १६, २^c; अप्राय ६, ६.
 दक्ष-पितृ^a - तरः विध ४८,
 ८; -ता आपश्री १०, ३, ८;
 -तारः वौश्री ६, ७ : ११; वीध
 ३, ६, १५.

दक्ष-प्रजापति- -तिः काय २८२ :
 ५.

दक्ष-यज्ञ- -ज्ञे अप ५२, १२, ५.
 दक्ष(क्ष-ऋ)र्षि- -र्षेः अअ १,
 ३५.

दक्ष-वृध^a - वृधे वौश्री ७, ४ :
 १३^f.

दक्ष-सावर्ण- -णम् शंघ ११६ :
 ४६.

दक्ष-सु(त >)ता^a - ता वृदे
 ३, ५७; -०ते अशां १, २.

दक्षमाण- -णः अअ १, ३५^f.

दक्षस^a - क्षः निघ २, ९; -ससे
 आश्री २, ५, १०^c; आपश्री १७,
 ९, १^b; वैश्री १९, ६ : १^p.

दक्षाय^a - पाठ ३, ९६.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पागम. । c) पाभे. वैप १, ११७६ a द्र. । d) = देवता-विशेष-।

e) = ऋषि-विशेष-। f) °क्ष इति पाठः? यनि. शोचः (तु. सप्र. शौ ७, १५, ४) । g) व्यप. । h) = निश्वेदेवा-
 ऽन्यतम-। i) पाभे. वैप १, १५३४ d द्र. । j) तस्येदमीयत् ठ्ठ् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२४) । k) पाप्र. (४, १,
 १०१) < दाक्षि- इति । l) विप., व्यप. । m) भावे प्यञ् प्र. । n) उप. = कृया- । o) पाभे. वैप १-
 १५३५ j द्र. । p) पाभे. वैप १, १२९६ d द्र. ।

१ दक्षा गौपि १, १, ८१.

१ दक्षिण, णा^a- पाठ २, ५०; -णः
 आश्रौ २, २, १३××; शांश्रौ
 १७, १३, २^२१^b; काश्रौ; वौश्रौ
 २२, ८ : ३^c; या १, ७^d;
 -णम् आश्रौ १, १, १२××;
 शांश्रौ; आमिष्ट ३, ५, ८ : ६^d;
 -णम् ऽणम् माश्रौ १, १, २, २;
 वाश्रौ १, २, ३, १६; -णया शांश्रौ
 ४, ११, ४^e; काश्रौ; -णयोः काश्रौ
 १७, १०, ८××; वौश्रौ; -णस्मात्
 माश्रौ १, ७, ३, ४६; २, २, ३, ३;
 वाश्रौ; पा ७, १, १६; -णस्मिन्
 माश्रौ १, ७, ४, १७; वाश्रौ;
 पा ७, १, १६; -णस्य आश्रौ ४,
 ९, ३××; शांश्रौ; -णस्याः काश्रौ
 ७, ३, २७; आपश्रौ; -णस्याम्
 आश्रौ १, ११, ७^f; ६, १०, २१;
 शांश्रौ; -णा आश्रौ १२, ९, ५;
 काश्रौ; -णाः वौश्रौ २, ११ :
 ७××; माश्रौ; लाश्रौ ५, ६, १०^g;
 -णात् आश्रौ ४, ४, ४^h; शांश्रौ;
 -णान् आश्रौ ४, ५, ७; १०, ८,
 ८; काश्रौ; -णानि आपश्रौ १०,
 २२, ११; ११, १०, ९-११;
 वौश्रौ; वौपि १, ७ : ८^d; कौस्
 ८१, २७; -णाभ्याम् काश्रौ
 १७, १०, ५; माश्रौ १, १०, १६;
 -णाम् शांश्रौ ६, ३, २^१; १७,
 १०, ११^२; काश्रौ; वैताश्रौ ७,
 २४^h; -णाम् ऽणाम् वाश्रौ
 १, २, ३, १२; -णाय आश्रौ ५,

६, १२; ऋप्रा १५, २१; -णायाः
 माश्रौ ७, १८, १२; माश्रौ;
 -णायाम् वौश्रौ ३, २० : १३;
 १०, ३८ : १७; ११, २ : २६;
 माश्रौ १, ७, ३, ३१; ६, १, ८, ५;
 वैश्रौ; -णायै आपश्रौ २, ८, ३;
 १६, १९, ७; वौश्रौ; -णे आश्रौ
 १, १२, ३२××; शांश्रौ; वौश्रौ
 १६, ३ : ३०; -णेन, > नाⁱ
 आश्रौ ३, १, १८××; शांश्रौ;
 -णेभ्यः आपश्रौ १२, १४,
 १३; -णेषाम् आपश्रौ १५, ७,
 ३^११; वौश्रौ; -णेषु काठश्रौ
 ८४××; वौश्रौ; -णैः आश्रौ
 ६, १२, ७; आपश्रौ; -णौ आश्रौ
 १२, ९, ८; -णौ ऽणौ वौश्रौ २१,
 १४ : ३१.

दक्षिण-कपाल-योग- गान् वैश्रौ
 ४, १० : ४.

दक्षिण-कर्ण- णम् आमिष्ट २, ७,
 ८ : ४; -र्णे वाश्रौ १, ४, ३, ८;
 काण्ड ४३ : २.

दक्षिण-ग्रीव^l- -वम् वैश्रु ५, ३ :
 १६.

दक्षिण-जानु- -नुना काश्रौ ७, ३,
 २१.

दक्षिणजान्व(नु-अ)क्त- -क्तः
 गोश्रु १, ३, १; २, १०, ३२; द्राश्रु
 १, २, १७; -क्तम् द्राश्रु २, ४,
 २०.

दक्षिण-तसः(ः)^l आश्रौ १, ७, ६××;
 शांश्रौ; ८, १५, ११^k; आपश्रौ

१०, २०, १^l; १४, २०, ८^m;
 द्राश्रौ १०, ३, ६ⁿ; लाश्रौ ३,
 ११, ३^o; पाश्रु ३, ४, १७^२१०;
 माश्रु २, १५, १^११^m; याशि १,
 ५८; पा ५, ३, २८; वेज्यो
 ४०.

दक्षिणत-उपचार^l- -रः वौश्रौ
 २६, ३३ : १८; -रम् आपश्रौ
 ११, ९, ४; हिश्रौ १३, ६,
 १७.

दक्षिणत-उपवीतिन्- -तिनः
 आपश्रौ ३, १७, १; हिश्रौ २, ६,
 ५५.

दक्षिणतः-प्रवृत्ति^l- -त्तयः शांश्रु
 १, ८, ५.

दक्षिणतः-सद्- -राद्भ्यः वाश्रौ
 १, १, ३, १७.

दक्षिणतो-न्याय^l- -वम् शांश्रौ
 २, ११, १; ४, ६, १.

दक्षिण-द्वर्क^l- -धक् लाश्रौ ५,
 ७, ३.

दक्षिण-द्वार^l- -द्वारा वैश्रौ १४,
 १९ : ४.

दक्षिण-द्वार^l- -रम् वैश्रौ १४, १० :
 २; काश्रु ११, १; गोश्रु ४, ७,
 १६; -राणि आमिष्ट २, ६, ३ :
 ४^१; कौस् ८५, ११; अप १,
 २८, ३.

दक्षिण-धिष्ण्य^l- -ण्यः ऽण्यः
 शांश्रौ ६, १३, ४.

दक्षिण-धुर^l- > धुर्य- -र्यम् काश्रौ
 १५, ६, १८.

a) १ दक्षिण, णा-, २ दक्षिण-, णा- (तु. वैप १) इत्यत्र समाविष्टौ । b) सप्र. दक्षिणो वाहुः <>
 दक्षिणतः इति पामे. । c) = दक्षिणतस्(ः) इति । d) सपा. णम् <> णानि इति पामे. । e) पामे.
 वैप १, १५३५ S द्र. । f) णान् पञ्चः इति पाठः ? यनि. च न्यञ्चः इति च शोधः (तु. द्राश्रौ.) । g) पृ ६३८
 ० द्र. । h) णान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सोमादित्यः C. च) । i) वैप १ द्र. । j) विप. । वस. ।
 k) पामे. वैप १, १५३६ j द्र. । l) उत्तरेण समस्तमिति संस्कृतः सूची । m) सप्र. दक्षिणतः <> दक्षिणा इति
 पामे. । n) सक्तु वैप १ पञ्चान् [काठ ३७, १०] इति पामे. । o) पामे. वैप १, १५३६ e द्र. ।

दक्षिणयुर्वे-सम्^a -सम् काश्रौ
२०, १, २९^b.
दक्षिण-पश्चात्^c वैताश्रौ ३४, २;
आमिगृ २, ५, ९ : ७; वैगृ २,
६ : ६; अप ५६, १, ६.
दक्षिण-पश्चा(श्च-ञ्)र्धे^c - पावा ५,
३, ३२; -र्धात् कौगृ १, ५, १८;
शांगृ १, ९, ६.
दक्षिण-पश्चिम, मा^c -मस्याम् वैगृ
१, ९ : ५; ४, ५ : ४; -मे आगृ
४, २, १३; वैगृ.
दक्षिण-पाणि- -गिना वैघ २, १३,
५; ३, ३, ११; -गिन् वैगृ २,
६ : ३; गोगृ २, १०, २२; -णे:
वैगृ १, ५ : ६; ३, २२ : १०.
दक्षिण-पाद्- -दत्य हिश्रौ ६, ४,
२०; -देन पागृ १, ५, २; ७, १;
-दौ वैश्रौ १९, ६ : ६७^d.
दक्षिणपादा(द-ञ्)ङ्गुष्ठ- -छे वैगृ
२, १८ : १२.
दक्षिणपादाङ्गुष्ठा(ष्ट-ञ्)म-
-ग्रेण वैघ २, २, १.
दक्षिण-पार्श्व- -श्वे अप ५६, १, ५;
विघ २०, २१; -श्वैः पागृ ३, २,
१३.
दक्षिण-पुरस्तात्^e आश्रौ ५, ३, २३;
१२, ६, ७; आमिगृ २, ५, ९ : ६;
जैगृ १, १ : २०; २, ६ : ६.
दक्षिण-पूर्वार्ध^f - र्वम् आपश्रौ १,
८, ८; ११, ११, २; १२, ३;
हिश्रौ; -र्वस्याम् काश्रौ २५,
१३, ३०; वौश्रौ १९, १० : ४४^g;
आगृ ४, १, ६; आमिगृ ३, ४, ४ :
१; -र्वा आपश्रौ ९, २०, ७;

-र्वास्याम् आगृ २, ६, ३; भागृ
१, २७ : १२; -र्वाम् काश्रु १,
८; -र्वे काश्रौ ४, ७, १०; आपश्रौ
१४, ३०, ५; वैगृ; -र्वेर्णा काश्रौ
८, ६, १८; आपश्रौ १, ७, १३;
भाश्रौ १, ७, ८; ८, १५, २.
दक्षिणपूर्वा(र्व-ञ्)य(त>)ता-
-ताम् काश्रौ २५, ८, ३.
दक्षिणपूर्वा(र्व-ञ्)र्धे^f - र्धे काश्रौ
३, ३, २०; ९, १, ८; वैश्रौ ९,
९ : २; कौगृ १, ५, १७; कौसृ
४, २.
दक्षिणपूर्विन्- -विणम् आपश्रौ
२४, १३, २.
दक्षिण-पूर्व-पाद्- -देन काश्रौ ४,
९, १२.
दक्षिण-प्रगिधि- -शौ वैगृ १, १३ :
१; २० : १४; -ध्याम् वैगृ
१, २० : १५; ४, ११ : ५.
दक्षिण-प्रत्यग्- -नपवर्गा^f - र्नाम् कौसृ
१, १६.
दक्षिण-ब्राहु- -हुन् वैश्रौ १५, २४ : ३.
दक्षिण-मारुते(त-ई)रित- -परि-
-तत- -ते अप ६५, १, ६^h.
दक्षिण-सुख^f - -खः विघ ६८, ४१;
-त्वाः गौगि १, ४, ७.
दक्षिण-व(त>)ती- -त्यः निसृ २,
११ : २५.
दक्षिण-वेदि- -दिम् वैगृ १, ९ :
१२; -देः वैश्रौ ८, ९ : ९.
दक्षिण-रायन-पाद्^f - -दम् कौसृ
३६, ४.
दक्षिण-शिरस्^f - -रसम् गोगृ ३, १०,
२५; -राः आमिगृ २, ६, ७ : ३९.

दक्षिण-शीर्ष^f - -र्वम् वैश्रौ १५, २ :
४; वैगृ ५, १ : ७; २ : २०.
दक्षिण-श्रोणि- -गिन् वैश्रौ १९,
५ : ३४ⁱ; -ण्याम् काठश्रौ ११५;
वैश्रौ १२, २२ : १५; १५, २ : ९.
दक्षिण-सक्विय-पूर्व-नडक- -कम्
काश्रौ ६, ७, ७.
दक्षिण-सद्^f - -स्र्वा आपश्रौ १५,
१०, ११; वौश्रौ ९, १० : १३;
भाश्रौ; -सद्ः वौश्रौ १२, ४ : ५;
भागृ २, ६, ७; -सद्म्यः आपश्रौ
३, ४, १; भाश्रौ ३, ४, १; वैश्रौ
७, ३ : ६; हिश्रौ २, ३, ४०; ६,
३, ७.
दक्षिण-साद्- -सात् आश्रौ ४, ७,
४ⁱ.
दक्षिण-स्कन्ध- -न्धे शांगृ २, १०, ८.
दक्षिण-स्य- -स्थान् अञ्च ३, २६.
दक्षिण-हविर्धान- -तस्य वैताश्रौ
१५, १०.
दक्षिण-हस्त- -स्तम् आमिगृ २, ४,
९ : १३; वैगृ १, ५ : १०;
-स्तस्य काश्रौ ७, २, ६; वैश्रौ
१, ३ : ११; १२, ६ : ७; -स्ते
काश्रौ २५, ७, २१; आमिगृ;
-स्तेन आमिगृ २, ७, ६ : ३१;
वैघ २, ७, ६.
दक्षिणहस्त-पुरोडाश^f - -शाः
वैताश्रौ ९, २०.
दक्षिणहस्त-(त्य>)स्या- -स्याः
अप ४१, १, ३०^g.
दक्षिणहस्ता(त्त-ञ्)ङ्गु(त्ति>)
ली- -लीभिः आमिगृ २, ४,
९ : ९.

a) = अश्व-विशेष- । तुस. । b) र्व-वमन् इति बौलं. (पाणिनः पामि. इति कर्कः । c) = वैश्रवती-दिग्- ।
d) उप√नुच् इत्यस्य द्विर्भक्तत्वं मत्वा ष्टौ (=दयोः) इति ऋमत्त्वविदक्ष्या वा. द. । e) = आग्नेदी-दिग्- । f) वा.
क्रि. । g) विप । मत्त. । h) प्रकरयतः एतेषु इति संभाव्यते । i) कस. > पस. । j) ष्यारं (= णिम् कः) इत्यत्र संघिरार्पः । k) वैप १ द. । l) पामि. वैप १, १५३६ j द. ।

दक्षिणा^a आश्री २, १९, ४; ३, ८, १; ४, ४, २; शांश्री; वैश्री २१, ६: ८^b; हिश्री २५, ३, २१^c; पा ५, २, ३६; ३७.

दाक्षिणात्व- पा ४, २, ९८.

दक्षिणा(णा-श्च)प्र,आ^d- -ग्रम् वौश्री २, ९: ६××; वैश्री; -प्राणि वैश्री ५, ३: १५; -ग्रान् काश्री ४, १३, १५; २५, ८, ११; आपश्री; -ग्राम् गोश्री ४, ३, २; कप्र ३, २, ९; -प्रेषु शांश्री ४, ३, ३; वौश्री; -ग्रैः आमिश्री १, २, २: २७; आपश्री.

दक्षिणा-श्रीव^d- -वम् आपश्री २, ११, २३; आमिश्री; -वेण वौपि ३, ४, १०.

दक्षिणा(णा-श्च)चार^d- -रः माश्री १, १, १, ६.

दक्षिणा-ज- > दाक्षिणाज^e- -जाः या ६, ९^f.

दाक्षिणाजी- -जी या ३, ५.

दक्षिणा(णा-श्च)ञ्च^a- -णाञ्चः वैताश्री ९, १७; -णाञ्चम् वैताश्री १२, १; कौस् ८७, १८.

दक्षिणा-तुल^d- -लान् माश्री १, २, ६, २९.

दक्षिणा-द्वार,रा^d- -रम् माश्री २, २, ३, १२; हिश्री; आपश्री २, २५, २^b; -राः माश्री ६, १, ८, १०; -राणि वौश्री २, ५, १७.

दक्षिणा(णा-श्च)न्त^d- -न्तम् वैश्री ४, ४: २; ५, २: १९; कप्र २, ८, ४^b; -न्तान् वैश्री ४, ६: ५.

दक्षिणा-न्याच^e- -न्यानि शांश्री १, १, १४.

दक्षिणा-पथ- पाग ४, २, १२७; -थम् आश्री ५, १३, १२; -थाः वौश्री १, १, २९; -थेन शांश्री १३, १४, ६; काश्री.

दाक्षिणापथक- पा ४, २, १२७.

दक्षिणा-प(दु>)दी^d- -दीम् वौश्री २, ९: ३०; आमिश्री.

दक्षिणा(णा-श्च)पवर्ग,गा^d- -र्गः वौश्री २, ११, १६; -र्गम् आपश्री १६, १५, ९; हिश्री ११, ६, ७; -र्गाः वाश्री ३, २, ६, ११; वैश्री; -र्गाणि आपश्री २४, २, १६; कौस् ४७, ५; -र्गान् आपश्री १, ९, १; १४, ६, १४; भाश्री.

दक्षिणा-पश्चात्^d आमिश्री २, ५, १२: १२.

दक्षिणा-पश्चिम-द्वार^d- -रे द्राय ४, २, १३.

दक्षिणा-पुरस्तात्^k आमिश्री २, ५, १२: ११.

दक्षिणा-पूर्व, वा^k- -र्वस्याम् वैश्री ९, ४: २; -र्वेण हिश्री २, ७, ११.

दक्षिणा-प्रतीची^d- -चीम् गौश्री २३, ११^f.

दक्षिणा-प्रत्यञ्च,ञ्च^d- -त्तचः माश्री ५, २, १०, २७; -त्यक् माश्री ५, २, १५, ५; माश्री २, १, ८; १७, २; आपश्री ८, १४.

दक्षिणाप्रतीची^m- -च्यः

आमिश्री ३, ५, ५: ३; वौपि १, ४: ३; हिपि १: ३.

दक्षिणाप्रत्यक्-प्रवण- -णम् आमिश्री ३, ४, १: १३; ५, ५: ५; आपश्री १७, १; वौपि १, ४: ५; २, ९, १; ३, २, ८; हिपि १: २, गौपि १, २, ६.

दक्षिणाप्रत्यक्प्रवण- चिता-देश- -शात् गौपि १, २, ८.

दक्षिणा-प्रवण- -णम् काश्री २२, ३, ६; भाश्री; -णे शांश्री ४, १४, ६; काश्री.

दक्षिणा-प्रष्टि- -ष्टिम् काश्री १४, ३, ८; -ष्टेः काश्री १८, ६, १.

दक्षिणा-प्राञ्च,ञ्च^k- -प्राक् आपश्री ८, १३; -प्राचः माश्री ६, १, ५, ४२; -प्राचम् आपश्री २, १२, ७; भाश्री; -प्राञ्चि आपश्री १, ७, ५.

दक्षिणाप्राची- -ची आपश्री १, ७, १०; भाश्री १, ७, ५; हिश्री २, ७, १२; -चीः आमिश्री ३, ८, ३: ३७; वौपि १, ८: १८××; -चीम् आपश्री १, ७, १३; भाश्री.

दक्षिणाप्राक्-प्रवण- -णेन शांश्री ४, १४, ६; कौश्री ५, २, १३.

दक्षिणाप्राग्-अग्र^d- -ग्रान् आपश्री १४, ३२, ३; वैश्री २०, २८: ८; -ग्रैः आपश्री १, ७, ५; भाश्री.

दक्षिणाप्राची^k- > ^oची-

a) वैप १ द्र. । b) पामे. पृ १२२३ III द्र. । c) णाम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपश्री ९, १) । d) विप. । वस. । e) स्वार्थिकः अण् प्र. । f) णात्याः इति शिवदत्तस्य शोषः । g) सप्र. णाद्वारम् <> णोद्गद्वारम् इति पामे. । h) ण्ताम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. जीसं. अस्त्यु.) । i) वा. किवि. । j) = नैर्ऋती-दिशु- । वस. । k) = आग्नेयी-दिशु- । वस. । l) सप्र. वौश्री २, १, १४ दक्षिणाप्रतीची-च्योर्दिशोरन्तरेण इति पामे. । m) विप. (२अप्- ।

संतत- -तम् हिय २,१४,४^{१४}.
दक्षिणा-प्लव- -वम् शंघ २०९.
दक्षिणा(णा-अ)भिमुख- -खः
माश्रौ ८, १६, १०; आमिगु;
गौघ ९,४१^{१०}; -खस्य कप्र १,
४,४; -खेन कप्र २,८,१३.
दक्षिणा-मुख^०- -खः आश्रौ १,
४, १३; काश्रौ; माश्रौ १०, २,
५^१; -खम् आपश्रौ १२, १,९;
१३, ९; जैगु २,५ : ९; -खस्य
वैताश्रौ १, ९; -खाः जुसु १,
११ : ५; आगु; -खान् वैगु ५,
१३ : ९.

दक्षिणामुखी- -खी दाश्रौ
११,३,८; लाश्रौ ४,३,९; -खीम्
शाश्रौ ४,१४,१३.
दक्षिणा(णा-अ)य(त>)ता-
-ताः कागु ६५,३.
दक्षिणा(णा-अ)रम्भ^०- -म्भैः
वागु १, ९.

१दक्षिणा(णा-आ)वर्त^०- -र्तः
वाश्रौ २, १, ५, ५^१; -र्तं कौसु
१८,२.

२दक्षिणा(णा-आ)वर्त^०- -र्तस्य
अप १,३२,२.

दक्षिणा(णा-अ)वृत्^०- -वृत्
आश्रौ १,१,४; ३,३, ४; शाश्रौ;
-वृत्तः आश्रौ २,१९,३०; ५,३,
१७; शाश्रौ; -वृत्ताम् कौसु ८२,
१; -वृद्धिः वाश्रौ २, १, ६, ४.

दक्षिणा(णा-अ)वृत्त,त्ता- -त्तः
आपश्रौ १०,१,७^१; -त्तया वैश्रौ

१४, ४ : ४; -त्तानाम् आपघ
१,२,३३; हिघ १,१,६५.

दक्षिणा-शिरस^०- -रसम् काश्रौ
२२, ६,१५; वैश्रौ; -राः काश्रौ
२२,६,४; आपश्रौ २२, ७,२४;
हिश्रौ १७,३,२३, लाश्रौ ८, ८,
५; हिपि १ : १७.

दक्षिणा-श्रोणि- -णेः काश्रौ
१७,८,२५.

दक्षिणा-संचर- -रेण वैताश्रौ
२३,१९.

१दक्षिणा-सद्^१- -सदः; -सद्भयः^१
शुप्रा २,३०.

दक्षिणा(णा-आ)हवनीय^१- -ये
लाश्रौ १०,११,१२.

दक्षिणा(णा-अ)स- -सम् पागु. १,८,
८; ११, ९; २, २, १६; -सात्
काश्रौ १७, ६,५; १२,२३.

दक्षिणांस-सहित- -तम् काश्रौ
५,४,११.

दक्षिणा(णा-अ)सि^१- -सिः काश्रौ
४,१३,४××; आपश्रौ; -सिना
वैश्रौ २०,८ : ७; -सिम् आश्रौ
२, २, १; १९, ३०; शाश्रौ;
-सिः आश्रौ २,६, २××; शाश्रौ;
-सिौ आश्रौ २, ६, ८; शाश्रौ.

दाक्षिणासिक- -काः वाश्रौ
१,१, ४, ११^{१६}; -कौ माश्रौ
१,७,६,४३; ८,५,९.

दक्षिणासि-पक्- -क्त्वा काश्रौ ४,
६,११.

दक्षिणासि-स्थान- -ने मागु १,

६, २.

दक्षिणासि-होम- -मान् वैताश्रौ-
४, ९.

दक्षिणासिहोमा(म-अ)न्त-
-न्तम् काश्रौ ८,९,१३.

दक्षिणागन्य(मि-अ)सि- -सिना
काश्रौ १६, ४,१२.

दक्षिणागन्या(मि-आ)दीस- -सैः
काश्रौ १६,४,८.

दक्षिणागन्या(मि-आ)यतन- -ने
हिश्रौ ३,४, २२.

दक्षिणागन्या(मि-आ)हवनीय-
-यौ आपश्रौ ९,३,२१.

दक्षिणागन्यु(मि-उ)ल्लुक्- -क्त्वा
काश्रौ ५, १०,७; १५,१,८.

दक्षिणा(णा-अ)दि^०- -दयः आश्रौ
५, ३, २६; -दि^१ वैताश्रौ २९,
१३^{१३}; वैगु १,२ : ४; ११ : ५;
३,१५ : १४.

दक्षिणादि-कर्ण- -र्णयोः वैगु २,
१५ : ४; ३,२२ : ११.

दक्षिणादि-प्रणिधि- -ध्योः वैगु
१,२० : ८.

दक्षिणादि-प्रदक्षिण- -णम् वैगु
२,७ : ८.

दक्षिणा(णा-२आद्य>)द्या- -द्यासु
अप ५२,८,४.

दक्षिणा(णा-अ)नामिका-मध्यमा-
-माभ्याम् वैश्रौ ६,८ : ४.

१दक्षिणा(णा-अ)पर,रा^१- -रम् शाश्रौ
१,६, ६; आपश्रौ ११, १२, ४;
माश्रौ १,८,४,९; ६,१,५, १५;

a) 'चीं स' इति आन. पाठः? । b) 'णामु' इति st. । c) विप. । वस. । d) सप्र. 'णामुखः

<> 'णावृत्तः इति पाठे. । e) कस. उप. = आवृत्तः । f) सप्र. माश्र ७,२,२,१४ दक्षिणावृत्त इति, माश्रौ ६,१,

५,४० प्रदक्षिणावृत्ता इति च पाठे. । g) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । h) पाठे. वैप १,१५३७ a, b द्र. ।

i) समासः? । j) वैप १ द्र. । k) दक्षि^० इति पाठः? यनि. शोधः । l) क्वचित्

वा. क्वि. । m) 'णादिकप्र' इति पाठः? यनि. च प्रतिदिशम् इति च द्विपदः शोधः (तु. सा [शौ ६, १०५, ३]) ।

n) विप., नाप. ।

वैश्रौ १८, १३ : ८; हिश्रौ १, ६, ११; ११, ६, ५; १३, ३, १९; द्राश्रौ ३, २, १४; लाश्रौ १, १०, १०; आमिगृ २, ७, ९ : १५; भागृ ३, १८ : १९; गोगृ १, ६, १४; कौसृ ८७, २६; -रस्याम् चांश्रौ १३, ११, २; आगृ ४, १, ६; कागृ ४५, ७; -रा आपश्रौ ९, २०, ७; -राम् वाश्रौ ३, २, ५, ३६; कौसृ ८४, १६; आपव १, ३, १, २; हिष १, ८, २०; -रे काश्रौ ८, ५, १७; -रेण हिश्रौ २, ७, ११.

दक्षिणापर-वसु (:). अप ५२, ९, १.

दक्षिणापरा(र-अ)मिसुख- -खः विष ६१, १२.

दक्षिणा(पा-अ)परा- -रयोः हिश्रु ५, ३०^a.

दक्षिणा-प्रवीची- -च्योः वौष २, १, १४^b.

दक्षिणा(ण-अ)यन- -नम् भागृ १, १२ : १; वागृ ८, ७; वैगृ ५, १ : ११; विष २० : २; गौष १६, २; या १४, ८; -नात् या १४, ८, -ने भागृ १, १२ : १; हिपि २० : ८^c; -नेन आमिगृ ३, ९, ३ : २६.

दक्षिणायन-पशु- -शोः वौश्रौ २८, १२ : १६; १७.

दक्षिणा(ण-अ)यन^c- -नात् कप्र ३, ९, २.

दक्षिणा(ण-अ)र्ध^c- -र्धस्य अप १, ३५, १.

दक्षिणा(ण-अ)र्ध- -र्धम् आपश्रौ १२, २०, १०; वौश्रौ; -र्धस्य वाश्रौ ३, २, ५, ५७; -र्धाः अप १, ६, ९; -र्धात् शांश्रौ ४, २१, ९; आपश्रौ; -र्धे शांश्रौ ४, ४, २; २१, ९; १७, ४, ४; काश्रौ; -र्धेभ्यः वैश्रौ ९, ८ : १५.

दक्षिणाध-पूर्वाध^d- -र्धे आपश्रौ २, १८, ५; वौश्रौ १, १६ : १०××; भाश्रौ.

दक्षिणाध-क्षिरस- -रः वाश्रौ १, ६, ४, १४.

दक्षिणाध(र्ध-अ)परार्ध^e- -र्धात् शांश्रौ १८, २४, १९.

दक्षिणाध्व, ध्वर्वा^f- -ध्वः आपश्रौ १, ५, १०; वौश्रौ; -ध्वम् वौश्रौ १, ८ : १२××; भाश्रौ; -ध्वान् वौश्रौ १७, १४ : १४; २६, २४ : ११; -ध्वाम् वौश्रौ १२, २० : ५; १८, ५० : ३; -ध्वाम् हिश्रौ ५, ४, ७५; -ध्वे वौश्रौ १५, १७ : १७.

दक्षिणाध्व^g-पूर्वाध^h- > ध्वर्वाⁱ- -ध्वम् द्राश्रौ ३, २, ४; लाश्रौ १, १०, ३.

दक्षिणा(णा-अ)वरा- -रयोः आपश्रु १६, ९^a.

दक्षिणाहि पा ५, ३, ३७.

दक्षिणे(ण-ई)मैन्- -र्मा पा ५, ४, १२६.

दक्षिणो(ण-उ)त्तर, रा^b- -रः जैगृ १, १ : २१; -रम् वैगृ १, ८ : २; ५, १० : ३; कौसृ २, २३; ७८, ७; -रयोः वैश्रौ १, २ : १२;

वैगृ; -राः काश्रौ १२, १, १५; १७, १, ८; २३; -राणाम् काश्रौ ८, ८, १४; -राणि वैश्रौ १५, २ : १०; गोगृ १, ७, १३; -रान् काश्रौ १२, १, २५; -राभ्याम् आश्रौ ३, १, १६; काश्रौ; -रे काश्रौ १५, ३, ३२××; २६, ४, १०^c; माश्रौ २, ३, १, ११; -रैः शांगृ ६, ३, ६; -रौ काश्रौ ८, ३, ९××; आपश्रौ.

दक्षिणोत्तर-परिधि-संधि^c- -न्धी वैश्रौ १३, ११ : २.

दक्षिणोत्तर-मुख- -खम् अप १८, ३, २.

दक्षिणोत्तर-वेदि-श्रोणी- -ण्यौ शुभ्र १, ४५७.

दक्षिणोत्तरा(र-अ)यण- -जे आमिगृ ३, ११, ४ : १^d.

दक्षिणोत्तरिन्- -रिणः वौश्रौ ६, १९ : १७^e; २१ : १६; -रिणम् शांश्रौ १, ६, १०; १७, १६, ७; माश्रौ १, १, ३, १; -रिणा आश्रौ १, ३, ३१; -री वौश्रौ ३, २८ : ६; ३१ : १०.

दक्षिणोत्तरो(र-उ)त्तान- -नाभ्याम् द्राश्रौ २, ३, ३.

दक्षिणो(ण-उ)त्तान^c- -नाः काश्रौ ८, २, ८; -नान् शांश्रौ ५, ८, ५; -नेन वौषि ३, १, १६; -नैः वैश्रौ १४, ३, ११; हिश्रौ ७, ४, २३; -नौ गोगृ ४, ३; १८; २०; द्रागृ ३, ५, २४; २६.

दक्षिणो(ण-उ)दग्-द्वार- -रम् कौसृ ८३, २५; हिष २, ५, १८३^f.

a) सप्र. परयोः <> ष्वरयोः इति पाठे. । b) पाठे. पृ १२२५ III द्र. । c) विप. । वस. । d) = आग्नेय-कोण- । e) = नैऋत्य-कोण- । f) वैप १ द्र. । g) स्वार्थे यत् प्र. । h) वस. वा दस. वा. । i) वौ इति चौसं. । j) सप्र. वौश्रौ ३, २०, १ ष्यणयोः इति पाठे. । k) च्चरेण इति सा (तै १, २, ११, १) । l) पाठे. पृ १२२५ द्र. ।

दक्षिणो(ण-उ)द्वासना(न-अ)न्त-
 -न्तम् कप्र ३,१०,१३.
 दक्षिणो(ण-उ)न्नत- -तः अप ५०,
 २,३.
 दक्षिणो(ण-उ)पक्रम^a- -मात् साश्रौ
 १,४,१,२.
 दक्षिणो(ण-ऊ)ह- -ह्म् काश्रौ १०,
 ७,४; -रौ वैश्रौ १५,२६:११.
 २दक्षिणा^b- पा ५,१,६५; पाग ४,
 २,३८; -णया वौश्रौ १३, १ :
 १३; वाधुश्रौ ४, ४ : ३; ४; ६;
 वौध २, ३, ६२; विध २१, ४;
 -णा आश्रौ ३, १०, १२x; ;
 शाश्रौ; या १, ७; -णाऽ-णा
 आपश्रौ १९, २७, २३;
 -णाः आश्रौ ५, १३, ११;
 १४^cx; शाश्रौ; वैश्रौ १६, ७ :
 ३^d; -णानाम् आश्रौ ५, १३,
 १४; शाश्रौ; -णामिः आपश्रौ
 १४, २०, ३; वौश्रौ; -णाम्यः
 आपश्रौ १०.१३,३; १३, ६, ७;
 भाश्रौ; -णाम् आश्रौ ३, १४,
 ८x; शाश्रौ; कौश्र ५,१,१४^e;
 -णायाः वौश्रौ २९, १२ : १०;
 वाश्रौ २,२, ४, १९; वैश्रौ २०,
 ४ : १; हिश्रौ १०, ६, ५^f;
 -णायै आपश्रौ १६, ३४, ४^g;
 वौश्रौ; -णासु काश्रौ २५, ११,
 ८; १२, २७; आपश्रौ; -०णे
 आपश्रौ १४,११,२^h;
 दाक्षिणⁱ- पा ४, २, ३८^h;
 -णानाम् वौश्रौ २३, १० : ९;

१८ : १; -णानि आपश्रौ १३,
 ५, ६ⁱ; वौश्रौ; वौश्र ३, १,
 २२^j; -णाम्यः वौश्रौ १०,५७ :
 १५; ११, ६ : १०; १२, ७ :
 २५; १८ : १४; १५, १८ :
 १३; ३२ : ३; ३६ : ९; -णेषु
 शाश्रौ १३,१४,६; -णैः वाधुश्रौ
 ४, ८८ : २; ८; -णौ आपश्रौ
 १८, २,१९; २१,५,१०; माश्रौ
 २,४,५,१; वाश्रौ ३,२,१,३६;
 हिश्रौ १३,१,२५; १६,२,१९.
 दाक्षिण-होम- -मः काश्रौ
 १०, २, ४; -मौ वैताश्रौ २१,
 २३.
 दाक्षिणहोमा(म-अ)न्त^a-
 -न्तम् वैश्रौ १७,११ : १.
 ऋदाक्षिण्य¹- -यैः^k आपश्रौ
 १४,२६,१; हिश्रौ १५,६,२९.
 दक्षिणा-कर्मन्- -र्म काश्रौसं २९:
 १७; ३३ : १७.
 दक्षिणा-काल- -लः शाश्रौ १, १२,
 १०; ७, १७, १६; -लम् वैश्र
 १,७ : १३; -लात् भाश्रौ ५,
 १२,१४; २०, १२; साश्रौ ५,
 २, ११, ३३; ६, २, ६, १४;
 वाधुश्रौ ३,७९ : १७; -ले काश्रौ
 १२,२,२२x; आपश्रौ.
 दक्षिणा-गण- -णाः आश्रौ ९, ९,
 १५.
 दक्षिणा-तस(ः) कौश्र ५,८,८.
 दक्षिणा(णा-अ)तिनयन¹- -नः
 आपश्रौ १३,६,९^lm.

दक्षिणा-त्याग- -गात् वाध २३-
 ३६ⁿ.
 दक्षिणा-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ ४,
 ४ : ७^o; ९.
 दक्षिणा-दान- -नम् आपश्रौ ४,
 १,२; साश्रौ २, २, ५,१; वैश्रौ
 ३,१ : ६; हिश्रौ ६,१,७; मीत्
 १०, ३, ३०; -ने आश्रौ ३,
 १४,९.
 दक्षिणा-दाना(न-आ)दान- -ने
 वैश्र १,७ : १५.
 दक्षिणा-द्रव्य- -व्ये जैश्रौका १६५.
 दक्षिणा-नयन- -नात् वौश्रौ २१,
 १० : ३.
 दक्षिणानयना(न-अ)वधि-
 -धि जैश्रौका ३७.
 दक्षिणा(णा-अ)पनय- -यात् मीत्.
 १०,२,४४.
 दक्षिणा-पृथक्त्व- -क्त्वेन हिश्रौ
 १३,३,१०.
 दक्षिणा-प्रतिग्रह¹- -हैः श्रामिष्ट ३,
 ७, ३ : २१; वौषि २, २, २;
 हिपि १९ : ८.
 दक्षिणा-प्रवाद- -दः निस् ९, ९ :
 ९.
 दक्षिणा-भाग- -नाम् वैश्रौ १६,
 ७ : ५; हिश्रौ १०, ४, ४६; ४७;
 -गात् हिश्रौ २०,४,५२.
 दक्षिणा-भेद- -दः मीत् १०, ६,
 ६६.
 दक्षिणा-युक्त- -क्ताः वौश्रौ २३-
 १० : ११.

a) विप. । वस. । b) वैप १,१५३८ d द्र. । c) पाभे. वैप २,३३. दक्षिणाम् तैत्रा २,४,६,७ टि. द्र. ।
 d) सप्र. दक्षिणा नयति <> दक्षिणातिनयनः इति पाभे. । e) पाभे. वैप १ विद्वान् शौ १८,२, ५७
 टि. द्र. । f) वैप १ द्र. । g) समूहे प्र. । h) द् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. ८.) । i) पाभे. पृ
 १००० S द्र. । j) अर्हार्थे ढक् > एयः प्र. उत्सं. (पा ५,१,६९) । k) सपा. काठ ३५,१० क ४८, १२
 दक्षिणीयैः इति पाभे. । l) विप. > नाप. (मन्त्र-) । उत्स. । m) सा. [तै १,४,४३,२] णानिनयने
 इति पाभे. ।

दक्षिणायुक्त-वचन- नात् मीस् १०, २, २४.
 दक्षिणा(णा-अ)र्थ- र्थम् भाश्रौ १०, १२, ४; अप २१, १, ७; -र्थस्य मीस् १०, ३, ५७.
 दक्षिणा(णा-अ)र्थ-हर- -रः कप्र २, ५, ३.
 दक्षिणा-वत्- -वता आश्रौ १२, १५, ११; वीश्रौ १०, २५ : १०×४; निसू; -वताम् वैश्र १, ६, १२१; -वत्सु द्राश्रौ १, ३, १; ७, १, १६; लाश्रौ ३, १, १७; -वन्तः निसू ९, ९, ११; -वान् आश्रिण् ३, ८, २ : १४; वीपि १, १५ : २४; ऋप्रा ९, २२१.
 दक्षिणावती- -ती^१ आश्रिण् ३, ८, २ : ३२; वीपि १, १५ : ४०, -तीः वीश्रौ २०, १८ : २१; २८.
 दक्षिणा-वर्जम् आपश्रौ १४, १४, ९; आपण् ७, १७.
 दक्षिणा-विकार- -रः मीस् १०, ३, ७४.
 दक्षिणा-विधि- -धिः अप ७०, ४, ३; -धौ जैश्रौका १७१^१.
 दक्षिणा-वेला- -लायाम् काश्रौसं २८ : ९; लाश्रौ ८, ५, १७; ९, १७; ९, १, १५; निसू ७, १ : १४.
 दक्षिणा-व्यपेत- -तम् वीश्रौ १३, १ : १४.
 दक्षिणा-शब्द- -द्वात् मीस् १०, २, ३६.

दक्षिणा-शास्त्र^०- -स्त्रम् मीस् १०, ६, ६२.
 दक्षिणा-संमार्जन-संश्लेष- -पम् वाश्रौ १, ६, ७, २१.
 दक्षिणा-हृदय^१- -यः विध १, ८.
 दक्षिणीय- पा ५, १, ६९.
 दक्षिणीय-तम- -माः वृदे ५, १५८.
 दक्षिणो(णा-उ)क्त- -क्तौ वीश्रौ २५, ६ : ११.
 दक्षिण्य, ण्या- पा ५, १, ६९; -ण्यम् वीश्रौ २४, २९ : ४; -ण्याम् वीश्रौ २४, २९ : ३.
 दक्षिणाकार^०- -रः वीश्रौ २०, ११ : २४.
 दक्षिणाहि १दक्षिण-द्र.
 १दक्षितवती^१- -वत्यः निसू ८, ४ : ११.
 दक्षि-सूरि- ✓वह् द्र.
 दगु^१- पाउभो २, १, ४६; पावा ४, १, १५५.
 दागव्यायनि- पावा ४, १, १५५.
 दग्ध- प्रभृ. ✓वह् द्र.
 ✓दग्ध^१ (*वधा.) पाधा. स्वा. पर. घातने पालने गतौ [निघ.] सवणे [या.] च, दव्यति^१ निघ २, १४; दव्याः^१ ऋप्रा १४, ५२.
 दघ्न^१- -घ्नम् या १, ९.
 दङ्घणु- ✓दंश द्र.
 ✓दङ्घ^१ पाधा. भ्वा. पर. पालने.
 दङ्घी^१- पा, पाग ४, ३, १६७.
 ✓दण्ड पाधा. चुरा. डभ. दण्डनिपा-

तने.
 १दण्ड^१- पाउ १, ११४; पा, पाग ५, ३, १०; पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०; ४, १२०; ५९^०; ५, १, ६६; १२२; ४, ३^०; -ण्ड ह्रिण् १, ११, ८१; -ण्डः शाश्रौ १७, ३, ३; ४; काश्रौ; शाण् २, १, १८; पाण् २, २, १२; ५, २५; ३, १५, २०; आपण् ८, ९; ११, १६; १७; वाध ११, ५२; १९, ९; २०, १८; शंघ ३१२; ३१३; ३२१; ३२२; ३२९; ३३२; आपध १, २, ३८^१; वीध १, २, ४१; २, २, ५४; विध ३, ९५; ५, २; ३७; १२०; १५१; २७, २८; वैध २, ३, २; ८, ११; हिध १, १, ६९^१; गौध ११, ३०; ३३; शुभ्र १, २५३; अश्र ९, ११; अपि ३, १६१; या २, २; -ण्डम् आश्रौ ३, १, १६×४; शाश्रौ; आण् १, २२, १; ३, ८, १; २०; कौण् २, ३, १०; ८, ७१; शाण् २, ६, २; १३, ७; ३, १, ११; पाण् २, २, ११; ६, १५; ३१; आश्रिण् १, १, १ : १७; ४ : १६; ३, १ : ५; ५ : १०; आपण्; वाध १२, ३७; १९, ८; शंघ ४२; ११६ : १९; ३०३; ३०६; आपध २, ११, १; २; २९, ८; वीध २, ३, २८; ३, २, ६; ३, १६; विध ३, ६४; ९१; ५, १९४; १९५; ६, २०; २७, २९; ७१, ८०; हिध १, ७, ५७^१; २, ४, १८; १९; ६,

a) संपा. ऋ १०, १८, १० दक्षिणावते इति पाभे. । b) ण्द्विधौ इति पाठः ? यनि. शोधः । c) उप. = श्रुति- । d) विप. (यज्ञवराह- [= विष्णु-]) । वस. । e) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । f) पाठः ? दक्षिणवती- इति शोधः (तु. निसू २, ११ : २५) । g) व्यप. । व्यु. ? । h) या १, ९ परामृष्टः द्र. । i) ष्य^१ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. B.N. प्रभृ.) । j) वैप १, १५३९ h द्र. । k) पाप्र (५, २, ३७) प्रत्यय-विशेषः । l) तु. BFG. । m) = ओपधि-विशेष- । व्यु. ? । n) वैप १ द्र. । o) तु. पागम. । p) सप्र. दण्डमादाय <> दण्डार्थे इति पाभे. ।

२१; या २, २^३; ३, २१;
 -ण्डस्य वौश्रौ २१, ९ : १७;
 वैश्रौ ११, ७ : ३; ६; ८ : १;
 कौश्र २, ८, २; ३, ९, ६०; शांश्रु
 २, १३, २; आमिश्रु २, ७, १ :
 १३; अप ४८, १२२; या ३,
 २१; -ण्डाः आपश्रौ १५, ५,
 १३^१; भाश्रौ; शंश्रु ३६; आपश्रु
 १, ८, २९; बौध १, २, १६; विध
 २७, २१; हिध १, २, ११७; वृदे
 १, ५०^१; -ण्डात् आपश्रौ
 १०, १५, १२^१; वौश्रौ ६, ६ :
 ८x५; भाश्रौ; विध ५, ७३;
 -ण्डान् माश्रौ १, २, ५, २;
 वाश्रौ १, ३, २, १३; हिश्रौ;
 वौध १, १०, २०; -ण्डाय
 आपश्रु २, ११, ३; हिध २,
 ४, १७; १९; -ण्डे शांश्रौ ५,
 १६, ४^१; कौश्र २, ८, ६; शांश्रु २,
 १३, ६; अप ७२, २, ६; -ण्डेन
 काश्रौ २५, १, १५; आपश्रौ २,
 ५, ३; हिश्रौ; विध ८, ३७; या
 २, २.
 दाण्डिक- पा ४, ४, १२.
 दाण्डीक- पा ४, ४, ५९^१.
 दण्ड-क, का^१- पा ४, २, ८०; ५,
 ४, ३; पाग २, ४; ३१^०; पावाग
 ७, ३, ४५^१; -काः अश्रु ११,
 ३(२).
 दण्ड-कमण्डलु- ल्ल शंश्रु ३७२;
 ४४३.
 दण्डकमण्डलु-धारण- णम्
 अप ४६, १, ६.
 दण्ड-कर्मन्- मं शंश्रु २५१.
 दण्ड-कारिन्- नी विध ५, १९५.

दण्ड-ग्राह^० (>दाण्डग्राहिक- पा.)
 पाग ४, १, १४६.
 दण्ड-ताडन- -नम् आपश्रु २, २७,
 १५; २८, २; हिध २, ५, २३४;
 ६, २.
 दण्ड-धाना(ना-अ)जिन- -नम्
 कौश्र १०, १५.
 दण्ड-धारण- णम् भाश्रौ १०, ९,
 ८; पाग २, ५, ११.
 दण्ड-नायक^१- -कः आश्रु ७, १७.
 दण्ड-निभ- -भानि अप ७२, ३,
 १४.
 दण्ड-नियम- -मः^१ कौश्र २, ८, १;
 -माः^१ शांश्रु २, १३, १.
 दण्ड-नियोग- -गः गौध १२, ४८.
 दण्ड-पाणि^१- पाग २, २, ३७; -णिः
 अप ६७, ३, ५.
 दण्ड-पुरुष- -षः या २, २.
 दण्ड-प्रणयन- -नम् विध ३, ९२.
 दण्ड-प्रदान- -नम् आपश्रौ १०,
 २७, ४; ११, १८, ६; कौश्र ५९,
 २७; मीश्र ४, २, १६; -नात्
 आश्रौ ४, ११, २; आमिश्रु २,
 ७, १ : ६; -ने आश्रौ ४, १,
 १२; वौश्रौ २१, १२ : १७.
 दण्डप्रदान-वर्जम् आश्रौ ५, ३, ५.
 दण्डप्रदाना(न-अ)न्त^१- -न्तम्
 कौश्र २, ७, ४; शांश्रु २, ११, ४;
 -न्ते वाश्रौ ३, २, ४, १०.
 दण्ड-भङ्गा- -ङ्गे^१ वौश्रु ४, ११, १.
 दण्ड-भिन्न- -न्ने^१ आमिश्रु २, ७,
 ४ : ५.
 दण्ड-भूयस्त्व- -स्त्वम् गौध १२,
 १४.
 दण्ड-भृत्- -भृत्ः अप ५३, ३, १.

दण्ड-मथित- -तम् अप ४६, १, ५.
 दण्ड-माणव- > वा(व-अ)न्ते-
 वासिन्- -सिषु पा ४, ३,
 १३०.
 दण्ड-माथ^१- (>दाण्डमाथिक-
 पावा.) पावाग ४, ४, १.
 दण्ड-मेखला(ला-अ)जिन-जटा-
 धारिन्- -री जैश्रु १, १२ : ६९.
 दण्ड-मेखलो(ला-उ)पवीत-
 -तानाम् कौश्र २, ८, ३; शांश्रु २;
 १३, ३.
 दण्ड-युद्ध-वर्जम् आपश्रु २, १०, ७;
 हिध २, ४, ७.
 दण्ड-युद्धा(द्ध-अ)धिक- -कानि
 आपश्रु २, १०, ६; हिध २, ४, ६.
 दण्ड-यूपा(प-आ)सन- -नानि अप
 २३, ६, ३.
 दण्ड-रज्ज्व(ज्जु-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काश्रु
 ७, ३२.
 दण्ड-वत् वाश्रु ६, ११; अप ५८^१,
 २, ७; विध २८, ५.
 दण्ड-वत्- -वद्भिः काश्रौ २६, ४, १.
 दण्ड-विधि- -धिः विध ५, १९३.
 दण्ड-वृत्तता- -ता अप २३, २, ४.
 दण्ड-व्यवसर्ग- -र्गयोः पा ५, ४, २.
 दण्ड-शायिन्- -यी अप ५०, ४, ६;
 ५, ३.
 दण्ड-शुल्का(ल्क-अ)वशिष्ट- -ष्टम्
 वाध १६, ३१.
 दण्ड-समा(स>)सा^१- -सा शाश्रौ
 १७, ३, ९.
 दण्ड-स्यायिन्- -यी अप ५०,
 ४, ६; ५, २; ३.
 दण्ड-स्यौल्य- -ल्यम् अप २३,
 ३, ३.

a) तु. पागम. । b) वप्रा. । c) = छन्दो-विशेष- इति पागम. । d) = अरण्य-विशेष-
 इति पागम. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) = निर्यायिक- । g) परस्परं पाभे. । h) विप. । वस. ।
 थ) उप. = पयिन्- । j) विप. (दण्ड-युक्ता-] वीणा-) । वस. (तु. C.) ।

दण्ड-हस्त^१ -स्तानाम् वाधूश्री ३,
७९ : ८.

दण्डा(ण्ड-अ)कर्मन्- -र्मणि आपघ
२,२८,१३; हिध २, ६, १३.

दण्डा(ण्ड-आ)कृति^१ -ति: वैगृ
४, १३ : ९.

दण्डा(ण्ड-अ)जिन-(>दाण्डा-
जिनिक) पा ५, २, ७६.

दण्डा(एड-आ)दि- -दि वैताश्री
१२, ७; अशां २२, ४१.

दण्डा(एड-अ)न्त^१ -न्तम् काश्री
७, ४, १०; १६, ४, ४५.

दण्डा(ण्ड-आ)यत- -तम् वैश्री
११, ७ : ८; ८ : ३.

दण्डा(एड-आ)याम- -मम् वैश्री
११, ७ : ११.

दण्डायाम-प्रमाणक^१ -कम्
आमिगृ ३, १०, ४ : ८.

दण्डा(एड-अ)र्थ- -र्थे आपघ १,
२९, १^b.

दण्डा(एड-अ)र्ह- -र्ह: वृदे २,
१०६.

दण्डा(एड-अ)ज्ञानि- -नि: अप
७०^३, ११, २३.

√दण्डि, दण्डयेत् वाध ३, ४.

दण्डन->नीय- -य: विध ५,
१७४.

दण्डयित्वा विध ५, १७२.

दण्डिक- (>दाण्डिक्य- पा.)
पाग ५, १, १२८.

दण्डिन्- -ण्डिन: शाश्री १६,
१, १६; आपमं. २, १७, १३१;

-ण्डी आमिगृ १, १, ४ : ४६;
वाग; या २, १.

दण्डिमन्- पा ५, १, १२२.

दण्डो(ण्ड-उ)च्छ्रयणा(ण-अ)न्त^१-
-न्तम् काश्री १६, ४, ३१.

दण्डो(एड-उ)पानह^१ -हम् शाश्री
३, ३, ७; वीश्री.

दण्डो(एड-ऊ)र्ध्व- -र्ध्वे वैश्री ११,
७ : ८.

दण्डय- पा ५, १, ६६; -ण्डय: शंघ
२६४; ३०३; ३१४; आपघ २,
२६, १९; विध ५, २६××; हिध
२, ५, २१४; गौध १२, ५; १३,
२३; वृदे २, १०६; अत्रभू ८;

या २, २; -ण्ड्यम्, -ण्ड्यात्
विध ५, १९५; -ण्ड्येषु विध
३, ९१.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दण्ड्यो(ण्ड्य-उ)स्सर्ग- -र्गे वाध
१९, ४०.

दत्- पा ५, ४, १४१; ६, १, ६३;
दत्: आपश्री ६, ११, ४××;

वौश्री; वत्सु शाश्री ४, १४, २६^१;

आगृ ४, ३, ५; कौगृ; दक्षि:
वाश्री ३, ४, ५, ११^१; वैश्री १६,
२१ : ३^१; मागृ १, २३, २०^१;

आपघ १, १६, १७; शुक्र^१ ३, ४४;
४६; वात्र ४२:१२^१; ऋद्व्यः
आपश्री २०, ११, १२; वैगृ.

दत्-त्स (:) वौषि १, ११ : १२.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

दत्-वत्- -वते आपश्री २०, १२,
५; वौश्री १५, १९ : १५; वाधूश्री
३, ८३ : ७; १५; मागृ २, १६,
३.

a) विप. । वस. । b) पामे. पृ १२२९ p द्र. । c) विप. । पस. > वस. । d) दस.

समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, १०६) । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) तु. पांका. । दण्डप- इति भारुडा.

प्रभृ., दण्डम- इत्यपि पागम. । g) पूष. < दाण्डि- इति पागम. । h) तु. पागम. । i) वैप १ द्र. ।

j) अष्पु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आगृ., C. च) । k) पामे. वैप १, १२०२ h द्र. । l) = सर्प-

विशेष- । व्यु. ? । m) पा ६, ४, १२६ परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप १, १५४० d द्र. । o) पामे. वैप १,

१५५५ f द्र. । p) पामे. वैप २, ३६. ? तत्तन्त्र मंत्रा १, १, ५ टि. द्र. ।

अप १६, २, ४.
 ण्ददमान- नात् निघ ३, १३; या
 ३, १६.
 ददित्- त्ताः वौश्रौ १४, ८: १६६.
 दद- ददत्- ददात्ति- ददावस्-
 √दा (दाने) द्र.
 ददाश्वस्- √दाश्व् द्र.
 ददि- ददिवस्- √दा द्र.
 ददत्- √द (विदारणे) द्र.
 दद्राण- √द्रा द्र.
 दद्रू^a- पाठभो २, १, ११३; पागवा ५,
 २, १००.
 दद्गुण- पा ५, २, १००; -णः शंघ
 ३७६.
 दद्वस्- √दा द्र.
 √दद्व पाधा. भ्वा. आत्म. धारणे,
 दधते वैताश्रौ २५, १२^b; दधे
 काश्रौ ४, ८, २६; दधत् आश्रौ
 २, १०, ४^cxx; शाश्रौ; आपश्रौ
 ५, १२, ३^d; १९, २४, ९^e;
 वौश्रौ १३, ३२: १९^fxx;
 माश्रौ; आम्रिगृ^g १, १, ३:
 ३५^h; २, १, ५: ३९; ४, ४:
 १०; १९: ३०; ५, ३: १२; वौश्रौ
 ३, ७, १२ⁱ; भागृ १, २०: ७;
 मागृ १, २१, २; हिगृ^j १, ५, १५;
 २, ४, १९; वौघ^k ३, ७, ११;
 १४; अदधत् शाश्रौ १४, २८, ८;
 १५, ६, ६.
 १दधन्-> १दधत्- वान्
 शुभ्रा ३, १३६६.
 दधन्-वन्-वाभागृ, २८: ८^l.
 दध- दधत्- √धा द्र.

?दधत्य- न्यम् अत्र १, १६.
 रदधन्- पा ७, १, ७५; -धन् वौश्रौ
 १७, ५०: ८; भाश्रौ ९, ६, २;
 हिश्रौ १५, १, ७६; -धनि
 काश्रौ २५, ४, ३८; आपश्रौ; -धः
 काश्रौ ४, ३, १२; आपश्रौ २, २०,
 ४xx; वौश्रौ; -ध्ना शाश्रौ १३, ६,
 ३; काश्रौ; -ध्नाम् अप ६७, २,
 २; -ध्नि वैश्रौ ८, ५: ४; विघ
 ९९, १४.
 दधन्वस्- √धन् द्र.
 दधाति- दधान- √धा द्र.
 ?दधि^m शाश्रौ १५, १५, १३.
 १दधिⁿ- पाग ५, ४, १५१; -धि आश्रौ
 २, २, १८xx; शाश्रौ; आपश्रौ
 १, १३, १४^o; वौश्रौ; या १, ४;
 -धि: आम्रिगृ २, ७, ७: ७;
 -धिनि माश्रौ ६, २, ४, १८; जैश्रौ
 २५: ६; -धिनी माश्रौ २, २,
 ५, २९; हिश्रौ ५, २, १९.
 दाधिक- पा ४, २, १८.
 दधि-कंस- सः अप १, ३५, २.
 दधि-क्षीर-घृता(त-आ)दि-दिभिः
 अप ६६, २, ४.
 दधि-क्षीरा(र-अ)मृत- तानि अप
 ६८, १, ३५.
 दधि-ग्रह^p- -हः आपश्रौ १२, ७,
 ८; वौश्रौ १४, २२: २^q; २५,
 १३: २३; मीसू ४, ४, ८;
 -हम् वौश्रौ ७, ४: १२^r;
 माश्रौ; -हस्य वौश्रौ २१, १७:
 ५; हिश्रौ ८, २, २८; -हाय
 आश्रौ ११, २१, ८^s; माश्रौ;

-हे वौश्रौ २३, १९: ३१;
 -हेण आपश्रौ १२, ७, ५; वाधूश्रौ.
 दधिग्रह-पात्र- -त्रम् आपश्रौ
 १२, २, १; वौश्रौ; -त्रे वैश्रौ १५,
 ८: १२; हिश्रौ ८, २, २; -त्रेण
 वाश्रौ ३, २, ५, ३.
 दधिग्रह-विकार-त्व- त्वात्
 आपश्रौ १२, ७, १५.
 दधि-घर्म^t- -र्मः काश्रौ १०, १, १९;
 वौश्रौ; -र्मम् आपश्रौ १३, ३, २;
 १५, १८, १७; वौश्रौ; -र्मस्य
 आश्रौ ५, १३, ६; शाश्रौ; -र्मस्य
 काश्रौ १०, १, १८; आपश्रौ;
 माश्रौ २, ४, ४, १८^u; हिश्रौ ७,
 ४, ५४^v; -र्मं शाश्रौ ५, १०,
 ३०; वौश्रौ; -र्मेण आश्रौ ५,
 १३; १; शाश्रौ ७, १६, १; आपश्रौ
 १३, ३, १^w; काठश्रौ.
 दधिघर्म-ग्रहण- -णम् काश्रौ
 २६, ७, ५४.
 दधिघर्म-होम- -मम् वैताश्रौ
 २१, १८.
 दधि-घृत- -त्ते माश्रौ ६, २, ६, २३.
 दधि-घृत-क्षीर-मिश्र- -ध्रम् वैध
 १, ४: १.
 दधि-घृत-मधू(धु-उ)दक- -कानि
 गौपि १, ५, २७.
 दधि-घृत-मिश्र- -ध्रः मागृ २,
 ३, ६; -श्रणाम् कौश्रौ ३, ७, ५;
 शांगृ ४, ५, ३.
 दधि-तण्डुल^x- -लान् आम्रिगृ ३,
 ४, १: २७.
 दधि-तण्डुल-सुरभि-शुक्लसुमनस्-

a) = चर्मरोग-विशेष-। व्यु. ? । b) पाभे. वैप १ सचत्ते मा ८, ३६ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १,
 १५४० III द्र. । d) पाभे. वैप १, १५४० II द्र. । e) दधात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।
 f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप २, ३६. तैश्रा १, १२, २ टि. द्र. । h) पृ ११३ j, ४६० I द्र. । i) पाभे.
 वैप १, १५४१ i द्र. । j) = पात्र-, दधिद्रव्य- वा कर्म-विशेष- वा । k) सपा. ष्माय < > ष्मेण इति पाभे. ।
 l) पक्षान्तरे वस. इति भाष्यकारः । m) मलो. तुसः ।

-नसः आमिष्ट २, ३, २ : ४^a.
 दधि-न्थ- पाग ६, ३, १०८^b.
 दधि-दति- -तिः आपथ्रौ २२,
 ४, ५; हिथ्रौ १७, २, ७०; १६.
 दधि-द्रप्सा^c- -प्सः हिथ्रौ १०, ५,
 १४; -प्सम् वैथ्रौ १८, १३ :
 ४; आमिष्ट २, १, १ : १०; हिष्ट
 २, २, ४; -प्सान् आथ्रौ ६, १२,
 १२; आपथ्रौ; -प्सेन जैष्ट १,
 ५ : ३.
 दधिद्रप्सा(प्स-अक्त>)क्ता-
 -क्ता^e काथ्रौ १८, ४, ७.
 दधि-धा(न>)नी^f-नी वैथ्रौ ८,
 ४ : ३; -नीम् हिथ्रौ ४, २, २७;
 ५, १, १२; -न्याम् आपथ १,
 २९, १४; वौथ २, १, ५०; हिथ
 १, ७, ७१.
 दधिधानी-सध(र्मे>)मा^g-
 -मा^h आपथ १, २९, १३; हिथ
 १, ७, ७०; -माः वौथ २, १, ५०^h.
 दधि-पय-आमिक्षा-पथु- -शवः
 वौथ्रौ २७, १४ : २४.
 दधि-पयस्- -यसी पा, पाग २, ४,
 १४; -यसोः काथ्रौ १, ९, ७.
 दधि-पलल- -लम् कौसू २६, १३.
 दधि-पात्र- -त्रान् वौथ्रौ १८, ४० :
 १६; -त्रेण अप १, ३१, ७; ३५,
 ३; -त्रैः वौथ्रौ १८, ४० : २४;
 २६.
 दधि-पीत^b- पाग २, २, ३७.
 दधि-पू(र्य>)र्णा- -र्णाम् काथ्रौ
 १७, ४, १३.
 दधि-पृपातकⁱ- -कम् पाग २,
 १६, ३.

दधि-वदरा(र-अ)क्षत-मिश्र- -आः
 शांष्ट ४, ४, १०.
 दधि-भक्ष- -क्षम् शांथ्रौ ४, १३, २;
 द्राथ्रौ ६, ३, ३०; लाथ्रौ २, ११,
 २३.
 दधिभक्षा(क्ष-अ)न्त^j- -न्तम्
 द्राथ्रौ ४, ४, २३; ६, ४, १४;
 लाथ्रौ २, ४, १४; १२, १५.
 दधि-भक्षण- -णम् काथ्रौ १०, ८,
 १०.
 दधि-मधु- -धु^k काष्ट ६६, ४; माष्ट
 १, १२, ५; कौसू १०, १८; १२,
 १५; -धुनि कौसू ७, १९;
 -धुन्याम् कप्र ३, १०, १८.
 दधि-मधु-घृत- -तम् काथ्रौ १८,
 ३, ४; पाग १; ३, ५; वैष्ट ६४ :
 ३; वौष्ट २, १ : ७; वौपि ३, १,
 २०; -तैः काथ्रौ १७, ४, २७.
 दधि-मधु-घृत-क्षीर-वर्षम् अप ७२,
 ३, ४.
 दधि-मधु-घृत-तिल-तण्डुल-दर्भ-
 -र्भान् गौपि १, २, १.
 दधि-मधु-घृत-पयस्- -यांसि
 आमिष्ट २, ५, ४ : ६.
 दधि-मधु-घृत-मिश्र- -श्रम् आग
 १, १६, ५; कौष्ट १, १९, ९; शांष्ट
 १, २७, ६; पाग २, १६, २.
 दधि-मधु-घृता(त-अक्त>)क्ता-
 -क्ताः शांष्ट ५, १०, २; अप ६६,
 ३, १; -क्तानाम् अप ३६, ३, ३;
 काथ २७६ : ९.
 दधि-मधु-तिल-तण्डुल- -लान् गौपि
 १, २, ३५.
 दधि-मधु-भक्ष^l- -क्षः कौसू २२,

८^क.

दधि-मधु-मिश्र- -श्रम् कौसू १९,
 ६; २२, ६; -श्रस्य वाग १७, ६.
 दधि-मधु-सपिः-पयः-सक्तु-पल-
 मोदक- -केम्यः विध ६८, ४५.
 दधि-मन्थ- -न्थः आपथ्रौ ६, ३, १, ५;
 जैष्ट १, १९ : ३८; -न्थम् आपथ्रौ
 २२, २६, १; हिथ्रौ ६, ८, १;
 २३, ४, १७; कौसू ४०, ९; अशां
 २४, ७; -न्थान् आग २, ५, २.
 दधिमन्थो(न्थ-उ)दमन्थ-
 -न्थयोः द्राथ्रौ १, २, १३^क; लाथ्रौ
 १, २, ८.
 दधि-मांस- -सस्य अप ६८, २,
 १७.
 दधि-मिश्र, आ- -श्रम् काथ्रौ ५, ४,
 २४; वौथ्रौ २४, २१ : ८; वौथ
 ३, १, १९; -श्रयाः अप ३५,
 १, ८.
 दधि-वत्- -वान् आमिष्ट ३, ८,
 २ : ६३; वौपि १, ५ : ६७.
 दधि-वर्जम् विध ५१, ४२.
 दधि-विनाल^l- -लान् वौथ्रौ १८,
 २० : ७.
 दधि-शेष- -पम् द्राथ्रौ ७, २, १०;
 लाथ्रौ ३, २, १०.
 दधि-पो(<सो)म- -मान् जैथ्रौ
 २० : १७; जैथ्रौका २०४.
 दधि-संयुत- -तम् कप्र ३, १०,
 १८.
 दधि-सक्तु- -क्तुन् आग ३, ५, ५;
 १०; कौसू १३९, २; ६; ९; विध
 ६८, ३०.
 दधि-संभव- -वम् शंघ २३१.

a) क्त्वाः सु० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वैष्ट २, १:७)। सुरभि-?। b) तु. पागम.।
 c) षुतिः इति पाठः ? यनि. शोधः। d) पस. उप. = घनीभूतांशः। e) क्तः इति चौसं. ?। f) = स्थाली-।
 कास.। g) तुस.। h) परस्परं पाभे.। i) तुस. उप. = पृषदाज्य-। j) विप.। वस.। k) विभापयैकवद्भावः
 (पा २, ४, १२)। l) वस. उप. = मन्यन-दण्ड- (तु. वौथ्रौ १८, २० : २३)।

१दधिसत्राज्- -त्राजा वाधूश्रौ ३,
 ६१:५.
 दधि-सर्पिर्-मद्यु-युज्- -युजाम्
 अप ३६, २, ४.
 दधि-सुमनस्- -नसी विघ ७१, ५४.
 दधि-स्थाली- -लीम् वैश्रौ १३,
 ४: ६.
 √दधीय, दधीयात् आपश्रौ १०,
 १६, १२; माश्रौ १०, १०, ८;
 हिश्रौ १०, २, ५०.
 दध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम् आश्रौ १२,
 ८, ३४.
 दध्या(धि-आ)ज्य- -ज्यम्^b माश्रौ
 १, ८, १, २५; -ज्ययोः माश्रौ १,
 ६, १, २४; वाश्रौ १, ५, २, १९.
 दध्या(धि-आ)घ(दि-अ)भ्यक्त-
 लाज- -जानाम् अप ३६,
 १३, १.
 १दध्यु(धि-उ)दक- -के कौगृ १,
 १६, ४; शांणु १, २४, ३.
 २दध्यु(धि-उ)दक- -कम् शंघ
 ११६: ७.
 दध्यु(धि-उ)पसेक- -कम् वैश्रौ
 १२, ७: १.
 दध्यो(धि-ओ)दन- -नम् कौगृ १,
 १०, १४; १९, ७; शांणु १, १७,
 ७; आग्निगृ.
 दध्योदन-शेष- -षम् भागृ ३,
 १६, ९.
 २दधि- -> १दध्य(धि-अ)ञ्, ज्ञ-
 -धीचः आश्रौ ७, २, ३; शांश्रौ;
 वृदे ३, २३९; -ध्यह् आश्रौ ८,
 १, २; शांश्रौ; वृदे २, १२९; ९३.

२२; १२१; ४, १०; शुभ ४,
 ५९९; निघ ५, ६; या १२,
 ३३६; ३४.
 दध्यङ्-पुत्र- -त्राणाम् चात्र ३०:
 २०.
 १दधि-> १दधि-क्र- -क्राः आश्रौ
 २, १२, ५; वौश्रौ १३, ८: ५;
 २८, २: ३६; अप ४८, ९३;
 १३७; वृदे १, १२४; २, ५६;
 निघ १, १४; ५, ४; या २, २७६;
 २८^१xx; -क्राम् ऋत्र २, ७,
 ४४; वृदे ४, १०२.
 दाधिक- -कम् ऋत्र २, ४,
 ३८; ७, ४४; वृदे ५, १७३;
 -क्राणाम्, -क्राणि वृदे ५, १;
 -क्रे वृदे ५, १७३.
 दाधिकी- -की सात्र १,
 ३५८.
 दधिक- -कम् वैश्रौ २५: ६;
 जैश्रौप १५.
 १दधि-क्रावन्- -वा आश्रौ २, १२,
 ५; आपमं १, १४, ६; अप ४८,
 ९३; ९शुभ १, ५६६; ३, ३३;
 निघ १, १४; -ष्णः आश्रौ २,
 १२, ५; ६, १२, १२; ८, ३, ३२;
 शांश्रौ; आग्निगृ २, ६, ८: १०^१;
 -ष्णे ९वौश्रौ १३, ८: २; २८,
 २: १९.
 १द(त्ता १का)धिवासम् आग्निगृ २, ५,
 १२: ३.
 दधिपाय्य- -घा द्र.
 १दधिपे^१ आपश्रौ ४, १०, ४; माश्रौ ४,
 १५, २; हिश्रौ ६, ३, २.

१दधीतस्य^१ चात्र १६: ३.
 दधृप्- √धृप् द्र.
 १दन्त-^० अप ४८, ११५; वृदे २, ११६;
 निघ ४, ३; या ६, ३१.
 दनायु^१- -युः वृदे ५, १४४.
 दनु^३- पाठभो २, १, ७९; -नुः अप^१
 ५२, १०, २; वृदे ५, १४४^१.
 दन्त-^० पाठ ३, ८६; पाग ५, २, २४;
 पागवा ५, २, ९७; -न्तः हिश्रौ
 १४, ३, ३५; या ९, १९^१;
 -न्तस्य पा ५, ४, १४१; -न्ताः
 शांश्रौ १५, १८, १; अपः -न्तात्
 आपश्रौ १०, १३, ४; वौश्रौ; -न्ते
 अप ७२, २, ६; शुभ्रा १, ६९;
 ऋभ्रा २, १, ७; -न्तेन आग्निगृ.
 २, ६, ७: ३०; -न्तेषु कागृ ३९,
 १; कागृउ ४४: १८; अप ९,
 १, ५; -न्तैः काश्रौ २, २, १६;
 वैताश्रौ; -न्तौ निसू १०, १३: ५.
 दन्त-काण्ड- -ण्डम् आग्निगृ ३, ११
 २: ३; कप्र १, १०, २; विघ
 ६१, १७.
 दन्त-ज- -जाः दंवि १, १२.
 दन्त-जनन- -न्ताव वैगृ ५, ११: ६;
 ७, ५: २; वाघ ४, १०; वौष
 १, ५, ९२; ९३.
 दन्त-जन्मा(न्म-आ)दि- -दि गौघ
 १४, ४१.
 दन्त-जात-^० पाग २, २, ३७^३; -तः
 वैगृ ५, ९: १; -तस्य वैगृ ५, ९:
 ११; -तानाम् वौषि ३, ६, ४;
 -ते विघ २२, २९.
 दन्त-जाह- पा ५, २, २४.

a) तुल. (पा २, १, ३५)। उप. = सोम-। b) विभाषवैकनद्भावः (पा २, ४, १२)। c) = दधि-समुद्र-। वस.।
 d) विप.। वस.। e) वैप १ द्र.। f) पामे. वैप १, १५४२ ० द्र.। g) = सृक्-विशेष-। h) = [तच्छब्द-नत-]
 साम-विशेष-। i) ष्विणः इति पाठः? यनि. शोषः। j) पाठः? दधृपी-> -पि इति शोषः (तु. सप्र. नै ४, २, ५;
 ०. [आपश्रौ.] च)। k) पाठः?। = [प्रकरणतः] ऋपि-विशेष-। l) = दक्ष-सुहित्-। व्यु. ?। m) पुं. स्त्री. च।
 व्यप.। व्यु. ?। n) तु. पागम.।

दन्त-धावन^०- नम् वौश्री १७,
३९ : २; आश्रिय; -ने कौसु
१४१, १४; -नेन भाश्री १०, ३,
१७.

दन्त-पाद-हृदयो(य-उ)दक-नासिका-
सह-समान-रात्रि(?) -जाया-दास-
मास(ःस)^०- मास(ःसा): अप्रा
२, ४, ६.

दन्त-प्रक्षालन^०- नम् आपध १,
३२, ९; हिघ १, ८, ५१; -नानि
आपध १, ८, २२; हिघ १, २,
११०.

दन्तप्रक्षालना(न-आ)दि- -द्वीनि
पाय २, ६, ३२.

दन्तप्रक्षालनो(न-उ)स्तादना(न-
अ)वलेखन- -नानि आपध १,
८, ५०.

दन्त-भङ्ग- -ज्ञा: अप ६४, ६, ७.

दन्त-मूल- -लानि अप ४७, २, ४;
शौच १, ३८; -ले शुप्रा १: ६८;
-लेभ्य: अप ४७, २, ५; तैप्रा २,
४१; -लेषु अप ४७, २, ५; तैप्रा
२, ३८; ४२; -लै: वाश्री ३, ४, ५,
१११.

दन्तमूल-स्थान- -नम् आशि
१, १४.

दन्तमूलीय^०- -य: ऋप्रा १,
४४; याशि २, ९४.

दन्तमूल्य^०- -ल्य: पाशि १८.

दन्त-रजस्- -जसा कौसु ३१, १४.

दन्त-राग- -रा: वौश्री २, ५ :
२११.

दन्त-लग्न- -ग्नेषु शंघ ६२; वौघ
१, ५, २०.

दन्त-वत् वाघ ३, ४१; शंघ ६२;
वौघ १, ५, १९^३; २०; गौघ १,
४४.

दन्त-त्रेष्ट^०- -ष्टौ विघ ९६, ९२.

दन्त-शङ्ख-मणि-रजत-सौवर्ण-

-र्णानाम् काघ २७७ : ८.

दन्त-श्लिष्ट- -ष्टेषु गौघ १, ४४.

दन्त-सक्त- -क्तेषु वाघ ३, ४१;
वौघ १, ५, १९.

दन्ता(न्त-अ)ग्र- पाग ४, २,
१३८^५; -ग्रण अप १८, ३, ७;
-ग्रै: शुप्रा १, ८१.

दन्ताग्रीय- पा ४, २, १३८.

दन्ता(न्त-अ)ङ्गि^१- -ङ्गये जैय १,
२ : २२; -ङ्गि: जैय १, २ : १४.

दन्ता(न्त-अ)न्तर-वेष्टित- -तम्
विघ २३, ५३.

दन्ता-त्रल- पा ५, २, ११३.

दन्ता (न्त-आ) विष्करण- -णम्
माश्री २, १, २, ३२.

दन्तुर- पा ५, २, १०६.

दन्तूल- पा ५, २, ९७.

दन्तो(न्त-उ)लखल-> °खलिक^१-
-क: आश्रिय २, ७; १० : ९;
विघ ९५, १५; -का: वैघ १,
८, १.

दन्तो(न्त-ओ)ष्ट- -ष्टम् नाशि २,
८, १३; -ष्टौ अप ३३, १, ९;
शैशि १६२; याशि १, २७.

दन्तोष्ट्र^१- -ष्टय: आशि १, १६^६.

दन्त्य- -न्त्य: ऋत ५, ७, ११;

-न्त्यम् ऋत ४, ४, ८; दंवि १,
२; -न्त्यस्य शुप्रा १, ४२;

-न्त्या: शुप्रा १, ७६; ८, ४०;
पाशि १७; याशि २, १; ९४;

आशि १, १५; दंवि १, ३;
-न्त्यात् ऋत ४, ४, ४; -न्त्यात्

ऋप्रा १४, ३९; -न्त्यानाम् शौच
१, २४; आशि २, ८; -न्त्ये

ऋत ५, ३, ४; ७, ९; पा ७, ३, ७३.

दन्त्य-मूर्धन्य-भाव- -व: ऋप्रा
५, ६१.

दन्त्यो(न्त्य-ओ)ष्ट- -ष्टौ माशि
१५, ३.

दन्त्योष्ट-करण^१- -णम् माशि
१४, १०.

दन्त्योष्ट-विधि-विस्तर-
-रम् दंवि १, १.

दन्त्यो(न्त्य-ओ)ष्टय^१- -ष्टयः^६
शैशि ४३; पाशि १७.

दन्द्शूक- √दंश द.

दन्द्मण- √दंम् द.

दन्धि- √दंम् द.

दन्द्की^३- -की: हिश्री २१, ३, १०.

√दंम्, म्भ^३ पाधा. स्वा. पर. दम्भने,
दभत् वौश्री ६, ३१ : १११;

दंभाति आश्री ६, १४, १८;
९, ५, २; माय २, १७, १;

दंभेयम् वौश्री ३, १८ : १४;
माश्री ४, १४, ४; माश्री १, ४,

२, ४; वाश्री १, १, ३, ४.
दम्भोति अप ४८, १९१; ऋनिघ

a) भाप., नाप. (दन्त-काष्ठ-) । उप. <√धाव् [शुद्धौ] ।

°सापुं० (=°स-अप-पुं०) इति संस्कृतुः शोधः ? । c) =दन्त-धावन- । d) सप्र. दन्तप्रक्षालनो <> पादप्र-
क्षालनो इति पाभे. । e) छ > ह्यः प्र. उस्. (पा ४, ३, ६२) । f) भवार्थे यत् प्र. (पा ४, ३, ५५) ।

g) नाप. । उस्. । h) अर्थः ? । =ग्राम- इति वञ्चित [तु. पागमः] । i) विप. । वस्. । j) विप.
(वानप्रस्थ-) । मत्वर्थायपुं टन् प्र. । k) परस्परं पाभे. । l) कस्. । m) =व्यप. । व्यु. ? । n) या ३, २०

पा ७, ४, ५६ परामृष्टः द्र. ।

b) द्रस. । °सासः पुंसि इति पाठे

d) सप्र. दन्तप्रक्षालनो <> पादप्र-
क्षालनो इति पाभे. । e) छ > ह्यः प्र. उस्. (पा ४, ३, ६२) । f) भवार्थे यत् प्र. (पा ४, ३, ५५) ।

i) विप. । वस्. । j) विप.
(वानप्रस्थ-) । मत्वर्थायपुं टन् प्र. । k) परस्परं पाभे. । l) कस्. । m) =व्यप. । व्यु. ? । n) या ३, २०

पा ७, ४, ५६ परामृष्टः द्र. ।

२, १४; १९; या ६, ३; दम्बु-
वन्ति या ५, १२२.
द्रेभुः या ५, १२१; ण्दम्बु
आपश्रौ ४, ६, ४; १६, १८, ७;
वौश्रौ; या १४, ३७; अप्राय २,
५१.
ण्दिप्सति कौस् ४३, ३७; अप
३२, १, ८; अप्रा ३, १, १३.
ण्द्विध- द्विधः आपश्रौ ४, ९,
१३; वौश्रौ.
दम्^१- भाय आश्रौ ८, १०, ११.
दम्^२- पाग ३, १, १३४; -म्भः
आपघ १, २३, ५; हिघ १, ६, १३.
दाग्भिक- काः अप ५१,
५, १.
दम्भ-दर्प-लोभ-मोह-क्रोध-
विवर्जित- ताः वौघ १, १, ५.
दम्भ-लोभ-मोह-वियुक्त- काः
गौघ ९, ६.
दम्भ^३- पाठ २, १३; पाग ४, १,
१५१०; -अम् निघ ३, २; २९;
या ३, २०; -आः शांठ ३,
१३, ५१; -आणि या ३, २०१.
दम्भ-मिश्र- आः वौश्रौ २६, ३२ :
२८.
√दम्^४ पाधा. दिवा. पर. उपशमे,
दमयेत् गौघ ११, ३०.
१दम्^५- मः बाघ ६, २३; आपघ;
-मेन विघ ७२, ५; वृदे ८, १३०.
दम-दान-शील- लः गौघ ९,
७०.
दम-मनस्- नाः या ४, ४.
दम-यम- मेन विघ ७२, १.

√दमाय^६, नदमायः ऋप्रा ९,
५०.
दमायत्- यन् ऋप्रा ९, १६.
दमय- पाठ ३, ११३.
दमन- पाग ३, १, १३४; -नः ऋअ
२, १०, १६५; शुअ ४, ५५५;
-नात् गौघ ११, ३०; यां २, २.
दमन-शील- लम् या १४,
१८.
दमित- पा ७, २, २७.
दमितृ- ता वौश्रौ १८, ३१ :
१६१.
दमितृ- पा ३, २, १४१.
दम्य^७- स्यौ वौगृ १, २, ६१.
रदान्त- पा ७, २, २७; -न्तः
निसू ५, ८ : १५; वाघ २९,
२१; आपघ १, ३, १९; विघ
८९, ४; हिघ १, १, ९२; चव्यू
४ : १७; -न्तम् आपश्रौ २०,
२, १०, हिश्रौ १४, १, २४; अप
३, ३, ८; विघ ९२, १०; -न्तस्य
आमिष्ट २, ५, १ : ५२; जैगृ २,
९ : ३८; विघ ७२, ३; -न्ताः
अप ३०, २, १; ३२, ७, १; ५१,
४, ३; -न्तेन आपश्रौ ६, २९, ८;
-न्तेषु द्राश्रौ ५, ४, १९.
दान्त-शान्त- न्तयोः पावा
७, २, २७.
२दम्^८- मः अप ४८, ८९१; या ४,
४; -मे वौश्रौ ३, ८ : २८;
निघ ३, ४१; -ण्मेऽ-मे आश्रौ
२, ८, ३; शांश्रौ २, ४, ३३; वौश्रौ
८, १९ : १८.

३दम्^९- मम् शंघ १२६ : ६१६.
दमुनस्- पाठ ४, २३५.
दमून^{१०}- > ण-व(त >)ती^{११}- त्यौ
वौश्रौ २८, २ : ४३.
ण्दमूनस्^{१२}- नाः आश्रौ २, ११, ९;
१२, ५××; शांश्रौ; यां १, १४;
२, २; ४, ५४; अप्रा २, २, ९; ३,
४, १.
ण्दिसना अप ४८, ११६.
दम्-पति^{१३}- तिम्याम् आमिष्ट १, ५,
५ : ११; १२; ६, ३ : ६४१; ६५१;
-ती नाश्रौ ३, ३, ६; वाश्रौ; पाग
२, २, ३१; -त्योः ऋ ३, १, १;
अप.
√दम्^{१४} √दम्^{१५}.
√दम्^{१६} पाधा. भ्वा. आत्म. दानगीत-
रक्षणहिंसाऽऽदानेषु, दयते अप
४८, ११६१; निघ ४, ११; या ४,
१७; दयन्ति अप ४८, ११६१.
ण्दयमान- नः या ४, १७; -ना.^{१७}
या ४, १७; ९, ४३.
दया- न्या बाघ १०, ५; विघ २,
१६; गौघ ८, २१.
दया(वा-अ)न्वि(त >)ता-
तासु विघ ९९, २२.
दया-पूर्व- न्वम् वौघ २, १०,
५०.
दया-युक्त- क्तः वैघ ३, १२, ८.
दया-सत्य-शौचा(च-आ)चार-
युत- न्तः वैघ १, ४, ४.
दयाल- पा ३, २; १५८; -लुः वैघ
३, ५, ७.
दयित- तम् वैश्रौ २०, १७ : १;

a) ष्यन् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. सपा. ऋ १०, १२०, ४) । b) भावे कृत् । c) भाप., नाप.
(पाग.) । d) वैप १-द्र. । e) = ऋपि-विशेष- । तु. पागम. । २दम्भे- इति भाण्डा. प्रन्. । f) पा १, ३, ८९;
३, २, ४६; ७, ३, ७४ परानृष्टः द्र. । g) विप., भाप. । h) = ऋपि-विशेष- । i) नाप. । यत् प्र. (पा ३, १,
९८) । j) = अङ्गिरो-विशेष- । k) मदम् इति अपु २१९, २० । l) = दूमूनस् (ऋ ५, ४, ५) । m) = संयाज्या- ।
n) या ४, १७ पा ३, १, ३७ परानृष्टः द्र. । o) पाभे. वैप १, १५४६ k द्र. ।

विध ९२, ३२.
दर- √दृ, दृ (विदारणे) द्र.
दरक- पाठना ५, ४४.
दरण- √दृ, दृ (विदारणे) द्र.
१दरद- पाठ १, १३०.
२दरद^१, द^२ - पाग ४, ३, ९३;
 -दान् अप ५०, २, २.
दारद- पा ४, ३, ९३.
दरि- पाठभो २, १, १५२.
दरिद्र^० - -द्र शुभ्रा २, २०; -द्रः
 वैग्य ४, ४ : २६; कप्र; आ १२,
 १४; -द्रम् काश्रौ २५, ११,
 २५; वौश्रौ; -दान् आमिग्य ३,
 ३, १ : ७; ११, १ : ११.
दरिद्र-ता- -ता अप ६७, ८, ७.
दरिद्रौ/कृ > द^१रिद्रौ-कृष्य वौष
 १, २, ५७.
√दरिद्रा^१ पाघा. अदा. पर. दुर्गती.
दरिन्- √दृ (आदरे) द्र.
दरु^१ - √दृ, दृ (विदारणे) द्र.
दरुदर- पाठभो २, ३, ३५.
दरुदरीक- पाठ ४, २०.
दरुदुर^० - पाठ १, ४०; -रः विध ४४,
 २७; -रम् अप ४८, ८०^१.
दारुदुरिक- पा ४, ४, ३४.
दरुदुरो(र-उ)दर-देश- -शौ याशि
 २, ६५.
दरु^१ - पाठ १, ९०.
दर्प- दर्पण- दर्पित- √दृप् द्र.
१दर्भ^१ - पाठ ३, १५१; पाग ३, १,
 १३४^१; ४, २, ८०; ३, १४२;
 -०र्भे अत्र १९, ३२^१; -^१र्भः

आपश्रौ १, ६, १०; वौश्रौ; -र्भम्
 आपश्रौ १, १४, ६×४^१; भाश्रौ;
 -र्भाः आपश्रौ ९, ११, ८; १५,
 १६, ५; वौश्रौ; -र्भानाम्
 आपश्रौ १, ५, १२; ६, ४; भाश्रौ;
 -र्भान् आपश्रौ १, ३, ६×४;
 काठश्रौ; -र्भानाम् माश्रौ १, ८,
 २, २३; -र्भान्याम् माश्रौ १, ८,
 ३, ३; २, ५, ३, ७; वाश्रौ; -र्भान्य
 वैग्य २, १२ : १३; -र्भे वैश्रौ ३,
 ५ : १२^१; १२, ६ : ३; हिश्रौ १,
 ३, ४^१; वैष २, ९, ३; -र्भेण
 आपश्रौ २, १, १; वौश्रौ;
 -र्भेषु आपश्रौ १, १६, १०; २,
 ४, १०; ६, ८; ११; १४, २०,
 ८^१; १५, २, १, १०; काठश्रौ;
 -र्भैः आश्रौ ३, १२, १६; आपश्रौ;
 -र्भौ आपश्रौ १, ११, ६×४;
 भाश्रौ.
दार्भ^१ - -र्भम् वैश्रौ ३, ५ : ५;
 द्राश्रौ १०, ४, ३; लाश्रौ ३, १२,
 ३; -र्भे वैश्रौका ७; द्राश्रौ
 १२, ३, ७; लाश्रौ ४, ११, ८;
 -र्भेण काग्य २५, ४.
दार्भी- -र्भी हिश्रौ १४, १,
 २०; -र्भीम् हिश्रौ ४, २, ६१^१;
 ३, १७; -र्भ्यः द्राश्रौ ११, १, २;
 लाश्रौ ४, १, २.
दर्भे-कुलाय- -यम् वौश्रौ ३, १ :
 ५; १३.
दर्भे-कृच- -चान् माश्रौ ४, ४, ८;
 -चैन कप्र ३, १०, १.

दर्भे-धुर-कर्मन्- -र्म काग्य ४०,
 ११.
दर्भे-गुरु-मुष्टि^१ - -ष्टिना^१ वाश्रौ २,
 २, ३, २३.
दर्भे-गु-मुष्टि^१ - -ष्टिना आपश्रौ १७,
 १३, ६^१; हिश्रौ १२, ४, ८^१;
 आपग्य २०, ११.
दर्भे-चटु^१ - -टौ कप्र २, ९, २५^०.
दर्भे-तरुण- -णाभ्याम् भाश्रौ ६,
 १४, १६; भाग्य १, ३ : ८; हिग्य
 १, १, २७; जैग्य १, २ : ५, -णेन
 आपश्रौ १२, २४, ५; वैश्रौ १५,
 ३१ : ४; हिश्रौ ८, ७, ४३; -णौ
 वैश्रौ २, ९ : ५.
दर्भे-तरुणक- -कैः शुभ्र १, २९५;
 -कैः आग्य ४, ६, ११.
दर्भे-तृण- -णाभ्याम् हिश्रौ ३,
 ७; १-१५; आमिग्य १, १, १ :
 ३२.
दर्भे-नाडी- -डीः वौश्रौ १, ३ : ३,
 -डीम् वौश्रौ ६, १२ : ७; १२,
 ९ : १; वैश्रौ ३, ४ : ४; -ड्या
 वैश्रौ १२, १६ : ६; -ड्याम्
 वौश्रौ ६, १२ : ६; १२, ९ : ४;
 -ड्यौ हिश्रौ १, २, २८.
दर्भे-पवित्र- -त्रे माश्रौ ४, २, ७.
दर्भे-पवित्र-पाणि^१ - -णिः अप
 १८, १, १०; शंघ ३९०.
दर्भे-पाणि^१ - -णिः काग्य ९, ४; माग्य
 १, ४, ५; ९; ५, ३; वाग्य ८, ५;
 विध ७३, २५.
दर्भे-पिञ्जिल- -लानि भाश्रौ १०,

a) = देश-विशेष-। व्यु. १। b) [पक्षे] भाण्डा., पागम.। c) वैप १ परि. १दरिद्र-द्र.।

d) पा ६, १, ६; १९२; ४, ११४ पावा ६, ४, ११४; ७, २, ४९ परामृष्टः द्र.। e) = मण्डक, उदर- [अप.].।
 व्यु. १। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) दर्भेषु निपाद्य इत्यस्य स्थाने सप्र. वैश्रौ २१; ६:८ उपविष्टम्
 इति पाभे.। i) विकारार्थे अण् प्र. (पा ४, ३, १३५)। j) 'र्वीम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)।
 k) वैप १ द्र.। l) परस्परं पाभे.। m) = दर्भेगुमुष्टि-। n) दर्भे-चटु- टि. द्र.। o) 'चटौ इति ब्रांस.।
 p) निप.। बस.।

३,१२; -लाभ्याम् भाश्रौ १०,
४,८; -लेन भाश्रौ १०,४, १२;
-लैः भाश्रौ १०,५,१.
दर्म-पिञ्जु^१ल्लि- -लीः गोच
२, ९, १४; ४, २, २८; जैच १,
११ : ११; द्राच २, ३, २४; ३, ५,
२०; -लीभिः गोच २, ७, ५; कौच
२५, ३७; -लीम् गोच ४, ३, २;
१३; -ल्यः गोच २, ९, ४;
-ल्या कौच ५३, २०; ७९, १४.
दर्मपिञ्जुली-शेष- -षान् जैच
१, ११ : १९.
दर्म-पिञ्जुल^२- -लानि भाश्रौ ३,
८, ३; काच ७२, १; -लाभ्याम्
भाश्रौ २, १, १, ३५; -लैः भाश्रौ
१, १, १, १८; २, १, १, ४०; कौच
५, ८, ५; पाच १, १५, ४.
दर्मपिञ्जुल-वत्- -वता शाच
६, २, १२.
दर्म-पुञ्जिल- -लम् वौश्रौ ८, १५ :
२८; २१, २४ : ३; २५, १० :
१३; -लान् आपश्रौ १४, २०, ८;
वैश्रौ २१, ६ : ७; हिश्रौ १५, ५,
२४; -लानि वौश्रौ २, ८ : ७××;
वाधुश्रौ; -लाभ्याम् आपश्रौ
१०, ६, ११; हिश्रौ १०, १, ४३;
-लेन आपश्रौ १०, ७, ३; वैश्रौ
१२, ७ : ७; हिश्रौ १०, १, ४६;
-लैः आपश्रौ १, २, ३××; वौश्रौ.
दर्म-पूतीक^३- पाच २, ४, ११.
दर्म-पूतीक-भाज्ञा- -ज्ञाभिः कौच
२२, १४.
दर्म-पूल- -लेन वैच ३, १६ : १०.
दर्म-प्रवृत्ति- -तयः अप ३३, १, ७.

दर्म-प्रान्त- -न्तानि कौच ५३, २.
दर्म-मणि^४- -णिम् अशां १९, ४; ६.
दर्म-मण्डलद्वीपिन्^५- -पिभिः द्राच
४, २, ७.
दर्म-मय- पा ४, ३, १४४; -यम्
आपश्रौ १, ३, ५; १८, ५, ८;
वौश्रौ; -ये आपश्रौ १५, ५, २०;
भाश्रौ ११, ५, २७; वैश्रौ १३, ७:
२२; हिश्रौ २४, २, ६; -येन
कौच ५, ३, २४; हिचि ८ : १.
दर्म-मयी- -यी आपश्रौ २०, २,
७; -यीः वौश्रौ ३, १ : ५; १४;
-यीम् वाश्रौ ३, ४, १, १४;
-य्यौ आपश्रौ ७, ११, २; भाश्रौ
७, ८, १८.
दर्म-मुष्टि- -ष्टिना द्राश्रौ ५, ३, २३;
लाश्रौ २, ७, २०; आमिच २, ५,
९ : ४; वौच ३, ५, १९; जैच
२, ६ : ४; -ष्टिम् काठश्रौ ३;
१२; भाश्रौ; -ष्टीन् भाश्रौ २,
५, २, ९; माच १, ६, २.
दर्म-मूल- -ले वैश्रौ १२, ६ : ८;
विष ७३, २२.
दर्म-न्- पा ४, २, ८०.
दर्म-रञ्जु- -ञ्जुम् वैच ५, ६ : ४;
-ञ्ज्वा माच १, ११, ५; कौच
१६, २५; ३९, १९.
दर्म-रञ्जु-संवीत- -ताः वैच ५,
२ : १४.
दर्म-रोमन्^६- -मा विष १, २.
दर्म-लवन^७- -नम् कौच ८, ११.
दर्म-वटु^८- -टुम् गोच १, ६, २१.
दर्म-वीता- -तासु आच ४, ८, २७.
दर्म-दार- पा २, ४, ११.

दर्म-शुल्ब- -ल्वम् कौच ४६, १९;
-ल्वेन वाच १४, २.
दर्म-शेष- -षम् आपश्रौ २, १, १०.
दर्म-संख्या- -ख्या कच २, ९, २५.
दर्म-संमित- -तम् गोच ४, ७, ९;
द्राच ४, २, ९.
दर्म-सूची^९- -च्या कौच १, १४, ७;
शाच १, २२, ९.
दर्म-स्तम्ब- -म्बः वौश्रौ २२, १९ :
१७; -म्बम् आपश्रौ ९, ५, ४××;
वौश्रौ; -म्बस्य वौश्रौ २२, ५ :
१६; -म्बे आपश्रौ ९, ३, ९××;
वौश्रौ; -म्बेषु वौच ३, ५, १८;
अप्राच ५, २.
दर्म-स्तम्बो(म्ब-उ)त्पत्ति- -त्तौ
अप ७२, ३, ११.
दर्म-स्तम्भ- -म्भम् काच ४३, ४.
दर्म-हस्त^{१०}- -स्तौ वाच ५, २५.
दर्मा(र्म-अ)ग्र- -ग्रम् भाश्रौ १, ८,
४, २४; वौचि २, ९, ४; कौच
४४, ३७; -ग्राम्याम् कौच ६१,
६; -त्रे आपश्रौ ६, १५, ५;
आपच १, २२; वौच १, ३, ११;
द्राच १, २, १२.
दर्माग्र-मुष्टि- -ष्टिना आपश्रौ
१६, २१, ३; वैश्रौ १८, १६ :
२८; १९, ६ : ७१; हिश्रौ ११,
७, ४.
दर्मा(र्म-आ)दि- -दीन् अप ३३,
५, ८; वैष २, १, ६.
दर्मा(र्म-अ)न्तहित- -त्तेषु आच ४,
७, १०.
दर्मा(र्म-अ)म्वर-घर- -राः वैच ५,
२ : १४.

a) गोच. पाठः । b) वैष १ द. । c) 'पूली' इत्यपि पागम. । d) = रक्षाकरण-विशेष- ।

e) तु. आन. । कस. उप. दस. > मत्वर्थवः प्र. । f) सप्र. गोच ४, ७, १२ श्रादासंमितं मण्डलद्वीपसंमितम् इति
पामे. । g) विप. । वस. । h) = लवित्र- । कास. उप. करणे प्र. । i) = [द्वयस्य] कुशानिर्निता-पुत्रिका- ।
त्पा. 'चटु' इति [लैवि.] 'वटु-', 'वटु' [तु. MW.] इति [त्रावि.] च यथायथं पामे. । j) उप. = अग्रभाग- ।

दर्भा(भे-अ)थे- थै अप ३१, ९, १.
दर्भा(भे-अ)वस्तीर्ण- गे कौस् २१,
२३.

दर्भा(भे-अ)सन- नेषु वैगृ ३, १३:
३.

दर्भा(भे-आ)हार^a- नाय कौस् १,
२४; ६१, ३८.

दर्भे(भे-इ)ण्डव- ण्डवम् गौपि १,
३, २; -ण्डवे कौस् २६, ३०.

दर्भे(भे-इ)णव- णवम् आपृ ४, ८.
दर्भे(भे-इ)ध्मावर्हिः-परिधि-विद्यति-

पवित्र-हविः-ऋपाल-सुक्-सुवा
(व-अ)रणि-कृष्णाजिन-प्रणीता-
(ता-अ)ग्न्युद्वासन^b- नेन वौश्री
२८, १० : ९.

दर्भे(भे-इ)पीका- ऋया आपृश्री
१०, ७, ३; भाश्री १०, ४, १२;
हिश्री १०, १, ४६; -काभिः माश्री
२, १, १, ३८; मागृ १, ११, ८;
-काम् अप ३६, ६, २; १४, १.

दर्भो(भे-उ)पक्लृप्ता(प्त-आ)सन-
नेषु आमिगृ २, ३, ३ : ६.

दर्भो(भे-उ)ल्क, ल्का- ल्कया वैध
२, १५, ४; -ल्केन वैगृ १, १२ : ९.

२दर्भे (=दल्भ-)^c पा ४, १, १०२;
पाग ४, १, १५१^d.

दर्भायण- पा ४, १, १०२; -णाः
वौश्रीप्र ३ : २; ४४ : १.

दर्भि- भ्यः वौश्रीप्र १७ : १७;
-भिः वौश्रीप्र १० : २.

दर्भ्य^e- पा ४, १, १५१; -भ्यः वृदे
५, ५०; ७६; ७७; -भ्याः वौश्रीप्र
२२ : १.

दर्भण- √दभ् (प्र-थे) द्र.

दर्भन्- √दृ, दृ (विदारणे) द्र.

दर्भ^f- पाठ १, १५५^f; -वेंग शांगृ
४, १५, १९^g; -वैः वौश्री १५,
१९ : १५^h.

दर्वि, वीⁱ- पाठ ३, ८४; ४, ५३;
-फंवि आश्री २, १८, १३^h;

काश्री ५, ६, ३०^h; आपृश्री ८,
११, १९^h; वौश्री; पावा ७, ३,
१०९; -विः कागृ ६३, १४^h;

कौस् ८८, ८^h-१०^h; अप ४४, ४;
४^h; विष ७३, १७-१९; अग्र
९, ६^h; -विम् वौश्री १५,
१९ : १२; फं कौस् ८७, २४;

१३८, १२; -वीं वौगृ १, ३,
१३; १४^h; कप्र; -वीः वाधूश्री
२, ५ : १^h; -वीम् आपृश्री ८,
११, १९; वौश्री; -फंवे^h माश्री

१, ७, ५, २९; वाश्री १, ७, ३, २१;
वैताश्री; -व्या काश्री ५, ६, २०;
आपृश्री; -व्याम् वौश्री १७,
४१ : ६; १२; भाश्री.

दर्वि-कूर्च-प्रस्तर-परिधि-वर्हिर्-
विद्यति-पवित्र-वेदो(द-उ)पवेपे-
(प-इ)ध्म-द्रव्य-संभार-

-राणाम् वौश्री २७, १ : २२^h.
दर्वि-कृत- ते कौस् ६२, ४; ६८,
२०.

दर्वि-दण्ड- ण्डे वौश्री १७, ४१ :
६; १२.

दर्वि-होम- मः काश्री १५, ३, १४;
आपृश्री २२, २५, २१; २४, ३,
२; हिश्री ३, ८, १६; २३, ४,
१५; मीस् ८, ४, १; -मम्
वौश्री १४, १९ : २८; -माः

काश्री ६, १०, १७; आपृश्री
१३, १, ४; २२, १८, १९; वौश्री;

-मान् आपृश्री २४, ३, ९; हिश्री
३, ८, १५; -माय वाधूश्री ४,
१०३^h : ६; -मे कौस् १३८,
१५^h; -मेन काश्रीसं २९ : ७;

-मेभ्यः हिश्री ३, ८, २३; -मेषु
भाश्री ५, ११, ३.

दार्विहोमिक^h, का- ऋः
भागृ २, १५ : ५; -कम् आमिगृ
१, ६, ३ : ५८; -का भागृ ३,
१ : २८; -काम् भागृ ३, १ :
२९.

दार्विहोमिकी- ऋम्
वौध २, १, ३३; ४, २, १०.

दार्विहोम-चोदना- ना वाश्री १,
१, १, २४.

दार्विहोम-धर्म- र्मः वाश्री १,
१, १, २७.

दार्विहोम-वत् वैश्री १३, ८ : ६.
दार्विहोम-संस्कार- रेण आपृश्री
१५, ६, ७; भाश्री ११, ७, १.

दार्विहोमा(म-आ)कार^h- रम्
वौश्री १०, ५३ : १.

दार्विहोमिन्- मी या १, १४.

दर्वी-कूर्च-प्रस्तर-परिधि-वर्हिः-
पवित्रे(त्र-इ)ध्म-द्रव्य-संभार-

-राणाम् वौगृ ४, २, १^h.
दर्वी-दण्ड- ण्डे आमिगृ १, ३,
४ : ७.

दर्वीदण्ड-सूत्र- त्रेण आमिगृ
१, ३, ३ : १८.

दर्वी-निष्टपन-काल- ले आमिगृ १,
७, ३ : १७.

a) नाप. । उस. उप. कर्तरि कृत् ।

b) समाहारे द्वस. ।

c) वैप १ द्र. ।

d) दभ्र-टि. द्र. ।

e) = दर्वि-। व्यु. ? ।

f) < √दृ [विदारणे] ।

g) पाभे. पृ ८१७ a द्र. ।

h) पाभे. वैप १, १५४७ k द्र. ।

i) सप्र. दर्वि^o < > दर्वी^o इति पाभे. ।

j) तस्येदमीयप् ठक् प्र. ।

k) विप. । वसं. ।

दर्वी-प्रमाण- णम् आमिगृ २, ३,
१ : १३.
दर्वी-सुक्-सुव-प्रणीता (ता-आ)ज्य-
स्थाली-चरुस्थाली- -ली: वैगृ
४, १ : २.
दर्वी-होम- -मः वौगृ १, ४, ३९;
-सम् वौगृ ४, ९, ३; -सस्य वौगृ
१, ४, ४४; -मेन वाधुधौ ४,
९४^३ : ६; ९; ९६ : २२.
दर्व्या(वी-आ)कृति^३- -ति अप २३,
४, ५.
दर्व्या(वी-आ)चमन^३- -नम् पागृ
२, १४, २४.
दर्व्या(वी-आ)घ^३- -घम् अप २३,
१, ३.
दर्व्यु(वी-उ)दायुवन^३- -नम् आपथौ
८, ११, १६; माथौ ८, १२, ३;
१३, ४; वैथौ.
१, २दर्श- प्रम्. √दृश् द्र.
√दल् पाथा. भ्वा. पर. विशरणे,
शब्दे; चुरा. उभ. विदारणे.
दल- पागृ ४, २, ८०; ५, २, १३१.
दलिन्- पा ५, २, १३१.
दल्य- पा ४, २, ८०.
दलित- पागृ २, १, ५९.
दलतृ- (> दालत्रक- पा.) पागृ ४,
२, ८०.
दल्प- पाठ ३, १४२; पागृ ६, २,
१३४.
दलिक- पाठमो २, २, १५.
दलीप^३- (> दालीपि^३-> पायन-
पा.) पागृ २, ४, ६१.
दल्भ^३- (= रदर्भ- पाठ ३, १५१; पागृ

४, १, १०५.
दाल्भ्य- पा ४, १, १०५; -ल्भ्यः
वौथौ १८, ३८ : १६^३; -ल्भ्यम्
ऋथ २, ५, ६१; -ल्भ्यस्य वौथौ
१८, २६ : १०; भागृ २, ६ :
१६; श्रुपा ४, १६.
दल्भि- पाठ ४, ४७; पागृ ८, २, ९.
दल्भि-मत्- पा ८, २, ९.
दल्भर- पाठमो २, २, ३८.
दवस्^३-> ष्व-वत्-, दविष्ठ- पा ६,
४, १५६.
दवीयस्- पा ६, ४, १५६; -यः
या ९, १३^३; भाशि १३.
दवियुतत्-, दविद्योत् √द्युत् द्र.
दविध्वत्- √धु द्र.
√दश् √दंश् द्र.
√दश^३ (= √दाश्) > *दशस्->
√दशस्य, दशस्यति अप
४८, २८; दशस्यय > था ऋप्रा
८, ३२; दशस्य > स्या ऋप्रा ७,
३३.
दशस्यत्- -स्यन् ऋप्रा ७,
४५; -स्यन्ता आपमं १, ११,
११^३.
१दश, शा^३- -शया माथौ २, ३, ४,
२०; २४; ५, १५; ६, १०; ४, २,
३६; -शा काथौ ४, १, १७;
माथौ २, ३, १, १८; वैथौ ९, ६ :
१०; -शाः कौगृ २, ७, २०;
शागृ २, १२, ५; -शात् वैगृ १,
३ : २^३; -शभिः आपथौ १२,
२९, ९; १३, १५, २; वौथौ; वैथौ
१६, १८ : ३^३; -शाम् आथौ

२, ७, ६; शांथौ; -शायाम् काथौ
७, ३, २५; वौथौ; -शासु वौथौ
११, ६ : २८; १२, ७ : ३८; वैथौ
१४, १४ : १२; कौगृ ५, ४, ८;
-शे लाथौ ८, ६, २२; -शेन
गौपि १, १, १२.
दशा(शा-आ)ख्या- -ख्या लाथौ ८,
६, २१.
दशा-अन्थिक^३- -के कप्र १, ५, ९.
दशा(शा-अ)न्त- -न्तम् वैथौ १४,
१४ : १३; वैगृ ५, २ : ४; शंघ
७२.
दशा-पवित्र- -त्रम् काठथौ १२४;
वौथौ ७, ६ : २०; ८, १ : २३;
माथौ; -त्रस्य आपथौ १०, २६,
११; भाथौ; -त्रे वौथौ ६, ३० :
३××; माथौ; -त्रेण काथौ ९,
५, २३; ६, १५; वौथौ.
दशा-वत् आपथौ १२, १४, ११.
दशा-सुत्र- -त्रम् वौगृ ४, २, ६.
२दश- (> दाश्य- पा.) पागृ ४, २,
८०.
१दशत्- √दंश् द्र.
२दशत्-, दश-ति- दशन्- द्र.
दशन्^३- पाठमो २, १, २७७^३; -श
आथौ ५, १२, १५^३; ऋशांथौ ७,
१५, ७^३; १२, १४, १^३; काथौ;
माथौ ५, २, ८, १७^३; अथ १५,
१७^३; १९, ४६; अप ४ : ५;
या ३, ९^३, १०; -शऽ-श आथौ
९, ३, १८; शांथौ; -शभिः
आथौ ४, ७, ४; शांथौ ५, १०,
८××; काथौ; -शभिःऽ-शभिः

a) विप. । वस. । b) उप. = मुख- । c) = दर्व्यन्त- । उप. < उदा √यु । d) व्यप. । व्यु. ? ।

e) < दिलीप- इति पागम., अन्ये तु यनि. इति । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) वैप १ द्र. ।

h) ण्त्वा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ८, ३१, ९) । i) वैप १, १५५२ e द्र. । j) शभिः इति पाठः ?

यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । k) < √दाश् इति । l) पाठः ? द्वादश इति शोधः (तु. अत्रैव विशेषे सूत्रे

द्वादश प्रैप-प्रतीकानि सा. L तैत्रा ३, ६, २, २) च । m) पाठः ? दशकम् इति शोधः (तु. अथ १५, १५) ।

आपश्री १६, २०, १०; -शभ्यः
 आपश्री २२, १७, ६; वौश्री;
 -शसु आश्री ८, १३, ८; काश्री;
 -शसुऽ-शसु काश्री १६, ७, १९;
 वौश्री; -शानाम् आश्री ४, १३,
 ७^३; आपश्री.
 दश-क^० -कः ऋअ १, ४, ६; १०,
 ३; २, ३, २८; शुअ; -कम् वौशु
 ४ : ६; ७; अअ; -काः ऋअ
 १, ६, ७; शुअ; -कान् वैध ३,
 ५, ७; -कै अअ १२, १७; अपं
 २ : २९; -कैः ऋअ १, ८, ३;
 -कौ ऋअ १, ७, ५; ९, ११; शुअ.
 दशक-द्वय- -यम् ऋअ ३, ४, ५.
 दश-कक्ष्य^० -क्ष्यः वाधुश्री ३,
 ४९ : २; -क्ष्येभ्यः या ३, ९.
 दश-कपाल- -लः काश्री ५, १२, ३^३;
 आपश्री २२; १८, १८; वौश्री
 २६, ३० : १०; १३; -लम् शाश्री
 १४, १३, ७; काश्री.
 दश-कर(ण>)णी- -णी काशु२, ८.
 दश-कृत्वस् (:) काश्री ७, ७, १०;
 आपश्री २, ७, ९; वौश्री.
 दश-क्रम- -मात् छुस् २, ९ : १५.
 दश-क्रम^० -मम् निसू ४, ८ :
 ३७; ९, १० : २८.
 दश-ग(ण>)णा^० -णा अशां
 २४, ४.
 दश-गणा(ण-अ)धि(क>)का^०-
 -काः काश्री १७, ७, ३०.
 दश-ग(ण>)णी^० -णी अप

१८^३, १९, ३.
 दश-नाव^० - > वा (व-अ) वरा-
 (र्ध्व>)र्ध्या^० - -र्ध्या कौसू ८२,
 ४१.
 दश-गुण^० - -णम् अप ६९, ३, १;
 शंघ ११४.
 दश-गुणो(ण-उ)त्तर- -राज् गौघ
 १३, १६.
 दश-गृहीत- -तम् आपश्री २, ७, ६.
 दश-ग्राम- पाग ४, २, ८०; ११६^६.
 दशग्रामिक(क >)का-,
 ०की- पा ४, २, ११६.
 दशग्रामा(म-अ)ध्यक्ष- -क्षाय
 विध ३, १२.
 दशग्रामिक- पा ४, २, ८०.
 दशगव^० - -वम् ऋप्रा ७, ४६.
 दशशत्^० - -शत् पा ५, १, ६०;
 -शतः आश्री ८, ५, ७; आपश्री
 २०, १४, ४; २२, १७, ५; हिश्री
 १७, ६, ४२; या ३, १०; -शतम्
 आपश्री ५, ८, ८^३; २२, १७, ६;
 वौश्री.
 दशद्-अर्थ- -र्थे पावा ५, १,
 ५९.
 दशतत्रयं च^० अअ १९, ४५.
 दश-तय^० - -यम् वौश्री ६, ३ : १६;
 वाधुश्री ३, ७६ : ३६.
 दशतयी^० - -यीषु आपश्री १७,
 २६, १०; हिश्री; या ७, ८; २०;
 १६, १६; १२, ४०.
 दशतय^० - -ये वौश्री २४,

१३ : ८; २५, ४ : ११; आश्रित
 ३, ६, २ : २२; वौषि १, १० :
 १८; ऋअ ३, ३७; -येन निसू
 २, ११ : २८; -यैः वाश्री २, २,
 ५, २६.
 दशतयी- -यी ऋप्रा
 १७, ४२; -यीः^६ आपश्री १४,
 २४, २; वैश्री २१, १२ : ८;
 -यीषु शाश्री १२, २, १६; २२;
 चुदे; -य्यः हिश्री १, १, २०;
 १५, ६, ३५^६; निसू २, १३ : ७.
 दशति^० - -तयः निसू ५, १२ : १२;
 -त्यः उनिसू ४, ३; ३०; ५; २८.
 दश-त्व- -त्वम् मीस् ७, ७, २७.
 दश-दशान्-> शिन्^० - -शी शाश्री
 १३, २३, ७; आपश्री २३, १४, ९;
 हिश्री १८, ४, ६४.
 दशदशिनी- -नी शांय ६,
 ३, १४.
 दशदशि-स्तोम^० - -मे आश्री
 १२, ५, २^३.
 दश-दारु^० - -रुः आपश्री ११, २,
 १४; -रुम् भाश्री १२, २, १३.
 दशदाविं(र-इ)ध्म- -ध्मम् माश्री
 २, २, १, १६.
 दश-द्वादश-हस्त- -स्तम् अप
 २१, ५, १.
 दश-धा शाश्री १७, ३, ६; वौश्री.
 दश-धेनु-द- -दम् अप १, ५०, ६.
 दश-धेनु-प्रद- -दः विध ९२, ६;
 १०.

a) पृ १०५६ f द्र. । b) विप. । वस. । c) विप. (इष्टका-) । कस. > पंस. । d) समाहारे
 द्विस. । e) समाहारे द्विस. टच् प्र. (पा ५, ४, ९२) । f) दासग्राम- इति पाका. । g) वैप १ द्र. । h) पाठः ?
 प्रकरणातः दशकम्, तत्र, पञ्च इति त्रि-पदः शोधः संभाव्यते । i) = ऋक्शाखा- (तु. स्क. १या ११, १६) ।
 j) स्वार्थे ञ्ण प्र. [तु. षड्गुरुशिष्यः] । k) सप्र. ०थीः <> ०थ्यः इति पाप्मे. । l) = दशसामानां वर्ग- । तिः प्र.
 उत्सं. (पा ५, १, ५९) । m) ढिनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । n) ईदशी^० (तु. BI.) इति, ददशी^० (तु. आन.) इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शाश्री १३, २३, ७ आपश्री २३, १४, ९ दशदशी इति), यद्वा दशि-स्तोम-> -मे इत्यपि
 शोधः संभाव्यते (तु. सप्र. निसू १०, १३ : ३ दशिनं स्तोमम् इति) ।

दश-पक्ष^३- -क्षः कौत् १३५, ९.
 दश-पञ्चदशन्-> ञा- -शानि
 आश्रौ ११, ५, २.
 दश-पण^३- -णः विष ५, १२०;
 -णम् वौष १, १०, १४^b.
 दश-प(त्र>)त्रा^c- -त्राः अशां
 २२, ११^f.
 दश-पद, दा- -दः काश्रौ १६, ८,
 १६; -दया काठश्रौ ९२; -दा
 काठश्रौ ४९; वौश्रौ ४, १ : ३३;
 २०, २५ : ३१; आपञ्च ६, १२;
 वौञ्च ३ : २२; ४ : ९; हिञ्च २,
 ३९; -दाम् आपश्रौ ७, ३, १०;
 भाश्रौ.
 दशपद-व्यास^d- -सः वौञ्च
 १० : ५; १२.
 दश-प(द>)दा- -दा अत्र ९, ५;
 -दाः अत्र ९-१०, ५.
 दश-पञ्च^e- -ञ्चः शाश्रौ १६, १४,
 १९.
 दश-पु, पू^fरूप- -पम् आश्रौ ९,
 ३, २०; शाश्रौ १५, १४, ८; वौश्रौ
 २८, २ : ५८^g; वाघ ३, १९;
 २२, १०^h.
 दश-पेयⁱ- -यः आश्रौ ९, ४, ७;
 शाश्रौ; -यस्य शाश्रौ १५, १३,
 २; आपश्रौ; -याय आपश्रौ १८,
 १२, २; वौश्रौ; -ये आपश्रौ १८,
 ८, ४; वौश्रौ २२, २० : १९;
 वाश्रौ; -येन आश्रौ ९, ३, १७;
 लाश्रौ ९, २, १; ३, २.
 दशपेय-संस्था- -स्था वाश्रौ ३,
 ३, ४, १५.

दशपेया(य-ञ्ज)र्थ- -र्थम् आपश्रौ
 १८, १२, ३; हिश्रौ १३, ५, २.
 दश-पौरुष- -षम् आश्रौ २, १२,
 ६^h.
 दश-बाहुⁱ- -हवे शैशि २.
 दश-भाग- -नाम् हिञ्च ५, ३०^f.
 दशभाग-व्यास- -सम् आपञ्च
 १६, ९^f.
 दशम- -सः शाश्रौ १६, २९, १७;
 वौश्रौ; -मम् आश्रौ ४, १२,
 २×४; शाश्रौ; आञ्चो ९, ५^h;
 -मस्य वौश्रौ १७, २५ : १०;
 २६ : १०; द्राश्रौ; -मात् शाश्रौ
 १२, २, २३; १३, १५, १३;
 आपश्रौ; -माय वौश्रौ १०,
 ४७ : १; -मे आश्रौ ८, १२, १;
 १०, ७, ९, शाश्रौ; ऋआपमं १,
 १२, ३; ४; ६; आमिञ्च १, ५, ५ :
 १७^h काञ्च ३२, ३^h; वौञ्च १,
 ७, ४०^h; ऋमाञ्च २, १८, २;
 ४^h; जैञ्च; या १४, ६^h;
 -मेन वौश्रौ २९, २ : ८; लाश्रौ;
 -मैः लाश्रौ ७, ७, ११^h.
 दशमी^j- -मी शाश्रौ २,
 ३, १४; १०, ६, १४; कौञ्च; -मीम्
 आश्रौ ५, १, ८; शाश्रौ; -मीम्ऽ
 -मीम् आश्रौ १०, ७, १०; -स्या
 वौश्रौ १०, २९ : १०; कौञ्च;
 -स्याः काश्रौ १९, ७, ४; आञ्च;
 -स्याम् शाश्रौ १५, १४, ५;
 वाश्रौ; -स्यै वौश्रौ १२, १८ :
 ८; भाश्रौ ६, ६, ४.
 दशमी-चतुर्दशी-

-रथौ ऋञ्च २, ७, १०४.
 दशमी-षोडशी-
 -श्यौ ऋञ्च २, ३, ५३.
 दशम्या(मी-आ)दि-
 -दयः ऋञ्च २, ७, ६६.
 दशम्या (मी-२आ-
 व>)द्या- -द्याः ऋञ्च २, १,
 १९१; ८, ९; २५.
 दशमिक^k- -कः निस्र ९,
 ७ : १७; -कम् निस्र ९, ७ :
 ५; २२.
 दशमिकी- -क्यः निस्र.
 ९, २ : २६; -क्यौ निस्र ९,
 ७ : १५.
 दशम-तन्त्र- -न्त्रम् निस्र ९,
 २ : ३; ७ : २५.
 दशम-धर्म- -र्माः निस्र ४, ८
 १७; ९, ६ : १; १० : २३; १०.
 ७ : २१.
 दशम-प्रदेश- -शात् लाश्रौ १०,
 १०, १.
 दशम-यज्ञ- -ज्ञम् निस्र ९,
 ७ : १.
 दशम-वर्जम् वैश्रौ १०, २१ : ७.
 दशम-विसर्ग-वचन- -नात् मीञ्च.
 १०, ६, ३९.
 दशम-त्रत- -तम् आश्रौ ८,
 १३, ३१^h; -ते द्राश्रौ ९, २, १६;
 लाश्रौ ३, ६, १७.
 दशम-संयोजन- -नाः निस्र ९,
 ७ : १३.
 दशमा(म-अ)र्थ- -र्थम् लाश्रौ
 १०, ३, १८.

- a) विप. । वस. । b) प्रतिशतं दशमी भाग इत्यर्थः । [उ. यात् २, १९९] । c) = श्लोपवि-
 विशेष- । वस. । d) वौश्रौ. वाघ २२, १० पाठः । e) त्पा. षूरूपम् <> षौरूपम् इति पाठे. ।
 f) वैप १ द्र. । g) सप्र. णं व्यासम् <> णव्यासम् इति पाठे. । h) ष्रम् इति पाठः ? चनि.
 शोधः । i) पाठे. वैप १, १५५० f द्र. । j) विप., नाप. (तिथि-) च । k) तत्रभवार्थाय च् टक् प्र. ।
 l) उ. आन. ।

दशमै(म-ए)कादश- -शाभ्याम्
आपध २; ३, २२; हिध २, १,
५२; -शे आपधौ १७, २३, ९;
हिधौ १२, ७, ९.

दश-मास- -सात् अप ७१, ९, ४.
दशमास-तस्(ः) अप ७०^२,
७, १८; ७१, ११, ५.

दशमास्य^०- -स्यः काश्रौ २५,
१०, ५; आपमं १, १२, ९;
आय १, १३, ६; कौगृ १, १२,
६^२; शांगृ १, १९, ६; १२;
पागृ १, १६, १; हिगृ १, २५, १;
शुप्रा ४, ८५; -स्यम् वीश्रौ १६,
१६: २; २४, ५: १३; -स्याय^०
आपमं २, ११, १५; आमिगृ २,
१, १: १२; भागृ १, २२: ११;
हिगृ १, २५, १; २, २, ५.

दशमासः^० भागृ १, २२: १८^१.

दश-योक्त्र^०- -क्त्रेभ्यः या ३, ९^१.

दश-योजन^०- -नेभ्यः या ३, ९^१.

दश-रथा(क्ष >)क्षा^०- -क्षाम्
आपधौ १४, ५, १०; हिधौ ९,
८, ६.

दश-राजन्->दाशराज^०- -शे
शांश्रौ १२, १५, ५^१.

दश-रात्र^०- -त्रः आश्रौ १०, ५,
३××; शांश्रौ; -त्रम् आश्रौ ११,
७, ११; १८; शांश्रौ; -त्रयोः
निसू १०, ७: २७; -त्रस्य
आश्रौ १२, ७, १०; काश्रौ; -त्राः
आश्रौ १०, ३, २९; काश्रौ;
-त्रात् आश्रौ २, ५, १४××;

शांश्रौ; -त्राय आपधौ २२, २३,
१६; वीश्रौ; -त्रे आश्रौ ८, ७, १७;
१२, १९; आपधौ; -त्रेण शांश्रौ
१६, २९, १; १८; वीश्रौ; -त्रौ
जुसू ३, १२: ३; निसू १०, ७:
२०.

दाशरात्रिक- -कः निसू ८,
९: २५; -कम् शांश्रौ १०, २,
१; लाश्रौ १०, ५, १; निसू ९,
१३: ११; -काः निसू ३, ७:
१३; -काणाम् लाश्रौ १०, ५,
३; निसू ४, ७: १७; १२: १२;
८, ३: २७; -काणि काश्रौ २३,
१, ५; निसू ८, १: ४; ६: ५;
९, ३: २६; ९: ५; -कान् निसू
६, १२: ३; -केभ्यः लाश्रौ ६,
६, ९; १७; निसू ४, १३: १५;
-कैः निसू ९, १३: ९; ३४.

दाशरात्र-न्याय- -येन निसू ६,
६: १८; ७, ३: ३६; ९: १३;
१५; ८, १०: २६.

दाशरात्र-प्रवर्ह^०- -र्हः जुसू २,
७: १.

दाशरात्र-प्रभृति- -तयः निसू ९,
८: ३३.

दाशरात्र-मास- -सम् द्राश्रौ ८,
३, ३१^१.

दाशरात्र-मिश्र- -श्रम् लाश्रौ ४,
७, ११^१; -श्रात् द्राश्रौ ८, ३,
२८; लाश्रौ ४, ७, ८.

दाशरात्र-रूप- -पाणि निसू ४,
१३: ७.

दाशरात्र-लि(ङ् >)ला^०- -ल
निसू ८, ६: २६.

दाशरात्र-वत् लाश्रौ १०, ३,
१४.

दाशरात्र-व्रत- -तम् आमिगृ ३,
९, ३: १०^५.

दाशरात्र-समीप- -पे द्राश्रौ ७,
४, २२; लाश्रौ ३, ४, २१.

दाशरात्र-स्वोम-विकृत^०- -तः
निसू ९, ४: ५; १०, २: ७.

दशरात्रा(त्र-अ)न्त- -न्ते जुसू
३, २: ३५.

दशरात्रा(त्र-अ)न्त^०- -न्ताः
निसू ९, ६: २३.

दशरात्रा(त्र-आ)ति- -सिम् निसू
८, २: १८.

दशरात्रा(त्र-अ)वार्ध- -र्धे शांश्रौ
२, १६, १.

दशरात्रा(त्र-अ)वलोपा(प-अ)
हीन^०- -नाः निसू ८, १: ३^५.

दशरात्रा(त्र-अ)वसान- -ने निसू
७, ९: १३.

दाशरात्रिक^०- -के निसू ५, ९:
२२^५; शुभ्र ४, १८७.

दाशरात्रि^०- -त्रौ आज्यो १२, २.

दाश(श-ऋ)र्व^०- -र्वः शुभ्र २,
३९४; -र्वम् वीश्रौ १०, ५१:
२१^१; माश्रौ; -र्वस्य काश्रौ

२०, ६, १८; -र्चाः ऋश्र २, ९,
८६; -र्वे ऋश्र २, १०, ५९;

-र्वेन आपधौ १७, १४, ७;
वीश्रौ; -र्वेभ्यः अप ४६, १०, ७^१.

- a) वैप १ द्र. 1 b) पाभे. वैप १, १५५० f द्र. 1 c) पाठः ? दश, (मास->) मासः इति शोधः
[तु. सपा. हिगृ २, २, ७]। d) विप. (L१०४० अङ्गुलिपरिमिता-] रज्जु-)। e) मलो. कस. उप. भाप.
<प्र/वृह् (उद्यमने [तु. लाश्रौ ४, ५, ४ भाष्यम्]।)। f) सपा. त्रमासम् <> त्रमिश्रं मासम् इति पाभे.।
g) विप. 1 वस. 1 h) सप्र. वीपि २, ७, ९ द्वादशरात्रमेवद् व्रतम् इति पाभे.। i) विप. (कुशुर्विन्द-)। j) वस.>
कस. 1 श्रव(= नञ् [तु. पृ ३८१ j])-लोप-। k) 'वल्लोपा' इति संस्कृतः टि.। l) = दाशरात्रिकः।
m) दा^० इति संस्कृतः टि.। n) कस. पूष. = दशमी-।

दश(श-ऋ)र्षे(भ>)भा^२-भा
 वौश्रौ २४, ३८: ८; -भाया:
 आपश्रौ १९, १६, ९.
 दश-वर्ग- -र्गम् वाश्रौ २, १, ७, १९;
 -२; १, २१; -र्गान् काश्रौ २२,
 १०, ११; लाश्रौ ९, ४, २.
 दश-वर्ष- -र्षात् वैगृ ६, १२: ३.
 दशवर्ष-भुक्त- -क्तम् शंघ ३०९;
 गौघ १२, ३४.
 दशवर्ष-वृद्ध- -द्धः गौघ ६,
 १५.
 दशवार्षिक^१- -क्तम् कागृ १९,
 २.
 दश-वर्ष^२- -र्षः आपघ १, १४,
 २५; हिघ १, ४, ५४; -र्षम्
 आपघ १, १४, १३; विघ ३२,
 १७; हिघ १, ४, ४५.
 दश-वार- -रम् वौगृ २, ९, ४;
 भागृ ३, १५: २.
 दश-वाह-वाहिनी- -नी वाघ १९,
 १७.
 दश-विघ, घा^३- -घम् शांश्रौ १६,
 २९, १; २; १८; -घा नाशि
 १, ३, १.
 दश-वीर^४- -रम् शांश्रौ ४, १३,
 १; आपश्रौ; आपनं १, ६, १२^५.
 दश-वृक्ष^६- -०क्ष कौक्ष २७, ५;
 अप ३२, १, ७; अक्ष २, ९.^७
 दश-न्यास^८- -सः वौश्रु ४: २.
 दश-शत^९- -तम् शांश्रौ ११, १३, ६;
 लाश्रौ ९, ६, १३; वाघ १३,
 ४८.
 दश-सं(स्थ>)स्था^{१०}- -स्था अप
 ६१, १, २८.

दश-सति- -तिः, -तिन् पागृ
 २, ६, १६.
 दश-सप्त-चतुर्दश-वर्जम् काश्रौ ६,
 १, २९.
 दश-सहस्र- -स्रम् आमिगृ २, ५,
 १०: ४^{११}; गौपि १, ७, १३.
 दश-साहस्र^{१२}- -स्रः वाव २५, १२;
 -स्रम् शंघ ४५३.
 दशसाहस्र-जाप्य- -प्येन शंघ
 ४५४.
 दश-सूक्त- -क्तेषु आश्रौ ३, २, ९.
 दश-स्तोम^{१३}- -मानि वौश्रौ १७,
 १८: ९.
 दश-हविस्^{१४}- -विः काश्रौ ५, १२,
 २; वौश्रौ १५, १७: १२; ३७:
 १७; -विषः जुश्र ३, १३२^{१५};
 -विषम् आपश्रौ २०, ९, २;
 २३, २; वौश्रौ.
 दश-हस्त- -स्तम् अप ३०^{१६}, १,
 ३; ५.
 दशहस्त-समुत्सेप^{१७}- -षम् अप
 १८, १, ५.
 दश-होत्र^{१८}- -त्रि शांश्रौ १०, १४,
 १; -त्रा वौश्रौ २५, ३१: ४;
 माश्रौ; -तारः आपश्रौ २२, ११,
 १^{१९}; वाघूश्रौ ४, ९५: ९; हिश्रौ
 १६, ४, २७^{२०}; -तारम् शांश्रौ
 १०, १४, २; आपश्रौ; -तुः
 आपश्रौ २१, १०, ७; वौश्रौ;
 -त्रा आपश्रौ ५, १०, ८^{२१};
 वौश्रौ.
 दशहोत्र(तृ-अ)र्थ- -र्थम् वौश्रौ
 २, ७: १९.
 दश-हो(त्रा>)त्र^{२२}- -त्रम् वैगृ ५,

४: ४; ७.
 दशहोत्रे(त्र-इ)ष्टका- -काः वौश्रौ
 १९, ७: २.
 दश-होम- -मानाम् माश्रौ ५, २१,
 १२.
 दशां(श-अं)शक^{२३}- -कः अप ६९,
 ८, ४.
 दशां(श-अं)शर-> -र-नियत-
 -तैः उनिस् १: ३८.
 दशाक्षरो(र-उ)पयु(क>)का-
 -क्ताः निस् २, १२: २३^{२४}.
 दशाक्षरो(श-अ)क्षर, रा^{२५}- -रः निस् १,
 १: ४; -रम् वाघूश्रौ ४, १००:
 १०; २७; वृदे ७, २१; -रा शांश्रौ
 १६, २९, २; आपश्रौ ६, १३,
 ९; वौश्रौ १४, १९: ११; आमिगृ
 ३, ८, २: ५९^{२६}; -राः शांश्रौ
 ७, २७, २३; वौपि १, १५:
 ६४^{२७}; ऋश्रा १६, ४२; -राणि
 छुस् १, ६: १८; -राण्याम्.
 उनिस् २: ३०; ३४; -रेण
 आश्रौ ८, १२, १६; -रेषु लाश्रौ
 १०, ९, ७; -रौ ऋश्रा १६, ६८;
 उनिस् १: ३१.
 दशाक्षर-ता- -तायाः निस् १,
 १: ८.
 दशाक्षर-पाद, द्वा^{२८}- -द्वम् निस्
 ३, ४: ३२; -द्वाः निस् १, ४:
 २५.
 दशाक्षरै(र-ए)कादशाक्षर- -रौ
 निस् १, १: २६.
 दशां(श-अ)शुल-> -ल-प्रमा
 (रा>)गा- -णाम् अप २६,
 ३, ४.

a) वैप १ द्र. 1 b) विप. 1 वजि [पा ५, १, ९४] प्र. उप. वृद्धि: [पा ७, ३, १६]। c) तद्धितार्थे द्विस. 1 d) विप. 1 वस. 1 e) पामे. वैप १ सुर्ववीरम् शौ १४, २, ६ टि. द्र. 1 f) पूष. = दश-पद- [तृ. संत्कर्तुः टि.] 1 g) वैप १, १५१८ b द्र. 1 h) वस. वा मलो. कस. वा [तृ. वैप १ त्रि-शतु- टि.] 1 i) वैप १, १५१९ c द्र. 1 j) दशा^२ इति पाठः इ यनि. शोषः 1 k) = मन्त्र-विशेष- 1 वस. 1 l) दशाक्षरो वैकस्ताः इति सा (तां १२, १३, २२) पामे. 1

२दशा(श-अ)हुल- लः विधं ५,
२५; - लम् वैश्रौ ११, ८ : १३;
वौश्रु १ : ३.
दशा(श-अ)त्मक^a - कम् वौश्रौ
२७, १० : १७†××; -केन वौश्रौ
२९, २ : ७.
दशा(श-अ)दि- दिभिः पावां २,
२, २९.
दशा(श-अ)ध्यक्ष^b - क्षान् विधं ३,
८.
दशा(श-अ)न्त- न्तात् पा ५, २,
४५.
दशा(श-अ)भीशु^c - शुभ्यः या ३,
९†.
दशा(श-अ)भ्यास- सेन वाश्रौ ३,
४, २, ७.
दशा(श-अ)रलि-मात्र^d - त्रः चव्यु
४ : २०.
दशा(श-अ)र्ण- (> दाशार्ण- पा.)
पाग ५, २, ६१^e; पावा ६, १,
८८^f.
दशा(श-अ)र्ध-युक्त- -क्तेन विध
७२, ६.
१दशा(श-अ)र्ह- (> १दाशार्ह-
पा.) पाग ५, २, ६१^e.
दशार्ह-पयस- (> दाशार्ह-
पयस-) १दशार्ह- टि. द्र.
दशा(श-अ)वनि^g - निभ्यः यां ३,
९†.
दशा(श-अ)वर, रा^h - रम् आग्निगृ
२, ६, २ : २६; ८ : २९; जैगृ १,
१३ : ५; वौध २, ५, १२; ४, ८,

१८; -रा वाध ३, २०; वौध
१, १, ७; ८; -रान् गौध २८,
५०; -राम् वाध २६, १५; वौध
१, ४, ७; -रैः गौध २८, ४९.
दशा(श-अ)ष्ट-पञ्च-मात्राⁱ - त्राः
कौशि ७५.
दशाह^j - हः वाश्रौ ३, २, ३, ३१;
३२; -हम् निसू १०, २ : ३;
आगृ; -हस्य वैताश्रौ ४२, ३;
-हात् आग्निगृ २, ७, ४ : १०;
वौगृ; -हानि आश्रौ १२, ४, २३;
क्षुसू; -हे वौश्रौ २९, ११ : ६;
वैश्रौ.
दशा(श-अ)हन्->दशाहिक- -के
कागृउ ४५ : ६.
दशिका- -का आपशु ५, १२.
दशिन- -शिनः वौश्रौ १५, २३ :
१५; -शिनम् निसू १०, १३ :
३; -शिनि लाश्रौ ६, ७, १.
दशिनी- -नी ऋप्रा १७,
४२.
दशि-प्रभृति- -तयः निसू १,
९ : २०.
दशै(श-ए)कादश->दशैकाद-
शिक- पा ४, ४, ३१.
दशै(श-ए)कादश-द्वादश-रात्रि-
-त्रयः सुध १०.
दशै(श-ए)कादश-द्वादशा(श-अ)
क्षर- -रागाम् ऋअ १, ३,
१०; शुअ ५, ११.
दशो(श-ओ)णि^k - णये, -णिम्
ऋप्रा २, ७१†.

दशो(श-ओ)ण्य^l - ण्ये ऋप्रा २,
७१†.
दशन- ✓दंश द्र.
दशम- प्रसू. १दशाह- दशन्- द्र.
२दशाह^k - (> दशाह-क- [पा ५,
४, २९] २दाशाह- पा.) पाग
५, ३, ११७; ४, २९¹; ३८¹.
दशिन- दशन्- द्र.
दशी^m वाधुश्रौ ४, ९६ : ३१.
दशोर- पाउ १, ५८.
दशोरक->क-गडेरकⁿ - पाग २, ४,
६८.
दशोनसि^o - -सिम् अप्रा ३, ४,
१†.
दष्ट-दष्टुम् ✓दंश द्र.
✓दस्^p पाधा. दिवा. पर. उपक्षये,
चुरा. आत्म. दर्शनदशनयोः;
दस्यति अप्र ४८, ४२.
†दसये^q आपश्रौ १६, १६, १;
वैश्रौ १८, १४ : ८.
दस्तु- पाउना २, ९२.
दस्यु^r - पाउ ३, २०; पांवाग ५,
३, ६६; -स्यवः कौसू ८७,
३०†; अप्र ४४, ४, ५†; ७१,
१६, १; -स्युः या ७, २३†;
-स्युभिः अप्र ६८, २, १६; विध
२३, ५०; -†स्युम् या ६, २६;
७, २३; -†स्युन् लाश्रौ ७, १०,
१२†; निसू ७, ११ : ८; पागृ ३,
३, ५५; आग्निगृ ३, २, ६ : ६;
अप्र १, ३२, ८; ऋप्रा ४, ७१;
-स्युनाम् शाश्रौ १५, २६, १;

a) विप. । वस. । b) वस. पूष. = दशप्राभ- । c) वैष १ द्र. । d) विप. (अथर्ववेद-) ।
e) शब्दानुकरणमात्रं द्र. । f) = देश-विशेष- वा नदी- वा । उप. = दुर्ग- वा उदक- वेति पासि. । g) दशाह-
वयस- इति भाण्डा., दशाहपयस- इति पाका. । h) विप. । वस. । -रम् इति क्वचित् वा. क्विवि. । i) उप.
= काल-विशेष- । j) समाहारे वा तद्वितार्थे वा द्विस. । k) व्यप. वा जाप. वा । व्यु. ? । l) तु. पागम. । उप.
<✓अहं । m) पञ्चदशी- इत्यस्यैकदेशः । n) तु. पागम. । o) या १, ९; २, १७; ७, २३ पा ७, २; २७ परामृष्टः
द्र. । p) पाभे. वैष १, १५४५८ द्र. । q) पाभे. वैष १, १५५२२ ऋ द्र. ।

-कस्योः अप्राय ६,९; या ५,९.
दस्यु-हन्- > दस्युहन्-तम-
-मम् माश्रौ ५, १,३,१; वैताश्रौ
५,१४.

द-संयुत- द- द्र.

दस्त- ✓दस् द्र.

दस्त्यूह- पाउभो २,३,१८९.

दस्म-, दस्य- ✓दंस द्र.

?दस्य अप ४८,१३९.

दस्यु- ✓दस् द्र.

दस्त्र- ✓दंस द्र.

✓दह^१ पाधा. भ्वा. पर. भस्मीकरणे,
दहति वौश्रौ १३,४ : १०; १४,
१३ : ३१××; वाधूश्रौ; या ७,
२०; दहन्ति पागृ ३,१०, ११;
आमिगृ; दहसि या ७, २३;
दहामि हिश्रौ २४, ६, १४फं;
दहतु अप ४, २, ६फं; णदह
आपश्रौ १,२२,२; १४,२७,११;
वौश्रौ; णदहऽदह अप ३५,१,२;
३६,९,३; दहतम् आगृ ३, १०,
११फं^२; णदहत वौश्रौ २,१० :
८; आमिगृ ३, १, २ : ३; वौगृ
२, ११, २९^३; भागृ २, ११ :
१८; हिगृ २, ११, १; दहेत् माश्रौ
९, ५, ९; वाश्रौ; दहेयुः आश्रौ
६, १०, ८; ३०; आपश्रौ.
दहेत्^४ भागृ २, १५, ६.
धक्षसे आपश्रौ ३, १५, ५फं^५;
दक्षत् ऋप्रा ४, ९८फं; धाक्षीत्
वैश्रौ २, ३ : २फं.
दहते सु १८ २; वाध २७, ४;
दहन्ते वौध २, ७, १५; विघ

५५, ८; दहताम् अप ४, २, १०;
अदह्यत ऋअ २, ७, ३२; अअ
२०, ७९^६; दह्येत वौश्रौ २९,
६ : १५; वैश्रौ २१, १७ : ८.

दाहयति वैगृ ७, १ : ८; १३; २ :
३; १४; ३ : ८; दाहयेत् आमिगृ
३, १०, २ : ९××; वौपि.

?दक्षि^७ > णदक्षि-सूरि^८ -रयः
ऋप्रा ४, ९८; ११, ८; उसू ४, ५;
६, ६.

दग्ध,ग्धा- -ग्धः आमिगृ ३, ६, २ :
१५; वौपि; -ग्धम् वौश्रौ २७,
३ : ७; ८; वैश्रौ; -ग्धा सु ८, ४;
-ग्धाः अप २६, ४, ५; -ग्धात्
या ७, १४; -ग्धायाम् आमिगृ
३, ७, ४ : २७; वौपि २, ४, १३;
-ग्धासु अप ५८, १, १२; -ग्धे
आश्रौ ६, ८, १; काश्रौ; -ग्धेषु
काश्रौसं ३२:५; वौश्रौ २९, १:१२
दग्ध-पु(त्र >)त्रा^९ -त्रा सु ९, २
दग्ध-शेष- -वे अप २३, ४, १.

दग्ध(व्य >)व्या- -व्या कागृउ
४२ : १८; कप्र ३, ४, ७.

दग्ध्वा आश्रौ ६, १०, २४; शाश्रौ
१३, ११, १; काश्रौ २५, १३,
२७; १४, १; आपश्रौ.

दहत- -हन् आपश्रौ १६, ६, ७फं;
वैश्रौ १८, ४ : १०; हिश्रौ ११,
१, ७३; वैताश्रौ ६, ७फं^{१०}; आमिगृ
३, १०, ४ : ३१; वैगृ ५, ८ : १४;
-हन्तम् वौश्रौ १४, १३ : १६.
दहति- > ०ति-कर्मन्- -र्मा या
४, १७.

दहन^१- पागृ ३, १, १३४; -नम् आपश्रौ
१४, २१, ११; माश्रौ ३, ८, ५;
कौगृ; -नस्य वाधूश्रौ ४, १०^२:५;
८; आमिगृ; -नात् आमिगृ ३, ६,
३ : ६ कौसु; -ने आमिगृ ३,
६, ४ : १२; वौपि १, १३ : १२.

दहन-कर्मन्- -र्मणा गौपि १, २, ७;
वाध २८, १, -र्मणि गौपि १, १, १७

दहन-कल्प- -ल्पम् वौपि ३,
१, १ -लोभ हिपि १२ : ११.

दहन-काल- -ले वैगृ ७, ४ : १६.

दहन-देश- -शम् हिपि १ : २;
३:५; ७:१०; गौपि १, २, ५.

दहन-नक्षत्र- -त्रेषु आमिगृ ३,
३, २ : ३१.

दहन-निधान-देश- -शे कौसु
८०, २.

णदहन-पति^{११} -तये^१ वौपि ३,
२, १०^३; वैगृ ५, ३ : १२.

दहन-प्रभृति- -ति वैगृ ७, ७ : २.

दहन-मन्त्र- -न्त्रेण गौपि १,
३, १९.

दहन-वत् हिपि १०:६; २३:८.

दहन-विधि- -धिः आमिगृ ३,
४, १:१; -धिम् वैगृ ५, १ : २;
गौपि २, १, १.

दहन-विहीन- -ने वैगृ ७, ३ : ३.

दहन-संस्कार- -रेण वौपि ३, १, ५

दहना(न-अ)गिन- -न्नेः गौपि
१, ५, १३.

दहना(न-आ)दि- -दीन् अप
६८, १, १५.

णदहना(न-अ)धिपति^{१२} -तये^१

a) युग ७, १४ परामृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १, १८५४ j द्र. । c) अदहं इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. हिगृ.) । d) 7 परस्मैपदश्च उस्तं. (पा ३, १, ९०) । e) पामे. वैप १, १५५४ e द्र. । f) दह्येत इति
पामे. ? (e) पामे. वैप १ सुक्लअ.) । g) वैप १, १५५३ g, h; अनु-दक्षि- परि. च द्र. । h) विप. । वस. ।
११८ b द्र. । i) वस. वरु गोत्रा १, २, २१ टि. द्र. । j) कर्तरि भावे च कृत् । k) पूष. = प्रेत- । l) सप्र.
रुं यनि. शोघः । k) = नत्र पामे. ।

गौपि १,२,१९; २०^२.
 दहना(न-अ)र्थ- अर्थम् वैगृ ७,
 ४ : १८.
 दह्यमान- नः आगृ ४, ४, ७[†];
 अप ६८, २, २५; -नम् आगृ
 ४, ४, ६; वैगृ ५, १ : २०; अप
 ६८, १, १४; -नाः विध ४३,
 ३५.
 १दह- पाउ २, १३.
 दाह- हः काश्रौ २५, ८, १३;
 आमिगृ ३, १०, ४ : ३४; वौपि
 २, ३, १७; शंघ १६६; -हम्
 अप ५८, १, ३; ५; ६१, १, २७;
 ६७, ४, ३; -हाः अप ५८, १, ८;
 -हात् कप्र ३, ५, ७; शंघ ३५३?;
 वौध १, ४, २; -हे वैगृ ६, १ :
 १८; काघ २७६ : १; -हेन
 विध २३, ५७; वैध ३, ४, ३; -हैः
 अप ६४, २, १; आज्यो ११,
 १.
 दाह-फल- -लम् अप ५८,
 १, १.
 दाहा(ह-आत्मक>)रिमिका^२-
 -काः अप ६८, १, १२.
 दाहो(ह-उ)पघात- -ते वौगृ
 ४, २, ५; -तेषु वौगृ ४, २, १.
 दाहन- -नात् शंघ १६४.
 दाहयित्वा वैगृ ७, २ : २; ३ : १२;

४ : १५; कप्र ३, १, ५; ६.
 दाहुक^२- -कः आपश्रौ ५, ३, ४;
 हिश्रौ ३, २, ७[†]; आगृ २, ८,
 १४[†].
 दाह्य, ह्या- -ह्यः वैगृ ५, ११ : १;
 ६; -ह्या कागृउ ३९ : २.
 दिघक्षत्- -क्षन् वृदे ६, ३७.
 धक्षु^०- -क्षोः ऋप्रा ४, ९३[†].
 धक्ष्यत्- -क्ष्यन्तः शाश्रौ १८, २४,
 १५; आमिगृ ३, ६, ४:१; वौपि
 १, १३ : १; हिपि १० : ५.
 दहर- -रम् काश्रौ १४, ५, ३[†].
 दहर-क- -कः अप ४८, ६७^०.
 १दह- √दह् द.
 २दह- -हे वौश्रौ १४, १४ : १६;
 आपध १, ९, २३; हिघ १, ३,
 २४.
 √दा^१ पाधा. भ्वा. पर., जु. उभ. दाने,
 दत्ते शाश्रौ ३, १६, २७; भाशि
 ४५[†]; ददाति आश्रौ १, १, १५;
 १०, १०, १०; शाश्रौ; आपश्रौ
 २१, २२, ५^६; हिगृ १, २०, २[†]h;
 हिघ २, १, १२१[†]; ५, ६५[†];
 दत्तः आपश्रौ ५, ४, ११; १३,
 २२, ४; भाश्रौ; ददते वैगृ ५, ६ :
 १२; ददति आपश्रौ १६, ३३,
 ४[†]; हिश्रौ १५, ३, ३४; ददासि
 आपमं २, ११, ११[†]; आमिगृ २,

१, ५ : १५[†]; या ११, २४; तैप्रा
 १६, १८[†]; िददे आपश्रौ ५, ८,
 ८; वौश्रौ २, १५ : १२; हिश्रौ
 ६, ५, १०; िददामि आश्रौ २,
 १८, १३; काश्रौ; शागृ ३, ११,
 १४[†]; पागृ ३, ९, ६[†]; कागृ ४१,
 ९^k; ५२, ४[†]; मागृ १, १७,
 ६[†]; वैगृ ३, १० : ७[†]; विध
 ८६, १६[†]; ददहे आमिगृ ३, ७,
 २ : ३[†]m; अप ३६, २५, ३;
 िददत् आश्रौ २, ११, ४; १८,
 १३; शाश्रौ; आपमं १, ३, २[†]m;
 शागृ ३, १०, २^०; कागृ २५,
 २२[†]m; मागृ १, १०, १०[†]m;
 ददः वौश्रौ ६, ७ : २[†]; िददात्
 आश्रौ १, १०, ८xx; ६, १४,
 १६^p; शाश्रौ १, १५, १३xx;
 ७^p, १८, १-५; ९, २८, ३[†]p; १८,
 ३, २[†]; काश्रौ; आपश्रौ १४, २८,
 ४^०; १७, १३, २^०g[†]; वैश्रौ २१,
 १५; १४^०; हिश्रौ १२, ४, ४^०g[†];
 १५, ७, १२^०; आपमं २, ४, ५[†];
 ११, १[†]; ३^v; ४^v; आगृ १, १४,
 ३^p; कागृ १, ८, १३[†]; १४, ६^p; शागृ
 १, २२ : ७^p; आमिगृ २, १, १ :
 २[†]; २ : २^v; ५ : ४^v; ३, ४, १ :
 १५[†]; वौगृ^v १, १०, ४; ५; वौपि
 १, ४ : १०[†]; मागृ १, २६ : ५^v;

a) विप. । वस. । b) उक्त् प्र. उसं. (पा ३, २, १५४) । c) वैप १ द्र. । d) = कौपीन-
 इति विद्याधरः । e) हस्त्र-नामन्- । f) गौघ ५, २० या ७, ९ अप्रा २, ४, १ शौच ३, ११; ४, ६१
 मीसू ४, २, २९ परामृष्टः द्र. । g) दधाति इति क्वचित्कः पाठः (तु. C.) । h) पामे. वैप १, १५५७
 k द्र. । i) सपा. ददाति <> दद्यात् इति पामे. । j) पामे. वैप १ परि...ददामि तै ३, ३, ९, १
 टि. द्र. । k) पामे. वैप १, ११३८ t द्र. । l) पामे. वैप २, ३ खं. दधामि माश १४, ९, ४, २५.
 टि. द्र. । m) पामे. वैप १, १७०४ m द्र. । n) पामे. वैप १, १५५५ f द्र. । o) पामे. वैप
 १, १५५७ a द्र. । p) पामे. वैप १, १७०४ g द्र. । q) पामे. वैप १, ५५४ n द्र. । r) पामे.
 वैप १, १५५५ u द्र. । s) पामे. वैप १ परि. दधातु मै २, १३, २२ टि. द्र. । t) सकृत् पामे. वैप
 १, १३४४ i द्र. । u) पामे. वैप २, ३ खं. दधातु मंत्रा १, ५, ९ टि. द्र. । v) पामे. वैप १, १५५५ p द्र. ।
 w) पामे. वैप १, १५५४ m द्र. ।

वैद्य १, १६ : १^३; २^३; ३^३; २, ७ :
 ९^०; हिण् १, ६, ४^०; ८, ४^०; २, १,
 २^३; २, २^३; ४, ९^३; वृद्धे ४, ८८^३;
 या ६, ३१; ११, ११^३; ३१; ३३;
 १२, १८९; ण्वृत्तात् चोश्रौ १३,
 ३२ : १; ३; ददतु शाश्रौ १२,
 १९, ३; चोश्रौ; ण्वृद्धि अप ४८,
 १२; ऋषा ७, २७; ण्वृद्धि अपश्रौ
 २, १८, १३; ३, ६, २६^०; ६, ९,
 १^०; शाश्रौ २, ११, ३^३; ३, १५,
 ४^३; ४, १२, १०^३xx; काश्रौ;
 आपश्रौ ४, १५, १^३; ६, १३, ५^३;
 १६, ११, ३^३; माश्रौ १, ६, १,
 ५^३; आपनं २, १५, १५^३; आण्
 १, १६, ५^३; कौस् १, १९, १०^३;
 शाण् १, २५, ७^३; २७, ७^३; पाण्
 २, ४, ७^३; माण् १, २०, २^३; २,
 १४, ३०^३; कौस् ५७, १६; ङ्या
 १, ७; ४, ३; ७, १३; १०, १९;
 भाशि ४३; दत्तम् पाण् ३, ४,
 ८^३; ण्वृत्तात् आश्रौ २, ७, १२^३;
 शाश्रौ; माश्रौ १, १, २, ३३^३; कौस्
 ८८, २५^३; ण्वृत्तानि आश्रौ ५,
 १३, १४^३; शाश्रौ; ण्वृत्तदात्
 आश्रौ ८, १, १२; शाश्रौ; कौण्
 १, १२, ६^३; आण्विण् १, ५, ३ :
 १२; १३; हिण् १, २०, २^३;
 गो २, १५; ददात् वाचश्रौ ४,

२६ : १८; लददुः चोश्रौ २, ७ :
 ३, ५; कौस् ८२, १२^३; या १२,
 १०^३; लददाः आपश्रौ २०, ६,
 ५^३; चोश्रौ; दद्वीत अप ४०,
 १, २; १४; दद्यात् आश्रौ २, ७, ६;
 ३, १३, १७xx; शाश्रौ; आण्विण्
 २, १, ५ : २८^३; आपव २, ९,
 ६^३; १८, १०^३; दद्याताम् आपश्रौ
 ८, ८, १७; माश्रौ; दद्युः आश्रौ
 १२, ६, ३०; ९, १०; काश्रौ;
 दद्याः अप १, ४२, ८; दद्याम्
 वैताश्रौ ३७, १४.
 ण्वृद्धे आपश्रौ ४ १०, ४^३;
 ५, ८, ८^३; माश्रौ ४, १५, ३^३;
 आण्विण्; चोश्रौ; दद्वी शाश्रौ
 १५, २२, १; चोश्रौ; ददतुः वृद्धे ५,
 १३९xx; ण्वृद्धुः शाश्रौ १५, २१,
 १^३; चोश्रौ; दास्यति वाच ११,
 ४०; शंघ २८१; दास्यन्ति चोश्रौ
 १४, ५ : ३२^३; अप ५, ५, २;
 दास्यसि वा ८, १८; दास्यामि
 नाश्रौ २, १, १, १२; माण् ३,
 १४, २१; विष ६, ४०; दास्यामः
 चोश्रौ २, ७ : ४^३; सु २, ५;
 ण्वृत्तम् आपश्रौ १, १०, ३;
 गोण् ४, ३, २३; ण्वृत्तदात् शाश्रौ
 ४, ७, १५^३; ७, १८, ७; काश्रौ; या
 ४, १५^३; ऋषा २, ४०; १८,

९; ण्वृद्धुः आपनं १, ३, ३; पाण्;
 ण्वृद्धुः या १४, ३५^३; अत्रा १, ३,
 ६^३; लदाः हिश्रौ ३, ५, २५^३;
 ण्वृद्धाः आश्रौ १, ७, ८^३; ३, ६,
 २७^३; १३, १४; शाश्रौ ३, २, ४^३;
 आपश्रौ ५, २४, ४; १५,
 १२, ७^३; चोश्रौ ३, ८ : ३२; ९,
 ७ : ५^३; ६^३; ८^३; ९^३; १०^३xx;
 माश्रौ; या १, ७९; १०, १९;
 ण्वृद्धात् दाश्रौ ६, ४, १७; लाश्रौ
 २, १२, १७; कौस् ११, २०;
 लदाम् आपश्रौ १३, ७, १३^३;
 ण्वृद्धाम् आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ
 ९, १६, ३; ऋषा २, १०, ४९.
 दीयते शाश्रौ १६, १४, १८; १५,
 २०; आपश्रौ; पा ४, ४, ६६; ५,
 १, ४७; ९६; पना ५, १, ४७;
 दीयताम् वृद्धे ५, ५८.
 दास्यते वैण् ३, १ : ३.
 दापयेत् पाण् ३, १४, १५; अप.
 दिस्सि ऋषा ५, १९^३;
 ण्वृद्धिदासिय शाश्रौ १६, १६, ३^३;
 लदिस्यताम् निच् ९, ९ : १०;
 दिस्सि चोश्रौ ३, २९ : १५
 हिश्रौ १७, ६, ४२.
 ददत्त, ता-त्तः कौस् ३, १०^३;
 चोष २, २, २०^३; विष १५,
 १९९; अत्र २, २९; -त्तम्

- a) पामे. वैप १, १५५५ p द्र. । b) पामे. वैप १, १७०४ g द्र. । c) पामे. वैप १, १५५५ q द्र. ।
 d) पामे. वैप १, १७०९ r द्र. । e) पामे. वैप १, १५५६ h द्र. । f) पामे. वैप १, १५५६ c द्र. । g) पामे.
 वैप १, १७१० k द्र. । h) पामे. वैप १, १७०९ l द्र. । i) पामे. वैप १, १५५६ e द्र. । j) पामे. वैप १,
 १५४० m द्र. । k) सपा. आपश्रौ १, ९, १२ विष ७३, २१ घत्त इति पामे. । l) पामे. वैप २, ३३. ददामि
 तैत्रा २, ४, ६, ७ टि. द्र. । m) सपा. शौ ६, ११, ३ दघत् इति, शाण् १, १९, ६ लदधात् इति च पामे. । n) पामे.
 वैप १, १५५५ f द्र. । o) पामे. वैप १, १५५७ b द्र. । p) पामे. वैप २, ३३. लददात् तैत्रा ३, ९, १४, ३ टि. द्र. ।
 q) सपा. दद्यात् <> दध्यात् इति पामे. । r) पामे. पृ १२४७ j द्र. । s) पामे. वैप १, १५५७ f द्र. ।
 t) पामे. वैप २, ३३. ददे तैत्रा १, २, १, १४ टि. द्र. । u) पामे. वैप १, ७४४ l द्र. । v) पामे. वैप १,
 १७१० o द्र. । w) पामे. वैप १, १५५८ f द्र. । x) मां दिदासिय (ऐत्रा ८, २१ च) इत्यत्र स्थाने सपा.
 नास १३, ७, १, १५ मन्ट आसिय इति पामे. । j) = दत्तक-पुत्र- ।

आश्रौ ६, १२, २१; आपश्रौ ४, ९, ६१; भाश्रौ; या ५, १३; पा ४, ४, ११९; -क्तस्य आमिगृ ३, १, २ : १४××; -त्ता वौश्रौ १६, २७ : ८१; वौगृ; -त्ताः मागृ २, १४, २६१; -त्तानाम् वाघ २९, १८; -त्ताम् वौश्रौ १३, ३२ : ८१; आमिगृ; -त्तायाम् वाघ १७, ७२; -त्ते आपश्रौ ६, ३०, ४××; वैश्रौ, माश्रौ २, ५, ५, १८^६; -क्तैन वौगृ २, ११, ४२; गौपि २, ४, १९; -त्तेषु कप्र १, २, ७; वैघ ३, २, ४; -त्तौ हिपि १८:१११^१।
 दत्त-क^० -कः वाघ १५, ९; १७, २८; विघ १५, १८.
 दत्त-कुत्रिम- -मौ वौघ २, २, ३१.
 दत्त-दक्षि(या >)ण^० -णान् विघ २१, १६.
 दत्त-पाद^० -दाः विघ ४३, ४३.
 दत्त-श्रुत- -तयोः पा ६, २, १४८.
 दत्ता(त्-अ) क्षय्यो(व्य-उ)दक- -कः विघ २१, ४.
 दत्तवत्- -वतः या १२, ४०; -वन्तः या १२, ४०; -वते या ११, ११.
 दत्ति^० -त्तिः या १२, १७.
 दत्त्वा आश्रौ ३, १२, ४; ८, १४, ४; शाश्रौ; वैताश्रौ १०, १७^१।
 दत्त्वाय आश्रौ २, ७, ९^१; आपमं १, ९, ५^१; पागृ.
 दत्त्र^१ -त्रम् अप ४८, ९१; निघ

१, २.
 दद्- पा ३, १, १३९.
 ददत्- -दत् आपश्रौ ५, २५, १८; भाश्रौ ५, १६, १८; हिश्रौ; या ६, २२; शुप्रा ३, १२९^१; -दतः ऋआपश्रौ ४, १०, ९; १७, १३, २; वौश्रौ; आमिगृ^३ ३, १, १ : ८; ३: ३५; मागृ २, ११ : ५^१; हिगृ २, १०, ५^१; -दत्तम् कौसू ७९, २०; -दत्ता वौगृ २, २, ८१.
 ददती- -ती^१ काश्रौ ५, १२, १२; वौपि २, ९, १३.
 ददाति- >°ति-परिवर्जित- -तः शंघ ४६१.
 ददाति-वृत्त- -त्तम् पावा ५, २, १२२.
 ददाति-सामर्थ्य- -थ्यात् मीसू १०, २, २२.
 ददावस्- -वान् अश्रा ३, ४, ११.
 दददि^१ -दिः आश्रौ ७, ४, ३^१; कौसू २९, १; ४८, ९; अश्रा ५, १३; अपं २ : ४६; ऋप्रा ५, ३७; १६, ३३.
 ददिवस्- -दुपः अप १, ३२, ७^१.
 दद्वस्- -द्वान् ऋप्रा ४, ६८^१.
 दा^१ -दाः चाश्रा ४१ : २५^१.
 दातवे या ४, १५^१.
 दातवै आमिगृ २, ७, ११ : ११^१.
 दातव्य, व्या- -व्यः वौश्रौ २५, ३ : २०; २६, ५ : २७; आमिगृ; या ४, ४; -व्या वौश्रौ २६, ९; १४; अप ९, २, २; ४, ६^२; ३१, ७, ३; विघ ६०, २५.

दातुम् शाश्रौ १६, १६; ३१; कप्र २, ८, १९; वाघ.
 दातु^३ -त्तरि कौसू ६७, १९; -त्ता आश्रौ २, ११, ४^१××^१; शाश्रौ; -तारः गौपि २, ५, १२^१; कौसू ८८, १३; अप; -तारम् आपश्रौ १६, ३५, १^१; वैश्रौ; -तारौ कौसू ६०, १३; ६७, १५; -तुः मागृ १, ८, २; कौसू; -तृणाम् अप ११, २, ३; -तृन् वृदे ८, २३; या ११, २१; -त्रा माश्रौ १, ३, ३, १६^१; वाश्रौ १, ३, ५, १२^१; वैताश्रौ ३, १६^१; विघ ५७, ८; ८१, १९; -त्रे आश्रौ २, १०, १५; शाश्रौ.
 दातु-तम- -मः या ८, २; -मम् या ७, १५.
 दातु-त्व- -त्वात् वृदे ३, ६१; ८, २३.
 दातु-याजक-पञ्चम- -माः शंघ ३९८; वौघ २, १, ३९.
 दातु-लोक- -कम् विघ ५७, ९.
 द^१दान^१ -पाठ ४, १७०; पा ३, २, १८२; -त्रम् वौश्रौ १२, ९ : ६; शुप्रा ६, २६; -त्राणाम् वैताश्रौ ८, १३^०.
 द^१दान^१ -पाग ५, ४, २९; -नम् शाश्रौ २, ३, २५; काश्रौ; -नस्य या ४, १८; -नात् वाघ २, ३०; १०, ५; २०, ४७^१; वौघ २, १, ५३;

a) वैप २, ३खं मंत्रा २, ३, २० टि. द्र. । b) पामे. वैप १, १५५८ a द्र. । c) = पुत्रभेदाऽन्यतम- । d) विप. । वस. ।
 e) = उपहार- । f) पामे. वैप १, १६४१ g द्र. । g) तु. आन. । पामे. वैप १, १५५६ p द्र. । h) पामे. वैप १, १५५९ c द्र. । i) वैप १ द्र. । j) सपा. काठ ७, १२ जनयन् इति, शौ९, ४, २२ दुधन् इति, शौ १८, ४, ६२ दुधतः इति च पामे. । k) पामे. वैप २, ३ खं. ददती माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । l) पामे. वैप १, १५५९ j द्र. । m) वैप १, निर्दिष्टयोः समावेशः । n) पामे. वैप २, ३खं. क्षत्रम् माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । o) पामे. वैप १, १५६०. c द्र. ।

१९, ४; आपध २, ११, १८;
हिध २, ४, ३३.
√दा^१ पाधा. अदा. पर. लवने, दाति
आपधौ १, ३, ८××; भाधौ;
दान्ति माधौ १, ७, ६, २; दामि
वाधौ १, २, १, १६^१; दान्तु
१^१कौस् १, २५; ६१, ३९.
दात- -ते वौधौ २१, ३ : २२.
रदात्र^२- पा ३, २, १८२; -त्रम्
भाधौ १, ३, ६; वाधौ १, २, १,
१२; १६; कौस् १, २४; ६१,
३८; या २, २.
रदान-> दान-प्रसव^३- -वानि
भाधौ ६, १८, १५.
√दा, दो^४ पाधा. दिवा. पर. अरव-
खरडने.
√दा(बन्धने) > ३^१दान- -नम् आधौ
८, ३, १९१^१; वैताधौ ३२, २५.
दा-√दा(दाने) द.
दांश- √दंश द.
दाक- पाठ ३, ४०.
दाक्त- १-३ द्राक्षायण- प्रम्.
√दक्ष- द.
दाक्षिण- प्रम्. ३दक्षिणा- द.
दाक्षिणाग्निक-, दाक्षिणाज-,
दाक्षिणात्य-, दाक्षिणापथक-
१दक्षिण, णा- द.
दाक्षी- प्रम्. √दक्ष द.
दाक्षिण्य- ३दक्षिणा- द.
दागव्यायनि- दग्- द.
दाडिम^५- पाठभो २, २, २५०; पाग
२, ४, ३१; ४, १, ४१^५.

दाडिमो- पा ४, १, ४१.
दाडी- पा, पाग ४, ३, १६७.
दादण्ड- २दण्ड- द.
रदाण्ड- २दण्डिन्- द.
दाण्डकि^१- (> ^१कीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.
रदाण्डकि^१- -कयः वौधौ प्र ३२ : १.
दाण्डग्राहिक- १दण्ड- द.
दाण्डपाल, माण्यन- दण्डपाल, म]- द.
दाण्डमाथिक-, दाण्डाजिनिक-
१दण्ड- द.
दाण्डायन-, ^१न-स्थली- २दण्ड- द.
दाण्डिक-, ^१ण्डिक्य- १दण्ड- द.
दाण्डिन्- २दण्ड- द.
दाण्डिनायन- २दण्डिन्- द.
दाण्डीक- १दण्ड- द.
दात्^६ अप ३७ १४, ३१.
दात- √दा (लवने) द.
दातवे प्रम्. √दा (दाने) द.
दात्तय- २दत्त- द.
दात्तौह- दित्यवाह- द.
दात्र- √दा (दाने) द.
दात्व- पाठ ४, १०४,
दादा^७ जैश्रीका १५५.
दादहाण- √दंह द.
दाधिक- १दधि- द.
दाधिक- ३दधि-> दधि-का- द.
दाधुपि- √धृप् द.
दाध्रेपि^१- -पयः वौधौ प्र ३ : ४.
√दान^३ पाधा. भ्वा. उभ. खरडने.
दान- √दा (दाने) द.
दान- √दा (लवने) द.

दान √दा (बन्धने) द.
ध^१दान^१- -ना शांश्रौ ११, १२, ४;
-ना: शांश्रौ १५, ८, ९.
दानपनुपरिचस्यते अप ४८, ५९.
दानस्^२- -नः अप ४८, ९०.
दानु^३- पाठ ३, ३२; -लुनः या २,
१३^१फ.
रदानु^३- -चूत् या ११, २१^१फ.
दानव^३- -वः अप ४८, १००^१; -वम्
या १०, ९^१फ; -वान् शंघ
११६ : २१; या ११, २१;
-वानाम् अप ७, १, १; -वैः अप
७, १, २; वृदे ७, ५१.
दानवी- -वीम् वृदे ६, ७६.
दानु^३- -नन्वः आपधौ १५, ९, ८;
वौधौ ९, ९ : १४; भाधौ ११,
९, १०; माधौ ४, ३, ११; वैधौ
१३, ११ : १२; हिधौ २४,
४, ३.
दान्त- द- द.
दान्त- √दम् द.
दापयित्वा, दाप्य- √दा (दाने)
द.
दामन्^४- पाठ ४, १४५; -म आपधौ
१९, २७, २३; वौधौ १३,
४२ : १२; १०; वाधुधौ ३, ७६ : २७;
हिधौ २२, ६, २८; माशि ७७^१फ;
-मनी काधौ २२, ४, २३;
आपधौ २२, ५, ८; हिधौ १७,
२, ३६; लाधौ ८, ६, २२^१फ;
-म्ना आपधौ २, ५, ४; १६,
३, ७; १९, २६, १; वौधौ ९,

- a) या २, २ परामृष्टः द. । b) पाभे. वैप १, १५६१ lk द. । c) = लवन-साधन- । d) विप. । वस. ।
e) पा ७, ४, ४० पावा ७, ४, ४७ परामृष्टः द. । f) शोधः वैप १, १५६२ d द. । g) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? ।
h) तु. पागम. । i) = आयुषजीविसंव-विशेष- । व्यु. ? । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) वृद्धिः पाठः ।
l) = स्तोम-विशेष- । व्यु. ? । m) पा ३, १, ६ परामृष्टः द. । n) वैप १, १५६३ l द. । o) = धन- ।
व्यु. ? < √दा [दाने] इति स्यात् ? । p) वैप १ द. । q) पाभे. वैप १, १५६३ e द. । r) = मेघ- ।
s) पाभे. वैप १, १५६३ g द. । t) वैप १, १५६३ o द. ।

५ : ३२; माश्रौ ६, १, १, ३१;
वाश्रौ २, १, १, २५; हिश्रौ ११,
१, ३४.
दाम-कण्ठ^१- पाग २, ४, ६९.
दाम-तूप, पा^२- -पा आपश्रौ १८,
१०, २३०; -पाणि^३ काश्रौ २२,
४, २२; आपश्रौ २२, ५, ७;
हिश्रौ १७, २, ३५; लाश्रौ ८,
६, २०; २१.
दाम-द(शा>)श^४- -शानि लाश्रौ
६, २१.
दाम-हायना(न-अ)न्त- -न्तात् पा,
पावा ४, १, २७.
दामो(म-उ)दर^५- -रम् आमिष्ट २,
५, ७ : १०; वौष्ट १, ११, ७;
वैष्ट ३, १३ : ५; वौष २, ५,
२४.
दामनि- (> नीय- पा.) पाग ५,
३, ११६.
दामोदात्तोत्तायनाः^६ चव्यू ४ : २.
दामोष्णीषि- (> ष्य- पा.) पाग
४, १, १५१६.
दाम्भिक- ✓दम्, म् द्र.
दाय^७- -यः या ३, ४^१; -यम् ऋशाश्रौ
१५, २५, १; २७, १; वौश्रौ;
-यात् शंघ २७५; -येन आपघ
२, १३, २; हिघ २, ३, २;
-येभ्यः शंघ २७६.
दाय-विभाग- -नाः वाघ १७, ४०;
वौघ २, २, ८.
दाय-हर- -रः विघ १५, २९.
दाया(य-आ)दि^८- -दिः गौघ ५, ७.

दाया(य-अ)नुरूप- -पम् विघ ६,
३६.
दयाम् वाश्रौ ३, २, ६, ३२.
दयाद^९- पाग ५, १, १२४; पात्रा
३, २, ५^१; -दः वाघ १७, ३९;
८१; आपघ २, १४, ६; हिघ २,
३, १७; या ३, ४, ६; -दाः गौषि
१, ५, १०; वाघ १७, २५; विघ
१७, २२; या ३, ४; -दे पा ६,
२, ५; -देसु शंघ २९१.
दायाद्य- पा ५, १, १२४; -द्यम्
ऋश्रौ १२, ११ : १२; १३ :
२७; आपघ २, १०, ४; हिघ २,
४, ४; पा ६, २, ५.
दायाद्य-काल- -ले शांष्ट १, १,
४; पाष्ट १, २, २.
दार^{१०}- पात्रा ३, ३, २०; -रम् वाघ
१४, १३; आपघ १, ३२, ६; २,
२२, ७; २७, १०; हिघ १, ८,
४८; २, ५, १३७; २२९; -राः
आपश्रौ २०, १५, ८^१; वाघ ६,
४; वौष २, २, ५५; काघ २७९ :
७; -रान् गौष्ट २, १, १; ३, ४,
२; द्राष्ट; -रे अप ६४, १०, ६;
वाघ १६, ३५; आपघ २, १, १८;
५, १०; ११, १२; हिघ २, १,
१७; ९१; ४, २७; -रेण पाष्ट
१, ११, ६; आपघ २, १, १७;
हिघ २, १, १६; -रेभ्यः भाष्ट
२, २ : १०; हिष्ट २, १७, २;
-रैः शंघ १५८; वैघ १, ६, ६;
दार-कर्मन्- -र्मणि हिषि २३ :

१११^१.
दार-काल- -ले पाष्ट १, २, १.
दार-क्रिया- -या मीस् ६, ८, १५.
दार-नाव- पा ५, ४, ७७; पाग २,
२, ३१.
दार-गुप्ति- -सिम् हिष्ट १, १४ : ६-
दार-जार- पाग २, २, ३१^१.
दार-न्यागिन्- -नी शंघ ३७७ : ९.
दार-न्यतिक्रम- -मे वौश्रौ २८, १ :
३०; २ : ५२; हिघ १, ७, ५४^२.
दारव्यतिक्रमिन्- -मिणे आपघ^३
१, २८, १९; हिघ १, ७, ५४;
-मी आपघ १, २८, १९^३.
दार-संग्रह- -हे शंघ ४११; ४३९-
वृदे ५, ८२.
दार-संग्रहण- -णम् वैघ १, ३, ४.
दारा(र-अ)धिगमन-> णा(न-आ)
धान- -ने कप्र १, ६, २.
दारा(र-अ)वी(न>)ना- -नाः काघ
२७९ : ७.
दारा(र-अ)ब्र-घन-लाम- -भानाम्.
शंघ ४३९.
दारा(र-अ)पत्य-पोषक- -कः काघ
२७० : ४.
दारा(र-अ)र्थ- पाग २, २, ३१^१.
दारा(र-आ)अच-भूषण^४- -णानि
आज्यो ८, ६.
दारक^५- -क्त्य वैष्ट ३, २० : १; ५,
११ : ७; विघ २७, ४.
दारिका-> का(का-आ)चार्य- -र्यः
शंघ ३७७ : १६^५.
दारद- -दरदाद- द्र.

a) व्यप. । वस. । b) विप. । वस. । c) पाभे. वैप १ परि. दाम-नृपा टि. द्र. । d) विप.
(वासल्-). e) = ३कृष्ण- । वस. । f) = अथर्वशास्त्रा- । पाठः ? भोदाः, तो इति P.W. प्रन्, दामोदात्तः,
औत्ता इति महोदासः । g) व्यप. । व्यु. ? । h) वैप १, १५६४ ० द्र. । i) वैप १ द्र. । j) तु. पागम. ।
k) पुं. नाप. । l) ऋणि इति पाठः ? यनि. शोघः । m) सपा. ऋमे<> ऋमी इति पाभे. । n) वस. >
कस. । षा श्रिं इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कृतुः टि.) । o) = बालक- । व्यु. ? । p) तु. नदन मारिजातः
(पृ ७०२) । मिताक्षरायां 1३, २१६1 तु दारका इति पाभे. ।

दारयत्- °यित्- √दृ, दृ(विदारणे) द्र.

१दारु- √दा (दाने) द्र.

२दारु- पाठ १, ३; पाग २, ४, ३१; ४, ३, १५४; पावाग ६, ३, १२१; -रु आपश्चौ ५, २५, ७; वौश्रौ; या ४, १५; -रुणा वौश्रौ २०, १९ : ३०; -रुणि काठश्रौ ३६; पा ५, ४, ११४; -रुभिः काश्रौ ४, ९, १; -रुभ्यः भाश्रौ ९, १३, ८; -रुम् भाश्रौ ६, १६, ४; ७, १३, ८; -रुणि आपश्चौ ६, २५, ४; वौश्रौ १७, ३९ : २; आमिष्ट १, ३, १ : २; -रोः आपश्चौ १४, २४, ४; वौश्रौ १४, २८ : ११; १२; हिश्रौ १५, ६, ९; -रौ आपश्चौ ९, २, ८^२; वौश्रौ.

दारव- पा ४, ३, १५४; -वम् कप्र १, ७, २; विध २३, ५; वैध २, ८, ३; -वाणाम् वौध १, ५, २९; विध २३, २७.

दारवी- वी नाशि १, ६, १.

दारु-कार- -रः वैध ३, १४, १०.

दारु-चय- -यम् कप्र ३, २, ८.

दारु-चित्त- -ता- -ताम् आमिष्ट ३, ५, ५ : १०; वौषि १, ४ : ११; ३, ३, ४; वैष्ट ५, ४ : १५; गौषि १, २, २३.

दारु-चित्ति- -तिम् आमिष्ट ३, १०, ४ : ९; हिषि ३ : १०; १२; १५; ४ : ९; -तेः हिषि १ : ८; ३ : १२.

दारु-ज- -जम् अप १४, १, ३.

दारु-दन्त-जात- -तानि वैध ३, ३, ११.

दारु-पात्र- -त्रम् आपश्चौ १, ११, ५^२; वैश्रौ ३, ६ : ३; हिश्रौ १, ३, ८; काध २७७ : ५; -त्राणि वैश्रौ ४, १ : १४; हिश्रौ २, ६, ५५; -त्राभ्याम् वैश्रौ ७, २ : ११; -त्रे आपश्चौ १, १२, १६; १४, ३; वैश्रौ ३, ८ : ८; विध ९६, ७; -त्रेण वौश्रौ १७, ४८ : १३; भाश्रौ १, १४, ९; माश्रौ १, १, ३, ३७; वैश्रौ ७, २ : ११.

दारु-पात्री- -त्रीम् वौश्रौ १, ४ : १०; आमिष्ट ३, ५, ७ : ९; वौषि १, ६ : ४; ३, ३, १२.

दारु-पाटु- -ट्टोः या ४, १५.

दारु-पिण्ड- -ण्डः याशि २, ९१; -ण्डेन शैशि ६८.

दारुपिण्ड-क- -कान् याशि २, ९१.

दारुपिण्ड-वत् आशि ५, २.

दारु-मध्य- -ध्यात् काशु ७, ११.

दारु-मय- -यः वौश्रौ २६, २२ : २०; वौध १, १, ११; -यम् वौश्रौ २९, ६ : २०; २४; माश्रौ; -याणि आपश्चौ ९, १६, ३; वौश्रौ १५, १४ : ५; आमिष्ट २, ७, ९ : १३; तैप्रा ७, १२^१; -यानि आमिष्ट २, ७, ८ : १५; -यानाम् वौध १, ६, २६; -ये भाष्ट ३, १८ : १७.

दारु-वत् आमिष्ट ३, ७, ४ : ७; वौषि.

दारु-वह- पावा ६, ३, १२०.

दारु-संघात-वत् माशि ११, ८.

दार्वा(रु-आ)घा(त)ट- पाग ४, २, ८६; पावा ३, २, ४९; फि ६५; -ः श्रुपा ३, ४८; तैप्रा

७, १३.
दार्वाघाट-वत्- पा ४, २, ८६.
दार्वा(रु-आ)चित- -तानाम् वौश्रौ १५, १९ : ३; -तानि वौश्रौ १५, १४; १; १८, ४० : १५; १९.
दार्वा(रु-आ)हरण- -गम् काश्रौ २२, ६, ९.

दारुण- °ण्य- √दृ, दृ(विदारणे) द्र.

दार्घसत्र- दीर्घ- द्र.

१-२दार्ढच्युत- प्रमृ. √दंह द्र.

दार्ण- द- द्र.

दार्तेय- १दृति- द्र.

दार्दुरिक- ददुर- द्र.

दार्भ- १दर्भ- द्र.

दार्भायण- , दार्भि-, दार्भ्य- २दर्भ- द्र.

दार्भ्यूप- -षेण कौसू ३२, ८; ३५, २८.

दार्वा- (> °वैध- पा.) पाग ४, २, ९७.

दार्विहोमिक- दर्वि, वी- द्र.

दार्व्य- -व्यम् अप २३, ५, १.

दार्श- °शैपूर्णमासिक- प्रमृ. √दृश द्र.

दार्पद- , दार्पद्वत- दृषद्- द्र.

दार्धिचिपयिक- , दार्धेय- √दृश द्र.

दालत्रक- दलत्- द्र.

दालीपायन- °पि- दलीप- द्र.

दाल्भ्य- दल्भ- द्र.

दाव- √दु (उपतपि) द्र.

दावन्- √दा (दाने) द्र.

दाविक- √दिव् > देविका- द्र.

√दाश्^० पाधा. भ्वा. उभ. दाने, षंदाशति अप ४८, १३; निघ ३, २०; या ६, ८; ऋपा ४, ९३; दाशात् कौसू ५, १^१; षंदाशेम आपश्चौ १७, ९, १; वैश्रौ १९, ६ : ३, ४.

a) वैष १, १५६४ f द्र. । b) = वर्धकि- । उत्स. । c) वैष १ द्र. । d) वैष १, १५६४ k द्र. ।
e) या १, ७ परामृष्टः द्र. ।

ददाशः या ११, २४^क।
 ददाश्वस^० - शुभे आश्रौ २, १३,
 ७.
 दाशस्->स-पति->त्य^०-
 -त्यम् लाश्रौ ७, ४, १९^०; -त्यस्य
 लुसू ३, १० : १६; -त्ये लाश्रौ
 ७, ४, १६^१।
 णंदाश्वस^० - शुभः आश्रौ ५, ९,
 २६; आपश्रौ; या - १२, ४०;
 -शुभे आश्रौ १, १०, ८४४;
 शाश्रौ; या ११, ११; -श्वांसः
 गौपि २, ३, ५; या १२, ४०; तैप्र
 १६, १३; -श्वांसम् आश्रौ २,
 २०, ४; ३, ८, १; ८, ९, ३;
 -श्वान् या ५, ७^०; पा ६, १,
 १२.
 √दाशु पाथा. स्वा. पर. हिंसायाम्.
 दाश^० - पाठ ५, ११; पा ३, ४,
 ७३.
 दाशी->दाशेर^१ - फि ६७.
 दाशग्रामिक-, श्वातय- प्रसू. दशन-
 द्र.
 दाशर्म- र्मस्य चाश्र ६ : ४^०.
 दाशार्ण-, श्वाशार्ह- दशन- द्र.
 रदाशार्ह- रदाशार्ह- द्र.
 दाशार्हपयस- दशन- द्र.
 √दास पाथा. भ्वा. उभ. दाने.
 णंदासति अप ४८, १३^१; निघ
 ३, २०.
 दास->णंदास-वत्-वन्तम् आश्रौ
 ८, १, २; शाश्रौ १८, २३, ९; वैश्रौ
 १९, ५ : ९; जैश्रौ ५:४; २१ :
 ४; लुसू ३, ७ : १; निस् १, ७ :

२२.
 √दास (हिंसायाम्), दासति अप ४८,
 १९.
 दास^० आश्रौ ५, ४, १३; लाश्रौ २,
 ८, १३.
 श्दास^१ - पाठ ५, १०; पाग ३, १, १३;
 ४, १, ४१^१; -सः सु ९, ५; कौसू
 १७, १५; बाध १५, १२; विध
 २२, ५७; गौध २०, ४; या २,
 १७^०; -सम् शाश्रौ ८, २५, ११^१;
 वैताश्रौ ३१, २५^१; हिध २, १,
 १२६; -साः आमिगु; कौसू ९०,
 १८^१; -सान् हिश्रौ १३, १, ३१;
 -सानाम् विध २२, १९; -साय
 कौसू ८९, ४; -से शाश्रौ १८,
 १४, ५^१; -सेन सु १०, ३; -सैः
 आमिगु २, ४, ७ : १७^१; -सौ
 वौश्रौ १५, १ : १५; २६, १० :
 १०.
 दासी- पा ४, १, ४१; पा, पाग
 ५, ३, १००^१; ४, १३८; -सी
 आपश्रौ १, २१, ८; वौश्रौ;
 -सीः वाश्रौ ३, १, १, २९; वैश्रौ
 १७, ११ : ८; हिश्रौ १३, १, ३१;
 -सीनाम् आश्रौ ९, ९, १४;
 -सीम् वौध १, ११, २०; वृदे
 ४, २५; -स्यः काश्रौ १३, ३,
 २४; आपश्रौ; -स्या आपध १,
 १६, ३२; हिध १, ५, ३२.
 दासी-घट- -टात् गौध
 २०, ४.
 दासी-दास- पाग २, ४, ११;
 -सम् अप २०, ५, २; -सेन

अप १, ४४, ९.
 दासी-निष्क-रथ-हस्ति-यान-
 गो- -गवाम् लाश्रौ ८, ११,
 १६.
 दासी-प(दु>)द्वी- पाग ५,
 ४, १३९.
 दासी-भार- पा ६, २,
 ४२.
 दासी-माणवक- पाग २, ४,
 ११.
 दास-कर्म-कर- रम् आपध २, ९,
 ११^१; -राः आपगु २३, ७.
 दास-कर्म-कार- रम् हिध २, १,
 १२६^१.
 दास-कुमारी- -र्षः आपश्रौ २१,
 १८, ७; १९, १८; २०, ५; हिश्रौ
 १६, ६, ३९.
 दास-गोपाल-नापित- -ताः विध
 ५७, १६.
 दास-ग्राम- (> °मि[क] का-
 °की-)दश-ग्राम- टि. द्र.
 दास-प(ति>)त्नी^० - पावा ४, १,
 ३५; -त्नीः या २, १७^१।
 दास-मिथुन- नौ लाश्रौ ८, ४,
 १४.
 दास-वर्ग- -र्गस्य विध ८१, ४.
 दासा(स-अ)धिप(ति>)त्नी-
 -त्यः या २, १७.
 √दासाय पा ३, १, १३.
 दास्य- -स्यम् सु ६, ४; विध
 ५, १५२; -स्यात् सु १०,
 २४४; -स्ये सु ५, १; विध ५,
 १५१.

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- । c) दासस्यत्यम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तां १३, ५, २६) ।
 d) स्यत्ये इति पाठः ? यनि. शोधः । e) पाभे. वैप १, १५६५ C द्र. । f) दूक् प्र. (पा ४, १, १३१) ।
 g) दाशान्म^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. काठ ७, ६) । h) दासनु->-°नो (तु. तां १, ७, ९) इत्यस्यावयवः-
 द्र. । i) विप., नाप. (मृत्य-) । वैप १ निर्दिष्टयोः श्दास- रदास- इत्येतयोः समावेशः द्र. । j) तु. पागम. ।
 k) उत्तरण संघिरार्पः । l) दासेर इति पाठः ? यनि. शोधः । m) परस्परं पाभे. ।

रदास^a-(>दासायन- पा.)पाग ४,
१,९९^b

दासक^c-(>कायन- पा.) पाग ४,
१,११०.

दासमित्र- पाग ४, १, ९९^{a,b}; २,
११६^c.

दासमित्रायण- पा ४, १, ९९; पाग
४, २, ५४.

दासमित्रायण-भक्त- पा ४, २,
५४.

दासमित्रि-(>मित्रि-भक्त-पा.)पाग
४, २, ५४.

दासमित्रि(क>)का-, °की- पा
४, २, ११६.

दास्य- १दास-द्र.

दास्यत्-√दा(दाने)द्र.

दाह-, दाहन-प्रमृ. √दह् द्र.

दिग्घ- प्रमृ. √दिह् द्र.

दिति^d- पात्रा १, १, ७२; -फिति: अत्र
११, ३; १५, ६; -ते: माश्रौ २,
३, ८, २२; हिश्रौ ८, ६, ३३; कौसु
५२, १२; अत्र ७, ७; १५, ६.

दैत्य- पा ४, १, ८५; -त्यान्
शंघ ११६: २०; -त्यानाम्
वृदे ६, ११५; -त्येषु वृदे ७,
५४; -त्यौ वृदे ४, ६७.

दैत्य-दानव- वान् वृदे ७,
५०.

दैत्य-मन्त्रो(न्त्र-उ)क्ति-
काल-तस(ः) जैश्रौका १०६.

दैत्ये (त्य-इ)न्द्र-नियुत-
-तानि विध २०, २५.

दित्य-चाह^d- वाह: वाश्रौ ३, ४,

३, १८^f; -वाहम् आपश्रौ ५,
२०, १६.

दित्यौही-ही शुभ्रा ५, ४०^f;
-हीम् आपश्रौ ५, २०, १६.

दात्यौह- पा ७, ३, १.

दित्सत्-, १दित्सु-√दा(दाने)द्र.

रदित्सु^e-त्सु आश्रौ ९, ९, १२^f.

दिदर्शयिषत्-√दृश् द्र.

दिदीक्षाण-√दीक्ष् द्र.

दिदृक्षा-प्रमृ. √दृश् द्र.

दिद्युत्^d- पाउना २, ५७; पावा ३,
२, १७८; -फद्युत् आश्रौ ६, ३,
१; निघ २, २०; या ६, ३०;
१०, ७^f; २१; -०द्युत् अत्र
२, २^f.

दिद्युतान-√द्युत् द्र.

?फदिद्योत्^d आपश्रौ १८, १५, ५; वौश्रौ
१२, १०: १४; हिश्रौ १३, ५,
३०; आश्रिण ३, ३, २: ५; वौषि
२, ९, ८.

दिघक्षत्-√दह् द्र.

१फदिघिषु^d-०षो यां ८, २०^f.
रदिघिषु^d-पाउ १, ९३^h; -फषो:ⁱ
आश्रिण ३, ५, ६: १६; वौषि
१, ५: ४.

फदिघिषव्य^d-०व्य आश्रौ
१, ३, ३०; काश्रौ.

दिधि(पु>)पू-पति- -ति: वाघ
१, १८; २०, १०.

दिधुत्>ता √ध् द्र.

दिन^l- पाउच २, ४९; पाग २, ४, ३१;
-नम् वैग ३, १२: ३; अष;
-नान् वृदे ४, ३४; -नानाम्

वौश्रौ १९, ३: ४; १५; -नानि
आपश्रौ १, ७, ४; वृदे ४; १३२;
-ने आपश्रौ २१, १२, ३^f; वैश्रौ;
-नेड-ने अष ३१, ६, ३; ९, ५;
याशि २, ६७; -नेन वौध ४,
५, २८; -नेषु अष ३१, ८, ५;
-नै: अष ३५, १, १०; वौध ४,
५, २७.

दिन-कर^k-रस्य अष ७०^३, ११,
२३.

दिन-कम- -मेण कप्र २, १०, ५^l.

दिन-क्षय- -यात् वाध ११, २१.

दिन-त्रय- -ये वैग ६, ८: ११;
-येण विध २२, ३७.

दिन-द्वय- -येन विध २२, ३६.

दिन-भाग- -गानाम् वेज्यो ४१.

दिन-राशि- -शि: वेज्यो २९.

दिन(न-ऋ)र्ष्व(तु-अ)यन-माल-
-सानाम् वेज्यो ४४.

दिनत्वर्ध्वनमासा(स-अ)ङ्ग^m-
-ङ्गम् वेज्यो १.

दिना(न-अ)धिप- -पा: आज्यो
८, १.

दिना(न-अ)न्त- -न्तेषु वृदे ७,
१२१.

दिने(न-इ)ष्टका- -का: वौश्रौ १९,
३: १; १२.

दिनै(न-ए)कादशक- -केन वेज्यो
२६.

दिनो(न-उ)पभुक्ति- -क्ति: वेज्यो
२६.

√दिन्व् पाशा. श्वा. पर. प्रीणने.

दिरसा- (>दैरस- पा.) पाग ४,

३, १८^f; -वाहम् आपश्रौ ५,
२०, १६.

दित्यौही-ही शुभ्रा ५, ४०^f;
-हीम् आपश्रौ ५, २०, १६.

दात्यौह- पा ७, ३, १.

दित्सत्-, १दित्सु-√दा(दाने)द्र.

रदित्सु^e-त्सु आश्रौ ९, ९, १२^f.

दिदर्शयिषत्-√दृश् द्र.

दिदीक्षाण-√दीक्ष् द्र.

दिदृक्षा-प्रमृ. √दृश् द्र.

दिद्युत्^d- पाउना २, ५७; पावा ३,
२, १७८; -फद्युत् आश्रौ ६, ३,
१; निघ २, २०; या ६, ३०;
१०, ७^f; २१; -०द्युत् अत्र
२, २^f.

दिद्युतान-√द्युत् द्र.

?फदिद्योत्^d आपश्रौ १८, १५, ५; वौश्रौ
१२, १०: १४; हिश्रौ १३, ५,
३०; आश्रिण ३, ३, २: ५; वौषि
२, ९, ८.

दिघक्षत्-√दह् द्र.

१फदिघिषु^d-०षो यां ८, २०^f.
रदिघिषु^d-पाउ १, ९३^h; -फषो:ⁱ
आश्रिण ३, ५, ६: १६; वौषि
१, ५: ४.

फदिघिषव्य^d-०व्य आश्रौ
१, ३, ३०; काश्रौ.

दिधि(पु>)पू-पति- -ति: वाघ
१, १८; २०, १०.

दिधुत्>ता √ध् द्र.

दिन^l- पाउच २, ४९; पाग २, ४, ३१;
-नम् वैग ३, १२: ३; अष;
-नान् वृदे ४, ३४; -नानाम्

वौश्रौ १९, ३: ४; १५; -नानि
आपश्रौ १, ७, ४; वृदे ४; १३२;
-ने आपश्रौ २१, १२, ३^f; वैश्रौ;
-नेड-ने अष ३१, ६, ३; ९, ५;
याशि २, ६७; -नेन वौध ४,
५, २८; -नेषु अष ३१, ८, ५;
-नै: अष ३५, १, १०; वौध ४,
५, २७.

दिन-कर^k-रस्य अष ७०^३, ११,
२३.

दिन-कम- -मेण कप्र २, १०, ५^l.

दिन-क्षय- -यात् वाध ११, २१.

दिन-त्रय- -ये वैग ६, ८: ११;
-येण विध २२, ३७.

दिन-द्वय- -येन विध २२, ३६.

दिन-भाग- -गानाम् वेज्यो ४१.

दिन-राशि- -शि: वेज्यो २९.

दिन(न-ऋ)र्ष्व(तु-अ)यन-माल-
-सानाम् वेज्यो ४४.

दिनत्वर्ध्वनमासा(स-अ)ङ्ग^m-
-ङ्गम् वेज्यो १.

दिना(न-अ)धिप- -पा: आज्यो
८, १.

दिना(न-अ)न्त- -न्तेषु वृदे ७,
१२१.

दिने(न-इ)ष्टका- -का: वौश्रौ १९,
३: १; १२.

दिनै(न-ए)कादशक- -केन वेज्यो
२६.

दिनो(न-उ)पभुक्ति- -क्ति: वेज्यो
२६.

√दिन्व् पाशा. श्वा. पर. प्रीणने.

दिरसा- (>दैरस- पा.) पाग ४,

a) व्यप.। व्यु. ?।

b) दास-, मित्र- इति भाण्डा. प्रमृ.। दासमित्र- इति [पक्षे] पागम.।

c) = देश-विशेष-। d) वैप १ द्र.। e) वैप १, १५६८ g द्र.। f) व्यु. पामे. च वैप १, १५६९ b, c द्र.।

g) पामे. वैप १, १५४२ g द्र.। तत्र च 'पो:?' ष्व: इति शोध:। h) <दिधि/सो इति, पाउभो २, १, १२३ तु <

√धष् इति। i) पामे. वैप १, १५४२ j द्र.। j) = दिवस-। व्यु. ? <√दो [अवखण्डने] इति पाउ. दे., <√दो

[क्ष्ये] इति अभा.। k) उप. ट: प्र. उंसं. (पा ३, २, २१)। l) ञ्रयेण इति जीसं.। m) विप.। वस.।

३,९३.

दिलीप- पाठो २,२,२१४.

देलीप- (>पायन-) दलीप-
टि. द्र.

✓दिव्^a पाधा. दिवा. पर. क्रीडाविजि-
गीषाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमद-
स्वप्नकान्तिगतिषु, दीव्यति
वाधुश्रौ ४, ५९ : १०; ७५ :
१; पा ४,४,२; दीव्यामः
वाधुश्रौ ४,७५ : १२; ऋदीव्य-
ध्वम् काश्रौ ४, ९, १९; १५,
७, १७; ऋदीव्यत आपश्रौ ५,
१९,४; भाश्रौ ५, १२, ६; हिश्रौ ३,
५, ८; दीव्येत वाधुश्रौ ४, ५९ :
१२; दीव्येयुः भाश्रौ ५, १२, ८.
देविण्यावः वाधुश्रौ ४, ७५ : ४.

दिव्^b- पाठभोर, १, ३०६; पाग ५, ४,
१०७; ऋदिवः आश्रौ १, ४, ९××;
शाश्रौ; आपश्रौ १, २१; ३०; २,
५, १^d; ६, १४, १२^e; ८, ८, २१^f;
१६, ३२, ३६; १८, १६, १०^h;
माश्रौ १, २, ६, २५ⁱ; ८, २,
२८^j; आपमं २, १६, ७^k; आश्रु
३, ८, १९^l; पाश्रु १, ५, १०^m; हिश्रु
१, १७, ४ⁿ; या २, १३; ६, २२××;

पा ६, १, १३१; ३, २९; ७, १,
८४; पावा ६, ३, २०; दिवम्
आश्रौ १, ३, २७; २, १०, २१;
३, १२, ९^o; शाश्रौ; काश्रौ ६,
९, १२^p; ऋआपश्रौ २; १,
८^q; ७, २, ७^r; १०, ७^s; ११,
९, १३^t; १३, ५, ८^u; १५,
४, ४^v; ऋमाश्रौ १, २, ३, ४^w;
६, २५^x; ८, १, ११^y; ६, १०^z; ४,
१, २३^{aa}; द्राश्रौ ४, १, ७^{ab}; लाश्रौ
२, १, ६; या ६, २२^{ac}××;
ऋदिवा आश्रौ १, ७, ७^{ad}; शाश्रौ;
आश्रु १, २२, २^{ae}; शाश्रु २, ४, ५^{af};
३, १३, ५^{ag}; पाश्रु २, ३, २^{ah}; हिश्रु
१, ५, १०^{ai}; २, १०, ७^{aj}; गोश्रु २,
१०, ३४^{ak}; कौश्रु ५६, १२^{al}; या
११, ४९; पाग १, १, ३७^{am};
दिवाम् आपश्रौ १४, २५,
११^{an}; ऋदिवि आश्रौ १, ६,
१××; शाश्रौ १, १३, ४××; ४,
१२, २^{ao}; काश्रौ; आपश्रौ ३,
९, १०^{ap}; माश्रौ^d १, २, ५, ८;
३, ५, २५; वाधुश्रौ ४, १४ :
२^{aq}; हिश्रौ २, ५, ११^{ar}; आपमं
१, १६, ४^{as}; माश्रु २, ७ :

२०^{at}; हिश्रु २, ७, २^{au}; पा
८, ३, ९७; दिविऽदिवि पाशि
३२; ऋदिवे आश्रौ २, ३, ८;
३, ८, १; ४, ५, ७^{av}; शाश्रौ; आपश्रौ
१२, २०; ८^{aw}; लाश्रौ ५, ६, ९^{ax};
वैताश्रौ २०, १३^{ay}.

दिवो- पाठवृ ४, १७५; -ऋवा^b
शाश्रौ १, ११, १^c; ९, ९, १; काश्रौ;
या ३, १५; १४, १८; पाग १,
१, २७.

दिवो-कर- पा ३, २, २१;
-रः अप ५१, २, १; ५५, २, ३;
७०³, ११, ३; ४; -रम् आमिश्रु
२, ४, ११ : ८; ऋअप १, ४१, ६;
अशां ११, ६; वृदे २, ६२; -रस्य
अप ५१, ३, ३; ७०³, ११, ३०;
-रे अप ४१, ४, १; ५३, १, ४;
६५, १, ७.

दिवोकर-तला (ल-अ).

भ्याश-सेविन्- -विनः अप
५२, ८, ३.

दिवोकर-प्रभा- -भाः

अप ७०³, ११, १७.

दिवो-कीर्ति⁶- -र्तिम् वैश्रु
६७ : ११.

- a) पा १, ४, ४३ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १, १५७० f द्र. । d) पामे. वैप २, ३खं. दिवः तैत्रा ३, ३, १ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १५७४ h द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. दिवः तैत्रा १, ५, ५, २ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, १५७२ e द्र. । h) पामे. वैप १, १५६८ m द्र. । i) पामे. वैप १, १६०३ c द्र. । j) पामे. वैप १, १५७१ d द्र. । k) सपा. दिवः <>दिवि इति पामे. । l) सपा. दिवः <>दिव्यम् इति पामे. । m) पामे. वैप १, १२९८ d द्र. । n) दिवे इति Bōht LZDMG ५२, ८४ । o) पामे. वैप १, १५७१ g द्र. । p) पामे. वैप १, १५७२ q द्र. । q) पामे. वैप १, १५७३ k द्र. । r) पामे. वैप १, १५७३ i द्र. । s) पामे. वैप १, १५७२ p द्र. । t) पामे. वैप १, १५७३ b द्र. । u) पामे. वैप १, १५७२ o द्र. । v) पामे. वैप २, ३खं. देवान् तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द्र. । w) दिवसारु इति लैवि. सन् पाठः ? दिवमारु इति शोधः (तु. लाश्रौ.) । x) पामे. वैप २, ३खं. दिवा मंत्रा १, ६, २६ टि. द्र. । y) पामे. वृ ५९१ p द्र. । z) पामे. वैप १, १५७६ i द्र. । a¹) पामे. वैप १, १५७३ l द्र. । b¹) पामे. वैप १, १५७५ b द्र. । c¹) दिव्या इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । d¹) पामे. वैप १, १६७४ a द्र. । e¹) पामे. वैप १, १५७६ a द्र. । f¹) पामे. वैप १, १५७४ g द्र. । g¹) = चण्डाल- ।

दिव्याकीर्त्या (ति-आ)दि-
-दीन् माण्ड २, १४, ११.

दिव्या-कीर्त्य^१ - त्यः आश्रौ
१, ५, १८; ८, ६, १; वाश्रौ ३, २,
३, १८; -त्यम् आपश्रौ २०,
२१, १०××; वौश्रौ १६, १४ :
१५; हिश्रौ १८, १, २५; ३, ३, ४.

दिव्याकीर्त्य-पृष्ठ^२ - ष्टः
लाश्रौ १०, १३, १५.

दिव्याकीर्त्य-सामन्^३-
-मानम् आपश्रौ २१, १५, १६.

दिव्या-चर- -राः अप ५२, १,
३; ७०^३, ५, ५; -ःरभ्यः^४ काण्ड
५४, १७; वैण्ड ३, ७ : १६; विध
६७, २१.

दिव्या-चारिन्- -रिभ्यः^५
आण्ड १, २, ८; आमिण्ड १, ७, २ :
१०; माण्ड २, १२, १८.

दिव्या(वा-आ)दि- -दियु
वौध २४, ७.

दिव्या-मैथुन- -ने आमिण्ड २,
७, ४ : ३; वौण्ड ४, ११, १.

दिव्या-रात्रि-चर- -राः अप
५२, १, ३; -राणाम् अप ६४,
४, ३.

दिव्या-सन्ध्या- -न्धयोः
आमिण्ड २, ६, ८ : ७.

दिव्या-स्थान^६ - न्तः वौध ४,
५, ५.

दिव्या-स्वप्न-शील- -लेन
वौध २, २, ७७.

दिव्-आदि- -दिभ्यः वृदे ४, ६.
दिव्-आदित्य- -र्यौ अत्र ४,
३९.

दिवि-क्षित्^७ - क्षिते वौश्रौ
१५, २ : १२; हिश्रौ १४, १, १३.

दिवि-गत- -त्तम् अप ५१, ५, ३;
-तान् वैण्ड ५, १४ : ८^८; -तेभ्यः
वैण्ड २, २ : ११^८; ५, १४ : १४.

दिवि-चर- -राः अप ५२, १, ३.

दिवि-ज- पा ६, ३, १५; -जः
या ७, १८.

दिवि-जा- -जाः ऋश्रौ ३,
१३, १२; ४, १४, २; या ४, १३.

दिवि-देवयजन^९ - -नाः वाधूश्रौ
४, १८ : २६.

दिवि-भाग^{१०} - -गाः आपश्रौ
१९, २७, ११; वौश्रौ १३, ४० :
५; माश्रौ ५, २, ६, १८; हिश्रौ
२२, ६, २०.

दिवि-लोक- -कः वाधूश्रौ ४,
५४ : ५; १०६ : २; -कम् वाधूश्रौ
३, १३ : ८; ४, १६ : ८; ६३ :
९; -कात् वाधूश्रौ ४, ६३ : ९;
-के वाधूश्रौ ३, १३ : ९; ४, ११ :
२०; १६ : ८; ५४ : ५.

दिवि-पद्^{११} - पाग ८, ३, ९८^१;
-ःषद्भ्यः आपश्रौ १, ९, ६;
९, १८, १६; वौश्रौ.

दिवि-ष्ट- पा ८, ३, ९७.

दिवि-सद्^{१२} - सद्मं शुभ्रा ३, ८३

दिवि-स्पृश^{१३} - स्पृक् वौश्रौ
९, १० : ५; माश्रौ ४, ३, २०;
वैश्रौ १३, १२ : ८; ऋश्रौ ५,
२४; -स्पृशः वौश्रौ ३, ३ : ५;

वैश्रौ १९, ५ : ४; निस् ३, ९ :
४७; -स्पृशम् आश्रौ ७, १२, ७;
शांश्रौ १०, ६, ६; १४, ५७, ५;

आपश्रौ १७, ७, ४^{१४}; वौश्रौ १,
१५ : २१; हिश्रौ १२, २, २४^{१५};

या ९, ३८^{१६}; -स्पृशा आश्रौ
७, ६, २; शांश्रौ १०, ३, ५; शुभ्रा
३, ८१; -स्पृशि या ७, २५.

दिव्य, व्या^{१७} - पा ४, २, १०१;

-ःव्यः आपश्रौ १५, १६, ९;
१७, ८, ४; वैश्रौ; या ७,
१८^{१८}; -ःव्यम् आश्रौ १, ९,
५; २, ८, ३; ३, ८, १; शांश्रौ;

द्राश्रौ २, ३, १७^{१९}; लाश्रौ १, ७,
१५^{२०}; या ४, १३; ७, १८; -व्यया
वाधूश्रौ ४, २९ : १२; -व्यस्य
आपश्रौ २२, ७, ११^{२१}; वौश्रौ; या
६, २२; -ःव्या काश्रौ २६,
७, ४; आपश्रौ; या १२, ३०;

-ःव्याः आश्रौ १, ७, ७^{२२};
आपश्रौ; हिण्ड २, १६, ६^{२३}; या २,
११; ४, १३; -०ःव्याः आपश्रौ
२२, १९, १; हिश्रौ १७, ७, १०;

-ःव्यात् आपश्रौ ४, १६, ४;
वौश्रौ; -व्यान् कप्र २, २, ३-८;
अप ७१, १, १; शंघ १६६ :
१७^{२४}; आपघ २, ७, १६; हिण्ड २,
२, ३५; -ःव्यानाम् कौण्ड ४, २,
२; ३^{२५}; शांण्ड; -व्यानि अप ७२,
४, ४^{२६}; विध २०, ६; वृदे १,
१२१; आज्यो ५, ७; -व्याम्
वाधूश्रौ ४, २९ : ९; अप १,
४९, १; १४, १, १६^{२७}; वृदे १,
७४; -व्यासः या ४, १३^{२८};

-व्ये विध १४, ५; या ८, ११^{२९};

-व्येन वौश्रौ १८, १७ : ३^{३०};

अप्रायः -ःव्येभ्यः वौश्रौ ७,

a) = एकाह-। = याग-।, सामन्- वपट्कार- प्रमृ. । शेषं वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) पाभे.

पृ ४७४ ङ द्र. ।

d) विप. । उप. कर्तरि कृत् ।

e) वैप १ द्र. ।

f) तु. पागम. ।

g) पाभे. वैप १,

१५७७ ङ द्र. ।

h) पाभे. पृ १२५६ । द्र. ।

i) दिव्यः इति पाठः ? यनि. शोघः ।

j) विद्या इति

पाठः ? यनि. शोघः ।

५: ४१; ६: २६; जैश्रौ; -ङ्घ्येषु
आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८,
२: ३५; हिश्रौ ११, ८, ४;
-त्स्यै: आपश्रौ १४, १७, ११;
हिश्रौ १५, ५, ११; विध ५१, ७७.

दिव्य-तन्त्र-विद्^१ -वित्
अप ७०, ९, १.

दिव्य-नदी-> न्दी-पुलिन-
सङ्गम-> षम-गोष्ठा (छ-आ)
अम-पर्वत-प्रत्न-व्रण-तपोवन-
विहारिन्- -री सुध ५३^१ b.

दिव्य-नाग- -गान् शंघ
११६: ३४.

दिव्य-मण्डल- -लम् अप
१९^२, २, २.

दिव्य-स्त्री-गीत- -गन्धर्व-
विमाना (न-अ) इ-भुतस्वन^०-
-ना: अप ६४, ९, ७.

दिव्या(व्य-आ)त्मन्^d -त्मा
वृदे ७, ७७.

दिव्या(व्य-अ) इ-भुत-
-तानि अप ७२, ५, ३; -तेषु
अप ७०, ४, २.

दिव्या(व्य-अ) निष्ट-
विपत्- -कर- -रे अप ७०,
४, ४.

दिव्या(व्य-आ) न्तरिक्ष-
पार्थिव- -वान् अप १, ९, २.

दिव्या(व्य-आ) न्तरिक्ष-
भौम- -मानाम् अप २, २,
३; -मेषु अप ३०^३, २, ९; अशां

१७, १.

दिव्या(व्या-आ)प्य- -प्यम्
अश्र ६, १२४.

दिव्या(व्य-आ)शीर्-ना-
(मन् >) म्नी- -म्न्या जैश्रौका
८७.

द्यु^०- पाठभो २, १, २४; पा ५,
२, १०८; वेज्यो १२; १६; २७;
३७; ३८; द्यु: या १, ६; ङ्घुभि:
आश्रौ ४, १३, ७; शश्रौ: या ६,
१४; १३, १; द्युपुशाश्रौ ८, २२,
११; ङ्घुन् आश्रौ ३, ८, १; आपमं
२, ११, ३०; द्युनि वेज्यो ३९.

द्यु-त्रिंशत्- -शत् वेज्यो ३१.

द्यु-पथि-मधि-पुं-नो-सखि-
चतुर्-अनडु(ह >) व-त्रि-ग्रहण-
णम् पात्रा १, १, ७२.

द्यु-भक्ति^d - -क्तय: वृदे ६,
१५६; -क्ति: वृदे ३, ११३;
-क्तीनि या ७, ११.

द्यु-भू- -भ्वो: वृदे ५, ११४.

द्यु-म- पा ५, २, १०८.

ङ्घु-मत्- -मत् आश्रौ ८,
१, १८^१; ९, ७; शाश्रौ: -मन्त:
वौश्रौ ३, ८: १०; -मन्तम्
शाश्रौ २, ११, ३^१; वौश्रौ १,
१३: २६; -मान् आपश्रौ १२,
१९, ५; वृदे ६, ७३; वा ६,
१९४.

द्युमती- -तीम् वृदे
८, ८.

ङ्घुमत्-तम- -०न
हिश्रौ ११, ७, ४३; -म: वौश्रौ
३, ८: ३१; -मम् आपश्रौ १६,
२६, १; वौश्रौ: या ९, २१.
द्यु-मैद्युन- -ने अप ३८,
३, ४.

द्यु-लोक- -क: हिपि ७: ५१^१.
द्यु-वंत् वृदे २, ८०.

द्यु-स्य- -स्यै: वौध ४, ८,
१२^१.

द्यु-स्थान^d -न: वृदे २, ७;
या ७, ५; १५; १२, ४१; -ना:
या १२, १; ३५; ४१; -ने वृदे
८, ४८.

द्यु(द्यु-अ)धिक- -केन वेज्यो
१६.

द्यो^१- पाठभो २, १, १५०; ङ्घुवि
नौपि २, ३, ७; या १, ६; द्युप्रा
३, ६८; तैप्रा ६, २; ङ्घुविऽद्युवि
अप ४८, १११; निष १, ९;
ङ्घुवी आश्रौ ८, ११, ३; शाश्रौ
१०, ११, ८; ङ्घुाम् आश्रौ
२, ७, ११०४; ६, २, १११^१; ८,
१३, १०^१; शाश्रौ; काश्रौ ६, १,
१६^१; आपश्रौ २, २, ३^१; ७, २७,
४^१; नाश्रौ २, ४, ५, ५^१; हिश्रौ
२२, ३, १९^०; वैताश्रौ २९, १३^१;
आमिष्ट ३, ६, १: ६५; हिष्ट १;
१५, ३^१; या ३, २०; ७, २३; ९,
१३^१; १०, २२^१; २३^१; २७^१;
३२; १२, २३; १३, ८; ङ्घुाव:

a) उप. <√विद् (ज्ञाने) । b) ऋमेऽष्टाश्रम^० इति पाठः ? यनि. शोधः । c) क्त. >पत्. >
दस. >पत्. >पत्. । d) विप. । वस. । e) = दिव्-, दिन- । वैप १ द्र. । f) वैप १, १५८० । द्र. ।
g) पामे. वैप १, १५८० । h) द्र. । h) द्युस्त्यैः इति पाठः ? यनि. शोधः । i) वैप १ द्र. । j) घान् इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. खि ५, ५, ११) । k) पामे. वैप १, १५७३ । b) द्र. । l) पामे. वैप १, १५७३ । i) द्र. ।
m) पामे. वैप १, १५७३ । k) द्र. । n) पामे. वैप १, १५७२ । q) द्र. । o) घा इति वृद्धिः पाठः ? यनि. शोधः
(तु. तैप्रा २, ४, ४, ३) । p) पामे. वैप १, १३९२ । m) द्र. । q) पामे. वैप १, १५७३ । u) द्र. । r) पामे.
वैप १, १३९३ । d) द्र. ।

आश्रौ ७, १०, ८; ९, ११, १६;
शाश्रौ; या १३, २; पावा ६, १,
१२; द्यावौ या २, २०; द्योः
पावा ६, १, १२^३; ऋश्रौः आश्रौ
१, २, १^१; २, ९, १४××; शाश्रौ
१, ६, ४^०××; काश्रौ; आपश्रौ ६,
२२, १^१; हिण् २, ११, ४^०; ४^०;
निघ १, ९^१; या १, १५; २,
१४^०××; पा ७, १, ८४.

ऋद्यावा^१ आश्रौ ३, ८, १^३; ५,
१८, ५; ८, ८, ४; शाश्रौ ५, १३,
५××; काश्रौ; या २, २०^१; ९,
३८^१; पा ६, ३, २९; द्यावोः
मीस् ९, ३, २१.

ऋद्यावा-आश्रु^१ -त्तामा
काश्रौ १६, ५, ४; शुप्रा २, ४७.

द्यावा(वा-आ)दि-दिना
अप ३३, ६, ८.

ऋद्यावा-पृथिवी^१ -वी
आश्रौ १, २, १; ३, २३××; शाश्रौ;
आपमं २, १, ८^०; १२, ७^१; हिण् २,
३, १०^१; ६, १२^०; निघ ५, ३;
या ५, ३; ८, १४^१; १२, १६;
-०वी आश्रौ १, ९, १; काश्रौ;
-वीभ्याम् शाश्रौ १, ६, ११; ५,
८, ५^०××; काश्रौ; हिश्रौ १, ५,
३२^१; लाश्रौ ५, ७, ४^१; कौश्रु
३, १३, ६^१; शाण्ड ४, १३, ३^१;
-व्या शुश्र ४, २९; -व्याम् शुश्र
१, ५२०; -व्योः आश्रौ १,
१, २३××; काश्रौ; आपश्रौ १,

१८, ४^१; वौश्रौ १, ५ : २४^१;
भाश्रौ १, २०, ४^१; माण्ड १, २१,
१०^०; या ३, २२; ७, २८; -व्यौ
सु २, १; कौस्; या ४, ६; २५××.
द्यावापृथिवी-नाम-

धेय- -यानि निघ ३, ३०; या
३, २१.

द्यावापृथिवी-वलि-

-लिम् शाण्ड ४, १३, २.

द्यावापृथिवीय, या^११^०

पाश्रु २, ३२; -यः शाश्रौ ३, १२,
३; १३, ११; काश्रौ ४, ६, ५, ५,
१, १४; वाश्रौ १, ५, ५, ६; -यम्
शाश्रौ ८, ३, ११××; माश्रौ;
-यया शाण्ड ४, १२, ३; -यस्य
शाश्रौ ६, ११, ७; १४, ५६, ९;
माश्रौ ५, ५, ६८; माश्रौ ५, २,
७, ६; -या शाश्रौ १४, ६, ३;
-याः साश्र १, ६२३; -यान्
माश्रौ १, ६, ४, ४; -याम् आश्रौ
१२, ७, १२; काश्रौ २०, ८, ७;
माश्रौ ५, २, १०, २३; -याय
माश्रौ १, ६, ४, ११; -ये माश्रौ
५, २, १०, १८.

द्यावापृथिव्य, व्या^१

पाश्रु २, ३२; -व्यः काश्रौ २०, ३,
१८; वौश्रौ २६, ३० : १३; जैश्रु
१, २४; ३; -व्यम् आपश्रौ ६, २९,
१०; आपश्रौ; -व्यया आपश्रौ
९, २, ५; १३, १५; माश्रौ; -व्ययोः
माश्रौ ६, १७, १३^१; -व्यस्य

वौश्रौ ३, १२; २०; वैश्रौ ८, १ :
१०; -व्या वौश्रौ १७, ५५; १६;
६२ : १४; -व्याः आपश्रौ २०,
१४, ७; वौश्रौ २४, ३८ : ३;
हिश्रौ १४, ३, १६; -व्यान्
माश्रौ ६, १७, १४; -व्यानाम्
वौश्रौ १५, ३१ : १९; -व्याम्
आपश्रौ २१, २३, ४; हिश्रौ १६,
८, ८; १३; -व्ये ऋश्र २, १, २२.

द्यावापृथिव्य-वि-

कार- -रौ वौश्रौ २७, १४ : २३.

द्यावापृथिव्या(वी-आ)

दि-देव- -वान् अश्र २, २८.

द्यावापृथिव्योर-अय-

न- -नम् आश्रौ २, १४, १२;

वैताश्रौ ४३, २७.

द्यावा-भूमि^१ - ०मी

ऋप्रा ३, ४, १; -म्योः ऋश्र २,

६, ४८.

द्यौस् (> र्, :) > ऋश्र-दा^१

-दाः आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ

१८, २१ : १७; हिश्रौ ११, ८,

१०.

द्यौर-लोक- -केन शाण्ड १,

१६, ३.

द्यौः, स-सम- -मम्^१

आमिण्^१ ३, १, २; २०; २, ३; ९;

वौध २, ८, १२^१.

१^१दिव^१ -वेऽ-वे आश्रौ ४, १०,

१^१; ३; शाश्रौ ५, १४, ८^१××;

काश्रौ; या ४, १९^१.

a) पाभे. वैप २, ११७१ I टि. द्र. । b) सकृत् सपा. द्यौः, समा < > द्यौः, स-समम् इति पाभे. ।

c) = दिन- । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. द्यावापृथिवी तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । f) पाभे.

वैप १ सोमः शौ २, १०, २ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १, १५७६ छ द्र. । h) पाभे. वैप १, १५८५ छ द्र. ।

i) द्यावापृथिवीद्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा ३८, १२) । j) विप. (पुरोडाश-, ऋच्-, सकृ- प्रभृ.) ।

k) वैप १, १५८६ g, h द्र. । l) विसर्ग-युतः पाठः । तत्रैव ? समन्तस्स > समम्, तस्य इति शोधः ।

अन्तरिक्ष-समम् इत्यत्र शोधो नेष्टः । m) चौंसं. विसर्गलोपः, मैच्, सकार-युतः पाठः । n) पाभे. वैप १,

१५७२ j द्र. ।

२दिव^१ > दिवौ (व-ञो) कस्^१
 -कसः कप्र १, १०, ८; २, ३, १२.
 दिवस् > दिवः, श-श्येनि, नी^०
 -नयः काश्रौसं ३: १; ६: १;
 आमिगृ १, २, १: १४; वौगृ ३, १:
 २४; -नीमिः आपश्रौ १९, १५,
 १७; काश्रौसं ३: १; ७; ६: ४; वौश्रौ
 १९, ८: ६; हिश्रौ २३, ३, ३६.
 देवः श्येन^१ - नम् काश्रौसं
 ४: १; ५: ४^०; ६: ४.
 दिवस्-पति^१ - पाग ८, ३, ४८^०;
 -न्ते विघ ९८, २०.
 दिवस्-पृथिवी^१ - पा ६, ३, ३०;
 -ः न्योः आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ
 १, १४, ३, ऋप्रा १३, ३०; उच्
 ८, १९.
 दिवस^१ - पाठ ३, १२१; पाग २,
 ४, ३१; -सः शंघ १८६; २३७;
 विघ २०, १६; -सम् वैगृ ७, ५:
 ९; वाघ २७, १७; शंघ ११६:
 ४९; याशि २, १०८; नाशि २,
 ८, २०; -सस्य वाघ ११, ३६;
 -साः सुघप ८४: २; -सात्
 वौघ १, ५, १०४; -सान् अप
 ५०, ९, ५; -सानि आमिगृ २,
 ७, ६: २३; -साय वैगृ २, १२:
 ७; -से वौघ ४, ५, ३०; विघ
 १९, १०; वैघर, १, ४; ८; आज्यो
 ८, ३; -सैः शंघ ३५२.

दिवस-प्रमाण- -णम् वेज्यो ४०.
 दिवसां(स-अं)श-भाग- -गः
 वेज्यो २७.
 दिवसा(स-अ)धिक- -कम् सुघ
 ६२.
 दिवसा(स-अ)न्त- -न्ते विघ
 १३, ५; ३२, ९.
 दिवसै(स-ए)कविंशति-क्षण-
 -णम् विघ ४६, १३.
 दिविः (?) गो १, २११.
 दीदिवि^१ - पाठ ४, ५५; -विः पाठ
 ३, ४, १६२^१; -विम् वौश्रौ ३,
 ८: २७^१.
 दीवितृ - तारः आपघ २, २५,
 १३; हिघ २, ५, १९२.
 दीव्यत् - न्यतः शंघ ३७८;
 -न्यन्तः वौश्रौ १०, ९: ३.
 दीव्यति > ०ति-कर्मन् - र्मा या
 ३, १५.
 देव^१ - पाग ३, १, १३४; ४, १,
 ८६; ३, ११८^१; -०व आश्रौ १, ३,
 २३; ४, ७xx; शाश्रौ: आपश्रौ
 ९, ८, ८^१; ऋमाश्रौ २, ४, १, ९^०;
 ५, ४, २०^०; ५, २, २, १४^०;
 आपमं २, २, १^०; कागृ ३९,
 २^०; वौगृ २, ५, ९^०; भागृ १,
 ५: ९^०; हिगृ २, १७, ३^१;
 कौस् १३७, ३९^०; या ५, २७;
 ७, ३१^१; ११, ५^१; -ः वः

आश्रौ १, ६, १; ८, ७^१xx;
 शाश्रौ: आपश्रौ ९, १८, १६^०; पाठ
 ३, १, ३^१; हिगृ १, २७, ८^१;
 कौस् ४०, १३^१; या २, १०^०;
 २६xx; ७, १५^०; -ः वम्.
 आश्रौ १, ८, ७; २, २, २xx;
 शाश्रौ: लाश्रौ ७, १२, ४^०; या
 १, ४; ६, ४xx; -ः वम् ऽवम्.
 आश्रौ ७, १२, ७; १०, ६, ६;
 शुभ्र ३, २५१; -ः वस्य आश्रौ
 १, १३, १; ६, १४, १६xx;
 शाश्रौ २, १०, २xx; ६, ८,
 ६^१; वैताश्रौ १७, ७^१; या ४,
 १९; ६, ७; ७, ४; ११, ११;
 १४, १८; -ः वः आश्रौ २,
 १६, १२; ७, ६, २; शाश्रौ ३,
 १३, २७; ७, १०, १०; १०, ३,
 ५; अप ४८, २; -ः वः आश्रौ
 ९, ११, १४; या ५, २२; -ः वः
 आश्रौ १, ३, २७xx; शाश्रौ:
 काश्रौ १५, ४, ३६^०; आपश्रौ
 १४, २७, ७^१; ३१, ८^१;
 वाघश्रौ ४, ४३: २^१; ५५: ४^१;
 वाश्रौ २, २, ३, २^१; हिश्रौ १, ७,
 ८; १९^१; वैगृ २, २: ६^१; ३,
 १३: ६^१; ९^१; ४, १०:
 १०^१; ११: ९^१; हिघ १, ६,
 २०^१; या २, १२; ३, ८^१xx;
 -ः वः आश्रौ १, १२, ३६:

a) = दिव्- । b) = देवता- । वस. । c) वैप २, ३खं. द्र. । d) तत्येदनीयः सण प्र. । e) २२वै इति पाठः ? यनि. शोघः । f) = विष्णु- । g) तु. पागम. । h) वैप १ द्र. । i) = दिन- । j) व्यप. [वौश्रौप्र.] । शिष्टं वैप १ द्र. । k) देवराज- टि. द्र. । l) पामे. वैप १, १५८९ h द्र. । m) पामे. वैप १, १५८८ h द्र. । n) पामे. वैप १, १५८८ o द्र. । o) मानुषदेव इति पाठः (तु. BC.) नासृप (क्रि.), देव (वहिः) इति शोघः (तु. सपा. आश्रौ १, ४, ७) । p) पामे. वैप १, १५७२ o द्र. । q) पामे. वैप १, १६११ m द्र. । r) पामे. वैप २, ३खं. वुम् तैत्रा २, ५, ८, ८ टि. द्र. । s) गीतिविकारतया निर्देशः । t) पामे. वैप १, १५९३ j द्र. । u) पामे. वैप १, १५९५ d द्र. । v) पामे. वैप १, १५९५ e द्र. । w) पामे. वैप १, १५९७ f द्र. । x) देवा इति पाठः ? यनि. शोघः । y) शोघः पृ ९३ i द्र. । z) देवेन्द्रः इति पाठः ? यनि. शोघः L. सप्र. तै ५, ५, ९, ५। a^१) पामे. वैप १, १६०१ m द्र. । b^१) = देवाः (ऋ १, २२, १६) । c^१) सप्र. न देवा न गन्धर्वाः <> न देवगन्धर्वाः इति पामे. ।

२, ९, १०××; शांश्रौ; आपश्रौ
 १४. २७, ७^{३०}; १६, ३४, ४^६;
 माश्रौ २, ३, ८, ४^{३०}; ४, १, ६^{३०};
 ५, ५, २१^०; हिश्रौ २१, १४ :
 १४; १६^६; या ५, २२; ८, २२;
 १२, ४०; -नान् आश्रौ १, ३, ६^३;
 २२××; ३, १२, १४^{३०}; शांश्रौ
 १, ४. २१××; ३, ५, ९^०; काश्रौ;
 आपश्रौ १, १०, १४^१; २, १०,
 ५^६; ५, ५, ८^३; ९, ४, १७^३;
 १४, ३०, ४^१; १६, ३५, ५^{३०}; १८,
 ५, १४^६; शांश्रु २, १३, ५^०; अश्रु १,
 ४०, ४^१; या १, २०; २, २६××;
 -वान् ऽ-वान् काश्रौ ३, ५, ८;
 -नानाम् आश्रौ १, ३, ६; ६,
 ५××; शांश्रौ १, ४, २१××; १०,
 १८, ६^३; काश्रौ २, १, १८^३××;
 ८, १४^०; आपश्रौ १, ३, ६××;
 २, १०, ५^०; ३, १८, ४^३; ७, ९, २^१;
 १४, १७, १^३; १७, १३, २^१;
 काठश्रौ; माश्रौ १, ५, १, १६^३; ५,
 २, १५, २^३; आपमं २, २, ९^१; हिश्रु
 १, ४, ४^१; हिश्रु १, ८, २६^३;

-वानाम् आपश्रौ २, ५, ७^१;
 १६, १, ३; वीश्रौ; -नानाम् आश्रौ
 ४, १३, ७××; शांश्रौ; माश्रौ ६, २,
 ४, ६^३; या १०, ६; २३; -नानाम्
 आश्रौ ८, १, १२; शांश्रौ; या ७,
 २८; १२, ३०; -नानाम् आश्रौ
 ८, १, १२; शांश्रौ; आपश्रौ १३,
 १०, १०^१; हिश्रौ ९, ३, ३३^१;
 या ६, १४; १२, ४०; -नानाम्
 आपश्रौ ५, २९, ५; माश्रौ;
 -नानाम् आश्रौ १, ३, २२; ५,
 २, १४^३; शांश्रौ; द्राश्रौ १५, ३,
 ९^३; लाश्रौ ५, ११, ९^३; या
 १०, १८; -नानाम् आश्रौ ५, ९,
 २१××; शांश्रौ; आपश्रौ ४, १२,
 ३^१; -नानाम् आश्रौ १, ९, ५^३;
 २, २, २××; शांश्रौ १, ४, ५××;
 २, ८, २०^३; ४, ८, १^३; काश्रौ;
 आपश्रौ ९, २, १०^३; माश्रौ १,
 १, १, १९^३; ७, १, ८^३; ८, ३,
 १^३; माश्रु १, २२, ५^३; कौसू
 ५६, १३^३; या १, ४; ७, ९××;
 -नानाम् आश्रौ १, ३, २३; ८, ७;

१२, ३६^३; ३, १२, २७××;
 शांश्रौ; आपश्रौ १६, ११, ११^३;
 माश्रौ ३, १, २७^३; पाश्रु १, १६,
 २२^३; या ६, ८; ८, २०; ९,
 ३८; ११, ३९; -नानाम् आश्रौ
 २, १७, ३××; शांश्रौ; आपश्रौ
 ४, १०, ४^१; ६, ८, ४^३; १६,
 १०, ८^३; माश्रौ २, ३, ३, ७^३; या
 ९, ३; १३^१; १२, २९^१; -नानाम्
 शांश्रौ ७, ५, ६; आपश्रौ; आपमं
 १, १२, २^३; माश्रु २, १८, २^३;
 या १२, ३७; -नानाम् काश्रौ
 २३, ३, १; आपश्रौ; या ५, २२.
 १देवी- पा ४, १, ४^१;
 -नानाम् आश्रौ १, १०, ८; ३,
 १, १४; शांश्रौ; आपश्रौ १०,
 २३, ६^३; वीश्रौ ६, १३; ११^३;
 माश्रौ १०, १५, १५^३; वैश्रौ
 १२, १७; ५^३; हिश्रौ ३, ३,
 ३२^३; ७, २, ३^३; आश्रु २,
 १, ५; १८^३; या ११, ३२;
 ३३; -नानाम् आश्रौ १, ७,
 ७; २, १६, १२^३××; शांश्रौ;

- a) पामे. वैप १, १६०० g द्र. । b) पामे. वैप १, १६०० h द्र. । c) पामे. वैप १, १५९९ e द्र. ।
 d) पामे. वैप १, १५९९ a द्र. । e) पामे. वैप १, १६०० l द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. योनिम् मंत्रा २, ३, १७ टि. द्र. ।
 g) पामे. वैप २, ३खं. देवान् तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि. द्र. । h) पामे. वैप १, १६०४ b द्र. ।
 i) पामे. वैप १, १५९९ a द्र. । j) पामे. वैप १, १६०१ m द्र. । k) पामे. वैप १, १५९९ j द्र. ।
 l) देवाः इति पाठः ? यनि. शोधः । m) पामे. वैप १, १६०३ i द्र. । n) पामे. वैप १, १६०३ d द्र. ।
 o) पामे. वैप १, १६०३ c द्र. । p) पामे. वैप १, १६०२ h द्र. । q) पामे. वैप १ वृष्टिद्यावानम् नै २, १३, २२ टि. द्र. ।
 r) पामे. वैप २, ३खं. देवी मंत्रा १, ६, २७ टि. द्र. । s) सप्र. देवानां सुराक्षश्च <> देवानां राक्षश्च इति पामे. ।
 t) पामे. वैप १, १६०६ g द्र. । u) पामे. वैप १, १५९९ j द्र. । v) पामे. वैप १ विश्वदेवेभिः मा २, २२ टि. द्र. ।
 w) पामे. वैप २, ३खं. देवैः तैत्रा २, १, ५, १०^२ टि. द्र. । x) पामे. वैप १, १६०३ f द्र. ।
 y) सपा. देवेभ्यः <> देवेषु इति पामे. । z) पामे. वैप १, १६२३ b द्र. । a^१) पामे. वैप १, १६०३ h द्र. । b^१) सप्र. देवेभ्यः <> देवताभ्यः इति पामे. । c^१) पामे. वैप १, १६०७ e द्र. ।
 d^१) पामे. पृ १००१ g द्र. । e^१) पामे. वैप १, १६१२ i द्र. । f^१) पामे. वैप १, १५९६ j द्र. ।
 g^१) पामे. वैप १, १६१२ g द्र. । h^१) पामे. वैप १, ९६२ a द्र. । i^१) तु. पागम. । j^१) पामे. वैप १, १६११ b द्र. ।
 k^१) देवी इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. सप्र. काठ ७, १२] । l^१) देवी इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. ऋ २, ३२, ६ ।]

आपथ्रौ ५, ९, ११^१; माथ्रौ १, ५, २, १२^२; कौथ्र १, १६, १८^३; २, १, २९^४; शांथ्र १, २४, १०^५; २, २, १०^६; पाथ्र २, ८^७; माथ्र १, २२, १०^८; या ९, ४१; ४२^९; ४३; ११, ४६; -^{१०}वी आथ्रौ ४, १३, ५; आपथ्रौ १५, १, १०; वौथ्रौ; -^{११}वी: आथ्रौ २, १६, ९; १२^{१२}; ५, १, १३; शांथ्रौ; आपथ्रौ १८, १३, १९^{१३}; वैथ्रौ १, ९: ८^{१४}; आपमं २, २, ५^{१५}; पाथ्र १, ४, १३^{१६}; आथ्रिगृ १, १, २: २७^{१७}; २८^{१८}; ५, १: १९^{१९}; २०^{२०}; २, १, ४: १२^{२१}; ४, १: २०^{२२}; काथ्र २५, ४^{२३}; वौथ्र २, ५, ११^{२४}; भाथ्र १, ५: १२^{२५}; १३^{२६}; १३: २^{२७}; ३^{२८}; हिथ्र १, ४, २^{२९}; या २, ४६; ८, १२; १३; -^{३०}वी: काथ्रौ २, ३, ३४; ९, ३, ४××; आपथ्रौ १५, २, १^{३१}; वौथ्रौ ९, २: १८^{३२}; भाथ्रौ ११, २, २^{३३}; माथ्रौ ४, १, ११^{३४}; वैथ्रौ १३, २: १^{३५}; हिथ्रौ २४, १, १०^{३६}; आपमं २, ९, ६^{३७}; या ८, १०; १२, ४५; -^{३८}वीनाम् आथ्रौ ६, १४, १७; हिथ्रौ ७, ८, ४३; ऋथ्र २, १, २२; वृदे ३, ९२; -^{३९}वीभ्य: शांथ्रौ

९, २८, ४; कौथ्र १, ५, २९; आथ्रिगृ १, ५, २: १६; -^{४०}वीम् आथ्रौ ३, ८, १; ४, १३, २; शांथ्रौ; वैताथ्रौ १, १६^{४१}; कौथ्र १, १६, १८^{४२}; या ११, २९; -^{४३}व्य: ^{४४}वौथ्रौ २, २: ११; ४: १४; १६; ^{४५}माथ्र १, १०, ८^{४५}; २२, ३^{४६}; वैथ्र; या ८, १३; १२, ४५; ४६; -^{४६}व्य: काथ्रौ २३, ३, १; २६, १, ७^{४७}; शुथ्र ४, ७४^{४८}; या ८, १०^{४९}; -^{४९}व्या आथ्रौ २, १७, ३; शांथ्रौ; -^{५०}व्या: वैथ्रौ १, १७: ११^{५०}; -^{५१}व्याम् कौत् ३१, २८; अथ्र ६, १३६; -^{५२}व्यै आपमं २, ८, ६××; आथ्रिगृ; -^{५३}व्यौ वृदे १, १०८; ३, ८; या ९, ४१; ४२.

देवीराप^m-(>देवी-
रापक- पा.) पाग ५, २, ६२.

रदेवी^m->देवी-ज-
-जम् अप ३५, २, ३.

दैव^o- पा ४, १, ८६; पावा ४, १, ८५; -^{०१}व वैताथ्रौ २०, १९^{०१}; -^{०२}व: ^{०३}शांथ्रौ २, १२, ९; ४, ६, ९^{०४}××; वौथ्रौ; वौथ्रौप्र ४१: १४^{०५}; लाथ्रौ ५, २, ११^{०६}; आपमं २, ७, २४^{०७};

आथ्र १, ६, २८^{०८}; वैथ्र ३, १: १^{०९}; ५^{१०}; वाथ्र १, २९^{११}; शंथ्र ६८^{१२}; वौथ्र १, ११, ५^{१३}; विथ्र २४, १८^{१४}; २०^{१५}; ५९, २२^{१६}; गौथ्र ४, ९^{१७}; साथ्र १, ५१^{१८}; दंथ्र १, ७; -^{१९}वम् आथ्रौ ९, ३, १२; १०, २, २७; शांथ्रौ; माथ्रौ १, ५, २, ४^{२०}; अप २, १, २^{२१}; ३^{२२}; वाथ्र १, ३१^{२३}; -^{२४}वस्य वृदे ६, १६१; -^{२५}वा: आपथ्रौ २०, १४, ६; वौथ्रौ; -^{२६}वात् शांथ्रौ २, १४, ४^{२७}; १५, २; कप्र ३, ४, ४१^{२८}; अथ्र २, १, ३१^{२९}; वौथ्र १, ११, १८^{३०}; गौथ्र ४, ३१^{३१}; -^{३२}वान् अथ्र १, ६, ७; -^{३३}वानाम् आथ्रौ १२, ८, २; -^{३४}वानि आपथ्रौ २४, २, १५; वौथ्रौ; ऋथ्र १६, ३; -^{३५}वे शांथ्रौ १५, २७, १^{३५}; कौथ्र; -^{३६}वेन आथ्रौ ९, ३, १२; शांथ्रौ १५, २७, १; द्राथ्रौ ७, ३, १^{३७}; लाथ्रौ ३, ३, १^{३८}; वैथ्र १, ५: ८^{३९}××; आपथ्र; अथ्र २, १, २^{४०}; विथ्र २४, ३४^{४१}; -^{४२}वेषु भाथ्रौ १, १, १०^{४२}; अथ्र ७२, ३, १; -^{४३}वै: अथ्र ११, २, ५.

दैवी^०-^{०४}वी आपमं २, ४, ६^{०४}; आथ्रिगृ; हिथ्र १; ८,

- a) पाभे. वैप १, १६११ e द्र. । b) सङ्कृत देवीम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांथ्र १, २४, १०) ।
 c) पाभे. वैप २, ३खं. देवी मंत्रा १, ६, २७ टि. द्र. । d) सङ्कृत ०वी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मै ४, १०, ३) ।
 e) पाभे. वैप १, १५९५ d द्र. । f) पाभे. वैप २, ३खं. देव्यः मंत्रा १, १, ५ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १, १६१२ k द्र. । h) पाभे. वैप १, १६११ m द्र. । i) पाभे. वैप १, १६१३ o द्र. । j) पाभे. वैप १, १५१० d द्र. । k) पाभे. वैप १, १६१३ g द्र. । l) पाठः ? देवी इति शोधः (तु. सपा. शांथ्र १, २४, १०) ।
 m) < देवी: आपः (मा १, १२) इति । n) = ओपधि-विशेष- । o) वप्रा. । विप., नाप., व्यप. वं । विवेक उत्तरत्र टि. द्र. । वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । p) पाभे. वैप १, १६०३ d द्र. । q) = ऋपि-विशेष- । r) पाभे. वैप १, १६१४ t द्र. । s) सपा. दैवः <> देव्यः इति पाभे. । t) = विवाह-भेद- । u) = देव-यज्ञ- । v) = देवोदास- । w) पाभे. वैप २, ३खं. देव्यम् तैत्रा १, २, १, १५ टि. द्र. । x) = भाग्य- । y) पाभे. वैप २, ३खं. देवात् मंत्रा २, २, ७ टि. द्र. । z) = देव-तीर्थ- । a') विप. (ऋच्-प्रम्.), नाप. (गायत्री-) ।

४१^a; उनिस् ३ : ३^b; पि २, ३^b; -वीः काश्रौ १८, ४, २५; आपश्रौ; आपमं २, १२, ८^c; हिगृ २, ४, १^c; -^१वीनाम् काश्रौ ६, ४, ३; ९, ८, १४; आपश्रौ; -^१वीभ्यः आपश्रौ ३, ११, २^d; वीश्रौ १, २१ : १३; भाश्रौ ३, १०, २; वाश्रौ १, ३, ७, २०; हिश्रौ २, ६, १; कौस् ५, १३^d; -वीम् काश्रौ ७, ४, २७; आपश्रौ; चाश्च १४ : ०; -व्या शाश्रौ १७, १५, ११; चाश्च १४ : २.

दैवी-जगती^e-

-त्यः अश्च १५, ४; १९, २२; २३; -ल्यौ अश्च ११, ३(२^e).

दैवी-त्रिष्टुम्^f-

-ष्टुभः अश्च ११, ३(२); १९, २२; २३.

दै, दे^१वीं-धिय^g-

(> दै, दे^१वीं-धियक- पा.) पाग ५, २, ६२.

दैवी-पङ्क्ति^h-

-ङ्क्तयः अश्च ११, ३(२); १९, २२; २३.

दैवी-पुत्रⁱ- -त्रः

विध २४, ३०.

दैवी-सुत^j- -तः

वैगृ ३, १ : १४.

दैव-कर्म-विद्- -विदौ

अप २, १, ४.

दैव-कृत- -तः अप ७१,

१९, १; -ते वैगृ ५, १ : १७.

दैव-चिन्तक- -कैः अप

७१, १८, २.

दैव-ज्ञ^१- -ज्ञम् अप ५,

५, ४; ६५, २, ८; -ज्ञाः अप ५१, ४, २.

दैवज्ञ-विधि-चो-

दित- -तम् शंघ १००.

दैव-तीर्था(थे-अ)भिगम-

न- -नम् शंघ १२.

दैव-त्व- -त्वम् कौशि

५२.

दैव-पिण्या(त्र्य-आ)तिथे-

य- -यानि विध २६, ७.

दैव-पूर्व^१- -र्वम् गौपि २,

२, १८; अप २, ८, ६; विध ७४, १^२.

दैव-पैत्र- -त्रयोः शंघ

७३.

दैव-मानुष-क^k- -कम्

विध ९५, १६.

दैव-राजो(ज-उ)पघात-

-तात् विध ६, ६.

दैवा(व-अ)नुबन्ध-

-न्धम् वैगृ ३, १० : ३.

दैवा(व-आ)वृध^१- -वृत्

वैताश्रौ ९, ८; १४.

दैवो(व-उ)त्पात-चिन्त-

क- -काः गौध ११, १७.

दैवो(व-उ)पघात- -तात्

विध ५, १५६; -तान् विध ३, ६८; -तानाम् आग्रिय २, ५, १ :

५१.

दैवो(व-उ)पसर्ग- -र्गाः

अप २, ३, ३.

दैवो(व-उ)पसृष्ट- -ष्टे अप

१, ७, ६.

दैवक- पा ४, ३, ११८.

दैविक^m- -कम् वैश्रौ १, ४ :

१०; वैगृ १, ५ : ८; कप्र २, ८,

१०; अप २३, ५, ३; -के वैगृ १,

६ : ७; ८ : ९; ६, १ : १०; -केन

वैगृ ६, २ : ११.

दैविक-पैतृक- -काणि वैगृ

६, ४ : ४.

दैविक-वत् वैश्रौ १, ४ :

७; वैगृ २, १ : ४; ६, २ : १२.

दैव्य, व्याⁿ -ऽपावा ४, १,

८५; २, ५८; -व्यः काश्रौ ३, २,

७; आपश्रौ ४, १६, ४^o; भाश्रौ

६, ३, ७^o; हिश्रौ ६, ६, १७^o; हिगृ

१, १०, ४^p; -व्यम् आश्रौ ४, ७,

५; शाश्रौ; आपश्रौ ३, १८, ४;

५, ८, १^qxx; वीश्रौ; -व्यस्य

आश्रौ ४, ११, ६; वीश्रु ८ : ८;

-व्या आश्रौ २, १६, ९; १२;

९, ११, १९; शाश्रौ; या ८, १२;

-व्याः आश्रौ १, ७, ७; ३, ३, १;

शाश्रौ; -०व्याः माश्रौ ५, २, ८,

२२; वैश्रौ ६, १२ : १०; -व्याम्

ऽभाश्रौ १०, १, १०; २, १;

-व्याय काश्रौ २, ३, ३८;

आपश्रौ; -व्यासः आश्रौ ५, ६,

१^r; ७^r; ११^r; -व्ये आश्रौ ४,

a) दैवीम् इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. तैत्रा १०, ४१, १; C. च] । b) = गायत्री-विशेष- ।
 c) पाभे. वैप १, १६१२ k द्र. । d) पाभे. वैप १, १६०८ h द्र. । e) = छन्दो-विशेष- । f) तु. पाका. । दे^o
 इति भारडा. प्रस्. ? । g) <दैवीं धियम् (मा. ४, ११) इति । h) पू. = [दैवविवाह-परिणीता-] स्त्री- ।
 i) = ज्योतिर्-विद्- । j) विप. । वस. । k) 'षज- इति जीसं. । l) = कर्म-विशेष- [तु. ZDMG ५३, २२६] ।
 m) तस्येदमीयष् ठक् प्र. । n) यन्व्यौ प्र. । वैप १ द्र. । o) पाभे. वैप १, १५७८ b द्र. । p) पाभे.
 पृ १२६२ v द्र. । q) पाभे. वैप २, ३खं. दैव्यम् तैत्रा १, २, १, १५ टि. द्र. ।

११, ६; आपश्रौ; -व्येन आपश्रौ
४, ६, ४; ७, २; वौश्रौ; या ५,
१४; ८, १८; -व्यै; आपश्रौ ६,
१, ६; वौश्रौ; -ऽन्यौ ऋञ्च २,
१, १३; वृदे २, १४९; ३, ११२;
या ७, ३०; ८, १२३; -व्यौ शाश्रौ
७, १०, १२.

दैन्यो(व्य-उ)पसृष्ट- -ष्टेन
अप ७२, ५, ४.

†देव-ऋषि- -षिभ्यः शांगृ ६, ६,
१६; -पीनु आश्रित्य २, ६, २; ३६.
देव-ऋषि-पितृ-मनुष्य- -प्येभ्यः
शांगृ ६, ६, १६.

देवऋषिपितृमनुष्य-पूजिन्-
-जो वैध १, ७, ३.

देव(क>)का^१- , विक्रा^१-
पाठभो २, २, ७^०; पावा ७,
३, ४५^०; -विकाः आपश्रौ १३,
२४, ५^१; २४, १२, ३; वौश्रौ
१४, १९; १^१; २१, २६; १५;
माशि १२७^१; -विकाभिः माश्रौ
३, ३, ४, ५०; -विकासु माश्रौ ५,
२, ७, ११.

दाविक- पा ७, ३, १.

२दैविक- -कानि हिश्रौ
९, ६, १७.

देविका(का-आ)दि- -दिषु
पावा ७, ३, १.

देविका-प्रभृति- -तिभिः
वाश्रौ ३, ४, ५, ३२.

देविका-हविस्- -विभिः
वौश्रौ १०, ५९; २१; १२, २०:

२६xx; -विषा वैताश्रौ २४,
१३^१; -विषाम् वौश्रौ २१,
२६; १२; २२, १२; १३xx;
माश्रौ; -वींषि आश्रौ ६, १४,
१५; शांश्रौ ९, २८, १; काश्रौ.
देव-कर्मन्- -र्माणि शाश्रौ १, १,
६; १३.

†देव-का(म>)मा- -मा^१
आपभं १, १, ४; पागृ.

देव-कार्य- -र्याणि आश्रयो २, ५.
†देव-किल्बिष- -षात्^१ आपश्रौ
७, २१, ६; वौश्रौ ४, ७; २५;
माश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ ४, ४,
४४; द्राश्रौ ४, २, २; लाश्रौ २,
२, ११^१६.

देवकीय- पागवा ४, २, १३८.

देव-कुल- -ले कौगृ २, ७, २१;
शांगृ २, १२, ६; कागृ १९, ३;
अप ७०^२, २३, ११.

देवकुला(ल-आ)यतन- -नानि
कौगृ ३, ११, १५.

देव-कृत^१- -तम् आश्रौ १, ७,
७^१; शांश्रौ १, १२, १^१;
वौश्रौ; -^१तस्य आश्रौ ६, १२, ३;
शांश्रौ.

देव-खात^१- -ते अप ४२, १, २;
वैध २, १३, ८^१; -तेषु शंघ
१००^२.

†देव-ना^१- -गम् कौसृ ७३, १८.

देव-नाण^१- -णः साञ्च १, ५२४;
या ११, १९; १२, ४१; -णाः
मागृ २, १३, ६^१५; अप २२,

७, ३; वृदे ६, १५६; साञ्च १,
४४५; या २, २२; ५, ४xx;
-णान् वृदे ४, ३६; -णानाम्
शांश्रौ १४, ७२, ४; आश्रित्य १,
२, २; १२; हिगृ २, १९, १;
-णेभ्यः निसृ ७, १; ११; -णैः
अप ३१, १, ३.

देव-गत- -तम् या १०, २८.

†देव-गन्धर्व^१- -र्वः आश्रित्य १,
५, ४; ४१^१; भागृ १, १७;
१५^१; हिगृ १, २४, ६^१; ऋञ्च
२, १०, १३९; शुञ्च २, १, २२;
-र्वौ वौगृ १, ४, ५^१.

२देव-गन्धर्व- -र्वाः आपघ १,
२०, ६^१; -र्वैः अप १४, १,
१०.

देव-गन्धर्व-यक्ष- -क्षाः अप
६८, १, ४९.

देव-गम- -मम् वौध २, ८,
१६.

देव-नाव^१- -वाः आपश्रौ ११, ७,
६^१.

देवगवी- -वीः आपश्रौ ४,
१०, ४; माश्रौ ४, १५, २; वैश्रौ
६, १२; ७; हिश्रौ ६, ३, २;
-वीभिः गो २, २५; -व्यः
गो १, १४.

देव-गुरु^१- -रुम् अप १, ३८, १;
अशां ८, १; -रोः वृदे ६, ११३;
आश्रयो ८, ६.

देव-गुरु-धार्मिक- -केभ्यः गौघ
९, ६४.

a) वैप १, १६१६ b, c द्र. 1 b) = अपसरो-विशेष- वा नदी-विशेष- वा । c) तु. पागम. 1

d) पाठः ? वींषि इति शोषः (तु. शांश्रौ. c. च) । e) पामे. वैप १, १६१६ f द्र. 1 f) पामे. वैप

१, १६१६ j द्र. 1 g) एव किं इति पाठः ? यनि. शोषः । h) वैप १ द्र. 1 i) पामे. वैप १, १६१६ m द्र. 1

j) = प्राकृतिक-जलाशय- । k) तु. BI. 1 देवा^१ इति रक्षा. । l) उप. <√गम् । m) पामे. वैप १,

१६२८ a द्र. 1 n) क्त. (तु. ऋ १०, १३९, ५ दिव्यः गन्धर्वः) । o) सपा. र्वः <> वीं इति पामे. 1

p) पामे. पृ १२६० c^१ द्र. q) = बृहस्पति- ।

देव-गुरु-विप्र-घृत-क्षीर-दधि-
मृत्-तोय-समिद्-दर्भा(र्भ-अ)ग्नि-
वनस्पति- -तीन् वैध ३, १,
१५.

देव-गुरु-स्नातक-दीक्षित-राज-
गो-श्रेष्ठ- -घानाम् वैध ३, २,
११.

देव-गृह- -हम् आग्नि २, ६,
२ : ३; वौध २, ५, २; -हे
आग्नि २, ६, ४ : ३३; ७, ११ :
६; ३, ११, ४ : ३; वाध ६,
१७; १०, १३; -हेषु अप ७२,
४, ४.

देवगृह-प्रतिश्रयो(य-उ)घाना-
(न-आ)राम-सभा-प्रपा-तटाक-
-1, ङाग^१-पुण्यसेतु-सुत-विक्रय-
-यम् शंघ ४१६; ४४७.

देवगृह-मार्जन- -नात् विध
२१, १८^b.

देव-गो(प>)पा^०- -पा या
११, ४६; अप्रा २, २, १५^d.

देव-गो-विप्रा(प्र-अ)ग्नि- -ग्नीन्
वैध ३, ३, ५.

देव-गम, मा^०- -सम् आपश्रौ
१, ५, ३; ४; वौश्रौ; -माम् आपश्रौ
२, ८, ७; शांश्रौ १, १३, ४;
-मायाम् आपश्रौ १, ९, ५; शांश्रौ
१, १४, १६.

देव-वोदित- -ताः अप ७०^२,
७, २.

देव-छन्दस्- -न्दसाम् वाधूश्रौ
४, १०० : ४; -न्दांसि निस् १,
६ : ११.

देव-च्छन्दस^०- -सानि वाधूश्रौ
४, १०० : ३.

देव-जन^०- -र्नाः कौसू ६६, १६;
अथ ९, ७; १५, ३; -नेन अप
१०, १, १९^१; -नेभ्यः गो ४,
८, ३; द्रा ३, २, १०; कौसू
७३, ५^१.

देव-जा^०- -जाः या १४, १९^१.
देव-जात्, ता^०- -तस्य या ९,
३; -ता^० अप ३२, १, २४; अशां
१९, १; -ताय वौश्रौ ६, १६ :
१३.

देव-जातु^१- -त्वे आपमं २,
२१, ६; ७.

देव-जामि- -मयः^१ अथ २, १०,
१५३; साअ १, १२०; १७५; अथ
२०, ९३; -मिभ्यः कौसू ७४,
१०^१.

देव-जुत्, ता^०- -तम् आश्रौ ७,
१, १३; या १०, २८; -ता
आपश्रौ ६, २०, २^०.

देव-जूति^०- -पाग ६, २, ४२;
-र्तिः^१ वौश्रौ ३, ३ : १९;
हिश्रौ ३, ६, २७.

देव-तम- -मः आपश्रौ १३,
४, २; १६, ३५, १; वौश्रौ ८, ३ :
१३; वैश्रौ १९, १ : ९; हिश्रौ
९, १, ३४; ११, ८, २१.

देव-तपण-पूर्वक- -कम् अप
३८, ३, ८.

देव-तस् (:) वाधूश्रौ २, ८ :
३; वाश्रौ १, ३, ७, २०.

देव-ता^०- -पा ५, ४, २७; पाग

५, ४, ३८; -तया ऋश्रौ १,
३, २२; २, ३, २५; काश्रौ;
मीसू ८, ३, २; -तयोः वौश्रौ
१८, ३८ : ९; -ता ऋश्रौ १,
४, १०; ४, ६, ३; शांश्रौ; या १,
१७^१; २, ८; ७, १५; २३;
१०, १७; पा ४, २, २४; -ताः
आश्रौ १, ३, ६; ५, २४××;
शांश्रौ; आ ३, ५, २१^१;
या २, ८; ७, ५××; -तानाम्
आश्रौ ३, ४, १५; ४, २, ३;
शांश्रौ; आपमं १, ४, ७^१; आ ४,
१३, ६^१; पा १, ५, ११^१;
आग्नि १, ५, २ : ५०^१; हि १,
१९, ७^१; आपथ १, ३१,
५^१; या १, २०; २, १३××;
-ताभिः शांश्रौ १, १६, ७; १५,
१४, ६; आपश्रौ; या ११, १२;
-ताभ्यः शांश्रौ ६, २, २; १४,
५७, २०; आपश्रौ; मा २, १२,
६^१; हि १, ६, ५^१; -ताम्
आश्रौ १, ३, २०; ६, ३××; काश्रौ;
या १३, १३; -तायाः आपश्रौ
१९, २१, ५; २४, ४, १; हिश्रौ;
या ७, ४; १३, १; -तायाम्
वाधूश्रौ ४, २८^१ : १; अथ १;
या ७, १; पावा ३, २, १३^५;
मीसू ६, ३, १९××; -तायाम् S-
तायाम् वौश्रौ २१, ८ : २३;
-तायै आश्रौ ३, १३, १४;
शांश्रौ; या ८, २२; -तासु आश्रौ
३, १०, १९; शांश्रौ १, १७,
५; ३, २०, १५; आपश्रौ १, १०,

a) प्रथमस्थलीयः पाठः । b) देवायतनमा^० इति जीसं. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १,
१६१७ e द्र. । e) पामे. वैप १, १६१७ p द्र. । f) विप. । वस. उप. भावे √जन् + दातुः प्र. उरसं.
[पाठ १, ७८] । g) = देव-स्वसु- [तु. सा.] । h) सपा. देवजामिभ्यः <> देवताभ्यः इति पामे. । i) पामे.
वैप १, १५७२ k द्र. । j) वैप १, १६१८ h द्र. । k) तद्दे^० इति जीसं. । l) पामे. वैप १ परि. देवतानाम्
खि २, ११, १ टि. द्र. । m) पामे. पृ १२६१ s द्र. । n) पामे. पृ १२६१ b^१ द्र. ।

६१^३; ऋश्रौ^३ ३, ११ : २१;
१९:१३××; भाश्रौ^३ १, ११^३;
हिश्रौ २, ७, ५०^३; या ८, २;
-ते आश्रौ ३, १३, १८; आपश्रौ;
-ऋंते काश्रु ३, ८; भाश्रु २,
२२ : ११; माश्रु १, २, १६.

दैवत^०- पा ५, ४, ३८;
पाग २, ४, ३१; -तः आज्यो
१४, ४; -तम् आश्रौ ३, २, ११;
५, १८, ९; काश्रौ; या १, २०;
७, १^२; १४, १; -तयोः निसू
६, ७ : ५; -तस्य आपश्रौ १६,
८, ४; वौश्रौ २५, २ : ११; २९,
३ : ११; हिश्रौ ११, २, १८;
-तात् आपश्रौ १४, १२, ४;
-तान् आमिश्रु २, ४, ११ : २०;
-तानाम् आपश्रौ ७, २४, ५;
माश्रौ १, ८, ५, २०; हिश्रौ ४,
५, ३; आमिश्रु २, ६, ५ : १८;
-तानि आपश्रौ ७, २२, ६××;
वौश्रौ; -ताय आपश्रौ १५, ३,
६; भाश्रौ ११, २, २७; वैश्रौ
१३, ४ : १; हिश्रौ २४, १, १६;
-ते आश्रौ २, १४, २४; शाश्रौ;
कौसू ६, ३४^०; -तेन आश्रौ ३,
७, ४××; शाश्रौ; या १, १७;
-तेभ्यः भाश्रौ २, १९, ४; माश्रौ
१, ३, ३, ३; हिश्रौ २, २, १३;
-तेषु आपश्रौ ७, २४, ६××;
वैश्रौ; -तैः माश्रौ १, ८, ५, २९;
माश्रु.

दैवत-ज्ञ- ज्ञः वृदे

१, २.

दैवत-प्रधानत्व-

-त्वात् आश्रौ ६, ७, ४.
दैवत-योनि^d- नयः
अप ६३, १, ४.
दैवत-विद्^०- -वित्
वृदे ८, १३९.

दैवत-सौविष्टकृतै (त-
ऐ)ड- डेषु आपश्रौ ९, १९, ९.

दैवत-सौविष्टकृतै (त-
ऐ)ड-चातुर्थाकारणिक- -कानाम्
आपश्रौ २, २१, ४.

दैवत्य^f- -त्ये द्राश्रु ३,
४, २७.

दैवत-लक्ष(ण>)णा^g-

-णाः आश्रौ २, १४, १८.

दैवता(ता-आ)ध्यान- -नम्
अप्रा २, १, १०.

दैवता-गण- -णैः अप १,
३७, ३; अशां ७, ३.

दैवता(ता-आ)गम- -मे
आश्रौ २, १, २२.

दैवता(ता-आ)गार- -रम्
वैश्रु १, ११, ७.

दैवता(ता-आ)ग्नि-शब्द-क्रि
या,(या>)य- -यम्^h मीसू ६,
३, १८; -याःⁱ काश्रौ १, ६, ६;
-याणाम्^j वैश्रौ २०, १ : ४.

दैवता-ज्ञान- -नम् कौसू
७३, १९; -नात् शुभ ४, १५८.

दैवता(ता-आ)णूक- -कम्
वौश्रु २, १, २८.

दैवता-तस(ः) शाश्रौ १, १६,
१५.

दैवता-तर्पण- -णम् शंघ
११०.

दैवता(ता-आ)तिथि- -यीन्
वाघ १४, १३.

दैवता(ता-आ)तिथि-भृत्य-
-त्यानाम् विघ ५९, २६.

दैवता(ता-आ)त्मन्- -त्मनः-
वृदे १, ३४.

दैवता-त्रय-त्र(त >)ती-
-त्यौ वैश्रौ ११, ३ : १०.

दैवता(ता-आ)दि- -दीनाम्
अप ६४, ५, ९.

दैवतादि-तस(ः) अश्रु १,
३; उनिस् २ : २४; पिं ३,
६२.

दैवता(ता-आ)देश- -शात्
काश्रौ ९, ६, १६.

दैवता(ता-आ)देशन- -नम्
शाश्रौ १, २, १९; आपश्रौ १०,
१, १४; हिश्रौ २, २, ४१; ३, ८,
६२; -नस्य आपश्रौ १०, ३०, ९.

दैवता-द्वन्द्व- -न्द्वानि शुभा
२, ४८; -न्द्वे अप ४८, १४८;
अप्रा ३, ४, २; शौच ४, ४९;
पा ६, २, १४१; ३, २६; ७, ३,
२१; पावा ६, ३, २५.

दैवता(ता-आ)धिकार- -रात्
उनिस् ७ : ३७.

?दैवता(ता-आ)ध्यात्म^k-
-त्मे या १, २०.

दैवता-नक्षत्रा(त्र-आ)दि-
-संबद्ध- -द्धम् शंघ २१.

दैवता(ता-आ)नपनय- -यः-
मीसू ११, २, ३२^k.

दैवता-नामन्- -म शाश्रौ
१, १७, १४; १५; या १, २०;-

a) पाठे. वैप १, १६२० a द. । b) विप., नाप. । c) उत्तरेण इतिना संधिः । तु. सपा. आश्रु १,
३, १० । d) विप. । वस. । e) उप. < √दिव् । ज्ञानि । f) स्वार्थे ष्यच् प्र. । g) पूष. छान्दसो हस्वः
। तु. भाष्यम् । h) समाहारे द्वस. । i) द्वस. । j) पाठः ? दै^० इति पाठः समुचितः (तु. त्क. RNM.) ।
k) 'ताऽपनय- इति गङ्गा. । 'तानय- इति जीसं.; द्रव्यदेवता^० इति शबरः प्रभृ. ।

-मानि वीश्रौ ६, ६ : ५.

देवतानाम-चोदना (न-
अ) र्थ- र्थस्य मीस् २, १,
१४.

देवतानामा(म-आ)देश-
शम् गोष्ट १, ७, ३.

देवता-नामधेय- -यम्
शाश्रौ १, १, ३७; हिश्रौ १०,
१, १८; -यस्य शाश्रौ ६, १,
१५; -यानि लाश्रौ ८, ९, १;
वृदे १, १७; या १०, ४२.

देवता-निगम- -माः आपश्रौ
२४, ४, १८.

देवता-निमित्त-त्व- -त्वात्
मीस् ३, ३, ४१.

देवता(ता-आ)लुपूर्व्य-
-र्च्यम् शाश्रौ ३, ७, ७.

देवता(ता-अ)न्त- -न्तात्
पा ५, ४, २४.

देवता(ता-अ)न्तर- -रम्
मीस् १०, १, १७; -रात् मीस् ३,
२, ४०; -रे अप्राय ४, १; मीस्
११, ४, ३२; -रेषु निस् ३,
१२ : २४.

देवता(ता-अ)न्तरय- -ये
आपश्रौ ९, १६, ९.

देवता(ता-अ)न्यत्व-
-त्वात् काश्रौ ५, १, ८; -त्वे
मीस् १०, ४, ४८.

देवता-पद- -दम् लाश्रौ
७, ५, १५.

देवता(ता-अ)पनय- -यस्य
मीस् ६, ५, १७.

देवता-पृथक्त्व- -त्वात्
मीस् ९, ३, ४५.

देवता-प्रतिमा- -मा अप

७०^३, २३, १.

देवता-प्रभृति- -तिना वीश्रौ
१७, ३७ : ४; -तिभिः वीश्रौ
१७, ३७ : ७; -तिभ्याम् वीश्रौ
१७, २२ : १०^b.

देवता-भाज्- -भाक् वाधूश्रौ
४, २६ : २५,

देवता-भाव- -वात् मीस् ५,
४, १९.

देवता(ता-अ)भिधान-
-नम् आपघ १, ३१, ४; हिघ
१, ८, २३; या १, २०.

देवताभिधान-त्व-
-त्वात् मीस् २, १, १३.

देवता(ता-अ)भिसुख- -खः
विघ १४, ३.

देवता(ता-अ)भिसंयोग-
-गात् मीस् ११, १, ५२.

देवता-भेद- -दे मीस् ११,
२, २४.

देवता(ता-अ)भ्यावर्तिन्-
-र्ति वीश्रौ २४, ६ : १.

†देवता-मय- -यम् आपश्रौ
१४, ३३, ८; हिश्रौ १५, ८, ४१;
अप्राय ६, १.

देवता-यजमान-पशु-वा-
चिन्- -चिनाम् माश्रौ ५, २,
९, १.

देवता(ता-आ)यतन- -नम्
कौष्ट १, १८, ४; -ने काष्ट १८,
३; अप ६८, ५, २०; वाघ ११,
३१; -नेषु अप ४, ६, ४; ६९,
७, ३; विघ ९१, १९; -नैः अप
७०^३, ९, ४.

देवतायतन-श्मशान-चतु-
प्पय-रथ्या- -थ्यासु विघ ३०,

१५.

देवता-याग-पूजन- -नम्
अप ६७, ८, ८.

देवता(ता-आ)राधन-
-नम् आमिष्ट २, ४, १० : १.

देवता(ता-अ)र्चा- -र्चाः
अप ७०^३, ८, ३; -र्चानाम् विघ
२३, ३४; -र्चाम् विघ ६३, २७;
-र्चयाम् विघ ६५, १; -र्चासु
अप ५८, ४, १.

देवता(ता-अ)र्चि- -र्चयः
अप ७२, ३, ११.

१देवता(ता-अ)र्थ- -र्थः मीस्
३, २, १३; -र्थम् मीस् १२, २,
१८^e.

देवतार्थ-त्व- -त्वात्
मीस् १२, २, ९; ४, १९.

२देवता(ता-अ)र्थ- -र्थे
आपघ १, ३, ४३; हिघ १, १,
११८.

देवता(ता-आ)र्षा(र्ष-अ)र्थ-
छन्दस्-तसः(ः) वृदे १, १४.

देवता-लिङ्ग- -ङ्गम् वृदे ८,
२१.

देवता(ता-अ)वकाश- -शे
वौष्ट २, ८, १६.

देवता-वत् वृदे १, ८१;
२, १३६; या २, २३^३; २७^३;
७, ४; मीस् ३, २, ४१.

देवता(ता-अ)वदान- -ने
अप्राय ४, १.

देवतावदान-याज्यानु-
वाक्या-हविर-मन्त्र-कर्म-विप-
र्यास- -से माश्रौ ३, १, ६.

देवता-वाचिन्- -चि माश्रौ
५, २, ९, ३.

a) समाहारे द्वस. उप. = पाद- [उ. निस् ३, ११ : १५; १९ पददेवतम् इति] । b) °ती° इति पाठः ?
यनि. शोधः । c) पस. उप. [= प्रतिमा-] कर्मणि कृत् । d) उप. = अर्चन- । e) विप. । चस. । f) पस. ।

देवता(ता-आ)वाहन- -नम्
वृदे १, ११९; -नात् आश्रौ
६, ६, १३; -नेषु वौश्रौ २७,
१:९.
देवता-विकार- -रः मीस्
१०, ४, २९; -रे शांश्रौ १, १६,
८.
देवता-विचार- -राः गोग्
३, १०, २.
देवता-विद्- -वित् वृदे ८,
१२४; १३१.
देवता-विपर्यास- -से काश्रौ
२५, ५, १८; वौग् ४, ११, १.
देवता-विभक्ति- -क्तयः
निसू ५, २ : ३.
देवता-शब्द- -द्वेषु आश्रौ
९, ७, २५.
देवता(ता-आ)श्रय^b- -यम्
माग् १, १८, २; गोग् २, १०,
२०; द्राग् २, १, ९; ४, १२;
-ये मीस् ६, २, २०.
देवता-श्रुति- -तिः मीस् ८,
१, ३४; ९, १, ९; -तेः काश्रौ
२५, ५, ५.
देवता(ता-अ)श्वाङ्ग- -ङ्गम्यः
काश्रौ २०, ८, ४.
देवता-सद्- -सद्भिः अप
६४, ३, ७.
देवता-संप्रदान- -ने पा २,
३, ६१.
देवता-सामान्य- -न्यम्
वौश्रौ २७, १४ : २६; -न्यात्
काश्रौ १६, १, ३६; मीस् ८,
२, १०; -न्येन द्विशौ ३, ८, २७.

देवता-स्विष्टकृत्- -कृद्भ्याम्
काश्रौ १४, २, १८.
देवता-होम-वर्जम् काग् ५१,
४; माग् २, ४, २.
देवते(ता-इ)ज्या- -ज्या
काश्रौ २५, ४, १४.
देवते(ता-इ)ष्टि- -ष्टिषु काश्रौ
१९, ६, ६.
देवतो(ता-उ)पदेशन- -नम्
आपश्रौ ७, १२, ९; २४, ३, १९.
देवतो(ता-उ)पपरीक्षा- -शा
या ७, १; ४.
देवतो (ता-उ) पलक्षणा-
(ण-अ)र्थ- -त्व- -त्वात् मीस्
१२, ४, ३.
देव-ताति^c- पा ४, ४, १४२;
-तये आश्रौ ७, ३, १९; शांश्रौ
१०, ५, १८; द्राश्रौ; -तता आश्रौ
९, ५, १६; आपश्रौ २४, १३, ३;
अप ४८, ९५; निघ ३, १७; या
१२, ४४; -तिम् अप्राय ६, ११;
-तौ या १२, ४४.
देव-तीर्थ^d- -थेन शंघ ११०.
देव-तुमुल^e- -लम् काग् ९, ७;
माग् १, ४, ६; वाग् ८, ६^{११}।
देव-त्रा आश्रौ २, १९, २४; ५,
१, ८; शांश्रौ; या ८, ६; २०; पा
५, ४, ५६.
देव-त्व- -त्वम् आश्रौ १०, ३,
१६; ११, २, ९; आपश्रौ; या ४,
१११; -त्वे विघ २०, ३५.
देव-दत्त^f- -त्तम् पावा २, ४,
३२.
देवदत्ति-> प्य(ति-अ)-

र्थ- -र्थम् पावा ४, १, १६३.
देवदत्त-शठ- (>द्वैदत्त-
शठिन्- पा.) पाग ४, ३, १०६.
देव-दत्त->द्वैदत्ति [क]>।
का- , की- पा.) पाग ४, २,
११६.
देव-दर्श^h- पाग ४, ३, १०६;
-शैः! अप २२, २, ३.
द्वैवदर्शिन्- पा ४, ३,
१०६.
द्वैवदर्शिन्ⁱ- -शिनाम् कौस्
८५, ७; -शी चव्यू ४ : २.
देव-दर्शन- (>द्वैवदर्शनिन्-)
देव-दर्श टि. द्र.
देव-दारु^k- -रु वृदे ७, ७८.
देव-दाल^l- (> एली- पा.)-
पाग ४, १, ४१.
देव-दास^m-> द्वैवदास- -स
वैघ ४, २, ५.
द्वैवदास-वत् वैघ ४, २, ५.
देव-देव- -व विघ ९८, ७;
-वः वृदे ३, ८८; -वम् विघ १,
४८, ९८, ५; -वस्य अप ४०,
२, ७; विघ ९९, १; वृदे १,
१०४; -वाः वृदे ३, १२६; -वे
विघ १, १९.
देवदेवे(व-ई)श- -श अप
६६, १, १.
देव-देवता->प्य- -स्यः वृदे
३, ११२; -त्यम् या ७, ४; -त्ये
गोग् ३, १०, २४; -त्येषु गोग्
४, ४, २२.
देव-द्रव्यो(व्य-उ)पजीवक-
-कः शंघ ३७६.

a) उप. <√दिव् [ज्ञाने]। b) विप.। लस.। c) वैप १ द्र.। d) = [करस्थ-] तीर्थ-विशेष-।
e) = अप्र-ध्वनि-। f) तुम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काग्. माग्.)। g) व्यप.। h) व्यप. (तु.
पागम.)। शंन- इति भाण्डो, पासि.। वेददर्श- इति वामनः (तु. पागम.)। i) प्रोक्ताध्वेत्त्रयस्य प्र. लुक् उत्सं.
(पा ४, ३, १०७)। j) = द्वैवदर्शिन्-। वृद्धभावः उत्सं. (पा ७, २, ११७)। k) = वृद्ध-विशेष-। l) तु. पागम.।

देव-द्रोणी^० - ण्याम् वाध १४, २५.
 देव-द्विज-गुरु- -रुन् सुधप ८७:
 ५.
 देव-धर्म- -मैण या ११, २३.
 देव-धि-> °द्वि-, देवद्य(द्वि-अ)
 च्, च्च्- पा ६, ३, ९२.
 †देव-नामन्^० - -मभिः वौश्रौ
 ९, ९ : ४; -मनः अप १, ४०, ४;
 अशां १०, ४.
 देव-निर्माल्या(ल्य-अ)पनयन-
 -नात् विध ९१, १७.
 देव-निर्मित- -†तः आगृ ४, ७,
 ८; आमिगृ ३, ३, १ : २८; वौपि
 २, ९, ६; ११, ३; गौपि २, ३, १८;
 -ताः अप ५५, १, २.
 देव-निश्रे(शि>)णी^० - णी जैगृ
 २, ८ : २६.
 देव-निश्चय(श>)णी^० - णी
 वौध ३, ९, १८.
 देव-नीति- पाग ६, २, ४२.
 देव-नीथ^० - -थम् वेताश्रौ ३२,
 २८.
 देवनीथा (थ-आ) द्वि-सं-
 (ज्ञ>)ज्ञा^० - -ज्ञा वृदे ८, १०१.
 देव-नृप- -पान् अप ५८^३, ४, १५.
 देव-प(ति>)त्नी^० - -लयः वृदे
 २, १२; ३, ९२; या १०, ४७;
 -लीः आपश्रौ २, ५, ७××;
 वौश्रौ; या १२, ४६†; -लीनाम्
 माश्रौ १, ३, ५; ४; वाश्रौ १, ३,
 ७, ६; वृदे २, १४३; चाअ १६:
 ७; -लीभ्यः आपश्रौ ३, ९, ६;

११; -ल्यः अप ४८, १३९†;
 वृदे २, ७८; ५, ४५; निध ५,
 ६†; या १२, ४४; ४६; -ल्याः
 भाश्रौ २, ५, ८; -ल्यौ या ११,
 २९; ३१.
 देवपत्नी-स्तव- -वः ऋअ २,
 ५, ४६.
 देव-पथ- पा, पाग ५, ३, १००.
 देवपथीय^१ - -यानाम् चाअ
 ४० : १९†; ४२ : १३.
 देव-पवित्र- -त्रम् वौश्रौ २७,
 १२ : ११; १२^२; १३; आपध
 २, ३, ९; हिध २, १, ४०.
 †देव-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १,
 १४, ३; -त्रे गौपि २, ३, १७.
 †देव-पात^० - -तः आश्रौ १, ३,
 ६; ४, ७, ४; शाश्रौ १, ४, २१; ५,
 १०, २३; वौपि १, ६ : २.
 देव-पितृ- -तरः अप ४३, ५,
 ४०; -तुन् शंघ ११९.
 देवपितृ-कर्मन्- -र्म विध
 ६६, १.
 देवपितृ-कार्य- -र्यम् शंघ ४०.
 देवपितृ-तर्पण- -णम् विध
 ६४, २४; २६.
 †देवपितृ-बर्हिस्^० - -०हिः
 वौश्रौ २५, ३ : २; वैश्रौ ९, ४ :
 ५; हिश्रौ ५, ४, ६.
 देवपितृ-यज(न>)नी-
 -०नि^१ आपश्रौ ८, १३, ६; हिश्रौ
 ५, ४, ६; -न्यै वौश्रौ २५, ३ : ३.
 देवपितृ-वत्- -वत् हिश्रौ
 ५, ४, ५.

देवपितृ-संयुक्त- -क्तानि वौध
 १, ५, १२.
 देवपितृ-सदा(दा-आ)हि-
 क^१ - -कः अप ४४, २, ४.
 देव-पितृ-नर- -रभ्यः शागृ २,
 १४, १९.
 देव-पितृ-भूत-मनुष्य(ष्य-ऋ)
 र्षि-पूजक- -कः वौध २, ११,
 १७.
 देव-पितृ-मनुष्य- -ष्यान् गौध
 ११, २९; -ष्येभ्यः वाध ९, १२.
 देवपितृमनुष्या (ष्य-अ)
 पार्थक^१ - -कम् काश्रौ १६, २,
 १३.
 देव-पितृ-मनुष्य-ऋषि-भूत-
 पूजक- -कः गौध ५, ३.
 देव-पितृ-मनुष्य-भूत-ब्रह्मन्-
 -ह्यणाम् गौध ८, १५.
 देवपितृमनुष्यभूतब्रह्म-यज्ञ-
 -ज्ञान् काध २७० : ३.
 देव-पितृ-मनुष्य-भूत(त-ऋ)र्षि-
 पूजक- -कः गौध ३, २९.
 देव-पितृ-मनुष्य-यज्ञ- -ज्ञाः
 गौध ५, ९.
 देव-पीयु^० - -युः अअ ५, १८†;
 -युम् या ४, २५.
 †देव-पु(त्र>)त्रा^१ - -त्रे आश्रौ
 १, ७, ७; शाश्रौ १, १२, १;
 आपश्रौ १०, ३, २; भाश्रौ १०,
 १३, ३.
 देव-पुर^० - -पुरः वाश्रौ १, २,
 १, ३३; -पुरम् वौश्रौ १५, १९:
 ६^१; -पुरा आपश्रौ २२, २४, १^म.

a) उप. = [स्नानार्थं कलशाकार-] पात्र-विशेष- । b) वैप १ द्र. । c) = सोपान- । परस्परं पाभे. ।
 d) = मन्त्र-विशेष- (=शौ २०, १३५, ६-१० [तु. ऐत्रा ६, २५]) । e) वस. > कस. । f) विप.
 (तारक-) । भवार्थे छ>ईयः प्र. । g) °थाणाम् इति पाठः? यनि. शोधः । h) पाभे. वैप १, १६२२ ५
 द्र. । i) पाभे. वैप १, १६२४ k द्र. । j) विप. । वस. । k) विप. । वस. । l) = देवयजन-? ।
 m) = दशरात्र- (तु. तां २२, १७, ३; ३) ।

देव-पुर, रा^a - रा आप्रश्नौ १४,
२६, १; अप्र ३२, १, १५^b;
अशां २४, १.

†देवपुरा(र-आ)दि^c -
-दिभिः अप्र १, ३७, ५; अशां
७, ५.

देवपुरीय^d - यः अप्र ३२,
१, १५.

देवपुरीय-नाण- -गः
अप्र ३२, १, १५.

देव-पूजा->°जा-संगतकरण-
-णयोः पावा १, ३, २५.

देवपूजा-संगतकरण-मित्रकरण-
पथिन्- -थिषु पावा १, ३, २५.

देव-पूजि(त>)ता- -ताम्
अशां १, २.

देव-पूर्व^e - -वान् विध २१, १२.
देव-प्रतिमा-भेदक- -कः विध
५, १७४.

देव-प्रतिष्ठा->°ष्ठा-विवाह-
-हयोः विध २२, ५३.

देव-प्रत्यक्ष- -क्षम् निस् ६, ७ :
३१.

देव-प्रवाद^f - -दाः भाश्रौ ८, १५,
७; -दे वैश्रौ ९, ४ : ३.

देवप्रवाद-मन्त्र- -न्त्रम्
हिश्रौ ५, ४, ५.

देव-प्रश्न- -श्नेभ्यः आप्रध २,
११, ३; हिध २, ४, १९.

देव-प्रसादन- -नेन अप्र १, ६,
१०; ७, २; ३.

देव-प्रहित- -तेन वृदे ३, ८६.

देव-प्रीत- -तम् या १०, २८.
†देव-प्रेरित^g - -तः^h आश्रौ ३,
१४, १३.

†देव-प्रेषित, ता- -तः^h आप्रश्नौ
९, १६, ११; भाश्रौ ९, १९, ८;
अप्राय ४, २; -ताः वौश्रौ २,
११ : ३.

देव-प्रेष्य- -ष्यम् अप्र ७०ⁱ,
१०, ६.

देव-वन्धु^j - -न्धुम् दंवि १, ११;
-न्धोः चाअ ३० : २०^k.

†देव-वर्हिस्^l - -र्हिः आप्रश्नौ १,
३, १२^l; ४, ८^l; वौश्रौ १, २ :
१०^l; १२^l; १३ : १७; ६,
३० : ६; भाश्रौ १, ३, १२^l;
४, १^l; वैश्रौ ३, ४ : ६^l; ९^l;
हिश्रौ १, २, ३२^l; ४१^l; ८, ४.

देव-ब्रह्मन्- -ह्रणोः पा १, २,
३८; पावा ६, २, ३२; ३८.

देव-ब्राह्मण- -णान् विध ३, ७६.

देवब्राह्मण-क्रोशक- -कः शंघ
३७७ : १.

देवब्राह्मण-लुष्ट- -ष्टम् वैश्रौ
१२, ४ : ३.

देवब्राह्मण-पूजन- -नम्
विध २, १७.

देवब्राह्मण-संस्थित- -तम्
शंघ ३००.

देवब्राह्मण-संनिधि- -धौ
विध ९, ३३.

देवब्राह्मण-संपन्न- -न्नम्
वाध ११, ४१.

देवब्राह्मण(ण-आ)क्रोशक^m -
-कः विध ४५, १५.

देवब्राह्मणा(ण-अ)पहारिन्-
-री शंघ ३७७ : ३.

देव-ब्राह्मण-गुरु-बभ्रु-दीक्षित-
-तानाम् विध ६३, ४०.

देव-ब्राह्मण-पितृ-भूत-मनुष्य-
यज्ञ- -ज्ञान् आमिष्ट २, ७, १० :
७.

देव-ब्राह्मण-शास्त्र-महात्मन्-
-त्मनाम् विध ७१, ८३.

†देव-भक्तⁿ - -क्तम् आप्रमं २,
११, २८.

†देव-भाग- -गम्^o आप्रश्नौ
१, २, ६; वौश्रौ १, १ : १२;
भाश्रौ १, २, १५.

२देव-भाग^h - -गः आश्रौ १२,
९, १८.

देव-भीति- -पाग ६, २, ४२.

देव-भूत-पति- -तिभ्यः शंघ
३३५.

देव-भूत-पितृ-ब्रह्म-मनुष्य-
-प्याणाम् कप्र २, ३, २.

†देव-भोजन^p - -नौ अप्र १, ४१,
३; अशां ११, ३.

देव-मत^q -> देवमति- -पाग २,
४, ६१; -तयः वौश्रौ ११ : ७.
देवमतायन- -पा २, ४,
६१.

देवमत्य^r - -त्याः वौश्रौ १२
३ : ११.

देव-मनुष्य^s - -प्याः जैगृ १,

a) वैप १ द्र. । b) =मन्त्रगण-विशेष- । °पुरीय- इति संस्कृतुः टि. शोघः ? । c) विप. । वस. पूष.
=देवता- इति संस्कृतुः टि. । d) =मन्त्रगण-विशेष- । तस्येदमर्थोयः छ>ईयः प्र. । e) विप. । वस. । f) वृत्स. (तु.
BI. आन.; वैतु. BC. पदद्वयम् ?) । g) सपा. °प्रेरितः <> °प्रेषितः इति पाभे. । h) = ऋषि-विशेष- । i) पाभे.
वैप १, १६२२ U द्र. । j) पाभे. वैप १, १५८७ II द्र. । k) °णक्रो इति जीसं. । l) व्यु. पाभे. च वैप १ द्र. ।
m) पाभे. वैप १, ३६२३ b द्र. । n) उत्स. उप. ऋण प्र. कुत्वं [पा ७, ३, ५३] च । o) विप. । उत्स. ।
p) व्यप. । व्यु. ? । q) यज् प्र. उत्सं. [पा ४, १, १०५] ।

१८ : १४; आपध २, १६, १;
हिघ २, ५, १; अत्र ८, १०(२)†;
-†प्याणाम् आपश्रौ १०, २०,
१०; वाधुश्रौ ४, १४^२ : ४; ६;
हिपि ३ : ६; गो २, ३४;
-†प्येभ्यः वौश्रौ ६, ५ : ३१;
हिश्रौ १८, ४, ४१; -प्येषु †जैगृ
१, १८ : ११; १२; १४; १५.

देवमनुष्य-स्थान- नेषु

या १, २०.

देव-मातृ- -ता या ४, २२;

-तृणाम् चात्र १४ : ५.

देवमातृ-गण- -णान् शंघ

११६ : २७.

देव-मानुष- -पस्य^a आमिष्ट १,
३, ३ : ८†.

दैवमानुष^b- -पस्य^a वौश्रौ

१७, ४० : २४; मागृ २, १९ :
१४.

देव-मित्र^c- > दैवमित्रि- >

दैवमित्रायण- पाग २, ४, ६१.

देव-मुनि^d- -निः ऋत्र २, १०,
१४६.

†देवमृणानिकाकुभ- -भौ अप
१, ४१, ३; अशां ११, ३.

√देवयत् > †देवयत्^e-

-यताम् वौश्रौ १०, ५२ : ८;

-यते वौश्रौ ४, ३ : १०; भाश्रौ

७, ४, ९; वाश्रौ २, १, ८, १६;

वैश्रौ १०, ५ : १३; हिश्रौ ४,

२, ११; -यद्भ्यः^f काश्रौ ३,

३, १२; वौश्रौ १, २१ : ७; ३,

२० : ६; माश्रौ १, ३, २, ७;

वाश्रौ १, ३, ७, २१; -यन्तः
आश्रौ २, ९, १४××; शाश्रौ;
या ८, १८.

†देवयन्ती- -न्ती वैश्रौ

१८, ५ : ११.

देवयु- पाठ १, ३७†; -यवः

अप ४८, ९६^g; निघ ३, १८^h;

नाशि २, ३, ११ⁱ; -यु लाश्रौ ७,

१२, ४†^j; -युः ऋप्रा ४, ४९†;

-युम् हिश्रौ १६, ४, ३५†^k;

-†युवम्^k आश्रौ १, ४, ११;

शाश्रौ १, ६, १६; वैश्रौ १५, ३७ :

८; -यूनाम् आपमं २, २०, ३२.

†देव-यज्^l- -यजम्^l काश्रौ २,

४, २६; आपश्रौ १, २२, २;

वौश्रौ; -यद्भ्यः^e शाश्रौ ४, ११,

१; काश्रौ ३, ३, १२.

देव-यजन^m- -नः मागृ २, १४,

२^m; -नम् शाश्रौ ५, २, १; १५,

१४, १; काश्रौ; माश्रौ १, २, ३,

३†ⁿ; -नस्य वौश्रौ १५, १ :

५××; भाश्रौ; -नात् आश्रौ ६,

१४, २३; आपश्रौ १०, २०, १०;

वौश्रौ; -नानि आपश्रौ १०, १९,

१७; भाश्रौ १०, १३, ६; माश्रौ

२, १, १, २; वैश्रौ १२, ४ : ८;

हिश्रौ १०, १, २८; -नाय मागृ

२, १४, २७†; -ने काश्रौ १५, ३,

३३; २२, १, ३५; आपश्रौ.

†देवयजनी- -०नि^o

काश्रौ २, ६, ९; आपश्रौ २, १, ५;

वौश्रौ; माश्रौ १, २, ४, १०; -न्थाः

हिश्रौ १, ६, ७९; -न्थै^o आपश्रौ

२, २, १; वौश्रौ १, ११ : १३;
भाश्रौ २, १, १३; वैश्रौ ४, ११ :
१८; हिश्रौ १, ६, ७८.

देवयजन-कल्प- -ल्पः, -ल्पम्

वौश्रौ २५, ५ : १.

देवयजन-देवता- > ^oत्य-

-त्यौ शुभ्र १, २३२.

देवयजन-भृ(त>)ता^p- -ता

लाश्रौ १०, १७, १०.

देवयजन-मात्र, त्रा- -त्रम्

आपश्रौ १०, २०, १०; वौश्रौः

-त्रा वैश्रौ १२, ४ : ४; -त्रात्

द्राश्रौ १, १, २१; लाश्रौ १, १,

१९.

देवयजनमात्र-देश-

-शम् काश्रौ ७, १, १२.

†देवयजन-वत्- -वान्

आपश्रौ १०, २, १०; वैश्रौ १२,

३ : ६; हिश्रौ १०, १, १३.

देवयजना(न-आ)दि- -दि

वैश्रौ २१, १० : ४.

देवयजना(न-अ)ध्यवसान-

-नम् आपश्रौ १०, १९, १५;

हिश्रौ १०, ३, १८.

देवयजना(न-अ)न्तर- -रम्

काश्रौ १५, ८, २.

देवयजनो(न-उ)ल्लेखन-

प्रभृति- -ति आमिष्ट २, २, १ :

३××; वौगृ.

देव-यजुस्- -जुपोः उनिस् ३:८.

१देव-यज्- -जः आगृ ३, १,

२; ३; आमिष्ट; -जम् आमिष्ट

२, ६, ७ : २; वौघ २, ६, २;

a) परस्परं पाभे. । b) स्वार्थे अण प्र. । c) व्यप. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, १६२३ p

द्र. । f) < १देव- + √या इति । g) = ऋत्विज्- । h) प्युवः इति लासं. । i) स्तोभतया निर्देशः ।

j) सपा. आपश्रौ २१, १२, ३ विशिष्टः पाभे. । k) पाभे. वैप १, १६२९ p द्र. । l) पाभे. वैप १, १६२४ f

द्र. । m) = विनायक-विशेष- [वैतुः भाष्यकृत अदेव इति] । n) पाभे. वैप १, १६२४ k द्र. । o) पाभे.

वैप १, १६२४ i द्र. । p) = सरस्वत्याख्या-नदी- ।

-ज्ञाय वैग् ३, ७ : ७; -ज्ञेन
आमिग् २, ६, ५ : १५; वौग् २,
९, १४; भाग् ३, १५ : २४^१.
२देव-यज्ञ^२ -> दैवयज्ञि^३ - पाग
२, ४, ६१.

दैवयज्ञी-; ज्ञ्या- पा
४, १, ८१.

दैवयज्ञायन- पा २, ४,
६१.

‡देव-य(ज्य>)ज्या^४ - ज्यया
आपश्रौ ४, ९, ९××; वौश्रौ;
-ज्या^५ आश्रौ ५, १, ८; या ६,
२२^६; -ज्याम् आश्रौ १, ९, ५;
शांश्रौ १, १४, १७; वौश्रौ २७,
७ : ५; -ज्यायाम्^६ आश्रौ १,
७, ७; शांश्रौ १, १२, १; -ज्यायै
आपश्रौ १, १६, १२; २, ४, २; ६,
१××; वौश्रौ १, ३ : ९; ६ :
१०; १० : ३××; भाश्रौ १,
१२, १××; माश्रौ; या ६, २२.
‡देव-यशस^७ - सेन वौश्रौ १४,
५ : १; ५.

‡देवयशसिन्^८ - स्ती वौश्रौ
१४, ५ : १; ६.

‡देव-या^९ - याः आश्रौ ६,
११, ११; या १२, ५^९.

देव-यात^{१०} - पाग ४, २, ५३^१;
-ताः^{११} वौश्रौप्र ४१ : १०.

दैवयातक^{१२} - पा ४, २, ५३.

देवयातव- (> †देवयातवक-)
देवयात- टि. द्र.

†देव-यान- (> देवयानक-)
देवयात- टि. द्र.

२देव-यान^{१३} - †नः शांश्रौ १५,
१७, १^१; आपश्रौ; -नम् हिश्रौ
१८, ४, ४६; -†नाः आपश्रौ
१३, २२, ५; वौश्रौ ४, ११ : १८;
माश्रौ २, ५, ५, २२; वाश्रौ १, ५,
५, ७; पाग् ३, १, २^१; वौय;
वौध २, ६, १३^१; -†नाः
आपश्रौ १६, १९, ८; माश्रौ;
-†नात् आपश्रौ २१, ४, १;
आमिग्; या ११, ७; -†नान्
आपश्रौ ४, ७, २; भाश्रौ; -†ने
शांश्रौ ६, १३, २; जैश्रौ १३ : ४;
-नेन वौश्रौ ८, ६ : १८^१; -†नैः
माश्रौ १, ८, ३, ३; २, ५, ५, २१;
वाधूश्रौ ३, ५५ : २; गौपि २, ५,
१४; अप४४, ४, १२; -नौ निस्
७, ४ : १८.

‡देवयानी- -नी
आपश्रौ १७, ४, ६; वैश्रौ १९, ४ :
२०; हिश्रौ १२, १, ३५; -नीः
वौश्रौ १४, २१ : १२.

‡देवयान-पितृयाण^{१४} - ङौ
शुभ्र २, ३९०.

देव-युग- -गम् या १२, ४१.

देव-योक्त्र- -क्त्रैः वाधूश्रौ ३,
५५ : २^१.

देव-योनि- -निः कप्र १, ७, ११;
अप २२, ६, २; ३.

†देव-न्य- -न्यः आश्रौ ६, ५,

३^१; -न्यम् वाधूश्रौ ३, १४ : २;
-न्यस्य जैश्रौ १७ : २०.

२देव-न्य^{१५} - (> दैवथायनि-
पा.) पाग ४, १, १५४.

देव-राज- (> दैवराजक-,
°जिका, °की- पा.) पाग ४,
२, ११६; ३, ११८^१.

देव-राजन्- -राजाम् निस् ७,
५ : ३२.

देव-राज-ध्वज- -जानाम् अप
७०^१, १४, २, ७१; १५, ९.

देव-राज-ब्राह्मण-सेसद्- -सदि
गौध १३, १४.

देव-राजा(ज-आ)यतन- -नेषु
शंघ ३१०.

देव-रात^{१६} - -तः †शांश्रौ १५,
२४, १; २७, १^२; ऋअ २, १,
२४; साअ १, १५; -ताः^{१७}
आपश्रौ २४, ९, १; हिश्रौ २१,
३, १२; -ताय, -तेन शांश्रौ १५,
२७, १^१.

‡दैवरात- -०त आश्रौ^{१८}
१२, १४, २; ५; आपश्रौ २४, ९,
२; वौश्रौप्र ३१ : १०; हिश्रौ
२१, ३, १२; वैध ४, १, ४.

दैवरात-न्वत् आपश्रौ २४,
९, २; वौश्रौप्र ३१ : १०; हिश्रौ
२१, ३, १२; वैध ४, १, ४.

दैवराता(त-अ)पर-नामन्^{१९} -
-मा अअ २०, ४५^१.

देव(व-ऋ)र्षि- -र्षिः वाअ १७ :

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) वैप १-द्र.। c) वैप १, १६२४ II द्र.। d) पाभे. वैप १,
१६२५ b द्र.। e) नाप., व्यप. (वौश्रौप्र.)। व्यु. ?। f) †देवयान- इति पाक्त. पासि., देवयातव- इति
पागम., दैवयातव- इति [पक्षे] पासि.। g) बहु. < दैवयाति-। h) = देश-विशेष-। i) पाभे. वैप २,
३खं सुशेवाः ऐत्रा ७, २३ टि. द्र.। j) पाभे. वैप १, १६२५ i द्र.। k) पुत्रया इति पाठः ? यनि. शोधः।
l) देव-, राजन्- इति केचित् (तु. पागम.)। m) वैप २, ३ खं. द्र.। n) बहु. < दैवरात-।
o) दे० इति पाठः ? यनि. शोधः L तु. आपश्रौ. प्रन्.।। p) = शुनःशेष-। q) देवतापर इति पाठः ?
यनि. शोधः।

१७; -धीणाम् चाञ्च १६ : ८;
४१ : १७; ४२ : १२; -वीन्
शंघ ११६ : ३१; वीध २, ५,
२७.

देव (व-ऋ)र्षि-नो-ब्राह्मणा(ण-
श्चा) चार्य-मातृ-पितृ-नरेन्द्र-
-न्द्राणाम् सुघ ८७ : ३.

देव (व-ऋ)र्षि-पितृ-ऋण-
-णानाम् विध ३७, २९.

देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-गण- -गेभ्यः
कौघ ३, १०, २१.

देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-तर्पण-
-गम् वीध २, ३, ४.

देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-पूजा(जा-
-अ)र्य- -र्यम् वृदे ४, १२६.

देव-लघ-वरा(र-आ)काश-
-शे अघ ५२, १६, ५.

देव-लाति- पाग ६, २, ४२.

देव-लोक- -कम् आपश्चौ २३,
१३, १०; वीश्रौ; या १४, ९;

-काः वाधूश्रौ ३, २ : ३; ४,
५४ : ९; -कात् या १४, ९;

-कान् वीध. ३, ७, १६१; -के
आपश्चौ १०, ५, ५; २३, ११,
१४; कौस् ४, १३.

देव-वत् काश्रौ ५, १०, १४;
२६, ४, ४; कप्र.

†देव-वत्- -वत्तः आपश्चौ १९,
१९, ८; वीश्रौ १३, १७ : ७;
माश्रौ ५, १, ६; ७; हिश्रौ २२,
३; ७; चाञ्च ४१ : १०^६.

†देववत्-तर- -रम् आपसं

२, २२, १०; भागृ २, २७ : ४.
†देव-वध- -धेभ्यः कौस् १४,
२५××; अघ.

देव-वर- -रः विध ९९, ६.

देववरा(र-अ)ग्रत-(स्थ >)

स्था- -स्था विध ९९, ७.

देव-वाज^b > देववाजेय^c - -यः
निसू २, २ : २१.

देव-वात्^d - -तः ऋञ्च २, ३,
२३; शुञ्च.

देव-वापि^e - (> णीय- पा.)
पाग ५, ३, ११६.

देव-विज्ञान- -नम् अञ्च ४, १६.

देव-विप्रा(प्र-अ)ग्निहोत्र- -त्रे
वीध ३, ३, २०.

देव-विश्- (> शा^f - पा.)
पाग ४, १, ४.

देव-विहित, ता- -तम् वाधूश्रौ
४, २६^२ : ३; -ताम् आमिगृ २,
६, ७ : ७.

देव-वी^g > वी-तम- -मः
वीश्रौ ९, ७ : ११.

†देव-वीति^h - -तये आश्रौ २,
१६, ७; ३, १३, १३; शाश्रौ;
-तिम्ⁱ आश्रौ ३, १३, १२;

वैश्रौ २०, २१ : १२; हिश्रौ २२,
२, १२.

देव-वृत्^j - -तः शाश्रौ ७, ९, ३१
देव-वैश्मन्- -श्मनाम् अघ ६४,
८, ४.

देव-वत्- पावाग ५, १, ९४;
-तानि लाश्रौ ९, २, १७; ९,

१४; वाध २८, १३; शंघ १०५.
देववतिन्- पावा ५, १,
९४; -ती शंघ १३३.

देव-शब्द- -दम् लाश्रौ ८,
९, ३; -दस्य वैश्रौ ९, ४ : ४.

देव-शर्मन्^k - पाग ४, १, ९६;
२, १३८^l.

देवशर्मि- पा ४, १, ९६.

देवशर्मिय- पा ४, २,

१३८.

देवशर्मिय- पा ४, २, १३८.

देव-शुनी- -नी या ११, २५;
-नीम् ऋञ्च २, १०, १०८.

देव-शेष- -षम् वैगृ २, २ : १४.

देव-श्रवस्^m - -वाः ऋञ्च २, ३,
२३; १०, १७; शुञ्च.

†देवश्रवस- -स आश्रौ

१२, १४, ३; आपश्चौ २४, ९, ३;
वीश्रौप्र ३३ : २; वैध ४, १, ६.

†देवश्रवस-वत् वीश्रौप्र ३३ :

३; वैध ४, १, ६.

†देवश्रवस् >) वी-वत्

आपश्चौ २४, ९, ३.

†देव-श्रुत्ⁿ - -श्रुत् माश्रौ २,
१, १, २४^o; -श्रुतः आपश्चौ १२,
९, १; वीश्रौ ७, ५ : ३; वैश्रौ

१५, ८ : ९; हिश्रौ ८, १, ८९;
मैञ्च १६; -श्रुतम् या २, १२१^p;

-श्रुतौ काश्रौ ८, ३, २८; आपश्चौ
६, २०, २^q; माश्रौ.

†देव-श्रु^r - -श्रुः^m आपश्चौ १०,
५, ८; वीश्रौ.

a) ष्यतः इति पाठः ? यनि. शोषः [तु. काठ ११, १२। b) = ऋषि-विशेष-। c) अपत्यायं

द्वक् प्र. उस्. [पा ४, १, १२३। d) वैप १, १६२६ k द्र.। e) = आयुधजीविसंघ-विशेष-। वु. ?। f) वैप

१, १६२६ p द्र.। g) वैप १ द्र.। h) पाभे. वैप १, १६२७ ० द्र.। i) तु. पाका. पासि.।

देवशर्मि-इति भाण्डा.। j) पाभे. वैप-१, १६३७ p द्र.। k) पाभे. वैप १ भद्रश्रुतौ शौ १६, २, ४ टि. द्र.।

l) नाप. (नापित-)। वैप २, ३खं द्र.। m) = सपा. तै १, २, १, १। मै ३, ६, ३ तु देवश्रुत् इति पाभे.।

शिष्टं वैप १, परि. द्र.।

देव-संयुक्त- -क्ताः आपश्चौ ८,
१३, ६; -क्तानि आपगृ १, १६;
वौगृ १, ३, ७.
†देव-संसद्- -सदम् आपश्चौ
४, १, ९; भाश्चौ ४, २, १; हिश्चौ
१, २, ५.
†देव-सख^b- -ख आश्चौ १०,
९, २; शाश्चौ १६, ६, १; लाश्चौ
९, १०, ९; वैताश्चौ ३७, १.
देव-सख्य- -ख्ये या १, २०.
देव-सत्र- -त्रे सु २, २.
†देव-सदन^b- -नः अत्र ६, ९५;
१९, ३९; -नम् आपश्चौ १, ३,
११; भाश्चौ.
देव-सम- -मः वामिगृ ३, ९, ३;
१५; वौषि २, ७, १४.
देव-साक्ष्य- -क्ष्ये निस् ३, ८ :
२१.
देव-सामन्- -म निस् ७, १२ :
१४.
देव-सायुज्यक^c- -कः वैगृ ५, ८ :
३.
देव-सुतो(त-उ)प(मा >)म^c-
-मम् वृदे ३, १४४.
देव-सुमति^b- -तिम् या २,
११††^d.
देव-सुरभि- -भिभिः लाश्चौ
१०, ४, १०.
देव-सू^b- -सुवः आपश्चौ २४,
१२, ३; वौश्चौ १०, ५६ : ४††;
-सुवाम् आपश्चौ १३, २४, ८××;
वौश्चौ; -सुवौ चात्र १५ : ६;
-सुनाम् आश्चौ ४, ११, ५;
-सुभिः वाश्चौ ३, ३, ४, ५०;

-सुम्यः शाश्चौ ९, २६, १; -स्वः
वाश्चौ ३, ३, १, ६०; ४, १,
५६; -त्वाम् वाश्चौ २, २, ४,
२४.
देवसू-देविका-हविस्-
-वीषि काश्चौ ४, ५, १०.
देवसू-वव काश्चौ १५, ५,
३३.
देवसू-हविस्- -वीषि काश्चौ
१५, ४, ४; २२, ५, १२.
देव-सुति- पाग ६, २, ४२.
देव-सृष्ट- -ष्टः कौस् १२२, २††;
-ष्टम् अप १, ६, १०; ७, ५.
देव-सेना^b- -ना कप्र १, १,
११†; -†नाः भागृ २, ९ : १६;
हिगृ; -†नाः आपमं २, १८,
४०; ४१; भागृ २, ९ : १५;
हिगृ २, ९, ३; -†नाम्यः आपमं
२, १८, ४०; ४१; आपगृ २०,
५; भागृ.
देवसेना-विजय- -याच अत्र
५, २१.
देव-सोम- -मस्य जैश्रौका
१११; १६२.
देव-स्त्री- -स्त्रीणाम् अप ७०†,
१०, ६.
देव-स्थान^c- -नम् निस् ७, ४ :
४७; ५ : ३२; -ने लाश्चौ ७, ५,
१२; अप ७१, १९, २†.
देव-स्पृति- -त्यः अप्राय २, ९.
देवस्यत्वा (>त्वक- पा.) पाग
५, २, ६२.
देव-हय-शिरोध(रा >)र^f-
-रम् दंवि १, १.

†देव-हविस्^b- -०विः आपश्चौ
७, १३, ८; वौश्चौ ४, ५ : १७;
भाश्चौ ७, १०, ७; नाश्चौ.
†देव-हित^b- -तम् आश्चौ ३,
९, ४; ८, ३, १; शाश्चौ.
†देव-हू^b- पाग ४, १, १०५†;
-हूः आपश्चौ १२, २७, ११;
वौश्चौ.
देवहृत्- पा ४, १, १०५.
†देवहू-तम- -मः काश्चौ ५,
१३, ३; -मम् वौश्चौ १, ४ :
३०; ५ : ११; -मात् शाश्चौ
१०, ४, २; आपश्चौ १६, २६,
१३××; वौश्चौ.
†देव-हृति- पाग ६, २, ४२†;
-तयः या ५, २५†; -तिम्
शाश्चौ ८, १६, १; १९, १; २०, १;
आमिगृ ३, ७, १ : १९†; -त्वा
वायुश्चौ ४, २८ : २†; -त्वाम्^f
शाश्चौ ४, १०, ३; आपश्चौ १६,
१, ३; पागृ १, ५, १०; आमिगृ
१, ५, २ : ३५.
देव-हृय^b- पा ३, १, १२३.
देव-हेड(,ल^g)न^b- -नः अपं २ :
४४†; -†नम् आश्चौ ३, १३,
१८; आपश्चौ; आमिगृ २,
४, ४ : ९; १८; ७, ५ : ७;
वौगृ २, ९, ५; वौष ३, ७, ११;
१४; -नस्य वैताश्चौ २३, १२;
-नेन कौस् ४६, ३० : ६०, ७.
देव-हेति^b- -तिः अत्र १२, ५(४)
देवा(व-अ)नार- -रम् आमिगृ.
३, ११, २ : १९; -रे नागृ १,
७, १०; विध ६८, ४७.

a) वैप २, ३३. द्र. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । वस. । d) = षोडशमातृकाऽन्यतमा- ।
e) = सामन्- । f) = मन्दिर- । g) विप. । कस. > वस. उप. = ग्रीवा- । h) = अपि-विशेष- । i) पामे. वैप २,
३३. तैवा ६, १०, २. टि. द्र. । इह ण्तिः इति शोधः (तु. पामे.) । j) ष्टूत्या इति संस्कृतः टि. । k) पामे. वैप १,
१६२९ ० द्र. । l) आमिगृ. वौगृ. वौष. पाठः ।

?देवाग्नेष्वग्ने^a हिश्रौ ३,८,५४.
 देवा(व-अ)च्- > ऋदेवाची^b-
 -च्या निघ ४,३; या ६,८६.
 देवा(व-अ)तिथि^{c,d}- -थिः ऋअ
 २, ८,४; साअ.
 देवातिथि^e- -थम् लाश्रौ ७,
 २,११^f.
 देवा(व-आ)स्मन्^g- -स्मा कौस्
 ६५,१४१.
 देवा(व-आ)दि^h- -दयः आश्रौ
 १, ८, ३; -दीन् कप्र ३, ७,
 १७.
 देवादि-श्राद्ध- -द्धम् शंघ
 २०५.
 देवा(व-आ)दत- -तः अप ७०,
 ९,६.
 देवा(व-अ)द्भुत- -न्तेषु काग्य
 ७२,३.
 देवानां-शतरात्र- -त्रेण आपश्रौ
 २३,८,११; हिश्रौ १८,३,५.
 देवानां-प्रिय- पावा ६,३, २१^b;
 पावाग ५,३,१४^f.
 देवा(व-अ)नुग- -गान् कप्र २,
 २,३-८; शंघ १२,६ : ४९.
 देवा(व-अ)न्त^g- -न्तम् वैगृ २,
 २ : २१.
 देवा(व-आ)पि^h- -पिः आश्रौ
 २, १३, ८; ऋअ; या २,१०^g;
 १११^f; १२१^f; -पिम् वृदे ८,
 ३; या २,१०.
 देवापि-शन्तनु- -न्तु पाग २,
 २,३१^f.

देवा(व-आ)म्नात्- -ताः
 पाग २,१,५९^f.
 √देवाय पा ७,४,३८.
 ऋदेवायत्- -यते आपश्रौ^k
 ७,७,१; १६,३५,५; भाश्रौ ७,
 ५, ५^k; माश्रौ १, ७, ३, ४३^k;
 वाश्रौ ३,२,२,२८; हिश्रौ^k ४,
 २,१९; ११,८,२३; तैप्रा ३,२;
 -यद्भ्यः^l; -यद्भ्याम्^l माश्रौ
 ५,२,१३,१.
 देवायु^h- -युवम् आपश्रौ
 १२, २८, ११; १६; वौश्रौ ७,
 १८, ५××; माश्रौ २, ४, ३,
 ३^m.
 देवा(व-आ)यतन- -नानि शंघ
 ४,१२,१५; -न्ते वैगृ ४,११ :
 ११; १२ : १३.
 देवायतन-कारिन्- -री विध
 ९१,१०.
 देवायतन-श्मशान-शून्या-
 लय- -येषु विध ६९,७.
 देवा(व-अ)रि-त्रल- -सूदन-
 -०न विध १, ४९.
 देवा(व-अ)र्क-चन्द्र-ग्रह-नक्षत्र-
 तारा- -राः वैध ३,२,१०.
 देवा(व-आ)र्ष- -र्षम् शुअ १,
 ५८९; -र्षाणि शुअ १,५३५.
 देवा(व-अ)र्ह- -र्हाणि वैश्रौ ३,
 ५ : १३.
 देवा(व-आ)लय- -ये आसिग्य
 २,५,४ : २; वैध ३,२,८; ६, ६;
 -येषु विध ९९,१०.

दे(व>)वा-वत्- -वान् ऋप्रा
 ९,२४^f.
 देवा-वृध^d- -वृधम् काश्रौ ६,
 १,३३; वाश्रौ १, ६, १, ३^g;
 अप्राय-३,१०^f.
 देवा(व-अ)श्व- -श्वाः वौश्रौप्र
 १७ : १०; या १२,४४.
 देवा(व-अ)सुर- पाग ५,२,६१;
 -राः शाश्रौ १४, २३, १××;
 वौश्रौ; -राणाम् निसू १, ६ :
 २२; -ऋरान् वौश्रौ १४, १३ :
 ७; साशि १०५; -ऋरेभ्यः माग्य
 १,१०,१५; वाग्य १४, १३.
 देवासुर- पा ५,२,६१;
 पावाग ४,३,८८; १२५.
 देवासुर-च्छन्दस्- -न्दांसि
 निसू १,६ : १०.
 देवा(व-अ)सुर-प्रजापति-
 -तीनाम् उनिसू ३ : १.
 देवा(व-आ)हृत्ति^h- -तिः वौपि
 १,१७ : १८^f.
 देवा(व-आ)ह्वान- -नान् द्राश्रौ
 १,३,११; लाश्रौ १,३,४.
 देवे(व-इ)ज्या- -ज्या या १२,
 ५.
 ऋदेवे(व-इ)द्व- -द्वः आश्रौ १,
 ३,६; ५, ९, १२; शाश्रौ १,४,
 १९; ७,९,३; वौश्रौ ३,१८ : २;
 माश्रौ ५,१,४, १३; हिश्रौ २१,
 २,१०.
 देवे(व-ई)श- -०श अप ३१,
 १,२; विध १, ४६××; -शम्

a) पाठः ? । (हे देवापयः], अग्नेषु, अग्ने इति संनमनपूर्वकः शोचः (तु. तै १,१,५,१) । b) वैप १ द्र. ।
 c) = ऋपि-विशेष- । d) वैप २, ३खं. द्र. । e) = माम-विशेष- । तेनदृष्टीयः अण प्र. । f) दे० इति
 पाठः ? यनि शोचः । g) विप. । वस. । h) = देव-पशु- इति पागम., पू. = मूर्ख- इति कैयटः [पाग २,४,५६] ।
 i) = आशीर्वाचन- । j) तु. पागम. । k) पाभेः वैप १,१६२३ ० द्र. । l) यनि. ऊहप्रक्रियया < देवायते
 (भै १,२,१५) । m) पाभेः वैप १, १६२९ ० द्र. । n) = मृदम् इति पाठः ? यनि. शोचः [तु. मांश ११,
 ७,२,६] । o) = ऋपि-विशेष- । p) = देव-हृत्ति- । q) पाभेः वैप २,३खं. देवहृत्तिः तैत्रा ६,१०,२ टि. द्र. ।

अप ६६, २, २; -शाः शंष ४५७:
१५; -शाय वैष ३, १०, ३.
देवे(व-इ)षु^a - -षुः निस् ७, १ :
२३.
देवै(व-ए)नस^b - -सात् अत्र १०,
१.
देवो(व-उक् >)क्ता- -क्ताः
अत्र २०, १०७.
देवो(व-उ)चारण- -णेषु बौश्रौ
२७, १ : ७.
देवो(व-उ)पसृष्ट- -ष्टे अप ७२,
१, ३.
र^cदेव- (२विश्व-) -वाः (-श्वे)
आश्रौ २, ९, १३; १४, ५; १६,
१०; ४, १२, १; २^d; बौश्रौ ३,
१२ : १९××; अत्र २०, ९२^e;
-०वाः (-०श्वे) आश्रौ ३, ७, १०;
५, १८, १३; कौश्रु; -वानाम्
(-श्वेपाम्) वैश्रौ १५, २२ : १२;
-वासः (-श्वे) आश्रौ २, ९, १४;
शुअ १, ४७७.
देवन^b - -नस्य हिश्रौ १३, ५, ३३;
-नाः^f बौश्रौ ४५ : ६; -नात्
आगृ १, ५, ५; -ने या५, २२^g.
देवन-कर्मन्^h - -र्मणाम् या
१४, १३.
द्युत्, ता- पाग २, ४, ३१; -तम्
बौश्रौ २, ७ : ८^e; बौघ; -ता
बौश्रौ २, ९ : २६^h; -ते द्राश्रौ
१२, २, २२; लाश्रौ ४, १०, २३;
निघ ५, १३४.

द्युत्-निन्दा- -न्दा या ७, ३.
द्युत्-भूमि- -मिम् काश्रौ १५,
७, १३; -मौ काश्रौ १५, ७, १५.
द्युत्-विजय- -यम् विघ ७८,
४१.
द्युत्(त-अं)न्त- -न्ते काश्रौ १५,
६, २.
द्युत्(त-अ)श्रेष- -षयोः पा ३,
३, ३७.
द्यून- पा ८, २, ४९.
दिव्-, १, २दिव-, दिवस्-, दिवस-,
दिवा- प्रमृ. √दिव् द्र.
?दिविप्रकान्तेⁱ आमिष्ट ३, ५, १:१५.
दिवि-भाग- प्रमृ. √दिव् द्र.
दिविष्टि^b - -ष्टयः आश्रौ ७, १२, ७;
शांश्रौ ६, ६, ८^क; १०, ६, ६; -ष्टिषु
अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या
६, २२.
दिवि-ष्ट- प्रमृ. √दिव् द्र.
?दिवोऽछत्त अप्राय ६, ८.
दिवोद्दास^b - पावा ६, २, ९१; ३, २;
-सस्य चात्र ७, २.
दिवोदास^b - -स^d आश्रौ १२,
१०, १२; बौश्रौ ७ : ४;
-सम्^e द्राश्रौ ७, ४, ८; लाश्रौ
३, ४, ७; ६, १०, ११; निस् ७,
५ : ३५; ८, १ : ११; १३; -से
लाश्रौ ७, ५, १७.
दिवोदास-सुज्ञान- -नयोः
लाश्रौ ७, १०, ७.
दिवोदासि^b - -सिः ऋअ २, १,

१२७; ९, ९६; साअ.
दिवोदास-न्त् बौश्रौ ७ : ५.
दिव्य, व्या- प्रमृ. √दिव् द्र.
दिव्य^f - -व्यः ऋअ २, १०, १०७.
?दिव्यसा अत्र ४, १६.
दिव्यस्त्री- प्रमृ. √दिव् द्र.
√दिश^g १ पाधा. तुदा. उभ. अति-
सर्जने, दिदिदिद्व आमिष्ट २, १,
५ : १८; या ११, ३२^ककृ.
दिशामि आपमं १, १३, ५; ६;
बौघ ४, २, ११^क; मागृ २, ३१ :
११; १३; दिशत् मागृ २, १३,
६^क; दिशाताम् मागृ २, १३,
६^क; दिश आपमं १, ९, ९^क;
सु १५, ५; हिगृ १, १८, ५; या
११, ३२; दिशेत् अप २६, ५, ४;
दिदिदिश्यते शांश्रौ १२, २४, २;
लाश्रौ ९, १०, ६.
दिश^b - पा ३, २, ५९; पाग ४, १,
१२३^म; ३, ५४; ५, ४, १०७; दिक्
आश्रौ १०, १०, १०; शांश्रौ १६,
९, १८; २८, २; काश्रौ; या १, ७;
दिशु शांश्रौ ४, १२, ५^क××;
आपश्रौ; दिग्भिः बौश्रौ २, १० :
३^क; वाधुश्रौ; कौश्रु ३, १५, ५^क;
शांश्रु ३, १३, ५^क; या ११, ४०^क;
दिग्भ्यः आश्रौ २, ४, १३^क; शांश्रौ;
दिशः आश्रौ २, १३, ९××;
५, १३, १४^कक; शांश्रौ; आमिष्ट.
२, ६, ८ : ४८^क; मागृ १, २२,
२^कक; या २, १५^कक; ६, १; ११, १.

a) = एकाह- [याग-] । व्यु. ? । b) वैप १ द्र. । c) °वः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. लपा. ऋ ८, ६९, ११) । d) = ऋषि-विशेष- । e) पाभे. वैप १, ११०८८ द्र. । f) विप. । वस. । g) विप. ([द्युत्-निर्जित-] ओदन-) । h) विप. ([द्युत्निर्जिता-] गो-) । i) पाठः ? यदि, विप्रकान्ते इति शोघः (तु. बौषि १, १ : १३) । j) = साम-विशेष- । k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) या २, १५ परानृष्टः द्र. । m) तु. भाण्डा. पासि. । दिशा- इति पाका. । n) दिग्भ्यः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. शांश्रु.) । o) पाभे. वैप २, ३खं. युशः तैत्रा २, ४, ६, ७ टि. द्र. । p) उत्तरेण संधिरार्षः । q) पाभे. वैप २, ३खं. अयम् मंत्रा १, ६, १४ टि. द्र. ।

२८; पा ५, ३, १; ७, ३, १३; पि३,
५; दिशःऽदिशः फामा २, ३१;
७; ३२ : १३; हिग १, १८, ५^१;
अअ २, ३; दिशम् आश्रौ १, १२,
४×४; काश्रौ; वौश्रौ ४, ७:२७^७;
या १, ७; ऋप्रा १५, १; फदिशा
शाश्रौ ४, ११, ४^७; आपश्रौ १७,
७, ६; वौश्रौ; माश्रौ १, ४, ३, ८^७;
दिशाम् आश्रौ ४, १२, २^८;
शाश्रौ ४, ९, २^८; १२, २०, १;
१४, ८३, १; ८४, ६; आपश्रौ;
दिशि आश्रौ १, ११, ७^१; ८,
१४, १२; शाश्रौ; आपश्रौ ४, १४,
४^१, या ८, १२; दिशे वौश्रौ २०,
३०:११^१; २२, ९ : ७; ९; वौय;
दिशोः वैग १, ११ : ३; वौध
२, १, १४^१; दिशौ आपश्रौ ८,
१३, ५^१.

दिशा- पाग ४, १, ४^७;
१२३^१; -शाः भाश्रौ ११, ४, ५^१.
देशेय- पा ४, १, १२३.

दिक्-कुष्ठा- -छाम् माश्रौ १, ७,
६, ११.

दिक्-चन्द्रमस- -मसः अश्र ४,
३९.

दिक्-चारिन्- -रिणः अप ५२,
१, ३.

दिक्-पति- -तिभ्यः शंघ १३२^१;
-०ते विघ ९८, २५.

दिक्-पूर्व-पद- -दस्य पावा ५,
३, ३२; -दात् पा ४, २, १०७;
३, ६; पावा ४, १, ६०; ३, ४.

दिक्-प्रभृति- -ति शां ५,
२, ५.

दिक्-शब्द- -दाः पा ६, २,

१०३; -वेभ्यः पा ५, ३, २७;
पावा ६, ३, १०९.

दिक्-संयोग- -गः हिपि १३:८.

दिक्-संख्या- -ख्ये पा २, १,
५०.

दिक्-समास- -से पा १, १,
२८.

दिक्-समास-सहयोग- -गयोः
पावा २, २, २७.

दिक्-स्तोम- -माः आश्रौ ९,
८, २६.

दिक्-सक्ति- -क्तयः हिपि
१७ : १३; -क्ति काश्रौ २१,
३, २७; -क्तिम् हिपि १७ :
१२.

दिक्-जु-अ)तीका(श>)शा-
-शा वौश्रौ ६, १ : ११; २५,
५ : ९^३; -शाम् वौश्रौ १५,
१ : ११.

दिग्-अग्नि- -ग्नी काश्रौ १५,
२, ३.

दिग्-अनुग्रह- -हाय निस् ५,
७ : १९.

दिग्-अन्तर-देश- -शेभ्यः अश्र
४, ४०.

दिग्-अम्बर- -राः वैध १,
९, ५.

दिग्-आश्रय- -याणि या ११,
४१.

दिग्-ग्रह- -हाः अप ५२, १२, २.

दिग्-वो(<हो)म- -मम् वाश्रौ
३, २, ६, ५२.

दिग्-दाह- -हः अप ६८, ५,
१५; -हान् अप ५८, १, १;
-हे वैध २, १२, ३.

दिग्दाह-ज- -जम् अप ५८,
१, १३.

दिग्दाह-विद्युद्-उल्का-
-ल्काः अप ६८, १, १६.

दिग्दाहा(ह-आ)योग- -गम्
अप ५८, १, ४.

दिग्दाहो(ह-उ)पचूपन-
-नम् अप ७२, ३, ५.

दिग्-देव(ता>)त- -तानि
अप ४१, ५, ७.

दिग्-देवता- -ताः वैग १, ३ :
२२; ४ : ६; -तानाम् अप २५,
१, ४; -ताभ्यः गौध ५, १२.

दिग्देवत्य- -त्यम् वैग ६,
४ : १४; -त्यानि शुअ २, १९३.

दिग्-देश-काल- -लेपु पा ५, ३,
२७.

दिग्-युक्त- -क्ताभ्याम् कौस
१४, २५^१; ५०, १३.

दिग्-वासस्- -साः सुध ५१.

दिग्-विदिश- -दिक्षु अप २५,
२, ३.

दिग्-विभाग- -गः मीस् ३, ४,
१०; -गो अप २१, ४, ३.

दिग्-व्याघारण- -णम् काश्रौ
८, ८, ३०; पाग ३, ८, ९.

दिङ्-नाग- -गाः अप ६४, ९,
१०; -गान् शंघ ११६ : ३३.

दिङ्-नाद-> -द-पर्वत-प्रपात-
-तेषु वाध १३, ३५.

दिङ्-नामन्- -मानि निघ १,
६; २, २५; पा २, २, २६.

दिङ्-नियम- -मः कप्र १, १, ९.

दिङ्-मन्त्र- -न्त्रैः वाश्रौ १, १,
४, २०.

a) श इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाग २, ३१ : ७; Old. च) । b) दशम् इति पाठः ?

यनि. शोधः । c) पाभे. वैप १, १६३३ f द्र. । d) पाभे. पृ १२२५ l द्र. । e) तु. पागम. ।

f) पृ १२७६ m द्र. । g) विप. । वस. उप. = कोष्- (तु. ऐआ ५, १, २) । h) विप. । वस. । i) = दिक्कुष्ठा- ।

दिङ्-मुख^१- -खम्^२ आमिष्ट ३,
३, १ : २१.
दिशाम्-अवेष्टि^३- -ष्टिः वौश्रौ
१३, १ : १५; -ष्टिभिः माश्रौ ५,
२, ७, २३; वाश्रौ ३, ३, ४, ३१;
-ष्टीः शाश्रौ ९, २८, १६४;
-ष्टेः हिश्रौ १३, ३, ११; -ष्टया
आपश्रौ १८, २१, ६; २२, २५,
१३; वौश्रौ १२, १९ : १; १८,
५ : १६; ६ : १७; माश्रौ ५,
२, ७, २३; वाश्रौ.
दिशो-दण्ड- पावा ६, ३, २०.
दिश्य- पा ४, ३, ५४; -श्यः
कौसू १२७, २; -श्यस्य कौसू
१२७, ६; -श्याः आपमं २, १७,
८१; आश्रु २, १, ९१; हिश्रु २,
१६, ६१; कौसू ६६, ८; -श्यान्
कौसू ८, ३; ५१, ३; -श्यानाम्
शाश्रु ४, १५, १५; हिश्रु २, १६, ४;
-श्रैः आपश्रौ १४, १७, १;
हिश्रौ १५, ५, १.
दि(श्य >)श्या^४- -श्याः
काश्रौ १७, ९, २; आपश्रौ १७,
२, २; वौश्रौ.
दिशन्- -शान् आपश्रौ ४, १०, ४;
भाश्रौ ४, १५, ३; हिश्रौ ६, ३,
२; नाशि १, ६, १२४; -शान्ता
या ८, १२४.
दिष्ट- -ष्टः अप ७०^३, ६, ८; -ष्टम्
शाश्रौ १८, २३, ५; वाश्रुश्रौ ३,
४ : ७; ११ : ४; पा ४, ४,
६०^४; -ष्टे मीसू १०, २, ५५.
दैष्टिक- पा ४, ४, ६०.
दिष्ट-नामन- -नात् हिपि १३ :
१; २० : ६.

दिष्ट-शस्त्र^५- -स्त्रम् शाश्रौ १७,
८, ३.
दिष्टि^६- -ष्टिः वौश्रौ १७, १९ :
६१^५; -ष्टीः कौसू ५०, ७; -ष्टया
कौसू ५०, ५.
दिष्टि-कुदिष्टि-वितस्ति-निमुष्टय-
(ष्टि-अ)रत्ति-पद-प्रक्रम- -माः
कौसू ८५, २.
दिष्टि-वितस्ति- -स्त्योः पा ६,
२, ३१.
देश^६- -शः आपश्रौ २०, १३, ११;
हिश्रौ १, १, ६३; आश्रुः या ६,
३२; -शम् वैश्रौ १०, ३ : ४;
हिश्रौ १, ७, २०; शाश्रुः या १३,
३; -शस्य काश्रौ १५, ४, १७;
माश्रौ ४, ६, ३; हिश्रौ; -शाः
काश्रौ २६, ७, ८; अपः पा ३, ४,
७; -शात् आपश्रौ २, ५, ८;
भाश्रौ; या ६, ३; -शान् काश्रौ
५, १०, ४; लाश्रौ; -शानाम् जैश्रु
२, ९ : २१; मीसू ११, २, २७;
-शाय तैश्रौ १, ५९; -शे शाश्रौ
४, १४, ६; १३, ११, २; आपश्रौ;
आपश्रु २, ३, १५^५; पा १, १,
७५; ३, ३, ७८; ४, २, ५२; ६७,
११९; ५, २, १०५; १३५; ६, ३,
९८; ८, ४, ९; पावा ३, २,
४८, ४, २, १०४^६; -शेऽशे
आपश्रु २, ३, १८; हिश्रु २, १,
४८; -शेन शाश्रौ १७, १३, ९,
द्राश्रौ ३, १, १२; ४, ३१; लाश्रौ
१, ९, १३; १२, १७; -शेभ्यः वौश्रु
२, ८, ३३; -शेषु आपश्रौ १३,
२३, ४; वाश्रौ २, २, ३, ७; अपः
-शौ आपश्रौ १२, १३, ८; या १, ७

देश-काल- -ल्योः वैश्रौ २०,
१ : ५; -लौ काश्रौ १, ७, ५;
वाश्रु ११, २८; वौश्रु २, ८, २२.
देशकाल-तस् (ः) वृदे २,
११८.
देशकाल-संनिकर्ष- -षे शाश्रौ
१३, २४, १४.
देशकाल-समायुक्त- -क्तम्
अप ७०, ११, १.
देश-काल-द्रव्यप्रयोगसंग्रह-नि-
मित्त-ज्ञान-कुशल- -लः
शंघ २४४.
देश-काल-द्रव्या(व्य-अ)नुरूप-
त्ति- -त्तिः वौश्रौ २९, ८ : २.
देश-काल-धर्म-वयो-विद्या-
स्थान-विशेष- -षैः वाश्रु १९, ९.
देश-काल-शक्ति-संपन्न- -न्नः
शंघ २५३
देश-कुल-धर्म- -र्माः आपश्रु
२, १५, १; हिश्रु २, ३, ३१.
देश-जाति-कुल-धर्म- -र्माः
गौध ११, २२; -मैण गौपि १,
१, ११.
देश-तस् (ः) आमिष्ट २, ६, ७ :
५; आपश्रु २, १५, १२; हिश्रु २,
३, ४६.
देश-द्रव्या(व्य-अ)नुरूप- -पम्
शंघ ३२०.
देश-धर्म- > -मै-जाति-कुल-धर्म-
-र्मान् वाश्रु १९, ७.
देश-धर्म-जाति-धर्म-कुल-धर्म-
-र्मान् वाश्रु १, १७.
देश-नाश- -शाय अप ७०^३, ८, १.
देश-प(र >)रा^७- -रा अप ७०^३,
११, १६.

a) विप. । वस. । b) वा. क्वि. । c) = इष्टि-विशेष- । d) वैप १ द्र. । e) = प्रमाण- इति पाका., = भाग्य- इति पाशे. प्रच. । f) दिष्टगतौ इति जीसे. । g) = प्रादेश-प्रमाण- इति केशवः । h) = ब्रह्मणः आज्ञा- (तु. सा. [तां २५, १८, ४]) । i) सपा. देशे संस्कारः <> देशसंस्कारः इति पाभे. ।

देश-पीडा- -डाम् अप ७१, १६, ३.
 देश-पृथक्त्व- -त्वात् मीस् १२, १, ४४; -क्त्वे शांथ्री ४, ६, ७.
 देशपृथक्त्व-दर्शन- -नात् पाप्रवा १, १२.
 देश-ग्रामाण्य- -ण्यम् वौध १, १, २२.
 देश-वद्ध- -द्धम् मीस् २, १, २०.
 देश-भक्ति- -क्तयः अप ५८, १, १२.
 देश-भङ्ग- -ङ्गम् अप ७०^३, २३, ६.
 देश-भय- -भ्यम् अप. ७०^३, १९, १.
 देश-भाग- -गान् अप ५९, १, १.
 देश-भेद- -दः वौशु १८ : ११; -दात् मीस् ११, २, ३३.
 देश-मात्र- -त्रम् मीस् ३, ७, १४; १६.
 देशमात्र-त्व- -त्वात् मीस् १०, १, १०; ११, २, ४६.
 देश-रथ- -थम् वैश्री १७, ११ : ५^१.
 देश-राष्ट्र-पुरा(र-अ)मात्य- नाश- -शः अप २, ४, ४.
 देश-त्राचि-त्व- -त्वात् मीस् १०, ५, ४७.
 देश-विनाश- -शाय अप ६४, १०, ४.
 देश-विभ्रम- -भे विध २२,

५४^b.
 देश-विरति- -व्रत- > ण्तिन्- पावा ५, १, ९४^०.
 देश-विशेष- -षे आपध २, १४, ७; हिध २, ३, १८.
 देश-वृक्ष-चतुष्पथ- -थेषु आगृ १, ८, ६.
 देश-शोभित^d- -तेषु अप ६५, १, ६.
 देश-संयोग- -गात् मीस् १, ३, १९.
 देश-संस्कार- -रः हिध २, १, ४६^०.
 देश-सामान्य- -न्यात् मीस् ८, ३, १.
 देश-साम्य- -म्यात् मीस् ३, ३, १२^f.
 देशा(श-अ)चारा(र-अ)विरुद्ध- -द्धम् विध ७, ११.
 देशा(श-अ)ध्यक्ष- -क्षः विध ३, १५; -क्षान् विध ३, १०; -क्षाय विध ३, १४.
 देशा(श-अ)नपरोध- -धेन काश्री २४, ३, २७.
 देशा(श-अ)न्तर- -रे वैश्री २०, २३ : २; वैगृ ७, ३ : ३; पाप्रवा ५; -रेषु मीस् १, ३, २०.
 देशान्तर-गत,ता- -तम् शंघ ३६४; -तस्य वैश्री २०, २३ : १; -ता कप्र ३, १, १२; -ते विध ८, १२.
 देशान्तर-मृत- -ते आग्निगृ

३, ११, ४ : ४४; वौपि ३, ७, २.
 देशान्तर-स्थ- -स्थः विध २२, ३९^b; -स्थे आग्निगृ ३, ७, ४ : ३; वौपि २, ३, ८; वाध ४, ३६.
 देशान्तरस्थ-कुर्वै(व-ए) कवृषण- -णान् कप्र १, ६, ४.
 देशान्तरित^h- -ते शंघ ३६३; सुध १७.
 देशा(श-अ)भ्यास- -से वौगृ २, ८, ८.
 देशा(श-अ)र्थ, र्था- -र्थम् मीस् ४, ४, ४; -र्था मीस् ४, २, २२.
 देशा(श-अ)वर्त- -र्तः कौस् १२४, १.
 देशीय¹- -यम् निस् ७, ४, २४.
 देश्य- पा ४, ३, ५४.
 †दे(दृ)ष्टी¹- -ष्टी आपमं १, ११, ३; पागृ १, ४, १४.
 दिश्- प्रमृ., १-२ दिश्य- ✓दिश्रद्र.
 ३ दिश्य^h- -श्याः वौश्री १४ : १.
 दिष्ट- १ दिष्टि- प्रमृ. ✓दिश्र द्र.
 २ दिष्टि¹- -ष्ट्या पाग १, ६, ३७.
 ✓दिह्^m पाधा. अदा. उभ. उपचये.
 दिग्ध, ग्धा- -ग्धः वृदे- ५, १३३;
 -ग्धा अप ४६, ५, ४^f; -ग्धा-भ्याम् कौस् २८, ३; -ग्धैः वौध १, १०, १०.
 दिग्ध-सह-शय- पावा ३, २, १५.
 १ देह¹- पाग २, ४, ३१; ३, १, १३४^०; ६, १, १६०ⁿ; -हः अप ६८, १, ८; -हम् आग्निगृ ३, १०, ४ :

- a) अर्थः व्यु. च ? । देशरथम् अथम् इत्यस्य स्थाने सप्र. आपश्री १८, ३, ३ हिश्री १३, १, २७ रथम् इति पाप्मि. । b) ऽविप्लवे इति जीसं. । c) तु. पागम. । d) विप. । वस. । e) पाप्मि. पृ १२७८ i द्र. । f) ऽसामान्यात् इति जीसं. । g) उत्तरेण समस्तमिति जीसं. । h) विध. । इतच् प्र. उरसं. (पा ५, २, ३६) । z) तस्येदमीयः छ>ह्यः प्र. । j) वैप १ द्र. । k) = ऋडिप-विशेष- । व्यु. ? । l) हर्षातिरेकेऽभ्य. वा. किवि. । व्यु. ? < ✓दिश् इति PW. प्रमृ., दिश्- + ✓स्यै इति [पक्षे] अभा. । m) पा ७, ३, ७३ परामृष्टः द्र. । n) तु. पाका. । मन्थ- इति भाण्डा. ।

२०; वैगृ; -हात् अप ४०, ६, ६१; विघ २३, ५१; -हान् वीश्रौ २५, २९ : ७; ८१; आपशु ७, १३; हिशु २, ६३; -हे आम्रिय २, ७, ७ : २०; अप ३८, ३, ५; विघ २०, ४९; ९९, १४^२; या ३, १७.

देह-त्याग- -गः विघ १६, १८. देह-न्त्व- -न्वम् आपघ २, २४, २; हिघ २, ५, १६७.

देह-नाश- -शः अप ७०^३, ८, १. देहा (ह-अ)ङ्ग-सन्धि- -न्धौ वैगृ ३, १९ : ११.

देहा(ह-अ)नित्यत्व- -त्वात् काश्रौ १, ६, १८.

देहा(ह-अ)न्त- -न्ते अप २२, १०, ५; वाघ ४, ३२; अथ ८, १.

देहा(ह-अ)न्तर-प्राप्ति- -सिः विघ २०, ४९.

देहिन्- -हिनः अप ६८, १, ७; विघ २०, ४९; -हिनाम् अप ३८, ३, २; वीध ४, ५, २३; विघ २२, ८८; ५१, ७२; आज्यो १४, ९; -ही विघ २०, ५०.

२देह^३- (> ंही- पा.) पाग ४, १, ४१.

√दी (=√ढी [विहायसा गतौ])> दीयत्- -यन् या ६, ७१.

√दी (दीप्तौ), दीघत्त्व आपश्रौ ६, १३, ११.

√दीद्वयति अप ४८, २०; निघ २, १६; √दीद्वयत्^७ काश्रौ ६, ४, ३; आपश्रौ ११, १९, ८; वीश्रौ ४, ६ : १२; ७, ९ : १८;

या १०, १९, ६^७; दीदायत्^७ माश्रौ २, ३, ६, १७; शौच ३, २२; ४, ८९; √दीदेत् शाश्रौ ८, २२, १; या ७, २४; √दीदिहि आश्रौ २, ४, १९; ८, ९, ७; शाश्रौ.

√दीदाय आश्रौ २, ४, १९; आपश्रौ; हिश्रौ ७, ८, ४३^७; √दीद्यासम् काश्रौ ४, १४, ३०; आपश्रौ.

√दीदिदासि^८ आपश्रौ ६, १३, १०; ११; भाश्रौ ६, १४, ८.

√दीदिदामेसि^८ हिश्रौ ३, ७, ११२.

दीदिदाय आश्रौ २, ४, १९; वाश्रौ १, ५, २, ५१.

दीदि- > √दीघ(दि-अ)नि^३- -०मी आपश्रौ २१, ७, १६; वाश्रौ ३, २, २, १; हिश्रौ १६, ३, ३५; माश्रौ २, ४, २, ११.

√दीदितृ- -ता^८ वैश्रौ २, ९ : ९.

√दीदिवस्^३- -०वः आश्रौ-२, १, २५; वीश्रौ ३, ८ : ३०; माश्रौ ६, २, २, २१; वाश्रौ २, २, २, ४; कौस् ६८, ३१; श्रापा ४, ७४; -वांसम् माश्रौ २, ५, ५, २८; तैप्रा १६, १३; -वान् हिश्रौ २१, १, २.

√दीघत्- -घत् आश्रौ ३, १२, २७; शाश्रौ; हिश्रौ १५, ३, २^९; अत्राय ५, १; -घत्म् आपश्रौ ९, ८, ८; वीश्रौ १, ६, १८; -घन्तम्^८ वीश्रौ १३, ४३ : १४.

दीघान्, ना- -नः वीश्रौ २, १७ :

२६१; -नाम् आपश्रौ २२, १७, १०; हिश्रौ १७, ६, ४४; अप ६४, ३, २.

√दी^९ पाधा. दिवा. आत्म. क्षये, दीयति, दीयते^७ निघ २, १४१. दीन^३- पाठ ३, २; पा ८, २, ४५; पाग ५, १, १२४; -नः वृदे २, ४६; -नान् वीध २, ७, १९; -ने या १०, १२१; -नैः विघ ६३, १५.

दैन्य- पा ५, १, १२४; -न्यम् वीध २, २, ७८.

√दीन-दत्त^३- -क्षाः आपश्रौ ३, १२, १; वीश्रौ ३, ३१ : ३; भाश्रौ ३, ११, १; हिश्रौ २, ६, १७; आम्रिय १, ५, ४ : २०.

दीन-वपुस्^१- -पुषाम् अप ६४, ५, २.

दीन-विकृत- -ताः अप ७०^३, १८, ४.

दीना(न-अ)नाया (घ-अ)न्घ- कृपण- -णान् अप १९^३, ५, ३.

दीना(न-अ)नुग्रह-कर्तृ- -र्ता शंघ २४४.

√दीक्ष्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. नौरहये- ज्योपनयननियमत्रतादेशु, दीक्षते शाश्रौ १५, १२, १२; काश्रौ; दीक्षन्ते शाश्रौ १०, १, १; आपश्रौ; √दीक्षे आपश्रौ १०, १०, ६^३; हिश्रौ १०, २, १४^६; वीध ३, ८, २१; √दीक्ष- ताम् शाश्रौ ५, ४, १^३; आपश्रौ; √दीक्षन्ताम् आपश्रौ १०, ११, १^३; हिश्रौ १०, २, १४; मदी-

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, १६३५ अ द्र. । c) पाभे. वैप २, १६३४ S द्र. । d) पाठः? सपा.

?दीदिदासि<>?दीदिदामेसि<>दीदिता, मे, वसि इति पाभे. । e) दीयत् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. नपा. मै ४, १०, २) । f) परस्परं पाभे. । सपा. काठ २, १५ तैप्रा २, ४, १, ४ दीघत्म् इति । g) पा ६, ४, ६३ परानृष्टः द्र. । h) लघु-शास्त्रीयः पाठः । i) विप. । वस. । j) पा ३, २, १५३ परानृष्टः द्र. । k) सङ्ख् दि^३ इति पाठः ? यनि. शोषः ।

क्षत वाधुश्रौ ४, २२ : २; ७;
 अदीक्षन्त वाधुश्रौ ४, २६ : २१;
 दीक्षत आश्रौ १०, ७, ११; शाश्रौ;
 दीक्षेयाताम्-अप ३७, ८, १;
 दीक्षन् आश्रौ १२, ६, २; १५;
 शाश्रौ.
 द्विदीक्षे आपश्रौ १३, २१, ३०;
 निसू ८, ४ : २९; ऋदीक्षिष्ट
 आपश्रौ १०, ११, ५; वौश्रौ.
 दीक्षयते वाश्रौ ३, २, १, १२;
 दीक्षयति काश्रौ १२, २, १५;
 आपश्रौ; दीक्षयन्ति आपश्रौ
 १८, २०, १२××; वौश्रौ;
 ऋदीक्षयामि आपश्रौ १०, ११,
 १०; ऋदीक्षयन्तु आपश्रौ १०,
 १०, ६; हिश्रौ १०, २, १४^{१२};
 ऋदीक्षयन्तु आपश्रौ १०; ३, ८;
 दीक्षयेत् काश्रौ २५, ११; १९;
 आपश्रौ; दीक्षयेयुः आश्रौ ६,
 १०, २५; १२, ८, २५; वाधुश्रौ
 ३, १०६ : ७.
 अद्विदीक्षः वाधुश्रौ ३, ४१ : ६;
 २४.
 द्विदीक्षाण-णाः निसू ५, १३ : २३.
 दीक्षण-णम् वैताश्रौ ३६, २५;
 -णात् द्राश्रौ १४, १, ६; लाश्रौ
 ५, ५, ४; कप्र ३, ५, ५; -णे वौश्रौ
 २१, ८ : ३२.
 दीक्षणा(ण-आ)दि-दि आश्रौ
 ४, १, १०; १२, ८, २.
 दीक्षणादि-रात्रि-संख्यान-
 -नेन आश्रौ ४, २, १३.
 दीक्षणा(ण-आ)नुपूर्थ-च्येण
 शाश्रौ १३, १४, ३.
 दीक्षणीय, या^०-यम् वाधुश्रौ

४, ३२ : ६; १११ : १; हिश्रौ
 १३, ४, २०; -यया वौश्रौ २६,
 २८ : ३; -यस्य वाधुश्रौ ४,
 ३८ : ६; ९७ : १; -या शाश्रौ
 ५, ३, १××; आपश्रौ; -याम्
 काश्रौ ७, २, २८; आपश्रौ;
 -यायाः काश्रौ २०, ३, ८;
 आपश्रौ; -यायाम् आश्रौ ४, २,
 १; काश्रौ; -यायै वौश्रौ १०,
 १२ : १३××.
 दीक्षणीया (या-२आद्य>)-
 छा^०-याः जैश्रौका ३४.
 दीक्षणीया-पुरुषसंस्कारा-
 (२-आ)श्रीर्-वर्जम् काश्रौ
 २५, १३, ४२.
 दीक्षणीया-प्रवृत्ति- -ति
 शाश्रौ ८, १२; ९; काश्रौ ८, १,
 ४; हिश्रौ १०, २, ६८; -त्तिनि
 माश्रौ ५, २, १६, १; हिश्रौ १६,
 १, ३६.
 दीक्षणीया-प्रायणीया (या-
 आ)तिथ्या-देवतां- -ताः काश्रौ
 ४, ५, ९.
 दीक्षणीये (या-इ)ष्टि-कर्मन्-
 -र्मणि जैश्रौका ३९.
 दीक्षमाणं- -णः वौश्रौ २५, २९ :
 १०; -णम् आपश्रौ १०, ११,
 ११; हिश्रौ १०, २, १४.
 दीक्षयन्तु काश्रौसं २७ : १०.
 दीक्षयित्वा शाश्रौ १३, ११, १;
 आपश्रौ.
 दीक्षा-पाग ५, २, ३६; -ऋक्षया
 आश्रौ ४, २, ३; आपश्रौ १०, १०,
 ६××; वौश्रौ; -क्षा शाश्रौ ५,
 २, ४××; काश्रौ; माश्रौ २, १, २,

३६^०; -क्षाः आश्रौ ४, २, १३××;
 शाश्रौ; -क्षणाम् आपश्रौ १०,
 ८, १; वौश्रौ; -क्षाभिः वौश्रौ
 १७, २७; ७; -क्षाम्यः माश्रौ २,
 १, ३, २०; ६, १, ४, ४०; हिश्रौ;
 -क्षाम् आश्रौ ४, २, ३०; शाश्रौ;
 -क्षायः आपश्रौ १८, २०, १४;
 हिश्रौ १३, ७, ३; -ऋक्षायाम्
 माश्रौ ३, ६, २; द्राश्रौ; -क्षायै
 आपश्रौ १३, २१; ३; वौश्रौ;
 -क्षासु आश्रौ १२, ८; २९;
 शाश्रौ; -ऋक्षे काश्रौ २५, ११,
 २५^०; वौश्रौ ६, ६ : २३^०××.
 दैक्ष- -क्षः आपश्रौ १०,
 १६, १५^०; हिश्रौ १०, ४, ११^०;
 द्राश्रौ २, १, १७; लाश्रौ १, ५,
 १४; -क्षम् वौश्रौ २५, ७ : ८;
 माश्रौ; -क्षस्य वौश्रौ २५, २८ :
 २०; २२; मीसू ७, १; १३;
 -क्षाः निसू १०, ९ : २; ६;
 -क्षाणि वौश्रौ २५, ७; ६; भाश्रौ
 १०, ९, १४.
 दैक्ष-पशु-वत् वैश्रौ १५,
 १ : २.
 दीक्षा-कल्प- -ल्पाः वैश्रौ १२,
 २ : ६; हिश्रौ ११, ५, १६; -ल्पे
 हिश्रौ १०, ३, २; -ल्पेषु आपश्रौ
 १६, १३, ५; वैश्रौ १८, ११; २१;
 हिश्रौ ११, ५, १७.
 दीक्षा-काल- -लस्य मीसू ६, ५,
 ३८; -ले काश्रौ १२, १, २१;
 २, १०.
 दीक्षा-कय-प्रसवो(व-उ)थान-
 -नानि लाश्रौ १०, १, १.
 दीक्षा-तपस्-पाग २, २, ३१६;

a) सकृन् दीक्षा^० इति पाठः ? यनि. शोधः । b) विप., नाप. (इष्टि-) । c) विप. । वस. ।
 d) पाठः ? दीक्षा, अयनम् इति द्वि-पदः शोधः समाव्यते । e) सर्वा. दीक्षा <> दीक्षे इति पाठि. ।
 f) तस्येदमीयः अण् प्र. । g) तु. पागम. ।
 द्विपञ्च-६६

४, १४; -फपसो वौश्रौ १४, १ :
 ७; ८; तैत्रा ४, १७; -फपसोः
 काश्रौ ७, २, १६; शुभ १, २, ३७.
 दीक्षा-दक्षिण^० - -णम् मीसू ३,
 ७, ११.
 दीक्षा(क्षा-आ)दि- -दि काश्रौ
 २२, ३, २७; ६, २; -दिः लाश्रौ
 १०, १३, १.
 दीक्षा(क्षा-आ)नुपूर्व- -व्णद्राश्रौ
 १, ४, १५; लाश्रौ १, ४, ११.
 दीक्षा(क्षा-आ)नुपूर्व- -व्येण
 द्राश्रौ ७, ४, ४; लाश्रौ ३, ४, ३.
 दीक्षा(क्षा-अ)न्त- -न्ते आश्रौ
 ४, २, १८; काश्रौ.
 फदीक्षा-पति- -तिः वौश्रौ ६,
 १९ : ५; भाश्रौ १२, १, ३; हिश्रौ
 १०, ३, ३१; वैताश्रौ १३, १९^०.
 दीक्षा(क्षा-अ)पराध- -धे मीसू
 ६, ५, ३५.
 दीक्षा-परिणाम- -मे हिश्रौ ७,
 १, ७१.
 दीक्षा-परिमाण- -णम् माश्रौ ६,
 ४, ३७; -णे आपश्रौ १६, १४,
 १; वैश्रौ १८, १२ : ४; हिश्रौ
 ११, ५, २४; मीसू ६, ५, २८.
 फदीक्षा-पाल^० - -लाय आश्रौ ४,
 २, ३^०.
 दीक्षा-प्रतिहास- -सः लाश्रौ ९,
 ५, ५.
 दीक्षा-प्रभृति- -ति काश्रौ ७,
 १, २१; द्राश्रौ.
 दीक्षा(क्षा-अ)भिसंबन्ध- -न्धात्
 मीसू ५, ३, २९.
 दीक्षा-भेद- -दे वाध २१, ३२.
 दीक्षा-योग- -णम् वाधूश्रौ ३,

८३ : २.
 दीक्षा(क्षा-आ)रम्भ- -म्भे काश्रौ
 १४, १, १२.
 दीक्षा-रूप- -पम् निसू १०,
 ११ : २०; -पाणि काश्रौ २४,
 ७, ३; २५, ११, १४.
 दीक्षा-लिङ्ग- -ङ्गम् वैताश्रौ १३,
 १८.
 दीक्षा-न्त काश्रौ १९, २, २९;
 पाण्ड २, २, १३; मीसू ११, ३, २०.
 दीक्षा-विधान- -न्धात् मीसू ३,
 ७, ३७.
 दीक्षा-विसर्ग(र्ग-अ)र्थ- -त्व-
 -न्धात् मीसू ११, ४, १९.
 दीक्षा-व्रता(त-अ)भाव- -न्धात्
 काश्रौ २०, ८, २०.
 दीक्षा(क्षा-आ)हुति, ती- -तयः
 वैश्रौ १२, ८ : २; -तिभ्यः वाश्रौ
 २, १, २, १७; ३, ४, १, ४७; -तिषु
 वौश्रौ १६, २ : ६; -तीः आपश्रौ
 १०, ८, ५; वौश्रौ; -तीनाम्
 वौश्रौ २१, ८ : ४४; -तीभ्यः
 आपश्रौ १०, ८, ४; १६, ८, १३.
 दीक्षाहुति-काल- -लः
 आपश्रौ २०, ८, ७; हिश्रौ १४,
 २, २७; -ले हिश्रौ ११, ३, २;
 १४, २, २५.
 १दीक्षित- पा ५, २, ३६.
 दीक्षो(क्षा-उ)पसद्- -सत्सु
 आश्रौ १२, ८, २७; वौश्रौ २३,
 १२ : २३; २९, ११ : १; द्राश्रौ;
 -सद्ः आश्रौ ७, १, २; १२, ६,
 ३; काश्रौ; -सदाम् लाश्रौ १०,
 ११, ८; मीसू ११, ४, २१;
 -सद्भिः वौश्रौ २६, ३३ : २२.

द्वैक्षोपसद्- -दान् लाश्रौ
 १०, १०, ६.
 दीक्षो(क्षा-उ)पसत्-प्रसव-संस्थो-
 (स्था-उ)ध्यान- -नानाम् आश्रौ
 ८, १३, ३४.
 दीक्षो(क्षा-उ)पसत्-सुत्य-
 -स्यानि काश्रौ २४, ५, ८.
 दीक्षो(क्षा-उ)पाय- -यः वाश्रौ
 २, १, ३, १९.
 २दीक्षित- -फन्त काश्रौ ७, ४,
 १४; १७; आपश्रौ; -तः आश्रौ
 ४, ८, १८x४; शाश्रौ; हिश्रौ
 १५, ७, १६?; -तम् शाश्रौ
 १६, २०, ७; आपश्रौ; -तयोः
 ऋश्र २, १, १६६; -तस्य काश्रौ
 ७, १, २८; ४, २४; आपश्रौ;
 -ता माश्रौ २, १, २, ७फ; वैश्र-
 ५, ९ : ४; -ताः आश्रौ २, १६,
 २१x४; शाश्रौ; -तान् आपश्रौ
 २१; ३, ११; वाधूश्रौ ४, ३७ :
 ९; द्राश्रौ ७, ३, ७फ; -तानाम्
 आश्रौ ४, २, १२; ६, ९, १;
 काश्रौ; -ताय काश्रौ ८, २, २;
 २६, ७, ३३; वैश्रौ १२, १३ : २;
 हिश्रौ ७, १, ६४; -ते आपश्रौ
 २२, ३, १; माश्रौ ६, १, ४, ३८;
 लुसू १, १ : २१; वाध ४२ : ९;
 -तेन वौश्रौ २८, ९ : २५; -तेषु
 आश्रौ ४, ७, ४; -तेः वौश्रौ २९,
 ५ : १०; वैश्रौ २१, १६ : ९.
 दीक्षित-ऋत्विग्-ग्रहचारिन्-
 -रिणः शुभ २०.
 दीक्षित-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४,
 २२ : ९; -त्वात् मीसू ६, ५, ३९.
 दीक्षित-ण्ड- -ण्डः हिश्रौ ७,

a) समाहारं द्वस. उप. = २दक्षिणा- । b) पाभे. वैप १, १६३७ d द्र. । c) वैप २, ३खं. द्र. ।
 d) सपा. तैत्रा २, ४, ३, ४ ंलेभ्यः इति पाभे. । e) = मास- । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) क्षतः इति पाठः ?
 यनि. शोधः । g) पाभे. वैप १, १६३७ f द्र. ।

१, ५४; -ण्डम् काश्रौ ६, ४, ५; आपश्रौ; -ण्डस्य वीश्रौ १८, २४ : ९; -ण्डेन माश्रौ २, २, ३, १८; जैश्रौ ६ : १२; जैश्रौका ७७.
दीक्षित-द्रव्य- -व्यैः आश्रौ १२, ८, २५.
दीक्षित-प्रमीत-प्रायश्चित्त- -त्तम् हिपि २१ : ४.
दीक्षितप्रमीतप्रायश्चित्त-वत् वीपि २, ७, २२.
दीक्षित-प्रमीत-वत् आमिण्य ३, ९, ३ : २८.
दीक्षित-वसन^a- -नम् काश्रौ १५, ७, २६; आपश्रौ १०, १५, १५; -नस्य वीश्रौ १८, २४ : ५; -नात् काश्रौ १४, ५, ४; -नानि शाश्रौ १८, २४, ४; हिश्रौ १६, ५, १०; -ने आपश्रौ ८, ८, १७; वैश्रौ.
दीक्षितवसन-निवृत्ति- -त्तिः काश्रौ १५, ५, १५.
दीक्षित-वाद- -दम् वीश्रौ ६, ६ : १; १४, १ : ४; ६; वैश्रौ १२, ११ : २; -द्रस्य वीश्रौ १८, २४ : ९.
दीक्षित-विमित- -त्तात् आपश्रौ १०, १३, ६; १५, ५; वीश्रौ.
दीक्षित-वृत्ति- -त्तिः हिश्रौ १०, ४, ९.
दीक्षित-व्यञ्जन^b- -नानि आपश्रौ १०, १५, १३.
दीक्षित-व्रत- -तम् काश्रौ ४, ६, १४; वीश्रौ १८, २४ : ४.

दीक्षितव्रतिन्- -ती वीश्रौ २६, ३ : ८; वाधूश्रौ ३, १०५ : ५.
दीक्षित-व्रत^c- -तः शाश्रौ ३, ८, १०.
दीक्षित-शाला- -लायाम् काश्रौसं २७ : ११.
दीक्षित-संचर^d- -रः माश्रौ २, १, २, ३०; -रेण काश्रौ ७, ९, २८; माश्रौ.
दीक्षिता(त-आ)गार- -रे वैश्रौ १२, १२ : ६; हिश्रौ १०, २, २६.
दीक्षिता(त-अ)दीक्षित-व्यप- देश- -शः मीसु १०, ६, ५८.
दीक्षिता(त-अ)न्न- -न्नम् वैश्रौ १२, ४ : १४; -न्नस्य लाश्रौ १०, ११, १४.
दीक्षिता(त-अ)भिवादन- -नम् आश्रौ १२, ८, १२.
दीक्षिता(त-अ)वकीर्ण^e- -र्णाः वीश्रौ १८, २५ : १.
दीक्षिता(त-आ)वेदन- -नात् वैताश्रौ ११, १२.
दीक्षितो(त-उ)त्थित- -ताः आश्रौ ६, १४, २३.
दीक्षितो(त-उ)ष्णीष- -पस्य वीश्रौ १८, २४ : ८.
दीक्षित्वा आश्रौ ४, १, ८; आपश्रौ.
दीक्षित्व्यत्- -प्यन् वृदे ६, २०.
दीक्षिव्यमाण- -णः आपश्रौ २२, २३, १६; वीश्रौ १६, ३१ : १४; २३, १३ : ५; हिश्रौ १७, ८, ३१; -णस्य हिश्रौ ७, १,

१५; -णाः- आपश्रौ २१, २, १४; १५, ४; वीश्रौ; -णान् लाश्रौ ३, ३, ६.
दीक्षा- ✓दीक्ष् द्र.
दीक्षावान्ताद्विति अप्राय ६, ४.
दीक्षित- ✓दीक्ष् द्र.
दीदि-, दीदितु-, दीदिवस्- ✓दी (दीप्तौ) द्र.
दीदिवि- ✓दिव् द्र.
दीद्यत्-, °द्यान- ✓दी (दीप्तौ) द्र.
दीधिति- ✓धी द्र.
✓दीधी^f पाधा. जु. आत्म. दीप्तिदेव- नयोः.
दीध्यत्-, दीध्यान- ✓धी द्र.
दीन- ✓दी (क्षये) द्र.
दीनार^g- पाठ ३, १४०^h; -रणाम् अथ ३६, २६, ३.
✓दीपⁱ पाधा. दिवा. आत्म. दीप्तौ, दीप्यते अप ७०³, १९, ६; वाच २६, १३; अथ; दीप्यन्ते अप ७१, १२, ५; दीप्यन्ति अथ ७०^३, ७, ३; ११, १३³; दीप्यसे या १०, १९; दीप्यताम् वायु ५, २०; दीप्येत आमिण्य २, ५, २ : ३; वीश्रु ३, ६, १; जैश्रु; दीप्येरन् वीश्रौ २१, १८ : ४.
दीपयति काश्रौ १६, ४, १२; कौसु १४, ३०; ६०, १; दीपयन्ति वीश्रौ १६, १८ : १०.
दीप^j- पाग ५, १, ४^६; २, ६४; -पः शंघ २४२; -पम् आमिण्य २, ४, १० : १९; वीश्रु; -पाः अथ १, ३४, ६; -पान् वीश्रु ३, ८, २; -पेन अथ ४, ४, ४.

a) वैप १ द्र. । b) उप. = चिह्न- । c) विप. । वस. । d) उप. = मार्ग- वा स्थान-विशेष- वा । e) कस. । f) पा १, १, ६; ६, १, ६; ७, ४, ५३ पात्रा १, १, ६ परामृष्टः द्र. । g) = सुवर्ण-मुद्रा- । व्यु. ? । h) < ✓दी [क्षये] । i) पा ३, १, ६१; २, १५३; ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । j) = दीपक- । कर्तरि क् ऋणे वा क्त् । k) तु. भारुडा. प्रभु. । पीप- इति पाका. ।

१ दीप-क- पा ५, २, ६४.
 दीप-द्वय- -यम् विध ९०, २०.
 दीप-नदी^a- -दी विध ४३, २०.
 दीप-निर्वापक- -कः विध ४५,
 २१.
 दीप-प्रदान- -नेन विध ९१, १५
 दीप-मध्ये- -ध्ये विध ९०, १६.
 दीप-वत् वैश्रौ २, ६ : १२; विध
 ९७, ९.
 दीप-वत्- -वन्तम् वौगृ १, ६,
 २२.
 दीप-हारिन्- -री शंघ ३७६.
 दीपा(प-आ)दि- -दि कौसू
 ७१, १३.
 दीपा(प-अ)पहारक- -कः विध
 ४५, २०.
 दीपा(प-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७७ : ७; ३७८.
 दीपा(प-अ)र्थ- -र्थे विध ६६,
 ११; ७९, ७.
 दीपीय- पा ५, १, ४.
 दीपो(प-उ)त्सव- -वम् अप
 १८^a, ६, १.
 दीप्य- पा ५, १, ४.
 २ दीपक- -कैः अप ४, ३, १; ५, ६;
 -कौ अप ९, १, ४.
 दीपिका- -का जैश्रौका २१५.
 दीपन- -नात् या ७, १५.
 दीपन-प्रभृति- -ति कौगृ ५,
 ६, ५.
 दीपयमान- -नाः आगृ ४, ६, ६.
 दीप्त, सा- पाग ५, १, २; -सः अप
 ७०^a, २, ५; -सा अप ५८^a, २,
 ४; ७०^b, १५, १; नाशि १, ७,
 १०^b; १४^b; -साः अप १, ३४,

६××; -सान् वैश्रौ १, ४ : १७;
 १०, ५; ५; -साम् नाशि १, ७,
 १३^b; १८^b; -साय गौघ २६,
 १२; -प्तायाम् वाधूश्रौ ३,
 ३१ : २; -से आमिगृ २, ४,
 १० : ३; ११; विध ९९, १२;
 -प्तैः अप ६४, ७, ५.
 दीप्त-तेजस्^c- -जसम् वृदे ५,
 ६५; -जाः अप ७०^a, २, २.
 दीप्त-द्विज-मृगा(ग-आ)
 वृत्- -ताः अप ५८, १, ६.
 दीप्त-धूम-रजो- -ध्वस्त-
 -स्ताः अप ६४, ९, १०.
 दीप्त-प्रतीक^c- -काः या १०,
 २१.
 दीप्त-रूप-> ष्विन्- -पिगे
 गौघ २६, १२.
 दीप्तां(स-अ)शु^c- -शुः अप ५५,
 २, २.
 दीप्ता(स-अ)ग्नि- -ग्निः विध
 ९०, १५; २७; ९२, २४.
 दीप्ता(स-अ)ङ्ग^c- -ङ्गः अप ६८,
 २, २४.
 दीप्ता(सा-आ)यता-कल(ण>)
 णा^b- -णानाम् नाशि १, ७, ९.
 दीप्तय- पा ५, १, २.
 दीप्ति- -पितः आपमे २, १०,
 १; कागृ २४, १३; वौगृ १, २,
 ३४; भागृ २, २४ : ११; या
 २, ६९.
 दीप्ति-कर्मन्^c- -र्मणः या८, १३;
 १०, २९; -र्मा या १४, २४^a.
 दीप्ति-(ज>)जा- -जा तैत्रा
 २३, १५.
 दीप्ति-तेजस्^c- -जसः अप ६८,

१, २.
 दीप्ति-नामन्- -म या १, १७.
 दीप्ति-वृष्ण^c- -ष्णः आ१४, २४
 दीप्ति-मत्-तर- -रः वृदे ३, १८.
 दीप्ति-राग-प्रज्वलित- -तानि
 अप ६४, ३, ८.
 दीप्तोत्(ः) वाधूश्रौ ३, ३१ : ४.
 दीप्य- -प्यान् वौश्रौ २, १३ : २; ३-
 दीप्यमान, ना- -नः वौश्रौ १४, ३ :
 १४; या १०, ४१; -नम्.
 वापश्रौ १, ६; १२; नाश्रौ; -नाः
 अप ७०^a, ११, २९; -नेषु वौश्रौ
 २४, ३१ : १०; -नैः वौपि १,
 १० : १.
 दीप्- पा ३, २, १६७.
 दीप्-वे(घा>)ष्ट^c- -ष्टानाम्.
 जैगृ २, ९ : ३.
 दीयत्- ✓दी (विहायसा गतौ) द्र.
 दीयमान- ✓दा (दाने) द्र.
 दीर्घ, घा^d- पा८भो २, २, ६९; पाग
 ५, १, ९७^c; १२२; १२३; -घं-
 आश्रौ ३, १३, १४; वौश्रौ; नाशि
 १, ८, ३; पा ३, १, ६××; पावा
 १, २, १७××; -घंम् आश्रौ ५,
 १९, ४; शांश्रौ; आपमे १, ८, १०^a;
 पागृ ३, २, २^a; ३, ६^a;
 भागृ २, ८, ६^a; कौसू ४२,
 १७^a; पैया २, १६^a; ८, २२;
 ११, ६; ३६; १४, ३६^a; नाशि
 २, २, २; पा १, ४, १२; -घंस्य
 आपगृ १, ८; शौघ ४, ७९; -घां
 अप २२, २, २; २६, २, ५; ३, १;
 आपगृ ५, ९; याशि २, १२;
 -घांः वौश्रौ १०, १५ : १०;
 २१, ७ : ३; कप्र; -घांणाम् वागृ

a) = नरक-विशेष-। b) = स्तरश्रुति-विशेष-। c) विप.। वस.। d) = पारिभाषिकंशा-
 (प्रातिशाख्य-, पा.)। शिष्टं वैप १ द्र.। e) अर्थः ?। f) पामे. वैप १, ६९० k द्र.। g) पामे. वैप २
 विश्वम् ऋ १, ९३, ३ टि. द्र.। h) सहव पामे. पृ ५४१ b द्र.।

३, १२; पावा १, २, ९^३; -र्वाणि
 अप ४१, ४, ८^३; ऋप्रा १, २०;
 माशि १६, ११; -र्वात् ऋप्रा
 ६३, २८; १४, ३०; एप्रा;
 -र्वाभ्याम् माशि ९, ५; -र्वाभ्याम्
 काश्री २, ५, ७; आपश्री; -र्वे
 वाधुश्री ३, ६९ : ४१; वीशु;
 नाशि १, ७, १५; पावा १, १,
 ५७^३; २, ९^०; ६, ४, ३; पाप्रवा
 ४, ७; -र्वेण ऋप्रा ६, १३.
 द्वैर्व- पा ५, १, ९७.
 द्वैर्व्य- पा ५, १, १२३; -र्व्यम्
 ऋप्रा १, ७, ४.
 दीर्घ-कण्ठो(रुठय-उ) प (धा >)
 ध- धम् शुप्रा ७, ७.
 दीर्घ-कर(ण >)णी- ण्याम् वीशु
 ३ : ३२.
 दीर्घ-काल- लम् काण्ड ४१:१२.
 दीर्घ-काश-तुप-आण्ड-वट- टम्
 पा ६, २, ८२.
 दीर्घ-कीट- ट: शंभ ३७७ : १९.
 दीर्घ-ना- गौ भाशि १२.
 दीर्घ-ग्रहण- णम् पावा ६, १, १६८;
 पाप्रवा ४, ५; -णे पावा ३, १,
 ७०.
 दीर्घ-घण्टा-निनाद- वत् शैशि
 ३५०.-
 दीर्घ-चतुरश्र, आ^१- अस्म आमिगु
 २, ५, १ : १९; जैगु २, ९ : १२;
 आपशु २, १५; ३, १; वीशु १:२०;
 २:६××; हिशु १, ३६; ३९××;
 -अस्य वीशु १ : ३४; हिशु
 १, १३; -आ हिशु २, १८;

-आणाम् आपशु २१, १२; हिशु
 ६, ६९; -आम् वीशु २ : १७.
 दीर्घ-चतुरस्र[=श्र]- लम् काशु
 ३, २; ४; ४; ६; -स्य काशु
 १, १७; २, ११.
 दीर्घचतुरस्र-समास- -सेन काशु
 ४, ७.
 दीर्घ-जह^०- -ह्वा: वीशुप्र २५ : २.
 दीर्घ-जि(ह >)ह्वी^१- पा ४, १, ५९.
 दीर्घ-तपस्^०- -पस: चाश्र ४२ : ७;
 -पा: वृदे ८, ६७.
 दीर्घ-तम^०६- -म: वाधुश्री ३, ९४ :
 ७; -मा: ^१ वीशुप्र १ : ३;
 -मानाम् ^१ वैध ४, ४, ४.
 द्वैर्वतम- -०म वैध ४, ४, ४.
 दीर्घतम-वत् वैध ४, ४, ४.
 दीर्घ-तमस्- -मस: वृदे ३, १४६;
 -मसम् वृदे ४, २१; -मसाम्^१
 आश्री १२, ११, ४; वीशुप्र १३:
 १; -मसि वृदे २, १२९; -मा:
 ऋश्र २, १, १४०; ३, २१; वृदे.
 द्वैर्वतमस- -०स आश्री
 १२, ११, ४; वीशुप्र १३ : २^१;
 -स: ऋश्र २, १, ११६; -सम्
 आश्री ५, १८, ५^६; छसू २; १० :
 २२^१; ११ : ११^१; या ८, २२^६;
 -सस्य लाश्री ७, ७, १६^१.
 द्वैर्वतमसी- -सी वृदे ३,
 १५२.
 दीर्घतमलो(स:-अ)र्क^१- -र्क: ^१
 आश्री ९, ३, १२; १३; लाश्री
 ३, ६, ३२; ३३; निसू; -र्कस्^१
 निसू ९, २ : ३०; ५ : ३१.

दीर्घतमो-वत् वीशुप्र १३ : २.
 दीर्घ-त्स (:) भाशि ७९.
 दीर्घ-ता- -ता अप ४७, ३, ३.
 दीर्घ-त्व- -त्वम् पावा १, १, १९××;
 अप्रा ३, ३, १९^३; याशि २; २३;
 -त्वस्य पावा १, १, ३९; -त्वे
 अप २२, ४, २; पावा ६, १,
 १३××; -त्वेन चव्यू ४ : १६.
 दीर्घत्व-दर्शन- -नात् पावा ६,
 ४, १६.
 दीर्घत्व-वाधना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ६, १, ८६.
 दीर्घत्व-समापत्ति- -त्ते: अप्रा
 ३, १, ७.
 दीर्घत्वा(त्व-अ)भाव- -व: पावा
 ७, २, ३७.
 दीर्घ-त्सरु^०- -रुभि: वाधुश्री ३, ८३:
 ४; -रुन् वाधुश्री ३, ७६:१४.
 दीर्घ-दण्ड, ण्डा- -ण्डम् वीशु १५,
 १९ : १२; -ण्डान् वीशु १५,
 १४ : ६^२; -ण्डाम् वीशु १५,
 १९ : १२; -ण्डेन कौसू १५, ४.
 दीर्घ-दशिनू- -शीं शंभ २४४.
 दीर्घ-दारु- -रुभि: वीशु १९, १०:
 ५६.
 दीर्घ-धार-त्व^०- -त्वात् मौसू १२,
 ३, २८.
 दीर्घ-नलोप-स्वर-णत्वा(त्व-अ)नु-
 स्वार-शीभाव- -वा: पावा १,
 १, ४७.
 दीर्घ-नलोपा(प-अ)नुस्वार-शी-
 भावे-नकार-प्रतिषेध- -धा:
 पावा १, १, ४७.

a) सपा. मनु ४, ९४ दीर्घम् इति पाभे. । b) तु. पाका. । c) उप. <√गम् । d) विप.,
 नाप. (आयत-) । e) = ऋपि-विशेष-। वस. । f) वैप १ द. । g) उप. = तमस्-। h) बहु. < द्वैर्वतम- ।
 i) बहु. < द्वैर्वतमस- । j) दी° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आश्री. संस्कृतुः टि. च) । k) = स्रु-
 [तन्नामधेय-] । l) = साम-विशेष-। m) सस्थ. अर्कः इति नेष्टम् । n) सस्थ. अर्कम् इति नेष्टम् ।
 o) विप. । वस. । p) स्वे ह्रस्वः (पा ६, ३, ६४) ।

दीर्घ-नीय^३- धे ऋप्रा ५, ४८[†].
 दीर्घ-पर- -राः ऋप्रा २, ३०.
 दीर्घ-प(र्वन् >)र्वा^b- -र्वाः अप
 २१, २, २.
 दीर्घ-पा(द्य >)घा^c- -घे वौशु
 १५ : ४.
 दीर्घ-पूर्व- -र्वः ऋप्रा २, २४; १३,
 २२; -र्वम् ऋप्रा १३, ३३.
 दीर्घ-प्रतत-यज्ञ- -ज्ञम् या ५, २.
 दीर्घ-प्रतिषेध- -धः पावा ६, १, १;
 ७, ४, ३५; ८, ४, ६८.
 दीर्घप्रतिषेधा(ध-अ)र्ध- -र्धम्
 पावा ६, १, १३२.
 दीर्घ-प्रयज्यु^d- -ज्युम् या ५, २[†]कुं.
 दीर्घ-प्रयुक्त- -क्तेषु काश्रौ १७, २,
 १८.
 दीर्घ-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३, १, ६; ६,
 ४, १६; ७, २, ८२; ४, ८२.
 दीर्घ-प्रसङ्ग^e- -ञानि ऋप्रा १८,
 २५[†].
 दीर्घ-प्राण^f- -णः आपश्रौ ६,
 २०, २[†].
 दीर्घ-प्लुत- -तयोः शौच १, ३८;
 पावा १, २, २७; -तौ शुप्रा
 १, ६३; पावा १, ४, १.
 दीर्घप्लुत-प्रतिषेध- -धः पावा
 १, १, ७०.
 दीर्घप्लुत-वचन- -ने पाप्रवा १, ३
 दीर्घ-भक्ष^g- -क्षम् वौश्रौ ७, १५ :
 ८; ८, ४ : २४; १२ : ३६; -क्षाः
 वौश्रौ २५, २२ : ४; -क्षेण वौश्रौ
 २१, २० : १३; २५, २० : २२.
 ?दीर्घ-म(ध्य >)ध्या^h- -ध्या शैशि
 १८३^e.

दीर्घ-मात्र-प्लुतⁱ- -न्ताः अप ४७,
 ३, ४.
 दीर्घ-सु(ख >)खी^j- -क्खि
 आपश्रौ १५, १९, ४; वौश्रौ ९,
 १८ : १६; भाश्रौ ११, १९, १३;
 वौश्रु ४, २, १०; -खी आपश्रौ
 १५, १९, ४^h; भाश्रौ ११, १९,
 १३.
 दीर्घ-रोग- > दीर्घ-रोगिन्- -गिणि
 शंघ २७०; -गी विघ ४५, ३१.
 दीर्घ-लघु- पाग २, २, ३१ⁱ.
 दीर्घ-वंश- -शम् वौश्रौ १०, ४७ :
 १६ : x; वैश्रौ १२, ६ : ५८; -शे
 आपश्रौ १७, १२, ७; वौश्रौ;
 -शेन वौश्रौ १२, १८ : ९; -शेषु
 आपश्रौ १८, ५, १६; वैश्रौ १७,
 १५ : ४.
 दीर्घवंश-प्रवह- -हैः हिश्रौ
 १३, २, १०.
 दीर्घ-वचन- -नात् पावा ८, २, १०६.
 दीर्घ-वत् ऋप्रा १, ४; कौशि २०;
 नाशि २, ३, ७.
 दीर्घ-वात्स्य- -त्स्यः वौश्रौ २०,
 १० : १६; २२, २० : २७ : x;
 दीर्घ-विधि- -धौ पावा १, १, ७२.
 दीर्घ-वृ(द्ध >)द्वा^k- -द्वा नाशि २,
 ४, २^e.
 दीर्घ-वैर- -रम् वाध ६, २४.
 दीर्घ-व्याधि- -धेः आश्रौ १०, १, ६.
 दीर्घव्याधि-आमकाम-प्रजाकाम-
 पशुकाम- -मानाम् काश्रौ २२,
 ९, १७.
 दीर्घव्याधि-प्रतिष्ठाकामा(न-अ)
 सायकाम- -मानाम् काश्रौ

२२, २, १७.
 दीर्घ-शाकल-प्रतिषेधा(घ-अ)
 र्ध- -र्धम् पावा ६, १, ७७.
 दीर्घ-श्रवस्^l- > दैर्घश्रवस^l-
 -सम् काश्रौ २२, ६, ५; लाश्रौ
 ७, ४, १; छुस्.
 दीर्घ-श्रुत्^m- > ऋदीर्घश्रुत्-तम-
 -मः आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५,
 १०, ३२.
 दीर्घ-स्त्रय- -यात् अप्रा ३, ३, २१.
 दीर्घ-संश्रयⁿ- -न्यम् पावा १, २, ९.
 दीर्घ-संश्लि(ष्ट >)ष्टा^o- -ष्टे वौशु
 १० : ४; २० : १६.
 दीर्घ-सत्र^p- -त्रम् वौश्रौ १४, १३ :
 ३२[†]; पाग २, २, १३; भाग २,
 २७ : ७; वौव १, २, ५५; -त्रेषु
 द्राश्रौ ५, २, २; लाश्रौ २, ६, १;
 निस् १, ११ : ७.
 द्वावसत्र- पा ७, ३, १.
 दीर्घसत्र-वत् पापवा ४.
 दीर्घ-संधि^q- -धिम् उस् ७, ८.
 दीर्घ-सं(ध्या >)ध्य^r-त्व- -स्वात्
 अप ४१, ४, ८.
 दीर्घ-सोम^s- -मे वौश्रौ ६, २८ :
 ३७; वैश्रौ १४, ९ : २; -मेषु
 वौव १, ६, ७.
 दीर्घ-ह्रस्व-विवर्जित- -तम् याशि
 २, ३१.
 दीर्घा(र्ध-अ)क्षर- -राणि नाशि २,
 ७, ३.
 ऋदीर्घाधियः^t ऋप्रा ९, २३; तैप्रा
 ३, ५.
 दीर्घा(र्ध-अ)न्त- -न्तम् वैश्रु ३,
 १९ : ४; अप्रा ३, ३, २१;

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) कस. । d) = [दीर्घशब्द-वत्-] भक्ष-मन्त्र- [तै ३, २, ५,
 १] । e) सपा. ?दीर्घमव्या <> दीर्घवृद्धा इति पाभे. । f) वस. > हस. । g) विप. > नाप. (सालावृद्धी-) ।
 वस. । h) = टिड्भि- इति ह्रद्वत्तः । i) तु. पागम. । j) विप. ([श्रायन्तदीर्घाभ्यां वृद्धा-] विपिलिघ्न-
 [= विवृत्ति-]) । k) = ऋपि-विशेष- । वस. । l) = साम-विशेष- । m) विप. (इष्टका-) । कस. ।

-न्ताः अप्रा २,३,६.
 दीर्घा(र्घ-अ)प्रसङ्ग- ङः पावा १,१,
 ४८.
 दीर्घा(र्घ-अ)भिनिष्ठान- > °न^२-
 -नम् पाय १, १७,२.
 दीर्घा(र्घ-अ)भिनिष्ठाना(न-अ)न्त^२-
 -न्तम् वैय ६४ : ५^{१०}; आम्रिण्ट
 २, १, ५ : २९; आपय १५, ९;
 वीय २, १, २६^{१०}; भाय १, २६ :
 ७; वाय ३, १; हिय २, ४, १०^{१०};
 गोय २, ८, १४^{१०}.
 दीर्घा(र्घ-अ)यु^१- > °यु-त्व- -त्वम्
 शाश्रौ १४, १२, २^३; ११; आम्रिण्ट;
 -त्त्वस्य आपश्रौ ४, १५, १;
 भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६, ४,
 १८; -त्त्वाय आश्रौ ६, १२, २;
 काश्रौ ५, २, १४^{१०}; आपश्रौ ५, ११,
 ५; ८, ४, १^{१०}; वीश्रौ; आपमं १,
 ६, १३^{१०}; २, १, १^१; २^{१०}; ९, २^{१०};
 कौय १, २१, ८^{१०}; शांय १, २८, ९^{१०};
 पाय २, १, ९^{१०}; हिय १, ९, १२^{१०};
 कौसू ४२, २३^{१०}; अशां १२, ४^{१०};
 अश्र २, ४^{१०}; अर्ष २ : १९^{१०}.
 दीर्घायुत्वा(त्व-अ)दि-
 -दीनाम् शौच ४, १००.
 दीर्घायुत्वाय^१ > °या(य-अ)
 दि- -दिपु अप्रा २, ४, ८; शौच
 २, ५९.
 दीर्घायु-पत्नी- -त्नी वाय १४, ३.
 दीर्घा(र्घ-अ)युस- -यूपि अश्र ६,
 ७८.

२दीर्घा(र्घ-अ)युस^१- पावा ५, ३,
 १४; -युः आपमं १, ५, २^१; ४;
 २, ३, ३१; ७, १९; कौय १, २१,
 १२^१; शांय १, २८, १५^१;
 आम्रिण्ट; माय १, ११, १२^१;
 हिय १, २०, ४^१; या ४, २५;
 ऋप्रा १४, ४९; -युषः निसू १०,
 ९ : २१; अप्र १८, ३, ११.
 दीर्घायुष्-व- -व्वाय जैय १,
 ११ : ११^१; १८ : ८; १०; १२.
 दीर्घा(र्घ-अ)रम्भ- -रम्भात् पावा
 १, २, ९.
 दीर्घा(र्घ-अ)हन्^१- (> दीर्घाहा-
 -ह्नी- पा.) पाग ४, १, ४५^१.
 दीर्घा^१/√भू > दीर्घा-भाव- -वः
 माशि १०, ६.
 दीर्घा(र्घ-उ)पल- -ले कौसू ३५, २६
 दीर्घा(र्घ-उ)प(धा >)घ^१- -घः
 ऋप्रा ४, ७४; अप्रा ३, ३, ४^१;
 -घस्य अप्रा २, ४, ९.
 दीर्घा- √ह, वृ (विदारणे) द्र.
 दीचितृ-, दीव्यत्-, दीव्यति-
 √दिव् द्र.
 दीक्ष्व^१ काश्रौ २६, ५, ४^१.
 दीस^१- (> दीस्य- पा.) पाग ५, १, २.
 √हु पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √हु, हू^१ पाधा. स्वा. पर. उपतापे.
 दाव^१- पा ३, १, १४२; -वात् वीश्रौ
 १८, १२; १३; -वान् कौसू ४६,
 ५४^१; -वे कौसू २९, १९; ३०,
 ७; -वेन अप्राय २, ७; ५, ४.

दावा(व-अ)सि- -सिना वैय ५,
 ९ : १४; ७, ३ : ११; ४ : १४;
 कप्र २, ९, १५; -सिम् पाय ३,
 ७, ३.
 दावामि-काष्ठ-संस्पर्श- -शै
 अप्र २३, १२, २.
 दून- पाठभोय २, २, १८४; पावा
 ८, २, ४४.
 दुकूल^१- पाठभो २, ३, ११२; -लस्य
 वैय २, २ : ३.
 दुः (<स्)कृत्- > °कृत्-सुकृत्-
 विविध^१- -धा अशां ११, ८.
 √दुःख पाधा. लुरा. उभ. दुःखक्रिया-
 याम्.
 श्दुःख^१- पाग ३, १, १३^१; १८; २७;
 ५, २, ३६; १३१; ६, २, १७०;
 फि ६; -खम् सु १९, ३; ३०, १;
 भाय; -खस्य अप्र ४८, ६५;
 -खात् वृदे ७, ८८; १५२; पा.
 ५, ४, ६४; -खानि अप्र ६८, १,
 १८; शंघ ३७५; विघ ४३, ४५;
 -खाय अप्र ५४, २, २; -खै^१
 वीश्रौ १७, ४३ : ४; आपमं २,
 २१, १९; आम्रिण्ट १, ४, १ : १७,
 हिय १, १२, २.
 रदुःख^१- -खाः वैय ४, १४ : १६.
 दुःख-जा(त >)ता^१- पाग २, २,
 ३७^१.
 दुःख-दर्श(न >)ना^१- -नाः अप्र
 ५८^१, २, २.
 दुःख-भागिन- -गिनः अप्र ६८, १,

a) द्वस. > मत्वर्थीयः अच प्र. । °ष्ठा इति पाठः ? b) द्वस. > वस. । c) °ष्ठान्तम् इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. पृ २९७ h) । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, १६३९ j द्र. । f) पाभे. वैप १, १६३९ l द्र. ।
 g) वैप १, १६३९ k द्र. । h) < दीर्घायुत्वाय (शौ १, २२, २) । i) पाभे. वैप १, १६३९ p द्र. । j) पाभे.
 वैप १, १३८८ d द्र. । k) विप. । वस. । l) तु. पागम. । m) व्यु. पाभे. च वैप १, १६३९ r, s द्र. ।
 n) = श्लेष- [तु. पागम.] । व्यु. ? । o) या ६, ४ परामृष्टः द्र. । p) नाप. । व्यु. ? । q) विप. (तत्रिज्ञान-
 यम-श्चन्) । द्वस. > त्स. । वा. प्र. । पू. कर्त्तरि प्र. । r) सपा. पाय ३, १४, १२; १३ दुर्गे इति पाभे. तमेव.
 Bōh(ZDMG ५२, ८३) समर्थकः द्र. । s) = दुःख-प्रद- । t) विप. । उस. ।

३९; ४१; -गी वाध ६, ६.
 दुःख-शोक-परीता(त—आ)त्मन्-
 -त्मा वृदे ६; ३३.
 दुःख-शोक-भय-प्र (द >) दा-
 -दा आज्यो १३, ८.
 दुःखा ✓ कृ पा ५, ४, ६४.
 दुःखा(ख-अ)न्वित- -तानाम् विध
 १९, २४.
 दुखा(ख-अ)पेक्षा- -क्षया विध ९६,
 ४१.
 ✓दुःखाय पा ३; १, १८.
 दुःखा(ख-आर्त >)र्ता- -र्ताः अप
 ६४, २, ३.
 दुःखित- पा ५, २, ३६; -तः विध
 ३, ९८; वृदे ६, २८; ३४; -ताः
 अप ५३, २, ४.
 दुःखिन्- पा ५, २, १३१.
 ✓दुःख्य पा ३, १, २७.
 दुग्ध-, दुग्धा ✓दुष् द्र.
 ✓दुष्, दुह पावा. भ्वा. पर. अर्दने;
 अदा. उम. प्रपूर्णे, दोहव या
 ११, ४३ कर्ण; णदोहताम् आपथो
 २, २०, ५; वौश्रौ; णदोहै
 आपथो ४, ७, २; हिश्रौ ६, २,
 १७; भाशि २८.
 दुग्धे अप १०, १, २० कर्ण; या
 १, २०; णदोहे आश्रौ २, १०, २१;
 वौश्रौ; भाश्रौ ४, १०, २; काण
 ४१, १८; दोग्धि काश्रौ २६,
 ५, ५; आपथो १, १२, १६ × ×;
 काश्रौसं; या ११, ४३; दुहति
 आपथो २१, २०, ७ कर्ण; दुहते
 कौस् ९३, १९; ११२, १ कर्ण;

अप १, ४८, ७; दुहे यो ६,
 ३२ कर्ण; दुहन्ति आश्रौ ४, ७, ४, ५,
 १२, १५; शाश्रौ; णदुहाम् आपथो
 १६, ३४, ४; वौश्रौ; या ११, ४५;
 दुहन्तु सु ९, ४; णदुह्व शाश्रौ २,
 ८, ४ × ×; काश्रौ ३, ४, १० कर्ण;
 पाण ३, ३, ५; या १०, १६;
 णदुग्धि आपथो १, १३, १०;
 वौश्रौ; धुह्वम् आश्रौ ६, १२,
 ४ कर्ण; णदुहव वैश्रौ १४, २०; ६;
 १७, ८; ९; दुहत्सं हिश्रौ ७, ८,
 ६८ कर्ण; णदुहाम वैश्रौ १८, २१;
 ३४; दुहति आपथो ९, ५, ५ कर्ण;
 १०, १६, ८ × ×; भाश्रौ; दुह्यात्
 आपथो १, १२, १५ × ×; काश्रौसं;
 दुह्युः आपथो ११, ४, १०.
 अदुहव तैरा २, २२ कर्ण; दुहव
 काश्रौसं ३६; ६.
 णदुह्ये आपथो २, २०, ३५;
 आशिण्ड; या ११, २८; दुह्ये
 याशि २, ६०; दुह्युः हिश्रौ ९,
 ५, ३६ कर्ण; णदुक्षीमहि वौश्रौ
 ३, १९; ८; १४, ९; ३७;
 जैश्रौ ११; १६; वैताश्रौ १७, ८;
 दुक्षत क्रा ४, ९८ कर्ण; णदुक्ष
 क्षत् आश्रौ ४, ७, ४; ५, १२, १५;
 शाश्रौ ५, १०, ९; या १०, ३२;
 अदुक्षन् वैताश्रौ २४, १ कर्ण;
 दुक्षन् क्रा ४, ९८ कर्ण; णदुक्ष
 काश्रौ ४, २, २४; आपथो; धुक्षि
 क्रा ११, ८; उस् ६, ६.
 णदुह्यते आश्रौ ४, ७, ४ कर्ण; शाश्रौ
 ५, १०, ८; णदुह्यन्ते आश्रौ ४,

७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८; दुह्येत
 भाश्रौ ९, ८, ७; ११, १८, ७.
 दोहयति काश्रौ ४, २, २२ × ×;
 आपथो; दोहयतः आपथो ८,
 ५, ३०; वौश्रौ; दोहयत वौश्रौ
 ६, १०; ११ × ×; दोहयत् शाश्रौ
 २, ८, ३; काश्रौ; दोहयेत्
 लाश्रौ १०, १५, ७; १६, १०.
 अदुह्यत् विध ५५, ११.
 णदुदुक्षन् क्रा ४, ९८; दुधु-
 क्षन् शुप्रा ३, ५५.
 दुग्ध, ग्धा - ग्धम् आश्रौ ३, ११,
 ५; काश्रौ; -ग्धस्य आश्रौ ४,
 ७, ४ कर्ण; शाश्रौ ५, १०, १८ कर्ण;
 आपथो ८, १४, १४; हिपि १५;
 १६; -ग्धानाम् अप ६७, २, २;
 -ग्धाभिः वौश्रौ २७, १३; २;
 लाश्रौ ७, ९, ८; १०; या ५, ३ कर्ण;
 -ग्धाभ्यः या ५, ३; -ग्धाम् निस्
 ५, ३; ४; -ग्धायाम् आश्रौ ४, ७,
 ४ कर्ण; वौश्रौ २७, १३; २; -ग्धासु
 वौश्रौ १, ३; २५; भाश्रौ; -ग्धे
 आपथो ८, ९, ८; १५, १७ कर्ण; वौश्रौ;
 पावा ४, २, ३६; -ग्धेन आश्रौ.
 दुग्ध-प(द >)दी - दीम् सु
 ९, ४.
 णदुग्ध-भृत् - भृत् आपथो
 ५, ८, ७; भाश्रौ १, ५, ३, ११;
 हिश्रौ ३, ३, ३.
 दुग्धा(ग्ध-अ)क्त- -क्तान् अप
 ३६, २३, १.
 दुग्धा(ग्ध-अ)क्त- -क्तस्य अप
 ४५, २, १७.

a) या ३, ४ परामृष्टः द्र. । b) दोहम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काठ ३७, १४) । c) प्रपु३ (पा
 ७, १, ८) । d) पामे. वैप १ पिन्वस्व काठ ५, २ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १६४० f) द्र. । f) परत्यरं पामे. । नपु३
 रुडागमः [हिश्रौ.] । g) पामे. वैप १, १६४२ b) द्र. । h) धुक्षत इति पपा. । i) सपा. तैत्रा ३, ७, १३, १
 दुदुहः इति पामे. । j) धुक्षन् इति पपा. । k) सङ्घत् पामे. वैप १, १६४२ c) द्र. । l) संहितायां घकारस्य दकारः
 स्मारितः । m) वैप १ द्र. । n) विप. । वस. ।

दुग्धाज्ञ-पान- -नम् अप १,
४८, १.

दुग्धा(श्व-आ)शिन- -शिनः
वैध १, ८, १.

दुग्धा आश्री ३, ११, ३; काश्री.

दुग्धु^१- -शुः वैप ५, ४ : २४^{१०};

दुहं- -हेन माश्री ६, २, ४, २.

दुहत्- -हत् अप ६८, २, ३; विघ
५, १३९; -हन्तः या २, ५^१;

-हन्ता या ६, २६^१कुं.

दुहां/क, दुहांचकिरे वीश्री १८,
२९ : १५.

दुहान, ना^१- -नः कौय ५, ७, २;
उनिस् ७ : १५; -ना आश्री ८,

१०, १; काश्री; या ११, २९;

-नाः आपश्री १, २, ८××;

वीश्री; -नाम् वीश्री १, १७ : २४;

आमिष्ट १, ७, ३ : ३७; ३, ११,

२ : ९.

दुह्य- पात्रा ३, १, १०९.

दुह्यमान, ना- -नम् काश्री २५, २,
५; आपश्री ९, ५, ६; ८; वीश्री;

-ना आश्री ३, ११, १; ७; आपश्री;

-नाम् आपश्री १, १२, १७^३;

६, ४, ४; आश्री; -नायाम् शाश्री

५, १०, ८; -ने आश्री ५, १२,

१८; भाश्री १, १३, ४; जैश्री

२३, ११; जैश्रीका ५७.

दोग्धुम् जैश्रीका ५६.

दोग्धु- > ङ्घ्री- ङ्घ्री वृदे ३,

५०; ७९^{१०}; -ङ्घ्रीणाम् अप

७२, ४, ७; -ङ्घ्रीम् शाश्री ८,

१८, १^{१०}; माश्री ४, ३; १; १३;

-ङ्घया माश्री ४, ३, १५; २९;

-ङ्घ्यौ माश्री ४, २; ६.

दोग्धी^१-दमन-पर्यस्तपाश-घट्टन-

घण्टाभरण-भूषण-योजन-तैल-

मण्डौपधभैषज्यक्रिया-व्या-

स^१- -सानाम् काध २७१ : ४.

दोग्धी-धेन्व (नु-अ) एक-अ-

(द>)दा- -दाः अप ३६,

२०, १.

रदोग्धु^१- -ग्धा आपश्री १, १२,

१४; वैश्री ३, ७ : ८; १२; हिश्री १,

३, ३७; -ग्धारम् वाश्री १, २, २,

२१; वैश्री ३, ७ : १२; २०,

५ : १.

दोग्धु^१- -ध्रम् वैश्री १३, ४ : ५;

-ध्रे आपश्री १५, ३; -१०××;

भाश्री.

दोग्धु(य>)या^१- -ये माश्री

४, १, २०.

दोह^१- पाग ५, १, ६४; २, ३६; -^१हः

शाश्री ४, २१, ३^३; १३, १२, १३;

काश्री; -^१हम् वाश्री ५, १३, ६;

शाश्री; -हयोः भाश्री १, १५, ४;

माश्री १, ३, २, १९; वाश्री १,

३, ४, ३२; मीस् ३, ६, २८; -हस्य

भाश्री ९, २, ७; -हाः पाय ३,

३, ५; -हात् हिश्री २, ६, ५२;

-हान् अप ६८, ५, २०; -हाम्याम्

आपश्री २, २०, ३; -हे आपश्री

१७, १२, १३; हिश्री १२, ३,

१४; शंघ ४११; ४३९; -हेन

शाश्री ५, १०, ८; -हौ आपश्री

२, ११, ८; ९, १, ३१; भाश्री.

दोहिक- पा ५, १, ६४.

^१दोह-का(म>)मा- -माः

आपश्री ४, १२, ५; वीश्री ३,

१९ : ७; भाश्री ४, १८, ३; वैश्री

७, ६ : १२; हिश्री ६, ३, १३.

दोह-काल- -लम् वीय २, ९, १;

-ले आपश्री १५, १८, १.

^१दोह-पवित्र^१- -त्रे आपश्री १,

११, १०; वैश्री ३, ६ : ८; हिश्री

१, ३, १३.

दोह-प्रभृति- -ति काश्री ४, १४,

३१.

दोह-स्थान- -ने काश्री २५, ६,

२; हिश्री १५, १, २५.

दो(ह>)हा-दोह^१- > दोहादो-

हीय^१- -यम् जैश्री २३ : ११.

दोहादोहीय-सामन्- -म

जैश्रीका ५७.

दोहा(ह-अ)पनय- -यः मीस् ९,

४, ३९.

दोहित- पा ५, २, ३६.

दोहन^१- -नम् काश्री ४, ४, ७; ८,

९, २५; २५, १, १५; आपश्री;

-ने आपश्री १, १३, १०; वीश्री;

-नेन काश्री १८, ४, २; आपश्री.

दोहनी^१- -नी वैश्री ११, ८ :

५; अप ९, २, २; -न्याम् कौस्

२५, १७.

दोहन-कल्प- -ल्पेन भाश्री ६,

९, ३.

a) विप. । उः प्र. (पा ३, २, १६८) । b) दि० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. C.) । c) नाप.
वलयर्थे कः प्र. । d) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र । e) पामे. वैप १, १६४३ e द्र. । f) दोग्धु^०
इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । g) पस. > द्रस. > सस. । h) नाप. । कर्त्तरि वृच् प्र. ।
i) = दोहन-पात्र- । अधिकरणे क्व । j) विप. (उखा-) । स्वार्थीयः घ > ईयः प्र. उसं. (पा ४; ४, १४१) ।
k) वैप १ द्र. । l) वैप २, ३३६. द्र. । m) = साम-विशेष- । n) भाप. नाप. ।

भावाऽधिकरणयोः प्र. ।

दोहन-काल- -ले भाश्रौ ११,
१८, ४.
दोहन-पवित्र^३- -त्रत्य वौश्रौ
२०, ३: ३३; ४: ११; १२: १;
-त्रे द्राश्रौ १२, ३, ५; लाश्रौ ४,
११, ७.
दोहन-प्रभृति- -ति अत्राय ४, ३.
दोहन-संक्षालन- -नम् आपश्रौ
६, ६, ७; माश्रौ १, १, ३, ३२;
वैश्रौ २, ३: २.
दोहना(न-आ)दि- -दि आश्रौ
३, ११, १०.
दोहमा(न>)ना- -नाम् आपमं
२, २०, ३३; आमिष्ट २, ३, ६: १;
भाष्ट २, १७: २; हिष्ट २, १५, ९.
दोहयित्वा आपश्रौ १, १३, १०^३××;
वौश्रौ; अत्राय १, ३; ४, ३.
दोहन्- पा ३, २, १४२.
दोह्य, ह्या- पा ६, १, २१४; पावा
३, १, १०९; -न्या आपश्रौ ५,
८, ७; माश्रौ २, ८, ४६; माश्रौ १,
५, ३, ११; वैश्रौ १, ८: २; हिश्रौ
३, ३, ३; -ह्यान् या १, २०.
दोह्यमान, ना- -नाम् वौश्रौ १, ३:
१८; -नासु वौश्रौ २०, १: ४१;
-ने वौश्रौ ३, ०४: ४.
दोह्यमा(ण>)गा- -णा कौस् ६२,
२११.
दुच्छु(न>)ना^b- -ना अप्रा ३, ४,
१; शौच २, ६१; -नायै माष्ट
२, १६, ३.
✓दुच्छुनाय, नुच्छुनायते आश्रौ

३, १३, १८; आपश्रौ ३, ११, २;
भाश्रौ ३, १०, २; माश्रौ २, ५, ४,
९; हिश्रौ २, ६, ११; वैताश्रौ
२३, १२; ऋप्रा ९, १६.
दुणाशि^c जेष्ट १, ८: १५^d.
✓दुष्^b, नुदोषति अप ४८, १८;
निष २, १२.
दुष्^b- -०म् वौश्रौ १०, ३९: १०^३;
दुष्कु- ✓दुह द.
दुन्दुभ^e- -भा: चव्यू २: ७.
दुन्दुभि^b- पाठना ५, ८६; -भय:
अप ७१; १५, ८; -नमि: आपश्रौ
१६, २६, १; वौश्रौ; या ९,
१२^f; २१; अप्रा ३, ४, १;
-मिना वौश्रौ १६, ३: २०;
-मिम् आश्रौ ८, ३, १९; शाश्रौ;
-भीन् शाश्रौ १५, ३, १४××;
काश्रौ; लाश्रौ ४, २, २^g; ३, १९;
-भीनाम् वौश्रौ ११, १२: ५;
२२, १३: २०; आमिष्ट ३, १०,
४: ६; अप ७१, १३, २; -नमि
द्राश्रौ १०, ३, ४^३; लाश्रौ ३, ११,
३^३; काष्ट १७, २; वाष्ट १२, ४;
या ९, १३; याशि २, ६४; -मे:
वृदे ५, ११२; -नमौ वौश्रौ २,
५: १९; द्राश्रौ ११, २, ३;
लाश्रौ ४, २, २.
दुन्दुभि-देवता- > ण्य- न्यम्
अत्र ६, १२६.
दुन्दुभि-नाद- -दम् अप १९^३,
५, १.
दुन्दुभि-वत् अप ७०^३, २, ५.

दुन्दुभि-वाहन- -नम् वाधूश्रौ ३,
७६: १०.
दुन्दुभि-विमोचन- > णीय, या-
-यम्^b आपश्रौ १८, ५, २; वैश्रौ
१७, १४: २; -याम् हिश्रौ १३,
१, ५९^h.
दुन्दुभि-शब्द- -ब्द: आपश्रौ २४,
१, ३६; हिश्रौ १, १, १४; -ब्देन:
काश्रौ १२, ३, ८ⁱ; आपश्रौ २१,
६, १४; हिश्रौ १६, ३, १५.
दुन्दुभि-पेचन- दुन्दुभि-पेचण- टि-
द.
दुन्दुभि-पेवण- पा; पाग ८, ३,
१८^j.
दुन्दुभि-स्वन^k- -न: अप ७०^३,
२, १.
✓दुन्दुभ्य या ९, १२.
दुन्दुभ्य(मि-अ)धिक^३- -क: वैश्रौ
१७, ११: ९.
दुर्^m या १, ३; ऋप्रा ५, ५५; १२, २०;
१५, १७; शुप्रा ६, २४; ऋत ३,
८, ४; पा, पाग १, ४, ५८; दुर्-
पावा ६, ३, १०८; ८, ४, १६ⁿ.
दुर्^p- पाठमो २, १, ३०३; दुर्:
आश्रौ २, १६, ९; २, ३, १; शाश्रौ.
दुर्-प्रभृति^३- -तय: आपश्रौ ८,
२, १५; -तीन् आपश्रौ ७, १४;
९; वैश्रौ.
दुर्^३- -या: आपश्रौ १, १८, ४;
वौश्रौ; -र्यान् वौश्रौ ६, १७:
१२^३; २५: ३; माश्रौ.
दुर्-अग्नि^३- -ग्निना ऋप २, ९, १४.

a) = दोह-पवित्र- । b) वैष १ द. । c) = बालग्रहविशेष- । d) सपा. पाष्ट १, १६, २३ द्रोणासः इति पामे. । e) = मैत्रायणीय-भेद- । व्यु. ? । f) प्रोकार्थत्य प्र. बहुत्वे लुक् । g) णिम् इति पाठः ? यनि. शोधः । h) परस्वरं पामे. । i) भौपवाजनकैः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. चौसं. विद्याधरध) । j) पेचन- इति पाका ? । चन- इति [पक्षे] BPG. । k) निष. । वस. । l) निष. । m) द्रव्य. । n) तु. पासि. । o) पूय. = प्रैप-प्रतीक-इति भाष्यम् । p) दू इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै १, २, १०, १) । q) प्रास. ।

दुर्-अति-क्रम^म-मः विध २०, २७;
-मम् विध ८५, १७.
दुर्द(भन>)भना^म-भना अप्रा ३,
४, ११.
दुर्-अघन^म> ०(न्य->)न्या^म-
न्याम^म आपश्री ६, ३०, २;
वाश्री १, ५, ४, २०; हिश्री ६, ६,
२४.
दुर्-अझ(नि>)नी^म-न्याः वाश्री
१, ३, ७, १२; -न्यै वाश्री १,
२०; २५.
दुर्-अधीत^म-ते वीश्री २८, ११ : १.
दुर्-अनु-कर^म-राणि या ५, २५.
दुर्-अनु-(ग>)गा^म-गा वीश्री ३,
१, १३.
दुर्-अनूचान-नः वाधूश्री ४, ९० :
२४.
दुर्-अय^म-यम् या ३, १९.
दुर्-अव^म-वाः या ४, ५.
दुर्-अवगत-तम् वीश्री १८, १२ :
१६.
दुर्-अश^म-शः वीश्री १८, ३८ : ८३;
-शेन वीश्री १८, ३७ : १.
दुर्-अस्य^म> दुर्-स्यु-स्युः आपश्री
६, २१, १; ११, ११, ९; हिश्री
१, ६, ७४; ७, ६, १२; पा ७, ४,
३६; -स्युर् आपश्री १, १,
२ : २४; ५, ३ : १७; काश्री
२५, २८?; भाश्री १, ८ : १२;
१६ : ९; हिश्री १, ४, १; १९, ८.

दुर्-आगत-ते वीश्री २८, ११ : १.
दुर्-आचार^म-रः वाध ६, ६.
दुर्-आल्यं-कर, भव^म-पा ३, ३,
१२७.
दुर्-आत्मन^म-त्मनाम् वाध २०, ३;
-त्मानम् या १४, २९.
दुर्-आत्म-क^म-कम् सु ५, ४.
दुर्-आ-धर्ष, पर्ष^म-पर्षम् आपश्री ६,
१७, १०; भाश्री ६, ४, ४; हिश्री
६, ६, १६; -र्षाः माशि १५, ७;
-पर्षन् या १४, २५; -पर्षाम्
आश्री २, ६, १ : २९; भाश्री २,
१३; ६.
दुर्-आप^म-पम् विध ९५, १७.
दुर्-आ-पूर^म-रः शाश्री ४, २०, १.
दुर्-आर्द्धि^म-र्द्धयै^म वाश्री १, ३,
७, २०.
दौरा(द्धय>)र्द्धी^म-र्द्धयै आपश्री
३, ११, २; वीश्री १, २१ : १३;
भाश्री ३, १०, २; हिश्री २, ६, १;
कौश्री १, ५, २९; आश्री १, ५,
२ : १६?.
दुर्-आश^म-शाम् शाश्री १४, ३२,
१.
दुर्-आ-हर^म-रः सु ११, २.
दुर्-आहा^म-हा कौश्री १६, १९;
अप्रा ३, ४, १.
दुर्-इत^म-तम् माश्री १, ८, ४, ४०?;
हिश्री; निघ ४, ३१; या ६, १२;
-तस्य माश्री १, ६, ४, २१;

वाश्री १, ५, ५, ७; -ता वीश्री
६, ५ : ६; २७, ६ : १४; २८,
१० : ८; भाश्री १, ६, ७; हिश्री १,
४, ४?; या ७, २०?; १४ ३३?;
-तात् द्वाश्री ४, २, २५; लाश्री
२, २, ११?; आपमं; -तानाम्
वाध २७, २०; -तानि आपश्री
६, २३, १ x x; वाश्री; भाश्री
२, १७, १५; या ६, १२?; ७,
२०; १४, ३३; -तस्यः गौध
९, ७१.
दुरिता(त-अ)पमृष्टि-ष्टिम् अश्री
७, ६५.
दुर-इति^म-तिम् आपश्री ५, २, ११?
दुरिप्र-प्रम् वीश्री २, ५ : १८.
दुर-इष्ट^म-ष्टम् आपश्री ७, २८, ४३;
वीश्री १९, ४ : ३६ x x; वैश्री;
-ष्टस्य माश्री ३, ५, ७?; -ष्टात्
आपश्री ४, १०, २; वीश्री;
-ष्टानाम् वाध २७, २०; -ष्टस्यः
वाश्री १, ३, ७, २०?.
दुरिष्ट-शमन-क्षम-शाम् अप ७०,
१, ४.
दुर-इष्टि^म-ष्टेः आश्री ३, ६, २७;
-ष्टयाः वाश्री १, ३, ७, १२;
-ष्ट्यै आपश्री ३, ११, २५;
वीश्री १, २० : २५?; २१
१२; भाश्री ३, १०, २; वाश्री १,
३, ७, २०?; हिश्री.
दुर्-उक्त^म-क्तम् कौश्री २, १, २९?;

a) गसं. उप. खल् प्र.। b) वैप १ द्र.। c) = दुर्-अघानी-। d) स्वायं यत् प्र.। e) सपा. वाश्री ५, १३ ? दुर्धमन्याम् इति पाभे.। f) पाभे. वैप १, १६४६ j द्र.। g) गसं. उप. < √ गम् । h) = क्रतु-विशेष-। गसं. उप. √ अश्र [ध्याती] + खल् प्र.। i) पाभे. वैप १, १६४६ q द्र.। j) °यस्यवः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ १०, ३, १ आश्री. प्रमृ. च)। k) विप.। वस.। l) विप.। उस.। m) वैप २, ३ खं. द्र.। n) परस्परं पाभे.। o) °धयै इति पाठः ? यनि. शोधः। p) उप. खल्यं घञ् उसं. (पा ३, ३, १२६)। शेषं h टि. द्र.। q) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। r) पाभे. वैप १, १६४७० द्र.। s) पाभे. वैप २, ३ खं. दुर्धमन्याम् १, ६, २७ टि. द्र.। t) पाभे. वैप १, १६४७१ द्र.। u) पाभे. वैप १, १६४८८ द्र.। v) पाभे. वैप १, १६४८८ b द्र.। w) दुर्-रि° इत्येयं सतो रेफलोपे दीर्घाऽभावः उसं. (पा ६, ३, १११)। x) पाभे. वैप १, १६४८८ m द्र.। y) पाभे. वैप १ स्विष्ट्यै काठ ५, ४ टि. द्र.। z) द्र° इति पाठः ? यनि. शोधः।

पाण्डु, २, ८^३; अप ४०, ६, १२९;
-कात् आपमं २, २, ९^३; शांय
२, २, १^३; काय ४१, ११^३;
माय; या ३, १६९; -काय
या ३, १६९; -क्ते वीय ३, ५,
१३.

दुरुक्त-वचन- -नम् काय ३, १६;
माय १, २, १९; वाय ९, १९.

दुर्-उदित^१ -त्तम् वीय ४, २, ११;
आपमं १, १३, ५; माय २, ३१;
११.

दुर्-उपचार^२ -रा: वीथौ १८, ४४;
११.

दुर्-उपयुक्त- -कात् शांय ६, ६,
१६.

दुर्-कृद्धि^३ -द्वि: वीथौ २, ५: ९.

दुर्-एव^४ -वै: अप्राय ६, ९.

दुरीण^५ - पाठभोत्र २, २, १८४;
-तणम् अप्राय ६, ९; अप ४८,
८९; -तणे आश्रौ ५, ९, २६;
शांथौ; आपमं १, ६, १२^६; या
४, ५९; ८, ५९.

दुरीण-सद् -सत् या १४, ३११^६.

दुर्-ग, गा^६ - पावा ३, २, ४८; -र्गम्
आपमं १, ६, १०^६; काय; -र्गा
शंघ १०५; वीय ४, ३, ७; विध
५६, ९; वृदे २, ७७; -र्गाणि
वीथौ २८, १०: ७; अप १,
५०, ८९; या ७, २०^६; १४,
३३^६; तैप्रा ७, १०; -र्गाम्
वीथौ २८, १०: ५; वीथौ २०,
२७: १; आमिगृ ३, ९, २: ८;
-र्गे पाण्डु ३, १४, १२^६; १३^६;
वृदे ६, १३७.

दुर्गा(र्ग-आ)पति- -त्तौ अप्राय
३, ९.

दुर्गा-पूजन- -नम् अप १८^६, २, ४.

दुर्गा-मनस्वती-महाग्याहृति- -त्ती:
वीय ४, ८, १; वीपि २, ६, १२.

दुर्गा(र्ग-आ)सारा(र-अ)मात्य-देश-
दण्डा(रड-आ)कन्दा(न्द-र-आ)
घ-गुण-विधि- -ज्ञ^१ - -ज्ञ:
शंघ २५३.

दुर्गा^२-(>दौर्गायण- पा.) पाग ४,
१, ९९.

दुर्-गति- -तिम् कौशि ६३.

दुर्गति-गमन- -नानि या ६, १२.

दुर्-गन्ध^३ - -न्धे कौत् १४१, ३९;
अप ७०, ६, १.

दुर्गन्ध-र(स>)सा- -साभि: वीध
१, ५, १४.

दुर्गन्धिन्- -न्धी शंघ ३७८.

दुर्-गन्धि^४ - -न्धि विध ९६, ४६.

दुर्-गम- -मानि: या ७, २०; १४,
३३^६.

दुर्गमा(म-अ)घान-गमन- -नम्
अप ६८, ५, ११^६.

दुर्-गाह^५ - -हा आश्रौ २, १३, ८^६.

दुर्-गृभि^६ - > √दुर्गृभीय, दुर्गृ-
भीयसे ऋप्रा ८, १७^६.

दुर्-गोप^७ - -पा: वाधुश्रौ ४, ६१: ३;
८६^६: ५.

दुर्-जन^८ -> न-वजि(त>)ता-
-ताम् वीध ३, ३, २२.

दुर्-जीवित->दौर्जीवित्य^९ - -त्यम्
अप ३२, १, ८^६.

दुर्-ज्ञेय- -या: शंघ ५.

दुर्-णा(<ना)मन्^{१०} - -मा माय २,

१८, २^३; या-६, १२^६; -म-
शौच ३, ८४.

दुर्-णा(<ना)श^{११} - -शस्य
वीथौ १८, ३८: १६; -शेन
वीथौ १८, ३८: ९.

दुर्णाश-स्व- -स्वम् वीथौ १८, ३८:
१६.

दुर्-दर्श^{१२} - -शम् आपघ १, २२, ८;
हिष १, ६, ८.

दुर्-दर्शन- -पावा ३, ३, १३०.

दुर्-दिन^{१३} - -नम् कौत् ३८, १.

दुर्दिनाय पावा ३, १, १७.

दुर्दिन^{१४} - -न: वीथौप्र ६: २.

दुर्-दृग्- -दृशाम् अप ६८, ४, ४.

दुर्-घर्षण- -पावा ३, ३, १३०.

दुर्-घाव- -व: या ४, १०.

दुर्-धी^{१५} - -धिय: या ५, २३; १०, ५;
-धियम् या ५, २.

दुर्-ध्यात- -नम् अप ४०, ६, १२.

दुर्निमन्^{१६} -> दुर्निम-कण्ट-कम्बु-
-म्बूनाम् अप ७०, ४, ७.

दुर्-नि-यन्तु^{१७} - -न्तु: ऋप्रा ५, ५३^६.

दुर्-बल^{१८} - -ल: काश्रौ २५, ७, १;
पाण्डु ३, १४, १२; कप्र ३, २, २;
या ६, २८; -लम् आमिगृ ३,
१२, १: १३; कप्र ३, २, ३;
शैशि १९३; नाशि २, ५, ३;
-लस्य शैशि १९२; याशि २,
२८; माशि ६, ३; नाशि २, ५,
३; -ला: अप ६८, १, ३९; ४१;
४४; विध ४५, ३३; -लाय
वीध २, ३, ५०.
दौर्बल्य- -लयात् नाशि १, ४, ७.
दुर्बल-हिंसा- -सायाम् गौध २१.

a) पामे. पृ १६९१ S द्र.। b) गन्. डप. < √वद्। c) विप.। वस.। d) प्रास.। e) वैप १
द्र.। f) पामे. वैप १, १६४९ G द्र.। g) पामे. पृ १२८७ I द्र.। h) दस.>वस.>पस.>दस.>उस.।
i) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। j) *मनानि इति राज.। k) दुर्गम् अध्वा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संत्कर्तुः-
टि. मूको. च)। l) = ऋतु-विशेष-। m) = वृद्ध-विशेष-। व्यु. ?। n) वैप १, १६५१ n, 0 द्र.।

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९. दुर्वली ✓मू > दुर्वली-भवत्- -वन्तम् कौसू ८०, ३. दुर्-ब्राह्मण ^a - गस्य आपथौ ११, २, ८; माथौ ११, १२, १८; वैश्री १३, १५: ५; हिथ्री २४, ५, ८. दुर्-भग, गा ^b - पाग ४, १, १२६; ६, ३, ३४; -गः शंघ ३७७; -गम् अप २६, ३, १; -गा वीथ्री २६, १: १३; कप्र २, ९, ८; अप ६९, ५, १; वृदे ७, ४२; -गात् अप ३५, २, ८; -गाम् कप्र २, ९, १०. दौर्भागिन्ये- पा ४, १, १२६. दौर्भाग्य ^c - न्ययम् माग १, १९, ४; २, १४, २६; ३१; -न्यात् अप ३५, २, ८. दौर्भाग्य- > ग्या ^d - न्यया आमिग २, ७, ६: ९. दुर्-भिक्ष ^e - क्षम् अप ५०, ३, १; ९, १××; -क्षे भाग्य ३, १४: २११; अप २३, ११, २; ६९, ४, १; या ६, ५ ^२ ; -क्षेण अप ५१, १, ५××. दुर्भिक्ष-लक्षण- णम् अप ७० ^३ , ८, ३; ४. दुर्-भूत ^f - तम् आपथौ २१, १९, ११; वीथ्री १६, २२: ६; वाथ्री ३, २, ५, ३९; हिथ्री १६, ६, ३१. दुर्-भ्रातृ ^g - (> दौर्भ्रात्र- पा.) पाग | ५, १, १३०. दुर्-मति ^h - तिम आपमं १, ६, १२; काग २६, १२; वीग ४, २, १४; या १०, ४२. दुर्-मति ⁱ - ति: अप ३, १, ६ ^१ ; -तिभि: वाघ ३०, १०. दुर्-मद ^j - दः माथ्री ६, १, २, २६; वाथ्री २, १, १, ५०; -दास: या १, ४: दुर्-मनस् ^k - (> √दुर्मनाय पा.) पाग ३, १, १२. दुर्-मनस् ^l - (> दौर्मनसायन- पा.) पाग ४, १, ११०. दुर्-मर ^m - > √दुर्मराय > दुर्म- रायु- यु: आपथौ ४, ७, २; माथ्री ४, १०, ३; हिथ्री ६, २, १७; -युम् आपथौ ४, ६, ५; वीथ्री. दुर्-मर्ष ⁿ - र्षम् आपमं २, ११, ३११. दुर्-मर्षण- पावा ३, ३, १३०. दुर्-मित्र, त्रा ^o - त्रास: वीथ्री २, ५: २९ ^१ ; ४, ७: २८ ^१ ; ८, २० ^३ ; १५ ^१ ××; माथ्री ४, ४, २२ ^१ ; वैथ्री १६, २५: १५ ^१ ; द्राथ्री ४, २, २ ^१ ; आमिग; -त्रास: या ६, ६ ^१ . दुर्मित्रि(यं >) था ^p - न्या: माथ्री ८, १२, ११; काथ्री: १९, ५, १५; लाथ्री २, २, ११; ५, ४, ६. दुर्मि(यं >) थ्या ^q - न्या: आथ्री ३, ५, २; द्राथ्री १३, ३, २२. दुर्-मित्र, त्रा ^r - पाग ४, १, ९६ ^६ ; -त्र: क्रप्र २, १०, १०५; वृदे ८, १७; | साअ १; १९६; २२८. दौर्मित्रि- पा ४, १, ९६. दुर्-मेघस् ^s - पा ५, ४, १२२; -घा कप्र १, ३, २. दुर्-मेघ- दुर्- द. दुर्-मेघान्याम् ^t वाग ५, १३. दुर्-मेघान्य: अप २: ६. दुर्-मेघान् ^u - णम् क्रप्रा २, ७५; उत् २, १६; १७. दुर्-योधन- पा, पाग ५, ३, १०० ^३ ; पावा ३, ३, १३०. दुर्-लभ ^v - पा ७, १, ६८; -भम् अप २२, १०, २; ४१, ४, ६. दुर्-लभ- पा ७, १, ६८. दुर्-लभ- भ्वा. पर. हिंसायाम्. दुर्-वराहै(ह-ए)डक ^w - कः आपथ्री ९, १०, १५. दुर्-वर्तु ^x - र्तु: या ४, १० ^१ क ^१ . दुर्-वार ^y - र: या ४, १७. दुर्-वाल ^z - लात् गौध १७, १६; २१, ११. दुर्वाला(ल-आ)दि- दीन् गौध १५, ३०. दुर्-वासस् ^{aa} - ससम् जैग १, १४८. दुर्-वि-चिन्तित- -तम् अप ४०, ६, १२; शंघ. दुर्-वि-ज्ञेय- न्यानि आग १, ५, ४. दुर्-वि-वक्तृ- वक्तु: आपथ १, ३२, २४; हिथ १, ८, ६५. दुर्-वृत्त ^{ab} - त्तम् वाघ ६, ४४. दुर्-ह(ण >) णा ^{ac} - > √दुर्हणाय > णायत् - यत: क्रप्रा ८, २७ ^१ . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) प्रास. i b) वैप १ द्र. i c) = दौर्भाग्ययुक्ता-स्त्री. i d) व्युद्घर्थेऽभावाथे वा अस. उप.
<√भिक्ष [लाभे (तु. भा. तैआ १, ४, ३१) = √विद् लाभे]. e) विप. > नाप. i वस. i f) = ऋपि-
विशेष. i g) विप. i वस. i h) व्यप. i वस. i i) पाभे. वैप १, १६५२ i द्र. i j) विप. i स्वार्थे यत्
प्र. उंसं. (पा ४, ४, ११०) i k) = नारी-विशेष. i l) पाठ: ? पाभे. पृ १२९१ d द्र. i m) वैप १,
१६५२ ० द्र. i n) = व्यप. i तु. पागम. i o) गस. उप. खलन्तम्. i p) प्रास. > मलो. कस. i
q) = खलति. i वस. उप. = मूर्धज. i r) = आचार्य-विशेष. i वस. i s) पाभे. वैप १, १६५३ e द्र. i

दुर्-ह(ण) > णु - णु वौश्री ९,
१८ : १५; वौश्री ४, २, १०.

दुर्-हल- °लि- पा. ५४, १२१.

दुर्-हार्द^b - -हार्दः द्राश्री १०, ३, ४;
लाश्री ३, ११, ३; अश्र १९,
३५; -हार्दम् कौसु ४२, १७.

दुर्हार्दिशः कौसु ७०, ११.

दुर्-हि(त) > ता- -ता या ३, ४.

दुर्-हुत- -त्तम् अप ४०, ६, १२.

दुर्-हण^b > √दुर्हणाय > दुर्ह-
णायु- युः आश्री २, १८, ३;
-युः या १४, २५७; शैशि
३३६.

दुर्-हृद्^d - (> दौर्हृद्- पा.) पाग ५,
१, १३०.

दुर्-हृदय^d - (> दौर्हृदय- पा.) पाग
५, १, १३०.

√दुल् पाधा. चुरा. उभ. उत्क्षेपे.

दुल- (> दुल्य- पा.) पाग ४, २;
८०.

दुला^b - ला वौश्री १०, ४५ : २२;
आपमं २, १६, ८; भाग २, ७;
२२; हिग २, ७, २; विध ६७,
७.

दुलि- पाउभो २, २, १५९.

√दुव^b, दोवति अप ४८, १९; ^c

दुवस्- √दुवस्य प्रस्. √दू (परि-
चरणे) द्र.

दुग्-चक्ष^b - क्षाः आपश्री १४,
३०, ४; वौश्री ७, १३ : ४; हिश्री
१५, ७, १९.

दुग्-चर^l - -त्तम् विध २५, १७.

दुग्-चरित^l - -त्तम् वौश्री २, ५, २१; ^c

दुः- तात् आपश्री २, १४, १०;

वौश्री.

दुश्चरित्तिन्- -त्तिन् वाश्री ३, २,

५, ३१; द्राश्री ११, ३, ९; लाश्री
४, ३, १०.

दुश्चर्मन्^b - -र्मा वौश्री १३, १७ :

६; १८ : १; २३, २ : २८; हिश्री :

दुश्चर्म-कुनखि-कुछि-श्चित्रि-श्याव-

दन्त- -न्ताः शंघ २०२.

दुश्चल^l - -लानाम् अप ६८, २,
४६.

दुश्च्यवन^b - -नः अशां १९, ६;

अश्र १९, ३२; शुभा ४, १५५;

ऋग्रा १६, १७.

दुःशासन- -पावा ३, ३, १३०.

दुःशीर्ति- > दुःशीर्ति-तनु^b - -नो

आपश्री ६, १४, १३; माश्री ३,

२, १२; वाश्री १, ५, ३, ८; हिश्री

३, ७, ७५.

दुःशी(ल) > ला^d - ला वैश्री ५, ९ :

५; -लाम् वैश्री ५, ९ : १४.

दुःश्रुत^b - -तः आपश्री ९, १५, १८; ^c

-त्तम् भाश्री ९, १८, ५; हिश्री

१५, ४, ३८; आमिष्ट २, ७, ९ :

१९; भाग ३, १९ : ४; -तयोः

भाश्री ३, १, २२; -ते आश्री ३,

१४, १.

दुःश्रित^l - -ते अप्राय ४, १.

√दुल, दू J^m पाधा. दिवा. पर. वैकुल्ये,

दुप्यति वौश्री ५४ : ७; निस्;

विध २३, ३६; दुप्यतः विध

२२, ८४; दुप्यन्ति वाध २८, ५;

शंघ १६९; वौध १, ५, ५१; २,

२, ५७; दुप्येत् माश्री ३, १, १;

शंघ ७९; दुप्येयाताम् अप्राय ४,

१; दुप्येयुः आपश्री ९, १५, १४;

वौश्री.

दुप्यते वाध १९, ३८.

दूषयते अपः ६२, २, ७; दूषयेत्

वौध १, ४, १७.

दुष्ट, ष्ट- -ष्टः अप्राय ४, २; शंघ

३०३; वौध २, १, ६; -ष्टम्

शाश्री १३, १२, ९; काश्री;

-ष्टस्य शाश्री ३, २०, ५; काश्री

२५, ५, ९; काश्री ३३ : २;

निस् १, ६ : ९; -ष्टा विध ५३,

८; -ष्टाः वौश्री २, १० : ३४;

-ष्टान् शंघ २०२; विध ३,

३७; -ष्टाम् वैश्री ६, २ : ९;

विध ५, ४७; -ष्टे शाश्री ३, २०,

१२; १३, ३, २; काश्री; आमिष्ट

२, ७, ९ : २७; -ष्टेन शाश्री

३, २०, १५; -ष्टेषु वौश्री २९,

३ : ९.

दुष्ट-चेतस्^d - -त्तसः वाध ११,

२५; वौध २, ८, १४.

दुष्ट-भाव^d - -वः आपध २,

२६, १९; हिध २, ५, २१४.

दुष्ट-मृग-घातिन्- -ती वैध ३,

१४, २.

दुष्ट-वाक्य- -क्यैः वैश्री २, ८ :

८.

दुष्ट-वाच्^d - -वाक् विध ५,

१९६.

दुष्ट-हविस्- -विषा वैश्री २०,

३ : १६.

a) वैष १, १६५३ f द्र. । b) वैष १ द्र. । c) वैष १, १६५३ i द्र. । d) विप. । वस. ।

e) तु. पागम. । f) पाभि. वैष १, १६५४ c द्र. । g) = सारमेय (वाल्मप्रह-)-मातृ- । h) धा. हिसार्थे वृत्तिः ।

i) गस. उप. खलन्तम् । j) वैष १, १६५४ i द्र. । k) दुशी^o इति पाठः ? यनि. शोधः । l) गस-

उप. √श्री [पाके] > श्रि इति पा ६, १२६ । m) पा ६, ४, ९०; ९१ परामृष्टः द्र. । n) जुष्टे इति पाठः ?

यनि. शोधः ।

दुष्टा(ष्ट-आ)त्मन्-स्मा आसिष्ट
२,७,६:८.

दुष्टा(ष्ट-आ)न्न-भोजिन्-जी
काध २७८:८.

दुष्ट्यत्-प्यति निस् १, ६:८.

दूषण- पाग ३, १, १३४^०; -णम्
आपथ्रौ २१, २०, ३१; हिश्रौ
१६, ६, ४१^१; विध २३, ४६.

दूषयित्-तु: विध ५, १०१-
१०३.

दूषि^०-वि: कौस् ३९, १; ७; १३;
अशां; -प्या: कौस् ३९, १; ७;
१३; अशां १९, २; अप ४, ४,
९; १७, २, १६; ३२, १, २; अश्र
२, ११; अप २: १०.

दूषि(क>)का^०- पाठभो २; ३,
१९; -का विध २२, ८१.

दूषित,ता-तम् शंघ ४३१; विध
२३, ३८; -ता वाध २८, ३:

दूषित-कर्मदुष्ट-साक्ष्य(क्षि-अ)
ङ्कित^०-तम् विध ७, ८.

दूषी(क>)का^०-का पाठ ४,
१६.

दूष्य,प्या-प्या: वैध ३, ४, ११;
-प्याणि वैध ३, ४, ८.

दोष-पाग ३; १; १३४; -प: आश्रौ
१२, ४, २२; शाश्रौ; वाध १७,
७०; १९, ४८; २३, ६; २७,
९; शंघ १४६; ४३२; आपध
१, २९, ७; २, २, ८; १३, ३;
वौध १, २, ५०^१; विध ५,
१४७; १९०; हिध १, ७, ६३;
२, १, ३०; ३, ३; गौध १०,
१६; १३, १२; २४; २१, १७;

मीस् ३, ४, २८; पावा १, १,
१०××; -पम् वाधश्रौ ३, १०५:

४^६; वौपि; -पा: कप्र २, १, १६;
वाध; -षाणाम् शंघ १६२;
१७६; आपध; -पात् शाश्रौ

३, १९, ७; काश्रौ; -षान् वौश्रौ
२८, ११: १६; अप; -वे आश्रौ

३, १४, ४; शाश्रौ; पावा ४, १,
४९; -षेण वौश्रौ २८, ११:

१८; आपध २, ६, १९; विध;
-षेषु शाश्रौ ३, १९, ३; ८; वौश्रौ

२९, १३: १७; वौध ४, १, १;
२, १; -षै: अप २२, ३, २; -वौ

निस् ८, ४: ३६; ऋषा ११,
४७; माशि ९, ९.

दोष-कारक-कम् अप ५८^३, ४,
१८.

दोष-दर्शिन्-शीं निस् ५, ५:
११.

दोष-नाश-शात् काश्रौ १, ८,
११.

दोष-निघातां(त-अ)र्थ-थम्
वैश्रौ २०, १: ६^१.

दोष-निर्वात^०-तानि भाश्रौ
९, १, ४^१.

दोष-निर्वाता(त-अ)र्थ-थानि^१
आपथ्रौ ९, १, ४; हिश्रौ १५,
१, ४.

दोष-निर्णय-ये वौध १, १,
३२.

दोष-निवृत्ति-त्ति: कौष्ट ४,
१, २.

दोष-प्रसङ्ग-ङ्गात् मीस् ९, ३,
१०.

दोष-फल-ल्म् आपध १,
२९, २; हिध १, ७, ५८.

दोष-फल^०-लानि^१ हिध
१, ६, ४९; -लासु आपध २, २,
७; हिध २, १, २९; -लै: आपध

२, २, ७; हिध २, १, २९.

दोष-फल-परिवृद्धि-द्धि:
आपध २, २, ५^१.

दोष-फल-वृद्धि-द्धि: हिश्रौ
२, १, २७^१.

दोष-फल-संशय-ये आपध
२, १२, १९; हिध २, ४, ५६.

दोष-भाज्-भाक् विध ५,
१८८.

दोष-वचन-नात् द्राश्रौ ३, ३,
१४.

दोष-वत्-वत् आपध १, २६,
७; वौध ४, २, १३; हिध १, ७,
१८; -वति वौश्रौ २९, ३: ९;

गौध २५, १०; -वत्सु आपध
१, २६, १२; २९, ४; हिध १, ७,
२३; ४९; ६०; -वन्ति आपध

१, २१, १९^१; -वान् आपध २,
१३; ४; हिध २, ३, ४.

दोष-विद्^१-वित् माशि २, ८.

दोष-विशेष-षात् काश्रौ १,
५, १४; वाध: ३, ५६; वौध १,
५, ५८.

दोष-विहीन-न्म् वैध ३,
४, ४.

दोष-श्रुति-न्ति: मीस् ६, १, ७.

दोष-संयोग-गात् काश्रौ २३,
४, २५.

दोष-संक्षय-यात् कप्र ३, ४, ४.

a) विप. । वस. । b) भू इति [पक्षे] पाका. । c) वैप १ द्र. । d) =दूषीका. । e) दस. >
कस. > तुस. । f) भवे कर्तरि च कृत् । g) सपां. काश्रौ २५, १३, २४ आपथ्रौ १४, २१, २ भेपजम् इति
पामे. । h) सप्र. 'वाताथर्म <> 'निर्वातानि <> 'निर्वातार्थानि इति पामे. । i) सप्र. दोषफलानि <>
दोषवन्ति इति पामे. । j) सप्र. 'लपरिवृ' <> 'लवृ' इति पामे. । k) उप. <√विद् [ज्ञाने]।

दोष-सामान्य- -न्यात् नीत् ६, ५, ४५.
 दोषा(ष-अ)नुसार-त्सः (:) अप ६९, ८, ४.
 दोषिन्- पा ३, २, १४२; -षिणः गौष १३, ७; -षी कौत् ४५, ३१; गौष १८, २३.
 दुष्-कर- -रम् विष ९५, १७; भाशि ११८; १२०.
 दुष्-कीर्त्ति- -त्तौ वौश्रौ २, ५: ५.
 दुष्-कुल- (> दौष्कल्य-पा.) पाग ५, १, १२४.
 दुष्कुलीन-, दौष्कलेय- पा ४, १, १४२.
 दुष्-कृत्- -कृत् सु ७, ५; अप १, ४१, ८१; वृदे २, ११९; -कृतः आपश्रौ ७, १६, ७१; अप २, ४, २; या १०, ११११; -कृते शौच २, ६३.
 दुष्-कृत- -तम् आश्रौ ३, ३, ४१; वौश्रौ २, ८: १०; ११: २; ३: ५; ६: १; सु; या १४, २९; ऋषा ८, १९१; -तत्त्व विष ९१, १; या ६, २७; -तात् अप २०, ७, ४; -तानि वाष ५, ५; २८, ४; वौष १, ५, ८८; ४, २, १७१; -तैः वौश्रौ २८, २: ५४; अप ४२, १, ३.
 दौष्कल्य- -त्यम् आपश्रौ १०, १, ६; भाश्रौ.
 दुष्कृत-कर्मन्- -मंगः^० विष ५७,

११; हिष १, ५, ११५.
 दुष्कृत-कारिन्- -रिणः^० वाष १४, १६; आपष १, १९, १३.
 दुष्कृतकारिणी- -णी सु ७, ५.
 दुष्ट-प्रदः √दुष् द.
 दुष्-ट (<त)र- -रः शुषा ५, ४१; -रम् आश्रौ ४, १२, २; अप्रा ३, ४, १; शौच ४, ८३; -त्त या ५, २५७.
 दुष्-ट (<त)रीत्- -तुः आश्रौ ४, १२, २१.
 दुष्-ट पा, पाग ८, ३, ९८६.
 दु-ष्टु (<त्)त- -तात् शांत् ६, ६, १६१.
 दुष्-ट पाठ १, २५१; पाग १, १, ३७; ५, १, १२९; १३०.
 दौष्टव- पा ५, १, १२९; १३०.
 दुष्-परि-माण- -जः कौत् १३९, २३.
 दुष्-परि-हार्य- -यै विष २०, २९.
 दुष्-पुरुष- (> दौष्पुरुष्य-पा.) पाग ५, १, १२४.
 दुष्-पूर्य- -यम् या ५, २४.
 दुष्-प्र-ज्ञान- -नम् वौश्रौ १४, २५: ३०.
 दुष्-प्रति-ग्र (>)हा- -हा शौच २, ६३.
 दुष्-प्र-लम्भ- -म्भः आपष १, २०, ५; हिष १, ६, १९.
 दुष्-प्र-ग्रा (>)वी- -व्यः ऋषा १३, ३०; उत् ८, १९.

दुष्यत्- √दुष् द.
 दुष्यन्त- > दौष्यन्ति- -न्तिः सात्र १, ६११; २, ९४५.
 दु-ष्व (<त्)म- > दौष्वप्य- -प्यम् अप ३२, १, ८; अप्र ७, २३.
 दौष्व (<त्)नी- -प्यः अप्र १९, ५६.
 दौष्वप्य- -प्यम् अप ३२, १, ८; -प्यात् अप ३२, १, ८; अप्र ७, १००.
 दुःपन्त- > दौःषन्ति- -न्तेः ऋष २, ६, ५२.
 दुष्पन्त- पाठमो २, २, १३९.
 दुः-पं (<त्)धि- पा, पाग ८, ३, ९८.
 दुः-भ (<त्)म- पा, पाग २, १, १७.
 दुः-पा (<त्)मन्- दुः-षेध-पा, पाग ८, ३, ९८.
 दुः-ष्व (<त्)न- > दौःष्वप्य- -प्यम् आपश्रौ ९, १२, ८.
 दुःष्वप्य-नाशि (>)नी- नी सात्र १, १४१.
 दुःष्वप्यि- -यम् आपश्रौ ६, २३, ११.
 दौष्पप्य- -प्यम् आप्र ३, ६, ५; कौत् ५८, १२; शुषा ३, ७२; ९२.
 दुस् पाग १, १, ५८.
 दुस्-तर- -रः याशि १, ३०; -रम् सु २०, ४.
 दुस्-तरीष- पाग ६, २, १८४.

a) गत्. उप. खलन्तम् । b) प्रात्. । c) वैष ३ द्र. । d) विप. । वत्. । e) सत्र. कर्मणः <> कारिणः इति पामे. f) अन्व. । व्यु. ? । g) °दु इति पाका. पामि. । h) < दुस् √त्या इति । i) तु. पागम. । j) विप. । गत्. । k) गत्. उप. √पृ + क्यप् प्र. । l) गत्. उप. खल् प्र., तुमागनः (पा ७, १, ६७) च । m) = नृप-विशेष- । व्यु. ? । n) विप. । साडत्यदेवतीये लणि च-लोपः (पा ६, ४, १५०) । o) पामे. वैष १, १६५७ ० द्र. । p) पामे. वैष १, १६५७ d द्र. । q) = दुष्यन्त- । व्यु. ? । r) वैष १, १६५७ f द्र. । s) वैष १, १६५७ g द्र. । t) पामे. वैष १, १६५७ h द्र. । u) = दुष्वप्य- । v) अन्व. । w) प्रात्. उप. २वरी- + < √पा [रक्षणे] इति पाका. ।

दुस्-तर्पा^३- -र्पाः या ४, ५.
 दुस्-त्य(ज>)जा^३- -जा वाघ ३०, १०.
 दु-स्पृष्ट^३- -ष्टः शैशि १५, २२, ७२.
 दु-स्वप्न- -प्नः वीश्रौ २, ५ : १२ ;
 -प्नम् आपमं १, १३, ५ ;
 वीश्र ४, २, ११.
 दु(स् >):-सकथ-^३किय^३- पा ५,
 ४, १२१.
 दु(स् >):-साध्य- -ध्यानि अप
 ६९, १, ५.
 ?दुःसीम^३- -मे वृदे ७, १४०^३.
 दुःस्त्री-(>दौःस्त्र- पा.) पाग ५,
 १, १३०.
 दुःस्पृष्ट^३- -ष्टः पाशि ५ ; -ष्टम् ऋप्रा
 १३, १०.
 दुःस्वप्न- -प्न^३ वीश्रौ २८, ९ :
 २० ; वैश्रौ २१, २ : ६ ; -प्नः
 भाग्य २, ३१ : १४ ; -प्नम् वीश्रौ
 २८, ९ : १९ ; वैश्रौ ; शंघ १०१^३ ;
 विध ६४, ४१ ; -प्नात् काश्रौ
 २५, ११, २१^३ ; -प्ने विध
 २२, ६७ ; -प्नेषु गोग्य ३, ३,
 ३१.
 दुःस्वप्न- -प्नम् ऋप्र २, १०,
 १६४ ; वृदे ८, ६७.
 दुःस्वप्नघ्नी- -घ्नी अत्र २०,
 ९६.
 दुःस्वप्न-दर्शन- -ने शांश्र ५, ५, ३ ;
 काथ २७६ : १२.
 दुःस्वप्न-दुर्भूत- -तानि अप ३३,

१, १०.
 दुःस्वप्न-नाशन- -नः अत्रमू २ ;
 -नम् अप ८, २, ५ ; -नानि अप
 ३२, १, ८^२.
 दुःस्वप्ननाशनी- -नी वृदे
 ५, ८९ ; -नीम् शुभ्र ४, ५०.
 दुःस्वप्ननाशन-गण- -णस्य
 अत्रमू २.
 दुःस्वप्ननाशन-देवता- > ^३प्य,
 -त्या- -त्यम् अत्र ६, ४५ ; -त्याः
 अत्र १६, ५ ; -त्ये अत्र ७, १००.
 दुःस्वप्न-नाशि (न >) नी- नी
 ऋप्र २, १, १२० ; वृदे ३, १३९.
 दुःस्वप्ना(प्न-अ)घ-प्रणाशि (न >)
 नी- नी वृदे ४, ८३.
 दुःस्वप्ना(प्न-अ)रिष्ट-दर्शना (न-
 आ)दि- -दौ शंघ ४३७.
 ?दुःस्वप्न्य^३- -प्यम् अप्राय २, ५ ;
 अप ३७, ५, ५.
 दुस्-स्वप्न- -प्ने वीश्र ३, ५, १४ ;
 -प्नेषु वीश्र ४, ३, ९.
 √दुह्, दुह-, दुहव-, दुहान-
 √दुष् द्र.
 दुहि(त >)ता^३- -ताम् काथ २८१ :
 ५ ; -०ते अप ३५, १, १.
 दुहितृ^३- पाठ २, ९५ ; पाग ४, १,
 १० ; १०० ; १०४ ; ६, ३, ३३ ;
 -तः ऋप्रा १, १०२ ; ७, २४ ;
 ३१ ; -तरः लाश्रौ ९, १०, ४ ; ६ ;
 आग्य २, ६, १५^३ ; वीश्र २, २,
 ४४ ; विध १८, ३५ ; या ३, ४ ;

-तरम् शाश्रौ १८, १३, ३^३ ;
 वाधूश्रौ ; -तरि वीश्र २, २, १५ ;
 -तरौ पाग्य ३, १३, ३ ; -तः
 शाश्रौ १५, १७, १ ; वीश्रौ ;
 या ३, ४४^३ ; ६, ६ ; अप्रा ३, ४,
 १ ; -तुः वैश्रौ ९, ११, १२ ;
 भाग्य १, २७ : २० ; वृदे ४,
 १११ ; या ३, ४^३ ; ५ ; ४, २१ ;
 १२, ११ ; -तुः वृदे ५, १४५ ;
 -तृणाम् गौध २८, २५ ; -त्रा
 वीश्रौ १८, ४६ : १८ ; -त्रे वीश्रौ
 ५, १७ : ३ ; अत्र ३, ३१^३ ; या
 १२, ११^३ ; -त्रोः वीश्र २, २,
 ७९.
 दौहित्र- पा ४, १, १०४ ;
 -त्रः वीश्र २, ११, ६६ ; वाघ ;
 -त्रम् वीश्र २, २, १५ ; या ३,
 ४६.
 दौहित्रायण- पा ४, १,
 १००.
 दुहितृ-गमन- -नम् विध ३४, १.
 दुहितृ-गामिन- -मि विध १७, ५ ;
 २१.
 दुहितृ-जामातृ- -तरः विध ९३, ६.
 दुहितृ-दायाध- -धे या ३, ३.
 दुहितृ-मत- -मतः आपध २, १२,
 २ ; हिध २, ४, ३७ ; -मते कौय
 १, ८, ३६ ; शांश्र.
 दुहितृ-शत- -तेन वाश्रौ ३, ४, ३,
 ४६^३ ; ४७ ; ४८.
 १दुह्य- √दुष् द्र.

a) गस. उप. खलन्तम् । b) = ईपत्स्पृष्ट- । प्रास. । c) विप. । वस. । d) = नृप-विशेष- ।
 व्यु. ? । e) सपा. ऋ १०, ९३, १४ दुःशीमे इति । f) पागे. वैप १, १६५७ d द्र. । g) प्नात्
 इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. विध.) । h) वैप १, १६५६ प द्र. । i) = (कुलान्तराधिक्ये संगन्ती-) पुत्री- ।
 व्यु. ? (*भिद-भूत्- > नैप्र.) *द्वित्- (भेद-) > *द्वित्-क्- > *द्विकृ- > *दुक्- (भिन्न-, कुलान्तराधिक्य-) +
 (√मेध् [संगमे] > कर्तरि) मे(घ >) आ- > उस. *दुक्-मेधा- > *दुस्वे(वे)ता- > यनि. इति । दुहितृ-
 इत्यपि उप. प्र. एव भिन्नं सत् व्यु. सन्त्यायं द्र. । एतदनु वैप १, १६५७ m इत्यत्र विशेष आधेयः ।
 न) वैप २ द्र. ।
 वैप ४-तृ-६८

२दुह्य^०- पा, पाग २,४,६३.

दुह्यमान- √^०दुष् द्र.

√दू पाधा. दिवा. आत्म. परितापे.

√दू (परिचरयो) > दुवस^०- पाग ३,
१, २७; -कंव: आश्रौ ८, ९, ५;
शांश्रौ.

√दुवस्य^० पा ३, १, २७; कंव-
स्यति अप ४८, १०; निघ ३, ५;
दुवस्य या १०, २०^१कृ;
कंवस्यत आश्रौ २, ८, ७; ४, ५,
३; आपश्रौ; आश्रि ३, ५, २:
२क^०; वौपि १, २: २क^०.

दुवस्यु^०- स्यु: कभ २,
१०, १००; वृदे ३, ५६; -स्यौ
वृदे २, १२९.

कंवस-वत्- वान् शांश्रौ ६,
१२, ६; १९; वौश्रौ.

दू^० > दू-ड, क^०म^०- पावा ६, ३,
१०९; -कभ: शांश्रौ २, १२, ७;
आपश्रौ ६, १७, १२; हिश्रौ ६, ६,
१६^०; श्रुपा ३, ४२.

दूडम-व(त >) ती- तीम् हिश्रौ
६, ६, १७^०.

दूडाम^०- पाग ६, ३, १०९^१.

दूडश^१- पावा ६, ३, १०९.

दूडी^०- कंव्य: या ५, २; २३कृ;
-क्यम् या ५, २कृ.

दूड्य^०- पावा ६, ३, १०९.

दूड्य-दूणाश-दूलभ-प्रवाद-दा:
कभ ५, ५५; -दान् उस् ६, ७.

दूण(<न)श^०- शा कभ १२, ४४कृ;

दूणा(<न)श^०- पावा ६, ३, १०९;

-श: काश्रौ २२, ८, २५^०; कभ
९, ३६कृ; -शस्य लाश्रौ ८,
१०, १६.

दूणाश-दूड्य-दूलभ- भान्
कभ ११, ४०.

दूभाव- व: कभ १०, २२.

दूभूत- -तम् कभ ५, ५५.

दूरोहण^०- णम् आश्रौ ८, २, १३;
१५××; शांश्रौ ११, १४, १३;
१२, ११, १२; १५, ३, १०; -णे
वौश्रौ १२, १०: ३९.

दूडाश^० शौच २, ६०कृ.

दूत, ता^०- पाठ ३, ९०; पाग ४, १,
४२^१; ५, १, १२४^१; -त: शांश्रौ ३,
५, ९कृ^१; १४, १२कृ; १४, ४०, १;
आपश्रौ; कंवौश्रौ २, ११: ११^०म;
शांश्र २, १३, ५कृ^१; हिश्र २, ३,
७कृ^०; कंया १, १७; ५, १कृ; ६,
१७; २२^०; ७, २६; ८, ५; -तम्
आश्रौ १, २, ७कृ××; शांश्रौ;
-तस्य काश्रौ १५, ३, १३; या
१२, ४३कृ; -ता: आश्रौ ८, १०,
१कृ; -तान् आमि १, ६, १:
५; -ताय वाश्रौ ३, ३, ४; ४६;
आश्र १, १२, ३; ४; -ते वाध
१९, ३७; -तेन वौश्रौ १८, २२:
११; -ती हिपि १८: १०कृ.

दूती- पाग ४, १, ४२^१; -ती
वृदे ८, २७; -तीम् वौश्रौ २१,
१२: ४; वृदे ८, २८; -त्य:

कौसू ११७, २कृ.

दौत्य- पा ५, १, १२४; -त्ये
वृदे ५, ७४.

दूत-प्रवेश- -श: आश्रौ ८, ५.

दूत्य- पा ४, ४, १२०; पावा ५,
१, १२६; -त्य: माशि ७, ५कृ;
-त्यम् आश्रौ ३, ७, १०;
आपश्रौ; -त्याय आश्रौ ९, ९,
७कृ; -त्ये वृदे ८, २१.

दूति- पाठ ४, १८०.

दूद(त्य >) त्या^०- त्या हिश्र २, ७, २.

दून- √दु (उपतापे) द्र.

दूर^०- पाठ २, २०; पाग ६, ३, २;
-रम् आपश्रौ ७, ११, ७^२;
१३, १५, ११; वौश्रौ; लाश्रौ
३, २, ७कृ^०; या २, ५; १४; ३,
१९कृ; ४, २५; अप्रा ३, ४, १कृ^०;
माशि १५, ८; -रस्य अप ४८,
१०९; निघ ३, २६; -रात्^०
आश्रौ ४, १५, २कृ; शांश्रौ;
द्राश्रौ ७, २, ७कृ^०; कौसू ८८,
१^०; अत्र १२, ५२कृ^०; या २,
२७कृ; ३, ११; ९, १३कृ^०;
पा १, २, ३३; ८, २, ८४;
-रे^० शांश्रौ ४, १२, १०कृ;
आपश्रौ; या ३, ४; ११^०कृ; ४,
१४^०कृ; ११, २५कृ; पा ५, ३,
३७; -रेण^० आशि ८, ४.

दूर-क^०- के आपध १, २, २; हिष
१, १, ३५.

दूर-खातो(त-उ)दक- -क: कभ ३,

a) = कभ-विशेष- । व्यु. ? तु. पाका. । दू^० इति भारुड. । b) वैप १ द्र. । c) या १०, २० परामृष्ट: द्र. । d) पाभे. वैप १ सपर्यत शौ १८, १, ४९ टि. द्र. । e) = [वन्दन-पुत्र-] कभ-विशेष- । f) शांश्रौ. पाठ: । g) ञ^० इति पाठ: ? यनि. शोध: । h) विप. । गस. । i) तु. पागम. । j) वैप १, १६५९ n द्र. । k) = कभ-विशेष- । l) पाभे. वैप १, १५९१ & द्र. । m) दत: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. सप्र. शौ १८, ४, ६५) । n) सप्र. आपमं २, १३, १२ पुत्र: इति पाभे. । o) = सारमेय [वालप्रह-] मात्- । व्यु. ? । p) पाभे. वैप १, १६६१ & द्र. । q) वा. क्वि. । r) दूरान् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. संस्कृत- टि.) । सपा. मा २, ३० प्रमृ. विशिष्ट: पाभे. । s) पाभे. वैप १, १६६१ f द्र. । t) पाभे. वैप १, ६९२ f द्र. ।

१०, १५.
 दूर-ग- पा ३, २, ४८; -गाः भाग्य
 २, २७ : ७; वैगृ ८, ११ : १;
 वैघ १, १०, ३; ११, २.
 दूर-तर- -रम् या ९, १३.
 दूर-तस् (-) अप ३६, १३, १.
 दूर-त्व- -त्वात् आज्यो ७, १३-१५.
 दूर-नामन्- -मानि निघ ३, २६; या
 ३, १९.
 दूर-पातिन्- -तिनौ या ६, ३३.
 दूर-पार- -रः या ४, १८; -रे या
 ६, १.
 दूर-भूयस्त्व- -स्त्वात् मीसू १, २,
 १२.
 दूर-वेधिन- -धिनौ या ६, ३३.
 दूर-श्रवस्- -वसे शाश्रौ १२, १६,
 ११.
 दूर-स्थ- -स्थः कप्र २, ५, ८;
 -स्थम् विघ ९७, १८; -स्थस्य
 विघ २८, २१; आज्यो ७, १६;
 -स्थाभ्याम् कप्र २, ५, ६.
 दूरा(र-अ)न्तिका(क-अ)र्थे- -र्थेभ्यः
 पा २, ३, ३५; -र्थेः पा २, ३,
 ३४.
 दूरे-अ(न्त >)न्ता- -न्ते निघ
 ३, ३०; या ४, २५१.
 दूरे-अमित्र- -त्रः शुप्रा ४, ८५१.
 दूरे-अर्थ- -र्थः आपश्रौ १६, १२,
 १; हिश्रौ ११, ४, १३.
 दूरे-स्य- -पावा ४, २, १०४.
 दूरे-दर्शन- -नम् आपध २, २३,
 ८; हिघ २, ५, १६१.
 दूरे-दर्शन- -नम् या ५, १०.
 दूरे-दृश- -शम् आपश्रौ १४,

१६, १; भाश्रौ; या ५, १०४;
 -दृशे वीश्रौ ६, १६ : १३.
 दूरे-पाक, का- -कु- पाग ७, ३, ५३.
 दूरे-आन्धव- -वम् वाघ १५, ७.
 दूरे-व्यन्तर- -राः वाधूश्रौ ४, ६१ :
 २.
 दूरे-श्रवस्- -वाः शाश्रौ ८, १७,
 ११; वीश्रौ १७, १८ : २६; वीगृ
 ३, १०, ६६.
 दूरे-हेति- -तिः वीश्रौ १८, १७ :
 २०; माश्रौ ६, २, ५, ३२; वाश्रौ.
 दूर-रोहण- दूद्र.
 दूर्वा- -र्वया वीश्रौ २२, ५ : १९; अप
 २६, ५, ४; ३६, ४, २; -र्वा अप
 १८, १, १७; ३६, १९, १; ७०,
 १९, ७; -र्वाः आपश्रौ १३, १७,
 ९; १५, २१, १०; वीश्रौ;
 -र्वाणाम् आमिगृ ३, ८, ३ : ३;
 वीपि १, १५ : ७४; -र्वाभिः
 वैश्रौ १६, २२ : २; भाग्य ३,
 १६ : २; -र्वाम् काश्रौ १७, ४,
 १८; वीश्रौ; -र्वै वीश्रौ २०,
 २७ : १०; भाग्य १, २७ : १.
 दूर्वा-कर- -रम् विघ ९, ५.
 दूर्वा-काण्ड- -ण्डम् शांग्य ६, ६, ९.
 दूर्वाकाण्ड-व(त् >)ती- -तीषु
 शांग्य ६, ३, ७.
 दूर्वा(र्वा-अ)क्षत-युक्त- -क्तम् वैश्रौ
 १, ४ : ९.
 दूर्वा(र्वा-अ)प्र- -प्राणि कौसू ७७,
 १८; -प्रैः कौसू २४, १८; २६,
 १३.
 दूर्वा-ग्रन्थि- -न्थिभिः वीश्रौ ९, १ :
 १५; १०, १ : १३; -न्थीन्

वीश्रौ ८, १५ : २८; २१, २४ : ३.
 दूर्वा(र्वा-आ)ज्य- -ज्यम् अप्राय ६,
 १०.
 दूर्वा(र्वा-अ)क्षलि- -लिना वीपि ३,
 ४, १७.
 दूर्वा(र्वा-आ)दि- -दीन् अप ४, १,
 १६.
 दूर्वा-प्रवाल- -लम् शंघ ३४६;
 -लान् शंघ ३४५.
 दूर्वा-मिश्र- -श्रम् माश्रौ ६, १, ७,
 १४; वाश्रौ २, १, ६, २४;
 -श्राभिः वीश्रौ १६, ४ : १४.
 दूर्वा-मूला(ल-अ)ङ्कुर- -रान् अप
 ५, २, ५.
 दूर्वा-यव-सर्प- -पाणि शाश्रौ ४,
 १५, ५; -पान् कौगृ ५, ४, ६.
 दूर्वा-रोपण- > णा(ण-अ)न्त-
 -न्तम् आमिगृ १, २, २ : ४७.
 दूर्वारोपणो(ण-उ)दधि-धावन-
 -वर्जम् भाग्य ३, ११ : १५; हिगृ
 २, २०, १३.
 दूर्वा-लोष्ठ- -ष्ठम् भाग्य १, ७, ९.
 दूर्वा(र्वा-अ)वा(स्त >)स्ता-
 -स्ताभिः आपश्रौ २१, ८, ४; २२,
 २८, १३; हिश्रौ १६, ३, ३९;
 २३, ४, ५१.
 दूर्वा-शाला-देवता- > ल्य-
 -त्यम् अश्र ६, १०६.
 दूर्वा-श्याम- -माः अप ६३, ४, ८.
 दूर्वा-सिद्धार्थक- -कान् अप ५,
 ५, ६.
 दूर्वा-स्तम्ब- -म्बः आपश्रौ १६,
 १३, १०; वैश्रौ १८, ११ : २७;
 हिश्रौ ११, ५, २१; -म्बम्

a) विप. । वस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, १६६१ ० द्र. । d) विप. । ल्यप् प्र. (तु.
 PW. प्रमु.) । पात्र. तु एत्यः प्र. । e) सप्त. (तु. Būh.; वैतु. संस्कृतैः शब्दसूच्यां पृथक् पदे [आपध.] इति) ।
 f) विप. । वस. (तु. BNM.; वैतु. ल. पृथक् पदे इति) । g) = सर्प-विशेष- । h) उप. = २कर- । i) उप.
 = अङ्कुर- । j) उप. < अक्ष √ अक्ष [क्षिपणे] । k) विप. (परिवेष-) । लस. । l) उप. = गौर-सर्प- ।

आपश्रौ १६, २४, १; वैश्रौ; -स्वे
आमिगु २, ५, ३ : ३७; -स्वेपु
वौगु ३, ७, २५.
दूर्वे(वा-इ)ष्टका^a - -काम् आपश्रौ
१६, २४, १; वौश्रौ १०, ३२ : ५;
नाश्रौ २, १, ६, २४; वैश्रौ १८,
१५ : ६; -कायाः वौश्रौ २२,
५ : १८; -कायाम् जैश्रौप ८.
दूर्वेष्टक-दैवत^b - -तम् शुभ्र २,
१५३.
दूर्वो(वा-उ)दक - -कैः वौगु ३, १०,
४.
दूर्शी^c - -शंस् कौस् ८५, २२; -शं कौस्
११, १६.
दूर्श-नरदजिना(न-अ)वकर-ज्वाल-
-लेन कौस् २८, २.
दूषण- -दूषयित्- प्रमृ √दुष् द्र.
√ह पाघा. स्वा. पर. हिंसायाम्,
दरऽदर अप ३६, १, १२.
√ह^e पाघा. तुदा. आत्म. आदरे.
दरिन्^d - पा ३, २, १५७.
दत्य- पा ३, १, १०९.
√ह, दृ^e पाघा. क्र्या. पर. विदारणे,
दर्व उस् ७, १७१.
दृणाति वृदे २, ३६; या १०, ८;
अदृणाः या १०, ९.
दीर्यते वौश्रौ १३, ३९ : १५;
अप ७०३, १५, २; दीर्यते आपश्रौ
१४, २५, १००××; वौश्रौ.
दारयते या १०, ८.
नैददः ऋअ २, ५, ३२; साअ;
या १०, ९६; ऋप्रा १, १०३;
ददः ऋप्रा १, १०३.

ददत्- पावा ३, २, १७८.^f
दर- पा ३, ३, ५८; पाग २, ४, ३१;
५, १, २६; ६, १, १६०.
दर-श(य>)या^g - -या या १,
१२.
दरण- -णम् अप ६४, ३; ९; ६, ४;
९, ५.
दर्व- -र्वः ऋप्रा १, १०२१.
नैदर्मन्^h - -र्मा शाश्रौ ८, १७, १;
आपश्रौ.
दर्य- पा ५, १, २.
दारयत्- -यन् वैगु ५, १ : १९.
दारयित्- -ता या १०, ८.
दारयित्-तम- -मः या ६, १३.
दारुण, णाⁱ - पाउ ३, ५३; पाग ८,
१, ६७; -णः अप ६२, २, २;
७१, १४, ५; -णम् जैगु २, ९ :
३७; अप; -णा कौस् १०२, १;
-णाः अप ५२, ४, १; ५८^j, ४,
१३; -णाम् अप ७१, १३, १;
-णायाम् कौस् ९३, १७; -णे
अशां १, ५; २, २; ४, १; -णेषु
अप ५२, १५, ३; विध ४३, ४०;
-णैः विध ४३, ४०.
दारुण-संसुत^k - -तानि वौश्रौ ९,
६ : १४.
दारुण्य- -ण्यम् तैप्रा २२, ९.
दीर्ण- -र्णः वौश्रौ १४, ७ : ८; १८;
२८; -र्णम् आपश्रौ १४, २६,
१; आपगु १७, ११; या ३, २०;
-र्णे शाश्रौ १३, १२, १; ३;
आपश्रौ.
दीर्ण-प्रवृत्त- -त्तानाम् वौश्रौ

१४, ७ : १; -त्तेपु वौश्रौ २३,
५, १९.
नैदवन्^l - -वा^m काश्रौ १५, ५, २०;
शुअ १, ६०४.
√हंह, हह पाघा. भ्वा. पर. वृद्धौ,
हंहति वैश्रौ १०, ९ : ५; जैश्रौ
६ : १२; ९ : १२; हंहताम्
कौस् ९८, २१; हंहतु जैश्रौ २ :
७; नैदहन्ताम् काश्रौ २, २,
२५; ३०; आपश्रौ; नैदहस्व वौश्रौ
१, ३; १२××; नैदह काश्रौ ६, ३,
१०; आपश्रौ; माश्रौ १, २, ३,
४ⁿ; नैदहत, > ता आपश्रौ १६,
१४, ५; वाश्रौ २, १, ५, २०;
वैश्रौ १८, १२ : १४; नैदहत्
आपश्रौ ५, २, १; या १०, ३२;
नैदहन् निस् १, १२ : १६;
नैदहयाः आपश्रौ ५, ९, ११;
माश्रौ १, ५, २, १५; वाश्रौ १,
४, २, ७; हिश्रौ ३, ३, ३२.
हंहयति कौस् ४३, ११.
नैदह्य शाश्रौ ११, ९, ९; वृदे ८-
१०.
अदहन्त ऋप्रा ९, ४३१.
दाहण- -णः ऋप्रा ९, ३२१.
हंह^o - -हः माशि ८, १०.
हंहण^p - -णानि कौस् ३८, ११.
हंहयित्वा गोयु ३, ७, ८; ४, २, ९८
कौस् १३६, ७.
हंहि(त>)ता- -ताः माश्रौ ५, २,
५, १७१.
हह, वा, लहा^q - पा ७, २, २०; पाग
२, ४, ३१; ५, १, १२३; -हः

a) वैप १ द्र. । b) वस. पूष. हस्वः द्र. । c) पा ७, २, ७५ परामृष्टः द्र. । d) <√हविदारणे
इति MW. ? । e) या ४, १५ पा ३, १, ५९; ७, ३, ८०; ४, १२; ९५ परामृष्टः द्र. । f) <√ह [भये] इति
पाम. [पक्षे]; पाका. पासि. च । g) उदर- इति पाका. । h) विप. (स्थूणा-) । उस्. । i) = सु-संसुत- (मिष्ट-) इति
शब्दसूची । j) पामे. वैप १, १६६३ d द्र. । k) उभयत्र पामे. वैप १, ८८४ e द्र. । l) हंह (क्रिप.)
इत्यस्यानुकरणम् । m) = कर्म-विशेष- । n) आश्रौ. या ६, १९ पाठः ।

वौश्रौ २५, १३ : ९; कप्र ३, ९, १५; पा ७, २, २०; सु १०, २; -ढम् याशि १, २३; -ढम् आश्रौ ६, १४, १८; ९, ५, २; आपश्रौ; आपमं १, ९, २^३; या ६, १९^क; -ढाः भागृ १, ७ : १३^क; -ढानि अप ७१, १५, ३; या ६, १९; -ढायाम् वाधूश्रौ ४, ११२ : ५; -ढे शाश्रौ १७, २, २^क; आपश्रौ; -ढैः अप ५८^३, १, ३.

दाढ्यं- पा ५, १, १२३.

दाढ्यं-वृक्ष^० > ँक्ष^०-

-क्षम् वौश्रौ २२, ५ : २१; ६ : २५; १३ : ५.

दढ-कारिन्- -री गौध ९, ७०.

दढ-च्युत^० -तः ऋअ २, ९, २५; साअ १, ४७४.

ददार्ढच्युत- -०त आश्रौ १२, १५, ३^३; आपश्रौ २४, १०, १०^३; हिश्रौ २१, ३, १५^{१४}; वैध^३ ४, ८, १-४^३; -तः ऋअ २, ९, २६; -तम्^३ लाश्रौ ७, ४, १; ८, ५; लुस् २, १ : २८; ११, १९; निस् ९, १ : २८.

दढच्युत-वत्^३ आपश्रौ २४, १०, १०; हिश्रौ २१, ३, १५; वैध ४, ८, १^१; २-४.

दढ-च्युति^३ > रदार्ढच्युत- -०त^३ वौश्रौ ४९:५; ५०-५१ : १.

दढच्युति-वत्^३ वौश्रौ ४९ : ६; ५०-५१ : २.

दढ-तर, रा- -रः तैप्रा २०, ९; कौशि २९; -रायाम् अप्राय ५, ५; अप ४५, २, १९.

दढ-त्ता- पा ५, १, १२३; -त्ता कौशि ३.

दढ-त्व- पा ५, १, १२३.

दढ-धन्वन्^क -न्वने या १०; ६.

दढ-घृति^क -तिः आपध १, ३, २१; हिध १, १, ९४^१.

दढ-निपातन- -नम् पावा ७, २, २०.

दढ-पर्यु(घ>)ष्टा^म- -ष्टे शाश्रौ १७, १०, ९.

दढ-पुरुष- -षः पागृ १, ८, १०.

दढ-प्रयत्न-तर- -रः तैप्रा १७, ६.

दढ-प्रहारिन्- -री शंघ २४४.

दढ-भक्ति^क -क्तयः अप ६८, १, २३.

दढ-भङ्ग- -ङ्गेषु अप ७२, ३, १०.

दढ-न्नत^क -तः पागृ २, ७, १८; अप ५२, १०, १.

दढ-स्थण्डिल- -लम् वैश्रौ १२, ४ : १.

दढा(ढ-अ)ङ्ग^क -ङ्गः या ९, १२.

दढा(ढ-अ)थं- -थंम्^३ भाश्रौ ११, १५; वैश्रौ १३, ३ : २; हिश्रौ ११, १४४; -थं आपश्रौ^३ १५, ३, ७; १६, ४, २; भाश्रौ ११, १७, १०; -थंन वैश्रौ १८, १:६१^३.

दढी^३ > दढी-करण- > ण-

-हेतु- -तवे जैश्रौका ७७.

दढी-कृत- -तम् जैश्रौका ९९.

दढी^३ > भू, दढीभव या ८, ३.

दढी-भाव- -वः निस् ४, ६ : ११; ६, ५ : ११.

दढिमन्- पा ५, १, १२३.

दृश्- ^३ दृश् द्र.

१दृति^० - पाठ ४, १८४; -तयः लाश्रौ ८, ३, १४; -तिः शाश्रौ १२, २२, २^१; आपश्रौ १८, २२, २;

वाधूश्रौ २, १६ : ८; अप ४८, १००^३; वृदे ३, ९५-९७; निघ १, १०^३; -तिम् वौश्रौ ८, १० : ३^३; १०, ४० : २; २२, १७ : १७; आमिगृ २, ५, १० : ३६^३;

-तिषु शाश्रौ १४, ४०, ११; -०ते निस् ४, ११ : २१; -तैः आपश्रौ १५, १८, २; माश्रौ;

-तौ आपश्रौ १८, ११, ३; वौश्रौ २२, १७:१३; हिश्रौ १३, ४, १६;

दातैय- पा ४, ३, ५६.

दृति-कर्मन्- -मणि कौस् ३८, १२.

दृति-भूत- -ते आग्निगृ ३, ९, ३:८^३;

-तेन आमिगृ ३, ९, ३:६^३.

दृति-वस्ति- -स्तयोः कौस् १४, ५.

दृति-हरि- पा ३, २, २५.

दृती^३ > भू > भूत- -तेन वौपि २, ७, ५^३.

२दृति^३ > दृति-वातवतोर्- -वयन^३ -नम् आश्रौ १२, ३, १;

- a) पाभे. वैप १, १६६४ f द्र. । b) पाभे. वैप १, १६६४ g द्र. । c) = खदिर-प्रमृ. । मलो. कस.(तु. भाष्यकारः) । दढ-वृक्ष- > दार्ढवृक्ष- यद्वा ँक्ष- इति संस्कर्तुरभिमतम् । d) विप. । विकारार्थे ञ्ण प्र. । e) = ऋषि-विशेष- । f) परस्परं पाभे. । g) ळ्यं इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आश्रौ. प्रमृ.) । h) = साम-विशेष- । i) परस्परं पाभे. । j) ँदि इति पाठः ? यनि. शोधः । k) विप. । वस. । l) ँदिसिद्धि^३ इति पाठः ? यनि. शोधः । m) उप. <पर्यु(रि/ऋ)प[गती] । = निखात- इति भाष्यम् । n) सपा. थंम् <> थं <> थंन इति पाभे. । o) वैप १ द्र. । p) वैप १, १६६४ m द्र. । q) कृष्णाजिनेन दृति^३ इत्यस्य स्थाने सपा. वौपि २, ७, ७ कृष्णाजिनदृती इति पाभे. । r) परस्परं पाभे. । s) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । t) ऋषि-विशेषयोः द्वस. [वैप २, ३खं. द्र.] । n) = सत्र-विशेष- ।

काश्रौ २४, ४, १६; -नस्य काश्रौ
२४, ६, २४; -ने शांश्रौ १३,
२३, १; लाश्रौ १०, १०, ७; -नेन
आपश्रौ २३, १०, १; हिश्रौ १८,
३, १७.
दृतिवातवतोरयन-पूर्व-पक्ष-
-क्षेण काश्रौ २४, ४, ३५.

रेहति^a -> दृति-श्रुति- नतिः भाशि
१७^b.

दृन्^a -; दृन्-भू- पावा ६, ४, ८४.

✓दृप् पाधा. दिवा. परः हर्षमो-
हनयोः; चुरा. उभ. संदीपने,
दृपति आपध १, १३, ४; हिध
१, ४, १८.

दृप्यसिः वौश्रौ १८, ४४ : ८;

दृप्यामि वौश्रौ १८, ४४ : ७.

दृर्ष- पाग ३, १, १३४; -र्षम्
सु २, ५; -र्षेण विध ५, २४.

दृर्ष-समन्वित- -त्ते विध ९९,
११.

दृर्ष-हर- -रः शोध ३१३.

दृर्षित- -तः विध ८६; २०; वृदे
७, ५४.

दृर्षण- पा ३, १, १३४; -णः अप
६८, २, ३०; -णान् अप २०, १,
३; -णे अप ६७, ६, १; ७०, ५, ३.

दृर्षणा(ख-आभा>)स^b -भाः
अप ६३, ४, ९.

दृस- -सः आपध १, १३, ४; हिध
१, ४, १८.

दृप्- पाठ २, १३.

✓दृप्, फू पाधा. तुदा. पर. उत्केशे.

दृप्सः^a माशि १२, ११.

✓दृम् पाधा. तुदा. पर. ग्रन्थे; चुरा.

उभ. संदर्भे.> दर्भण^a - -णम्,
-णे वौश्रौ ६, २५ : २१; २७ :
२४.

✓दृम् पाधा. चुरा. उभ. भये.

✓दृम्फू^a पाधा. तुदा. पर. उत्केशे.

दृम्फू- पाठ १, ९३.

दृम्भू- पाठमो २, १, १२४.

दृवन्- ✓दृवृ (विदारणे) द्र.

✓दृश^a पाधा. भ्वा. पर. प्रेक्षणे,
दर्शत् आमिद्य २, ७, १० : १२.

दर्शयस्^a द्राश्रौ १३, २, ८¹; लाश्रौ
५, २, ११¹; पावा ३, १, ८६.

दर्शं शांश्रौ १५, २३, १; वौश्रौ;
पाग २, १४, ५^म; शुभ ४, ५९^१;^म

या १, १९^१; दृशतुः वृदे ८,
७०; शुभ २, २१६; दृदर्शिय, दृद्रष्ट
पा ७, २, ६५; दृश्या शांश्रौ १, ३,
६^१; दृष्टारः आपश्रौ २४, २,
२५^१; अदर्शत् द्राश्रौ ४, १, ११;
लाश्रौ २, १, १०; अद्राक्षीत् अश्र
१, १६; ६, ३१; अद्राक्षुः शांश्रौ
१५, २४, १^१; अदर्शम् वौश्रौ
१८, ४५ : १३; अप्राय २, २; ३;
नदर्शम् वौश्रौ ८, १८ : १^१.

दृश्यते वौश्रौ २०, १ : १५;
हिश्रौ; वैताश्रौ ३२, २७; या

१, १०××; पा ३, २, १०१××;

पावा २, १, ३३; ५, १, ५८;

दृश्यते निसू ९, ७ : १५; विध
४२, ९; वृदे १, ८; माशि ९, ८;

याशि १, ८६; दृश्यन्ते वाधूश्रौ
४, ३४ : ६; ८; कौसू; पा ३, ३,
२; ५, ३, १४; दृश्यताम् आग १,
५, ५; अदृश्यत् वृदे ४, ६६;

दृश्येत शांश्रौ १, ३, ६; आपश्रौ;
दृश्येरन् अप ५३, २, २; दृश्येयुः
अप ७२, १५, २.

नदर्शते आपश्रौ १०, १३, ११^१;
वौश्रौ २८, ९ : २३^१; आमिद्य
२, ५, २ : ५९; हिद्य १, १७,
४^१; विध १, २९; या १२, २७;
दृदर्शिते या १, ९; दृदर्शे या १,
९^१; नदर्शिते आपश्रौ ४, १३,
७; शांश्रौ; या ६, १३; शांश्रौ ११३.
दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;
दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;
वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

नदर्शते आपश्रौ १०, १३, ११^१;

वौश्रौ २८, ९ : २३^१; आमिद्य
२, ५, २ : ५९; हिद्य १, १७,
४^१; विध १, २९; या १२, २७;
दृदर्शिते या १, ९; दृदर्शे या १,
९^१; नदर्शिते आपश्रौ ४, १३,
७; शांश्रौ; या ६, १३; शांश्रौ ११३.
दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;
दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;
वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

नदर्शते आपश्रौ १०, १३, ११^१;

वौश्रौ २८, ९ : २३^१; आमिद्य
२, ५, २ : ५९; हिद्य १, १७,
४^१; विध १, २९; या १२, २७;
दृदर्शिते या १, ९; दृदर्शे या १,
९^१; नदर्शिते आपश्रौ ४, १३,
७; शांश्रौ; या ६, १३; शांश्रौ ११३.
दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;
दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;
वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

नदर्शते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४;

दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ; दर्शयन्ति आमिद्य २, ५,
१ : ५६; ५७; अप ५९, १, १२;
७०^२, ७, ३; ऋप्रा १, ६४; दर्श-
येत् वौश्रौ २६, २८ : ५; लाश्रौ;
दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^१;
दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^१;
लाश्रौ ९, ९, २०.
दर्शयिष्ये कप्र १, १, १; दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५; अदीदृशम्
वौश्रौ १८, ४४ : ९.

a) अर्थः व्यु. च ? । b) हुं इति संस्कर्तुः टि. । c) हिंसार्थकम् अर्थः इति पाणि. । d) पावा ३, १, ४४ परानुष्टः द्र. । e) भावे कर्तरि च कृत् । f) = आदर्श- । g) विप. । वस. । h) पाठः? द्रप्सः इति शोधः विमृश्यः (तु. संस्कर्तुः टि.) । i) अर्थः व्यु. च ? = सूची- इति भवस्वामी, = कट- इति रुद्रदत्तः [आपश्रौ ११, ८, ५], २५. प्रसू. । j) पावा ७, १, ५९ परानुष्टः द्र. । k) शौच ४, ६९ पा १, ३, ५७; ३, १, ४७; ६, १, ५८; ४, ६३; ७, ४, १६ पावा १, ३, २९; ४, ५२; ५३; ७, १, ६ परानुष्टः द्र. । l) पाभे. वैप १, १६६७ t द्र. । m) सपा. आपमं २, १७, २७ प्रसू. जघान इति पाभे. । n) दर्श इति पाठः? यत्नि. शोधः । o) परस्परं पाभे. । p) सपा. ऐत्रा ७, १७ अदर्शुः इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, १२०८ a द्र. । r) यद् र् इत्यस्य स्थाने सपा. आपश्रौ ८, ३, २४ यीयपस्वते इति, शांश्रौ १२, २३, ५ यीयप्यमाना इति च पाभे. । s) पाभे. वैप १, १६६५ v द्र. । t) परस्परं पाभे. ।

अदिदर्शयिषीत् निसू ३; १० :
 ४४; १२ : ४६ x x.
 १दर्शी^a - पाग ३, ५, १३४; -र्शीः
 वीश्री १४, १६ : ८; आपमं;
 -र्शम् आपश्री ५, ८, ८१; वीश्री;
 -र्शस्य शांग १, ३, ७; कप्र ३, ८,
 ८; -र्शात् शांग १, ३, ७; कौसू
 १३९, १३; कप्र ३, ५, १२; ८, ८;
 -र्शाथि शाश्री ४, १८, ७; आम्रितृ
 १, ५, २ : २०; -र्शो वीश्री २७,
 ६ : २७; हिगृ; -र्शेन वैश्री १,
 १९ : ३; ३, १ : ९१; अप २२,
 ९, १.
 २दर्शी^b - -र्शम् वीश्री २५,
 १६ : ६१; कायउ ४२ : २२;
 द्रागृ २, १, २; -र्शस्य द्रागृ २, २,
 ८; -र्शेन वीश्री २७, ७ : २.
 ३दर्शी^c - -र्शीभिः कौसू
 २४, १८.
 ४दर्शिक^d - -केषु वैश्री २०,
 २५ : ९.
 ५दर्शिकी^e - -की माश्री
 ५, २, १२, ३५; -कीम् वैश्री ८,
 ९ : ३; -क्याः आपशु ४, ६;
 हिगृ २, ६.
 ६दर्शय^f - -श्यम् वीश्री १४,
 ८ : ४१.
 ७दर्श-पूर्णमास^g - -सैः आम्रितृ
 १, ७, ३ : ४०; ४१.
 ८दर्श-पूर्णमास^h - -सयोः आश्री
 १, १, ४; १२, ४, १४; आपश्री;
 -सा काश्री ४, ६, ११; -साभ्याम्
 आश्री ४, १, १; २; १२, ४, ६;
 शाश्री; -सौ आश्री १, १, ३;

२, ८, १; शाश्री.
 ९दर्शपूर्णमासिकⁱ - -कः
 हिश्री ४, ५, ६६; -कैभ्यः आपश्री
 २, ११, ६; -कैः आपश्री ९,
 १२, ७.
 १०दर्शपूर्णमासिका(क-
 आ)भ्य- -ज्यानि आम्रितृ ३, ५,
 ५ : १६६.
 ११दर्शपूर्णमास^j - -सैः
 वैश्री १, ७ : ७.
 १२दर्शपूर्णमास-तन्त्र^k - -न्त्राः
 जैगृ १, १ : ५.
 १३दर्शपूर्णमास-देवता- -ताभ्यः
 शांग १, ३; ३; पाग १, १२, १;
 काय ५३, २.
 १४दर्शपूर्णमास-धर्म- -र्माः
 काश्री ४, ३, २; लाश्री १०, १६,
 १२.
 १५दर्शपूर्णमास-प्रकृति^l - -तयः
 हिश्री २, ८, ४०; काय १३, ७;
 -तिः वागृ १, ४; -तीनाम्
 आपश्री १०, ४, १२; मीसू १२,
 १, ८.
 १६दर्शपूर्णमास-मन्त्र-
 -न्त्राणाम् शुश्र १, १४.
 १७दर्शपूर्णमास-याजिन्- -जी
 आपश्री ९, ४, २; १४, ४; वीश्री.
 १८दर्शपूर्णमास-याजि-स्व-
 -स्वम् आम्रितृ २, ७, २ : ३;
 हिगृ १, २६; ३.
 १९दर्शपूर्णमासयोर्-अयन-
 -नम् वीश्री १८, ५३ : १.
 २०दर्शपूर्णमास-वत् काश्री २४,
 ४, ३१; २५, १३, २९; आपश्री.

२१दर्शपूर्णमास-विधान- -नेन
 वैध २, १, ६.
 २२दर्शपूर्णमासा (स-आ) ग्रय-
 णेष्टि-चातुर्मास्य-पशु-सोम- -सैः
 वाघ ११, ४६.
 २३दर्शपूर्णमासा(स-अ)नुयोज्य-
 -ज्यानि वैगृ ५, ४ : २२.
 २४दर्शपूर्णमासा (स-अ)न्त^m-
 -न्तम् काश्री २४, ६, ३३.
 २५दर्शपूर्णमासा(स-अ)यन-
 -नानि शाश्री ३, ११, ४; वैताश्री
 ४३, २८.
 २६दर्शपूर्णमासा(स-आ)रम्भ-
 -म्भे काश्री ४, ५, २१.
 २७दर्शपूर्णमासिकⁿ - -कः भाश्री
 ८, १, ७^o; -कानाम् वाश्री १, १,
 १, ६५.
 २८दर्श-पूर्णमासा (स-अ)ग्निहोत्रा-
 (त्र-अ)र्थ^p - -र्थो वैश्रीः ११, ७ : ७.
 २९दर्श-पूर्णमासा(स-अ)ग्रयणा(ए-
 अ)र्थ^q - -र्थम् हिपि २३ : १२.
 ३०दर्श-पूर्णमास - -सयोः शोगृ १,
 ५, १; ८, २१; २४; -साभ्याम्
 वीपि २, ४, १९^m.
 ३१दर्शपूर्णमासिक, का^r - -कः
 वीश्री १३, १ : २; -कम् वीश्री
 ५, ९ : १४; १३, १ : १; २८, ८ :
 १४; माश्री १, ५, ५, १; ५, २,
 १५, ३३; -काः शाश्री ५, १८, ७;
 भाश्री ६, १५, ५; -कात् माश्री
 २, १, १, १९; -कान् हिश्री ७,
 ८, १२; -कानि वीश्री ५, ५ :
 ३७; हिश्री ३, ८, २३; वीपि १,
 ४ : १६^o; -कायाः आश्री २,

a) वैप १ द्र. । b) विप. । भवाद्यर्थे अण् प्र. । c) = ऋच्- । d) = दर्श- । ठक् प्र. । e)
 = वेदि- । f) मलो. कस. । g) सप्र. वीपि १, ४ : १६ दर्शपूर्णमासिकानि, आज्यानि इति पाभे. । h) तत्रभवी-
 यस्य प्र. लुक् । i) विप. । वस. । j) मत्वर्थीयप् ठक् प्र. । k) 'सो' इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) ।
 l) द्रस. > चस. । m) 'ए' इति B. । n) = दर्शपूर्णमासिक- ।

१७, २; वीशु ३: १५; -कायै वीश्रौ २१, २: १७; -के माश्रौ ५, १, ८, ११; -केन भाश्रौ १२, ५, १.

दार्शपौर्णमासिकी^१ - की वीश्रौ ५, ५: १०; २१, ६: १३; २४, २४: ४.

दर्शपौर्णमासा(स-अ)स्यय-
-ये कप्र ३, ८, १०.

दर्श-न्वत् वैश्रौ १४, ३: २०; १७: ५; आमिगृ २, ४, ५: ५.

दर्शा(शि-अ)न्त^२ - न्तम् कप्र २, ९, १.

दर्शत्^३ - पाउ ३, ११०; -^४त आश्रौ ५, ५, २; १०, ५; शाश्रौ; या १०, २४; -^५त: शाश्रौ ८, २४, १; -^६तम् आश्रौ ६, ७, ६; ७, ४, ३; शाश्रौ.

१दर्शन- न्तम् काश्रौ १, ४, ६; ६, १०, १६; २५, ८, २१; जैश्रौका; या ५, १; -नस्य पावा १, २, ५१; मीसू १, १, १८; -नात् शाश्रौ १०, २१, १०; काश्रौ; या २, ११; ३, ४; ५, १३; १०, ८; -नाय शंघ १३३; गौघ ९, ५५; या ५, १३; ९, २७; १२, १५; -ने काश्रौ १२, १, १२; २५, १०, ३; कौसू; -नेन वैगृ १, २१: १; या १, १४.

दर्शन-मात्र- -त्रे आमिगृ २, ६, ७: १६.

दर्शन-विषय- -ये पावा ३, २, १११.

दर्शना(न-अ)णू-भाव- -वात् या ६, ३०.

दर्शना(न-अ)रोहण- -णानि

अप ६८, २, १५.

दर्शना(न-अ)र्थ- -र्थ: आपघ^१, ८, १७; २२; २८, ६; हिघ १, २, ११०; ७, ४२.

दर्शना(न-अ)विरोध- -धाभ्याम् काश्रौ २२, १, ११.

दर्शनीय, या- -०य या १०, २; ४२^२; -^३य: आपघ^४ २२, २६, १९; हिश्रौ २३, ४, ३३; -यम् या १०, ८; शैशि ११०; याशि २, ८१; -या: वाध ६, ४; -याम् वाध २, ३५; -याय या १४, २६; -यौ या ६, २६.

दर्शनीया(य-अ)पत्य^५ - त्य: आपघ २, १६, २०; हिघ २, ५, २०.

२दर्शन^६ - न: पा ५, २, ६.

दर्शयत् - यन् वृदे ६, ११९; -यन्त: अप ७०^७, ७, ४.

दर्शयाम् ✓अस (मुवि), दर्शयामास वीश्रौ १८, ४४: ४; वृदे ५, ६३.

दर्शयित्वा वीश्रौ ९, १९: ३८; आमिगृ.

२^८दर्श- > शार्थ^८ - शार्थ आपघ^९ १९, १२, ३; वीश्रौ १९, ३: ७; हिश्रौ २३, २, १४.

दर्शित- -त: अप ३६, ८, २; वृदे २, ११४; -तम् आमिगृ २, ६, ७: १६.

दिदर्शयिषत् - षन् निसू ३, १२: ३२; ४३××.

दिदृक्षा- दृक्षया जैश्रौका १६७.

दिदृक्षु- -क्षु: वृदे ४, १.

१^१दिदृक्षेण्य^१ - ण्य: आपघ^{१२} २२, २६, १९; हिश्रौ २३, ४, ३३.

दृक्ष- -क्षे पावा ६, ३, ८८.

दृश्- पाग ४, १, ४^{१३}; ५, ४, १०७; दृशि ऋत ५, १, ७.

दृशा- पा ४, १, ४.

दृक्-स्ववस्-स्वतवस्- -वसाम् पा ७, १, ८३.

दृग्-दृशा^{१४} पा ६, ३, ८९; पावा ६, ३, ८८.

१^{१५}दृशा^{१५} - श: आपघ^{१५} २१, ९, १५; वाश्रौ ३, २, २, १५; हिश्रौ १६, ४, १.

१दृशान- पाउ २, ९०; -^{१६}न: काश्रौ १६, ५, १; आपघ^{१६}.

२दृशान^{१७} - नस्य चाअ १६: १४.

दृशि^{१८} - शये हिपि १८, ११^{१८}.

दृशि-हान- -ने अप ४८, ३९.

दृश्य(शि-अर्थ >) र्था- -र्यायाम् पावा ३, १, २६.

दृशीर्क^{१९} - पाउभो २, २, १९; पाग ६, २, ११८; -कम् या १०, ८^{१९}.

दृशीकु^{२०} - कव: आपघ^{२०} ११, १३, १०; ११; २१, ९, ३; हिश्रौ १६, ४, ५.

दृशु- पाउवृ १, २३.

१^{२१}दृशो^{२१} वीश्रौ ८, ५: ७; २८, ३: १५; वाधूश्रौ; आपघ^{२२} २, १, २^२; आमिगृ^{२३} १, १, ४: १४××; वीगृ २, ४, ११^{२३}; मागृ; या १२, १५^{२४}; २४; २६; भाशि १८; पा ३, ४, ११.

दृश्य- -श्य: कप्र २, ६, ८; -श्यम् वृदे २, ४२; पा ४, ४, ८७.

दृश्यमान, ना- नम् वाधूश्रौ ३, ८६: १३; आमिगृ ३, १०, २: ४; -नासु शाश्रौ ६, ७, ४; -ने शाश्रौ २, ७, २; वीश्रौ; -नेषु आश्रौ ८,

a) = वेदि- । b) विप. । वस. । c) वैप १, १६६६ । द. । d) = आदर्शादि- । e) वैप २, ३४. द. । f) वैप १. द. । g) तु. पागम. । h) पामे. वैप १, १६६७ । j) द. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) पामे. वैप १, १६६७ । द. ।

१३, २३; शांश्री; कौश्र १, १०, १२^०.
 दृश्न्- पा ३, २, ९४.
 दृष्ट, दृष्टा- पाग २, १, ५९; -ष्टः वीश्री २०, २ : २८; २५, २० : २××; निस्; -ष्टम् काश्री १, २, २०; वीश्री; पा ४, २, ७; पावा १, १, ७; ४, १, ९३; २, ७; मीस् ५, ३, ७; -ष्टा आपश्री १२, १२, ३१; वीश्री; -ष्टाः वीश्री २०, २ : १७१; १० : २०××; निस्; या १४, ६१; -ष्टानाम् ऋश्र ३, ४; -ष्टाम् आपश्री ३, १; ७; वीश्री; -ष्टे काश्री १, २, २३; वीश्री; -ष्टेन निस् ३, २ : ६; -ष्टेषु ऋप्रा २, ५; -ष्टौ वीश्री २३, १३ : १६; वृदे १, १०१; ५, १४०.
 दृष्ट-क्रम-त्व- -त्वात् ऋप्रा १०, १९.
 दृष्ट-तस् (:) गोगृ ३, ५, २०.
 दृष्ट-न्व- -त्वात् आश्री ३, ६, ५; १०, ५, १९.
 दृष्ट-प्रवाद- -दाः या १, १४^०.
 दृष्ट-प्रवृत्ति-त्व- -त्वात् मीस् ७, ४, २.
 दृष्ट-लि(ङ्)ङ्गा^० -ङ्गाः ऋश्र २, २, २३; ५, ४४; -ङ्गाभिः वृदे ४, ८०.
 दृष्ट-विप्रयोग-त्व- -त्वात् पावा १, ४, २१^०.
 दृष्ट-व्यय^० -व्यम् या १, ८; ५, २३.
 दृष्ट-श्रुत- -ताभ्याम् आपश्र १, ३, २७; हिष १, १, १०२.

दृष्ट-सहस्र-चन्द्र- -न्द्रः वैश्र ३, २१ : ७.
 दृष्टा(ष्ट-अ)दृष्ट-कर- -रम् शंघ १०१.
 दृष्टा(ष्ट-अ)नुविधि^०-त्व- -त्वात् पावा १, १, ६.
 दृष्टा(ष्ट-अ)न्त^०- -न्तात् वाध १९, १०.
 दृष्टा(ष्ट-अ)भ्युद्दृष्ट- -ष्टानि आप्राय २, २.
 दृष्टा(ष्ट-अ)र्थ, धर्था^० -र्थस्य या १०, १०; ४६; -र्था या ३; १०; -र्थे गौध १, ५.
 दृष्टवत्- -वान् विध १, २१; वैश्र १, ११, १२; वृदे ५, ५८.
 दृष्टवती- -ती वृदे ८, ३३.
 दृष्टि- पाग ३, ४; ७४; पावाग ३, ३, १०८^१; -ष्टिः काश्रु ७, २०; -ष्टिम् शैशि १५६; माशि.
 दृष्टि-पूत- -तम् विध १६, १४.
 दृष्टि-विषय-> दार्ष्टिनिपयिक^०- -कम् अप ४८, १२५; या ७, ८.
 दृष्टि-हीन- -तम् वृदे ४, २१.
 दृष्टि^० (> दार्ष्ट्य- - पाः) पाग ४, १, १३६.
 दृष्ट्वा काश्री १६, २, १५; आपश्री १.
 दृष्टव्य- -व्यः कप्र १, १, १८; -व्यम् अप २३, ९, १; पावा १, ४, ५१; -व्याः अप २३, ७, १.
 दृष्टुम् विध १, २१; ३३; वृदे १, ५९.
 दृष्टृ- -ष्टरि पा ५, २, ९१; -ष्टा या १४, ५; -ष्टारः शुश्र १, ३; -ष्टारम् वैताश्री १८, १२; -ष्टृभ्यः वृदे ५, १७०; -ष्टृन्

आपश्री १२, २०, ६; २०, १, १७; वीश्री; वैताश्री १८, १२^१.
 दृश- , दृश- , १, २ दृशान- √दृश द्र. रेदृशान- (> दृशानक-) कृशानु- टिः द्र.
 दृशि- , दृशीक- , दृशीकु- प्रम्., दृश्न्- √दृश द्र.
 दृषद्- पाठ १, १३१; -षत् आपश्री ९, ११, १६; माश्री; कौस् ८१, १९^१; -षदः माशि १८; -षदम्; काश्री २, ४, १५; ५, ३; आपश्री; -षदि काश्री २, ५, ५; ३, ८, ११; आपश्री; -षदे वैश्र ३, ७ : २०; -षदौ माश्री ६, १६, ९; २१.
 दृषद्- -दम् शुश्र १, ६६.
 दृषा, श^०त्-पुत्र- -त्रम् गोगृ २, १, १५; द्राय १, ३, १९; -त्रे , -त्रेण आपगृ १४, ११; भाग १, २२ : ३.
 दृषत्-स्थान- -तम् पावा ८, २, २२.
 दृषद्-उपल- पाग २, २, ३१; -लम् काश्री २, ३, ८; माश्री १, २, ३, १७; वाश्री १, २, ४, ३; -ला-भ्याम् आशि १, ७, १ : १२; २ : ९१; वीश्र २, ८, ३३१; हिपि १० : ८; -ले काश्री २, ४, १५; आपश्री; आय ४, ३; १८^१; आशि १, १, ११.
 दृषदुपला(ल-अ)वकाश- -शे वीश्र २, ८, २३.
 दृषद्-व(त >)ती^० -वत्याः शाश्री १३, २९, १४; २९; आपश्री २३, १३, २; १३; हिश्री १८, ४, ३७; ५०; लाश्री १०, १७, १;

a) पामे. पृ ४६३. b) द्र. । c) विप. । वस. । d) णात् इति गुसं. । e) विप. । वस. (तु. अभा.) । f) तु. पागम. । g) तस्येदमीयपृ ठक् प्र. । h) व्यप. । व्यु. ? । i) उपद्रष्टे इति C. । j) वैप १ द्र. । k) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि. । सपा. आय ४, ३, १८ उपद्रुपले इति पामे. । l) सास्यदेव-तीयः जण् प्र. । m) गोगृ. पाठः । n) = नदी-विशेष- ।

१९,८; -त्याम् वृदे २,१३७^१.
 दार्षद्वत्^१ -न्तम् शांश्रौ १३,
 २९, ३१^१; काश्रौ २४,६, ३०;
 निसू १०,११ : १^१; -ते आपश्रौ
 २३, १३, ११; हिश्रौ १८, ४,
 ४७; लाश्रौ १०,१८,१२^१.
 दार्षद्वत्-तौर- -रयोः
 लाश्रौ १०,१८,१०; निसू ६, १ :
 ९; १९.
 दार्षद्वत्-वत् काश्रौ २४,
 ७,९.
 हृषद्वती-तीर- -रेण काश्रौ २४,
 ६,३६.
 हृषद्वत्य(ती-अ)प्यय- -ये काश्रौ
 २४,६,६.
 हृषन्^१ आश्रौ ९,७,१२.
 हृषारव^१ -वम् हिपि ६ : ५^०.
 हृष्ट-, १-२हृष्टि-, हृष्ट्वा ✓हृष्ट् द्र.
 ✓दे पाषा. भ्वा. आत्म. रक्षणे.
 ✓देप्^१ पाषा. भ्वा. आत्म. क्षरणे.
 देय- ✓दा (दाने) द्र.
 ✓देव् पाषा. भ्वा. आत्म. देवने.
 १-२देव-, देव-ऋषि- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देवट^१ - पाठ ४,८१.
 देवत^१ -> दैवति^१ - (>°तायन-
 पा.) पाग २,४,६१.
 देव-तम - ✓दिव् द्र.
 देवतर^१ - (>दैवतरेय- पा.) पाग
 ४,१,१२३.
 देवतरस^१ -> दैवतरस- -०स आश्रौ

१२,१४,३; आपश्रौ २४, ९, ३;
 वौश्रौप्र ३३ : ३; वैष ४,१,६.
 देवतरस-वत् आपश्रौ २४, ९, ३;
 वौश्रौप्र ३३ : ३; वैष ४,१,६.
 देव-तस्, देवता- प्रमृ., देवन-
 ✓दिव् द्र.
 ?देवना... वाघुश्रौ ४,२६ : ३९.
 देवन्त^१ -> दैवन्ति- >°न्तायन-
 -नः वौश्रौप्र ६ : २.
 दैवन्त्य^१ -न्त्यम् जैगृ १,१४:१०.
 ✓देवय, देवयत्- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 ?देवयादुः^१ आग्निगृ २, ६, ६ : २४.
 देवर^१ - पाठ ३,१३२; फि ६७, -रः
 आगृ ४, २, १८; वृदे ७, १४;
 या ३,१५४^१; -रम् यां ३,१५^१;
 -ऋः^१ आपमं १, १, ८; वौगृ
 १,६,२१; -ऋणाम् कागृ २५,
 ४७; वागृ १३, २; -रात् वौष
 २,२,६२; गौष १८,४.
 देवर- (हन > म् >) श्रौ- श्रौ कौगृ
 १,१०,२; शांश्रौ १,१६,४.
 देवर-व(त् >) ती- -त्याम् गौष
 २८,२४.
 १-२देव-रथ- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देवल^१ - पाठ १, १०६; -लः शंष
 २०१; ऋअ; -लस्य चाअ १६;
 २७; -लानाम्^१ वैष ४,७,४.
 दैवल- -०ल आश्रौ १२, १४,
 ७; ८; आपश्रौ.
 दैवलि- (>°लायन-)

देवत-> दैवति- टि. द्र.
 देवल-वत् आपश्रौ २४,१०,१; २;
 वौश्रौ.
 देवलक^१ -कान् विष ८२,८.
 देव-वत्- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 ?देववान्^१ ऋपा १६,७७.
 देववेल्^१ -लाः वौश्रौप्र १७ : १०.
 देववेशमन्- प्रमृ., १देव-स्थान-
 ✓दिव् द्र.
 २देवस्थान^१ -> दैवस्थानि- पाग २,
 ४,५९; -नयः वौश्रौप्र २० : ३-
 ?देव-स्पृति- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देवा(व-अ)वी^१ -वोः हिश्रौ २१,१,२.
 देविका- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देविल- पाठ १,५६.
 देवी-, देवीषिय- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देवृ^१ - पाठ २, ९९; -ऋषु आपमं
 १,६,६; कागृ २५, ४७.
 देवेज्या- प्रमृ. ✓दिव् द्र.
 देश- ✓दिश् द्र.
 देशकपटु^१ - लु कौष ४८,१०.
 देशकाल- प्रमृ., देशीय-, देश्य-,
 देष्टी- ✓दिश् द्र.
 १-२देह- प्रमृ. ✓दिह् द्र.
 देहत्- पाठभोवृ २,१,२६०.
 देहन^१ -नेषु कौगृ ३, १०, १०^६.
 देहल^१ - पाठभो २, ३, ९८; पाग ४, १, ४१^१.
 देहली- पा ४, १, ४१; -लीम्.
 आपगृ ६, ९; -लीषु शांश्रौ २-
 १४, ९^६; -ल्याम् भागृ ३, १३ :

a) = सत्र-विशेष-। b) ऋ इति पाठः ? यनि. शोधः । c) अर्थः व्यु. च ?। = पेपयन् इति
 भाष्यम् । दृ^० इति आन. । d) = पात्र-विशेष- । व्यु. ? । e) सपा. माश १२,५, २,७ वृषारवौ इति, बौपि १,६ :
 ७ वृषारवम् इति च पामे. । f) तु. BFG. । g) = शिल्पिन- । व्यु. ? < ✓देव् ? इति MW. । h) = ऋषि-
 विशेष- । व्यु. ? । i) दैवलि- इति पाका., दैवोति- इति शाकटायन इति पागम. । j) यन् प्र. उरसं. (पा ४,
 १, १०५) । k) पाठः ? देवाः अदुः (लुङि प्रपु३) इति शोधः । l) वैप १, १६६९ h द्र. । m) पामे.
 वैप १, १६६९ q द्र. । n) वैप १ द्र. । o) बहु. < दैवल- । p) = पूजक- । व्यु. ? । q) स्वहृषम् ! ।
 मे^० इति मूको. । r) = अहिच्छत्रक- । व्यु. ? । s) सपा. नेषु < > लीषु इति पामे. । t) = शृङ्गाग्र- ।
 व्यु. ? < ✓दिह् इति प्रायोवादः ।

१२; जैत्र १, २३ : ११; आपघ
२, ४, २; हिघ २, १, ५५.
देहलि^a - लिम् वैष्ट ३, ५ : ३; हिष्ट
१, २२, ६.
देहाद्यैर्यात् अप १, ४६, १.
देहि^b अप १, ११, ४.
देहिन्- √दिह् द्र.
√दै पाधा. भ्वा. पर. शोधने.
दैज्ञ- प्रष्ट. दैज्ञोपसद्- √दीक्ष् द्र.
दैड^c - डः गो २, ६; -डाः गो २, ९.
दैडी^d - डी गो २, ७; -ड्यः
गो २, १०.
दैत्य- प्रष्ट. दिति- द्र.
दैधिपत्य- २दिधिषु- द्र.
दैन्य- √दी (क्षये) द्र.
दैयांपाति- चांपात- द्र.
दैरस- दिरसा- द्र.
दैर्घ- , दैर्घतम- प्रष्ट. दीर्घ- द्र.
दैलीपायन- , पि- दिलीप- द्र.
दैव- प्रष्ट. √दिव् द्र.
दैचकि^e - किः वीश्रीप्र १० : ३^f.
दैवत- प्रष्ट. √दिव् द्र.
दैवतरस- देवतरस- द्र.
दैवतरेय- देवतर- द्र.
दैवतायन- , दैवति- देवत- द्र.
दैवत्य- , दैवदत्ति- , दर्शनिन्- ,
दर्शिन- , दास- √दिव् द्र.
दैवन्तायन- , वन्ति- , वन्त्य-
देवन्त- द्र.
दैवमतायन- प्रष्ट. √दिव् द्र.
दैवयातव- , (> २दैवयातवक-)
√दिव् > देवयात- टि. द्र.
२दैवयातवक- √दिव् > देवयातव-
टि. द्र.

दैवल- प्रष्ट. देवल- द्र.
दैवरथायनि- प्रष्ट. , १-२दैविक- ,
दैवी- , दैवीधिय- , प्यक- प्रष्ट.
√दिव् द्र.
दैवोति- (> तायन-) देवत- >
दैवति- टि. द्र.
दैवोदास- प्रष्ट. दिवोदास- द्र.
दैव्य, व्या- प्रष्ट. √दिव् द्र.
दैशेय- , दैष्टिक- दिश् द्र.
√दो √दा द्र.
दोगधुम् प्रष्ट. √दुष् द्र.
दोट^g - (> टी- पा.) पाग ४, १, ४१.
दोडी- पा, पाग ४, ३, १६७.
दोला^h - (> दोलक- पा.) पाग
५, ४, २९.
दोप- प्रष्ट. √दुष् द्र.
दोपन्ⁱ - ङणी आश्री ३, ३, १;
शांश्री ५, १७, ५; माश्री ५, २, ९,
४; -ण्णः वीश्री ४, ९ : ३; ८;
भाश्री ७, १८, १२; १९, ४.
दोपण्य^j - ण्यम् आपमं १, १७, २१.
दोपा^k - पाउष्ट ४, १७५; पाग १, १,
३७; - ङी आश्री ८, १, १८;
११, ३; आपश्री ९, ७, ३^l; वीश्री
२८, १२ : ६^m; ७ⁿ; भाश्री ९,
९, १०^o; माश्री ३, ३, ५^p; वैश्री
२, २ : १२^q; अप्राय ४, ४; अप
४८, ७४; ११६; वृदे ३, १०४;
साअ १, १७७^r; निघ १, ७; या
३, १५५^s; ४, १७; -पाम् ऋषा
९, ४११.
दोपावस्तु^t - -स्तः आश्री ३,
१२, ४^u; ४, १०, ३; वीश्री ३,
८ : २६; हिश्री १५, २, २०;

शांश्री ५, ४, ४^v; ऋषा.
दोषिन्- √दुष् द्र.
दोषोगाय^w वैताश्री १७, २; कौसू २३,
२; ५०, १३; ५९, २५; अअ ६, १.
दोस्^x - पाठ २, ६९; दोः आश्री १२,
९, ६; आपश्री ७, २२, ६^y; वीश्री;
या ४, ३५; दोग्याम् अप ६८,
२, २; ३, १०; दोपम् वाश्री २,
१, ६, ४.
दोष्क- पावा ७, ३, ५१.
दोह- , दोहन- प्रष्ट. √दुष् द्र.
दौत्य- दूत- द्र.
दौरङ्गि^z - ङ्गिः वीश्रीप्र २७ : ९.
दौराङ्गी- दुराङ्गि- द्र.
दौर्गह^{aa} - हः अप ४८, ९३; निघ
१, १४.
दौर्गायण- २दुर्ग- द्र.
दौर्जाचित्य- दुर्जावित- द्र.
दौर्वलय- दुर्वल- द्र.
दौर्भागिनेय- , १-२दौर्भाग्य-
दुर्भाग- द्र.
दौर्भाजि- दुर्भाजि- द्र.
दौर्मनसायन- २दुर्मनस्- द्र.
दौर्मित्रि- २दुर्मित्र- द्र.
दौर्हद- दुर्हद- द्र.
दौर्हदय- दुर्हदय- द्र.
दौवारपाल- , लि- प्रष्ट. द्वार- द्र.
दौपकगति^{ab} - (> तायन-) पाग २,
४, ६१.
दौःपन्ति- दुःपन्त- द्र.
दौष्क- दोस्- द्र.
दौष्कुलेय- , दौष्कुल्य- दुष्कुल- द्र.
दौष्कृत्य- दुष्कृत- द्र.
दौष्टव- दुष्ट- द्र.

a) = देहली- । b) पाठः ? । सपा. शी १९, ७, ४ देवी इति? । सा. च तत्र = देव्यः इत्याह ? ।
c) पाठः ? यथाक्रमम् षेड- , षेडी- इति शोधः (तु. वैप १, १६७० C) । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु? । e) दे-
इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । f) तु. पागम. । g) वैप १ द्र. । h) पामे. वैप १, १६७० II
द्र. । i) वैप १, १६७० II द्र. ।

दौष्पुरुष्य- दुष्पुरुष- द्र.
 दौष्यन्ति- दुष्प्यन्त- द्र.
 दौष्यन्त्य- दुष्प्यन्त- द्र.
 दौःस्वप्य- दुःस्वप- द्र.
 दौःस्त्र- दुःस्त्री- द्र.
 दौहिक- ✓दुष् > दोह- द्र.
 दौहित्र- , प्रायण- दुहितृ- द्र.
 ?द्यस्व^१ पाठ ३, १३, ६.
 द्यांपात^२ - > दैयांपाति^३ - त्वै भाशि
 २८१.
 द्यावा ✓दिव् द्र.
 ?द्यावाकृतो^४ अप्राय ३, १०.
 द्यावा-क्षाम् प्रभृ. ✓दिव् द्र.
 ✓द्यु पाधा. अदा. पर. अभिगमने.
 द्यु- प्रभृ. ✓दिव् द्र.
 द्युक्ष^५ - क्षः ऋअ २, ९, ५२; -क्षम्
 आपथ्रौ ६, १७, १०; माथ्रौ ६,
 ४, ४; हिथ्रौ ६, ६, १६; -क्षाय
 आगृ १, १, ४.
 द्यु-गत्^६ - गत् अप ४८, १०६;
 निघ २, १५.
 ✓द्युत्^७ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ,
 द्योतते वैताथ्रौ १४, ११; अप्राय
 २, ७; अप ४८, २०१; निघ १,
 १६१; अद्योतत या ११, ३६.
 द्योतयति लाथ्रौ ७, १२, ६;
 १०; द्योतेषु आज्यो ३, २.
 द्युत्त आथ्रौ ४; ६, ३;
 शाथ्रौ ५, ९, ७; वीथ्रौ ६, १४;
 १५; या ६, १२; अप्रा ३, ४, १.

द्विचोत् या ११, ३६११.
 द्विद्युत्^८ > त्व-व(त् >)ती - ती
 निस् ४, १३; १६.
 द्विद्युत्- पा ७, ४, ६५.
 दवीद्युत्ती- न्त्या लुस् १, १;
 १७; २: १; ८: १; साअ २, ४.
 द्विद्युत्तान- नः शाथ्रौ ८, २२, ११.
 द्युत्- द्युत्तम् जैगृ २, ९: ३०; द्युते
 आपथ्रौ १६, २७, ३; वीथ्रौ १०,
 ४६: १६; वाथ्रौ २, २, ११.
 द्युत्- > द्युत्त-यामन्^९
 -मानम् आथ्रौ ४, १४, २; ऋअ
 २, ५, ८०.
 द्युता^{१०} जैथ्रौका ७६.
 द्युतान^{११} - नः काथ्रौ ८, ५, ३०१;
 आपथ्रौ; ऋअ २, ८, ९६; साअ
 १, ३२६; -नस्य आथ्रौ १४,
 २५, ७; -नेन शाथ्रौ १३, १२, ३.
 द्योतान^{१२} - नम् लुस् १, ११:
 २८; -ने लाथ्रौ ८, ६, ५.
 द्युति- ति: वीथ्रौ २८, ४: ३०;
 -तिम् अप ६९, ८, २; शंघ
 १३६: ५४; वीथ्रौ ३, ८, ३९.
 द्युति-मत्- मान् विघ १, ७.
 द्योतन, ता^{१३} - पाठवृ २, ७८; -नम्
 अप ४८, ६४१; -नता^{१४} अप ४८,
 ११०; निघ १, ८; -नात् या २,
 २०; ७, १५.
 द्योतन-कर्मन्^{१५} - मंणाम् या
 १४, १२.

द्योतन-वत्- वान् या ६, १९.
 द्योतयत्- यन् अप २४, ४, २.
 द्योतान- नस्य अप्राय ६, ३.
 द्योत्य- न्ये पावा ३, १, १२५.
 द्युम्न^{१६} - पाठभो २, २, १८४; -मः ऋअ
 २, ५, २३; -नम्न आथ्रौ २, ५,
 १२३; ५, १३, ६१; ८, ११, ४;
 शाथ्रौ; आपमं २, ११, २८०; या
 ५, ५११; -नम्नानि आपथ्रौ ३,
 १५, ५; वीथ्रौ १, ४, १३; -नम्नाय
 आथ्रौ ३, १२, २३; शाथ्रौ;
 अप्राय ५, ११; -नम्नेन शाथ्रौ
 २, २, १७; ९, २२, ५; काथ्रौ;
 -मैः आथ्रौ २, ८, ३१.
 द्यु(न् >)न्ना-साह- साहम् ऋअ
 ९, ३१.
 द्युन्निन्- न्नी आथ्रौ ४, १५, २;
 ऋअ २, ८, ८७; अप ४८, ११६;
 ऋअ ७, २९.
 द्युन्निनी- नी: आपथ्रौ १८,
 १३, २१; वीथ्रौ १२, ९: ८;
 हिथ्रौ १३, ५, २१.
 द्युन्नीक^{१७} - कः ऋअ २, ८, ८७.
 ?द्युद्दुद्दुद्^{१८} अथ ३६, १, १२.
 द्युवन्^{१९} - पाठ १, १५६.
 द्युत्- प्रभृ., द्युन- ✓दिव् द्र.
 ✓द्यै पाधा. भ्वा. पर. न्यकरणे.
 द्यो- ✓दिव् द्र.
 द्यो(त् >)ता^{२०} - ताम् आपथ्रौ ३, १२.
 ?द्योप्यते अप ४८, २०.

a) तां द्यस्व इति पाठः? पद्यस्व (लोडि मपु१) इति शोधः (तु. विश्वनाथः BC. प्रभृ. च; वैतु. जयरामः [पक्षे] अन्यथा-न्याख्यानः) b) वैप २, ३खं. द्र.। c) अर्थः व्यु. च ?। d) वैप १ द्र.। e) या १, ६, ५, ५; १०, ७ पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ पावा १, ३, ७९ परामृष्टः द्र.। f) द्विद्युत्तया [ऋ ९, १४, २८] इत्यस्यानुकरणम्। g) द्युतानुः (मा ५, २७) इत्यस्यानुकरणम्। h) विप. व्यप. (ऋअ.साअ.प्रभृ.)। i) = ताम-विशेष-। j) द्युतिरा^१ इति पदसूची। k) भावे कर्तरि च कृत्। l) वैप १, १६७२ n द्र.। m) विप.। वस.। n) पाभे. वैप १, ११७६ a द्र.। o) पाभे. वैप १, १६७३ d द्र.। p) द्युम्ने इति पाठः? यानि. शोधः (तु. आपथ्रौ ९, ९, १)। q) पाभे. वैप १, १६७४ c द्र.। r) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?। s) क्पि. अनुकरणम्। t) नाप.। व्यु. ? < ✓द्यु इति पाठः. द्यु-वन्- इति PIV. प्रभृ.। u) = कन्या-विशेष-। व्यु. ?।

घोत्र- पाठभो २,३,७८.

द्रक्षन्ति अप ७०^३, ११, ८.

द्रहिमन्- ✓ ह्रं द्र.

द्रिघस्- -धसी आपथो १२, १८, १८; वीथो.

द्रप्स^३- -फप्सः आथो ३, १३, १५; ४, ७, ४; ५, २, ६; ८, २, ३३; शांथो; काथो २, ६, १६^६; हिथो १, ६, ८०^६; युथ १, ८३^६; या ५, १४^६; ऋप्रा १४, ५८; -फप्सम् जैथो २ : २७; अथ १८, १; या ५, १४; -फप्सस्य आथो ४, ६, ३; शांथो ५, ९, १४; -प्सान् वीथो ७, ७ : २३××; द्राथो; -प्सानाम् द्राथो ७, २, ११; लाथो ३, २, ११; -प्सेन कौसू १९, १०; ३६, १९.

द्रप्स-प्राशन-सख्य-विसर्जन- ने आथो ७, १, ६.

द्रप्स-व(त् >)ती^० -तीभिः आथो १३, २०, ८; -त्यः वैताथो २३, २२^१.

द्रप्सा(प्स-अ)नुमन्त्रण->णी- (य>)या- या वीथो १४, ४; ४७; -याः वीथो १४, ५ : ३४; -यासु वीथो २१, १७ : २३; २५, १८ : ११.

✓द्रम् पाथा. भ्वा. पर. गतो, द्रमति वृदे ७, १२९^३; -निघ २, १४^३; या ११, ५.

दन्द्रमण- पा ३, २, १५०.

द्रमिड- पाठना १, १०७.

द्रव-, ष्वण-, ष्वत्- ✓ ह्रु द्र.

द्रवदिड^०- -डम् निस् ८, २ : ४१; -डानि निस् २, ११ : ४.

द्रवस्-, ✓ द्रवस्य ✓ ह्रु द्र.

द्रविड^१- -डाः अप ५६, १, ५; -डान् अप ५०, १, ५.

द्रविण^३- पाठ २, ५०; -फण आपथो ४, १२, १०; माथो ४, १८, ७; -फणम् शांथो १, १५, १७; ३, २०, ४^३××; काथो २, २, २१; २, ३, १८^६××; आपथो १, १०, ६^३××; ५, १८, १^१; २०, २०, ९^१; वीथो; हिथो २, ७, ५०^६; ३, ४, ५४^१; ऽया ८, १^६; -णा आथो २, ७, ९^१; वीथो १०, ४९; २२; या ८, १८; -णानि आपथो १७, १८, १^१; आथ १, १५, ३^१; शांथ; या ८, १८; -णाय आपथो १७, २, ६^१; -फणे आपथो १६, ३०, १; १७, ५, १२; वीथो; -णेन माथो १, ६, २, १७^१.

द्रविण-प्रवा(द>)दा- -दाः निस् ६, ११ : ८.

द्रविण-व(त् >)ती- -तीम् विध २०, ७.

द्रविण-सादिन्- -दिनः या ८, २.

द्रविण-सानिन्- -निनः या ८, २.

द्रविण-स्पर्धन्^६- -र्धसु जैथोप १२.

फद्रवि(ण>)ण-वत्- -वतः तैप्रा ३, ५; माथि १०१.

द्रविणस्^३- -णसः या ८, २^२फ^६.

✓द्रविणस्य^३ > द्रविणस्यु^३-

फ-स्यवः आपथो १७, ७, ४;

वीथो ३, ३ : ५; वैथो १९, ५ :

४; हिथो १२, २, २४; निस् ३, ९ : ४८; -स्युः पा ७, ४; ३६.

द्रविणस-वत्- -वत् जैथो १७ : ११.

द्रविणो-द^३- -दः कप्र २, ४, ११; -दः वृदे ३, ६१; ६२; ६५.

द्रविणो-दस्, दा^३- -दः या ८, ३^१; -दसः ऋथ २, १, १५; वृदे ३, ६५; या ८, २^१; -दसम् कप्र २, ४, ९; वृदे २, २५; ३, ३८; -दसे ऋथ २, १, ९६; वृदे ३, १२९; -ददाः आथो ५, २०, ६; शांथो; आपथो १७, ५, १२^३; वीथो १०, ४५ : ३६^३; वैथो १९, ५ : २५^३; हिथो १२, २, ९^३; वृदे ३, ६३^१; या ८, १^३फ^३; २^३; -दाम् वीथो २५, २१ : ११; या ८, २^१.

द्राविणोदस^३- -सः वृदे ३, ६४; या ८, २^१फ^३; -सम् या ८, २^३; -साः या ८, २^३; -सान् वैताथो २०, ५.

द्रविणोदा (दा-आ) दि-प्रार्थन- नम् अथ ५, ३.

द्रवी/रु ✓ ह्रु द्र.

द्रव्य^३- पाग ५, ३, १०३^०; -व्यम् काथो १, २, २; ४, १७; आपथो; पा ५, ३, १०४; पावा २, १, १; मीसू १, ३, ३४; -व्यस्य काथो ४, ३, ९; काथोसं; -व्याणाम् वीथो २७, ४ : २१; निस्; -व्याणि हिथो ३, ८, ४१; निस्; -व्ये शांथो ३, २०, ९; ९, १, ३; हिथो; -व्येण शांथो ४, १, ३;

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, १६७४ k द्र.।। c) विप. (ऋन्- [ऋ १०, १७, ११-१३])।

d) प्ल्योः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. C.)। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) = देश-विशेषः, तद्वासिनः। व्यु. ?।

g) पाभे. वैप १, १६७५ g द्र.। h) पाभे. वैप १, १६७५ f द्र.। i) पाभे. वैप १, १६७५ i द्र.।

j) पाभे. वैप १ श्रवणम् मै ४, १४, १ टि. द्र.। k) अर्थः व्यु. च?। l) सप्र. दसः <> द्वाः इति पाभे.।

m) = इष्टका-विशेषः। n) = द्रविणः। व्यु. ? पाप्र. < हु- इति। o) तु. पागम.।

आपध; -व्येषु काश्रौ ४,३,१९;
 १४,२,३३; निसू; -व्यैः माश्रौ
 ४,१,२; मीसू ६,१,११.
 द्रव्य-क- पा ५,१,५१.
 द्रव्य-कर्मन्- -र्मणाम् मीसू ४, १,
 २१.
 द्रव्य-कल्प- -ल्पः निसू ८,४,३७.
 द्रव्य-कृश- -शः आपध २, १७,
 १०; हिध २,५,३९.
 द्रव्य-गुण- -णयोः मीसू ३,१, ११.
 द्रव्य-गुण-विकार-व्यतिक्रम-प्रति-
 पेध- -धे मीसू ९,२,४०.
 द्रव्य-गुण-संस्कार- -रेषु मीसू ३,
 १, ३.
 द्रव्य-गुणीभाव- -वात् मीसू २, २,
 १९.
 द्रव्य-चिकीर्षा- -र्षायाम् मीसू ४,
 १,२०.
 द्रव्य-तत्सः(ः) मीसू १०,२,६६.
 द्रव्य-त्याग- -गः हिपि १४ : १८.
 द्रव्य-त्व- -त्वे मीसू १२,४,१०.
 द्रव्य-देवत,ता- -तम् शुभ ३,४४;
 मीसू ११,२,३;८.
 द्रव्यदेवत-वत् मीसू ११,२,२९.
 द्रव्यदेवता-युक्त- -क्तः काश्रौ
 ४,३,१.
 द्रव्यदेवता-विधि- -धिः मीसू
 ६,४,३०.
 द्रव्यदेवता-विरोध- -धे काश्रौ
 ४,३,९.
 द्रव्य-देवता-क्रि(या>)य- -यम्
 मीसू ४,२,२७.
 द्रव्य-देश-ब्राह्मण-सन्निधान- -ने
 वाध ११,४४; गौध १५,४.
 द्रव्य-नियम- -मः हिपि १६ : ५.
 द्रव्य-निर्देश- -शे मीसू १०,६,७३.
 द्रव्य-पर-त्व- -त्वात् मीसू ३, ४,

२३^a.
 द्रव्य-परिग्रह- -हेषु आपध २,१४,
 १९; २०,१९; हिध २,३,२९;
 ५, १०४; -हैः आपध २, २६,
 १७; हिध २,५,२१२.
 द्रव्य-पृथक्-त्व- -त्वात् मीसू २,
 २,१९; -त्वेन हिश्रौ १,१,३९.
 द्रव्यपृथक्त्व-दर्शन- -नम् पावा
 १,४,१०८.
 द्रव्य-प्रकल्पन- -नम् आपश्रौ ४,१,
 २; हिश्रौ ६,१,७.
 द्रव्य-प्रदान- -नात् आमिष्ट ३,१२,
 १ : २७.
 द्रव्य-प्रधान-त्व- -त्वात् मीसू २,
 १, ८.
 द्रव्य-प्रयोजन- -नम् वौध १, ५,
 ४७.
 द्रव्य-फल-भोक्त्व-संयोग- -गात्
 मीसू २,३,१४.
 द्रव्य-भेद- -दात् पावा १, २, ६४;
 -दे काश्रौ १,५,१३.
 द्रव्यभेदा(द-आ)श्रय^b- -यम्
 अप ७०,४,५.
 द्रव्य-मूल- -लम् वाध २,४९.
 द्रव्य-लक्षण- -णानि निसू ३,९ : ३.
 द्रव्य-लाभ- -भे गौध २२,३३.
 द्रव्य-वत् विध २३, ३४; पावा;
 मीसू १०,७,१३^c.
 द्रव्य-वत्-तम- -मः काश्रौ २२,
 ४, ७.
 द्रव्य-वत्-ता- -ता हिश्रौ ३,१, ९.
 द्रव्य-वत्-त्व- -त्वात् मीसू ६, १,
 ११.
 द्रव्य-विकार- -रः निसू ६, ७ :
 ३४; १० : ३६××; मीसू १०,
 ४,१८; -रम् मीसू १२,४,९.
 द्रव्य-विधि-संनिधि- -धी मीसू

१०,३,३९.
 द्रव्य-वृद्धि- -द्धिम् वाध २,४९.
 द्रव्य-व्यतिरेक- -कात् मीसू ९,२,
 ३३.
 द्रव्य-शब्द- -ब्दः मीसू ८,३,१७.
 द्रव्य-शुद्धि- -द्धिः गौध १, ३१;
 -द्धिषु विध २३,३९.
 द्रव्यशुद्धि-कृत- -कृत् शंघ
 १६३.
 द्रव्य-श्रुति- -तेः मीसू ६,४,२९.
 द्रव्य-संयुक्त- -क्तम् मीसू ६, १,
 ११.
 द्रव्य-संयोग- -गः मीसू २,२,१७;
 ६, १, ४०; -गात् मीसू २,२,
 १७; -गैः या ७,६;७.
 द्रव्यसंयोगा(ग-अ)र्थ- -र्थम्
 मीसू १०,१,९.
 द्रव्य-संविभाग- -गः वौध २, ३,
 १९; गौध ५,२२.
 द्रव्य-संस्कार- -रः मीसू ३,८,३१.
 द्रव्यसंस्कार-तद्भेद- -दाभ्याम्
 काश्रौ १,८,२१.
 द्रव्य-संस्कार-कर्मन्- -र्मसु मीसू ४,
 ३,१.
 द्रव्य-संस्कार-विरोध- -धे आपश्रौ
 २४,३,४७; मीसू ६,३,३९.
 द्रव्य-संख्या-हेतु-समुदाय- -यम्
 मीसू ९,१,११.
 द्रव्य-समवाय- -यात् मीसू १२,
 ४,६.
 द्रव्य-समास- -सेन निसू ८, ५ :
 २२.
 द्रव्य-समुच्चय- -यः आपश्रौ २४,
 २,८.
 द्रव्य-समुद्देश- -शः निसू २,११ :
 १××.
 द्रव्य-संपन्न- -न्नः मीसू ६,१,३९.

द्वय-सामान्य- न्यम् हिश्रौ ३,
१, १९; -न्यात् काश्रौ १५, ९,
२७; २३, २, १६.

द्वय-सिद्धि-त्व- त्वात् मीसू ६,
१, ३९; ७, ८.

द्वय-हविर-मन्त्र-कर्मा(र्म-आ)
दि- -दीनाम् वौष्ट ४, ५, २.

द्वय-हस्त- -स्तः शंघ १७१;
विघ २३, ५५; गौघ १, ३०.

द्वया(व्य-आ)गम- -मः निसू ८,
३ : १२; ९, ४ : २०; -मम्
निसू ४, १३ : १५.

द्वया(व्य-आ)दान- -नम् गौघ
१८, २५.

द्वया(व्य-आ)देश- -शे मीसू ७,
३, १६.

द्वया(व्य-अ)न्तर- प्राग २, १,
७२; -रे मीसू ६, ३, ११ x ४.

द्वयान्तर-वत् मीसू ११, ४, ४६.

द्वया(व्य-अ)न्वय- -याः आश्रौ
४, १, २०.

द्वया(व्य-अ)पचय- -ये गौघ २२,
७.

द्वया(व्य-अ)पचार- -रे माश्रौ ३,
१, ३.

द्वया(व्य-अ)भाव- -वात् काश्रौ
२२, १, १२; -वे हिश्रौ ३, १,
२७; वौषि २, १०, १; ४; मीसू
६, ३, ४०.

द्वया(व्य-अ)भिधान- -नम् पावा
१, २, ५८; ६४; -नात् मीसू
१०, ४, ५३; -ने पावा १, २, ६४.

द्वया(व्य-अ)र्थ-संग्रह- -हः शंघ
२४६.

द्वया(व्य-अ)लाभ- -भे वाश्रौ १,
१, १, ६९; वौघ २, ७, २७.

द्वया(व्य-आ)वृत्ति- -त्तौ माश्रौ
३, १, ५.

द्वये(व्य-ई)प्सु- -प्सुः द्राश्रौ ६,
२, १४,

द्वये(व्य-ए)कत्व- -त्वात् मीसू ९,
१, २७; ११, ४, ४८; -त्वे मीसू
३, ५, १६.

द्वयो(व्य-उ)त्सर्ग- -गात् मीसू ९,
४, ५२.

द्वयो(व्य-उ)पकल्पन- -नम् काश्रौ
१, १०, ३.

द्वयो(व्य-उ)पदेश- -शः मीसू २,
१, ११; -शात् मीसू ८, ४, ५.

द्वयो(व्य-उ)पपत्ति- -त्तः मीसू ६,
४, २८.

द्वयो(व्य-उ)पयोग- -गानि भाश्रौ
१०, ९, ८.

द्वयो(व्य-उ)पस्थापन- -नम् वैश्रौ
३, १ : ६.

२द्वय- हु- द्र.

द्रष्टव्य- , द्रष्टुम्, द्रष्टु- ✓दृश् द्र.

द्रहिल^१ -लम् माश्रौ ५, २, १४, १४.

✓द्रा पाधा. अदा. पर. कुत्तायां गतौ,
द्राति निघ २, १४^१; या २, ३०^१.

†दद्राण- -णम् शाश्रौ १३, १२, १;
१४, ३२, ४; आपश्रौ; या १४,
१८^१.

दद्राण-व (त् >) ती-वत् निसू
५, ४ : ३.

द्राति- > द्राति-कुत्स(न >) ना-

-ना या २, ३.

द्रा^१ वेज्यो १८.

द्राक्षा^१ - पाउभो २, ३, १९१; पा, पाग
४, ३, १६५; ६, २, ८८; ८, २,
९; फि ५७; -क्षाम् शंघ २२०.

द्राक्षा-प्रस्थ- पा ६, २, ८८.

द्राक्षा-मत्- पा ८, २, ९.

✓द्राख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणाल-
मर्थयोः.

✓द्राच् पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये
आयामे च, द्राघयन्ति ऋप्रा
१४, ५१.

द्राघ^१ > द्राघिमन्^१ - पा ५, १,
१२२.

द्राघीयस्- -यः भाश्रौ ८, १५,
११; हिश्रौ ५, ४, ११; आगृ २,
९, २^१; आमिष्ट; मागृ २, १,
१३^१; -यांसम् आपघ २,
१६, २४; हिघ २, ५, २३;

-यांसौ वौश्रौ १०, १९ : ८;
वौश्रु ५ : १४; तैप्रा १६, १३^१;

-यान् आपश्रौ १, ५, १०; ८,
१३, १३; भाश्रौ.

द्राघीयसी- -सी ऋप्रा १
३३; ६, ४८.

द्राघित, ता- -तः ऋप्रा १, ७५
-तम् निसू ६, ७ : २४; -ता
ऋप्रा ४, २९.

✓द्राङ्क्ष् पाधा. भ्वा. पर. घोरवासिते-
✓द्राङ् पाधा. भ्वा. आत्म. विशारणे.

द्राघयितृ- ✓हु द्र.

द्राघिणोदस- द्रघिणस्- द्र.

✓द्राह् पाधा. भ्वा. आत्म. निद्राक्षये
निक्षेपे च.

✓हु^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ, द्रघति
वैश्रौ ८, ४ : ११; २०, २१ : ४;

a) विप. 1 वस. 1 b) = वरासी- (= स्थूलशार्दी- इति खदत्तः [सप्र. आपश्रौ १४, १३, ३]) । व्यु. ? ।
c) = आर्द्रा-नक्षत्र- । d) = लता-विशेष- वा तत्फल- वा । व्यु. ? । e) या २, १६ परामृष्टः द्र. । f) वैप १
द्र. । g) पाभे. वैप १, १६७७ j द्र. । h) या ४, ३; ५, १; ६, ४; ८, ९ पा १, ३, ८६; ३, १, ४८; ७, २, १३; ४, ८१
पागवा ६, १, १५६ परामृष्टः द्र. ।

निघ २, १४१; या ६, २५××;
 द्रवन्ति या ११, १३; ण्द्रवत्
 शाश्रौ १७, १२, ४; द्रवेत् वैश्रौ
 २०, १६ : १३.
 द्रवयन्त ऋप्रा ९, ४५१.
 ण्द्रावय>या शाश्रौ १२, ९,
 ११; ऋप्रा ८, ३२.
 द्रव^०-वस् या १४, २९; -वाणाम्
 माश्रौ १, ३, २, २०; वाध १४,
 २६; विध २३, ३०; -वाणि
 आपश्रौ २, २०, ४; -वे वौश्रौ
 २७, ३ : ६; वैश्रौ २०, २९ : २.
 द्रवन्व-त्वस् मीस् ८, २,
 १८.
 द्रव-द्रव्य-व्ये कप्र १, ८,
 ११.
 द्रव-मूर्त्ति-स्पर्श-शयोः पा ६,
 १, २४.
 द्रव-सामान्य-न्यात् मीस् ८,
 १, ४०^b.
 द्रवी/कुं>द्रवी-कृ(त>)ता-
 ताः वैश्रौ १९, ६ : ११७.
 द्रवी-कृत्य आपश्रौ १७, १९,
 ३; हिश्रौ १२, ६, ५.
 ण्द्रवण-णात् उनिस् ७ : ४४;
 -णे आपश्रौ २२, २६, १०; वौश्रौ
 १८, १० : २; १०; हिश्रौ २३, ४,
 २५; चाञ्ज ३८ : ५.
 द्रवत्^c-ण्वत्^d अप ४८, १०६;
 निघ २, १५-ण्वत्ः वौश्रौ ११,
 ८ : २५; १५, २९ : १७; -वत्
 वौश्रौ २०, ५ : २७××; -वन्तः
 वाधुश्रौ ४, २६^e : ६; कौश्रु ५,
 ३, २५; -ण्वन्ता आपश्रौ १२,

१४, १५; हिश्रौ ८, ४, १७.
 द्रवस् (>√द्रवस्य पा.) पाग
 ३, १, २७.
 द्रावयित्-त्ता या १०, ८.
 द्रुत,ता-तम् अप ६२, ४, ३; वैध
 ३, ७, ३; या ३, १९; -ता माशि
 १, १; ३; -ताम् ऋप्रा १३, ४६;
 ४९; पाशि; -तायाम् ऋत २,
 ४, १; माशि १, ५; पावा १, १,
 ७०.
 द्रुत-कनक->क-विद्रुम-
 स्फटिक-वैडूर्य-वर्ण-णम् अप
 ६५, २, १.
 द्रुत-गमन-तात् उनिस् ७ :
 ४४.
 द्रुत-त(र>)रा-रा या ३,
 १०.
 द्रुत-मध्य-विलम्बि(त>)ता-
 ताः माशि १, १; कौशि ५८.
 द्रुत-विलम्बित-तयोः पावा
 १, १, ६९.
 द्रुता(त-आ)दि-दिषु पावा १,
 २, २७.
 हुत्वा वौश्रौ ६, २६ : ११××.
 हु^e-पाजभो २, १, ३४; पाग ८, २, ९;
 हु या ४, १५; माशि १७१.
 रद्रव्य-पा ४, ३, १६१.
 हु-(हृ>)श्री^f-श्रीम् कौस् २५,
 १७; २६, ३.
 हुष्ण्या(श्री-आ)र्त्नी-ज्यापाश-नृण-
 मूल-ल्लानि कौस् १४, १३.
 हु-प(द्>)दी-पाग ५, ४, १३९.
 हु-म^g-पा ५, २, १०८; पाग ८, २,
 ९; पावाग ४, २, ५१; -मः अप

७१, ११, १; या ९, १२; -मम्
 अप ६८, ५, ३; -माः अप ६४,
 ८, १××; -माणाम् अप ६४, ४,
 १; -मान् वाध २७, २; -मे अप
 ७०^h, ७, १३; -मेभ्यः अप ६४,
 ९, २; -मैः अप २१, ४,
 १.
 द्रौम-मैः अप २७, १,
 १.
 हुम-गुल्म-वल्ली-लतौ(ता-ओ)घ-
 धि-धीनाम् विध ३७, २४.
 हुम-मत्-पा ८, २, ९.
 हुम-मय-यः या ९, २३;
 -यम् या ५, २६; -यस्य या ४,
 १९.
 हुमि(व>)णी-पावा ४, २,
 ५१.
 ण्द्रु-पद्ⁱ-पद्म^j वौश्रौ ११, ३;
 १०; वाश्रौ ३, १, १, १६; वैश्रौ
 १७, ९ : ५; माशि १७; -पदे
 माश्रौ ६, २, ४, १७; वाश्रौ २, २,
 ३, २१.
 ण्द्रु(हु-अ)न^k-नः काश्रौ १६, ४,
 ३५; आपश्रौ.
 हुग्ध-√हुद् द.
 हुघ-(>द्रौघ-)हुघ-टि. द.
 हुघ-घण,न^l-पा ३, ३, ८२ⁱ; -णः
 वृदे १, १११; निघ ५, ३; या
 ९, २३^j; -णम् वृदे ८, १२;
 या ९, २३; २४^k; -णेन ऋअ
 २, १०, १०२.
 द्रौघण^k-णम् ऋअ २, १०,
 १०२; वृदे ८, ११.
 हुघण-शिरस्-रः कौस् ४६, २.

a) हु. राज. । भावे कर्तरि वा कृत । b) मत्-सा^o इति जीसं. । c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः
 द. । d) =वृत्ति-विशेष- e) =वृत्त, शाखा-। व्यु. ? । f) =परशु- । g) =वृत्त-।
 h) वैप १ द. । i) पाभे. वैप १, १६६८ I द. । j) =मुद्गर- । हु.अभा. । पाप्र. <हु- + √हृत् ।
 k) सास्यदेवतीयः अण प्र. ।

द्रुघणा(ण-आ)दि- -दीनाम् शौच
३,७६.
द्रुघण- (> द्रौघणक- पा.) पाग
४,२,८०^a.
√द्रुण् पाधा. तुदा. पर. हिसागति-
कौटिल्येषु.
द्रुण- (> द्रुणी^०- पा.) पाग४,१,४१.
१^१द्रुपद^०- -दात् काश्री १९,५,१६;
आपश्री.
द्रुपदा^०- -दात् विघ ६४,२१.
२^१द्रुपद^०- -दि विघ ४,१; या४,
१५^क.
३^१द्रुपद- (> द्रौपदायनि-) द्रुपद-
टि. द्र.
√द्रुम्, द्रुम्मति निघ २,१४^क.
द्रुचय- पा ४,२,१६२.
√द्रुह^० पाधा. दिवा. पर. जिवांसा-
याम्, द्रुह्यत् माश्री २,५,६;
निवाध; या २,४^क.
द्रुहतात् आश्री ६,१२,२.
द्रुहोह अप ४२,२,३^क.
द्रुघ- -घ्नः पाग ३,१३,६.
द्रुह^०- द्रुहः आपमं २,१२,६; ९;
१०; आमिग्य.
द्रुहन्^०- -हणः अश्र ४, २९^क.
द्रौघचय- -च्यम् काश्री ८,१,२१.
द्रोह- पाग ५,१,६४; २, ३६; -हः
आपध १, २३, ५; हिघ १,६,
१३; -हे अप ४८,२८; -हेण
विघ ५,२५.
द्रौहिक- पा ५,१,६४.
द्रोह-द्वेष-कारि(न् >)णी-

-णीम् कप्र १,८,७.
द्रोहित- पा ५,२,३६.
द्रोहिन्- पा ३,२,१४२.
द्रुहण- (> द्रौहणक- पा.) द्रुघण-
टि. द्र.
द्रुहिण^०- पाउच २, ४९; -०ण विघ
९८,८०.
द्रुह्य^०- (> द्रौह्य- पा.) पा, पाग २,
४,६३^क; पाग ४,१,११२^१.
१^१द्रुह्य^०- -ह्यवः अप ४८, ७८; निघ
२,३.
द्रुह्यन्^०- -णः अश्र ६, ६३.
√द्रु^१ पाधा. कया. उभ. हिसायाम्,
द्रुणाति निघ २,१९^क.
१^१द्रुणान- -नः या ६, १२; शुप्रा
४,६५; भावि १७.
द्रु- पाउ २,५७.
√द्रुह् L > क, द्रुहति निघ २,१४^क.
√द्रेक् पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दोत्सा-
हयोः.
द्रेक्काण^०- पाउमो २,२,१२८.
√द्रे पाधा. भ्वा. पर. स्वप्ने.
द्रोः^० या ४,१९^क.
१^१द्रोण^०- पाउ ३,१०; पाग ४,१,४१;
-णम् वीश्री १०, ५०; २xx;
माश्री; या ५,२६; -णानि हिश्री
१२,८; ९; आपशु १३,५; वीशु
१७; २; -णे आश्री ६, ४,१०^क;
शांश्री; काशु ४,२; वीशु २१:९^१.
द्रोणी^०- पाउमो २, २,१२२;
पाग ४,१,४१.
द्रोण-कलश^०- -शः वीश्री १४, ६:

१३; २४, ६: ३; २९, ६: २०;
वाधुश्री ४, ७४: १०; -शम्
आश्री ६, १२, १; २; -काश्री;
-शस्य वीश्री २३, १२: ६;
वीश्री १५, १४: ३; द्राश्री ३, २,
१८; लाश्री १, १०, १३; -शात्
आश्री ५, ६, २१; ६, १२, ४;
काश्री; -शान् हिश्री १५, ७,
४^क; -शे शाश्री १५, २३, १;
काश्री; -शेन आपश्री १३, १७,
२; १४, ३२, ५; वीश्री १६, २०:
१०; हिश्री ९, ४, ४७.
द्रोणकलश-पवित्र-योजन-
-नम् काश्री ९, १४, २.
द्रोणकलश-स्थ- -स्थम् वैताश्री
१६, १३.
द्रोणकलशा(श-आ)धवनीय-
-यी हिश्री ८, ५, १६.
द्रोणकलशा(श-आ)वृत्- -वृत्ता
द्राश्री ३, ४, ३७; लाश्री १, १२, २१
द्रोण-चित्^०- -चित् काश्री १६, ५;
९; वीश्री १७, २९: ९; काशु
४, १; वीशु १८: ८; -चित्म^०
वीश्री १७, २९: ७; हिश्री;
-चिता आपशु १४, १२; वीशु
२१: ३; हिशु ४, ५१.
द्रोण-दशम^०- -मः काशु ४, २.
द्रोण-प(द् >)दी- पाग ५, ४,
१३९^क.
द्रोणा(ण-आ)हाव^०- -वम् या ५,
२६^क.
१^१द्रो(ण-कं >)णिका^०- -का शौच

a) द्रुहण- इति भोजः (तु. पागम.) । b) = कच्छभी- इति पागम. । c) वैप १ द्र. । d) = ऋच्- ।
< द्रुपहात् (मा २०, २० प्रभृ.) । e) पा १, ४, ३७; ३८: ७, २, ४५; ८, २, ३३ पावा १, ४, १ परान्धः द्र. ।
f) पामे. वैप १, १६५३ ० द्र. । g) व्यप. । व्यु. ? । h) डु इति पाकाः । i) द्रुघ- इति पाकाः ।
j) या ४, १५ परान्धः द्र. । k) = द्रेक्काण- (तु. MW.) । l) = द्रोण-चित्- । m) = जल-क्षयिका- इति
पागम. । n) पामे. वैप १, १६८१ ८ द्र. । o) पूर्वः = द्रोणचित्- । p) तु. पाका. पासि. । णा, णी इति
भाण्डा. । q) = द्रोणाकृतिनिहा- । कन् प्र. (पा ५, ३, ९६) ।

१,२३.
 २द्रोण^०- पाग २,४, ३१; ५,१,२०^०;
 -णम् अप ३३, ३, ३; हिष २,
 ५,८८^०; पावा १,४,२३; वेज्यो
 २४; -णम्-णम् आपघ २,२०,
 १०; -णत्य अप ९, १, २;
 -णानाम् अप ३३,२,५; ३,५;
 -णेन अप ३३,१,७.
 द्रौणिक- पा ५,१,२०.
 द्रौणिकी- पावा ५,१,५२.
 द्रौ(रा)णी- पावा ५, १,
 ४८; ५२.
 द्रोण-प्रमाण- -णम् अप ३३,२,४.
 द्रोण-वर- -रः अप ३३,३,६.
 द्रोणा(रा-अ)भ्यधिक- -कम् विष
 २३,३६.
 द्रोणा(रा-अ)र्ध-तण्डुल-पा-
 (क)का^०-का वैश्रौ ११,
 ९ : १५.
 २द्रो(राक)णिका- पावा ५,१,४८
 ३द्रोण^०- -णः ऋत्र २,१०,१४२.
 द्रौणायन-, द्रौणि- पा ४,१,१०३;
 -णेः चात्र १६ : १०.
 ४द्रोण^१- > द्रोण-भोष्म- -ष्मौ पाग
 २,२,३१६.
 द्रोणभाव^०- -वाः वैश्रौप्र २७ : ४.
 द्रोणास^५- -सः पाग १,१६, २३.
 द्रोणि- पाठ ४,५१.
 १द्रोणिका- १द्रोण- द्र.
 द्रौह-, ०हित-, ०हिन्- √दुह् द्र.

द्रौह^१- -झः अप ५३,४,५.
 द्रौघ- दुघ- द्र.
 द्रौघण- १द्रुघण- द्र.
 द्रौघणक- २द्रुघण- द्र.
 द्रौपदायनि- ३द्रुपद- द्र.
 द्रौम- दु- द्र.
 द्रौहणक- दुहण- द्र.
 द्रौहिक- √दुह् द्र.
 द्रौह्य- दुह्य- द्र.
 द्रुन्न- द्रु- द्र.
 द्र-, द्रन्द-, द्रन्दिन्-, द्रय- द्वि- द्र.
 द्रयस^१- > ०स-त्तत्त (ः) द्राश्रौ, लाश्रौ
 १,१,७^१.
 द्रयाविन्-, द्रयी-, द्रान्त्वारिंशत्-
 प्रमृ. द्वि- द्र.
 द्वादशाफ- -फानाम् चात्र ४० : ७.
 द्वादशाभ्यधिक-प्रमृ., द्वापर- द्वि- द्र
 †द्वायू^३ काश्रौ ६,४,३; आपश्रौ ६,
 २६,१; २१,१९,८; वैश्रौ ४,६ :
 १२; ७,९ : १८; नाश्रौ २, ३,
 ६,१७; हिश्रौ ७,८,४३.
 द्वाइ^३- पाठवृ २, ५७; †द्वाः अप्रा ३,
 १,१; शौच २,४५; द्वाः आश्रौ
 २, १६, १२†; शाश्रौ; निष ५,
 २†; या २,२; ८,९†; १०††; †
 शुप्रा ४, ८५†; द्वाः आश्रौ ४,
 १०,१××; शाश्रौ; द्वाः शाश्रौ ५,
 १४,२१; ६,३,८; आपश्रौ; द्वाः
 वाधूश्रौ ३, ६९; २८; द्वाः शाश्रौ
 १०, २१, १०, आपश्रौ; †द्वाः श्रौ

आश्रौ ४, १३, ५; शाश्रौ; द्वाः श्रौः-
 वैश्रौ २५, ५ : ९; द्वाः श्रौः शुप्रा-
 १, १६५; द्वाः श्रौ गौघ ५, १३.
 द्वाः - -त्या वैश्रौका १८२.
 †द्वाः-प^३- -०प, -पाच
 आपमं २, १८, ४२०.
 †द्वाः-पापी^३- -०पि, -प्यैः
 आपमं २, १८, ४३१.
 द्वाइ-वाहु^१- -हुम् आपश्रौ ११, ८,
 ५^१; १४, २९, १; १५, १९, १०;
 २१, १७, १८; १८, १२; १९, ५;
 वैश्रौ; -ह वैश्रौ ६, २५ : २४;
 २७ : २७; -हून् वैश्रौ २१, १४ :
 ३०; -हूनाम् वैश्रौ २१, १४ :
 ३०; -हौ वैश्रौ ६, २५ : २१;
 २७ : २४; हिश्रौ १६, ६, २०.
 द्वाइ^३- पाग ६, ३, १०९^१; ७, ३, ४;
 -रम् काश्रौ ७, ६, १२; ८, ६, १७;
 आपश्रौ; -रत्स आपश्रौ १५, ६,
 १४; भाश्रौ; -राणि आपश्रौ
 १०, ५, ४; १५, ५, १; वैश्रौ;
 -राय आश्रित २, ६, ७ : ३६;
 -रे काश्रौ ४, ७, १०; काश्रौ;
 -रेण वाश्रौ १, १, ६, ६; ७; ३, १,
 १, ५; वैश्रौ; -रैः अप १९^१, १,
 ५; ६३, ५, ३.
 द्वाः- -वै शाश्रौ १७, ४, २; ३.
 द्वाः-वारिक- पा ७, ३, ४.
 द्वाः(क)का- पावाग ७, ३, ४५^१.
 द्वाः-नावाक्ष-स्तम्भ- -म्भैः कप्र ३,

a) = परिमाण-विशेष-। व्यु. ?। b) वाह-, द्रोण- इति भाण्डा. पाप्ति.। वाहद्रोण- इति पाका.।
 c) सपा. द्रोणम् <> द्रोणम् द्रोणम् इति पाभे.। d) विप.। पत्त. > नलो. कस. > वस.। e) व्यप.। व्यु. ?।
 f) = द्रोणाचार्य-। व्यु. ?। g) तु. पागम.। h) = वालग्रह-विशेष-। व्यु. ? द्रोण-कास (आत्य-)- > वस.
 इति P.W. प्रमृ., = दीर्घ-नास- इति भाष्यकृतौ ?। i) पाभे. पृ १२९० d द्र.। j) विप. (राहु-). अर्थः ?।
 k) = प्रमाण-। पाप्र (५, २, ३७) प्र. इति। l) द्वे सतः इति केचित् (तु. भाष्यम्)। m) वैप १ द्र.।
 n) उप. <√पा (रक्षणे)। o) सपा. ०राप <> ०प इति, ०रापाच <> ०पपाच इति च पाभे.। p) स्त्री. ङीष्
 †. (पा ४, १, ४८)। q) सपा. ०रापि <> ०रपि इति, ०राप्यै <> ०रप्यै इति च पाभे.। r) उप. = त्यूणा-।
 †) सपा. द्वाःवाहुम् <> द्वाःरेयीम् इति पाभे.।

१०, १६.
 द्वार-देश- -शम् वीगृ ३, ५, ९; -शो पागृ १, १६, २३; २, १४, २१.
 द्वारदेश-गवाक्ष- -क्षेषु विध २५, ११.
 द्वार-प^०- -०प^०, -पाय^० भागृ २, १०: १; हिगृ २, ९, २.
 द्वारपी^०- -०पि^० भागृ २, १०: १; हिगृ २, ९, २; -प्यै^० भागृ २, १०: २; हिगृ २, ९, २.
 द्वार-पक्ष- -क्षात् आगृ ४, ६, ७; -क्षे कौसू ३६, २.
 द्वार-पाल- पाग ७, ३, ४.
 द्वारपाली^०- (> दौवार- [द्वार^१]पालिक-वा.) पाग ४, १, १४६.
 दौवारपाल, लक्ष्मि- पा ७, ३, ४.
 द्वार-पालक- (> पलिका- पा.) पाग ४, १, ४^३.
 द्वार-फलक- -के कौगृ ३, २, १२; शागृ ३, ३, ७; पागृ ३, ४, १८.
 द्वार-बलि- -लिम् आगिमृ २, ४, ६: ४१.
 द्वार-बाहु^१- -हू शांश्री १७, ४, २, ३; द्राश्री; -हो: द्राश्री १, ३, २; १५, १, १५; लाश्री १, ३, १; ५, ९, १३; -हौ हिश्री १३, ५, २७.
 द्वारबाहु-संमार्जन-प्रभृति- -ति द्राश्री ४, ३, १६; लाश्री २, ३, १६.
 द्वार-मध्य- -ध्ये वीगृ २, ८, २६.
 द्वार-यु(त>)वा- -ताम् वैश्री १, २: १.
 द्वार-वंश- -शः मागृ २, १५, ६.

द्वार-वाम- -मे वैगृ ३, १४: ११.
 द्वार-विवरण- -णम् चाअमू २.
 द्वार-समीप- -पे पागृ ३, ४, ५.
 द्वार-स्थूणा- -णाम् हिश्री १९, ८, ५; आगिमृ; -णे वैश्री १४, ६: १६; १७.
 द्वारा(र-अ)दालक-हर्म्य- -न्येषु अय ७१, १९, २.
 द्वारे(य>)यी^१- -यीम् हिश्री ७, ५, ३१^६; ७, २१; आगिमृ १, ६, ३: ४०.
 द्वार्य, र्या^१- -र्ययो: पागृ २, ९, ४; कौसू ७४, ५; -र्या: काश्री ८, ४, १८; माश्री २, २, २, ३५; ३, ३१; -र्याम् आश्री ५, १, १९; -र्याया: भाश्री ११, ६, ११; वैश्री १३, ८: १३; हिश्री २४, २, १०^३; -र्याये आपश्री १५, ६, १४; १५; भाश्री ११, ६, १२; -र्ये आश्री ४, १३, ५××; काश्री; -र्यौ शाश्री ६, १२, १३; हिश्री.
 द्वि^३- पाउभो २, १, १५४.
 द्व, द्वा- द्वयो: ऋश्री ४, ६, ३; ९, ४; शाश्री; पा १, २, ५९××; द्वयो: ऽद्वयो: आश्री ५, १४, ११; आपश्री; ऋश्री या २, २२; ३, १०^४; १२, १०^४; १४, ३०^४; ऋश्री ७, ४३; द्वाभ्याम् आश्री १, ११, १३; शाश्री; द्वाभ्याम् ऽद्वाभ्याम् शाश्री ७, १०, ७; १६, १३, २; काश्री; द्वे आश्री १, २, ७; शाश्री; आपश्री १०, २२, १२^५; आपमं

१, ३, ८^५; आगिमृ; या ३, १०; ५, ७; १३, ७^५; द्वेऽद्वे आश्री १, १०, ७; ६, ३, ६; शाश्री; द्वौ आश्री २, १६, १५; शाश्री; द्वौऽद्वौ आश्री ९, ११, १०; शाश्री.
 द्व(क>)का^०- पा ७, ३, ४७;
 द्वन्द्व^३- -न्द्वः^० वृदे २, १०५; पा २, २, २९; ४, २; पावा २, २, २९; -न्द्वम् काश्री २६, २, ९; आपश्री; पा ८, १, १५; पावा ८, १, १५^२; -न्द्वयो: निसू ८, १३: २८; -न्द्वः निसू ७, ७: १; २; -न्द्वत् पा ४, २, ६××; पावा; -न्द्वानाम् काश्री २२, १०, ७; आपध २, २२, १६; -न्द्वानि वीश्री २४, २४: १; वैश्री; या ७, ४; ९, ३५; शुभ्रा ५, २८; -न्द्वे निसू ७, ७: २; पा १, १, ३१××; पावा; -न्द्वेषु द्राश्री १०, १, १६; लाश्री ३, ९, १८; शुभ्रा ३, १२७; -न्द्वै: या १४, ७; -न्द्वौ निसू ७, ७: ३.
 द्वन्द्व-तत्पुरुष- -पयो: पा २, ४, २६; पावा २, १, ५१; ४, २६.
 द्वन्द्व-दर्शन- -नात् निसू १०, २: ३८.
 द्वन्द्व-द्वय- -यम् कप्र ३, ६, ११.
 द्वन्द्व-प्रतिषेध- -घः पावा १, २, ६४.
 द्वन्द्व-भू(त>)ता- -न्ते वृदे १, ११३.
 द्वन्द्व-मनोज्ञादि- -द्विभ्यः पा ५,

a) पृ १३१४ n द्र. । b) पाभे. पृ १३१४ ० द्र. । c) पृ १३१४ p द्र. । d) पाभे. पृ १३१४ q द्र. । e) व्यप. । f) तु. BFG. । g) तु. पाका. । h) तु. पागम. । i) = द्वारबाहु- । j) = द्वार-स्थूणा- । तत्रभवार्थीयः ढकू > एयः प्र. उस्. (पा ४, २, ९७ [तु. भाष्यम्]) । k) पाभे. पृ १३१४ B द्र. । l) भवार्थीयः यत् प्र. । m) वैप १ द्र. । n) पाभे. वैप २, ३ खं. द्वे तैवा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । o) वैप १, १०३० k द्र. । पाप्र. (५, ३, ७१) तु द्वि + षकच् प्र. । p) = समास-विशेष- ।

१,१३३.

द्वन्द्व-वचन- नात्, -ने पावा
२,२,२९.द्वन्द्व-वृत्त- -त्तम् पावा २, ४,
११.द्वन्द्व-शस् (:) वृदे ६, २१; ८,
१९.द्वन्द्वा (द्व-अ) धिकार-निवृत्त्य
(ति-अ) र्थ- -र्थम् पावा २, ४,
६९.द्वन्द्वा (द्व-अ) भाव- -वात् पावा
१, २, ७२.द्वन्द्वा (द्व-अ) र्थ- -र्थम् पावा ५,
४, ८७.द्वन्द्विन्- -न्द्विनः आपश्चौ २०,
१५, ५; २२, १२; वौश्रौ १५,
२३; १०; हिश्रौ १४, ३, १९;
-न्द्विनाम् हिश्रौ १४, ३, ५५;
अप.द्वन्द्वो (द्व-उ) पताप-गर्ह्य- -र्ह्यात्
पा ५, २, १२८.

द्वय, या- पा ५, २, ४३; -यम्
वौश्रौ ५, १; ५; ५; ४; ९;
१२×४; वैश्रौ; -यम्-यम्
काश्रौसं ७; २१; -या वौपि
१, १४; ५; अप १, ११, ५१;
-याः शाश्रौ १०, १५, २; वौश्रौ;
-यान् आपश्चौ १५, ७, ३१;
२०, १५, ४; २४, ७; वौश्रौ;
-यानाम् वौश्रौ २८, ४; १८;
निस्र १, ९; ६; -यानि वौश्रौ
५, ५; ९; १८, ३६; १; हिश्रौ;
-ये वैश्रौ २०, १३; ११; जैश्रौ;
-येन वैश्रौ १, १३; ६; -येः
आपश्चौ २०, २४, ११.

द्वयी- -यीः आपश्चौ २१,
९, १०; वौश्रौ १६, २९; ५;
२३, १२; १५.

द्वय-मध्यग- -गम् भाशि १०८.
द्व(य >) या-विन्^२- पावा ५, २,
१२२; -विनः अप्रा ३, ४, ११.

द्वया(य-आ) हति- -तेः जैश्रौका
१५१.

द्वयै(य-ए) क- -कम् जैश्रौका
९३.

द्वा-चत्वारिंशत्- -शत् जुस्र ३,
२; ११;

द्वाचत्वारिंश^२- -शे वाधूश्रौ ३,
७६; ३१.

द्वा-त्रिंशत्^२- -शत् वाधूश्रौ ४, ४६;
४; ११५; ८; वौपि; -शतम्
आश्रौ ७, ५, ११; १२, ७, १०;
शाश्रौ; -शतम्-शतम् आश्रौ
९, ४, ३; -शता वाश्रौ ३, २, ७,
५४.

द्वात्रिंश^२- -शः निस्र ६, ११;
३; १२; ८; -शम् आपश्चौ
२३, ९, ८; १४; हिश्रौ; -शाः
वौश्रौ १६, ३४; १०; निस्र ७,
५; २; -शात् भास्र २, २०;
-शे लाश्रौ ६, ७, १८.

द्वात्रिंशी- -शी निस्र ३,
४; २६; -श्यै वाधूश्रौ ४, ८०; ६.

द्वात्रिंश-त्रयस्त्रिंश- -शे
निस्र ६, १२; ११.

द्वात्रिंश-प्रयुक्ति- -क्तिः निस्र
६, ११; ६.

द्वात्रिंशा(श-अ) पाय- -यात्
निस्र ७, १०; १४.

द्वात्रिंशक^२- -कः अप ४; १९.

द्वात्रिंशत्-कवल^२- -लम् वौपि-
२, १०, २; -लेन वौपि २, १०, १.
द्वात्रिंशत्-पलक^२- -कम् अप
३३, ३, ३.

द्वात्रिंशद्-नक्ष(र >) रा^१- -रा
वाधूश्रौ ४, १००; ५; निस्र;
-राम् वाधूश्रौ ४, १००^२; १०;
निस्र ३, ४; १२.

द्वात्रिंशद्-अङ्गु(ल >) ला^२-
-लाम् काठश्रौ ४२.

द्वात्रिंशद्-अङ्गुला(ल-आ) य-
(त >) ता- -ताम् वैष १, ६, ५.
द्वात्रिंशद्-अङ्गुल्या(लि-आ) य-
त, ता- -ताम् वैश्रौ १, २; ९;
वैश्र १, ८; ३; -ताम् वैश्र १, ८;
११.

द्वात्रिंशद्-गुण^१- -णः^२ आज्योः
७, २२.

द्वात्रिंशद्-धा वौश्र १६; १४.
द्वात्रिंशद्-भाग- -गम् काश्र
७, ३०.

द्वात्रिंशद्-रात्र- -त्रः वौश्रौ १६,
३५; ८; -त्रम् आश्रौ ११, ३,
११; काश्रौ; -त्रात् काश्रौ २४,
२, १०.

द्वात्रिंशि(न >) नी^१- -नी
वाधूश्रौ ४, ९७; १; ४×४;
-न्यः वाधूश्रौ ४, ९७^२; २.

द्वा-त्रिंशति^१- -तिः अप ५२, ८, ४.
द्वा-दशन्^२- -श आश्रौ ४, ८, १५;

७, ५, ११×४; शाश्रौ; या २,
१०; २०; ३, ८; १३; ४,
२७१; -श-श शाश्रौ १६, १४,
२०; काश्रौ; -शभिः आपश्चौ ९,
११, २३×४; वौश्रौ; हिश्रौ १४.

a) वैप १ द. । b) तदस्मिन्नाधिकमित्यर्थे ङः प्र. (पा ५, २, ४६) । c) पूरणे ङ् प्र. स्तोमे ङः वा ।

d) द्वुन् प्र. (पा ५, १, २४) । e) तद्धितार्थे द्विस. प्रमाणात्थस्य प्र. लुक् । f) विप. । वस. । g) तद्धितार्थे
द्विस. । h) षो इति पाठः ? यनि. शोषः । i) द्विनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । j) उप. = त्रिंशद् ।

५, १५^{१३}; -शभ्यः काश्रौ १७, ९, १३; आपश्रौ ५, २०, १२; वीश्रौ; वैश्रौ १, १५ : ७^{१७}; लाश्रौ ७, १२, ९^१; -शसु शाश्रौ १४, ६१, ४; काश्रौ; -शसु-शसु काश्रौ ८, ३, ११; वैश्रौ १४, ४ : ३; -शानाम् वाधूश्रौ ४, ११३ : ४; अप ५०, ९, ४; शंघ ३७९. द्वादश, शा^० -शाः काश्रौ १२, ६, १७; आपश्रौ; -शम् शाश्रौ ७, १७, १७; काश्रौ; आपश्रौ २२, १, १५; हिश्रौ १७, १, १७^१; -शस्य वीश्रौ १७, २४ : ९; २५ : १२; २६ : १२; -शा कप्र १, ७, ५; -शात् वैश्रौ १४, ४ : ९; वैताश्रौ; -शान् शुभ्र २, १२८; -शानि आपश्रौ २०, २३, ९; २१, ५, ९; माश्रौ ६, २, ५, २५; हिश्रौ १४, ५, १६; -शाय वीश्रौ १०, ५० : १; -शे वीश्रौ १०, ५० : ९××; माश्रौ; -शेन आपश्रु ११, १४; १३, १; ११; वीश्रु; -शेषु वाध ११, ५१; -शौ निस् १०, १३ : ५; उनिस् १ : २१.

द्वादशी^० -शी वीश्रौ २५, ४ : ८; २७ : ३१; २८ : १९; निस्; -शीः निस् ७, ७ : ३१; -शीम् शाश्रौ ६, ७, १; काश्रौसं; -श्या वीश्रौ १०, २९ : १२; भाश्रौ; -श्याः काश्रौ २५, १४, २९; आपश्रौ; -श्याम् वीश्रौ २५, १ : १४^१; हिश्रौ.

द्वादशी-विंशो-द्वा-
विंशो-शयः ऋभ्र २, ३, ५३.

द्वादश-त्रयोदश- -शे अप १, १४, १.

द्वादश-मास- -सम् आमिष्ट २, ७, २ : १६; वीश्रु ३, १२, ११; वीवि २, ९, २१.

द्वादश-क^० -कः ऋभ्र १, ५, १; ७, १; ३, २५; ३१; शुभ्र; -कम् वीश्रु ४ : ७; ऋभ्र; -काः ऋभ्र १६, ४७; -के पाश्रु २, ६, ३; आपश्रु.

द्वादशक-पल^१ -लानि या १४, ७^{१६}.

द्वादशका(क-आ)दि- -दिषु क्प्र १८, ५७.

द्वादश-कपाल- -लः काश्रौ ४, २, ३६; ५, २१××; या ७, २३; २४; -लम् शाश्रौ १४, १३, ५; आपश्रौ; -लस्य हिश्रौ १, ६, २०; -लाः वीश्रौ २४, १० : ९; -लान् काश्रौ २०, २, ६; वीश्रौ; -लेन वाश्रौ ३, २, ४, ७^२.

द्वादशकलशम् आमिष्ट २, ४, ६ : २०.

द्वादश-कृत्वस्(ः) शाश्रौ १०, ५, १२; १७, १४, ३; काश्रौ.

द्वादश-नाव^१ -वम् आपश्रौ ८, २०, ९; १६, १८, ५; वीश्रौ.

द्वादश-गृहीत, ता- -तम् काश्रौ १८, ५, १६; माश्रौ १, ५, ६, २०; गौपि १, १, ३३; -ताम् माश्रौ

२, १, २, १; -तेन आपश्रौ ५ १७, ७; १८, १०××.

द्वादश-ता- -ता काश्रौ २२, ८, १४.

द्वादश-त्व- -त्वम् मीस् ११, ४, २०.

द्वादश-दा (मन् >) स्त्री^१ -
-न्याम् कौस् २१, ११.

द्वादश-धा अप ४६, ६, १; विध. द्वादश-नामन्- -मभिः आमिष्ट २, ४, १० : ८; ११ : २१; वैश्रु ३, १३ : ९; वैध ३, १० : १; २, ६.

द्वादश-पञ्चविंश- -शान् निस् ४, ९ : ३०.

द्वादश-प(द>)दा^१ -दा वीश्रौ ४, १ : ३३; वीश्रु ३ : २३.

द्वादश-पदा(द-आ)याम^१ -मः वीश्रु १० : ११.

द्वादश-पर्याय- -याः लाश्रौ ६, ८, ८.

द्वादश-पर्व-पू (रक>) रिका^१ -
-का कप्र १, ९, ११.

द्वादश-पुण्डरी (क>) का^१ -
-काम् आपश्रौ १८, २०, १४;

हिश्रौ १३, ७, ३.

द्वादश-पुरुष- -पः वाधूश्रौ ४, ११३ : १^{१३}.

द्वादश-पुष्क(र>)रा^१ -राम् आपश्रौ २२, १०, १; लाश्रौ ९, २, १०.

द्वादश-प्रक्रम- -मे वैश्रौ १, २ : ८.

- a) °शा^० इति पाठः? यनि. शोधः । b) °शेभ्यः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) वैप १ द्र. । d) द्वादश इति पाठः? यनि. शोधः (=°शाधिकम्, तु. आपश्रौ.) । e) तदस्य परिमाणमित्यर्थे कन् प्र. । f) कस. उप. = परिमाण-विशेष- । g) °कपा^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पृ ४३९ f) । h) वैप १, १६८५ h द्र. । i) विप. (वत्सतरी-) । वस. [तु. दारिलः] । j) तद्वितार्थे द्विस. । k) कस. > वस. । l) विप. । वस. । m) उत्तरेण संघिराषः ।

द्वादशप्रक्रमा(स-आ)याम-
 -मः वौशु ४ : २.
 द्वादश-प्रभेद^a - दम् आशि ६,
 ५; -दानि आशि ६, ८.
 द्वादश-प्रभु^b - प्रभु वौश्रौ २६,
 ८ : १२.
 द्वादश-भाग- -नम् वाश्रौ ३, २,
 १, २९.
 द्वादश-म^c - मे अप ७२, ११, १.
 द्वादश-मल-> मला(ल-आ)-
 दि-शूद्रादि-संस्पर्श-जा(ज-
 अ)न्युपघात^d - ते वैश्रौ २०,
 १८ : ४^e.
 द्वादश-मात्र- -त्रः नाशि २, ७, १.
 द्वादश-मान^f - नम् काश्रौ
 २२, ९, १; आपश्रौ.
 द्वादश-मि(त>)ता- -ताम्
 अप १७, २, १.
 द्वादश-मिथु(न>) ना^g - ना
 काश्रौ २२, १०, १७; -नाः लाश्रौ
 ९, ४, ६.
 द्वादश-मूर्ति^h - -तिम् वैध ३,
 १०, ५.
 द्वादश-युक्त- -केन माश्रौ ६, १,
 ५, ३७; वाश्रौ २, १, ४, ३८.
 द्वादश-योगⁱ - -नम्^h माश्रौ १,
 ७, ८, ५; वाश्रौ १, ७, ५, ३.
 द्वादश-रात्र^j - -त्रः कौसू ६७, ९;
 ७२, २२; गौध २३, ३४; -त्रम्
 आश्रौ २, १, ३५; शाश्रौ; वौपि
 २, ७, ९^j; -त्रस्य गौध २६,

१५; -त्रात् भाग्य १, ९ : ६; ३,
 २० : ९; वौध ३, ५, ६; -त्रे
 आपश्रौ २२, १४, १३; वाग्य;
 -त्रेण विध ४८, १४.
 द्वादशरात्र-पराध्व^k - -ध्याः
 आश्रौ १०, १, १२.
 द्वादशरात्र-त्रत- -तानि
 वैश्रौ १, १६ : १.
 द्वादशरात्रा(त्र-आ)दि^l -
 -द्वीनि काश्रौ २४, १, १.
 द्वादशरात्रा(त्र-अ)न्त^m -
 -न्तानि वौपि ३, ७, ४.
 द्वादश-रात्रि- -त्रिषु वैश्रौ १,
 १६ : ५; -त्रीः लाश्रौ ९, ८, ४^k.
 द्वादश(श-ऋ)र्चⁿ - -र्चः लाश्रौ
 १०, ९, ९; वैताश्रौ ३३, १५^m;
 ऋअ २, १०, ६०; -र्चम् ऋअ
 २, १०, ५८; शुअ; -र्चं शाश्रौ
 १८, १३, ६; निस् ६, ७ : ५५;
 वृदे २, १४६; -र्चंन आग्नि २,
 ४, ४ : १४; वौध ३, ७, ११;
 -र्चैभ्यः अप ४६, १०, ९; अत्र
 १९, २३.
 द्वादश-वत् काश्रौ १४, ५, २८.
 द्वादश-वर्ष- -र्वे वैगृ ६, १४ :
 १; शंघ ३७९; -र्वेषु सुघ ५३.
 द्वादशवा, वा^oपि^oक^o - -कम्
 आश्रौ १२, ५, १३; काग्य १९, २.
 द्वादश-वर्ष^p - -र्वम् पाग्य २,
 २, ३; हिग्य १, १, ३.
 द्वादशवर्ष-ता- -तायाः वाग्य

२, ८.
 द्वादश-वि(घा>)ध^q - -धम्
 शाश्रौ १६, १, ३; वौश्रौ १०,
 १९ : ९; या ७, २३.
 द्वादश-व्यास- -सः वौशु ४ : १.
 द्वादश-शत^r - -तम् आपश्रौ
 १३, ५, १; १४, १४, ६; २२, १२,
 १२; काश्रौसं.
 द्वादशशत-दक्षिण^s - -णः
 आश्रौ ९, १, ३; -णम् वौश्रौ
 २६, २० : ३; -णस्य आपश्रौ
 १०, २६, १; वैश्रौ १२, १९ : ९.
 द्वादश-संवत्सर^t - -रम् विघ
 ५०, ६; -रात् वैध ३, ९, १.
 द्वादश-संवत्सर^u - -रम्
 आश्रौ १२, ५, १५; शाश्रौ; -रेण
 आपश्रौ २३, ११, ८.
 द्वादश-समा- -माः वैध १, ३, ३.
 द्वादश-सूक्त- -क्तैः वैगृ ६, १७ :
 ३.
 द्वादश-स्तोत्र^v - -त्रः निस् ३,
 ४ : १६; २२; -त्रात्^w निस्
 ३, १ : २६.
 द्वादश-स्तोम^x - -मः वौश्रौ २५,
 ५ : १४; -मानि वौश्रौ १७,
 १८ : ९; -मेन वौश्रौ १८,
 ४७ : ३; २४.
 द्वादश-स्थ(णा>)ण^y - -णम्
 अप २१, ६, १^z.
 द्वादशा(श-अ)क्षर, रा^{aa} - -रः
 निस् १, १ : ३; १५; २ : ६; ७;

- a) विप. 1 वस. 1 b) पृ ४४४ f द्र. 1 c) विप. 1 संख्यादेरपि पूरणार्थे वृत् प्र. मद्- आगमश्च उरसं.
 (पा ५, २, ४९)। d) वस. > द्वस. > पस. > उस. > कस. 1 e) °माला इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः
 टि. मूको. च)। f) तद्वितार्थे द्विस. 1 g) उप. = उपरक्तज्ञा- इति विद्याधरः। h) सपा. श्वायो° <<
 °श्वायो° इति पामे. 1 i) तद्वितार्थे समाहारे च द्विस. 1 j) पामे. पृ १२४३ h द्र. 1 k) °त्रिः इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। l) वैप १ द्र. 1 m) °र्चम् इति C. 1 n) काग्य. पाठः 1
 o) पृ १२०६ i, j द्र. 1 p) = ११२। मलो. कप. 1 q) समाहारे द्विस. 1 r) = ऋतु-विशेष-।
 s) °नम् इति पाठः ? यनि. शोधः 1

१७; २०; ३ : २; ४ : ३; ऋप्रा
१६, २९; ४५; ७१; -रम् वाधुश्रौ
४, १०० : ४; ९; २४; निसू ३,
४ : २६; -रा निसू १, ५ : ११;
३, ४ : १८; -रा: शांश्रौ ७, २७,
१७; ऋप्रा; -राणि क्षुसू १, ५ :
१३; ११ : २४; -राभ्याम्
उनिसू २ : ३२; -राम् वाधुश्रौ
४, १०० : ३; -रे ऋप्रा १६,
४६; -रौ निसू १, २ : १२; ३ :
५; ७; ९; ११; ४ : ६; १७; ऋप्रा.

द्वादशाक्षर-पा (द>) दा^१-
दा निसू १, २ : २६; ४ : ४.

द्वादशाक्षर-प्रस्ताव^२-वानि
निसू २, १० : ४.

द्वादशाक्षर(र-अ)ष्टाक्षर-
नौ निसू १, ४ : १५.

द्वादशा(श-अ)क्षि-निमेष^३-वः
आज्यो १, ४.

द्वादशा(श-अ)ङ्गुल, ला^४-
लः कप्र २, ८, ३; अपः -लम्
काश्रौ १६, ८, १५; वौश्रौ; -लस्य
वैश्रौ ११, १० : ५; -ला अप
२२, ७, १.

द्वादशाङ्गुला(ल-अ) यत-
तम् वैश्रौ ११, ८ : ९.

द्वादशाङ्गुलो(ल-उ)न्नत-
तम् वैश्रौ १, ३ : ५.

द्वादशा(श-अ)ङ्गुल^५->ल-
कल्पि(त>)ता-ता अप २६,
३, ३.

द्वादशाङ्गुल-मात्र-त्रम्
वैश्रौ १, ८ : ७.

द्वादशाङ्गुल-मान-नेन

अप ३०^२, १, ८.

द्वादशाङ्गुला(ल-अ)याम^६-
मम् वैश्रौ ११, ८ : ७.

द्वादशा(श-अ)ङ्गुल^७-ष्टम्
आग्नि २, ३, १ : १०^६.

द्वादशा(श-अ)ध्याय-संग्रह-
हम् अप ७०^६, १, ४.

द्वादशा(श-अ)भ्यधिक-कानि
ऋअ ४, ३; -कैः अप ३३, ३, ४.

द्वादशा(श-अ)भ्यस्त-स्तम्
वेज्यो १३.

द्वादशा(श-अ)योग^८-राम्
शांश्रौ ३, १८, १०^६.

द्वादशा(श-अ)र^९-रम् या ४,
२७^६.

द्वादशा(श-अ)रलि^{१०}-रलिः
आपश्रौ २०, २, ७; हिश्रौ १४,
१, २०; -रिम् काश्रौ २०, १, ७;
वाश्रौ ३, ४, १, १४.

द्वादशा(श-अ)व(त>)त्ता^{११}-
त्ता वौश्रौ ६, ११ : १५; वाधुश्रौ
४, ४५ : ७.

द्वादशा(श-अ)ष्टा(ष्ट-अ)क्षर-
राम्याम् वैश्रौ ४, १२ : ७.

द्वादशा(श-अ)ह^{१२}-पावाग ५,
१, ११०^६; -हः आश्रौ १०,
५, ११; शांश्रौ; -हम् शांश्रौ
१३, २०, १४; काश्रौ; आपश्रौ

५, ७, १४××; वौश्रौ;
-हम्ऽहम् आपश्रौ १७, २६,
२०; -हस्य आश्रौ १२, ४, २३;

शांश्रौ; -हाः आश्रौ १०, ५, १;
क्षुसू; -हात् आपश्रौ २१, ३, ६;
हिश्रौ; -हाम् आपध १, २९,

१७; वौध; -हानाम् जुसू ३,
१६, १७; -हाय शांश्रौ १०,
१, १; आपश्रौ २१, ४, ५; हिश्रौ
१६, १, ४२; -हे शांश्रौ २, २,
२; आपश्रौ; -हेन आपश्रौ २१,
१, १××; वौश्रौ.

द्वादशाह-तापश्चित^{१३}-तेषु
आश्रौ ४, २, १५.

द्वादशाह-धर्म-रमाः काश्रौ
१३, १, १.

द्वादशाह-पर्यन्त^{१४}-न्ताः
शांश्रौ ११, १, ३; काश्रौ २३,
१, ३.

द्वादशाह-प्रवर्ह^{१५}-हः जुसू
२, ७ : ६.

द्वादशाह-प्रभृति-तीनि
शांश्रौ ११, १, ४; १३, १४, ९;
हिश्रौ १८, १, ११^{१६}; लाश्रौ १०,
१, ११; वैताश्रौ ४२, १५; निसू
९, ६ : २४.

द्वादशाह-भूत-तस्य लाश्रौ
९, ६, १८.

द्वादशाह-वत् काश्रौ २४, ५,
३१; मीसू १०, ६, ७२.

द्वादशाह-विकल्प-ल्पाः
काश्रौ २४, ७, १०.

द्वादशाह-शस् (ः) काश्रौ १७,
७, १२.

द्वादशाह-संमित-तम्
आपध २, ७, ४; हिद्य २, २, २५.

द्वादशाहा(ह-अ)घ^{१७}-घम्
काश्रौ २४, ३, ३४.

द्वादशाहा(ह-अ)न्त-न्ते
काश्रौ ४, १०, ७.

a) विप. वस. । b) वस. > वस. । c) तद्वितार्थे द्विस. । d) समाहारे द्विस. । e) सप्र. वौश्रौ
१, ७, २ अङ्गुलपर्वमात्रम् इति पाठे. । f) वैप १ द्र. । g) पाठे. पृ १३१८ h द्र. । h) विप. (इडा-) मलो.
कस. । i) = ऋतु-विशेष- । j) तु. पागम. । k) सन्न-विशेषयोः द्विस. । l) पृ १२४३ e द्र. । m) °ह-प्रजादीनि
इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. शांश्रौ ११, १, ४) ।

द्वादशाहा(ह-अ)परार्ध^a-
-र्धम् आमिगृ ३, ६, २ : ६^b.
द्वादशा(ह-अ)वराध्व^a-
-ध्वम् वौषि १, ९ : १५^b.
द्वादशाहिक- -कम् वौश्रौ
१६, १३ : १०; मीस् ७, ४, १३.
द्वादशाहिकी- -की निस्
६, ६ : ११.
द्वादशाहीय- -यस्य आपश्रौ
२१, २३, २; २३, ९, ६; -यात्
आपश्रौ २१, १५, १९; १६, २१;
हिश्रौ १६, ६, ३; -ये आपश्रौ
२२, १६, १९.
द्वादशिकका- -कः वौश्रु ४ : २;
-का आपश्रु ५, १२; हिश्रु २,
२३; -के हिश्रु २, ८.
द्वादशिका-पञ्चत्रिंशिका-
-कयोः आपश्रु ५, ६; वौश्रु १ :
३७; हिश्रु २, १५^c.
द्वादशिका-पञ्चिका- -कयोः
आपश्रु ५, ४; वौश्रु १ : ३६;
हिश्रु २, १२^d.
द्वादशिन- -शिनः ऋञ्च १, ९,
७; शुञ्च; -शी शांश्रौ १३,
२३, ८.
द्वादशि-प्रभृति- -तयः निस्
१, ९ : २३.
द्वादशि-स्तोम^a- -मः आश्रौ
१२, ५, ४^e.
द्वादशो(श-उ)त्तर^a- -राः निस्
१, ९ : १२-२३.
द्वादशो(श-उ)चाम^a- -मम्

वौश्रौ १०, १२ : ६; माश्रौ ६,
१, ४, ६^f; वैश्रौ १८, ६ : ७;
-मे आपश्रौ १६, १०, ८; वैश्रौ
१८, ७ : २६; हिश्रौ ११, ३, २५.
द्वादशो(श-उ)पसत्क^a- -कः
-माश्रौ ४, ३, ५१; -त्कम् वौश्रौ
२५, २७ : १.४.४; -त्काः काश्रौ
२२, १, १; -त्के काश्रौ १७,
७, १०; आपश्रौ.
द्वा-नवति-शत- -तम् वाधूश्रौ ४,
११३ : ५.
द्वापर^b- -रः शांश्रौ १५, १९,
११; वाधूश्रौ ४, ५९ : ५^g;
-रम् विध २०, ७.
द्वापर-च्छन्दस्^a- -न्दांसि निस्
१, ५ : २१.
द्वापर-स्तोम^a- -माः निस् १,
९ : ९; १८-२०.
द्वा-पूर्व^a- -र्वम् शुप्रा ५, २६.
द्वा-विंशत्- -शत् वैश्रु १, १ : ५;
६, १९ : १.
द्वा-विंशति- -तिः आश्रौ १२, ५,
१४; निस्; या ३, ८; १३; उस्
३, २; -तिम् शांश्रौ १०, १३,
४; आपश्रौ; -तेः गौध १, १५;
-स्या शांश्रौ १५, २२, १.
द्वाविंश^h- -शः वौश्रौ १०,
४२ : ४; १५, १६ : ६; -शम्
अञ्च ८, ५; आज्यो ९, ७; -शात्
१, १९, ६; कौश्रु.
द्वाविंशो- -शी शांश्रौ १८,
१४, ४.

द्वाविंश¹->श-शत- -तम्
निध २, १४; या ३, ९;
द्वाविंशक- -कम् अञ्च ९, ८;
९.
द्वाविंशति-दारु^a- -रुः आपश्रौ
१०, ३०, २; -रुम् भाश्रौ १०,
२१, ३.
द्वाविंशति-रात्र- -त्रम् आश्रौ
११, ३, ४; काश्रौ २४, २, ११;
हिश्रौ १८, १, २७; -त्रेण आपश्रौ
२३, ३, १०.
द्वाविंशत्य(ति-अ)क्षर-ता-
-तायाः निस् १, ५ : २२.
द्वाविंशत्य(ति-अ)क्षर-प्रभृति-
-तयः निस् १, ५ : १५.
द्वाविंशत्य(ति-ऋ)च^a- -चम्
शुञ्च ३, ५३.
द्वा-सप्तति- -तिः विध ९६, ७६;
अञ्च ११, ३(२); अर्ष ५ : ८.
द्वि-क, का^m- पा ७, ३, ४७ⁿ; -कम्^o
विध ३, २४; ६, २; -कस्य कप्र
२, ४, १२; -काः लाश्रौ ६, ७,
४; ८, ४; -केन गोग्र ३, ९,
६; -कौ लाश्रौ ६, ८, ७.
द्वि-क-प्रभृति- -तयः लाश्रौ ६,
५, १६; १९; निस् १, ८ : ६;
९ : २; ९; १८; २६.
द्वि-क-विष्टाव^a- -वः लाश्रौ ६,
८, १३; -वाः लाश्रौ ६, ८, ९.
द्विका(क-अ)नुवद- -दम् वैश्रौ
११, १० : ३.
द्वि-कपाल- -रुः काश्रौ १२, ६, ४;

- a) विप. । वस. । b) परस्परं पाठे. । c) 'दशपञ्च' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रु.) ।
d) 'कपञ्च' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रु.) । e) 'दशी' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांश्रौ १३, २३, ८
प्रभृ.) । f) वैप १ द्र. । g) 'द्यावम्' इति पाठः? यनि. शोधः । h) = युग-विशेष- । शिष्टं वैप १ द्र. ।
i) = दृत्-पाठ- । j) पूष. = छन्दो-विशेष- । k) वैप १, १० ३३ k द्र. । l) तदस्मिन्नधिकमित्यर्थे ङः प्र. (पावा
५, २, ४६) । m) विप. । स्वार्थे वा तादतिथे प्रहणे वा कः प्र. (पा ५, २, ७७) । n) पाप्र. अकचि इत्वम् ।
o) कन् प्र. (पा ५, १, ४७) ।

आपथ्रौ; -लम् आपथ्रौ ९, १३,
 १३; १४, ४, १; वौथ्रौ; -ले
 वौथ्रौ २०, ८: १९.
 द्वि-कर^a -रम् अप २५, २, ५.
 द्वि-कर(ण>)णी- णी काशु २,
 १२; आपथु १, १०; ५, ११;
 ६, १; हिशु २, २६; -णीम्
 हिशु १, १५.
 द्विकरण्या(णी-आ)याम- -मः
 काशु २, १४; आपथु २, ३;
 वौथु १, ३२; हिशु १, २४.
 द्वि-कर्ण^b -र्णानाम् काशु ४, १०.
 द्वि-कर्म^b -त्व- -त्वात् मीस् १०,
 ७, २०.
 द्वि-कल्प^b -ल्पाः कौस् ६७, ८.
 द्वि-काल^c -लम् वैध २, ४, ३; ५;
 १४, ७.
 द्वि-कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
 ९, ६.
 द्वि-कम- -मम् ऋप्रा ११, ६; १४.
 द्वि-कोश^a -शानि आपथ्रौ २२,
 २, २३; -शे आपथ्रौ २२, २,
 २०^c.
 द्वि-खुर > ०रिन्- -रिणः वौध
 १, ५, १३२.
 २द्वि-खुर^b -राः वौथ्रौ २४, ५: २०.
 द्वि-गत्^d > द्वैगत^e -ते लाश्रौ
 ६, १२, ९.
 द्वैगत-गौतम- -मयोः द्राश्रौ
 ८, २, २२; लाश्रौ ४, ६, १६.
 द्वि-गु^f -गुः वृदे २, १०५; पा २,
 १, २३; ५२; ४, १; पावा २, ४,
 ३०; -गोः पा ४, १, २१; ८८; ५,
 १, ५४; ८२; ८६; ४, ९९; पावा
 २, १, ५१^g; ४, १; ४, १, ८८;

५, १, २८; ३७; -गौ पा ६, २,
 १२; २९; १७; १२२.
 द्विगु-मासा(स-आ)पन्ना(न-अ)
 लंपूर्वो(र्व-उ)पसर्ग- -र्गाः पावा
 १, २, ४४^h.
 द्विगु-संज्ञा- -ज्ञा पावा २, १,
 ५१.
 द्विगु-स्वर- -रः पावा १, १, ४७;
 ६, १, ७०.
 द्विग्व(गु-अ)र्थ- -र्थस्य पावा
 २, ४, १२.
 द्वि-गुण, गा^b -णः काश्रौ २०, ४,
 १५; विध ५, ७३; काशु ५, २;
 या १४, ४; -णम् आश्रौ १, ११,
 ४; काश्रौ; गौध १२, ६^h; या ६,
 २६; -णा आपथ्रौ ७, ११, २;
 भाश्रौ; -णाः काश्रौ २२, ४, २८;
 वैताश्रौ ३७, ९; शंघ १०२;
 -णान् काश्रौ २६, ३, ३; हिश्रौ
 २२, ३; १९ⁱ; -णानि विध २०,
 ७; चव्यू २: ५; -णाभिः शाश्रौ
 १७, २, ९; वौथ्रौ ११, ३: ३२;
 ३३; -णाम् आश्रौ ११, ५, ४;
 काठश्रौ; -णायै वौथ्रौ ४, ५:
 १८; -णे शंघ ३९१; विध ९,
 १२; -णेन आपथ्रौ १०, २४,
 १४; वैथ्रौ १२, १८: २.
 द्वैगुण्य- -ण्यम् गौध १२,
 २८.
 द्विगुण-कारिन्- -रिणः या ६,
 २६.
 द्विगुणकारिणी- -णी वाध
 १९, १७.
 द्विगुण-त्रिगुण-दर्शन^f- -नेपु
 अप ६५, १, ६.

द्विगुण-दायिन्- -यिनः या ६,
 २६.
 द्विगुण-मुञ्ज- -ञ्जान् आश्रु ४,
 ७, ८; गौपि २, २, २०.
 द्विगुण-रशना- -नया काश्रौ ६,
 ३, २४.
 द्विगुणा(ण-अ)भ्यास- -सेन
 आपथ्रौ २२, ९, २१; हिश्रौ १७,
 ४, १६.
 द्विगुणे(ण-इ)न्द्रचाप-दर्शन^f-
 -ने अप ६५, २, १०.
 द्विगुणो(ण-उ)त्तर^b -राणि
 गौध १२, १३.
 द्वि-गोत्र^b -त्रः वौध २, २, १८;
 -त्रस्य शाश्रौ १, ४, १६; वैथ्रौ
 ६, ५: २; हिश्रौ २, १, ५६.
 द्वि-ग्रहण- -णेषु पावा १, ३, १०.
 द्वि-ग्राहम् वाश्रौ ३, २, ७, ५४.
 द्वि-चतुष्-पत्-स्त्री^k -स्त्रियः
 अप ७०^l, १०, ५.
 द्वि-चत्वारिंशत्- -शत् आश्रौ ६,
 ४, १०; ऋअ; -शतम् वौथ्रौ
 २६, ११: १०.
 द्विचत्वारिंशक^l -कात् वृदे ६,
 ८१.
 द्वि-चन्द्र^b -न्द्रम् अप ५०, ७, १.
 द्वि-चन्द्र-दर्शन- -ने वैशु ७, ६:
 १२.
 द्वि-चरु^b -रौ मीस् २, ३, ४३.
 द्वि-चू(डा>)ड^b -डानि काश्रौ
 २२, ४, २२.
 द्वि-छा(या>)य^b -ये अप ७२,
 ३, ८.
 द्विछाय-वृक्ष- -क्षम् अप ६९,
 ५, ५.

a) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । b) विप. । वस. । c) समाहारे द्विस. । d) = ऋषि-विशेष- (वैप २,
 ३खं. द.) । e) = साम-विशेष- । f) समास-भेदा- । g) तु. पाम. । h) तु. st. । i) विप. । द्वस.>
 वस. । j) विप. । कस.>वस. । k) द्वस.>वस.>कस. । l) आर्हीयः द्बुन् प्र. वसं. (पा ५, १, २४) ।

द्वि-ज^० -जः काश्रौसं ३६ : ८;
 सु; -जम् सु १८, ६; अप;
 -जस्य जैश्रौका ११०; अप;
 -जाः आमिग्य २, ३, ३ :
 १४; १६; १९; कागृउ; -जान्
 कप्र १, ४, ३; अप; -जानाम्
 अप २२, १०, ४×४; वाध; -जे
 कप्र २, ३, ७; ३, १, १२; विध
 ९३, ७, -जेन विध १९, २;
 -जेभ्यः अप १३, ४, ५; ६८,
 २, १७; -जेषु अप ७०^३, १०,
 ३; ७२, ६, १, -जैः वौश्रौप्र
 ५४ : १७; कागृउ; -जौ वृदे ७,
 ८६; ८७.
 द्विज-कुल- -ले अत्र ८, १.
 द्विज-त्व- -त्वम् विध २८, ३९.
 द्विजत्व-विहीन- -नः वैध
 ३, १३, १०.
 द्विज-देवता- -ताः अप ६४, ४,
 ९.
 द्विज-धर्म-हीन- -नः वैध ३,
 १३, ८.
 द्विज-पुण्या(राय-अ)ह-वोप-
 -पेण आज्यो ७, १६.
 द्विज-प्रेत- -त्स्य विध २२,
 ६४.
 द्विज-मृग- -गाः अप ६४, ६,
 १०.
 द्विज-वर-गुरु- -रुणा उस् ८,
 ३६.
 द्विज-वृषभ-गवा(गो-अ)ध-
 पार्थिव- -वानाम् अप ६८, २,
 ६२.
 द्विज-श्रेष्ठ- -ष्ठ सु १८, ४;
 -ष्ठः शंघ ११२; ४३९.

द्विज-सत्तम- -मः अप ७०, १,
 ६; -मैः शंघ ४४९.
 द्विजा(ज-अ)ग्रय- -ग्रयस्य शंघ
 १४१; -ग्रयैः अप २२, ८, ४.
 द्विजा(ज-अ)शौच- -चे विध
 २२, १७.
 द्विजे(ज-इ)न्द्र- -न्द्र सु ७,
 ३; १९, १; २८, २; -न्द्राः
 अप ७०^३, ११, ११.
 द्विजो(ज-उ)त्तम- -मः अप
 ६९, ८, १; ५; वाध २६, १६;
 -मम् अप ६९, ३, ५; -माः अत्र
 २३, १२, १×४; विध २२, ९१;
 -मान् अप ५, ४, १; आमिग्य;
 -माय अप ८, २, ३; -मे अत्र
 ८, १; -मैः कप्र १, ४, ९; -मौ
 शंघ ४३९.
 द्विजोत्तम-कुल- -ले अत्रम्
 ८.
 द्वि-जकार- -रे अप्रा २, ३, १२.
 द्वि-जगत्य(ती-अ)न्त- -न्तम्
 ऋअ २, ५, ६०; ६, ७.
 द्वि-जगत्या(ती-आ)दि- -दि
 ऋअ २, १०, ६९.
 द्वि-जगत्या(ती-आ)घ(दि-अ)-
 न्त^b -न्तम् ऋअ २, १०, ५०.
 द्वि-जन्मन्^a - -न्मनः विध २८,
 ४८; -न्मनाम् कप्र २, १०, ६;
 अप; -न्मने जैश्रौका १६६;
 विध २१, २३; -न्मा अप २०,
 ७, ११; वौध १, ११, ३२.
 द्वि-जाति^a - -तयः वैगृ ५, ८ : ८;
 १०; अप; -तये कप्र ३, ८, ५;
 अप ४, २, १३; १२, १, ८; -तिः
 वैगृ ४, १२ : १२; कप्र; -तिभिः

अप २३, ९, २; शंघ १५०;=
 विध २२, ८२; -तिभ्यः शंघ-
 २१९; -तिषु वौध २, १०, ५४;
 -तीन् अप ७०^३, २२, २;
 गौध १२, १; -तीनाम् सु १८,
 ३; आमिग्य.
 द्विजाति-कर्मन्- -र्मग्यः गौध
 २१, ४.
 द्विजाति-प्रवर- -रात् वौध २,
 २, २९.
 द्विजाति-शुश्रूषा- -षा विध
 २, ८.
 द्वित^a - -तः वौश्रौ २४, २६ : १३;
 ऋअ; या ४, ६; -ताय वौश्रौ
 १, १०; १५; २४, २६; १२; माश्रौ.
 द्वि-त्कार- -रम् अप्रा ३, २, २९;
 -राणि अप्रा २, ३, १५.
 द्वि-तन्त्र- > द्वैतन्त्र^a - -न्त्रेण
 निसू ९, ४ : २६.
 द्वि-तय- पा ५, २, ४३; -ये
 जैश्रौका १८.
 द्वि-ता^a वौश्रौ १८, १४ : ३;
 ऋअ २, ४, ४२, निघ ४, २;
 या ५, ३६.
 द्वैत^a - -तम वैध १, ९, ६.
 द्वि-ता(रा>)र^a - -राः अप ५२,
 ६, ५;
 द्वि-ताल-दीर्घ^a - -र्धम् वैश्रौ ११,
 ९ : ५.
 द्वि-तीय, या^a - पा ५, २, ५४;
 -यः आश्रौ १, ५, २१; ५, ३,
 ३; १२, ६, १४; शाश्रौ; या १,
 १५; ३, १५; ११, ६; -यम्.
 आश्रौ १, ७, ४; २, ७, २१×४;
 शाश्रौ; -यया आश्रौ १, ३, ६;=

a) वैप १ द्र. । b) विप. । कस. > वस. > द्वस. । c) वैप १, १५१३ h द्र. । d) भावे अण् प्र. ।
 e) स्वार्थे अण् प्र. (वैतु. शक. < द्वीत्- [द्विधा इत्-]) । f) विप. । वस. । g) द्विस. > कस. । h) विप., नाप.
 (विभक्ति, तिथि-) ।

४, ६, ३××; शांश्रीः पा २, २,
४; -यस्य आश्री ७, ६, १;
८, ७, २२××; शांश्रीः पा ६,
१, २; -यस्याः वैताश्री २५,
४; सात्र २, १०२; -यस्याम्
आश्री २, १, २५; काश्रीः -यस्यै
वाधूश्री ४, ५८ : ४; -या आश्री
१०, ६, ५; शांश्रीः अत्र ४, ४०^११^२;
पा २, १, २४; ३, २; ८; ३१;
३५; ६०; ६, २, ४७; पावा ६,
२, ४७; -याः काश्रीसं ३ : ६;
वौश्री २६, ११ : २६; द्राश्रीः
-पायाः आपश्री ४, ४, १; १६,
१, ३; वौश्री ३, २७ : ३१;
भाश्री ४, ४, ३; वैश्री १८, १ : १०;
हिश्री ६, १, २६; ११, १, ६;
-यात् आश्री ६, ६, २; ७, ११,
१९; शांश्रीः पा, पावा ५, ३,
८३; -यान् आश्री ७, ११, ३८;
आपश्रीः -यानि आश्री ७, ५,
४; वाश्रीः -याभ्याम् अत्र ७,
१२; -याम् आश्री ३, ६,
२६××; शांश्रीः -याय आपश्री
८, १७, ८; १३, ६, १२; वौश्री
५, १६ : ११; -यायाः काश्री
२०, १, १४; निस्; पा ८, १,
२३; -यायाम् आपश्री ११,
४, ५; ८; लाश्रीः या १, ८;
पा ३, ४, ५३; ७, २, ८७; -यायै
शांश्री १८, २०, १-४; -ये आश्री
३, २, ३; ७, १०, ३××; शांश्रीः
पा ६, ३, ८०; -येन आश्री १०,
५, २१; वाश्रीः -येभ्यः काश्री
१०, २, २४; वैश्री १६, ७ : १;
अप ४६, ९, ९; -पांयेषु शांश्री

४, १०, २; आपश्रीः -यैः
वाश्री ३, २, ७, ३४; -यौ
अप ४ : १३.
द्वैतीयिक^b - कानि निस्
८, ५ : २३^१.
द्वितीय-क- -कम् याशि २,
२१.
द्वितीय-चतुर्थ- -र्थयोः शांश्री
१०, ५ १४; १२, २६, २; तैषा
१४, ५; -र्थाः श्रुषा १, ५४;
शौच १, १०; -र्थे लाश्री ६, २,
२८.
द्वितीय-चतुर्थी^d -र्थ्योः हिश्रु
५, ४७.
द्वितीय-जन्मन्- -न्मनि वैश्रु
६, ७ : २.
द्वितीय-तन्त्र- -न्त्रम् निस् ९,
४ : १६; १८.
द्वितीय-तृतीय, या- -ययोः
आश्री ६, ३, ११; ८, १२, ५;
-याभ्याम् वैश्री १, १२ : ८;
हिश्री ३, ४, २२; -ये भाशि ६९;
-यौ माश्री ५, २, ११, ३९; वैश्री
१५, १२ : १; वैश्रु ४, ७ : ४.
द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ- -र्यानाम्
आश्री ४, १, १८.
द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्थ-
-र्याणि पा २, २, ३.
द्वितीय-त्व- -त्वे पावा ५, ३,
८३.
द्वितीय-दशम- -मयोः शांश्री
१२, २४, ४.
द्वितीय-दिवस- -से वैश्रु ४, १० :
१३.
द्वितीय-द्विर्वचन- -ने पावा ६,

१, २.
द्वितीय-परिवेक- -के जैश्रीका
७०.
द्वितीय-पर्यास- -सम् निस् ५,
१ : १२.
द्वितीय-पुरीष- -वे वैताश्री २, ४.
द्वितीय-प्रथम- -मयोः निस् ५,
९ : १५; सात्र २, ४६; -मौ
नाशि १, १, १३.
द्वितीय-प्रथम-कुट्ट- -ष्टाः तैषा
२३, १६.
द्वितीय-प्रभृति- -ति काश्री २३,
५, ९; वाश्रु १४, २३; -तिषु
शांश्री १०, १, ११; -तीनाम्
शांश्री १२, २७, २; द्राश्री ९, ३,
१४; लाश्री ३, ७, १.
द्वितीय-वर्जम् काश्रीसं ५ : ६.
द्वितीय-शकल- -लेन वैश्री १३,
१३ : ९.
द्वितीय-शब्द- -ब्दः सीस् ६,
१, २३; ९, ३, ३७.
द्वितीय-सप्तम- -मयोः शांश्री
१०, ५, १०.
द्वितीय-स्थान- -न्म् निस् ८,
४ : ३.
द्वितीय-स्पर्ध- -र्धः दंवि १,
११.
द्वितीय-स्वर- -रः द्राश्री ६, १,
१६.
द्वितीय-स्वरो(र-उ)त्तम^f -मैः
लाश्री २, ९, १२.
द्वितीया (य-आ) काङ्क्ष-
-ङ्क्षस्य पावा ३, ३, १६१.
द्वितीया/कृ पा ५, ४, ५८.
द्वितीया-चतुर्थी- -र्थ्योः शांश्री

a) सकृत् ष्यया इति पाठः ? यनि. शोचः । b) तस्येदमीयप् ष्क् > इकः प्र. । c) ष्य^०
इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. तत्रैव तार्तायिकानि) । d) द्वस. पूष. हत्वः (पा ६, ३, ६३) । e) सपा^०.
उत्तमः द्वितीयस्वरः < > द्वितीयस्वरोत्तमैः इति पाठे. । f) विप. । वस. पूष. कस. ।

२,५,१८; १०, ११, ५; पा २, ३, १२.

द्वितीया-तृतीया- -ययोः निस् ४; १० : ५; -याभ्याम् गोगृ ४, १, १४; पा ७, ३, ११५; -ये ऋञ्च २, १०, १५५; अञ्च १, २५; २०, १३९.

द्वितीया-दशमी- -भ्यौ आज्यो ६, १३.

द्वितीया(य-आ)दि- -इयः मैञ्च २४; अञ्च १९, २३; -दि वैताश्रौ ३३, ४; -दिः ऋञ्च २, ६, २८; -दिम् अप ३६, १३, १; -दिसु आश्रौ ७, १, १३; १५; काश्रौसं ३ : ५; -दीनाम् पावा २, २, ३. द्वितीया(य-आ)घ, घा^३- -घाः वृदे ६, २६; मैञ्च २०; -घान् नाशि १, १, ११.

द्वितीया-निर्देश- -शः पावा ५, १, ८०.

द्वितीया(या-अ)नुपपत्ति- -न्तिः पावा ३, १, १९.

द्वितीया(य, या-अ)न्त^३- -न्तम् गौपि १, २, ७; ४, ७; -न्ताः तैप्रा २३, १७.

द्वितीया(य-अ)न्त्यस्वर- -रयोः वैताश्रौ ३२, १४.

द्वितीया-प्रभृति- -ति वौगृ ३, १२, ९.

द्वितीया(य-अ)प्राप्ति- -प्तिः पावा ६, १, २.

द्वितीया(य-अ)भाव- -वे पावा ६, १, २.

द्वितीया(य-अ)लाम- -भे मागृ १, ७, ७; वागृ १०, ६.

द्वितीया-पथी-विपय- -ये पावा २, ३, ३२.

द्वितीया(य-अ)ष्टम- -मयोः साञ्च २, ५६६; ५६८; -मौ अपं २ : १४.

द्वितीया-सप्तमी- -भ्योः पा ५, ४, ५६.

द्वितीया-समास-वचना (न-आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा २, १, २४.

द्वितीया-स्वर-वचना(न-आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा २, १, २४.

द्वितीयिन्- -यिभ्यः आश्रौ ९, ४, ४.

द्वितीयै(य-ए)कवचन-वत् > षद्-वचन- -नात् पावा ६, २, ६७.

द्वितीयो(य-उ)च्चारण-लक्षण- -णम् शैशि १०५.

द्वितीयो(य-उ)च्छ्रित- -ते काश्रौ २१, १, १०.

द्वितीयो(य-उ)त्तम- -मयोः शाश्रौ १२, १३, १; लाश्रौ ७, ९, ५; -मौ लाश्रौ ७, ७, ९.

द्वितीयोत्तम-वर्जम् आश्रौ ७, १२, ८.

द्वितीयो(य-उ)त्सृष्ट- -ष्टः माश्रौ ५, २, १०, ४१.

द्वितीयो(य-उ)दान्त^३- -त्तानि अप्रा १, २, ५.

द्वि-त्रयस्त्रिंशत्- -शतम् लाश्रौ १, ६, १९.

द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-षट्-सुक्त-

भाज्- -भाजि ऋञ्च १, १२, ३.

द्वि-त्रि-नक्षत्र- -ग- -गे अप ६३, २, ३.

द्वि-त्रिपटु- -न्त- -न्तम् ऋञ्च २, १, ५१; ९४×४; अञ्च २०, ९४.

द्वि-न्व- -त्वम् पापवा ५, १६; भाशि

२०; ८८; -त्वात् कप्र ३, १०, ५; -त्वे याशि १, ७३; पावा ५, २, २९.

द्वि-त्व-तस् (:) शैशि २१७.

द्वि-त्व-बहुत्व-युक्त- -क्तम् मीस् ३, ३, १७.

द्वि-त्व-वाचिन्- -चिपु वौपि ३, ३, ९^३.

द्वि-त्वा(त्व-अ)भाव- -त्वात् पावा २, १, १.

द्वि-दण्ड- -ण्डम् वैध २, ३, २.

द्वि-दण्डि- -पा, पाग ५, ४, १२८.

द्वि-दत्^३- -पा ६, २, १९७.

द्वि-दन्त^३- -न्तः अप ६९, २, २.

द्वि-दल, ला^३- -लम् कप्र १, २, १०; -ला अप २६, २, ५; ८×४.

द्वि-दशन्- -श विध ६, २७.

द्वि-दिव^३- -वः काश्रौसं २८ : १८; -वस्य काश्रौसं २८ : २०.

द्वि-दिवा(व-आख्या>)ख्य^३- -ख्यः काश्रौ २२, ७, ६.

द्वि-देव^३- -वेषु वृदे ३, १२८.

द्वि-देव(ता>)त^३- -तः काश्रौ ५, १, ५; भाश्रौ; -ताः आपश्रौ

२४, ३, ४२; -तात् आश्रौ ३, ६, ४; -ते वृदे ३, ८१; मीस् ९, ३, ३७; -तेषु कागृ ४७, ११.

द्वि-देवत-बहुदेवत- -तेषु शाश्रौ १, १७, १९.

द्वि-देवता->ता(ता-अर्थ>)र्था- -र्था मीस् १०, ८, ४२.

द्वि-देवत्व, त्या- -त्यम् अञ्च ४, ३८; -त्यस्य शाश्रौ ६, १, १५;

-त्या अञ्च ७, १२; -त्याः आश्रौ ५, १३, ११; शाश्रौ; -त्यान् आश्रौ ५, ५, २१^३; शाश्रौ;

-त्यानाम् आश्रौ ५, ६, ६; शाश्रौ;

-त्यानि काश्रौ ९, २, ४; १०, ६,
४; -त्ये निस् ६, ८ : १४;
-त्येभ्यः वौश्रौ २१, १९ : २०;
-त्येषु शाश्रौ ७, ८, १२; वौश्रौ;
-त्यैः आश्रौ ५, ५, १; काश्रौ.

द्विदेवत्य-ग्रह-संनिपात-
-ताः आपश्रौ १३, ९, ५.

द्विदेवत्य-पात्र- -त्राणि
आपश्रौ १२, १, १०; १३, १३,
१३; वौश्रौ.

द्विदेवत्य-भक्ष- -क्षेषु वैश्रौ
१५, ३१ : ९.

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रह- -हाः
आपश्रौ १३, १, ४^०; -हेषु हिश्रौ
८, ६, १५.

द्विदेवत्य (त्य-ऋ) र्तुग्रहा(ह-
आ)दित्य-सावित्र-पालीवत-
-वर्जम् आपश्रौ १२, २४, २.

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रहै(ह-ऐ)
न्द्राग्न-वैश्वदेव- -वाः हिश्रौ ९,
१, ३^०.

द्विदेवत्य (त्य-ऋ) र्तुग्रहै (ह-ऐ)
न्द्राग्न-वैश्वदेव-दर्विहोम- -माः
वैश्रौ १६, १ : ९^०.

द्विदेवत्य (त्य-ऋ) र्तुयाज-
-जाः शाश्रौ ७, १७, १२; -जान्
शाश्रौ ७, ३, ४.

द्विदेवत्य-वत् आपश्रौ १२,
२७, १८; १३, ८, ३; वैश्रौ १५,
३५ : २.

द्विदेवत्य-शेष- -पम् शाश्रौ
७, ४, १५.

१ द्वि-दैव^० -> ० व- बहुदैवत- -तम्

वृदे ३, ८०.

२ द्वि-दैव^० - वे वृदे ३, ४१.

द्वि-द्रोण- पावाग २, ३, १८.

द्वि-धा वौश्रौ २५, १४ : १०; १५ :
८; वैश्रौ.

द्वैध^० पा ५, ३, ४५; -धम्^०
काश्रौ १४, २, १७; १५, ४, ३;

आपश्रौ; लाश्रौ २, ७, २७; या
५, ३; -धात्^० द्राश्रौ १२, ३,
१८.

द्वैधी √ कृ > द्वैधी-करण-
-णे पावा ३, ३, १०४.

द्वैधी √ भू > द्वैधी-भाव-
-वे वौश्रौ २८ : ११ : ८; अप
४७, ३, १.

द्वैधी-भूत- -तः अप ५०,
८, १.

द्वि-धातु-ज- -जम् वृदे २, १०३.

द्वि-धा(र >) रा^० - राः आश्रौ ५,
१, ९^०.

द्वि-नकार- -राणि अप्रा २, ३,
१६.

द्वि-नतिक^० - कानि अप्रा १, १,
१५; -के अप्रा १, १, १४.

द्वि-नवति- -तिः ऋप्रा १६, ९०.

द्वि-नामन्- -मा काश्रौ २२, ८, २५;
आमिन्.

द्वि-नाराशंस- -सम् वौश्रौ २५,
२२ : २; -से आपश्रौ १२, २५,
२६.

द्वि-नासि. (का >) क- -कः अप
६९, २, ३.

द्वि-निष्क-, द्विनैष्किक- पा ५,

१, ३०.

द्वि-पकार^० - राणि अप्रा २, ३, १४;
१५.

द्वि-प(क्ष >) क्षा^० - -क्षा अग्र ९,
३^०.

द्वि-पङ्क्त्या(क्ति-आ)दि- -दि ऋअ
२, ८, ९१.

द्वि-पञ्चक^० - कः ऋअ ३, २७.

द्वि-पञ्चाशत्- -शत् ऋअ २, १,
१६४.

द्विपञ्चाशद्-अक्षर-प्रभृति-
-तयः निस् १, ५ : २.

द्विपञ्चाशद्-अक्ष(र >) रा^० -
-रा ऋप्रा १६, ८०.

द्वि-पद्^० - -कंपत् वौश्रौ ४, २, ९^०;
-पदः शाश्रौ ४, २०, १; आपश्रौ;

-कंपदम् वैश्रौ १८, १९ : १०;
२२; -पदाम् आमिन् २, ५,

९ : १५; जैश्र २, ६ : १२;
नाशि २, ६, ६^०; -कंपदे आश्रौ

२, ९, १०; शाश्रौ; पाश्रु ३, ४, ७^०;
या १२, १३^०; -दौ अग्र ५,
२६.

द्विपदा- पाग ४, २, ६०^१;
-दा आश्रौ ६, २, ५; ५, १८;

शाश्रौ; उनिस् १ : ४२; २ : २७;
-दाः आश्रौ ६, २, ६; ३, ९×४;

शाश्रौ; या १०, २१; १२, ४०;
-दानाम् शाश्रौ ७, ३६, ४;

१८, १, २२; -दासिः आपश्रौ
६, १७, ७; वौश्रौ; -दाम् आश्रौ

७, ३, १९; ८; १२, ३; शाश्रौ;
-दायाः शाश्रौ ७, २७, १५;

a) सपा. 'ग्रहा दर्विहोमाः <> 'ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवा दर्विहोमाः <> 'ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवदर्विहोमाः इति

पामे. । b) = द्वि-दैवत- इति संस्कर्तुः भाष्यम् । c) विप. । वस. । d) स्वार्थिकः अण् प्र. । e) वैतु. पाप्र

[५, ३, ४५] द्वि- + धा > धमुब् प्र. इति । वा. क्वि. । f) नाप. (विकल्प-). पावा ५, ३, ४५ डः प्र. इति [तु. पाम.] ।

g) वैप १ द्र. । h) वैप १, १६८८ n द्र. । i) पामे. वैप १, १६८८ p द्र. । j) 'पदे इति लासं. ।

k) पामे. वैप १, १६८८ I द्र. । l) 'द्वी- इति पाका. ।

शुभ्र ४, १४५; उनिसू २ : २२;
-दासु आश्रौ ८, २, १; ४, ४;
लाश्रौ; -दे शाश्रौ १०, १३,
१३; १८, १४, ६; लाश्रौ; अश्र
१६, १^१।

१ द्वैपदिक- पा ४, २, ६०.

द्विपद-त्रिप(द >)दा-

-दाभिः वौश्रौ ३, ८ : २५.

द्विपदा-कारम् लाश्रौ ७, ७,
२०.

द्विपदा(दा-अ) तिच्छन्दस्-
-न्दसो निसू ७, ३ : ३६^१।

द्विपदा(दा-आ) अ(दि-अ)
धर्च- -चौ ऋप्रा १५, २०.

द्विपदा(दा-अ) धिक^० -कः
ऋप्रा १८, १६.

द्विपदा(दा-अ) न्त^० - न्तम्
ऋप्रा २, ६, १०; १७.

द्विपदा-भक्ति^० - क्तिनि
निसू ६, ६ : २४.

द्विपदा-सूक्त- -क्तानि आश्रौ
८, ७, २४; ९, ६.

द्विपदै(दा-ए) कपदा- -दाः
उसू ३, २.

†द्विपदी- पाग ४, २, ६०^१; ५,
४, १३९; -दी आपश्रौ ९, १९,
१०; वौश्रौ; आगृ १, ७, १९^०;
-कौगृ १, ८, २८^०; शागृ १, १४,
६^०; या १२, ४०.

२ द्वैपदिक- पा ४, २, ६०.

१ द्वि-पद, दा^१- -दः काशु ७, ३४;
आपशु ६, २; वौशु १ : ६; हिशु
२, २७; -दा वौशु २० : १०;

११; १६.

द्विपद-चतुष्पद- -दम् कौसू
१२३, १; -देषु शंभ २६८.

द्विपद-चतुष्पद-धान्य-हिरण्य-
-ण्यानि शंभ १८.

२ द्वि-पद^१ - > द्वैपद^१ - -दः निसू
७, ५ : ३६; शुभ्र २, २२८;
-दम् आश्रौ ८, १२, २४; शाश्रौ;
-दयोः ऋप्रा १०, ३; -दाः वृदे
४, ८; ७, ८६; ऋप्रा ८, ३; -दे
ऋप्रा २, १०, ५६; ऋप्रा; -देन
शाश्रौ २, १२, २; ३, १७, ५××;
-दौ वैताश्रौ ३२, १२.

द्वैपद-शस् (:) उसू १,
१५.

द्वैपद-संहिता-स्वर-
-रौ ऋप्रा ११, ७०.

द्वैपदा(दा-आ) दि-
दीनाम् वृदे ३, ८०.

द्वैपदा(दा-अ) न्त- -न्तेपु
उसू ८, ३१^१.

द्विपदै(दा-ए) कपद- -दानि शुप्रा
४, १६९.

द्वि-पराक^१ - > द्वैपराक^१ - -कः
शाश्रौ १६, २२, ११.

द्वि-पर्यन्त- -न्तानाम् पावा ७, २,
१०२.

द्वि-पशु^१ - -शुः वौश्रौ १२, १९ :
९; १७, ५५ : १७××; -शुना
आपश्रौ १८, २१, १२; २२,
२५, १३^१; वौश्रौ; -शुम् वौश्रौ
१८, ६ : १८; २६, ३० : १७;
-शुनि आश्रौ १२, ७, १४; -शौ

वौश्रौ २६, १ : ३.

द्विपशु-प्रभृति- -ति माश्रौ ५,
२, ९, ४.

द्वि-पात्र^० - -त्राः वाधूश्रौ ४, ७८ :
२-५.

द्वि-पाद^१ - पा ६, २, १९७; -†पात्
आपश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ ४,
१६, २; वाधूश्रौ; कौसू ३३, ९^१;
-†पास्सु माश्रौ ५, २, १, ३;
वौगृ ३, ५, १२; -†पादः वौश्रौ
२, १८ : १८; माश्रौ १, ८, ३,
३^१; अश्र १२, १; अर्ष ३ : ५६;
-†पादम् आपश्रौ १६, २७, १४;
वौश्रौ; -पादौ अश्र १५, १५;
-पादभ्यः या १२, १३.

द्विपात्-चतुष्पद-भादि-
-दीनाम् काध २७३ : १३.

द्वि-पा(दा >) दा^० - -दा सु १६, ४.

द्वि-पितृ^० - -ता आपश्रौ १, ९, ७;
भाश्रौ; -तुः वौध २, २, १९.

द्वि-पुट^० - -टम् वैश्रौ ११, ७ : ९.

१ द्वि-पुरुष - > प्पा(प-अ) सोम-
पीथिन् - -थिनः काश्रौ ७,
१, ६.

२ द्वि-पुरुष, पा^१ - -पम् काशु २, ६;
आपशु १९, १; हिशु ६, १६;
-पया काठश्रौ २२; -पा वौशु
१० : १०; -पाम् काश्रौ १६,
८, १; आपशु १५, ९; हिशु ५,
१४.

द्विपुरुषा(प-आ) याम^० - -मः
आपशु १५, १०; वौशु १० : ५;
हिशु ५, १७.

a) ष्दा इति पाठः ? यनि. शोधः । b) ष्सो इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सश्रु. अन्तच्छन्दसी) ।

c) विप. । वस. । d) पृ १३२५ I द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. द्वे तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । f) तद्धितार्थे
द्विस. उप. = पञ्चदशाङ्गुल- । g) पृ १२०३ e, f द्र. । h) ष्न्ते इति कालिसं. । i) द्विस. उप. = त्रिरात्र-
विशेष- । j) = याग-विशेष- । वस. । k) वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १, १६८८ p द्र. । m) पाभे. वैप १,
१६८८ q द्र. । n) तद्धितार्थे द्विस. ।

दि-पुरोडा(श >)शा^b - शायाम्
मीस् १०, ८, ६०.

दि-पृष्ट- > द्वैपृष्टय- छयात् निस्
९, ४ : ६; -छयेन निस् ९, ४ :
२६.

दि-प्रकृति^b - तीनाम् या २, २.

दि-प्रक्रम- मम् वौशु ४ : १३.

दि-प्रगाथ- थम् निस् ५, ५ : १०;
-थात् निस् ५, ५ : २.

दिप्रगाथा(थ-आ)दि- दि ऋअ
२, ८, १.

दि-प्रतिष्ठित^c - तम् वैशु ३, १९ :
५१५.

दि-प्रतिहार^b - राणि लाश्री ७, ४,
१; -रे लाश्री ६, १२, १; ७,
७, १८; २२.

दि-प्रतीक^b - कम् आश्री ८, १२,
२४.

दि-प्रधान, ना^b - नम् वृदे ४, ५;
-नाः वृदे ४, ८.

दि-प्रभृति- त्तिपु शाश्री १, १७,
२; -तीन् लाश्री ६, ३, २६;
-तीनि नाशि २, २, ५.

दिप्रभृत्या(ति-आ) हुतिगण-
-गेषु हिश्री ३, ८, १८.

दि-प्रमे(द >)दा^b - दाः आशि
६, ११.

दि-प्रमा(ण >)गा^b - णा काशु ३,
६; -णायाः आपशु ३, १६;
हिशु १, ५७.

दि-प्रवाचन^b - नाः आश्री १२,
१३, २.

दि-प्रवाजि(न >)नी^c - नी आशु
१, ५, ५.

दि-प्रस्ता(र >)रा^b - राः आपशु
१०, १३; हिशु ३, ५३.

दि-प्रस्थ-तण्डुल-पा(क >)का^f-
-का वैश्री ११, ९ : १३.

दि-प्रदेश, शा^b - शः वैश्री ११,
७ : १२; वौशु ४ : १४; -शम्
माश्री २, २, २, ३८; -शया
काश्री ९२; -शैः वैश्री ११,
१० : २.

दिप्रदेशो(श-उ)परव- वेषु
काश्री ९२.

दि-फ(ल >)ला^b - ला अप २६,
२, १.

दि-वर्हस^b - र्हाः अप ४८, ११५;
निष ४, ३; या ६, १७६.

दि-वर्हिस^f - र्हिषः वाधूश्री ३,
१४ : ४.

दि-बहु- हुषु पावा ६, ३, १; -हूनाम्
आश्री ३, ३, ३.

द्विबहु(हु-अ)र्थ- र्थे पावा ५, ३,
५२; ९३.

दि-विस्त-> द्विवैस्तिक- पा ५, १,
३१.

दि-वृहय(ती-अ)नुष्टुप् - अन्त^f-
-न्ते ऋअ २, ८, ५.

दि-वृहय(ती-अ)न्त- -न्तम् ऋअ
२, ८, ६९.

दि-ब्रह्मौदन- नम् वौश्री २४,
१५ : ७.

दि-भाग^b - गः मीस् १०, ७,
२०; -गम् आपश्री ७, २४, ८;
२२, १६, १३; वौश्री; -गोभ्यः
वेज्यो १७.

दि-भाव- (> द्वैभाव्य- पा.) पाग

५, १, १२४.

दि-भेद^b - दाः चव्यू २ : १२.

दि-मण्डल-परिग्रह- -हे अप ६३,
२, ९.

दि-मात्र,त्रा- -त्रः तैप्रा २२, १३;
शौच; -त्रम् माश्री १, ३, २, २२;
माशु; -त्राः शुप्रा ४, १०९;
-त्राम् ऋप्रा १३, ५०.

दिमात्रिक- -कः कौशि ७४;
याशि २, ४२; -के याशि १, ६७;
२, ४२.

दि-मास- -सात् अप ५७, ४, ७.

द्वैमास्य^f - स्यः गौध १६, ४.

दिमासा(स-अ)भ्यन्तर- -रे या
१४, ६.

दि-मुख^b - खः वौध १, ११, ३२.

द्विमुखी- -खीम् अप ६, १, १४.

दि-मुखलि- पाग ५, ४, १२८.

दि-मूर्ध- पा ५, ४, ११५.

दि-मूर्धन्^b - र्धा अप ६९, २, ३;
अथ ८, १०(४).

दि-यकार- -रम् शुप्रा ४, १५२;
-राणि अप्रा १, ३, १२; २, ३,
१२.

दि-यजुस्^b - जुषी वौश्री १०,
३२ : २; ४.

दि-यज्ञ- -ज्ञः काश्री २२, ११, १२.
द्वैयज्ञ- -ज्ञाः निस् ७, १० :
३२.

द्वियज्ञ-वत् मीस् ६, १, २२ x x.

दि-यज्ञोपवीत- > तिन- -ती
वौध १, ३, ५.

दि-यम^b - मे तैप्रा १९, ३.

द्वियम-पर- -रे तैप्रा १९, ३.

a) विप. (वोर्यामासी-). b) विप. । वस. । c) विप. (नामन्-). तुस. पृष. = मातापितृ-कुल- ।

d) शोधः पृ २१६ q द्र. । e) = स्वैरिणी- । उस. । f) विप. । द्विस. > कस. > वस. । g) विप. ।
तद्धितार्थे द्विस. । h) वैप १ द्र. । i) विप. (सदस्-). पूष. ? । j) विप. । कस. > द्वय. > वस. । k) वस-
वा समाहारे द्विस. वा । l) भावीत्यर्थे ण्यत् प्र. (पा ५, १, ८४) । m) उप. = स्वरित- ।

द्वि-यमा(म-अ)न्तरा- -रा तैप्रा
२३, २१.

द्विय(द्वि-अ)ह^a- -हः वाधूश्रौ ३,
७ : २.

द्वि-युग्म-प्रस(व>)वा^b- -वाः
अप ७०^c, १०, २.

द्वि-युज^c- -युजा आपश्रौ २२, २,
२०.

१द्वि-योग^d- > द्वैयोग्य- -न्यम्
पावा ५, १, ३१.

२द्वि-योग^e- -नाः वौश्रौ १८, २० :
७; १९; -नाम् वौश्रौ १५,
२४ : १७; -गानाम् वाधूश्रौ
३, ७९ : ६.

द्वि-योजन- -नम् वौश्रौ २६, १० :
२; अप ६१, १, २६.

द्वि-रत्निक^f- -कम् अप ३०, १, ४.

द्वि-रथा(ना>)न^g- -नम् हिश्रौ
९, ८, १४^h; -नाः आपश्रौ १४,
५, १३^h.

द्वैरथान्य- > न्य-दर्शन- -नात्
मीसू ८, १, १४.

द्वि-राज्य- -ज्यम् अप ७२, ६, २.

द्वि-रात्र- -त्रः शाश्रौ १५, १६, ४ⁱ;
आपश्रौ; -त्रम् शाश्रौ १३, ५,
१९××; आपश्रौ; -त्रस्य आपश्रौ
१८, २२, २२××; वौश्रौ; -त्राः
आपश्रौ २२, १४, १६; निसू ८,
३ : २५; -त्राणाम् निसू ३,
७ : १; -त्रात् निसू ९, ९ : ४७;
-त्राय काश्रौसं ३१ : १५;
वौश्रौ; -त्रे आपश्रौ १४, १८,
१३; वौश्रौ १७, ५९, १८××;
हिश्रौ १५, ५, १४; निसू ७, ३ :
१०; २८; -त्रेण शाश्रौ १६, २०,

१; १९.

द्वैरात्रिक^j- -काणि निसू ७,
३ : १०.

द्वैरात्रिकी- -क्यः निसू
९, ४ : २७.

द्विरात्र-न्याय- -यः निसू ९,
४ : २५; -येन निसू ७, ८ :
२७; २९; ३०^k; ३३^k.

द्विरात्र-प्रभृति- -तयः शाश्रौ
११, १, ३; आपश्रौ; -तिषु
शाश्रौ १०, १, २०; १२, २, १;
लाश्रौ ६, ९, १६.

द्विरात्रा(त्र-आ)दि- -दीनाम्
मीसू ८, २, २७.

द्विरात्रा(त्र-आ)सि- -सिम् निसू
७, ८ : १९; ८, २ : १७.

द्विरात्रीण^l- -णः लाश्रौ ८, ४,
११.

द्विरात्रो(त्र-ऊ)न- -नम् आश्रौ
११, ७, १०.

द्विरात्रो(त्र-उ)पजन^m- -नः
आश्रौ ११, ४, ८; -नम् आश्रौ
११, ३, ११ⁿ.

द्वि-रूप, पा- -पः वाधूश्रौ ३, ६९ :
३२; -पम् आपश्रौ २१, २३,
१२; भाश्रौ ७, ९, ७; माश्रौ;
-पया आपश्रौ १०, २२, ५; -पा
आपश्रौ १३, २३, १२; २२,
१५, ८; हिश्रौ १७, ६, २४;
-पाम् हिश्रौ ९, ६, १५.

द्वि-रेतस्^o- -ताः पायु ३, १५, ६;
वौघ १, ११, ३२.

द्वि-लकार^p- -रम् अप्रा २, ३, १३.

द्वि-त्र(त्र>)त्त्रा^q- -त्त्रा सु
२८, १.

द्वि-वचन- -नम् निसू ३, ९ : ४२;
या ६, १६; पा १, १, ११; २,
६३××; पावा; -नानि निसू
९, १२ : १५; अप्रा ३, २, १;
-ने अप्रा २, २, १३; पा ७, १,
७७××.

द्विवचन-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६,
१, ३.

द्विवचन-बहुवचन-विधि- -धिः
पावा १, २, ६४.

द्विवचन-बहुवचना(न-अ)नुप-
पत्ति- -त्तिः पावा २, २, २९.

द्विवचन-बहुवचना(न-अ)नैक-
प्रत्यया (य-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
पावा ४, १, ३.

द्विवचन-बहुवचना(न-अ)
प्रसिद्धि- -द्धिः पावा १, २,
६४; ३, ३, १६१.

द्विवचना(न-आ)दि- -दिषु
आमिषु ३, ४, १ : ३२.

द्विवचना(न-अ)न्त- -न्तम्
पावा १, १, ११; -न्ताः शुप्रा
१, ९३; -न्तानि शुप्रा ५, २८;
-न्तौ शौच १, ७५.

द्विवचनान्त-प्रगृह्यत्व- -त्वे
पावा १, १, २१.

द्विवचनै(न-ए)कवचन- -नै पा
१, ४, २२.

द्वि-वचो(च्-अ)न्त- -भाज्-
-भाजः ऋप्रा १, ७१.

द्वि-वत्^r आश्रौ २, ७, २०; आपश्रौ;
या २, २४^r.

द्विवत्-स्तुति- -तिः वृदे ६,
१६; -तौ वृदे ४, ५.

द्विवत्- -वतः ऋत ५, ३, १०;

a) = द्वयह- । b) विप. । कस. > वस. । c) पृ १२०५ c द्र. । d) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । e) = रथ-
विशेष- । वस. । f) उप. = अरलि- । g) विप. । वस. । h) सप्र. नम् <> नाः इति पाठे. । i) विप. ।
निर्वाचार्थे ठञ् प्र. (पा ५, १, ८७) । j) पृ १२०५ k द्र. । l) तदहंतीयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७ [तु. पङ्गुहशिष्यः]) ।

-वति ऋत ५, ७, १०.
 द्वि-वर्ण^१- -र्णम् शुभा ४, १४४;
 तैप्रा.
 द्वि-वर्ण-लोप- -पः या २, १.
 द्वि-वर्ण^२- -र्णः ऋप्रा २, ३४;
 -र्णम् कौय ३, ६, ३; शांय;
 -र्णानि आशि १, २५.
 द्वि-वर्ष^३- -र्षम् वाध ४, ९९.
 द्वि-वर्ष-प्रभृति-प्रेत- -त्सु पाय
 ३, १०, ८.
 द्वि-वस्त्र^४- -स्त्रः कार ३, ९; माय.
 द्वि-वितस्ति^५- -स्तिः कप्र १, ८,
 १२.
 द्वि-वितस्ति-प्रमाण^६- -णः काशु
 ७, ८.
 द्वि-विध, धा^७- -धः आपथ्रौ १६,
 १७, १५; आपथ्रु; -धम् शांथ्रौ
 १६, २०, १×४; द्राथ्रौ; -धा
 या १३, ५; नाशि १, ७, १६;
 -धाः वौध ३, ३, ४; -धे वाथ्रौ
 ३, ३, १, ४०; -धेन निस् ७,
 ५ = ३८.
 द्वि-विध्य- -ध्यम् वौध ३, ३, १;
 -ध्यात् निस् ८, २ = २१.
 द्वि-विपादिन्- -दि भाशि १२०.
 द्वि-विस्तार- -रम् अप ३०^३, १, ५.
 द्वि-वृत्^८- -वृत् वौय १, २, १०.
 द्वि-व्यञ्जन-विधि- -धिः पाप्रवा
 ४, १३.
 द्वि-व्या(म>)मा^९- -मा काथ्रौ ६,
 ३, २४; -माम् काठथ्रौ ५२.
 द्वि-व्याया(म>)मा^९- -मा आपथ्रौ

७, ११, २; शांथ्रौ; -माम् वाथ्रौ
 १, ६, २, ११; वैथ्रौ.
 द्वि-व्रत^१- -तः वौथ्रौ १४, ८ = ३;
 अप ४६, ८, ४.
 द्वि-शक्र^२- -क्रम् शंघ ११६ = ५०.
 द्वि-शत- -त्सु आमिग ३, ८, ३ =
 २०; वौपि.
 द्वि-शता(त-अ)क्ष(र>)रा^३- -रा
 निस् १, ५ = १५.
 द्वि-शत, ता^४- -तः आपथ्रु १७, ३;
 ९; वौशु; -ताः वौशु ५ = २१.
 द्वि-शफ^५- -फम् माथ्रौ ५, २, १४, ८.
 द्वि-शफै(फ-ए)कशफा(फ-अ)पह-
 रण- -णे विध ५२, १२.
 द्वि-शब्द-त्व- -त्वम् मीस् १०, ७,
 २५.
 द्वि-शय^६- -यानि माथ्रौ २, १, १,
 १०.
 द्वि-शस् (:) काथ्रौ २, ३, ६; निघ ३,
 २९; या ३, २०; ऋप्रा.
 द्वि-शा(खा >)ख^७- -खम् कौस्
 २०, ३.
 द्वि-शाण- > द्विशाण्य- , द्वैशाण-
 पा ५, १, ३६.
 द्वि-शीर्ष^८- -र्षम् अप ७१, ६, ४.
 द्वि-शीर्षन्^९- -र्षा अप ७०^३, ४, ४.
 द्वि-शु(ल >)ला^{१०}- -लाम् आपथ्रौ
 ७, ८, ३×४; भाथ्रौ; वैथ्रौ १०,
 ७ = २१; १५ = २.
 द्वि-श्रु(ज्ञ>)ज्ञ^{११}- -ज्ञाम् माथ्रौ १, ८,
 ३, २६; -ज्ञाम् माथ्रौ १, ८, ४,
 १५; ३८; वाथ्रौ.

द्वि-श्रु(ज्ञ-ए)कश्रुज्ञा- -ज्ञाम्ब्याम्
 काठथ्रौ ५६; ५७; -ज्ञे वाथ्रौ
 १, ६, २, ११.
 द्वि-शेष-त्व- -त्वात् मीस् ३, २, २९.
 द्वि-श्रेणि^{१२}- -णि वौथ्रौ ११, ३ =
 २२; २४; २२, १४ = ५.
 द्वि-पं(< सं)हित^{१३}- -तानि आपथ्रौ
 २२, ५, ९; द्विथ्रौ १७, २, ३७;
 लाथ्रौ ८, ६, २५.
 द्वि-पं(< सं)धि^{१४}- -धयः ऋप्रा २,
 ८०; -धौ ऋप्रा १५, १८.
 द्वि-षष्^{१५}- -षट् वाथ्रौ ३, २, ६,
 ३९?; ऋअ ३, २६; -षड्भिः
 अप ४ = ९.
 द्वि-षट्-यत्^{१६}- -तः अप ६१,
 १, २७.
 द्वि-षष्टि- -ष्टिः निघ ४, १; या ४,
 २५; -ष्ट्या वेज्यो २९.
 द्वि-षष्टि-भाग- -गेन वेज्यो ३७.
 द्वि-षष्टि-रात्र-प्रभृति- -तीनि
 आथ्रौ ११, ४, ८.
 द्वि-षष्ठी-भावन- -वात् पात्रा २,
 १, १.
 द्वि-ष(< सं)हस्ता(स-आ)दि- -दिषु
 वौपि १, १६ = ८०.
 द्वि-षा(< सा)हस्त^{१७}- -त्सु आपथ्रौ
 १६, १३, ११; वौथ्रौ; -ह्ने
 आपथ्रु १०, १३; द्विषु ३, ५३.
 द्वि-षाहस्ता(स-आ)दि- -दिषु
 आमिग ३, ८, ३ = १२०.
 द्वि-पू(< सं)क्त^{१८}- -क्तः आथ्रौ ८,
 ७, २०; -क्ताः शांथ्रौ १०, ११.

a) पृ ७९३ i द्र. । b) पृ ७९३ j द्र. । c) तद्धितार्थे द्विस. । d) प्रभृतियोगेऽपि द्वितीया-
 उलं. (पावा २, ३, २) । e) द्विर्पात् इति संस्कृतेः टि. । f) विप. । वस. । g) विप. (शब्दु-). कस. >
 वस. । h) पृ १०५४ i द्र. । i) = मरुद्-विशेष- । समासः? । j) *ला इति पाठः? यनि. शोधः
 (तु. आपथ्रौ ७, ८, ३) । k) वस. वा. क्वि. । l) विप. > नाप. । वस. । m) वस.
 [२×६=१२] । -नः) विप. । मलो. कस. उप. = आयत- । o) सपा. द्विषह <> द्विषाह इति पाठे. ।
 p) वैप १, १५१९ C द्र. ।
 वैप-नु-७२

१४; १२, ३, ३.
 द्वि-षोडशिन^१- -शी आप्रथौ २२,
 ५, १४; द्विषौ १७, २, ४२.
 द्वि-ष्ठ- पा ८, ३, ९७.
 द्विस्रः (ः) आप्रथौ १, ३, २९; ३३; २,
 १६, १५××; शांश्रौ; पा ५,
 ४, १८; ८, ३, ४३; पावा २,
 १, ६९; द्विःऽद्विः शांश्रौ २,
 १७, २; ४; ४, ११, ५; २१,
 १३; काश्रौ.
 द्विः-पञ्च- -व्वम् गोश्रु ३,
 ५, ८; जैश्रु १, १९; २७; शंघ
 २२९.
 द्विः-प्रयोग- -गः पावा ६,
 १, १.
 द्विः-ङ्ग^२- -ङ्गम् आमिष्ट ३, ११,
 ४; ४५.
 द्विः-अभिधारण- -णेन मीसू
 १०, ८, ३०.
 द्विः-आणव^३- -व्वम् याशि १,
 १२.
 द्विः-आयाम^४- -मः वौश्रौ २,
 ९; २३; -मौ वौश्रौ २, ९;
 २४.
 द्विः-उक्त, क्ता- -क्तः मीसू २,
 ३, २८; -क्तम् शुप्रा १, १४६;
 -क्तया जैश्रौ १४; २७; जैश्रौका
 १४७; -क्ताः शुप्रा ४, १५८;
 -क्तानाम् अप्रा ३, १, ५; -क्ते
 शौच ४, ४४.
 द्विः-उदात्त^५- -त्तम् अप्रा १,
 १, ४; नाशि २, ७, ५; -त्तानि
 शुप्रा २, ४६.
 द्विः-गृहीत- -तेन माश्रौ ६,
 २, ५, ३३.

द्विः-दशन्->°श-तस् (ः) या
 ३, १०.
 द्विः-दशा (श-अ)ञ्ज (र>))
 रा^६- -रा ऋप्रा १६, २२.
 द्विः-दोष^७->°ष-ता- -ताम्
 वाघ २०, ३०.
 द्विः-भाव- -वः माशि ११, ९;
 नाशि २, २, ६.
 द्विः-भूत- -तः कप्र २, ९, १६;
 -ते पावा ६, १, १३२.
 द्विः-योग^८- -गस्य निसू ८,
 १०; ५.
 द्विः-वचन- -नम् शौच ४,
 ११७; पावा १, १, ७; ५९; ३,
 २, ५९××; -नात् पावा ३, ४,
 २; ६, १, ९; १२, १३२; -ने
 पा १, १, ५९; पावा ६, १, १३;
 ८; ८, २, ६; ३, ५९; ४, ४७.
 द्विः-वचन-निमित्त- -न्ते पावा
 १, १, ५९.
 द्विः-वचन-प्रकरण- -णे पावा
 ६, १, १२.
 द्विः-वचन-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा
 ६, १, ३; ८, १, ४.
 द्विः-वचन-विधान- -नात्
 पावा ८, १, ४.
 द्विः-वचन-संबन्ध- -न्धेन
 पावा ८, १, ९.
 द्विः-वचना (न-अ)दि- -दयः
 पावा १, १, ५७; -दोनि पावा
 १, १, ५८.
 द्विः-वचना (न-अ)र्थ- -र्थः
 पावा ६, १, १.
 द्विः-शमी^९- -मीम् कौसू १३७,
 ८.

द्विः(सू>)ष-ट (<त)र->
 राम पावा ८, २, २२.
 द्विः-तावत्^{१०}- -वान् तैप्रा १,
 ३५.
 द्विः-स्तावती^{११}- -तीम् वौश्रु.
 १; ३२; २; १३; १६××.
 द्विः-स्ता(व>)वा- पा ५, ४,
 ८४; -वा आप्रथौ २०, ९, १;
 वौश्रौ.
 द्विः-स्वर^{१२}- -रः ऋप्रा १५, ५.
 द्विः-स्वाहाकारम् वौश्रौ १४,
 १७; ३; ७××.
 द्विः-संयोग- -गः मीसू ६, ६, १२.
 द्विः-संवत्सर-पर्यन्त- -न्तात् अप्र
 ७१, ६, ५.
 द्विः-संश(य>)या^{१३}- -या निसू ३,
 ९; ३३.
 द्विः-सकार^{१४}- -रम् शुप्रा ४, १४७.
 द्विः-संक्रान्त^{१५}- -न्ते काश्रु ४३; ::
 १८.
 द्विः-संक्रान्ति^{१६}- -न्तौ काश्रु ४५; ::
 १२.
 द्विः-सत्ता- -तायाम् कौसू १४१, ३७.
 द्विः-सप्त-क^{१७}- -कः ऋअ ३, २६.
 द्विः-सप्तति- -तिः ऋप्रा १६, ८५;
 -तीः वेज्यो १९.
 द्विः-सप्तम- -माभ्याम् आप्रथु १९,
 ७; हिश्रु ६, २६.
 द्विः-सप्त^{१८}-रात्र- -त्रात् या १४, ६.
 द्विः-सप्ताह- -हात् विध १४, ४.
 द्विः-समवाय- -यः मीसू ९, ३, ३६.
 द्विः-समास-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,
 १, १.
 द्विः-संभार्य^{१९}- -र्यम् आप्रथौ ११, ७,
 १३.

a) = वात्यस्तोम-विशेष-। वस. । b) पाठः ? द्वयङ्ग- इति शोधः ? । c) विप. । वस. । d) उप.
 = अणुपरिमाण- । e) पृ ४३९ ० द्र. । f) = दीर्घ- । सुपुपीयः समासः । g) = भूमि- । h) पृ ४४३ f.
 म. । i) द्विरावृत्ताः सप्तेति कृत्वा वस. । j) विप. । वस. ।

द्विसंभार्य-ता- -ताम् वाश्रौ ३,
२,३,३१.
द्वि-साम-त्व- -त्वम् मीसू १०,
६,४.
द्वि-साहस्र- -स्रम् वाश्रौ २, २,
२,२२.
द्विसाहस्री- -त्री काश्रौ १७,
७,२१.
द्वि-सुवर्ण- > द्वैसौवर्णि(क) >
की^० -की शंघ २५२.
द्वि-सूक्त^० -क्ताः अयं २ : ४.
द्वि-स्तन,ना^० -नम् आपश्रौ १७,
२६,७; २१, ४, १४; २३, ११,
६; भाश्रौ; -नानि आपश्रौ १६,
३५, १०; वैश्रौ; -नाम् काश्रौ
१६, ४, २.
द्विस्तनी^० -नीनाम् शंघ
१५४; ४२४; ४२५.
द्विस्तन-व्रत- -तम् वौश्रौ ६,
२२ : १×४.
द्वि-स्तोत्र-भाज- -भाजः निसू ७,
१२ : ५.
द्वि-स्थान- -नम् अयः ४७; १,
१९.
द्वि-स्थान^० -नाः निसू २,
३ : ३१.
द्विस्थान-ता- -ता ऋप्रा १३,
३८.
द्वि-स्पर्श^० -शम् शुप्रा ६, २५.
द्वि-स्रक्ति^० -क्ति आपश्रौ १२, १,
११; द्विश्रौ ८, १, २२; वैश्रौ
१५, २ : ६.
द्विस्रक्ति-पात्र- -त्रे वैश्रौ १५,
२१ : ९.

द्वि-स्वर- -रम् कौशि ३९; नाशि
२, ३, ७; -रे तैप्रा १६, १७.
द्वि-हविस्^० -विः वौश्रौ १७, २२ :
८×४; माश्रौ ५, १, ५, ४६; ५०;
-विषः शाश्रौ २, ३, ३; -विषम्
वौश्रौ ५, १ : ७; वाश्रौ; -विषा
माश्रौ ५, १, ५, १६; -विषोः
माश्रौ ५, १, ५, १७; ५५.
द्वि-हस्त,स्ता^० -स्तम् अय १८, १,
१४×४; -स्ता सु १६, ४६;
-स्ते काशु ७, २.
द्विहस्ता (स्त-आ) यत- -तः
विध १०, २.
द्वि-हायन^० -नः माश्रौ १, ५, ६,
८; -नम् विध ५०, ३८; -नाः
वाश्रौ ३, ४, ३, १८.
द्विहायनी^० -नी आपश्रौ
१०, २२, २; २२, १५, ३; द्विश्रौ
७, २, १६; -नीम् कौसू ६९, २.
द्विहायन-मिथुन- -नौ वाश्रौ
१, ४, ३; ४०.
द्वि-हिङ्कार^० -रम् लाश्रौ ७, २, १.
द्वी(द्वि-ईषा) > ष^० -षे आपश्रौ
१६, १२, ४; द्विश्रौ ११, ५, २.
द्वि(द्वि-ऋ)च^० -चः ऋअ २, १, ४४;
३, २६; ५, ४६; १०, ५३; वृदे;
-चम् ऋअ २, ८, १; ९,
१०८; वृदे ५, ११४; -चस्य
वृदे ६, ९३; -चाः आश्रौ ४,
६, ३; ५, १४, ७; आश्रु; -चानि
अयं २ : ७२; -चाभ्याम् ऋअ
२, १, १७९; -चे ऋअ २, ८,
२१; वृदे; -चेन ऋअ २, ८,
१००; वृदे ३, १५५; ६, ११८;

-चैः वृदे ६, १३६; -चौ
ऋअ ३, ४०; चव्यू १ : १२;
ऋप्रा १८, १.
द्वेघा^० आपश्रौ १४, २४, ७; २७,
१; वौश्रौ; पा ५, ३, ४६.
द्वेघा-कारम् आश्रौ ६, २, ७;
८, ३, २०.
द्वयं(द्वि-अं)श- -शम् वाध १७, ४९;
५१.
द्वयंशिनू- -शी गौध २८, ९.
द्वय(द्वि-अ)क्षर- -रम् लाश्रौ ७,
११, ३; निसू १, ६ : २०.
द्वयक्षर-णि(<नि)घन^०-त्व-
-त्वात् निसू ८, ५ : ३८.
द्वयक्षरो(र-उ)प(धा) > ष^०-
-धम् ऋप्रा ८, ४२.
द्वय(द्वि-अ)क्षर,रा^० -रः वाश्रौ ३,
२, २, २३; लाश्रौ ७, ९, २; -रम्
वाश्रौ ३, २, २, २३; द्राश्रौ;
-रस्य लाश्रौ ७, ११, १५;
ऋप्रा ७, ७; -राः वौश्रौ २०,
१९ : १४; -रान् निसू ३, १३ :
८; -रे ऋप्रा ४, ४२; ऋत ५,
२, ७; -रेण वाधश्रौ ४, १००,
२०; निसू २, १० : १; १६;
ऋप्रा ५, ४.
द्वयक्षर-ता- -ताम् ऋप्रा १४,
४३.
द्वयक्षर-प्रभृति- -तीनि निसू १,
५ : २२.
द्वयक्षरा(र-आ)दि- -दीनि ऋप्रा
१७, २०.
द्वय (द्वि-अ)ग्नि-देवता- > ष-
(त्य) > त्या- -त्याः शुभ्र २,

a) विप. (वृत्ति-) । परिमाणार्थे ङनि (पावा ५, १, ५९) उभयपदवृद्धिः । b) विप. । वस. । c) वैप १
द्र. । -d) ङीष् प्र. वा (पा ४, १, ५४) । e) पृ १२१३ C द्र. । f) तद्धितार्थे द्विस. । g) वस. ।
h) = [सोमकयसी-] गो- । स्त्री. ङीष् प्र. (पा ४, १, २७) । i) = साम-विशेष- । j) = द्वयुच- । वस. । यन्तोप-
उत्सं. (पावा ६, १, ३७ [द्र. पड्युरुशिष्यः]) ।

११७.

द्वय(द्वि-अ)ग्नि-दैवत- -तः ऋअ २,
१,१२; साअ २,१९४.
द्वय(द्वि-अ)ङ्गुल,ला^२- -लम् शांश्रौ
२,८,२३; काश्रौ; -लानि वौश्रौ
२७,४: २९; -लाम् आपश्रौ २,
२,७; वैश्रौ ५,१: ३; हिश्रौ १,
६,९४; -ले आपश्रौ ६, १०,४;
१६, ४, ११; काठश्रौ; -लेन
आपश्रौ ११,१३,६; वैश्रौ.
द्वयङ्गुल-त्वा(त>)ता- -ता
अप २३,३,२; -ता: माश्रौ १,
२,१,६.
द्वयङ्गुल-ग्रन्थि- -न्थि वैश्र १,
८: ७.
द्वयङ्गुल-च्छेद- -दः शंघ ३३२.
द्वयङ्गुल-निन्न- -न्नम् वैश्रौ ११,
७: ६,८: १०.
द्वयङ्गुल-पृथ्व(घु-अग्र>)प्रा-
-प्रा कप्र २,५,१५.
द्वयङ्गुल-मात्र- -त्रे आश्रौ २,
३,१६.
द्वयङ्गुला(ल-अ)ग्र- -ग्रम्
वैश्रौ ११,९: ४.
द्वयङ्गुला(ल-अ)न्तर- -रे
काश्रौ ८,५,२२.
द्वयङ्गुला(ल-आ)यत- -तम्
वैश्रौ ११,८: १४.
द्वयङ्गुलायत-विस्तार-
-राणि वैश्रौ ११, ९: ११.
द्वयङ्गुलो(ल-उ)त्सेध- -धम्
वैश्रौ २०,२८: १२.
द्वयङ्गुलो(ल-उ)व्रत,ता- -तम्
वैश्रौ ११,२: ८; वैश्र १,८: ३;
-ताम् वैश्र १,८: ११.

द्वय(द्वि-अ)ङ्गुष्ट^२- -ष्टम् आमिष्ट २,
३,१: १४; कप्र १, ७, ८; ८,
१३.
द्वय(द्वि-अ)ञ्जल- पा ५, ४,
१०२.
द्वय(द्वि-अ)तिजागत-ग(र्भ>)-
र्भा- -र्भा अत्र ४,२९.
द्वय(द्वि-अ)धिक,का- -कम् ऋअ
४,११; अत्र १६, ७; अपं ५:
२५; -का ऋअ २, १, ३०;
१६२xx; -काया: गौध १,
१६.
द्वय(द्वि-अ)धिशय^२- -य: निसू १,
८: १२; -या: लाश्रौ ६, ५,
१९; निसू; -यानाम् लाश्रौ ६,
५,२८; निसू; -येषु लाश्रौ ६,
५,१३; २४.
द्वय(द्वि-अ)ध्या(स>)सा- -सा
लाश्रौ ७,५,१०; निसू; -साया:
निसू ३,१३: २१.
द्वय(द्वि-अ)नुचर- -रः कौसू ९०,
२३.
द्वय(द्वि-अ)नुवाक- -कम् अत्र
१४,११०.
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-अन्त- -न्तम्
ऋअ २, १०,९; १०९.
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-ग(र्भ>)-
-र्भा- -र्भा अत्र १०,१.
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-वृहत्य(ती-
-अ)न्त^२- -न्तम् ऋअ २, ८,
८९.
द्वय(द्वि-अ)न्तर,रा- -रः नाशि १,
१,३; -रा माशि १,२.
द्वय(द्वि-अ)भिक्रम- -मम् ऋप्रा
११,११; १२.

द्वय(द्वि-अ)सुप्य- >द्वयसुप्या-
-यण^२- -णम् शंघ २८८;
-णानाम् आपश्रौ २४, ७, २;
हिश्रौ २१, ३,१०.
द्वय(द्वि-अ)रति^२- -ति: वौश्रौ १९,
१: १३.
द्वयरन्त्य(ति-अ)न्तर- -रे
काश्रौ ८,३,१९.
द्वय(द्वि-अ)र्थ- -र्थ: मीसू १०, १,
३१; -र्थे ऋत ३,२,४.
द्वयर्थ-न्व- -न्वम् मीसू ७,१,६;
-न्वात् मीसू १०,१,३७; १२,
२,२६.
द्वय(द्वि-अ)वदान->द्वयवदान-न्व-
-न्वम् मीसू १०,७,५.
द्वयवदान-नाश- -शो मीसू ६,
४,१.
द्वय(द्वि-अ)वर- -रात् आपण ९,
४; वैश्र ४,३: ३.
द्वय(द्वि-अ)वराध्य- -ध्यम् हिश्रौ
५,६, १२; -ध्यो दाश्रौ १०,
२,२; लाश्रौ ३,१०,२.
द्वय(द्वि-अ)शीति->द्वयाशीतिक-
>का(क-आ)द्य(दि-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ७,३,१०.
द्वय(द्वि-अ)श्रि- -श्रि वौश्रौ ७, ८:
१९.
द्वय(द्वि-अ)ष्ट->ष्टक^२- -क:
ऋअ ३,३१.
द्वय(द्वि-अ)ष्टन्- -ष्टन: पा ६, ३,
४७.
द्वय(द्वि-अ)ह- -ह: आश्रौ ९, २,
८; काश्रौ; -हम् काश्रौ ५, ६,
१; आपश्रौ; -हम्-हम्
आपश्रौ १६, ३५, ७; २१, ४,

a) तदित्यर्थे द्विस. । b) विप. । उत्स. उप. कर्तरि ह् । c) द्वयानु इति पाठः ? यनि.
शोषः । d) विप. । कस. > दस. > वस. । e) अत्यर्थे फक् प्र. (पा ४,१,९९) । f) वा. क्वि. ।
g) पृ ४४३ f द. ।

१२; माथ्री ४,३,५; वैथ्री १२,
१ : १५; -हस्य निस् ७,३ :
११; -हाः आथ्री ९, १, ८;
१०, २, ३; काथ्री २३, २, १;
-हान्-आपथ १, २९, १७;
हिध-१; ७, ७४; -हानाम्
आथ्री ९, १, ४; -हे आपथ्री
१, १३, १२; ५, ३, १६××;
माथ्री; -हेन वीथ्री १, १ : ३;
१८, २३ : ७××.
द्वयह-का(ल >)ला^१ -लाः
हिथ्री २२, २, २.
द्वयहकाल्य^१ -ल्ये मीस् ५,
४, २३.
द्वयह-प्रभृति- -तयः आथ्री
१०, १, १२; काथ्री २३, १, ३;
वैताथ्री ४२, १४.
द्वयहा(ह-आ)दि- -द्विपु काथ्री
२३, १, ५.
द्वयहा(ह-अ)पवर्ग- -र्गः लाथ्री
१०, १२, ९.
द्वयहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आथ्री ११,
१, ११; शांथ्री.
द्वयहो(ह-उ)पजन^१ -नम्
आथ्री ११, २, ८.
द्वय(द्वि-अ)हन्- > द्वयहीन^१ -नः
लाथ्री ८, ४; ३.
द्वयहीन-त्व- -त्वात् आथ्री ८,
४, ८.
द्वया(द्वि-आ)दि-प्रतिपेध- -घात्
पावा ५, ३, २.
द्वया(द्वि-आ)धान- -नम् मीस् ६,
१, २२.
द्वया(द्वि-आ)म्नात्- -तेषु मीस्

३, ८, १७.
द्वया(द्वि-आ)म्नात्- -नस्य मीस्
३, ८, १७.
द्वया(द्वि-आ)युप- पा ५, ४, ७७.
द्वया(द्वि-आ)पेय^१ -यः आपथ्री
२४, ९, ८; १०; १०, १; वीथ्रीप्र;
-याः आपथ्री २४, १०, ३;
वीथ्रीप्र १:५; हिथ्री २१, ३, १३.
द्वयापेय-संनिपात्- -ते वीथ्रीप्र
२ : २.
द्वया(द्वि-आ)श्रम- > श्रम^१-
-श्रम्य वैध १, ९, ८.
द्वयु(द्वि-उ)त्तर- -रम् वैद्य ३, १७ :
१५; -राः निस् १, ८ : ५; ६;
-रान् लाथ्री ८, १२, ६.
द्वयुत्तरी^१/भू > द्वयुत्तरी-भाव-
-वेन लाथ्री ६, ५, १५.
द्वयु(द्वि-उ)दात्त- -त्तानाम् ऋपा ३,
२५.
द्वयु(द्वि-उ)न्नत^१ -न्तम् वाधूथ्री ४,
१० : १३; -ते वाधूथ्री ४,
१० : ११.
द्वयु(द्वि-उ)पसर्ग- > ँर्ग-पूर्व-
-वंम् अत्रा १, १, १२.
द्वयु(द्वि-उ)पसर्ग^१ -र्गात् या ७,
९; -र्गे अत्रा १, १, १०.
द्वयु(द्वि-उ)ष्णिग्-न(र्भे >)र्भा-
-र्भा अत्र ५, ८; १०, ११; १२.
द्वयु(द्वि-ऊ)न, ना- -नः आपथ्री
२३, ९, ७; १५; हिथ्री १६,
६, ३; १८, ३, ११?; -नम् अप
४ : ४; -नां ऋअ २, १, ३१;
९२××; अथ.
द्वयु(द्वि-ऊ)न्मन्- -न्मसु ऋपा

११, ४६.
द्वयु(द्वि-ऊ)च- -चम् शुथ २,
१५३; १५४××.
द्वयु(द्वि-ऊ)च^१ -चः अथ २०,
८५; -चम् अथ ७, १; १३××;
-चाः कौय ३, ७, १०.
द्वये(द्वि-ए)क- -कयोः पा १, ४, २२;
पावा १, २, ३९××.
द्वयो(द्वि-थो)प(श >)शा^१ -शा
निस् ३, १३ : २५; -शाः निस्
३, १३ : १९; -शे निस् ३,
१३ : २५.
द्विपु^१ पाधा. अदा. उभ. अप्रीती,
द्वैपत् अथ १२, ११.
द्विद्विष्टि आथ्री १, ३, २२; ३,
५, २××; शांथ्री १, ६, ६××; ४,
१३, १६; काथ्री; या ६, २२६;
द्विपन्ति कौस् ६४, ८१; या १०,
५; द्विपिम् आपथ्री ४, ११, ५;
माथ्री ४, १७, २; ३; हिथ्री ६, ३,
८; द्विपिम् आथ्री १, ३, २२;
३, ५, २××; शांथ्री; अद्विपुः पा
३, ४, ११२; द्विप्यात् आपथ्री १
१९, २; २, १९, १०××; वीथ्री.
द्विपु^१ द्विपः आथ्री २, १८, ३;
७, २, ३; आपथ्री; वीथ्री १०,
२२, ८; आपथ्री १, ५, ५;
हिथ १, २०, ५; २९, ३; २, १,
३; द्विपम् भाग २, २४ :
१६^१; वाग १, २३; द्विपा
माथ्री २, ४, १, ३९^१.
द्विपत्- पा ३, २, १३१; पावा २,
३, ६९; ३, २, १२७; -द्विपतः
शांथ्री १०, १५, ८; १४, २२,

a) विप. 1 वस. 1 b) भावे व्यञ् प्र. 1 c) पृ १२१६ b द्र. 1 d) स्वार्थे व्यञ् प्र. वृद्धयभावश्च. 1 e) ऊं इति
पाठः? यनि शोधः (तु. आपथ्री २३, ९, ७) 1 f) पा ३, २, ६१ पराश्रुष्टः द्र. 1 g) पाभे. वैप २, ३खं. अभिद्रासति तैत्रा.
२, ४, १, २ टि. द्र. 1 h) वैप १ द्र. 1 i) पाभे. वैप १, १६९३ d द्र. 1 j) सपा. द्विपः (ऋ २, ७, ३ काठ ३५, १२ च)
<> द्विपम् इति पाभे. 1 k) सपा. द्विपम् <> द्विपन् इति पाभे. 1 l) पाभे. वैप १, १५२९ गृ द्र. 1

२३xx; -**फ**पताम् माश्रौ १,
६,२,१७^b; जैगृ; -**फ**पते वौश्रौ
१७,४२: १४; आपमं; -**प**त्सु
कौस् १०२, २^फ; -**प**द्भिः
विघ ६३, ५; -**फ**पद्भ्यः वौश्रौ
१७, ४०: २१; आपमं १,
४, ११^b; १३, ५xx; हिगृ १,
१९, ७^b; -**फ**पत् शंश्रौ ४, १२,
१०; १४, ४२, ६९; आपश्रौ ४,
१२, ८^०; वौश्रौ; भाश्रौ ४, १८,
४^०; वाश्रौ १, ३, २, १८^०; हिश्रौ^०
६, ३, १७; ४, १०; सु; हिगृ १,
१३, १३^d; -**फ**पन्तः माश्रौ १,
२, ५, ८^०; ६, २, १७;
-**फ**पन्तम् शंश्रौ ४, १२,
१०xx; काश्रौ; आपश्रौ ४,
१२, ८^०; भाश्रौ ४, १८, ४^०;
माश्रौ १, २, ५, ८^०; वाश्रौ १,
३, २, १८^०; हिश्रौ ६, ३, १७^०.

द्विपती-**ती**: हिश्रौ १७,
२, ३८.

द्विपच्-**छ**ब्द- **न्दे** काश्रौ २,
४, २७.

१द्विपद्-**द्वेप**- **प**: वृदे ३,
११४.

२द्विपद्-**द्वे** (प >) **पा**- **पा**:
वृदे ४, ११८.

द्विपं-**त्प**- पा ३, २, ३९.

द्वेप- **ष**: वैगृ ३, १०: १; -**फ**पात्
आमिगृ ३, ८, ३: ३०; वौपि
१, १६: १७; -**पा**य भाश्रौ
६, १६, ११^फ.

द्वेष-प्रतिषेधा (घ-अ)र्थ-**ध्या**य
गो १, ४.

द्वेषस^घ- **ष**: शंश्रौ ३, १५, ४;
आपश्रौ; **ष**स: या ५, २३९;
-**पा**ंसि आपश्रौ ४, ६, ३; ७, २०,
४^घxx; भाश्रौ ४, ९, १; ७,
१५, ११^घ; माश्रौ १, ८, ४, २८^घ;
वाश्रौ १, ६, ७, ८^घ; वैश्रौ १०,
१६: ३^घ; हिश्रौ ४, ४, ३४^घxx;
आपमं; -**घो**ग्या: वौश्रौ ६, ३०:
१६; ऋप्रा २, ४८; शुप्रा
४, ६५.

द्वेषो-**य**वन^घ- **फ**न: आपश्रौ
११, १२, ३; हिश्रौ ७, ६, १८.

द्वेषट्ट-**टा**कौस् ९०, ६; १५; -**टार**म्
आश्रौ ३, ११, १९; वैश्रौ २०,
११: ८; -**ट्टे** आश्रौ ३, १४, ८.

द्वेष्य,**ज्या**-**प्य**: आश्रौ ५, १८, ३;
शंश्रौ; -**प्य**म् काश्रौ ३, १,
७xx; आपश्रौ; -**प्य**स्य आपश्रौ
२, १४, ३; ६xx; वाश्रौ;

-**फ**ज्या आपश्रौ २, २०, ६;
भाश्रौ; -**ज्या**य शंश्रौ ३, २०,
३^फ; आपश्रौ; -**ज्ये** अप ३, ३,
१; मीस् १०, २, ४४; -**ज्ये**ण
आपश्रौ १६, २, ६; ३, १३; वैश्रौ.

द्वेष्य-**कल्प**- **स्पा**त् द्राश्रौ ३, २,
११; लाश्रौ १, १०, ८.

द्वेष्य-**दिश**- **दिशि** वैश्रौ १६,
२५: १६.

द्वेष्य-**प्रिय**-**कल्प**- **ल्प**यो:
द्राश्रौ ३, २, १५; लाश्रौ १, १०,

११.
द्वैप^१->द्वैप्य^१-**ज्या**य शुप्रा ५,
३७^फ.

२द्वैप^१-**पा**ग २, ४, ३१; ४, १, ९९^१;
२, १२७; १३३; -**प**म् द्राश्रौ
२, २, ११; लाश्रौ; -**पा**न् सु ७,
५; -**पानाम्** विघ १, १५; -**वे**
आश्रौ ३, ६, २४^फ; माश्रौ ५,
२, १०, २८.

१द्वैप-**पा** ४, २, १३३.
द्वैपक-**पा** ४, २, १२७.

द्वैपायन-**पा** ४, १, ९९; -**न**:
अप्राय २, २; ३.

द्वैप्य-**पा** ४, ३, १०.

द्वीप-**सप्तक**-**क**म् शंघ १६६:
५.

द्वीपिन^घ-**फ**पिनम् आपश्रौ १८, १५,
३; हिश्रौ १३, ६, ३९; -**पि**नि
वौश्रौ २, ५: १७^फ; -**पी** अप
६८, ५, ८; शंघ ३७७: १४.

२द्वैप-**पा** ४, २, १२; -**प**: आपश्रौ
२२, १२, ७^फ.

द्वैप-**धन्वधि**-**धि**: शंश्रौ १४,
३३, २०^फ.

द्वैप-**वैयाघ्रा**(घ-अ^०)**नहुच्चर्मन्**-
-**र्म** अप १८, २, ३.

द्वीप-, **दृच**-, **द्वेषा** द्वि- **द्र**.
द्वै पा १, ४, ५७.

द्वैगत-, **गुण्य**-, **त**-, **तन्त्र**-,
ध- **प्रभृ**. द्वि- **द्र**.

द्वैतभृत्^प-**ता**: चव्यू ३: ७.
१द्वैप- २द्वीप- **द्र**.

- a) पाभे. वैप १, १६९३ ० द्र । b) पाभे. वैप १ परि. अग्रिये शौ ८, ६, २६ टि. द्र । c) पाभे. वैप २, ३खं. द्विपन् तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र । d) पाभे. पृ १३३३ k द्र । e) पाभे. वैप २, ३खं. द्विपन्तम् तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र । f) विप. वस. । g) वैप १ द्र । h) पाभे. वैप १, १६९४ g द्र । i) पाभे. वैप १, १६९४ d द्र । j) वैप १, १६९५ a, c द्र । k) वैप १, १६९५ d द्र । l) = ऋपि-विशेष । m) पाभे. वैप १, १६९५ f द्र । n) सपा. द्वैपो धन्वधि: <> द्वैपधन्वधि: इति पाभे. । o) संस्कृतः ?भा^० । p) पाठः ? P.W. प्रभृ. द्वैतभृत्- इति ।

२द्वैप- द्वीपिन्- द्र.
 द्वैपक- २द्वीप- द्र.
 द्वैपद-, १, २द्वैपदिक-, द्वैपराक-
 द्वि- द्र.
 द्वैपायन- २द्वीप- द्र.
 द्वैपृष्ठय- द्वि- द्र.
 द्वैप्य- २द्वीप- द्र.
 द्वैभाव्य-, द्वैमास्य-, द्वैयज्ञ- प्रभृ.
 द्वि- द्र.
 द्वया, द्वया^१क्ष^२- (> द्वय L, द्वया J
 क्षायण- > ष्यण-भक्त- पा.)
 पाग ४, २, ५४.
 द्वयामुप्यायण- द्वि- द्र.
 द्वयाह, हा^१व^२- (> द्वैयाह, हा J
 वक- पा.) पाग ४, २, १२७.

ध

१ध^१, धा- धः शुभ्रा ३, ५५; भाशि
 ४२; ४५; ४७.
 ध-कार-परत्व- -त्वे पावा ८, ३, ७९
 १ध-म- -मौ अप्रा ३, २, २७.
 ध-ष-वत्- -वति तैप्रा ८, ३३.
 धा-कार- -रे याशि २, ३३; नाशि
 २, ३, ५.
 २ध^२- नाशि १, ४, १२.
 ✓धक् पाधा. चुरा. पर. नाशने.
 धक्षु-, धक्ष्यत्- ✓दह द्र.
 धट^१- -०ट विध १०, १०; -टः विध
 १०, १६; -टम् विध १०, ७.
 धटा(ट-अ)ग्न्यु(मि-उ)दक-विप-

-पाणाम् विध ९, ११.
 ✓धण पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 ✓धन्^१ (वधा.) पाधा. जुहो. पर.
 धान्ये, दधनत्^२ हिश्रौ ९, २,
 २४^१.
 ऋदधन्वस्- -न्वान् ऋप्रा ४, ६८;
 शुभ्रा ३, १३७; नाशि २, ४, ८.
 धन^१- पाठवृ २, ८१; पाग २, ४,
 ३१^२; पावाग ५, १, १११;
 -नम् आश्रौ ३, १३, १८;
 ऋशाश्रौ ४, ११, ६^१; १४, ४६,
 १^३; ऋआपश्रौ ३, १३, ६^२××;
 ५, २६, ५^३; वौश्रौ; भाश्रौ ३,
 १२, ९^४; ऋहिश्रौ २, ६, ३२^५;
 ३, ६, ५^६; द्राश्रौ ४, १, ८^६;
 लाश्रौ २, १, ७^७; आपमं २,
 १५, १६^८; कौश्र ३, १^९;
 शाश्र ३, ४, ४^{१०}; या २, ५;
 ३, ९^{११}; ४, ४; २४; ७, ९;
 ८, १; ११, ३३; -नस्य काश्रौ
 ४, २, ३२^{१२}; आपश्रौ; -नात्
 वौध २, २, ५५; विध १८, १२;
 -नानाम् आश्रौ ९, ९, १५;
 आपश्रौ; -नानि आश्रौ २, १०,
 १६^{१३}; अप; या १४, ३६^{१४};
 -ऋनाय आपश्रौ १४, २७, ७^{१५};
 माश्रौ २, ३, ८, ४^{१६}; हिश्रौ १५, ७,
 ८^{१७}; माश्रु; -ने विध ५२, १६;
 पा ६, २, ५५; -नेन आश्रौ ६,
 १२, ४^{१८}; शाश्रौ; ऋआपश्रौ ५,

१४, ५^{१९}; १८, १८, १०; वौश्रौ ८,
 १७, ४^{२०}; हिश्रौ ३, ४, २८^{२१};
 जैश्रौ २०: ४^{२२}; आपमं २, ६,
 १; ७^{२३}; ऋभाश्रु २, २६; ६; ७;
 -ऋनेषु गौपि २, ५, १४; अप
 ४४, ४, १२; -नैः शाश्रौ १६,
 ९, १०^{२४}.
 धन-क- पा ५, २, ६५.
 धन-कनक-रजत-संचय- -याः
 अप ५१, ३, ३.
 धन-काम- -मः वृदे ५, १०;
 -मम् अप १, ४५, २; -मस्य
 अप ३६, ४, १; अशां १७, ३.
 धन-कुप्य^१- -प्यम् वृदे ३, १४७.
 धन-श्री(त >)ता- -ताम् वाध
 १, ३५.
 धन-क्षय- -यः अप ३६, १७,
 १; -यम् आज्यो ७, ९; -ये
 अशां १७, ३.
 धन-गो-जा^१- -जाः या १४,
 ३१^{२६}.
 धन-आहिन्- -हिणि विध ६,
 २७.
 ऋधन-जित्^१- -जित् आपश्रौ
 १६, १८, ६; ३०, १; २१, ४, २;
 वैश्रौ; -जितम्^२ शाश्रौ १४, ४६,
 १६; -जिते शाश्रौ १८, १७, ३.
 ऋधन-जय^१- -यम् वौश्रौ १७,
 ४१ : १८; माश्रौ ५, १, ३, २;
 वैताश्रौ ५, १४; आपमं.

- a) तु. भारुडा. प्रभृ. । b) तु. पागम. । c) तु. पासि. । d) = वर्ण-विशेष- ।
 व्यु. ? । e) गन्धर्व- इत्यस्य मध्यम-वर्ण- । f) = तुला-दण्ड- L नभा. धडा इति । व्यु. ? ।
 g) पा ६, १, १९२ परामृष्टः द्र. । h) वैप १, १६९५ h द्र. । i) वैप १ द्र. । j) सप्र-
 धनम् <> पयः इति पांमे. । k) पांमे. वैप २, ३४. धनम् तैत्रा ३, ३, ११, २ टि. द्र. ।
 l) धामानि इत्यपि क्वानित्कः मूक्तो. । m) पांमे. वैप १, १३४९ c द्र. । n) पांमे. वैप १, १६९७ b
 द्र. । o) पांमे. वैप १, १६९६ o द्र. । p) पांमे. वैप १, १६९७ c द्र. । q) समाहारे द्रस. ।
 r) वृ १०९ j द्र. । s) धरिन्निगोजाः इति संस्कृतुः टि. राज. च पांमे. । ज्ञा इति पाठः ? यन्ति. शोधः ।
 t) = यज्ञ- ।

२धर्न-जय^a - पाग ४, १, १०५;
-यस्य चाञ्च ३८ : १६; -याः^b
आपश्रौ २४, ९, ५; वौश्रौप्र
३६ : १; २; -यानाम्^b आश्रौ
१२, १४, ४; -याय आमिगृ १,
२, २ : २२; वौगृ.

धानंजय^c - पा ४, १,
१०५; -०स्य आश्रौ १२,
१४, ४^d; आपश्रौ २४, ९, ६,
वौश्रौप्र ३६ : ३^e; हिश्रौ २१,
२, १२; -य्यः द्राश्रौ १, १, २६;
३, ११××; लाश्रौ १, १, २५××;
४, ९, २३^f; ५, ४, ३^f; -य्यम्^f
द्राश्रौ ६, १, १४; लाश्रौ २,
९, १०; -य्यस्य छसू ३, ९ :
३; १३; -य्येन लाश्रौ ६, १,
१८; १०, १६, १०.

धानंजय-शाण्डिल्य-
-ह्यौ द्राश्रौ ७, १, २५; ३०;
लाश्रौ ३, १, २४; २९××.

धनंजय-वत् आपश्रौ २४, ९,
६; वौश्रौप्र ३६ : ३; हिश्रौ २१,
३, १२.

धन-इ, दा- -दः कागृ १०, २;
मागृ १, ७, १; वागृ ८, १२;
-दम् शंघ ११६ : ३५^h; -दाम्
मागृ २, १३, ६^h.

धन-दश-भाग-संमित- -तम्
विध ६, २०.

धन-दा- -दाः शुप्रा २, ४१^h.

धन-दावनⁱ - -वा कौसु^g २, १८.

धन-धान्य- -न्यम् अप ६७,
१, १; -न्याभ्याम् वौगृ २, ८,

२०^h; -न्येन अप १, ४४, ५;
४५, २; २, ६, १.

धनधान्य-पात्र- -त्रम्
आमिगृ ३, ११, २ : ३.

धनधान्या(न्य-आ)दि-
-दिभिः अप २, ४, १.

धनधान्यादि-समृद्धि-
-द्वया सुघप ८८ : १०.

धनधान्या(न्य-अ)वकाश-
-शे वौगृ २, ८, २०.

धन-धान्य-कुल- -लान् अप
२०, ५, २.

धन-धान्य-पशु-पुत्र-कीर्त्ति-
-मत् -मान् पाशि ६०.

धन-नामधेय- -यम् या १, ७.

धन-नामन्- -म या ३, २; ४,
४; १७; -मानि निघ्न २, १०;
या ३, ९.

धन-नाश- -शः अप ७०^h, ८,
५; -शाय अप २, ४, ३; आज्यो
५, १३.

धन-पति- पाग ४, १, ८४; ५,
१, १२४; -तये वौगृ ३, १०,
१६; शांगृ २, १४, १७; -तिम्
अत्र २, ३६; -^hन्ते आपश्रौ
१६, ३४, ४; वैश्रौ १८, २१,
३५; हिश्रौ ११, ८, १५.

धानपत- पा ४, १, ८४.

धानपत्य- पा ५, १, १२४.

धन-रुचि- -चिम् अत्र ३, १५.

धन-रूपⁱ - -पम् गौध २८, ११.

धन(न-अ)र्च^k - -र्चम् ऋप्रा २,
७१^h.

धन-लाम- -माय. या ३, ५;
-मे हिघ १, ७, ८.

धन-वत्- -^hवत् आपश्रौ ६,
२९, १; १३, २५, ३; हिश्रौ ३, ८,
१४; भागृ २, ४ : ११; -वन्तः
आपश्रौ १६, ३४, ४; वैश्रौ;
-वान् अप १२, १, ९.

धनवती- -^hन्ति अप २०,
७, १०; -ती या ११, ४६.

१धनि(घ>)घा^l - -घा हिश्रौ
९, २, २४^h; -घाभिः^m वौश्रौ
२६, २९ : ६; -घाम्यः^m शांगृ
१, २६, २२; -घाम्^m अशां ५,
२^h; -घासु^m अशां १३, ३;
-^hष्टे^m अशां ५, २^h.

धनिघा (घा-२त्रा) घ-
-ये कप्र ३, ६, १०.

धन-वर्जित- -तः आमिगृ २,
७, ६ : ३.

धन-वार्धुपिक- -कम् कप्र १,
६, ७.

धन-वृद्धि-प्रसक्त- -क्तान् कप्र
१, ६, ६.

१धन-सनि- -निः वैताश्रौ १२,
१६; कौसु ७०, १; ८७, २१.

१धन-सा- -साः आपश्रौ १३,
२१, ३; हिश्रौ ९, ५, ४२.

धन-सौभाग्य-वर्धन- -नम् विघ
१००, २.

धन-स्वीकरण- -णम् वाघ १६,
१०.

धन-हार- > १२-कारा-वध-
वन्ध- -न्धाः शंघ २६१.

a) = ऋषि-विक्षेप- । b) बहु. < धानंजय- । c) ष्य- इति लाश्रौ. पाठः ? यनि. सर्वत्र शोघः ।
d) ष्य इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ. प्रमृ.) । e) सप्र. द्राश्रौ १२, १, ३७ शाण्डिल्यः इति पाभे. ।
f) सप्र. द्राश्रौ १३, ३, १८ गौतमः इति पाभे. । g) तस्येदमीयः ष्यः प्र. उसं. (पा ४, १, ८५) । h) = कुवेर- ।
i) उप. < √दा [दाने] । j) विप. । वस. । k) वैप १, १६९७ p; q द्र. । l) वैप १, १३४७ ० द्र. ।
m) = नक्षत्र- ।

धन-हारक- -कः शंघ २९४;
४४०.

धन-हिंसा- -साम् विध ५२, १६.

धनहिंसा-पर- -रः विध
५२, १७^३.

धन-हीन- -नान् विध ७१, २.

धना (न-आ) गम- -मम् अप
६८, २, १०.

धना(न-आ)दान- -नम् विध
४०, १.

धना(न-अ)धिप^२- -पः आज्यो
५, १५.

धना(न-अ)न्तर- -रम् जैश्रीका
१६८.

धना(न-अ)न्न-दान-प्रशंसा-
-सा ऋञ्च २, १०, ११७.

धना (न-अ) पह^२- -हः वाध
३, १६.

धना (न-अ) पहरण- -णे शंघ
३२५.

धना(न-अ) पहार-> १२-वध-

वन्धन-क्रिया- -याः शंघ २५९.

✓धनाय पा ७, ४, ३४; धनायति
शांश्री १६, ४, ४^३.

धना(न-आ)युस्- -युपी वाध
६, ९; -युपोः अप ३६, १०, २;
७०, ६, २.

धना (न-अ) धं-> १^३धिन-

-धिनः विध ५१, ६२; -थी अप
१, ४३, ३.

धना (न-आ) शा- -शा वाध
३०, ९.

धना(न-आ)शिस- -शिपः वृदे

७, १३५.

धनिक- -कः विध ७, १३;
-कस्य विध ५, ८९; १६९; ५२,

१४; -केन विध ६, ४३.

धनिक-च्छन्द-तस् (ः) विध
६, ४२.

धनिन्- -निनः वीध ४, ५, २८;
-निनि अप ६९, ८, २; -नी

वाध १६, १०.

१धनी^०- -नीः आश्री २,
१०, १६^३.

धने (न-ई) स्वर- -रः आश्रिण्ट
२, ७, ६ : ८.

धनो (न-उ) पेत- -तम् विध
२७, ८.

१धन्य, न्या^०- पा ४, ४, ८४;
पावा ५, १, १११; -न्यः आण्ट

४, ८, ३५; पाण्ट ३, ८, २; -न्यम्
द्राण्ट ४, २, १३; अप; -न्या

शांश्री ८, १९, १^३.

२ध (नि >) नी^०- न्या शांश्री ८,
२०, १.

धनी-मत्-> २धनिष्ठ^०- -ष्ठाः
शांश्री ८, २०, १.

?धनिभीमम्^१ शंघ ११६ : ५४.

१धनिष्ठ > ष्टा- ✓धन् > धन-
मत्- द.

धनु, नू^०- पाठ^३ १, ७; ८०; -नुना
अप ७०^३, २१, ५; -नोः आपश्री

२०, १६, ७; वाश्री ३, ४, ३, ३१.

?धनुर्मटची^१ भाण्ट १, २५ : १८^३.

?धनुर्वेष्टीः^१ वीश्री ११, २ : १६;
२२, १३ : १६.

धनुस्^०- पाठ २, ११७; पागः २, ४,
३१; ४, ४, १२; -नुः शांश्री

३, २, ७; ४, २०, १××; काश्री;
या ५, २५; ६, ३३^३; ९, १६^३;

१७^३; -नुषः वीश्री २२, १८ :
१७; २३, १८ : २१; अप ५८^३,

३, ८; वृदे ५, १२९; पा ५, ४,
१३२; -नुषा हिपि ५ : १०;

कौस् ८५, ३^३; विध १२, ४;
पावा १, ४, १; -नुपि या ९,

१८; याशि १, ४८; पावा ४,
३, १५२; -नुपिऽनुपि या २,

६; -नूपि अप ७१, १४; ५;
माशि ८, ११.

धानुष्क- पा ४, ४, १२.

धनुर्-आकार^३- -रम् आश्रिण्ट २,
५, १ : २०.

धनुर्-आदान- -ने वृदे ७, १५.

धनुर्-आलिं, लीं- -लिम् हिश्री
१३, ६, १०; -लीं हिश्री १४,
३, ३०; -ल्यः काश्री १५, ६,

२०; आपश्री १८, १७, १०;
हिश्री १३, ६, १०^३.

धनुर्-ह्रस्व^३- -ध्मे कौस् १४, ९.

धनुर्-ग्रह- पावा ३, २, ९.

धनुर्-ग्राह^३- -हम् सु २०, ३.

धनुर्-ज्या- -ज्या आण्ट १, १९,
१२; कौण्ट; -ज्याम् काण्ट ४१,
१२; वाण्ट ५, ७; कौसू ५७, २.

धनुर्-दण्ड-> धानुर्दण्डक- पा.)
पाग ४, ४, १२.

धनुर्-धि^०- -धी वीश्री १८, २४ :
१३.

a) = कुवेर- । b) = आततायिन्- । उप. अप ✓ह + ङः प्र. उखं. (पा ३, २, ५० [तु. विध ५, १९२]) ।

c) मत्वर्थीयः ईंः प्र. (पावा ५, २, १०९) । d) पाभे. वैप २, ३खं. धन्यः तैत्रा २, ५, ३, १ टि. द्र. । e) वैप १ द्र. ।

f) पाठः ? । धुरिं भीमम् इति अपु २१९, ३३, धितिः भीमः इति शक (वायुशब्दे) । g) = धनुस्- । व्यु. ? ।

h) < ✓धन् । i) = सूतिकारोगभेषज्य-विशेष- । व्यु. ? । j) स्वरूपम् ? (तु. संस्कर्तुः टि.) । k) विप. । वस. ।

l) श्राज्ञो इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । m) = धनुर्धर- । उख. । n) नाप. । उप. अधिकरणे प्र. ।

धनुर्-मात्र- त्रे वीश्रौ ९, १ : ८.
 धनुर्-मुक्त- -क्तः वृदे ५, १३४.
 धनुर्-यज्ञ- -ज्ञस्य काण्ड ७१, १७.
 धनुर्-वेद- -दः चव्यू ४ : १०;
 -दम् शंघ ११६ : ३८.
 धनुष्-क^१- -केण लाश्रौ ८, ६, ८.
 धनुष्-कपाल- पाग ८, ३, ४८.
 धनुष्-कोटि-मात्र- -त्रम् वीषि ३,
 २, ८.
 धनुष्-पाणि^२- पाग २, २, ३७.
 धनुष्-मत- -मन्तम् वृदे ६, ११२.
 ✓धनुष्य, धनुष्यति अप ४८,
 १९१.
 ?धनुः-संध्योल्का-परिवेष-विद्युद्-
 दण्डा (रड-अ)शनि-परिघ-परि-
 धि-निर्घात- -ते अप ७२, ३, ३.
 धनुः-समिध्- -मिधम् कौसू १४,
 ९.
 धनुः-सहस्र^३- -स्त्राणि कप्र १, १०,
 ६.
 धनुः-स्थायिन्- -यी अप ५०, ६, ५.
 धनु- धनु- द्र.
 १धन्य- १✓धन् द्र.
 २धन्य^४- पाग ४, १, ११०.
 धान्यायन- पा ४, १, ११०; -नाः
 वीश्रौप्र १७ : १००.
 ✓धन्व^५ (वधा.) पाघा. भ्वा. पर.
 गतौ, धन्वति निघ २, १४१;
 धन्वन्ति या ५, ५; ९, १६.
 १धन्वन्^६- पाठ १, १५६; पाग
 ५, २, १३६^६; पावा ४, २, १०४;

-न्व वीश्रौ ९, ७ : २४१^६;
 काण्ड ९, ७; माण्ड १, ४, ६; वाण्ड
 ८, ६; वृदे २, ६९१^६; ऋनिघ १,
 ३; ४, २; ऋया ५, ३; ५^३; ६^३;
 १४, ११; ऋप्रा ८, ७१^६; -ऋन्व
 या ९, १८; अप्रा २, ४, १७;
 -ऋन्वः आपमं २, २२, ३;
 हिर्य १, १५, ३^३; ऋप्रा २, ४७;
 -ऋन्वना आश्रौ ५, ३, २२;
 आपश्रौ; या ९, १७^६; -न्वनाम्
 आपण्ड ६, ५; वीण्ड ४, २, १२;
 -न्वनि वीश्रौ २, ५ : २; -ऋन्वसु
 आश्रौ ४, ३, २; माण्ड २, १५, ६;
 -ऋन्वानि आपश्रौ १६, ६, ४;
 माश्रौ.
 धन्व-धि^७- -धिः आपश्रौ २२,
 १२, ७.
 धन्व-नृ-मही-वारि-वृक्ष-गिरि-
 दुर्गा- -र्गाणाम् विध ३, ६.
 ऋधन्व (न्य >) न्या^८- -न्याः
 माश्रौ ६, १, ५, २२; कौण्ड ५,
 ५, ६; काण्ड २५, ४; वाण्ड ४, ३;
 विध ६५, ५.
 धन्व-पति- (> धान्वपत-
 पा.) पाग ४, १, ८४.
 धन्व-योपध- -घात् पा ४, २,
 १२१.
 ?धन्वर्णस^९- -र्णसः ऋप्रा २,
 ७२१.
 धन्वा (न्व-आ)कृति- -त्या अप
 २३, १०, ३.

धन्वा (न्व-आ)लिं- -लिंम् वाश्रौ
 ३, ३, ३, ६.
 ?धन्वासहा^{१०} ऋप्रा ९, ३१.
 धन्विन्- पा ५, २, १३६;
 -न्विनः वृदे ७, ५३.
 धन्व- पाउवृ ४, ९५.
 १धन्वन्- ✓धन्व द्र.
 २धन्वन्^{११}- > धान्व^{१२}- -न्वः आश्रौ
 १०, ७, ७^{११}.
 १धान्वन्^{१३}- -नः शाश्रौ १६, २, १९^{१३}.
 धन्वन्^{१४}- > २धान्वन्^{१५}- -नानि
 शाश्रौ १४, २२, १२.
 धन्वन्तर^{१६}- -रम् आमिण्ड २, ६, ३ :
 ३४^{१६}.
 धन्वन्तर-पार्षद- -दान् आमिण्ड २,
 ६, ३ : ३४.
 धन्वन्तरि^{१७}- -र्ये आण्ड १, २, २१^{१७};
 आमिण्ड; -रिः वीश्रौप्र ४३ :
 ७; गौध ५, ११; -रिम् माण्ड
 २, १२, २१^{१७}; जैण्ड; वीध २, ५,
 २६१^{१७}.
 धन्वन्तरि-तर्पण- -णम् माण्ड २,
 १२, १९.
 धन्वन्तरि-पार्षद- -दान् वीध २,
 ५, २६१^{१७}.
 धन्वन्तरिपार्षदी- -दीः वीध २,
 ५, २६१^{१७}.
 धन्वन्तरि-यज्ञ- -ज्ञे आण्ड १, १२,
 ७.
 धन्वन्तरियज्ञ-शूलगव-वर्जम्
 आण्ड १, २, ६.

a) हस्ते कः प्र. । b) विप. । वस. । c) पूष. = प्रमाण- । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

e) धन्या° इति पाठः ? यनि. शोधः । f) या ९, १६ परामृष्टः द्र. । g) वैप १ द्र. । h) तु. पागम. ।

i) पाभे. वैप १, १६९९ f द्र. । j) = अन्तरिक्ष- । k) वैप १, १६९९ r द्र. । l) °न्व इति पाठः ? यनि.

शोधः (तु. आपमं., शौ ६, ४२, १) । m) नाप. । उप. अधिकरणे प्र. । n) व्यप. । व्यु. ? ।

o) तस्यापत्पथीये ऋणि प्र. टि. लोपो वा । p) सपा. धान्वः <> धान्वनः इति पाभे. । q) = वृक्ष-विशेष- ।

व्यु. ? । r) तस्यविकारीयः ऋण प्र. (वैतु. भाष्यम् < धन्वन्- इति) । s) = धन्वन्तरि- । t) °न्वन्-त° इति.

MW. । u) तु. मैस. Bih.; वैतु. चौसं. घा° इति ? ।

✓धम्, ध्मा^१ पाधा. भ्वा. पर. शब्दा-
 नितसंयोगयोः, षंभमति अप ४८,
 ९; निघ २, १४^०; १९^०; ३, १४^०;
 धमन्ति कप्र १, ९, १५; धमेत्
 शंघ २२६; वैध ३, २, ७.
 रधम- पा ३, १, १३७.
 धमक- पाठ २, ३५.
 धमत्- -मन्तः शांश्रौ १२, १८, ९१.
 धमन्ती- न्तीः या ६, २१.
 धमन^०- -नाः अप ६८, १, ४१; ४३.
 धमनि, नी^१- पाठ २, १०२; पागवा
 ५, २, ९७; फि ५६; -नयः
 या ६, २४; -निः अप ४८,
 १०२; निघ १, ११;
 -नीनाम्^१ माश्रौ ८, ९, १५;
 माश्रौ १, ७, २, १८; हिश्रौ ५,
 २, ६२; या ६, २४; -न्यः
 विघ ९६, ८४.
 धमनी-ल- पा ५, २, ९७.
 धमनी-शत- -ते विघ ९६, ८२.
 धमि(त् >)त्री- -त्री^१ हिश्रौ १५,
 ८, ३५.
 ध्मात्- -त्तः वृदे २, १५८^२.
 रध-म- १ध-द्र.
 धय- -प्यत्- ✓धे द्र.
 धर, रा-, धरण-, णि-, णी-
 प्रसृ. ✓धृ द्र.

धरुसु^१- -णोः चात्र १६ : २३.
 धर्णस- -धर्णसि- ✓धृ द्र.
 ?धर्तारमुखम्^१ शंघ ११६ : ५३.
 धर्तुम्, धर्तु- -धर्त- ✓धृ द्र.
 रधर्म^१- (> धार्मयण- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 रधर्म- -धर्मन्- प्रसृ. ✓धृ द्र.
 रधर्म्य- १धर्म- टि. द्र.
 धार्मयण- -णाः वौश्रौष ४१ :
 २.
 रधर्म्य- -धर्म्य- ✓धृ द्र.
 धर्पणि- पाठ २, १०४.
 धर्पित- प्रसृ. ✓धृ द्र.
 ✓धव^१, धवति निघ २, १४१.
 धव^१- -वः^१ या ३, १५; -वम् शंघ
 ११६ : ६३^०; -वाः निघ २,
 ३^०.
 धवन- -धवनि- ✓धु, धू द्र.
 धवल- पाठ १, १०६.
 धवाणक- पाठ ३, ८३.
 धवित्र- -धविष्यत्- ✓धु, धू द्र.
 ध-प- ध-द्र.
 ✓धा^१ पाधा. जु. उभ. धारण-
 पोपणयोः, धामहे या १२, ६१;
 षंघातु वौश्रौ २७, ६ : ८;
 धात > ता ऋपा ७, ५३१.
 धत्ते शांश्रौ १४, २८, ९; १५,

६, ७; वौश्रौ; या १४, १३^२;
 दधाति शांश्रौ १५, १, ३७×४;
 काश्रौ; वैध २, २, १^२; या ४,
 १६; ५, १९^१; १०, ८; २१^१;
 दधते आपश्रौ १४, २२, १०;
 २३, ७, ८; वाधूश्रौ; दधति
 आपश्रौ १३, १, १०; माश्रौ २,
 ३, ६, ४^१; या २, १२; ५, १८;
 ९, २८; भाशि ७६; दधासि
 आपश्रौ ८, १४, २४^१; तैप्रा १६,
 १८; षंघामि आश्रौ १, १२,
 ३७; १३, १; आपश्रौ; आश्रु
 १, २१, ७^१; कौश्र १, १६,
 १६^१; २, २, १४^१; ३, ३, १^१;
 शाश्रु १, २४, ८^१; २,
 ४, १^१; ३, ४, २^१; पाश्रु १, ८,
 ८^१; १६, ४^१; २, २, १६^१; हिश्रु
 २, ५, २^१; षंघमहे^१ आपश्रौ
 १४, २०.३; वौषि १, १७ : २४;
 कौ १, २७, ८^१; षंघमः काश्रौसं
 ४ : १६; आपमं १, १०, ७-९^१;
 शैशि ६६; याशि २, ९४;
 षंघमसि आपश्रौ ४, १५, १;
 माश्रौ; हिश्रु १, ४, ८^१; षंघाय
 आपश्रौ ९, १८, १५; वौश्रौ २८,
 ७ : ११; षंघातु आश्रौ १,
 १०, ८; ५, १९, ४; शांश्रौ २,

- a) या ६, २; १०, ३१ वृदे २, १५८ पा ७, ३, ७८; ४, ३१ परामृष्टः द्र. । b) गतौ वृत्तिः । c) वधे
 वृत्तिः । d) अर्चायां वृत्तिः । e) कर्तारि युच् प्र. (पा ३, २, १४८) । f) वैप १ द्र. । g) सपा. धमनी^० <>
 धवनी^० इति पामे. । h) पाठः? -०त्रि इति शोघः (तु. सप्र. आपश्रौ १४, ३३, २ धर्त्री- > -०त्रि इति पामे.) ।
 i) व्यप. । व्यु. । j) = मरुद्-विशेष- । पाठः? धाता दुर्गः इति शक [त्रायुशब्दे] । k) = ऋपि-विशेष- ।
 व्यु. ? । तु. पाका. । १धर्म्य- इति भाण्डा. प्रसृ., मन- इति [पक्षे] भाण्डा. । l) = ✓धात् [गतौ] । <✓धृ
 इति पासि. । m) वप्रा. । व्यु. ? । <✓धृ (अर्थः ?) । n) = पति- । o) = वसु-विशेष- । p) = मनुष्य- ।
 q) या १, २०; ६, १७ अप्रा ३, १, ४ शौच ४, ६३ पा ७, ४, ४२; ८, २, ३८ पावा १, १, ५८ परामृष्टः द्र. ।
 r) माददाति इति ०. । s) पामे. वैप १, १५५५ a द्र. । t) पामे. वैप १, ११३८ t द्र. । u) सप्र. हिश्रु २,
 ३, ९^३ जुहोमि इति पामे. । v) सप्र. शांश्रु १, ७, ९ प्रणयामि इति पामे. । w) पामे. वृ १२४७ । द्र. ।
 x) पामे. वैप १, १७०४ द्र. । y) स्वाहा इति परतो लुप्तविसर्गः पाठः । z) द्वांसि इति Böht [ZDEG
 ५२, ८१] ।

१०, १^a; ४, ९, १; काश्रौ ३, ८,
२; ४, १४, २२^a; ५, १३, १^{०b};
२, ३, १८; १०, ५, ३; ९, १०^c;
आपश्रौ १, १२, १४××; १४,
१८, १^d; वौश्रौ; माश्रौ १,
६, ४, २१^e; वैताश्रौ ७, १०^f;
आपमं २, ४, ४^g; माय १, १०,
१३^h; २१, ८ⁱ; २२, १०^j; २, १५,
६^k; हिण्, १, ७, ११^l; अत्राय
४, १^m; दघाताम् वौश्रौ २०,
२७: १२ⁿ; णघत्ताम्^१ वैश्रौ १, ४:
१६; हिश्रौ; णघताम्^m आपश्रौ
९, १२, ४; भाश्रौ ३, १०, २;
आपमं २, २२, २४; कौस् ७२,
२; णघतु वौश्रौ ७, ८: ११;
१०, ६: ११; णघत्त्व आपश्रौ
१, १०, १०; वैश्रौ; या ५, २५;
णघिण्व, > ण्वा या ६, १६;
ऋप्रा ७, ३३; श्रुप्रा ३, १२९;
णघिण्व, > ण्वा कौस् ६८, १०;
ऋप्रा ७, ५६; पा ७, ४, ४५;
णघेहि आश्रौ १, ११, १३^o;
३, १०, ८××; ८, १, १८^p;
शाश्रौ; काश्रौ २, २, ८^q; ३, ४,
२७; २५, १, ११^r; आपश्रौ १,

१७, १०^s; ३, ११, २^{३n}; १९,
१^p; ५, १, ४^t; ६, ८, ११^u;
२१-२२, १^v; १४, २१, ७^w; २७,
६^x; ३३, २^y; १५, २, २^z; १६,
३४, ४^{aa}; वौश्रौ १, २१: १७^p;
माश्रौ १, ४, २, १२^q; ३, १, २८^r;
४, १, १४^u; ५, २, १५, १^p; वैश्रौ
१८, २१: ३३^r; ३६^r; २२, १४:
९^u; १०^u; हिश्रौ १, ५, १६^r; २, ८,
११^p; ११, ८, १५^r; १५, ५,
२७^r; काश्रौ १, १, ८^r; लाश्रौ ३,
५, ८^r; ४, ११, २१^q; वैताश्रौ २,
१^p; ३, २०^q; आपमं १, ४, १६^p;
५, १८ⁿ; २, ६, ५^r; १५, १५^r;
णआण् १, १६, ५^r; कौण् १, १९,
१०^r; शाण् १, २७, ७^r; २,
१०, ४^r; पाण् १, ५, ११^r;
३, १, ३; आण्णिण् २, १,
३: ३१^r; माण्ण १, ४, ४;
८; वाण् ८, ४^u; ७^u; हिण्ण^u
१, ३, ६; २६, १३; कौण् ५,
१३ⁿ; ९७, ४ⁿ; १०६, ७ⁿ;
११७, ४ⁿ; १२५, २^p; या ५,
६^r; ११, ३०^s; णघत्ताव वौश्रौ
३, १९: १२^q; या ८, १८^rकौण्;

णघायाम् आपश्रौ ५, ८, ८^q; ७,
१२, १४; वौश्रौ २, १५: १२^q××;
भाश्रौ; हिश्रौ ६, ५, १०^q; णघत्त्व
आश्रौ ४, २, ३; शाश्रौ; माश्रौ
१, ५, २, ४^q; आपमं १, ६,
१२^q; या ६, ११^r; णघत्त्व,
> ता शाश्रौ ४, १३, १; काश्रौ
२५, ११, २३^r; आपश्रौ १, ९,
१२^q; १०, १५, ८; १६,
२०, १३^q; १७, १८, १;
वौश्रौ ६, ३२: १२^q; माश्रौ
५, २, १६, १४^p; वैश्रौ
१४, १८: ८^q; विघ ७३, २१^q;
या ६, ७; ९, २७; १२, ४२;
घत्त्वघत्त्व अत्रा ३, १, ५;
णघात, > ता वाश्रौ १, ५, ५,
७; या ४, २१; ऋप्रा ७, ३८;
णघातन आपश्रौ ७, १७, २^q;
वैश्रौ १०, १३: १३^q; हिश्रौ
४, ३, ५५^q; जैश्रौ १२: २;
आपमं २, ७, १३; या ९, २७^q;
णघत्तन आश्रौ ८, ११, ३;
घत्ताव^१ आपश्रौ १, १०, ६;
वौश्रौ; दघै वाघूश्रौ ४, ९४^r;
४; णघानि वाश्रौ १, १, ४,

- a) पामे. वैप १, १७०४ a द्र. । b) पामे. वैप २, ३३८. द्ददातु तैत्रा २, ५, ७, ३^r; ४^o टि. द्र. ।
c) सप्र. काश्रौ १०, ९, ४ व्यौषीव इति पामे. । d) पामे. वैप १, ११४० m द्र. । e) पामे. वैप १, १७०५ o द्र. ।
f) पामे. पृ ८९८ k द्र. । g) पामे. वैप १, ११३८ t द्र. । h) पामे. वैप २, ३३८. करोतु तैत्रा २, ७, १७, २
टि. द्र. । i) सञ्चत् दघातु नः इति पाठः ? दघातन इति शोधः । j) पामे. वैप १, ११४० g द्र. । k) सप्र.
माश्रौ ३, १, २५ घातुः इति पामे. । l) सप्र. घत्ताम् <> घेहि इति पामे. । m) पामे. वैप १, १७०४ m द्र. ।
n) पामे. वैप १ परि. घेहि मै १, ४, ३ टि. द्र. । o) पाठः ? ह इहि इति शोधः (तु. वैप १, १५८० l) । p) सपा.
घेहि <> घत्त्व इति पामे. । q) पामे. वैप १, १६४१ b द्र. । r) पामे. वैप १, १५५८ h द्र. । s) पामे.
वैप १, १७०९ e द्र. । t) पामे. वैप १, १५५६ h द्र. । u) पामे. वैप १, १५५६ e, i द्र. । v) पामे. वैप.
१ परि. सञ्च-वत्- > वत् टि. द्र. । w) पामे. वैप १, १७१० q द्र. । x) पामे. वैप १, १७०९ r द्र. ।
y) पामे. वैप १, १७०५ j द्र. । z) सपा. हिण् २, ३, ८ ईशानः इति पामे. । a¹) पामे. वैप १, १५५६ e द्र. ।
b¹) पामे. वैप १, १५५६ b द्र. । c¹) मपु१ हपं द्र. । d¹) पामे. वैप २, ३३८. दघायाम् तैत्रा २, २, १, १४
टि. द्र. । e¹) पामे. वैप १, १७०५ a द्र. । f¹) पामे. पृ १२४८ k द्र. । g¹) पामे. वैप १, १७०५ f द्र. ।
h¹) पामे. वैप १, १९३३ h द्र. । i¹) मपु२ द्र. ।

१५; वाग् २, ४; ऋदधावहै
 आपश्रौ ९, २, ३; माश्रौ;
 ऋदधाम आपश्रौ १६, ३४, ४;
 हिश्रौ ११, ८, १५; अघत्त
 वाधुश्रौ ४, ३२ : २; ३××;
 वृदे ७, ८७; ८, ६; ऋदधात्
 शाश्रौ १८, १, ८; आपश्रौ;
 या १४, १७^३; अघत्तम् जैग्
 १, २२ : २८^१; अदघत् भाशि
 १०१^१; ऋदधुः आपश्रौ ५, २३,
 ४××; वौश्रौ; या ७, २९; १३,
 ९; ऋदध्याः वैश्रौ १८, २१ :
 ३××; हिश्रौ ११, ८, ९; ऋदधाः
 आश्रौ ४, ६, ३; ९, ४; ऋदध-
 त्तम् कौसू ५, १; या ६, ३६;
 ऋदधाम् वौग् १, ७, ४३;
 माग् १, १४, १६; वाग् १६, १;
 अदधाम आपमं १, ११, ९^१;
 ऋदधीत् आपश्रौ १६, ७, ४;
 वौश्रौ; दध्यात् आश्रौ ५, १४,
 २०; १५, २२××; काश्रौ;
 दध्याताम् वाग् ३, १; दध्याम्
 वौश्रौ १३, १९ : ७; हिश्रौ
 २२, ३, १४; दधीमहि या
 १२, ६.
 ऋदधे^३ आश्रौ १०, ९, ५; शाश्रौ;
 या १२, ३२; दधौ वौश्रौ १८,
 १३ : ९; छु २, ६; ऋदधतुः
 आश्रौ २, ५, ३; वौश्रौ; ऋदधिरे
 शाश्रौ १८, ६, ५; आपश्रौ; या ६,
 ३५; ऋदधुः आपश्रौ ५, १०, ४;

माश्रौ; ऋदधिषे शाश्रौ ११,
 १२, ४; आपश्रौ १२, १९, ५^७;
 या ५, २५^६; ऋदधिम>मा
 ऋप्रा ८, १५; धास्यसि वाधुश्रौ
 ४, ६ : ३; धास्यावः आमिग्
 २, १, ५ : २; ऋदधासथ>था
 ऋप्रा ७, १४; ऋदधिषीय^७
 आपश्रौ ४, १३, १; वौश्रौ; पा
 ७, ४, ४५; ऋदधिषीय^७ माश्रौ
 १, ४, ३, १; वाश्रौ १, १, ४, ९^७;
 अघित शाश्रौ ३, २०, ४; काश्रौ
 २५, २, २४; ऋदधात् आश्रौ
 ३, ११, २; शाश्रौ ३, २०, २;
 काश्रौ; ऋदधात् आश्रौ ५, ९, १^१;
 ६, १२, २^३; शाश्रौ ६, ९, १७;
 पाग् ३, ५, ३; या १०, ४५;
 ?धो३म् आश्रौ ७, ११, ७^६;
 अधाताम् या ९, ४३^१; ऋदधुः
 माश्रौ २, ५, ४, १२; छुः
 आपश्रौ १३, १८, १^१;
 ऋदधाः वैध २, ४, ५; ऋदधाः
 आश्रौ ३, १, १४; ४, ५, ३;
 शाश्रौ १, १२, ५, ५, ८, २^३; १७,
 १३, १०; काश्रौ; माश्रौ १, ८,
 ३, ३१^१; हिग् १, १३, १५^१; या
 ४, १७; ऋदधिवि आपश्रौ
 ६, १०, ११; भाश्रौ ६,
 १२, ९; हिश्रौ ३, ७, ७२;
 धाम् आपश्रौ १, २१, ७^६;
 वौश्रौ.
 धीयते शाश्रौ ११, २, ५; वौश्रौ

१४, १० : ३१; लाश्रौ; या ३,
 १९; ४, ७, ५, २६; ६, २४; ७,
 २७; १०, ४; धीयन्ते वाधुश्रौ ३,
 १३ : १७××; या ५, १०; १३,
 १०; ऋदधीयाते वौश्रौ १, १२ :
 ३४; धीयताम् आपमं १, १२,
 ८^१; शाग् १, १९, ६^१; अधीयन्त
 वौश्रौ १०, ४२ : १८^१; माश्रौ
 ६, २, १, २५; अघायि आपश्रौ
 १०, ९, ४^११^१; वौश्रौ ९, १८ :
 २७^११^१; हिश्रौ १०, २, ७^११^१;
 वृदे २, ११४; या ६, १५; २२^११^१;
 ऋप्रा; ऋदधायि आश्रौ २, १७,
 ७; शाश्रौ; या ६, १५^६.
 दिधिषेय ऋप्रा ८, ४३^१.
 दध- पा ३, १, १३९.
 ऋदधत्- -घत् आश्रौ ३, १२, १४;
 शाश्रौ.
 ऋदधती- -ती आश्रौ २, ११, ४^१;
 शाश्रौ ३, ७, ४^१; वौश्रौ ७, ८ :
 ५; १४, ५ : ४३; -तीः वौश्रौ
 १२, ८ : २३.
 दधाति->व्य(ति-अ)थ- -थे या
 ८, ३.
 ऋदधान,ना- -नः आपश्रौ ५, ९,
 १०; २१, १२, ३; माश्रौ; -नम्
 निस् १, १ : १४; -ना शाश्रौ
 २, ४, ३^१ वौश्रौ; माग् २, १,
 १३^१; -नेन वाधुश्रौ ३, ६९ :
 १७९.
 दधिषाय^७- पाठ ३, ९७.

a) वैप १ द्र. 1 b) पामे. वैप १, १७०८ b द्र. 1 c) वैप १, २०१ n द्र. 1 d) पामे. वैप १,
 १७१० t द्र. 1 e) वैप १, २०२ a द्र. 1 f) पामे. वैप १, १७०८ i द्र. 1 g) धात् (ऋ १०, ३०, १२)>
 न्यूहृक्तो विशेषः । h) धात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै ३, १, १०, १) । i) पामे. वैप १, १७०४ d द्र. 1
 j) धात् इति Böht [ZDMG-५२, ८३] । k) पामे. वैप १, १७०९ i द्र. 1 l) पामे. पृ १०९६ k द्र. 1 m) पामे.
 वैप १, १७०९ h द्र. 1 n) तु.सा. प्रष्ट.; वैतु. या. = अघायि [= ध्यातवान् इति दु.] इति ? । o) पामे. वैप १,
 १७११ e द्र. 1 p) पामे. वैप २, २३खं. इदती माश्रौ ११, ४, ३, ७ टि. द्र. 1 q) पामे. वैप १ वाधुधाना तै १, ८, २२,
 १ टि. द्र. 1 r) पामे. वैप १, १७०३ h द्र. 1 s) अर्थः ? <दधि- + √सु [अभिषेवे] इति पाठमो २, ३, १० ।

घा^१-घा: आपश्चौ २,३,९१; भाश्चौ;
 घात(व्य >) व्या- :व्या: वौश्चौ
 २६,४ : १०; १२.
 १घातु^१- पाठ १,६९; -तव: वैष्ट
 ३,९,९०; वृदे ७,८०^१; या^१ १,
 २०; २,२८; ३, ९^४; १०^२; ११;
 १३^२; १९^४; अप्रा ३,४,१०; पा^१
 १,३, १; ३,१,३२; -तु: लाश्चौ
 ७, ५, ९^१; निस् ३,१३ : ४^१;
 सु १०,४^१; या १,२०^१; अप्रा
 १,१,११^१; पावा ८, ३, ६५^१;
 -तुभि: वाष्ट १,९^१; अप ११,
 १, १५; -तुभ्य: या २, २^१;
 -तुम् काश्चौ १६,३,२६^१; वाश्चौ
 १,३, ३, १२^१; वृदे २, १०१;
 -तूत् कौस् २, २२^१; -तूनाम्
 वौश्चौ १,२१ : २६^१; २०,१५ :
 ११^१; वृदे २, १०२; -तो:
 वौश्चौ २०, ११ : २६^१;
 चाश्च ३९ : १७^१; ऋप्रा: पा १,
 ४,८०; ३,१,७××; -तौ ऋप्रा
 १३, ३५; ऋत ५, २, ६; पा ३,
 ३,११५; ६,१, ९१; -तौऽतौ^१
 आपश्चौ २,९, ४; भाश्चौ.
 घातु-क्षय- -यात् वौघ ३,
 २,१३.
 घातु-ग्रहण- -णम् पावा ३, १,
 ९१; २,१४; ४, ११४; -णे पावा
 ३,१,२२; ६,१,९०.
 घातुग्रहण-सामर्घ्य- -र्घ्यात्
 पावा ७,१,५८.
 घातुग्रहणा(ण-श्चा)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा १, ४, ६०; ३,

१,७.
 घातु-ज- -जम् वृदे २, १०४;
 -जस्य पावा २,१,२४; -जात्
 वृदे २,१०४.
 घातु-त्रि-ग्रहण^१- -णेषु पावा
 १,३, १०.
 घातु-त्व- -त्वम् पावा १, ३,
 १.
 घातु-निर्देश- -शे पावा ३, ३,
 १०८.
 घातु-प्रतिषेध- -ध: पावा ७,
 १,१; ८४.
 घातु-प्रातिपदिक- -कयो: पा
 २,४,७१.
 घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-निपात-
 -तानाम् पाप्रवा ५,९.
 घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-समास-
 तद्धितविधि-स्वर- -रा: पावा
 १,४, १३.
 घातु-म(य>)थी- -थी: अशां
 ५,८.
 घातु-मात्र- -त्रात् पावा ३, १,
 १३३.
 घातु-लक्षण- -णम् चव्यू ३ :
 १३^१.
 घातु-लोप- -प: पा १, १,४;
 -पे पावा ६,२,१९१.
 घातु-वस्त्र- -स्त्रम् वैघ १,
 ३,६.
 घातु-शस्त्र(ः) वौश्चौ २०, ११ :
 १६; माश्चौ २,२,४, १२.
 घातु-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
 ३,१.

घातु-संबन्ध- -न्धे पा, पावा ३,
 ४,१.
 घातु-संभरणा(ण-श्चा) स्तरण-
 -णयो: वाश्चौ १,२,१,२२.
 घातु(तु-उ)पसर्गा(र्ग-श्च)व्यव-
 गुण-शब्द^१- -न्दम् वृदे २,
 १०३.
 घात्व(तु-अ)धिकार- -र: पावा
 ३,१, ९१; -रात् पावा ३, १,
 ९१; ६, १, ४५; -रे पावा ३,
 १,७.
 घात्व(तु-अ)न्त- -न्तस्य पावा
 ६,१,६६; ४,४९; ७, १, १^२; ३,
 ५०.
 घात्वन्त-प्रतिषेध- -ध: पावा
 ७,१,३; ३, ४६.
 घात्व(तु-अ)न्यत्व- -त्वात् पावा
 ३,१,७८; २,१३५.
 घात्व(तु-अ)र्थ- -र्थे शुप्रा ५,१०;
 पा ५,१,११८.
 घात्वर्थ-निर्देश- -शे पावा
 ३,३,१०८.
 घात्वर्थ-पृथग्-भाव- -वे
 पावा ५, ३, ४२.
 घात्वा(तु-श्चा)दि- -दी या २,
 १; -दे: पा ६,१,६४; -दौ शौव
 ३,४८.
 घातु^२- पाठ २,९४; -तूत: काश्चौ
 २३, ३, १; आपश्चौ; कौस् ५६,
 १७^१; या ११, १२; -तूता आश्चौ
 ६, १४, १५९; १६^४; शाश्चौ;
 आपश्चौ १२, ६, ३०; माश्चौ ३,
 ६, २^१; द्विश्चौ ८, १, ७६^१;

a) वैप १ द्र. । b) वप्रा. यथायथं टि. द्र. । c) = शरीरभोषकद्रव्यविशेष- । d) = गैरिकादि- ।
 e) = संज्ञा-विशेष- । f) = महानाम्नीभागविशेष- । g) = तृणमुष्टि- । h) = सूत्र-प्रक्षेप- इति कर्कविद्याधरी ।
 i) = ऋषि-विशेष- । j) वस. > वस. [तु. कैयटः] । k) तु. सत्य. टि. संज्ञासु । l) विप. । दस. > वस. ।
 m) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । n) पाभे. वैप २, ३खं. आयन्तु तैश्चा ७, ४, ३ टि. द्र. । o) पाभे.
 वैप १, १७१३ h द्र. ।

निघ ५, ५; या १०, २६^३; ११, १०^४; ११^३; १२, ३६^६; -तारम् वौश्रौ १४, १९:२; हिश्रौ; -तु: आपश्रौ १५, १८, ६; वौश्रौ; ऋमाश्रौ १, ३, ५, १७^७; ३, १, २५^८; आपमं १, ५, १६^९; कौश्र ५, ३, ३१^{१०}; -ऋभ्रि: आश्रौ २, १७, ७; मांश्रौ १, ६, २, ४; -ऋत्रा आपश्रौ २१, ११, ८; हिश्रौ १६, ४, ३१; आपमं २, ११, १७; या ११, ११^६; -त्रे आश्रौ ६, १४, १६^{११}; शांश्रौ.

१धात्री- त्री ऋश्र २, १०, १८; वृदे ७, १२; -त्री: आग्निश्र २, १, १:३; २:३; हिश्र २, १-२, २; -त्रीम् वैश्र ७, ४: ५^१.

धाता>धाता(ता-आ)दि- दि वैश्र १, १६: ५x४; ३, १२: २^६.

धातादि-पूर्व^{१२}- र्वम् वैश्र २, ७: १; ९: ४; ७.

१धातादिमिन्द्राहुतिम्^१ वैश्र २, ३, २.

धातादि-त्रत-विसर्ग^१- र्वम् वैश्र २, ११: १; १३: ४.

धात्र^{१३}- -त्र: काश्रौ १८, ६, २०; आपश्रौ २२, १८, १८; हिश्रौ १७, ७, १०; -त्रम् काश्रौ २५, २, १६.

१धान- ने वौश्रौ २०, १९: १३;

२४: २४.
धापयित्- -तार: भाश्र १, २५: १९.

धामन्^१- पाउत्र ४, १५१; पाग २, ४, ३१^३; -ऋम् आश्रौ १, ९, ५; २, ८, ३; ५, १९, ३^३; शांश्रौ; वैश्र २, १७: ३^६; या ७, २; ऋप्रा ७, ५५^४; तैप्रा ३, ८^०; पाशि २४^६; -ऋम् आश्रौ २, १३, ७; आपश्रौ; -ऋमि: आश्रौ १, ३, २३^७; वैताश्रौ ३२, ३^८; या ५, २; ९, २९; -ऋमभ्य: आपश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ; -ऋमसु आश्रौ ८, १०, ३; शांश्रौ; -मा जैश्रौ ९: १९; -ऋमानि आश्रौ १, ३, १४; ६, ३x४; शांश्रौ; आपश्रौ ७, १०, ८^१; वौश्रौ ४, ४: २९^१; भाश्रौ ७, ८, १०^२; माश्रौ १, ८, २, १८^३; ६, १, ८, १२^४; वाश्रौ २, १, ८, १७^५; हिश्रौ ४, २, ५४^६; या ९, २८^७; -ऋम्न: आपश्रौ ४, १६, ४; भाश्रौ ६, ३, ७; हिश्रौ ६, ६, १७; -ऋम्न: ऽम्न: आश्रौ ३, ६, २४; शांश्रौ ८, १२, ११; काश्रौ ६, १०, ५; आपश्रौ ७, २७, १६; वौश्रौ; -ऋम्ना शांश्रौ २, ११, ५^८; काश्रौ २, ८, १९^९; ५, ४, २७^{१०};

वौश्रौ; -म्नेऽम्ने शांश्रौ ४, ८, १; वौश्रौ.

धामच्छद्^१- च्छत् आश्रौ २, १३, ५^१; हिश्रौ ११, ८, २३^२; शुश्र २, ३६०^३; या ७, २४^४; तैप्रा १४, ८^५; -च्छदा^५ आपश्रौ १६, ३५, २; वैश्रौ १९, १: ११; -च्छदे वौश्रौ १३, ३९: ९; माश्रौ ५, २, ६, १५; आग्निश्र २, ५, ११: १४^६.

धामच्छद्-आदि^७- -दीनि आपश्रौ १९, २६, १३; हिश्रौ २२, ६, १०.

धामच्छद्-द्विती(य>)या^८- -याम् वैश्रौ १९, १: १५.

१धाम-शस्(:) हिश्रौ ८, ६, ३३; या १४, १९.

१धामि^९- -म्यै^९ आपश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ १८, २०: २९; हिश्रौ ११, ८, ४.

१धाय- पा ३, १, १४१.

२धाय^{१०}- -या: कौश्र १८, ३२.

१धायस^१- -यसा आश्रौ ३, ७, ६; ८, ९, २; वौश्रौ १७, ४१: २६^२; आग्निश्र १, ३, ५: २^३; हिश्र १, ११, २^४.

धाव्य,व्या^१- पा ३, १, १२९; पाग ४, ३, ५४^५; -व्या आश्रौ ५, १५, २१; शांश्रौ; -व्या: आश्रौ ५,

a) पामे. वैप १, १७१३ g द्र. । b) पामे. वैप १ परि. ऋतुस्य ऋ १०, ८५, २४ टि. द्र. । c) पामे. पृ १३४० k द्र. । d) धातुस्था: इति पाठ: ? यनि. इति ता: इति च शोध: (तु. पृ ११३७ m) । e) पामे. वैप १, १४१२ j द्र. । f) = देवता-विशेष- । g) °दीन् इति संस्कर्तु: टि. । h) विप. । वस. । i) पाठ: ? धातादीन्, मिन्द्राहुती इति शोध: (तु. C.) । j) मलो. कस. । k) सास्यदेवतीय: अण् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) तु- पागम. । n) = मांस- इति भाष्यम् (तु. C.) । o) 'मा इति संहिता-पाठ: । p) पामे. वैप १, १७१५ i द्र. । q) पामे. वैप १, १७१५ g द्र. । r) पामे. वैप १, १७१५ p द्र. । s) पामे. वैप १, १७१५ r द्र. । t) पामे. वैप १, १७१६ c द्र. । u) = ऋच्- । v) = हविस्- । w) = धामन्- । व्यु- ? । x) पामे. वैप १, १७१६ f द्र. । y) = दर्भपुलक- । कर्मणि घञ् (पा ३, ३, १९) । z) पामे. वैप १, १४७६ l द्र. । a^१) धाव्य- इति भाण्डा. । धाव्या- इति पाका. ।

१४, १७××; नाश्रौ; -व्याभ्यः
 आश्रौ ५, १०, १३; -व्याम्
 शाश्रौ ११, १२, २; १८, ४, ५;
 वाधूश्रौ ३, ५८ : ७; -व्यायाः
 आश्रौ ५, १५, १८; शाश्रौ १०,
 १३, ११; -व्यायै शाश्रौ ७, २१,
 ८; -व्ये वाश्रौ २, १, २७××;
 आपश्रौ.
 घास्या (घ्या-आ)ज्यभाग-
 संयाज्य- -ज्यानाम् चात्र ४२ :
 २५.
 घाव्या-रूप- -पम् जुप्रा ४,
 १५३१.
 घाव्या-लोक^३- -के वौश्रौ १०,
 ११ : ३; १३, १७ : ८××.
 घाव्या-शब्द- -व्देन हिश्रौ २१,
 २, ६.
 घाव्या-स्थान- -नम् माश्रौ ५,
 १, १, ५.
 घेय- -यम् माशि ४५.
 घा^४ वेज्यो १८.
 घा- √घा द्र.
 घाक^५- पाठ ३, ४०.
 घाकार- १घ, घा- द्र.
 घाणक- पाठ ३, ८३.
 घाणिका^६- -का तैप्रा १३, १२^६;
 -काम शाश्रौ १२, २४, ५^६.
 घातक^७- पाठवृ ३, १४८; पाग ४,
 १, ४१^६.
 १घातकी- पा ४, १, ४१.

२घातकी^८- (>घातकेय -पा.) पाग
 ४, २, १७.
 १घातव्यामिः^९ कौम् ३५, १६.
 घातवे √वे द्र.
 घातव्या-, १घातु- प्रभृ. √घा द्र.
 २घातु^{१०}- -तोः चात्र ३७ : १७.
 घातुम् √वे द्र.
 घातृ-, घात्र- √घा द्र.
 १घात्रन्तर^{११}->घात्रन्तर-शैव-बहुरूप-
 पार्षद-स्कन्दे(न्द-इ)न्द्र-
 -न्द्राणाम् वौग् ३, ३, ३३.
 १घात्री- √घा द्र.
 २घा(त्र>)त्री^{१२}- पा ३, २, १८१.
 ३घा(त्र>)त्री- √वे द्र.
 १घान- √घा द्र.
 २घान- √वे द्र.
 घानक^{१३}- पालनावृ ३, ८४^{१३}.
 घानंजय- , घानपत-, -त्य- √घन् द्र.
 घाना^{१४}- पाठ ३, ६; -नाः आश्रौ ५, ४,
 ३^{१४}; ६, ११, ९^{१४}××; शाश्रौ; या
 ५, १२^{१४}र्क^{१४}; -नानाम् आपश्रौ ८,
 १५, ९; वौश्रौ ५, १४ : २; ६;
 ७; १३; ७, १२ : ८; माश्रौ;
 -नाभिः आपश्रौ १३, १७, २; २०,
 १०, ६; वौश्रौ; -नाभ्यः माश्रौ
 १, ७, ६, ६; २, ३, २, २; वैश्रौ.
 घाना-चर्मन्^{१५}- -र्माणि वौश्रौ १५,
 १६ : ४.
 घाना(ना-आ)दि- -दीनि काश्रौ ९,
 १, १६.

घाना(ना-आ)पूप- -पाम्याम् माय
 २, १०, १.
 घाना-प्य^{१६}- -प्यम् अप ४८, ७५.
 घाना-प्राशन- -नात् माय २, २ : २.
 घाना-भर्जन- -नम् काश्रौ ५, ८,
 १६.
 घाना-मन्य- -न्यम् माश्रौ ८, १७,
 २०; -न्यौ वैश्रौ ९, ९ : ६.
 घाना-मन्य-पुरोडाश- -शानाम्
 काश्रौ ५, ९, ६.
 घाना(ना-आ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ ८,
 १३, १८; १२, ४, ९; माश्रौ;
 -र्थान् आपश्रौ ८, १३, १८.
 घाना-लज- -जान् वैश्रौ १५,
 ५ : १.
 १घाना-वत्- -वन्तम् वाश्रौ ५, ४,
 २; शाश्रौ.
 घाना-सक्तु- -कूनाम् काय ६०, ४.
 १घाना-सोम- -सः वैताश्रौ १६,
 १७; -नात् माश्रौ २, ४, ६,
 २६; -नान् काश्रौ १०, ८, ४;
 आपश्रौ; -मानाम् शाश्रौ^{१७} ८, ८,
 २; ४; वौश्रौ; -मेभ्यः काश्रौ १,
 ९, १६९; १०, ८, ३; आपश्रौ
 १३, १७, २; हिश्रौ ९, ४, ४९.
 घानासोम-व्याज्या- -ज्यायाः
 वाधूश्रौ ३, १०२ : २.
 १घानाः अप १, ६, ७; ८, ४; ७; ३४, २.
 घानाक^{१८}- -कः ऋत्र २, १०, ३५;
 शुत्र २, ३२८; ३, १७६; २१२^{१८}.

a) = घाव्या-स्थान- । b) अनुराधा- इत्यस्यान्तिमाऽव्यय- । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १,
 १७१६ प द्र. । e) पामे. वैप १, १७१६ र द्र. । f) = पुष्प-भेद- । व्यु. ? । <√घा इति पाठवृ., <√घाति
 इति श्रमा. । g) २घातक- इति पाका. पाति. । h) तु. पागम. । = नगरी-विशेष- । i) पाठः ?
 घातादिभिः (शौ ७, १७, १-४ इति शोषः (तु. लि [शौभू.]) । j) व्यप. । व्यु. ? । k) = देवता-विशेष- ।
 व्यु. ? । l) = उपमात्- वा आमलकी- वा । m) अर्थः व्यु. च ? । n) = संमान- । = द्रव्य-परिमाण-विशेष-
 इति पाठश्चे [३, ७९] । o) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष- । p) = उदक- । उच. उप. √व्यै + कर्त्तरि कः प्र.
 (पा ३, २, ३) । q) 'नाः सो' इति पाठः ? यानि. शोषः (तु. लि ५, ७, ४, १६ C. च) । r) < घनाक- इति
 रप्. प्रभृ. । s) < घानाक- इति ? ।

धानान्तर्वत्^a - वान् शुभ्र १, १३५^b.

धानाप्य- धाना- द्र.

१धानाम्^c आश्रौ ८, ३, १९.

धानुर्दण्डिक- , णुक्- धनुस्- द्र.

धान्य^d - पाठ ५, ४८; पाग ५, ४, ३०;

फि ७६; -न्यम् काश्रौ २, ५,

६१; आपश्रौ; आपध १, २०,

१२^f; -न्यस्य आपध १, २०,

१३; विध ६, १२; हिध १, ६,

२७; -न्यान् आमिष्ट २, ५,

३; ४; वौष्ट ३, ७, ४; -न्यानाम्

अप ५०, ५, ४; ७०^g, ६, ३;

वाध २, २९; शंघ १७४; पा

५, २, १; -न्यानि वैश्रौ ११,

११: ७; अप ७१, ७, ६; -न्ये

आग ३, १३: १७; पा ३, ३,

३०; ४८; -न्येन आमिष्ट २,

४, ९: ७; ५, १२: १३; अप

६८, २, १६; वाध २, ४५;

-न्येषु वैश्रौ ११, ११: ९;

-न्यैः अप ३०, ४, २.

धान्य-कोष्ठा (घ-आ)युधागार-

-राः अप ७१, ४, ४.

धान्य-खल^h - लः काश्रौ २२, ३,

४४.

धान्य-गो-गुरु-हुताशन-सुर-

-राणाम् विध ७०, १६.

धान्य-चौर- -रः विध ४५, ९.

धान्य-तस्ⁱ (ः) विध ३, २२.

धान्य-धन-तस्^j (ः) विध ३२, १८.

धान्य-धन-संचय- -यम् वैध ३,

५, ४.

धान्य-धना (न-अ)पहारिन्-

-री विध ५२, ५.

धान्य-निचय- -ये भाग ३, १३:

१७.

धान्य-पति- (>पत- पा.) पाग

४, १, ८४,

धान्य-पल्य^k - ल्यम् लाश्रौ ८,

४, १४.

धान्य-पल्वल- -ले जैष्ट १, ११: २५;

धान्य-पाक-वश- -शात् कप्र ३,

७, ९.

१धान्य-पात्र- -त्राणि कौष्ट १, २१,

२२^l; शांष्ट १, २८, २४^m;

-त्रान् लाश्रौ. ८, २, ५; ३, ७०.

२धान्य-पा (त्र>)त्राⁿ -त्रा लाश्रौ

८, ३, ८.

धान्य-प्रदान- -नेन विध ९२, १९;

२२.

धान्य-मरायु^o -युम् आपश्रौ २२,

११, १५.

धान्य-मांस- -सम् हिध १, ६,

२६^p.

१धान्य-माष^q -षैः वौश्रौ २३,

१८: १०.

२धान्य-माष^r -षौ आमिष्ट २,

१, १: ९; हिष्ट २, २, ३.

१धान्य-राज- -जः वौध ३, ६, ४;

विध ४८, १७; गौपि २, ३, १७.

धान्य-राशि- -शिम् आपश्रौ २२,

११, १५; -शेः अप ६४, ४,

१०; -शौ अप ३६, १५, १.

धान्यराशि-ग्रहण- -णम् शंघ

१२.

धान्य-वासस्- -ससाम् अप ७०,

३, २; काध २७७: १०.

धान्य-विक्रय- -यात् वाध २, ३६.

धान्य-विपर्यास- -से अप ७०^r,

६, २.

धान्य-संग्रह- -हः अप ६२, १, ७.

धान्य-हारिन्- -री विध ४४, १४.

धान्या(न्य-आ)कृत्^s - कृतः ऋग्रा

९, ८^t.

धान्या(न्य-अ)क्षत- -तम् वैष्ट ५,

६: १९.

धान्या(न्य-आ)चित- -तानि काश्रौ

२२, ११, १; लाश्रौ ९, ४, १९.

धान्या(न्य-अ)जिन-रज्जु-तान्तव-

वैदल-सूत्र-कार्यासवासस्-

-ससाम् विध २३, १४.

धान्या(न्य-अ)द्र- -द्रम् शाश्रौ १६,

९, १^u.

धान्या(न्य-अ)पहारिन्- -री विध

५, ७९.

धान्या(न्य-अ)म्ल- -म्लम् वैध

३, ५, १०.

धान्या(न्य-अ)यस्- -यसी गौध

२८, ७.

धान्या(न्य-अ)र्ध^v - -र्धम् अप

६३, ४, ४.

धान्यायन- २धन्य- द्र.

धान्व-, १धान्वन- २धन्वन्- द्र.

२धान्वन- धन्वन- द्र.

धान्वपत- √धन् द्र.

धापयितृ-, धामन्-, १धामि-,

१-२धाय-, धायस्- √धा द्र.

१धाया[धाय्या] चाअ ४१: १.

१धायिन^w -ने कौष् ३४, १०^x.

a) व्यप. । व्यु. ? ।

b) धनान्नवान् इति उ [मा २, १९] ।

c) वैप १, १५६२ d) द्र. ।

d) वैप १ द्र. । e) तु. पागम. । f) सप्र. धान्यं मांसम् <> धान्यमांसम् इति पाभे. । g) मलो. कस. ।

h) उप. = शिष्य- । i) विप. । वस. । j) पस. । उप. = ज्याचोराशि- (जैमि २, १६४; १६५ [तु. C.] ।

k) उप. = परिमाण-विशेष- । l) उप. = अन्न-विशेष- । m) उप. = मूल्य- । n) = द्वार- इति केशवः, = तोरण-

इति दारिलः (तु. B [भू. Li]) । o) धीयि^y इति दारिलः ।

द्वैप४-नृ-७४

धाव्य,व्या- प्रभृ. √धा द्र.
 धार^१- -रे याशि २,३३.
 धारका-, धारण-, णा- प्रभृ. √धृ द्र.
 धारणि- (> णायन- पा.) पाग २,
 ४, ६१^b.
 धारय-, ष्यत्- प्रभृ. √धृ द्र.
 धारा^२- पाग ५, २, ९७; ६, १, १९९;
 पाग, पावा ३, ३, १०४; -र्या
 ङ्ङाश्रौ २, १२, ३; ८, १४, ४;
 शांश्रौ; या १२, ३; १३, ६;
 -र्योः काश्रौ ९, ६, १४;
 काठश्रौ; -रा काश्रौ ४, १५, ७;
 आपश्रौ; या १३, ६; १४, ३; -राः
 शांश्रौ ७, १५, १४; आपश्रौ;
 ङ्ङाया ७, १७; १०, ९; -राणाम्
 काठश्रौ १४७; वौश्रौ ८, १० :
 १४; -राभ्यः काश्रौ १०, १,
 १२; आपश्रौ; -राभ्याम् आपश्रौ
 १२, १५, ३; भाश्रौ; -राम्
 आपश्रौ ६, १४, १; १९, २४,
 ४^१; वौश्रौ १३, ३२ : ८^१; ३८ : १;
 भाश्रौ; हिश्रौ ६, ४, १३^१;
 २२, ५, ५^१; -रायाः
 आपश्रौ १२, १३, ५××; हिश्रौ
 ८, ३, ४७; २३, १, २६; -रायाम्
 आपश्रौ २४, २, २; वैश्रौ; -रासु
 शांश्रौ ७, १५, १४; ङ्ङावृ १, ६ :
 २; २, २ : १.
 धारा (रा-ञ्) गिन- गिनम् वौश्रौ
 १५, ३५ : ४.
 धारा-ग्रह- -हाणाम् आपश्रौ १४,
 २, ४; वैश्रौ १७, २ : ६.
 धाराग्रह-काल- -ले वैश्रौ १६,
 २ : ५; हिश्रौ.

धाराग्रहा(ह-ञ्)न्त- -न्ते काश्रौ
 १२, ५, ४.
 धारा-ग्रहण-काल- -ले आपश्रौ
 १२, २१, १०; हिश्रौ ९, ३,
 ३१.
 धारा-घोष- -घम् आपश्रौ १, १२,
 १७××; भाश्रौ; -घे माश्रौ १,
 १, ३, २३.
 धारा(रा-ञ्)ङ्कुर-परित्ताव- -वैः
 अप ६४, १, १०.
 धारा-चरत्- -रङ्गिः अप ६८, १,
 ४६.
 धारा-पुरुष- -षेषु नाशि २, ३, ४^१;
 -षौ याशि २, ३२^१.
 धारा-ल- पा ५, २, ९७.
 ङ्ङाधारा-वर^१- -राः आश्रौ ७, ७, २;
 शांश्रौ.
 धारा-वर्जम् काश्रौ ४, १३, १९.
 धारा-संयोग- -नात् मीसू १०, ५,
 ६४.
 धारे(रा-इ)ष्टका^१- -काम् वौश्रौ १०,
 ४८ : ४; १९, ४ : २६.
 धारिणी-, णित- √धृ द्र.
 धार- √धे द्र.
 धार्तकृतव-, ष्टराज्ञ-प्रभृ. √धृ द्र.
 धार्तेय-, ष्यी- धार्तेय- टि. द्र.
 धार्मपत- √धृ द्र.
 धार्मायण- १धर्म- द्र.
 धार्मिक-, धार्मुक- प्रभृ. √धृ द्र.
 धार्म्यायण- १धर्म्य- द्र.
 धार्य-, धार्यमाण- √धृ द्र.
 √धाव्^b पाधा. भ्वा. उभ. गतौ,
 धावति वौश्रौ १४, २३ : २७;
 वाश्रौ; या २, ११; १३, ६^१;

पा ४, ४, ३७; धावन्ति आपश्रौ
 २१, १९, ७; वौश्रौ; धावतुः
 आपमं १, १५, ६; कौसू ६२,
 २१; ङ्ङाधावत् आपश्रौ १८, ४,
 १८; वौश्रौ; नधावन् वाधूश्रौ
 ४, ५ : ५; धावेत् माश्रौ ५,
 १, ५, ४५; धावेत् काश्रौ २५,
 ११, २८; आपश्रौ; धावेयुः वैश्रौ
 २०, ११ : ९.
 धावत्- -वतः आपश्रौ १८, ४, १८;
 वौश्रौ; -वत्सु आपश्रौ १८, ४,
 १९; हिश्रौ; -वद्भ्यः वौश्रौ
 १४, १० : २१; -वन् अप ७०^३,
 २८, ५; विघ २८, १९; -वन्तम्
 ङ्ङाशांश्रौ १२, १६, १; २४, २;
 हिश्रौ.
 धावन्ती- -न्ती अञ् १२, ५,
 (३)^१ -न्त्यः हिश्रौ १४, ४, ३.
 धावमा(न>)ना- -नाम् वाधूश्रौ
 ३, १७ : २.
 धावयत्- -यतः वाधूश्रौ ३, ६९ : ३.
 √धाव् पाधा. भ्वा. उभ. शुद्धौ,
 धावते आपश्रौ १०, ५, १४; २०,
 १, ११; वौश्रौ; धावतः काश्रौ ५,
 ५, ३१; धावेत् पागृ २, ६, १७.
 धावयतः वौश्रौ ८, २० : १९;
 वौगृ १, २, २३; धावयेत् वाधू
 ५, ७; विघ ७१, ३९.
 धावन- -नात् वैध ३, ३, ११.
 धावनि^१- -निः नागृ २, १३, ६^१.
 धावयित्वा वौगृ १, ८, १०; वैध २,
 १३, १.
 धाव्य वौश्रौ १५, २ : १८.
 धौत^१- -तम् काश्रौ ७, ९, ४; वाधूश्रौ;

a) शतधार- इत्यस्योत्तराशः । b) व्यप. । व्यु. ? < धरण- इति पागम. । c) वैप १ द्र. ।
 d) पाभे. वैप १, १७१९ d द्र. । e) ष्वा इति पाठः ? यनि. शोषः । f) परस्परं पाभे. । g) = इष्टका-विशेष- ।
 h) पा ७, ३, ७८ परामृष्टः द्र. । i) षन्ति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. शौ १२, ७, ७) । j) = यष्टी-देवी- । कर्त्तरि
 ञनिः प्र. टसं. (पाठ २, १०२) ।

-कृतस्य आपथ्री १३^a, १७, ९;
२०, ११; वौथ्री ८, १७: १७^b;
माथ्री २^a, ५, ४, १०; ३१;
वैथ्री १६^a, २२: २; २६: ५;
हिथ्री ९^a, ४, ५५; ५, ३८;
जैथ्री २०, १०; द्राथ्री ६, ३,
२४; लाथ्री २, ११, १७^b; -तौ
द्राथ्री १, २, ४.
धौत-पाद^c -दः वैगृ २, १६: २.
धौत-भक्ष- -क्षम् शोध ७०४.
धौत-वस्त्र- -स्त्रेण वैध २,
१३, ४.
२धौत-वस्त्र^c > स्त्र-व्रत-
चारिन्- -रिणौ वैगृ ३, ८: १.
धौत-वासस्- -ससो विध ६४,
१४.
धावर्णि^d -णिः वौथ्रीप्र ७२: २.
धासस्- पाठ ४, २२१.
धाव्य √धाव् शुद्धौ द्र.
ध्यासि^e -सिः अप ४८, ८८; निघ
२, ७; -सेः^f आथ्री ४, ६, ३;
शांथ्री ५, ९, ६.
√धि पाधा. तुदा. पर. धारयो.
√धि^e, धिनोति वाधूथ्री ३, ३९: ६;
सु १३, ३; अप ४८, ३०^g;
या ३, ९; ऋधिनोत् आपथ्री ४,
८, ३; माथ्री; ऋधिनोहि वौथ्री
१, ७, ११^h; माथ्री १, २, २,
२८; ऋधिनोत् आपथ्री ४,
८, ३; माथ्री ४, १२, २; हिथ्री
६, २, १९.

धि^e > धि-कार- -रः भाशि ५०.
धि-पूर्व- -वै तैत्रा ६, ११.
धिक्^h वाथ्री ३, २, ५, ३२^क; द्राथ्री
११, ३, १०^क; लाथ्री ४, ३,
११^क; पाग १, ४, ५७; पावा
२, ३, २.
√धिक् पाधा. भ्वा. आत्म. संदीपन-
क्लेशनजीवनेषु.
√धिन्व¹ पाधा. भ्वा. पर. प्रीणने.
धियं-धा-, धियसान-, √धियाय,
धियावसु- √धी द्र.
√धिप्¹ पाधा. लु. पर. शब्दे.
धियणा^e -पाठ २, ८२^ड; -णा शांथ्री
५, ९, १६; ८, १९, १; काथ्री;
माथ्री ६, १, २, १७^क; वाथ्री २,
१, १, ४३^क; या ८, ३१^ड; -णा:
आथ्री ४, ६, ३; काथ्री; -णाम्
आथ्री ७, ७, २; शांथ्री १०, ४,
१५; -णायाः¹ माथ्री २, ४, ३,
२९; वैताथ्री १६, १७; -णे
जैथ्री ९: १२; निघ ३, ३०;
-०णे आपथ्री १२, १०, १; वौथ्री.
धिपणा-भव- -वः या ८, ३.
धिष्णिय^m -यः वौथ्री १४, ३: ७;
वाधूथ्री; -यम् आपथ्री ११,
२१, ३-५; १२, २६, १××;
वौथ्री; -याः आपथ्री १७, २१,
५; वौथ्री; -यान् वौथ्री ७, ८:
२६××; हिथ्री २३, ३, ११;
-यान् आपथ्री ११, १०, १६;
१४, १××; वौथ्री; -यानाम्

आपथ्री २२, १६, ३; वौथ्री; हिथ्री
१७, ६, ३१^क; -यासः हिथ १,
१७, ४^०; -ये वौथ्री १०, ५५: ४;
वैथ्री १२, ६: १३८; -येस्यः
आपथ्री ११, ९, ८; वौथ्री; -येषु
आपथ्री १७, २१, ४; वौथ्री;
-येः वौथ्री १९, ७: २६^क.
धिष्णिय-निवपन- -नान् आपथ्री
१७, २०, १९; वैथ्री १९, ६:
१३६.
धिष्णिय-व्रत- -व्रन्तः वौथ्री ७,
११: २२; २५, १९: ९; वाधूथ्री
४, ६२: १.
धिष्णिय-विहरण- -णात् हिथ्री
९, ३, ३७.
धिष्णिय-व्यावारण-संपात-
-तात् वौथ्री २५, १९: १; २;
-तेन हिथ्री ९, ४, १८^प.
धि¹ √घा (<स्था) > धि-छित-
-तम् विध ९७, २०^र.
धिष्ण^e -ष्णः या ८, ३.
धिष्णी(य)था^e -याः काथ्री
१७, ७, २७.
धिष्णिय- प्रभृ. धिपणा- द्र.
धिष्ण्य, प्तया^e - पाठ ४, १०७; -०ण्य
अशा ४, ५^क; -ण्यः द्राथ्री ५,
२, ६; निस् १, ११: १४; अप
५८^र, ३, ९; या ८, ३१^ड;
-ण्यम् शांथ्री ५, १४, ४; १५,
१०××; माथ्री; -ण्यस्य आथ्री
४, ११, ३; ५, ७, १××; शांथ्री

a) पामे. वैप १, १७२० e द्र. । b) धौत इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राथ्री.) । c) विप. ।
वस. । d) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप १, १७२० i द्र. । g) = [इकार-युक्त-]
१ध- । h) अत्र्य. । व्यु. ? । i) या ११, ४२ पा ३, १, ८० परामृष्टः द्र. । j) = √धा इति या ८, ३ ।
k) पामे. वैप १, १७२१ f द्र. । l) पामे. वैप १, १७२१ e द्र. । m) = धिष्ण्य- । n) अधि^० इति पाठः ?
-यनि. शोधः (तु. आपथ्री.) । o) पामे. वैप १, १७२२ e द्र. । p) सप्र. धिष्णियव्या^० << धिष्ण्यव्या^० <<
आपथ्री १३, १४, ८ विशिष्टः पामे. । q) नैप्र. < अधि । r) सप्र. गी १२, १७ विशिष्टम् इति पामे. ।
s) = धिष्ण्य- । व्यु. ? । t) तस्येदमीयश् च > ईयः प्र. (वैतु. विद्याधरः < धिष्ण्य- इति) ।

- $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ शुभ्रा ४, ३४^२;
 - ष्ण्यः आश्रौ ५, ३, २६; वैताश्रौ
 १८, ४; अण^५ ५८^२, १, ८; ४,
 १८; वौशु; - ष्ण्यात् आपश्रौ
 १९, १४, १३; वौश्रौ १९, ६:
 ११; वाश्रौ २, २, ४, २१; या ८,
 ३; - ष्ण्यात् आश्रौ ५, ३,
 १३××; शाश्रौ; - ष्ण्यानाम्
 आश्रौ ५, ३, २२; अण; चाअ २:
 १७^५; - $\sqrt{\text{धिष्ण्यास्तः}}$ शाश्रौ ८, १०,
 १; आश्र ३, ६, ८; माश्र १, ३, १;
 - ष्ण्ये शाश्रौ ७, ७, ५; काठश्रौ;
 - ष्ण्येभ्यः लाश्रौ १०, १५, १२;
 वैताश्रौ १८, ११; - ष्ण्येषु काश्रौ
 ९, ७, ५; १०, ६, १४; काठश्रौ;
 - ष्ण्यौ आश्रौ ४, ११, ३; शाश्रौ
 ६, १३, ७.
 धिष्ण्य-स्वर-वर्जम् काठश्रौ १०२.
 धिष्ण्य-देश- -शे आश्रौ ५, ७, १.
 धिष्ण्य-नामन्- -मानि शुभ्र १,
 २८१.
 धिष्ण्य-निधान- -नात् काश्रौ १०,
 १, २५.
 धिष्ण्य-निवपन- -नात् माश्रौ ६,
 २, ६, १.
 धिष्ण्य-वत् काश्रौ १२, १, २५.
 धिष्ण्य-वत्- -वताम् आश्रौ ५, १३,
 ६; शाश्रौ ६, १३, ८; -वन्तः
 वैताश्रौ १८, १०; -वान् वैताश्रौ
 २१, १५.
 धिष्ण्य-विहरण- -णात् द्राश्रौ ४,
 १, १५; लाश्रौ २, २, ३; -णे
 द्राश्रौ ५, ३, १०; लाश्रौ २, ७, ९.
 धिष्ण्य-व्याघारण-संपात- -तेन
 माश्रौ २, ५, २, १२^५.

धिष्ण्य-होम- -मात् वैताश्रौ-२३,
 ३.
 धिष्ण्य(ष्ण्य-अ)न्त- -न्ते वैताश्रौ
 २३, ५.
 धिष्ण्य(ष्ण्य-अ)व्यवाय- -यः
 काश्रौ ८, ७, ११.
 धिष्ण्यो(ष्ण्य-उ) परव-स्वर-सदो-
 हविर्धान- -नेभ्यः आपश्रौ १४,
 २३, ११.
 धिष्ण्यो(ष्ण्य-उ)पस्थान- -नम्
 वाश्रौ १, १, ६, ४.
 ✓धी^६ पाधा. दिवा. आत्म. आघारे.
 ✓धी^६, ऋधीमहे शाश्रौ १८, १५, ५;
 वृदे ४, ७२; ऋधीमहि आश्रौ
 ६, १४, १६; शाश्रौ; या ११, ११.
 अदीधेत् या २, १२ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; पावा
 १, १, ६; अदीध्यन्त वाधूश्रौ ४,
 २९; २; अदीधयुःपावा १, १, ६;
 $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ आपमं १, १, ६;
 वीश्र १, ६, २६; ४, १, ११.
 $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ धिति- -तयः अण ४८, ८२;
 ११२; निघ १, ५; २, ५; या ५,
 १० $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; -तिभिः आश्रौ ८,
 १२, २; २६; शाश्रौ; या ५, १० $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$;
 -तिम् या ३, ४ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 दीधिति-मत्- -मन्तम् शाश्रु ६,
 ३, ५.
 दीध्यत्- -ध्यत् पावा १, १, ६.
 $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ ध्यान, ना- -नः भाशि ४१;
 -नाः आश्रौ ८, ११, १; -नाम्
 आपमं १, ११, २; काश्रु ३०, ३;
 माश्रु १, १४, १६; वाश्रु १६, १.
 $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ सात^६- -नस्य आपमं १, १, १;
 वीश्र १, १, १४.
 ✓धियाय^६, धियायते ऋश्र ७,

२३ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 धी^६- $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$: आश्रौ ५, १२, ९, ९,-
 ११, १८; शाश्रौ; माश्रौ ५, २, १४,
 १०^६; या ११, २७ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; धियम्
 आश्रौ ३, ७, १४ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ ××; शाश्रौ;
 या ८, ७; १२, ३४ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; धियम्-
 $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ या १२, १८ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$
 आश्रौ २, १७; ३××; शाश्रौ;
 धिया $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ धिया वाधूश्रौ ४, १९ :-
 ३८^३; $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$ अण २, ५;
 अण ६, ४१; ऋधीः आपश्रौ ४,
 १०, ४; वौश्रौ; ऋधीभिः हिश्रौ
 ११, ६, १९; या ८, ६; १२, ३०.
 धिय-धा^६- -वाः या ८, ७ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 धिया-वत्^६- -सुः या ११,-
 २६ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 धी-ज्वन^६- -नः ऋश्र २, ४१ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 धी-धृति^६- -तिम् कण २, ४,
 १०.
 धी-मत्- -मतः काश्रु ७, ३९;
 -मता अण २२, १, २; १०, ४;
 वौध; -मताम् दंवि १, २; -मते
 पाशि ३१; -मात् अण ७०, ९, ६;
 या ३, १२^३.
 धीर^६- पाठ २, २४; - $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$;
 आश्रौ १, ३, २४; शाश्रौ १, ६, ३;
 आपश्रौ; या ३, १२ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; - $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$.
 आपश्रौ १०, ३१, ६; भाश्रौ १०,
 २२, ४; हिश्रौ ७, ३, ५६; - $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$
 शाश्रौ १२, १०, ८; ऋश्र २, ७,
 ८६; वृदे ६, १५; - $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$: हिश्रौ
 १४, ४, ३८; अण ११, ९; अण
 ३: ४९; या ४, १० $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$; १२, ३२;
 -राणाम् शाश्रौ १२, २०, ४ $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$;
 - $\sqrt{\text{धिष्ण्य}}$: वौश्रौ १, ११: ३६;

a) = उल्का-विकार- । b) = ऋषि-विशेष- (आङ्गिरस-) । c) पाभे. वैप १, १७२२ c, e द्र. । d) पाभे. पृ १३४७ p द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, १७२२ m द्र. । g) पाभे. वैप १, १७२३ m द्र. । h) मलो. कस. (तु. धीष्टं इति जीसं; वैतु. संस्कर्तुरनुवादः पस. इति) ।

वैताश्रौ १०, १७; पाठ.
 धैर्य- -र्यम् शैशि २१२;
 याशि २, ८३.
 धैर्य-कार्य- -र्याणि वृदे
 ४, १३४.
 धी-सादि (न>) नी -, धी-
 सानि(न>)नी- -नी या ८, ३.
 †१धीत- -तम् आपश्रौ १३, २१,
 ३; हिश्रौ ९, ५, ४३.
 †धीति^२- -तयः अप ४८, ८२^b; निघ
 २, ५^b; -तिः आपश्रौ ३, ११, २;
 भाश्रौ; या १०, ४१६; -तिभिः
 आश्रौ ८, १२, ५४४; आपश्रौ;
 वैताश्रौ ३०, १७०; या २, २४;
 ११, १६; १४, २१^३; -†तिम्
 निम् ३, ९ : २०; या १४, १४;
 -†ती शाश्रौ १५, ३, ७; कौस्;
 धीवन्^२- पाठ ४, ११५.
 धैवत्य- पा ६, ४, १७४.

✓घी (पाने), ?अधैपीत् हिष्ट १,
 १७, ५^१.

रधीत- ✓धे द्र.

ईधीतकालान्तरे वैश्रौ २०, ४ : १.

धीर- ✓घी द्र.

धीवर^२- पाठ ३, १; -राः वृदे ६, ८८;
 -०राः वृदे ६, ९०.

धीवरी^१- -री पावा ६, ४, ६६.

✓धु, धू^२ पात्रा. स्वा. कथा. सुरा. उभ.
 कम्पने; तुदा. पर. विधूनने,
 धुनुते हिश्रौ १६, ३, १९^b;
 धूनेति वौश्रौ ९, ८ : २; वैश्रौ

१५, १० : ४; हिश्रौ २४, ३, ४;
 धुन्वन्ति वाधूश्रौ ३, ९० : १;
 धुन्वन्ति आश्रौ १०, ८, ८; धूनुथ
 हिश्रौ २२, ३, १९^१; धूनुष्व
 वाधूश्रौ ४, ५९ : २-५^१;
 धूनवामहै वाधूश्रौ ४, ५९ : १^१;
 अधूनुत वाधूश्रौ ४, ५९ : २; ३; ५;
 धुन्वीत वाधूश्रौ ३, ९१ : १;
 धुनुयुः आमिष्ट ३, ८, १ : १^२;
 २^३; वौपि १, १४ : १^३; २^३;
 धूनुयुः अप्राय २, ९.
 धुवन्ति हिपि १४ : १६; १७;
 धुवीत वाधूश्रौ ३, ९१ : ४.
 धूयते अप ७०^३, २, ५.
 †दधिध्वत्^२- -ध्वतः आपश्रौ १६,
 ११, १२; हिश्रौ ११, ४, १२; पा
 ७, ४, ६५.

धवन- -नेन वौपि २, ३, ५^१.

धवनि^१- -नीनाम् आपश्रौ ८, ७,
 १०^b.

धवित्र^१- पा ३, २, १८४; -अम्
 वौश्रौ ९, १५ : २९; -त्राणि
 काश्रौ २६, २, २०; ७, २३;
 आपश्रौ; -त्रे आपश्रौ १५, १५,
 १; वौश्रौ; -त्रैः काश्रौ २६, ४, २.
 धवित्र-वृण्ड- -ण्डाः माश्रौ ४,
 २, २^३; -ण्डान् वौश्रौ ९, १५ :
 २०.

धधिप्यत्- -प्यन्तः हिपि १४, २;
 ६.

?धुन-> †?धुनेति^२- -तयः आश्रौ

९, ५, ५.
 धुनि^२- पाठभो २, १, २१०; -†नयः
 अप ४८, ७६^m; निघ १, १३^m;
 -†निः^m वौश्रौ ९, १८ : ४; ५;
 वैश्रौ १९, ६ : १०७; अप ४८,
 ८३^०; वृदे ४, ६७^p; या ५,
 १२६; -†निम् आश्रौ ९, ८,
 ४^m; या १०, ३२.

धुन्वत्- -न्वन् अप २७, १, ४;
 -न्वन्तः माश्रौ २, २, ४, १२.

धुन्वान- -नः वौश्रौ ७, ८ : ४.

धुवन- पाठ २, ८०; -नम् कौष्ट ३,
 ११, २९^१; शांश्र ४, १२, ४९^१;
 -नेन आमिष्ट ३, ७, ३ : ३२^१.

धुवान- -नः वौश्रौ १४, ५ : ४२.

धुधिप्यत्- -प्यन्तः काश्रौ २१, ३,
 ६.

धूक, का- पाठ ३, ४७; पाठभो २,
 २, ३.

धूत- -तः वाध २६, १३; -†तस्य
 आश्रौ ६, ४, १०; १२, ११^१;
 शाश्रौ ८, ८, ६^१; ९, ४^१; वैताश्रौ
 २६, ७; अत्र २०, ३३.

धूत्वा वाश्रौ ३, २, १, ३६.

धूनन- -नम् वौश्रौ २०, ३ : २९.

धून्वत्- -न्वते गौध २६, १२^१;
 -न्वन् आपश्रौ १२, १७, ४;
 वैश्रौ; -न्वन्तः आश्रौ ५, १३,
 १२; शाश्रौ.

?धून्वन^२- -ने हिपि ४ : ६.

धून्वान- -नाः काश्रौ १२, २, २२.

a) वैप १ द्र. । b) = अङ्गुलि- । c) = स्तुतिभिः (तु. C.) । गीतिविकारतया निर्देशः । d) पाठः ?
 अघासीत् इति Böht [ZDMG ५२, ८४] । e) = कैवर्त- । व्यु. ? । f) अर्थः व्यु. च ? < ✓धै इति पाम.
 पाठ ४, ११५ च, < ✓घा इति पाठवृ ३, १, < धीवर- इति MW. । g) या ५, १२ पा ७, २, ४४; ७२; ८, २, ४४
 पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र. । h) पामे. पृ ५२२ h द्र. । i) सप्र. ध० <> धु इति पामे. । j) = धमनि- ।
 k) पामे. पृ १२३९ g द्र. । l) = व्यजन- । m) = नदी- । n) पामे. वैप १, १६९८ ० द्र. ।
 o) = स्तेन- । p) = असुर- । q) = कलह- । r) पामे. वैप १, १७२० ० द्र. । s) आप. ४
 सिग्वात- [तु. C.] ।

धुत्तर- पाठभो २,३,५९.
 धुन्धु- पाठभो २,१,७०.
 धुर्- पाठभो २,१,३०३; पा ३, २, १७७; पात्राग ८,२,७०^b; ऋषुरः आपश्रौ १२, ६, ३; माश्रौ २, ३, २, २२; हिश्रौ ८, १, ७६; लाश्रौ ७, १२, १^c; काग ७३, ५; वाग १, २३; अग ४८, ८२^d; निघ २, ५^e; या ३, ९^f; धुर्म वौश्रौ १, ४ : २८; माश्रौ; धुराम् लाश्रौ ७, ११, २१; १३, १; निघ २, ८: १०; धुरि आश्रौ ४, १२, ३^g; काश्रौ; या १४, २५^h; धुरोःⁱ माश्रौ ३, ७, ५; वाश्रौ १, ३, ६, २३^j; हिश्रौ २, ५, ४; धुरौ आपश्रौ १०, २८, १; वौश्रौ; ऋषुः काश्रौ २, ३, १३; आपश्रौ १, १७, ६; ४, ४, ४^k; वौश्रौ; (भाश्रौ ४, ५, ५); हिश्रौ ६, १, ५१^l; या ३, ९^m; धूमिः आपश्रौ १२, ६, ३ⁿ; माश्रौ २, ३, २, २२^o; हिश्रौ ८, १, ७६^p; काग ४७, १३; ७२, ५; ऋषुर्धु आश्रौ ६, २, ५; शाश्रौ. धौर्य- पा ४, ४, ७७.
 धौर्य-शान्या- न्यया वौश्रौ २०, २६ : ८.
 धूर-घर- -रः अग ४६, ८, २; -रम् निघ २२, १०.
 धूर्य- पा ४, ४, ७७, -र्यः पावा ८,

२, २२; -र्यम् पाग ३, १४, ७;
 -र्यत् अग १, ४, १०; -र्यं नीघ १०, ५, १०^q; -र्येणु काश्रौ २, १४, ५; नीघ १०, ५, २४; -र्यौ आपश्रौ १^r, ८, ४××; वौश्रौ. धूर्य-वाह-^s प्रवृत्ति- -त्तौ आपघ १, २६, २; हिघ १, ७, १३.
 धू-पति-, धू-पुत्र- पावा ८, २, ७०.
 धू-प्रवृत्ति- -त्तयः वौश्रौ २५, ३१ : २.
 धूर-नमिमर्शन- -तम् काश्रौ २, ३, १३.
 धूर-ईपा (पा-श्रा) रोहण-^t -गानि काश्रौ २, ३, २९.
 धूर-गृहीत- -तम् काश्रौ १४, ३, २; वौश्रौ.
 धूर-पति-, धूर-पुत्र- पावा ८, २, ७०.
 धूर्य- > धूर्य-वाहिर्-^u -हिनाम् वाघ २२, १८.
 धूर-योजन- -नम् हिश्रौ १४, ३, ४१.
 धूर-वाह- -वाहौ नाश्रौ २, १, ४, २७^v.
 ऋषु-धु-^w -धम् आपश्रौ ५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६; अग ४, ३९; उग ६, १.
 ऋषु-पाह- -पाहौ आपश्रौ १०, २८, १; वौश्रौ ६, १५ :

२७; माश्रौ १०, १९, ७; वौश्रौ १२, १९ : २५; हिश्रौ ७, ३, ६; शुभ्रा ३, ४१; १२२; तैत्रा ५, १०.
 धुरि-^x -रिन् शंघ ११६ : ६२.
 धुरिमेजय-^y -यः वौग ३, १०, ६.
 ✓धुर्व ✓धूर्व द्र.
 धुवक, का- पाठना २, ३६; पाग ४, १, ९६^z; २, ८०^{aa}; ५, २, १००^{ab}; पावा ७, ३, ४५^{ac}.
 धौवकि- पा ४, १, ९६.
 धुवक-वत्- पा ५, २, १००.
 धुवकिन्- पा ४, २, ८०.
 धुवकिल- पा ५, २, १००.
 धुवन-, धुवान-, धुविष्यत्- ✓धु द्र.
 धुत्तर- पाठ ४, ९०.
 ✓धू, धूक, का- ✓धु द्र.
 धूकर- (> धौकरीद- पा.) पाग ४, ३, ८०^{ad}.
 धूत-, धूनन-, धून्वत्-, धून्वन-
 धून्वान- ✓धु द्र.
 ✓धूप^{ae} पाधा. न्वा. पर. संतापे; उता- पर. भाषायाम्, धूपयति काश्रौ १६, ४, ८; २६, १, २४; आपश्रौ; धूपयतु वौश्रौ १०, ६ : ५^{af}; ऋषुपयन्तु आपश्रौ १६, ५, ५; वौश्रौ; धूपयेत् वौश्रौ २२, २ : ११; वैग ३, १४ : ५; अग ३६, ८, ३.

a) वप्रा. १ वैप १ द्र. १ b) तु. पाग. पात्रा. १ c) नीतिविकारतया निर्देशः १ d) = अहुति- १ वैप १, १७२९ b - आपि द्र. १ e) अग. आपश्रौ ३, ८, ४ युगधुरोः इति पाभे. १ f) रा इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भाश्रौ.) १ g) धूर इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भाश्रौ ४, ५, ५ C. च) १ h) धु इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. नाश्रौ. प्रन्.) १ i) = मन्त्र- विशेष- १ j) विप., नाप. (पाग १, ३, १०; ३, १४, ७ प्रन्.) १ वैप १ द्र. १ k) = धूमन- १ l) वाह- = मार- १ m) मन्त्राणां हन्. १ n) = धुर- १ o) पाभे. वैप १, १७२९ II द्र. १ p) वैप १ द्र. १ q) = विश्वेदेवाना- मन्यतम- १ r) ध्वनिः इति शक. (तु. विश्वेदेव-) १ s) पाठः ? अग. तां २५, १५, ३ वौश्रौ १७, १८ : ६-७ लघ्वर्यु ऋरिमेजयः इति पाभे. १ t) व्यप. १ u) = आवपन-विशेष- इति पागम. १ v) पृ ९५८ III द्र. १ w) तु. पाधि. पागम. च १ x) तु. पागम. १ y) पा ३, १, २८ परानुष्टः १

धूपन- -नात् अप ५२, १५, २; -ने वौश्रौ २२, २ : १०.
 धूपन-काल- -ले भाश्रौ ११, ३, १०.
 धूपन-पचन- -ने आपश्रौ १६, ५, ७.
 धूपन-श्रपण- -णे काश्रौ १६, ४, १३.
 धूपयित्वा वैगृ ३, १४ : २.
 धूपायत्- -यत्^a आपश्रौ १, ८, ७; ८, १७, ८××; माश्रौ; -यत् आपश्रौ ६, ९, ११.
 धूपायन्ती- -न्त्याम् आपश्रौ ६, १०, ३?^b; हिश्रौ ३, ७, ६५.
 धूपायमान- -नम् वाश्रौ १, ७, ४, ६१.
 धूपायित- -तम् वौश्रौ १८, १० : १७; १७ : १७.
 धूपि(त>)ता- -त्ताम् वैश्रौ १८, १ : ७९.
 धूप्यमान- -ने काश्रौ ४, १५, १५.
 धूप^c- -पः अप २०, ६, ८; -पम् आश्रिगृ २, ४, १० : १९; वौगृ; -पेन अप ४, ३, २; -पैः अप १२^d, ३, १××.
 धूप-गन्ध- -न्धान् अप १, ३१, ५.
 धूप-गन्ध-माल्या (लय-आ)दर्श- प्रदीपा(प-अ)क्षना(न-आ)दि- -दीनि शंघ २१७.
 धूप-न्तण^e- -णैः आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११, १५, २५; हिश्रौ २४, ६, १२.
 धूप-दीप-वर्जम् आश्रिगृ ३, ११,

३ : ९.
 धूप-दीपा(प-आ)दि- -दिना वैगृ ५, ६ : १८.
 धूप-पुष्प- -प्यैः अप ९, १, ३.
 धूप-चत्- -चन्तम् वौगृ १, ६, २२.
 धूप-शेष- -षम् अप ६, १, १२.
 धूपा (प-अ)र्थ- -र्थे शंघ १२७; विध ६६, १०.
 धूम^f- पाळ १, १४५; पाग ३, १, १३^g; ४, २, ४९; ८०^h; ६, ३, १२०; ८, २, ९; -मः काश्रौ ४, ९, ९××; आपश्रौ; वैगृ ५, १ : ११ⁱ?^j; हिपि ७ : ४^k; -मम् आपश्रौ ९, २०, १०; १३, २४, १७××; वौश्रौ; या १४, ८; -मस्य अप ५०, ९, ३; -माः अप ७०^l, २०, ३; -मात् या १४, ८; -मे आपश्रौ ५, १०, ११; माश्रौ; -मेन वाधुश्रौ २, १० : १०; ^mआश्रु ४, ४, ७; ८; या १२, २६.
 धौमीय- वा ४, २, ८०.
 धूम-कञ्चुर-माञ्जिष्ठ-रक्त-पीता (त-अ)सिता(त-आ)कृति- -तिः अप ६३, २, ५.
 धूम-केतुⁿ- पाळट्ट १, ७४; -तवः अप ५२, ३, ३; शुअ ३, १६१^o; -तुः कौसू १२७, १^p; अप ५२, १२, १^q; या ६, ४^r; -तुम् शंघ ११६ : ६०^s; -^tन्तो द्राश्रौ १, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २; -तोः अप ५२, ६, १^u; -तौ कौसू ९३, ३४^v.

धूम-गन्ध^w- -न्धाः^x वौश्रौप्र १७ १६.
 धूम-तस्(ः) आश्रु ४, ८, ४२.
 धूम-धूम्रा(म-अ)रुण- -णेन अप ५८^y, २, ५.
 धूम-प्रवर्तन- -नम् अप ६४, ३, ९.
 धूम-प्रास- -सम् काश्रौ २२, ६, १६.
 धूम-मत्- पा ८, २, ९.
 धूमरजउदकप्राहुर्भाविगमन- -नेषु अप ७२, ३, ९.
 धूम-राजी-निभ- -भेन अप ५८^z, ३, १०.
 धूम-लक्ष्मणि- -णयः वौश्रौप्र ४१ : ९.
 धूम-वर्ण- -र्णः अप ५३, ५, २.
 धूम-व्याकुल-रक्षि^{aa}- -इमयः अप ५२, ३, ३.
 धूम-हृत्विस्- -विः अप २३, १२, २.
 धूमा(म-अ)गिन-रजस्- -जांसि शंघ १६९.
 धूमा(म-अ)न्धका(र>)रा^{ab}- -राः अप ६४, ३, ७.
 √धूमाय>धूमायत्- -यत् भाश्रौ ८, २१, ५^c.
 धू(म>)मा-व(त>)ती- पा ६, ३, १२०.
 धूमा(म-आ)शिन्^d- -शिनः वैध १, ८, १.
 √धूमि, धूमयेयुः अप ७१, १९, ५.
 धूम्या- पा ४, २, ४९.
 धूम्र,त्रा^e- -त्रः काश्रौ १९, ३, २; -त्रम् आपश्रौ १९, २, १^f;

a) सपा. धूपायत् <> धूमायत् इति पाठे. । b) व्यत्याम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिश्रौ.) । c) नाप. । वैप १, १७३० & द्र. । d) मलो. कस. । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम. । g) अर्थः ? । h) धूम्रः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. गी ८, २५; C. च.) । i) वप्रा. । j) = उरपात-विशेष- । k) = प्रह-विशेष- । l) = एकादशरुद्राऽन्यतम- । m) = ऋषि-विशेष- । वस. । n) बहु. <धौमगन्ध- & o) = धूमकेतु-विशेष- । p) विप. । वस. । q) = वानप्रस्थ-विशेष- । उस. ।

वौश्रौः-त्रा अप २१, ६, २;
-त्राः आपश्रौ २०, १४, ६;
वाश्रौ ३, ४, ३, २१; -त्रान्
आपश्रौ २०, १४, १३^३; हिश्रौ
१४, ३, १८^३.
धूत्र-जानु-फि ७२.
त्रधूत्र-रोहित^४- -तः आपश्रौ
२०, १४, १; वौश्रौ.
धूत्रा(त्र-अ)नूकाश^५- -शान्
आपश्रौ २०, १४, १३^६.
धूत्रा(त्र-आमा^७)म- -मः अप
५०, ६, ३.

२धूम-(^८) धौमक-पा.) पाग ४, २,
१२७.

३धूम^९- पाग ४, १, १०५; ११०.

धौमायन- पा ४, १, ११०.

धौम्य- पा ४, १, १०५; -म्यत्य
भाट २, ६ : १५; -म्याः वौश्रौप्र
४१ : २.

धौम्या(म्य-आ)मिषेण्य-मावर-
-राणाम् हिश्रौ २१, ३, १३.

धूम-शिखा^{१०}- -खा वाघ १६, १६.

२धूम^{११}- पाग ४, १, ११०; -त्राः^{१२}
वौश्रौप्र ४१ : २.

धौत्रायण- पा ४, १, ११०.

धूत्रायण- णाः वौश्रौप्र ४१ : २.

√धूर् पाषा. दिवा. आत्म. हिंसागत्योः.

धूर्-अभिमर्शन- प्रन्. धुर- द्र.

धूर्जटि^{१३}- पाग ६, ३, १०८.

धूर्-पति- प्रन्. धुर- द्र.

√धू (<धु)र् पाषा. भ्वा. पर.
हिंसायाम्, त्रधूर्वति वौश्रौ १, ४:

२८; ५ : ९; अप ४८, १९; निघ
२, १९; धूर्वानः त्रधूर्वौ १, ४ :
२९; ५ : १०; त्रधूर्व वौश्रौ १,
४ : २८^१; ५ : ९^२; माश्रौ १,
१९, ४; विघ ६५, १०.

तुधूर्वति शाश्रौ १२, २०, २१.

धूर्त^{१४}- पाठ ३, ८६; पा २, १, ६५;
पाग २, १, ४०; ४, १, १०५^{१५}; ५,
१, १२४; १३३; ४, ३८; -त^{१६}
आपश्रौ ६, ११, ३; माश्रौ ६,
१३, २; माश्रौ १, ६, १, ४१;
हिश्रौ ३, ७, ८६; -तः अप
२०, ३, २; -तम् अप २०, २,
१-७; ५, ३; ७, ९^{१७}; -तय अप
२०, ४, २^{१८}.

धौर्त-पा ५, ४, ३८.

धौर्तक- पा ५, १, १३३.

धौर्त्य- पा ४, १, १०५; ५,
१, १२४.

धूर्त-कल्प^{१९}- -ल्पम् अप २०,
१, १.

त्रधूर्ति^{२०}- -तिः काश्रौ १०, ९, ८;
आपश्रौ; -ते वाश्रौ १, ५, २,
४०^{२१}.

त्रधूर्वत्- -वतः वैताश्रौ ६, १;

-वन्तम् वौश्रौ १, ४ : २८;
५ : ९; माश्रौ १, १९, ४.

धूलि- पाठमो २, १, २३३.

धूली^{२२}(^{२३})ली^{२४} पाग १, ४,
६१.

√धूश्, धूप, धूस् पाषा. डुरा. पर.
कान्तिकरणे.

धूसर- पाठ ३, ७३.

धूसी^{२५}(ली^{२६} पा.) पाग १, ४,
६१.

√धृ^{२७} पाषा. भ्वा. आत्म. अवधत्तने,
उभ. धारणे; तुदा. आत्म.
व्यत्याने, धरध्वम् आण
४, ८, २७; २८^{२८}; धरेत् अप
१, ७, ३; नाशि १, ६, १३.
ध्रियते आपश्रौ ६, २, १२;
वाधृश्रौ ४, १०१ : १०; या ४,
७; ध्रियन्ते वैश्रौ १६, १७ : ५;
वैशि २५४; ध्रियाते^{२९} वाधृश्रौ
३, ७१ : ७; त्रध्रियस्व वैताश्रौ
१०, ९; कौत् ६१, ४१; ध्रियेत
वाधृश्रौ ३, ९१ : ६.

त्रधृघार वौश्रौ ६, २४ : ३५;
८, १४ : १३; हिपि १८ : १८;
त्रधृघार आश्रौ ४, १२, २;
आपश्रौ; या १०, २२८^{३०}; २३८^{३१};
वध्रिरे वौश्रौ १८, २९ : २०;
त्रधृघर्षे नाशि ५४; ११८;
१२०.

धारयते माश्रौ २, १३, ५; वैश्रौ;
या ३, १६; १०, ८; धारयति
काश्रौ २, ६, २५××; आपश्रौ;
या ७, २३××; धारयतः आपश्रौ
२०, ३, १८; वैश्रौ १४, ६ : ८;
धारयन्ति काश्रौ ८, ६, ३३;
आपश्रौ; धारयति या ११, २७;
त्रधारयामसि आश्रौ ५, १९, ५;
शाश्रौ ३, ८, २७; वौश्रौ; धार-
यत् या ६, ३४; त्रधारयन् वौश्रौ

a) सङ्घ्न धूत्रान् वध्वनूकाशान् इत्यस्य स्थाने सप्र. ना २४, १८ वध्वनः धूत्रनीकाशाः इति पामे. ।

b) वैप १ १७३१ c, f द्र. । c) वैप १, १७३१ C द्र. । d) वध्वन् धूत्रानूकाशान् इत्यस्य स्थाने सपा.
ना २४, १८ धूत्राः वध्वनीकाशाः इति पामे. । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । f) अर्थः व्यु. च १ = वेत्तन-द्रव्य-
इति Böh. BW. MW. । g) बहु. < धौत्रि- । h) व्यप. (तु. पागम.) । i) विप., नाप. (वद- [तु. धूर्ति-]) ।
j) पामे. वैप १, १७३१ m द्र. । k) = प्रन्ध-विशेष- । l) वैप १ द्र. । m) अर्थः व्यु. च ? । n) ना
३, ९; २० पा १, ४, ३५; ७, २, ७५ परानुष्टः द्र. । o) कर्तारि लेटि प्रपु १ ।

१३, २१ : ९; या ८, २; धार-
याच्चै वीश्री १५, ४ : ५; ऋधार-
यतु^० मातृ १, २१, ३^०; जैतृ १,
११ : १२^०; धारयन्ताम् शांश्री
८, १०, १^०; ऋधारयन्तु आमिष्ट
३, ८, २ : ३०; वीषि १, १५ :
३८; कौसू ५५, १७; धारयस्व
सु १४, ३; ऋधारय, या आश्री
४, १२, २; काश्री; या १०,
४०; ऋधारयतम् आपश्री ४, ६,
५^३; भाश्री ४, ९, ३^३; हिश्री ६,
२, १६^३; ऋधारयत वीश्री २९,
६ : २२^३; २३^३; वीश्री ४,
१, ८^३; ऋधारयाणि कौसू ९०,
९; १०; ऋधारयाम् > मा
आपश्री ५, १७, ४; हिश्री ३,
४, ४८; शुभ्रा ३, १०७; ऋअधा-
रयत् वीश्री १०, ३२ : ७××;
-माश्री; अधारयन्त या ५, १४;
-ऋधारयन् आपश्री १, ६, ७;
३, १३, ६; भाश्री; अधारयम्
सु १५, ४; धारयत वीश्री ९,
१९ : ४२^३; भाश्री; आपध २,
१२, ९^०; धारयेत्^० कागृ १,
२०; धारयेत् आपश्री २४, १४,
९^०; वैश्री; हिध २, ४, ४५^०;
धारयेताम् वागृ ९, ११^०;
धारयेन् कौसू १४०, ८; अप
१९, १, ७; धारयेयुः काश्री २५,
१४, २७; भाश्री
धारयिष्यति माश्री १, ३, ५,

१३^०; वाश्री १, ३, ७, १४^०;
अप २०, ७, ६; २२, १०, २;
धारयिष्यन्ति विध १, ४७;
६४; १००, १; ऋदीधरत्
आपश्री १४, २७, ७; हिश्री १५,
७, ८; कौसू ३, २; ऋदीधरत्
आश्री ८, १३, २; आपश्री;
दिष्टत > ता ऋषा ७, ३३.

धार्यते काश्रीसं ३२ : १५^०;
भाश्री; धार्यते हिश्री १, ४, ४२;
३, ६, २८; धार्यन्ते आपश्री ६,
२८, ८; २४, १, २८; भाश्री;
धार्येन् मीसू ११, ३, ३३.
दिधारयिषेत् वाधूश्री ३, १०४ :
२; गोश्री ३, ५, ३०.
दर्धति, दाधति, दधति पा ७,
४, ६५.

धर, रा^० -रः अप ४३, ५, १^०; -रा
अप ६४, २, ६; विध १, ६५;
-राम् शंघ ११६ : ६५; -०रे
विध १, ३१; ४७; ६३; ५, १९३.
धरा-तल- -लम् अप ५८^३, १,
१०; २, ८; ३, ३.

धरा(रा-अ)धिप- -पान् शंघ
११६ : २८.

धरा-शय- -यः वैध ३, ५, ७.

धरा-सुत^० -तस्य अप ५१,
४, १.

ऋधीयस्- -यः हिश्री १, ४, ६^३;
-यान् आपश्री ४, ६, ३; भाश्री
४, ९, १; हिश्री ६, २, १२.

धरण^० -णम् शंघ ११६ : ५२^०;
विध ४, १२^३.

धरणी- ऋणी आपश्री ४, ७,
२; भाश्री ४, १०, ३; वैश्री ५,
७ : १२; हिश्री ६, २, १७; अप
५, २, ५९^०; -णीम् अप १९^३,
४, ५^०; -ण्याम् वैश्री ४, २ : ७^०.
धरणी-जात- -ताः अप ५५,
१, २.

धरणी-तल- -ले अ ५८^३,
३, १.

धरणि- पाठ २, १०२.

धरि(तु >)त्री^० - ऋंञि आपश्री
१४, ३३, २; हिश्री १५, ८,
३५^०; अप्राय ६, १.

धरिमन्- पाठ ४, १४८.

धरिम-मेय- -यानाम् विध ५,
१३.

ऋधीरीमन्^० - पाठना ४, १६१;
-मणि आश्री ८, १, ९; शाश्री
१८, २३, ११.

धरण, णा^० - पाठभो २, २, १९९;
-णः ऋआश्री ४, १२, २; ८, १३,
२; काश्री; वैताश्री २६, १^०;
ऋअ २, ५, १५^३; -ऋणम्
आश्री २, १९, ३२; ८, १३,
२; शाश्री; पाठ २, २, ११;
वागृ ५, ९^०; हिश्री १, ४, ६;
निध १, १२; -ऋणा आपश्री
१६, २३, १; वीश्री; -ऋणे
आपश्री ५, ८, ६; वीश्री; -ऋणु

- a) पामे. वैप १, १११० h द्र. । b) सप्र. ष्यीत <> ष्येत् इति पामे. । c) धारयेत् इति
आदित्यदर्शनः, संस्कृतः टि. च । d) पामे. वैप १, ७२५ m द्र. । e) पाठः? धार्यन्ते इति शोघः (तु.
संस्कृतः टि.) । f) = भूमि- । g) = वसु-विशेष- । h) = मौम-ग्रह- । i) सप्र. धरीयः <> बलीयः इति
पामे. । j) वप्रा. । कर्त्राद्यर्थे ल्युट् प्र. । k) = मरुद्-विशेष- । अपु २१९, ३१ धा^० इति, धरणः इति शंघ. ।
l) = परिमाण-विशेष- । m) = धरा- । n) वैतु. पाठ ४, १७३ < धरित्र- इति । o) ष्री इति पाठः? यनि.
शोघः (तु. आपश्री.) । p) वैप १ द्र. । q) पामे. वैप १, १७३४ f द्र. । r) = ऋवि-विशेष- ।
s) १० इति पाठः? यनि. शोघः [तु. मूको., पाठ. प्रसू. च] ।

या १२,३२.
 धरुणी^२- णी अत्र ३, १२^१.
 धर्णस^२- स्ताय आपश्चौ १७,२,६^१.
 ऋधर्णासि^२- -सिः वौश्रौ १८, १८ :
 १५; आपमं १, १०, ७; अप
 ४८,१०३^१; निघ २,९.
 धर्तुम् सु ३,५.
 ऋधर्तु- -०तः ऋप्रा १, १०१;
 -र्ता आपश्चौ ४, ६,३; ७,१^३;
 वौश्रौ; या १२, ३०^१; -र्तारः
 माय १, २२, ७^०; वायु ५: ७;
 -र्तारम् शंघ ११६: ५२^१;
 -०तारा आश्रौ ४,७, ४; शांश्रौ
 ५,१०,२१; -त्रै आग्निगृ १,२,
 २: २४; हिगृ २,१९,६.
 ऋधर्त्रे- -०त्रि^० आपश्चौ १४,
 ३३, २; अत्राय ६, १; -त्रै
 आश्रौ ४,१२,२; -त्रैभिः वौश्रौ
 २,१०: २; वौगृ.
 ऋधर्त्रे- पाठ ४,१६७^१; -त्रैः वौश्रौ
 १०, ४२: १४^१; -त्रैम् शांश्रौ
 ८,२४,३; काश्रौ; -त्राय आपश्चौ
 २,७, ९^३; १८,५,२०; वौश्रौ.
 २धर्म^२- पाठ १, १४०; पाग २,
 ४, ३१; ४, २, ६०^१; -र्तुमं
 काश्रौ २६,६,९^१; आपश्चौ १५,
 ११,२^१; वौश्रौ ९, ११: १५^१;
 भाश्रौ ११,११,१^१; हिश्रौ २४,
 ४, ११^१; विघ ९८,८८^१; -र्मः
 आश्रौ १०,७,९; शांश्रौ; आपश्चौ

५,६,३^१; वौश्रौ २,१८: ३^१;
 वैश्रौ १, ६: ७^१; हिश्रौ ३,२,
 ५५^१; आपमं २,१५, १०^१;
 कौगृ ३, २, ११^१; शांश्रौ ३,३,
 ७^१; -र्मम् शांश्रौ ७,२५,१७;
 माश्रौ; वैताश्रौ २०,१३^१; वृदे
 ४,३६; ७,१४७; या १४, ६^१;
 -र्मस्य आश्रौ १०,५,१५; पागृ;
 -र्माः काश्रौ ५,८,१७; आपश्चौ;
 -र्माणाम् आश्रौ १२, ८, २;
 शांश्रौ; -र्मात् आपश्च २, १३,
 ११^१; २७, १^०; विघ १, ६५;
 पा ५, ४, १२४; पावा १, १,
 ७२; मीसू १०, ८, ५०; -र्मान्
 वौश्रौ २४, ३७: ३; भाश्रौ;
 -र्तुमाय आमिगृ १,२,२: २४;
 वौगृ; या १२,१३; -र्मं वैगृ १,
 ८: १५; अप; या ८, १०;
 -र्मण शांश्रौ ४,५,१३; काठश्रौ;
 -र्मभ्यः वाध २१, ९; आपश्च;
 -र्मेषु अप ७०^१, ३१, ३; आपश्च;
 -र्मैः वाश्रौ १,२,४,९; द्राश्रौ.
 धार्मिक- पा ४, २, ६०; ४,
 ४१; -कः वौगृ ३; ३, ३१;
 वाध; -कम् वाध ६, ३०;
 आपश्च २, २७, १४; हिघ २,
 ५, २३३; -केण शंघ २६२.
 धार्मिका(क-अ) धिष्ठित-
 -तम् गौध ९,६५.
 धार्मुक^१- -कस्य माश्रौ १,

६,१,५४.
 धर्म-करण- -णेन निसू ६, ५:
 २१; २३.
 धर्म-कर-द- -दाः विघ ३,२७.
 धर्म-कर्तु- -तरौ या १४,३०.
 धर्म-कर्म-व्यभिचार- -रात्
 सुध ३.
 १धर्म-काम- -मः विघ ७१,
 ९०; -मानाम् भाश्रौ ९,१८,४.
 २धर्म-काम- -मौ विघ ५२,१६.
 धर्म-कारक^१- पाग २, २, ९;
 ६,२,१५१.
 धर्म-कार्य- -र्यम् विघ २६,१;
 -र्येषु विघ ३,१७.
 धर्म-कृत्य- -न्यम् आपश्च १,
 २९,१४; हिघ १,७,७१; -त्येषु
 आपश्च १, ७, १८; २, १४, ३;
 वौध.
 ऋधर्म-गोपाय^१- -यम् आपश्च
 १,४,२४^१; हिघ १, १,१४३.
 धर्म-चर्या- -र्यया आपश्च २,
 ११,१०; हिघ २,४,२५.
 धर्म-चारिन्- -रिभिः अप १,
 ४१,८; अशां ११,८.
 धर्मचारिणी- -णीम् वौध
 ४,१,२३.
 धर्म-जिज्ञासा- -सा वाध १, १;
 मीसू १,१,१.
 धर्म-जित-धन- -नस्य जैगृ
 २,९: ३९.

a) वैप १६. b) णसि इति पाठः? यनि. शोधः [तु. निघ.]। c) पाभे. वैप २, ३३. धर्तारः मंत्रा १,६,२८ टि. द्र.। d) अपु २१९,३१ घातारम् इति। e) घृ १३३९ h द्र.। f) पाभे. वैप १,१७३५। द्र.। g) =धर्म-शास्त्र-। h) पाभे. वैप १,१२७२ p द्र.। i) व^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ३८,१४)। j) =सपा. तैत्रा १,२,१,१०। ऋ ३,१७,१ तु धर्मा इति पाभे.। k) धर्मः स्थूणाराजः, षे (कौगृ.) इति पाठस्य स्थाने सप्र. पागृ ३,४,१८ धर्म-स्थूणाराजम् इति पाभे.। l) पाभे. वैप १, १७३५ p द्र.। m) धर्मः इति शिवसं.। n) सपा. धर्माद्धि <> धर्मार्यम् इति पाभे.। o) सपा. धर्माद्धि संबन्धः <> धर्मसंबन्धः इति पाभे.। p) विप.। चरतीत्यर्थे उक्तम् प्र. उसं. (पा ५,१,१०३)। q) तु. पागम.। r) विप. (आचार्य-).। उस.। s) धर्म गोपाय मा इति वा केचन इति भाष्यम्।

धर्म-ज्ञ,ज्ञा- -०ज्ञ अशां ३, १;
-ज्ञः गौध १५, २८; आज्यो
१३, ९; -ज्ञम् अशां १, ६;
-ज्ञाः विध ८, ८; २८, ४८; -ज्ञान्
विध १, १६; -ज्ञानाम् भाश्रौ
९, १८, ४; -ज्ञंज्ञे अशां १, ३;
५, ६.

धर्म-ज्ञ-समय- -यः आपध १,
१, २; हिध १, १, २; सुध २.
धर्म-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञैः शंघ ४६१.
धर्म-तन्त्र-पीडा- -डायाम् गौध
२३, १२; १८, ३६.
धर्म-तन्त्र-सह- -ज्ञे गौध १८,
२६.

धर्म-तन्त्रो(न्त्र-उ) परोधन-
-नात् वौध १, ५, ६६.
धर्म-तस्(ः) वैगृ ५, ८; १२; वाध;
-या ३, ४१.

धर्म-द- -०द विध ९८, ८९.
धर्म-ध्वज- > ०जिन्- -जी
विध ९३, ८.
धर्म-नित्य^a- -त्याः शंघ २५१.
धर्म-नियम- -मः पापवा १;
मीस् १०, ५, १२; -मात् मीस्
२, ४, ७.

धर्म-निष्ठा->धर्मनैष्टिक^b- -कः
आमिगृ २, ६, ५ : २.
धर्म-पति- पाग ४, १, ८४;
-कृत्ये शांश्रौ ९, २६, २; काश्रौ;
-कृतिः आश्रौ ४, ११, ५;
शांश्रौ १६, १८, ५; -तिम् वौश्रौ
१०, ५५ : १६; -तीनाम् वौश्रौ
१०, ५६ : ३१.

धर्मपत- पा ४, १, ८४.
धर्म-पत्नी- -त्नीम् शंघ ३७७ :
२; -त्न्या अप २२, १, ३;
-त्न्याम् शंघ ३७८.
धर्म-पर- -राः आपध २, २६,
१४; हिध २, ५, २०९.
धर्म-परा(र-अ)यण^c- -गे विध
९९, १७.
धर्म-पर्याय-वचन- -नैः विध
१०, १०.

धर्म-पाठक^d- -कः वाध ३, २०;
वौध १, १, ८.
धर्म-पुरस्कार^e- -रः आपध २,
६, ५; हिध २, २, ५.
धर्म-प्रजा(जा-अ)र्थ- -र्थम्
आमिगृ १, ६, १ : ६.

धर्म-प्रजा-संपत्त्य(त्ति-अ)
र्थ^f- -र्थम् वैगृ ३, २ : ७.
धर्म-प्रजा-संपन्न- -न्ने आपध
२, ११, १२; हिध २, ४, २७.
धर्म-प्रतिकर- -राः शंघ २५८.
धर्म-प्रतिषेध- -धे हिश्रौ १६,
१, २३.

धर्म-प्रधान^g- -नान् शंघ ११६:
२०.
धर्म-प्रहा L, ह्रा^h I द^h- -०द
आपध १, ३२, २४¹; हिध १,
८, ६५¹.

धर्म-फल- -लम् अप ७०³, ३२,
४; ५.
धर्म-भाज्- -भाक् वौश्रौ २७,
१४ : १३१.
धर्म-भृत्- -भृताम् वाध २३, ४२.

धर्म-भेद- -दात् आपध २, ४, ७;
हिध २, १, ६०.
धर्म-मात्र^a- -त्रम् काश्रौ ९,
५, १०; आपश्रौ १९, २१, ४;
हिश्रौ १३, ४, २७; २२, ४,
२६; मीस् १०, २; ३७;
-त्राणाम् मीस् १०, २, ६०;
-त्रे मीस् २, १, १; ११, १, २८;
-त्रेषु काश्रौ १, ८, ७.

धर्ममात्र-त्व- -त्वम् मीस् ६,
१, १६; -त्वात् काश्रौ ४, १२,
१५; ८, २, १८; मीस् १०, २,
३५.
२धर्म-मात्र¹-> धर्ममात्रा-
(त्र-अ)र्थ- -र्थम् मीस् १०, २,
२२.

धर्म-मूल- -लम् कौगृ ३, १२,
२४; गौध १, १.
धर्म-युक्त- -क्तः आमिगृ २, ६,
५ : २१; वौगृ; -क्ताः आपध
२, १४, १४; हिध २, ३,
२५; -क्तेषु आपध २, २०, १८;
हिध २, ५, १०४.

धर्म-योनि- -०ने विध १, ५४.
धर्म-राज^m- -०ज वाध २८, १९;
-जम् वौध २, ५, २५¹;
-कृजाय आमिगृ २, ६, ८ : ३३;
अप ४३, ५, ४२.

धर्मराज-वचस्- -चः शंघ
३४८.
धर्मराजा(ज-आ)श्रम- -मम्
अप ९, ४, ३.
धर्म-राजन्- -जानम् शंघ ११६ :

a) विप. । वस. । b) चरतीत्यर्थे ठक् प्र. उप. वृद्धिश्च उत्सं. (पा ७, ३, १०) । c) विप. । वस. >
कस. । d) पूष. = धर्मशास्त्र- । e) विप. । उत्स. । f) दस. > मलो.कस. > चस. वा दस. > चस. (तु. C.) वा ।
g) हिध. पाठः । h) व्यप. । उत्स. । i) तु. भाष्यम् [मैस्.]; वैतु भाष्यम् [हिध.] Biih. च ष्दन इति । j) त्वाय
इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध.) । k) धर्म^o इति संस्कर्तुः शोधः ? । l) नित्यसमासः (पा २, १, ७२) ।
उप. = अवधारण- । m) = यमराज-

१९; विघ ९०, १०; २८.
 धर्म-रुचि^० - -चिः आपघ १, ५,
 ११; हिघ १, २, ११; -चये वौघ
 २, ८, ९^०.
 धर्म-लक्षण- -णानि शंघ ६.
 धर्म-लाभ- -भः काश्रौ ४, ३,
 १९; मीसू ७, ४, १८.
 धर्म-वत् पा ४, २, ४६.
 धर्म-वत् > धर्मिष्ठ- -ष्ठान्
 विघ ३, १७.
 धर्म-वसु-प्रद- -०द विघ ९८,
 ९१.
 धर्म-वाद- -दः वाघ १७, ७१.
 धर्म-विच्छित्ति- -त्तिः सुघप
 ८८ : १.
 धर्म-विद्- -वित् कप्र ३, १, ६;
 ९, ३; वौघ; -विदः वाघ १,
 १६; २८, ७; सुघ १५; -विदा
 वाघ ६, ९.
 धर्म-विद्या- (> धर्मविद्य-
 पा.) पावा ४, २, ६०.
 धर्म-विधान- -नात् मीसू ११,
 ३, ५; -नानि मीसू २, ३, २३.
 धर्म-विनियोग- -यो वाश्रौ १,
 १, १, ६८.
 धर्म-विप्रतिपत्ति- -त्तौ आपघ
 १, ४, १२; हिघ १, १, १३१.
 धर्म-विप्रतिषेध- -धात् मीसू
 ३, ३, ४०; ११, ३, १२; -धे
 वाश्रौ १, १, १, ७०.
 धर्म-विरुद्ध- -द्वौ विघ ७१, ८४.
 धर्म-विशेष- -पः मीसू २, १,
 ३९; -पात् मीसू २, १, ३६;
 १०, ५, ६३.
 धर्म-वृद्धि- -द्धिः गौघ २८, ४.

धर्म-व्यतिक्रम- -मः आपघ २,
 १३, ७; हिघ २, ३, ७; गौघ १,
 ३; -मे वृदे ८, ३.
 धर्म-व्यपेक्षा- -क्षया वौघ
 २, २, ७१.
 धर्म-व्यपे(क्ष>)ज्ञा^० - -क्षासु
 विघ ९९, २२.
 धर्म-व्यवस्था- -स्त्या गौघ ११,
 २४.
 धर्म-शास्त्र- -स्त्रम् अप ४४,
 ४, २; वाघ; -स्त्रस्य विघ ८३,
 ८; -स्त्राणि शंघ ३; गौघ ११,
 २१.
 धर्मशास्त्र-त्व- -त्वात्
 मीसू ६, ७, ६.
 धर्मशास्त्र-रति^० - -रतिः शंघ
 १९९.
 धर्मशास्त्र-रथा(थ-आ)रुड-
 -डाः वौघ १, १, १४.
 धर्मशास्त्र-विद्- -वित् अप
 ४४, २, ४.
 धर्म-शील-वर्णा(र्ण-अ)न्त-
 -न्तात् पा ५, २, १३२.
 धर्म-शेष- -पान् आपघ २,
 २९, १५.
 धर्म-संयुक्त- -क्तम् शंघ ४४३.
 धर्म-संशय- -यात् वौघ २, ९,
 ४.
 धर्म-सत्य-मय- -यः विघ १,
 ५.
 धर्म-संतति- -तित्म् वौघ १,
 ४, २४.
 धर्म-संतान- -नात् या ६, १९.
 धर्म-सं(धा>)घ^० - -धम्
 शंघ ११६ : २९.

धर्म-संनिपात- -तः हिघ १,
 ७, ४६^०.
 धर्म-संनिवाप- -पः आपघ १,
 २८, १०^०.
 धर्म-समाप्ति- -प्तिः आपघ २,
 २९, १३.
 धर्म-संबन्ध- -न्धः हिघ २, ५,
 २२०^०; मीसू ९, १, ३.
 धर्म-साधन- -नम् शंघ ५.
 धर्म-सावर्णा^० - -र्णम् शंघ ११६ :
 ४६.
 धर्म-सू^० - -सुवः वौश्रौ १२,
 ११ : १^०.
 धर्म-स्थान- -नम् शंघ २५६.
 धर्म-स्थूणाराज- -जम् पाठ ३,
 ४, १८^०.
 धर्म-स्य-तनु^० - -न्तौ द्राश्रौ २,
 २, २७; लाश्रौ १, ६, २५.
 धर्म-हानि- -निः आपघ १,
 २०, ४, हिघ १, ६, १८.
 धर्म-हीन- -नः गौघ ४, २५.
 धर्मा(र्म-अ)ङ्ग- -०ङ्गं विघ १,
 ५४; ९८, ९०.
 धर्मा(र्म-अ)तिक्रम- -मे आपघ :
 १, १३, ४; हिघ १, ४, १८.
 धर्मा(र्म-अ)दि- -दिषु पावा
 २, २, ३४.
 धर्मा(र्म-अ)धर्म- -र्मयोः काठ.
 ५४, ६; विघ ६७, १०; -र्म्याम्
 कौसू ७४, ५; -र्मौ वैठ ५, १ :
 २८; ८ : १; आपघ.
 धर्माधर्म-ज्ञ- -०ज्ञं विघ १,
 ५४.
 धर्मा(र्म-अ)नुग्रह- -हात् मीसू
 ८, १, ३६; ४२; २, २३.

a) विप. । वस. ।

b) = देवता-विशेष- ।

c) व्यप. । वस. ।

d) परस्परं पाभे. ।

e) पाभे. पृ १३५४ ० द्र. ।

f) = मनु-विशेष- ।

g) उप. < √स्. [प्रेत्ये] ।

h) पाभे. पृ १३५४ ६.

i) = साम-विशेष- ।

धर्मा(र्म-आ)नुपूर्व्य- -व्यम्
 आपश्रौ २१,३,१०.
 धर्मा(र्म-अ)नुबोधन- नम्
 वैध ३,१३,९.
 धर्मा(र्म-अ)नुवर्तिन्- -तिनौ
 वैगृ ३,१ : ५.
 धर्मा(र्म-अ)नुष्ठान- नम्
 आपघ २, २, ३; हिघ २, १,
 २५.
 धर्मा(र्म-आ)म्नाय- -ययोः
 पावा ४,३,१२०.
 धर्मा(र्म-अ)र्जित-धन- नम्
 शंघ ८८; -नस्य आमिष्ट २,
 ५,१ : ५२.
 १धर्मा(र्म-अ)र्थ- -र्थम् आपघ
 २, ६, १; १३,११; विघ; हिघ
 २,३,११७.
 २धर्मा(र्म-अ)र्थ- -र्थम् कौगृ
 ३, ११, ६६; -र्थे गौघ १७,
 ३५.
 ३धर्मा(र्म-अ)र्थ- पाग २, २,
 ३१^१; -र्याभ्याम् वाध १७,१७;
 -र्थौ वौध १,२,४९; विघ २२,
 ८.
 धर्मार्थ-कुशल- -लम् आपघ
 २, १०, १४; हिघ २, ४, १४;
 -लान् हिघ २,५,१९९.
 धर्मार्थ-युक्त- -क्तैः आपघ
 १,४,२३; हिघ १,१,१४२.
 धर्मार्थ-विषय- -येषु शंघ
 २५१.
 धर्मार्थ-संनिपात- -ते आपघ
 १,२४,२३; हिघ १,६,७१.

धर्मार्थ-हारक- -कान् विघ
 ५,१९२.
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-कर्मन्- -र्मणाम्
 आज्यो १४,७.
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-काम- -मेभ्यः
 गौघ ९,४८.
 धर्मार्थकाम-युक्त- -क्तानि
 आज्यो १४,६.
 धर्मार्थकाम-संयुक्त- -क्तम्
 अप ५,१,१.
 धर्मा(र्म-अ)विप्रतिषिद्ध- -द्धान्
 आपघ २,२०,२२; हिघ २,५,
 १०७.
 धर्मा(र्म-आ)वेश- -शाः हिश्रौ
 ३, ८,४३; ४७^{१६}.
 धर्मा(र्म-आ)हत- -तेन आपघ
 २,१६,२५; हिघ २,५,२४.
 ✓धर्मि, धर्मयेयुः वाध १५,
 १५.
 धर्मयत्- -यन्तः वाध १५,
 १६.
 धर्मिक- (> धार्मिक्य- पा.)
 पाग ५,१,१२८.
 धर्मिन्- पाग ४, २, ३८; -मि
 निस् ८, १० : ३२; -मिणः
 हिश्रौ ६,६,१७^१; जैश्रौका ६९;
 ७२; पागृ २, ११, १२^१;
 -मिणाम् गौघ २८,५४; -मिणि
 निस् ८, १० : ३२; -मीं निस्
 १०,७ : २३.
 धर्मिणी^१-(> धार्मि-
 णेय- पा.) पाग ४,१,१२३.
 धार्मिण- पा ४,२,३८.

धर्मि-स्थान- -नम् निस् ७,
 १३ : ६; १४^२.
 धर्म(र्म-ई)प्सु- -प्सुः वौध १,
 ५,४७; -प्सोः शंघ ४१४.
 धर्मो(र्म-उ)क्त- -टे विघ २९,
 १९.
 धर्मो(र्म-उ)त्तर^१- -रः गौघ ९,
 ४९.
 धर्मो(र्म-उ)त्सादना(न-आ)दि-
 -दि आपश्रौ १२,४,१०.
 धर्मो(र्म-उ)दय- -यः शंघ ६.
 धर्मो(र्म-उ)पदेश- -शात् आपघ
 १, ३२, १२; हिघ १, ८, ५४;
 मीस् ३,३,४.
 धर्मोपदेश-कारिन्- -रिणः
 विघ ५,२४.
 धर्मो(र्म-उ)पदेशन- -ने पावा ६,
 १,८३.
 धर्मो(र्म-उ)पनत- -तस्य आपघ
 १,१८,१४; हिघ १,५,८३.
 २धर्म्य, म्या- पा ४, ४, ९१;
 ९२; -र्म्यः हिघ १, ४, ८१^१;
 -र्म्यम् वैध २, ९, १; हिघ १,
 २, ७८^१; २,५,२०^४;^m पा ४,
 ४, ४७; -र्म्या गौघ १२, २६;
 -र्म्याः विघ २४, २७; गौघ ४,
 १४; -र्म्ये पा ६,२,६५; -र्म्येषु
 गौघ ५, २०.
 धार्म्य^१- -र्म्यः आपघ १,
 १५, २२^१; -र्म्यम् वाधश्रौ ३,
 ७५ : ८; १०; वौगृ ३,३,३३.
 आपघ १, ७, २१^१; २९, ८; २,
 २६,९^m; हिघ १, ७, ६५.

a) चस. । b) पाभे. पृ १३५४ ङ द. । c) षस. उप. = तत्त्वं वा प्रयोजन- वा । d) न
 धर्मार्थं जुगुप्सेत इत्यस्य स्थाने सप्र. शांगृ ४, १२, ८ अधर्माच्च जुगुप्सेत इति पाभे. । e) द्वस. । f) [पक्षे]
 भागडा. । g) 'वेषः इति पाठः ? यनि. शोधः । h) सपा. धर्मिणः < > धर्मणस्पते < > धर्मणा इति
 पाभे. । i) व्यप. । j) विप. । वस. । k) सप्र. धा < > धा इति पाभे. । l) सपा. धा < > धा
 इति पाभे. । m) सपा. धा < > धा इति पाभे. । n) = २धर्म्य- । भण् प्र. वा धर्म- + स्वार्थे ष्यञ् प्र. वा ।

घर्मन्^२— पाग ४, २, ३८; —
 आपश्रौ १, २३, ११; बौश्रौ;
 —^१नैजः आश्रौ ६, १२, १२;
 शाश्रौ ८, १०, १; आपश्रौ ६,
 १९, १; १२, १८, २; बौश्रौ
 ८, १८ : ६; नाश्रौ १, ६,
 २, १४; २, ५, ४, १३;
 हिश्रौ ९, ४, ५८; वैताश्रौ २३,
 १५; —^१नैजः^३ आपश्रौ १३,
 १८, २; बौश्रौ ८, १८ : ६; हिश्रौ
 २, ४, ५८; —^१नैजा आश्रौ ४,
 ११, ६^२; ६, १२, १२^३; शाश्रौ
 ८, १०, १^३; बौश्रौ; नाश्रौ २, ५,
 ४, १३^३; जैश्रौ ६ : ७; वैताश्रौ
 २३, १५^३; आपनं २, ३, १२^३;
 कौश्र २, २, ११^३; शांश्र २, ३, १^३;
 आमिश्र ३, ६, १ : ७^३; ८, २ : ५२;
 बौषि २, ८ : ६; १५ : ५८;
 हिश्र १, ५, १०^३; जैश्र १, १२ :
 २९; —^१नैजि आश्रौ ५, १८,
 २; शाश्रौ; या ११, १२; —^१नैजे
 बौश्रौ ८, १२ : २६; वैश्रौ १६,
 १४ : ६; वैताश्रौ २०, १३; या
 ७, २५^३; —^१नैर्ना क्रमा ८, ५०^३;
 —^१नैर्नाणम् हिश्रौ १२, ६, ६; या
 ९, २५^३; —^१नैर्नाणि आपश्रौ
 ३२, १९, ५; या १२, ४१^३.

घर्मन्-विधर्मन्^३— नैजो लाश्रौ ७,
 ७, १९.
 घर्षे^१— नैः शाश्रौ ८, २४, ३१.
 घार(क>)का^१— पावाग ७, ३, ४५.
 घार(रक>)रिका^१— का जैश्र १,

२१ : २५.
 घारण^१— -जः कौश्र २, ५, २९;
 —जन् काश्रौ ३, ३, १; १६, ५,
 ८; बौश्रौ; क्रमा १४, १८^३;
 —गात् रूप ३५, २, १०; वैश्र ३,
 ७, १३; कृमा ४, १४४; —गाय
 वृदे ७, १०१; या ७, २५; —जे
 गौश्र १२, ४; नीश्र ९, ४, २७.
 घारणी— -णी रूप ३१, ३, ३.
 घारण-क्रिया— -या पावा १, ४,
 २३.
 घारणा(रा-ञ)र्थे— -र्थम् नीश्र
 १०, १, ४७.
 घारणार्थे-त्व— -त्वात् नीश्र
 १२, १, १९.
 घारणीय— -यन् विध १००,
 ३.
 घारणो (रा-उ) पस्थान— -न्
 काश्रौ ४, ९, २०.
 घारणा— -गा शेष ३७२^३; बौश्र १,
 ५, १९; विध ६४, ४१; नाशि
 १६, ६^३; —जान् कौश्र २, ५, १;
 शांश्र ४, ९, ३; रूप ४३, २, ५०^३;
 —गाथै^३ आश्र ३, ५, ४; वैश्र २,
 १२ : ९.
 घारणा-विशेष— -वात् नीश्र ३,
 ३, २८^३.
 घारय— पा ३, १, १३८.
 घारयत्— पा ३, २, १३०; —यतः
 विध १०, ९; —यन् आश्रौ १, १,
 २३××; शाश्रौ; —यन्तः आश्रौ
 ४, २, ५^३; शाश्रौ; —यन्तम्

आश्रौ २६, ३, ५; कौश्र २०, १६;
 १३७, ३०^३.
 घारयद्-त्व— -वज्जय बौश्रौ १३,
 २१ : २.
 घारयद्वती^१— -त्या नाश्रौ
 ५, १, ८, ९; १०; १४; —त्याम्
 नाश्रौ ५, १, ८, १८.
 घारयद्वतीय— -यन् आश्रौ
 १२, २०, ५; हिश्रौ २२, ३, २२^३.
 घारयति— > ति-कर्त्तृ— -नैजः या
 २, २.
 घारयमान, जा— -जः आश्रौ १,
 १३, ८; २, ४, २××; बौश्रौ;
 —जन् वैश्रौ ६, १२ : ५; —जान्
 आश्रौ १२, ५, ३; हिश्रौ ४,
 ४, ६.
 घारयितुम् वाश्रौ ३, १०४ : २.
 घारयित्— -त्वा या १२, ३०; —वात्
 या ८, ७; —वारम् या २, २५.
 घारयित्वा आमिश्र १, २, २ : ३;
 २, ३, २ : २३; ८ : २८; काश्र
 घारयिष्यु— -ष्यु माश्र २, ११, ६.
 घारि(न>)णी— -णी शेष ४२.
 घारित, वा— -तः बौश्रौ २२, १२ :
 ७; —ता नाशि १६, २; —ताः
 कृ ३, ७, १३.
 घार्द— -नैः वैश्रौ १, २० : १४;
 आमिश्र; —यन् माश्र १, १ : ९;
 वैश्र ४, १ : २०; ६, १६ : ११;
 कृ १, १, ३; —यानि नाशि
 २, ७, ८; —यौ नाशि १, १९;
 नाशि १, ६, ३.

a) वैप १ निर्दिष्टयोः सनावेशः द्र. । b) पामे. घृ १३५७ h द्र. । c) पाठः! घर्मन्-
 इति शेषः (तु. टि. ?नहा) । d) पामे. वैप २, ३६. कर्मणा नंश १, ६, १५ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १७३६ q
 द्र. । f) वैप १, १७३७ k द्र. । g) < घर्मन्- इति पाठ. (२. ४, ३१) । h) सानविशेषयोः द्र. ।
 i) यत् प्र. (पा ३, १, ९७) । j) तु. पागन. । k) नाप. । l) नावे कर्त्तरि च ह्य् । m) = क्लृप्त-
 त्त्वि- वा द्विचन-वा । n) = देवता-विशेष- । o) प्यार्थवि इति जीसं. । p) पामे. वैप १, १७३३ d द्र. ।
 q) = कृन्-विशेष- । r) कल्पधारयद्वतीम् इति पाठः ? यनि. शेषः (तु. आश्रौ.) ।

धार्यमाण,णा- णम् आपश्रौ ९,
१३, ८××; वैश्रौ; विध ९६,
५५^०; -णाः आपश्रौ १२, ६, ३;
-णाय शांश्रौ ३, १३, १७; -णे
आपश्रौ ७, ६, २; १७, २५, १;
भाश्रौ.

धृत, ता- ण्तः आपश्रौ ३, ११,
२^०××; वौश्रौ १, २१ : १८^०;
हिश्रौ २, ६, २^०; आश्रिण् १, ६,
३ : ५६^०; २, ७, २ : २४^०;
वौश्र २, ६, २९^०; तैप्रा १८,
३९^०; भाशि १८; -तम् कप्र १,
१, ३; शंघ ११६ : ५२^०; विध;
-तस्य हिश्रौ १३, ५, १४; -ण्ता
वौश्रौ ६, १२ : ८; वाधूश्रौ; -ताः
वैश्रौ २१, ९ : ८; वीध ४, १,
२९; या १०, ४४^३; -तान् वैध
२, ११, ६; -तानि वेज्यो २४;
-तायाम् वैश्रौ ११, ५ : ५;
-तेन वैश्रौ १८, १८ : १३; -तैः
कप्र १, २, ४.

धृत-ऋतु^० -> भारतकृतव- वः
वाधूश्रौ ४, १०८ : ३.

धृत-तीक्ष्णा (क्षण-अ)र्क-
किरण^० -णे अप ६३, १, ८.

धृत-दृषट्^० -ण्डाः वाध १९,
४५.

धृत-राजन्^० -> धार्तराज्ञ- पा
६, ४, १३५.

धार्तराज्ञी^० - (> ञ्क-
पा.) पाग ४, २, १२७.

धृत-राष्ट्र- ण्ण्ट् आपमं २,

१७, १०^१; -ष्टः^१ वौश्रौ १७,
१८ : १; आपमं २, १७, ९,
वौश्र ३, १०, ६; अत्र ८, १०
(५)^१.

धार्तराष्ट्र^१ - ष्टे कौसू २०,
६^१.

धार्तराष्ट्री- (> ष्टक-)
धार्तराज्ञी- टि. द्र.

धृत-व(त>)ती- तीम्^३ तैप्रा
२३, २४^३; कौशि ६७; -त्यः^१
निसू ८, ४ : ११.

धृत-व्रत^० -तः आपश्रौ ५,
१९, २; १०, ३०, १५××; वौश्रौ;
-०ताः ऋत्र २, २, २९; वृदे ४,
८४; शैशि १८५; -ताय शांश्रौ
१४, ५२, ५; १३; -ते तैप्रा ४,
११; -तौ गौध ८, १९.

धृता(त-अ)चिस्- -चिपम्
विध १, ५९.

धृतो(त-ऊ)ध्वं-पुण्ड- ण्डः
काश्रु ४६ : १६.

धृति^० -तयः अत्र २, १०; -तिः
आश्रौ ८, १३, १^१; ण्ण्आपश्रौ
२०, ५, १९; २१, १२, ७;
वौश्रौ; कप्र १, १, १२; विध
१, १९××; ऋत्र २, १, १३३;
-तिम् माश्रौ ६, १, ७, १८;
वाधूश्रौ; -तिषु काश्रौ २०, २,
८; आपश्रौ २०, ६, १४; हिश्रौ
१४, २, १७; -ण्ती आपश्रौ ४,
६, ५; माश्रौ ४, ९, ३; हिश्रौ
६, २, १६; -तीः काश्रौ २०,

३, ४; आपश्रौ २०, ५, १९;
वौश्रौ.

धृति-द्वय- ण्यम् ऋत्र ४, ८.

धृति-मत्- -मान् कौश्र ३, १२,
२९.

धृति-स्वर- -रात् निसू ९,
६ : २८.

धृति-होम- -मे कप्र ३, ६, ५.

धृत्य(ति-अ)ष्टि-शकरी-जगती-
-त्यः पिं ४ ५.

धृत्वन्- पाठ ४, ११४.

धृत्वा काश्रौ १६, २, २९; आश्रिण्.

धृयत्- -यति कप्र २, ७, २.

धृयमाण,णा- णम् आश्रौ २, २,
१; -णान् माश्रौ २, ५, २, ९;
-णायाम् पाश्रु २, १४, ११; -णे
आश्रौ ३, १२, २१; काश्रौ; -णेषु
वौश्रौ २७, ६ : २२.

√धृञ्, ञ्ञ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

धृष्ट^० - ऋः अप ४८, ११५^१.

√धृप् पाधा. स्वा. पर. प्रागल्भ्ये; चुरा.

उभ. प्रसहने, ण्ण्धर्ष > ण्ण्
आपश्रौ ७, १३, ८; वौश्रौ;
४, ५ : १८; माश्रौ ७, १०, ८;
वाश्रौ १, ६, ४, १५; वैश्रौ १०,
१० : ११; हिश्रौ ४, ३, १९;
शुप्रा ३, १२९; तैप्रा ३, ८.
धृष्णोति निसू २, २ : ५.

दधृप्- णां, पावा ३, २, ५९.

ण्ण्दाधृपि^० -पिः शांश्रौ १२, २०,
२; ऋप्रा ९, ३८; -पिम् आश्रौ
३, ८, १.

a) धैर्यं इति पाठः ? यति. शोधः [तु. जीसं.] । b) पामे. वैप १, ११५६ i द्र. । c) = [प्रणवस्य] -
प्रचयाख्यस्वर- । d) = वायु-विशेष- । अपु २१९, ३० ऋतम् इति । e) व्यप. । वस. । f) विप. । वस. >
कस. > पस. । g) विप. । वस. । h) = नगरी-विशेष- । तैप्राण्डी- इति [पक्षे] पागम. । i) = सर्प-विशेष- ।
j) विप. (सत्र-) । तस्येदमीयः अण् प्र. । k) = वृत्ति-विशेष- । l) = ऋच्- । m) वैप १ द्र. । n) माप.,
नाप. (छन्दो-विशेष- । ऋत्र. अत्र. प्रष्ट.], होम-विशेष- [काश्रौ. आपश्रौ. प्रष्ट.], षोडशमातृकाऽन्यतमा- [कप्र.] ।
o) अर्थः व्यु. च ? । p) पामे. वैप १, १७३८ k द्र. ।

धर्षित- पा १, २, १९.
 धर्षितवत्- पा १, २, १९; -वान्
 तु २७, १.
 धृष्टवत्^१- -वत् आश्रौ ६, ४, १०;
 ८, १२, ६; वैताश्रौ १६, १४;
 -वत्ता आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ
 १४, ४९, ३; माश्रौ ५, १, २, १७.
 धृष्ट-वर्ण^२- -र्णम् वौश्रौ ३, ९;
 ९; वौश्र १, ४, ११.
 धृष्टपाण^३- -णम् शाश्रौ १८, ३, २०.
 धृष्टित- -तम् शाश्रौ १८, ३, २०.
 धृष्ट- पाठ १, २३.
 धृष्ट- पा ७, २, १९; -ष्टम् द्राश्रौ ५,
 २, ७; लाश्रौ २, ६, ३; निस् १,
 ११ : १५.
 धृष्टि, ष्टी^४- -ष्टिः शाश्रौ ८, २४, ३;
 काश्रौ २, ४, २५; आपश्रौ १,
 १२, १×४; वौश्रौ; -ष्टिभ्याम्
 काश्रौ २६, ३, ९; -ष्टिम् आपश्रौ
 १, ६, ११; वौश्रौ; -ष्टी काश्रौ
 २६, २, १६; ७, २८; आपश्रौ;
 -ष्टीभ्याम् वौश्रौ ९, ६-७ : १३;
 १४ : १५; -ष्टेः वौश्रौ २०, ८ :
 १; १२; २६, ५ : ९; -ष्टया वौश्रौ
 २, ३ : ६.
 धृष्टि-धवित्र- -त्राणि वाधूश्रौ
 ३, १०० : ६.
 धृष्णञ्- पावा ३, २, १७२.
 धृष्णु^५- पा ३, २, १४०ऽ; -ष्णवः
 या १२, ७; -ष्णवे तैप्रा ४,
 ५४; -ष्णु वाग ५, ९; -ष्णुः
 आम्रिगृ ३, ५, ७ : २५; वौपि
 १, ७ : २; -ष्णुम् अप २ : २१;

-ष्णु वौश्रौ १५, २४ : ५;
 -०ष्णो या ८, ३.
 धृष्टणुया^६ आपश्रौ १७, ८, ७;
 वैश्रौ १९, ५ : ५२; श्रुप्रा ५, २०.
 धृष् पाधा. क्रया. पर. वयोहानौ.
 धृष्^७ पाधा. भ्वा. पर. पाने, धयते
 वाधूश्रौ ४, ११८ : ६; अप
 ७०^३, ३, १; १२, १; धृष्टवत्ताश्रौ
 ६, ७, २; आपश्रौः आम्रिगृ २, १,
 ४ : १७^६; धयन्ति वौश्रौ २९,
 १० : ११; या ९, २७^३; धृष्टवत्
 आपसं २, १३, २^०; भाग १,
 २५ : १०; हिगृ २, ४, ३;
 धृष्टय आपश्रौ १६, १२, ११;
 १७, २३, १०; वौश्रौ; लघवत्
 कौस् ११३, २^१; धयीत् आपश्रौ
 १५, २०, १५; माश्रौ ११, २१,
 १६; धयेत् लाश्रौ ८, ३, १०;
 आम्रिगृ; धयीस् वौश्रौ २०, २ :
 १६; धयेयुः आपश्रौ ९, १, २३;
 वौश्रौ.
 धय- पा ३, १, १३७.
 धयत्- -यतः^१ आम्रिगृ १, ५,
 ३ : १; हिगृ १, १९, ७; जैगृ
 १, २० : २६; -यति कौस् ९३,
 २०; -यिन् आपश्रौ ८, १३, २;
 आपश्रौ; -यन्तम् वौश्रौ ९,
 ९ : ९; आपसं १, ४, १०^१;
 कागृ २८, ४^१; वौगृ २, १,
 ११^१; भाग १, १४ : ९^१;
 वैष ३, २, १५.
 धयन्ती- -न्तीम् पागृ २,
 ७, १४; वौध २, ३, ३८; गौध

९, २४; -न्याम् कौस् ९३, २.
 धयद्-व(त >)ती^२- -तीऽ
 आपश्रौ १४; १८, ५^१; वौश्रौ
 १४, २५ : १८; हिश्रौ १५, ५, ८.
 धृष्टात्वे वौश्रौ ९, ९ : ११; वौगृ
 २, १, १०; श्रुप्रा ४, ६४^१.
 धातुम् वाधूश्रौ ४, ११८ : ५.
 धृष्टा(त्र >)त्री^३- -त्री अप ७, १,
 १०.
 धधान^४- -ने आश्रौ ३, १०, ३०.
 धार^५- पा ३, २, १५९.
 रधी(त >)ता- -तानाम् वैश्रौ
 २०, ३ : २; अप्राय ४, १; -ताम्
 वौश्रौ २७, १३ : २; वैश्रौ २०,
 ३ : १; -तासु काश्रौसं ३२ :
 ७; ८.
 धीता(ता-श्च)न्या- -न्याम् वैश्रौ
 २०, २ : १६.
 धृष् पाधा. श्रु. उम. दर्शने.
 धृष्टवत्सते वाश्रौ ३, ४, २, ११.
 धृष्टेना^६- पाठ ३, ११९; -ना
 आपश्रौ ११, ३, १४; वौश्रौ;
 या ६, १७^१; -नाः आपश्रौ
 १७, १८, १; वौश्रौ १०, ३३ :
 २५; हिश्रौ ११, ७, ५५; -नायै
 वागृ १३, १; -ने या ६, १७.
 धेनु^७- पाठ ३, ३४; पाग ४, १, ८६;
 १०४^१; -नवः आश्रौ ४, ७, ४;
 ५, १, ११; शाश्रौ; या १४, १५;
 -नवे काश्रौ २६, ६, २४; -नु^१
 जैश्रौ २३ : १०; जैश्रौका ५६;
 द्राश्रौ २, २, २९; लाश्रौ १,
 ६, २७; वैगृ २, २ : ५^१;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १७४० g द्र. । c) पामे. वैप १, १७४० i द्र. । d) या ११,
 ४२ पा २, ४, ७८; ३, १, ४९ पावा १, ३, ९६ परानृष्टः द्र. । e) सपा. धयति <> धयतु इति पामे. । f) पामे.
 वैप २, ३४. धयतः नैना १, १, १२ टि. द्र. । g) = ऋच्- । h) = लप-नात्- । i) = पान- । j) पुं. स्त्री.
 न. च यत्रा. । k) व्यप. । l) = नाम-विशेष- । m) धेनुम् (ऋ १, ११, २०) इत्यस्यान्त्याक्षरलोपः (तु
 पाम ६, १, ९) ।

-नुः ऋश्रौ १,७,७^{३०}; ४,१५,
२××; शाश्रौ; वीश्रौ ३,२९ :
११२^{३०}; जैश्रौ २ : २०^{३०};
जैश्रौका १५^{३०}; आमिष्ट २,६,६ :
२९^{३०}; हिष्ट १, १३, १२^{३०};
जैष्ट १,१९ : ४३^{३०}; ऋगो^{३०} १,
३३; २, १२; कौस् ११४, १;
हिष्ट १,८,३०^{३०}; निघ १,११०;
ऋया १०,१६; ११,२९; ४२^{३०};
-नुम् आश्रौ २,१९, २२^{३०}××;
ऋशाश्रौ ३,१६,४; ६, १०, ३;
८,१८,१^{३०}; २०, १^{३०}; १०, ७,
७; काश्रौ २६,५,२^{३०}; आपश्रौ;
ऋया ६, २९; ११, ४३; -नुम् S
-नुम् गो २, ११^{३०}; -नुषु वीश्रौ
२०, १ : ४१; -नु वीश्रौ १५,
२८ : १७; १८^{३०}; द्राश्रौ २,२,२९;
लाश्रौ १, ६, २७; -नुः काश्रौ
१५, ७, ३३; आपश्रौ; लाश्रौ ३,
६, १^{३०}; -नूनाम् काश्रौसं २९ :
२१; वीश्रौ; -नोः शाश्रौ १५, ३,
७^{३०}; आपश्र १, १७, २४; हिष्ट
१, ५, ५६; -नौ कौस् ९३, २१;
-न्वा काश्रौसं २७ : १३; माश्रौ
१०, १७, ७; हिश्रौ ७, २, ६७^{३०};
-न्वाः काश्रौसं ३६ : ६; -न्वै
वीश्रौ २, ७ : ९.
धेनव- पा ४, १, ८६; १०४.
धेनुक- पा ४, २, ४७.
धेनु-करण- षेन वीश्रौ २५, ३० :

१४.
धेनु-क(>)का^{३०} - ऋका^{३०} आपसं १,
१३, ३; कौष्ट १, १२, ६; शांष्ट १,
१९, १३; हिष्ट १, २५, १^{३०};
-के आश्रौ १२, ६, ३०; शाश्रौ.
धेनु-त्व- -त्वम् अप ९, २, ६.
धेनु-दक्षि(णा >)ण^{३०} - णः काश्रौ
२२, १, ३; -णम् आपश्रौ ५,
२२, ८.
धेनु-भ(व्य >)व्या^{३०} - व्या^{३०} वीश्रौ
१७, ४४ : १३; आपसं.
धेनु-म(त् >)ती - ती आश्रौ ३,
८, १; आपश्रौ.
धेनु-भ(व्य >)व्या^{३०} - पावा ६, ३,
७०.
धेनु-नोम-सं(ख्या >)ख्य^{३०} -
-ख्यानि विघ ९२, ८.
धेनु-वत् मीस् १०, ३, ५९; ६५.
धेनु-वर- -रम् वीश्रौ ४, ११ : २९;
७, ४ : २२.
धेनुवर-प्रदान- -नात् आमिष्ट १,
७, ३ : ३९; २, १ : १०××; वीष्ट.
धेनु-शत- -तम् काश्रौ २२, १०, १;
वीश्रौ; -तस्य काश्रौसं २९ : २०.
धेनु-ष्ट(< स्तर >)री^{३०} - -रीम्
माश्रौ ५, २, १०, २२.
धेनुष्या- पा ४, ४, ८९; पाग ५,
२, ३६.
धेनुष्यित- पा ५, २, ३६.
धेनु-सहस्र- -स्रेषु विघ २०, ४७.

धेन्व(नु-अ)नुडुव-सीर-धान्य-पल्प-
दासमिथुन-महानसा (स-आ)
रोहण-विमित- शयन- -नानि
काश्रौ २२, २, २७.
धेन्व (नु-अ) नडुव-स्त्री-प्रजनन-
संयुक्त^{३०} - -क्ते गौध १३, २९.
धेन्व(नु-अ)नडुह^{३०} - -डुहोः आपश्रौ
५, २२, ५; आपध.
धेन्व(नु-अ)नडुह^{३०} - पा ५, ४, ७७;
-हयोः काश्रौ ७, २, २०; -हौ वाघ
१४, ४५; ४६; गौध १७, २८.
धेन्वा(नु-आ)दि- -दीनि कौस् ६२,
१९; ६४, २६.
धेनुजि- (> धेनुज्य- पा.) पाग ४,
१, १५१.
✓धेप^{३०} पाधा. भ्वा. आत्म. गती.
धेय- ✓घा द्र.
धैर्य- प्रसृ. ✓धी > धीर- द्र.
धैवत^{३०} - -तः माशि १, ८; १२; १४;
२, २; याशि १, ९; नाशि;
-तम् नाशि १, ४, २; ५, ४××;
-तस्य नाशि १, ४, ७; -ते
माशि १, १०; नाशि १, २, १२.
धैवत-त्व- -त्वम् नाशि १, ५, १८.
धैवत-सहित- -तः नाशि १, ४, ५.
धैवत्य- ✓धी > धीवन्- द्र.
धैवर^{३०} - (> शयणि- पा.) पाग ४,
१, १५४.
धौद्यमाणा- ✓दुष् द्र.
✓धोर् पाधा. भ्वा. पर. गतिचातुर्ये.

a) पाभे. वैप १, १७४२ p द्र.। b) सपा. धेनुः हव्या < > धेनुः भव्या < > धेनुभव्या इति पाभे.।
c) = वाच्-। d) पाभे. वैप १, १७४२ o द्र.। e) पाभे. वैप १, १७४२ m द्र.। f) = साम-विशेष-।
पाठः (तु. अग्निस्वामी [लाश्रौ १, ६, २७]) ? णु इति शोषः (तु. जैश्रौ. लाश्रौ.)। g) धेनुः इति पाठः ? यनि. शोषः
(तु. भाष्यम् सप्र. द्राश्रौ ९, २, १ च)। h) वैप १ द्र.। i) पाभे. वैप १, १७४३ j) द्र.। j) लुगा इति पाठः ?
यनि. शोषः (तु. शौ ३, २३, ४ कौष्ट)। k) विप.। वस.। l) = धेनु-भव्या-। m) विप.। पस. > वस.।
n) विप.। द्व. > नृस. (तु. Bāth.; वैतु. भाष्यम् स्त्रीप्रजनन- = कन्याविवाह- इति ?)। o) द्वस. वैकल्पिकः समासान्तः
p) तु. BPG.। q) = संगीतस्वरविशेष-। व्यु. ? < ✓घा इति नाशि १, ५, १८; < धी-वच्- इति अभा.।
प्र. (पा ५, ४, ७७)। r) तु. पागम.।

धौकरीय- वृत्- द्र.
 धौत- प्र. √धात् (शुद्धौ) द्र.
 धौमक- रघूम- द्र.
 धौमतायन^{37b} - (> यनक- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 धौमायन- रघूम- द्र.
 धौमीय- रघूम- द्र.
 धौम्य- रघूम- द्र.
 धौम्रायण- रघूम- द्र.
 धौर्य- धृ- द्र.
 धौर्त- , धौर्तक- √धूर्त् द्र.
 धौर्तय- धौर्तय- टि. द्र.
 धौर्त्य- √धूर्त् द्र.
 धौवकि- धुवक, का- द्र.
 √ध्मा, ध्मात्- √धम् द्र.
 ? ध्मार्यमाणम्^c काश्चौत्तं ३६: १५.
 ध्यामन्- पाठ ४, १५१.
 √ध्वै^d पाषा. भ्वा. पर. चिन्तायाम्,
 ध्यायति आपश्चौ १, १६, ४;
 १x४; वौश्रौ; ध्यायतः वैश्रौ
 १५, २९: ५; ध्यायन्ते शाश्रौ
 १०, २१, १४; ध्यायन्ति
 आपश्चौ ७, २८, ८१; वाश्रौ;
 ध्यायन्तु जैश्र १, १५: २१;
 ध्यायत्व आप १३, ३, ३; ध्याय
 काश्चौ ४, ५, १७१; लघ्यायत्
 वाश्रौ ४, २०: १७; ध्यायेत्
 आश्रौ ५, १८, ३; काश्चौ; वा
 ८, २२१.
 ध्यायीत वैश्रौ १७, ६: ३;
 ध्यायात् आश्रौ २, ३, १९; शाश्रौ
 लघ्यायि वा ६, २२.
 ध्यात-, ध्यातवत्- पा ८, २, ५७.

ध्यात्व- पाठवृ ४, १०५.
 ध्यात्वा आपश्चौ २१, १२, १०;
 नाश्रौ.
 ध्यान- पाग २, १, ४०^e; -न्त्
 वैश्रौ २०, १: ६; ऋय; वा ५,
 १; १२, ३३; -नानि नाश्रौ ५,
 २, ११, २३; -नेन वैश्र १, ११,
 १३.
 ध्यान-गुह्य- -ह्यम् विष १७,
 ११.
 ध्यान-निरत- -तस्य विष १७,
 ६.
 ध्यान-युक्त- -कः कायट ४२:
 २.
 ध्यान-योग- -नेन विष १, ३२;
 वैश्र २, ८, ७.
 ध्यानयोग-रत- -तस्य
 आश्रिण ३, १०, ४: ३५.
 ध्यानयोगिन्- -गी वैश्र ३,
 ५, १२; ७, १३.
 ध्यान-वत्- -वन्तः वा ४, १०.
 ध्यान-शील- -लः शेष २००.
 ध्याना(न-त्र)सि- -सिः वाष
 ३०, ८.
 ध्यायत्- -यन् आश्रौ ५, १४, २४;
 शाश्रौ.
 ध्यायिन्- -यिनः रूप ४०, ५, ३;
 -यिनाम् वाष २६, १२.
 ध्येय- -यम् वैश्र १, १०, ९.
 √ध्र (गतौ), ध्रति निष २, १४१.
 √ध्रज् , ध्राज्^f पाषा. भ्वा. पर.
 गतौ, ध्रजति निष २, १४१.
 ध्रजि- पाग ८, २, ९; -जिन्

हिश्रौ ११, ७, ५९; -^gजि-
 आपश्चौ ७, २५, ५; वौश्रौ ४,
 ९: १८.
 ध्रजिन्- पा ८, २, ९.
 ध्राजि- पाठमो २, १, १६६;
 -^hजिः वैश्रौ ४, ६: ८; हिश्रौ
 १, ५, ४१; वा १२, २७४;
 -ⁱजिन् आपश्चौ १६, २७, ९;
 वौश्रौ १०, ३४: ५; वैश्रौ १८,
 १९: १२; कौश्र ३६, २५.
 √ध्रज् पाषा. भ्वा. पर. गतौ.
 √ध्रल्, ध्रम्^j पाषा. भ्वा. पर. हन्ते.
 √ध्रत् पाषा. ऋया. वुदा. पर. उच्छे-
 √ध्रा, ध्राति निष २, १४१.
 ध्राज्ञा- (>^kज्ञा-न्त्- पा.) पाग ८,
 २, ९.
 √ध्राष् पाषा. भ्वा. आत्. जानय्ते-
 √ध्राह्न् पाषा. भ्वा. पर. काह्-
 ज्ञायाम् धौरवाचिते व.
 √ध्राह् पाषा. भ्वा. आत्. विसरते-
 ध्राडि- पाठ ४, ११८.
 ? ध्रापाग्^l चात्र ३: ७१.
 √ध्रि, ध्रयति निष २, १४१.
 ध्रियत्-, ध्रियनाग- √ध्र द्र.
 √ध्रु पाषा. भ्वा. पर. त्पैर्यै; वुदा^m.
 पर. गतित्पैर्यैयो; ध्रुवति निष
 २, १४१.
 ध्रुवना- पाठवृ २, ६१; पाग
 ४, ३, ११८; ५, ४, ३९; -०व
 आपश्चौ १४, २७, ६१;
 वैश्रौ; नाय २, १६४;
 विष १, ५७; -वः काश्रौ,
 ६, ९, ३१; ७, ३, ७; काश्रौ

a) अर्थः व्यु. च?। b) <धौमति- (<धूमत-) इति पागम., <धौमत्- इति M.P., = ?धौमायन-
 इति P.P.। c) पाठः? धार्यमाणम् इति शेषः। तु. उप्र. आपश्चौ १५, १०, १२। d) पावा ३, २, १७८ परानुष्टः द्र.।
 e) तु. पागम.। f) गितिः प्र. उच्छे. (पा ३, १, १३४)। g) वैष १ द्र.। h) लपा. ना ६, १८ वा ६, ४, २
 मै १, २, १७ काठ ३, ७ क २, १४ ध्राज्ये इति पाषे.। i) तु. B.P.G.। j) पाठः? प्राक्, लपाक् इति शेषः-
 (तु. उप्र. मै १, ३, ४)। k) = √ध्रु इति [पक्षे] भाषा. प्र.।

३, २, १९××; ८, ४, १९^{१०};
 आपथ्रौ; माथ्रौ २, २, २, ३३^{१०};
 ३, ८, ४^{१०}; वौपि १, १५:६६^{१०};
 अप्राय ६, ३^{१०}; विध ८, ३८;
 ऋअ २, १०, १०३^{१०}; शुअ २,
 ८७^{१०}; -वम् काथ्रौ २, ४, २६^{१०};
 ९, ६, २१; १०, ७, ६^{१०};
 ऋआपथ्रौ १, २२, २; ११, ८,
 १^{१०}; ५^{१०}; १२, १६, ८^{१०}; वैथ्रौ
 १४, ६:६^{१०}; हिथ्रौ ७, ५,
 १०^{१०}; लाथ्रौ ३, ३, ६^{१०}; सु
 १८, ६; आगृ १, ७, २२^{१०};
 पागृ १, ८, १९^{१०}; ऋमागृ १,
 १४, ९^{१०}; १०^{१०}; कप्र १, ६, ३;
 १०, १२; शंघ ११६:४३^{१०};
 ५२^{१०}; ६३^{१०}; या ११, ७^{१०};
 ऋप्रा ६, ३९^{१०}; पा १, ४,
 २४; ६, २, १०७; -वया
 आपथ्रौ ३, १३, २; वौथ्रौ;
 -वस्य आपथ्रौ १३, १५, १५;
 २२, २७, ६; काठथ्रौ; कौगृ १,
 १०, ११^{१०}; -वा ऋआथ्रौ २,
 ३, २५; ४, १२, २^{१०}; ऋशांथ्रौ
 ४, ८, ३^{१०}; ११, १; ऋकाथ्रौ २,
 ८, १९^{१०}; ३, ३; १२××;
 आपथ्रौ; भाथ्रौ ३, ६, १३^{१०};
 माथ्रौ १, २, ६, ३०^{१०}; आपमं
 १, ८, ९^{१०}; कौगृ १, १०, १३^{१०};
 शांगृ १, १७, ३^{१०}; पागृ १, ८,
 १९^{१०}; वौध ३, १, ५^{१०}; २, ७^{१०};

-वा: आथ्रौ ७, १, ७;
 ऋआपथ्रौ १, २, ९; १४, २७,
 ७^{१०}; वौथ्रौ; -वाणाम् आथ्रौ
 १, १२, ३; वौथ्रौ ७, ७: २०^{१०};
 गोगृ २, १, १२; -वाणि आथ्रौ ४,
 १५, ७; हिथ्रौ; -वात् काथ्रौ ९,
 ५, १५; आपथ्रौ; -ऋवान् आपथ्रौ
 ३, १३, ६; भाथ्रौ; -वाभ्याम्
 कौसू ४३, ११; १३६, ७; -वाम्
 शांथ्रौ ४, ११, १; १४, २०;
 काथ्रौ; -ऋवाय आपथ्रौ १३, १४,
 ११; १४, १, ७; वौथ्रौ; -वाया:
 काथ्रौ १, ८, ३९; ३, ३, ९××;
 आपथ्रौ; -वायाम् आथ्रौ २,
 ६, १०; काथ्रौ; भाथ्रौ १२, ३,
 ७^{१०}; अप ३६, १, १०^{१०}; वौध
 ३, २, ४^{१०}; -वायै वौथ्रौ २०,
 २४:३८; २४, ३३:२१;
 अअ १२, ३^{१०}; -वास: मागृ
 १, १४, १०^{१०}; -वासु वृदे ६,
 १५^{१०}; -वे ऋवौथ्रौ १२, ७:
 २३; ४३××; माथ्रौ; -ऋंवे
 कौसू ८१, ७; अशां २, ५;
 अअ १८, ४; -वेण काथ्रौ
 १०, ७, ६^{१०}; आपथ्रौ; अप ५२,
 १०, ४^{१०}; -वेभि: या १४, २७^{१०};
 -वेषु जैगृ २, ५: २०; -!वो:
 माथ्रौ ४, ६, ४.
 ध्रौव^{१०} -व: शुअ १, ४६^{१०};
 -वम् शांथ्रौ ५, ८, २; काथ्रौ;

-वस्य माथ्रौ १, ३, २, ७××;
 वाथ्रौ १, १, १, ३३; वैताथ्रौ
 १३, ४; -वात् आपथ्रौ १०,
 २१, १२××; मीसू १०, ८, ४७.
 ध्रौवा(व-आ)ज्य-
 -ज्यम् वैथ्रौ १२, २२: १३;
 -ज्येन वौथ्रौ २०, १५: १.
 ध्रौवक- पा ४, ३, ११८.
 ध्रौव्य^{१०} -व्ये शांथ्रौ २,
 १६, १.
 ध्रौव्य-काम- -म: कौसू
 ५९, १३.
 ध्रौव्य-नाति-प्रत्यवसाना-
 (न-अ)र्थ- -थेभ्य: पा ३, ४,
 ७६.
 २ध्रौव्य^{१०} -व्ये अथ ६, ८८.
 ध्रुव-क- पा ५, ४, ३.
 ऋध्रुव-करण^{१०} -णाय वैध २,
 ६, ३.
 ध्रुव-कर्मन्- -मंसु अशां १, ३;
 -मणि आज्यो ५, २.
 ध्रुव-कुमार- -राय जैगृ १,
 ५: ६.
 ध्रुव-क्षित^{१०} -क्षित^{१०} आपथ्रौ ७,
 ५, ६; वौथ्रौ.
 ऋध्रुव-क्षिति^{१०} -न्ते वौगृ २,
 ८, ९; मागृ ३, १२: १६; -ति:
 काथ्रौ १७, ८, १५; आपथ्रौ;
 माथ्रौ १, ७, ३, ३४^{१०}; -तिम्
 आपथ्रौ १२, १६, ८.

a) पामे. वैप १, १७४५ f द्र. । b) पामे. वैप १, १७४५ g द्र. । c) द्वि: सपा. मै ४, ६, ६^३
 ध्रुव [सं१] इति पामे. । d) = ऋपि-विशेष- । e) पामे. वैप १, १७४५ l द्र. । f) = नक्षत्र-विशेष- । g) व्यप. ।
 h) = मरुद्-विशेष- । i) = वसु-विशेष- । j) = पारिभाषिक-संज्ञा- । k) सप्र. ध्रुवस्य दर्शनात् <> ध्रुवदर्श-
 नात् इति पामे. । l) पामे. वैप १, १७४५ p द्र. । m) पामे. वैप १, १०४३ f द्र. । n) ध्रु इति पाठ: ?
 -यनि. शोध: । o) पामे. वैप १, ७९७ a द्र. । p) = वृत्ति-विशेष- । q) पामे. वैप १, १७४६ f द्र. ।
 r) प्या: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. भाथ्रौ २, ७, ३) । s) = अधोदिश- । t) साऽस्य देवतायसु तत्र भवीयश्च
 अण् प्र. । u) भाप. । v) विप. (सूक्त-) । तेन दृष्टमित्यर्थे इयण् प्र. उत्सं. (पा ४, २, ९) । w) उप. कर्त्तरि
 क्तत् । x) वैप १ द्र. । y) पामे. वैप १, १७४६ i द्र. ।

ध्रुव-नोप^a- -पः आपश्रौ १८,
७,९; वौश्रौ; वौगु ३, १०, ६^b;
-पम् काश्रौ ९,८,१०.
ध्रुव-ग्रहण- -णात् माश्रौ २,३,
४,२१.
ध्रुव-चेष्टित-युक्ति- -क्तिषु
पावा १,४,५१.
√ध्रुव-तम- -मः वौश्रौ ७, ७ :
२०.
√ध्रुव-तस् (:) आपमं १,९, ६;
वौगु.
√ध्रुव-ता- -ताम् आपमं १,
९,७; आग्निगु.
ध्रुव-दर्शन- -नात् शांगु १,
१७,२^d; कप्र २,१०,१५.
ध्रुवदर्शना(न-अ)न्त^e-
-न्तम् वैगु ३,४ : १४.
√ध्रुव-प(ति>)ली^e- -ली मागु
१,१४,१०; वागु १५,२१.
√ध्रुव-योनि^f- -निः वौश्रौ १०,
३८ : ६; माश्रौ.
ध्रुव-वत्- -वद्भिः वौश्रौ ११,
१३ : १०; १७,२ : ५; -वद्भ्यः
वौश्रौ ११,१३ : ९; १७,२ : ५.
ध्रुव-शिष्ट^g- -ष्टे कप्र ६, ४५.
ध्रुव-शील^h- -लः गौघ ३,१३.
ध्रुव-शेष- -पात् वैश्रौ १२,८ :
१^h.
√ध्रुव-सद्ⁱ- -सदम् काश्रौ
१४,२,१; शुभ्र १,५५४.
ध्रुव-साध(क>)की^j- -कि
अशां ४,४.

ध्रुव-सूक्त- -क्तनवैश्रौ २१,१४ :
१६.
ध्रुव-स्थ- -स्थान् अश्र ३,२६.
ध्रुव-स्थान- -नात् वैश्रौ १६,
१९ : ८.
ध्रुवस्थानो (न-उ) पसादिन्-
-दिनाम् अशां ६,६.
ध्रुव-स्थाली- -ली वौश्रौ २५,
१३ : १४; -लीम् काश्रौ ९,२,
१८; आपश्रौ; -ल्याः वैश्रौ १५,
१८ : १; हिश्रौ ९,५,१२.
ध्रुवा-करण- -णम् वाश्रौ १,१,
२,२४.
ध्रुवा(वा-आ)ज्य^k- -ज्यम् वौश्रौ
६, १२ : ४; १८ : ३३x x;
-ज्यात् वौश्रौ १,१५ : ७x x.
ध्रुवा-तस् (:) वौश्रौ २७,२ : १७.
ध्रुवा(वा-आ)दि^l- -दीनि
वाश्रौ १; ३,४, २७; ७,५,१६.
ध्रुवा (व-अ)न्त^e- -न्ताः वौश्रौ
२२,२१ : २; २३,१३ : २.
ध्रुवा-प्रभृति- -तिभिः माश्रौ ६,
१,२,८.
ध्रुवा(वा-अ)र्थ- -र्थे काश्रौ ८,
२,२८.
ध्रुवा(व-अ)वनयन- -नम् आश्रौ
५,२०,७.
ध्रुवा-वर्जम् आपश्रौ ७, २७, ८;
हिपि ५ : १२.
ध्रुवा-शेष- -पात् हिश्रौ ७, १,
४१^h; २,१५; ३,६९.
ध्रुवा(व-अ)श्व^m- -कल्प- -ल्पम्

मागु २; ६,१.
ध्रुवा-समजन- -नात् भाश्रौ ७,
११,२; ३.
ध्रुवासमजन-प्रभृति- -तीनि
हिश्रौ ४,३,२६.
ध्रुवासमजना(न-आ)दि-
-दि आपश्रौ ७,१४,३.
ध्रुवा(वा-आ)सादन- -नात् वौश्रौ
३,२४ : १२.
ध्रुवीⁿ√कृ,ध्रुवीकरोति या२,१८.
ध्रुवै(व-ऐ)न्द्राग्न्-वैश्वदेव-
-वानाम् आपश्रौ २२,२७, १७;
हिश्रौ २३,४,३९.
√ध्रुव्. √ध्रु टि. द.
ध्रुव-, १ध्रुवक- √ध्रु द.
२ध्रुवक, का^m- पाउमो २, २, १०;
पाग ४, २, ८०; ५,२, १००^p;
पावाग ७,३,४५^o.
ध्रुवकिन्- पा ४,२,८०.
ध्रुवकिल- पा ५,२,१००.
ध्रुव-करण- प्रभृ. √ध्रु द.
३ध्रुव(क>)का^p- (> ध्रौवकि-
पा.) पाग ४; १,९६.
ध्रुव-चित्- प्रभृ. √ध्रु द.
?ध्रुवद्रक्षम् अथ ४८,११५.
ध्रुवन^q- -नानि कौस् ८६,१६.
ध्रुवपत्नी- प्रभृ. √ध्रु द.
√ध्रेक् पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दोत्सा-
ह्योः
√ध्रै पाधा. भ्वा. पर. तुप्ति.
ध्रौव-, ध्रौवक- √ध्रु द.
ध्रौवकि- ३ध्रुवका- द.

a) = ध्रुवग्रह-रक्षक- । b) = सर्प-विशेष- । c) उप. पाभ. वेति कर्कवियाधरी । d) पाभे.
पृ १३६३ k द. । e) विप. । वस. । f) वैप १ द. । g) पूष. = पारिभाषिक-संज्ञा । h) सपा. च्चशे^o<>
च्चशे^o इति पाभे. । i) विप. (उत्तरापाडा-) । उप. प्युन् प्र. उसं. (पावा ३, १, १४५) । j) कप्र. (तु.
सा. [तै. पृ ३२२] ध्रौवम् भाज्यम् इति) । k) पूष. [तात्स्थ्यात्] हविस्- । l) = कर्म-विशेष-विधि- । वस.>पंत. ।
m) अर्थः व्यु. च ? । n) °का- इति पाका. । o) तु. पाका. । p) व्यप. । व्यु. ? । q) अर्थः व्यु. च ? ।
= स्यापा इति पंजा. (तु. केशवः [कौस् ८४, १०]) ।

१-२ध्रौव्य- प्रभृ. √ध्रु द्र.
 ✓ध्वंस^१. ध्वस् पाधा. भ्वा. आत्म.
 गत्यवसंसनयोः, ध्वंसते अप ४८,
 ५; आपघ; ध्वंसति निघ २,
 १४१; ध्वंसन्ति आपघ २, २४,
 ९; हिघ २, ५, १७४.
 ध्वंसयति वैश्रौ ४, ७ : ८; ध्वंस-
 येयुः माश्रौ ५, १, ८, ११.
 ध्वंस->ध्वंस-कला^२- (>ला-
 ✓कृ पा.) पाग १, ४, ६१.
 ध्वंसन-न्ते अप ४८, ३७; या २, ९.
 ध्वंसयत्-यन् आपश्रौ ९, ६, ११;
 वौश्रौ.
 ध्वंसनि^३-नौ या २, १११.
 ध्वस्मन्^४->ध्वस्मन्-वत्^५-वत्
 अप ४८, ७५; निघ १, १२.
 ध्वंसस्^६-ससः आपमं १, १७, ४१.
 ध्वंसि^७-सयः शाश्रौ १४, ८२, २.
 ध्वंसि-स्तोम-माः शाश्रौ १४,
 ८२, १.
 ✓ध्वञ् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 ध्वज^८- पाग २, ४, ३१; ४,
 १, ४५; ५, ३, १००; -जः
 अप १, ३९, ३; अशां १, ३;
 -जम् आपश्रौ २०, १६, ३;
 वौश्रौ; -जाः अप ७१, १९, ५;
 -जे अप ७०^३, २७, १०; ३२,
 १५; ७२, २, ६; काघ २७६ : ६.
 ध्वजी-पा ४, १, ४५.
 ध्वज-तोरण-गैः अप ५५, ५, २.

ध्वज-भृषित-तेषु विध ९९, १०.
 ध्वज-विश्राविन्^९-नी वैघ ३, १२,
 १०.
 ध्वज-वे(दि>)दी-दीभिः अप
 ५५, ५, २.
 ध्वज-स्तम्भे(मम-इ)न्द्रकील-
 -लानाम् अप ६४, ४, १.
 ध्वजा(ज-आ)कार^{१०}-रम् आग्निगु
 २, ५, १ : २०.
 ध्वजा(ज-आ)कृति^{११}-ति वैघ ४,
 १३ : ९.
 ध्वजा(ज-अ)पहारिन्-री शंघ ३७८
 ध्वजा(ज-अ)मिलपन-नम् अप
 ७२, ३, ७.
 ध्वजवत्^{१२}-(> १ध्वजवतायनि-
 पा.) पाग ४, १, १५४^क.
 ध्वजवद्^{१३}-(> १ध्वजवदायनि-
 पा.) पाग ४, १, १५४.
 ध्वजि^{१४}-(> १जि-मत्-पा.) पाग
 ८, २, ९.
 ✓ध्वञ्ज् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 ✓ध्वण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.
 ✓ध्वन्^{१५}(वधा.) पाधा. भ्वा. तुरा-
 पर. शब्दे, ध्वनति अप ४८, ४१;
 ध्वनेत् निस्र ७, ११ : १२.
 अध्वानयत् ऋप्रा ९, ५०^{१६};
 ध्वनयीत् ऋप्रा १४, ४३^{१७}.
 ध्वनि^{१८}-पाल ४, १४०; -निः आशि
 ८, १; -नौ आशि ८, २; १२.
 ध्वान^{१९}-नः तैप्रा २३, ७१^{१८}; -नेन

-आपश्रौ ३, ८, ८; वौश्रौ; वाश्रौ
 १, ३, ७, ३१^{२०}; हिश्रौ २, ५, ६;
 २१, २, ६७.
 १^{२१}ध्वान्त-न्तम् आपश्रौ ६, २२,
 १; या ४, ३^{२२}; वौश्रौ १८, १७ :
 २०^{२३}; आपमं २, २१, १७^{२४};
 पाग ३, १४, ६^{२५}; -^{२६}न्ताः
 वाश्रौ ३, १, २, १; काग २६, २;
 माग १, १३, ४; वाग १५, १;
 -न्तात् शाश्रौ १४, ४९, ३.
 २^{२७}ध्वान्त-पा ७, २, १८; -न्तः
 वौश्रौ ९, १८ : ४.
 ध्वन^क-(> ध्वानायन-पा.) पाग
 ४, १, ११०.
 ध्वस्^{२८}-न्ते निस्र ९, ९ : ९^{२९}.
 ध्वाक्षा^{२९}-पा, पाग ४, ३, १६५.
 ✓ध्वाङ्क्ष् पाधा. भ्वा. पर. काङ्-
 क्षायां घोरवासिते च.
 ध्वाङ्क्ष^{३०}-ङ्क्षः अप्राय २, ६;
 -ङ्क्षेण पा २, १, ४२.
 ध्वाङ्क्षा(ङ्क्ष-आ)रोहण-गे काश्रौ
 २५, ६, ६.
 ध्वाङ्क्षा(ङ्क्ष-अ)वमृष्ट-ष्टस्य
 वौश्रौ १४, ९ : १६.
 ध्वाङ्क्षा-ध्वाक्षा-टि. द्र.
 ध्वाजवत्- (२ध्वाजवतायनि-)
 ध्वजवत्-टि. द्र.
 ध्वाजि-पाठभो २, १, १६६.
 ✓ध्वृ^{३१} पाधा. भ्वा. पर. हृच्छने, ध्वरति^{३२}
 अप ४८, १९; निघ २, १९.

a) पा ७, ४, ८४ परामृष्टः द्र. । b) = हिंसा-(तु. पागम.) । c) वैप. १ द्र. । d) = अङ्ग-
 विशेष- । e) पाभे. वैप १ भंससः ऋ १०, १६३, ४ टि. द्र. । f) = कालभेद-विशेष-सुहृत्तशतांशभाग- इति
 MW. । व्यु. ? । g) = पताका- । व्यु. ? । < ✓ध्वञ् इति अभा.; धू- + ✓अञ् इति MW. ? । h) उप.
 अर्थः ? । i) विप. । वस. । j) तु. पागम.; ध्वाजवत्- इति पाका., पागम. (पक्षे) । वाजवत्- इति भाण्डा.,
 वाजवत्- इति पासि. । k) व्यप. । व्यु. ? । l) = ध्वज- । m) पा ३, १, ५१ परामृष्टः द्र. । n) भाप.
 = पारिभाषिक-संज्ञा- [तैप्रा.]. । o) ध्वानः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.) । p) वैप १, १७४७
 I द्र. । q) पाभे. वैप १, १७४७ t द्र. । r) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । s) वैप
 १, १७४८ । द्र. । t) ध्वाङ्क्षा- इति पाका. । u) या १, ८ परामृष्टः द्र. । v) हिंसायाम् ।

फध्वारिषुः आपश्रौ १४, ३०, ४;
वैश्रौ २१, १६ : ६; हिश्रौ १५,
७, १९^१।
ध्वर्य- पा ३, १, १२३.

न

नृ^० पिं १, ८.
१न^०, >ना शांश्रौ १, १, ८; १××; ९, ५,
२^०फ^०; काश्रौ; भाश्रौ ३, ६, ७^०फ^०;
आपमं १, ४, ७^०फ^०; १३, ९^०फ^०; आगृ
१, १३, ६^०फ^०; शागृ १, २४, ४^०फ^०;
४, १२, ११^०फ^०; पागृ १, ५, ११^०फ^०;
१७, २^०फ^०; वैगृ ६४: ६^०फ^०; आग्निगृ
१, ५, २: ५१^०फ^०; वागृ ३, १^०फ^०;
हिगृ १, १९, ७^०फ^०; आपध १, २०,
६^०फ^०; हिघ १, ६, २०^०फ^०; २, ४,
५०^०फ^०; ५१^०फ^०; या १, २; ४^०फ^०;
५^०; ६^०फ^०; १०; ११^०फ^०; १८^०फ^०; १३,
१२; पा १, १, ४४; पाग १, १,
३७; ४, ५७; पावा १, १, ४४^१.
फनकि^० साअ १, १७६^०; २०३^०.
नकिम् पाग १, ४, ५७.
फनकिस्^० (:) आश्रौ ६, ४, १००××;
शांश्रौ १८, १३, २^०; ऋअ २,
४, ३०^०.
नकीम्^० निघ ३, १२^०फ^०; पाग १, ४,
५७.
न-नोह्य- -ह्यः वृदे ८, १२७.
न(नो)चेत् पाग १, ४, ५७.

न-तद्रूप- -पः वाधूश्रौ ४, ७५ :
२३; ३५.
ननु^० आपश्रौ २१, २०, ३; वौश्रौ
१६, २७ : २४; ××; वाश्रौ; या
१, ४; ५^०; पा ८, १, ४३.
न-नु- -न्वोः पा ३, २, १२१.
न-पुरीष^०- -धम् आग्निगृ २, ६, ८ :
३.
न-रिष्येम^०- >०म-पूर्व^०- -र्वम्
शुप्रा २, २३.
न-वल्मीक^०- -कम् आग्निगृ २, ६,
८ : ३.
न-शर्करा-मिश्र^०- -श्रम् आग्निगृ
२, ६, ८ : ४.
न-शाड्वल-मिश्र^०- -श्रम् आग्निगृ
२, ६, ८ : ४.
न-सत्त- पा ८, २, ६१.
न-सिक्त^०- -क्तम् आग्निगृ २, ६, ८ :
३.
नहि^० हिश्रौ ६, ६, १६^०फ^०; सु २०, ३;
४; २२, १; फया ३, ३; ४, २७;
ऋप्रा.
न-ह^०- -हः पाशि २४.
ना(न-अ)ङ्ग-क्षत्र-धर्म-संसर्ग-त्रि-
पूर्(र्व>)र्वा^०- -र्वा पावा ४, २,
६०^०.
ना(न-अ)ति-कूर-सृदु- -दुना
विघ १२, ४.
ना(न-अ)ति-तीक्ष्ण- -क्षणेन माशि

४, ४.
फूना(न-अ)ति-नीच- -चैः माशि
४, ४.
ना(न-अ)ति-वृहन्मुखी- -स्त्री कप्र
२, ५, १२.
ना(न-अ)त्युच्च^०- -च्चैः माशि ४, ४.
ना(न-अ)न्तर- > ०रीयक- पागम
१५५.
ना(न-अ)सन-योग-विहित^०-
-त्ते हिघ १, २, ४९^०.
ना(न-अ)स्ति-> नास्तिक- पा ४,
४, ६०; पाग ५, १, १२४; १२८;
-कः वैगृ ५, १५ : १९; वाघ;
-काय वौघ १, ५, ८१; -केभ्यः
विघ ९, ३१.
नास्तिक-ता- विघ ३७, ३१.
नास्तिक-वृत्ति^०- -त्तिः वाघ
१, २३; २१, ३०; शंघ ४०३;
विघ ५४, १५.
नास्तिक्य- पा ५, १, १२४;
१२८; -क्यात् वाघ २१, २९.
नो^० निस् २, १: ४; ३, १२: ४४; वौघ;
या १, ६^०फ^०; पाग १, ४, ५७^०.
नोहि पाग १, ४, ५७^०.
नो (न-ऊ) पर^०- -रम् आग्निगृ
२, ६, ८ : ३.
२न^० > ना आश्रौ १, २, ६××; ७,
११, ८^०फ^०; १४^०फ^०; १७^०फ^०; शांश्रौ;
या १, ४^०फ^०; ७, ३१^०फ^०.

a) अध्वरिषुः इति पाठः इ यनि. शोधः [तु. आपश्रौ.]। b) =नगण-। c) =नञ्। d) सङ्कृत-
सपा. शौ २, ५, १ इह इति पामे.। e) पामे. पृ ४१२। द्र.। f) पामे. वैप १ परि. अध्वम् खि २, ११, १
टि. द्र.। g) पृ ४४६। द्र.। h) पामे. पृ ८१। द्र.। i) पामे. पृ १२। द्र.। j) पामे. पृ १२६०
८ द्र.। k) पामे. पृ १५७। द्र.। l) पामे. पृ १५७। द्र.। m) वैप १ द्र.। n) पामे. वैप १, १७५८
८ द्र.। o) पामे. वैप १, १७५८। द्र.। p) तस.। सत्य. सृदम् टि. द्र.। q) <नृ रिष्येम (मा ३४,
४१)। r) त्रिप.। वस.। s) वस. > द्रस.। t) पृ १३४०। द्र.। u) तु. पाका.। अनङ्गक्षत्रधर्मत्रि^० इति
भाण्डा.। v) पृ १६ अत्युच्च->चैः इति नेष्टम्। w) पृ १५७। द्र.। x) सप्र. आपध १, ६, २६ अनासन^०
इति पामे.। y) एकतरत्र नौ इति [पक्षे] भाण्डा.। z) तु. पागम.। a^१) निधेधतरेवृपमायर्थेषु नि. द्र.
(तु. वैप १)। b^१) संप्रत्यर्थे नि. द्र.।

न- नः ऋत ३, ६, २; छ, २, ३; ५, ६, ७; शौच; नात् ऋत ४, ५, ३; भाशि २२.

न-कार-रः वृद्धे २, ९२; ऋप्रा; -रम् ऋप्रा ५, ४०; -रस्य ऋप्रा ४, ८०; १०, २०; १५, १२; उस्; -रे शुप्रा ३, १०७; शैशि; नाशि २, ३, ४^b; -रेण शैशि ७१; याशि २, ८९; ९०; नाशि २, ४, ५.

नकार-पर-रे शुप्रा ४, १८७.

नकार-प्रतिषेध-धः पावा १, १, ४७; ८, २, ७२.

नकार-मकार-रयोः शौच १, ६७.

नकार-लोपा(प-अ)भाव-वस्य पावा ३, १, ४४.

नकारलोपाभावा(व-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, १, ४४.

नकार-लोपो(प-ऊ)भ्र-भाव-वम् ऋप्रा ११, ३६.

नकार-भ्रवण-णम् शैशि २९८; ३००

नकार-हकार-लोपा(प-अ)र्थ-र्थम् पावा ७, २, २०.

नकार(र-अ)ङ्ग-स्वर-रम् शैशि २२४.

नकार(र-अ)दि-दिः अप्रा ३, २, ३३.

नकार(र-अ)न्त-न्तम् शैशि ८२; ३१८; माशि ४, १०; याशि २, ७६; -न्तस्य पावा ६, २, १९७; ४, ४४; -न्तात् शैशि ३०७; -न्तानि अप्रा २, ४, १६;

१८; -न्ते माशि १०, ७; १३, १०; याशि २, ४१^२; ४२; नाशि २, ४, ५; ६; पावा ६, २, १९७.

नकारान्त-ग्रहण-णम्

पावा ६, ४, १३३.

नकारान्ता(न्त-अ)र्थ-र्थम् पावा ६, १, १७०.

नकारा(र-अ)वाध-धे अप्रा २, ४, १६; १८^२.

नकारा(र-अ)भाव-वः पावा ६, १, १००.

नकारा(र-अ)वग्रह-हे अप्रा २, ३, २५.

नकारो(र-उ)पध-पकार-रः शैशि २९९.

नकारो(र-उ)पध-हकार-रः शैशि २९७.

१न-ट-टाभ्याम् शैशि ९६.

१न-त-तयोः शैशि ९७.

न-त्व-त्वे पावा ८, २, ४८.

न-पर-रः तैप्रा ४, ३२; -रे पा ८, ३, २७.

१न-म-मौ शौच ३, ३७.

नम-पर-रे ऋत ४, ४, १४.

ननयत्पर-रः याशि २, ५७.

न-लोप-पः पा ५, १, १२५; ६, ३, ७२; ८, २, २; ७; पावा १, १, ३९; २, ४, १७^b; ७, १, ८९^१;

-पस्य पावा ६, ४, १२०; -पे अप्रा २, ४, ७; शौच.

नलोप-प्रतिषेध-धः पावा ८, २, ७.

नलोप-वचन-नम् पावा ४, १, ७८; १५८; ७, २, २०.

नलोपा(प-अ)भाव-वः पावा ६, १, ६७.

न-शब्द-प्रत्यय-यः अप्रा २, ३, १६.

ना(न-अ)न्त-न्तात् पा ५, २, ४९.

नो(न-उ)प(धा>)ध-धात् पा १, २, २३.

√नङ्, नश्(वधा.), नशते अपावर् २, ११, ६; नशत् आश्रौ ७, ४, ४; निघ २, १८.

नशीमहि वाश्रौ १, ५, ४, ३०^१; नृमानट् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १^३; शाश्रौ १३, ४, ३; निघ २, १८.

नङ्कु-पाठ २, ३०.

नङ्त्वा √नश्(अदर्शने) द्र.

१न आगात् वाश्रौ १, ३, २, १८^१.

नक् पाग १, १, ३७.

नकार-प्रभृ. न-द्र.

१नका३३रिणाम् लाश्रौ ७, ८, २.

नकि, नकिम् प्रभृ. १न द्र.

१नकुल-पा ६, ३, ७५; पाग ५, ३, १०७^१; -लः विघ ४४, २०;

सु २८, १; अप्रा ३, ४, ४^१; ८;

-लम् पाग २, ७, ११; ऋप्रा १७, १४^m; -लाः अप ७१, ३, ५; उनिसू ८ : १०^७.

नकुली-ली वीश्रौ १८, ४५ : ८; गोप ३, ४, २८^१.

१नाकुल-पा ५, ३, १०७.

नकुल-चेटक-काः अप ५७, २, ६.

नकुल-विडाला(ल-अ)पहरण-णै शंघ ३२२.

a) = वर्य-विशेष-। b) रेषु इति लासं.। c) पस.>द्वस.>पस.। d) पस.>मलो. कस.।

e) विप.। वस.। f) वस.>कस.। g) <न युत् परः (मा २०, ८२)। h) तु. पाका.। i) तु. पासि.।

j) वैप १ द्र.। k) पाठः ? अनागस-> -गाः इति शोधः (तु. सप्र. हिश्रौ ६, ३, १७)। l) ल्ह इति पाका.।

m) = तद्वर्य-वत्-। n) = छन्दो-जाति-।

नकुल(ल-अ)हि-विडाला (ल-आ)
 खु-खनाम् शंघ ३७८.
 २नकुल^२- लः साअ १,४६४.
 २नाकुल^३- लः ऋप्रा १७,४५;
 -ले वृदे ८,१४.
 ✓नक्क् पाधा. चुरा. पर. नाशने.
 नक्त^४,क्ता-क्तम् शांश्री ५,२०; ८;
 आपश्री; वौश्रीप्र ४४ : ६; वैध
 ४,७,९^५; या ७, २७^६; पाग
 १,१,३७; -क्ता अप ४८,७४^७;
 वृदे ३,९; निघ १, ७^८; या ८,
 १०^९कुं.
 नक्तं-चर- पाग १, १, ३७^{१०};
 -रिभ्यः कौगृ ३, १०, १७; शांगृ
 २, १४, १६; कागृ.
 ऋनक्तं-चारिन्- -रिणः आग्निगृ २,
 १, ३ : २१; भागृ; -रिणम्
 आपमं २, १४, १; -रिभ्यः आगृ
 १, २, ८; आग्निगृ १, ७, २ :
 ११; भागृ २, १२, १८; -रीणि
 या २, १८९.
 ऋनक्तं-चारिणी^१- णी आग्निगृ
 २, १, ३ : २३; हिगृ २, ३, ७.
 ऋनक्तं-जा(त>)वा^२- -ता कौस्
 २६, २२; अय १, २३.
 नक्त-नीलोत्पल-कमल-पलाश-
 कोमल- -लेपु अप ६५, १, ४.
 नक्तं-दिव- पा ५, ४, ७७.
 नक्तं-भाग- -गानि अप १, ५, २; ६.
 नक्ता(क-आ)शिन- -शी शंघ १५९;
 ११; विघ ५०, ४३; ९५, ५.
 नक्तो(क्ता-उ)प्रास्^३- -प्रासा काश्री

१६, ५, ३; १८, ४, २; आपश्री;
 वैश्री^४ १८, ८ : १; १९, ६ : ८६;
 ८७; १३०; -पाली वृदे ३, ८.
 नक्र^५- पा ६, ३, ७५; -काः अप ६२,
 ३, २.
 ✓नक्ष^६, > इनक्ष पाधा. भ्वा. पर.
 गतौ [व्याप्तौ इति निघ., या.]
 ऋइनक्षत् आपश्री २१, १२, ९;
 वाश्री ३, २, २, ३६; हिश्री १६,
 ५, ३.
 नक्षते या ४, १८; ऋनक्षति
 आश्री ४, ७, ४^७; शांश्री ५, १०,
 १८^८; निघ २, १४; १८; नक्षन्ते
 या १०, २१^९; नक्षसे वैश्री
 १८, ५ : ८^{१०}; नक्षन्त या ७,
 ३०^{११}.
 ऋनक्षत्-> ऋ-दाभ^{११}- -भम् निघ
 ४, ३; या ६, ३कुं.
 नक्ष- पाउना ३, ६५.
 नक्षत्र^{१२}- पाउ ३, १०५; पा ६, ३, ७५;
 -त्रम् शांश्री २, ५, ५; आपश्री;
 आज्यो ७, ११; २१; ११, ६; ७;
 -त्रस्य आपश्री १०, १२, ३; अपः
 -त्राणाम् शांश्री ४, १०, १^{१३};
 १०, २१, १०; आपश्री; या ३,
 २०; -त्राणि शांश्री १४, ७८, २;
 आपश्री; या ३, २०कुं; -त्रात् पा
 ८, ३, १००; पावा ४, २, १०४;
 -त्राय वौश्री २८, ४ : २२;
 गोगृ २, ८, १२; वौध ३, ८, ९;
 -त्रे शांश्री २, १, ८××; आपश्री;
 पा १, २, ६०; २, ३, ४५; -त्रेण

वाधुश्री ४, ९४^{१४} : ५; आगृ;
 पा, पावा ४, २, ३; -त्रेभ्यः
 आपश्री ६, ८, १××; वौश्री; पा
 ४, ३, ३७; पावा ४; ३, ३४;
 -त्रेषु शांश्री १०, २१; ११^{१५};
 आपश्री; कौगृ १, १०, १२^{१६};
 -त्रेषु ३ वौश्री १६, ८ : ८;
 -त्रैः कौस् १३५, ९.
 नाक्षत्र^{१७}- -त्रः द्राश्री ८, ४, ३;
 ५; लाश्री.
 नक्षत्र-कल्प^{१८}- -ल्पः चव्यू ४ : ८;
 -ल्पम् अप १, १, १.
 नक्षत्र-गण- -गम् या ५, २, १.
 नक्षत्र-ग्रह-चन्द्रमस्^{१९}- -माः अप
 ६३, ३, १.
 नक्षत्र-ग्रहो(ह-उ)पस्पष्ट-> ष्ट-
 भयार्त-रोगगृहीत- -तानाम् अशां
 १७, १.
 नक्षत्र-चारिन्- -रिणः अप ५२,
 ५, ४.
 नक्षत्र-ज- -जम् वेज्यो ३५.
 नक्षत्र-जीविन्^{२०}- -विनः विघ ८२,
 ७.
 नक्षत्र-तारका- -काणाम् अप ६३,
 १, ७.
 नक्षत्र-दक्षिणा^{२१}- -णा अशां १२, ६;
 -णाः अप १८^{२२}, १९, ४; अशां
 १३, ५; -णाम् अप ६, ५०, १०.
 नक्षत्र-दर्शन- -नात् आश्री ८, १३,
 २२; वाश्री.
 नक्षत्र-देवता- -ताः वेज्यो ३५;
 -तानाम् कागृ ४९, १; -ताभ्य

a) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ? । b) विप. । तेनप्रोक्तमित्यर्थे षण् प्र. । c) वैप १ द. । d) कथम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वौश्रीप्र.) । e) तु. पागम. । f) सपा. नक्तं चा <> निशीथचा इति पाभे. । g) षपसा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री १६, १०, ११) । h) = जलचर-भेद-। व्यु- ? (तु. वैप १ नाक्र- टि.; वैतु. पा. प्रमृ. < १न+३क्रम्) । i) या ३, २० परामृष्टः द. । j) पाभे. वैप १, १७६१ f द. । k) पाभे. वैप १, १२९८ d द. । l) पाभे. पृ ४६३ b द. । m) विप. । तस्येदमीयः षण् प्र. । n) = ग्रन्थ-विशेष-। o) द्रस. > मलो. कस. । p) = ज्योतिर्विद्-। q) उप. = २दक्षिणा-।

आग्निगृ २,२, १-२ : ६; शंघ
१३२१; -ताम् मागृ १, १०,
९; २,२,१५.
रनक्षत्र-देव(त>)ता^a- -ताभ्याम्
आग्निगृ २,२, १ : ४; २ : ३;
-ताम् आगृ २,४,१२.
रनक्षत्र-देवते(ता-इ)ए-नामन्^b-
-मानः वागृ ३,१.
रनक्षत्र-देवत- -त्तम् जैगृ १,९ : ५.
रनक्षत्र-देवत^a- -तान् अप १,४२,
५.
रनक्षत्र-द्वन्द्व- -न्द्वे पा १,२,६३.
रनक्षत्र-नदी-वृक्षा (क्ष-अ) मिधाना
(न-अ)संयु(क्त>)का^c-
-क्ताम् आग्निगृ १,६,१ : ३.
रनक्षत्र-नामन्- -म कौगृ १, १६, ८;
आग्निगृ २,१,५ : ३३; आपगृ.
रनक्षत्रनामा(म-आ)दि- -दि
वैगृ १,७ : ८.
रनक्षत्र-नामधेय- -येन वौगृ २,
१,५.
रनक्षत्र-ना(मन्>)मा^d- -माः
आपगृ ३,१३.
रनक्षत्र-निर्देश- -शाः वौध २,
१,४७.
रनक्षत्र-पथ- -थम् वौश्रौ १०, ४६ :
१७; २०; अप ५२, १४, २;
-येन वाधुश्रौ २,१९ : १.
रनक्षत्रपथ-चारिन्- -रिणाम्
आग्निगृ २, ५, १ : ४; जैगृ २,
९ : ३.
रनक्षत्र-पात- -त्तस्य अप ५०,९,३.
रनक्षत्र-प्रतिमा- -माः अशां ५, ८.
रनक्षत्र-प्रयोग- -गे वौश्रौ ५,१ : २.
रनक्षत्र-प्रवचन- -नात् द्राश्रौ ९, ४,
२३; लाश्रौ ३,८,१४.

रनक्षत्र-भाग- -गे अप १,६,५×४.
रनक्षत्र-भोजन- -नम् आग्निगृ ३,
१२,१ : ८.
रनक्षत्र-मित-मास- -सः निसू ५,
११ : ६.
रनक्षत्र-यज्ञ- -ज्ञेषु कागृ ४९,१.
रनक्षत्र-याग- -नाः अप १८^e,१९,३.
रनक्षत्र-योग- -नाम् लाश्रौ ८,१,५;
-गे पावा ३, १, २६; -गेषु
आज्यो १४,७.
रनक्षत्र-योग-काल- -ज्ञ- -ज्ञः अप
१,४२,२.
रनक्षत्र-राज- -०ज अप १^२,१,३.
रनक्षत्र-राजन्- -जानम् अश्र ६,
१२८.
रनक्षत्र-वंश- -शस्य अप ५२,६,३.
रनक्षत्र-वर्ग- -गेषु आज्यो ७,७.
रनक्षत्र-वेदितृ- -तारः अप १,६,८;
७,९.
रनक्षत्र-श्राद्ध- -द्धम् आग्निगृ ३, ३,
१ : ३; १२; -द्धे आग्निगृ ३, ३,
२ : १३.
रनक्षत्र-सत्र- -त्रेण वौश्रौ २८,४ :
३०.
रनक्षत्र-समता- -ताम् अप १,९,३.
रनक्षत्र-संप(न्न>) द्वा- -न्नाम्
आज्यो ६,७.
रनक्षत्र-सूचक^d- -कः काध २७९ :
५.
रनक्षत्र-स्तुति- -तिभिः अप १,
४२,४.
रनक्षत्र-स्तोम^e- -माः शांश्रौ १४,
७८,१.
रनक्षत्र-स्नान- -नानाम् अप १,४२,
१; -नानि अप १८^e,१९,४.
रनक्षत्र-स्नान-कोविद- -दः अप

१, ४२, ६.
रनक्षत्र-हविस्- -विषाम् वौश्रौ २८,
३ : १९; -वीषि अशां १२, १.
रनक्षत्रहविर्-मध्य- -ध्ये वौश्रौ
२८,३ : १३.
रनक्षत्र-होम- -मः अप १८^e, २, ९;
-मे वैगृ ६,५ : १.
रनक्षत्रा(त्र-अ)ङ्ग-विद्या- -द्यया
बाध १०, २१.
रनक्षत्रा(त्र-आ)देश-वृत्ति^f- -त्तिः
शंघ २०१.
रनक्षत्रा(त्र-अ)न्त-गामि(न्>)नी-
-नी अप ६३,१,९.
रनक्षत्रा(त्र-अ)र्ध-गत- -ते अप ६३,
२,३.
रनक्षत्रा(त्र-आ)श्रय^g- -यम् मागृ १,
१८,२; गोगृ २, १०, २१; द्रागृ
२, ४, १२.
रनक्षत्रिय- पा ४,४,१४१.
रनक्षत्रे(त्र-इ)एका^h- -काः आपश्रौ
१७, ६, ५; वौश्रौ; -कानाम्
वौश्रौ २२, ८ : ३२; -कामिः
वौश्रौ १०, ४६ : २३; १४,
३० : ८; -काम्यः वौश्रौ १७,
२४ : ८; २५ : १०; २६ : १०;
-कासु आपश्रौ १७,६,११.
रनक्षत्रे(त्र-इ)ष्टिⁱ- -ष्टयः आग्निगृ
१,२,१ : १४; वौगृ ३,१,२४;
-ष्टिम् वैध २, ५, ४; -ष्टीः
वौश्रौ २८,३ : १.
रनक्षत्रो(त्र-उ)पद्रव- -वेपु अप ६४,
१; ३.
✓नख्, ह्वा पाधा. भ्वा. पर. गतौ,
नख्यति निघ २, १४१.
नख^h- पाठ ५, २३; पा ६, ३, ७५;
पाग २, ४, ३१; ४, १, ४५; ५६;

a) विप. । बस. । b) द्वस. > बस. । c) द्वस. > पस. > वस. । d) ज्योतिर्विद्- । e) = याग-
विशेष- । f) = ज्योतिर्विद्या- । g) पस. > बस. । h) वैप १ द्र. । i) = इष्टि-विशेष- । j) लघुशाखीयः पाठः ।

नगर-मर्दिन्^३-(>नागरमर्दि-पा.)
 पाग ४,१,९६.
 नगर-त्रायस- पाग २,१,४८.
 नगर-इवन्-पाग २,१,४८^०.
 नगरा (र-अ)धिपत्य- त्यम् विध
 ९२,३१.
 नगरा(र-अ)न्त- न्ते पा ७,३,२४.
 न-गोह्य- १न द्र.
 नग्न, ग्ना^०- पागम १५५^०; -नः
 : वीथी १५,३७ : २; वाधुथी ३,
 ७० : ६; ८; आगु; -ग्नम् वीथी
 ८,१४:२८; ४२××; हिथी ९,४,
 ३२; कप्र २, १०, १०; -ग्नया
 वाधुथी ३,७०, ६; ८; -ग्नान्
 वाधुथी ३, ९० : ३××; विध
 ८२,१,२७; -ग्नान् आगु ३,९,
 ६; कौगु; गौघ ९,५०^०; -ग्नेन
 आपथी १३,१५,९.
 नाग्न्य- न्ग्यात् वाधुथी ३,
 ९ : ९.
 नग्न-क- -कात् अप्रा ३,४,११.
 नग्निका^०- -का वैगु ६,१२:२८;
 गोय ३,४,५; -काम् मागु १,
 ७,८; वैगु.
 नग्न- $\sqrt{\text{कु}}$ >कृत्य वैथी १६, १८ :
 १६; हिथी ९,४,३२.
 नग्न-पापण्ड-भृथिष्ट- -ष्टा: अप्र
 ७०^३, १६, ४.
 नग्न-प्रछन्न- -न्नः कौम् १४,६.
 नग्न-प्रविच्छन्द- -न्दः वैगु ५, ६ :
 २६.
 नग्न-मुषित- पाग २,२,३१.
 नग्न-वक्त्र-ज^६- -जः माशि १२,५.

नग्न-शुक्ल-कलीवा(व-अ)न्व-इयाव-
 दन्त-कुष्ठि-कुनखि-वर्जम् वाध ११,
 १९.
 नग्नहु^०- -हुः आपथी १९, ५, १०;
 वीथी; -हुना आपथी १९,५,११;
 हिथी २३, १, ८; -हुम् वीथी
 १७,३१ : ३; -होः वीथी १७,
 ३१ : २०.
 नग्नहु-चूर्ण- -र्णानि काथी १९,१,
 २०.
 नग्नहु-वीहि-यव-गोधूम-दाप्य-
 -प्याणि माथी ५,२,४,२.
 नग्नधारि(प >)पा^०- -पाम् अथ
 ८,२^१
 नचि-केत^१- >नाचिकेत^१- पागम
 १५५; -तः आपथी १९, १३,
 १७××; वीथी; -तम् आग्निगु
 १,२,१ : १२; वीगु ३,१, २३;
 -तस्य वीथी १९,६ : १.
 न-चेत् १न द्र.
 नञ्^१- पाग १,१, ३७; नञः अप्रा ३,
 ४,४^६; पा ५,४, ७१××; पावा;
 नजा पावा २,४,८१.
 नञ्-कु-निपात- -तानाम् पावा ६,
 २,२.
 नञ्-पूर्व- > ष्व-ग्रहणा (ए-आ)
 नर्थक्य- -क्यम् पावा ७,३,४७.
 नञ्पूर्वा(र्व-अ)ञ्चि^१- -ञ्चेः वृदे
 ३,९.
 नञ्-वत्- पा, पावा ६,२, १७५.
 नञ्-विशिष्ट- -ष्टे पावा २, १, ६०;
 -ष्टेन पा २,१, ६०.
 नञ्-समास- -सः, -सात् पावा

५,१,११९; -से पावा २,२,६;
 -सेषु पावा १,४, १.
 नञ्-सु- -सुभ्याम् पा ६,२, १७२;
 पावा ६,२, १०८.
 नञ्-स्वर- -रः पावा ६,१, १५४.
 नद-पाधा. भ्वा. पर. वृत्तौ; पर. चुरा.
 अयस्यन्दने, भाषार्थे १.
 नद^३ पाठ ४, १०४^३; पा, पाग
 ५,३,९८^०; पाग ४,१, ४१; २,
 ४९^०.
 नदी- पा ४, १, ४१.
 नाट्य- पा ४,३, १२९.
 नाट्या(ट्य-आ)चार्य-
 ता- -त्ता वीध २,१,४४.
 न(ट्य)ट्या^०- पा ४,२, ४९.
 नाटक- -केषु नाशि २,८, २९.
 न-ट- न- द्र.
 नटमक-, भस्तक- नाट- टि. द्र.
 नड^०- पाग ४,२, ४९^०; ५४^०; ८०^३;
 ९१; ५,२, १३५; ६,३, ११६^३;
 -डः अप ४ : ३४; -डम् कौस्
 ६९, ७; ७१, ५; ८; अथ १२,
 २; -डेः कागु ४५,८.
 नडकीय- पा ४,२, ९१.
 नड-भक्त- पा ४,२, ५४.
 नड-म (य >) यी- -यीम् कौस्
 ७१,३.
 नड-वत्- पा ४, २, ८७.
 नड-वल- पा ४,२, ८८.
 नड-स- पा ४,२, ८०.
 नडा-गिरि- पा ६,३, ११६.
 नडि(न् >)नी- पा ५,२, १३५.
 नडिल- पा ४,२, ८०.

a) व्यप. । b) तु. पागम. । c) वैप १ द्र. । d) <न+ना->वस. । e) तु. संस्कृतः
 टि. Böh. च । f) [कन्यायाः] संज्ञा-विशेष- । g) विप. । वस. उप. = दन्त- । h) नवा इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. मूको.) । i) वैप ३ द्र. । j) = १न । k) नयः इति पाठः ? यनि. शोधः । l) वस. > कस. ।
 उप. = $\sqrt{\text{अन्व}}$ । m) = नर्तक- । अच् प्र. । n) < $\sqrt{\text{नम्}}$ इति ? । o) नड- इति पाका., पागम. ।
 p) नाप. । q) नद- इति पाका. । r) नञ- इति [पक्षे] मारण्डा. । नल- इति पागम. ।

नद्ध्या- पा ४, २, ४९.
 २नड^a- पाग ४, १, ९९; ११०.
 नाढायन- पा ४, १, ९९; ११०;
 -नाः वौश्रौष ३: १४.
 नडकीय- प्रयु. १नड- द्र.
 नडन्तिका^b- कायाम् विघ ८५, १९.
 १नन्त- न- द्र.
 २, ३नत-, नति- √नम् द्र.
 नन्तद्रूप- १न द्र.
 नत्^c- (>नात्तायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 नन्त्व- न- द्र.
 नत्वा √नम् द्र.
 √नद्^d पाधा. भ्रा. पर. अत्र्यक्ते शब्दे;
 चुरा. उभ. भाषायाम्, नदति
 अप १, २१, २; ४८, ९^e; ७२,
 २, ३; निघ ३, १४^f; नदन्ते
 अप ६७, ६, ५; नदन्ति अप
 ७०^g, ११, २७; ७१, १४, ४;
 अनदत् > ता तैप्रा ३, १२^h.
 नानदैताम् कौसू ९६, ३ⁱ.
 नद^j- पाग ३, १, १३४; ४, २, ५४^k;
 ८०; -दः ऋअप ४८, ९७^l;
 ११५^m; ऋनिघ ३, १६ⁿ; ४, २;
 या ५, २७^o; -दम् शांश्रौ
 १८, १, १३; लाश्रौ: -दस्य
 शांश्रौ^p १८, १, १४; १५; २१;
 वाश्रौ ३, ३, २, १२; वृदे १,
 ५३^q; या ५, २^r; -देन शांश्रौ
 १८, १, १२^s.
 ऋनदी- पाग ४, २, ९७;
 -दयः^t वौश्रौ १८, १८: १६;
 आम्रिगृ २, ५, ११: २७; -दी

आपश्रौ १४, २०, ४; वौश्रौ;
 या ४, १५; ११, २५; पा २, ४,
 ७; ऋत ४, ७, ५; -दी: भाग
 २, १३: १४; हिगृ: या २,
 २४; -दीनाम् आपश्रौ ३, ७,
 ६^u; वौश्रौ; कौगृ १३, १३,
 १५^v; ऋया २, २६; ४,
 १७^w; -दीभि: ऋअ २, ३,
 ३३; या ११, ४९^x; पा २, १,
 २०; -दीभ्य: शांश्रौ ४, १४,
 २; आम्रिगृ; -दीम् शांश्रौ १६,
 १८, १८; काश्रौ १३, ३, २६^y;
 आपश्रौ २१, २०, ३^z; वौश्रौ
 २९, १२: १७; हिश्रौ १६,
 ६, ४१^{aa}; आगृ: या २, २४;
 ७, २०; १४, ३३; -दीषु वौश्रौ
 १५, १६: ८; आम्रिगृ; -घ:
 आपश्रौ १६, ६, ४^{ab}; माश्रौ;
 या २, २४^{ac}; २५; -घ:३ शौच
 ३, ६५; -घा आपश्रौ ६, ६, ११;
 -घा: वाश्रौ ३, २, ५, ४३^{ad};
 वैताश्रौ ३४, ९^{ae}; वौगृ; -घाम्
 आम्रिगृ २, ६, ८: ५; वैगृ ४,
 १०: ११; अप: पा ४, २, ८५;
 -घै वौश्रौ १६, २३: ५^{af};
 -घो: वैताश्रौ ३६, २७^{ag}; -घौ
 वौश्रौ १८, ३९: १.
 नादेय^{ah}- पा ४, २,
 ९७; -यम् विघ ६४, १७; -या:
 वौश्रौ २४, ५: २२; -यान्
 वौश्रौ १५, १६: ८; अप्राय ५,
 ६; -यानि वौश्रौ २२, २०:
 ७^{ai}.

नादेयी- यी:
 विघ १, १४.
 नाद्य^{aj}- पा ४, ४,
 १११; -यः आपश्रौ १६, ७,
 ४; वैश्रौ १८, ४: २१; हिश्रौ
 ११, २, २.
 नदी-कक्ष-वन-दाह-शौलो
 (ल-उ) पभोग^{ak}- ना: वाघ
 १९, २६.
 नदी-कच्छ- च्छ: या
 ४, १८.
 नदी-गिरि-तटाक- केषु
 अप १, ४४, १.
 नदी-जल- ले विघ
 १०, २८.
 नदी-तट- टे अप २१,
 ४, ३.
 नदी-तटाक-कृप-
 -पानाम् वैगृ १, २: २.
 नदी-त(म>)मा- ००मे
 आपश्रौ ७, ११, २२^{al}.
 नदी-तर^{am}- रम् आपघ
 १, ३३, २६; हिघ १, ८, ६७;
 -राणाम् चाअ ३९: २^{an}; -रे
 पावा १, १, २२^{ao}.
 नदी-तीर- रम् वैगृ ५,
 ३: ४; -रे आम्रिगृ २, ५, ४:
 २; ६: १^{ap}; हिपि; -रेषु
 आम्रिगृ ३, ४, ५: ९.
 नदी-तीर्थ-समुद्र- द्रेषु
 वौपि ३, १०, ३.
 नदी-तोय- ये वृदे ४,
 २१.

a) = ऋपि-विशेष-। व्यु. ?।

b) = नदी-विशेष-। व्यु. ।

c) या ५, २ परानृष्ट: द्र. ।

d) घा. वर्चायां वृत्ति: । e) वैप १ द्र. । f) १नड- टि. द्र. । g) स्तोत्र-नामन्-। h) = नदम् (ऋ ८,

६९, २) इति मन्त्रेण । i) वैप १, १२१९ । द्र. । j) सपा. नदीनाम् <> नदीभ्य: इति पाभे. । k) सपा. नदीम्

<> नद्या: <> नद्यै इति पाभे. । l) दस. > पस. । कक्ष- = शुष्क-वृण, दाह- = श्मशान-।

m) = नदी-तरण-। n) विप. । उस. उप. कर्तारि हत् ।

नदी-L, दि^१ द्वीप- -पम्
हिश्रौ २४, ६, १३; -पे आपश्रौ
१५, १६, २, ३; भाश्रौ.

नदी-नक्षत्र-चन्द्र-सूर्य-
पूष-देव-दत्त-रक्षिता-वर्जम्
वागृ ३, ३.

नदी-नद- -दा: वाध ८,
१५.

नदी-नामन्- -भानि
चाउ ३९: १६; निघ १, १३;
या २, २४.

नदी-ना (मन् >) मा^१-
-मा: आपगृ ३, १३.

नदी-निर्देश- -श:
आपगृ १४, ६.

नदी-पति- -तिम् काश्रौ
१५, ४, ३०.

नदी-पर्वत-मर्यादा (दा-
अ)न्यवहि (त >) ता^१- -ता:
माश्रौ ५, २, १४, २३.

नदी-पौर्णमास्या (सी-आ)
ग्रहायणी- -णीभ्य: पा ५, ४,
११०.

नदी-प्रस्रवण- -णेषु अप
४०, ४, ५.

नदी-मानुषी- -षीभ्य:
पा ४, १, ११३.

नदी-रजस- -ज: कप्र १,
१०, १०.

नदी-रूप- -पाणि कौस
७१, २२; कौगृ ८६, २५.

नदी-वत् वृदे २, १३६३;
या २, २३.

नदी-वाक्य- -क्यम् ऋअ

२, ३, ३३.

नदी-शब्द-वह- -हा:
कप्र १, १०, ६.

नदी-शैल-वनस्पति-
-तीन् विध १, १६.

नदी-प्ण- पा ८, ३, ८९.
नदी-सङ्गम-तोय- -येन
अप ६८, ३, १.

नदी-स्तुति- -ति: ऋअ
२, ७, ५०; १०, ७५; या ७, ७.

नद्य (दी-अ)न्तर- -रे
काश्रौ २५, १४, २२; पागृ ३,
११, ११.

नद्या (दी-आ)दि- -दौ
कप्र १, १०, १; शंघ ११४.

नद्यु (दी-उ) दधि-कूप-
तडाग- -णेषु मागृ २, १०, ८.

नद्वं > ष्व-वर्जम् उनिसू २:
११.

नद-भक्त^१- पा ४, २, ५४.
नद-र- पा ४, २, ८०.

नदन्- -दन् वृदे ६, १२.

नदन्, ना^१- -न्त्य या ५, २; -ना:
या २, २४.

नदनिमन्- -मा अप्रा ३, ४, ११
नदन्तु^१- पाउ ३, ५२; -तु: अप
४८, १०५; निघ २, १७.

नदितुम् या ९, ३.

नाद^१- -द: अप ४७, २, ६; ४८,
१७१^१; निघ ३, १६१^१; ऋप्रा;
-दात् ऋप्रा १३, ७; -दे अप
७२, १, ६; -देन माशि ४, ६.

नाद-ता- -ताम् ऋप्रा १३, १.

नाद-ध्वनि-संसर्ग- -र्गात्

आशि ८, १३.
नाद-वृद्धि-प (र >) रा^१- -रा
मीसू १, १, १७.

नादा (द-अ)नुप्रदान^१- -ना:
आशि ४, ४.

नादिन्- -दिन: पाशि २४;
-दिना अप ४८, ११६.

नादि^१- -दि: पागृ ३, १३, २.

नादित- -ते अप २१, ४, २.

नानद^१- -दम् जुसू २, १५: २४;
३, ६: ११; द्राश्रौ; -दस्य
लाश्रौ ६, १०, १०.

नानदत्- -दत् वीश्रौ १०, ४:
१७; माश्रौ ६, १, १, ३, ७; वैश्रौ
१८, १: ५१.

नद्ध-, नद्धी- √नह् द्र.

ननद्ध- पाउ २, ९८.

ननना^१- -ना अप ४८, ८६; १०३;
निघ १, ११; या ६, ६६.

ननानद्ध^१- पाउ २, ९८; पाग
४, १, १०; १००; १०४;

-नन्दरि^१ आपमं १, ६, ६; कागृ
२५, ४७.

नानान्द्र- पा ४, १, १०४.

नानान्द्रायण- पा ४, १, १००.

ननु, न-नु- १ न द्र.

नन्तु- √नम् द्र.

√नन्द^१ पाधा भ्वा. पर. समृद्धौ,
नन्दते अप ६२, ३, ४; नन्दति
अप ६९, २, ५; शंघ २८२;

नन्दन्ति आश्रौ ४, ४, ४; वाघ
११, ४२; नन्दाम् आपमं २,

५, १५; आपिनगृ १, १, ४: १२;
भागृ १, ९: १६; हिगृ १, ७, १०.

a) आपश्रौ. पाठ: । b) विप. । वंस. । c) विप. । द्वस. > पस. > तुस. । d) = नद्वं व: (कृ ८, ६९, २) । e) = देश-विशेष- । f) वैप १ द्र । g) भावे घञ् प्र., यद्वा कर्तरि णः प्र. उस्. (पावा ३, १, १४०) । h) स्तोत्र-नामन्- । i) विप. । पस. > वंस. । j) विप. । इञ् प्र. उस्. (पाउ ४, १२५) । k) वैप ३, खं. द्र. । l) पाभि. वैप १, १०६५ p द्र. । m) पावा १, ३, १० परामृष्टः द्र. ।

नन्द- पाग ४, १, ४१^५.
 नन्दा^१- न्दा वैग ३, १९ :
 १०; आज्यो ६, ८; न्दान्
 आज्यो ६, ९; १२; न्दायान्
 आज्यो ७, १; न्दायै माग २,
 १३, ६१^८.
 नन्दी- पा ४, १, ४१; न्दी
 माग २, १३, ६१^८; नादि १, २,
 ९^८; न्दी: माग १, ९, २९^९.
 नन्दय^१->नन्दी- न्दी वैग
 २, १: २४.
 नान्दी->नान्दी->नान्दी-
 क्त- पा ३, २, २१.
 नान्दीमुख^१- मुख वैग
 २, १: १३; ४; न्ना: वैश्रौ १,
 ४: ८; शांग; न्खान् शांग ४, ४,
 ११; १३; न्खै वैग ६, २: १०;
 शंघ २१०; न्खम्य: आग्निग २,
 ३, २: १; बौग ३, १२, ४; भाग.
 नान्दीमुख-वत् वैग
 ४, ३: ७.
 नान्दी-श्राद्ध- द्द:
 आग्निग २, ३, २: १६^३; न्दस्य
 भाग ३, १६: १.
 नन्दन^१- पाग ३, १, १३४; ८, ४,
 ३९; नम् अप ७०^३, ३, ५.
 नन्दन्त- पाठ ३, १२७.
 नन्दयन्त- पाठ ३, १२८.
 नन्दयित्तु- पाठमो २, १, ८३.
 नन्दि->न्दि(न्दि-अ)रीहण-
 सिन्धु-तप्तशिला(ता-आ)दि^१-
 दिषु पावा १, ३, १०.

नन्दि(न् >)नी- ०ति विष
 ६७, ८.
 न-पर- न-द्र.
 नितपात्^१- पा ६, ३, ७५; न्पात्नाश्रौ
 २, २, १, ४; अप: या ८, ५४^३;
 ०पात् अत्र १, १३; ०पात्:
 जैश्रौ २: ८^१; न्पात्म् आपश्रौ
 १७, ९, १; वैश्रौ.
 नित-पातृ^१- ०तार: आपश्रौ १२, ३,
 २; हिश्रौ ८, १, ४१.
 नपुंसक^१- पा ६, ३, ७५; पाग २, ४,
 ३१^३; क: काश्रौ १५, १०, १८;
 आग्निग २, ४, १२: ६; शंघ
 ३७७: २१; या १४, ६; कम्
 नाश्रौ ५, २, १०, २६; इदे: पा
 १, २, ६९; २, २, २; कस्य या
 ३, २१; पा ७, १, ७२; ७९;
 क्वात् शुभ्रा ३, १३८; पा ५,
 ४, १०३; १०९; ७, १, १९;
 २३; पावा ४, २, ५५; कानाम्
 निष् १, ६: २१; पावा ८, २, ८;
 केशुभ्रा २, ३२; पा १, २, ४७;
 ३, ३, ११४; ६, २, १४; ९८;
 १२३; पावा २, ३, ६७; ३, ३,
 ४४; ५६; ७, १, ८४.
 नपुंसक-ग्रहण- णम् पावा ७, १,
 २३.
 नपुंसक-न्व- न्वम् पावा ८, १,
 १५; न्वात् पावा ४, १, ९२.
 नपुंसक-पशु- श् आपश्रौ २२, ११,
 १८; हिश्रौ १७, ५, १०.
 नपुंसक-द्वहुवचन- नानि वप्रा २,

२, २१; नै शौच १, ८४;
 नैत काश्रौतं ४: १४.
 नपुंसक-हस्त-त्व- न्वे पावा ३, २,
 ४७.
 नपुंसक-हस्ता(त्-अ)हृदसार्वाव-
 तुक-नानिदीर्घ- वैषु पावा ३, २,
 २८.
 नपुंसका(क-आ)देश- नैम्य: पावा
 ७, १, २६.
 नपुंसकै(क ए)कवचन- नै पावा २,
 ४, ३४.
 नपुंसको(क-उ)पलजन-हस्त-
 न्वम् पावा १, १, ४७; ६, १, ५०.
 न-पुरीष- १न द्र.
 न(ति >)सी^१- न्वम् या ३, ४४^३;
 न्व्यौ अप ४८, ६०^३.
 नपृ^१- पाठ २, ९५; पा ६, ४, ११;
 न्-प्ता आपश्रौ १०, ११, ५^३;
 वैश्रौ; न्सारम् वैश्रौ ४, १०:
 १०^१; इदे २, ५५; या ३, ४;
 न्-पृ: शाश्रौ १६, ११, १५;
 इदे ५, १६३; न्पृनि: या १,
 १६^१; न्पृ वैश्रौका ८६.
 नफा- पाठमो २, २, २१८.
 √नस्^० (ववा.) पाघा. न्वा. दिवा.
 न्वा. पर. हिंसायान्, ननवे तिष
 २, १९^१; ननन्वाम् न्वा ५,
 २३; १०, ५४.
 नन(तु >)न्- न्व: तिष १, १३^१.
 ननस्^१- पाठ ४, २११; न-काश्रौ
 १७, ९, ५; आपश्रौ; द्राश्रौ ४, २,
 ३१^१; लाश्रौ २, २, १२^१; अप

a) तु. पागम. । b) वप्रा. द्र. । कर्त्तरि प्र. । तिथि-संज्ञा- (=प्रतिपद्, पष्टी, एकादशी-) ।
 c) =देवी-विशेष- । d) =मूर्च्छना-विशेष- । e) =वाद्य-विशेष- । f) भावे ष्य: द्र. उस्त्. (पा ५, १,
 १२४) । g) =दृष्टि- । वैष १ द्र. । वैतु. पागम. < नान्द- इति ? । h) श्राद्ध- , पिनुगण- । वत्त. ।
 i) भाष., नाप. । j) द्रव्य->वत्त. । k) वैष १ द्र. । l) पामे. वैष २, ३ खं. तैत्रा ३, ७, १, १ नपातार-
 दि. द्र. । m) वैष २, ३ खं. द्र. । n) =द्यावापृथिवी- । o) पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परतच्छ: द्र. ।
 p) पामे. वैष १, १७६८ d द्र. ।

†४८, ७५^a; १०८; †निघ १, ४^a; या २, १४^क; ऋप्रा ४, ६४; -भंसः वैताश्री १४, १; ३१, ४^क; कौसू २१, ७^क; अप ६४, १, ९; माशि २, ७; -०†भसः वौश्री ४, ११ : २२; हिश्री १०, ५, ४९; -†भसा आपश्री १३, २४, १९^०; वौश्री ४, ११ : २२^०; वैश्री १६, २८ : ७^०; हिश्री १०, ५, ४८^०; पाय ३, ३, ५; आमिष्ट ३, ५, ६ : ८; वौषि १, ४ : २४; -भसि कप्र १, ९, ३; अप ५१, २, ५; ५८^२, ४, ८; -†भसी^० आपश्री १४, २८, ४; वैश्री २१, १५ : १३; हिश्री १५, ७, १२; निघ ३, ३०; -†भसे भाश्री ८, ९, ८; हिश्री ५, २, ५७; माय १, १०, ११; -भांसि आपश्री २०, ११, १८; -भोम्यः आपश्री २०, ११, १८^क.

नाभस^० -सः अप ७०^२, २, ३; -सैः अप ६३, २, १. नभः-प्रसैदन^० -नः ऋअ २, १०, ११२. नभस^० -पाठ ३, ११७. नभस-तल-लम् अप ६८, १, ३२; -लात् अप ५८^२, १, ५; ९; ४, १०. †नभस्य^० -स्यः काश्री १७ ९, ५; आपश्री; -स्याः शांश्री ८, २३, १; -स्याय वौश्री ७,

१६ : १७; भाश्री ८, ९, ८; हिश्री ५, २, ५७. नभस-वत् पावा १, ४, १८. †नभस-वत्^० -वान् शांश्री ६, १२, ८^६; आपश्री ११, १४, १०^६; १७, २०, ११; वौश्री ६, २९ : १८^६; १०, ५४ : १७; माश्री ६, २, ५, ३४; वाश्री २, २, ४, २०; वैश्री १४, १३ : ४^६; हिश्री १०, ३, ४२^६; १२, ६, २०; शुप्रा ३, १५०.

नभस्वती^० -तीभिः अप्राय २, ५. नभो(भस्-भ्रं)श- -शाः अप ५२, १४, २. नभो-मध्य- -ध्यम् अप ५८^२, ४, १३.

न(भस् >)भो-रूप^० - > °प-सरूप- -पौ सु २३, ५.

१नभ^० -भम् शंघ ११६ : ५१^क; -भाय वौश्री ७, १६ : १४^क१.

नभ-पति^० -तिः अप ६७, ७, ४.

२नभ^० -पाग ५, १, २.

नभ-भाव- -वे पावा ५, १, २.

नभ्य^० -पा ५, १, २; -भ्यम् हिष्ट १, २३, १^क; -भ्यात् पावा ५, १, २; -भ्ये लाश्री ८, ५, ६; -भ्येषु कौष्ट ३, ९, ९; शांष्ट ४, ७, ८.

नभ्य-स्थ- -स्थम् पाय ३, ९, ७; -स्थयोः शांश्री ५, १३, ८; वौश्री ६, २५ : ६; -स्थे काश्री

८, ४, ५; आपश्री.

नभन्- नभस्- प्रयु. √नभ् द्र. नभाक^० - पाठ ४, १५; पाग ४, १, ११२; -के वृदे ३, १२८.

१नाभाक^० - पा ४, १, ११२; -कः ऋअ २, ८, ३९; वृदे ३, ५६; या १०, ५; -कस्य या १०, ५^क.

२नाभाक^० -कान् आश्री ७, २, १६.

१नभिहिते^० अप्राय ५, ६^क.

१नभो-गुल्म अप ७०^३, ११, ९.

नभ्र- (> °आ-गिरि- पा.) पाग ६, ३, ११६^०.

न-भ्राज^० -पा ६, ३, ७५; -०आट^१ माश्री २, १, ४, ११.

√नभ्^० पाधा. भ्वा. पर. प्रहृत्वे शब्दे

च, नमति आपश्री ७, ८, ५; १३, ४, ८xx; १४; ३, ६^६; भाश्री; नमन्ते या ४, १५; नमन्ति ऋप्रा ५, ४०; नमामि ऋअ ३, १; †नमन्ताम् काश्री २, १; ३; या ८, २२; नमध्वम् ऋप्रा ८, ४^क; अनमत् वाधूश्री ४, ६४^३; ३; ४; नमेत् अप १९^३, ३, ३; याशि १, ६२.

†नंसन्ते निघ ४, १; या ४, १५^क.

नस्यते^० ऋप्रा ५, २०.

नमयेत् आपशु १९, १०; हिष्ट ६, ३०.

†ननम्यध्वम् काश्री २३, ३, १;

a) = उदक- । b) पामे. वैप १, १७६८-८ द्र. । c) = यावापृथिवी- । d) विप. । तत्रभवीयः अण् प्र. । e) = ऋपि-विशेष- । उस. । f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १, १७६८ d द्र. । h) = ऋच्- । i) = सर्प-विशेष- । j) वप्रा. । व्यु. ? । k) = वायु- । l) = श्रावणमास- । m) पूष. = नभस्- । n) तेन-दृष्टीयः अण् प्र. (पा ४, २, ७) । o) पाठः ? नहि ते (श्री ६, ४९, १) इति शोधः संभाव्यत । p) १ नड- डि. द्र. । q) पामे. वैप १, १७६९ । द्र. । r) या ५, २३; ६, ६ पा ३, १, ८९; ७, २, ७३ परामृष्टः द्र. । s) सपा. हिश्री ९, ७, ३४ संनमति इति पामे. । t) सूर्यन्यभावमापद्यत इत्यर्थः ।

आपथ्रौ २२, १९, १; हिथ्रौ
 १७, ७, १०^१।
 ऋनन्त आपथ्रौ ७, ११, ४०;
 ८, १, ४; ऋनन्तसुः^b आथ्रौ
 ५, १, १४; आपथ्रौ; ऋनन्तसुः^b
 शंथ्रौ ६, ७, ९; काथ्रौ ९, ३, १२।
 रन्त -न्त् या ११, ९; १४, ३१;
 -तानि वा १०, २६; १४, १९।
 ऋन्त-कर्मन् -र्मणा अप १, ४१,
 ३; अशां ११, ३।
 न्त-भू -भ्रुवम् विघ १, २३।
 नत् (त-अ) नत्^d (> नात्वात्-
 तिक- पा.) पागम ३४५।
 रन्त^e -न्त् ऋप्रा ११, ४; -ते ऋप्रा
 ४, ३६; ५, ५८; १०, ३; -तेन
 ऋप्रा ११, ५१।
 नतो (त-उ) पाचरित-रुम-स्वर-
 -रान् ऋप्रा १, ६२।
 नति^f -तिः ऋप्रा ५, २; ६, १;
 १०, २०; शुप्रा १, ४२; -तिम्
 ऋप्रा ११, ३७; -तिषु ऋप्रा १,
 ६६; -तेः ऋप्रा ११, ४।
 नत्वा जैथ्रौका ४।
 नन्त्^g -न्त्वा ऋप्रा १, ६६; -न्त्
 ऋप्रा ५, ५५।
 नमत-पाठ ३, ११०।
 नमति->^h ति-कर्मन् -र्ता या ७,
 १७।
 नमस्ⁱ -पाग १, १, ३७; ४, ७४;
 ३, १, २७; -मः आथ्रौ १, २, १^१;
 ४, ९^१; शंथ्रौ; आपमं २, १७,
 २७^१; आत् २, ३, ३^१; पात्
 २, १४, ५^१; अप ४०, ३,

३^१; ऋनिघ २, ७^१; २०^१;
 या ३, २०^१; १४, ३६^१;
 -मःऽनः आपथ्रौ ४, १२,
 १०; नाथ्रौ; -मत्तः ऋप्रा ४,
 ४९^१; पावा ३, १, १९; -मत्ता
 आथ्रौ ३, ८, १; ४, ७, ४; ८, १०, १;
 शंथ्रौ; आपथ्रौ १६, ३५, ५^१; या
 ४, १९^१; -मोमिः ऋआथ्रौ २,
 १३, २; ३, ८, १५; शंथ्रौ;
 आपथ्रौ १४, १७, १^१।
 ऋनम-उक्ति^j -क्तिमिः ऋप्रा २,
 १३; -क्तिम्^k वौथ्रौ ६, ३० :
 २८; ८, ५ : १४।
 नमठक्ति-म(त् >) ती -त्या
 माथ्रौ ३, ५, १७^१।
 नमस्^l कृ पा १, ४, ७४;
 नमस्करेत् अप ५, ५, १।
 नमस्करोति नाथ्रौ १, १, २, ३४;
 २, १, ४, ४१; वैताथ्रौ;
 नमस्करोन्ति नाथ्रौ १, ७, ४, ४२;
 वैताथ्रौ १८, ११; वैथ १, ११,
 ९; नमस्करोमि आग्निगृ २,
 ४, १२ : ३; नमस्करोति वौथ्रौ
 २, ६, ४; वैथ ३, ६, २।
 नमस्-कार -रः वौथ्रौ ३,
 १२, ६; हिपिः -रम् आत् १,
 १, ४; आग्निगृ; -राः वौथ्रौ २५,
 ३० : १६; शुभ्र २, २६२;
 -रान् काथ्रौ ५, ९, २०; आपथ्रौ;
 -रेण वागृ १, १, ४^१; -रैः आपथ्रौ
 २०, १, १७; वौथ्रौ।
 नमस्कारा (र-अ) न्त^m -
 न्तम् आग्निगृ २, ५, ६ : २३।

नमस्कारो (र-उ) क्ति-
 -क्तिः शुभ्र ४, १२९।
 नमस्-कार्य-००र्य अप १३,
 ३, १२।
 ऋनमस्-कृत -त्वाः शंथ्रौ
 ६, ६, १६; -तौ अशां ९, ४;
 अप १, ३९, ४।
 ऋनमस्-कृतिⁿ -त्या वौथ्रौ
 ७, १० : ६; वौथ्रौ १५, २३ : ६;
 हिथ्रौ ८, ५, ३०; ३२।
 नमस्-कृत्य वैताथ्रौ ११,
 १३; २४, १७; आग्निगृ।
 नमस्-पुरस् -रतोः पा ८, ३,
 ४०।
 ऋनमत्य, त्या^o -त्यः आथ्रौ
 १, २, ७; द्राथ्रौ; -त्यान् आथ्रौ
 १, ४, ११; शंथ्रौ १, ६, १६;
 -त्याम् हिथ्रौ २६, १, १६।
 √नमत्य पा ३, १, १९; २७;
 ऋनमत्यते अशां ७, ५; वन १,
 ३७, ४; ऋनमत्यति अप ४८,
 १०; निघरे, ५; नमस्यन्ति वौथ्रौ
 १०, १० : ६; अप ४, ३, ६;
 भांगृ २, ११ : १०; ऋनमत्यामि
 आग्निगृ १, ५, ४ : ४८; ६, ३ :
 ३७; ऋनमत्य, > स्या आपथ्रौ
 १०, ३१, ६; माथ्रौ; ऋनमस्वाम
 आथ्रौ १, ४, ११; शंथ्रौ १, ६,
 १६।
 नमस्य शंथ्रौ ६, १, १।
 नमस्यु-स्युः ऋप्रा २,
 ६१^१।
 ऋनमस्-विन् -विनः आथ्रौ ४,

- a) अत्रनन्यध्वम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. काथ्रौ. आपथ्रौ.) । b) पामे. वैप १, १७७० a द्र. ।
 c) विप. । वस. । d) = अनुदातोदात्त- । e) पारिभाषिक-संज्ञा- (= नृध्वन्य-भाव-) । f) वैप १ द्र. ।
 g) त्वा. शंथ्रौ ४, १८, १; नात् २, ७, १ विशिष्टः पामे. । h) शोधः वैप १ परि. अक्षर- टि. द्र. । i) अत्र-
 नामन्- । j) = वज्र- । k) मनसा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ७, १२, १) । l) पामे. वैप १ वचोमिः
 ऋठ ३५, १ टि. द्र. । m) पामे. वैप १, १७७२ g द्र. । n) पामे. वैप १, १७७२ i द्र.

७,४; शांश्री १८,८,४.
 नमो(मस्-अ)न्त^१-न्तेन वैद्य
 १,३: २३; -न्तै: वैद्य २,
 १३: ११.
 नमो-नाक^२- -कम् आश्री १,
 ९,१; शांश्री १, १४, २; -के
 आश्री १,८,७; शांश्री:
 नमो-वृक्ति^३- -क्तिम् बौश्री १४,
 ३: २३.
 नमोवृक्ति-व(व>)वी-
 -व्या^४ आश्री ९,१८,१४; बौश्री.
 नमस-पाठ ३,११७:
 नम्य^५- -म्यम् ऋप्रा १, ६६.
 नन(म्य>)म्या^६- -म्या अप
 ४८,७४; निघ १,७.
 नन्न-पा ३,२,१६७; -न्न: याशि
 १, २०; -न्नम् शांश्री १२,
 १६,११; -न्नाभ्याम् आश्री २,
 १४,२०; शांश्री १, १७, १८;
 -न्ने आश्री २,१४,३१.
 नामित- -तम् याशि १,५४.
 नामिन्- -मिन: अप ४७,३,६;
 ऋप्रा; -मी अप ४७,१,८.
 नामिक- > क-रेक^७- -फात्
 शौच २,८७.
 नामि-पूर्व^८- -र्व: ऋप्रा १,७६;
 ४,४१; ५,३१.
 नाम्यु (मि-उ)प(धा>)घ^९-
 -घ: ऋप्रा ५, १; -घस्य शौच
 २, २९; ४२; ८१.
 ननम- न-द्र.
 ननम^{१०}- (>नामायन- पा.) पाग ४,
 १,११०.

नम-पर-न-द्र.
 नमस्- प्रष्ट. √नम् द्र. -
 न-मुचि^{११}- पा ६, ३; ७५; -चिम् सु
 २९, ५; -चि: शांश्री १५, १५,
 १३?; आपश्री १८, १५, ६;
 १९, ८, १०; बौश्री; द्विश्री
 २३, १, २७; वैताश्री ३०, १२;
 -चौ आपश्री १९, २, १९१.
 नमेरु- पागम १५५.
 √नय् पाधा. भ्वा. भ्वात्म. गती.
 नय- , नयत्- , नयति- √नी द्र.
 नयत्पर- न-द्र.
 नयन- प्रष्ट, नयमान- √नी द्र.
 नयात^{१२}- (>नायात्य- पा.) पाग
 ५, १, १२४.
 १नर^{१३}- पागवा ४, १, ७३; -र: बौश्री
 १५, ७; १२१; आपम; -रम्
 अप ६८, २; ३६; विध; -रस्य
 अप २१, २, ४; ६८, २, ३५;
 -रं या ५; ११६; -रा:
 बौषि १, १५; १८१; अप; या
 ५, १; ७, २१; ८, ७; ९, ९;
 १९; -रंरा: आपश्री २, २,
 ६; ११, ५, १?; -राणाम्
 आमिष्ट ३, १०, २; १०; -रान्
 अप ६८, ३, १३; या ७, २१;
 -रै विध ९९, १७; -रै: विध
 १००, ३; वैध ३, ९, १; वृदे
 ३, ३; या ८, ६; ७; -रौ विध
 ५, १८४; -रौ या ५, १.
 रनारी- वृ-द्र.
 नर-गण- -णान् शंघ ११६: ६४.
 नर-ज- -जा: विध २३, ४०:

नर-तुरग-महीरुह- -हान् अप ६८,
 ३, ११.
 नर-नगर- पाग ८, ४, ३९:
 नर-नारायण- पाग २, २, ३१, ४,
 १४; -णम् शंघ ११६: ५७.
 नर-पति- पाग ५, १, १२४; -ति:
 अप ६८, ३, ७; ४, ४; -ते: अप
 ७०, ४, ५.
 नारपत्य- पा ५, १, १२४.
 नरपति-भवन- -ने अप ७०,
 ११; २६.
 नर-पाण^{१४}- -णम् या ५, २६.
 नर-यान- नम् अप ३, १, १७; २,
 १;
 ४, १; ११.
 नर-युक्त- -क्तस्य अप ६८, २, १४.
 नर-राष्ट्र- -ष्ट्रम् या ७, ५.
 नर-वसु-मित्र- -त्रेषु शौच ३, ९.
 नर-वायस-खर-वानर-इव-पुंश्चली-
 -लीभि: शंघ ४१२.
 नर-वारण-त्राजिन्- -जिनाम् अप
 ६४, ६, ७.
 नर-वाहन^{१५}- पाग ८, ४, ३९;
 -नस्य अप १, ३२, १.
 नर-व्याघ्र- पागम ११२.
 नर-श्रेष्ठ- -ष्ठ अप ९, ४, ४:
 नर-स्कन्ध- पावा ४, २, ५१.
 नर-हा-मित्र- -त्रेषु शृप्रा ३, १०२.
 नरा(र-अ)घम- -म: विध ५, १९५.
 नरा(र-अ)धिप- -प: अप ११, २,
 १; ६८, ३, ८; ५, १७; विध ८,
 ३९.
 नरा(र-अ)पत्य- -त्यम् या ११,
 ३६.

a) विप. । वस. । b) वैप १. द्र. । c) पामे. वैप १, १७७२ i द्र. । d) = ननत- e) = रात्रि- ।
 f) = [नति-प्रयोजक-] इकारादि-स्वर- । गिति: प्र. । g) समाहारे द्वस. । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 i) 'चौ इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. मा १९, ३४ वैताश्री. च) । j) सपा. च्चै: <> 'चौ इति पामे. ।
 k) अर्थ: व्यु. च ? । l) वैप १, १७७५ d. द्र. । m) नर: इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. पूर्व स्थलं तैत्रा ३, ७,
 ७, १३ च) । n) तु. पागम. । o) वैप १ नृ-पुण- टि. द्र. । p) नाप. । वस. ।

नरे(र-इ)न्द्र-न्द्रः अप ३, ३, ८;
२४, ६, १; ६८, ३, १०; ४, ३;
-न्द्रस्य वीध २, २, ६८; -न्द्राः
आग्निवृ २, ५, १ : ५४; जैवृ २,
९ : ४; -न्द्राणाम् अप ५२, ९,
५; ७०^२, २, १; -न्द्रे अप ७१,
१९, ७.

न्रो(र-उ)त्तम-मः विध ७८, ५२;
८५, ६६; -मम् अप ३६, ७, १.
११नर्य^०- -र्य आश्रौ २, ५, २;
शाश्रौ; -र्यः आश्रौ ३, ८, १; ७,
१२, १; शुभ्र १, २०१; या ११,
३६६; -र्यम् वीश्रौ ९, २ : ८;
३:४; निस् १, ७:१६; उनिस् ५:
२५; -र्या आश्रौ ३, १०, ६;
आपश्रौ; -र्याणि वाश्रौ ३, २,
८, १.

२नर^०- पाग ४, १, ९९; ऋअ २, ६,
३५.

१नारायण- पा ४, १, ९९.

३नर^०- (> नरिल- पा.) पाग ४,
२, ८०.

नरक^०- पाल ५, ३५; -कः आपघ
१, १३, ४××; हिघ; -कम्
कप्र १, ६, ३; २, १०, ११;
वाघ; या १, ११क^०; २, ११;
-कस्य विध ३३, ६; -काः
विध ४३, १; -काव विध १५,
४४; माशि १५, १०; याशि २,
१०१; नाशि २, ८, २५; -कान्
वैध ३, १५, १२; -काय आपघ
१, १२, १२; विध ३०, ४२; हिघ
१, ४, १३; -कै हिपि १७ : ६;

शंघ; -केभ्यः वैध ३, १५, १३;
-केषु विध ४४, १.

-नरिका- पांवा ७, ३, ४४.

१नारक^०-> नारका (क-आ)
दि- -दीनाम् शौच ३, २१;
४, ९०.

२नारक^०-> नारकी- -कीम्
वैश्रौ १८, १ : ४.

नरक-पञ्जर- -राणि शंघ ३७४.

नरक-व(त >)ती- -तीः वीश्रौ
१९, १० : ४५क^०.

नरका (क-अ)भिभूत-दुःख^०-
-खानाम् विध ४५, १^०.

नरदा^०- (> ऽदिक- पां.) पाग ४,
४, ५३.

१नरा च शंसम्^० ऋप्रा २, ७८;
उस् २, २४.

नराची^०- (> १नाराच- पा.) पाग
५, ३, १०७^०.

नरालि- (> नाराल- पा.) नराची-
टि. द्र.

१नरा वा शंसम्^० ऋप्रा २, ७८;
उस् २, २७.

१नरा-शंस^०- पाग ६, २, १४०. -सः
आश्रौ १, ५, २२; ८, ७××;

शाश्रौ; यां ८, ६६; -सम् वृदे
२, २८; -सस्य वीश्रौ ३, १९ :

२; माश्रौ १, ४, २, १५; वाश्रौ
१, १, ४, १; या ८, ७; -साय
आपश्रौ २४, १२, ६.

नाराशंस- -यद्र.

नाराशंस-पीत- -तस्य आपश्रौ
१२, २४, ७^३; वीश्रौ; -तेन

वीश्रौ ७, १७ : १२; ३२××.
नाराशंस-वत् वृदे २, १५६.

नाराशंस-व(त >)ती- -ती वृदे
३, ३१; ३२.

१नरिष्ठा, छा^०- -ष्टा अप्रा ३, ४, १;
- -ष्टायै शुप्रा ५, ३७.

न-रिष्येमपूर्व- १न द्र.
१-२नर्त- , ऽर्तक- प्रस्. √वृत् द्र.

√नर्द पाधा. भ्वा. पर. शन्दे,
- नर्दति अप ७०^३, ४, ३; नर्दति

वीश्रौ ९, ३ : ९; अप ४८, ४^०;
नाशि १, ५, ८; नर्दन्ते अप ५७,
१, २××; नर्दत् वीश्रौ ९, ३ : ९.

नर्द^०-> नर्द-दुद^०- -द आपर्म
२, २२, ७^०.

नर्दत्- -र्दति वीश्रौ ९, ३ : ८.
नर्दन- -नम् अप ६४, ७, ५, ९, १.

नर्मदा^०-> द्वा-तीर- -रे विध ८५, ८
नर्मदा-ब्राहुदा-तीर- -रे शंघ १९४.

१नर्य- १नर- द्र.
२नर्य^०- -र्यम् काशु ७, ३७.

√नल पाधा. भ्वा. पर. गन्धे, बन्धने;
शुरा. पर. भाषार्थे.

१न[ना] ल- पा ३, १, १४०.
२नल[ल]म- पाग ४, २, ८०^{३०}; ६, ३,
११६^०; -नलम् आग्निवृ ३, ८,
२:४६; वीपि १, १५:५३; हिपि
१५:२०; -लेन आग्निवृ ३, ८, २:
४६; वीपि १, १५:५३; -लैः
माग २, १, १३.

१नल-प्लव^०- -वः आग्निवृ ३,
८, २:४७; वीपि १, १५:५३-

नल-मय- -यम् भाश्रौ १, २२, १.

a) वैप १ द्र. । b) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । c) अर्थः व्यु. च ? । d) वैप १ द्र. । १नर-+क-
(< √कै) इति (पाका. प्रस्. [७, ३, ४४]) । e) तस्येदमीयः अण् प्र. । f) = इष्ठा-विशेष- । g) विप. । तस.
> वस. । अभिभूत- = अनुभूत- । h) नरकानुभू^० इति जीसं. । i) = शुगन्धि-द्रव्य- । व्यु. ? । j) नरालि- इति
पाका. । k) = नदी-विशेष- । व्यु. ? । l) [पक्षे] आग्निवृ. । m) = १नद- । वैप २, ३३. द्र. । n) अर्थः ? ।
o) १नद- टि. द्र. । p) विप. । वस. ।

नल-वेणु-शर-कुश-व्यूत- तानाम्
 वीष १, ६, ४२.
 नला-गिरि- पा ६,३,११६.
 नल(ल-इ)ध्म- ध्मेन आपश्री ९,
 ३,२२; हिश्री १५,१,७१.
 नले(ल-इ)पि^०,पी(क>)का- का
 वीपि १,१४:७; -काम् आमिष्ट
 ३,८,१:७; २:४६; वीपि १,
 १५:५२; हिपि १५:१९.
 नलेपीक^०- कौ आमिष्ट ३, ८,
 ३:१४; वीपि १,१५:८५.
 नल्य- नाल्य- पा ४,२,८०.
 नलकूचर^० -रम् शंघ ११६:३४.
 नलद^० - पाग ४, ४, ५३; वीश्री
 २४,१४:१०; -देन आश्री ६,
 १०,३; अप १८,३,१.
 नलद-माला- न्लाम् आश्री ६,१०,
 ४; आमिष्ट.
 नलद-शाखा- स्वा: कौसू ५१,१२.
 नलदिक- पा ४,४,५३.
 नलदी^० -दी अप्रा ३,४,११.
 नलिन^० - पाठवृ २,४९; पाग २,४,
 ३१.
 नलिनी- पावाग ४,२,५१; -नी
 अप ७०^३,७,१.
 नलिनी-खण्ड- पावा ४,२,५१.
 न-लोप- प्रभृ. न- द.
 नल्प- जल्प- टि. द.
 नल्व- पाठभो २, ३, १२९; -ल्वम्
 आमिष्ट ३,५, ७: १८^६.
 नव,वा^० -व: शाश्री १५, १७, ११;
 अप: १८, ३, ५; -नव:5-व:

आश्री ९, ८, ३; शाश्री १४, ३२,
 ४; वीश्री; या ११, ६; -वम्
 आपश्री ५, २०; ११; १९; २३,
 १३; वीश्री; या ३, १९६; ९,
 ४३१; १०, ३; -वस्य काश्री २५,
 ८, १५; आपश्री; -वान् शाश्री ३,
 १२, १६; १७, ४, ८; आपश्री;
 -वानाम् आश्री १२, ८, २६;
 शाश्री; -वानि वीश्री २, ९:
 ११; १२: ८; २४, १८: ९;
 भाश्री; -वाम् वीश्री १७, ३१:
 १५; १८, ४५: २३; काग
 २१, १; अप ६८, २, २९;
 -वायाम् वीश्री २२, १७: १४;
 गोष्ट ४, २, १२; -वे आपश्री १,
 ६, १३; वीश्री; या ४, १५१^६; -
 -वेन आमिष्ट ३, ७, २: ३; ९, ३:
 ५; वीपि; न्या ४, १७: ९, ४३;
 -वेणु कौष्ट ३, ३, १; १३, ३; शांष्ट
 ३, ४, ३; ४, १५, ५; -वै: शाश्री
 १७, ६, ५; काश्री; -वौ वीश्री
 २०, ३२: ५.
 नव-कुम्भ- -म्भम् वैश्री १४, १८:
 १; आमिष्ट २, ४, ७: १६;
 ३, ४, ५: २; वीपि ३, १०, १^५.
 नव-कृत्^१ - कृत् शांष्ट ३, १२, ३^१.
 नव-गत^० - गत् आपम २, २०,
 ३०; आमिष्ट ३, २, २: २.
 नव-गति^६ - तय: या ११, १९.
 नव-घास- -सम् वैताश्री ४३, ६.
 नव-जात, ता^० - त: दाश्री ४, ३,
 २^१; लाश्री २, ३, २^१; या ३,

३; -तम् आश्री ३, ७, १३^१;
 -ते या ४, १५.
 नव-तर- -रम् या ६; ९; -रै: या
 ७, १६.
 नव-तोय-समुद्भव^१ - वे विष २३,
 ४५.
 नव-धान्य- -न्यम् आमिष्ट १, ७,
 ४: ४.
 नव-नामन्- -मानि या ३, १९.
 नव-नीत^० - तम् आश्री २, ६, १०;
 काश्री; -ते आपश्री १९, २३, ७;
 -तेन काश्री ७, २, ३०; आपश्री.
 नवनीत-गति^६ - तय: या ११,
 १९.
 नवनीत-पिण्ड- -ण्डम् पाठ २,
 १, ८.
 नवनीत-पृक्ति^० - शय: काश्री
 २२, ९, १३; -श्री: आपश्री २२,
 २०, १४; हिश्री १७, ७, २५.
 नवनीत-भाव- -त्वात् वीश्री
 १४, २९: २४.
 नवनीत-मिश्र- -श्रेण कौसू २८,
 १३; -श्रे: कौसू २९, २३.
 नवनीता(त-अ)न्वक्त- -क्तम्
 कौसू ३५, ३५; -क्तेन कौसू २९,
 २२.
 नव-परिरध्य^० - ध्यान् वाधूश्री ३,
 ७६: १७.
 नव-प्राशन^० - नम् पाठ ३, १, १.
 नव-भोजन^० - ने आश्री २, ९, ११.
 नव-यज्ञ^० - जम् कप ३, ७, ९;
 -ज्ञयो: गोष्ट ४, ७, ३८; द्राष्ट

a) आमिष्ट. पाठ: । b) विप. (परिधि-) । विकारे मयट: प्र. लुक् उत्सं. (पा ४, ३, १६३) ।
 c) = कुवेर-पुत्र- । d) वैप १ द्र. । e) नाप. । व्यु. ? < √नल् इति प्रायिकम् । f) तु. पागम. ।
 g) पाठ: ? । खारी: नल्वम् इत्यस्य स्थाने वीपि १, ६: १३ खारीण्ड्वम् इति पाभे: । विशेष: पृ १६७b द्र. ।
 h) नवं कुम्भम् इति: B. । i) विप. । उत्स. उप. कर्तारि कृत्- । j) पाभे: वैप १, १७७c. ० द्र. ।
 k) विप. । बस. । l) कस: > षस. । m) = हैयन्नवीन- । n) वैप २, ३ खं. द्र. । o) विप. । बस. ।
 उप. अर्थ: ? । p) = कर्म-विशेष- । q) = यज्ञ-विशेष- ।

४, २, २३; -हे गोयु ३, ८, ९;
 द्रागु; -हेन कप्र २, ९, २१; ३,
 ६, १८.
 नावयज्ञिक- पावा ४, २, ३५.
 नव-रथ- -येन आगु २, ६, ९.
 नव-वस्त्रा(स्त्र-अ)लंका(र>)रा-
 -रायाः वैगु ३, ३ : १.
 नव-वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीय-पुष्पाद्य-
 -यैः वैगु ४, ८ : २.
 नव-शाला- -लायाम् कौसु २३, १.
 नव-श्राद्ध- -द्धम् वौपि २, १०, ६२;
 वौध ३, ६, १०; विध-४८, २१;
 -हे वौगु ३, १२; १३; वौपि
 २, १०, ७; शंघ ४३२.
 नव-स्थाली- -स्थ्याम् काश्रौ १६,
 ७, ८.
 नव-स्वस्तर^a- -रे आपगु १९, ९.
 नवा(व-अ)न्न- -न्नम् वौश्रौ १३,
 ४३ : १; वैश्रौ; -त्रे वैगु ६,
 १९ : ७.
 नवान्न-प्राशन- -ने आमिगु २,
 ७, ४ : २; कप्र २, ९, २१.
 नवान्नप्राशाना(न-आ)ज्यस्क-
 ज्ञा(ज्ञ-अ)वधूत-हीनमन्त्रा(न्त्र-
 अ)धिककर्मन्^b- -र्मणः वौगु
 ४, ११, १०.
 नवा(व-अ)रणि- -णी वैश्रौ २०,
 ३१ : ६.
 नवा(व-अ)वसान^d- -नम् कागु
 ११, १; -ने आपश्रौ ६, २, १६०.
 नवा(व-अ)वसित^e- -ते काश्रौ ४,
 १३, ८०.
 नवा(व-अ)शन- -ने माश्रौ ५, १,
 ७, २८.

नवा(व-आ)हुति- -न्तीः जैगु १,
 - २४ : ३.
 नवि(ष्ठ>)ष्टा- -ष्टया वौश्रौ ५,
 १५ : १४१.
 नवी^f/कृ>नवी-कृत्य आगु २,
 ३, ३.
 नवीन- पावा ५, ४, ३०.
 नवीयस्- -यांसम् वौश्रौ ९, १६ :
 २८१.
 नवो(व-उ)दूध(त>)ता- -तायाम्
 विध ९९, १३.
 नवनव्य^g- पावा ५, ४, ३६९; -व्यः
 या ३, ३६; -न्यम् आश्रौ
 ६, ३, १; ४, १०; शाश्रौ; या
 ६, ९६; २३; ऋप्रा ७, २५;
 -न्यम्ऽन्यम् वौगु ३, ११,
 ४; -न्येभिः आश्रौ ६, ४, १०;
 ऋप्रा ५, ५९; उसू ३, ६.
 नवनव्यस^d- -न्यः आश्रौ २, १०, ४;
 ७, ४, ६; शाश्रौ; -न्यसा ऋप्र
 २, ६, ६; -न्यसे वौश्रौ ९,
 १४ : २; ५; ७.
 नवनव्यसी- -सी शाश्रौ १४,
 ५६, ६; -सीभिः आश्रौ २,
 ९, १४; ८, १४, १८; -सीम्
 आश्रौ २, १५, २; ५, २०, ६;
 शाश्रौ १०, १०, ८; निसू ३,
 ९ : २०.
 नवनवकम् कौगु ३, १५, २६.
 नवग्राम^h- -माः वौश्रौ ४६ : ३.
 नवन^d- पाठगु १, १५६; -व आश्रौ
 २, १६, ९; १२××; शाश्रौ;
 या ३, ९; १०६; ६, ५; १४, ७;
 -वऽव आश्रौ १२, ५, १७;

शाश्रौ; -वभिः आपश्रौ २१, १७,
 ३; वौश्रौ; -वभिःऽवभिः
 आपश्रौ २१, १३, १२; -वभ्यः
 वृदे १, २४; पा ७, १, १६; -वसु
 शाश्रौ ६, ९, ६; काश्रौ; -वानाम्
 शाश्रौ ७, ११, ४; १३, ४××;
 आपश्रौ २१, १४, ३; वाश्रौ.
 नव-कⁱ- -कः काशु ७, १५; ऋप्र;
 ऋप्रा १६, ५३; -कम् ऋप्र
 ३, १७; १८; वृदे; -कयो-
 ऋप्र १, ६, ५; शुप्र ५, ३६;
 -कस्य वृदे ३, ६६; -काः
 पि ३, ३३; आज्यो ११, ७; -के
 अप १, ७, १; काशु; -केन वृदे
 ३, ७५; -कैः उनिसू १ : ३२;
 वेज्यो १६; २७; -कौ ऋप्र १,
 ९, ५; शुप्र ५, ६४; ऋप्रा १६,
 ४०; पि ३, १२.
 नवक-प्रभृति- -तयः निसू १
 ९ : १४.
 नवका(क-अ)ष्टकै(क-ए)कादशा-
 (शन्-अ)ष्टन्^k>°ष्टिनी^l- -नी
 शुभ ५, ४९.
 नव-कपाल- -लः आपश्रौ १०, ३०,
 १२; २२, १८, १८; भाश्रौ;
 -लम् काठश्रौ ८८; वौश्रौ.
 नव-करण^m- -णः वौशु १८ : ८.
 नव-करणीⁿ- -णी काशु ३, ६.
 नव-कृत्वस्(ः) आश्रौ ११, ५, ६;
 आपश्रौ; नवकृत्वःऽनवकृत्वः
 वौश्रौ २१, २१ : १.
 नव-कोष्ट^o- -ष्टम् अप २१, ४, ५.
 नव-गण- -णाः आज्यो ९, ११.
 नव-गृहीत- -तम् आपश्रौ १३,

a) कसं. उप. = शय्या- । b) समाहारे द्वसं. । c) पाठः ? र्भणि इति शोधः । d) वैप १ द्र. ।
 e) परस्परं पाभे. । f) = नवावसान- । g) पाभे. वैप १, १७७८ ० द्र. । h) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? ।
 i) परिमाणे कन् प्र. । j) उत्तरेण संधिरापः । k) द्विनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । l) तद्वितार्थे द्विसं.
 m) = त्रिःप्रमाणा- रज्जु- (= ३^२) । n) विप. । वस. ।

१४, ६; १८, ४; वैश्री; -त्ते
 हिथ्री १०, ७, १७^२;
 नव-ग्रह-ज- -जा: वैश्र ४, १४ :
 १६.
 नव-ग्रह-दैवत्य^१ - स्वस् वैश्र ६, ५:
 १.
 नव-ग्रह^२ - नवा: माश्री ५, १, २,
 १७; कौश्र ८१, ३६; या ११,
 १९६; -ग्वास: आश्री ९, ३, २२;
 -वै: आश्री ९, ३, २२.
 नव-ग्रह-शब्द- -न्द: ऋप्रा ७,
 ४६.
 नव-च्छदि^३ -दि आपश्री ११, १०,
 १२; वौश्री ६, २७ : १७; हिथ्री
 ७, ७, २०.
 नव-तर्क^४ - र्कम् काश्री १५, ५,
 २७.
 नव-त्सु (:) आश्री ८, ५, ७; वौश्री
 १५, २३ : १३^२.
 नव-त्ति^५ - पा ५, १, ५९; -ति:
 आश्री १, ३, २४; शाश्री;
 -तिम् आश्री ८, ३, १०;
 शाश्री; -ती आज्यो १, ६^२;
 -ती: सु २०, २; वृदे ६, ११५;
 ७, ५१; -ते: शौच ३, ८२;
 -त्या आमिष्ट २, ४, ९ : ९.
 नव-दशम्-> श- -श: वौश्री
 १०, ४२: ५; -शे अप ४: २५.
 नव-दशा(श-अ)पर^६ - रे अप
 ४ : २५.
 नव-द्वार^७ - रम् अश्र १०, ११^१.
 नव-धा वैश्री १, ८: १३; १४, २: ६;
 हिथ्री; नवधाऽनवधा वौश्र ७:
 १७.
 नवधा-कृत- -तयो: निस् ५,

१२: ५.
 नव-नक्षत्रक^८ - के आज्यो ९, १०.
 नव-नवति- -ति: वौश्री १६,
 ३६: १७; २१.
 नव-प(द>)दा^९ - -दा अश्र १०,
 ९; -दा: निस् ३, १३: ३८;
 ४२; ४३.
 नवपदी^{१०} - दी या ११, ४०^१.
 नव-प्रकार^{११} - रम् कौशि ३४.
 नव-प्रयाज^{१२} - जम् काश्री ५, २, ७;
 वौश्री २४, ११: १०; -जस्य
 वौश्री २४, १०: १७; -जेन
 वौश्री २४, ११: ११.
 नव-प्रवा(द>)दा^{१३} - दा निस् ६,
 ९: १.
 नव-भाग^{१४} - ग: काश्र २, १७.
 नव-म- -म: शाश्री ५, १७, ९; १६,
 २८, ३; २९, १७; वौश्री; -मम्
 आश्री ४, १२, २; शाश्री;
 -मस्य वौश्री १७, २५: ९;
 २६: ९; छुस्; -मात् छुस् ३,
 १: १४; १०: ३९x४; निस्;
 -मानि वेज्यो ३९; -मे आश्री
 १०, ७, ९; शाश्री; या १४, ६;
 -मेन वौश्री २९, २: ७; माष्ट;
 -मे: लाश्री ७, ७, ११^२.
 नवमी- -मी आश्री ७,
 ७, ६; शाश्री १६, २८, २;
 वावृथी; आज्यो ६, १०^१; -मीम्
 शाश्री ९, ८, ३; आपश्री; -म्या:
 आपश्र १७, ९; हिश्र; -म्या
 वौश्री १०, २९: १०; वैश्री; -म्या:
 काश्री १९, ७, ४; माश्री; -म्याम्
 काश्री २०, १, २^१; आपश्री;
 विघ ७८, ४४^१; वृदे २, १४९;

आज्यो^{१५} - ६, ३; १३; १३, ७.
 नवमी-युज्- -युगिभ:
 ऋश्र २, १०, १०^१.
 नवमी-वर्जम् वाग ३,
 १३.
 नवम्य(मी-अन्त्य)>
 न्या^{१६} - नन्त्ये ऋश्र २, १, ३४;
 १०, १०१.
 नवम्या (मी-२आद्य
 >)द्या^{१७} - द्या: ऋश्र २, ७,
 ५९^१.
 नवम्ये (मी-ए)
 कादशी- -इयो ऋश्र २, ६, २१.
 नावमिक- -कम् निस् ५,
 २: २८; ८, ३: ३१.
 नावमिकी- -की: निस्
 ८, ६: २३.
 नवम-दशम- -माभ्याम् लाश्री
 ७, ५, १९; -मे वौश्री १६, १०:
 ४; निस् ४, ११: ५; ८, ३:
 २८.
 नवम-दशमै(म-ए)कादश- -शम्
 वाश्री ३, ४, १, ५२.
 नवम-प्रवृत्ति- -तिषु निस् १०,
 २: ३१; ३२.
 नवमै(म-ए)कादश- -शो वौशि
 २, १०, ६; -शो वैश्री १०,
 २१: ५.
 नव-मास- -सात् अप ७१; २, ५.
 नव-रात्र^{१८} - त्र: आश्री ८, ७,
 ११; १०, ३; २१x४; शाश्री;
 -त्रम् आश्री १०, ३, १८; ११,
 ६, १३; शाश्री; -त्रस्य आश्री
 ११, ३, २; हिथ्री १७, ६, ३;
 -त्रा: काश्री २४, ३, २०.

a) विप. 1 वसं. । b) वैप १ द्र. । c) समाधान्तः षच् प्र. उसं. (पाठां ५, ४, ७५) । d) पाठः ?
 ०वी: इति संभाव्येत । e) नवदशात् [= शौ ८ + ९, ९] + अपरे (= पूर्वे [= शौ ९, ८]) इति कृत्वा पसं. ।
 f) = तिथि-विशेष- । g) = याग-विशेष- । तद्विधायै द्विसं. ।

आपश्रौ २२, २३, ८; हिश्रौ १७,
८, २६; -त्राव आपश्रौ १०, ४,
५; -त्राय शाश्रौ १८, २४, ५;
बौश्रौ १६, ३१ : १०; -त्रे
आश्रौ १२, ७, १०; काश्रौ;
-त्रेण शाश्रौ १६, २८, १; ५;
-त्रौ आश्रौ १०, ३, २०.
नवरात्र-नर्म^a - नर्मः हिश्रौ १८,
३, ३.
नव-रात्र^b - अत्र वैश्रौ २, ११ :
२; हिश्रौ; -त्राव आमिष्ट २,
७, ९ : ४६; भाष्ट ३, २१ : ९;
-त्रैः निस् ५, १२ : १४.
नवरात्र-प्रभृति- तयः निस्
९, ८ : ३०.
नवरात्र-वास्तु- त्तौ आपश्रौ
६, २८, ६.
नव(व-क्त)वै^c - चैः द्राश्रौ ९, ३,
१५; लाश्रौ ३, ७, २; -चैम्
शाश्रौ १०, ६, २; १८, १, ५;
काश्रौ; -चैस्य अत्र १, ३;
-चैनि शाश्रौ १५, ८, १३; -चै
शाश्रौ १८, २, ३; -चैन आमिष्ट
३, ६, १ : १९; बौषि; -चैस्यः
अप ४६, १०, ६१^d.
नव-वर्ग- नार्णाम् आश्रौ ११, ५,
७; काश्रौ २४, ३, २१.
नव-विध- -घः कौस् ९२, ११;
-धम् शाश्रौ १६, २८, १; २;
५.
नव-वृत्ति^e - -त्तेः बौष ३, १, ७.
नव-वैराज-त्रयोदश- -शैः ऋअ १,
६, ६; शुअ ५, ३७.
नव-शाय^f - -यम् काठश्रौ १००.
नव-सप्तदश^g - -शः आश्रौ १०, १,

२; काश्रौ २३, १, १४; आपश्रौ
२३, ७, ६; -शेन आपश्रौ २२,
१३, २०; हिश्रौ १७, ५, ४०;
नव-सूक्त^h - -क्ताः अप २ : ११.
नव-होतृⁱ - -ता बौश्रौ १७; २१ :
९.
नवां(व-अंश>)शा^j - -शाः बौश्रौ
२७, ४ : १.
नवा(व-अ)क्षर, रा^k - -रम् वाधूश्रौ
४, १०० : १०; २८; -रा
शाश्रौ १६, २८, २; -राः निस्
१, २ : २४; ६ : १४; ऋप्रा
१६, ५१; -रास्याम् उनिस् २ :
२९.
नवाक्षर-चतुर्दशाक्षर- -रौ निस्
१, ४ : २३.
नवाक्षर-ता- -तायाः निस् १,
१ : १०; १५.
नवाक्षर-प(द् >)दा^l - -दा
ऋप्रा १६, ५०.
नवा(व-अ)ङ्गुल- > ल्ला(ल-
आ)यत^m - -तम् वैश्रौ ११,
८ : ८.
नवा(व-अ)ङ्गु(ल >)लाⁿ - -ला
अप २६, ३, ५.
नवाङ्गुल्य^o - -ल्यम् याशि १,
५५.
नवा(व-अ)नुगान^p - -नम् जैश्रौप ३.
नवा(व-अ)नुयाज^q - -जम् काश्रौ
५, २, ७.
नवा(व-आ)याम- -मम् आपश्रौ
११, ८, १; वैश्रौ १४, ६ : १३.
नवा(व-अ)रत्नि^r - -न्नि माश्रौ २, २,
३, १३; वैश्रौ १४, १० : ५; -न्निः
आपश्रु ७; १; हिश्रु २, ४६१;

-त्तेः बौश्रौ २४, ३५ : ६.
नवारत्नि-प्रभृति- -तयः बौश्रौ
२४, ३५ : ६.
नवारत्नि-मात्र- -त्रः चव्यू ४ :
१८.
नवारत्नि-विस्तार^s - -रम् आपश्रौ
११, ९, ७.
नवा(व-अ)ञ्जि^t - -ञ्जिम् आपश्रौ
१६, ४, ११; बौश्रौ १०, ५ :
१९१; हिश्रौ ११, १, ५४.
नवा(व-अ)ह^u - -हः शाश्रौ १३,
१७, २; -हम् निस् ५, १० :
१६; ११ : २३×४; -हान् निस्
१०, ४ : २; ४; १२.
नवाह-कारिन् - -रिणः निस् ५,
७ : ३.
नवाह-योग- -गात् लाश्रौ १०,
३, १९.
नवाह-यो(ग >)गा^v - -गाः
निस् ५, ६ : १०; ११; ९, ५ :
११; १२.
नविन् - -वी लाश्रौ ६, ७, १६.
नवै(व-ए)कादशन् - > शिन्^w -
-शिनौ ऋअ १, ७, ८.
नवो(व-उ)त्तर^x - -रम् ऋप १, ६, ९.
नवो(व-ऊ)न^y - -नः द्राश्रौ ८, ४, ५;
लाश्रौ ४, ८, ५; निस्.
नवन- ✓तु द्र.
न-चलमीक- १न द्र.
नवाक- पाटना ४, १४.
नविष्ट- नवी ✓क, नवीन- नवीबंस्-
नव- द्र.
नवेदस्^z - पा ६, ३, ७५; -नदा^{aa}
अप ४८, ८५; निघ ३, १५.
नव्य- नव्यस्- नव्यसी- नव- द्र.

a) विप. । वस. । b) समाहारे द्विस. । c) विप., नाप. । d) =सूक्त-विशेष-, तद्द्रष्ट- च ।
e) वस. उप. =हस्त-प्रमाण- । f) तद्वितार्थे द्विस. वा. कस. वा । g) तद्वितार्थे द्विस. । h) स्वार्थे षट् प्र. ।
i) वैप १ द्र. । j) विप. (पाद-) । k) विप. । वृत्त. । l) नैषादि-नामन्- ।

√नश्(वधा.) √नश्-द्र. ...
 √नश्^१ पाषा. दिवा. पर. अदर्शने,
 √नश्नन्ति वाथौ ६, १४, १८;
 ९, ५, २.
 नश्यते अप ९, २, ६; ११, २, ४;
 ५३, १, ५; नश्यति आपथौ १०,
 १४, ९, १; वौथौ; या ३, १, ५, १;
 नश्यते शांठ ५, ८, ५; नश्यन्ते
 अप ८, २, २; विघ ६४, ४१;
 आञ्यो २, ४; नश्यन्ति वौथौ
 १४, ३; १९; अप; नश्यसि या
 ९, ३०, १; √नश्यतु आमिगृ २,
 ५, ४; १०; ११; १२;
 √नश्यतात् आपमं २, १३, ८;
 १०^b; पागृ; आमिगृ २, १, ३;
 १०^b; भागृ १, २३; ६^b;
 हिद्य २, ३, ७^b; नश्यताम्
 काय ३, ५, १, १; नश्येत अप
 ३७, १८, १; नश्येत आपथौ
 ५, २९, १२; ९, १३; १३, १०;
 काथौ; नश्येयुः आपथौ ९, १५,
 १४; वौथौ.
 ननाशं वृदे ५, १७; या १२,
 ११, १.
 नाशयति हिथौ ७, २, ८६; अप
 १२, १, १०; वाष २७, ७; या
 १२, २८; नाशयन्ति भाथौ
 १०, १८, १३; अप ६८, २, ५१;
 √नाशयामसि आपथौ २, ५, १०;
 वौथौ; आपमं १, १५, ४^d;
 √नाशयन्तु^c आपमं २, ९, १०;
 वौथ १, २, २०; भागृ २, २३;
 ९; √नाशय आपथौ ४, १५, १;

भाथौ; नाशयध्वम् विघ ४८,
 १९; नाशयेत् अप २, ४, ३;
 १६; २, १, १०, ४; नाशयेयुः
 आपथौ १०, २७, ६; नाशयेयम्
 वौथौ १३, २६; १७.
 √नानीनशत् आपथौ १३, ७, १६;
 हिथौ; √नानीनशः आपथौ ४,
 १५, १; भाथौ ४, २१, १; हिथौ
 ६, ४, १८.
 नष्ट्वा, नशित्वा पा ६, ४, ३२.
 नश्यत्- -शयतः अप ६८, २,
 ५०.
 नश्यर- पा ३, २, १६३.
 नष्ट, घा- -ष्टः वैथ ३, १५, १२;
 अप्राय ६, ४; -ष्टम् आगृ ३, ७,
 ९; कौसु; -ष्टयोः शाथौ ३, १९,
 १७; -घा वौथौ ६, ८; ८;
 वैथौ २०, ३५; ९; कप्र ३, ९,
 ११; -घाः सु ४, ५; गौध १२,
 ३९; -घाम् आपथौ १०,
 १८, ८; भाथौ १०, १२, ५;
 वैथौ १२, १४; ४; -ष्टे आथौ
 ३, १३; ९; ६, ८, १; शाथौ;
 -ष्टेषु वौथौ २०, १९; २३, १०.
 नष्ट-चन्द्रा(न्द्र-अ)कं^f -कं
 सु ४, २.
 नष्ट-चे(घा)ष्ट^e -ष्टः सु ४,
 २^d.
 नष्ट-प्रत्यासृ(त)ता- -ताम्
 आपथौ १२, २, ४.
 नष्ट-रूप, पा^g -पः वृदे ४, ६४;
 -पा ऋअ १, ६, ६; शुअ ५,
 ३७; ऋप्रा १६, ४१.

√नष्ट-व(स्त)त्ता^h -स्ता
 आपथ २, १७, ८; हिघ २, ५,
 ३७.
 नष्ट-सं(ज्ञा)त्ⁱ -स्तस्य वृदे
 ७, ८४.
 नष्टा(ष्ट-अ)ग्नि^h -ग्निः आमिगृ
 ३, ९, १; १; वौषि २, ५, १;
 -ग्नेः वाथौ १, ५, १, १.
 नष्टा(ष्ट-अ)रणि- -णी वौथौ
 २७, ८; ४.
 नष्टा(ष्ट-अ)रणी-क^h -कस्य
 वौथौ ३, ३, २१; २०, १९; २२;
 २४, १९; ९; वैथौ १, २०;
 १५.
 नष्टा(ष्ट-अ)श्व-दग्ध-रथ^l -
 वत् पांवा १, १, ५०.
 नष्टा(ष्ट-अ)सु^h -सवः अअ
 १०, ४, १.
 नष्टै(ष्ट-ए)धिर्^h -धिणाम् कौसु
 ५२, १२.
 नष्टवल्- -वान्-आथौ ४, ११;
 ६.
 नष्टि^h -पावाम ३, २, १०८.
 नष्ट्य(ष्टि-अ)धिगत- -तम्
 माथौ ३, १, २५.
 नष्ट्वा पा ६, ४, ३२.
 नाश- -शाः वैथौ २०, ३२; ४; अप
 ५३, ४, १; ७१, १५, १; -शम्
 वाथौ १, ५, ४, ४४; कप्र ३, ३,
 ६३; अप ७०^h; ११, १५; -शो
 काथौ २०, २, १८; काथौसं.
 नाशन^l -नम् अप ६४, ४, ७;
 वाथ १२, ४१; विघ ३३, ६;

a) शौच ३, ९० पा १, ३; ८६; ७, २, ४५; ८, २, ६३; ४, ३६ पावा ६, ४, १२०; ७, २, ११४ परामृष्टः द्र. ।
 b) [एकतरत्र हिद्य.] पाभे. घृ२४९। द्र. । c) पाभे. वैप २, ३खं. नाशयामसि तैत्रा ३, ३, २, १ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १,
 १२०८० द्र. । e) पाभे. वैप २, ३खं. निर्दहन्तु टि. द्र. । f) वैप १ द्र. । g) विप. । वस. । h) पाभे.
 वैप १ ? प्लवायति लि २, १, ४ टि. द्र. । i) वस. > वस. > वस. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) तु. पागम. ।
 l) मानाथयै वृद. ।

ने आपध २, २८, ६; हिघ २, ६, ६; या ६, ३०; पावा ३, १, ६^a.
 नाशनी- नी पाठ ३; १३, ५^b
 नाशना(न-आ)कुल- लैः अप ७०, ८, ४.
 नाशना(न-अ)र्थे- र्थम् वृदे ७, १५.
 नाशि(न >)नी- नी^b-आपमं २, २२, १; हिघ १; १५, ३.
 नाश्य, श्या- श्यः आपध २, २६, २१; २७, ८; २०; हिघ २, ५, २२७; २३८; श्याः कौस १००, २^c.
 नाशान्, ष्टा^d- पाठमो २, ३, ७७५; ष्टाणाम् आपध ११, १२, २; वीश्रौ ६, २८; २९; वैश्रौ १४, ८; १; ष्टाम्यः^e वीश्रौ २, ७; १२; १२, ९; २५; पाठ २, ६, ३१; ष्टाम् आपध १६, १६, १; वैश्रौ १८, १४; ४.
 न-शब्द-प्रत्यय- न- द्र.
 न-शर्करा-मिश्र- न-शाहवल-मिश्र- १ न द्र.
 नश्यत्- नष्ट- प्रसृ. √नश् (आदर्शने) द्र.
 √नस्^b पाधा. श्वा. आत्म. कौटिल्ये, नसते¹ निघ २, १४^f; नसति¹ अप ४८, ४८^f; नसन्त¹ आपध १७, १८, १; निघ ४, १; या ४, १५; ७, १७^g.
 नस्¹- नसम् पा ५, ४, ११८; नसि

कप्र ३, २, ९; नसोः वीश्रौ ३, २५; ८; भाश्रौ.
 नः-शुद्ध¹- पावा ६, १, ६२.
 नस-तस् (:) आघ १; १३, ५; कौघ १, १२, १; ८; शांघ १, १९, १; २०; ५; वैघ.
 नस्य¹- पावा ६, १, ६२.
 न-संस-त, न-सिक्त- १ न द्र.
 निसृङ्गावौ अप १, ८, २.
 √नह्^b पाधा. दिवा. उभ. वन्धने, नहते वीश्रौ १४, ४; १४.
 नह- नहः हिश्रौ २३, १, ११; भाशि ४९^f; नहम् लाश्रौ ८, ६, ७; ऋप्रा १४, ४.
 नह-युग¹- नहम् आपध १, १७, ५; १०, २४, ४; हिश्रौ १, ५, ७; नो आपध ११, ६, ३; भाश्रौ १२, ६, ९.
 नह-विमोक्ष- नक्षे पाठ १, १०, १; गोघ २, ४, ३.
 नह(ध >)श्री^m- पा ३, २, १८२.
 नहमान- नहम् आघ ३, १२, ११.
 नाह¹- नहम् वैश्रौ ११, ८; १४.
 नहस्¹- नसः सु २२, १².
 नहि¹ वीश्रौ २८, ९; २०.
 नहि १ न द्र.
 नहुप¹ पाठ ४; ७५; नः सु २३, ३²; ऋश्र २, ९, १०१; साश्र १, ५४६.
 ननाहुप¹- नह्यं वृदे ६, २२; नः ऋश्र २, ९, १०१; वृदे ६, २०; साश्र १, ५४७.

नहुष-पुत्र- नम शंघ. ११६; ३५.
 नहुस्¹- नहुषः अप ४८, ७८; निघ २, ३; ऋप्रा २, ४४; ८; ३.
 ननाहुष- > षी¹- षीषु शाश्रौ १०, ६; १५^f.
 नह- १ न द्र.
 नाक- पा ६, ३, ७५^g; नक आपध १०, ३, २; भाश्रौ १०, १३, ३; नकः शाश्रौ ८, २५, ३; आपध २, १४^h; नकम् आपध ४, ७, ४; शाश्रौ; आपध १४, १७, १²; हिश्रौ १५, ५, १²; या १, १८, १२, १३; ४१; नकस्य काश्रौ २, २, ८; आपध १, ३; नक आपध १९; आपमं २, ६, ९; नके आपध ४, ७, ४; शाश्रौ ५, ९, १७; १०, १५; काश्रौ २२, ६, १५; आपध ७, ५, १²; १६, १८, ७; वीश्रौ; भाश्रौ ७, ४, १²; माश्रौ ६, २, ३, ८²; वाश्रौ २, २, २; १२²; हिश्रौ ४, १, ६२².
 नाक-स्व- नस्वम् वाधुश्रौ ४, १९²; १३.
 नाक-पृष्ठ- नकः आमिघ ३, ४, ४; १०; १२; नकम् वीषि ३, ४, १४; १५; गौपि; नष्टे कौघ ३, १०, ३५; वाध २९, २१²; आपध १, २३, १; हिघ १, ६, ९.
 नाक-सद्¹- नससु वाश्रौ २, २, १, २४; हिश्रौ १२, १, २३; नसदः

a) तु. पासि. । b) सप्र. नाशनी <> नाशिनी इति पाभे. । c) वा¹ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. सप्र. आपध.) । d) पुं. स्त्री. च । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, १७८३ n द्र. । g) पाभे. वैप १, १५३१ j द्र. । h) या-६, १७, ७, १७ परामृष्टः द्र. । i) वैप १, १७८४ b द्र. । j) सुष्पुपीयः समासः (तु. कैयटः) । k) पा ६, ३, ११६; ८, २, ३४ परामृष्टः द्र. । l) विप. । वस. । m) = चर्मरज्जु- । n) करणे घष् प्र. । o) अर्थः व्यु. च ? । p) पाठः ? नाडभि (प्युः) इति शोघः । q) = राज-विशेष- । r) = सर्प-विशेष- । s) तस्यापथ्यीयः अण् प्र. । t) पाभे. वैप १, १७८५ f द्र. । u) पाभे. वैप १, १७८५ h द्र. । v) = इष्टका-विशेष- ।

आश्रौ ९, ८, २६^०; काश्रौ;
-सदाम् शाश्रौ १४, ७३, २^०,
आपश्रौ २२, ५, १५^०; वीश्रौ;
हिश्रौ १७, २, ४३^०.
नाकसत्-प्रभृति- -ति काश्रौ
१७, ७, १८.
नां-शब्द- नाम् द्र.
नाकु- पाठ १, १८.
रिनाकुल- १नकुल- द्र.
रिनाकुल- २नकुल- द्र.
नाक्षत्र- नक्षत्र- द्र.
नाखर- २नखर- द्र.
नाग^०- पाठ ५, ६१; पागम १५५;
-गम् वाधूश्रौ ४, २८^३; २;
२९^३; ५; आज्यो^० ४, ६; ११;
-गस्य आज्यो ५, १५^०; -गा:
सु ३०, ६; आग्य; -गान् सु ३०,
५; वैगृ १, ४: २२^१; कप्र २,
२, ३-८; शंघ ११६: २२;
-गानाम् सु ८, २; अप ३६, १,
१०; ५३; ४, २; वैज्यो ४; -गे
आज्यो ४, १३^०; -गौ सु १४, १.
-गनागी- पा ४, १; ४२; -गी
सु २, १.
नाग-दन्त- > ^०न्त^० -न्ता: वीश्रौ
२२, १९: ११.
नागदन्त-क- > ^०क-सुद्रा^०-
-द्राम् अप ६८, २, २६.
नाग-दिव्य- न्यान् वैगृ १, ४:

२२^१.
नाग-मातृ^१- -त्रे वीगृ २, ८, १२^१.
नाग-वीथी^१- -थीम् अप ५०, ४, ४.
नागवीथी-गत- -त: अप ५०,
६, २.
नागा(ग-अ)धिपति- -ति: वाध
२९, ६.
नागे(ग-इ)न्द्र- -न्द्रा: अप ५३,
२, ४.
नागकेशर^१- -रम् अप ३५, ३, २.
नागर-, ^०क-, ^०रैयक- २नगर- द्र.
रनागी^१- -गी अअ ९, ६; १५, १४;
पि ३, १२.
नागन्य- नगन, नना- द्र.
नाङ्गक्षत्र- १न द्र.
नाचिकेत- नचिकेत- द्र.
नाट^१- पाग २, ४, ३१^१; ४, १, ४१^१.
नाटी- पा ४, १, ४१^१.
नाटक-, नाट्य- √नट् द्र.
नाटायन- २नट- द्र.
नाडि^१- -डीन् वाधूश्रौ ३, ९०, २;
५; ९.
ना(ड, ल^१ >) डी, ली^१- -डी कौसु
२२, ९^१; -डी: आपश्रौ १,
३, ९^१; २१, १७, १७^१; १९, ४^१;
भाश्रौ १, ३, १०^१; निघ १,
११^१; -डीम् वीश्रौ १४,
१७: २३^१; कागृ १७, २^१;
-ड्याम्^१ पागृ १, १६, ३; वैगृ

६४: २.
नाडि(क >)का^१- -क्या वैध १,
११, २; -काया: वैज्यो २४^१;
-के वैज्यो ३८^१.
नाडि-धम-, ^०धय- पा ३, २, ३०;
पावा १, ३, १०.
नाडी-तन्त्री- -न्त्र्यो: पा ५, ४,
१५९.
नाडी-मुख- खेभ्य: वैगृ ५, १: २०.
नातानतिक- √नम् > नत- द्र.
नातिक्रूरसृद्- ^०तीक्षण-, ^०नीच-,
^०वृहन्मुखी- १न द्र.
नात्तायन- नत- द्र.
√नाथ्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. याञ्चो-
पतापैश्वर्याऽऽशीःयुः
१^१नाथ- -थम् आपश्रौ ७, १६, ७^१;
माश्रौ ५, २, १३, १^१; हिश्रौ
६, ८, ४^१.
नाथ-काम- -म: आपमं १,
१०, ३; ६; पागृ.
नाथ-वत्- -वत: हिश्रौ १५, ५,
३९^१; -वान् आपश्रौ १४, २२,
११^१.
नाथ-विद्- -वित् आपश्रौ ७,
१६, ७; हिश्रौ ६, ८, ४; -विद्, १,
-विदौ माश्रौ ५, २, १३, १.
नाथमा(न >)ता- -नाम् आपमं
१, ११, २^१.
नाथयित- -त: माश्रौ ३, १, २८^१;

a) = याग-विशेष- । b) = सर्प-, हस्तिन- प्रभृ. । व्यु. ? < १न + अग- वा < नग- वेति अभा. ।
c) = करण-विशेष- । d) विप. । विकारार्थे षण् प्र. । e) मलो. कस. । उप. = अङ्गुलीयक- । f) = कद्रू- ।
g) नाक^० इति पाठः ? यनि. शोधः । h) = व्योम-भार्गव-विशेष- । i) = ओपधि-विशेष- । व्यु. ? । j) = छन्दो-
विशेष- [गायत्री-] । व्यु. ? । k) अर्थः व्यु. च ? । l) नाट-मस्तक- इति भारुडा. प्रभृ. । नटमक- इति
[पक्षे] भारुडा., नटमस्तक- इति [पक्षे] पासि. । m) तु. पाका. पागम. । नोट- इति भारुडा. पासि. । n) अर्थ-
वैशिष्ट्यं पागम. द्र. । o) [अश्वमेधप्रकरणतः] ?वालमयरज्जु- इति भाष्यम् । p) निघ. पाठः । q) वप्रा.
व्यु. ? । r) अर्थः ? । s) = तृण-शलाकाः । t) = वाद्य-विशेष- । u) वाङ्-नामन्- । v) = रथ-नाभि- ।
w) = नाभि-नाल- । x) = शिरा- । स्वार्थे कन् प्र. । y) = काल-परिमाण- । z) पावा १, ३, २१ पराम्ष्टः
द्र. । a^१) परस्परं पाभे. । b^१) पाभे. वैप १, १७८७ h द्र. । c^१) पाभे. वैप १, १७८७ c द्र. ।
वैप४-तृ-७९

-तम्^१ आपश्चौ ७, ३, १४; वौश्रौ;
माश्रौ १, ७, ३, १५.
शनाथ- ✓नाथ् द्र.
शनाथ^२ - > नाथ-हरि- पा ३, २,
२५.
नाद- प्रम्. ✓नद् द्र.
✓नाध्=✓नाथ् यद्र.
नाधमान, ना- नः भाशि ४९;
-नाः आपश्चौ ६, २२, १; या ४,
३६; -नाम् कागृ ३०, ३; वागृ
१६, १.
नाघ^३ - घः या २, २.
नानद् -, नानदत्- ✓नद् द्र.
नाना^४ नाश्रौ ३, ९, ४; ८, २, ९;
शाश्रौ; पा ५, २, २७; पाग १, १,
३७.
नान(ना-ऋ)क्विञ्- -क्विजः निसू ८,
६ : ५८.
नाना(ना-श्र)ञ- > शिन्- -शिनौ
वौश्रौ १२, १५ : १६; २२.
शनाना-कर्मन्- -र्मणाम् आपघ २,
२३, ११; हिघ २, ५, १६४.
नानाकर्मन्-त्व- -त्वात् मीसू १२,
३, २७.
शनाना-कर्मन्^५ - -र्मणिः या ६, ६;
-र्मणि या २, ७.
नाना-कारक- -काणाम् पावा २,
१, ३५; -कात् पावा २, १, १.
नाना-काल^६ - -लेषु हिश्रौ १, १, ६२.
नाना-कुम्भी- -म्भीषु हिश्रौ १४,
४, ५०.
नाना-क्रिया- -याणाम् पावा ३, १,
२६.^७

नाना-गृहीत- -तयोः हिश्रौ ८, ७,
४१.
नाना-गोत्र^८ - -त्राः आश्रौ १२, १०,
२; माश्रौ ३, ८, ३; -त्रान् कागृ
२४, १७; वौगृ.
नाना-गोत्र-व्यवाय^९ - -यात्
आपश्चौ २१, ३, ४.
नाना(ना-श्र)घि- -शीनाम् आपघ
२, १२, १०^६.
नाना-चतुरश्र- -श्रे वौश्रु २ : १.
नाना-चतुर्गृहीत- -ताभ्याम्
आग्निय ३, ५, ६ : २७; वौपि १,
५ : १३; -तैः वौश्रौ १९, ५ : ३.
नाना-चतुर्मुष्टि^{१०} - -ष्टी वौश्रौ २२,
१७ : २१.
शनाना-छन्दस्- -न्दः निसू ८, ६ :
३१^१; -न्दसि निसू ९, ३ : ९;
-न्दस्सु निसू ८, ९ : ४.
नानाछ (न्दस् >) न्दो-गति-
पथ^{११} - -थः विघ १, ९.
शनाना-छन्दस्^{१२} - -न्दसि अघ २,
१७.
नाना-जनपद- -दे हिश्रौ १५, ५,
२३.
नाना-तन्त्र, न्त्रा^{१३} - -न्त्रः माश्रौ ५,
१, १, ३५; निसू ९, २ : १०;
-न्त्रम् आपश्चौ ५, २३, ८; भाश्रौ
६, १८, १०; हिश्रौ ३, ८, ७७;
-न्त्राः माश्रौ ५, २, १०, ४६;
-न्त्राणि आपश्चौ ५, २१, ६;
अप्राय ३, ९; -न्त्राम् आपश्चौ
६, ३१, १; -न्त्रे हिश्रौ ६, ८, १;
निसू ७, ८ : २७; -न्त्रौ हिश्रौ

२२, ४, ८.
नाना(ना-श्र)त्यय^{१४} - -यौ निसू ८,
१२ : ९.
नाना-त्व- -त्वम् निसू २, ७ : ३;
५×४; अप ७०^३, ४, ५; मैश्र ४;
-त्वात् निसू ९, ८ : २७; -त्वेन
मीसू ८, ४, २३.
नानात्व-क्लृप्त- -सानि निसू ८,
२ : २३; -स्ते निसू १०, १ : १२.
नानात्व-प्रकान्त- -न्तेषु निसू.
१, १२ : २४.
नानात्वा(त्व-श्र)र्थ- -र्थः निसू.
६, ६ : २६^{१५}; ८, ८ : २८; ९ :
१७×४; -र्थम् निसू ७, ३ : १४.
नानात्वा(त्व-श्र)वृत्ता(त्त-श्र)
र्थ^{१६} - -र्थः निसू ८, ६ : ३१.
नाना-दीक्ष^{१७} - -क्षाः काश्रौ १४,
१, ९.
नाना-दीक्षा- -क्षाभिः विघ १, ७.
नाना-दीक्षा(त्ता-श्र)वभृथ^{१८} -
-थानि निसू ७, ३ : ५.
नाना-देवत, ता^{१९} - -तम् निसू २, ७ :
१०; -ताभिः शाश्रौ १६, ७, ८;
-ते निसू २, ७ : १५; -तेषु
आश्रौ ३, ४, ५; वाश्रौ ३, २, ६,
४७; या १३, १०.
नाना-देवता- > ता-न्यवेत-
-तानाम् आपश्चौ २४, १२, ५.
नानादेवत्य, त्या- -त्यम् अघ २,
१२; ३, ३×४; -त्या साश्र २,
६०४; -त्याः वौश्रौ ११, ४ :
१०; -त्यान् वौश्रौ ११, ३ :
३२; -त्यानाम् वौश्रौ ११, ५ :

a) पाभे. वैप १, १७८७ d द्र.। b) = नासा-रज्जु-। व्यु. ?। c) अर्थः व्यु. च ?। < ✓नह इति
दु.। d) वैप १ द्र.। e) विप.। वस.। f) कस. > पस.। g) सप्र. हिघ २, ४, ४६ अग्नीनाम्
इति पाभे.। h) विप.। वस. > समाहारे द्विस.। i) पाठः ? शब्दः इति शोधः संभाव्येत। j) विप.।
वस. > पस. समासान्तः प्र.। k) प्लवर्धः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.)। l) वृस. > वस.।
m) विप.। वस. > द्वस.।

८र्; -त्यानि अथ ४, २३.
 नाना-देश-त्व- -त्वात् पावा २, ३,
 १; ५, ३, ७२.
 नाना-देश-स्तवन- -नम् लाश्रौ
 १०, ९, ५.
 नाना-दैवत^१- -तम् अथ ६, ५३;
 -ते अथ ६, ४.
 नाना-दैवत्या^२- -त्याः याशि २, १.
 नाना-धान्य^३- -त्यानि वौश्री १०,
 ५५; १२.
 नाना(ना-अ)धिकरणा(ण-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ६, ३, ४६.
 नाना-धी^४- -धियः या ६, ६१र्.
 नाना-धूम-निभ- -भाः अप ५२,
 ३, ३.
 नाना-निर्वचन^५- -नानि या २, ७.
 नाना(ना-अ)न्त- -न्तयोः आयु १,
 ३, १; ३.
 नाना(ना-अ)न्वयो(य-उ)पाय-
 -यैः वृदे २, ९९; ११९.
 नाना-पत्र(क>)का^६- -का मायु
 २, १३, ६१.
 नाना-पद- -दानि अप्रा २, ३, १८;
 -दे शौच २, १६; ३, ७९.
 नानापद-दर्शन- -नात् शौच ४,
 २७.
 नानापद-वत् तैप्रा १, ४८.
 नानापद-संधान-संयोग- -गः
 तैप्रा २४, ३.
 नानापद-स्थ- -स्थम् तैप्रा २०,
 ३; -स्थे शुप्रा ३, ८०.
 नानापदा(द-आ)बाध- -धे अप्रा
 २, ३, १९.
 नानापदीय- -यम् तैप्रा १, ६०.
 नाना-पर्वन्- -र्वणोः निसू १०, ३ :
 ३८.

नानापर्वन्-तर- -रे निसू १०, ३ :
 २९.
 नाना-पवमानिक- -केभ्यः निसू
 ८, ९ : १७.
 नाना-पात्र- -त्रेषु भाश्रौ ८, १६, ६.
 नाना-पात्री- -त्रीषु वौश्री २१,
 १९ : १३.
 नाना-पुरुष- -पाः वौश्र १, २, १४.
 नाना-पुरुष-कल्प^७- -ल्पौ निसू ८,
 १३ : ३८.
 नाना-पृष्ठ^८- -ष्ठः छुस् २, १० : ५;
 १४ : १०; १२; ३, १ : २०;
 निसू १०, ७ : २३; -ष्ठे लाश्रौ
 ४, ५, २४; निसू ७, ८ : २७.
 नाना-प्रकार^९- -राः वृदे १, ३४.
 नाना-प्रगाथ-ता- -ताम् लाश्रौ
 १०, ६, २.
 नाना-प्रण(व>)वा^{१०}- -वे शाश्रौ ३,
 १६, ९; ७, २, १३.
 नाना-प्रतिपद्- -पदः निसू ५, १ :
 ११.
 नाना-प्रथन- -ने वौश्री २७, ३ : ४.
 नाना-प्रमाण^{११}- -णयोः आपशु २,
 ६; हिशु १, २७.
 नानाप्रमाण-समास- -से काशु
 २, २२.
 नाना-वर्हिस्^{१२}- -र्हिभ्याम् वौश्री १२,
 २ : ९; -र्हिषि हिश्रौ ३, ५,
 १४; -र्हीषि वौश्री १३, १ : १३.
 नाना-बीज- -जानाम् आपश्रौ ६,
 २९, १९; वौश्री; -जानि वौश्री
 २०, ८ : ३३; आपयु ३, १५;
 -जे मीसू ५, २, १३^{१३}; -जेषु
 काश्रौ २, ४, १०; हिश्रौ ३, ८,
 ६८.
 नाना-वृहती- -त्यः निसू ७, २ : २५.

१ नाना-ब्रह्मसामन्^{१४}- -मानि निसू
 ७, ३ : १४; ९, ३ : ४; १३, ७×४.
 २ नाना-ब्रह्मसामन्^{१५}- -मा निसू ९,
 १३ : ८.
 नानाब्रह्मसाम-त्व- -त्वात् लाश्रौ
 १०, ४, ४.
 नाना-भाग^{१६}- -गः निसू ८, १ : १७.
 १ नाना-मन्त्र- -न्त्राभ्याम् पायु १,
 १०, १; -न्त्रैः वैयु ६४ : २.
 २ नाना-म(न्त्र>)न्त्रा^{१७}- -न्त्राः
 आपश्रौ १७, २४, ७; ९×४; वाश्रौ;
 -न्त्रासु वौश्री २२, ६ : १३.
 नाना-यजुस्^{१८}- -जुषः माश्रौ ६, २,
 २, १३; ६, २९; ३१.
 नाना-यूप^{१९}- -पेषु शाश्रौ ६, ९, ५.
 नाना-योग-करण- -णम् पावा ५,
 २, ९७.
 नाना-योनि-सहस्र- -त्वाणि या
 १४, ६१.
 नाना-राग-समुत्थ- -त्यानाम् अप
 ५८, १, ४.
 नाना-राज्य- -ज्ययोः आपश्रौ १४,
 २०, ४.
 नाना-रूप, पा^{२०}- -पः यः ३, १७.
 -पाः पायु ३, ३, ५१; वृदे ५,
 ९२; ८, ७२; -पान् वृदे ६, ३२.
 नाना(ना-अ)र्थ- -र्थानाम् पावा १,
 २, ६४; -र्थानि वौश्र ४, १, १;
 २, १; -र्थेषु वृदे १, ४३; मीसू
 ७, २, १५.
 नानार्थ-त्व- -त्वात् लाश्रौ ९, ७,
 ५; पावा.
 नाना-लक्षण^{२१}- -णान् माश्रौ २, ३, २२
 १, २०; -णानि काश्रौ ११६.
 नाना-लिङ्ग-करण- -णात् पाप्रवा
 १, ९.

a) विप. । वस. । b) उप. = कर्ण-भूषण- । c) कस. > दस. । d) जेषु इति जीसं. ।
 e) वैतु. सा (तां २४, ३, १४) द्वे पदे इति ।

नाना(ना-अ)वभृथ^a- -यानि आपथ्रौ
 १८, २२, २२; द्राश्रौ ६, ४, ५;
 लाश्रौ २, १२, ६.
 नाना-वर्ण^b- -र्णः अप ४७, २, ८;
 -र्णे अप ७२, १, ४.
 नानावर्ण-ध्वजा(ज-आ)कुल-
 -ल्म् अप २१, ६, २.
 नानावर्ण-स्त्री-पुत्र-समवाय-
 -ये वौध २, २, १०.
 नानावर्णा(र्ण-अ)ग्नि-संकाश-
 -शाः अप ५२, ३, ५.
 नाना-वपट्का(र>)रा^c- -रे शाश्रौ
 ७, २, १४.
 नाना(ना-अ)वसान^d- -नयोः अप
 १ : २६.
 नाना-वाक्य-त्व- -स्वात् पावा ३,
 ४, ६७.
 नाना-वि(घा>)ध^e- -धम् अप
 ७०^३, ७, १५; -घाः या १४, ६१;
 -घानाम् विध २२, ९३; -धे
 वैगृ ५, १:१४; -धैः वृदे १, ४६.
 नानाविध-फलो(ल-उ)दय-
 -याः अप ५८, १, ४; -यान् अप
 ६३, १, १.
 नाना-विभक्ति^f- -क्तीः या ६, २४;
 -क्तीनाम् पावा ८, ३, ५९.
 नाना-वीर्य^g- -र्याः शाश्रौ १६, २३,
 ६२, १४; -र्यै वौश्रौ १६, २४;
 १०१.
 नाना-वृक्ष->क्षीय, या- -याः
 आपथ्रौ ५, १७, ५; वौश्रौ; -यान्
 वौषि १, १४ : १०; १५ : ८१.

नानावृक्ष्य, क्ष्या^h- -क्ष्यम् वौश्रौ
 १०, ५० : ४; ५१:२३; ५२:१९;
 -क्ष्याः वौश्रौ १०, १२ : ९;
 १४ : ४xx; -क्ष्याणि वौश्रौ
 १२, ९ : २; १७, ३१ : ३;
 १८, ८ : ७; -क्ष्यान् आमिगृ
 ३, ८, १ : १०; ३ : १०.
 नाना-शास्(ः)वाधुश्रौ ४, ८२:५.
 नाना-शास्^h- -साः वौश्रौ ११,
 ४ : ११; १२.
 नाना-षोडश-सामन्- -मानि निसू
 ८, ८ : २८.
 नाना-साधु- -धुः निसू ८, ६ : ५७;
 ११ : २८xx.
 नाना-सामन्- -मानि निसू १, १३ :
 ४.
 नानासाम-वत् लाश्रौ १०, ९,
 १०; निसू ६, ७ : ६५.
 नाना-सूक्त- -क्ताभ्याम् आपथ्रौ १७,
 १४, २; वैश्रौ १९, ६ : ७५.
 नाना-सूत्र- -त्रेषु वौश्रौ १२, १३:५.
 नाना-सू(र्य>)र्याⁱ- -र्याः वौश्रौ
 १९, १० : १८१.
 नाना-स्तोम^j- -माः निसू ८, ८ :
 १४.
 नाना-सुवा(व-आ)हुति^k- -त्तीः
 आमिगृ १, ६, २ : २.
 नाना-स्वर^l- -राः निसू ९, ९ : २०.
 नाना-स्वल्^m- -रवः वौश्रौ ११, ४ :
 ११.
 नाना-स्वस्त्य(स्ति-अ)यन- -नानि
 निसू ५, ५ : २४.

नाना(ना-अ)हन्- -हःसु निसू
 १, १२ : २७; ३, १० : ३६;
 -होभिः निसू ४, १२ : १०; १०,
 ८ : २६; -हाम् निसू ६, ७ : ४३;
 १०, ८ : २७.
 नाना(ना-अ)ह्वनी(य>)याⁿ-
 -याः काश्रौसं ५ : २.
 नानाहवनीय-पक्ष- -क्षे काश्रौसं
 ५:३.
 नाना-हविस- -वीषि कौसू ७४,
 १५१.
 नाना(ना-अ)हीन- -नेषु आपथ्रौ
 २२, १४, १५; नीसू १०, ५, ५६.
 नानान^o- -नम् ऋअ २, ९, ११२;
 अत्रा ३, ४, ७.
 नानानीय^p- -येन वृदे ६, १३९.
 नानान्द्र-, -न्द्रायण- ननान्द्र-द्र.
 नानाश्रान्ताय^q शाश्रौ १५, १९, १.
 नानेय^r- -यः या १, ६.
 नान्त- न-द्र.
 नान्तरियक- १न-द्र.
 नानान्ते^s कौसू ८२, २१.
 नान्त्र- पाठ ४, १६०.
 नान्दी-, -दी-कर-प्रयु. √नन्द्-द्र.
 नान्वार^t- > -न्वाल्हिक- -कान्,
 अप ५६, १, ८.
 नापित^u- पाठ ३, ८७; पागम ११५;
 -पित वौश्रौ ६, २ : ६; ३ : ५;
 जैगृ १, ११ : २१; २२; -त्तः
 वौश्रौ १७, ३९ : २७; आमिगृ;
 -त्तम् वौश्रौ १७, ३९ : २; आरु;
 -ताय काश्रौ ७, २, १२; वौश्रौ;

a) विप। वस। b) उप. = अक्षर-, जाति-, रङ्ग-। c) विप। तस्येदमीयः यत् प्र. उसं. (पा ४, ३, १२१)। d) उप. = शस्त्र-। करणे घञ् प्र.। e) कस. > वृत्.। f) वैप १ द्र.। g) विप.। छ>ईयः प्र. (पा ५, २, ५९)। h) पदविभागः ? नाना श्रान्ताय इति सा. K. (ऐ ७, १५), न, अनाथा इति सा. (पक्षे), नाना, अश्रान्ता इत्यानर्तीयं भाष्यम्। i) = अन्य-। व्यु. ?। < न, आ-नेय- (=न्य-) इति दु. स्क. B.N.M. SEX [८५]। [पक्षे] दु. < नाना- इति च ?। j) पाठः ? ?नाङ्के इति संस्कृतुः टि. शोधः। k) = देस- विशेष-। व्यु. ?। l) वैप २, ३खं. द्र.।

-ते काश्रौ ७, २, ६.
 नापित-कर्मन्- र्म वौगृ १, ८, १;
 -मार्णि हिपि १२: ५.
 नापित-कृत्य- -त्ये हिश्रौ १०, १,
 ३३.
 नामस- √नम् > नमस्- द्र.
 १, २ नामाक- नमाक- द्र.
 नामि^a- (वप्रा.) पाठ ७, १२६; पाग ५,
 २, ९७; -फंभयः हिश्रौ ११, ७,
 ४०; अत्राय ६, २; -फंभा
 आपश्रौ ११, ५, १; वौश्रौ; या
 ६, २१; -सिः आश्रौ ३, २,
 २०; ८, ६, २३; शंश्रौ; लाश्रौ
 ९, १०, १३; १४; वैताश्रौ
 १९, १८; वौगृ १, २, ५०;
 ५, २९; हिगृ १, २४, ४; या ७,
 २१; १४; -मिस्
 आश्रौ १, १३, १; २, ९, १०;
 शंश्रौ; काश्रौ ९, १२, ४;
 माश्रौ २, ४, १, ३५; वैश्रौ
 १६, १८: ११; -मीः हिश्रौ
 ९, ४, २८; -मेः काश्रौ २, २,
 १८; ९, १२, ४; आपश्रौ;
 नात्र ३९: ८; -भौ आश्रौ
 १, १३, १; शंश्रौ; या ७, २७;
 -भ्या या ७, २१; -भ्याः
 आश्रौ ३, ३, १; शंश्रौ; -भ्याम्
 शंश्रौ १६, ३, ३१; आपश्रौ;
 -भ्यै वौघ १, ५, ७६.
 फंनाभा-नेदिष्ठ^a- -ष्ठः शंश्रौ १६,
 ११, २९; ऋग्र २, १०, ६१;
 शुग्र १, ५६; २, १६; ७५;
 -ष्ठम् शंश्रौ १२, ८, २; १६,

११, २८; वौश्रौ १४, ५: २८;
 -ष्ठस्य शंश्रौ १२, ९, ६; -ष्ठे
 वृदे २, १३०.
 नामि-कृन्तन- -नात् द्रागृ २, २,
 ३३; -नेन गोगृ २, ७, १६.
 नामि-चपाल¹- -लम् माश्रौ ५,
 २, १२, ३६.
 नामि-तल- -लात् आशि १, ३.
 नामि-द्वन्, ज्ना- -द्वन्म् काश्रौ ८,
 ६, १; आपश्रौ; -द्वनाः वौश्रौ
 ६, १०: ७; हिश्रौ ७, ७, १३;
 -द्वनाम् काश्रौ ७, ९, २४; -द्वे
 आपश्रौ ५, १४, ८; ७, ११,
 ५x; वौश्रौ.
 नामिदन्वी- -द्वीम् आपश्रु
 १०, ११; -द्वन्यः आपश्रौ ११,
 १०, ६.
 नामिद्वन्-जानुद्वन्- -द्वयोः
 माश्रौ ७, ४, ८.
 नामिद्वन्-पा(द्व>)दा¹- -दा
 आपश्रौ १०, २९, ७; १९, ९,
 १०; माश्रौ.
 नामि-देश- -शम् आश्रौ १, ११, २;
 आपश्रौ; -शात् कागृ ७१, ९;
 -शान् आपश्रौ १२, २४, १३;
 १३, ४, ६; -शे काश्रौ ३, ३, १;
 १५, ५, १३; आपश्रौ २, १३, ६;
 वौश्रौ २१, ८: १७; माश्रौ २,
 १३, ५; हिश्रौ ७, २, ६५; ७, १,
 ५०; वौगृ २, ५, १५; हिगृ १,
 ४, ४; कौषू ७७, २९; ५५, १६.
 नामि-निगिक्-प्रवादा(द्व-आ)-
 दि¹- -द्वी ऋग्रा ५, ४६.

नामि-प्रदेश- -शात् आशि ८, १.
 नामि-मात्र- -त्रम् गोगृ ७, ५, २६;
 द्रागृ ७, १, १२; अप १३, १, ९;
 -त्रस्य काश्रौ ८, ८, ३७; -त्रे
 काश्रौ ६, ३, १३; १४, ३, १२;
 १८, १, ३; वाश्रौ १, ६, ३, २०;
 अप ३६, २६, २; ४३, ६, ३.
 नामिमात्री- -त्रीम् काश्रौ १६,
 ८, २३.
 नामि-रूप्य- -प्यम् माश्रौ ५, २,
 ९, ७.
 नामि-ल- वा ५, २, ९७.
 नामि-लोमन्- -मानि कौसू १३,
 ४.
 नामि-वक्षः-शिरो(रस्-अं)सक-
 -कान् कप्र १, १, ५.
 नामि-वत् काश्रौ १८, ३, ५.
 नामि-संमित- -तः आपश्रौ १४,
 ५, ९.
 नामि-स्पर्श- -शेन शंघ ७५७ =
 १५.
 नामि-स्पृश- -स्पृशम् काश्रौ २६
 ७, १४.
 नाम्य^a- -भ्यानि मागृ २, ७, ९.
 नाम्यु(भि-उ)पत्य- -त्ययोः वैगृ ७,
 ४: २.
 नाम्यु¹- -भ्युः वैताश्रौ २७, १६.
 फंनाम्^b द्राश्रौ ६, २, १८; लाश्रौ २,
 १०, १८; निस् १, ७: २८.
 नाम्^c > नां-शब्द- -द्वेन उनिस् २:
 ११.
 नामन्^d- पाठ ७, १५१; पाग १, ४,
 ७०; २, ४, ३१०; ८, १, २७;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १०८९ b द्र. । c) पामे. वैप १, १०८९ c द्र. । d) पामे.
 वैप १, १०८९ h द्र. । e) सत्य. वाच्- > वाक् टि. द्र. । f) पाठः ? नामिम् इति शोधः (तु. संस्कृत-
 टि.) । g) सपा. णिम् <> णीः इति पामे. । h) = ऋपि-विशेष- । i) विप. । वस. । j) द्वस. > पस. >
 पस. । k) नाप. (सन्धिकालिक-कर्मन्- [= स्यालीपाकविशेष-]) । तत्रमर्वायः प्र. । नामि- <√नम् l वन्धने इति द्र. ।
 l) अर्थः व्यु. च ? । m) तनुनाम् [ऋ ६, ४८, २] इत्यस्याऽन्त्यावयवः । n) ष३ अनुकरणम् । o) तु. पागम. ।

-म^० आश्रौ १,२,१; २,५,३^२कं;
१०; ३, १३, १४^१××; ६,७,
८^१; ९, १^१कं; ९, ९, ११^१कं;
शांश्रौ; आपश्रौ ९, १९, १२^१कं;
आपमं १, १०, ९^१××; २, ११,
२२^१कं; निघ १, १२^१कं; या १,
८^१; २, १५; ३, २२^१कं; ४, २५^१कं;
२७; ५, ९^१कं; १३^१कं; २३^१कं; ६, १४;
३२; ९, ४; १४, २^१कं; ११;
ऋप्रा १२, १८^१कं; -०मन्
आश्रौ ८, १३, १०; शांश्रौ १०,
१४, ६; कंश्रौ; -मनी आश्रौ
१, ९, ५; शांश्रौ; आम्रिगृ १,
१, ३ : ६^१कं; या ३, १०; ५,
-७; -कमभिः वौश्रौ १४, २१ :
३०; ३१; १६, २६ : १३;
जैश्रौ; वृदे २, ९७^१; कया १२,
३; -मसु वृदे २, ९६^१; ऋप्रा
६, ५६; १६, ५६^१; -मानि
आश्रौ २, ६, २४; आपश्रौ; वृदे
१, २७^१; या १, १^१; १२^१; २०;
३, १३; २०; ७, १; ९, २८; -ऋः
आगृ ३, १०, ३; भागृ ३, १३,
११^१कं; हिगृ १, २४, ४^१; २५, १^१कं;
आपध; मीसू ७, ३, ३^१; -ऋ आश्रौ
५, ३, १५; ८, १३, १०; शांश्रौ;
कंआपश्रौ २, १०, ३^१; ११, ६^१कं;
-ऋम वृदे १, ८०; २, ७१; ऋत
५, २, ४^१; -ऋ शंघ २१; वृदे
८, ८५; -कं वौगृ २, ८, २९;
भागृ ३, १३ : ११.

नाम-करण^१- णः^१ या १, १७; २,
२; ५^२; ७, २९; १०, १७; -णम्
वौगृ २, १, २३; वैगृ; -णस्य वैगृ
६, ४ : १३; -णात् वैगृ ७, ५; २;
शंघ ३५७; -णेन जैगृ २, ५; ६^१कं.
नाम-कर्मन्^१- -र्म जैगृ १, ९ : १;
शंघ १९.
नाम-गृह्य आपश्रौ ३, १४, १; भाश्रौ
३, १३, १.
नाम-नोत्र- -त्राणि वाश्रौ ३, २, १,
२०; -त्राभ्याम् विघ ७३, १४;
२७; -त्रे कौसू ५५, १०; गौघ
२, २९; -त्रेण अप ४४, १, २४.
नाम-ग्रहण- -णम् शांश्रौ ६, १,
२४; आपश्रौ ४, १६, ६; ११,
१९, ११; वैश्रौ १४, १७ : ११.
नामग्रहण-भोजन- -ने काश्रौ
८, ७, २१.
नाम-ग्राह- -हः द्राश्रौ १, ३, १८; ४,
११××; लाश्रौ १, ३, १७; ४,
७××; निस्; -हे वाश्रौ १, १,
३, ११.
नाम-ग्राहम् काश्रौ ९, ११, ७; १४,
५, २७; वौश्रौ; पा ३, ४, ५८.
नाम-जाति-ग्रहण- -णे विघ ५, २५
नाम-तस्() जैश्रौका ७१; १५२;
कौगृ २, ६, ९; कौसू.
नाम-दा- -दा आम्रिगृ २, ५, ६;
११^१कं.
नाम-धातु- -त्ताम् पावा ६, १, ३;
-तोः पावा ८, ३, ६५.

नाम-धा (न>)नी^१-नी निस् ३,
९; २६; -न्या निस् ३, ९ : ३७.
नाम-धारक- -काः वौघ १, १, ११.
नाम-धेय- पावा ५, ४, ३६; -यम्
शांश्रौ ९, १, ३; हिश्रौ; या १,
६; ७; २, ५; ७; ५, ९; ८, ५;
८; -यस्य पावा १, १, ७३; २,
३७; -यात् काश्रौ १२, ४, २१;
वागृ ३, १; मीसू १२, ३, १;
-यानि हिश्रौ २, ७, ३०; निस्;
यां १, २०; २, २८; ७, ५; -ये
वौश्रौ २४, २० : ११; १२;
मागृ १, १०, १५; २२, ५; कप्र
३, ६, ९; मीसू १, ४, ६; -येन
हिश्रौ ७, १, ५८; निस् ९, ७ :
३; १८^२; कागृ ४७, ११; या
७, १८; २०; ३१; -येषु हिश्रौ
१०, २, ३७; -यैः वाश्रौ ७, ४,
१३; काठश्रौ.
नामधेय-करण^१- -णम् गोगृ २,
८, ८.
नामधेय-प्रतिलम्भ- -म्भः या
१, १२; -म्भम् या १, १४^२.
नामधेय-सारूप्य- -प्यात् निस्
३, ८ : १३.
नामधेया(य-अ)ग्रहण- -णम्
शांश्रौ १०, १, १७.
नामधेया(य-आ)दि^०- -दौ कप्र
२, ९, १८.
नामधेया(य-अ)नुकीर्तन- -नैः
वृदे १, ८९.

a) कचिच्च प्राकाश्यादिष्वर्थेषु द्विगु सद् वा. क्विचि. (वैतु. अभा. षम- इति प्राति.) । b) पाभे. वैप १, १७९० i द्र. । c) पाभे. वैप १ भुगः मै १, ४, १४ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १, १७१४ III द्र. । e) = उदक- । f) = प्रातिपदिक- । g) सङ्खत् पाभे. वैप १, १७९१ I द्र. । h) सपा. नाम नि^० इति पाठः ? यनि. शोघः (उ. हिगृ १, ५, ६) । i) पाठः ? ना(=नी), मनः इति द्वि-पदः शोघः (तु. सपा. वौगृ १, ५, २९ वैगृ ३, ८ : ६; ८) । आपमं १, ३, १४ नौ मनीसि इति पाभे. । j) पाभे. वैप १, १७१६ O द्र. । k) = संस्कार- विशेष- । l) = प्रत्यय-पर्याय- । m) = नामन्- । n) = ऋग्-विशेष- । उस. उप. करणे कृन् । o) विप. । वस. ।

नामधेया(य-अ)न्त-न्तेषु
 आपश्रौ १०, १२, ७.
 नामधेया(य-अ)न्यत्व-स्वम्
 आश्रौ १, ५, ३३.
 नाम-निर्देश-शः शुभ्र ४, १३१.
 नाम-पूर्व-र्वम् आपश्र १५, ९.
 नाम-फल-गुण-योग-गात् काश्रौ
 ४, ४, २.
 नाम-भूत-त्ते ऋत ५, २, ६.
 नाम-मन्त्र-न्त्रैः वाश्रौ ३, ३, १,
 ३९.
 नाम-युवप्रत्यय-ययोः पावा १,
 २, ५८.
 नाम-रूप-पम् चव्यु ४ : २५;
 -पे अप १, १३, १^०; १६, १.
 नाम-रूप-धर्म-विशेष-पुनरुक्ति-निन्दा
 (न्दा-अ)शक्ति-समासिचचन-प्राय-
 द्विचत्ता(त्त-अ)न्यार्थदर्शन^०-
 नात् मीसू २, ४, ८.
 नाम-लक्षण-णैः वृदे २, ७१.
 नाम-वत् अप्रा ३, ४, १.
 नाम-विभक्ति-क्तयः निसू ३, ९ :
 ८; -क्तिभिः या ७, १.
 नाम-व्यतिपक्षन->^०नीय-
 ण्यौ आपश्रौ १८, १६, १४;
 १९, ९; हिश्रौ १३, ६, ३३.
 नाम-संयुक्त-क्ताः मीसू ४, ४, ३५.
 नाम-सदृश-ज्ञानि अप्रा १, ३, ३.
 नामा(म-आ)ख्यात-तयोः या १,
 १; ३^२; -त्ते या १, १; १२;
 १३, ९.
 नामाख्यात-ग्रहण-णम् पावा
 ४, ३, ७२.

नामाख्यात-विभक्ति-क्तिषु
 वृदे २, ९४.
 नामाख्यातिक^०-पा ४, ३, ७२.
 नामा(म-आ)ख्यातो(त-उ)पसर्ग-
 निपात-ताः शुभ्रा ८, ४९;
 याशि २, १; -तानाम् शौच
 १, १.
 नामा(म-आ)देश-शः आश्रौ
 २, १९, १४; ४, २, १०.
 नामा(म-आ)देशम् आश्रौ ५, ५,
 १६; भाश्रौ १, ८, ७; आपश्र
 २०, १४; भाश्र २, १२ : ७; पा
 ३, ४, ५८.
 नामा(म-अ)न्त-न्ते कप्र २, २, २.
 नामा(म-अ)न्यत्व-त्वम् वृदे १,
 ७०; -त्वेन वृदे १, ७२.
 नामा(म-आ)ह्वान-नैः वृदे १,
 ८६.
 नामिक^०-पा ४, ३, ७२.
 रनामि(न् >)नी-नीः गो २,
 २६.
 नामी√भू >भी-भूत-तः या
 ६, १६.
 नामायन-रनम-द्र.
 नामित-, रनामिन्-प्रष्ट. √नम् द्र.
 ?नामे आमिष्ट २, ३, ३ : २३.
 नाम्ब^०-स्त्रः काश्रौ १५, ४, १२.
 नाय-, नायक-नी द्र.
 नायात्य-नयात-द्र.
 १, रनारक-, ंकी-नरक-द्र.
 नारङ्ग-पाठवृ १, १२२; पागम
 १५५.
 नारद^०-०द शाश्रौ १५, १७, ११;

अप १, ४६, १; ६१, १, ४; -दः
 अप २९, १, १; ५२, ९, ३; ७१,
 १, १; ऋअ २, ८, १३; साध
 १, ३८१; -दम् शाश्रौ १५,
 १७, १; शंघ ११६ : ४०;
 -दस्य नाशि १, २, ७; २, ४, ९;
 -दाय अप. ६४, १, ६; ७१, २,
 ४; -देन नाशि १, २, २; ५,
 १४.
 नारदा(द-आ)त्रेय-नार्ग-नार्णाम्
 अप ५२, १६, ४.
 नारदा(द-आ)द्यु(दि-उ)क्त-
 वृक्ष^०->वाक्ष^०-क्षम् कप्र
 १, १०, २.
 नारदीय-यम् नाशि १, २, ३.
 नारपत्य-नर-द्र.
 रनाराच-नराची-द्र.
 रनाराच^०-पागम १५५; -चाः अप
 ७०^२, ७, ८; ७१, ९, ५.
 रनारायण-रनर-द्र.
 रनारायण^१-०ण विध १, ५०; ९८,
 ९८; -णः जैय २, ९ : १५; वैध
 ३, ७, १३^१; ऋअ; -णम्
 वैश्रौ १, ४ : ३; १४ : ८४४;
 १८, २० : २५^१; -णस्य काश्रौ
 २४, ७, ३३^१; वैश्रौ २०, १ : ६;
 साध १४ : ४; ३९ : ४; ५;
 ४२ : १३; -णात् वैध ३, ९,
 १; -णाभ्याम् आमिष्ट ३, ७,
 ३ : २२^१; वीपि २, २, २; हिपि
 १९ : ९; -णाय आमिष्ट ३,
 ११, ४ : ४१; ण्वैध २, ६, ३;
 ३, ९, ५^१; १०, ४; -णेन^१ शाश्रौ

a) ०प इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तर स्थलम्) । b) समाहारे द्वस. । c) = प्रकरण-विशेष- ।
 d) वैप १ द्र. । e) व्यप. वप्रा. । वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । f) वस.>तृस.>कस. । g) विप.
 (दन्तकाष्ठ-) । तस्यविकारीयः अण् प्र. । h) = शक्य- । व्यु. ? । i) व्यप. ; शिष्टं वैप १ द्र. ।
 j) णपरम् इति पाठः ? णः प^० इति शोधः (तु. सपा. तैआ १०, ११, १) । k) = [नारायणस्तुति-मत-]
 अनुवाक-विशेष- । l) = सत्र-विशेष- ।

१६, १३, १०; आपश्चौ १६, २८, ३×४; वैश्रौ १८, २० : २४; हिश्रौ।
 नारायण-परा(र-अ)यण^१- णः
 वैश्रौ १२, १० : ६; वैश्र १, १ : १७; वैध १, ३, ४; ५, ५।
 नारायण-बलि^२- बलिम् आमिष्ट
 ३, ११, ४ : १; वैश्र ७, ४ : १५; वैध ३, ८, ६; ७; ९, १।
 नारायणस्या(स्य-अ)यन^३- नम्
 लाश्रौ १०, १३, ४; -ने निस्र १०, ८ : २८।
 नारायणा(ण-आख्या >)ख्य^४-
 -ख्यस्य वैश्रौ १८, २० : २३।
 नारायणा(ण-आ)दि- दीन वैश्र १, ३ : २३; वैध २, १३, ५।
 नारायणीय^५- यम् विध ५६, २५।
 नारायणीय-कौण्डिन्य^६- न्यस्य
 शुभ्र २, ४२८^६।
 नाराल- नरालि- द्र।
 नाराशंस^७- सः शांश्रौ १६, ११, ३२^७; १४, ११^७; काश्रौ १९, ६, ८^७; २५, १२, ११^७; आपश्चौ १४, २८, १^७; २१, २, ६^७; वैश्रौ ७, १५ : २४; वैश्रौ १५, ३३ : १८; २१, १५ : १^७; हिश्रौ १६, १, २६; जैश्रौका १४३; निघ ५, ३; या ९, ९^७; तैप्रा १६, ४; -सम् शांश्रौ १३, १२, ७; १६, १४, १०; वैश्रौ २५, २२ : १; वैश्रौ २१, १५ : २; हिश्रौ १५, ७, ९; जैश्रौका १७३; द्राश्रौ ६, १, १; लाश्रौ २, ९, १; -सस्य जैश्रौ

१५ : ३; जैश्रौका १८८; -साः
 आश्रौ ५, ६, ३०; शांश्रौ ७, ५, २१; काश्रौ ९, १२, ८; आपश्चौ १२, २५, २५; काश्रौसं ३३ : ६; वैश्रौ ७, १५ : १३; १७ : १०; १७; ३१; ८, ४ : २९; ७ : १८; २४; ८ : १६; १२ : ४१; १३ : २५; १०, ५७ : १६; ११, ६ : ३५; १२, ७ : ४६; वैश्रौप्र ५४, २; माश्रौ ३, ६, १२; वैश्रौ १५, ३३ : ९; ३७ : ७; १६, १६ : ४; हिश्रौ ८, ७, ६६; जैश्रौ १५ : १; १७; १८ : १५; द्राश्रौ ५, १, १५; लाश्रौ-२, ५, १३; अप्राय ३, ३; या-७, ४; -सात् अप्राय ६, ५; -सान् आपश्चौ १२, २४, ७^७; २८, १; वैश्रौ ७, १७ : ८; १२; २८; ३०; ३२; १८ : १०; ८, ७ : १६; १८; २०; ८ : १३; १५; १७; १३ : २३; २५; २७; ११, ८ : २०; २२; १२ : ११; १२, १३ : १७; १९; १६ : १२; वैश्रौप्र ५४ : १^७; वैश्रौ १५, ३६ : ९; १६, ९ : ६; ११; हिश्रौ ८, २, १९; २०^७; ८, ३३; जैश्रौ १५ : १; १७ : १; १९ : १; वैताश्रौ २०, ७; १७; या ११, ५^७; -सानाम् शांश्रौ ७, ५, २२^७; ८, २, १३; काश्रौ ९, १३, ३५; आपश्चौ १२, २८, ३; १३, ४, १०; ११, ५; वैश्रौ २१, २० : २८; २२ : ११; २३ : ५; वैश्रौ १६, ९ : ७; हिश्रौ ८, ८, ३५; ९, २,

२७; लाश्रौ ८, ९, १४; -सानि शांश्रौ १६, १०, १३; ११, ३१; ऋञ्च २१, १३; निस्र ४, ८ : ५; -साय हिश्रौ २१, १, २^७; -से शांश्रौ १३, १२, ८; काश्रौसं ३३ : ४; -सैसेन द्राश्रौ १३, २, ८; लाश्रौ ५, २, ११; कौसू ८९, १; -सेषु आश्रौ ११, ६, ३; काश्रौ २२, ५, १५; आपश्चौ १३, ५, १; १२, ९; २०, २५, १५; २२, ७, १०; ८, १९; ९, २२; ११, ७; वैश्रौ १८, २ : १३; वैश्रौ १६, ६ : ३; १४ : ११; हिश्रौ ९, २, ११; ३, ५३; १०, ४; ३३; १४, ६, २६; १७, ३, १०; ४, १७; जैश्रौ १४ : १६; १७ : १; १८ : १५; जैश्रौका १४६; द्राश्रौ ४, १, २३; लाश्रौ २, २, ९; ८, ७, ५; वैताश्रौ २०, ११; निस्र ४, ८ : ४।
 नाराशंसी^८- सी शांश्रौ ५, १६, ७; निस्र ४, ८ : २; ऋञ्च २, १, १८; -सीः वांधूश्रौ ४, २९ : १९; आय ३, ३, १-३; आमिष्ट २, ६, ४ : ९; १२; वृदे-३, १५४; ७, १३९; -सीम् वैश्रौ १०, ११ : ८; ९; लाश्रौ ६, ४, १४; निस्र ४, ८ : ४; -स्या आपश्चौ २२, २५, १६; वैश्रौ १६, ६ : ६; हिश्रौ २३, ४, १०।
 नाराशंस-चमस^९- सान् माश्रौ २, ४, १, ४७।
 नाराशंस-वत्^{१०}- वताम् शांश्रौ ७, ४, १५; -वन्ति या ८, २२।

a) = पुरुष-सूक्त-। b) विप.। वस. > कस.। c) = कर्म-विशेष-। d) = सत्र-विशेष- (तु. सपा. काश्रौ २४, ७, ३३)। e) विप.। वस.। f) तस्येदमित्यर्थे > ईयः प्र.। g) कस.। पूष. = नारायण-शिष्य-। h) ष्या कौ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। ष्रु ८८० सस्य. कौण्डिन्यस्य इति नेष्टम्। i) वैप १ द्र.। j) = पुरुष- (= परमात्मन्- इति भाष्यम्)। k) = प्रयाज-। l) = चमस-। m) = ग्रह-विशेष-। n) = प्रवर-विशेष-। o) = ऋच्, गाथा-। p) विप. (ग्रह-, सूक्त-)।

नाराशंस-वर्जम् आपश्री १२, २८, १५.
 नाराशंस-सादन- नात् आश्री ५, १३, ११; १७, ४.
 नाराशंस-स्थान- ने काश्री १४, १, १८.
 नाराशंसिन्- सिनाम् वैश्री १८, ५: ८^०; वैताश्री १०, १२; -सीनि निस् ४, ८: ३.
 शनारि^०- रि: आपश्री १५, १, ३; वीश्री ४, २: २९; ६, २६: २; १८; २८: ७; ९, २: ५; माश्री १, ८, २, २; २, २, ३, २; वाश्री १, ६, १, १९; वैश्री १३, १: ७; हिश्री २४, १, ३; शुभ्र ४, ७२.
 शनारि- वृ- द्र.
 नारिकेल^०- > ल-ज- -जम् विष २२, ८३.
 नारिष्ट^०- ङ्ङयो: आपश्री २, २०, ६; वीश्री २४, २९: १८; माश्री २, १९, १; हिश्री २, ५, ४७; -ष्टान् आपश्री २, २०, ६; काश्रीसं ४: १०; ५: ७; ६: ११; माश्री २, १९, १; ७, २०, ९; हिश्री २, ५, ४७; -ष्टाम्याम् शाश्री ४, १०; १; -ष्टौ आपश्री २, २०, ६^०; वीश्री २४, २९: १४; माश्री २, १९, १^०; हिश्री २, ५, ४७.
 नारिष्ट-होम- मान् वैश्री ६, १०: १.
 नारी- प्रष्ट. वृ- द्र.
 नार्कविन्द^०- न्दा: अप १, ८, २.

नार्कविन्द^० आपश्री १५, १७, ५.
 नार्तिक- √वृत् > रनर्त- द्र.
 नार्मित- वृ-मत्- द्र.
 नार्मि(ण >)णी^०- णीम् जुस् १, ६: १४^०.
 १, २ नार्मैय- वृ-मैघ- द्र.
 नार्य^०- र्य: निघ ३, १७.
 नार्विदाल^०- ला: अप १, ८, २.
 नार्पद- वृ-पद्- द्र.
 शनाल- √नल् द्र.
 शनाल^०- पाग २, ४, ३१^२.
 नालिकेर^०- पाठभो २, ३, ६१; -रै: गौपि १, ४, १७.
 नालीक^०- (> क्कि(न >) नी- पा.) पाग ५, २, १३५.
 नाल्य- रनल्- द्र.
 नावमिक- नवन्- द्र.
 नावयञ्जिक- नव- द्र.
 शनावा^० माशि २, ११.
 शनावाख्या: वीश्री १८, ४७: १८.
 नाविक- नौ- द्र.
 शनावीररस्तारम्^० शाश्री १२, १४, ५.
 शनाव्य^०- (> व्यायन- पा.) पाग ४, १, ९९.
 शनाव्य- नौ- द्र.
 नाश- √नश् (अदर्शने) द्र.
 शना(न-आ)शक^०- कम् सुघप ८६: १; -के सुघ १७.
 नाशन- नाष्ट- प्रष्ट. √नश् (अदर्शने) द्र.
 नाष्ट्रायण^०- णा: वीश्रीप्र ४: ३.

नास् पावा. श्वा. आत्म. शब्दे.
 शनास, सा^०- सा- विष ९६, ७५; -सात् माशि १०, १०; -साम् माशि १, ५, ७^०.
 नसा(सा-अ)घ- अयम् वैष्ट ३, १४: ७.
 नसा(सा-अ)न्त-> ण्तिक^०- कः कप्र ३, ८, १२.
 नसा-पुट- टे वैष्ट ३, ९: ११; शंघ ५७; ४५६.
 नसापुट-द्वय- अयम् शंघ ४५७: १; ४५८; -ये शंघ ४५७: ११.
 नसा-मूल- लम् याशि २, ७१.
 नासत्य^०- त्य: वृदे ७, ६; -त्या: आश्री ५, ५, १२^०; या ६, १३^०; पा ६, ३, ७५^०; -ङ्ग^०या आश्री ३, ८, १^०; ४, १५, २××; अप्राय; या ६, ७; -ङ्ग^०त्याभ्याम् आश्री ४, १५, २; शाश्री; -त्यौ वृदे ३, २१; ४०; ८, २०; या ६, १३^०.
 नासत्य-दञ्ज- त्तौ शंघ ४५७: ११.
 नासनयोग- १न द्र.
 शनासा^०- (> नास्य-पा.) पाग ४, २, ८०.
 शनासिका^०- पाग ५, २, १२७^०; -क्या वाघ २, ३५; -कयो: शाश्री ४, १४, २२; काश्री; -का अप ४७, २, ३; वाघ २, ३५; या ६, १७^०; शौच; -काम्याम् आश्री ५, ६, २; शाश्री १६, १३, ४^०; आपमं १, १७, १^०; कौष्ट १, १३, २^०; शांष्ट १, २१, ३^०;

a) = प्रवर-विशेष- । b) वैप १ द्र. । c) = वृक्ष-विशेष- , तत्फल- । व्यु. ? । d) वैप २, ३ खं. द्र. । e) = तदाख्य-होम- । f) = देश-विशेष- । व्यु. ? । सपा. पै १२, १, १३ पाभे. द्र. । g) यज्ञ-नामन्- । व्यु. ? । < √ नृ इति दे. ? । h) अर्थ: व्यु. च ? । i) सकृत् शाल- इति पाका. । j) पाठ: ? । नौ वा इति मूको. । k) पाठ: ? तु. वैप १ परि. नावीर^० टि. । अस्तारम् (< √ अस् [क्षेपणे]) इति नेष्टम् । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) = उपपातक-विशेष- । = अनशन- इति अपराङ्गः [तु. संस्कृतुः टि.] । तस. उप. वैप ३ अनाशक- टि. द्र. । n) पृ ९७६ ८ द्र. । o) भवार्थे ठक् प्र. । p) वैतु. पाका. पासि. प्रष्ट. प्र३ इति । q) तु. पागम. । r) पाभे. वैप १, १७५५ h द्र. । वैप४-वृ-८०

व्य २३, २, २३ - कान् वैट्ट १, २ :
 १०; १९; - कावाः नाशि १, ११;
 २, १३; नाशि १, ६, १३; पा ५,
 २, ३१; ४, ११८; पावा ६, १,
 ६३; - कायाम् आपश्रौ १६,
 २७, ४; बौश्रौः - के शाश्रौ ४, ७,
 ११; काश्रौः वा ६, १७.
 नासिके-घन- - किं-घन- पा, पावा
 : ३, २, २९.
 नासिक-वत् वैश्रौ ११, ७ : ९.
 नासिका(का-अ)प्र- - प्रम् विष १७,
 १^०; - त्रे हृदे ८, ११३.
 नासिकाप्र-त्सु(ः) वाशि १,
 - ५५.
 नासिका-च्छिद्र- - द्रयोः आशि ३,
 ४, १ : ३०; - त्रे वाश्रौ २, १, ७,
 ५; आशि १.
 नासिका (का-आ) दि- - दिभ्यः,
 - दीनान् पावा ४, १, ५५.
 नासिका(का-अ)न्त- - न्तः वैट्ट २,
 ४ : ४.
 नासिका-पुट- - टयोः वैट्ट ५, ४ : ४;
 २६.
 नासिका-प्रभव- - वौ वा ६, १३.
 नासिका-मूल- - लेन शुभ्रा १, ८२.
 नासिका-लोचन-त्वग्-जिह्वा-श्रीत्र-
 - प्रम् विष १६, १४.
 नासिका-विवरण- - गाव् तैत्रा २,
 ५२.
 नासिका-स्थान- - नम् ऋषा ६,
 ४१; - नाः तैत्रा २, ४९; आशि
 १, २४.
 नासिका-श्रोत्र- - तसि गोण्ड २, ६,
 १०; शण्ड २, २, २३.

नासिको(का-उ)द्वौ (र-ओ)द्व-जह्वा-
 दन्त-कर्ण-शृङ्ग- - ज्ञाव् पा ४,
 १, ५५.
 नासिको(का-ओ)द्व- - द्वौ शैशि ४१;
 आशि ८, २४.
 शनासिक्य, क्या^१ - पावा ६, १, ६२;
 कि ६५; - क्यः हृदे ८, ११८;
 शुभा; - क्यम् अप ४७, २, १००;
 ऋषा; - क्यत्त्व वाञ्छ ८ : ३१;
 - क्या ऋषा ६, ३६^०; - क्याः
 तैत्रा २, ४९; २३, ८; १२; शैशि
 २५; २७; आशि १, १९; - क्याम्
 ऋषा १, ४७; - क्यानाम् शौच
 १, २६; - क्ये अप ४७, २, ३;
 - क्येन वैताश्रौ ५, १६; शौच
 १, १००.
 नासिक्य-जिह्वानुलीय- - याः
 आशि १, २१.
 नासिक्य-न्यसा (न-अ) तुत्वार-
 - तम् ऋषा १, ४८.
 नासिक्य-मूल-नभ्य- - न्ये
 भाशि २३.
 नासिक्य-संगत्र- - तम् शैशि
 २२३.
 नासिक्या(क्य-अ)भिनिधान-
 - नौ अप ४७, १, ११.
 नासिक्यौ(क्य-ओ)द्वय- - द्वयाः
 शुभ्रा १, ८०.
 शनासिका^१ - कान् अप १, २६, ५.
 शनासिका^२ - (> शनासिक्य- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 नासीर^१ - पाठना ४, ३६.
 नास्तिक- , स्तिक्य- १ न द्र.
 नास्य- रनासा- द्र.

नाह- √ नह् द्र.
 नाहल^१ - पाठने २, ३, १९.
 शनाहुष- १ नहुष- द्र.
 रनाहुष- , भी- नहुष- द्र.
 नि चा १, ३; ऋषा १७, १७; शुभ ६,
 २४; तैत्रा १, १७; पाग १, ४,
 ५८.
 नि- के पा ६, २, ११२.
 √ निस्^१ पावा. अत्रा. वात्स. तुन्वने.
 विज्ञान- नन् हिश्रौ ३, २, ५३.^१
 नि(स् >) : √ क्षिप्, निःक्षिपेद
 ऋष १, ४, ३.
 नि(स् >) : - पुरीष^१ - यम् आश्रौ ६,
 १०, ५.
 नि(स् >) : - प्रकल्प- > शिन्द-
 - निपनः अप ६८, १, २६.
 नि(स् >) : - प्रकाश^१ - शम् अप
 ६४, २, ३.
 नि(स् >) : - प्र(ना >) म^१ - न् अप
 ७०^३, ११, ३; - नाणि अप ५२,
 - ११, २.
 निभ्रन-अ(भा >) म^१ - भाः अप
 ५२, ८, ५.
 नि(स् >) : √ लु, निःस्वावयामि हिश्रौ
 ६, ६, २४.^१
 नि-कक्ष^१ - श्रयोः कौण्ड १, २१, १६;
 शाण्ड १, २८, १८; - श्रे काश्रौ
 १८, २, १; ३, २; नाश्रौ ६, २,
 ४, ९.
 रनिकट^१ - पाग^१ २, ४, ३१; ४, ४,
 ७३; ५, १, १२४.
 नैकटिक- पा ४, ४, ७३.
 नैकट्य- पा ५, १, १२४.
 रनिकट^२ - शान्याम् कौण्ड ३०, १०.

a) वतिः प्र. 1 विशेषः वैप १, १७९५, j द्र. 1 b) स्वनासिः इति जीसे. 1 c) विप. 1 दक्ष. 1
 d) विप. > नाप. (अनुनासिकः, अनुस्वारः, यम-) 1 e) विर. 1 f) वैप १ द्र. 1 g) अर्थः श्रु. व 1 1
 h) पा ८, ४, ३३ पावा ८, ३, २८ परानुष्टः द्र. 1 i) वा. क्रिवि. 1 j) वैप २, ३६. द्र. 1 k) = रनाप. 1 लु. 1 1
 <नि/कट् इति अत्रा. शक. 1 l) तु. पागन. 1

निकटित- (> णिन्- पा.)
 नि/कथ् > निकथित- टि. द्र.
 नि/कथ् > निकथित^१ (> णिन्-
 पा.) पाग ५, २, ८८.
 नि/कम्, निकामयते निस् ८, ४ :
 ४; नि...कामयते^२ वौश्री १४,
 २४ : १; १४; - नि (कामयते)
 वौश्री १४, २४ : २; १४;
 निकामयेत् क्राष्ट ३९ : ४.
 नि-काम्- -मः शांष्ट ५, २; ५^b;
 आप्य २, ७, १४; -हिद्य २, २,
 ३३; अत्र १५, ११ (२)†; -मस्
 अत्र १०, १; २०; पाग १, १,
 ३७.
 निकाम-तसः (: कप्र १, ८, ८.
 नि-कामन- -नात् द्राश्री १५, ३,
 १२.
 नि-कामयमान- -नः काश्री २५,
 १३, १६; निस् ४, ७ : ४.
 नि-कर^१ - -राः अप ५२, २, ३.
 ?निकल्क^१ - > ल्क-युक्त- -क्तः अप
 ७०^१, ११, १२.
 नि/कप् > नि-कप- -पः पावा ३,
 ३, ११९.
 नि-कपमाण- -गाय भाशि ९६†.
 निकर्षा^१ - पाठ ४, १७५; पाग १, १,
 ३७; पावा २, ३, २.
 नि-काय-; निकायिन्-, नि-काय-
 नि/नि द्र.
 नि/कि, निनिचिक्युः वौश्री १९, ७ :
 १४; वा १४, २३; नि...चिक्युः
 वा १४, २३†.
 नि/किन् > नि-केतन^१ - -न्म् गौ.

१, ६५.
 नि-कीर्य नि/कृ द्र.
 नि/कुच्, कुच् > नि-कुचित- -ते
 पावा १, १, ३९.
 नि-कुच्य- > नि-कुच्य-कणि- पाग
 २, १, ७२^०; पा, पाग ५, ४,
 १२८.
 निकुल^१ - पाठभो २, २, ८८; पाग २,
 ४, ३१^०; -लेषु विद्य ८५, ५९.
 नि/कुद > नि-कुदय निस् ३, १२ : ३.
 निकुम्मि(त्) > ल्हा- पाठना १, ५६.
 निकुलम्ब- पाठभो २, २, २२५.
 नि/कुद्(दाहे) > नि-कुद्ध्य आपश्री
 ७, १९, ८.
 नि/कृ, निकरोति वौश्री १४, १० :
 ३४†; वा २, ९.
 नि...चकार. वा २, ९†^०;
 नि(कः) वौश्री १३, २४ : ११;
 २६ : ५; वैश्री २०, ३ : १५;
 ऋय २, १, ७२.
 ?निकृति^१ > नैकृतिक^१ - -कः
 विद्य ९३, ९.
 नि/कृत् (द्वेने), निकृन्ते आपश्री
 ५, ४, ९; २०, १; १०; वौश्री;
 निकृन्तति काश्री ७, २, ६; त्राश्री
 ३, ४, ४, २४; न्यकृन्तत् वृदे ४,
 २२.
 निकृन्तयन्ते शांश्री १८, २४, २०;
 निकृन्तयेत् लाश्री ९, २, २०;
 निकृन्तयीत् वौश्री १७, ४० :
 १४; २४, २१ : १४; आमिष्ट
 ३, ५, १ : १९; वौश्री १, २ : ५.
 नि कृत् - -त्तम् वा ६, ३.

निकृत्त-द्वार^१ - -रः वा १, ९;
 निकृत्त-नख, खा^१ - -खम् वौश्री
 २, ८ : ९; ६, २ : ६†; जैय २,
 ४ : ७; -खाम् वौश्री ६, ३६.
 नि-कृत्य^१ वौश्री १५, २ : १८;
 आमिष्ट १, ३; २ : २१; वाद्य
 २४, ५; वृदे ६, ८२.
 ?निकृन्तम् सु २७, २.
 रनि-कृति^१ - -तिम् शंष ११६ : ५९.
 नि/कृप्, निकर्षति कौस् ३१, १०;
 निकर्षेत वौश्री २४, २३ : ६.
 नि-कृष्ट- -ष्टः वा २, २०; -ष्टे
 वैद्य ३, १५, १२.
 निकृष्टा(ष्ट-अं)हि-नि(भ >)
 भा- -भा अप ५८^३, ३, ५.
 नी (< नि) - कर्ष- > नीकर्षिन्^१ -
 -र्षी लाश्री ८, १२, ६.
 नि/कृ > नि-कीर्य^१ आपश्री २१,
 २०, ३; वाश्री ३; २, ५, ४३;
 हिश्री ३६, ६; ४१; वैताश्री ३४,
 ९; अशां २२, ३; ४.
 नि/कृत्, निकल्पेते आपश्री २१,
 १७, १८; १८, ४; निकल्पन्ते
 आपश्री २१, १७, १६; १७, १८,
 ७; हिश्री १६, ६; १४.
 निक्ता- निक्त्वा > निन् द्र.
 नि/कृन्द्, न्यकृन्दीत् वा ९, ४.
 न्यकृन्दीयन् वा ९, २३†.
 नि/कम् > नि-कस्यमाण- -णेषु
 आपश्री १०, २२, १२; वैश्री १२,
 १६ : १७.
 नि/क्रीड > नि-क्रीडयत् - -यन्
 लाश्री ७, १२, ९.

a) निकटित- इति [पक्षे] पागमः । b) = अग्नि-विशेष- इति MW. । c) तु. पागमः ।
 d) = समूह- । व्यु. ? । < नि/कृ इति शकः, < नि/कृ इति, अभा. । e) कृयः व्यु. च ? । f) समीपार्थे
 अत्र. । व्यु. ? । g) = गृह- । गस. उत्र. अधिकरणे कृत् । h) = लता-गृह- । व्यु. ? । i) साप. (१२पीठन) ।
 j) टक्. प्र. उत्सं. (पा ४, ४, १०२) । k) विप. । वसु. । l) = ल-विशेष- । व्यु. ? । m) विप. > नाप. (लिच्छ-
 प्रसारिमयूर-वत्) = वाजपेय-विशेष- । n) सपा. काश्री १३, ३, २६ निगीर्य इति पागे. ।

नि/कण > नि-कण-, नि-काण- पा
३,३, ६५.

नि/क्षि पाधा. भ्वा. पर. चुम्बने.

नि/क्षिप्, निक्षिपति वैष् ५,
१५:१०; निक्षिपेत् वैश्रौ
२, ६:८; जैश्रौका १४५; वैष्
३, १९:१२; कप्र २, ८, १५;
भशां २०, ५१; शंघ ८७.

नि-क्षिप्त,प्ता- -प्तः विघ ५, १८४;
-प्तम् विघ ५, १७१; -प्तस्य
अप ६८, २, १४; -प्तायाः विघ
३६, ७; -प्ते याशि १, ६७.

नि-क्षिप्य वैश्रौ ४, ११:१६; १५,
२३:१; जैश्रौका.

नि-क्षेप- -पः याशि १, ६६.

निक्षेप-संज्ञक- -कः माशि ८, ४.

निक्षेप-स्तेय- -येषु विघ ९, ३.

निक्षेपा(प-अ)पहरण- -णम्
विघ ३६, ३.

निक्षेपा(प-अ)पहारिन्- -री
विघ ५, १६९; ५२, ४.

निक्षेपो(प-उ)पनिधि-स्त्री^१-
-स्त्रियः वाघ १६, १८.

नि-क्षेपण- -णम् वौघ ३, २, ८.

नि/खन्, निखनति काश्रौ २६, २,
२९; वाश्रौ; निखनन्ति शाश्रौ
४, १५, ८; द्राश्रौ; निखनामि
कौस् ४४, ३३; निखनेत् आपश्रौ
३, १४, २; १५, १९, ९; भाश्रौ;
निखनेयुः वैश्रौ २१, ९:१;
लाश्रौ ८, २, ३; द्राय २, ३, ३१.
निखान वौश्रौ ६, २८:१३; ३;

१८, ४५:२५; निचख्नुः कौस्
३६, १८.

निखानयेत् माश्रौ ३, ५, १८.

नि-खनत्- -नन् कौस् ५१, १;
-नन्तः कौस् १३२, १.

नि-खनन- -नम् वौषि ३, ६, ३.

नि-खात,ता- -तम् अप ३६, २९,
१; -ता द्राश्रौ १५, ४, २;
लाश्रौ ५, १२, ९; -तताः
आपश्रौ १, ८, ७; कौस् ८७, २२;
अश्र १८, २; -तात् आपश्रौ ११,
१०, २; -तेषु आपघ १, १५,
१४; हिघ १, ४, ७३.

नि-खात-क^१- -कः शाश्रौ १२,
१८, ११; -कम् आश्रौ ८, ३,
१७; शाश्रौ १२, १८, १.

नि-खातव्य- -व्यम् काश्रु ७, ८.

नि-खाय आश्रौ ६, १०, २४;
शाश्रौ; आपश्रौ १८, ४, ३०;
शांय १, १५, ६.

नि-खेय^१- -यः विघ ५, २५.

नि-खर्- -रः शांय ५, २, ५.

नि-खर्व- > निखर्व-क^१- -कम् क्षुस्
२, ९:१९.

नि-खर्वाद^१- -दे शाश्रौ १५, ११, ४.

नि/खिद् > नि-खिदत्- -दन्
आपश्रौ २४, १४, ५.

नि-खिल,ला^१- -लम् माश्रौ १, ७, ८,
१०; -ला वृदे २, ६.

नि/खै(स्थै), निखापेयत् काश्रु ७,
१०.

नि/गच्छ, गम्, निगच्छति या११,

३९; निगच्छतः शाश्रौ ५, १८,
७; निगच्छन्ति शाश्रौ १, १६,
१०; १७, ६×४.

निजगिममः कौस् ४२, १७.

निगमयेत् वाश्रौ ३, २, ६, ४०;
निगमयेत् आश्रौ २, १९, ९.

नि-गत- -तम् अश्र १३, ४.

नि-नान्तव्य- -व्यम् आपघ १, १३,
११; हिघ १, ४, २५.

नि-नान्तु- -न्तवः या १, १.

नि-नाम^१- पा ३, ३, ११९; पाग
४, ३, ७३; ५, ४, ३८; -माः
कौस् ९१, २०; वाघ ४, २, १७,
४; या २, ३; ६×४; -माः
शाश्रौ ५, १८, ७; १९, ५; काश्रौ
५, १२, ७; भाश्रौ १०, २१, १०;
वृदे २, १३६; या १, १; २,
५×४; मीस् १०, ४, ५४; -माव
शाश्रौ ९, २७, ३; या ४, १; -मे
आश्रौ ३, ६, १६; पा ६, ३, ११३;
४, ९; ७, २, ६४; ३, ८१; ४,
७४; -मेषु आश्रौ १, ३, १९;
२१×४; शाश्रौ; -मौ या ३-
२०; २१; ५, ५.

नैगम- पा ४, ३, ७३;

-माः या २, २; -मानि या
१, २०; -मेम्यः या २, २.

नैगमी^१- -मी अश्र २,
२, २१; ३, २१; ३, ३, १९.

निगम-चतुष्पथ^१- -थे माय २,
१४, २८.

निगम-स्थान- -नानि शाश्रौ १,

- a) द्वस. । निक्षेप- = अमुद्रितद्रव्य-न्यास-, उपनिधि- = मुद्रितद्रव्य-न्यास- (तु. मिताक्षरा [यास्य २, ६५; ६७]) । b) वैष १ द्र. । c) निघाय इति संस्कर्तुः टि. । d) सपा. कौय १, ९, ७ निघाय इति पाभे. । e) गस. उप. क्यप्र प्र. ईकारादेशश्च (पा ३, १, १११) । f) = अग्नि-विशेष- इति MW. । व्यु. ? । g) = [१००० अर्बुदमिता-] संख्या-विशेष- (तु. म. L मां १७, २) । व्यु. ? । h) = अ-खिल- । i) = नगर-, वेद- (तु. अभा.) । गस. । उप. करणाधिकरणयोः घः प्र. । j) तु. पागम. । k) = देवता-संकीर्तन- इति विद्याधरः । l) = लेट्-लकार- (तु. संस्कर्तुः टि.) । m) वैतु. पूष. = अरंय- इति भाष्यम् ।

१६, १०६; -नेषु शांश्री १, १,
३७; १६, ९; ३, १६, १२; ६, ९, १४
निगमस्थान-वर्जम् शांश्री
१४, १०, ६.
निगमन- नात् या १, १.
निगड^१- पाग २, ४, ३१; -इः
अप ६८, २, २८.
नि/गद्^२, निगदत् आश्री १०, ७,
१-६; शांश्री.
निगदिष्यामि वीश्री १०, ५४ :
४; १५, ३५ : ४.
निगद्यते कप्र ३, ८, १४; अप
३६, २, १; शंघ ३७२; वृदे ५,
१७४; ६, ११५; वीशि ३९; ४७;
निगद्यन्ते वृदे १, १८; ४१; ७,
१३८; ८, १०४.
निगदयेत् शांश्री १७, १४, १.
निगद, दा^३- पा ३, ३, ६४; -दः
द्राश्री १, ४, ३; लाश्री; -दम्
आश्री ५, १, १४; शांश्री; -दाः
काश्री १, ३, १; हिश्री १६, २,
१४; -दान् आपश्री ८, ५, १८;
-दानाम् वृदे ८, १०४; -दाम्-
दाम् भाश्री ४, १८, २०;
-दायाम्^४ कौसू १४१, ३६; -दे
आश्री १, २, २७; ४, १२; ५, ७,
४; गो १, १३; २, ३३; ३७^५,
-देन आश्री १, ४, ९; वीश्री ७,
३; ११; १५; २७; वृदे ८,
१०४; या १, १८^६; कौशि ५८.
निगद-वृत्ति^७- -त्ति लाश्री ७,

८, ६४.
निगद-व्याख्या(त>)ता- ता
या ६, ५; ७, २३××; -ताः
माश्री ५, १, ६, ३७.
निगद-सुताम्^८ अप्रा २, ३,
२८.
निगदा(द-आ)दि^९- -दि आश्री
५, १, २.
निगदा(द-अ)नुवचना(न-अ)भि-
ष्टवन-शास्त्र-जप- -पानाम् आश्री
१, ५, ३६.
निगदत्- -दत्तः अप ६१, १, २०;
७०, ४, ५; वाघ २७, १०; विघ
१, ६५; आज्यो १, १२; -दन्
वीश्री २०, ६; १३; २१, १२; ११.
निगदित- (> णित्- पा.) पाग
५, २, ८८.
निगद्य वीश्री २, ८ : १६; १०, ४८ :
५××; माश्री.
निगद- पा ३, ३, ६४.
निगन्तु-, निगम- प्रभृ. नि/गच्छ
द्र.
निगमव्यः^१ या १४, ३१.
निगरण- नि/गृ (निगरणे) द्र.
नि/गा, निगाम् आपश्री १, ५, ५;
भाश्री १, ५, १; हिश्री १, २, ४७.
निगार-, निगारत्- निगीर्य नि/गृ
(निगरणे) द्र.
नि/गुप्> निगुप्त- -सम् वीश्री २१,
१३; २०; -सान् वीश्री २, २, ५६.
निगुस्थ^१- -स्थानाम् शांश्री १६,

२९, ६.
नि/गु>गृह, निगृह्य वृदे ८, ३०;
न्यगृहन् वृदे ८, २४.
नि/गृह, प्रस्, ह, नि...गृहीते
हिश्री- ७, २, ८२; निगृह्णाति
आपश्री १६, ४, ४; वीश्री^२
निगृह्णातु कौसू १३७, १९;
निगृहीयात् आपश्री ५, १४, ९;
६, १८, २^३; वीश्री २१, १९ :
२०; वीश्री २१, १४ : ६; हिश्री
१५, ७, ३^४.
निजग्राह वृदे ६, ६१.
निगृहीत- पाग ५, २, ८८; -तम्
वृदे ४, ११३.
निगृहीतिन्- पा ५, २, ८८.
निगृहीते (त-इ) निद्रय-क्रि
(या>) य^५- -यः आमिष्ट २,
४, ५ : २१; वीघ ४, ७, ६.
निगृहीति- -तिः पावा १, २, १८.
निगृह्णान- -नः शांश्री १५, २०, १;
निगृह्य शांश्री १२, २२, १^६; काश्री;
पा ८, २, ९४.
निग्रह- -हः आशि ८, २०; -हे
पावा ३, १, ५^७.
निग्राम^८- पावा ३, ३, ३६; -भः
वीश्री ७, ६ : ९^८; माश्री १, ३,
४, ७^९; वाश्री १, ३, ६, १^{१०};
वीश्री १५, ११ : १३^{११}; हिश्री ८;
३, ७^{१२}; -भम् काश्री ९, ४, १८^{१३},
आपश्री ३, ५, ५^{१४}; १२, ९, ८^{१५};
वीश्री १, १९ : १५^{१६}; ७, ६ :

a) = शृङ्खला-। व्यु. ?। b) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र.। c) आप., = प्रैप-मन्त्र- (तु. विद्याधरः [काश्री १, ३, ११]। d) = निगदोक्ता- (देवता-)। e) पाठः ? निगतायाम् इति वा निःशब्दायाम् इति वा शोधः इति संस्कृतुः टि.। f) विप.। वस.। g) णि इति पाठः ? यनि. शोधः। h) पाठः ? श्रुतान् इति वा श्रुतान् इति वा संस्कृतुः टि. शोधः। i) पाठः ? निगन्तव्यः इति शोधः स्यात्। j) = तदाख्य-गोत्र- (क्षत्रिय-)। व्यु. ?। k) विप.। वस. > वस.। l) तु. पासि.। m) वैप १ द्र.। n) = (निग्राभ्यास्वप्त्रा- लोडनेनोत्पन्न-) सोम-रस- इति गोपीनाथः (हिश्री ८, ३, ७)। o) पाभे. वैप १, ९०७ g द्र.। p) = मन्त्र-विशेष- (= प्रागुपाक् [मा ६, ३६१]।

१०-१२; २१, २१ : २; भाश्रौ;
 वैश्रौ ७, ५ : ४^१; हिश्रौ २, ४,
 ७^१; भेज् वौश्रौ १, १९ :
 १४^१; भाश्रौ ३, ५, ८^१.
 नित्राभा(भ-ञ)न्त^१ -न्ते काश्रौ
 १, ५, ६.
 नित्राभो(भ-ञ)पायन् -न्म्
 आपश्रौ १२, १०, १०.
 नि-त्राभ्य, भ्या^१ -भ्यम् वैश्रौ १६,
 १० : १०^१; -भ्याः काश्रौ ९,
 ३, ११; ४, ६××; चाञ् २, ३^१;
 -भ्यागाम् आपश्रौ १२, ७, १८;
 वाश्रौ २, २, ५, ४; वैश्रौ १५, १० :
 २; हिश्रौ ८, २, ३८; -भ्याभिः
 हिश्रौ ८, ३, ४; -भ्यासु काश्रौ
 १, ४, ६; ५, १५; आपश्रौ १२,
 ९, १; वौश्रौ ७, ५ : २; ८, १ :
 ५; १४, ४ : ३५; २१, १७ : ९;
 ११; २५, १७ : १५.
 नित्राभ्या(भ्या-ञ)सेचन् -न्तम्
 काश्रौ ९, ५, ४.
 नि-ग्राह -हः पा ३, ३, ४५.
 नि/गृ (निगरौ), निगिरत् द्राश्रौ
 १२, ३, १३; लाश्रौ ४, ११, १३;
 गोश्रु ३, ६, ३; ८, १४; द्राश्रु ३,
 १, ४४.
 नि-गरग-> निगरग-चलना(न-ञ)
 धे-धेभ्यः पा १, ३, ८७.
 नि-गार- पा ३, ३, २९.
 नि-गिरत्-न्द् वाश्रु ३, ४१; वौष

१, ५, २०; गौष १, ४६.
 नि-नीर्य काश्रौ १३, ३, २३^१.
 नि/ग्रथ्, ल्यु, निग्रथ्नाति वौश्रौ
 १३, ३७ : ८; निग्रथ्नाति वौश्रौ
 २, ५ : ३३; १५, १३ : १; १८ :
 ३; निग्रथ्नीयात् वौश्रौ २०, ३ :
 ३४; ३७.
 नि-ग्रह- प्रथ्. नि/ग्रह् द्र.
 नि-घ- नि/ह्व द्र.
 निघण्टु^१ - पाठश्च १, ३७; -ण्टवः या
 १, ४^१.
 नैघण्टु-क^१ -कः साञ् १, १७;
 ६९××; -कम् साञ् १, १५;
 या १, २०^३; २, २४; ५, १२;
 १०, ३; ११, २; -काः साञ् १,
 १४७; २, ११६××; -कानि या
 १, २०; -कौ साञ् १, ३२०;
 ४५५.
 नि/घस- नि-घस- पा ३, ३, ६०.
 नि-घात-, पति-, पतिन्- नि/ह्व द्र.
 नि/घृप् > नि-घृष्य वाश्रु-२, ८;
 गोश्रु ४, २, २८; द्राश्रु ३, ५, २०;
 कौश्रु ३, ५, ७.
 नि-घृष्या- पाठ १, १५३; -ण्टवः
 आप ४८, ६७; निघ ३, २.
 नि-घनत्- प्रथ्. नि/ह्व द्र.
 नि/ग्रा > नि-ग्रा^१ -ग्रेण^१ वौश्रौ ५,
 १५ : १.
 नि-ग्रथ् काश्रु ३४, ७; ३६, ११.
 नि-चङ्कुण^१ -णम् आपश्रौ १३,

१९; १०-१२; १०, ५; वौश्रौ
 ८, २० : ११^३; वैश्रौ १६, २५ :
 १४; हिश्रौ ९, ५, ३९; २२,
 १, ५५; तैत्रा २३, १२.
 नि/चम् > नि-चनन्-नेन या ५,
 १७; १८.
 नि-चान्त->न्त-पृण-भ्याः या
 ५, १७.
 नि/चर् > ऋनि-चेर^१ -रः वौश्रौ
 ८, २० : ११^३; द्राश्रौ ६, ४, ८;
 लाश्रौ २, १२, ९.
 निचल्कल^१ -रः वाश्रु ५, २८.
 निचाकु- पाठसो २, १, ४२.
 नि/चाय् (वधाः) > ऋनि-चाय्य
 > च्या वाश्रौ ९, ५, ५; लाश्रौ
 ४, १०३ : ८; याः ५, २१^१;
 शुभ्रा ४, १५, ३^१.
 नि/चि (क्यने)^१
 नि-काय- पा ३, ३, ४१; ४२.
 नि-कायिन्- -यिनः जुश्रु २,
 १६ : ११; -यिनाम् आपश्रौ
 २२, १, २; २४, ४, ६; हिश्रौ
 १७, १, २; नीश्रु ८, १, १९.
 नि-काव्य- पा, पावा ३, १, १२९.
 नि-चय^१ -याग २, १, ५९; ५, २,
 ६४; -यः वौष ३, २, ८; गौष
 १०, ६२; -याः कश्च ३, ३, ८.
 निचय-क- पा ५, २, ६४.
 निचयो(ञ-ञ)च्चारित^१ - पा २,
 १, ५९.

a) पामे. वैप १, ९०७ g द्र.। b) पूष. = मन्द्र-विशेष-। c) = [अनिपदायां] रश्चप्-। वैप १ द्र.।
 d) पाठः ? भ्या->भ्याः इति शोषः (तु. स्या. हिश्रौ १, १, ४; ३, ३६)। e) भ्यः इति पाठः ? यनि. शोषः द्र.
 (तु. ना ६, ३० प्रथ्.)। f) पामे. पृ १३९५ n द्र.। g) = वैदिकशब्द-शेष-। व्यु. ?। < निग्रथ्य-
 इति WAG [१, १६७ b]। h) तस्येदमयि तदधति वाऽथे ष्क् > कः प्र.। i) = हत्व-। j) = घ्राण-।
 गत्. उप. कर्तारि कः प्र.। k) स्या. वौश्रौ २, १८ : ८; २० : १५ जिब्रेण इति, आपश्रौ ८, १६, ३ भवब्रेण
 इति पामे. (तु. संस्कर्तुः टि.)। l) वैप १ द्र.। m) पामे. वैप १, १७९९ c द्र.। n) विप. (कण्ठलु-).।
 अर्थः व्यु. च ?। o) वैप १, १७९९ k द्र.। p) पामे. वैप १, १७९९ j द्र.। q) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र.।
 r) = सायल्ल- (= अहःसंघ-).। s) विचय- इति पाञ्च.। t) तु. पागम.।

नि-चित- -तम् या ४, २४.
 नि-चुद्-कुण^१ - या ५, १८^१; -०ण
 माश्रौ २, ५, ४; ३०^१; -णस्य
 चाश्र ४: ८^१.

नि-चुदाह^१ - > ०रु-वक-त्रलाका-शुक-
 मद्गु-दिहिम-मान्थाल-नक्तंवर-
 -रा: गौघ १७, ३२.

नि-चुस्पुण^१ - -०ण^१ द्राश्रौ ६, ४, ८^१;
 लाश्रौ २, १२, ९^१; या ५, १८^२;
 -ण: अण ४८, ११५^१; निघं ४,
 २^१; या ५, १७^१; १८^२; -णस्य
 चाश्र ३: ३^१.

नि-चुल^{१२} - पाठभो २, ३; १-१०^१; पाग
 ५, २, १३६^१.

नि-चुलिन् - पा ५, २; १३६^१.

नि-चृत्, निचृतति-कौसू ८५, १३-
 १६.

नि-चृत्^१ - चृत् शाश्रौ ७, २७, २७;
 अश्र १, ३; १८; २४; २, ५; ९××;
 ऋप्रा: -चृत: निस् १, ६: २; ५;
 वृदे ८, १०७; अश्र १९, ४५;
 -चृतौ अश्र २, २४.

नि-चृद्-आर्ची-वृहती - -त्य:
 अश्र १५, ११.

नि-चृद्-गायत्री - -व्यौ अश्र ५,
 १३.

नि-चृद्-वृहती - -स्यौ अश्र १५, ६.

नि-चृद्-सुरिज् - -रिज: निस्
 १, ६: १; -रिजौ ऋश्र १, ३,
 ३; शुश्र ५, ४; पि ३, ५९.

नि-चृद्-विपमा - -मा अश्र ९,
 ६(५); १९, ४४; -मा: अश्र २,
 १९.

नि-छद् > नि-छन्न- -जम् अण
 ३४, १, ६.

√निज्^१, पाया. - जु. उभ. शौचपो-
 - षण्यो:, नेनेक्ति वैश्र १; ३: २;
 या २, १७.

?निज्य^१ कौसू ६२, २१^१.

नि(क्त>)क्ता - -क्ताभि: वाश्रौ १,
 ७, २, २०.

निक्त्वा कौसू ४१, १६; ६१, ३६.

नि-जघ्न- नि-हन् इ.

नि-ज(ङ्वा>)ङ्क् - -ङ्क् आग्निगृ १,
 ५, २: ४; वौगृ १, ३, ३७.

नि-जन् > नि-ज, जा^१ - -जम् याशि
 २, ६३; -जाम् जैश्रौका १८९;
 -जाय कौसू ८९, ४; -जे जैश्रौका
 १३८.

?निजस्य^१ हिगृ १, १५, ६^१.

निजि^१ - (> निजि-मत्- पा.) पाग
 ८, २, ९.

नि-जिहीर्षत् - नि-हृ इ.

नि-जिह्वक^१ - -०क^१ आपमं २, २१,
 ३२; भागृ २, ३६: ११.

?नि-जिह्विक^१ - -०क^१ हिगृ १, १५,
 ५^१.

√निञ्ज् पाया. अदा. आत्म: शुद्धौ.

निग्य^१ - -ण्य: आ-१४, २२; -ण्यम्
 अण ४८; १०७^१; निघ ३, २५;

या २, १६^१:

नि-तस्, नितस्यति-भाश्रौ ७, १५, ४.

नि-तन् > नि-तति^१, ती - -तिम्
 अश्र ६, १३६; -ती विघ ६७,
 ७^१.

नि-तान - -त: माश्रौ २, २, ३, १६^१;
 ३, ५, ५^१; ६, २; ४, ११^१; वाश्रौ
 २, २, ३, २^१.

नि-तप् > नि-ताप्य-कौसू ३२, २४.

नि-तम्, नितमयति आपश्रौ ५, १७,
 ८.

नितम्ब- पाठभो २, २, २१९.

नि-तर- > नितराम् शाश्रौ ७, २०,

१०; १५, २२, १; आपश्रौ ६, ९,
 १^१; १५, ५, ७; भाश्रौ ११, ५, ७.

नि-तर(र>)रा- नि-वृ इ.

नितान्त^{१२} - पाग ४, २; ९०^१; -न्त:

त्रैपा १६; २३^१; -न्तम्^१ अण
 ६९, ८, ५.

नितान्तीय- पा-४, २, ९०.

नितान्तवृक्ष- (> क्षीय-) नितान्त-

टि. द्र:

नि-तुज्, नितोजति अण ४८, १९^१.

नि-तुद्, न्द, नितुन्दते^१ आश्रौ ४,
 १३, ७.

नि-तोद् - -दम् काश्रौ १६, ८, ५;

आपश्र १८, ९^१; हिगृ ६, १४;

-दयो: आपश्र १८, ९; हिगृ ६,

१४; -दाव् आपश्र १८, ९;

हिगृ ६, १४.

- a) वैप १ इ. b) पाभि. वैप १, १७९९ ० इ. c) = ऋषि-विशेष-। d) = पत्ति-विशेष-।
 न्यु. ?। e) ण: इति पाठ: ? यनि. शोघ:। f) अर्थ: व्यु. च ?। g) = स्थलवेतस- (जलवेतस- इति
 अश्री.) इति कृत्वा < नि-चुल् इति अभा.। h) तु. पागम.। i) विप. ([एकाक्षरं-न्यूनं-] छन्दस्-)।
 j) पा ७, ४, ७५ परासृष्ट: द्र.। k) विप.। वस.। l) विप.। कर्तरि ड: प्र. (पां ३, २, ९९)। m) पाठ: ?
 निजेसि इति संस्कृते: -टि. संभावितम्। n) विप. > नाप. ?। वस.। o) सपा. परस्परं-पाभि.। p) पाभि. वैप
 १, १६७२ k-द्र.। q) पाभि. वैप १, १६७२ l-द्र.। r) < नि-वृत्म् इति अभा.। s) नितान्त-वृक्ष-
 इति पाका.। नितान्तवृक्ष- इति भाण्डा. पासि.। t) = पारिभाषिक-संज्ञा-। u) = अतिशय-। वा. क्वि.।
 v) = गर्त-।

नि/तुश्, नितोशते निघ २, १९१.

नि-तोश-शस्य या १३, ५.

नैतोश-शम् या १३, ५;

-शा या १३, ५१६.

नि/तुद्, नितुन्धि अप्रा ३, २, ३३१.

नि/तु, नि(तिरामि)अप्र ६, १३११.

रनि-त(र>)रा^b-रा माट २,

११, १२०.

नित्य, त्या^a-पाग ५, १, ९७; ४, २९;

पावा ४, २, १०४; -त्यः आश्रौ

१, १२, ३; २, ८, १३××; शाश्रौ;

तैप्रा २०, २^d; -त्यम्^e आश्रौ १, ५,

१४; २, २, १०; ७, ४××; शाश्रौ;

हिघ १, १, १२३^f; या २, ३;

पा १, २, ६३; ७२; ४,

७७; २, २, १७; पावा ४, ३,

१४४^g; -त्यया आश्रौ ५, ११,

४; आपश्रौ १९, २५, ११; हिश्रौ

२२, २, १०; ५, २२; वैताश्रौ

३२, ३४; -त्यस्य वाश्रौ १, ६,

७, ३३; हिश्रौ ३, १, १८; या ३,

२१; मीसू १, ३, १८; ३, ६, ४३;

-त्या आश्रौ २, ४, ९; ११;

काश्रौ; -त्याः आश्रौ १, १, ८;

२, १९, २०××; शाश्रौ; -त्यात्

आश्रौ ७, ३, १; २; ५, १०; वाश्रौ

१, ७, ४, ८; -त्यान् आश्रौ ८,

४, १६; ९, ३, १९; शाश्रौ;

-त्यानाम् आश्रौ २, १, २२;

विघ ५४, २९; हिघ १, ४, २९;

-त्यानि आश्रौ ७, १, २०; ८, ४,

३××; शाश्रौ; -त्याभिः शाश्रौ

१०, ७, ३; निस् ५, ६ : १३^h;

९, २ : ११; २४; काट ५८, ४;

६०, ५; -त्याम् निस् ७, १० :

१६^h; शांश्रु ६, ४; १२; काट ७

४३ : ९; ४५ : ९; -त्यायाःⁱ

निस् ६, ६ : १९; ८ : ३३;

-त्यासु^j निस् ८, ९ : २८; १०,

२ : २२; -त्ये आश्रौ १, ५, ३४;

२, १, ८××; शाश्रौ; -त्येन

आपश्रौ १४, ३३, ३; वीश्रौ;

-त्येभ्यः काश्रौ ५, ४, २१; ७, ६;

११, ४; -त्येषु वीश्रौ २८, १३ :

१९; हिश्रौ ६, १, ३; माट ३,

२१ : ६; माट २, ३, ४; -त्यैः

वाश्रौ ३, ३, ४, १३; दाश्रौ ८, ३,

२; लाश्रौ ४, ७, १; मीसू ४, ४,

१२; -त्यौ आश्रौ ५, २, ४;

शाश्रौ ३, ८, ५; १४, ५७, ६;

माश्रौ ६, ८, १०; दाश्रौ ८, २, ८;

लाश्रौ ४, ६, ८; वैताश्रौ ३३, ६;

निस् ५, ६ : १२; कौश्र १, ५,

२४; ९, ७; शांश्रु १, ९, १०.

नैत्य- पा ५, १, ९७.

नैत्यक^l-कम् कप्र २, १०, २;

वाघ २५, ४; वौघ ४, १, २४.

नित्य-कर्मन्-र्मणि वैश्रु ६, ८:१२;

-र्मभिः वैश्रौ २०, १ : १.

नित्यकर्म-ब्रह्मचर्य-शील-लः

वैघ १, ३, ४.

नित्य-कल्प-त्पाय अप्राय ६, ८.

नित्य-काम-मः भाश्रौ ७, १, ७;

वैश्रौ १८, १२ : ३.

नित्य-काल-लम् अप ८, २, १.

नित्य-ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-न्यम्

पावा ३, १, २२; ५, १, ६७.

नित्य-चान्द्रायण-वत->पित्-

-तितः वैघ १, ९, ४.

नित्य-जप-होम-मे वैघ २, ११, ८.

नित्य-ता-ता भाशि ४.

नित्य-वृत्-सः विघ ९१, २.

नित्य-त्व-त्वात् आश्रौ ७, १, २१;

काश्रौ १, ८, १८; ४, २, २९××;

निस् .

नित्य-दा पाग १, १, ३७; कौश्र १,

३, ३७; कौशि ४४.

नित्य-द्विपदा-दाः ऋम् २, ९,

६७.

नित्य-धर्म-र्माः गौश्र ३, १, २५.

नित्य-धारण-णम् वाश्रौ १, ५, ३,

६; -णात् मीसू १२, ४, ३१;

-णे मीसू १२, ४, ३०.

नित्य-घृत्¹-घृतः शाश्रौ २, ६, ४.

नित्य-घृत-तः माश्रौ १, ६, १, ६;

-तात् शाश्रौ २, १७, ६.

नित्य-निन्द्य-न्द्यः वैघ ३, १५, ११.

नित्य-निमित्त-त्व-त्वात् पावा

१, ३, ६०; ७, १, ७३.

पुंनित्य-पु(ष्ट>)ष्टा-ष्टाम् आमिष्ट

२, ६, १ : २९; माट २, १३, ६.

नित्य-पूत-तः कौश्र ५, ७, २१.

नित्य-पूर्व-र्वेण वीश्रौ २५, २४ :

१८.

नित्यपूर्वा(र्व-अ)र्थ-र्थम् पावा

५, ३, ६८.

नित्य-प्रतत-तः आपघ १, ४, ४^f;

२, ७, १.

नित्य-प्रत्यय-त्व-त्वम् पावा ३,

१, २७.

नित्य-प्रयुक्त-कानाम् गौश्र ४, ५,

११; दाट ४, १, २.

a) वैपश् द्र. । b) विप. । उस. उप. षच् प्र. । c) सपा. नितरा <> निमित्ता इति पाभे. ।

d) = स्वरितसंज्ञा-भेद- (=जात्य-) । e) वा. क्तिवि. । f) सपा. नित्यं प्र<> नित्यप्र इति पाभे. ।

g) तु. पासि. । h) विप.> नाप. (=स्तोत्रिया-) । i) विप. । तत्रभवीयः बुञ् प्र. उसं. (पा ४, २, ९२) ।

j) विप. । उस. ।

नित्य-प्रयोग- -गः गोय ४,७, ३७;
८,१०.
नित्य-प्रवृत्त- -त्ते पावा ३, २, १२३.
नित्य-प्रश्न- -श्नस्य आपध १, ११,
२१; हिध १, ३, ७१.
नित्य-प्रातः-स्नायिन्- -यी आम्रिष्ट
२, ७, ११ : १३.
नित्य-भक्ष- -क्षम् वौश्रौ २९, ५ :
५; १२.
नित्य-भावि-त्व- -त्वात् मीस् १०,
६, ५८.
नित्य-भूत- -तः आम्रिष्ट ३, ११,
२ : ९१.
नित्य-यज्ञोपवीतिन्- -ती कौय ३,
११, ५४; आम्रिष्ट २, ७, ११ :
१३; वाध ८, १७; वौध २, २, १.
नित्य-युक्त- -क्तः वाध २५, ९;
गौध १०, २८; -क्ताः अय २०,
२, १; वाध २५, ३.
नित्य-वचन- -नम् पावा ४, ४, २०;
८, ४, ४५; -न्तात् पावा ३, १,
३१.
नित्य-वत् आपश्रौ ३, ९, ५; ४, ८,
७x५; भाश्रौ.
नित्यवच्-द्भुत-भूता (त-अ)
भिसंयोग- -गात् मीस् ११, १,
१६.
नित्य-व(त्स>)त्सा^०- -त्सा^० शांय
३, २, ५^०; -त्साः लाश्रौ १०, २,
३; क्षुस् २, १० : २५; ११ :
१४; ३, ७ : २; निस् ७, ३: ३९;
कौय ३, २, ५^०; शांय ३, २,
८^०; भाय १, २७ : ७^०;
-त्सायै वौश्रौ ५, १० : १९^०.

नित्यवत्सा(त्सा-अ)तीपङ्ग-
-ङ्गयोः लाश्रौ ७, ५, ३.
नित्य-विरत- -त्ते ऋत २, ४, ७.
नित्य-विशेषो(प-उ)क्त^०- -क्तम्
कय २; ४, ६.
नित्य-वीप्सा- -प्सयोः पा ८, १, ४.
नित्य-वृत्ति- -त्तौ वैश्रौ १२, १२ :
१४; हिश्रौ ७, १, ६०.
नित्य-व्रत- -तानि वाय ९, १६;
गोय ३, २, ४८.
नित्य-शब्द- (>नैत्यशब्दिक-
पावा.) पावाग ४, ४, १.
नित्यशब्द-त्व- -त्वात् पावा १,
१, १; ३, १.
नित्य-शस्(ः) कौय ३, १०, ३५;
अय १, ४४, १; २३, १३, ४XX;
वाध.
नित्य-शिखिन्- -खी आम्रिष्ट २,
७, ११ : १३.
नित्य-शिल्प- -ल्पम् आश्रौ ८,
४, ५.
नित्य-श्राद्ध- -द्धम् आम्रिष्ट ३, ३,
१ : १२; २ : २७; आपध २,
१८, ६; हिध २, ५, ५८; -द्धे
आम्रिष्ट ३, ३, २ : १२; १३.
नित्य-संयोग- -गात् मीस् ३, २, १;
६, १, ४२; ४, १२; १०, ५, ६६.
नित्य-सन्ध्यो (न्ध्या-उ) पासिन्-
-सी आम्रिष्ट २, ७, ११ : १३.
नित्य-समवाय- -यात् मीस् ४, २,
२३.
नित्य-समास^१- -सः पावा ६, १,
१२४.
नित्य-समास- -सयोः पावा ६,

१, १२५.
नित्यसमास-वचन- -नम् पावा
२, १, ३६.
नित्यसमास(स-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, ४, ३७.
नित्य-संपन्न- -न्नः वौश्रौ ५,
१६ : ८; -न्ताः क्षुस् ३, २ :
२६.
नित्य-संबन्ध- -न्धात् पावा १, २,
४५.
नित्य-स्तान- -नम् शंघ १००;
-नेन शंघ १०१; विध ६४,
४२.
नित्यस्तान-विहीन- -ने वैय ६,
८ : ३.
नित्य-स्नायिन्- -यी शंघ १०१;
विध ६४, ३५; ४२; ८९, ४.
नित्य-स्वाध्याय- -यः गौध ५, ४.
नित्यस्वाध्यायिन्- -यी वाध
८, १७; वौध २, २, १; वैध ३,
५, १.
नित्य-होतृ^१- -तारम् माश्रौ १,
२, ६, १०; वाश्रौ १, ३, ३, १५.
नित्य-होम- -मः आश्रौ १, १३, ९;
२, ३, १; -मे वैय १, ८ : १०;
अय २३, ६, ४.
नित्यहोम-काल- -त्ले अप्राय
२, १.
नित्यहोम-दर्शका(क-आ) ग्रयण-
निरूढपशुबन्ध-चातुर्मास्य-
सौत्रामणि-सोम^६- -मेयु वैश्रौ
२०, ३१ : ३.
नित्यहोमा(म-अ)न्त- -न्ते वैय
४, १० : १.

a) विप. । वस. उप. = ग्रन्थ-विभाग- । b) = साम-विशेष- । वस. उप. = पद-विशेष- (तु. लाश्रौ ७, ५, ९) । c) विप. (धेनु-) । उप. = गो-वत्स- । d) सपा. कौय ३, २, २ पाकवत्सा इति पाभे. । e) विप. > नाप. (धेनु-) । f) समाहारे द्वस. । g) विप. । पंस. > तुस. । h) विप. । वस. उप. = स्तोत्र-समूह- । i) = अविग्रह- वा, अ-स्वपद-विग्रह- वा । j) वैप १ द्र. । k) द्वस. । दर्शक- = दर्श-पूर्णमास- । वैप४-तृ-८१

नित्या(त्या-आ)दि-पद-स्तोभा-
(भ-अ)पाच^a- -यात् निसू ८,
९:४०.

नित्या (त्य-आ) दिष्ट-त्व- -त्वात्
पावा ३, १, ४५.

नित्या(त्य-अ)ध्याय- -येन आश्रौ
८, १४, ९.

नित्या (त्य-आ) नन्द- -न्दम् वैध
१, ९, १५.

नित्या (त्य-अ) नित्या- -त्या: निसू
९, २: २०.

नित्या(त्य-अ)नुगृहीत- -तः आगृ
१, ९, २.

नित्या (त्य-अ)नुवाद- -दः काश्रौ
७, ५, २६; मीसू २, ४, २५; ३, ३,
१२; ४, १, ४५; ६, ७, ३०; ९,
४, ३४; १०, २, ३६; ७, ३९; ४९;
५०; ११, ४, १५; -दम् आपघ
२, १४, १३; हिघ २, ३, २४;
-दात् मीसू ८, १, ६.

नित्यानुवाद-वचन- -नानि मीसू
७, ४, ५.

नित्या (त्य-अ) न्धकार^b- -रे विघ
९६, ३०.

नित्या(त्य-अ)वह्वच्- पा ६, २,
१३८.

नित्या(त्य-आ)भक्त^c-> °क्तिक-
-का: वौध २, ३, १६^d.

नित्या(त्य-अ)भाव- -वः काश्रौ १७,
२, २.

नित्या(त्य-अ)भिवन्दिन्- -न्दी वैध
१, २, १.

नित्या(त्य-अ)भ्याहित^e- -तः लाश्रौ
९, ८, ५.

नित्या(त्य-अ)र्वन- -नम् वैगृ ४,

१२: १; -ने वैगृ ६, २०: ६.
नित्या(त्य-अ)र्थ- -र्थम् माश्रौ २, १,
१, ३; पावा ७, २, ४७; ५२; ८,
३, २०; -र्थे पा ६, २, ६१;

-र्थेन मीसू १०, ५, ६८.

नित्या(त्य-अ)वसान- -नेपु मैत्र १५.

नित्या(त्य-अ)शन- -नम् वैध २,
४, ५.

नित्या(त्य-आ)हुति^b- -तिषु कौगृ १,
३, १३; ५, २५; शांगृ १, ८, १३;
९, ११; -त्वो: शांगृ १, ३, १०.

नित्यो(त्य-उ)दक-> °किन्-
-की कौगृ ३, ११, ५३; शांगृ ४,
११, २१; वाध ८, १७; वौध २,
२, १.

२नित्यो(त्य-उ)दक^b- -कः आगृ ३,
७, ३; -कम् काश्रौ २०, ४, १४.

नित्यो (त्य-उ) दक-तर्पण- -णे
आमिगृ ३, ७, ४: ४; वौपि २,
३, ९.

नित्यो(त्य-उ)शुक्त- -कः काश्रु ७, ५.

नित्यो(त्य-उ)द्वि(म>)ग्ना- -ग्ना:
अप ७१, १३, ३.

नित्यो(त्य-उ)द्वि(म>)ग्ना- -ग्ना:
अप ७१, १३, ३.

?नित्यरसोविरोदकिः वौश्रौप्र ४४:
२.

√निद्, न्द^a पाधा: भ्वा. पर. कुत्सा-
संनिकर्षयोः, निन्दति या ९, ८;

निन्दन्ति वृदे ७, ३७; या ३,
१०; ऋप्रा १४, ६८; निन्देत्
वैध ३, ३, ६.

तंभनिन्दिषु: द्राश्रौ १०, ३, ४:
लाश्रौ ३, ११, ३^५.

निन्दते वौध १, १०, ३०; वृदे
७, १११.

भानिन्दयत् अत्र ५, १८.

निनीत्सेत आश्रौ ९, ११, १.
तंनिद्^b- निदः या १०, ४२; ऋप्रा
४, ६२.

निन्दक- पा, पावा ३, २, १४६;
-कः वैध ३, ३, ६.

निन्दयित्वा अत्र ७, ११५.

निन्दा- न्दा आपश्रौ २४, १, ३३; तं:
हिश्रौ १, १, १०; निसू ८, १, २३;
२५; १०, ६: ८; आपमं २, ५,
३; आगृ ३, ९, १; कागृ ४१,
२३; वृदे १, ३५; ४९; -न्दाम्.

निसू १, १०: १६; वैध १, २, ८;
-न्दायाम् पावा ३, १, ५^१.

निन्दा(न्दा-आ)क्रोश- -शौ वैध
३, ७, १०.

निन्दा-परीवाद- -दौ विध २८,
२६.

निन्दा-प्रशंसा- -से या ७, ३.

निन्दा (न्दा-अ) शक्ति-समाप्ति-
वचन- -नानि मीसू २, ४, २०.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

निन्दित, ता- -तः वाध ६, ६;
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,
५, ५: ८; पागृ १, ११, ४;
भागृ १, १९: १८; वैगृ ५, ९,
३; हिगृ १, २४, १; माशि १,
४; याशि १, ५१; आज्यो १३,
२; -ता: काश्रौ २२, ४, ४;
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४;
हिश्रौ १७, २, ४२; -ते आमिगृ
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;
-तेभ्यः विध ४०, १; -तौ वैध
३, ११, ४.

a) वस. > कस. > पस. । । b) विप. । वस. । । c) कस. उप. = भोजन- । d) नित्या
भाक्तिका: इति मैसू. । e) = अग्नि- । कस. । f) पा ८, ४, ३३ परामृष्ट: द्र. । g) विसर्गहीनः पाठः ? यनि.
शोधः (तु. द्राश्रौ.) । h) वैप १ द्र. । i) तु. पासि. । j) = मन्त्र-विशेष- ।

निन्ध-न्धः वीध १, १०, ३०;
 -न्धानि आमिष्ट २, ७, ६:
 २३.
 नि√दध्, निदधति^३ आमिष्ट ३, ५,
 ४: ३; १२; १९.
 नि-दधत्-, नि-दधान- नि√धा
 द्र.
 नि-दर्शन- नि√द्द् द्र.
 नि√दह, निदहाति वीधौ २८, १०:
 ७; या ७, २०^क; १४, ३३^क.
 निदह्यताम् कौसू ८३, ७^क.
 नि-दध- -धम् कौसू ५२, ९;
 -धे वैश्री २०, २९: २.
 नि-दाघ^०- पाग २, ४, ३१^०; ७,
 ३, ५३; -वे काश्री २४, २, ५;
 आपश्री २३, ३, ७; हिश्री १८,
 १, २५; कौसू ८३, ७^क; वाघ
 २, ३३.
 नैदाघ^०- -वम् आपष्ट २,
 १२^०; वाग ३, १३; अथ ९,
 ५^क; अर्ष १: २४^क; ३: ६५;
 -वेन अप ५३, ३, ३^०.
 नैदाघी^०- -व्या: हिपि
 १३: ३.
 निदाघ-मासा(स-अ)तिगम- -ने
 वृदे २, ५०; ५५.
 निदाघ-शर(द् >)न्-माघ- -घेषु
 काश्री २१, ३, ५.
 निदाघ^१- पाग २, ४, ६९.
 नि-दान-, नि-दाय, नि-दित-, नि-दीय-
 माना- नि√दो द्र.
 नि√दृश्, निदर्शयन्ति कौशि ६९;
 निदर्शयेत् माश्री ४, ७, २.

निदर्शयिष्यामः आश्री ५, ९, २१.
 नि-दर्शन- -न्म् वैताश्री ३२, १६;
 अय ४७, १, १५; ६८, २, १३; वृदे
 २, १०७; ११०; अर्ष १: ८; १११;
 १३××; या १४, ३०; ऋप्रा;
 -नानि ऋप्रा १, ५२; १४, ४७;
 १५, १२; उस्; -नाय आश्री ७,
 ११, ६; १३; १७; ८, ३, १०;
 या ११, २; ऋप्रा १४, १; १६,
 ३१; -ने उस् ५, २; ६, २; ७, १६.
 निदर्शना(न-अ)थै- -थै: निस्
 २, २: १२; -थैम् लाश्री ७,
 १०, १८.
 नि√दो (वन्धन-खण्डनयोः) >
 नि-दान^१- -न्म् वीधौ १८,
 ३०: ३; ४५: २६; ४७:
 २०; २२; १९, ६: ५; २६,
 २९: १; -नात् उनिस् ८: ३१;
 -ने आपश्री १, ११, ५; १५, ५,
 २०; ९, ४; भाश्री १, ११, ११;
 ११, ५, २२; ९, ५; माश्री १, १,
 ३, १०; १६; ४, २, ६; ३, १;
 वाश्री १, २, २, ७; वैश्री ३, ६:
 ३; ४, १: १४; १३, ७: २०;
 ११: ६; हिश्री १, ३, ८; २४, २,
 ६; ४, ३; वाघ १, १४.
 नैदान^१- -ना: या ६, ९; ७,
 १२.
 निदान-संज्ञक- -के वृदे ५, २३.
 नि-दाय आपश्री १५, ९, ७; माश्री
 ११, ९, ९; हिश्री २४, ४, ३.
 नि-दित^१- -न्म् वाश्री १५,
 २३, १; उस् २, १३.

नि-दीयमान, ना- -नाम् माश्री १,
 १, ३, १७; वाश्री १, २, २, १८;
 -ने माश्री ४, ३, ९.
 नि√द्रा^३ > नि-द्राळु- पा ३, २,
 १५८.
 निद्रा^१ ऋप्रा २, ५९^क.
 निद्रा^३- पाळ २, १७^०; पाग ३,
 १, १३; ५, २, ३६; -द्रा अर्ष २२,
 १०, ५; विध ९९, ४; माशि १५,
 ९; याशि २, १०९; नाशि २,
 ८, २३; २९; -द्राम् शंघ ९०;
 ११६: २९; माशि १६, ४.
 निद्राय पा ३, १, १३.
 निद्रित- पा ५, २, ३६.
 नि√घन् (वधा.) > नि-घन, ना^१-
 पाळ २, ८१; पाग २, १, ५९^०; ४,
 ३१; -न्म् आश्री ६, १३, २;
 शाश्री ८, १०, ३; १०, २१,
 १२; काश्री १०, ८, २०; १९,
 ५, ३; २६, ७, ९; आपश्री;
 -नयो: निस् ३, १२: ५;
 -नस्य निस् २, ८: ३१; -नानाम्
 लाश्री ७, ११, १५; निस् ८,
 १: २३; २५; -नानि^१ आपश्री १,
 ४, ३; १२; वीश्री २०, २: ३१;
 ३८; ४०; माश्री १, ३, २२; वैश्री
 ३, ४: ९; १५; हिश्री १, २, ४३;
 ४७; द्राश्री; -नाभि: कौसू ८०,
 ३०; ४१; -नाय द्राश्री २, २,
 ३; लाश्री १, ६, २; -नाय-नाय
 द्राश्री ३, ४, १०; -ने आपश्री
 १, ४, १२^०; माश्री १, ४, १०^०;
 हिश्री १, २, ४८^०; जैश्रीका १९, ३;

a) सपा. वीपि १, ३: १३; २०: २८ निदधाति इति पाभे. । b) पाभे. वैप २, ३खं. नि...धीयात्ते
 माश १३, ८, १, ४ टि. द्र. । c) = ग्रीष्मर्तु- । d) तु. पागम. । e) विप., नाप. । स्वाथै वा तस्येदमित्यर्थे
 वा अण् प्र. । f) = मास- । g) विप. (अल-). । h) = ज्येष्ठ-पौर्णमासी- । i) व्यप. । व्यु. ? । j) = रज्जु-
 ग्रन्थ-विशेष-, आदि-कारण- । k) तदधीति तदेदेत्यर्थे अण् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. ।
 n) नाप. । व्यु. ? । o) < √निन्द् । p) निघान- इति पाका. । q) = मुष्टानि वृहत्तर-चय- । r) = अण्-विशेष- ।

लाश्रौ १, ६, २९; १०, १४;
 छुस् ३, ५: ८; निस् ४, ७:
 १९; ७, ११: ७; १०, १३: २;
 कौस् ४६, ५; मीस् २, २, २८;
 -नेन आपश्रौ १७, १०, ११;
 वैश्रौ १९, ६: १६; द्राश्रौ ११,
 ४, ८; लाश्रौ ४, ४, ७; निस् १,
 १२: १६; -नेम्यः लाश्रौ ७, ६,
 १०; -नेषु लाश्रौ ७, ६, १५; निस्
 १, १२: ८.

नैधन^१- नः आज्यो ९, ४;
 -नम् आज्यो ९, ८; -ने आज्यो
 १०, १; ९; ११, ४.

निधन-काम^२- सम् लाश्रौ ६,
 १२, १४.

निधन-त्सु (:) निस् ५, ५: ६.

निधन-स्व- स्वेन लाश्रौ ७,
 ११, १७.

निधन-ब्राह्मण- णम् निस् २,
 ९: ११.

निधन-भू (त >) ता- -ता:
 लाश्रौ ६, १, १७.

निधन-मा (त्र >) त्रा^३- -त्रा:
 निस् ८, १: २९.

निधन-वत्- -वत् लाश्रौ ६,
 १२, १४; छुस् १, ८: १४; -वन्ति
 लाश्रौ ६, ९, ७; १०, ८, ६;
 निस् १, १२: ४; ५, ५: ४.

निधन-वाद- दः निस् १, १२:
 १५; ४, ७: २४; -दम् लाश्रौ
 १०, २, ७; ९, १०; निस् ६,
 ७: ६३; -दाः निस् ४, ७: २५.

निधन-विभक्ति- -क्तिः जुस् ३,
 ६: १४; निस् ३, १०: ३;
 ५, २: ६.

निधन-स्थान- -नेषु लाश्रौ १०,
 २, ९; निस् १, १२: १३.

निधन-स्वर- -रम् लाश्रौ ७,
 ८, ५.

निधना (न-अर्थ >) र्था- -र्था
 मीस् २, २, २९.

निधना (न-आ) र्थेय- -यम् निस्
 १, १२: ७.

निधनो (न-उ) पाय- -यः शाश्रौ
 ५, १२, ४; -ये- निस् २, ९:
 ३३.

निधनो (न-उ) पायन- -नम्
 हिश्रौ १०, ५, २४.

निधवन- > नैधवन- -नाः, -नानि
 वाश्रौ ३, ९७: ३.

निधा, निधत्ते आपश्रौ १, ४,
 १५; १८, १५, ५; वौश्रौ; या १२,
 १९; निदधाति शाश्रौ २, ९, १३;
 १०, ७; ७, ३, २; ३; काश्रौ;
 वौपि १, ३: १३^d; २०^d; २८^d;
 निधत्तः काश्रौ ९, १०, ६; वैश्रौ
 १५, २८: ५; निदधति शाश्रौ
 ५, १४, १३; १७; ६, ६; १८, २४,
 ५; काश्रौ १३, ४, १^e; नि...
 दधति वौश्रौ १, ७: १७; ६, १३:
 १६xx; ऋनिदधे हिश्रौ ११, ७,
 ५१; कौस् ६५, १२; ऋनि...
 दधे^f आश्रौ २, १८, १३; वौश्रौ
 ५, १०: २३; निदधामि वैश्रौ
 १८, १३: ३^f; ऋनिदधामि
 आपश्रौ ४, १५, १; माश्रौ ४, २, १,
 १; हिश्रौ ६, ४, १८; कौस् १०२,
 २; निधत्तात् वौश्रौ: १७, ४०:
 १५; १९; आमिष्ट १, ३, २:
 २३; ३: ३; निधत्ताम् वैश्रौ

४, १४: ८^f; निधेहि वा ७,
 ३१; ऋनि...धेहि आश्रौ २,
 १८, १३; वौश्रौ ५, १०: २३;
 ऋनिधत्तात् आश्रौ ३, ३, १^f;
 शाश्रौ ५, १७, ३^f; वौश्रौ ६, १२:
 ३; वैश्रौ १०, १३: ७^f; हिश्रौ
 ४, ३, ५२^f; हिपि ५: ६;
 निधत्तम् काश्रौ ३१, २^f; नि...
 दधिष्वम् ऋपा ८, ४^f; ऋनिधत्त
 वौश्रौ २, १५: ३; आमिष्ट
 ३, ५, ६: ११; वौपि; नि-
 (दधात् > ता) माश्रौ ५, १,
 ५, ५५; निधत्तन वैताश्रौ २३,
 १२; ऋनिधेतन आश्रौ ३, १३,
 १८; आपश्रौ ३, ११, २; माश्रौ
 ३, १०, २; माश्रौ २, ५, ४, ९;
 हिश्रौ २, ६, १; निदधानि वा
 १, ४^f; न्यदधात् वौश्रौ १८,
 ४७: २१; न्यधत्ताम् वृदे ३, २३;
 न्यदधुः वाश्रौ १३, ३^f; या १२,
 ९; निदधीत माश्रौ १, ३, ५,
 १६; द्राश्रौ १२, ३, १४; १५,
 ४, १९; लाश्रौ ४, ११, १४;
 ५, १२, २३; निदध्यात् आश्रौ
 १, १३, २; ५xx; काश्रौ २५, ४,
 ३८^h; निदधीरन् द्राश्रौ ६, ३,
 २८; १२, १, २०^l; लाश्रौ २, ११,
 २१; निदधुः जैश्रौका १९८;
 द्राश्रौ.

ऋनिदधे वौश्रौ ६, २४: २८;
 हिष्ट २, २५, १; अत्राय ५, २;
 वा १२, १९; नि (दधे) सात्र
 १, ५४^f; निदधिरे वा ६,
 ३५; नि...दधिषे ऋश्रौ १५,
 ९; ११; ऋन्यधुः हिश्रौ ११,

a) विप. (नक्षत्र-वर्ग-) । तस्येदमीयः कण् प्र. । b) = साम-विशेष- । c) विप. । दस. । d) पामे. पृ १४०३ अ. द्र. । e) निदधाति इति पाठः ? यनि. शोधः । तु. चौसं. प्रकरणम् । f) पामे. वैप १, १८०४ पृ द्र. । g) पामे. वैप १, ११४२ अ. द्र. । h) तु. चौसं. । i) सपा. लाश्रौ ४, ९, १४ अनुदधीरन् इति पामे. ।

७, ५१^{२०}; अप-३२, १, १५;
अत्र १९, २०.
निधीयते शांश्रौ १५, १७, ११;
ऋग् ३, ८, २ : ४१; ५८;
वीर्य २, ११, ६; ऋग् १, १५ :
४८; ६३; या ४, २; नि...
धीयते गौपि १, ५, ३१; निधी-
यन्ते गौपि २, ५, १३; अप्राय
१, १; निधीयेरन् आपश्रौ २१,
१६, २०.
ऋग् १, १५; निधीयते शांश्रौ १८, १, ६;
वैताश्रौ ३२, १०; या ६, २८;
निघायि आपमं २, ११, २५१.
निघापयति वीश्रौ ६, १ : १५;
२७, ९ : ७; निघापयेत् आमिग्य
३, १०, ४ : १२, १५; अप ३३,
५, ७; ८; ६६, २, २; याशि २,
८१.
निधिल्लेत वीश्रौ ३, २९ : १५.
निन्दधत्- -धत् आश्रौ २, ३, ८;
आमिग्य ३, ८, २ : २९१; वीपि
१, १५ : ३७१.
निन्दधान- -नाः वैश्रौ २०, २३ :
४; हिपि २२ : १४.
ऋग् १, १५ : ३७१.
निन्धा^१- -धयाः आपश्रौ ६, २२,
१; या ४, ३; -घा निघ ४,
१; या ४, २८.
निन्धान^२- पाग २, १, ५९^{१०}; ४, २,
७५^{१०}; ८०^{१०}; ५, १, १२४;
-नम् काश्रौ २३, ४, २४; २५,
८, ७; आपश्रौ १, १४, ८; २२,

२८, ८; वीश्रौ १८, १९ : ८१;
हिश्रौ २३, ४, ४८१; आपमं २,
१, ८१; आमिग्य २, २, ५ : १८१;
काग्य ४०, १५१; वीर्य २, ४,
१५१; माग्य १, २१, १०१; वाग्य
४, २११; हिग्य २, ६, १२१;
हिपि १२ : ८; अप ३५, २, ४;
वृदे २, ११३; ८, १२३; या ३,
६१; ९, १३; -नस्य अप ४७,
१, ६; -नात् काश्रौ २, १२, १४;
१४, १; १०, ३, ११; ११, १, ४;
१६, ३, १०; कौसू ५७, २७^{१०};
-नाय काश्रौ ८, २, १२; -ने
वीश्रौ २०, ३ : ५; १७ : १२;
२६ : २४; २२, १ : ८; ९ :
२७; या ९, ३६.
नैधान- पा ४, २, ७५.
नैधान्य- पा ५, १, १२४.
निधान-क- पा ४, २, ८०.
निधान-काल- -ले कौसू ८०, २.
निधान-दर्शन- -नाय अप १,
६, ६.
निघापयित्वा वीश्रौ २१, १३ : २०.
निघाप्य आमिग्य १, १, १ : १०.
निघाप्यमान- -नम् वैताश्रौ ५,
१७.
निघाय आश्रौ १, १, २३; ११,
४××; शांश्रौ; हिश्रौ १६,
६, ३९^{१०}; कौग्य १, ९, ७^१;
हिग्य १, ४, २^१; निघायऽनिघाय
माश्रौ १, १, २, १५; ७, ६, ५३;

८, ३, २२.
निघायम् काश्रौ ४, १४, ५.
निघास्यत्- -स्यन् वीश्रौ २०, ३ :
७; कौसू ८३, १; १३७, १८;
निधि^३- -धयः शंघ ३७३; -धिः
आपश्रौ ११, १२, ३१; वाधूश्रौ
३, १७ : २३; हिश्रौ ७, ६, १८१;
शांश्रौ १, २, ८; या २, ४८^१;
-धिना माश्रौ २, ५, ५, १८^१;
माशि ११९; १२०^{१०}; -धिम
आपश्रौ १६, २२, २१; ऋग् १०, १,
२४, ३९; ६२, १०; अप १०, १,
१६; १८, ३, १०; विध ३, ५६;
५८; ऋग् १०, १०; १२, १;
३; १९, २७; -ऋग् १०, १०;
२०, ६, १३; वीश्रौ १५, २९ : २५;
वाधूश्रौ ३, ९० : ४; ७; ११;
९१ : ७; पाग्य ३, ४, ८.
ऋग् १, १०; काग्य ४१, २१^{१०}; वीर्य
२, ५, ६४^{१०}; माग्य १, १० : ८^{१०};
९; वाग्य ५, २७^{१०}.
ऋग् १, १०; आप १, २२,
२१^१; पाग्य २, ४, २; माग्य १,
२२, १७^१; -पाय वाध २, ९;
विध २९, १०; या २, ४.
निधि-पति- -तिम् वीश्रौ १५,
२९ : २५१.
ऋग् १, १०; आप १, २, ४,
२^१; वैग्य २, ९ : ९; कौसू ६२,
१; अत्र १२, ३.

- a) न्ययुः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. मै २, ७, १६ काठ ३९, ३) । b) वैप १ द्र. । c) वैप १, १८०५ क द्र. । d) निन्धान- टि. द्र. । e) अर्थः? । f) विधान- इति पाका. । g) निघनात् इति पाठः? यनि. शोधः [तु. प्रकरणम्] । h) पाभे. पृ ११४ a द्र. । i) पाभे. पृ १३९६ e द्र. । j) निघाप्य इति Böht [ZDMG ५२, ८१] । k) = कोप- । वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १, १८०६ b; वलिना तै ३, ३, ८, २ टि. च द्र. । m) धना इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । n) = निधि-रक्षक- । उस. उप. अणु प्र. । o) सकृत् सपा. निधिगोपः <> निधिपः <> निधिपाः इति पाभे. । p) = निधि-गोप- ।

निघ्य(धि-अ)धिगम- -मः गौघ
१०,४२.
निघ्य (धि-अ) न्वाधि-याचिता-
(त-अ) वक्रीता (त-आ) धि^३-
-घयः गौघ १२, ३९.
नि-धीयमान, ना- -नम् वैताश्रौ १०,
९; २८, १०; ३३; २९, ३;
-नयोः द्राश्रौ १२, १, ६; लाश्रौ
५, १, ६; -नस्य द्राश्रौ १४, ४,
१४; लाश्रौ ४, ९, १८; ५, ८,
१३; १०, ५; -नाः वैताश्रौ २८,
२५; २९, ६; -नान् वैताश्रौ २,
८; -नानाम् द्राश्रौ १२, १, ७;
१४, ४, ३; ६; लाश्रौ ४, ९, ४;
५, ८, ३; ६; निस् ३, ४; ११;
-नायाम् द्राश्रौ १४, ४, १२; -ने
माश्रौ ४, ९, ३; वैश्रौ १२, ६; ४;
जैश्रौका ५१; द्राश्रौ १२, २, ४;
लाश्रौ ४, १०, ५.
नि-धे(व>)या- -याः वैश्रौ १३,
७; २६.
नि-हित, ता^३- -तः आश्रौ ९, ११,
१९; शाश्रौ; याशि^० १, ८७-
८९; नाशि २, १, ३०; नि(हितः)
ऋअ ३, ११; -तम् आपश्रौ
११, १२, ३; वैश्रौ; माश्रौ ३,
४, १०; कौस् ११७, ४०;
ऱ्या २, १६; १२, ३८; शुभ्रा ४,
१३८; -तयोः वाश्रौ १, ४, ३,
२४; -ता आपश्रौ १, ३, १; आपमं
२, २१, ३३; पाठ ३, १३, ६;
माठ २, २६; १५; हिण्ट १,

१५, ६; ऱ्या ४, १०; १३, ९;
-ताः वैश्रौ १२, ८; ३; -तान्
काठश्रौ १५३; आपमं; -तानि
आपश्रौ २१, २१, १४; हिश्रौ १६,
७, १०; अप ३, १, ५; या १३,
९; -ताम् माश्रौ १, २, ४, ४; १;
वाश्रौ १, १, २, १९; सु २०,
१; -तासः ऱ्या ३, २०; -तासु
द्राश्रौ १४, ४, ३; ६; लाश्रौ ५,
८, ३; ६; -ते आश्रौ २, १७, १०;
४, ४, ६; १०, ३; वैश्रौ; -तेन
वाश्रौ १, २, २, ३१; -तेषु काश्रौ
२२, ५, १५; ९, ४; द्राश्रौ १२,
१, ७; लाश्रौ ४, ९, ४.
निधातोः^३ या ३, १६.

नि-धि- प्रसृ. निघा द्र.

निघी, ऱ्निधीमहि आश्रौ २,
१९, ६; आपश्रौ; ऱ्नि(धीमहि)
वौश्रौ १८, १२; ११; साअ
१, २६.

निदिध्यत्^३ -वौश्रौ ४, ९; १४;
माश्रौ ७, १९, १५.

निघृ, निघारय ऋप्रा ८, ४३;
न्यधारयत् वृदे ५, ८४; निदीधः
ऋप्रा १, १०३.

निघारय^३ -यः आश्रौ ७, २,
१७.

निघ्यै > निघ्यात- -तम् वाधूश्रौ
३, १०६; १; २.

निधुव^३ -वाः^१ वौश्रौ ४१; १८;
-वाणाम्^१ आश्रौ १२, १४,
७.

नैधुव- -व आश्रौ १२, १४,
७; आपश्रौ २४, ९, १४; वौश्रौ
४१; १९; हिश्रौ २१, ३, १३;
वैघ^१ ४, ७, १; ९; -वस्य वौश्रौ
१८, ४५; ४३.
नैधुवि- -विः शुभ्र १,
५५०.

निधुवन्त् आपश्रौ २४, ९, १४;
वौश्रौ ४१; १९; हिश्रौ २१,
३, १३; वैघ^३ ४, ७, १; ९.

निधुवि^३ - ऱ्निः आपश्रौ १४,
१७, १; हिश्रौ १५, ५, १.

निधुवि^३ -विः ऋअ २, ९, ६३;
साअ १, ४८३; ४९२; ४९३;
५०१; २, १०४९; -वेः चाअ
३०; ८१.

निनि आग्निष्टोम क्षारहर^० वैश्रौ
२१, ३; १०.

निघन्द् > निनद्-, निनाद्- पा
३, ३, ६४.

निनद्- निघन्द् द्र.

निघन्म्, निघन्म ऋप्रा ८, ४३;
निनमै वा २, २७; निनमाम वा
२, २७.

निघन्सै वा २, २७; १;
नि(नसै) वृदे ४, १०७.

निनत्, ता- -तम् आपश्रौ १०, ५,
१; ११, ८, १०; १८, १८, ५;
माश्रौ ७, ९, १२; -ता आपश्रौ
१४, ६, ५; -तौ आपश्रौ १४,
६, ४.

निनयत्-, यन- निघनी द्र.

a) दस. । निधि- = अमुद्-निक्षेप-, अन्वाधि- = उप-निधि- (= अमुद्-निक्षेप- [तु. यात् २, ६५]),
अवकीत- = अर्धदत्तमूल्य- वा अर्धदत्तमूल्य- वा । b) वैप १ द्र. । c) = अनुदात्त- । d) पामे. वैप २, ३४. तैत्रा
१, ४, ४, १० टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १८०६ । द्र. । f) पामे. वैप १, ८०१ ४ द्र. । g) पामे. वैप १,
१८०७ क द्र. । h) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । i) चहु. < नैधुव- । j) ष्ट्व इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु. आश्रौ प्रसृ.) । k) ष्ट्व इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रसृ.) । l) निर्धुवेः इति पाठः ?
यनि. शोधः (तु. PIV. प्रसृ.) ।

नि√नर्द, निनर्देत् आश्रौ ८,३,९.
 नि-नर्द^a- -र्दः आश्रौ २, ११, ९;
 ११, १६; -र्दस्य वैताश्रौ ३२,
 १८; ३२; -र्देषु वैताश्रौ ३२,
 १५.
 नि-निर्दत्- -र्दन् लाश्रौ ७, १२,
 १३१.
 नि-नर्ध आश्रौ ८,३,८^b.
 नि√नह्, निनह्यति आपश्रौ ११,७,
 ३; २०, १६, ८.
 नि-नह- -हः या २, १४१.
 नि-नाह- -ह्यात् काश्रौ ८,९,७.
 नि-नाद्- नि√नद् द्र.
 ?निनियोज अप १, ६, ७; ८, ३; ४;
 ७.
 नि√नी, निनयते आश्रौ १, १३, १;
 २, ४, १२; निनयति काश्रौ २,
 ५, २६; ३, ८, ६×४; आपश्रौ;
 निनयन्ते आपश्रौ १४, २२,
 ७; निनयन्ति शांश्रौ १३, ११,
 १०; वौश्रौ १४, २६; २२;
 माश्रौ २, ५, ४, ११; वैताश्रौ २३,
 १४; निनय कौसू ३७, ११;
 निनयानि आश्रौ १, ११, ८१;
 निनयेत् आश्रौ २, ४, १३; ३,
 ११, २०; आपश्रौ; निनयेयुः
 आश्रौ ६, १०, २१; ९, ३, २०;
 वैश्रौ २१, ८; ७; द्राश्रौ ६, ३,
 २६; लाश्रौ २, १, ७; ११,
 १९; ८, ८, ४; वौध २, १,
 ३५.
 निनीयते कौसू ७३, ५.
 नि-नयत्- -यन् आश्रौ १, ११, ८;
 पाश्रु १, ३, १४.
 नि-नयन- -नम् आश्रौ २, ७, ४;
 कौसू ५१, २; -ने वौश्रौ २०,

२६; १८.
 निनयन-प्रभृति- -ति माश्रौ ४,
 ३, ३६.
 नि-नीत, ता- -तः वाधूश्रौ ४, ९०^c;
 ४; ७; -ताः माश्रौ १, ४, ३, ९;
 २, ५, ४, १२.
 नि-नीय आश्रौ ६, १२, ११; शांश्रौ.
 नि-नीयमान, ना- -नम् आपश्रु १३,
 ९; हिश्रु १, १३, ४; -नाः
 वौश्रु १, २, २९.
 नि-नेत्- -तारम् वाध १५, १३.
 निन्दक-, निन्दयित्वा, निन्दा- प्रभृ.,
 निन्दिषत्-, निन्द्य- √निद्, न्द्
 द्र.
 ?निन्दुन् वाधूश्रौ ४, ५९^c : १.
 √निन्च् पाधा, भ्वा. पर.सेचने.
 नि√पच् > नि-पाक्य- -क्यम्
 वाधूश्रौ ४, ११८ : ९; ११.
 नि√पठ् > नि-पठ- पा ३, ३, ६४.
 नि-पठित- (>तिन्-पा.) पाग
 ५, २, ८८.
 नि-पाठ- पा ३, ३, ६४.
 नि√पत्(गतौ), निपतति आपश्रौ
 १८, ३, १५; २३, १२, १०;
 वैश्रौ; या १, २०; निपतन्ति
 वौश्रौ १९, ६ : ३; अप ५८^c,
 १, ५; २, २; ७; ४, १७; १९;
 ७०^c, ११, ३२; गौध १, ४७;
 अश्रु १२, ५(३)१; या १, ४;
 ११; याशि २, ६१; न्यपत्त्
 वृदे ५, १४९; निपतेत् आश्रौ
 १२, ६, ७; ८; वौश्रौ २६, २१ :
 ४; २७, १ : २; कौसू ८३, २३;
 अप्राय २, ६; आपश्रु २, १०;
 वौश्रु २ : ५; हिश्रु १, ३०;
 निपतेयुः वौश्रौ २९, १ : ४.

निपातयेत् वैश्रौ १, १ : १२;
 १०, २ : २; अप.
 निपात्यते अप ७१, १३, २; वृदे
 २, ९२; पावा ३, २, १७७;
 निपात्यन्ते वृदे २, ९३.
 नि-पत्त्- -त्ताम् अप ५८^c, १, ६;
 -तन्तम् कौसू ६५, २.
 नि-पतन- -नात् वौध २, १, १४.
 नि-पतित- (>तिन्-पा.) पाग
 ५, २, ८८.
 नि-पत्य > ल्य-रोहिणी^c- पाग २,
 १, ७२.
 नि-प(ल्य) व्या^d- पा ३, ३, ९९.
 नि-पात्^e- पाग ५, १, १२४; -तः
 कप्र १, २, ६; ऋश्र २, ३, ६;
 वृदे १, ३९; ५, १६३; ७, १४५;
 या १, ८; २, २०; ४, १७; ५,
 ५; ६, २८; ११, ११; २०; १२,
 २०; २९; ३०-३३; ऋप्रा १२,
 १७; २५; अप्रा १, ३, ४; ५;
 शौच १, ७९; याशि २, ५; पा
 १, १, १४; पावा ६, १, ९३;
 -तम् वृदे ६, ८६; या ७, १८;
 २०; ३१; -तस्य पा ६, ३,
 १३६; पावा १, २, ४५; -ताः
 वृदे २, ३; ८९; ४, ९६; या
 १, ४; ३, १५; ऋप्रा १२, २१;
 शुप्रा २; १६; याशि २, ४; पा
 १, ४, ५६; -तात् निस् ८, ११ :
 १४; वृदे ८, ६०; -तान् आश्रौ
 ६, १४, १४; -तानाम् वृदे २,
 ९३; ऋप्रा १२, २६; -ते याशि
 १, ५४; ७१; -तेन वृदे १, ७८;
 २, ८१; ३, २५; ३६; ४, ५४;
 ८, ५२; -तैः वृदे ६, १३५;
 ८, १२९; पा ८, १, ३०.

a) = (चतुष्टयः) ओकार-ध्वनि-। b) ष्ढम् इति आन.। c) रोहिणी = रक्षा- इति पागम.।

d) नाप.। अर्थः ?। = पिच्छला-भूमि- इति पासि.। e) भाप., पारिभाषिक-संज्ञा-। पा. ऋप्रा. प्रभृ.। च।

नैपातिक^३-कानाम् वृदे
२, ७१; -कानि वृदे १, १७;
१९; २, ७८.

नैपात्य- पा ५, १, १२४.

निपात-क- -काः याशि २, ३.

निपात-ज- -जौ याशि २, ५७.

निपात-भाजू- -भाक् वृदे ४,

९२; १२८; ५, ९१; ९३; १०७;

११०; ६, १३१; साञ्च १, ७८;

३६४; ४५२; ४५७, -भाजः

साञ्च १, ४३५; या ७, १३;

-भाजम् वृदे ७, १४५; -भाजौ

वृदे ४, १०; -भाजिञ्च अप

४८, १३३; १३८; १४३.

निपात-भाजि (न्^b) नी- नी

साञ्च १, ७३; १३३.

निपात-मात्र- -त्रम् वृदे २,

८०; -त्रे वृदे १, ९३; -त्रेण

वृदे २, ७५.

निपात-संज्ञा (ज्ञा-ञ्च) भाव-

-वः पावा १, ४, ५८.

निपात-संज्ञा (ज्ञा-ञ्च) र्थ- र्थः

पावा १, ४, ५८; ५९.

निपात-स्तुति- -तिषु वृदे ३,

११९.

निपाता (त-ञ्च) व्यय- -यानाम्

अप्रा ३, ३, २०.

निपातिन्- -तिनः वृदे ८,

१२८; -तिनम् वृदे ४, १२८;

-तिनौ वृदे ४, ११०; -ती वृदे

४, १२४; ८, ६७.

निपातिनी- नी वृदे ३,

५३; -न्यः वृदे ७, ३९.

निपात्य (ति-ञ्च) र्थ- र्थान्

वृदे ४, ९७.

-निपातै (त-ए) कत्व- -त्वात्

पावा ६, १, ९३.

नि-पातन- -नम् पावा ३, २, १०९;

१७१; ६, १, २०३; ४, १७४;

७, २, २६; -नात् ऋप्रा १२, २६;

पावा १, १, ४; २७; २, ४; २६;

५, ३, १८; ६, १, १५८; १६३;

२, ३; ४, २४; -ने शंघ ३१५;

बौध २, १, ७; विध ५४, ३०.

निपातना (न-ञ्च) नर्थक्य- -क्यम्

पावा ४, ४, ८२; ५, १, ११३;

११४.

नि-पातित, ता- -तम् अप्रा ३, ३,

२१; -ता वृदे २, १३४; -ताः

वृदे ३, १२१; ८, ४०; -तौ

वृदे ३, ६७; ५, १०५; ७, २१.

नि-पात्य शांश्रौ ४, १४, १२; आप्रश्रौ.

नि-पात्यमान- -नम् वैताश्रौ ३७,

२५.

?निपतः बौश्रौ ६, ६ : २५.

नि√पद्^c, निपद्यते आश्रौ ८, १४, ४१;

शांश्रौ ४, १८, ११; बौश्रौ १७,

४० : ३; आप्रिष्ट १, ३, २ : १२;

भाग् २, १८ : १५; भाग् २, १८,

२१; कौसू ४०, १०; निपद्यन्ते

माशि १०, ६; निपद्यसे आपमं

२, ८, ५; आप्रिष्ट १, १, १ : ५२;

५, १ : ३८; ३९; ६, १ : ३२,

३, २, १ : १३; बौग् १, ३, ३८;

भाग् १, ५, १ : ३; हिग् १, २, १८;

जैग् १, २० : २०; निपद्येत

लाश्रौ ८, ८, ५.

न्यपादि वाद्युश्रौ ४, ७५ : ८.

नि-पद्य बौश्रौ १४, १८ : १६; १८.

नि-पद्यमान, ना- -नस्य शांश्रौ १५,

१९, ११; -नायाम् आप्रिष्ट ३,

५, ६ : २; बौपि १, ४ : १८.

नि-परण- नि√पृ, पृ द्र.

नि√पा (पाने) > नि-पान- -नम् पा

३, ३, ७४.

नि-पाय्य बौश्रौ ११, ३ : ३५.

नि√पा (रक्षण), निपाति अप्रायं ६,

३^३ १^५; निपातु या ११, ४६^१ १^५;

निपाताम् जैश्रौ ९ : १३^१;

नि...पाहि हिश्रौ १५, ८, ४^१.

नि-पाक्य- नि√पन् द्र.

नि-पाठ- नि√पठ द्र.

नि-पात-, -तन- प्रथ्. नि√पत् द्र.

नि-पाद्- (> ँद-क-पा.) पाग ५,

२, ६४.

नि-पुण, णा^०- पाग २, १, ४०;

५९; ७०; ५, १, १२४^१; १३०;

६, २, २४; -णः आपध १, २३,

२; हिध १, ६, १०; -णम्

आपध १, २२, ८; हिध १, ६, ८;

पाशि १०; कौशि ५६; ६४;

७९; -णान् विध ३, १८; -णाम्

वाध ४, २०.

नैपुण- पा ५, १, १३०.

नैपुण्य- पा ५, १, १२४.

निपुण-क^६- (> ङ्कीय-पा.)

पाग ४, २, १३८.

निपुणो (ण-उ) दाहत्- पा २,

१, ५९.

?निपुणहन्^६- -हा^१ जैग् १, ८ : १७^१.

निपुणि^६- -णिः^१ भाग् १, २३ : ७;

हिग् २, ३, ७; -णिम्^१ आप्रिष्ट

a) विप. । तस्येदमीयः ठक् प्र. उसं. (पा ४, ३, १२४) । b) विप. । उस. । c) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. । d) पाभे. वैप १, १८०९ b द्र. । e) व्यु. ? । < नि√पुण इति अभा., < नि√पृ इति WAG. [१, १९; १७२ B] । f) पृ १५९ ० द्र. । g) तु. पागम. । h) = बालप्रह-विशेष- । व्यु. ? । i) सपा. निपुणहा <> निपुणिः <> निपुणिम् <> नृमणिः इति पाभे. ।

२, १, ३ : १५.
 नि-पुर- -पुरः आश्रौ २, ६, २;
 शाश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ १,
 ८, ७; वौश्रौ २, ९ : २; भाश्रौ
 १, ८, ५; माश्रौ १, १, २,
 ८; वाश्रौ १, २, ३, १; हिश्रौ
 २, ७, १७; जैश्र २, २ : ४.
 नि/पृ, पू, निपृणुयात् वौश्रौ २४, ३२ :
 ६; द्राश्रौ ७, २, ११; लाश्रौ
 ३, २, ११.
 निपृणाति कौश्र ८२, २१; ८४,
 ६; निपृणन्ति वैताश्रौ २२,
 २२; पाश्र ३, १०, ५५; निपृणी-
 यात् आश्रौ २, ६, १५; १७; १८ :
 २०; वौपि ३, ४, २२.
 नि-परण- -णम् काश्र ६३, १४; १४;
 ६४, ३; ६५, २; ६७, ४; ६८,
 ४; ६९, ४; -णात् आश्र २,
 ११.
 नि-पुत- -तान् आश्रौ २, ७, १.
 निपेपि^० हिश्र १, १७, २.
 नि-प्र/भृ, निप्र(प्र...भरामहे) आश्रौ
 ६, ४, १०; शाश्रौ ९, ९, ४; ऋश्र
 २, १, ५३; अश्र २०, २१.
 निवद्ध- (> निवद्ध-क-, नैवद्धक-
 पा.) पाग ४, २, ८०.
 नि/वध्, न्ध, निवध्नाति माश्रौ २,
 २, २, ५; ४, ३, ४; हिश्रौ ७,
 ५, २, ५; अप ७०, ३, ४.
 निवध्नोतः वैश्रौ १४, ६; ६; हिश्रौ
 ७, ५, १७.
 रनिवद्ध- -द्धम् वैश्रौ ११, ९ : २;
 हिश्रौ १४, १ : ३७.

नि-वध्य वैश्रौ १४, १४ : १३; कौश्र
 १८, ७; ४९, ३३; ८०, ३३; ८५,
 १८.
 नि-वन्ध- -न्धः आपश्र ३, २१;
 गौध १३, १०.
 रनिवन्ध-, निवन्धन-, (> न्ध-क-,
 निवन्धन-क-) निवद्ध- टि. द.
 नि/वाध् > नि-वाधित- -तासः
 शाश्रौ ७, ६, ३०.
 नि-विड-, नि-विरीस- पा ५, २, ३२.
 नि/वुध्, निवोध विध १, ६५; पाशि;
 निवोधत अप २४, १, ३; ४२,
 १, १××.
 नि/वृद् (हिंसायाम्), निवर्हयति
 निध २, १९; निवर्हयत् वृदे
 ४, ६९; निवर्हय आश्रि २, ६,
 ८ : ४०.
 नि-वर्हण- -णम् वृदे २, ६.
 निभम् शंघ २३२.
 नि/भुज् > नि-भुजत् -जन् माश्रौ
 २, १, २, २०.
 निभूय-पुर^६ अप्राय ३, ३.
 नि/भृ > नि-भृत् -तम् द्राश्रौ ७,
 ३, ८; नाशि २, ७, १२.
 निभृत्-वत्^७ -वन्ति निसू ६, ११ :
 १०.
 रनिमग्न- (> नैमग्न-क- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 नि/मज्ज्, निमज्जति वौश्रौ २७, ८ :
 ५; हिपि १७ : ६; अप ७१, १७,
 ३; विध ५७, ८; वृदे ३, २४;
 निमज्जन्ति पाश्र ३, १०, २०;
 अप ६८, १, १८; निमज्जेत्

वौश्रौ २९, ५ : २२; २४; वैध २,
 १३, १.
 निमज्जेत् वैश्रौ २०, ३२ : ५.
 रनिमग्न, ग्ना- -ग्नः शंघ १०३;
 विध ६४, १९; सुधप ८७ : ३;
 -ग्ना अप ६१, १, ६; -ग्नायाः
 वाध २१, ६-८.
 नि-मज्जन- -नम् विध १९, ६.
 नि-मज्जान- -नः वाध २६-८.
 नि-मज्ज्य- आश्रि २, ६, २ :
 १३; वौपि ३, ६, ६; ७, ४; वैश्र
 १, ३ : १२; ५, ६ : ९; ६, ८ : ४;
 जैश्र २, ५ : ६; वौध १, ५, ११०;
 २, ५, ७; विध ६४, १८; निमज्ज्य-
 उनिमज्ज्य कौश्र ४, ४, ५; शाश्र
 ४, १७, ५.
 निमद्- -दः तैप्रा २३, ८.
 नि/मन्त्रि (< मन्त्र-), निमन्त्रयते
 वौश्र २, ११, ५; निमन्त्रयै पावा
 ३, ३, १६१; निमन्त्रयेत् वैश्र ४,
 ३ : ४; वैध ३, ९, २.
 नि-मन्त्रण- -णम् वौश्र ३, १२, ६.
 निमन्त्रणा(ण-अ)तिक्रम- -मे
 विध ५, ९४.
 निमन्त्रणा(ण-आ)दि- -दीनाम्
 पावा ३, ३, १६१.
 नि-मन्त्रयित्- -त्तुः विध ५, ९७.
 नि-मन्त्रयित्वा विध ५, ९५.
 नि-मन्त्रित- -त्तः विध ५, ९६;
 -ताः वैश्र ५, १३ : ४.
 नि-मन्थ्य आश्र ३, ९, ४; वौध २,
 ८, ६.
 नि-मन्थ्य- -न्थ्यः गौध २, ५५.

a) वैप १ द्र. । b) निवृणुयात् इति पाठः ? यनिः शोघः [तु. द्र.] । c) वैप २, ३ खं. द्र. ।

d) तु. पाका. । सकृत् रनिवन्ध-, निवन्धन- इति [पक्षे] भारडा. प्रश्र. । e) पाशे. वैप २, ३ खं. द्र. ।

f) पाठः ? = तवण-विशेष- इति कृत्वा विदः इति वा (तु. स्पृश्रा [२१७]) विडम् इति वा शोघः (तु. पमा-
 [३७७]) । g) वैप १, १८१० g च । h) विप. (गण-सामन्-) । i) वौपि. जैश्र. विध. यनि. वावि. द्र. ।

j) = वाचःस्थान-विशेष- । व्यु. ? ।

नि-मय- नि√मे द्र.
नि√मा(माने) > नि-मात(व्य >)
व्या^३- न्या काशु ७, १७.

नि-मान- ने पा, पावा ५, २, ४७.

नि-मित- -तम् पा ३, ३, ८७.

नि-मीयमान- ने जैश्रौ २४ : ६.

नि-मेय- ये पावा ५, २, ४७.

नि-भार्जन- नि√मृञ् द्र.

नि√मि (प्रक्षेपणे), निमित्तोति
वौश्रौ ९, ७ : २१; १२, १४ :
१७; १३, ३७ : ७; वैश्रौ १७,
१२ : ८; कौसू ४०, २; ऋनिमि-
नोमि पाठ ३, ४, ४; आमिगृ २,
४, १ : ११; भागृ २, ३ : ३;
हिगृ १, २७, २; निमित्तुत वौश्रौ
११, ६ : ३.

ऋनिमित्तुः आश्रौ ३, १, १०.

ऋनि-मित, ता^७- -तम् वौश्रौ ११,
७ : २८; वैश्रौ १७, १३ : १;
-ता वौश्रौ ११, ७ : ३७; आपमं
२, १५, ३१^०; आगृ २, ८, १६^०;
कौगृ ३, २, ६^०; शांगृ ३, ३, १^०;
-ते वैश्रौ १८, १७ : ३३.

निमि- पाठभो २, १, १६१.

निमित्त^६- पाठभो २, २, १३४; पाण
४, २, ६०^०; ३, ७३; -तम् अप
५१, ५, ३; ७०^३, १०, ३××;
शंघ; पा ५, १, ३८; पावा १,
४, ३१^०; -तत्त्व पावा ३, १,
१; मीसू ५, १, ३३; ३, २६;
६, ५, १३; २६; -त्वात् काश्रौ
२५, ४, ४३; अप ४ : ६;
पावा २, ३, ३६; -त्तानि आमिगृ
२, ७, १ : ४, ५ : ३; वौगृ १,
२, ६३; अप २१, ७, १; ५४,

१, २; ६४, १०, ९; ६५, ३, ७;

६९, १, ५; -त्ताय अप ७२,

३, १; -त्ते वैश्रौ २०, १३ :

११; आपगृ ४, ६; अप ६५,

२, १२; आपघ १, २०, ३;

आपगृ ४, ७; -त्तेन गौपि १,

१, ४; मीसू २, ४, २१; ४, ४,

१७; २, ३, १०; -त्तेषु वौश्रौ

२८, ६ : ६; कप्र १, २, १४;

अप ५८^२, ४, २०; ६५, २, १३;

-त्तैः वौश्रौ २७, ८ : १; अप

६७, १, १.

नैमित्त- पा ४, ३, ७३.

नैमित्तिक- पा ४, २, ६०^०;

-कः मीसू ३, ५, ४८; ४, ४, ८;

६, ८, ४४; -कम् वैगृ १, ४ :

२६; ५, १३ : ५; शंघ; -काः

आश्रौ ९, १, १३; -कानि वौश्रौ

२७, २ : २३; आमिगृ २, ७,

८ : १; आपगृ १, ११; अप

२३, १, ३; काघ २७६ : १०,

शुभ्र १, ५४३; -काय वैश्रौ

२०, १६ : १; -के कौगृ २, ६,

११; वैगृ ६, १७ : ३; शंघ

२१०; आपघ २, १४, २०; वैघ

२, १४, ६; हिघ २, ३, ३०;

मीसू ४, ३, ३; १०, २, ६७; ३,

३०; -केषु भागृ ३, २१ : ४.

नैमित्तिकी- -कीः काश्रौ

१५, ४, २२; -कीम् वौश्रौ २८,

६ : २; कागृ ४३ : ९; ४५ : ९.

नैमित्तिक-त्व- -त्वात् मीसू

१०, ३, २७; ८, ६४.

निमित्त-क- -कात् कप्र २, ३, ५.

निमित्त-कारण-हेतु- -हेतु पावा २,

३, २३.

निमित्त-ज्ञ- -ज्ञैः अप ६८, ४, ६.

निमित्त-ज्ञान-कुशल- -ज्ञाः अप

६८, १, ३.

निमित्त-परीष्टि^८- -ष्टिः मीसू १,

१, ३.

निमित्त-पर्याय-प्रयोग- -नो पावा

२, ३, २७.

निमित्त-पूर्व- -वम् शंघ २४७.

निमित्त-भाव- -वात् पावा २, ३,

४६.

निमित्त-भेद- -दात् काश्रौ १, ७,

१३.

निमित्त-मात्र- -त्रम् पावा ३, १,

२६.

निमित्त-विधात- -त्वात् मीसू ६, ६,

९; १०, ५, ६१.

निमित्त-भ्रातृ- -द्वे वैगृ ७, ७ : ६.

निमित्त-संयोग- -गात् मीसू ६, ४,

३२.

निमित्त-संशय- -यात् ऋप्रा ११,

१०.

निमित्त-संप(क)डा- -डा अप

६५, २, १२.

निमित्ता(त-त्रा)ख्या(ख्या-त्र)नि-

संयोग- -गात् मीसू १०, ३,

३५.

निमित्ता(त-त्र)भाव- -वात् पावा

१, १, ६३; २, ३, ४६; ३, २,

११०; ३, १३२.

निमित्ता(त-त्र)र्थ- -र्थः मीसू ४,

३, २७; -र्थे मीसू ६, १, २७^३;

-र्थेन मीसू ६, ४, १४.

निमित्ता(त-त्र-वेक्ष^९)- -क्षाणि

आपगृ १, ११.

a) विप. (वेदि-)

b) वैप १ द्र.

c) पाभे. पृ १४०० ८ द्र.

d) = हेतु, लक्ष्मण-

शकुन-। व्यु. ?। <नि√मिद् [त्नेहने] इति श्रमा.। e) = ग्रन्थ-विशेष-। f) तु. पाणि.। g) = निमित्त-

अन्वयाऽप्येव-। h) उप. = परीक्षा-। i) ध्येन इति जीसं. प्रवृ.। j) विप.। उक्त. उप. < भव√ईक्ष्।

निमित्तिन्- > °त्ति-कार्या(र्थ-अ)
 र्थ-त्व- -त्वात् पावा ३, १, १.
 निमित्तिन्-स्वर-बलीयस्-त्व-
 -त्वस्य; -त्वात् पावा २, १, १.
 निमित्तो(त-उ)पादान- -नम् पावा
 ३, १, १२.
 निमिश- > नैमिशि-(> °शायन-
 पा.) रनिमिष- टि. द्र.
 निमिषि^a- > नैमिषि- पाग २,
 ४, ६१; -अयः वौश्रौप्र २२: २.
 नैमिषायण- पा २, ४, ६१.
 नि-मिष्ट^b- इलः शांश्रौ ११, ५, २१.
 नि-मिष, ऋनिमिषन्ति आपश्रौ
 १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६:
 ४; हिश्रौ ११, ६, २९; निमिषेत्
 आपश्रौ २४, १४, ८; हिश्रौ २१,
 २, ४५.
 ऋनि-मिष^b- -पः आपमं २, १७,
 २५; -षे माश्रौ १, ६, १, ३५;
 -षेण आपश्रौ २४, १४, ९.
 नि-मिषत्- -पतः सु २५, ३;
 -पन्तम् या ११, ४२^d.
 नि-मिषस्(ः)^b या १३, ११.
 नि-मेष^e- -पः याशि १, १०; -पाः
 शांश्रौ १४, ८१, २.
 निमेष-का(ल >)ला^f- ला
 नाशि २, ३, ८.
 निमेष-मात्र- -अम् विध २२,
 २३^g; -त्रेण माशि १३, १;
 -त्रैः या १४, ७.
 निमेष-स्तोम^h- -माः शांश्रौ
 १४, ८१, १.

रनिमिषⁱ-(> नैमिषिⁱ-> °पायण-
 पाः) पाग २, ४, ६१.
 नि-मिह, निमेहसि आपश्रौ ९,
 १८, ९१.
 नि-मीयमान- नि-मा. द्र. :
 नि-मील, निमीलते अप ६७,
 ६, २; निमीलन्ति अप ७०^g,
 ७, १९; ७१, १२, २.
 निमीलयन्ति अप ७२, ४, ४.
 नि-मीलन- -नम् जैश्रीका १७८;
 -नेन वौश्रौ २४, ३१ : ४.
 नि-मीलित- -तम् जैश्र १, १७ : ९.
 निमीलित्वा(त-आ)स्य-नयन^k-
 -नाः अप ६८, १, २६.
 नि-मील्य आपश्रौ २, ६, २××; ६,
 १०, १०; वौश्रौ. :
 नि-मुष्टि^l- > °ष्टि-वृतीय^m- -यम्
 कौश्र ४७, १४.
 नि-मूल- > °ल-कायम् पा ३, ४,
 ३४.
 नि-मृज्, निमृष्टे काश्रौ ५, ९, १५;
 निमार्ष्टि आश्रौ १, १, १; २, ३,
 २०; काश्रौ; नि-मृजे वौष २,
 ६, १२१; ऋनिमृद्धवम् आपश्रौ
 १८, ४, १५; वौश्रौ ११, ९ : ६;
 ऋनि-मृद्धवम् हिश्रौ ६, ३, २;
 ऋत २, ६, ७; निमृज्यात्
 आपश्रौ १२, ११, ३.
 निमृजते वौषि १, ५ : ५;
 आमिष्ट ३, ५, ६ : १७; निमृ-
 जति वौश्रौ १८, २ : ५; नि-
 मृजन्ते आपश्रौ १८, १६, ३;

निमृजेत् आश्रौ २, ६, ५; वौश्रौ
 २०, २० : १७; १८; आश्र १,
 १७, १६.
 निमामृजे, निमामृजुः ऋप्रा ९,
 २६१.
 नि-मार्जन- > नैमार्जनⁿ- -नः
 वौश्रौ १८, २ : ४.
 नि-मृजत्- -जन् वौश्रौ १८, २ :
 ६; -जन्तः वौश्रौ १८, २ : १३;
 २६, ३० : ३, ५.
 नि-मृज्य आपश्रौ ६, १०, ११; ११,
 ४××; माश्रौ.
 नि-मृष्ट- -ष्टम् हिश्रौ ५, ३, ३६;
 -ष्टे वाश्रौ ३, ३, १२.
 नि-मृद्, ऋद् निमृद्नीयात् आपश्रौ
 ४, १५, ३; ६, १८, २.
 ऋनि-मृद्यासम्^o आपश्रौ ६,
 १८, २; हिश्रौ ६, ६, १७^o.
 ऋनि-मृद्^p- -दः^q आपश्रौ ६, १८,
 २; हिश्रौ ६, ६, १७.
 ऋनि-मृद्^p- -दः^q माश्रौ १, ६, २,
 १३; वाश्रौ १, ५, ४, १४.
 नि-म्रे(प्रयिदाने) > नि-मय^r-
 पावा ६, १, ५०; -यः गौध ७,
 १६.
 नि-मेय- नि-मा. द्र. :
 निम्न^s- पाउभो २, २, १८४; -न्तम्
 वौश्रौ १७, २९ : ९; वैश्रौ;
 माशि १६, १^g; -ञ्चान् वौश्रौ
 ६, २३ : ६; १५, १ : ३; -ञ्चानि
 आपश्रौ १३, १७, ५^r; हिश्रौ ९,
 ४, ५२; सु २६, ५; -ञ्चे आपश्रौ

a) व्यप. । व्यु. ? । तु. MW. । b) वैष १ द्र. । c) सपा. निमिषे <> निमील्य इति पाभे. ।
 d) मिषन्तम् इति ल. । e) भाप. । f) विप. । वस. । g) तु. जीर्ण. । h) = याग-विशेष. । i) व्यप. ।
 व्यु. ? । j) नैमिशि- इति [पक्षे] पागम. । k) विप. । वस. > द्वस. । l) = प्रमाण-विशेष. (= निमुष्टिक-
 ऋप्रा ५, १, ३.) । m) = यज्ञ-विशेष. । तस्येदमीयः अण् प्र. । n) पाभे. वैष १, १८११ i द्र. । o) °धासम्
 इति पाठः ?-यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । p) = नि-मृद्- । q) पाभे. वैष १, १८११ k द्र. । r) = विनियम- ।
 पाप्र. <नि-मि वा-मी वेति । s) निम्नव इति पाठः ? निम्नम् इव इति शोधः ।

८, ११, २; -न्नैत ऋञ्च २, ९, १७१.
 निम्ब- पाठभो २, २, २२२.
 निम्ब-पत्र- -त्रम् आमिगृ ३, ४, ४: २३; वौषि ३, ४, २०;
 -त्राणि विष १९, ८.
 निम्ब-मय- -यः अप २१, ३, २.
 निम्ब-श्लेष्मातक-नीप-तिल्व-राज-
 वृक्ष-विभीतक-शल्मलि-कोवि-
 दार-करञ्ज-वाघक-निर्गुण्ड-
 पलाण्डु-जपा- -पानाम् वैश्रौ
 ११, ११: ५.
 निम्बा(म्ब-अ)रल-सकण्ठक-
 -कान् कौष्ट २, ६, ९.
 नि-भ्रद- नि ✓मृद् द्र.
 नि ✓मुच् > नि-भ्रुक- -के भाश्रौ
 ४, ३, ८१.
 नि-भ्रुकि- -किम् भाशि २११.
 नि-भ्रुच्- -भ्रुक् आपश्रौ ४, १५,
 १; भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६,
 ४, १८; -भ्रुचः आपश्रौ १४,
 १६, १; वौश्रौ ३, १४: ५;
 २७, ५: ६; ७: ११; २९, ९:
 ९; हिश्रौ ३, ६, १५; अञ्च १२,
 ३; अप ३: ६९; भाशि २१;
 -भ्रुचि वृदे २, १०९.
 नि-भ्रुचव- -चन् आपश्रौ ४, १५,
 १; भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६, ४,
 १८.
 नि ✓भ्रुच्, निम्लोचेव विष २८,
 ५३.
 नि ✓यच्छ, यम्, नियच्छति शाश्रौ
 ७, १५, १६; आपश्रौ; या ११,

२३; नियच्छन्ति वौष १, २, ७;
 ऋषा ३, २०; नियच्छात् अप
 १, १, ४; निनियच्छतु आपश्रौ
 ४, २, १; १२, १९, ५; भाश्रौ
 ४, २, ५; हिश्रौ १, २, ५;
 पागृ ३, ३, ५१; निनियच्छतात्
 आमिगृ १, १, ३: २५; हिगृ
 १, ५, ११; नियच्छताम् या ९,
 ३८; निनियच्छन्तु भागृ २, ११:
 ११; हिगृ २, १०, ६; निनियच्छ-
 तात् आमिगृ ३, १, १: ११;
 नियच्छतम् वाश्रौ १, ४, ४, ४११;
 नियच्छत आश्रौ २, ७, ९१;
 नियच्छेत कौस् १८, ३५;
 नियच्छेत् शंघ २५८; हिष २, ४,
 १५; उच् ८, १०; १६.
 न्येसुः भागृ २; २८: ८१;
 नि...यंसत् तैषा १६, २०१;
 नि...यंसत् आपमं १, ७;
 ११६.
 नियम्यते आपश्रौ ३, १५, ३;
 काश्रौसं ३२: १; भाश्रौ ३, १३,
 ६; हिश्रौ २, ६, ४५; कागृ ४१:
 ११; कप्र ३, ९, १४; नियम्येते
 हिश्रौ ३, १, १५; नियम्यन्ते
 आपश्रौ १९, १८, ८; नियम्येत
 हिश्रौ २१, १, १६; मीस् २, ४,
 ३; ५, १, ४४४; नियम्येरन्
 हिश्रौ ३, १, १७.
 नियच्छव- -च्छन् आश्रौ ६, १२,
 २.
 नियत, ता- -तः आपश्रौ १९, १५, ७;
 हिश्रौ; -तम् काश्रौ १, १, १०; ५,

१४; माश्रौ; ऋषा ३, १७; उच्
 ८, १०; १८; कौशि; -तस्य मीस्
 ७, ४, १९; -ता नाश्रौ ५, २,
 १२, ४६; वाघ २, २०;
 विष ५१, ६७; या २, ६१; आञ्च्यो
 १२, ३; -ताः अप ३१, ७, १;
 -तानाम् मीस् ६, ५, ३८;
 -तानि हिश्रौ ३, १, ४; -ताम्
 वौष ४, १, २३; -तासु काश्रौ
 २५, ४, २२; -ते काश्रौ १, ४,
 २; हिश्रौ ३, ४, ३६; -तेषु माशि
 ५, १०; -तौ हिश्रौ ३, १, १२;
 २, १४; अप ५२, १०, ५.
 नियत-का(ल>)ला- -लाभ्यः
 माश्रौ ५, १, १, ३.
 नियत-केश-त्रेप- -याः वाघ
 २, २१.
 नियत-क्रिया- -या काश्रौ ७, १-
 २२; १०, ९, २४; १२, १, २०.
 नियत-स्व- -त्वात् पावा- ४, १-
 ९३, मीस् ६, ३, ३४.
 नियत-पान- -नाः वौश्रौ २०,
 १६: ४०.
 नियत-प्रथित- -तौ ऋषा ४,
 २६.
 नियत-वत् पागृ २, ५, ४१.
 नियत-वाचो-युक्ति- -कयः
 या १, १५; १६.
 नियत-व्रत- -ताः अप्राय ३, ७.
 नियत-सह-पाठ- -डात् काश्रौ
 १, २, १४.
 नियत-स्वो(र-उ)द्वय- -वे
 ऋषा ११, ५३; ५५.

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। b) वैष १ द्र.। c) पाठः ? यति. वा अनुयच्छति वेति ? c.। d) पामे.
 वैष १, १७०४ a द्र.। e) पामे. वैष १, १८१२ d द्र.। f) पामे. वैष १, १८१२ k द्र.। g) प्रपु ३ प्र.
 तात् इत्यादेशः उत्सं. (पा ७, १, ४४)। h) सपा. आपव २, १०, १६ नियुञ्ज्यात् इति पामे.। i) पामे. वैष १,
 १८१२ a द्र.। j) पामे. वैष १, १८१३ ० द्र.। k) पामे. वैष १, १८१३ e द्र.। l) = अनुदात्त-।
 श्) निप.। यस.। n) सन्धि-विशेषयोः द्रस.।

नियता(त-अ)तिपत्ति- -त्तौ
शांश्रौ ३,४,२.
नियता(त-अ)त्मन्^a- -त्मा बौध
४,५,१९.
नियता(त-अ)दि- -देः उसू ८,
१४.
नियता(त-अ)नुपूर्व्य^b- -व्याः
या १,१५; १६.
नि-यत्ति^b- -तिम् शंघ ११६: २९.
नि-यम- पा ३,३,६३; -मः शांश्रौ
१, १६, १८; काश्रौ; पावा १,
१,३; २,२८; ३,६७; २,२,३४;
३,६६०; पावा ७; -मम् वीष्ट
३,३,४; आपध २,२३,१; ऋप्रा
३, २२; -मस्य. पावा ५, २,
११६; -माः शांश्रु ६, २, २;
आपध १,४,७; हिध १,१,१२६;
पाशि ११; -मात् वीष्ट १, २,
२३; पावा १,३, १२; मीसू ४,
३,१९; ५,२,१४^d; १२,१,३७;
-मान् कौष्ट २,७,२२; शांश्रु २,
१२,७; ६,१,१; वाध १२,४७;
वैध २,४,४; ८, ७; -मे मीसू
१०,७,७०^e; -मेत् आपध २,५,
१५; हिध २,१,९६; -मेपु काय
४, ३; वाध ६, २२; आपध १,
५,१; २,५,१८; हिध १,२,१;
२,१,१००; ५,१९३; -मैः अप
६८,१, २१; आपध २,१०,१६;
वैध १,५,२; ५; हिध २,४,१६.
नैयमिक^f- -कम् वाध ११,
४७; आपध २, १९, १३; हिध
२, ५, ८४; -कानि आपध १,

१३,२२; हिध १,४,३५.
नियम-निमित्ता (त-अ) मिहोत्र-
दर्शपूर्णमास-दाक्षायणा (ण-आ)
ग्रयण-पञ्च- -शुषु काश्रौ १, २,
११.
नियम-प्रतिषेध- -धः पावा ८,
४, ३.
नियम-प्रधानत्व- -त्वात् मीसू
१२,४,१५.
नियम-भूत- -तेषु आमिष्ट ३,९,
३: २८.
नियम-यम- -माभ्याम् वैष्ट १,
१: १६.
नियमयमिन्- -मो वैध ३,
७, १३.
नियम-वचन- -नात् पावा ५,४,
८८; ६, १, ६७; ४, १३^g; -ने
पावा ८,४,३.
नियम-विलोप- -पः आपध २,
१०,१; हिध २,४,१^h.
नियम-शब्द- -च्चात् काश्रौ १,
४,८; ३,५,८.
नियम-सामर्थ्य- -थ्यात् काश्रौ
५,१,५.
नियम-स्थ- -स्थस्य आमिष्ट २,
५,१: ५३; जैष्ट २,९: ३९.
नियमा (म-अ) विक्रम- -मम्
आपध १,४, २५; हिध १, १,
१४४; -मात् आपध १, ५, ४;
हिध १, २, ४; -मे आपध २,
१२,१८; बौध ४,१, २३; हिध
२,४,५५.
नियमा (म-अ) विक्रमण- -णम्

आपध २,२७,१८; हिध २, ५,
२३७.
नियमा(म-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
पावा ३,१,४६; ६७; ४, १,९३;
७,२,१०; ६३.
नियमा(म-अ)भाव- -वः पावा
१,१,६७.
नियमा(म-अ)रम्भणⁱ- -णः
आपध २,२७, ७; हिध २, ५,
२२६.
नियमा(म-अ)र्थ,र्था- -र्थः मीसू
६,३,१६; ११,२,९; -र्थम् पावा
१,१,४९; ६७; ७०××; -र्था मीसू
३,६,४०; ४,२,२४; -र्थौ लाश्रौ
१०,३,११.
नियमी \sqrt भू> ^oमी-भूत- -तेषु
बौपि २,७,२२.
नि-यमन- -नात् या ५,२८.
नि-यस्य माष्ट २,१५,६; अप.
नि-यस्य- -स्यानि हिश्रौ २१,१,६.
नि-याम- पा ३, ३,६३.
नि-यामक- -कः पावा २,४,८३.
नि-यच्छत्, -नियत-प्रभृ. नि
 \sqrt यच्छ द.
?नियतान्येवदृच्छाया अप ३३, ७,
७.
नि-यति-, नि \sqrt यस् प्रभृ. नि \sqrt यच्छ
द.
नि \sqrt या^k, नियाम् आश्र १,१३,७^l.
नि^mयासत् शुप्रा ६,७ⁿ.
नि-यान^k- -नम् आश्रौ २, १३,
७^l; माश्रौ ५,२,६,२०^l; वैताश्रौ
९,५^l; कौसू ३०, ११^l; अश्र ६,

a) विप. । वस. । b) = देवपत्नी-विशेष- । c) तु. पासि. । d) ष्मादानुपूर्व्यस्य इत्यस्य स्थाने
ष्मानुपूर्वस्य इति जीसं. । ष्मानुपूर्वस्य इति आन. । e) तु. जीसं. । f) तदस्य प्राप्तमित्यर्थे ङ् प्र. उरसं.
(पा ५,१,१०४) । g) ष्पे इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपध.) । h) पा ८,४,१७ परामृष्टः द्र. । i) पामे.
वैप २,३खं. निगाम् मंत्रा १,५,१० टि. द्र. । j) पामे. वैप १,१८१३ C द्र. । k) वैप १ द्र. । l) पामे.
वैप १,१८१३ III द्र. ।

२२^a; ८, २; १३, ३^b; अप ३ :
६७^b; या ७, २४^c।

नि-याम-, षक- नि/यच्छ द्र.

नि/यु > ढनि-युत्^b - युतः आश्रौ
८, ९, २; वौश्रौ १९, ७ : २४;
अप ४८, ९४; वृदे ४, १४०^d;
निघ १, १५; या ५, २८^e;
-युद्भिः आश्रौ ३, ८, १; ५,
१८, ५^d; ८, ९, २; शाश्रौ ७, १०,
९; ८, ३, १०^d; आपश्रौ १३,
१३, १२^d; वौश्रौ १०; ११ :
११; ऋप्रा ७, ४५; श्रुप्रा ३,
१२१.

नियुत्-वत्^b - ढवतः आपश्रौ
१५, १८, ७; वौश्रौ २८, २ : ३३;
-वते काश्रौ १६, १, ३८; आपश्रौ
१६, ८, ३; वौश्रौ १८, २८ : ८;
२८, २ : १७; माश्रौ ६, १, ३,
१२; वाश्रौ १, ७, ५, ३६; २, १,
२, १३; ३, २, ३, ४०; वैश्रौ १८,
२ : १०; हिश्रौ ११, २, १५;
अप्राय २, ९; -वन्तः आश्रौ २,
१३, ७^f; -वान् आश्रौ २, २०,
३; अप ४८, ११४^f; ढयुश्र ३,
८५; ८८; साश्र १, ६०१^f;
निघ २, २२^f; या ५, २८^f;
उनिस् ६ : ५^f.

नियुत्वती^b - ती आपश्रौ
१६, ८, ४; हिश्रौ ११, २, १८;
साश्र २, ९७८; -त्या वौश्रौ
२६, ४ : १५.

नि-युत्^a - पाडमो २, २, १३४;
-तम् आपश्रौ २२, २१, १७;
क्षुस् २, ९ : १८; अप ४८, ६६;

या ३, १०; -ताय वाश्रौ ३,
४, २, ११^f; -ते शाश्रौ १५,
११, ४; आपश्रौ १६, ३१,
१^f; वौश्रौ १८, ४३ : ६; २६,
३३ : ११; वैश्रौ १८, २० :
५१^f; हिश्रौ ११, ८, ४^f.

ढनि-यूय, > या आश्रौ ९, ५, २;
या ८, १९; २०; ऋप्रा ७, ९.

नि/युञ्, नियुनक्ति शाश्रौ ४, १७, ९;
काश्रौ; नियुञ्जन्ति आश्रौ ९, २,
४; काश्रौ २३, ४; ९; आपश्रौ
२२, ८, ७; काश्रौसि २८ : १६;
वौश्रौ १५, २६ : १४; हिश्रौ ३,
८, ४७^g; १४, ३, ५०; १७, ३,
३०; ढनियुनज्मि शाश्रौ ४, १७,
९; भाश्रौ ७, १०, ८; आपमं २,
२१, २-५; आश्र ४, ८, १५;
ढनियुनक्तु आश्र १, २१, ७; कौश्र
२, २, १४; शांश्र; नियुञ्जीत
वौश्रौ २६, २९ : १०; वैश्र ३,
१९ : २; ५, ५ : २०; विघ ३,
१६; नियुञ्ज्यात् वौश्रौ २०,
२७ : १८; २२, १४ : ११; २५,
३३ : २; २६, ११ : ४; वौपि;
आपघ २, १०, १५^h.

नियुयोज शाश्रौ १५, २१, १;
नियोक्ष्यामि शाश्रौ १५, २१, १;
वाधूश्रौ ४, ५ : ४.

नियुज्यते निस् ४, २ : २६; ४ :
७; मीस् ९, ४, १७.

न्ययोजयत् वृदे ५, ७४; नियो-
जयेत् अप १, १०, २; ३७, ९,
२; विघ ५, १५१.

नि-युक्त, का- -क्तः शाश्रौ १५, २३,

१; १६, ११, २; काश्रौ; पा ४, ४,
६९; -क्तम् वाधूश्रौ ३, १०२ :
३; गोश्र १, ४; २५; ३; १, ९;
जैश्र १, १८ : ५; ऋप्रा ३, २१;
११, ४७; पा ४, ४, ६६; -क्ता
वृदे ५, ३; -क्ताः शाश्रौ १४,
२, १६; १३; ३; वौश्रौ १४,
२२ : २३; शंश्र २०५; वृदे ४,
२८; शैशि ६१; -क्तान् काश्रौ
२१, १, ११; शंश्र २२७; -क्तानि
हिश्रौ १०, ४, ३५; -क्तम् पाश्र
१, १५, ८; -क्ताय शाश्रौ १५,
२१, १; -क्तायाम् वाध १७, १४;
विघ १५, ३; -क्ते आपश्रौ २०,
१५, ६; पा ६, २; ७५.

नियुक्त-धर्मन्^b - र्मा निस् २,
१३ : १२.

नियुक्त-मानस^b - सः निस् ५,
१० : ६.

नि-युज्य काश्रौ ८, ८, २६; आपश्रौ
२०, १७, १; वौश्रौ ९, ९ : १३;
११, ३ : ३५; वैश्रौ १३, ११ :
११.

नि-युज्यमान- -नम् वैताश्रौ ३६,
१८; २७.

नि-योक्त् - क्तारम् शाश्रौ १५,
२१, १.

नि-योग^a - नाः वाध १७, ६५;
वृदे १, ३६; ५१; मीस् १, १,
३२^g; -गम् वाध १७, ५६;
वृदे ५, ७५; -गात् आश्र ४८,
३४; कौश्र ३, ११, ५५; शांश्र ४,
११, २४; वाध ४, ३२; -गे
पावा २, १, ४३; मीस् १२, ४,

a) पाभे. वैप १, १८१३ III द्र. I

b) वैप १ द्र. I

c) [इन्द्रवाय्वादि-वाहनं] अश्व- I

d) पाभे. वैप १ वियुग्भिः टि. द्र. I

e) ईधर-नामन्त्. I

f) वैप १, १८१४ h द्र. I

g) पाभे.

h) पृ १४१२ h द्र. I

h) विघ. I वंस. I

i) भाप., नाप. [प्रलैकदेतुकमैथुन- (तु. मनुः [९, ५९-६०] प्रश्न.)] I

j) विनि^o इति जीसं. I

१७; -नेन नाशि २, ४, १; मीस् २, ४, २२; -नैः वृदे ८, १३०.
 नियोग-तस् (:) शैशि १४१;
 माशि १०, ११; याशि १, ५.
 नियोगिन्- -गिनोः वाध १७, ६४.
 नि-योजन- -नात् माश्रौ ५, २, १०, ३०; या ५, २८; -ने आपश्रौ ७, १२, ९; वौश्रौ १४, १५: ५; २०, २७: १७; -नेन वौश्रौ १५, २६: १२.
 नियोजनी^a- -नीम् काश्रौ ६, ५, २५.
 नियोजन-कारु- -ले काश्रौ २१, १, ८.
 नि-योज्य आमिष्ट २, ७, १०: ३.
 नियोज्य- पा ७, ३, ६८; -ज्यः अप २, ४, २; -ज्याः शंघ २५१;
 -ज्यानि शंघ १११.
 नि-युत्- , नि-युत- , नि-यूय नि०युद्र.
 नि-योकृ- नि०युज् द्र.
 निर् या १, ३; १२, ७; ऋप्रा १५, १७; शुप्रा ६, २४; पाग १, ४, ५८.
 निरक्त- निर्-वच् > निर्-उक्त- टि. द्र.
 नि०रक्ष् > नि-रक्षिन्- पाग ३, १, १३४.
 निर्-अच् (वेधने) > निर्-अष्ट^b-
 -ष्टाः वौश्रौ १५, १: १५; -ष्टान् वौश्रौ १५, ७: १९; १८, ११: २; -ष्टे काश्रौ २०, २, १०; -ष्टैः वौश्रौ १२, २: १७.
 निर्-अङ्कुश- -शाः विध ५२, १५.
 निर्-अङ्गुष्ठ^c- -ष्ठम् वौध २, ८,

१३.
 निर्-अज्, निर्(अजामसि) ऋअञ्च २, १४; १२, २^d.
 निर्-अजन- -नाय या ६, २.
 ऋनिर्-अजे^e या ६, २^f.
 निर्-अजिन- पाग ६, २, १८४.
 निरञ्जल^g- -नम् काश्रु १, १२; १४; ७, ३३; -नेन काश्रु १, ८.
 निर्-अञ्जन^h- -न विध १, ५२.
 निर्-अति✓शी > निरति-शायित्वा अप ४०, ३, ३^h.
 निर्-अनुनासिकⁱ- -काः आशि ६, १२.
 निर्-अनूप- पाग ८, ४, ३९.
 निर्-अन्तर^j- -रम्^b काश्रु ४५: १४; वौष्ट ४, ३, ९; भाशि ७५; -राः कौशि ३१; -राणि कौशि ३०; -रौ विध १, २४.
 निर्-अभ्र^k- -भ्रे अप ६५, २, १०; ७०^l, १९, १.
 निरभ्र-वृष्टि- -ष्टयः अप ६४, ४, ४; ५, ८.
 निरभ्र-स्वनित- -तानि अप ६४, ४, ४.
 निर्-अरम्, ऋनिरामय या १०, १८^l; ऋप्रा ९, ३२.
 नि-रत्- -ताः अप ५७, ४, ५; -ते विध ९९, १९.
 नि-रमण^m- -णः वाधुश्रौ ३, ६९; ३७; -णम् वाधुश्रौ ३, ७५; २; -णाः वौश्रौ १५, १: १५; -णात् या २, ७; -णान् वौश्रौ १५, ७: १८; -णे या ११, ४६.
 निर्-अमित्र- > ऋ✓रु > ऋ-करण- -णम् अश्र ४, २२.

निरयⁿ- -ये आपध २, २, ६; हिध २, १, २८.
 निरय-व(त >) ती- -तीः वौश्रौ १९, १०: २२.
 निर्-अयण- निर्-इ द्र.
 निर्-अर्चिस्^o- -र्चिषः अप ५२, १३, ५; -र्चिषि अप ५२, ११, २.
 निर्-अर्थ^p- -र्थः आश्रौ ३, ६, ७; -र्थाय वौश्रौ ९, ११: ३; १९; वौश्रौ १३, १३: १७.
 निरर्थ-क- -कम् विध २०, ३६; वृदे १, ३१.
 निर्-अव✓दय्, निरवदयते वौश्रौ १८, २५: ९; २५, ४: ७; वाधुश्रौ ३, ४२: १५; निरवदये वौश्रौ ४, ११: ९^q; निरवादयत वाधुश्रौ ३, ४२, ८; १३; १४.
 निर्-अव✓दो, > दा, निरवद्यन्ति आपश्रौ ८, ७, ३; निरवद्यत् माश्रौ १०, २२, १४.
 निरव-(त >)त्ता- -ताम् काश्रौ ९, ३, १०.
 निरव-दान- -नम् आपश्रौ ७, २६, १; १२, २५, ८; -नात् मीस् ३, ४, ३८.
 निरवदान-प्रतिषेध- -धः मीस् १०, ७, ६.
 निरव-दाय वौश्रौ २०, २९: ११; २४, ३७: १; हिश्रौ ८, ७, ५५; ९, २, ८.
 निरव-दास्यत्- -स्यन्-स्यन् हिष्ट २, १६, १३.
 निरव-धयत्- -निरव✓धे द्र.
 निर्-अव✓धे, निरवधयेत् काश्रु ३६, ८.

= a) = पशुबन्धन-रज्जु-। b) वैप २, ३३. द्र.। c) विप.। वस.। d) पामे. वैप १, १८१५ f द्र.।

e) वैप १ द्र.। f) = [क्षिन्नायाम-प्रमाण-रज्जौ]। चिह्न-। व्यु. ?। निर्-रञ्ज् = लञ्ज् इति PW. प्रवृ.।

g) शायित्वा इति मूको.। h) वा. क्रिवि.। i) पामे. वैप १, १८१५ n द्र.। j) वैप ३ द्र.।

निर्व-धयत्- -यन्तः हिश्रौ ९, ४, ५२.
 निर्-अव/सो, निर्वसाययन्ति
 आपध २, १४, १२; वौध २, २, ५१; हिध २, ३, २३
 निरिष्ट- निर्/अध् द्र.
 निर्/अस् (क्षिपणे), निरसेत् आश्रौ १, ३, ३१.
 निरस्यते हिश्रौ २, ५, ३६; निर-स्यति काश्रौ २, १, २२; ३, १७××; आपधौ; निरस्यतः काश्रौ ९, १०; १०; आपधौ १२, २३, २; १८, १५, ७; वौश्रौ ७, ११; ४; १४; ३; वैश्रौ १५, २९; २; ४; हिश्रौ ८, ७, २१; निरस्यन्ति वौश्रौ ७, ११; ११; १८; १५, १; ४; २९; १९; निरस्य माश्रौ २, १, ३, ५४१; निरस्यत वौश्रौ ६, २३; ७१; निरस्येत् काश्रौ २, ६, ३३; आपधौ ३, १४, २; ५, १०, ५; वौश्रौ; निरस्येयुः द्राश्रौ ३, ३, २६; लाश्रौ १, ११, १७.
 निर्-असत्- -सन् शांश्र २, १२, १०.
 निर्-असन- -ने वौश्रौ २०, ७; १०.
 निरसनो (न-उ) पवेशन- -ने आश्रौ १, ३, ३२; वैश्रौ १५, ४; २.
 निर्-असिवा आपधौ ३, ५, ७.
 निर्-अस्त- -स्तः आश्रौ १, ३, ३१; शाश्रौ; -स्तम् काश्रौ ६, ६, ९१; आपधौ १, १७, १०; १८, १५, ६; वौश्रौ १२, १०:

१७१; माश्रौ ११, ११, ४१; हिश्रौ १३, ५, २८१; आमिष्ट ३, ३, २; ६१; वौपि २, ९, ९; अप ७२, १, २; आपशु २, ११; वौशु २: ५; हिशु १, ३१; शुभ्र १, ३९६१; ऋप्रा १४, २; ३०; -स्तानाम् अप ६८, २, ४५; -स्ते हिश्रौ ७, १, ७३१; -स्तौ आपधौ १२, २३, २.
 निर्-अस्य आश्रौ ५, १२, ३; शाश्रौ.
 निर्-आस- -सः ऋप्रा १४, ११; २४; २९.
 निर्-असूयक- -कः वैध ३, ५, ७.
 निर्-अहङ्कार- -राः वौध १, १, ५.
 निर्-आका (ङ्क्षा >) ङ्क्ष- -ङ्क्षम् काश्रौ १, ३, २.
 निर्-आकार- -रे विध ९७, ७.
 निर्-आ/कृ > निरा-करिण्यु- पा ३, २, १३६.
 निरा-कृ- -र्ता कप्र ३, ७, १७.
 निरा-कृत- पांश्र २, १, ५९; ५, २, ८८; -तम् ऋप्रा ११, ६०.
 निराकृतिन्- पा ५, २, ८८.
 निरा-कृति- -तिः कप्र ३, ७, १७६; आपध १, १८, ३३; हिध १, ५, १०१; -तेः वाध २८, १७.
 निरा-कृत्य आपध २, ८; १४; हिध २, १, ११६.
 निर् आत्मक- -कम् या १४, ३.
 निर्-आदि- -इयः पावा २, २, १८.
 निर्-आनन्द- -न्दाः वैश्र ५, ७; ४.
 निर्-आन्त्र- -न्त्रम् हिपि ४: १.
 निर्-आमिष- -पः कप्र १, १, १८.
 निर्-आ/यच्छ, यम्, निरायच्छति हिश्रौ १, ७, ६२; निरायच्छसि

शाश्रौ १२, २२, ११.
 निरा-यत- > त-श्री(वा >) व- -वः हिश्रौ १२, ८, ४.
 निर्-आलम्ब- -म्बे विध २०, २२.
 निर्-आवरण- -णः अप ६८, ५, १०.
 निर्-आ/विध (<व्यध्), निरा-विध्यत् या ६, ३४१.
 निर्-आ(शा >) श- -शाः शंघ १९७.
 निर्-आशिस्- -शीः विध ९६, २१.
 निर्/आह, निराह वौश्रौ ३, २; १५१; वैश्रौ १, २०; ७१; लाश्रौ ७, १३, ११; निस् ८, ६; ४; या १३, १३; ऋप्रा ११, १६; २७; ६०; निराहुः लाश्रौ ८, ६, ५; निस् ६, ११; १७; या १, ३.
 निर्-आहार- -रः वौध ४, ५, २६.
 विध ३२, ९; या १४, २०; -रस्य विध ४६, १८; -राः अप ३०, २, १; वौध ३, ३; १४; १७;
 निर्/इ, (निर्)अय > या ऋप्रा ८, १५.
 निर्-यन्तु कौस् ९७, ८१.
 निर्-अयण- -णम् या ७, २४.
 निर्/रि (<री), निरिणीते या ३, ५; निरिणाति आपधौ २१, २२, ३; वाश्रौ ३, २, ५; २०; हिश्रौ १६, ७, १५; या १४, २४६.
 निर्-इ(डा >) ड- -डः क्षुस् ३, १२; २०.
 निर्-इन्द्रि(य >) या- -याः वौध २, २, ४७१.
 निर्/ईक्ष, निरीक्षते वौश्र २, ११, ३६; वौपि २, ९, १९; निरीक्षत कौश्र ३, ११, ३३; अप ६९, ५,

a) पामे. वैप १, १८१६ f द्र. । b) सपा. तैशा ४, १०, ३ निरर्यम् इति पामे. । c) = उच्चारण-दोष-विशेष- । d) पामे. वैप १, १८१६ h द्र. । e) विप. । वस. । f) = (देवादीनां) निराकर्तृ- । गस. उप. कर्तरि क्त्वि प्र. उसं. (पा ३, ३, ११३) । g) वैप १, १८१७ b द्र. । h) वैप १, १८१७ d द्र. ।

५; वाध ५, ७; वौध २, ३, ३१;
विध ६८, ३७.
निरीक्षयेत् शंघ १२९.
निर्-ईक्ष्य कौष्ट ३, ९, ४७; वैष्ट २,
१५; १४; गौषि १, २, १०.
निर्-ईति- -तिः अप ५२, १, ८;
-तिम् अप ५२, १, ४; ९.
निर्-उक्त-; °क्तवत्- निर्-वच् द्र.
निर्-उध्, निरुक्षति वौश्री ४, ७ :
२७; ८, २० : १४; ९, १६ : २१;
आमिष्ट २, ६, २ : १०; वौध २,
५, ५; निरुक्षन्ति शाश्री ८, १२,
११.
निरुक्षयति पाग १, ३, १९.
निर्-उच्य निर्-वच् द्र.
नि-रु(जा>)ज^{अ०} -जः वाध २९, ७
निर्-उत्साह^{अ०} -हाः अप ७०^२, १६,
३; -हान् गौध १०, १०.
निर्-उदक- पाग ६, २, १८४.
निर्-उद्-धम् > निरुद्-भ्रान्त-
-न्तः नाशि २, ८, १३०.
निर्-रुध्, निरुध्यन्ति वाधूश्री ४,
१३ : ४.
निरुणद्धि या ६, १; निरुण्ध्यात्
काग २८, ४१.
नि-रुद्ध, द्वा- -द्धम् माश्री ५, १, ८,
१; -द्धस्य माश्री ५, १, ८, ४;
७; ११; १०, ३१; -द्धाः या २,
१७१; -द्धाम् शंघ ३३४;
-द्धासु वौध २, ३, ५; ७; -द्धे
वौध २, ७, २७.
नि-रुध्य वैष्ट ५, १ : १३.
नि-रोध- -धात् सु २२, ४; वाध

२५, ६; वौध ४, १, २६.
नि-रोधक- -कः वैध १, ७, ८;
-काः वैध १, १०, २; ७.
निर्-उपद्रव^{अ०} -वः अप ७०, ८, ३;
-वम् अप ४, ६, १; ६२, ६, ५.
निर्-उपल^{अ०} -पाग ६, २, १८४.
निर्-उप-हन् > निरुप-हत्- -तानि
वौध ३, २, २.
निरुप्त-, निरुप्य, निरुप्यमाण- प्रभृ.
निर्-वप् द्र.
निर्-उच्च, ङनिर्-औच्चः
आपश्री १७, २१, ७; हिश्री
१२, ६, २६.
निर्-उलप- निर्-उपल- टि. द्र.
निर्-उह्य प्रभृ. निर्-वह द्र.
नि-रूपि (<रूप-)निरूप्येत मीसू
७, ४, १२.
निर्-रूपक^{अ०} -काः माशि १३, ८;
९.
निर्-ऊह (प्रापणे), निरुहति वौश्री
१, ३ : १०; ९, ७ : १३; १०, २१ :
१६; १७, २८ : १०; २९ : ८;
३० : ८; २०, ४ : ९; २४, २४ :
७; माश्री १, ८, ५; १२, ११;
६, १०, ४; वैश्री १८, १३ : २; हिश्री
३, ७, २५; ११, ६, २; निरुहतः
माश्री ११; ८, १; निरुहन्ति
२, ९, २; निरुहामि हिश्री ८, ६,
३८१; निरुह काश्री २५, १०,
४११; निरुहेत् वौश्री २०, ४ :
१०; वैश्री २०, १६ : ९; द्राश्री
३, २, १४; लाश्री १, १०, १०;
निरुहेयम् आपश्री १२, १५, २;

हिश्री ८, ४, ३६^{२६}.
निर्-ऊहण- -णम् आपश्री १७,
८, ३.
निर्-ऊहत्- -हन् हिश्री १३, ६,
२९; कौम् २७, ६१; अप्रा २, ४,
१६१.
निर्-ऊहितवै काश्री २५, १०, ४.
निर्-ऊह्य आपश्री १, १२, १; ६, ५,
६××; वौश्री.
निर्-ऊङ् > ङनिर्-ऊत्^{अ०} -तेः आपमं
२, २२, १२; भाग २, ३० : ११;
हिष्ट १, १६, ५.
निर्-ऊति^{अ०} -ङ्तेय^{अ०} आमिष्ट १,
५, १ : २९; वैष्ट ३, ७ : १३;
१७ : १३; ५, २ : ३०; -ङ्तिः
काश्री २५, ९, १५; आपश्री
९, १५, ६९^क; ७; १६, १६,
१^२; वौश्री २, ५ : ५××; माश्री;
हिश्री १५, ४, २६^क; अप १,
४, ५; ४०, २; ४८, ७२^म;
९२^न; निवर् १, १^म; या २, ७९^ड;
वेज्यो ३३^ड; -ङ्तिम् आश्री ३,
१०, ३१; आपश्री ९, ४, १; १;
१५, ५^ड; १८, १२^ड; १६, १६, १;
वौश्री; माश्री ९, ५, २२; माश्री
३, ५, १४; हिश्री १५, १, ७५^ड; ८,
१२; आपमं २, १२, ८^०; आमिष्ट
२, १, ४ : १३^०; वैष्ट १, ४ : ८^१;
हिष्ट १, १६, ७; १८, ५; २, ४, १^०;
ऽअश्र २, १०; ६, २९; ६३^{१०}; या
२, ८^०; -ङ्ते काश्री १५, १,
८; ३, १४; आपश्री; -ङ्तेः आश्री
१, १२, ३६; आपश्री १, २, १०;

a) विप. । वस. । b) पूष. = निर् । c) °रुद्धान्तः इति कालिदा. । d) °उलप- इति पाका. ।
e) उप. < रऊप्पन्- । f) निरुह इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. माश ४, ५, २, ३) । g) °ष्टे इति
पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्री.) । h) वैष १ द्र. । i) = दिगभिमानि-देवता- । j) सप्ता. ष्टिः < > ष्टिम्
इति पाठे. । k) = अल्लमी- (तु. भाष्यम्) । l) = मूलनक्षत्राभिमानि-देवता- । m) = पृथिवी- । n) गो-
नामन्- । o) पाठे. वैष १, १८१८ ह्र द्र. । p) ष्टिः इति पाठः ? यनि. शोघः । q) पाठे. वैष १, १८१८ i द्र. ।

माश्रौ ३, १, २७; अप्राय ४, १;
वृदे ७, ९१९; चात्र ३८:१७९^३;
शैशि १२२; -त्या आपश्रौ ९,
१५, ७^१; वाघूश्रौ ४, ९०:२४^१;
२५; हिश्रौ १५, ४, २७^१; वीगृ
१, ३, १४^१; कौत् ४७, १६^१;
-कत्या: आपश्रौ १६, १६, २;
वौश्रौ ३, १६: २९; भाश्रौ ४,
९, २; आमिगृ ३, ८, २: ३२^३;
वौपि १, १५:४०^३; मागृ २, १७,
१; सप ३७, १, १०; अत्र १६,
८^३; या १, १७^१; शैशि ३३४;
-त्याम् आमिगृ २, ५, १: २०;
-कत्यै आपश्रौ १०, १८, १०;
१४, ११, ३; १८, ८, २०; वौश्रौ
६, ८: ६; २७, ३: ७; भाश्रौ
१०, १२, ७; माश्रौ ५, २, १०,
२७; वाघूश्रौ; आपमं २, १२, ९^३;
या १, १७.

नैर्कत^१- -त: काश्रौ १५, ३,
१४; २३, ४, १७; आपश्रौ;
आज्यो १, १०^६; -तम् आपश्रौ
१८, ८, १२; १७; २२, २१, ३;
वौश्रौ; -तस्य वौश्रौ २२, १६:
६; १०; हिश्रौ १३, ३, १५; अशां
२४, ३^१; -तान् आपश्रौ १६,
१६, १०^१; वौश्रौ २६, २८: ६;
वैश्रौ १८, १४: ४^१; -तानि
वौगृ २, ११, ४०; अत्र ६, २९;
-ताय वौश्रौ १२, १: ७; -ते
वैगृ १, २१: ७; अप ६०, १, ३;
आज्यो ३, २; -तेन आपश्रौ १८,
८, १५; वाश्रौ ३, ३, १, ६; हिश्रौ

१३, ३, १६; कौत् ८१, २१;
-तेषु अप ५९, १, १५; -तै:
अप ३३, ४, ४.

नैर्कती- -ती अशां १६,
१^३; वृदे ७, ९२; -ती: काश्रौ
१७, १, २३^१; आपश्रौ: -तीनाम्
शाश्रौ १६, १३, ५; वौश्रौ २२,
४: २८; -तीभि: वाघूश्रौ ३,
७९: १४; वाश्रौ २, १, ४, २१;
-तीम् अशां १७, ५; शंष ३८५;
-त्याम् वैश्रौ १८, २०: ५९;
वैताश्रौ २८, २७; आमिगृ २, ४,
११: ९; ३, ४, ४: १; वौपि ३,
४, ११; वैगृ; -कत्यै मागृ ३, १३:
२०; वाघ २३, ३.

नैर्कत्या(ती-आ)दि-
-दि वैगृ १, १५: २.

नैर्कत्या(ती-आ)व
(दि-अ)न्त- -न्तम् वैगृ १, ९:
१२.

नैर्कत्य^१- -त्या: शुप्रा ८, ३८;
कौत् ९७, ८; याशि २, १.

निर्कति-कर्मन्- -र्माणि कौत्
१८, १.

निर्कति-गृहीत, ता- -तम्
वाघूश्रौ ४, ९०: २५; कौत् ९७,
१७; -तस्य अशां १७, ५; -ता
वौगृ १, ३, १४; -ते वाघूश्रौ ४,
९०: २३.

निर्कति-देवता- > ^१त्य- -स्य:
आपश्रौ ९, १५, ४.

निर्कति-चावापृथिव्या(वी-आ)
दि- -नाना-देवता- > ^१त्य-

-स्यम् अत्र २, १०.

निर्कति-पञ्चम^१- -मा: नाशि २,
६, ५^१.

निर्कति-प्रभृति- -तीनि अत्र २,
१०.

निर्कति-मन्त्र- -न्त्रा: अशां १८,
७.

निर्क^१(ति >) ती-भा(ग >)

नी^३- -नीम् अशां १५, २.

निर्कत्य(ति-अ)पतोदा(द-अ)^१:

थं- -थंम् ऋत्र २, १०, ५९.

निर्कत्य(ति-अ)वस्तरण-काम-
-म: अत्र ६, १२४.

निर्कत्य(ति-अ)भि-सुख- -ख:
अशां १५, ५.

निर्-ऋण^१ - -णम् या ९, ८.

निर्कते अप ४८, ७.

निर्-ऋथ^१- -पाठ २, ८; -थ: भाशि
५३^१; -क्यम् शैशि १२२;

३३४ -थस्य आपमं १, ६, १४^१

निर्-ए(आ/इ), निरैतु आपमं २,
११, २०^१.

निर्-एक^१- -कम्^३ वेज्यो १३.

निर्-एघ^१- -घम् अप ७०^३, ११, १८.

नि-रोध-, -धक्- नि/लृ^१ द्र.

निर्/गच्छ, गम्, निर्गच्छति वैश्रौ
४, ५: ५; १२, १२: १२

निर्गच्छेद् अप ४, १, १८; शंष
७७.

निर्गमाणि ऋप्रा ५, ६०^१.

निर्गमाणाम् कौत् १२९, २;
१३५, ९; अप्राय २, ६^३.

निर्-ग- -पावा ३, २, ४८.

a) = ऋपि-विशेष-। b) पामे. वैप १, १८१८। द्र.। c) पामे. वैप १, १८१९० द्र.। d) = मृत्यु-
देवता-। वृ. स्क.। e) पामे. वैप १, १२४५० द्र.। f) वैप १ द्र.। g) = सुहृत्-विशेष-। h) = शान्ति-
विशेष-। i) = इष्टका-विशेष-। j) विप.। प्राग्दीव्यतीयः प्यः प्र. उसं. (पा ४, १, ८५)। k) विप.। वस.।
l) पतिः पञ्च इति पाठः? यनिः शोचः। m) विप.। उस. उप. √मज् + लण् प्र. कुत्वद् (पा ७, ३, ५३)।
n) उप. = उदक्-। o) पामे. वैप १ परि. अत्रैतु शौ १, ११, ४ टि. द्र.। p) वा. क्वि.।

निर्-गच्छत्- -च्छतः वैश्व ५,६ : ३.
 निर्-गत- -तम् या २,७.
 निर्-गत्य वैश्वौ १२,५ : ९; १२ : १६; १३ : १४; अप ६८, ५, २३; वौध ३, १, १२.
 निर्-गम- -माः अप ६४, ४, ६.
 निर्-गमन- -नम् वैश्वौ १८, १७ : ४; -ने या ११, ४६.
 निर्गमन-दक्षिण-भाग- -ने वैश्व ५, ६ : १६.
 निर्गमन-प्रा(य>)या^१- -या या ३, ६.
 निर्-गमय्य वैश्व ५, २ : १७.
 निर्-गम्य जैश्रौका १५७^२.
 निर्-जगन्वस- -न्वान् शुभ्रा ३, १४४^३.
 निर्-गन्ध^४- > ंधो (न्ध-उ)-
 अगन्धि^५- -न्धि विध ७१, ११.
 निर्-गम् निर्-गच्छ् द्र.
 निर्-गुण- -णम् शंघ ३७१; विध ९७, १६; १७.
 निर्गुण-ब्रह्मा(ह्य-आ) श्रय- -ये वैध १, ११, १४.
 निर्-गृह्, निर्गृहीयात् माश्रौ ३, ६, १७^२.
 निर्-गृ (निगरणे); निर्गिरन्ते अप ६७, ६, ५.
 निर्-घात- प्रभृ. निर्-हृ द्र.
 निर्-ज(ल>)ला^१- -ला अप ६९, ४, २.
 निर्-जि>निर्-जय- -यम् वौश्रौ १२, १६ : ८; -येन वौश्रौ १२, १२ : १३.
 निर्-जिहीर्षत्- निर्-हृ द्र.

निर्-ज्ञा> निर्-ज्ञाय वाधूश्रौ ४, ७५ : २४; ३६.
 निर्भर^१- -रस्य अप ४२, १, ४.
 निर्-ण(<न)म् > निर्-णत->
 ंत-त(म>)मा- -मा या ८, ५.
 निर्-णाम- -मः आपशु १५, ९;
 वौशु १० : १४; १५; हिशु ५, १६; -मसु या २, १६; -मयोः
 आपशु १७, ४.
 निर्-ण(<न)श्, निः...जनीन-
 शत् माण २, १८, २१.
 निर्-णाशयां/कृ, निर्णाशयां-
 चकार या ६, ३०.
 निर्-णि(<नि)ञ्, निर्णेनेक्ति भाश्रौ
 ५, ३, ८; वैश्रौ १, ५; १०; हिश्रौ ३, २, ४१; ऋनिर्णेनिजति तैप्रा ७, २.
 निर्-णिक्त- -क्तम् वाध १४, २४;
 वौध १, ५, ५६; विध २३, ४७;
 गौध ९, ६; या ३, १९; -क्तौ
 शंग्र ६, ३, ६.
 ऋनिर्-णिञ्- -णिक् अप ४८, ७९^२; निध ३, ७; -णिजः या
 ५, १९; -णिजा माश्रौ ५, २, ७, १७^३.
 निर्-णिज्य आपश्रौ ९, ५, ७; १७, १;
 वौश्रौ.
 निर्-णी(<नी), निर्णयति कौस्
 ५८, १८; ७६, १०; निः...नयति
 अप्रा १, १, १५^४; निर् (नयति)
 अत्र ५, १८^५.
 निर्-णय- -यः जैश्रौका १०६;
 शंघ ९; विध १०, १३.
 निर्-णीत- -तम् या ३, १९^६.
 निर्णोत-त(म>)मा- -मा या

८, ५.
 निर्णोता(त-अ)न्तर्हित-नाम-
 चेर्य- -यानि निध ३, २५; या ३, १९.
 निर्-णीय निस् १०, ५ : १८.
 ?निर्णोत^७- -तम् हिश्रौ ४, २, ५७.
 निर्-णु(<नु)द्, निर्णुदति वौध ३, ६, १९; ऋनिः...नुदे आपश्रौ ३, १४, २; भाधौ ३, १३, १; हिश्रौ
 २, ६, ३४; कौस् ४७, १०; अत्र ६, ७५; निर्(नुदे) कौस् ४८, २९^८; निर्णुदामि काण १८, २^९; निर्णुदामसि कौस् ७१, १^{१०};
 ऋनिः...नुदाति आपश्रौ ४, ६, ३;
 भाश्रौ ४, ९, १; हिश्रौ ६, २, १२;
 निर्णुदस्व अप २२, ९, २^{११}; निः
 ...नुदस्व वाश्रौ १, ३, १, २^{१२};
 ऋनिः...नुद^१ आपश्रौ ३, १०, ४;
 भाश्रौ ३, ९, ८; वैश्रौ ७, १३ : १; हिश्रौ २, ५, ३६;
 निर्(नुद)^१ आपश्रौ ३, १०, ४;
 भाश्रौ ३, ९, ८; हिश्रौ २, ५, ३६;
 ऋनिः...नुदध्वम् आपमं २, १३, ६; वौध २, १, १२; भाण १, २५ : १४; निर्णुदेव अप ४०, ५, २; विध ५७, १०.
 निर्णोदयत्तु गौपि १, ५, ६.
 निर्-णुद्य वौश्रौ २८, ४ : ३१.
 निर्-णोद- -दः गौपि २, ३, १७^{१३};
 वौध ३, ६, ४; विध ४८, १७.
 निर्-दग्ध- प्रभृ. निर्-दह् द्र.
 निर्-द(या>)य^१-> ंय-स्व- स्वम्
 वाध ६, २४.
 निर्-दश,शा^{१४}- -शः शाश्रौ १५, १८,

a) विप. १ वस. १ b) पामे. वैप १, १८२० d) द्र. १ c) विप. १ कस. १ d) = प्र-स्वण- १ व्यु. ? १
 e) वैप १ द्र. १ f) द्रस. > पस. १ कस. > पस. इति [पस्ते] स्क. १ g) पाठः ? निर् (= नन्) + नुव (= नत-) >
 आस. इति भाष्यम् । सपा. आपश्रौ ७, १०, ११ अवनतम् इति पामे. १ h) पामे. वैप १, १८२१ f) द्र. ६
 २) पामे. वैप १, १८२१ i) द्र. १ j) उप. दशन्- (= दशाह-) + समासान्तः दृच् प्र. १

१४१; -शायाम् वौश्रौ २३, १,
४३.

निर्देश-ता- -तायाः आपद्य १५, ७;
भाद्य १, २३ : २०.

निर्-दह्, निर्दहति शांश्रौ १४, ५१,
१; अप ६१, १, १७; विध ४८,
१४; या १४, ३३५; निर्दहन्ति
कौश्रु ३, १०, ३५; शांश्रु २, १६,
४; आश्रु २, ५, १ : ५५; जैश्रु
२, ९ : ४१; आज्यो १४, १०;
निर्दहताम् अप १८, १, ८१;
निर्दहन्तु कौश्रु ९, १११; अप
३३, ६, ९; आपमं २, १४, ३;
आश्रु २, १, ३ : २६; भाद्य
१, २३ : १९; हिद्य २, ३, ७;
या ९, ३३; निः...दह, निः(दह)
माश्रौ १, ४, ३, ४१^a; निरदहत्
शांश्रौ १४, ५१, १; निर्दहेत् अप
३८, ३, ५; ७०^३, २०, २; ऋश्र
२, ३, ३६.

†निर्-दग्ध- -ग्धम् आपश्रौ^b १, २२,
३; २३, ३; ७, १९, ८; वौश्रौ^b १,
८ : ८; २०, ८ : ७; भाश्रौ १,
२४, ४; माश्रौ १, २, ३, १^b;
वाश्रौ १, ३, १, ४^b; वैश्रौ ४, ९; १^b;
हिश्रौ १, ६, ७^b; काद्य ४५, ७; वैद्य
१, १२ : ३; -ग्धाः आपश्रौ^c १,
२२, ३; २३, ३; ७, १९, ८;
वौश्रौ^c १, ८ : ८; २०, ८ : ८;
भाश्रौ १, २४, ४^c; अप्राय २, ५;
अप ३७, ५, ३.

निर्दग्ध-काय^d- -यः शंघ ३८२.
निर्दग्ध-वृजिने(न-इ)न्धन^e-
-नेः वौध ४, ७, १०.

निर्-दह(त् >)न्ती- -न्तीः कौश्रु
१३१, २१.

निर्-दिश, निर्दिशति आपश्रौ १,
१३, ४; ८, ६, २१××; वौश्रौ;
निर्दिशामि आपमं १, १, ५;
वौद्य १, १, २६; निर्दिशेत्
आपश्रौ ८, ६, २२; १४, ७,
१; वौश्रौ; नाशि १, ४, ८^f;
निर्दिशेयुः लाश्रौ ९, १०, ४; ६.
निर्दिश्यते आपश्रौ. २४, ३, १.

निर्-दिश्य आपश्रौ ३, ३, ५१××;
२२, ४, २८^g; वौश्रौ.

निर्-दिश्यमान- -नस्य पावा ६, ४,
१३०.

निर्दिश्यमाना(न-अ)धिकृतत्व-
-त्वात् पावा १, ३, ११.

निर्-दिष्ट- -ष्टः काध २७५ : ५; वृदे
३, ५६; -ष्टम् अप २८, २, ३;
३१, ५, ४; ४४, ४, ९; -ष्टस्य मीसू
१२, १, ३८; -ष्टाः अप ५८^h, १,
१; -ष्टान् काश्रौ ३३; -ष्टानाम्
ऋप्रा १४, १; -ष्टे आपश्रौ १०,
१५, १६; आपध १, १८, २६१;
हिद्य १, ५, ९४ⁱ; शुप्रा १, १३४;
पा १, १, ६६.

निर्दिष्ट-ग्रहण- -णम् पावा १,
१, ६७.

निर्दिष्ट-भाग^d- -गः वौश्रौ २६,
५ : ७.

निर्दिष्ट-लोप- -पात् पावा १, ३,
९.

निर्-देश- -शः माश्रौ २, १, १, १२;
अप; पावा १, ४, २३××; मीसू ३,
७, ४२××; -शस्य मीसू ६, ४, ६;

-शात् काश्रौ १, १०, १; आपश्रौ
२४, २, २९; माश्रौ; पावा ६, ४,
१७४; मीसू १, २, ३०××; -शन
वौश्रौ २४, १, १७; वाध १, ३९.
निर्देशा(श-आ)नर्थक्य- -क्यम्
पावा २, १, १.

निर्-देशक- -कौ तैप्रा २२, ४.

निर्-देश्य- -श्यम् पावा २, १, ३०.

निर्-देश्य- -स्यम् अप ६८, १, ५०.

†निर्दुर्मण्यः^d कौश्रु ४२, २७; ५८,
६; १२; अश्र १६, २^३.

निर्-दुह, निरदुहत् विध ५५, १०.

निः...दुक्षत् ऋप्रा ४, ९८^f.

निर्-दोष, पा^d- -षः आपध १, १९,

-६; हिद्य १, ५, १०८; -पा अप

२२, ५, ३; -पाः माशि १, ६;

-पाम् विध ५, १६२.

निर्दोष-शरीरा(र-आ)हुति^g- -तिः

वैद्य ७, १ : ३^१.

निर्-दु, निर्द्वत् कौश्रु ११६, ७^१;

निर्द्वेयुः काद्य ११, १.

निर्-द्वन्द्व^h- -न्द्वः वैद्य १, १ : १७.

निर्-धन^d- -पाय २, १, ५९^१; -नस्य

विध ६, ३०.

निर्धन-ता- -ताम् अप ३६, १६, २.

निर्-धम्, निर्धमेत् वौध ४, १,

२२^m.

निर्-धमन- -नम् वौध १, १०, १८.

निर्-धयत्- -प्रम्. निर्-धे द्र.

निर्-धू, निरध्वन् वाधूश्रौ ४,

१९ : ३९.

निर्-धूम^d- -मः अप ७०^३, २, १; -मस्य

वैद्य ४, ५ : २०; -मे सु १८, ३.

निर्-धृ > निर्-धारण- -णम् पा

a) पामे. वैप १, १८२१ I द्र. । b) पामे. वैप १, १८२१ m द्र. । c) पामे. वैप १, १८२१ n द्र. ।
d) विप. । वस. । e) विप. । वस. > कस. । f) विनिर्दिशेत् इति लासं. । g) पाठः ? निर्देश्यम् इति शोधः
तु. सप्र. तां २२, १४, २ C. च । h) वैप १ द्र. । i) कस. > पस. । j) पामे. वैप १ पुरुषाहुतिः तै २, २, २, ५
टि. द्र. । k) विप. । पास. वा वस. वा. f. । l) तु. पागम. । m) तु. चौसं., नियमेत् इति मैसु. ।

२,३,४१; -णे पा २, ३, १०;
५,३,९२.
निर्-धारित- -तानाम् निस् २,
१२: ३१
निर्/धे, नि:...धयन्ति आपश्चौ
१३,१७,५^६.
निर्-धयत्- -यन् माश्चौ ५, २,
२,९; -यन्तः वैश्चौ १६, २१:
३^२.
निर्-धान- > न-दर्शन- -नात्
मीस् १०,२,१४.
निर्-धीय काठश्चौ १५८.
निर्-त्तमस्कार^६- -रः विध ९६,२२.
निर्/वन्ध्> निर्-वद्ध- -द्वा:
या १,२.
निर्/वाध्> निर्-वाध^६- > नैर्वा-
ध्य^६- -ध्येन दंवि २,५^१.
निर्वाध-त्व- -त्वम् भाशि ५२.
निर्वाध्य^६- -ध्येन^६ आपश्चौ ३,
१४,२; माश्चौ ३,१२,१; हिश्चौ
२,६,३४.
निर्-वाधित- -तासः^६ आश्चौ ५,
७,३.
निर्-धीज- > ञिर्- -जी शंघ
३७७: ६.
निर्/धृ, निर्धृयात् वौश्चौ २०,
१९: १८; १९; २१; लाश्चौ
७, १२, ७; १३, ३; वृदे २,
१०६; या २,१^३; २^३; ३^३.
निर्-ध्रुवत्- -वत् ऋत्रा ११, ६२.
निर्/भज्, निर्भजति वौश्चौ ३,२१:
८; ङिर्भजामि शांश्चौ ४, १२,
१०; वौश्चौ ३,२१: ९; वाश्चौ
१,१, ४, २३^१; काय १८,२;
निर्भजामः अत्र १६, ८^१;

ङिनिः...भजामः आपश्चौ ४,
११,१; भाश्चौ ४, १६,२; हिश्चौ
६, ३, ३; निर (भजाम) अत्र
१६, ७^१; निरभजत् वौश्चौ
१४,५: २९.
निरभाक्, निरभाक्षम् वौश्चौ
१४,५: ३०^१.
निरभाजयताम् वाधूश्चौ ४, ८:
४.
निर्-भक्त- -ङ्क्तः शांश्चौ ४,१२,२;
१०; आपश्चौ ४, ११, १; वौश्चौ
३, २१: २; ९; १०, १६: २;
माश्चौ ४, १६, २; वाश्चौ १,१,
४,२३^३; हिश्चौ ६,३,३.
निर्-भय^१- -यः कप्र ३, २, १५;
विध ३, ९५; माशि १४, ७^३;
-याः कौश ३, १२, ३०; अप
७०^३, ५, ४; ५.
निर्/भर्त्स, निर्भर्त्सयेत् विध ६८,
२५.
निर्-भर्त्सन- -नम् शंघ ३१३.
निर्/भा, निर्भवौ विध ५२, ६७.
निर्/भिद्, ङिर्भिन्नति आम्रिष्ट
३,१०,१: ११; वौषि ३,५,२;
१०, १; ङिर्भिन्नञि आम्रिष्ट
३,४,१: २९; ५: ६; निर्भिन्धि
कौस् ६१,२२^१.
निर्भिद् सु ३,२.
निर्-भीत^६- -तः शैशि १५३; याशि
१: २३; नाशि १,६,१२.
निर्/भुज्, निर्भुजति हिश्चौ ४,
४, ६०; हिश्चौ १०, २, १४;
निर्भुजेत् माशि १२,५.
निर्/भू, निर्भवति कुस् ३, १०:
२१.

निर्/भृ निर्/हृ द.
निर्-मत्तिक- पाग ६, २, १८४.
निर्/मथ्, न्य्, ङिर्निर्मन्थतः^६ आपमं
१, १२, ३; वौश १, ७, ४०;
माय २, १८, २; हिष्ट १, २५,
१; निर्मन्थताम् जैश १, २२:
२९^१; निरमन्थत्, निरमन्थत्
वैताश्चौ ५, १४^१; निर्मन्थेत्
वैश्चौ १, १: २२.
निर्-मथित- -तः ऋत्र २,३,२३^१.
निर्-मथ्य काश्चौ ४, ७, १४; ९,
१८x४; आपश्चौ.
निर्-मथ्य- -थ्यः आपश्चौ ८,२,
१३; माश्चौ १,७,४,९; वैताश्चौ
६,४; -थ्यम् आपश्चौ ५, ४,
१४; वैताश्चौ ८, १०; १८, ८;
अप्राय ३, ७; -थ्याः अप १,
७,९१; -थ्येन द्राश्चौ ७,४,७^१;
-थ्यैः वौषि १,२: २०; -थ्यौ
कौस् ६०,५.
निर्मथ्या(थ्य-आ)ह्वनीय- -यौ
ऋत्र २,१,१२; शुअ १,३००;
सात्र २,१९४.
निर्मथ्याह्वनीया(य-अ)र्थ-
-थौ वृदे २,१४५.
निर्-मन्थ- -न्थेन माश्चौ १, ७, १,
३८; ८,३,३; २, १, ५, १४;
६, १, ४, ३९.
निर्-मन्थन- -नम् वैताश्चौ ८, १२.
निर्-मन्थ्य काश्चौ २५,३,८; आपश्चौ
१३, २५, ३; वौश्चौ.
निर्-मन्थ्य- -न्थ्यः आपश्चौ १०,
३१,१२; वौश्चौ; -न्थ्यम् काश्चौ
६, ५, १३; वौश्चौ १४, ३:
१३x४; माश्चौ; -न्थ्यस्य वौश्चौ

a) निरवधयन्ति इति मूको. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १, १८२२ ०
द्र. । e) पामे. वैप २, ३खं. ङिर्वाधितासः टि. द्र. । f) विप. । प्रास. वा वस. वा । g) = अ-भीत- ।
h) पामे. वैप १, १८२३ j द्र. । i) सपा. ष्येन <> ष्येन इति पामे. ।

५, २ : २१; ६ : २०××; भाश्रौ;
-न्ध्याभ्याम् भाश्रौ ८, ७, १५;
-न्ध्ये मीस् १, ४, १२; -न्ध्येन
आश्रौ ६, १०, २४; काश्रौ १६,
४, १३; २५, १३, २७; आपश्रौ;
लाश्रौ ३, ४, ६^३; -न्ध्यैः आम्रिगृ
३, ५, २ : १७; -न्ध्यौ आपश्रौ
८, ६, १८; वौश्रौ २०, १७:१७.
निर्मन्ध्या(न्ध्य-आ)दि-दिपु
मीस् ७, ३, १८.

निर्-म(ध्व >)ध्या^०- ध्या छुस् १,
१ : ४; २, ३ : १९.

निर्-मल^०- लः बाध २६, ६; -लाः
बाध १९, ४५.

निर्मल-स्निग्ध-परिधिपरिवेपाभ्र-
वृक्षप्रतिसूर्ये (क >) का^०- का
अप ६५, २, २.

निर्मली/कृ > निर्मलीकृत्य अप
१, ४२, ९.

निर्-मशक- पाग ६, २, १८४.

निर्/मा(माने)^०, निर्मिमीते निस्
४, १० : १७; वृदे ७, १२९;
निर् (मिमीमहे) अश्र १८, २^३;
निरमिमीत या ८, २१; ९,
१०; निरमीमत वाधुश्रौ ४,
५९^२ : ४; ५; १०.

निर्मोयन्ते या २, ८; निरमीयत
वाधुश्रौ ४, ५९^२ : ६.

निरमायि वाधुश्रौ ४, ५९ : ९.

निर्-माण- णे या २, २२.

निर्माण-कारक- ०क विध १,
५५^०.

निर्-मा (वृ >) त्री- न्यः या
१२, ७.

निर्-माय काश्रु ६, १०.

निर्-मित, ता- न्तः आश्रौ ३, ८,
४९; आपश्रौ १, १३, १५; १६,
२९, १; वैश्रौ १८, २० : १२;
हिश्रौ ११, ८, २; अप २, ४,
२९; अशां १०, ५; -तम् अप
३३, ३, ४; ३८, ३, ८; ४१, ३,
९; काश्रु ७, ११; -ताः आश्रौ ३,
८, ३; आपश्रौ २४, ११, १०^३;
निस् ३, १३ : ३९; अप १,
४०, ४^३; २०, ३, १; अशां १०,
४; -नताम् आपश्रौ ५, १८, २;
हिश्रौ ६, ५, १६; -ते हिध १,
६, १७; पा ४, ४, ९३.

निर्-मिमान- नौ या ८, १२.

निर्-माल्य^०- न्यम् वैगृ ४, १२ :
१; अप ३, १, ११; ३५, १, १३;
-ल्यानि वौगृ १, ८, ९.

निर्माल्य-गन्धहारी-हास-गीत-वाद
ना(न-आ)द्यु(दि-उ)पहार-
रान् अप ४०, १, ११.

निर्मिल^१- लाय अप २०, ४, २^३.

निर्/मी(=√मा[शब्दे]), निर्मिमाय^०
या ११, ४०.

निर्/मुच्, ङ्च्, ञ्च्, णिर्...मुञ्चामि^०
आपश्रौ ७, २१, ६; वौश्रौ ४, ७ :
२४; भाश्रौ; णिर् (मुञ्चामि)
आपश्रौ ७, २१, ६^३; ११, १८,
२; वौश्रौ.
निर्मुच्यते या १४, ७; णिर्

(मुच्ये)^१ काश्रौ ८, ७, १८; शुभ्र
१, ३६१; णिर्मुच्येत आपश्रौ
१७, १४, ३; वैश्रौ १९, ६ : ७६;
हिश्रौ १२, ४, १२^२.

णिर्निर्(अमुक्षि)^१ आपश्रौ १, १८,
३; वौश्रौ ६, ३१ : १५; भाश्रौ
१, २, १, ३९; वाश्रौ १, २, ४, ३३;
वैश्रौ १४, १६ : ९; हिश्रौ १, ५,
२८.

निर्-मुच्य वौश्रौ २, ११ : २५^३.

निर्-मोक- कम् विध १, ३९.

निर्/मुप्, निर्मुष्णाति वैताश्रौ
१३, ९.

निर्-मूल-लून^१- नम् वौश्रौ २१,
४ : ३.

निर्/मृ > निर्-मार^०- रम्^१
आम्रिगृ ३, ५, १ : १; ७, ३ : १;
वौपि १, १ : १; २, १, १.

निर्/मृज्, निर्माष्टि वैश्रौ १५, ८ :
४; काय ६०, ६; ९; वौगृ १,
४, ४२; गोगृ २, ७, १८.

निर्मृक्ष्वा भाश्रौ १, २, ५, ७^३;
निर्माज्जीः माश्रौ १, २, ५, ३-६^३;
णिर्निर्मृक्ष्म आपश्रौ २, ४, ४^३;
८; वौश्रौ १, १२:४^३; ७^३; ९^३;
११^३; १४; १९ : २१; भाश्रौ
२, ४, ४^३-८^३; ३, ५, १४; वैश्रौ
५, २:१५^३; ७, ५ : १३; हिश्रौ
१, ७, ७^३; १३^३.

निर्माज्यति कौस् ८०, ४७.

निर्-मार्ग^०- र्गः आग्निगृ ३, ७, ३ :
२१; वौपि २, २, २^०; हिपि १९, ८.

a) पाभे. पृ १४२१ i द्र. 1

b) विप. 1 वस. 1

c) = संध्या-1 कस. > कस. उप.

= परिधि-परिवेपाऽभ्रवृक्ष-प्रतिसूर्यकनती- 1

d) निर्वा^० इति जीसं. 1

e) वैप ३, ४५८ e द्र. 1

f) व्यप. 1 व्यु. ? 1 g) विशेषः मिमाय ऋ १, १६४, ४१ टि. द्र. 1

h) पाभे. वैप १ मुञ्चामि पै ३, १७,
४ टि. द्र. 1

i) पाभे. वैप १, १८२४ g द्र. 1

j) विप. 1 वस. > कस. 1

k) = मरणासन्नता-

(तु. सप्र. माश्र १४, ७, १, ४१ अणिमानम् इति पाभे.) 1

l) वा. क्वि. 1 m) पाभे. वैप १, १८२४ i द्र. 1

n) वैप १ द्र. 1 o) निमा^० इति B. (< निर्/मृज्) 1

निर्-मृजान- -नः कौसू २५, २८[†].
 निर्-मृज्य माश्रौ १, ३, ५, १४; कौसू
 ३, ९; २३, १५; ४२, ५.
 निर्-मोक- निर्-मुच द्र.
 निर्-यत् > निर्-यात्य माश्रौ २,
 ३, ३, ७; ४, ४, ४.
 निर्-यस् > १ निर्-यास^२- पाग २,
 ४, ३१; -सम् आमिष्ट २, ५, २;
 ४; वौष्ट ३, ६, १; वैध ३, ५, ८.
 २ निर्यास-(>^०सिक-पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 निर्-या, निर्यान्ति अप ७०^३, २१,
 २.
 निर्-याच्, निर्याचते वौश्रौ १४, ४:
 ३७; ऋनिरयाचयाः आपश्रौ १२,
 २३; ११; वौश्रौ ७, १४:
 २२; १४, ५: २६; वैश्रौ १५,
 ३०: ६.
 निर्-याच्य वौश्रौ १४, ४: ४०[†].
 निर्यह- पाठभो २, ३, १८८.
 निर्-लिख, निर्लिखत् माश्रौ ३, १,
 २; शंघ १८०.
 निर्लिख्यते आपश्रौ ९, १७, ४;
 हिश्रौ १५, ७, २४.
 निर्-लिखित- -तम् आपघ १, १७,
 १२; हिघ १, ५, ४४.
 निर्-लिह, निर्लिहि काश्रौ ४, १४,
 २७; माश्रौ १, ६, १, ४७;
 वैश्रौ २, ५: ११; हिश्रौ ३,
 ७, ९२; आपघ २, ११; वौष्ट १,
 ४, ४२.
 निर्-लिह्य शाश्रौ २, ९, १४; आपश्रौ
 ६, १२, २.

निर्-लेप^b- -पम् वैश्रौ ५, २: १६;
 -पानाम् विघ २३, ७.
 निर्लेप-निर्गन्ध- -न्धम् वौध ३, १,
 २२.
 निर्-लोम^{b,c}- -मम् कौसू १३८, ९.
 निर्-ल्वय(न>) नी^d- पाग ६, ३,
 १०९.
 निर्-वच्, निरुवाच वौश्रौ १८, २९:
 २, ४.
 निरुच्यते निस् ३, ९: ३९; ४६;
 वृदे २, ६९; या १०, ५.
 निर्-उक्त, क्ता- पाग ४, २, ६०^e;
 ३, ७३^e; ६, २, १४६^f; -क्तः
 शाश्रौ १७, ७, ९; आपश्रौ २२,
 ६, १६; -क्तम् शाश्रौ १३, १६,
 ५^३; आपश्रौ; अप १, १५, १^e;
 शंघ ११६: ३९^e; चव्यू २: २३^e;
 -क्ता हिघ २, १, २७^e; -क्ताम्
 वौश्रौ ३, २९: १४; जैश्रौ ३,
 १३; लाश्रौ ७, १२, १४; -क्ते
 वृदे ६, १३४; ऋप्रा १५, ११;
 शुप्रा ४, १९५.
 नैरुक्त- पा ४, ३, ७३; -क्तः
 साश्र २, २०१; -क्ताः वृदे १,
 २४; साश्र १, ११५; १४७××;
 या २, ८; १४; १६; ३, ८; १४××;
 -क्तानाम् साश्र १, ३४१; -क्ते
 वृदे २, ११९.
 नैरुक्त-समय- -यः या
 १, १२.
 नैरुक्तिक पा ४, २, ६०.
 निरुक्त-निधन^b- -नम् निस् ६,
 ११: १६.

निर्-उक्तवत्- -वान् वृदे २, १११;
 ११२; ११३.
 निर्-उच्य वौश्रौ २०, १९:
 १९.
 निर्-वक्तव्य- -व्यम् या १३, १३;
 -व्याः या १३, १२^३; -व्यानि
 या २, ७.
 निर्-वक्तुम् वृदे १, ९६.
 निर्-वचन- -नम् शाश्रौ ६, १, २३;
 वृदे २, २३; या २, १; -नाय
 आगिष्ट २, ४, १२: १२; या
 १, १९; २, ११; ३, २××; -ने
 वौश्रौ २०, १९: १८; भासू ३,
 ५.
 ?निर्वचनस्वाध्यायधर्म^b- -र्मः
 निस् ८, ७: २५.
 निर्-वचस्^१- -चः वृदे २, १०६.
 निर्-वाक->निर्वाका(क-अ)र्थ-
 -र्थेन निस् ६, ७: ३४; -र्थेन
 निस् ७, १: २; ४: ५; ४६.
 निर्-वाच्य- -च्यम् वृदे २, १०४;
 -च्ये ऋप्रा १५, ११.
 निर्वाच्य-लक्षण^b- -णम् वृदे
 २, १०३.
 निर्-च(न>)ण^१- पा ८, ४, ५.
 निर्-वध्, ऋनिर्वधिष्ट काश्रौ २५,
 ११; २३; वौश्रौ ६, ६: २३××;
 भाश्रौ; ऋनिर्वधीः वौश्रौ ७, ५:
 २७; १०: ७; १४, ४: ४५; हिश्रौ
 ८, ५, ३१; जैश्रौ ९: २९.
 निर्-वप्, निर्वपति आश्रौ ७, ५, ३^६;
 शाश्रौ १४, २, १७; १३, ५××;
 काश्रौ; आपश्रौ १३, २४, १^३;

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) समासान्तः अप् प्र. उंसं. (पा ५, ४, ११७) ।
 d) = सर्प-त्वच्- । < निर्-वल् इति पागम. । e) = वेदाङ्ग- । f) निरुक्त- इति [पक्षे] भाण्ड. ।
 g) सप्र. आपघ २, २, ५-उक्ता इति पागे. । h) पाठः ? ऋनिर्वचनः-स्वा^० इति शोधः संभाव्येत
 (उ. संस्कृतुः टि.) । i) = निर्वचन- । j) नाप. । k) सपा. आपश्रौ ७, ७, १ न्युप्य इति पागे. ।
 l) C. अनुनिर्वपति इति शोधुकः ।

निर्वपतः वौश्रौ २३, १ : ३५;
 भाश्रौ ८, ५, ९; निर्वपन्ते द्राश्रौ
 १४, २, १; लाश्रौ ५, ६, ४;
 निर्वपन्ति शाश्रौ १३, २९, २०;
 आपश्रौ ९, ४, ४; २३, १३, ५;
 वौश्रौ; ङनिर्वपामि आपश्रौ १,
 ७, ९; १७, १२××; काश्रौसं;
 गेय १, ७, ३^३; द्राय २, १, ९^३;
 ङनिर्वपन्तु कौसू ६८, १; २;
 निर्वपस्व काठश्रौ ११४; भाश्रौ
 २, ३, २, १^३; ङनिर्वप आपश्रौ
 ४, ४, ४; १२, ३, १५^३; वौश्रौ;
 निर्वपताम् वौश्रौ २८, ४ : १८;
 निर्वपन् भाशि ७६; निर्वपेत्
 काश्रौ ८, १, २; १२, २, १२××;
 आपश्रौ; द्राय ३, २, २^०; निर्वपे-
 र्न् शाश्रौ ३, ६, १; द्राश्रौ १४,
 २, २; लाश्रौ ५, ६, ५; १०,
 १७, १; निर्वपेयुः आश्रौ ३,
 १०, २४; ६, १२, ५××; वौश्रौ.
 निर्वपाप वाधूश्रौ ३, ७७ : ३;
 ङनिर्वपस्यामि आपश्रौ १, १७,
 २; ३; ४, ४, ४; वौश्रौ.
 निर्वप्यते वौश्रौ १४, १९ :
 ७^३××; वाधूश्रौ; या ७, १८;
 २०; ३१; निर्वप्यते हिश्रौ १६,
 ८, २०; निर्वप्यन्ते वौश्रौ २५,
 ३ : १५; २१ : १५.
 निर्वापय> या वौश्रौ ५, ५, ५^३;
 निर्वापयेत् क्रप्र ३, ४, ५.
 निर्व-उत्त- -सम् आपश्रौ ५, १९,
 २; ६, २९, १२××; वौश्रौ;
 -सान् आपश्रौ १, १८, २; ३;
 वौश्रौ; -से आश्रौ ३, १०, १०;
 शाश्रौ ३, २, ३; काश्रौ; -सेषु

आपश्रौ १, १८, २; १२, ४, ७;
 भाश्रौ १, १९, १२; माश्रौ ३,
 १, १६; वाश्रौ १, ७, २, १८.
 निर्वसा (स-आ)ज्य- -ज्यस्य
 वैश्रौ ८, ५ : ३.
 निर्व-उप्य शाश्रौ १३, २९, १२;
 काश्रौ १, ३, २२; ४, २,
 ३७××; आपश्रौ; हिश्रौ १, १;
 २७^३; वैश्र १, ६, ४^३; या १, ५.
 निर्व-उप्यमाण, न- -णम् आपश्रौ ४,
 ४, ५; वौश्रौ ३, १५ : ७; भाश्रौ;
 -णे वाश्रौ १, १, २, १८; -णेषु
 आपश्रौ ८, १७, २; वैश्रौ ९, १० :
 ११; -ने वैताश्रौ २, ७.
 निर्व-वर्ष- -पाणि आश्रौ २, ६,
 ४ : १७^३; -पान् आश्रौ २,
 ५, १० : १२.
 निर्व-वपण- -णम् काठश्रौ ७; वौश्रौ;
 -णात् काठश्रौ २२; वौश्रौ; -णे
 वौश्रौ २०, ५ : २९; ६ : ६××;
 -णेन वौश्रौ २२, ११ : ३.
 निर्वपण-काल- -ले आपश्रौ ६,
 २९, ७; ७, २२, ३××; वौश्रौ
 २८, ४ : २३; वैश्रौ ८, ४ : ३;
 २, १ : १०××; हिश्रौ.
 निर्वपण-तत्सः (ः) वौश्रौ २४, ३ :
 १०; ११.
 निर्वपण-न्याय- -येन वौश्रौ
 २८, ४ : २१.
 ?निर्वपणप्रभृत्याम् अत्राय ४, १.
 निर्वपण-प्रोक्षण-संवपन- -न्म्
 वाय १, १२.
 निर्वपण-प्रोक्षणा(रा-अ)धिचपन-
 संवपना(न-आ)दि- -द्दिनि
 वौश्रौ २८, ४ : ६.

निर्वपण-रुचना(न-आ)स्तरणा-
 (रा-आ)ज्यग्रहण- -णेषु मासू
 १२, ४, ४५.
 निर्वपणा(रा-आ)दिक^३- -कम्
 क्रप्र ३, १०, १३.
 निर्वपणा(रा-अ)न्त^३- -न्तम्
 वौश्रौ २९, १० : १५.
 निर्वपणा(रा-अ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ
 ६, १, ५४, मासू १२, १, १४.
 निर्वपणीय- -यम् शंघ १३२.
 निर्व-वप- -पन् आपश्रौ १०,
 ३०, ७.
 निर्व-वस(व्य>)व्या- -व्याः
 वौश्रौ २६, ५ : ४.
 निर्व-वपुम् कौश्र ३, १०, ३५; शांय
 २, १६, ६.
 निर्व-वप्यत्- -प्यत्सु द्राश्रौ १२,
 १, १६; १३, १, २०; १४, ३,
 १२; लाश्रौ ४, ९, १०; ५, २,
 २; ७, ११; -प्यन् वौश्रौ २,
 १९ : २; ११, २ : २××; वैश्रौ.
 निर्व-वप्यमान- -ने माश्रौ १, ४,
 १, १३.
 निर्व-वाप- -पः काय ४२ : १९;
 -पम् वैश्र १, १३ : ५; ४, ११ :
 ८; -पाः क्रप्र ३, ७, २; ३.
 निर्वाप-वत् काश्रौसं ४ : ३.
 निर्वाप-शेष-त्व- -स्वात् मासू
 १०, २, ६३.
 निर्वाप-अपण^३- -णम् वैश्र ४,
 ९ : ३.
 निर्वाप-स्थान- -नम् वैश्र ४,
 ४ : १.
 निर्वापा(प-आ)दि- -दि काश्रौसं
 ५ : ६; वैश्र ३, १३ : ३.

a) पाने. वैप १, १८२५ i d. । b) रुपा. निर्वपस्व <> निर्वप इति पाठे. । c) निर्व इति
 काचित्कः पाठे. । d) निर्व इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ [१२९, १, २४]) । e) निर्व इति पाठः ? यनि. शोधः
 (तु. BI.) । f) नाप. । उप. कर्मणि जप् प्र. ठसं. (पा ३, ३, ५८) । g) विप. । चसं. । h) स्नाहारे द्वच. ।

निर्-त्रापण- -णम् वैष् ५, १५ :
२१; बौध ३, १, १४.
निर्-त्राप्य शांश्री ४, १५, ८; वैष्.
निर्-त्राप्य- -प्याः वैष् ४, ७ : ६.
निर्-वर्तमान-, 'वर्त्ये प्रवृत्. निर्
वृत् द.
निर्-वस् (निवास) > निर्-वास्-
-स्यः विव ५, २०.
निर्-वह, निर्वाह वाधृश्री ३, ९९ :
७; ऋनिर्वहत् आपश्री ७, ४, ५;
भाश्री; निर्वहेयुः लाश्री ८, ५,
६; माश्रु २, ११, ४.
निर्वहत् काश्रु ४५, १० ऋ.
निर्वाह्यामि आपमं २, १५,
११.
निर्-दह शांश्री २, ८, ८; काश्री
४, १४, २.
निर्-दह्यमाण- -णम् काश्री २५,
१०, ५.
निर्-ऊढ, ढा, ङ्ढ- -ढम् आपश्री
१, १२, १; भाश्री १, १२,
११; हिश्री १, ३, २१; २, ७, २५;
अप ४५, १, १३; -ढ्या बौश्री
२२, १२ : ११; २५, ३२ : ३४;
-ढाः आपश्री १, १२, ११;
-ढ्याः ऋश्रु २, १०, १०८.
निर्-पशुवन्ध^b- -न्धः शांश्री
६, १, १८; आपश्री ७, २८, ५;
द्राश्री १३, ४, १६; वैष् १, १ :
९; गौध ८, १७; -न्धस्य आपश्री
७, २, १७ x x; बौश्री; -न्धानाम्
बौश्री २४, ५ : ४; -न्धे आपश्री
७, २६, १०; ९, १८, १४; हिश्री
७, १, ६६; ३, २१; ८, ७, ६१;

२५, ८, १४; -न्धेन वैश्री १०,
१ : १; हिश्री ७, ८, २; ८, १,
७; २, ६, १३; २२, १, २.
निर्-पशुवन्ध-यूप- -पः
भाश्री ७, २, ७.
निर्-पशुवन्ध-लक्षण, णा^c-
-णः वैश्री १२, २० : १५; -णाम्
वैश्री १३, १६ : ८.
निर्-पशुवन्ध-वत् आपश्री
११, १६, २; १३, २३, ७; १९,
१, २; १६, २; वैश्री ११, २ :
२; १४, १४ : १.
निर्-ढो(ढ-उ)प(घा >)व^c-
-घात् या ४, २५.

निर्-वा > निर्-वाण- पा ८, २,
५०.
निर्-वाक्, -वाच्य- निर्-वच् द.
निर्-त्राप- प्रवृत्. निर्-वप् द.
निर्-वासस्^c- -साः शंघ ५१.
निर्वाहः अप ३०^३, १, ११.
निर्-विद्(लामे) > निर्-विण्ण-
-णस्य पावा ८, ४, २९.
निर्-विद्- पावाग ३, ३, १०८^d.
निर्-वेद् > द्वा(द-अ)वगध^e-
-धम् बौश्री १७, ४८ : १६.
निर्-विध् (<व्यध्), निरविध्यत्
या ६, १९; ३३; ऋनिरविध्यत्
या ६, ३३, १; ऋश्रु २, ७६;
उसू २, २३.
निर्-विश > निर्-विष्ट^f- -ष्टम्
गौध १०, ४१.
निर्-वेश^g- -शाः बौध २, १, ४५;
४८.

निर्-विश(द्वा >)ङ्क^h- -ङ्केन बौध

१, ४, १६.
निर्-विशेष- -वम् बौध १, ११,
२९ ऋ.
निर्-विष् > निर्-वेष्ⁱ- -पः आपव
१, २४, १०; हिघ १, ६, ५९;
-पम् आपव २, १०, १२; हिघ
२, ४, १२.
निर्वेपा(प-अ)भ्युपाय- -ये
आपव २, २६, २४^j।
निर्विद्यतानाम् वाश्री ३, ३, १, ३६.
निर्-वीर्य, र्या^k- -र्यम् शुश्रु १, ५;
-र्या कप्र १, ८, १८.
निर्वीर्य-ता- -ताम् आपश्री २, १४,
८; हिश्री १५, ४, १५.
निर्-वृत्, निर्वर्तते आपव १, २, ९^l;
२९, १४; बौध २, १, ५०; हिघ
१, १, ४२; ७, ७१.
निर्वर्तयति आपश्री १३, २४,
१४; हिश्री १, ६, ३; निस्सू २,
७ : २०.
निर्वर्त्यन्ते आशि ७, ४; निर्वर्त्यन्त
मिस्सू ६, ३, ४२.
निर्-वर्तमान- -ने आपश्री ६, २८,
१४; हिपि २२ : ७ ऋ.
निर्-वर्त्य काश्री २५, १२, १;
आपश्री १, २२, २ x x; बौश्री.
निर्-वर्त्य- -त्यम् काश्रु ४४ :
१६.
निर्-वर्त्यमान- -न्तम् आपश्री ५,
१०, १२.
निर्वर्त्यमान-विक्रियमाण- -णे
पावा ३, २, १.
निर्-वृत्त- -त्तम् पा ४, २, ६८; ५,
१, ७९; -त्तस्य पावा १, ४, ४९;

a) पामे. वैप १, १८२६ d द.

b) = याग-विशेष-। कस.।

c) विप.। वस.।

d) वृ. पागम.। = निर्वेद-।

e) पृ २५७ f द.

f) = उपाजित-।

g) = प्रायश्चित्त-।

गस. उप. घञ् प्र.। h) = निर्वेश-।

i) सप्र. हिघ २, ५, २१९ चरितनिर्वेपम् इति पामे.।

j) चिचर्वते इति

पाठः! यनि. शोषः द.।

-त्त शान्त २, १२, ९; पा ४, ४, १९.

निर्वृत्त-ग्रहण- -णात् काश्रौ २२, ३, ४९.

निर्वृत्त-प्रतिपत्ति- -त्तौ पावा १, १, ५०.

निर्वृत्ता (त्-आ) घ(दि-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ४, २, ८५.

निर्वृत्ति- -त्ति: पावा १, १, ४५; ५०; मीस् ९, २, ३७.

निर्वृत्त्य द्राश्रौ ५, ४, ८.

निर्वृत्तेश- निर्वृत्/विष् द्र.

निर्वृत्त-प्रसृ. निर्वृत्/विष् द्र.

निर्वृत्/वेष्ट् > निर्वृत्-वेष्टित- -त: या ५, ८.

निर्वृत्/व्यू(वि/रु)ह्, निर्वृत्/व्यूह्यते अप १, ४४, ३.

निर्वृत्/वृञ्, निर्वृत्/वृञ् कौस् ७६, २.

निर्वृत्-व्रण^a- -ण: वैगृ २, ४ : १; -णम् वैगृ ७, ४ : ७.

निर्वृत्/व्रञ्च् > निर्वृत्-व्रत्क^b- -स्कम् काश्रौ २२, ३, ५; -स्के आपश्रौ १०, २०, ६.

निर्वृत्/वृत्ति^c, निर्वृत्तिपति हिश्रौ ४, ४, ६०.

निर्वृत्/वृत्ति^c: आपश्रौ ७, २२, ७; भाश्रौ ७, १७, ६^३; वैश्रौ १०, १७ : १०^३; हिश्रौ ४, ४, ५९.

निर्वृत्/वृत्ति^cपयेत् वाश्रौ १, ६, ६, १७.

निर्वृत्/हन्^d, निर्वृत्ति अप १, ४८, ५; निर्वृत्ति वाश्रौ १४, १ : १४; १७^३; कौशाशि १२८; १२०; निर्वृत्पात् तैत्रा ७, ३^३; नाशि १, ६, १५; निर्वृत्पात् शैशि १५४; माशि ६, ६; याशि १, २४.

निर्वृत्तान या १२, १४^३; निर्वृत् (जघन्य) ऋद्रा ७, ४६^३.

निर्वृत्तयते आपघ १, २४, २५; २८, १८; २९, १; हिघ १, ६, ७४; ७, ५३; ५७.

निर्वृत्-घात- -त: अप ६१, १, २७; ६७, ६, १××; आपघ; -तस्य अप ६०, १, ५; -ता: अप ५८^३, १, १; ६०, १, १; ६४, २, ७; -तान् अप ६४, १, ४; -ते गोय ३, ३, १९; कौस् १४१, २०; अप ७१, १६, ३; वाघ १३, ३२; -तै: अप ७०^३, ११, २९.

निर्वृत्त-भूकम्प-दिग्दाहा(ह-आ) दि-विवर्जित- -त: अप ७०, ८, ३.

निर्वृत्त-भूमिकम्प-राहुदर्शनो- (न-उ)ल्का- -ल्का: गौघ १६, २२.

निर्वृत्त-भूमिवेगो (ग-उ)ल्का- पात-दिग्दाह-पाञ्चशोणितमांसा- स्थिसदधिलाजगौरवर्ष- -षेणु शंघ ४७.

निर्वृत्त-वत् कौस् १४१, ३३.

निर्वृत्ता(त्-आ)दि- -दय: कौस् १४१, ३३.

निर्वृत्ता(त्-उ)ल्का- -ल्का: अप ५७, १, २; २, २; ३, २; ४, २.

निर्वृत्-हन्तोस् (:) वौश्रौ १४, ४: ४२.

निर्वृत्-हस्त^b- -स्त: कौस् १४, ७; अप ३२, १, १३; अत्र ६, ६६.

निर्वृत्-हस्त^b- -स्त्यम् वृदे ८, ९४^३.

निर्वृत्/ह<>म्, निर्वृत्ति वौषि ३, १२, ३०; वैगृ ३, १४: १४; निर्वृत्ति हिपि १३: ४; २३: १; गौषि १, १, १५; विघ १९,

५; निर्वृत्ति वौश्रौ १८, ४७: ६^३; निर्वृत्ति शान्तौ १३, १२, १२; अप; निर्वृत्ति आपश्रौ १४, १५, १^३; ३१, ८; हिश्रौ १०, ७, १७; निर्वृत्ति: आपश्रौ १०, २०, ७; कप्र ३, २, ५; विघ १९, ३.

निर्वृत्-जभार या १०, १२^३; ऋद्रा ५, ३६; निर्वृत्तिहार या १०, १२

निर्वृत्तिरयेत् विघ १९, १.

निर्वृत्तिरिषेत् काय ३, १; आपघ २, ८; वौश्र २: ३.

निर्वृत्तिरिषेत्- -षेणु काय ३, १; आपघ २, ८; वौश्र २: ३.

निर्वृत्तिहार- -र: माश्रौ ५, २, ७, १; आपघ १३, १०^३; वौश्र २: ११.

निर्वृत्तिहत- -ते काश्रौ १०, ३, ८; आपश्रौ ९, १, ६^३; भाश्रौ ९, १, ६^३; हिश्रौ १५, १, ६^३.

निर्वृत्तिहत्य आश्रौ ६, १०, १; काश्रौ.

निर्वृत्तिहस, निर्वृत्तिसेत् ऋद्रा ४, ९०.

निर्वृत्तिहसित-> -तो(त्-उ)पसर्ग^a- -र्ग: या २, १७; ६, ११.

निर्वृत्तिहास- -स: आश्रौ ६, ६, ६^३ काय ३, १; २; ११; आपघ १, ६; २, १७; हिघ ४, ३८^३ नाशि १, ५, १७.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

निर्वृत्तिहास-विवृत्ति- -वृद्यो: काय १, २४.

a) विप. 1 वस. 1 b) वैष १ द्र. 1 c) विपयति वृत्ति: (तु. आपश्रौ ७, २२, ८) । d) पा ८, ४, १७ परावृष्ट: द्र. 1 e) दहन्ति इति B. 1 f) सप्ता. निर्हार: <> निहास: इति पाभे. 1 g) पाभे. पृ १६२ h) द्र. 1

नि-लिप्य माश्रौ ६, १, २, १२.
 नि-लिप्य- पात्रा ३, १, १३८;
 -कम्पा: वौश्रौ १०, ५० : १७;
 आपमं २, १७, २१.
 निलिप्य-नामन्- -न्नः अअ ३,
 २६.
 नि-ली, निलयते वौश्रौ १४, २८ :
 १०; नि(लयन्ताम्) कप्र ८,
 ४६कं.
 नि-ल्य- > व्या(य-अ)र्थ- >
 ०धिन्- -र्थी काट्र ४, ४.
 नि-लाय आपश्रौ ५, २, ४कं.
 नि-लीन- -न्म् वौश्रौ १४, २८ :
 १०; -नैः वाघ ३, ४६.
 नि-लीन- (> ण-क- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 नि-लोप- -वे अप्रा ३, ३, १८२.
 नि-व- (> नैव्य- पा.) पाग ५, १,
 १२४.
 नि-वक- > नैवकि- (> कायन-
 पा.) पाग २, ४, ६१.
 नि-वक्ष- -क्षसः आपश्रौ २०,
 २३, १२; वौश्रौ १५, ३८ : १४;
 २६, ११ : २८.
 नि-वच् > नि-वचन- > नै-वृ
 पा १, ४, ७६.
 नि-वत्- -वतः आश्रौ २, १४, १२कं;
 शाश्रौ; या १०, २०.
 नि-वत्- > नैवति- (> तायन-
 पा.) पाग २, ४, ६१.
 नि-वन् > नि-वा(न्य >)न्या-
 -न्याम् काश्रौ २५, ८, ८;
 -न्यायाः काठश्रौ ४०.
 नि-वान्या-दुग्ध- -नघे काश्रौ ५,

८, १८.
 नि-वान्या-वत्स- -त्सम् काश्रौ
 ५, ६, २८.
 नि-वप्, नि-वपति काश्रौ ४, ८,
 १४; ५, ३, १८; ४, १५xx;
 आपश्रौ; वौश्रौ ९, ५ : २०;
 वौषि ३, २, ११६; नि-वपतः
 वौश्रौ १२, १५ : १४; माश्रौ
 १, ७, ४, ५; वाश्रौ १, ७, २, २०;
 नि-वपन्ते वैताश्रौ २३, १३;
 नि-वपन्ति काश्रौ १०, ८, ६;
 २४, ६, २; वौश्रौ १२, ३ : ३२;
 वाधूश्रौ ४, ११४ : १; जैश्रौ
 ६ : १; नि-वपामि काश्रौ २५,
 ८, ५; आमिष्ट ३, ११, २ : ७;
 हिपि १० : ४; नि-वपन्तु निघ
 २, १९कं^h; नि-वप आमिष्ट ३,
 ११, २ : ७; नि-वपेत् आपश्रौ
 १८, १८, १६; २१, १३, १४xx;
 काश्रौसं; नि-वपेरन् हिश्रौ १६,
 १, २८; नि-वपेयुः काश्रौ २५, १३,
 ४३; काठश्रौ १५८; द्राश्रौ ६,
 ३, १८; लाश्रौ २, ११, १२;
 १०, १५, १३; आमिष्ट ३,
 ५, ७ : १४; वौषि १, ६ : ९;
 नि-वपेयम् आमिष्ट ३, १२, १ :
 २०.
 न्य-वाप्सीत् वौश्रौ ६, २९ : १६.
 न्युप्यते वाधूश्रौ ३, ४१ : ३३;
 नि-वापयते भाट्र २, १९ : ८.
 नि-वपत्- -पन् आपश्रौ ५, ९, ७xx;
 वौश्रौ; -पन्तौ या ६, २६.
 नि-वपन- -नः वाश्रौ १, ६, १, २५;
 -नम् काश्रौ ७, ७, २; माश्रौ;

-ने आपश्रौ २, २, २; वौश्रौ
 २०, ३ : २७; १६ : ५८; २१,
 १५ : १०; २२, ४ : १.
 नि-वपना (न-आ) दि- -दि
 आपश्रौ १०, २४, १; १६, १७, १;
 वैश्रौ १८, १४ : १७.
 नि-वपना (न-अ) न्त- -न्तम्
 आमिष्ट ३, ७, ३ : २८; वौषि २,
 ३, २; हिपि १२ : ८.
 नि-वपस्यत्- -प्यन् वाश्रौ १, ४,
 २, ३; ६.
 नि-वापिन्- पा, पाग ३, १, १३४.
 नि-वाप्य शंघ १३२.
 न्यु(नि-उ) स, सा- -सः अप्राय ३,
 १कं; -सम् आपश्रौ २, १,
 ८; माश्रौ ६, १, १, २८; वैश्रौ ४,
 ११ : १५; -सं आपश्रौ ५, ९,
 ११; माश्रौ १, ५, २, १२; हिश्रौ
 ३, ३, ३३; -सः आपश्रौ १२,
 १८, ४; -सन् वैश्रौ १, १०-
 ५; -सायाम् द्राश्रौ १४, ३, १२;
 लाश्रौ ५, ७, ११; -सेषु वैश्रौ
 १३, २ : ४; -सौ वैश्रौ १८,
 १३ : १.
 न्यु(नि-उ)प्य शाश्रौ ८, ८, ११;
 काश्रौ; आपश्रौ ७, ७, १¹; न्युप्य
 ऽन्युप्य काश्रौ १८, ६, ७.
 नि-वर्त- -वर्तक- प्रय. नि-वृत् द्र.
 नि-वस् (निवासे), नि-वसति अप ४,
 ६, १; ६९, ६, ५; न्य-वसत् वृदे
 ७, १४७; नि-वसेत् अप ७१, १५,
 ४; नि-वसेत् वैश्र ३, १६ : ४;
 विघ ७१, ६४; वैघ २, ५, ८; ३,
 १४, ८.

a) विप. । वस. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) वैप १ द्र. । d) = मृतवत्सानोः । गस. उप. कर्मणि प्यत् प्र. ।
 e) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. । f) नि-वपति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पूर्व स्थलम्) । g) नि-वपेत् इति B. ।
 h) वघे वृत्तिः । i) = नि-वपन-मन्त्र- । j) तु. पाका. पासि. । नि-वापिन्- इति भारद्वा. । k) पासे. वैप १,
 १८५४ ० द्र. । l) पासे. पृ १४२३ । द्र. ।

निवासयेत् शंघ ३३४.
 नि-वसत्-सतः या ९, १०; -सङ्घिः
 शंघ २६२; -सन् वाघ ८, ७;
 विघ ५१, ६६; ६७, ३४; -सन्तम्
 या ५, ९; १०, १२.
 निवसन्ती-न्त्या या १०, २१.
 शनि-वास^३- पाग ४, ४, १०३; ८,
 ४, ३९; -सः शंघ २६२; पा
 ४, २, ६९; ३, ८९; -सात् वृदे
 १, २५; २९; या १०, ४४; ११,
 ४५; -से अण ४८, २८; पा ६,
 १, २०१.
 नैवासिक- पा ४, ४, १०३.
 निवास-कर्मन्^४-र्मणः या २,
 ६; १०, १४; १६.
 निवास-चित्ति-शरीरो(र-उ)पस-
 माधान-नेपु पा ३, ३, ४१.
 निवास-नामन्-म या ३, ३.
 निवास-लक्षण-णः पावा ४,
 २, १३८.
 निवास-विवक्षा-क्षायाम् पावा
 ४, २, ५२.
 निवास-विषय-स्व-स्वात् पावा
 ४, २, ५२.
 नि-वासिन्-पा, पाग ३, १, १३४.
 नि√वस् (आच्छादने), निवस्ते काश्रौ
 १५, ५, १२.
 नि√वह^५, नि...वहः^६ शाश्रौ १२,
 १६, ११.
 नो(<नि)वाह^७-हस्य वाश्रौ ३,
 ३, २, १४^१.
 नि√वा^८
 निवाकु^९-(> नैवाकवि-पा.) पाग
 ४, १, ९६.

रनि-वात-त्म् काश्रौ २५, १०,
 २४; -तै आपश्रौ ९, १०, ६;
 माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,
 ५, ५, ७; वैश्रौ.
 रनिवात-(> निवातक-, नैवातायन-
 पा.) पाग ४, २, ८०.
 नि-वान्या-प्रय्. नि√वन् द्र.
 नि-वापिन्-, प्य- नि√वप् द्र.
 निवायिन्- निवापिन्- टि. द्र.
 नि-वारयां/कृ, णितुन् नि√वृ
 (प्रतिघाते) द्र.
 निवावरी^{१०}-री^१ ऋत्र २, ९, ८६;
 -री^१: सात्र १, ५६०; २, ३८२;
 ३८३.
 √निवास (= नि√वास् [वैप२ द्र.])
 पाधा. डुरा. उम. आच्छादने.
 रनिवास-(> ल-क- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 निविञ्चयायन-नाः वौश्रौप्र १७ :
 १०.
 नि√विद् (ज्ञाने), निवेदयते वौश्रौ
 २, ९ : १४; वौगृ; निवेदयति
 आग्निष्ट २, ५, ११ : १८xx; वौगृ;
 निवेदयन्ते हिपि १८ : २; ७; ९;
 निवेदयामि अण ४०, २, ९;
 निवेदयेत् आण ४, ७, २७;
 कौगृ ३, १४, ८; शांगृ; निवेदयेयुः
 वैश्रौ २, १० : १९.
 नि-विद्^{११}-विद् शाश्रौ ८, ७, १;
 ११, २, ५; काश्रौ १२, ७, ४; अण
 ४८, १०२^१; निघ १, ११^१; चा
 ७, २३; २४; -विस्सु आश्रौ ४,
 १; १३; वृदे ८, १००; -विद्:
 आश्रौ ५, ९, १६; ६, ६, १७xx;

शाश्रौ; -विद्ऽ-विद्ऽ शाश्रौ
 ८, ७, ७; -विद्म् आश्रौ ५, ९,
 १२; १४, २०xx; शाश्रौ; -विदा
 शाश्रौ १८, ९, ७; -विदाम् आश्रौ
 ५, ९, १९; वृदे ८, १०४; -विदि
 वृदे ३, ५०; ७८; -विदे आश्रौ
 ६, ३, १८; शाश्रौ ७, २१, ८; ९-
 ६, १७; १८, २१, ३; -विदौ
 शाश्रौ १६, ८, ५.
 निविच्चं (<शं)सम् शाश्रौ
 १०, ६, १३; १२, १७, ३; २१-
 ६२.
 निविद्-धान-नम् आश्रौ ७,
 ७, ६; शाश्रौ १४, ५३, ७; ५४,
 ४; -नयोः आश्रौ ९, ३, २२;
 -नस्य शाश्रौ १४, २१, २;
 -नानाम् शाश्रौ ११, ३, ३; १२,
 ९, ३; छुस् १, ८ : २२; -नानि
 शाश्रौ १४, ४५, २; १५, १०, ६;
 -ने आश्रौ ८, ७, २१; १०, ५,
 २२; शाश्रौ.
 निविद्धानीय, या-नम्
 शाश्रौ १२, ८, ९; -या शाश्रौ
 १८, ९, ४; -यात् शाश्रौ १२, ८,
 ६; -यानाम् आश्रौ ५, १०, १६.
 निविद्-वर^{१२}-रः शाश्रौ ७,
 २१, ९.
 निवेदन-नम् आपघ २, १७, ११;
 हिघ २, ५, ४०; -नानि वौगृ ३,
 ३, २३; -ने अण ४०, २, ९.
 नि-वेदयित्वा शांगृ २, ६, ७; पाण २,
 ५, ८; वौगृ ४, १२, २; अण ११,
 १, १२.
 नि-वेदित-त्म् अण २०, ५, ६;

a) उप. भावाद्यर्थे घञ् प्र. । b) विपः । वत्. । c) पा ८, ४, १७ परानृष्टः द्र. । d) पाभे.
 वैप १, १८२९ d द्र. । e) नाप. । f) सप्र. आपश्रौ १८, १३, ९ परिनदीनाम् इति पाभे. । g) व्यप. ।
 व्यु. ? । h) निवाकु- इति पाकाः । i) परस्वरं पाभे. । j) वैप १ द्र. । k) सप्त. उप. = २दक्षिणा-
 (वृ. भाष्यम्) ।

वाध ११, २५; वौध २, ८, १४.
 नि-वेद्य आमिष्ट १, ७, १: १३; ३,
 ११, २: २; वायु.
 नि-वेद्य- > नैवेद्य- द्यम् आमिष्ट
 २, ४, १०: ३९; शंघ १९१; विद्य
 ६५, १३; -द्यैः कप्र १, १, १४.
 नैवेद्या(द्य-अ)र्थ- र्थे विद्य
 ६६, १२.
 नि/विद्य (<व्यद्य्), निविध्यति
 कौस् ४४, १३; निविध्य कौस्
 २५, २४†; ण्याविध्यत् या ६,
 १९†; ऋपा २, ७६; उस् २, १.
 नि/विद्य, निविद्यन्ते वौश्रौ १९,
 १०: २०†; निविद्यताम् वौश्रौ
 २, ५: २६†; निविद्यतात्
 आमिष्ट २, ४, ५: १८†; निवि-
 द्यध्वम् आगृ २, १०, ६;
 न्यविद्यन्त या ५, २५†; निवि-
 शेत् वाध २०, ७-९; निविशेत्
 वाध २०, १०.
 निवेशय आपमं २, १७, १३†;
 निवेशयेत् कप्र ३, २, ३; वृदे २,
 १००; माशि २, ६, नाशि १, ६,
 ९; २, २, १२.
 नि-विश्य लाश्रौ १०, १५, १३; हिद्यु.
 नि-विद्य, द्य- ण्टः आश्रौ ३, ८, १;
 शाश्रौ; -ण्टम् वौश्रौ २, १:
 ११; आमिष्ट १, ५, २: १३;
 जैद्य २, १: १९; -द्यः आपमं
 १, २, ४†; सु २६, १; -द्ये
 वैद्य ५, १: १४; विद्य ९९, २०;
 -ण्टौ^d आपश्रौ ११, ५, ३;
 वैश्रौ १४, ४: १४.

निविद्य-च(क) > का^१ - -का
 आगृ १, १४, ७.
 नि-विद्यि- -द्यै पायु १, ४, १६.
 नि-वेद्य- पाग ८, ४, ३९;
 -शः मीस् ४, ४, ३४; १०, ८,
 ६४; -शम् कौस् १३५, ९†;
 -शात् मीस् ३, ३, ७; १०, ५,
 १७; -शौ आपध १, १३, १९;
 २२; हिद्य १, ४, ३२; ३५.
 नि-वेशन- -णनः काश्रौ १७, २,
 ५; आपश्रौ १६, १६, ५; वौश्रौ.
 णनिवेशनी- -नी आपश्रौ १६,
 १७, १७; वौश्रौ २, २१: ७;
 वाश्रौ १, ४, ४, ४१; हिश्रौ ११, ६,
 २१; आपमं २, १५, २; १८, ८;
 भागृ २, २: १७; ४: १४; हिद्य
 २, १७, ९; या ९, ३२.
 नि-वेशन- -नम् आश्रौ २, १२,
 २†; आगृ २, २, २†; ३, ३;
 ४, ६, ७; पायु; -नस्य वाध १५,
 ६; -ने शाश्रौ ८, २१, १†.
 निवेशन-द्वार- -रे पायु ३, १०,
 २४; आमिष्ट ३, ४, ४: २२.
 नि-वेशिन्- पा, पाग ३, १, १३†.
 नि-वेद्य वैद्य २, ६: ११; ९: ७;
 ५, १३: १७; वैद्य.
 नि-वी(वि/ई)क्ष > निवी (वि-ई) द्य
 वैद्य ३, ६, १०.
 नि-वीत- , णित्-प्रद्य. नि/व्ये द्र.
 नि/वृ(प्रतिघाते), निवारय आपमं २,
 ९, ५; निवारयेत् अप ६५, २,
 ११.
 नि-वारयां/कृ, निवारयांचकार या

२, १६.
 नि-वारयितुम् विद्य २०, ४६.
 नि/वृ(*भोजने) > नी (<नि) -वार-
 पा ३, ३, ४८; -राः वौश्रौ २४,
 ५: १७; शुप्रा ३, १०५; ५, ३७;
 -रैः विद्य ८०, १.
 नैवार- -रः शाश्रौ १५, २, १२;
 काश्रौ १५, ४, ९; वाश्रौ ३, ३,
 ४, ३; -रम् काश्रौ १४, ४, ११;
 आपश्रौ; -रस्य वाश्रौ ३, १, २,
 ३१; -रे आपश्रौ १८, ४, १;
 -रेण काश्रौ १४, ५, १९; आपश्रौ
 १८, ६, १०; वाश्रौ ३, १, २, ३०;
 वैश्रौ १४, १६: ७; हिश्रौ १३,
 १, २५.
 नैवार-नोप- -पः आपश्रौ
 १८, ७, ९; हिश्रौ १३, २, ३८.
 नैवार-चर- -रुः काश्रौ १४,
 २, २६.
 नैवार-स्विष्टकृद्-इ(डा) > -
 ड- -उम् काश्रौ १४, ५, २८.
 नि/वृञ्, निवृणक्षि, नि/वृणक्षि या
 ५, १९†; ण्यावृणक् ऋपा २,
 ७६; उस् २, ३; ८, १६; १७;
 णि...वावृणक् ऋपा २, ७५.
 नि/वृत्, निवर्तते आपश्रौ १, १४,
 ८××; हिश्रौ; आपध १, २, ९^१;
 निवर्तन्ते भाश्रौ ६, १५, ६; द्राश्रौ
 ३, ४, ३३; लाश्रौ १, १२, १९;
 निस्; निवर्तत् शौशि २६७†^m;
 निवर्तताम् वृदे ५, ६१; णिनिव-
 र्तस्व माश्रौ १, ६, ५, १०^m; १२;
 ४, ४, २१; ३०; वाश्रौ १, ५,

a) = निवेदनीय-द्रव्य- । b) पा १, ३, १७ परामृष्टः द्र. । c) पामे. वैप १ परि. न्युच्यतु दि. द्र. ।
 d) पामे. वैप १, १८३५ b. द्र. । e) विप. । वस. । f) = दार-कर्मन्- । g) वैप १ द्र. । h) पामे.
 वैप १, १८३० k. द्र. । i) लु. पागम. । j) नुव-नोप- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । k) कव. > समाहारे
 दस. । l) पामे. पृ १४२५ k. द्र. । m) निवर्तव इति पाठः ? यनि. शोधः । n) पामे. वैप १,
 १८३१ m. द्र. ।

१, १२^{२०}; द्राश्रौ ९, १, ११^{२०}; लाश्रौ ३, ५, ११^{२०}; वैताश्रौ २८, २१; कौसू ७२, १४; निवर्त सु ८, ३; ४; ऋनिवर्तध्वम् शाश्रौ ४, १६, १०; ७, ६, ८; कौगृ ५, ८, ९; ऋय २, १०, १९; वृदे ७, २०; न्यवर्तत वृदे ५, ६०^२; निवर्तत माश्रौ २, २, ५, १; ५, २, १२, ४६; १५, ३३; हिश्रौ; निवर्तेरन् शाश्रौ ६३, २४, १७; द्राश्रौ ६, १, १९; २, २२; लाश्रौ २, ९, १६; १०, २१; पागृ ३, १०, ३२; वैगृ ५, ६ : ३.
निवृत्त वौश्रौ ११, ७ : ३९.
निवर्तयते आपश्रौ ८, ४, २; वौश्रौ; निवर्तयते आपश्रौ ८, ४, १; वौश्रौ; निवर्तयति शाश्रौ ९, १, ३; आपश्रौ; निवर्तयन्ति वौश्रौ १५, २२ : ११; ऋनिवर्तये आपश्रौ ८, ४, २; वौश्रौ; ऋनिवर्तयामि काश्रौ ५, २, १७; आपश्रौ ८, २१, १; वौश्रौ; निवर्तय माश्रौ १, ७, २, २३^१; निवर्तय वौश्रौ १४, १४ : १८^१; निवर्तयन् माश्रौ १, ७, ८, ८^१; ऋनिवर्तयन्^b आपश्रौ ८, २१, १; वौश्रौ ५, १८ : २१; हिश्रौ ५, ६, ४; निवर्तयित आश्रौ २, १६, २३; निवर्तयेत् वौश्रौ २८, ८ : १३^१; निवर्तयेत् वैश्रौ १७, १८ : १०; वैगृ ३, २२ : ८; अप २६, २, ८; आपघ १, ४, २७; हिघ १, १, १४६;

निवर्तयेरन् आमिगृ ३, ६, २ : २; वौपि १, ९ : १२.
ऋनिवृत्त^c आपमं २, २२, ९; भागृ २, २७ : २.
ऋनिवर्त^d -र्तः आपमं २, २२, ९^०; हिगृ १, १४, ४^०.
निवर्तक- -कः पावा १, ३, ११.
निवर्तकन्व- -न्वात् पावा १, १, १; ४८×४.
निवर्तन^e -० ऋन वौश्रौ १४, १४ : १८; आपमं २, २२, ७; -नम् काश्रौ १५, ८, २४; आपश्रौ; या ४, १४^१; -नानि वौघ ३, २, २^२; -ने वौश्रौ २१, २ : ८; आपमं २, २२, ८^१; वौगृ ३, ५, १८^१; -नेन वौश्रौ २१, २ : ८-१०.
निवर्तन-मन्त्र- -न्त्रः वैश्रौ ८, १४ : ९; ९, १२ : १५.
ऋनिवर्तमान- -नाः कौसू ९४, १४; ९५, ३.
निवर्तयिष्यमाण- -णः काश्रौसं ३०, ४.
निवर्त्य वैश्रौ १४, १७ : ३.
निवर्त्यमान- -नम् वौश्रौ १४, १४ : १७.
निवृत्त,त्ता- -त्तः शाश्रौ १२, २२, २^१; आपश्रौ २४, ४, १; हिश्रौ ३, १, २२; भागृ २, २७ : २^१; ३, २० : १; वौघ ४, ७, १; आशि ८, ७; -त्तम् आश्रौ १, १२, ३४; लाश्रौ १०, १०, ११; आपघ १, ८, ३०; हिघ १, २, ११८; -त्ताः अप्राय ६, २; वाघ

६, २५; -त्ते कौगृ १, ११, १; शांगृ १, १८, २; वौपि ३, १०, १०^१; कौसू ३५, ७; गौघ २८, २.
निवृत्त-त्व- -त्वात् पावा ६, १, ६८; ७, २, ५९.
निवृत्त-धर्म-कर्मन्^f -र्मणः वाघ २१, १६.
निवृत्त-शराव-संपात^g -त्ते वौघ २, ६, २४.
निवृत्ता(त्-अ)धिका(र<)>रा^h -राम् शंघ ३३४.
निवृत्ता(त्-आ)शिस्^k -शीः गौघ ३, १६.
निवृत्ति- -त्तये भाशि १; -त्तिः आश्रौ १२, ८, २; काश्रौ २२, २, १५; लाश्रौ १०, ४, २; १०, १२; कप्र; -त्तिम् लाश्रौ १०, ३, २१; मीसू ९, २, ३४; -त्तेः आपघ १, ८, २९; हिघ १, २, ११७; मीसू १०, ३, ३३; -त्तौ कौशि १७; पावा ६, १, २.
निवृत्ति-कर्मन्^k -र्म या २, १३.
निवृत्ति-दर्शन- -नात् मीसू ३, ७, १२.
निवृत्ति-स्थान- -नेषु या २, १.
निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, ३, ६७; ७, १, ९६; २, ४४^३.
निवृत्त्या(त्ति-आ)चार-भेद- -दात् वैघ १, १०, १.
निवृत्त्य वाश्रौ २, १, ३, ३६; ४, २७; कौसू ४७, ४४.
नी(<नि)-वृत्^l - पावाग ३, ३, १०८.

a) पाभे. वैप १, १८३१ m द्र. । b) पाभे. वैप २, ३४. न्यवर्तयन् तैत्रा १, ५, ५, ६ टि. द्र. । c) सपा. न्यवीवृत्त <> न्यवीवृधः इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) सपा. निवर्तः<>निवृत्तः इति पाभे. । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । g) पाभे. वैप १, १८३१ v द्र. । h) निवृत्ते इति R. । i) विप. । वस.>दस. । j) विप. । वस. > पस. । k) विप. । वस. । l) तु. पागम. ।

निवृध्, ?न्यवीवृधः हिट् १, १४, ४^३.

निवृध्, नि...वृधन्ति वाधृश्री ३, ६९, २१; ऋनिवृधत् आपश्री ४, ११, ५; भाश्री ४, १७, २; हिश्री ६, ३, ८; भाशि ८२.

निचेदन- प्रम्. निवृध् (ज्ञाने) द्र. शनिवेश- निवृध् द्र. रनिवेश- (> नैवेश- पा.) पाग ४, २, ७५.

१-रनिवेशन- प्रम्. निवृध् द्र. निवेष्ट, निवेष्टयति वाश्री १, ४, २४; हिश्री ६, ४, २०; ऋनिवेष्टयामि आपश्री ४, १५, ३; भाश्री ४, २१, ३; माश्री १, ४, ३, १२; वाश्री १, १, ४, २४; हिश्री ६, ४, २०; निवेष्टयेत् माश्री ४, २१, ३.

निचेदन- नम् कौस् ३६, ५.

निचेष्टय वाश्री १, २, २, २.

१निचेष्टय^३- > रनिवे (ष्टय >) ष्या^८- ष्याः वीश्री १२, ८ : १२; २६, २ : २.

निचेष्टय^४- पाठो २, २, २०९.

१निचेष्टय^५- > रनिवे (ष्य >) ष्या^८- ष्याः काश्री १५, ४, ३२.

निचेष्टये, निचेष्टयते भाश्री ८, २०, १३. निवीत- तम् हिश्री ५, ४, ९२; आम्रिट् २, ७, ११ : ११; वीध १, ५, ७; मीस् ३, ४, १; -ताः

काश्री २२, ३, १६; आपश्री १९, १६, ६^१xx; हिश्री; -तानि आपश्री ८, १६, १८; -ते काश्री १५, ५, १३.

निवीत-वत् मीस् १२, १, १६. निवीतिन्- तिनः आम्रिट् १, ३, २ : १४; ३, ७, ४ : ३५; वीध ३, ९, ५; वीध २, ४, २१; हिट् २, १९, ३; -ती कौस् २, ५, १; आम्रिट् २, ६, ३ : ३५; वीध १, ४ : २१; ५ : १२; वीध २, ५, २७; वैध २, ९, २.

निशू पावा. भ्वा. पर. समाधौ.

निशू- पा ६, १, ६३; निशम् अप ६८, ३, ६; निशि माश्री ५, १, १, १५; हिश्री २२, २, १०; आपमं.

निशि-यज्ञ- त्रे मीस् १२, २, १४.

निशाब्- व्दः शुभ्रा ३, १८.

निशम्^६, निशामये काट् ४१, १८^१.

निशीशमत निस् ८, ४ : ३३.

निशान्त- पाग ४, २, ९०^१;

-तम् आश्री^१ १०, ७, ३, ४; ६.

निशान्तीय- पा ४, २, ९०.

निशामित^१- तम् काट् ४१, १८

निशा^१- शा विध २०, १८; -शाम कौस् ३, ९, १४; शांत् ४, ७, १६; अप ४, ३, ४; -शायाः अप्राय ४, ४; आपध १, ३२, ११; हिध १, ८, ५३^६; -शायाम् काश्री

४, ७, २०; आपश्री.

नैश- पा ४, ३, १४; -शः अप ३३, ७, ६, -शम् अप ४, ४, १२.

नैशिक- पा ४, ३, १४; -कम् वैध २, १०, ४.

निशा-कर- पा ३, २, २१; -रम् अप ५१ ३, २; -रे विध ९९, ९.

निशा-कर्मन्- मीस् कौस् ८, १.

निशा-काल- ले कौस् १, ७, १; शांत् १, ११, २; काट् २१, १; अप ३३, ४, ३.

निशा-चर^१- रान् वृदे ६, ३२.

निशा(शा-आ)सन^३- नः वीध ४, ५, ५.

निशा-संध्यो(न्या-उ)ट्क- कैपु गीध १६, १२.

निशास्, नि...लशिपन् वीश्री ८, १४ : ३९^१.

निशा(स्त >)स्ता- स्ताः वृदे ८, १०१.

निशाता^१- तायाम् वीश्री १३, ३ : ८^१.

निशि-यज्ञ- निष्- द्र.

निशी > निशाधिन्- पा, पाग ३, १, १३४.

निशीथ^३- पाठ १, ९^०; -थे वृदे ३, १०.

निशीथ-चारि(न् >)णी- णी आपमं २, १४, २^१५; वैध ३, १५ : ६.

a) पासे. पृ १४३० C द्र. 1 b) = जलार्त- (तु. उ L मा १०, ३)। c) विप. (२अप्-) तत्रभवीये यति प्र. य-लोपः। d) = १निचेष्ट- L तु. वैप १, १८३२ f। e) = १निचेष्ट- (तु. म L मा १०, ३)। f) वैप १ द्र. 1 g) कस. पूष. उपसर्गंतर-। h) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. 1 i) = निवास-गृह- (तु. पागम ३०२ [अन्तःपुर-])। अघिकरणे कः प्र. (पा ३, ४, ७६) उपसर्गादीर्घश्च (तु. अक्षी. शकः PW. MW. प्रम्.; वैतु. [पदान्तर] अक्षी. वस. इति, अभा. निशा- + अन्त- (< √सम्) इति)। j) = संप्रदायागत- (तु. PW. प्रम्.)। k) शायाम् इति पाठः? यति. शोधः (तु. आपध.)। l) = राक्षस-। m) विप.। उस. उप. कर्तरि < √साम्। n) नाप.। व्यु. ?। o) < निशी। p) पासे. पृ १३६० f द्र. 1

नि-शुष्म^१- -प्मः वौश्रौ ३, १८ :
१; भाश्रौ ४, १२, ७.

नि-शुष्म^२- -म्माः अप ४८, ११५;
निघ ४, ३; या ६, ४.

नि-शु^३, निश्रयति या ४, १८.

निश्र^४- > निश्र-त्वच-, निश्र-प्रच-
पाग २, १, ७२^५.

नि(स्>)श^५च^६; निः...चर्चरीति
शांश्रौ १२, १५, ११^६.

निश-चरत्- -न्तम् माश्रौ १, ८,
३, ३^१.

नि(स्>)श^७च^८ल^९- -लाम् अप
३६, ६, २; -ले विघ १, १३.

नि(स्>)श^{१०}च^{११}वि^{१२}> निश-चय- पा
३, ३, ५८; -चः जैश्रौका २९;
८८; कप्र १, ६, ११; २, ७, ८;
वाध ६, १; वौध २, २, ६८;
पावा १, ४, ५१; -यम् अप
२, १, ७; ७०^३, २३, ७; विघ १,
२१; नाशि १, १, १; -ये अप
७०, १२, १; -येन या ७, २०;
१४, ३३.

निश्रय-लिङ्ग^{१३}- -ङ्गः या १४, ३.

निश-चित्त- -त्तः अप ७१, १४, ५;
अग्र ८, १; अग्रम् ८; -तम्
अप ७०, ११, १; विघ ९३, १४;
ऋग्र ३, ३९; -ताः अप ५ : ४;
-तौ अप ५ : १९.

निश-चित्त्य अप ३१, ३, ३.

नि(स्>)श^{१४}च^{१५}प^{१६}> निश-चूप्य
माश्रौ ५, १, ९, ९.

निश्र^{१७}- (> नैश्रय- पा.) पाग ५,

१, १२४.

नि^{१८}श्र^{१९}थ^{२०}, नि...शिश्रन्थत् या ११,
४७^१.

नि^{२१}श्र^{२२}थै^{२३}> नि-श्रयान- -नः शाश्रौ
१५, २१, १.

नि^{२४}श्र^{२५}थ^{२६}> नि-श्रथ्य > थ्य-
हारिद्^{२७}- -रिणः या ६, ४.

नि^{२८}श्र^{२९}आ, निश्रपयन्ति आमिष्ट २, ५,
८ : ८.

नि^{३०}श्रि^{३१}> नि-श्रय (रा>)णी^{३२}-
-णीम् काश्रौ १४, ५, ५.

नि-श्रयमाण- -णः वौश्रौ ७, ११ :
५; १३ : १४; १६ : ५; ६; ४१.

नि^{३४}श्रु^{३५}> नि-श्राविद्- पा, पाग
३, १, १३४.

नि-श्रेणि^{३६}- -ण्या आपश्रौ १८, ५,
१३^१!

नि^{३८}श्रि^{३९}प^{४०}, निश्लेषयतः भाश्रौ ८,
६, ७.

नि-श्लेष्य आपश्रौ ८, ६, १२.

नि^{४२}श्र^{४३}व^{४४}स्, निश्रसन्ति अप ७०^३,
३०, १; याशि २, ६६.

नि-श्रसत्- -सति अप ७२, १, ५.

नि-श्रास- -सः याशि १, ७४.

निश्रास-ज- -जाः अप ५२,
१२, ३.

नि(स्>)श^{४६}द्, निःश्रीयताम्
कौस् ८५, २०; ८६, ९.

निःश्रीयमान- -नम् कौस् ८५,
२०; -ने कौस् ८३, ४; -नेन
कौस् ८६, ९.

नि(स्>)श^{४८}व्द^{४९}- -व्दाः अप ६८,

१, २६.

नि(स्>)श^{५०}ष^{५१}- > ष-कृत्- -कृत्
विघ ६८, ४४.

नि(स्>)श^{५२}श्न^{५३}थ^{५४}, निशिश्रन्थत् या
११, ४७.

नि(स्>)श^{५६}श्रेणि^{५७}- पाउभौ २, १,
२०८; -ण्या हिश्रौ १३, २, ४^१.

नि(स्>)श^{५८}श्रेयस^{५९}- पा ५, ४, ७७;
-सम् हिश्रौ ३, १, १; आपघ
१, १, ८; हिघ १, १, ८; गौघ
११, २८.

निःश्रेयस-बुद्धि^{६०}- -द्धिः हिश्रौ ३,
१, ५.

नि(स्>)श^{६२}श्व^{६३}स् > निः-श्रस्य वैष्ट
१, ३ : १४.

नि^{६४}प^{६५} (< स >) ङ्ङ^{६६} > नि-पङ्ग^{६७}- >

ङ्ग-थि- पाउ ४, ८७.

निपङ्गिन्- -ङ्गिणः शांश्रौ १६,
१, १६; पाग २, १७, १३;

-निपङ्गिणः^{६८} भाग २, १० : ४;
हिग २, ९, २; ५; -ङ्गिणाम्
वाधूश्रौ ३, ७९ : ७; -ङ्गिणे
आपमं २, १८, ४५^१; ४६;

भाग २, १० : ५; हिग २, ९, ६;
शुप्रा ५, ३७; -ङ्गिन् आपमं
२, १८, ४५^१; -ङ्गिभ्यः भाग
२, १० : ४; हिग २, ९, २; ५.

नि-पञ्चत्- -ञ्चयतः अप १, ३२, ८.

नि-पण्ण-, ^{६९}पत्त- प्रम्. नि^{७०}पद् द्र.

नि^{७२}प(< स >) द्^{७३}, निपद् > दा ऋप्रा
८ ६^१.

नि^{७४}प(< स >) द्^{७५}, निपद् > दा ऋप्रा
८ ६^१.

नि^{७६}प(< स >) द्^{७७}, निपद् > दा ऋप्रा
८ ६^१.

नि^{७८}प(< स >) द्^{७९}, निपद् > दा ऋप्रा
८ ६^१.

a) वैप १ द्र. । b) पा ७, ४, ४१ परानृष्टः द्र. । c) अर्थः व्यु. च ? । d) तु. पागम. । e) वैप १,
१८३३ गृ द्र. । f) पाभे. वैप १, ६३० b द्र. । g) धा. ज्ञाने वृत्तिः । h) विप. । वस. । i) पूष.
= अशिथिला-गति- इति दु. । j) = सोपानपङ्क्ति- । उप. करणे प्र. । k) = निश्रयणी- । वस. (तु. अभा.) ।
l) निश्र^{८०} इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. हिश्रौ १३, २, ४ निःश्रेण्या इति पाभे.) । m) = निश्रेणि- ।
n) मलो. कप्र. । o) तु. BPG । p) पा ८, ३, ६५ परानृष्टः द्र. । q) सपा. निपङ्गिणः < > निपङ्गिन्
इति पाभे. । r) सपा. पङ्गिणे < > ङ्गिभ्यः इति पाभे. । s) पा ८, ३, ६६; ११८ परानृष्टः द्र. ।

निपत्सि ऋप्रा ५, १२; ऋनि...
सत्सि काश्रौ २५, ११, ३४;
अप्राय २, ७; अप ४६, ३, ५.
निपीदति शाश्रौ २२, १५, ३०;
ऋश्रौ १४, २३; ४; ७;
९; वायुश्रौ; निपीदन्ति अप
७०, ७, २५; ७०, ८, ४; नाशि
१, ५, १९; ऋनिपीदसि आश्रौ
१, १२, ३४; ३, ११, १; शाश्रौ
३, २०, २; आपश्रौ; ऋनिपी-
दतु^७ शाश्रौ ८, ११, १५;
आपश्रौ ९, १७, १; हिश्रौ;
ऋनिपीदन्तु^८ पाठ १, ८, १०;
आमिष्ट १, ५, ४; ५०; ६, ३;
४२; भाग्य; ऋनिपीद आपश्रौ
२४, १२, १०; हिश्रौ ११, ७, ४०;
नि...सिद शाश्रौ ३, १४, १२; ऋनिपीदत आश्रौ ६, ४, १०;
शाश्रौ ९, १६, १०; वैताश्रौ ३२,
७; अप्राय; न्यसीदत् आश्रौ ३,
१३, १२; निपीदेत् वैष्ट ३, ५;
६; निपीदेत् ऋआपश्रौ ९, ५, २;
१७, ७; वौश्रौ.
ऋनिपसाद>दा काश्रौ १५, ७,
४; १२, ४, ९; आपश्रौ; या ११,
२८; निपिदुः या १३, १०; नि
(सिदुः)शाश्रौ १८, ९, ४; ऋनि...
सत्सत् आपश्रौ २४, १३, ३;
ऋप्रा ५, १२; नि...सदत् हिश्रौ
२१, १; २; ऋनि(असदत्)आश्रौ

२; १७, १०; ४, १३, ७; आपश्रौ;
नि...सदताम् या ८, ११; ऋनि...
ऋन्यपद्^९ आपश्रौ ९, ५, २; १७,
७; वौश्रौ २८, ६; ७; हिश्रौ १५,
८, २; ऋन्यसद^९ शाश्रौ १३, ०,
५; निपद्: ऋप्रा: २, ४६; ऋनि...
सदतन>ना शुप्रा ३,
१२९; न्यपदाम तैप्रा ६, ३; ऋनि-
पण्ण, ण्णा- ण्णः वृद्धे ५, २०;
माशि ४, ४; -ण्णम् या ३, ८;
-ण्णा विघ १, ६४; -ऋण्णाय
शुप्रा ३, ८६; ६, २६; तैप्रा १३,
१४; -ण्णे आपश्रौ ९, १७, ८;
माश्रौ ३, ५, १२; हिश्रौ १५,
८, २.
निपण्ण-त्र(त् >)ती- -त्यः
निस् २, ११; १५; ६, ११; ८.
निपण्ण-श्या(म>)मा- पाग
२, १, ७२.
ऋनि-पत्त^{१०} पा ८, २, ६१; -त्तम्
उनिस् ४, ३२; -त्ता: अप्रा २,
३, १६; ३, २, २९; -त्ते या ६,
१५.
नि-पत्तु^{११} -त्तुम् माष्ट २, १८,
२; ऋनि-पत्त्यत्- -त्त्यन् हिश्रौ ८, ५,
३७.
नि-पद्^{१२} -पत् वृद्धे २, ८२;
-पदा आश्रौ १, ४, ८.
नि-पदन- -नः या ३, ८६.

ऋनि-पद्य, >दा शाश्रौ १, १५, १७;
काश्रौ २, २, २१; आपश्रौ.
निपद्य-श्या(म>)मा- निपण्ण-
श्यामा- टि. द्र.
नि-प(द्य>)द्या- पा ३, ३, ९९.
नि-पद्वर^{१३} पाठ २, १२२.
नि-पादित- (> ऋनि-पा.) पाग
५, २, ८८.
नि-पाद्य आपश्रौ १४, १३, ७; ऋनि-
२०, ८; हिश्रौ.
ऋनि-पीदत्- -दन् या २, ११; ७, ३१.
निपा, पा^{१४}द-^{१४} वाश्रौ १; ३, ३, १;
हिश्रौ १, ७, ४०.
निपद्वर^{१५} शाश्रौ १५, १९, १.
ऋनिपद्य^{१६} -द्यम् शेष ११६; ९.
ऋनिपद्य^{१७} -पाठमो २, २, १०५.
नैषद्य^{१८} -द्या: अप १, ८, २.
नि-पं(<सं)चि^{१९} पाग ८, ३, ९८.
नि-पय- नि/पि (बन्धने) द्रः
नि/पा, स^{२०}द्व-
निपाद^{२१} पाग ४, १, १००; १०४;
३, ११८; -दः वौध १, ९, २; २,
२, २९; वैध ३, १३, २; या ३,
८; माशि; मीस् ६, १, ५१;
-दम् वौध २, २, ३२; माशि २,
४; याशि १, ९; नाशि; -दस्य
नाशि १, ४, ७; -दा: काष्ट ६५,
८; -दात् वौध १, ८, ११; ९;
१३; नाशि १, २, १३; -दान्
सु १८, १; २; -दानाम् काश्रौ

a) पाठः ? तु. वैप १ परि. शौ २०, १२७, १२ । b) पाठः ? तु. वैप १ परि. खि ५, ११, २ ।
c) पाभे. वैप १ प्रजायच्चम् काठ ३५, ३ टि. द्र. । d) वैप १, १०२६ f द्र. । e) परस्परं पाभे. । f) = ऋच- ।
g) चश्या इति भोजः (तु. पागम.) । h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । i) पाभे. वैप १, १८३५ h द्र. ।
j) वैप १ द्र. । k) = ऋपिका-विशेष- । l) पाभे. पृ १२३७ h द्र. । m) वाश्रौ. पाठः । n) पाठः ?
नि-पा, पा^{१४}द-> -पा, पा^{१४}दः (= आपः) इति संभाव्यते । o) पाठः ? न्यद्व वरः इति द्वे पदे इति सा. (ऐना ७, १५),
न्य-प^{१४} (उस.) इति प्र., यनि. (= अलस-) इत्यानर्तीयभाष्यम् । p) = महापर्वताऽन्यतम- । व्यु. ? । q) = देस-
विशेष- । व्यु. ? । r) = तद्वासिन्- । s) विप. । वस. । (t तु. पाका. । निःप^{१४} इति भाष्ये. प्रष्ट. । u) पा ८, ३,
७०; ७१ परामृष्टः द्र. । v) = संगीत-स्वर- [नाशि. शैशि. प्रष्ट.] जाति-विशेष- [काश्रौ. वैध. वौध. प्रष्ट.] ।

२२, १, ३०; -दे काश्रौ २२, १, २६; आपश्रौ १७, २६, १८; हिश्रौ १७, १, १३; -देन वौष १, ८, १३; -देसु लाश्रौ ८, २, ८. निषादी^० -द्याम् वौष १, ८, १३; ९, १४. नैषाद्- पा ४, १; १०४; पावा ५, ४, ३६; -दे वौश्रौ २, ५: १५५. नैषादायन- पा ४, १, १००. नैषादक- पा ४, ३, ११८. नैषादकि- पावा ४, १, ९७. निषाद-गान्धार- शौ शैशि १७४; पाशि १२; याशि १, ७; नाशि १, ८, ८. निषाद-ग्राम- -मस्य लाश्रौ ८, २, ८. निषाद-पञ्चम^० -मान् वृदे ७, ६९. निषाद-रथकार- -रथो: हिश्रौ ३, १, १५; -रा: हिश्रौ २, १, ५४. निषाद-राष्ट्र- -ष्ट्रम् सु १६, २. निषाद-वृत्- -वान् माशि १, १०. निषाद-सहित- -त: नाशि १, ४, ६. निषाद-स्थपति^० - -ति: काश्रौ १, १, १२; -तिम् आपश्रौ ९, १४, १३; भाश्रौ ९, १६, १६; हिश्रौ १५, ४, २०; -ते: भाश्रौ ५, १, १, २९; वाश्रौ १, १, १, ५. नि-यादित-, ण्विन्- नि-पद् द्र. ?निषामयत्यो: अप ४८, २५. नि-पि(<सि[वन्धने])> नि-पय-, नि-पित- पा ८, ३, ७०. नि-पि(<सि)च्, ङ्च्, निपि-ञ्चति शाश्रौ ४, ४, २; काश्रौ ४, १, १९××; कौश्रु; निपिञ्चत:

काश्रौ ६, ६, ६; निपिञ्चन्ति कौश्रु ५, ४, ३; आमिगृ २, ५, १० : ११; निपिञ्चन्तु हिगृ १, १८, २५; निपिञ्च ऋग्रा ५, १३५^०; निपिञ्चेत् वौश्रौ २०, १६ : ३०; ३१; कौश्रु १, १२, १; ८; शांश्रु १, १९, १; ५. निपेचयति हिश्रौ १०, १, ४९; निपेचयेत् ऋश्रां २०, ४, २४, ४. नि-पिक्त- -कानाम् अप ६८, १, ६. ऋनिपिक्त-पा^० -पाम् आपश्रौ १३, १८, १; माश्रौ २, ५, ४, १२. नि-पिच्य काश्रौ ४, ४, ८; ५, ४, ३३××; आपश्रौ १२, ६, १; वैश्रौ. नि-पिच्यमान- -नेषु अप ६८, १, ७. नि-पिञ्चत्- -ञ्चन् अप्राय १, ३; अञ्च ४, १५५. नि-पेक^० -कम् वैश्रु ६, २ : १; -कात् वैश्रु १, १ : ११. निपेक-कर्मन्- -र्म विध २७, १. निपेक-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जा-तकर्म-नामकरण-अन्नप्राशन-चौ-ल- -लानि वैश्रु ६५ : ४. निपेका(क-आ)दि- -दीनाम् वैश्रु ६, ६ : १. निपेकादि-श्मशानान्त- -न्ता: आमिगृ ३, १०, ४ : २२. निपेकादि-संस्कार- -राणाम् वैश्रु ६, १ : १; -रान् वैश्रु १, १ : १. निपेका(क-आ)घ- -घ: विध २, ३; -घा: वैश्रु १, १, ३.

नि-पेचन- > ण-वत्- -वन्तम् हिश्रौ २४, २, ११. नि-पि(<सि)च्, निपेच ऋग्रा ५, १५५. निपिपेघ वृदे ३, १९. निपिच्यते कौशि ७६. ?नि-पेघ- पाग ८, ३, ९८^०; -घ- पावा १, ३, २०^०. नि-पि(सि)च्, सि-वृ^० नि-पीदत्- नि-पद् द्र. २निपेघ^० -घ: निस् ६, १० : ३४; -घे लाश्रौ ७, ८, १०. निपेघा(घ-आ)न्धीगव- -वे निस् ७, ८ : ३०. नि-पे(<से)च्, निपेवेत् विध ७२, ९०. नि-पेवण- -णम् अप ७०^३, १४, २. नि-पेवमाण- -णा: आपश्रौ २१, १२, ९. नि-पेवयत्- -यन् माश्रौ २, १, १, ३८. नि-पेवित- -त्तम् विध ७१, ९०. नि-पो^०(<सो) ✓निष्क पाधा. चुरा. आत्म. परिमाणे. निष्क^० पाठ ३, ४५; पाग २, ४, ३१; ५, १, २०; -ष्क: काश्रौ २२, ४, १८; आपश्रौ; -ष्कम् शाश्रौ १६, १, ६; काश्रौ; -ष्का: आपश्रौ १, १४, १२; ३, १३, ५; भाश्रौ; -ष्काणाम् वृदे ३, १४८; -ष्कान् शाश्रौ १२, १४, १५; १५, ३, १४; आपश्रौ; -ष्केण

a) = निपाद-स्त्री-।

b) विप.। वस.।

c) वैप १ द्र.।

d) पाभे. वैप १; ३६२ h द्र.।

e) = गर्भाधान-संस्कार-।

f) नि-पेघ- इति [पक्षे]भारडा., पासि.।

g) तु. पासि.।

h) पा ८,

३, ७०; ७१ परामृष्ट: द्र.। i) = सामन्-। वैप २, ३खं. द्र.। j) पा ८, ३, ७० परामृष्ट: द्र.। k) पा ८, ४, १७ परामृष्ट: द्र.।

आपश्रौ २०, १३, ८; ऋवाश्रौ ३, ४, ३, ३; ९; हिश्रौ.
 नैष्किक- पा ५, १, २०.
 निष्क-क (ठ >) ण्डी- ण्डी:
 वाश्रौ ३, १, १, २९; -ण्डीनाम्
 आश्रौ ९, ९, १४; -ण्ठयः काश्रौ
 १४, २, ३०.
 निष्क-त्रय- -यम् वैश्रौ ११, ५: ७.
 निष्क-रज्जु- -ज्जुः वौश्रौ ११,
 ६: ११; १२, ७: २६; -ज्जुः
 वौश्रौ ११, ६: २८; १२, ७: ३८.
 निष्क-शत- , सहस्र- > नैष्कश-
 तिक- , सहस्रिक- पा ५, २, ११९.
 निष्का(क-आ)दि- -दिसु पावा ५,
 १, २०.
 निष्किन्- -ष्की आपश्रौ २२, १२,
 ९१.
 निष्किणी- -ण्यः काश्रौ २०, १,
 १२१.
 निष्क-कम्प- -म्पम् कप्र १, ८, ३.
 नि(स् >) ष्-कर- -राः वाध १९,
 २६.
 निष्-कर्तृ- निष्/कृ द्र.
 निष्-कर्ष- निष्/कृष द्र.
 नि(स् >) ष्/कल् > निष्-कालन-
 > न-प्रवेशन- -ने गोय ३,
 ६, ८.
 नि(स् >) ष्-क(ला >) ल- पाग ४,
 १, ४१^६; -लम् वैय ४, ११: २.
 निष्कली- पा ४, १, ४१.

नि(स् >) ष्-कल्म(ष >) पा- -षाः
 वाध २८, ६; वौध २, २, ५८.
 नि(स् >) ष्/कप्, स् > निष्-काप,
 स- -षः वाश्रौ १, ७, ३, ३; -षम्
 शाश्रौ ३, १५, १४; काठश्रौ १६०;
 माश्रौ १, ७, ४, ७; -षस्य काठश्रौ
 ३६; काश्रौसं २९: ४; -वे
 माश्रौ २, ५, ५, २; -वेण शाश्रौ
 ३, १४, १९; काठश्रौ ३६; -सः
 भाश्रौ ८, १०, ९; -सम् आपश्रौ
 ८, ८, ८; वौश्रौ; -सस्य आपश्रौ
 ८, ८, ८; मीस् ११, २, ६१; -से
 वौश्रौ ८, २१, २; -सेन आपश्रौ
 ८, ७, १४; वौश्रौ २१, ३: ६;
 २५, २: १५; भाश्रौ ८, १०,
 ६; ११; हिश्रौ ५, २, ६३.
 निष्कास-वत् आपश्रौ १३, २०,
 ७.
 निष्कासि(त >) ता- -ताम्
 वैश्रौ ९, २: ६; हिश्रौ ५, ३, २२.
 नि(स् >) ष्-काम- -मः अप २३,
 १४, ४; वैध २, ५, ३; -मम् वैध
 १, ९, ९; ११, १२; -मस्य अप
 २३, १४, ४; -मेण अप २३,
 १४, ५.
 नि(स् >) ष्-कालक- -पाग ६, २,
 १८४^६; -कः^१ वाध २०, १४;
 ४२.
 निष्-कालन- निष्/कल् द्र.
 नि(स् >) ष्-कालिक-^{११} - पाग ६,

२, १८४^६.
 नि(स् >) ष्-कुल- (> नैष्कुल्य-
 पा.) पाग ५, १, १२४.
 निष्कुला/कृ पा ५, ४, ६२.
 नि(स् >) ष्/कुप् > निष्-कुपित-
 ,
 त्वत्- पा ७, २, ४७.
 निष्-कोषण- -णे पा ५, ४, ६२.
 नि(स् >) ष्/कृ, निष्कृत्य ऋषा ४,
 ६०^{१०}.
 निः... कृणोतन वाश्रौ २, १, ५,
 ११.
 निष्करोति वौश्रौ १४, २३:
 २१; २५; २४: ११; २६.
 निः... अस्तुत वृदे २, ११५;
 ऋषा ४, ८८; १०, ३; ११, ९;
 उस् २, ३०.
 निष्-कर्तृ- -र्ता आपमं १, ७, १०;
 काय २७, २०.
 नैष्कर्तृक- -केण मीस् १०, २,
 २७.
 निष्-कृषवान- -नाः वा १२, ७^१.
 निष्-कृत- -तम् वौश्रौ ६, ३१:
 ८; पाय ३, ३, ५; या १२, ७;
 ऋषा ४, ९३^{१६}; -तेषु पाय ३,
 ३, ५^६.
 निष्कृता(त-आ)हाव- -वम्
 आपश्रौ १६, १८, २; वौश्रौ १०,
 २५: २; वाश्रौ २, १, ५, १;
 वैश्रौ १८, १५: ९; हिश्रौ ११,
 ६, २३.

a) विप. । वस. । स्त्री. डीष् प्र. । b) मलो. कस. । c) पाभे. वैप २, ३खं. निष्कृत्यः माश १३,
 ४, १, ८ टि. द्र. । d) वा. क्वि. । e) विप. । वस. । f) उप. = इकर- । g) = निष्कासन- ।
 h) = वनसंपत्ति-विशेष- इति पागम. । i) वैप १ द्र. । j) अर्थः व्यु. च? । k) परस्परं पाभे. । l) = मुखित-
 शिरसु- । उप. (क-[शिरसु-] + अलक- [केश-] > सस.) = शिरस्थ-केश- (तु. पमा ३, ३१४ Bāth च; वैतु. पाका.
 निष्कालक- इति, < निष्/कालि इति शक. च) । m) निष्-का (ली >) लि > प्रास. इति न्यासकरः ।
 n) पा ७, २, ४६. परामृष्टः द्र. । o) पाभे. वैप १, १८३७. h द्र. । p) पाभे. वैप १, ८४६ q द्र. । तत्र च BC. च
 सस्य. यनि. शोधः । q) = निष्कर्तृकर्मन्- । तस्य कर्मत्वर्थे ढक् > कः प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १२४) । r) वैप १,
 १८३८० द्र. । s) वैप १, १६६९ ० द्र. । t) पाभे. वैप १, १८३८ i द्र. । u) पाभे. वैप १, ८४७० ० द्र. ।

निष्-कृति- -तिः कौस् ५; ३११; वाघ २१; १५; शंघ ३७८; वौघ २, १, ६; विघ ३४, २; -तिस् वैश्रौ २, १ : १; १८, १ : २; माघ २, १७, ११; शंघ ४४०; वौघ १, १, ३१; २, १, ६; विघ ५१, ६०; -तीः ऋप्रा ८, २०१; -तल्लै आपश्रौ ३; ११, २; वौश्रौ १, २१ : १३; माश्रौ ३, १०, २; वाघश्रौ ४, ९९ : २; वाश्रौ १, ३, ७, २०; हिश्रौ २, ६, १; कौश्र १, ५, २९; आश्रिण १, ५; २ : १६.

नि(स् >)प्/कृत् (छेदने), निष्कृन्तामि पाण्य १; ३, १८१; ऋतिः... कृन्तामि^१ वौश्रौ १७, ४४ : ५^१; वौश्र १, २, ३६६; ऋतिः... कृन्तामि^२ द्राश्रौ १२, १, १९; लाश्रौ ४, ९, १३^१.

?निष्कृदयाथोसघ्नी कौस् १२८, ४. नि(स् >)प्/कृप्, निश्चर्कप वृदे ६, १०५.

निष्-कृप- -पैः मीस् ११, ३, ५२. निष्-कृण्य माघि २, ६.

नि(स् >)प्/कृवल्- > निष्केवल्य- -ल्यम् आश्रौ ७, ५, १८; ७, २××; शाश्रौ; -ल्यस्य आश्रौ ५, १५, १; ७, ६; ४; शाश्रौ; -ल्यत् शाश्रौ ११, १०, ८; -ल्ये आश्रौ ६, ६, १५; ७, ३, २२××; शाश्रौ १४, २१, ३; १६, ८, ११; हिश्रौ १०, ५, ४. निष्केवल्य-प्रभृति- -तिषु शाश्रौ १५, ४, ९. निष्केवल्य-मरुवतीय- -ययोः

शाश्रौ ७, ५, २१; १०, ८, १६; ११, ११; १६, ८; ५; -ये शाश्रौ १५, २, १५; १३, ६; -यौ आश्रौ २, १०, ९. निष्केवल्य-सूक्त- -कानाम् आश्रौ ७, १, १३.

निष्-कोपण- निष्/कृप् द्रः. नि(स् >)प्/कृम्, निष्कामते वैश्रौ १४, ६ : १; निष्कामति काश्रौ ९, १३, ९; आपश्रौ १०, १४, २; वौश्रौ; निष्कामतः काश्रौ ७, ६, ११; ९, १०, ५; १०, ४, ११; आपश्रौ १२, २२, ३; वौश्रौ २२, ९ : १२; वैश्रौ १५, २८ : १, निष्कामन्ति काश्रौ २, ६, २५; १२, ४, १२; माश्रौ; निष्कामन्तु वौश्रौ ७, ७ : १६; निःक्रम सु १८, ४; निष्कामेत् हिश्रौ ७, ७, २४^२; २५^३; द्राश्रौ २, ३, २१; १५, ४, १; लाश्रौ १, ७, १९; ५, १२, ८; जैश्र १, १७ : ७; शंघ ७८; निष्कामेयुः द्राश्रौ ७, ३, १६; लाश्रौ ३, ३, १८. निष्कामयति वौश्रौ १, २१ : ६; वाश्रौ १, २, ४, ३३; वैश्रौ १०, १४ : ५; निष्कामयन्ति वौश्रौ ९, ५ : ३४; १३ : ९; निष्कामयेयुः अप १८^१, १, ११. निष्-क्रमण- पाण ५, १, १७; २, ३६; -णम् काश्रौ १, ८, २५; ९, ४, ३०; २६, ७, ६; आपश्रौ १०, १३, ६१; वाश्रौ १, १, ६, ७; नाश्र १, २, १९; -णे वौश्रौ २, ११ : ४१. नैष्कमण- पा ५, १, १७. निष्कमण-प्रभृति- -ति पाण १,

८, ३. निष्कमण-प्रवेशन- -नानि आपघ १, ३०, ७; हिघ १, ८, ७; -ने आपघ १, २४, १९; हिघ १, ६, ६७; -नेषु शंघ २५५. निष्कम(ण-क>)णिका^१- का कौश्र १, १८, १; पाण १, १७, ५. निष्कमणित- पा ५, २, ३६. निष्-क्रम्य आश्रौ १, ११, १४; ३, ५, ४××; शाश्रौ; आपमं २, ११, १६^१. निष्-क्रा(न्त->)न्ता- -न्ताम् वैश्रौ १०, १४ : ६; आपण ३, ११. निष्-क्रामण- -णम् वैघ १, ११, ४. निष्-क्रामत्- -मत् वैश्रौ २१ : ३; कौश्र २, ७, २३; ३, ४, १; शाश्र २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः द्राश्रौ ६, ३, १२; लाश्रौ २, ११ : ६; वैताश्रौ ९, १५; -मन्तम् आपश्रौ १२, २६, १६; वैश्रौ १५, ३४ : ३; हिश्रौ ८, ८, १०; लाश्रौ १, ११, २. निष्-कृय- निष्/क्री द्रः. नि(स् >)प्/कृि(वा>)य^१- -य विघ २, ५६. नि(स् >)प्/क्री, निष्क्रीणीते आपश्रौ १३, ६, ४; ऋवौश्रौ १४, २४ : १३; २८; २९ : ३५; वाघश्रौ ४, १० : ५; निष्क्रीणाति वैश्रौ १०, १ : ४; वैताश्रौ ३४, १८; ऋनिष्क्रीणामि काश्रौ १४, ४, १६; आपश्रौ १३, ६, ५; वैश्रौ १६, ७ : ११; हिश्रौ १०, ४, ५२; ५४-५७; ६०-६२; आपण ९, ५^३; निष्क्रीणे शाश्रौ १५, २०, १^३;

a) परस्वरं पाभे. । b) ?नेष्टाविद्धम् टि. द्र. । c) ?नेष्टावृद्धिम् टि. द्र. । d) ?नेष्टाविद्धं कृतानि टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) सु. पाठः । g) = संस्कार-विशेष- । h) पाभे. वैप १, १८८७ b द्र. । z) चपा. द्राश्रौ ३, ३, ११ निःसर्पन्तम् इति पाभे. । j) विप. । वस. ।

२०; वैश्रौ १२, १० : १४; हिश्रौ ६, ६, २४; वायु ५, १३; निष्ठी-
वेत् काश्रौ २५, ११, २७; भाश्रौ १०, ८, १२; कौश्रौ ३, ११, १८;
शांश्रु ४, १२, १७; आमिश्रु २, ७,
८ : ३; वाध १२, १२; शंघ
२२६.
नि-ष्ठीवन- नम् भाश्रौ २, १, २,
३२; वैश्रु ३, ९ : ११.
नि-ष्ठीवित-> ंत-हसित-विजृम्भि-
ता(त-अ)वस्फोटन- नानि गौध
२, २१.
नि-ष्ठीविन्- वी विध ५, २१.
निष्ठीवि-ता- ता आश्रौ १२,
१०.
नि-ष्ठीव्य वैश्रौ २८, ९ : ९; वैश्रौ
१६, २१ : ५; २१, १ : ६; हिश्रौ
९, ४, ५३; कौश्रु ५८, ७; विध
२२, ७५.
नि-ष्ठेव^१- पाग २, ४, ३१.
नि-ष्ठयूत-> ंत-चत् काश्रौ २५,
११, ३२.
नि-ष्ठयून-> ंन-वान्त-रुधिर-विण्-
मूत्र-स्नानोदक- कानि विध
६३, ४१.
निष्ठुर- पाठो २, ३, ५२.
निष्णा (<स्ना) > निष्णात- पा
८, ३, ८९; -ता: भाश्रौ ४, १,
२१; २४.
निष्णि (<नि)ह^२ - > नैष्णिह-
-ह्यम् आश्रौ ९, ७, ३५.
नि(स्)प्/पच्, निष्पचतात्
वौश्रौ १५, ३१ : २५.
नि(स्)प्-पत्र-> निष्पत्रा/कृ पा
५, ४, ६१.

नि(स्)प्/पद्, निष्पद्यते हिश्रौ
१, १, ३७.
निष्पादयति बौध ३, २, ३.
निष्-पत्ति- -त्ति: अय ५२, १, ३.
† निष्-पद्- पाग ५, २, ९७^३;
-पत् आपश्रौ १५, ३, १७;
वौश्रौ ९, ३ : २६; भाश्रौ ११,
३, १०; वैश्रौ १३, ४ : ९; हिश्रौ
२४, १, १९.
निष्पल्-ल्- पा ५, २, ९७.
निष्-पन्न- -न्नम् अय ७०, १२, २;
-न्ने या १, १३; १४^३; -न्न
मीसू १२, ३, १६.
निष्पन्न-ग्रह- -हात् मीसू ८, ३,
३०^६.
निष्पन्न-चोदितत्व- -त्वात् निस्
१०, ३ : १८.
निष्पन्न-शब्द- -ब्द: पावा ३, ३,
१३३.
निष्-पाद्^४- (> निष्पाल-ल्- पा.)
पाग ५, २, ९७.
निष्-पाद्य हिश्रौ १०, ५, १२.
रनि(स्)प्-प(द्) > दी- पाग ५,
४, १३९.
नि(स्)प्/पा(पाने), निष्पवति
आपश्रौ १९, २४, ७; वौश्रौ १३,
३२ : १५; १८, ९ : ३०; हिश्रौ
२२, ५, ७; तैश्रौ ८, २४^५.
निष्-पिवत्- -वन्तम् वौश्रौ १३,
३२ : १६; १८, ९ : ३०; हिश्रौ
२२, ५, ७.
निष्-पीत- -त: वाधुश्रौ २, १६ : ८;
-तम् वाधुश्रौ २, १६ : ९.
नि(स्)प्/पा(रक्षणे), नि: (पाय)
ऋप्रा ७, ४६^५.

निष्पा- (> ंष्पा-ल्-) निष्पाव-
टि. द्र.
नि(स्)प्/पाटि (< पाट-),
निष्पाटयति वैश्रौ २०, ३७ :
८.
† निष्पाव^६- (> ंव-ल्- पा.) पाग
५, २, ९७.
नि(स्)प्/पिप् > निष्-पेप-
(> नैष्पेपिक- पा.) पाग ५, १,
१०१.
निष्-पेष्ट^७ काश्रौ ७, २, १५^५.
नि(स्)प्/पीद् > निष्-पीडन-
-नम् गौपि १, ५, ५.
निष्-पीड्य आश्रु १, १७, ९; वैश्रु ३,
१४ : ५; अय ४२, २, ९.
निष्-पीत- निष्/पा(पाने) द्र.
नि(स्)प्/पु (< पू) निष्पुनाति
काश्रौ २, ४, १८; भाश्रौ ६, १६,
२५; भाश्रौ १, २, २, २०; वाश्रौ
१, २, ४, ५५; वैश्रौ ४, ७ : ७;
हिश्रौ १, ५, ६२.
निष्-पवण, न- -नम् हिश्रौ १, ६,
४१.
निष्पवणा(ण-अ)न्त^१- -न्तम्
भाश्रौ १, ६, ४, ९.
रनिष्-पाव^१- पा ३, ३, २८.
निष्-पुन(त्) > ती- -तीम् कौश्रु
६१, २५.
नि(स्)प्-पुरीष^१- -यम् आमिश्रु
३, ५, १ : १९; वौपि १, २ : ६;
हिपि ४ : १; २; -येण वौश्रौ
२६, ५ : १.
नैष्पुरीष्य- -प्यम् वैश्रौ १२,
१२ : १०; आपय १, २७, ३;
बौध २, १, ६३; हिध १, ७, २८.

a) = निष्ठीवन- (तु. पागम.) । b) = निष्णोह- । वस. । c) वैप १ द्र. । d) निष्पाद्- टि. द्र. ।
e) ंष्णात् इति जीसं. । f) गस. उप. कर्त्तरि ङ्वु इति । † निष्पद्- इत्यन्ते (तु. पागम.) । g) अर्थ: व्यु. च १ ।
निष्पा- (< पा [पाने]) इत्यन्ते (तु. पागम.) । h) वैप २, ३३ द्र. । i) विप. । वस. । j) = धान्य-विशेषः ।

निष्पुरीषी √भू > षी-भाव- -वः
वाध २३, ३०; गौध २३, २३.

नि(स् >)प् √पृ, निष्पर^३ शुप्रा ३,
२३.

निः...पिपृत > ता ऋप्रा ८, १५;

शुप्रा ३, १०७; निष्पिपर्तन
ऋप्रा ४, ६०.

निः...पारयथः ऋप्रा ५, ३६.

निष्प-पेष- निष् √पिप् द्र.

२निष्प-पेष^३०- पाग ६, २, १८४.

निष्प-पेषवै निष् √पिप् द्र.

नि(स् >)प्-प्रमाण^१- -णम् वैध १,
११, १०.

नि(स् >)प्-प्रवा(णी)णि-

-णिः पा ५, ४, १६०.

नि(स् >)प्-प्रीत्य(ति-अ)मिताप^०-

-पाः गौध १३, ३.

नि(स् >)प् √प्लु, ङनिष्ठावयामि

आपश्रौ ६, २०, २; वाश्रौ १, ५,
४, २०; वागृ ५, १३.

नि(स् >)प्-फल^३- -लम् अप ९, २,

६; शंघ ४६३; कौशि ३७; -लाः
आपध १, २०, २; हिध १, ६,
१६; -लात् पावा ४, २, ३६.

नि √ष्कु, स्कुर्, ल् पा ८, ३, ७६.

नि √ष्य (<स्य)न्दू पा ८, ३, ७२.

नि-ष्यन्द- > ंद-वत्- -वन्तम्
वैश्रौ १३, ७ : २५^१.

नि-ष्यन्दन- > ंन-वत्- -वन्तम्
वौश्रौ ९, ५ : २०^१; १४, २६ : २२.

नि √ष्वल, स्वञ्ज् पा ८, ३, ७०;
७१.

नि √ष्व (<स्व)प्, ङनिष्वापय >

या ऋप्रा ५, १५; ८, ३१.

नि √ष्व (<स्व), ङनिष्पर^३ आपश्रौ
१२, ९, ९; वौश्रौ ७, ६ : ९; तैप्रा
६, १३.

ङनिष्परिन्- -पी अप ४८, ११५;
निघ ४, २; या ५, १६६; ऋप्रा
१४, ३६.

नि(स् >)प्-ष (<स)म- पा ८, ३,
८८; पाग २, १, १७^१.

नि(स् >)प् √ष (<स)ह > नि-
ष-पहमाण- -णः या ३, १०.

ङनिष्-पाह- -पाट् या ३, १०६;
ऋप्रा १४, ३६.

नि(स् >)प्-पा (<सा)मन्- पाग
८, ३, ९८.

नि(स् >)प् √षि (<सि)ष् (संराद्धौ)
> निष्-षिष्- > षिष्-वत्- >
२)रीष्-रीः ऋप्रा ५, ३९^१.

नि(स् >)प्, √ष्ट (<स्त) न्, निष्-
निहि^१ शुप्रा ३, ६९; निःष्टनिहि^१
ऋप्रा ५, १२^१.

नि(स् >)प् √ष्टा (<स्था), निष्ठित्छेते
निसू २, ५ : ३५^१.

नि(स् >)प् √ष्व L = √ष्वि ङनिष्-
ष्टविषम् आपश्रौ १०, १३, ११;
वौश्रौ २८, ९ : १०; वैताश्रौ
१२, ८.

नि(स् >)प् √ष्कु (<स्कु) र्, ल् पा
८, ३, ७६.

नि(स् >):-पं (<सं)धि- नि-पन्धि-
टि. द्र.

नि(स् >):-प (<स)म- निष्-पम-
टि. द्र.

नि(स् >):-पा (<सा)मन्- निष्-
पामन् टि. द्र.

नि(स् >):-प् √षि (<सि)च्, निः-
षिवेच वौश्रौ १८, ४५ : २३.

निः-षिक्त- -क्तम् या ६, १;
-क्तेभ्यः वैश्रौ १५, ११ : १०.

निः-षिच्य आपश्रौ १३, १, ३; वौश्रौ-
निः-षेचन- > ंन-वत्- -वन्तम्
आपश्रौ १५, ६, २२.

निष्-षेचन- > ंन-वत्- -वन्तम्
भाश्रौ ११, ६, १७.

नि(स् >):-पि (<सि)ष् (गतौ),
निःषेधन्ति शाश्रौ १६, १८, २०;

ङनिः...सेष^१ आपश्रौ १, २२,
२; वौश्रौ १, ८ : ४; २०, ८ :
४; २४, २६ : २; भाश्रौ १,
२४, २.

निः-षिद्ध- > ंद-पाम्पन्^३-
-पमानः शाश्रौ १६, १८, २१.

निः-षेध^३- पाग ८, ३, ९८.

नि(स् >):-पू (<सू. प्रेरणे),
ङनिः (सुवामसि)^३ कौसू ४२,
१९; अश्र १, १८.

ङनिः (साविपक्) अश्र १, १८^०.

नि(स् >):-पू (<सू. अर्थः ? !)
> निः-पूति- पा ८, ३, ८८.

नि(स् >):-ष्व (<स्व)प् पा ८,
३, ८८.

निसू पाग १, ४, ५८.

निः सर्ग- निः √सृच् द्र.
√निसङ्ख्याय (<नि-सङ्ख्या > !
ङ्गप^३) > निसङ्ख्यायत्-
-यन्तः वैध १, १०, ४^१.

a) पामे. वैप १, १८४१ ० द्र. । b) विप. वस. । c) उप. भाप. । d) प्रास. वा. वस. वा ।

e) विप. । वस. > दस. । f) परस्परं पामे. । g) वैप १ द्र. । h) तु. पाका. । निःप^३ इति भाण्डा. प्रष्ट. ।

i) तु. पाका. । निःपा^३ इति भाण्डा. प्रष्ट. । j) पामे. वैप १, १८४२ ० द्र. । k) ंष्टे इति पाठः ? यनि. शोधः-
(तु. संस्कृतुः टि.) । l) पामे. वैप १, १८२१ ० द्र. । m) पृ १४३४ f द्र. । n) पामे. वैप १, १८१५ f द्र. ।

o) पामे. वैप १, १८४२ m द्र. । p) वस. पू. = नच् । q) न संख्यावन्तः इति ०. ।

नि/सू>नि-सूत- -त्म् याशि १,
१२.

नि/सूज्>नि-सर्ग^a-(>नैसर्गिक-
पा.) पाग ५,१,१०१

नि-सू(ष्ट)>ष्टा- -ष्टायाम् चौष ४,
१,१८.

नि-स्तब्ध- नि/स्त,ष्टम् द.

निस्-तरी-क^b- पाग ६,२,१८४.

निस्-तरीप^c- पाग ६, २,१८४.

निस्-तष्ट- निष्/तज् द.

निस्-तान्तव^d- -वम् काट ४,७.

निस्-तुप->स्तुपा(प-आ)मसृष्ट-
यव^e-वानाम् काश्रौ ५,३,२.

निस्/तृ>निस्-तीर्थ अप २३,
८,१.

निस्-त्रिंश^f- पावा ५,४, ७३; -शः
अप २३, २,१.

निखिशा-मुद्गर-निपात^g- -ताः शंष
३७४.

निखिशिन्- -निनः आश्रौ ९,७,४.

नि/स्फुर,ल् नि/स्फुर,ल् द.

नि/सू, निस्त्ववति वौष २, ७,
१०.

नि-स्त्रव- -त्रेण जैगृ १, १२: २३.

निस्त्रोहत^h- -ताः वौश्रौः १९: ५.

नि/स्वन्>नि-स्वन- पा ३, ३,
६४; -नः अप ७२, १३, २;

-नाः अप ६४, ४, २; ७०ⁱ,
४,१.

?निस्वरित- -ताः निस् ४, ९: २०.

निस्-संचय^j->निस्संचयिन्- -यी
वैष ३,६, ६.

निस्-संघिक^k- -घिः शैशि ३३३.

†निस्-साला^l- -लाम् कौसू ८,
२५; ९, १; ३४, ३; ४४, ११;

७२,४; ८२,१४; अत्र २,१४.

निस्/स्था, निस्तिष्ठते निस् २, ५:
३१; निस्तिष्ठति वौश्रौ ४,१:

३१×३; निस्तिष्ठन्ति वौश्रौ
३०,१०: १०; ४६: ३०×३;

निस्तिष्ठत ङ्वौश्रौ ६, २३: ७;
२५: २३; २७: २६; निस्तिष्ठेत

निस् २,५: ३५.

निस्-तिष्ठ- -ष्ट्व् जैश्रौ २२:१४.

निस्-स्पृ(हा)>ह^m- -हः वैष ३,५,
७.

निस्/स्फुर,ल् नि/स्फुर,ल् द.

नि(सू>):-संशय- -न्यम् विष
१०, १३:

नि(सू>):-सं(ज्ञा)>ज्ञ->ज्ञ-ता-
-ताः अप ३६,८,४.

नि(सू>):-सारⁿ- -रे कप्र ३,३,५.

†नि(सू>):-सा(ल)>ला^o-
-लाम् अप १७,२,३; ३२,१,३;

२६; अप २:२१; अत्रा २,४,१६.

नि(सू>):-सूज्>नि-सर्ग- (नै-
सर्गिक-) निस्सर्ग- टि: द.

नि-सूजत्- -जत् ऋषा ११,३५.

नि(सू>):-सृप्, नि:सर्पति माश्रौ
१, २,१, ३९; २, ३, ४, ३९;

नि:सर्पन्ति शाश्रौ ६, १३, ६;
७,१४,१०; ८, ८, ८; आपश्रौ

१२,२९,१५; काठश्रौ १४५.

नि:सर्पव- -र्षत् द्राश्रौ १५, २,
१८; लाश्रौ ५,१०,१८, -र्षन्तः

वैश्रौ १६, १२: १६; हिश्रौ ८,

-४, ४३; ९, १, १७; ३, ३४;
-र्षन्तम् वौश्रौ ७, ७: ३२;

द्राश्रौ ३,३,११.

नि:-सृप्य वैश्रौ १५,३८: १४; १६,
१०: ६; हिश्रौ ८,४,४५.

नि(सू>):-स्व^p->नि:स्व-पञ्च-
-क्षेण अप ११,१,१५.

नि(सू>):-स्व(न>)ना^q- -नाः अप
५८^r,३,१.

निस्, :/सू, नि:सारयति माश्रौ १,६,
१, ४८; ७, ३, २४; वाश्रौ १,
६,१,३०.

?नि:-सर- -रः शां ५,२,५.

निस्, :-सरण- -णम् काट ३,१३;
वाट ९,१९.

नि:-सारण->ष्णा (स-अन्त>)
न्ता^s- -न्ताम् माश्रौ १,८, १,
२०; २,२,१,५४.

निस्-सार्थ आपश्रौ ७, ४,५; ५,४;
माश्रौ ७,३,९; वैश्रौ.

नि:-सूत- -ताः अप ५२, १२,५.
नि:-सूत्य माश्रौ २,२, ५, ३४^t×३;

हिपि १:४; अप.

निस्, :/सू, निस्त्ववति आपष १,
५,२; हिष १, २; २.

†निह^u- -निहः अप ७, १,५; अत्रा
३,४,१.

नि/हन्^v, नि...हनति ऋषा ८,४६;
निहन्ति काश्रौ ८,३,७; आपश्रौ

१३,४, १२×३; वौश्रौ; निहन्ति
शाश्रौ १२, २४, २१; काश्रौ ६,

५,१५; ८, ८, २८; आपश्रौ;
†नि...हंसि आश्रौ २, १६, ४;

a) नि:सर्ग- इति वामनः (तु. पागम.) । b) विप. । वस. । c) उप. = नौका- । d) प्रास. इति
न्यासः । e) उप. <तन्तु- [वेणु-ना रज्जु- वेति देवपालः] । f) कस. > कस. । g) =जङ्ग- । प्रास. उप.
= द्विशत् । h) =नरक-विशेष- । दस. > वस. । i) =ऋषि-विशेष- । व्यु. । j) पृष. =नव् । k) प्रास. ना.
वस. वा । l) वैष १,१८४२ ऽ द्र. । m) पामे. वैष १, १८४२ S द्र. । n) उप. = घन- । o) हिष.
पाठः । p) वैष १ द्र. । q) पा ८; ४, १७ परासृष्टः द्र. ।

८, १२, ७; ऋप्रा ७, ४६;
 ऋनिहन्मि वैपृ ४, ४ : ३; ५,
 १५ : १; ऋनिहन्तु^१ माश्रौ २, २,
 ३, १६; ३, ५, ५; नि...जहि > ही
 ऋप्रा ७, ५४; निहन्त्यात् वौश्रौ
 २१, १४ : २८; वौश्रु १ : ११ × ४;
 निहन्युः वौश्रौ २६, २४ : १३.
 ऋनिजघान अप १, ४०, १; ४१,
 २; अशां १०, १; ११, २;
 निहनिष्यति वाश्रौ २, १, ५, १५.
 निहन्यते आश्रौ ७, ११, ५;
 अप ४७, २, ६; उस् ८, १३;
 अप्रा १, १, १२; २३; शैशि १४८;
 निहन्येत अप ७०, १२, ३.

नि-घ- पा ३, ३, ८७.
 ऋनिघात^२ -तः नाशि १, ७, १९;
 पावा १, १, ६३; -तस्य निसू ७,
 ११ : १३; -ते गौध २१, २१.
 निघात-प्रसङ्ग- ऋः पावा २,
 ४, ८५; ८, १, ५५.
 निघात-युष्मद्-अस्मद्-आदे-
 श^३ -शाः पावा २, १, १; ८, १,
 १८.

निघातयुष्मद्अस्मदादेश-प्र-
 तिषेध- पावा २, १, १.

ऋनिघा(त >) वा^४ -ता शौच
 ३, ६५.

निघाता(त-अ)निघात-सिद्धि-
 -द्धिः पावा २, ४, ८१.

नि-घाति- पाठ ४, १२५.

नि-घातिन्- (> नैवात्य- पा.) पाग
 ५, १, १२४.

नि-घत्- घतः हिश्रौ १७, २, ६१;

-घताम् विध ५, ७३; -घत्
 वौश्रौ २०, २६ : १३.

ऋनिघती- -तीः^५ हिश्रौ १६, ६,
 ३९.

ऋनिघन्ती- -न्तीः^६ आपश्रौ
 २१, १९, १८; वौश्रौ १६, २२ : ८.

ऋनि-जघि^१- -घिः शांश्रौ ८, १७, १.

नि-हत्- -तः सु २५, ६; कौशि १०;
 १७; १९; २८; -तम् कौशि
 १८; शैशि १४५; -ते माश्रौ

५, २, ८, ६; -तेन कौशि १४.

निहत्-स्वरित- -तम् कौशि ३५.
 निहतां(त-अं)श- -शः कौशि
 २१.

नि-हृत्य काश्रौ ४, १५, १५; आपश्रौ
 २, १९, ४; १९, ११, ६; काश्रौसं.

नि-हनन- -ने वौश्रौ २०, २८ : १४;
 २१, १४ : २७.

नि-हन्तृ- -न्ता विध ५१, ७४.

नि-हन्यमान, ना- -नाम् आपश्रौ
 १९, १७, ११; हिश्रौ २२, १,
 २३; -नाय वौश्रौ ४, ६ : ३२;

११, ४ : १६; १५, २८ : २४;
 -नायाः निसू ७, ११; ११; हिपि
 ५ : २.

१, २, नि-हव- नि/ह्वि द्र.

नि/हा(गती), निजीहवे^७ अप १, ७,
 ४; ७; नि...जिहताम्, नि-

(जिहताम्) शांश्रौ ७; ६, ३^१;
 ऋनि...जिहत् > ता, नि(जिहत्

> ता) आश्रौ ५, ७, ३.

नि/हा(त्यागे), न्यजहात् सु २५,
 २; ४.

नि...हीयताम् ऋप्रा ५, ३.

नि-हीन-> ण-तर-वृत्ति- -त्तिः
 आपध २, ५, ५^१.

निहीन-वर्ण-गमन- -ने गौध
 २३, १४.

नि-हाक्ता- पाठ ३, ४४.

ऋनि-हित- नि/घा द्र.

ऋनिहित^८ -ताः वौश्रौप्र १४ : २.

नि/हील् (= इ), निजिहीलते शांश्रौ
 १२, १४, २१^१.

नि-हृत- नि/ह्वि द्र.

नि/ह्व, निहरामि वौश्रौ ५, १० : २४^१;

ऋनिहरामः आपश्रौ १३, २२, ५;
 वौश्रौ ४, ११ : १५; नि...हर >

रा वौश्रौ ५, १० : २३^१.

निजिहीषेत् हिश्रु १, ३०.

नि-जिहीषेत्- -षेत् हिश्रु १, ३०.

नि-हारम् वौश्रौ ५, १० : २३^१.

नी-हार^९ - -रः कौश्रु ५, ५, ६;

कौश्रु ८२, २६; वाध १९, १४४^१;

अथ १८, ३; अपं ३ : ६०; अप्रा

३, ४, १; -रात् अप्रा ३, १, २^१;

-रं पाठ २, ११, ६; आपध १,
 ११, २५; ३१; वीध १, ११;

२३; हिध १, ३, ७५; ८२; -रण

काश्रु ७, १८; या १४, १०^१ कृ^१,

शुप्रा ३, १०५; ५, ३७.

१ नैहारिक^{१०} - -कम् वाध

१९, १५.

✓नीहाराय पावा ३, १, १७.

नि/ह्वन्, निह्वन्ते आश्रौ ४, ५, ७;

८, १३, २७; माश्रौ १२, १, १०;

३, १९; ४, ४.

a) पाभे. वैप १, १८४३ g द्र.। b) भाप., पारिभाषिकन्तंज्ञा- (अनुदात्त-। c) दस.>दस.>
 पस.। d) विप. ([निहता-] अणुमात्रा-। e) परस्परं पाभे.। f) वैप १ द्र.। g) = अनुदात्त- [कौशि.
 शैशि.]। h) छान्दसो दीर्घः। i) पाभे. वैप २, ३खं. शांश्रौ २८, ५ टि. द्र.। j) सप्र. हिध २, १, ८६ हीनतर^{११}
 इति पाभे.। k) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। l) = निहार- इति कृष्णपरिडतः (तु. Bibh.)। m) तत्रसाधवीयः
 प्र. इति कृष्णपरिडतः (तु. Bibh.)।

निह्रुते वीश्रौ ३, २९ : २३ ;
 वाश्रौ १, २, ३, २९ ; कागृउ ३९ :
 १५ ; गोय ४, ३, १७ ; निह्रुवते
 शाश्रौ ५, ८, ५ ; काश्रौ ८, २, ८ ;
 आपश्रौ ; निह्रुवे शाश्रौ १५, २४,
 ११ ; निह्रुवीरन् द्राश्रौ १४, २,
 ६ ; लाश्रौ ५, ६, ९.
 निह्रुव- -वः आश्रौ ४, ८, ९ ; ११ ;
 आपश्रौ ११, ४, २ ; -वात् आपश्रौ
 ११, ३, १३ ; -वे वीश्रौ २०, २१ :
 २२.
 निह्रुवा(व-अ)न्त- -न्तम् वैश्रौ
 १४, ३ : ११.
 निह्रुवन- -नम् हिश्रौ १०, ३, ३५ ;
 द्रागृ ३, ५, २३ ; गोय ४, ४,
 १४.
 निह्रुव्य शाश्रौ ५, १०, ३६.
 निह्रुवा(न>)ना- -नाम् वीश्रौ
 १५, २९ : ३१.
 निह्रुव>निहास- -सः हिश्रु १,
 १० ; ३८ ; ४, ३८.
 निह्रुवद्, निहादयन्ति हिश्रौ १३, १,
 ४७ ; १४, ३, ३९.
 निह्रुवै, निह्रुवामहे आपश्रौ १७,
 २२, १ ; हिश्रौ १२, ६, २६.
 निह्रुव- पा ३, ३, ७२ ; -वः
 ऋअ २, १०, १२४.
 निह्रुव- -वः छसू ३, ९ : १५ ;
 -वस्य लाश्रौ १०, ८, ९.
 निह्रुव-श्यावाइव- -श्वे लाश्रौ
 १०, ८, ८.

निह्रुवा(व-अ)नुग्रह- -हाय निसू
 ६, ३ : ११.
 निह्रुत->त-वत्- -वत् निसू
 २, ११ : २५.
 नी^१ पाधा. भ्वा. उभ. प्रापणे, नयते
 शैशि १६६ ; याशि १, ३२ ; ३३ ;
 नयति आपश्रौ ७, १५, ९५ ;
 वीश्रौ ; वैश्रौ १६, ७ : ३६ ; या
 ७, १४ ; २१ ; नयतः या ७,
 २९ ; नयन्ति शाश्रौ ४, १७, १० ;
 आपश्रौ ; या ३, १९ ; ४, १४ ;
 ७, २१ ; २४ ; नयामि काश्रौ
 १२, २, २२ ; आपश्रौ ७, १८,
 १४ ; २१, ५, १० ; वीश्रौ ; नया-
 मसि पागृ ३, १३, ५ ; हिगृ
 १, १५, ३ ; शौच ३, ८१ ;
 नयत् आपश्रौ ६, २०, २ ; १२,
 १५, ६ ; माश्रौ १, ६, ४, २१ ;
 हिश्रौ ८, ४, २१ ; कागृ ४१,
 ७ ; नयात् जैगृ १, १२ : ६ ;
 ८ ; १० ; नयासि हिश्रौ ६, २,
 १७ ; नयत् आपश्रौ ३, १४,
 २५ ; वीश्रौ ; पागृ १, ८, २ ;
 नयताम् माश्रौ २, ३, २, १३ ;
 नयन्ताम् कौसू १३७, २५ ;
 नयन्तु आपश्रौ ९, १४, १ ;
 काश्रौ १०, ३, २२ ; वीश्रौ ;
 नयन्, > या आश्रौ ३, ७, ५ ;
 शाश्रौ ; नयतात् वाश्रौ १, ६,
 २, ७ ; नयतम् वीश्रौ ६,
 २५ : २ ; वैगृ १, २१ : २ ; गोय

३, ४, २५ ; जैगृ १, १९ : २२ ;
 नयध्वम् गौपि १, २, १० ;
 नयत्, > ता काश्रौ २५,
 १३, २० ; आपश्रौ ; नयानि
 आश्रौ ५, १३, १२ ; शाश्रौ २,
 ६, १२ ; नयन् आपश्रौ
 १४, १२, ६ ; वाश्रौ १, ५,
 ५, ७ ; हिश्रौ १०, ६, ६ ; उ
 २६, २ ; ४ ; या २, २६ ; ऋप्रा
 २, ४६ ; ४७ ; नयन्तु आश्रौ
 ८, ३, २५ ; शाश्रौ १२, १९, १ ;
 १५, ३, ७ ; वाधूश्रौ ३, १७ :
 १४ ; उसू ३, १ ; अनयत् > ता
 ऋप्रा ८, ३० ; नयेत् शाश्रौ
 १३, २४, १४ ; काश्रौ ; हिगृ १,
 ४, ८ ; नयेयुः आश्रौ ३,
 १०, ३ ; ९, १, १० ; आपश्रौ १९,
 १४, १४ ; २०, ७, १७ ; २२, २१,
 ८ ; वीश्रौ.
 नयेषि आश्रौ ३, ७, ६ ; ८, ११,
 १ ; माश्रौ ५, १, ६, २६.
 निन्ये अप १, ६, ६ ;
 निनाय वाधूश्रौ ३, ८८ : १७ ;
 वैताश्रौ ६, १ ; निन्यिरे वीश्रौ
 १८, २३ : २ ; निन्युः आपमं
 १, ९, ७ ; आमिगृ १, ५, ४ :
 ४७ ; वीगृ ; नेप्यामः छसू ३, १ :
 ५ ; नेपत् आश्रौ ५, ९, १ ;
 शाश्रौ ७, ९, १ ; वीश्रौ ;
 नेपत् पावा ३, १, ३४ ; २, १३५ ;
 नैः माश्रौ २, ५, ४, २४ ; नैः

a) = नमस्काराञ्जलिकरण- [दक्षिणान्पाणीं उत्तानान्कृत्वा सव्यानीचः] इति (आपश्रौ [११, १, १२] प्रश्न.
 [तु. J. Brough सिभा १, १२६-३०]) । b) विप. । वस. । c) पामे. पृ १४२६ f द्र. । d) पा १, ३, ३०-
 परामृष्टः द्र. । e) = साम-विशेष- । f) ऋप्रा १४, ४४ या ७, १४ ; २९ पा १, ३, ३६ पावा १, ४, ५२ परामृष्टः द्र. ।
 g) पामे. पृ १२२८ d द्र. । h) सपा. आपमं २, २२, २ वि...नयामसि इति पामे. । i) सपा. तै ५,
 ७, ३, ३ नेपत् इति पामे. । वैप १, १८४६ i अपि द्र. । j) पामे. वैप १, १८४५ g द्र. । k) पामे.
 वैप १, १८५४ h द्र. । l) पामे. वैप १ विचक्रमे तै ३, २, ६, १ टि. द्र. । m) संकृत पामे. वैप १,
 १८४५ l द्र. ।

ऋप्रा १४, ४४^क.
 नीयते आपश्रौ २०, १७, ७;
 वीश्रौ १६, २५ : ६××; कप्र;
 नीयन्ते आश्रौ ५, १३, ११;
 वीश्रौ १८, २ : ३; १९, ५ :
 ३५; २४, २९ : ८.
 नय > रनय-व(त् >) ती^अ
 -त्या वीश्रौ ६, ३० : २६; ८,
 ५ : १२××; वैश्रौ; -वत्याम्
 वैश्रौ १६, ८ : ५.
 नय-शस् (:) अप ६८, ४, २.
 नय- पाग ५, २, ६४^ब; ६, १,
 १९९^ब; -यम् शोध ११६ : ५७^०.
 नय-क- पा ५, २, ६४.
 इनय-वत्- -वान् शोध २५३.
 नयत्- -यन् काश्रौ ५, ५, ९; ६,
 ६, १××; आपश्रौ.
 नयन्ती- -न्ती या ९, १८;
 -न्तीः वीश्रौ ८, ५ : २१^क.
 नयति-> ल्य(ति-अर्थ)-र्थम्
 ऋप्रा ५, ५७.
 नयन्^द- पाउवृ २, ७८; -नम् काश्रौ
 २२, ३, २१; -नस्य मीसू ४, १,
 २५.
 नयमान- -नम् वीश्रौ १०, १० :
 १; माश्रौ ६, २, २६; वाश्रौ २,
 १, १, ५०; वैश्रौ १८, ४ : १.
 नाय- पा ३, ३, २४; पावा ३, २, १.
 नायक- -कम् वैश्रौ १८, १ : २४;
 अप २४, १, ९.
 नीत, ता- -तः वीश्रौ १८, ३० :
 ८; वाधूश्रौ ३, ४५ : ४; भाशि

१२५^क; -तस्य वीश्रौ १८,
 ४१ : १७^०; -ताः आपश्रौ १३,
 ६, १४; -तात् या ७, १४;
 -तासु आपश्रौ १३, ७, १६;
 काश्रौसं ३४ : १; वीश्रौ.
 नीत-दक्षिण^{१४} -णम् वीश्रौ
 २४, १३ : ५.
 रनीत^१-> -त-मिश्र- -श्र आपश्रौ
 २०, २५, २; -श्रेण आपश्रौ १४,
 २४, १४; २२, १०, १०; वीश्रौ.
 नीति- -तौ पा ५, ३, ७७.
 ?नीति-शरीर^{११}- -रः वाधूश्रौ
 ३, ३५ : ४.
 नीत्वा काश्रौ ४, ९, १२; आपश्रौ.
 नीथ- पाउ २, २; -नथानि^१ आश्रौ
 ५, ९, १; शाश्रौ ७, ९, १; -थेऽथे
 आपमं २, ११, ८^क; -थैः भाश्रौ
 ५, ४, २.
 नीथ-विद्- -विद् शाश्रौ ७, ९,
 १^क.
 नीथा- > नथानि-विद्^१ -विद्ः
 ऋप्रा ९, १७.
 ?नीयन्तम् सुध १३.
 नीयमान, ना- -नम् वीश्रौ ३, २६ :
 ४; ४, ६ : २९; वैताश्रौ १३,
 १२; वृदे ४, २७; -नस्य वाश्रौ
 ३, ४, ४, ७; -नाः विध ४३,
 ३३; -नाम् काश्रौ ७, ६, १४^म;
 आपश्रौ १९, १७, १०; वीश्रौ;
 -नायाः काश्रौसं २८ : १०; -नासु
 आपश्रौ १९, १४, १४; वीश्रौ
 १९, ६ : १५; हिश्रौ ९, २, १३××;

जैश्रौ; -ने वैताश्रौ १०, १७.
 नेत(व्य>)व्या- -व्या या ४, १५.
 नेवृ- -०तः ऋप्रा १, १०१^क;
 -नता आश्रौ ५, १४, १७; शाश्रौ
 ७, १९, १२; ८, १७, १^३; वाधूश्रौ;
 या १, ८; २, १४^५; -नतुः आश्रौ
 ७, ६, ६; आपश्रौ १०, ८, ६; १६,
 ८, १३; वीश्रौ ६, ४ : ६; १०,
 १३ : ५; भाश्रौ; पावा ५, ४,
 ११६^६; -तृणाम् वीश्रौ
 ४, ४ : १७^क; -तृणाम् भाश्रौ
 ७, ७, १६^क; कौसू ४८, ११.
 नेत्री- -त्री पागृ ३, ३, ५;
 -ञ्चौ गोगृ ३, ४, २५^म; द्रागृ ३,
 - १, २३^क.
 नेत्र- पावा ५, ४, ११६.
 नेतोस (:) आपश्रौ १०, १३, ३;
 भाश्रौ १०, ८, २.
 नेत्र^१- पा ३, २, १८२; पाग^१ २, ४,
 ३१; ५, ४, ३; -त्रम्^१ अप २२,
 ६, ५, १०, १; -त्रे जैगृ १, १९ :
 २२^म; कप्र १, १०, ३; अप
 २२, ७, ३^५; वृदे ४, १५; -त्रेण^१
 कप्र १, ८, ४; अप २२, ८, २;
 -त्रेषु माशि १५, ९; याशि २,
 १०९; नाशि २, ८, २३.
 नेत्र-क- पा ५, ४, ३.
 नेत्र-कन्धरा-वाहु-सक्थ्यं (क्थि-
 अं)स-मङ्ग- -ङ्गे विध ५, ७०.
 नेत्र-चपल- -लः वाध ६, ४२.
 नेत्र-द्वय- -यम् शोध ५७; ४५६;
 ४५८.

a) वैप १, १८४७ ० द्र. । b) भाप. । c) = साध्याऽन्यतम- । मयम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु-
 अप्पु २१९, २६ शक. च) । d) भावाद्यर्थे ल्युट् प्र. । e) प्रकरणतः अण्णिमानं नीतस्य इति (तु. वीश्रौ १८, ३० :
 ८) । f) विप. । वस. । g) उप. = २दक्षिणा- । h) नवनीत- इत्यस्योत्तरांशः । i) पूष. अर्थः ? ।
 j) पाप्मे. वैप १, १८४७ १ द्र. । k) पाप्मे. वैप १ विश्ववित् तै ५, ६, ८, ६ टि. द्र. । l) वैप १ द्र. । m) पाप्मे.
 वैप २, ३ खं. अतिविच्छ्रमात्रां काश ४, २, ४, १२ टि. द्र. । n) सपा. नेत्रौ <> नेत्रे इति पाप्मे. । o) = लेचन- ।
 p) तु. पागम. । q) = मन्यन-रज्जु- । r) विप. (उपानह-) ।

नेत्र-युग्म- -मम् शैशि ३५६.
 नेत्र-विकल- -लः शंख ३७७ :
 ११.
 नेत्रा(त्र-आ)दि-करण- -णैः अप
 २३, ३, २.
 नेत्रा(त्र-आ)द्यु(दि-उ)ल्लोच-
 शोभिष्ठ- -ष्टम् अप २१, ६, २.
 नेनीयाम्/वस, नेनीयामास वौश्रौ
 १८, ४७: १३.
 नेन्य- पा ३, १, १३४.
 नेष्ट- पाठ २, ९५; पा ६, ४, ११;
 पावा ३, २, १३५; -णं०ष्टः आश्रौ
 ५, ७, ३; शाश्रौ; -ष्टा आश्रौ ४,
 १, ६; ५, ३, २१; ५, १७; शाश्रौ;
 वाश्रौ ३, २, १, १३४; -ष्टारः
 काठश्रौ १३०; -ष्टारम् आश्रौ
 ५, १९, ८; शाश्रौ; -ष्टुः आश्रौ
 ९, ४, १७; १२, ९, ६; शाश्रौ;
 -ष्ट्रा काठश्रौ १४२; वौश्रौ ७,
 १६ : ५१; ५३; -ष्ट्रे आपश्रौ
 १३, ५, १२; लाश्रौ ९, ६, ६.
 नेष्टापोच- -तारौ वौश्रौ १७,
 १८ : ४; १९ : ४; वौश्र ३, १०,
 ६; -वृम्याम् काश्रौ १५, ८, २३;
 वौश्रौ १२, १८ : १७.
 नेष्ट-मुख्य- -ख्यान् वाश्रौ ३,
 २, १, १५.
 नेष्ट- -ष्ट्रात् काश्रौ ९, ८, १२;
 आपश्रौ ११, १९, ८; काठश्रौ
 १३०; वौश्रौ ७, ९: ११; माश्रौ
 २, ३, ६, १७; हिश्रौ ७, ८, ४२; -
 या ८, ३; ऋप्रा १४, ५८; -
 पावा ३, १, ३४; २, १३५.

नेष्ट(ष्ट-अ)च्छावाकीय-
 -ये काश्रौ २४, ४, ४३.
 नेष्टा(ष्ट-आ)दि- -दीन् काश्रौ
 १२, २, १८.
 नेष्टीय, या- -यः माश्रौ २, ३,
 ६, १७; -यम् आपश्रौ १२,
 ५, १४; माश्रौ २, २, ४, ४;
 -यस्य माश्रौ २, ३, २, २३;
 ५, २, १६; -यात् या ८, ३;
 -याम् भाशि १३.
 नी(नि/इ), न्येति वौश्रौ १५, ८ :
 १५; १६, ९ : ४; नियन्ति
 वौश्रौ १४, २७ : १; २८ : ७;
 अप १, ६, २; ५; ऋप्रा २, १०;
 नीयात् आपश्रौ ५, २६, ३.
 न्य(नि-अ)यन- -नम् आश्रौ २,
 १२, २; आपश्रौ १७, १३, ५;
 वौश्रौ; -तात् आपश्रौ १८, ९,
 १६; वाश्रौ ३, १, १७; हिश्रौ
 १३, ३, ३३.
 न्या(नि-आ)य- पा ३, ३, ३७;
 १२३; पाग ४, २, ६०; ३, ५४;
 ७३; ८, १, २७; -यः शाश्रौ
 ३, १६, २२; ६, ११, १४;
 वौश्रौ; -यम् वौश्रौ २४, १ :
 १४; निस्; ऋप्रा १०, २२;
 -यात् शाश्रौ १५, २४, १; -
 काश्रौ १३, ४, १२; -येन आश्रौ
 ११, ४, ८; १२, ५, १३; १४;
 शाश्रौ; -यैः ऋप्रा १, ५३.
 नैयाय- पा ४, ३, ७३.
 नैयायिक- पा ४, २, ६०;
 -कम् माशि १५, ११.

न्याय-क्लृप्त, सा- -सः आश्रौ
 ११, २, १२; शाश्रौ १३, १८, ४;
 निस् ८, ८ : ४०; -सम् आश्रौ
 ११, २, ३; ८; १३; निस्; -साः
 आश्रौ ९, ४, २; ११, ६, १.
 न्याय-तर- -रः निस् २, ९ :
 २१; ६, ५ : २६; ७, १३ : ९;
 १८; -रेण निस् १, १० : १४.
 न्याय-तत्सु (ः) शंख १३३; गौष
 ११, ९.
 न्याय-दण्ड- -ण्डः विष ३, ९६-
 न्याय-पूर्व- -र्वम् मीत् ३, ८,
 २०.
 न्याय-प्रगाथ-धर्म- -र्माभ्याम्
 लाश्रौ ६, १, १२.
 न्याय-मात्र- -त्रम् मीत् ५, २,
 ९; २१.
 न्याय-मुख- -खम् अप्रा १, १,
 ४.
 न्याय-वत्- -वान् या १, १३.
 न्याय-विद्- -विद्ः आपध २,
 १४, १३; हिष २, ३, २४.
 न्यायवित्त-समय- -यः आपध
 २, ८, १३; हिष २, १, ११५.
 न्याय-विप्रतिषेध- -धात् मीत्
 ५, ३, २५.
 न्याय-विहित- -तः लाश्रौ ६, ७,
 १३.
 न्याय-वृत्त- -त्तम् गौष ११,
 १४.
 न्याय-संहित- -तम् शुप्रा ५, ८;
 -तान् आपध १, २२, १; हिष
 १, ६, १.

a) विप. । वस. > मलो. कस. > वृत्. । नेत्र- = रज्जु-, उल्लोच- = वितान- । b) तु. पासि. ।
 c) वैप १ द्र. । d) ष्टाः इति पाठः ? यनि. शोघः । e) विप. । वस. । f) नेष्टात् इति पाठः ? यनि. शोघः
 (तु. तु १०२५ c) । g) परस्परम् उसं. (पावा १, १, ६४) । h) वप्रा. । भाप. नाप. (श्रौचित्य-, दर्शन-शास्त्र-
 प्रम्.) । i) पृ ११२६ c द्र. । j) = प्रकृति- । k) = उत्सर्ग-विधि- । l) 'यकम्' इति पाठः ? यनि-
 शोघः । m) उप. < विद् [ज्ञाने] । n) पूष. = व्याकरण-नियम- ।

न्याय-सिद्ध- -द्धः पावा ८, १, १२^०.
 न्याया(य-अ)ग(त >)ता-
 -ताम् अत्र ७, ११५.
 न्याया(य-अ)धिगम- -मे गौध
 ११, २५.
 न्याया(य-अ)ध्ययन- -नस्य
 अप्रा १, १, १.
 न्यायो(य-उ)क्त- -क्ते मीस् ३,
 ८, ४१; -क्तेषु मीस् १०, ५, ७७.
 न्यायो(य-उ)वेत- -तम् वीश्रौ
 २९, ८ : २२; कौश ३, ९, ५१;
 -तेभ्यः शांश्रौ ४, ८, १.
 न्याय्य, य्या- पा ४, ३, ५४; ४,
 ९२; -य्यः लाश्रौ ७, १, ६; ३,
 १०; ४, ६; पावा १, २, ६४; मीस्
 ६, १, ४५; २, ४, १८; -य्या पावा
 ३, २, १०२; १२, ३; -य्याः लाश्रौ
 ६, ९, २; -य्यान् लाश्रौ ६, ९,
 १; -य्यानि मीस् १२, १, ११;
 -य्ये निस् ८, ८ : ३३; -य्येन
 लाश्रौ ६, १२, १४^३.
 न्याय्य-दण्ड-त्व- -त्वम्
 गौध १०, ८.
 न्याय्य-प्रतिहार^b- -राणाम्
 लाश्रौ ६, ११; ३.
 न्याय्य-भाव- -वात् पाप्रवा
 २, २.
 न्याय्य-समाज्ञा- -ज्ञा लाश्रौ
 ६, १०, २८.
 ?नीः^c वाश्रौ १, १, २; १६^१.
 नीक- पाउ ३, ४७.
 नी-कर्पिन्- नि/कृष् द.
 नीच^d- पाउभो २, २, ७८^१; पाग ४,

३, १५२^६; -चः शुप्रा १, १५०;
 माशि ५, ११; ६, १; ७, १०; याशि;
 -चम् द्राश्रौ १, ३, २५; आमिष्ट;
 -चस्य ऋत ५, ४, २; नाशि १,
 ७, २; -चा^e शांश्रौ ४, ३, ६;
 ९, ५; काश्रौ; या ४, २४^१कृ;
 -चात् माशि ५, १; २; याशि १,
 ५८; कौशि ३२; नाशि १, ८, ६;
 २, ३, ३; -चे द्राश्रौ १, ३, २५;
 अप ६५, १, २; ऋत २, ६, ४;
 शैशि १३६; याशि १, ३; नाशि
 १, ७, १२; -चेन नाशि १, ७, ८;
 -चेः^f काश्रौ ३, ६, ७; आपश्रौ;
 या २, ९; ४, २४^२; ५, १८; पा
 १, २, ३०; पाग १, १, ३७; -चौ
 शैशि १७४; याशि १, ७.
 ?नैच- पा ४, ३, १५२.
 ?नैच(च >)चा^e-> नैचा-शा-
 (खा >)ख^g- -खम् या ६,
 ३३^१.
 नीच-गत- -तानि याशि १, ५३.
 नीच-तर- -रम् माशि ५, १; २;
 याशि १, ५८; ६५; कौशि ३२;
 नाशि १, ८, ६.
 नीच-तस् (:) नाशि २, ३, २.
 नीच-त्व- -त्वम् कौशि ५; -त्वे
 कौशि ५.
 नीच-दक्षि(णा >)ण^b^b- -णस्य
 आगृ १, २३, २०.
 नीच-पूर्व- -वैः शुप्रा १, १११; याशि
 १, ७८.
 नीच-स्वर-पर^h- -राः शुप्रा १, ११३.
 नीच-स्वरित- -तम् उस् ८, २०;
 २६.

नीच-स्वार-धृतो(त-उ)दात्त- -त्तान्
 कौशि ३८.
 नीचा-पूर्व^h- -वैः तैप्रा ५, ८.
 नीचा(च-अ)वग्रह- -हम् माशि
 ६, ५.
 नीचा-शा(खा >)ख^g- -खः या ६,
 ३२.
 नीची/भू, नीचीभवति अप ५०,
 १, ३; ४.
 नीचैः-कर- -राणि तैप्रा २२, १०.
 नीचैर्-गमन- -नम् या १, ११;
 अत्रभू ८.
 नीचैः-शा(खा >)ख^g- -खः या ६,
 ३२.
 नीचैस्-तर->राम् काश्रौ ७, २,
 २८^३; आपश्रौ १०, ४, १०^३;
 २४, १४, ५; वैश्रौ १२, ५; ७; ८;
 हिश्रौ २१, २, ४०; शांश्रौ ४, १५,
 १८^१; कौश ४, २, ३; तैप्रा १, ४४.
 नीचैस्-ता- -तायाम् हिश्रौ ६,
 १, ४.
 नीचो(च-उ)च-त्व- -त्वम् याशि
 २, २७.
 नीचो(च-उ)च-स्वार-संप(ब >)
 न्ना- -न्नाम् तैप्रा २३, २४;
 कौशि ६७.
 नीचाप, य/क^k- (>^oपकीय-,
^oयकीय- पा.) पाग ४, २, ९०.
 नीची-, नीचीन्- प्रभृ. न्य(नि/अ)
 च्, च्च् द.
 नीड^e- पाउभो २, २, ११९; पाग २, ४,
 ३१; -डम् सु ३१, १; बाध
 ६, ३; निध. ३, ४^१; -डात्
 वीश्रौ ६, १७ : ८; वैश्रौ १२.

a) तु. पासि. । b) विप. । वस. । c) सपा. आपश्रौ ४, ४, ८ भाश्रौ ४, ५, ५ हिश्रौ ६, १, ५१
 ?नूः इति प्राभे. । d) विप., नाप. (अनुदात्त-) । e) वैप १ द्र. । f) <√नम् । g) अर्थः ? । तु. पाका. ।
 ?नीप- इति भारुडा. पासि.; नील- इति [पक्षे] पाका. । h) उप. = रदक्षिणा- । i) विप. । कस. > वस. ।
 j) तु. भारुडा. प्रभृ. । k) तु. पागम. ।

२१ : १५; -डे आप्रौ ११,
१७, १०; १२, २, १२; वौश्रौ.
१, रनीत- नीति- प्रवृ. ✓नी द्र.
१नीप^० - (> नैप-पा.) पाठ ३, २३;
पाग ४, ३, १५२^०.

२नीप^० - > नीप्य- प्याय शुभ्रा ५,
३७^०.

नीपातिथि^० - थि: ऋअ २, ८, ३४;
लाअ १, ३४८.

१नीयन्तम्, नीयमान- ✓नी द्र.

नीर- पाठ २, १३; -रम् अप ४८,
७५^०; ८९^०; निघ १, १२^०;
या १४, ११.

नी (< नि > रज्ज् - < क >) का^०-
का वौष २, २, ६३.

नी (< नि >) ✓राज् > नी-राजन्^०-
न्म् अप १७, १, ४; ८; १८^०, ८,
१; १२, २; १६, १; -ने कप्र ३,
७, ८; अप २४, १, २.

नी-राजयित्वा अप १८, ३, ९.

✓नील् पाषा. भ्वा. पर. वर्णे.

१नील, ला^० - पा ४, १, ४२; पावा ४,
२, २; पाग ३, १, १२^०; १३; ४,
३, १५२^०; -ल: अप २४, ३, ४;
-लम् वौश्रौ १४, १: १०; १२^०;
आपय; शंघ ११६: ८^१; वौष २,
५, २, ५^०; -ला अप २१, ३, २;
-ला: अप ४३, ५, ६०^०; चाशि
२, १; उनिच् ८: ७; -लान् विघ
५०, २५; -लानि वौश्रौ २६, ५:
३१; -लान् कैय २, ९: ३४;
-लायं आमिष्ट २, ६, ८: ३४^०;

-लेन अअ १५, १; -लेष्टु
आपश्रौ १७, ५, ३; वैश्रौ १२, ५:
१८; हिश्रौ १२, २, १७; -लै:
अप ७०^०, ७, १७; ७१, ११, ५.

नीली- पा ४, १, ४२; -ली
कौचू १२६, ५.

नीली-काष्ठ-क्षत- -त:
शंघ ४१२.

नीली-रक्त- -रक्त विघ
६६, ३.

नैल- पां ४, ३, १५२.

१नील-श्रीव^० - वाय वौष्ट २, ५,
३३; गौष २६, १२.

१नील-नख^० - खेभ्य: अप ४६, ९,
४; अअ १२, २२.

नील-पङ्कज-पत्रा (त्र-अज्ज >)
क्षी- क्षीन् विघ १, २२.

नील-पर्वत- -ते विघ ८५, १३.

नील-बन्धन- -त: हिष्ट २, ७, २^०.

नील-सौम^० - मन् शंघ ११६: ३.

नील-म(त्त)क्ष्मा^० - क्षा: कौचू
११७, १.

नीलमक्षा (क्षा-अ) नाचार- -रे
कौचू ९३, २४.

नील-मक्षिका- -का वौश्रौ १७, ९: १.

नील-रश्मि-प्ररोहत्- -हन्त: अप
६५, १, ११.

नील-रुद्र^० - र्द्रै: अप १२^०, ३, ५.

नील-लोहित^० - १^०त्त शुभ्रा २,
२०; -त: अप्राय २, ३^०; अप
४८, ११६; -१^०त्त कौचू १, ८,
८; शंघ १, १२, ८; काय ३१, ४;

-वान्यान् वौश्रौ ५, १७: ४;
२१, ६: ४; वैश्रौ: -ते वौश्रौ
५, १६: ४^०; आपमं १, ६, ८^०;
आमिष्ट २, ६, ३: ४; वौष्ट १, ५,
१०^०; वौषि १, ११: ४; कौचू
८३, ४; -तेन काय ३१, ४; काय
१६, ११; कौचू १६, २०.

नीललोहित-पर्यक्त- -का: अप
५७, १, ७.

नीललोहित-पर्यन्त^० - न्त: अप
५३, ५, ३; -न्तम् अप ६१, १,
१४.

नील-लोहित-पीतक- -का: अप
६४, ३, १०.

नील-व(र्ष) > गर्ष, षी^० - गर्षा:
अप ३८, १, ५; -ष्या: आमिष्ट
२, ७, ७: ६.

नील-वृष- -वेज शंघ ३३३.

नीलवृष-वल्ग-प्रभव- -व: शंघ
३३३.

१नील-शिशुण्ड^० - षण्ड हिष्ट १,
१५, ६; -ण्डेन अअ ११, २^०.

नीला(ल-अ)क्ष्मा^० - > लोहितव-
ल- लौ अप ६४, ६, ५.

नीला(त्त-अ)व्ज-नै(त्त) > त्रा-
-०त्रे विघ ९९, ३.

✓नीलाय पा ३, १, १३.

नीलो(त्त-त्त)वल्ग- > ल-वल्ग-प्र-
(त्त) > न- नै: अप ६४, १,
१०.

नीलोत्पलनिम- -न: अप २१,
७, ३.

a) वर्ष: व्यु. च ? ।

b) नीच- ति. द्र. ।

c) वैप १ द्र. ।

d) = उद्ध- ।

e) = रह- । f) विप. । वत्त. ।

g) = आरात्रिक- ।

h) वृ. पागम. ।

i) = नहापर्वता-

उन्वतन- । j) व्यप. । k) = यम- । l) सपा. आपमं २, १६, १ पाय १, १६, २४ दालबन्धन: इति पामे. ।

m) = पाताल-विशेष- । वत्त. । n) उप. = मक्षिका- । o) = मन्द्र-विशेष- । h) वैप १, १८५० III द्र. ।

q) पामे. वैप १, १८५० O द्र. । r) = शिव- । वत्त. । s) पामे. वैप १, १८५० T द्र. । t) विप. । वत्त.

> वत्त. ।

नीलोत्पल-यु(त>)ता- -ताः
निघ १, २७.

नीलो(ल-उ)पकाश^{१०७}- -शः
आपश्रौ ६, ९, ११.

रनील^०- पाग ४, १, १५४; -लाः
वौश्रौप्र ४८ : ८; १३.

नैलायनि- पा ४, १, १५४.

नीला(ल-आ)त्रेय- -याः वौश्रौप्र
२७ : ६.

नीलङ्ग^१- पाठ १, ३६.

नीलागलसाला^१- -ला अप ४८,
११६; अप्रा ३, ४, ७.

नीव^१ पाधा. भ्वा. पर. त्यौल्ये.

नीवर- पाठ ३, १.

नीवार- नि^१/वृ (भोजने) द्र.

नीवि, वी^१- पाठ ४, १३६; -निविः

कांश्रौ ७, ३, २३; आपश्रौ १०,
६, ६; माश्रौ १०, ४, ४; हिश्रौ

१०, १, ३९; शुश्र १, २५०;

-विम् काश्रौ ४, १, १५; ७, २,

१७; ३, २३; आपश्रौ १०, ६, ६;

हिश्रौ १०, १, ३९; -वीः हिश्रौ

९, ४, २८; -वीम् काश्रौ ५, ९,

२०; माश्रौ १०, ४, ४; माश्रौ.

नीवि-देश- -शे वौश्रौ ३, २७ :

२९.

नीवी-हस्त^१- -स्तेन अप १, २८, ४.

नी-वृत्- नि^१/वृत् द्र.

नी-हार-, ^१नीहाराय नि^१/ह द्र.

नी^१, > नू^१ आश्रौ ३, ७, १२; ८, १^२ x x;

६, ४, १०^{१०}; शांश्रौ; आपश्रौ ५,

६, ३^१; वौश्रौ १०, ११ : ९^{१६};

वैष ४, ८, ७^{१६}; या १, ४^१;
४, २; १७^१ कृ; १०, ३^१ कृ; पा ६,

३, १३३; पाग १, ४, ५७.

नुकम्^१ निघ ३, १२^१; पाग १, ४,

५७.

नी^१/नु, नू पाधा. अदा. तुदा. पर.

स्तन्नै, नवते निघ २, १४;

नवन्ते ऋश्र २, ९, १००; साश्र

१, ५५०; ऋप्रा ७, ४३.

नौति अप ४८, ९; निघ ३, १४.

अनूपत आश्रौ ६, १, २; ८, ३, ३४;

शांश्रौ १२, १२, ६; वैताश्रौ २५,

९; कौसू ४७, १६; अप ३७, १,

९; ऋश्र २, ३, ३०; १०, ४३;

साश्र १, ३७५; या ४, १९^१ कृ^१;

शुप्रा ४, ७८.

नोनुमः आश्रौ ५, १५, २; ६,

५, १८; आपश्रौ.

नवन^१- नम् या ४, १६.

नु^१- नुः शुप्रा ३, १३३ x x.

नी^१/नुद् पाधा. तुदा. उभ. प्रेरणे, नुदते

वौश्रौ २३, ७ : ३; नुदति या ५,

२६; नुदन्ति सु ८, १; नुदतु

कौसू १३५, ९^१ कृ; नुदतात् वौश्रौ

२, ९ : ४^१ कृ; नुदन्तु कौसू १३५,

९^२ कृ; नुदस्व वैताश्रौ ४, ५;

माश्र १, १३. १५; २, १, ७;

अप्राय २, ५; नुद, > दा अप

४२, १, ८; शुप्रा ३, १०७; तैप्रा

३, ८; नुदत्. माश्र २, १७, १^१ कृ;

अनुदत् वृदे ४, २३; नुदेत् ऋप्रा

११, ४३; नुदेय वौश्रौ १७, २८;

१७; हिश्रौ १२, ८, ७; आपश्रु
१२, ६^१ कृ; हिश्रु ४, २८^१ कृ.

नुनुदे वौश्रौ १८, ३१ : १५^१ कृ.

नुधेरन् वौश्रौ २३, ७ : ४.

नुत्त^१- पा ८, २, ५६; -त्तानाम्

अप्रा २, ३, १६^१ कृ.

नुदत्- दन् वैताश्रौ १४, १^१ कृ.

नुदनु- पाउना ३, ५१.

ननुदमान- -ने आपश्रौ ४, ६, ५;

माश्रौ ४, ९, ३; वैश्रौ ५, ७ : ५;

हिश्रौ ६, २, १६.

नुन्न- पा ८, २, ५६.

नोद्यमान- -नः सु ८, ४.

नुलु^१- लुः अप ४८, ११६.

नी^१/नू, नू द्र.

नी^१/नूः^{१०} आपश्रौ ४, ४, ४^१ कृ; माश्रौ ४,

५, ५; हिश्रौ ६, १, ५१.

नी^१/नूतन^१- पावा ५, ४, २५^१ कृ; -नम्

अप ४८, ६९; निघ ३, २८;

अप्रा ३, ४, १; -नाः आमिश्र

३, ४, १ : १५; वौपि १, ४ :

१०; १५ : ४; -नेन आश्रौ ३,

८, १; ५, १७, ३; वौश्रौ १३,

२२ : ४; अप्राय ६, १; -नैः

या ७, १६^१ कृ.

नूल^१- पावा ५, ४, २५; -नूलम् अप

४८, ६९; निघ ३, २८.

नी^१/नूनम्^१ आश्रौ २, ९, ४ x x; शांश्रौ;

या १, ५, ६; ११, ३६; नूनाश्म

वौश्रौ १८, ४५ : २२.

नूपुर^१- पाठश्रौ २, ३, ५२; पाग २,

४, ३१^१ कृ.

a) विप. । वंस. । b) उप. = प्रकाश- । c) = ऋपि-विशेष- । व्यु. ? । d) वैप १ द्र. । e) अनु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ८, ९५, ७) । f) पामे. वैप १ परि. अनु ऋ ३, १७, १ टि. द्र. । g) अनु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा २७, २४) । = h) अनु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. झंउ ४, ४, ४) । i) पामे. वैप १ परि. भमिचवः ऋ १, १३४, २ टि. द्र. । j) = स्तोत्र- । करणे ल्युट् प्र. । k) = न- (वर्ण-विशेष-) । व्यु. ? । l) अर्थः व्यु. च ? । m) पामे. पृ १४४५ C द्र. । n) नूर् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. C., माश्रौ. प्रसू. च) । o) = पाद-भूषण- । व्यु. ? । p) तु. पागम. ।

नूतं^१ हिण् २,९,१०.

नृ^२- पाठ २,१००; पा ६, १, १८४;
४,६; पागवा ४,१,७३; ननरः
आश्रौ २, १३, ७^३xx; शाश्रौ;
माश्रौ ५, २, ८, २०^०; या १,
१०; ५, १०; ९, १९;
१०, ३०; ननरः आश्रौ ८,
३, ३०^०; शाश्रौ ६, १०, ८;
१२, २४, २^०; १६, ११, ९;
काश्रौ १०, ५, ४^०; आपश्रौ ११,
५, १^०; माश्रौ १, २, ४, १९^०; वाश्रौ
१, ३, २, १^०; लाश्रौ; नरम् आश्रौ
७, ४, ३^०; शाश्रौ १८, ५, ९^०;
वैताश्रौ^३ ४०, १४; ४१, १;
४२, ५; ऋप्रा ७, ४३; ननरा
आश्रौ ४, १५, २; शाश्रौ ६,
६, ६; ७, १०, १०; ननरा
आश्रौ ७, ९, २; शाश्रौ; या ५,
२४; नरे आपश्रौ १४, २९, २^०;
ननरौ अप्राय ६, ९; नृणाम्
ननराश्रौ ८, ६, १२; ९, ५, ५;
शाश्रौ; या ६, १^०; ननृभिः
आश्रौ ६, १२, ११; शाश्रौ; या
५, ६; नृभ्यः या ११, ३६;
पावा ७, ३, १०^०; नृपु वृदे ७,
६०; नृणाम् अप ३१, १०, ५;
७०, २, २; शंघ; नृन् शाश्रौ
१४, ४३, १^०; वैष ३, ११, ७;
या ११, ९^०; ऋप्रा ४, ७१^०;

७८^३xx; ७९^३xx; पा ८, ३,
१०.
ननारि,री^४- पावा ४, १, ७३;
४, ४९; -ननरि शाश्रौ १६,
१३, १३; वैताश्रौ; आपमं १,
१३, २^०; -नरिषु वौश्रौ १३,
१३ : ५; काण् ७३, २; या
११, ३८; -री शाश्रौ १२,
२४, २^०; लाश्रौ ९, १०, ६^०;
आपमं; -नरीः शाश्रौ ४, १६,
६; आण् ४, ६, १२; कौण्;
-रीणाम् अप ६४, ८, ७; ७१,
१८, १; शंघ; -रीम् आमिण् २,
७, ६ : ४; १०; जैण्; -रीषु
विघ २९, २१; -र्यः सु ४, २;
अप ७०^३, १०, २; ७०^३, ११, ३१;
-र्याः शंघ ३००; -नर्याम्^५
आपमं १, १२, ६; माण् २,
१८, ४; -र्ये आपमं १, ८, १.
नारी-निवन्धन^६- नः याशि
२, १०२; नाशि २, ८, २४.
नारी-मध्य- मध्ये विघ ७०,
१५.
नारी-सुख-प्रसव^७- चाय
अत्र १, ११.
नरा(र-आ)दि^८- दिः वैश्रौ २१,
३ : ४.
नृ-चक्ष^९- पाठ ४, २३३; -०क्षः
वाश्रौ १, ६, ५, १०; -नक्षसः

शाश्रौ ९, २८, १०; काण् ४० :
८; -नक्षसम् शाश्रौ ७, ४, ४;
आपश्रौ; -त्तसा हिणि १८ :
८^०; -नक्षसाम् काश्रौ १७,
१०, १३; वौश्रौ १०, ४२ : १०;
माश्रौ ६, २, १, २४; -नक्षाः
आश्रौ ५, १९, ४; शाश्रौ ७,
४, ४^०; जैश्रौ; माशि ११, ३^०.
नृ-जित्- -जितम् शाश्रौ १४,
४३, १.
नृजित्-प्रभृति- -तिभ्यः शाश्रौ
१५, १०, ६.
नृ-ज्यायम्^{१०} माश्रौ ५, १, ५, ६७.
नृ-तम- -मः शाश्रौ १८, १५, ५;
-मम् आश्रौ ८, ६, १२; शाश्रौ
१४, ३, ७; १८, १९, ७.
नृ-नम-^{११}, नृ-नमन- पाण् ८, ४,
३९.
नृ-प, पा^{१२}- -०प वृदे ३, १४६;
-पः अप २, १, ५xx; विघ;
अत्र २०, ६३^०; -पम् अप ७,
१, १३xx; वृदे; -पस्य कप्र १,
६, ५; अप; -पाणाम् अप ७,
१, १३; ७०^३, १०, ४; -पाय
अप २४, ५, ५; -पायाम्^{१३} वैष
३, १४, १; १५, ६; ८; ९; -पे
शाश्रौ १६, ९, १०^०; अप ६९,
८, २xx; -पेण अप २, ४, २;
५, ५, १; -पौ वृदे ५, १२७.

- a) पाठः? तूर्तम् (तु. भाष्यम्) इति संस्कृतुः टि. ? । b) वैप १ द्र. । c) वैतु. भा. सा.
(तैत्रा ३, ६, २, ३) नर- > -रः इति । d) वैप १, १०८८ d द्र. । e) पामे. वैप १, १६०६ g द्र. ।
f) पामे. वैप २, ३३खं नराः तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, १८५६ g द्र. । h) पामे.
वैप १, १८५६ f द्र. । i) पामे. वैप १, १८५७ g द्र. । j) नृन् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. RN.) । k) वैप
१, १८५९ b द्र. । l) सङ्कृत पामे. वैप १, १८५९ c द्र. । m) पामे. वैप १, १३४५ d द्र. । n) पामे. वैप १,
१८५९ h द्र. । o) विप. । वस. । p) पस. > नृस. । q) पूष. = < नृ > नृरः (ऋ ७, १, १) इति । r) पामे.
वैप १ सुचक्षाः तै ३, २, ५, १ टि. द्र. । s) उत्तरेण संधिरार्यः । सप्र. याशि २, ९४ सक्त्वा इति पामे. । t) = क्रतु-
विशेष- । उस. उप. करणे प्र. । u) [पक्षे] पागम. । v) नाप. । व्यु. ? । कर्त्तरि < √ नृ > (तु. वैप १, १८६० i)
इति मतम् । w) = चत्रिया- । x) पामे. वैप २, ३३खं. राशि माश १३, ५, ४, १८ टि. द्र. ।

नृप-क्षय^१ -ये वृदे ५, १९.
 नृप-दर्शन -नम् आज्यो ८, २.
 नृप-प्रासाद-संनिधि- -धौ अप
 ६४, ६, ९.
 नृप-प्रेत्य^२ -ये अप ७०^३, १०,
 ६.
 नृप-नाट्य -ट्टाय अप ७, १, ९.
 नृप(प-ऋ)पि-कुल - (ज >)
 जा^४ -जा वृदे ५, ५७.
 नृप-शता(त-अ)धिपता - -ताम्
 अप २४, ६, १.
 नृप-स्त्री -स्त्रियाम् अप ७०^३,
 १०, ६.
 नृपा(प-२आ)च^५ -घानाम् अप
 ६३, २, ४.
 नृपा(प-अ)ध्यक्ष -क्षाः अप
 ६८, २, २०.
 नृपा(प-अ)भिषेक -कम् आज्यो
 ८, २.
 नृपा(प-आ)लय -यम् अप
 ७०^३, २३, ८.
 नृपति^६ -तिः अप ३, २, ५; १९,
 १, १३××; वृदे ७, ५९; ८, १;
 -तिम् वीश्री १३, ५ : १४; कौट
 ५, ३, ३१; आग्नि ३, ६, १ :
 २९; वीपि १, ९ : ६; -तिपु
 अप ५१, ५, १; -ती वृदे ५, ६३;
 -तंते^७ या ६, १; शुभ्रा २, १९;
 -तेः अप २४, ३, ५××; विध ३;
 १७७; वृदे ५, ३३; -तौ अप ६४,
 १०, ६.
 नृपति-नाग -नाः अप ५१, ४,

३.
 नृपति-प्रयाण -णम् आज्यो
 ८, २.
 नृपति-भय-कर -राः अप
 ७०^३, ११, २९.
 नृपति-वध -धे विध ५०, ११.
 नृ-पाण^८ -णः आपश्री १६,
 १४, ५; वाश्री २, १, ५, २०;
 वैश्री १८, १२ : १३; -णम् या
 ५, २६^९.
 नृ-पात्य^९ -त्यम् शुभ्रा ४, १५३^{१०}
 नृ-मणस्^{१०} -णः वीश्री २, ४, १;
 लाश्री १, ८, १; -णसि^{११} जैश्री
 १४, १७; जैश्रीका १४१; -णः
 वीश्री १५, ७ : १४; वैताश्री.
 नृ-मत्^{१२} -> नार्मत -ते पावा ८,
 २, ९.
 नृ-मादन^{१३} -नम् निसू ८, १ : १९.
 नृ-मेध^{१४} -धः ऋश्री २, ८, ९८××;
 शुभ्र; अश्र २०, ६३; ६४^{१५}; १००;
 १०४.
 नार्मेध^{१६} -धः ऋश्री २, १०,
 १३२; -धम् शाश्री ९, ४, १;
 लाश्री ८, १, १४; १०, १०, ११;
 क्षुस्; -धस्य लाश्री ६, १२, ३;
 १०, १०, १३; -धाव क्षुस् १, ५,
 २७; निसू ४, १० : ९.
 नार्मेध-सदृश -शम् निसू
 ६, ४ : ३.
 नार्मेध-स्तोत्रीया -ये
 निसू २, ११ : २६.
 नार्मेधा(ध-अ)न्त -न्ते

द्राश्री १, ४, १८; लाश्री १, ४,
 १४.
 नृमेध-पुरुमेध -धयोः शुभ्र २,
 ४२७; -धौ ऋश्री २, ८, ८९;
 साश्री १, २४८××.
 नृ-मेधस्^{१७} -धसः चाश्री ४१ : २०.
 नृ-यज्ञ^{१८} -ज्ञः कप्र २, ३, ३; विध
 ५९, २५.
 नृ-लोक -के विध २०, ४०.
 नृ-वत्^{१९} आश्री ६, ७, ६; ८, ७, २२;
 शाश्री.
 नृ-वत् -वत् वीश्री १८, ६ : १३;
 -वन्तः आपमं १, १४, ३.
 नृवती -तीः आपश्री २४,
 १३, ३१.
 नृवत्-सखि^{२०} -खा वीश्री ३, २२;
 १४^{२१}.
 नृ-वर^{२२} -पाग २, २, ३१.
 नृ-वराह^{२३} -पाग २, १, ६२.
 नृ-वाहण^{२४} -णम् काश्री १२, ३,
 १४^{२५}; आपश्री.
 नृ-वाहस्^{२६} -हसा वीश्री १५, २४ :
 ५^{२७}.
 नृ-शंस^{२८} -सम् अप २, ६, २; -सस्य
 शेष ४३४; -साः काश्री २२,
 ४, ४.
 नृशंस-त्तम -सः काश्री २२,
 ४, ७.
 नृ-षट्^{२९} -पाग ३, १, १२; -पत् या
 १४, ३१^{३०}; -षट् अपश्री
 १८, २, १; वीश्री ११, ३ : १०;
 वैश्री १७, ९ : ४; हिश्री १३, १,

a) उप. < √क्षि. (निवासे) । b) उप. = मृत्यु- । c) विप्र. । कस. > पस. > उस. । d) विप. ।
 वस. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप-२; १८६० j द्र. । g) पाठः? नृमणाः असि इति द्विपदः शोधः संभाव्यते
 (तु. सपा. मा २२, १९) । h) व्यप. । i) धाः इति पाठः? यनिः शोधः । j) ०धौ इति पाठः? यनिः शोधः ।
 k) व्यप. (ऋश्री); स्तोत्र-विशेष- (शाश्री.); साम-विशेष- (अन्यत्र) । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) = महायज्ञ-
 भेदः । n) तु. - पागमः । o) नृवाहरणम् इति पाठः? यनिः शोधः (तु. ऋ २, ३७, ५) । p) वैप
 १, १८६२ j द्र. ।
 वैप-नृ-८७

१६; -नृषदे. काश्रौ १८, ३, ५;
 आपश्रौ.
 नृनार्धद^१ -दः ऋप्रा ५, ३०;
 -देन शौच ४, ८३.
 ✓नृषाय पा ३, १, १२.
 नृषह^१ -हे ऋप्रा ९, ४३; ४४.
 नृषा^१ -षाः अप्राय ६, ३१.
 नृषासहि -हिः माश्रौ १, ६, २,
 १७१.
 नृषाह^१ -षाहम् ऋप्रा ९, ४७१.
 नृषाह^१ -हे ऋप्रा ९, ३०१.
 नृषूत^१ -तः ऋप्रा ७, २३१.
 ?नृचक्षस्- प्रभृ. वृ-द्र.
 ✓नृत्^१ पाधा. दिवा. पर. गात्रविक्षेपे,
 नर्तति अप ६८, ४, २.
 नृत्यति वाधुश्रौ ३, ४९ : ५१;
 नृत्यन्ति कौसू १०५, १; अप ३:
 ५५१; या ५, १.
 नर्त^१ - पा, पाग ३, १, १३४.
 नर्त^१ - ति^१ (> नार्तिक- पा.)
 पाग ५, १, ६४९.
 नर्तिक- पावा ३, १, १४५; -कः वैध
 ३, १२, १०.
 नर्तकी- क्यः आमिष्ट ३, ८, १ :
 २१; वौषि १, १४ : १९.
 नर्तन- पाग ८, ४, ३९; -नम् काष्ट
 ३, १७; २२, १; अप ६४, ४,
 १०; ६८, ५, १३.
 नृत्ति^१ - न्तये आमिष्ट ३, ७, १ :
 २०; वौषि १, १७ : १८.
 नृत्त^१ - न्तो निस् १, ७ : १६?;
 ऋप्रा २, ४२; ऋत ३, २, ८.

नृत्- पाठ १, ९१.
 नृत्- > नृत्-गीत-वादित्र- त्राणि
 हिपि १४ : १५; आपघ २, २५,
 १४.
 नृत्तगीतवादित्र-वत्- वत्
 काश्रौ २१, ३; ११.
 नृत्त-गीत-वादित्र-गन्ध-मालयो-
 (ल्य-उ)पानच्-छत्रधारणा(ण-श्च)
 जनान(न-श्च)भ्यजन-वर्जिन्-
 -र्जी वौध १, २, २५.
 नृत्त-गीत-वादित्र-रुदित-साम-
 शब्द- व्देषु वौध १, ११, २३.
 नृत्त-गीत-वाद्या(द्य-श्चा)दि-
 -दीनि आमिष्ट २, ४, ३ : १८.
 नृत्य- > नृत्य-गीत- त्ते वाग् ६,
 २३; विध ७१, ७०.
 नृत्यगीत-शील- लेभ्यः
 विध ९३, १४.
 नृत्य-गीत-कथा-शील- -लाः
 अप ६८, १, ४१.
 नृत्य-गीत-वादित- -तानि
 आश्रौ १२, ८, १८.
 नृत्य-गीत-वादित्र- त्राणि पाग्
 २, ७, ३; आपघ २, २५, १४;
 हिघ २, ५, १९४.
 नृत्य-वादित्र-गीत- -तानि अप
 ६४, ६, २.
 नृत्यत्- नृत्यस्तु कौसू ९३, १३;
 -त्यद्भिः अप ६८, २, ४२.
 नृत्तम-, ?नृ-प- प्रभृ. वृ-द्र.
 नृमणि^१ -णिः पाग् १, १६, २३^१.
 नृ-मादन- वृ-द्र.

नृम्ण^१ - म्णः आपश्रौ १३, १६, ८;
 हिश्रौ १०, ५, १२; -म्णम्
 शाश्रौ १०, १४, ६; माश्रौ; या
 १२, ९४; -म्णस्य आपश्रौ १३,
 १६, ८; हिश्रौ-१०, ५, १२; या
 १०, १०४; -म्णा उस् ३, ५.
 नृ-यज्ञ- प्रभृ. वृ-द्र.
 ✓नृ^१ पाधा. भ्वा. कया. पर. नये.
 नेक^१ -कः साश्र १, २०१.
 नृनेक्षण^१ - णेन कौसू २, ११; ८७,
 १२.
 नेग^१ - नेभ्यः साश्र १, १.
 नैगि- -गिः ऋत ४, ३, २; -गिनाः
 ऋत २, ६, ९.
 नैगेय^१ - याः चव्यू ३ : ८.
 नृनेजमेप^१ - ष्य आपमं १, १२, ७;
 आग्; वृदे ८, ८३^१; -पः वृदे
 ३, ५९^१; -पाय वौग् २, ६, १८.
 नृनेजमेप^१ - ष्य माग् २, १८, ४.
 नेतव्य-, नेत्-, नेतोस्, नेत्र- प्रभृ.
 ✓नी द्र.
 नेत्त्व- पाठना ४, ११६.
 नृनेद्^१ आश्रौ ३, ३, १; आमिष्ट ३,
 ५, ७ : २५; या १, ११; शुप्रा
 ६, १७; भास् २, ६; पाग १,
 ४, ५७९.
 ✓नेद्^१ पाधा. भ्वा. उभ. कुत्सासंनि-
 कर्षयोः, नेदति निघ २, १४१^१.
 नेद^१ - > नेदिष्ठ- पा ५, ३, ६३; -ष्ठः
 शाश्रौ १५, २२, ११; आपमं १,
 ४, १५१; आमिष्ट १, ५, ४ :
 १०; अप्राय ४, ११; -ष्ठम्

a) वैप १ द्र. । b) पा १, ३, ८९; ७, २, ५७ पागवा ८, ४, ३९ परामृष्टः द्र. । c) मेघ-, नर्त- इति भाण्डा. पासि., मेधानर्त- इति पाका. । d) पासि. पाठः । e) वर्त- इति पाका. । f) ण्तः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ २, २२, ४) । g) = वालग्रह-विशेष- । व्यु. ? । h) पामे. वृ १४०८ i) द्र. । i) पा ७, ३, ८० परामृष्टः द्र. । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) < ✓निष् इति संस्कृतुः टि. । l) = शाखा-, तदध्यायिन्- वा । तेन प्रोक्तमधीयत इत्यर्थे उक् > एयः प्र. उसं. (पा ४, ३, १०१) । m) = ऋषि-विशेष- । n) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । o) परिभये इति या १, १० । p) गतौ वृत्तिः ।

काश्री २५, -१३, २७; वाधूश्री
४; १०८: १३; वैताश्री ३७,
१६; कौसू १२७, ५१; -छा:
कौश्र ५, २, ९; -छे-निसू ६, ३:
१०.
नेदिष्ठिन्^a- छिनम् आश्री ६,
१०, २५; -छिनौ निसू ५, ८:
५; -छी काश्री २५, १४, १;
आपश्री.
नेदीयस्- पा ५, ३, ६३; -ःयः^a
आश्री ५, १४, ५; शाश्री ७,
१९, १०; वीश्री १५, १३: १३;
वाधूश्री: ३, ४०: ९; या ५,
२८०; -यसि-आपश्री ५,
४, ५; वीश्री; -यसी निसू ८, ४:
५; -यान् वीश्री २०; ३: २९.
नेदीयसी- सी निसू ४, ७:
५; -स्या निसू ११, ११:
११.

?नेद्य वाधूश्री ४, ७५: ३.
नेनीयाम्-; नेन्य-; √नी द्र.
नेप-पाठ ३, २३.
नेपाल^b- > नेपाल-कामरूप- -पम्
अप ५६, १, १०.
शनेम^a- पाठ १, १४०; पाग १, १,
२७; -म: अप ४८, ११९; निघ
३, २९१; या ३, २०^c०; -मे
या ३, २०^c१.
शनेम-स्पृष्ट^c- छा: पाशि २३.
शनेम^a- > √नेम > शनेम^a- म:
कश्र २, ८, १००; वृदे ६, ११७;

११८.
?नेमतिथीवन्^d- -वान: शाश्री ८,
२१, ११^e.
नेम-धित- पा ७, ४, ४५.
†नेम-धिति^f- -ता आश्री ३, ७, ११;
निघ २, १७; -ति: अप ४८,
१०५.
†नेम^g- -म: अप ४८, ८८; निघ २, ७.
नेमि^h- पाठ ४, ४३; पावा ३, २,
१७१^g; -मि: आश्री १, ३, ६१;
शाश्री; अप ४८, १०४^h;
निघ २, २०^h१; -मिम् वीश्री
१७, २९: ६; वीश्रु; -म्याम्
वीश्रु १६: २०.
नेमि-नाभि- -म्यो: वीश्रु १६: १४.
√नेप् पाधा. भ्वा. उभ. गतौ.
?नेष्टाविद्धं कृतानिⁱ लाश्री ४, ९, १३.
?नेष्टाविद्धम्^j वीश्री १७, ४४: ५.
?नेष्टावृद्धिम्^k वीश्रु १, २; ३६.
नेष्टृ-, नेष्टृ- प्रमृ. √नी द्र.
नैकटिक-, *कट्य- १निकट- द्र.
नैकती^l- (नैकत- पा.) पाग ४, २,
११०^l.
नैकारि- -रि: वीश्रीप्र १०, ३.
नैकी- (> नैक-) नैकती- टि. द्र.
नैकृतिक- नि/कृ द्र.
नैकेती- (> नैकेत- पा.) नैकती-
टि. द्र.
नैगम-, *मी नि/गच्छ द्र.
नैगि-, नैगोय- नेग- द्र.
नैघण्टुक- निघण्टु- द्र.

नैघात्य- नि/हृत् द्र.
नैच- , नै(व)चा- नीच- द्र.
नैजमेप- नेजमेप- द्र.
नैतकी- (> नैतक- पा.) नैकती- टि. द्र.
नैतन्धव^m- -वा: लाश्री १०, १८, १३;
-वे शाश्री १३, २९, २८; काश्री
२४, ६, ३१; आपश्री २३, १३,
१२; हिश्री १८, ४, ४८.
नैतिरक्षिⁿ- -क्षय: वीश्रीप्र २४: १.
नैतुन्दि- -न्दय: वीश्रीप्र १७: १६.
नैतुन्धि^o- -न्धा: वीश्रीप्र २०: २.
नैतोश- नि/तुश द्र.
नैत्य-, *व्यक- नित्य- द्र.
नैदाघ-, *धी- नि/दह द्र.
नैदान- नि/दो द्र.
नैधन- नि/धत् द्र.
नैधवन- निघवन- द्र.
नैधान-, *न्य- नि/धा > नि-धान- द्र.
नैधिकी- (> नैधिक- पा.) नैकती-
टि. द्र.
नैधुव-, *वि- निधुव- द्र.
नैप- १नीप- द्र.
नैपातिक-, *व्य- नि/पत्
> नि-पात- द्र.
नैपुण-, *ण्य- √निपुण- द्र.
नैवद्धक- १निवद्ध- द्र.
नैमग्नक- १निमग्न- द्र.
नैमार्जन- नि/मृज् द्र.
नैमिच्च-, *न्तिक- निमित्त- द्र.
नैमिशायन-, *शि- निमिश- द्र.
नैमिश्रायण-, *श्रि- निमिश्र- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) = देश-विशेष- । व्यु. ? । c) (शलाम्) आभ्यन्तर-प्रयत्न- । d) वावि.
<नेमधि-तीवन्- (वैप १ द्र.) । e) पाभे. वैप १, १८६६ i द्र. । f) = अञ्ज- । व्यु. ? < √नी
इति दे. । g) = वज्र- । h) पाठ: ? निप् टे (< ते) वाविद्धं कृतानि इति शोध: । i) पाठ: ?
निप् टे (< ते) वाविद्धम् इति शोध: (तु. सपा. द्राश्री १२, १, १९) । j) पाठ: (मूको. वृद्धिम्) ? शोध:
i द्र. । k) अर्थ: व्यु. च ? । = ग्राम-विशेष- इति Pw. प्रमृ. । l) नैकेती-, नैतकी-, नैधिकी
इति पांका., नैकी- इति वामन: (तु. पागम.) । m) = L सरस्वती-तीरवर्तिन्- । स्थानं-विशेष- । व्यु. ? ।
n) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

नैमिष^०-वम् अप ४२, २, ४; शंघ
११६:१३; -घे शंघ १२४.
नैमिषा(प-अ)रण्य- ष्ये विघ ८५,
२८.
नैमिषीय^०->याणाम्(अयन-)
आपश्रौ २३, ११, १०; हिश्रौ
१८, ४, १४.

नैमिषायण-, षि- २निमिष- द्र.
नैयग्रोध- न्यग्रोध- द्र.
नैयमिक- नि/यच्छ > नि-यम- द्र.
नैयाय-, नैयाधिक- नी(नि/इ) द्र.
नैयासिक- न्य(नि/अ)स्(क्षिपणे) द्र.
नैय्यग्रोध- न्यग्रोध- द्र.
नैरथि- थयः वौश्रौप्र ५:१.
नैरुक्-, ष्किक्- निर/वच् द्र.
नैर्ऋत-, ंती-, ष्य- निर/ऋ द्र.
नैर्वाध्य- निर/वाध् द्र.
नैर्हस्त्य- निर्हस्त- द्र.
नैल- १नील- द्र.
नैलायनि- २नील- द्र.
नैव- (>वीय-) नैवाकव- टि. द्र.
नैवकायन-, ष्कि- निवक- द्र.
नैवतायन-, ष्ति- निवत- द्र.
नैवाकव- (>वीय- पा.) पाग
४, २, ९०.

नैवाकवि- निवाकु- द्र.
नैवातायन- २निवात द्र.
नैवार- नि/वृ(भोजने) द्र.
नैवासिक- नि/वस्(निवासे) द्र.
नैवेद्य- नि/विद्(ज्ञानि) द्र.
नैवेश- २निवेश द्र.
नैव्य- ?निव- द्र.
नैश-, नैशिक- निशा- द्र.

नैश्न्य- निश्न- द्र.
नैष- तिष- >तैष- टि. द्र.
नैषध- २निषध- द्र.
नैषाद्- प्रथ. निषाद्- द्र.
नैष्कलक- निष्/कृ द्र.
नैष्कशतिक-, सहस्रिक-, नैष्किक-
निष्क- द्र.
नैष्कुल्य- निष्-कुल- द्र.
नैष्कमण- निष्/कम् द्र.
नैष्ठययन^०- नानि वौश्रौ १७, ४५:
५; -नै: वौश्रौ १७, ४५: ९x४.
नैष्ठिक-, नैष्ठ्य- नि/ष्ठा द्र.
नैष्णिह्य- नि/ष्णिह् द्र.
नैष्पुरीप्य- निष्पुरीप- द्र.
नैष्पेपिक- निष्/पिष् द्र.
नैसर्गिक- नि/सृज् द्र.
?नैहारिक- नि/हृ द्र.
नो १न द्र.
नोट- (>टी-) नाट- टि. द्र.
?नोदल^०- लम् आपमं २, ११, १९;
हिष्ट २, ३, ३.
नोद्यमान- √नुद् द्र.
नोधस्^१- पाठ ४, २२६; -धसि वृदे ३,
१२८; -धा: ऋअ २, १, ५८; ८,
८८; ९, ९३; शुअ; या४, १६१ कृ.
नोधस्^१- स: ऋअ २, ८, ८०;
-सम् शाश्रौ ७, २३, १; १५, ७,
४; वौश्रौ: -सस्य आश्रौ ८, ६,
१७; शाश्रौ ७, २३, ३; लाश्रौ
१०, १, १३; छसू १, १: २; ८;
२: २१; ३: ११; ४: १४;
२२; ५: ९; २, ६: ४; ९; १७;
१८; २५; -सात् निस् ४,

१०: ११; -से शाश्रौ ७, २३,
६; निस् ३, १०: १२; -सेन
-छसू २, ६: ३१; जैश्रौ १७:
२५; निस् ६, ३: ४.
नोधस-प्रतिषेध- -घ: निस् ६:
११: १५.
नोधस-वैरूप- -पे आश्रौ ९, ११,
७.
नोधस-श्रैत- -तम् छसू २,
५: २४.
नोधस-श्रैत-योनि- -नी
वैताश्रौ ३३, ७.

?नोधात् अप ४८, ११५^५.
नोध- न- द्र.
नोपर- १न- द्र.
?नोपान- -नेन अप ६८, २, ४१^१.
नोहि १न- द्र.
नौ अस्मद्- द्र.
नौ^१- पाठ २, ६४; पाग ५, २, ११६;
४, ३^१; १५१; नाव: आश्रौ ३,
७; ८^१; १२, ८, १०; वौश्रौ
१२, ११: ८; कप्र २, ८, २;
कौसू ७१, २०; ८६, २३;
पा ५, ४, ९९; नावम् आश्रौ
४, १३, २^१; आपश्रौ १०,
९, ४^१; वौश्रौ ६, ५: ६^१; १८,
४०: १६; २२; २५, ७: ५;
भाश्रौ १०, ६, १^१; वाधूश्रौ ३,
३९: १६, १८; ९९: १; ३;
४, ३६: २; वैश्रौ १२, ८:
११^१; सु १९, ५; आश्र १,
८, २; २, ६, ८; कौश्र १, ९,
१४; शाश्र १, १५, १७; पाश्र.

a) = अरथ-विशेष-। व्यु. ?। <निमिष- वा = नैमिष- (<निमिष- L <नेमि- + √शृ) वेति शक.।

b) = नैमिष-निवासिन्-। c) अर्थ: व्यु. च ?। नैव-, वक- इति पाका.। <निवाकु- इति पागम. P.W.।

d) = हविर्-विशेष- (तु. RIV.)। व्यु. ?। e) पाठ: ? नो दलम् (तु. हिष्ट. पाठ: ?) इति वा न उदलम्

(=उदरम्) इति वा संस्कृतु: टि. (तु. आपमंभू. [पृ. XXIV])। f) वैप १२.। g) अपत्यार्थे अण् प्र.। h) तो^१

इति मूको., तोघ: इति च तत्र संस्कृतु: टि. शोध:। i) पाठ: ? नोत्पातेन इति संस्कृतु: टि.। j) तु. पागम.।

३, २, ९×४; आपृ ६, १; काय
 ४५, १०†; वीगृ २, २, ९†; गोयृ
 ३, २; २०; ४, ६, ११†;
 द्रागृ; ऋया ५, २३†; २५;
 ९, ४; नाव्या^० वीश्री १८,
 ४६: १०; नावा वीश्री २८,
 १०: ७†; वीगृ ४, ३, ६†; मायृ
 १, १३, १६; जैगृ १, १०: ५;
 विघ ६३, ४७; ऋया ७, २०;
 १४, ३३; नावि आपृश्री ५,
 २५, ८; १०, १९, १२; भाश्री
 ५, १६, २१; माश्री १, ५,
 ६, १५; वाश्री १, ४, ३, ४२;
 वैश्री १, १८: ४; कौसू
 ४८, ५; वाघ १३, १९; १४,
 ३६; आपघ १, १७, ६; हिघ
 १, ५, ३८; नौ: वीश्री १८, ४६:
 १४; २५, ७; ४; वाधूश्री ३,
 ९: १४; ४, ३६: ६; अप ४८,
 १०२†: वीघ १, ५, ५४; शुअ
 २, ४५४; निघ १, ११†: या ५,
 २३; माशि.
 नावा(व-अ)अ^०-अम अप ६८, ५, ६.
 नाविक- पा ४, ४, ७; ५, २, ११६;
 -क: विघ ५, १३२; वैघ ३,
 १५, १.
 रनाव्य, व्या^०- पा ४, ४, ९१;
 -व्ययो: कौसू १८, २२; -व्या
 वीश्री २३, ५: १०; आगृ १,
 १२, ६; -व्या: भाश्री १०, १२,
 २०; हिश्री ६, ५, २५; १०,
 ३, १३; -व्यान् आपृ ६, २;
 -व्याभ्याम् कौसू १९, ४;

-व्याया: कौसू १८, २; अशां
 १५, ६.
 नौ-(क>)का- पा ५, ४, ३†; -का
 याशि १, ४४४.
 नौ-काका(क-अ)न्न-शुक-शृगाल-
 वर्ज्य- -व्येषु पावा २, ३, १७.
 नौ-चकी- > क्री-वत्- -वन्त:
 गौघ १०, ३२.
 नौ-मणि- -णिम् कौसू ५२, ११.
 नौ-मण्ड^१- -ण्डे वीश्री १८, ४६:
 ११.
 नौ-शिला-फलक-कुञ्जर-प्रासाद-
 कटक- -केयु वीघ १, २, ३५.
 नौ-पेचन- पा, पाग ८, ३, ९८†.
 नौ-स्थायिन्- -यो अप ५०, ४, ५.
 ?न्यैवाहयति वाश्री ३, ४, ३, १८.
 न्यक्त- न्य(नि/अ)ञ्ज द्र.
 न्यग्रोध^०- पाग ४, २; ८०; ३, १६४;
 ७, ३, ५३; -घ: गोयृ ४, ७,
 २२; शुमा ५, ३७†; -घम्
 भाग २, ३१: ४; गोयृ ४, ७,
 २०; -घस्य कौगृ १, १२, ८;
 शांय १, २०, ३; आपृ १४,
 १०; मायृ २, ६, ४; पावा १,
 २, ६४; २, २, २९, -घा:
 अप्रा ३, ४, १†; -घान् गोयृ
 ४, ७, २१; -घे वीश्री १७, ४०:
 १९; आगृ १, ३, ३: ३†;
 अप ७१, १६, १; पावा ७, ३, १.
 नैया, व्य^१ग्रोध^०- पा ४, ३,
 १६४; ७, ३, ५; -घ: आपृश्री
 ९, १२, ५; वीश्री २३, ७: २०;
 कौगृ २, १, १८; शांय २, १,

१९; आपृ ११, १६; वैगृ २,
 ४: ३; वाघ ११, ५३; आपघ
 १, २, ३८; हिघ १, १, ६९;
 भाशि २८†; -घम् वीश्री १२,
 ४: ३; १४, १८: ७; १७,
 ३४: ८; ३८: ६; वाश्री
 ३, २, ७, १४×४; वैश्री:
 -घा: काश्री ७; १२०:
 वीश्री २५, १३: २१; कायृ
 ४६: ६; -घान् आपृश्री १२,
 २, ८; माश्री २, ३, १, २०;
 हिश्री ८, १, ३२; -घानाम्
 वीश्री २५, १३: १९; -घे
 आपृश्री १८, १३, २१; हिश्री
 १३, ५, २१; -घेन काश्री १९,
 २, २१; आपृश्री १८, १६, ५;
 वीश्री १२, ९: १३; १८, १०:
 ५; १३; वाश्री ३, ३, २, ४८;
 हिश्री १३, ५, ३३; अप्राय ५,
 ६; भाशि ५०†.
 नैयग्रोधी- -धीभ्याम् वीश्री
 १८, ९: ९; -ध्यौ वीश्री १८,
 ८: ६.
 १न्यग्रोध-क- पा ४, २, ८०.
 २न्यग्रोध-क^६- -कान् वैश्री १५,
 २: १४.
 न्यग्रोध-चमस- -सै: वीश्री २५,
 १३: २०.
 न्यग्रोध-त्व- -त्वात् पावा २, २,
 २९.
 न्यग्रोध-पनस- -सस्य अप ५, २, २.
 न्यग्रोध-प्रयोग- -ग: पावा १, २,
 ६४; २, २, २९.

a) तु. सप्र. शौ १७, १, २५; २६ मंत्रा २, ५, १४; वैतु. चिन्तामणि: पूर्वेण समस्तमिति । b) वृ१ अयाद
 आदेश: (पा ७, १, ३९) । c) = वाच- । d) पूष. आवह् उंसं. (पा ६, १, १२३) । e) वैप १ द्र. ।
 f) = अक्षितारका- इति पागमः । g) नाप. (तत्सदृशहस्ताकृति-) । h) पस. उप. = प्रमुखभाग- (तु. भाष्य.) ।
 i) प्वेचन- इति पाका. ? । j) आपृश्री. आपृ. हि. वाघ. आपघ. पाठः । k) विपं. । विकारे कन् उंसं.
 (पा ४, ३, १६४) ।

न्यग्रोध-शुद्ध, क्ना^१- -ङ्गम् जैगृ १,
५ : ५; -ङ्गाम गोगृ २, ६, ६;
द्रागृ २, २, २०.
न्यग्रोध-शुद्ध^२- -ङ्गम् आमिगृ २,
१, १ : १२; हिगृ २, २, ६^३.
न्यग्रोध-स्तिभि^४- -भीन् काश्रौ
१०, ९, २९.
न्यग्रोध-स्तिभि(न् >)नी^५- -नीः
आपश्रौ १२, २४, ५; वैश्रौ १५,
३१ : २; हिश्रौ ८, ७, ४३.
न्यग्रोधा(ध-अ)वरोध- -धम्
भागृ १, २२ : २^६.
न्यग्रोधा(ध-अ)वरोह- -हम् कौसू
५७, ६; -हान् पागृ १, १४, ३^६.
न्यग्रोधा(ध-अ)वरोह-शुद्ध- -ङ्गानि
वागृ १६, ५^६.
न्यग्रोधा(ध-अ)ध्वत्थ-तिल्वक-हरिद्रु-
स्फूर्जक-विभीदक-पापनामन्^७-
-मन्यः काश्रौ २१, ३, २०.
न्यग्रोधिक-, न्यग्रोधिन्- पा ४, २,
८०.
न्यग्रोधो(ध-उ)व्य^८- -व्यान्
काठश्रौ ६; कागृ ४१ : २.
न्यग्रोधो(ध-उ)दुम्बर^९- -रः अप
२६, ५, ६.
न्य(नि-अ)ङ्क^{१०}- -ङ्कौ आपश्रौ १८,
४, ६; २२, २६, १७; २८, १८;
वौश्रौ ११, ७ : २६; १८, १० :
२०; १७ : १९; वाश्रौ ३, १,
२, १; वैश्रौ १७, १२ : १०;
हिश्रौ १३, १, ४४; २३, ४, ३१;
५७; आपमं २, २१, १७; पागृ
३, १४, ६; भागृ.

न्यङ्कु^१- पाठ १, १७; पागृ ७, ३, ५३.
न्यङ्कु-सारि(न् >)णी^{११}- -णी निस्
- १, २ : २२; ऋश्र १, ७, ३; २,
१०, ९३; १३२; शुश्र १,
२०५; ५, ४३; अश्र ७, ६४;
ऋप्रा १६, ४६; उनिस् १ :
२६; पिं ३, २८; -णीम् शुश्र
२, ४७.
न्य(नि-अ)ञ्च^{१२}, ञ्च, न्यचति आपश्रौ
१०; ११, ३; वौश्रौ ६, ३१ :
१५; १८, ९ : ३७; न्यञ्चति
माश्रौ १०, ७, २; माश्रौ २, २,
१, ८^३; वैश्रौ १२, १० : २.
न्य(नि-अ)ञ्च^{१३}, ञ्च- पा ६, २, ५३;
नीचः आश्रौ ४, ५, ७; आपश्रौ
११, १, १२; माश्रौ १२, १, ११;
४, ४; माश्रौ २, २, १, १३^३;
वैश्रौ १२, २३ : ९; हिश्रौ ७;
३, ८०; द्राश्रौ १४, २, ६; लाश्रौ
५, ६, ९; अप्रा ३, ४, ११;
न्य(नि-अ)ञ्च^{१४}, ञ्च- अप १, ३२; ५; उस्
८, २८; न्यङ्- आपश्रौ १०,
१५, ९; १२, १७, ३; माश्रौ
१०, ८, १०; न्यञ्चः द्राश्रौ १४,
२, १०, लाश्रौ ५, ६, १०^१;
न्यञ्चम् आपश्रौ २, १४, ५; ३, ७,
१; माश्रौ २, १३, ११××; वाश्रौ
१, ३, ४, १२; वैश्रौ ७, ६ : ८;
हिश्रौ २, १, २९; ३०××; आगृ
३, १०, १२; न्यञ्चि आपश्रौ १,
११, ४; १५, ६; वौश्रौ; न्यञ्चौ
गोगृ ३; ७, १७××; द्रागृ १, २,
७××.

न्यनीची- -चीः शाश्रौ १८,
११, २; -चीः अप्रा ३, ४, १^३;
-च्याः माश्रौ ७, २२, १०; १३;
माश्रौ १, ८, ६, १६; वैश्रौ १०,
२१; १८; -च्यै आपश्रौ ७, २७,
१०; आपश्रौ ७, २७, ११; वौश्रौ.
न्यनीचीन^१- -नस्य अप्रा ३, ४,
११.
न्यनीचीन-द्वार^१- -रम् या १०,
४.
न्यनीचीन-द्वार^१- -रम् या
१०, ४^६.
न्य(नि-अ)ञ्च(न् >)ती- -तीः
आपश्रौ १, १६, ८; माश्रौ १,
१८, ६; हिश्रौ १, ४, ५४.
न्य(नि-अ)ञ्चन^{१५}- -नम् वौश्रु १ :
१९; २९; -नेन वौश्रु १ :
२०; ३०.
न्य(नि-अ)ञ्च^{१६}, ञ्च, न्यङ्क्ते कौसू ७, २७.
न्य(नि-अ)क- -कम् आपश्रौ ५,
१, ७××; वौश्रौ २, ६ : ३७.
न्य(नि-अ)ङ्क^{१७}- -ङ्कः आपश्रौ १,
२१, २; वौश्रौ १, ६, २९; माश्रौ
१, २२, १२; हिश्रौ १, ५, ७६.
न्यङ्क-ता-युक्त- -के विघ ५,
३३^३.
न्य(नि-अ)ज्य काश्रौ १६, ६, ८; १७,
३, २०; न्यज्यऽन्यज्य- काश्रौ
२६, ६, ११.
न्य(नि-अ)द् > न्या(नि-आ)द-
पा ३, ३, ६०.
न्य(नि-अ)धि/स्था, न्यधितिष्ठते
माश्रौ १, ८, ४, १०.

a) पस. उप. = मुकुलित-पल्लव- । b) Böht (ZDMG ५२, ८६) 'शुङ्गाम् इति शोयुक्तः (तु. सप्र. 'शुद्ध- इति गद.) । c) पस. उप. = फलस्तयक- । d) सप्र. 'रोधम् <> 'रोहान् शुङ्गान् <> 'रोहशुङ्गानि इति पामे. । e) पापनामन्- = श्लेष्मातक- प्रन्त. इति विद्याधरः । f) विप. । वस. । g) उप. भाप. < उद्/स्था । h) मलो.क्त. । i) वैप १ द्र. । j) पामे. वैप १, १८६८ j द्र. । k) = छन्दो-विशेष- । l) शोधः पृ १२२३ f द्र. । m) वैप १, ४६६ f द्र. । n) = लक्षण- । o) वैप २, ३ खं. द्र. । p) न्यङ्कतायुक्ताक्षेपे इति जीसं. ।

न्य(नि-अ)न्त^a- पा ६, २, १८१;
 -न्ते आपश्चौ १३, १२, ९; वैश्रौ
 १६, १४ : ११; हिश्रौ ९, ३,
 ५३; १०, ५, ८.
 न्य(नि-अ)यन्- नी (नि√इ) द्र.
 न्यरक^b-कम् या १, ११.
 न्य(नि√अ)र्द^c>न्य(नि-अ)र्ण-
 पा ७, २, २४.
 न्य(नि-अ)र्दु^d-दम् आपश्चौ २२,
 २१, १७; लुसू २, ९ : १९; -दे
 शांश्रौ १५, ११, ४; आपश्चौ.
 न्य(नि-अ)व√ग्रह>न्य-वग्रह-हः
 शुभ्रा १, १२०.
 न्य(नि-अ)व√मन्, नि...अत्रमेस्याः
 सु १२, ३.
 न्य(नि√अ)स्(क्षिपरो), न्यसेत् हिश्रौ
 २२, २, २६; आमिष्ट २, ४, ११ :
 ८××; वैश्रु.
 न्यस्यते शांश्रौ १, १५, १४;
 न्यस्यति आपश्चौ २, ५, १××;
 काठश्रौ; न्यस्यत् वाधुश्रौ ३,
 १९ : ७; १०; न्यस्येत् काश्रौ
 २१, ३, २६; आपश्चौ १९, १९, ३;
 माश्रौ.
 न्य(नि-अ)सन-नम् वौश्रौ २१,
 ४ : २१; २३; २४.
 न्य(नि-अ)स्त-न्यस्तम् आपश्चौ
 १०, १, ३; वौश्रौ; -स्तानाम्
 वौध १, ६, २१.
 न्यस्त-त्(र>)रा-रा ऋप्रा
 ३, २७.
 न्यस्त-शस्त्र^d-स्त्राः अप ५७,
 ३, ६.

न्यस्ता(स्त-आ)युध^d->ध-
 प्रकीर्णकेश-प्राञ्जलि-पराडावृत्त-
 -स्तानाम् आपध २, १०, ११;
 हिघ २, ४, ११.
 न्य(नि-अ)स्त्वा अप ३६, १४, १.
 न्य(नि-अ)स्य आपश्चौ २२, २, १६;
 वौश्रौ ६, २५, १२××; माश्रौ.
 न्य(नि-अ)स्यत्-स्यन्तम् कौसू
 ७८, ३.
 न्य(नि-अस्य>)स्या-स्याः वैश्रौ
 १९, ६ : १४३.
 न्या(नि-आ)स-पाग ४, २, ६०^e;
 ४, १०; -सः नाशि १, ४, १०;
 २, ७, १०; -सम् ऋप्रा ३, २३^f;
 माशि ५, १०.
 नैयासिक-पा ४, २, ६०.
 न्यास-प्रणव-वैः वाधुश्रौ ४,
 ७२ : ६; ८९ : २७; ३०.
 न्यासा(स-अ)पहारिन्^g-री
 शंघ ३७७ : ४; १३.
 न्यासिक-पा ४, ४, १०.
 न्य(स्तक>)स्तिका^h-का कौसू
 ३६, १२; अत्र ६, १३९ⁱ; अर्ष
 २ : ६४; ३ : ३७.
 न्य(नि-अहन्)>ह^h-हे कौसू ८७, २.
 न्याद-न्य(नि√अ)द् द्र.
 न्या(नि-आ)य-य-नी (नि
 √इ) द्र.
 न्यासर्ष वाधुश्रौ ३, ४० : ९; १०.
 न्यासीदतामⁱ या ८, ११.
 न्यु(नि√उ)ञ्, नि...उवोच वाश्रौ
 ३, ३, २, ११^j.
 न्युप वाश्रौ ३, २, ४, १०.

न्युप्त-, न्युप्य नि√वप् द्र. :
 न्यु(नि√उ)ञ्ज^k; न्युञ्जति आपश्चौ
 १२, २९, ९; १३, १५, २; वौश्रौ
 ७, २०; १६; ८, ८ : २८;
 २५, १८ : १६; २४ : १३; माश्रौ
 २, ३, ६, १०; ४, २, ३६; वैश्रौ
 १५, २७ : ११××; हिश्रौ ८,
 ६, ३९^l××; कौसू; न्युञ्ज
 आपश्चौ १४, १, १०; वैश्रौ;
 न्युञ्जतात् वौश्रौ ७, ७ : ३१××.
 न्यु(नि-उ)ञ्ज,ञ्जा^k-ञ्जम्
 ऋप्रा ३, १, १९; २, ११; -ञ्जाम्
 काश्रौ १६, ४, ११; -ञ्जेन
 काश्रौ ९, ६, ४.
 न्युञ्ज-पात्र-त्रम् आमिष्ट ३,
 १, ३ : १९; ११, २ : १५; हिश्रु
 २, १२, १०; -त्राणि आपध
 २१, ९.
 न्यु(नि-उ)ञ्ज^m-पा ७, ३, ६१-
 न्यु(नि√उ)ङ्खⁿ, न्यूङ्खति हिश्रौ
 १६, ३, २१.
 न्यूङ्खयति शांश्रौ १२, १३, १;
 वौश्रौ २३, १० : ५; न्यूङ्खयन्ति
 वौश्रौ १६, ३ : २७^o; न्यूङ्खयेत्
 आश्रौ ७, ११, १८; शांश्रौ १२,
 १३, ५; ६.
 न्यु(नि-उ)ङ्खⁿ-पाउभो २, २, ४९;
 -ङ्खः आश्रौ ७, ११, १; ९××;
 शांश्रौ १०, ५, १९; १२, २४, ३;
 -ङ्खम् शांश्रौ १०, ५, ९; शांश्रौ ११,
 १५, १२^o; हिश्रौ १६, ३, २१;
 ३२; -ङ्खेन शांश्रौ १२, २४, ५.
 न्यूङ्ख-निनर्द-दर्दम् वैताश्रौ

a) वैप २, ३खं. द्र. । b) वैप १, १७७५ j द्र. । c) वैप १ द्र. । d) विप. । वस. । e) =ग्रन्थ-
 विशेष- । f) =अनुदात्त- । g) विप. । उस. पूप. = निक्षेप । h) =अपराह- (तु. संस्कर्तुः टि.) । i) वैप १,
 ६०७ h द्र. । j) पावा ७, ३, ६१ परामृष्टः द्र. । k) ञ्जति इति पाठः ? यनि. शोधः । l) =अधोमुख-
 (तु. सा एव ७, ३०) । गस. उप. कर्मणि घञ् प्र. । m) =उपताप- । n) =पोडशकार-समूह- । गस. (वैतु-
 पाउभो. अन्यथाव्युत्पादुकः) । o) प्रकरणतश् च्युताऽऽयसकारः सन्यूङ्खम् इति पाठः प्रतिभावात् (तु. भाष्यकारः) ।

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>३२, १४. न्यूड्रख-प्रतिगर- -रेषु वैताश्रौ ३२, १५. न्यूड्रख(ह्र-आ)दि- -दिः आश्रौ ७, ११, ३१. न्यू(नि-ऊ)ङ्गन- -ने चौश्रौ २३, १० : ५. न्यूङ्गनीय- -यः शांश्रौ १३, १, ७; -यम् शांश्रौ १३, १, ७; -यस्य शांश्रौ १२, १३, ५. न्यू(नि-ऊ)ङ्गय- -ङ्गयम् आपश्रौ २२, ७, २; १३; चौश्रौ १६, ३ : २६; वाश्रौ ३, २, १, ५३. न्यू(नि-ऊ)ङ्गयमान- -ने आश्रौ ७, ११, ५. न्यू(नि-ऊ)न, ना^१- -नम् आश्रौ १,</p> | <p>११, १५; शांश्रौ; -ना ऋअ ३, ४२; काण्ट ४४ : ९; -नाः कप्र ३, ५, ९; -नान् निसू १०, ४ : २; -नानि उनिसू २ : ९; -नाम् आश्रौ १२, ७, ९; -ने वाश्रौ १; ३, ७, २०^१; हिश्रौ; -नेषु चौश्रौ २९, ३ : २. न्यून-त्व- -त्वे उनिसू २ : १३. न्यून-ना(ह >)हा^१- -हाः वैश्रौ ११, ११ : ३. न्यूना(न-अ)क्षर^१- -रम् शुअ ४, २१४. न्यूना(न-अ)तिरिक्त- -केषु शुअ ४, २१४. न्यूना(न-अ)धिक- -कात् शांश्रु ६, ६, १६; -कैः अप ७१, ६,</p> | <p>४. न्यूनाधिक-त्व- -त्वे अअ १२, ४. न्यूनी√भू > ^१भाव- -वः निसू १, ७ : २७. न्यूनो(न-उ)दयन- -नेन काश्रौसं ३१ : ११. न्ये(नि-आ√इ), न्येयात् वाधूश्रौ ३, ७५ : ४. न्येद्^१ आपमं २, १७, १३. न्यो(नि-ओ)कस्^१- -काः कौण्ड ३, १२, ३३^१. न्योजस्- पाउच ४, २२३. न्वाच^१ वाधूश्रौ ३, ७९ : २५. न्वै^१ चौश्रौ १०, २१ : १२×४; वाधूश्रौ. न्वो३^१ शांश्रौ १२, १३, ५.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) = नेद् । यकारोपजन इति हरदत्तः (तु. भू. [XXVII]) ।
d) नु वाच > नैप्र. यनिं. (तु. वैप १ न्वै) । e) नु (ऋ १०, ८६, ४) इत्यस्य न्यूङ्गः ।